

धर्मशास्त्र

REFERENCE
Not to be lent out

अर्थात्

पुराना और नया धर्म नियम



भारत-लंका
बाइबल-समिति,
ए/१, महात्मा गांधी मार्ग,
बंगलौर-१.

पुराने नियम की पुस्तकों का

सूचीपत्र

पुस्तको के नाम	अध्याय	पृष्ठ	पुस्तको के नाम	अध्याय	पृष्ठ
उत्पत्ति नामक पुस्तक	५०	१	भजन संहिता	१५०	७८३
निर्गमन नामक पुस्तक	४०	८१	नीतिवचन	३१	६२२
लैव्यव्यवस्था नामक पुस्तक	२७	१४३	मभोपदेशक	१२	६६६
गिनती नामक पुस्तक	३६	१८७	श्रेष्ठगीत	८	६८१
व्यवस्थाविवरण नामक पुस्तक	३४	२४६	यशायाह नामक पुस्तक	६६	६६०
यहोशू नामक पुस्तक	२४	३०६	यिर्मयाह नामक पुस्तक	५२	१०७०
न्यायियो का वृत्तान्त	२१	३४२	विलापगीत	५	११५८
रूत नामक पुस्तक	४	३८०	यहेजकेल नामक पुस्तक	४८	११६८
शमूएल की पहिली पुस्तक	३१	३८६	दानिय्येल नामक पुस्तक	१२	१२४६
शमूएल की दूसरी पुस्तक	२४	४३८	होशे	१४	१२७०
राजाओ का वृत्तान्त, पहिला भाग	२२	४८२	योएल	३	१२८२
राजाओ का वृत्तान्त, दूसरा भाग	२५	५३०	आमोस	६	१२८७
इतिहास, पहिला भाग	२६	५७७	ओबद्याह	१	१२६६
इतिहास, दूसरा भाग	३६	६२१	योना	४	१२६८
एजा नामक पुस्तक	१०	६७५	मीका	७	१३०१
नहेम्याह नामक पुस्तक	१३	६६०	नहम	३	१३०८
एस्तेर नामक पुस्तक	१०	७१२	हबक्कूक	३	१३११
अध्यूब नामक पुस्तक	४२	७२४	सपन्याह	३	१३१५
			हाग्गी	२	१३१८
			जकर्याह	१४	१३२१
			मलाकी	४	१३३४

उत्पत्ति

(षट्ठि का वर्णन)

१ आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की । २ और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पडी थी, और गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था : तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मगडलाता था । ३ तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो : तो उजियाला हो गया । ४ और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अन्धियारे से अलग किया । ५ और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अन्धियारे को रात कहा । तथा सांभ हुई फिर भोर हुआ । इस प्रकार पहिला दिन हो गया ॥

६ फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अन्तर हो कि जल दो भाग हो जाए । ७ तब परमेश्वर ने एक अन्तर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया ; और वैसा ही हो गया । ८ और परमेश्वर ने उस अन्तर को आकाश कहा । तथा सांभ हुई फिर भोर हुआ । इस प्रकार दूसरा दिन हो गया ॥

९ फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे ; और वैसा ही हो गया । १० और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उस ने समुद्र कहा : और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । ११ फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से

हरी घास, तथा बीजवाले छोटे छोटे पेड़, और फलदाई वृक्ष भी जिनके बीज उन्ही में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं पृथ्वी पर उगे ; और वैसा ही हो गया । १२ तो पृथ्वी में हरी घास, और छोटे छोटे पेड़ जिन में अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदाई वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्ही में होते हैं उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । १३ तथा सांभ हुई फिर भोर हुआ । इस प्रकार तीसरा दिन हो गया ॥

१४ फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिये आकाश के अन्तर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हो, और नियत समयों, और दिनों, और वर्षों के कारण हो । १५ और वे ज्योतिया आकाश के अन्तर में पृथ्वी पर प्रकाश देनेवाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया । १६ तब परमेश्वर ने दो बडी ज्योतियां बनाई, उन में से बडी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिये, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिये बनाया और तारागण को भी बनाया । १७ परमेश्वर ने उनको आकाश के अन्तर में इसलिय रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, १८ तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अन्धियारे से अलग करें : और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है । १९ तथा सांभ हुई फिर भोर हुआ । इस प्रकार चौथा दिन हो गया ॥

२० फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अन्तर में उड़े। २१ हमलिये परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल-जन्तुओं की, और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं जिन में जल बहुत ही भर गया और एक एक जाति के उड़नेवाले पक्षियों की भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। २२ और परमेश्वर ने यह कहके उनको आशीष दी, कि फूला-फलों, और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़। २३ तथा साभ हुई फिर भोग हुआ। इस प्रकार पाचवा दिन हा गया ॥

२४ फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात् घरेलू पशु, और रंगनेवाले जन्तु, और पृथ्वी के वनपशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही होगया। २५ सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन-पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रंगने-वाले जन्तुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। २६ फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, और सारी पृथ्वी पर, और सब रंगनेवाले जन्तुओं पर जो पृथ्वी पर रंगते हैं, अधिकार रखें। २७ तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उस ने मनुष्यों की सृष्टि की। २८ और परमेश्वर

ने उनको आशीष दी और उन से कहा, फूलो-फलो, और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों, तथा आकाश के पक्षियों, और पृथ्वी पर रंगनेवाले सब जन्तुओं पर अधिकार रखो। २९ फिर परमेश्वर ने उन से कहा, मुनो, जितने बीजवाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीजवाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम को दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिये हैं ३० और जितने पृथ्वी के पशु, और आकाश के पक्षी, और पृथ्वी पर रंगनेवाले जन्तु हैं, जिन में जीवन के प्रारण हैं, उन सब के खाने के लिये मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। ३१ तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सब को देखा तो क्या देखा, कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा साभ हुई फिर भोग हुआ। इस प्रकार छठवा दिन हो गया ॥

२ यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। २ और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। ३ और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया ॥

(मनुष्य की उत्पत्ति)

४ आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तान्त * यह है कि जब वे उत्पन्न हुए

* मूल में—की वंशावली।

अर्थात् जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया : ५ तब मैदान का कोई पीघा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिये मनुष्य भी नहीं था; ६ तौभी कुहरा पृथ्वी से उठता था जिस से सारी भूमि सिंच जाती थी। ७ और यहोवा परमेश्वर ने आदम * को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनो में जीवन का श्वास फूँक दिया; और आदम * जीवता प्राणी बन गया। ८ और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक बाटिका लगाई, और वहा आदम * को जिसे उस ने रचा था, रख दिया। ९ और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भाति के वृक्ष, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और बाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी उगाया। १० और उस बाटिका को सीचने के लिये एक महानदी अदन से निकली और वहा से आगे बहकर चार धारा † में हो गई। ११ पहिली धारा का नाम पीशोन है, यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहा सोना मिलता है घेरे हुए है। १२ उस देश का सोना चांखा होता है, वहां मोती और सुलैमानी पत्थर भी मिलते हैं। १३ और दूसरी नदी का नाम गीहोन है, यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। १४ और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है, यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती

है। और चौथी नदी का नाम फरात है। १५ जब यहोवा परमेश्वर ने आदम * को लेकर अदन की बाटिका में रख दिया, कि वह उस में काम करे और उसकी रक्षा करे, १६ तब यहोवा परमेश्वर ने आदम * को यह आज्ञा दी, कि तू बाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है : १७ पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना : क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा ॥

१८ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम * का अकेला रहना अच्छा नहीं; में उसके लिये एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उस से मेल खाए। १९ और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनने पशुओं, और आकाश के सब भाति के पक्षियों को रचकर आदम * के पास ले आया कि देखे, कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है; और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम * ने रखा वही उसका नाम हो गया। २० सो आदम * ने सब जाति के घरेलू पशुओं, और आकाश के पक्षियों, और सब जाति के बनने पशुओं के नाम रखे; परन्तु आदम के लिये कोई ऐसा सहायक न मिला जो उस से मेल खा सके। २१ तब यहोवा परमेश्वर ने आदम * को भारी नीन्द में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उस ने उसकी एक पसुली निकालकर उसकी सन्ती मांस भर दिया। २२ और यहोवा परमेश्वर ने उस पसुली को जो उस ने आदम * में से निकाली थी, स्त्री बना दिया; और उसको आदम के पास

* वा मनुष्य।

† मूल में—बँटके चार सिर।

* वा मनुष्य।

ले आया। २३ और आदम* ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। २४ इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी में मिला रहगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। २५ और आदम* और उसकी पत्नी दोनों नङ्ग थे, पर लजाने न थे।

(मनुष्य के पापों जो जाने का बर्षण)

३ यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उस ने स्त्री से कहा, क्या सच है, कि परमेश्वर ने कहा, कि तुम इमे बाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना ? २-स्त्री ने सर्प में कहा, इस बाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। ३ पर जो वृक्ष बाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ४ तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, ५ वरन परमेश्वर आप जानता है, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ६ सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, और देखने में मनभाऊ, और बुद्धि देने के लिये चाहने योग्य भी है, तब उस ने उस में से तोड़कर खाया, और अपने पति को भी दिया, और उस ने भी खाया। ७ तब उन दोनों की आंखें खुल गईं, और उनको मालूम हुआ कि वे नङ्गे

हैं, सो उन्होंने ने अज्ञोर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लगाट बना लिये। ८ तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय* बाटिका में फिरना था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी बाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ९ तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहा है? १० उस ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नङ्गा था, इसलिये छिप गया। ११ उस ने कहा, किस ने तुम्हें चिताया कि तू नङ्गा है? जिम वृक्ष का फल खाने को मैं ने तुम्हें बर्जा था, क्या तू ने उसका फल खाया है? १२ आदम ने कहा जिस स्त्री को तू ने मेरे सग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, और मैं ने खाया। १३ तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तू ने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैं ने खाया। १४ तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है इसलिये तू सब घरेलू पशुओं, और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। १५ और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वश और इसके वश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। १६ फिर स्त्री से उस ने कहा, मैं तेरी पीडा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा; तू पीडित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे

* वा मनुष्य।

* मूल में—दिन की वायु में।

पत्ति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। १७ और आदम से उस ने कहा, तू ने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैं ने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना उसको तू ने खाया है, इसलिये भूमि तेरे कारण शापित है; तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा १८ और वह तेरे लिये काटे और ऊटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, १९ और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। २० और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हन्वा * रखा, क्योंकि जितने समुष्ण जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही हुई। २१ और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिये चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए।

२२ फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिये अब ऐसा न हो, कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। २३ तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की बाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिस में से वह बनाया † गया था। २४ इसलिये आदम को उस ने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिये अदन की बाटिका के पूर्व की ओर करुबो को, और चारो ओर

धूमनेवाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया ॥

(आदम के पुत्रों का वर्णन)

४ जब आदम अपनी पत्नी हन्वा के पास गया तब उस ने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैं ने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। २ फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़-बकरियों का चरवाहा बन गया, परन्तु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। ३ कुछ दिनों के पश्चात् कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। ४ और हाबिल भी अपनी भेड़-बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, ५ परन्तु कैन और उसकी भेंट को उस ने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ, और उसके मुह पर उदासी छा गई। ६ तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ ? और तेरे मुह पर उदासी क्यों छा गई है ? ७ यदि तू भला करे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी ? और यदि तू भला न करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। ८ तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा : और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। ९ तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है ? उस ने कहा मालूम नहीं : क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ ? १० उस ने

* अर्थात् जीवन।

† मूल में—लिया।

कहा, तू ने क्या किया है? तेरे भाई का लोह भूमि में मे मेरी ओर चिन्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। ११ इसलिये अब भूमि जिम ने तेरे भाई का लोह तेरे हाथ से पीने के लिये अपना मुह खाला है, उसकी ओर मे तू शापित है। १२ चाहे तू भूमि पर खेती करे, तौभी उमकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, * और तू पृथ्वी पर बहेत् और भगोडा होगा। १३ तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दगड सहने में † बाहर है। १४ देख, तू ने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड मे रहूंगा और पृथ्वी पर बहेत् और भगोडा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा, मुझे घात करेगा। १५ इस कारण यहोवा ने उस से कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उस से सात गुणा पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिये एक चिन्ह ठहराया ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले ॥

१६ तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया, और नोद् नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। १७ जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बमाया और उम नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। १८ और हनोक मे ईराद उत्पन्न हुआ, और ईराद ने महूयाएल को जन्म दिया, और महूयाएल ने मतूशाएल को, और मतूशाएल ने लेमेक को जन्म दिया। १९ और लेमेक ने दो स्त्रिया ब्याह सी जिन में से एक का नाम आदा और

दूसरी का सिल्ला है। २० और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तम्बुओ में रहना और जानवरों का पालन इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ *। २१ और उमके भाई का नाम यूबाल है वह वीणा और बासुरी आदि बाजों के बजाने की मारी रीति का उत्पादक हुआ †। २२ और सिल्ला ने भी तूबल्कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया वह पीतल और लोहे के सब धारवाले हथियारों का गढने-वाला हुआ और तूबल्कैन की बहिन नामा थी। २३ और लेमेक ने अपनी पत्तियों से कहा

हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो,
हे लेमेक की गलियों, मेरी बात पर
कान लगाओ

मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट
लगाता था,

अर्थात् एक जवान को जो मुझे
घायल करता था, घात किया है।

२४ जब कैन का पलटा सातगुणा लिया
जाएगा।

तो लेमेक का सतहत्तरगुणा लिया
जाएगा।

२५ और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, और उस ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, कि परमेश्वर ने मेरे लिये हांबिल की सन्ती, जिसको कैन ने घात किया, एक और वश ठहरा दिया है। २६ और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस ने उसका नाम एनोश रखा, उसी

* मूल में—तम्बू में रहनेहारों और ढोरो का पिता हुआ।

† मूल में—बीणा और बासुरी के सब बजानेवालों का पिता हुआ।

* मूल में—वह तुझे फिर अपना बल न देगी।

† वा मेरा अधर्म क्षमा होने से।

समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे ॥

(आदम की बंशावली)

५ आदम की वशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपनी ही स्वरूप में उसको बनाया, २ उस ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम * रखा। ३ जब आदम एक सौ तीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम शेत रखा। ४ और शेत के जन्म के पश्चात् आदम आठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। ५ और आदम की कुल अवस्था नौ सौ तीस वर्ष की हुई: तत्पश्चात् वह मर गया ॥

६ जब शेत एक सौ पाच वर्ष का हुआ, तब उस ने एनोश को जन्म दिया। ७ और एनोश के जन्म के पश्चात् शेत आठ सौ सात वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। ८ और शेत की कुल अवस्था नौ सौ बारह वर्ष की हुई: तत्पश्चात् वह मर गया ॥

९ जब एनोश नब्बे वर्ष का हुआ, तब उस ने केनान को जन्म दिया। १० और केनान के जन्म के पश्चात् एनोश आठ सौ पन्द्रह वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। ११ और एनोश की कुल अवस्था नौ सौ पांच वर्ष की हुई: तत्पश्चात् वह मर गया ॥

१२ जब केनान सत्तर वर्ष का हुआ, तब उस ने महललेल को जन्म दिया।

१३ और महललेल के जन्म के पश्चात् केनान आठ सौ चालीस वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। १४ और केनान की कुल अवस्था नौ सौ दस वर्ष की हुई: तत्पश्चात् वह मर गया ॥

१५ जब महललेल पैंसठ वर्ष का हुआ, तब उस ने येरेद को जन्म दिया। १६ और येरेद के जन्म के पश्चात् महललेल आठ सौ तीस वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। १७ और महललेल की कुल अवस्था आठ सौ पचानबे वर्ष की हुई: तत्पश्चात् वह मर गया ॥

१८ जब येरेद एक सौ बासठ वर्ष का हुआ, तब उस ने हनोक को जन्म दिया। १९ और हनोक के जन्म के पश्चात् येरेद आठ सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। २० और येरेद की कुल अवस्था नौ सौ बासठ वर्ष की हुई: तत्पश्चात् वह मर गया ॥

२१ जब हनोक पैंसठ वर्ष का हुआ, तब उस ने मतूशेलह को जन्म दिया। २२ और मतूशेलह के जन्म के पश्चात् हनोक तीन सौ वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। २३ और हनोक की कुल अवस्था तीन सौ पैंसठ वर्ष की हुई। २४ और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था; फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया।

२५ जब मतूशेलह एक सौ सत्तासी वर्ष का हुआ, तब उस ने लेमेक को जन्म दिया। २६ और लेमेक के जन्म के पश्चात् मतूशेलह सात सौ बायसी वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। २७ और मतूशेलह की कुल अवस्था

* वा मनुष्य।

नी सौ उनहत्तर वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया ॥

२८ जब लेमेक एक सौ बयासी वर्ष का हुआ, तब उम ने एक पुत्र जन्म दिया ।

२९ और यह कहकर उसका नाम नूह रखा, कि यहाँवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उमके विषय यह लडका हमारे काम में, और उम कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, * हम को शान्ति देगा ।

३० और नूह के जन्म के पश्चात् लेमेक पाच सौ पचानबे वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ।

३१ और लेमेक की कुल अवस्था सात सौ सतहत्तर वर्ष की हुई : तत्पश्चात् वह मर गया ॥

३२ और नूह पाच सौ वर्ष का हुआ, और नूह ने शेम, और हाम, और येपेत को जन्म दिया ॥

(अब प्रलय का वर्षण)

फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, और उनके बेटिया उत्पन्न हुईं, २ तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, कि वे सुन्दर हैं, सो उन्हों ने जिस जिसको चाहा उन से ब्याह कर लिया । ३ और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है† उसकी आयु एक सौ बीस वर्ष की होगी । ४ उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात् जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो सन्तान

* मूल में—हमारे हाथ के कठिन परिश्रम में ।

† वा अटक जाने से शरीर ही ठहरा ।

उत्पन्न हुए, वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीनकाल से प्रचलित है । ५ और यहोवा ने देखा, कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरन्तर बुरा ही होता है । ६ और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ । ७ तब यहोवा ने सोचा, कि मैं मनुष्य को जिसकी मैं ने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेगनेवाले जन्तु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने में पछताता हूँ । ८ परन्तु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही ॥

९ नूह की वंशावली यह है । नूह धर्म पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा । १० और नूह से, शेम, और हाम, और येपेत नाम, तीन पुत्र उत्पन्न हुए । ११ उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगाड़ गई थी, और उपद्रव से भर गई थी । १२ और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी ॥

१३ तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अन्त करने का प्रश्न मेरे साम्हने आ गया है *; क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिये मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा । १४ इसलिये तू गोपेर वृक्ष की

* मूल में—अन्त मेरे साम्हने आ गया है ।

लकड़ी का एक जहाज बना ले, उस में कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। १५ और इस ढंग से उसको बनाना जहाज की लम्बाई तीन सौ हाथ, चौड़ाई पचास हाथ, और ऊंचाई तीस हाथ की हो। १६ जहाज में एक खिडकी* बनाना, और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक अलग में एक द्वार रखना, और जहाज में पहिला, दूसरा, तीसरा खण्ड बनाना। १७ और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जलप्रलय करके सब प्राणियों को, जिन में जीवन की आत्मा है, आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। १८ परन्तु तेरे संग मैं वाचा बान्धता हूँ इसलिये तू अपने पुत्रों, स्त्री, और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। १९ और सब जीवित प्राणियों में से, तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात् एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर, अपने साथ जीवित रखना। २० एक एक जाति के पक्षी, और एक एक जाति के पशु, और एक एक जाति के भूमि पर रेंगनेवाले, सब में से दो दो तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। २१ और भाति भाति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना; सो तेरे और उनके भोजन के लिये होगा। २२ परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया ॥

७ और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा; क्योंकि मैं ने इस समय के लोगो

* मूल में—उजियाला।

में से केवल तुम्ही को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। २ सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू सात सात, अर्थात् नर और मादा लेना; पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं, उन में से दो दो लेना, अर्थात् नर और मादा; ३ और आकाश के पक्षियों में से भी, सात सात, अर्थात् नर और मादा लेना; कि उनका वश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। ४ क्योंकि अब सात दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर चालीस दिन और चालीस रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितनी वस्तुएँ मैं ने बनाई हैं सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। ५ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया।

६ नूह की अवस्था छ. सौ वर्ष की थी, जब जलप्रलय पृथ्वी पर आया। ७ नूह अपने पुत्रों, पत्नी, और बहुओं समेत, जलप्रलय से बचने के लिये जहाज में गया। ८ और शुद्ध, और अशुद्ध, दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों, ९ और भूमि पर रेंगनेवालों में से भी, दो दो, अर्थात् नर और मादा, जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। १० सात दिन के उपरान्त प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। ११ जब नूह की अवस्था के छः सौवें वर्ष के दूसरे महीने का सत्तरहवां दिन आया; उसी दिन बड़े गहिरें समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। १२ और वर्षा चालीस दिन और चालीस रात निरन्तर पृथ्वी पर होती रही। १३ ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम, और येपेत, और अपनी पत्नी, और तीनों बहुओं समेत, १४ और उनके संग एक एक जाति के

सब बनैले पशु, और एक एक जाति के सब घरेलू पशु, और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेगनेवाले, और एक एक जाति के सब उडनेवाले पक्षी, जहाज में गए। १५ जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पाम जहाज में गए। १६ और जो गए, वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बन्द कर दिया। १७ और पृथ्वी पर चालीस दिन तक प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिस से जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर मे ऊंचा उठ गया। १८ और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। १९ और जन पृथ्वी पर अत्यन्त बढ़ गया, यहा तक कि सारी धरती पर* जितने बड़े बड़े पहाड थे, सब डूब गए। २० जल तो पन्द्रह हाथ ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए। २१ और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु, और पृथ्वी पर सब चलनेवाले प्राणी, और जितने जन्तु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब, और सब मनुष्य मर गए। २२ जो जो स्थल पर थे, उन में से जितनों के नथनों में जीवन का ह्वास था, सब मर मिटे। २३ और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेगनेवाले जन्तु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए; केवल नूह, और जितने उसके सग जहाज में थे, वे ही बच गए। २४ और जल

पृथ्वी पर एक सौ पचास दिन तक प्रबल रहा ॥

८ और परमेश्वर ने नूह की, और जितने बनैले पशु, और घरेलू पशु उसके सग जहाज में थे, उन सभी की मुधि ली. और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, और जल घटने लगा। २ और गहिरें समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए; और उस से जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। ३ और एक सौ पचास दिन के पश्चात् जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। ४ सातवें महीने के सत्तरहवें दिन को, जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। ५ और जल दसवें महीने तक घटता चला गया, और दसवें महीने के पहिले दिन को, पहाड़ों की चोटियाँ दिखलाई दी। ६ फिर ऐसा हुआ कि चालीस दिन के पश्चात् नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिडकी को खोलकर, एक कौआ उडा दिया। ७ वह जब तक जल पृथ्वी पर से मूख न गया, तब तक इधर उधर फिरता रह्य। ८ फिर उस ने अपने पास से एक कबूतरी को भी उडा दिया, कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। ९ उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिये कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था तब उस ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। १० तब और सात दिन तक ठहरकर, उस ने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उडा दिया। ११ और कबूतरी सांभ के समय उसके पास आ गई, तो

* मूल में—सारे आकाश के तले।

क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है; इम में नूह ने जान लिया, कि जल पृथ्वी पर घट गया है। १२ फिर उस ने सात दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उडा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर न आई। १३ फिर ऐसा हुआ कि छ मी एक वर्ष के पहिले महीने के पहिले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। १४ और दूसरे महीने के सताईमवे दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई ॥

१५ तब परमेश्वर ने, नूह से कहा, १६ तू अपने पुत्रो, पत्नी, और बहुओ समेत जहाज में से निकल आ। १७ क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भाति के रंगने-वाले जन्तु जो पृथ्वी पर रंगते है, जितने शरीरधारी जीवजन्तु तेरे सग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उन से बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूले-फले, और पृथ्वी पर फैल जाए। १८ तब नूह, और उसके पुत्र, और पत्नी, और बहुए, निकल आईं। १९ और सब चौपाए, रंगनेवाले जन्तु, और पक्षी, और जितने जीवजन्तु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। २० तब नूह ने यहोबा के लिये एक वेदी बनाई; और सब शुद्ध पशुओ, और सब शुद्ध पक्षियों में से, कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। २१ इस पर यहोबा ने सुख-दायक सुगन्ध पाकर सोचा, कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूगा, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता

है, तोभी जैसा मैं ने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। २२ अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बौने और काटने के समय, ठण्ड और पतन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात, निरन्तर होते चले जाएंगे ॥

६ फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रो को आशीष दी और उन से कहा कि फूलो-फलो, और बढ़ो, और पृथ्वी में भर जाओ। २ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओ, और आकाश के सब पक्षियों, और भूमि पर के सब रंगने-वाले जन्तुओ, और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा : वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। ३ सब चलनेवाले जन्तु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुम को हरे हरे छोटे पेड दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हू। ४ पर मास को प्राण समेत अर्थात् लोहू समेत तुम न खाना। ५ और निश्चय में तुम्हारा लोहू अर्थात् प्राण का पलटा लूंगा : सब पशुओ, और मनुष्यो, दोनो से मैं उसे लूंगा : मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बन्धु से लूंगा। ६ जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। ७ और तुम तो फूलो-फलो, और बढ़ो, और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उस में भर जाओ ॥

८ फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रो से कहा, ९ सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात् जो तुम्हारा वंश होगा, उसके साथ भी वाचा बान्धता हूँ।

१० और सब जीवित प्राणियों में भी जो तुम्हारे सग हैं क्या पक्षी क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनने पशु, पृथ्वी के जितने जीवजन्तु जहाज से निकले हैं, सब के साथ भी मेरी यह वाचा बन्धी है। ११ और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूँगा, कि सब प्राणी फिर जलप्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिये फिर जल-प्रलय न होगा। १२ फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ, और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे सग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिये बान्धता हूँ, उसका यह चिन्ह है: १३ कि मैं ने बादल में अपना धनुष रखा है वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। १४ और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊँ तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। १५ तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बन्धी है, उसको मैं स्मरण करूँगा, तब ऐसा जलप्रलय फिर न होगा जिस में सब प्राणियों का विनाश हो। १६ बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बन्धी है। १७ फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो वाचा मैं ने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बान्धी है, उसका चिन्ह यही है ॥

१८ नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, वे शेम, हाम, और येपेत थे: और हाम तो कनान का पिता हुआ। १९ नूह के तीन पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया।

२० और नूह किसानी करने लगा, और उम न दाख की बारी लगाई। २१ और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तम्बू के भीतर नङ्गा हो गया। २२ तब कनान के पिता हाम ने, अपने पिता को नङ्गा देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। २३ तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कन्धों पर रखा, और पीछे की ओर उलटा चलकर अपने पिता के नङ्गे तन को ढाँप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे इसलिये उन्होने अपने पिता को नङ्गा न देखा। २४ जब नूह का वंश उतर गया, तब उस ने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उम से क्या किया है।

२५ इसलिये उस ने कहा,
कनान शापित हो
वह अपने भाई बन्धुओं के दामो का दाम हो।

२६ फिर उम ने कहा,
शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है,
और कनान शेम * का दास होवे।
२७ परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए,
और वह शेम के तम्बूओं में बसे,
और कनान उमका दास होवे।

२८ जलप्रलय के पश्चात् नूह साठे तीन सौ वर्ष जीवित रहा। २९ और नूह की कुल अवस्था साठे नौ सौ वर्ष की हुई: नत्पश्चात् वह मर गया ॥

(नूह को बहाबली)

१० नूह के पुत्र जो शेम, हाम और येपेत थे उनके पुत्र जलप्रलय के पश्चात् उत्पन्न हुए, उनकी वंशावली यह है ॥

* मूल में—उस।

२ येपेत के पुत्र : गोमेर, मागोग, माद, यावान, तूबल, मेशोक, और तीरास हुए।
३ और गोमेर के पुत्र : अशकनज, रीपत, और तोगर्मा हुए। ४ और यावान के वंश में एलीशा, और तर्शाश, और किन्ती, और दोदानी लोग हुए। ५ इनके वंश अन्यजातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बंट गए, कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों, और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए।

६ फिर हाम के पुत्र : कूश, और मिस्र, और फूत और कनान हुए। ७ और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा, और सबूतका हुए : और रामा के पुत्र शबा, और ददान हुए। ८ और कूश के वंश में निन्नोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहिला वीर वही हुआ है। ९ वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलनेवाला ठहरा, इस से यह कहावत चली है; कि निन्नोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलनेवाला। १० और उसके राज्य का अराम्भ शिनार देश में बाबुल, और अक्कद, और कलने हुआ। ११ उस देश से वह निकलकर अश्शूर को गया, और नीनवे, रहोबोतीर, और कालह को, १२ और नीनवे और कालह के बीच जो रेसेन है, उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। १३ और मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही, १४ और पत्रूसी, कसलूही, और कप्तोरी लोग हुए, कश्मूचियों में से तो पलिश्ती लोग निकले।

१५ फिर कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ सीदोन, तब हित्त, १६ और यबूसी, एमोरी, गिर्गशिी, १७ हिब्वी, अर्की, सीनी, १८ अर्बदी, समारी, और हमाती लोग भी हुए : फिर कनानियों के कुल भी फैल

गए। १९ और कनानियों का सिवाना सीदोन से लेकर गरार के मार्ग से होकर अज्जा तक और फिर सदोम और अमोरा और अदमा और सबोयीम के मार्ग से होकर लाशा तक हुआ। २० हाम के वंश में ये ही हुए; और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों, और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए।

२१ फिर शेम, जो सब एबेरवशियों का मूलपुरुष हुआ, और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था*, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। २२ शेम के पुत्र : एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद्, लूद और अराराम हुए। २३ और अराराम के पुत्र : ऊस, हूल, गेतेर और मश हुए। २४ और अर्पक्षद् ने शेलह को, और शेलह ने एबेर को जन्म दिया। २५ और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेंग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान है। २६ और योक्तान ने अल्मोदाद, शोलेप, हसमवित, येरह, २७ यदोरवाम, ऊजाल, दिक्ला, २८ ओबाल, अवीमाएल, शबा, २९ ओपीर, हवीला और योबाब को जन्म दिया : ये ही सब योक्तान के पुत्र हुए। ३० इनके रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा जो पूर्व में एक पहाड़ है, उसके मार्ग तक हुआ। ३१ शेम के पुत्र ये ही हुए; और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए।

३२ नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं : और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलिया ये ही हैं; और जलप्रलय

* वा जिसका बड़ा भाई येपेत था।

के पश्चात् पृथ्वी भर की जानिया इन्ही में से होकर बट गई ॥

(मनुष्य की भाषाओं में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन)

११ सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, और एक ही बोली थी। २ उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उस में बस गए। ३ तब वे आपस में कहने लगे, कि आओ, हम ईंटे बना बना के भली भाँति आग में पकाएँ, और उन्हों में पत्थर के स्थान में ईंट में, और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। ४ फिर उन्हों ने कहा, आओ, हम एक नगर और एक गुम्मत बना ले, जिमकी चोटी आकाश से बाते करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें ऐसा न हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ५ जब लोग नगर और गुम्मत बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिये यहोवा उतर आया। ६ और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्हों ने ऐसा ही काम भी आरम्भ किया; और अब जितना वे करने का यत्न करेगें, उस में से कुछ उनके लिये अनहोना न होगा। ७ इसलिये आओ, हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाले, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। ८ इस प्रकार यहोवा ने उनको, वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया; और उन्हों ने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। ९ इस कारण उस नगर का नाम बाबुल * पड़ा; क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, सो

* अर्थात् गड़बड़।

यहोवा ने वही डाली, और वही से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया ॥

(शेम की वंशावली)

१० शेम की वंशावली यह है। जल-प्रलय के दो वर्ष पश्चात् जब शेम एक सौ वर्ष का हुआ, तब उस ने अर्पक्षद् को जन्म दिया। ११ और अर्पक्षद् के जन्म के पश्चात् शेम पाच सौ वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥

१२ जब अर्पक्षद् पैंतीस वर्ष का हुआ, तब उस ने शेलह को जन्म दिया। १३ और शेलह के जन्म के पश्चात् अर्पक्षद् चार सौ तीन वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥

१४ जब शेलह तीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। १५ और एबेर के जन्म के पश्चात् शेलह चार सौ तीन वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥

१६ जब एबेर चौतीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेंग का जन्म हुआ। १७ और पेलेंग के जन्म के पश्चात् एबेर चार सौ तीस वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥

१८ जब पेलेंग तीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। १९ और रू के जन्म के पश्चात् पेलेंग दो सौ नौ वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥

२० जब रू बत्तीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। २१ और सरूग के जन्म के पश्चात् रू दो

सी सात वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥

२२ जब सरूग तीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ ।

२३ और नाहोर के जन्म के पश्चात् सरूग दो सौ वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥

२४ जब नाहोर उनतीस वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ ।

२५ और तेरह के जन्म के पश्चात् नाहोर एक सौ उन्नीस वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं ॥

२६ जब तक तेरह सत्तर वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राम, और नाहोर, और हारान उत्पन्न हुए ॥

२७ तेरह की यह वशावली है । तेरह ने अब्राम, और नाहोर, और हारान को जन्म दिया, और हारान ने लूत को जन्म दिया । २८ और हारान अपने पिता के साम्हने ही, कसूदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया । २९ अब्राम और नाहोर ने स्त्रिया ब्याह ली : अब्राम की पत्नी का नाम तो सारै, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था, यह उस हारान की बेटी थी, जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था । ३० सारै तो बाभू थी, उसके सन्तान न हुई । ३१ और तेरह अपना पुत्र अब्राम, और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारै, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी इन सभी को लेकर कसूदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा । ३२ जब तेरह दो सौ पांच वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया ॥

(परनेचर की और से इज्राहीन के बुझाए जाने का वर्णन)

१२

यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, और अपनी जन्मभूमि, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा । २ और मैं तुम्हें से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुम्हें आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का वृक्ष होगा । ३ और जो तुम्हें आशीषवादि दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुम्हें कोसे, उसे मैं शाप दूंगा, और भूमण्डल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे । ४ यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, और लूत भी उसके सग चला; और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह पचहत्तर वर्ष का था । ५ सो अब्राम अपनी पत्नी सारै, और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्हो ने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्हो ने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला; और वे कनान देश में आ भी गए । ६ उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहा मोरे का बाज वृक्ष है, पहुंचा; उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे । ७ तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वश को दूंगा: और उस ने वहा यहोवा के लिये जिस ने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई । ८ फिर वहां से कूच करके, वह उस पहाड़ पर आया, जो बेतेल के पूर्व की ओर है; और अपना तम्बू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पच्छिम की ओर तो बेतेल, और पूर्व की ओर ऐ है; और वहा भी उस ने यहोवा के लिये एक वेदी बनाई: और

यहोवा से प्रार्थना की। ६ और अब्राम कूच करके दक्खिन देश की ओर चला गया ॥

१० और उस देश में अकाल पड़ा : और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे—क्योंकि देश में भयकर अकाल पड़ा था। ११ फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर, उस ने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है, कि तू एक सुन्दर स्त्री है : १२ इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे, तब कहेंगे, यह उमकी पत्नी है, सो वे मुझ को तो मार डालेंगे, पर तुझ को जीती रख लेंगे। १३ सो यह कहना, कि मैं उमकी बहिन हूँ; जिस से तेरे कारण मेरा कल्याण हो, और मेरा प्राण तेरे कारण बचें। १४ फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुन्दर है। १५ और फिरोन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरोन के साम्हने उसकी प्रशंसा की सो वह स्त्री फिरोन के घर में रखी गई। १६ और उस ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, सो उसको भेड-बकरी, गाय-बैल, दास-दासिया, गदहे-गदहियाँ, और ऊट मिले। १७ तब यहोवा ने फिरोन और उसके घराने पर, अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तिया डाली। १८ सो फिरोन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तू ने मुझ से क्या किया है? तू ने मुझे क्यो नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? १९ तू ने क्यो कहा, कि वह तेरी बहिन है? मैं ने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिये लिया; परन्तु अब्राम अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा। २० और फिरोन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको

और उसकी पत्नी को, सब सम्पत्ति समेत जो उसका था, विदा कर दिया ॥

(एजाप्तोम और लूत के चलाव चोरी का बचन)

१३ तब अब्राम अपनी पत्नी, और अपनी सारी सम्पत्ति लेकर, लूत को भी सग लिये हुए, मिस्र को छोड़कर कनान के दक्खिन देश में आया। २ अब्राम भेड-बकरी, गाय-बैल, और मोने-रूपे का बड़ा धनी था। ३ फिर वह दक्खिन देश से चलकर, बेतेल के पास, उसी स्थान को पहुंचा, जहा उमका तम्बू पहले पड़ा था, जो बेनेल और ऐ के बीच में है। ४ यह स्थान उम वेदो का है, जिसे उस ने पहले बनाई थी, और वहा अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। ५ और लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड-बकरी, गाय-बैल, और तम्बू थे। ६ सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। ७ सो अब्राम, और लूत की भेड-बकरी, और गाय-बैल के चरवाहों में झगडा हुआ : और उस समय कनानी, और परिज्जी लोग, उस देश में रहते थे। ८ तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगडा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बन्धु हैं। ९ क्या सारा देश तेरे साम्हने नहीं? सो मुझ से अलग हो, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दहिनी ओर जाए, तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। १० तब लूत ने आंख उठाकर, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, कि वह सब सिंची हुई है।

जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोधर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका, और मित्र देश के समान उपजाऊ थी। ११ सो लूत अपने लिये यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से भ्रलग हो गए। १२ अन्नम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरो में रहने लगा, और अपना तम्बू सदोम के निकट खड़ा किया। १३ सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। १४ जब लूत अन्नम से भ्रलग हो गया तब उसके पश्चात् यहोवा ने अन्नम से कहा, अन्न उठाकर जिस स्थान पर तू है वहा से उत्तर-दक्खिन, पूर्व-पच्छिम, चारो ओर दृष्टि कर। १५ क्योकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वश को युग युग के लिये दूंगा। १६ और मैं तेरे वश को पृथ्वी की धूल के किनको की नाई बहुत करूंगा, यहा तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनको को गिन सकेगा वही तेरा वश भी गिन सकेगा। १७ उठ, इस देश की लम्बाई और चौडाई में चल फिर, क्योकि मैं उसे तुम्ही को दूंगा। १८ इसके पश्चात् अन्नम अपना तम्बू उसाडकर, मन्ने के बाजो के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहा भी यहोवा की एक वेदी बनाई ॥

(इब्राहीम के विषय और मेलकीशेदेक के द्रव्य २२ में का वर्णन)

१४ शिनार के राजा अन्नपेल, और एल्लासार के राजा अर्योक, और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, और गोयीम के राजा तिताल के दिनों में ऐसा हुआ,

२ कि उन्हो ने सदोम के राजा बेरा, और अमोरा के राजा बिर्सा, और अद्मा के राजा शिनाब, और सबोयीम के राजा शेमेबेर, और बेला जो सोधर भी कहलाता है, इन राजाओ के विरुद्ध युद्ध किया। ३ इन पाचो ने सिद्दीम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। ४ बारह वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर तेरहवें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। ५ सो चौदहवें वर्ष में कदोर्लाओमेर, और उसके सगी राजा आए, और अशतरोत्कनम में रपाइयो को, और हाम में जूजियो को, और शाबेकियातैम में एमियो को, ६ और सेईर नाम पहाड में होरियो को, मारते मारते उस एल्यारान तक जो जगल के पास है पहुच गए। ७ वहा से वे लौटकर एन्मिशापात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियो के सारे देश को, और उन एमोरियो को भी जीत लिया, जो हससोन्ता-मार में रहते थे। ८ तब सदोम, अमोरा, अद्मा, सबोयीम, और बेला, जो सोधर भी कहलाता है, इनके राजा निकले, और सिद्दीम नाम तराई में, उनके साथ युद्ध के लिये पाति बान्धी। ९ अर्यात् एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोयीम के राजा तिताल, शिनार के राजा अन्नपेल, और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारो के विरुद्ध उन पाचो ने पाति बान्धी। १० सिद्दीम नाम तराई में जहा लसार मिट्टी के गडहे ही गडहे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उन में गिर पडे, और जो बचे वे पहाड पर भाग गए। ११ तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओ को लूट लाट कर चले गए। १२ और अन्नम का भतीजा

लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी घन समेत बे लेकर चले गए। १३ तब एक जन जो भागकर बच निकला था उस ने जाकर इसी अन्नम को समाचार दिया; अन्नम तो एमोरी मन्ने, जो एश्कोल और आनेर का भाई था, उसके बाज वृक्षों के बीच में रहता था; और ये लोग अन्नम के संग वाचा बान्धे हुए थे। १४ यह सुनकर कि उसका भतीजा बन्धुभाई मे गया है, अन्नम ने अपने तीन सौ अठारह शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुम्ब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। १५ और अपने दासों के अलग अलग दल बान्धकर रात को उन पर-चढाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर ओर है, उनका पीछा किया। १६ और वह सारे घन को, और अपने भतीजे लूत, और उसके घन को, और स्त्रियो को, और सब बन्धुओं को, लौटा ले आया। १७ जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उस से भेंट करने के लिये आया। १८ तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दालमधु ले आया। १९ और उस ने अन्नम को यह आशीर्वाद दिया, कि परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। २० और धन्य है परमप्रधान ईश्वर, जिस ने तेरे द्रोहियों को तेरे बश में कर दिया है। तब अन्नम ने उसको सब का दशमांश दिया। २१ तब सदोम के राजा

ने अन्नम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे, और घन को अपने पास रख। २२ अन्नम ने सदोम के राजा से कहा, परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, २३ उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ, कि जो कुछ तेरा है उस में से न तो मे एक सूत, और न जूती का बन्धन, न कोई और वस्तु लूगा; कि तू ऐसा न कहने पाए, कि अन्नम मेरे ही कारण धनी हुआ। २४ पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे: अर्थात् आनेर, एश्कोल, और मन्ने, मैं नहीं लौटाऊंगा वे तो अपना अपना भाग रख लें ॥

(राजाओं के साथ यहीना के वाचा बान्धने का वचन)

१५

इन बातों के पश्चात् यहोवा का यह वचन दर्शन में अन्नम के पास पहुंचा, कि हे अन्नम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यन्त बड़ा फल मैं हूँ। २ अन्नम ने कहा, हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्बंश हूँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एनीएजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? ३ और अन्नम ने कहा, मुझे तो तू ने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ, कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। ४ तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। ५ और उस ने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उस ने उस से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ६ उस ने यहोवा पर विश्वास किया;

श्रीर यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ७ श्रीर उस ने उस से कहा मैं वही यहोवा हूँ जो तुम्हें कसुदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुम्हें को इस देश का अधिकार दूँ। ८ उस ने कहा, हे प्रभु यहोवा मैं कैसे जानू कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? ९ यहोवा ने उस से कहा, मेरे लिये तीन वर्ष की एक कलोर, श्रीर तीन वर्ष की एक बकरी, श्रीर तीन वर्ष का एक मेढ़ा, श्रीर एक पिरण्डुक श्रीर कबूतर का एक बच्चा ले। १० श्रीर इन सभी को लेकर, उस ने बीच से दो टुकड़े कर दिया, श्रीर टुकड़ों को ब्राम्हणे-साम्हने रखा: पर चिडियाओं को उस ने टुकड़े न किया। ११ श्रीर जब मासाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब ब्राम्हाम ने उन्हें उड़ा दिया। १२ जब सूर्य अस्त होने लगा, तब ब्राम्हाम को भारी नीद आई; श्रीर देखो, अत्यन्त भय श्रीर महा अन्धकार ने उसे छा लिया। १३ तब यहोवा ने ब्राम्हाम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, श्रीर उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे; श्रीर वे उनको चार सौ वर्ष लों दुःख देंगे; १४ फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दण्ड दूँगा: श्रीर उसके पश्चात् वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। १५ तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा; तुम्हें पूरे वृद्धापे में मिट्टी दी जाएगी। १६ पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे: क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। १७ श्रीर ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया श्रीर घोर अन्धकार छा गया, तब एक झंगेठी जिस में से धूआं उठता था श्रीर एक जलता हुआ पत्नीता

देख पड़ा जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। १८ उसी दिन यहोवा ने ब्राम्हाम के साथ यह वाचा बान्धी, कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, १९ अर्थात्, केनियो, कनिज्जियों, कद्मोनियो, २० हितियों, परीज्जियों, रपाइयों, २१ एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों श्रीर यबूसियों का देश मैं ने तेरे वंश को दिया है ॥

(१२भाश्च की उत्पत्ति का वर्णन)

१६ ब्राम्हाम की पत्नी सारै के कोई सुन्दर न थी: श्रीर उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। २ सो सारै ने ब्राम्हाम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बन्द कर रखी है सो मैं तुम्हें से बिनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा सम्भव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। ३ सो सारै की यह बात ब्राम्हाम ने मान ली। सो जब ब्राम्हाम को कनान देश में रहते दस वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री लौंडी हाजिरा को लेकर अपने पति ब्राम्हाम को दिया, कि वह उसकी पत्नी हो। ४ श्रीर वह हाजिरा के पास गया, श्रीर वह गर्भवती हुई श्रीर जब उस ने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। ५ तब सारै ने ब्राम्हाम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो: मैं ने तो अपनी लौंडी को तेरी पत्नी कर दिया; पर जब उस ने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी, सो यहोवा मेरे श्रीर तेरे बीच में न्याय करे। ६ ब्राम्हाम ने सारै से कहा, देख तेरी लौंडी तेरे वंश में

है : जैसा तुम्हें भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। सो मारै उसको दुःख देने लगी और वह उसके साम्हने से भाग गई। ७ तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मांग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, ८ हे सारै की लौंडी हाजिरा, तू कहा से आती और कहा को जाती है? उस ने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के साम्हने से भाग आई हूँ। ९ यहोवा के दूत ने उस से कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। १० और यहोवा के दूत ने उस से कहा, मैं तेरे वश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहा तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। ११ और यहोवा के दूत ने उस से कहा, देख, तू गर्भवती है, और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इसमाएल* रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुःख का हाल सुन लिया है। १२ और वह मनुष्य बनले गदहे के समान होगा उसका हाथ सब के विरुद्ध उठेगा, और सब के हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बन्धुओं के मध्य में बसा रहेगा। १३ तब उस ने यहोवा का नाम जिस ने उस से बातें की थी, अत्ताएलरोई† रखकर कहा, कि, क्या मैं यहा भी उसको जाने हुए देखने ‡ पाई जो मेरा देखनेहारा है? १४ इस कारण उस कुएं का नाम लहैरोई§ कुआं पड़ा; वह तो कादेश और बेरेद के बीच में है। १५ सो हाजिरा अब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी: और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा

जनी, इसमाएल रखा। १६ जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इसमाएल को जन्म दिया उस समय अब्राम छियासी वर्ष का था ॥

(वतना की विधि के उचरने का वर्णन और रचराक की उत्पत्ति की प्रतिष्ठा)

१७ जब अब्राम निम्नानवे वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान् ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल * और सिद्ध होता जा। २ और मैं तेरे साथ वाचा बान्धूंगा, और तेरे वश को अत्यन्त ही बढ़ाऊंगा। ३ तब अब्राम मुह के बल गिरा: और परमेश्वर उस से यों बातें कहता गया, ४ देख, मेरी वाचा तेरे साथ बन्धी रहेगी, इसलिये तू जातियो के समूह का मूलपिता हो जाएगा। ५ सो अब से तेरा नाम अब्राम † न रहेगा परन्तु तेरा नाम इब्राहीम ‡ होगा क्योंकि मैं ने तुम्हें जातियो के समूह का मूलपिता ठहरा दिया है। ६ और मैं तुम्हें अत्यन्त ही फुलाऊ फलाऊंगा, और तुम्हें जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वश में राजा उत्पन्न होंगे। ७ और मैं तेरे साथ, और तेरे पश्चात् पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बान्धता हूँ, कि मैं तेरा और तेरे पश्चात् तेरे वश का भी परमेश्वर रहूंगा। ८ और मैं तुम्हें को, और तेरे पश्चात् तेरे वंश को भी, यह सारा कनान देश, जिस में तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी,

* अर्थात् ईश्वर सुननेहारा।

† अर्थात् तू सर्वदर्शी ईश्वर है।

‡ मूल में—उसके पीछे देखने।

§ अर्थात् जाते देखनेहारे का।

* मूल में—मेरे साम्हने चल।

† अर्थात् उन्नत पिता।

‡ अर्थात् बहुतों का पिता।

और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। ६ फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, तू भी मेरे साथ बान्धी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात् तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। १० मेरे साथ बान्धी हुई वाचा, जो तुझे और तेरे पश्चात् तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है, कि तुम मे से एक एक पुरुष का खतना हो। ११ तुम अपनी अपनी खलडी का खतना करा लेना; जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। १२ पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो, वा परदेशियों को रूपा देकर मोल लिये जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब आठ दिन के हो जाए, तब उनका खतना किया जाए। १३ जो तेरे घर में उत्पन्न हो, अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए, सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। १४ जो पुरुष खतनारहित रहे, अर्थात् जिसकी खलडी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उस ने मेरे साथ बान्धी हुई वाचा को तोड़ दिया।

१५ फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है, उसको तू अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा। १६ और मैं उसको आशीष दूँगा, और तुझ को उसके द्वारा एक पुत्र दूँगा; और मैं उसको ऐसी आशीष दूँगा, कि वह जाति जाति की मूलमाता हो जाएगी; और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। १७ तब इब्राहीम मुँह के बल गिर पड़ा और हंसा, और अपने मन

ही मन कहने लगा, क्या सौ वर्ष के पुरुष के भी सन्तान होगा और क्या सारा जो नब्बे वर्ष की है पुत्र जनेगी? १८ और इब्राहीम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे। यही बहुत है। १९ तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बान्धूँगा जो उसके पश्चात् उसके वंश के लिये युग युग की वाचा होगी। २० और इश्माएल के विषय में भी मैं ने तेरी सुनी है मैं उसको भी आशीष दूँगा, और उसे फुलाऊँ फलाऊँगा और अत्यन्त ही बड़ा दूँगा, उस से बारह प्रधान उत्पन्न होंगे, और मैं उस से एक बड़ी जाति बनाऊँगा। २१ परन्तु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बान्धूँगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। २२ तब परमेश्वर ने इब्राहीम से बातें करनी बन्द की और उनके पास से ऊपर चढ़ गया। २३ तब इब्राहीम ने अपने पुत्र इश्माएल को, और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे, और जितने उसके रूपे से मोल लिये गए थे, निदान उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सभी को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलडी का खतना किया। २४ जब इब्राहीम की खलडी का खतना हुआ तब वह निम्नानवे वर्ष का था। २५ और जब उसके पुत्र इश्माएल की खलडी का खतना हुआ तब वह तेरह वर्ष का था। २६ इब्राहीम और उसके पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ। २७ और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए, तथा जो परदेशियों

के हाथ से मोल लिये गए थे, सब का खतना उसके साथ ही हुआ ॥

१८ इब्राहीम मन्त्रे के बाजो के बीच कड़ी धूप के समय तम्बू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया : २ और उस ने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, कि तीन पुरुष उसके साम्हने खड़े हैं जब उस ने उन्हें देखा तब वह उन से भेंट करने के लिये तम्बू के द्वार से दौड़ा, और भूमि पर गिरकर दण्डवत् की और कहने लगा, ३ हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं बिनती करता हूँ, कि अपने दास के पास मे चले न जाना। ४ मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाव धोकर ईम वृक्ष के तले विश्राम करे। ५ फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उस से आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात् आगे बढ़े क्योंकि आप अपने दास के पास इसी लिये पधारे हैं। उन्हो ने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। ६ सो इब्राहीम ने तम्बू में सारा के पास फूर्ती से जाकर कहा, तीन सन्ना * मीदा फूर्ती से गून्घ, और फुलके बना। ७ फिर इब्राहीम गाय बैल के झुण्ड में दौड़ा, और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उस ने फूर्ती से उसको पकाया। ८ तब उस ने मक्खन, और दूध, और वह बछड़ा, जो उस ने पकवाया था, लेकर उनके आगे परोस दिया; और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा, और वे खाने लगे। ९ उन्हो ने उस से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उस ने

कहा, वह तो तम्बू में है। १० उस ने कहा मैं वसन्त ऋतु में * निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तम्बू के द्वार पर जो इब्राहीम के पीछे था, सुन रही थी। ११ इब्राहीम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का स्त्रीधर्म बन्द हो गया था। १२ सो सारा मन में हस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? १३ तब यहोवा ने इब्राहीम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हसी, कि क्या मेरे, जो ऐसी बुढिया हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? १४ क्या यहोवा के लिये कोई काम कठिन है? नियत समय में, अर्थात् वसन्त ऋतु में, * मैं तेरे पास फिर आऊँगा, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। १५ तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, कि मैं नहीं हसी। उस ने कहा, नहीं, तू हसी तो थी ॥

(सदोम आदि नगरो के विनाश का वर्णन)

१६ फिर वे पुरुष वहाँ से चलकर, सदोम की ओर ताकने लगे: और इब्राहीम उन्हें विदा करने के लिये उनके संग सग चला। १७ तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहीम से छिपा रखूँ? १८ इब्राहीम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएँगी। १९ क्योंकि मैं जानता हूँ, कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएँगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में झटल बने रहें, और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिये कि जो कुछ

* यह नपुष्पा विशेष है।

* मूल में—जीवन के समय में।

यहोवा ने इब्राहीम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। २० फिर यहोवा ने कहा, सदोम और भ्रमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, २१ इसलिये मैं उतरकर देखूंगा, कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। २२ सो वे पुरुष वहा से मुड के सदोम की ओर जाने लगे पर इब्राहीम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। २३ तब इब्राहीम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के सग धर्मी को भी नाश करेगा? २४ कदाचित् उस नगर में पचास धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन पचास धर्मियों के कारण जो उस में हों न छोड़ेगा? २५ इस प्रकार का काम करना तुझ से दूर रहे कि दुष्ट के सग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा ही। यह तुझ से दूर रहे क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे? २६ यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में पचास धर्मी मिले, तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़गा। २७ फिर इब्राहीम ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तौमी मैं ने इतनी टिठाई की कि तुझ से बातें करूँ। २८ कदाचित् उन पचास धर्मियों में पांच घट जाए तो क्या तू पांच ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उस ने कहा, यदि मुझे उस में पैंतालीस भी मिले, तौमी उसका नाश न करूंगा। २९ फिर उस ने उस से यह भी कहा, कदाचित् वहा चालीस मिले। उस ने कहा, तो मैं चालीस के कारण भी ऐसा न

करूंगा। ३० फिर उस ने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ कदाचित् वहा तीस मिले। उस ने कहा, यदि मुझे वहा तीस भी मिले, तौमी ऐसा न करूंगा। ३१ फिर उस ने कहा, हे प्रभु, सुन, मैं ने इतनी टिठाई तो की है कि तुझ से बातें करूँ कदाचित् उस में बीस मिले। उस ने कहा, मैं बीस के कारण भी उसका नाश न करूंगा। ३२ फिर उस ने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा कदाचित् उस में दस मिले। उस ने कहा, तो मैं दस के कारण भी उसका नाश न करूंगा। ३३ जब यहोवा इब्राहीम से बातें कर चुका, तब चला गया और इब्राहीम अपने घर को लौट गया ॥

१६ साभू को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था सो उनको देखकर वह उन से भेंट करने के लिये उठा, और मुह के बल भुककर दण्डवत् कर कहा, २ हे मेरे प्रभुओ, अपने दास के घर में पधारिए, और रात भर विश्राम कीजिए, और अपने पाव धोइये, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। ३ और उस ने उन से बहुत बिनती करके उन्हें मनाया, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उस ने उनके लिये जेवनार तैय्यार की, और बिना खमीर की रोटिया बनाकर उनको खिलाईं। ४ उनके सो जाने से पहिले, उस सदोम नगर के पुरुषो ने, जवानो से लेकर बूढ़ो तक, वरन चारो ओर के सब लोगो ने आकर उस

घर को बेग लिया, ५ और लूत को पुकारकर कहने लगे, कि जो पुरुष भ्राज रात को तेरे पास आए हैं वे कहा है? उनको हमारे पास बाहर ले आ, कि हम उन से भोग करें। ६ तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, और किवाड़ को अपने पीछे बन्द करके कहा, ७ हे मेरे भाइयो, ऐसी बुराई न करो। ८ सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्हो ने अब लो पुरुष का मुह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊ, और तुम को जैसा भ्रच्छा लगें वैसा व्यवहार उन से करो पर इन पुरुषो से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए * हैं। ९ उन्हो ने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहा रहने के लिये आया पर अब न्यायी भी बन बैठा है सो अब हम उन से भी अधिक तेरे माथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे, और किवाड़ तोड़ने के लिये निकट आए। १० तब उन पाहुनो † ने हाथ बढ़ाकर, लूत को अपने पास घर में खीच लिया, और किवाड़ को बन्द कर दिया। ११ और उन्हों ने क्या छोटे, क्या बड़े, सब पुरुषो को जो घर के द्वार पर थे भन्धा कर दिया, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। १२ फिर उन पाहुनो † ने लूत से पूछा, यहां तेरे और कौन कौन हैं? दामाद, बेटे, बेटिया, वा नगर में तेरा जो कोई हो, उन सभों को लेकर इस स्थान से निकल जा। १३ क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिये कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है; और यहोवा

* मूल में—इसलिये आया।

† मूल में—मनुष्यों।

ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिये भेज दिया है। १४ तब लूत ने निकलकर अपने दामादो को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो. क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादो की दृष्टि में ठट्टा करनेहारा सा जान पडा। १५ जब पहाड़ फटने लगी, तब दूतो ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, कि उठ, अपनी पत्नी और दोनो बेटियों को जो यहा हैं ले जा नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भ्रम हो जाएगा। १६ पर वह विलम्ब करता रहा, इस से उन पुरुषो ने उसका और उसकी पत्नी, और दोनो बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उमको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। १७ और ऐसा हुआ कि जब उन्हो ने उनको बाहर निकाला, तब उस ने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। १८ लूत ने उन से कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर: १९ देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तू ने इस में बड़ी कृपा दिखाई, कि मेरे प्राण को बचाया है; पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कही ऐसा न हो, कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े, और मैं मर जाऊं २० देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहा भाग सकता हू, और वह छोटा भी है मुझे बही भाग जाने दे, क्या वह छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। २१ उस ने उस से कहा, देख, मैं ने इस

विषय में भी तेरी बिनती भंगीकार की है, कि जिस नगर की चर्चा तू ने की है, उसको मैं नाश न करूंगा। २२ फुर्ती से वहां भाग जा; क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोभ्र * पडा। २३ लूत के सोभ्र के निकट पहुंचने ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। २४ तब यहोवा ने अपनी और से सदोम और भमोरा पर आकाश से गन्धक और भाग बरसाई, २५ और उन नगरो को और उस सम्पूर्ण तराई को, और नगरो के सब निवासियो को, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। २६ लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खम्भा बन गई। २७ भोर को इब्राहीम उठकर उस स्थान को गया, जहा वह यहोवा के सम्मुख खडा था; २८ और सदोम, और भमोरा, और उस तराई के सारे देश की ओर आख उठाकर क्या देखा, कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धूआ उठ रहा है। २९ और ऐसा हुआ, कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरो को, जिन में लूत रहता था, उलट पुलट कर नाश किया, तब उस ने इब्राहीम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया ॥

३० और लूत ने सोभ्र को छोड दिया, और पहाड़ पर अपनी दोनो बेटियो समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोभ्र मे रहने से डरता था : इसलिये वह और उसकी दोनो बेटिया वहा एक गुफा मे रहने लगे। ३१ तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा,

* अर्थात् छोटा।

हमारा पिता बूढा है, और पृथ्वी * भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो ससार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। ३२ सो भा, हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर, उसके साथ सोए, जिस से कि हम अपने पिता के वश को बचाए रखें। ३३ सो उन्हो ने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया, तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उस ने न जाना, कि वह कब लेटी, और कब उठ गई। ३४ और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई सो आज भी रात को हम उसको दाखमधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वश उत्पन्न करें। ३५ सो उन्हो ने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया : और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। ३६ इस प्रकार से लूत की दोनो बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। ३७ और बड़ी एक पुत्र जनी, और उसका नाम मोआब † रखा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूलपिता हुआ। ३८ और छोटी भी एक पुत्र जनी, और उसका नाम बेनममी ‡ रखा; वह अम्मोन-वशियो का जो आज तक है मूलपिता हुआ ॥

(२४४वाक जी उत्पत्ति का अर्ध)

२० फिर इब्राहीम वहा से कूच कर दक्खिन देश में आकर कादेश

* वा देश।

† अर्थात् पिता का वीर्य।

‡ अर्थात् मेरे कुटुम्बी का वेदा।

और शूर के बीच में ठहरा, और गरार में रहने लगा। २ और इब्राहीम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा, कि वह मेरी बहिन है। सो गगर के राजा अबी-मेलक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। ३ रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तू ने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। ४ परन्तु अबीमेलक तो उसके पाम न गया था: सो उस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? ५ क्या उसी ने स्वयं मुझ से नहीं कहा, कि वह मेरी बहिन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, कि वह मेरा भाई है: मैं ने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से * यह काम किया। ६ परमेश्वर ने उस से स्वप्न में कहा, हां, मैं भी जानता हू कि अपने मन की खराई से तू ने यह काम किया है, और मैं ने तुम्हें रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे: इसी कारण मैं ने तुम्हें उसे छूने नहीं दिया। ७ सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वह नबी है, और तेरे लिये प्रार्थना करेगा, और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न फेर दे तो जान रख, कि तू, और तेरे जितने लोग हैं, सब निश्चय मर जाएंगे। ८ बिहान को अबीमेलक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई: और वे लोग बहुत डर गए। ९ तब अबीमेलक ने इब्राहीम को बुलवाकर कहा, तू ने हम से यह क्या किया है? और मैं ने तेरा क्या बिगाड़ा

* मूल में—अपनी हवेलियों की निर्दोषता के।

था, कि तू ने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तू ने मुझ से वह काम किया है जो उचित न था। १० फिर अबीमेलक ने इब्राहीम से पूछा, तू ने क्या समझकर ऐसा काम किया? ११ इब्राहीम ने कहा, मैं ने यह सोचा था, कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण भेग घात करेंगे। १२ और फिर भी सचमुच वह मेरी बहिन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं, फिर वह मेरी पत्नी हो गई। १३ और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने का आज्ञा दी, तब मैं ने उस से कहा, इतनी कृपा तुम्हें मुझ पर करनी होगी: कि हम दोनों जहा जहां जाए वहा वहा तू मेरे विषय में कहना, कि यह मेरा भाई है। १४ तब अबीमेलक ने भेड-बकरी, गाय-बैल, और दास-दासियां लेकर इब्राहीम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे फेर दिया। १५ और अबीमेलक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे साम्हने है, जहा तुम्हें भावे वहा रह। १६ और सारा से उस ने कहा, देख, मैं ने तेरे भाई को रुपये के एक हजार कटुडे दिए हैं: देख, तेरे सारे संगियों के साम्हने वही तेरी आत्मा का पर्दा बनेगा, और सभो के साम्हने तू ठीक होगी। १७ तब इब्राहीम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलक, और उसकी पत्नी, और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगीं। १८ क्योंकि यहोवा ने इब्राहीम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बन्द कर दिया था ॥

२१ मो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही मागा की मुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। २ मो सारा को इब्राहीम से गर्भवती होकर उसके बुढापे में उमी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उस में ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ३ और इब्राहीम ने अपने उस पुत्र का नाम जो मागा से उत्पन्न हुआ था इसहाक * रखा। ४ और जब उसका पुत्र इसहाक आठ दिन का हुआ, तब उस ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। ५ और जब इब्राहीम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह एक सौ वर्ष का था। ६ और सारा ने कहा, परमेश्वर न मुझ प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुननेवाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित हानगे। ७ फिर उस न यह भी वहा, कि क्या कोई कभी इब्राहीम से कह सकता था, कि सारा लडको को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझ में उसके बुढापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ८ और वह लडका बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहीम ने बडी जेवनार की। ९ तब मागा को मिस्री हाजिरा का पुत्र, जो इब्राहीम से उत्पन्न हुआ था, हमी करता हुआ देख पडा। १० सो इस कारण उस ने इब्राहीम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। ११ यह बात इब्राहीम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। १२ तब परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा, उस लडके और अपनी दासी के कारण

तुम्हे बुरा न लगे, जो बात सारा तुम्ह से कहे, उसे मान, क्योंकि जो तेरा वश कहलाएगा सो इसहाक ही में चलेगा। १३ दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा इसलिए कि वह तेरा वश है। १४ मो इब्राहीम ने बिहान को तडके उठकर रोटी और पानी से भरी चमडे की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कन्धे पर रखी, और उसके लडके को भी उसे देकर उसको विदा किया सो वह चली गई, और बेगंबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। १५ जब थैली का जल चुक गया, तब उस ने लडके को एक झाडी के नीचे छोड दिया। १६ और आप उस से तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके साम्हने यह मोचकर बैठ गई, कि मुझ को लडके की मृत्यु देखनी न पडे। तब वह उसके साम्हन बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। १७ और परमेश्वर ने उस लडके की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुम्हे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहा तेरा लडका है वहा से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पडी है। १८ उठ, अपने लडके को उठा और अपने हाथ में सम्भाल क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बडी जाति बनाऊंगा। १९ परमेश्वर ने उसकी आंखे खोल दी, और उसको एक कुआ दिवाई पडा, सं' उभ ने जाकर थैली को जल में भरकर लडके को पिलाया। २० और परमेश्वर उस लडके के साथ रहा, और जब वह बडा हुआ, तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। २१ वह तो पारान नाम जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिये मिस्र देश से एक स्त्री मगवाई ॥

* अर्थात् हंसी।

२२ उन दिना मे एगा हआ कि अशामनन अपन सनापति पाकाव नो मग लकर उब्राहाम मे रहन गगा जो बुद्ध तू कगा है उम मे परमश्वर नर मग रहता है २३ मा अत्र मभ मे यहा डम विषय मे परमश्वर का क्रिया खा कि नू न ता मभ मे छत्र करगा और न रुभा मर यहा मे करगा परन्तु जैसा करगा मे न तुभ पर का है वैसा हो नू मभ पर आ. उम दश पर भी जिम मे नू करगा करगा. २४ उब्राहाम न रहा मे क्रिया खाऊगा. २५ और उब्राहाम न अशामनन का एक कृप न विषय मे जा अशामनन क रामा न प्रयास मे न निया रा उतहना दिया. २६ तब अशामनन न रोग मे नहा जानता कि किस न यह काम किया और नू न भी मभ नग गगाया और न मे न आज मे पहिन उमर विषय मे बुद्ध भना. २७ तब उब्राहाम न भए करगा और गाय बैन नकर अशामनन का दिण और उन दानान ग्राम मे वाचा गा. २८ और उब्राहाम न भए को मान रन्तो अलग कर रखी. २९ तब अशामनन न उब्राहाम मे पूछा उन मान परिचिया का जो नू न अलग कर रखी है या प्रयाजन है ३० उम न रहा नू दन मान परिचिया का इम बात की साक्षा जानकर मर हाय मे ल कि मे न यह कुआ खोदा ह. ३१ उन दाना न जो उस स्थान मे आपस मे क्रिया खाई इसी कारण उसका नाम बशवा * पडा. ३२ जब उन्हो न बशेबा मे परस्पर वाचा बानी, तब अबीमेलक, और उसका सनापति पीकोल उठकर

परिचिया क दश मे नार गए। ३३ और इब्राहोम न प्रशवा मे भाऊ रा एक वक्ष लगाया और वहा यथावा जो सनातन श्वर है उम मे प्रायना को। ३४ और उब्राहाम परिचिया क दश मे बहन दिना तक परदशा नार रहा।।

(इत्र चौम क परीक्षा मे पढन का वणन)

२२ इन वाचा क पञ्चान एगा या कि परमश्वर न उब्राहाम मे यह कहकर उमका परीक्षा की कि उब्राहाम उम न रहा दश मे यथा हू *। २ उम न रहा अपन पुत्र का अशान अपन एतान पुत्र उमका का जिम मे नू प्रेम रखता है गग नकर मागिया दश मे बना जा और वहा उमका एक पता क ऊपर जो मे तुभ बनाऊगा नामाति करके चला। ३ मा उब्राहाम सिहाव ता नन्त उठा और अपन गदह पर राधा गतकर अपन दा मक्क और अपन पुत्र उमका का मग निया और हामाति क निय नरुनी चार ता नत्र कच करके उम स्थान का और चना जिमके चर्चा परमश्वर न उम मे का गा। ४ तामर दिन उब्राहाम न आय उठाकर उम स्थान का दूर मे दखा। ५ और उम न अपन मक्का मे रहा, गदह क पाम यही ठहर रहा यह नरुनी और मे वहा तब जाकर और दगायन करके फिर तुम्हार पाम नोट आऊगा। ६ मा इब्राहोम न हामबाल की लखड़ी ल अपन पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ मे लिया, और वे दानो एक साथ चल पड। ७ इसहाक न अपने पिता इब्राहीम से कहा,

* अथात् क्रिया या कुआ।

* मूल में- मुक्त देय।

हे मेरे पिता, उम ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है * उस ने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिये भेड कहा है ? ८ इब्राहीम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड का उपाय आप ही करेगा। ९ मो वे दोनों सग सग आगे चलने गए। और वे उम स्थान को जिसे परमेश्वर ने उमको बताया था पहुंचे, तत्र इब्राहीम ने वहा वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुनकर रखा, और अपन पुत्र इमहाक को बान्ध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। १० और इब्राहीम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपन पुत्र को बलि करे। ११ तब यहोवा के दूत न स्वर्ग से उसको पुकार के कहा हे इब्राहीम, हे इब्राहीम, उम ने वहा, देख मैं यहा हू *। १२ उस ने कहा, उम लटके पर हाथ मत बढ़ा, और न उम से कुछ कर क्याकि तू ने जो मुझ म अपने पुत्र, वरन अपने एकलौते पुत्र को भी, नही रख छोडा, इम से मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। १३ तब इब्राहीम ने आग उठाई, और क्या देखा, कि उसके पीछे एक मेढा अपने सींगों से एक भाडी म बन्धा हुआ है सो इब्राहीम ने जाके उम मेढे को लिया, और अपने पुत्र की मन्ती होमबलि करके चढाया। १४ और इब्राहीम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे † रखा इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, कि यहोवा के पहाड पर उपाय किया जाएगा। १५ फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहीम को पुकार के कहा,

* मूल में—मुझे देख।

† अर्थात् यहोवा उपाय करेगा।

१६ यहोवा की यह वाणी है, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हू, कि तू न जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी, नही रख छोडा, १७ इस वाग्ग में निश्चय तुझे आशीष दगा, और निश्चय तेरे वश को आकाश के तारागग, और समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत वरगा, और तेरा वश अपन शत्रुआ के नगरो * का अधिकारी होगा १८ और पृथ्वी की मारी जानिया अपने का तेरे वश के वाग्ग धन्य मानगी क्याकि तू ने मेरी बात मानी है। १९ तब इब्राहीम अपन मक्कों के पास नोट आया, और व गब बेशेबा का सग सग गए, और इब्राहीम बेशेबा में रहना गहा ॥

२० इन बातों के पश्चात् गेना हआ कि इब्राहीम को यह सन्देश मिला, कि मिल्का के तरे भाई नाहोर से मन्तान उत्पन्न हुए है। २१ मिल्का के पुत्र तो य हुए, अर्थात् उमवा जेठा ऊम, और ऊम का भाई बूज, और वमणल, जो अराम का पिता हुआ। २२ फिर केमेद, हजो, पिल्दाश, यिद्लाप, और बनूएल। २३ इन आठा को मिल्का इब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माण जनी। और बनूएल ने रिववा को उत्पन्न किया। २४ फिर नाहोर क रूमा नाम एक रखेली भी थी, जिस म तेवट, गहम, तदश, और माका, उत्पन्न हुए ॥

(सारा को मृत्यु और अन्तर्ज्या का वर्षण)

२३ सारा तो एक सौ मत्ताईस वरस की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी अवस्था हुई, २ तब वह किर्यतर्बा में मर गई। यह तो कनान देश में है, और हेब्रोन भी कहलाता है।

* मूल में—फाटक।

सो इब्राहीम साग के लिये रोने पीटने को वहा गया। ३ तब इब्राहीम अपने मुर्दे के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, ४ मैं तुम्हारे बीच पाहुन और परदेशी हूँ मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिये ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मुर्दे को गाडके अपनी आख की ओट करूँ। ५ हित्तियों ने इब्राहीम से कहा, ६ हे हमारे प्रभु, हमारी सुन तू तो हमारे बीच में बड़ा * प्रधान है सो हमारी कब्रों में से जिनको तू चाहे उस में अपने मुर्दे को गाड, हम में में कोई तुम्हें अपनी कब्र के लेने से न रोकेंगा, कि तू अपने मुर्दे को उस में गाडने न पाए। ७ तब इब्राहीम उठकर खड़ा हुआ, और हित्तियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दण्डवत् करके कहने लगा, ८ यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मुर्दे को गाडके अपनी आख की ओट करूँ, तो मेरी प्रार्थना है, कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिये बिनती करो, ९ कि वह अपनी मकपेलावाली गुफा, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिये मेरी निज भूमि हो जाए। १० और एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहा बैठा हुआ था। सो जितने हित्ति उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सभी के साम्हने उस ने इब्राहीम को उत्तर दिया, ११ कि हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन; वह भूमि मैं तुम्हें देता हूँ, और उस में जो गुफा है, वह भी मैं तुम्हें देता हूँ; अपने जातिभाइयों के

सम्मुख मैं उसे तुम्हें को दिए देता हूँ सो अपने मुर्दे को कब्र में रख। १२ तब इब्राहीम ने उस देश के निवासियों के साम्हने दण्डवत् की। १३ और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे, तो मेरी सुन उस भूमि का जो दाम हो, वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझ में ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहा गाडगा। १४ एप्रोन ने इब्राहीम को यह उत्तर दिया, १५ कि, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो चार सौ शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है ? अपने मुर्दे को कब्र में रख। १६ इब्राहीम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रूपा नौल दिया, जितना उस ने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात् चार सौ ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। १७ सो एप्रोन की भूमि, जो मन्ने के सम्मुख की मकपेला में थी, वह गुफा समेत, और उन सब वृक्षों समेत भी जो उस में और उसके चारों ओर सीमा पर थे, १८ जितने हिन्नी उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सभी के साम्हने इब्राहीम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। १९ इसके पश्चात् इब्राहीम ने अपनी पत्नी मारा को, उस मकपेलावाली भूमि की गुफा में जो मन्ने के अर्थात् हेब्रोन के साम्हने कनान देश में है, मिट्टी दी। २० और वह भूमि गुफा समेत, जो उस में थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिये इब्राहीम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई ॥

(इसहाक के विवाह का वर्णन)

२४ इब्राहीम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहीवा ने सब

* मूल में—परमेश्वर का।

बातों में उसको आशीर्ष दी थी। २ सो इब्राहीम ने अपने उस दाम से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी सम्पत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जाघ के नीचे रख ३ और मुझ से आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा, कि तू मेरे पुत्र के लिये कनानियों का लडकियों में मे, जिनके बीच में रहता हू, किसी को न ले आएगा। ४ परन्तु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुम्बियों के पाम जाकर मेरे पुत्र इमहाक के लिये एक पत्नी ल आएगा। ५ दाम ने उस में कहा, कदाचित् वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहा में तू आया है ले जाना पड़ेगा ? ६ इब्राहीम ने उस में कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहा कभी न ले जाना। ७ स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिम ने मुझे मेरे पिता के घर में और मेरी जन्म-भूमि से ले आकर मुझ में शपथ खाकर कहा, कि मैं यह देश तेरे वश को दूंगा वही अपना दूत तेरे आगे आगे भजेगा, कि तू मेरे पुत्र के लिये वहा से एक स्त्री ले आए। ८ और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मरी इस शपथ में छूट जाएगा पर मेरे पुत्र को वहा न ल जाना। ९ तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहीम की जाघ के नीचे अपना हाथ रखकर उस से इसी विषय की शपथ खार्द। १० तब वह दाम अपने स्वामी के ऊटो में से दस ऊट छाटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मसोपोटामिया * में

* अर्थात् दोआब में का अराम।

नाहोर के नगर के पास पहुचा। ११ और उस ने ऊटो को नगर के बाहर एक कुए के पास बैठाया, वह सध्या का समय था, जिस समय स्त्रिया जल भरने के लिये निकलती है। १२ सो वह कहने लगा, ह मेरे स्वामी इब्राहीम के परमेश्वर, यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, और मेरे स्वामी इब्राहीम पर करुणा कर। १३ देख, मैं जल के ढस सोते के पास खडा हू, और नगरवासियों की बेटिया जल भरने के लिये निकली आती हैं : १४ सो ऐसा होन दे, कि जिम कन्या से मैं कहू, कि अपना घडा मेरी ओर भुवा, कि मैं पीऊ, और वह कहे, कि ले, पी ले, पीछे मैं तेरे ऊटो को भी पिलाऊगी मो वही हो जिसे तू ने अपने दाम इसहाक के लिये ठहगया हों, इसी रीति में जान लूंगा कि तू ने मेरे स्वामी पर करुणा की है। १५ और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि गिबका, जो इब्राहीम के भाई नाहोर के जन्माये मिल्का के पुत्र, बतूल की बेंटी थी, वह बन्धे पर घडा लिये हुए आई। १६ वह अति सुन्दर, और कुमारी थी, और किसी पुरुष का मह न देखा था वह कुए में सोते के पाम उतर गई, और अपना घडा भर के फिर ऊपर आई। १७ तब वह दास उस से भेट करने को दौडा, और कहा, अपने घडे में मैं थोडा पानी मुझे पिला दे। १८ उस ने कहा, हे मेरे प्रभु, ले, पी ले और उस ने फूर्ती में घडा उतारकर हाथ में लिये लिये उसको पिला दिया। १९ जब वह उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊटो के लिये भी तब तक पानी भर भर लाऊगी, जब तक वे पी न चुके। २० तब वह फूर्ती में अपने घडे का जल हीदे में उगडेलकर

फिर कुएँ पर भरने को दौड़ गई, और उसके सब ऊटों के लिये पानी भर दिया। २१ और वह पुरुष उसकी और चुपचाप अचम्भे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था, कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सुफल किया है कि नहीं। २२ जब ऊट पी चुके, तब उस पुरुष ने आध ताले सोने का एक नत्थ निकालकर उसको दिया, और दस ताले सोने के कगन उसके हाथों में पहना दिए, २३ और पूछा, तू किस की बेटी है? यह मुझ को बता दे। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिये स्थान है? २४ उस ने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माएँ मिल्का के पुत्र बनूएल की बेटी हूँ। २५ फिर उस ने उस में कहा, हमारे वहाँ पुत्राल और चागा बहुत हैं, और टिकने के लिये स्थान भी है। २६ तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दण्डवत् करके कहा, २७ धन्य है मेरे स्वामी इब्राहीम का परमेश्वर यहोवा, कि उस ने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर मे हटा नहीं लिया: यहोवा ने मुझ को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाईबन्धुओं के घर पर पहुँचा दिया है। २८ और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तान्त कह सुनाया। २९ तब लावान जो रिबका का भाई था, सा बाहर कुएँ के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। ३० और ऐसा हुआ कि जब उस ने वह नत्थ और अपनी वहिन रिबका के हाथों में वे कगन भी देखे, और उसकी यह बात भी सुनी, कि उस पुरुष ने मुझ से ऐसी बातें कही; तब वह उस पुरुष के पास गया; और क्या देखा, कि वह सोते के निकट ऊटों के पास खड़ा है।

३१ उस ने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ तू क्यों बाहर खड़ा है? मैं ने घर को, और ऊटों के लिये भी स्थान तैयार किया है। ३२ और वह पुरुष घर में गया; और लावान ने ऊटों की काठिया खोलकर पुत्राल और चागा दिया, और उसके, और उसके सगी जनो के पाव धोने को जल दिया। ३३ तब एसायौम के दास के आगे जलपान के लिये कुछ रखा गया पर उस ने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूँ, तब तक कुछ न खाऊँगा। लावान ने कहा, कह दे। ३४ तब उस ने कहा, मैं तो इब्राहीम का दास हूँ। ३५ और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशोष दी है, सो वह महान पुत्र हा गया है, और उस ने उसको भंड-बकरो, गाय-बैल, मोना-रूपा, दाम-दामिया ऊट और गदहे दिए हैं। ३६ और मेरे स्वामी की पत्नी माग ब-बुहापे में उस में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को इब्राहीम ने अपना सत्र कुछ दे दिया है। ३७ और मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ गिलाई, कि मैं उसके पुत्र के लिये कनानियों की लडकियों में से, जिन के देश में वह रहता है, कोई स्त्री न ले आऊँगा। ३८ मैं उसके पिता के घर, और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिये एक स्त्री ले आऊँगा। ३९ तब मैं ने अपने स्वामी से कहा, कदाचित् वह स्त्री मेरे पीछे न आए। ४० तब उस ने मुझ से कहा, यहोवा, जिसके साम्हने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे सग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सुफल करेगा; सो तू मेरे कुल, और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिये एक स्त्री ले आ सकेगा।

४१ तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा, जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा, अर्थात् यदि वे मुझे कोई स्त्री न दे, तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। ४२ सो मैं आज उस कुएँ के निकट आकर बहने लगा हूँ मेरे स्वामी इब्राहीम के परमेश्वर यहाँवा, यदि तू मेरी इस यात्रा का मुफल करता हो ४३ तो देख मैं जल के इस कुएँ के निकट खड़ा हूँ, सो ऐसा हो, कि जो कुमारी जल भरने के लिये निकल आए, और मैं उस से कहूँ, अपने घड़े में मेरे मुँह थोड़ा पानी पिला, ४४ और वह मुझ से कहे, पी ले और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिये भी पानी भर दूँगी वह वही स्त्री है जिसको तू ने मेरे स्वामी के पुत्र के लिये ठहराया है। ४५ मैं मन ही मन यह कह ही रहा था, कि देख रिबका कन्धे पर घड़ा लिये हुए निकल आई, फिर वह सोने के पास उतरके भरने लगी और मैं ने उस से कहा, मुझे पिला दे। ४६ और उस ने फुर्ती से अपने घड़े को कन्धे पर से उतारके कहा, ले, पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊँगी सो मैं ने पी लिया, और उस ने ऊँटों को भी पिला दिया। ४७ तब मैं ने उस से पूछा, कि तू किस की बेटा है? और उस ने कहा, मैं तो नाहार के जन्माएँ मिष्का के पुत्र बतूल की बेटा हूँ तब मैं ने उसकी नाक में वह नत्थ, और उसके हाथों में वे कगन पहिना दिए। ४८ फिर मैं ने मिर भुकाकर यहाँवा को दरदवत् किया, और अपने स्वामी इब्राहीम के परमेश्वर यहाँवा को धन्य कहा, क्योंकि उस ने मुझे ठीक मार्ग से पहुँचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिये उसकी भतीजी को ले जाऊँ। ४९ सो अब, यदि

तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और मन्चाई का व्यवहार करना चाहते हो, तो मुझ से कहो और यदि नहीं चाहते हो, तो भी मुझ से कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर, वा बाईं ओर फिर जाऊँ। ५० तब लावान और बतूल न उतर दिया, यह बात यहाँवा की आँसु से हुई है सो हम लोग तुझ से न तो भला कह सकते हैं न बुरा। ५१ देय रिबका तेरे साम्हने है, उसको न जा और वह यहाँवा के वचन के अनसार, तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। ५२ उनका यह वचन सुनकर, इब्राहीम के दास ने भूमि पर गिरके यहाँवा को दरदवत् किया। ५३ फिर उस दाम न मोन और रूपे के गहने, और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उस ने अनमाल अनमाल वस्तुएँ दी। ५४ तब उस ने अपने सगी जनों समेत भोजन किया, और गन वही बिनाई आँसु तडके उठकर कहा, मुझ का अपने स्वामी के पास जाने के लिये विदा करो। ५५ रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन, अर्थात् कम से कम दस दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात् वह चली जाएगी। ५६ उस ने उन से कहा, यहाँवा न जो मेरी यात्रा का मुफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको अब मुझे विदा कर दो, कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊँ। ५७ उन्हो ने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं, और देखेंगे, कि वह क्या कहती है। ५८ सो उन्हो ने रिबका को बुलाकर उस से पूछा, क्या तू इस मनुष्य के सग जाएगी? उस ने कहा, हाँ मैं जाऊँगी। ५९ तब उन्हो ने अपनी वहिन रिबका, और उसकी धाय और

इब्राहीम के दाम, और उसके साथी सभो को विदा किया। ६० और उन्हो ने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, ह हमारी बहिन, तू हजारो लाखो की आदिमाता हौ, और तेरा वंश अपने वैरियो के नगरो * का अधिकारी हौ। ६१ इस पर रिबका अपनी महैलियो ममेत चली, और ऊट पर चढके उम पुरुष के पीछे हा ली मो वह दाम रिबका को साथ लेकर चल दिया। ६२ इसहाक जो दक्खिन देश मे रहता था, मा लहैगेई नाम कुए से होकर चला आता था। ६३ और साभ के समय वह मेदान म ध्यान करने के लिये निकला था और उम ने आवे उठाकर क्या देखा, कि ऊट चले आ रहे हे। ६४ और रिबका ने भी आवे उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊट पर मे उतर पड़ी। ६५ तब उम ने दाम से पूछा, जो पुरुष मेदान पर हम से मिलने को चला आता है, मो कौन है ? दाम ने कहा, वह ता मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूँसट लेकर अपने मुँह का ढाप लिया। ६६ और दाम ने इसहाक से अपना साग वृत्तान्त वर्गन किया। ६७ तब इसहाक रिबका को अपनी माता साग के तम्बू म ले आया, और उसको व्याहकर उम से प्रेम किया : और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात् † शान्ति हुई ॥

(इब्राहीम के उत्तरपरिच और
मृत्यु का वर्णन)

२५ तब इब्राहीम ने एक और पत्नी
व्याह ली जिमका नाम कतूरा
था। २ और उस से जिम्नान, योक्षान,

* मूल में—फाटक।

† मूल में—अपनी माता के पीछे।

मदना, मिद्यान, यिगवाक, और शूह उत्पन्न हुए। ३ और योक्षान से शबा और ददान उत्पन्न हुए। और ददान के वंश मे अश्शूरी, लतूशी, और लुम्मी लोंग हुए। ४ और मिद्यान के पुत्र एपा, एपेग, हनोक, अबीदा, और एल्दा हुए, ये सब कतूरा के सन्तान हुए। ५ इसहाक को तो इब्राहीम ने अपना सब कुछ दिया। ६ पर अपनी र्खैलियो के पुत्रो को, कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पाम से पूरब देश मे भेज दिया। ७ इब्राहीम की मारी अबस्था एक मो पचहत्तर वर्ष की हुई। ८ और इब्राहीम को दीर्घायु हान के कारण अर्थात् पूर व्हापे की अबस्था म प्राण छूट गया। और वह अपने लोगो म जा मिला। ९ और उसके पुत्र इसहाक और इसमाएल न हिन्ती मोहर के पुत्र एप्रान की मझे के सम्भववाली भूमि म, जो मकपेला की गफा थी, उम म उसको मिट्टी दी; १० अर्थात् जो भूमि इब्राहीम ने हित्तियो से माल ली थी उमी म इब्राहीम, और उम की पत्नी मारा दांतो को मिट्टी दी गई। ११ इब्राहीम के मरने के पश्चात् परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहैरोई नाम कुए के पाम रहता था आशीष दी ॥

(इसहाक को वंशावली)

१२ इब्राहीम का पुत्र इसमाएल जो मारा की लांडी हाजिरा मिस्री से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। १३ इसमाएल के पुत्रो के नाम और वंशावली यह है : अर्थात् इसमाएल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अद्बेल, मिबसाम, १४ मिश्मा, दूसा, मस्सा, १५ हदर, तेमा, यतूर, नापीश, और केदमा। १६ इसमाएल के पुत्र ये ही हुए, और इन्ही के नामों

के अनुसार इनके गावों, और छावनियों के नाम भी पड़े; और ये ही बारह अपने अपने कुल के प्रधान * हुए। १७ इस्राएल की सारी अवस्था एक सौ सेतीस वर्ष की हुई: तब उसके प्राण छूट गए, और वह अपने लोगों में जा मिला। १८ और उसके वंश हवीला से शुरू तक, जो मिस्र के मम्मुख अशशूर के मार्ग में है, बस गए। और उनका भाग उनके सब भाईबन्धुओं के मम्मुख पडा।

(इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन)

१६ इब्राहीम के पुत्र इसहाक की वंशवली यह है इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ। २० और इसहाक ने चालीस वर्ष का होकर रिबका को, जो पद्मराम † के वासी, अरामी बतूएल की बेटी, और अरामी लावान की बहिन थी, ब्याह लिया। २१ इसहाक की पत्नी तो बाभू थी, सो उस ने उसके निमित्त यहोवा से बिनती की। और यहोवा ने उसकी बिनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। २२ और लडके उसके गर्भ में आपस में लिपटके एक दूसरे को मारने लगे। तब उस ने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्योंकर जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई।

२३ तब यहोवा ने उस से कहा,
तेरे गर्भ में दो जातियाँ हैं,
और तेरी कोख से निकलते ही दो
राज्य के लोग अलग अलग होंगे,
और एक राज्य के लोग दूसरे से
अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा
बेटा छोटे के अधीन होगा।

* मूल में—अनुसार।

† अर्थात् अराम का मैदान।

२४ जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया, तब क्या प्रगट हुआ, कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। २५ और पहिला जो उत्पन्न हुआ सो लाल निकला, और उसका माग शरीर कम्बल के समान रोममय था, सो उसका नाम एसाव * रखा गया। २६ पीछे उसका भाई अपने हाथ में एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब † रखा गया। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक साठ वर्ष का था। २७ फिर वे लडके बढ़ने लगे और एसाव तो वनवामी होकर चतुर शिकार खेलनेवाला हो गया, पर याकूब मीधा मनुष्य था, और तम्बुओं में रहा करता था। २८ और इसहाक तो एसाव के अहेर का मास खाया करता था, इसलिये वह उस से प्रीति रखता था: पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी॥

२९ याकूब भोजन के लिये कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। ३० तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम ‡ भी पडा। ३१ याकूब ने कहा, अपना पहिलौटे का अधिकार आज मेरे हाथ बँच दे। ३२ एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ सो पहिलौटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? ३३ याकूब ने कहा, मुझ से अभी शपथ खा। सो उस ने उस से शपथ खाई: और अपना पहिलौटे का अधिकार याकूब

* अर्थात् रोमर।

† अर्थात् अशशूर मारनेवाला।

‡ अर्थात् लाल।

के हाथ ब्रेच डाला। ३४ इस पर याकूब ने एसाव का रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उस ने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यों एसाव ने अपना पहिलीटे का अधिकार तुच्छ जाना ॥

(इमहाक का वृत्तान्त)

२६ और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहिले अकाल में अलग था जा इब्राहीम के दिनों में पड़ा था। मा इमहाक गरगर को पलिश्तियों के राजा अबीमेलक के पास गया। २ वहा यहाया ने उमका दर्शन देकर कहा, मित्र म मत जा, जो देश में तुझे बताऊ उसी म रह। ३ तू इसी देश म रह, और मैं तेरे सग रहगु। और तुझ आशीष दगा और य सब देश में तुझ को और तेरे वश को दगा, और जो शपथ मैं न तेर पिता इब्राहीम में खाई थी, उम में पूरी करुगा। ४ और मैं तेरे वश को आकाश के तारगग क समान करुगा। और मैं तेर वश को य सब देश दगा, और पृथ्वी की मारी जानिया तेरे वश के तारगग अपने को धन्य मानेगी। ५ क्याकि इब्राहीम ने मेरी मानी, और जो मैं ने उमें मौपा था उमका और मेरी आज्ञाओं विधिया, और व्यवस्था का पालन किया। ६ मा उमहाक गरगर में रह गया। ७ जब उम स्थान के लोगो ने उमकी पत्नी क विषय म पूछा तब उम ने यह सांचकर कि यदि मैं उमको अपनी पत्नी कहू, तो यहा के लोग रिबका के कारगग जो परम मुन्दरी हैं मुझ को मार डालेंगे, उत्तर दिया, वह तो मेरी वहिन है। ८ जब उमको वहा रहने बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिश्तिया के राजा अबीमेलक ने खिडकी

में से भाकके क्या देखा, कि इमहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ फ्रीडा कर रहा है। ९ तब अबीमेलक ने इमहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तू न क्योंकर उसको अपनी वहिन कहा? इमहाक ने उत्तर दिया, मैं ने सांचा था, कि ऐसा न हो कि उसके कारगग मेरी मृत्यु हो। १० अबीमेलक ने कहा, तू ने हम में यह क्या किया? ऐंसे ना प्रजा म मैं कोई तेरी पत्नी के साथ सहज में कुबर्म कर सकता, और तू हम को पाप में फसाना। ११ और अबीमेलक ने अपनी मारी प्रजा को आज्ञा दी, कि जो कोई उम पुरुष को वा उम स्त्री को छूगा, सो निश्चय मार डाला जाएगा। १२ फिर इमहाक ने उम देश में जोता बोया, और उमी वर्ष म सो गुगा फल पाया और यहावा ने उमका आशीष दी। १३ और वह बड़ा, और उमकी उन्नति होती चली गई, यहा तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। १४ जब उमके भड-बकरी, गाय-बैल, और बहून में दाम-दामिया हुई, तब पलिश्ती उम में डह करने लगे। १५ सो जितने कुओ को उमके पिता इब्राहीम के दामो ने इब्राहीम के जीते जी खोदा था उनको पलिश्तियों ने मिट्टी में भर दिया। १६ तब अबीमेलक ने इमहाक में कहा, हमारे पास में चला जा, क्योंकि तू हम में बहुत सभरथो हो गया है। १७ सो इमहाक वहा में चला गया, और गरगर के नाले में अपना तम्बू खड़ा करके वहा रहने लगा। १८ तब जो कुए उमके पिता इब्राहीम के दिनों में खोदे गए थे, और इब्राहीम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इमहाक ने फिर से खुदाया और उनके वे ही

नाम रखे, जो उसके पिता ने रखे थे। १९ फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदने खोदने बहने जल का एक मोता मिला। २० तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से भगडा किया, और कहा, कि यह जल हमारा है। सो उस ने उस कुए का नाम एमेक * रखा, इसलिये कि वे उम से भगडे थे। २१ फिर उन्हो ने दूसरा कुआ खोदा, और उन्हो ने उसके लिये भी भगडा किया, सो उस ने उसका नाम मित्रा † रखा। २२ तब उम ने वहा से कूच करके एक और कुआ खुदवाया। और उसके लिये उन्हो ने भगडा न किया। सो उम ने उसका नाम यह कहकर रहोब्रोन ‡ रखा, कि अब तो यहोवा ने हमारे लिये बहुत स्थान दिया है, और हम इस देश में फूले-फलेंगे। २३ वहा से वह बेशोबा को गया। २४ और उमी दिन यहोवा ने रात को उमे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहीम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और अपने दास इब्राहीम के कारण तुझे आशीष दूंगा, और तेरा वंश बढाऊंगा। २५ तब उम ने वहा एक वेदी बनाई, और यहोवा से प्रार्थना की, और अपना तम्बू वही खडा किया, और वहा इसहाक के दासों ने एक कुआ खोदा। २६ तब अबीमेलेक अपने मित्र अहुज्जत, और अपने सेनापति पीकोल को सग लेकर, गरार से उसके पास गया। २७ इसहाक ने उन से कहा, तुम ने मुझ से बँर करके अपने बीच में निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? २८ उन्हो ने कहा, हम ने तो प्रत्यक्ष देखा

* अर्थात् भगडा।

† अर्थात् विरोध।

‡ अर्थात् चौड़ा स्थान।

है, कि यहोवा तेरे साथ रहता है : सो हम ने सोचा, कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए, और हम तुझ से इस विषय की वाचा बन्धाए, २९ कि जैसे हम ने तुझे नहीं छूँया, वरन तेरे साथ निरी भलाई की है, और तुझ को कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हम में कोई वुगई न करेगा। ३० तब उम ने उनकी जेवनाग की, और उन्हो ने खाया पिया। ३१ विहान को उन मभो ने तडके उठकर आपस में शपथ खाई, तब इसहाक ने उनको विदा किया, और वे कुशल क्षेम में उसके पास से चले गए। ३२ उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उम खोदे हुए कुए का वृत्तान्त मुना के कहा, कि हम का जल का एक मोता मिला है। ३३ तब उम ने उसका नाम शिबा * रखा इसी कारण उम नगर का नाम आज लो बेगोबा † पडा है।

३४ जब एसाव चालीस वर्ष का हुआ, तब उम ने हिती बेरी की बेटी यहूदीत, और हिती एलोन की बेटी वाशमत को ब्याह लिया। ३५ और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ।

(याकूब और एसाव को आशीर्वाद मिलाने का वंशज)

२७ जब इसहाक बूढा हो गया, और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड गई, कि उसको सूझता न था, तब उम ने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र, उम ने कहा, क्या

* अर्थात् शपथ।

† अर्थात् किरिया का कुआ।

आज्ञा । २ उम ने कहा, मुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा । ३ सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा, और मेरे लिये हिरन का अहेर कर ले आ । ४ तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भग के आशीर्वाद दूँ । ५ तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया । जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी । ६ सो उस ने अपने पुत्र याकूब से कहा मुन, मैं ने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना, ७ कि तू मेरे लिये अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहिले आशीर्वाद दूँ । ८ सो अब, हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और यह आज्ञा मान, ९ कि बकगियों के पास जाकर बकगियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिये उसकी रुचि के अनुसार उन के मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊँगी । १० तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने से पहिले तुझे को आशीर्वाद दे । ११ याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, मुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है, और मैं रोमहीन पुरुष हूँ । १२ कदाचित् मेरा पिता मुझे टटोलने लगे, तो मैं उसकी दृष्टि में थग ठहरूँगा, और आशीष के बदले शाप ही कमाऊँगा । १३ उसकी माता ने उस से कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं * मुझी पर पड़े, तू केवल

मेरी सुन, और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ । १४ तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया, और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया । १५ तब रिबका ने अपने पहिलीठे पुत्र एसाव के सुन्दर वस्त्र, जो उसके पास घर में थे, लेकर अपने लहुरे पुत्र याकूब को पहिना दिए । १६ और बकगियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया । १७ और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी । १८ सो वह अपने पिता के पास गया, और कहा, हे मेरे पिता उस ने कहा क्या बात है * ? हे मेरे पुत्र, तू कौन है ? १९ याकूब ने अपने पिता से कहा मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ । मैं ने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे । २० इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया ? उस ने यह उत्तर दिया, कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उमको मेरे साम्हने कर दिया । २१ फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोलकर जानूँ, कि तू मचमुच मेरा पुत्र एसाव है वा नहीं । २२ तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया, और उस ने उसको टटोलकर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं । २३ और उम ने उसको नहीं चीन्हा, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई

* मूल में—तेरा शाप ।

* मूल में—मुझे देख ।

के से रोआर थें। सो उस ने उसको आशीर्वाद दिया। २४ और उस ने पूछा, क्या तू मन्त्रमुच मेरा पुत्र एसाव है? उम ने कहा, हाँ मैं हूँ। २५ तब उस ने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं, अपने पुत्र के अहेर के माम मे से खाकर, तुम्हें जी से आशीर्वाद दूँ। तब वह उमको उमके निकट ले आया, और उस ने खाया, और वह उमके पाम दाखमधु भी लाया, और उस ने पिया। २६ तब उसके पिता इसहाक ने उम से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। २७ उस ने निकट जाकर उमको चूमा। और उस ने उसके वस्त्रों का सुगन्ध पाकर उसको वह आशीर्वाद दिया, कि

देख, मेरे पुत्र का सुगन्ध जो
ऐसे खन का सा है जिस पर यहोवा
ने आशीष दी हैं।

२८ सो परमेश्वर तुम्हें आकाश में ओम,
और भूमि की उत्तम में उत्तम
उपज,

और बहुत सा अनाज और नया
दाखमधु दे।

२९ राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हों,
और देश देश के लोग तुम्हें दण्डवत्
करें।

तू अपने भाइयों का स्वामी हों,
और तेरी माता के पुत्र तुम्हें
दण्डवत् करें

जो तुम्हें शाप दे सो आप ही
स्वापित हों,

और जो तुम्हें आशीर्वाद दे सो
आशीष पाएँ॥

३० यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को
दे ही चुका, और याकूब अपने पिता
इसहाक के साम्हने से निकला ही था, कि

एसाव अहेर लेकर आ पहुँचा। ३१ तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पाम ले आया, और उस से कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का माम खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। ३२ उमके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उस ने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। ३३ तब इसहाक ने अत्यन्त थरथर कापते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पाम ले आया था, और मैं ने तेरे आने से पहिले सब में मे कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया? वरन उमको आशीष लगी भी रहेगी। ३४ अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यन्त ऊँचे और दुःख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझ को भी आशीर्वाद दे। ३५ उस ने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया, और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। ३६ उम ने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उस ने मुझे दो बार अडङ्गा मारा, मेरा पहिलौठे का अधिकार तो उम ने ले ही लिया था: और अब देख, उस ने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है: फिर उम ने कहा, क्या तू ने मेरे लिये भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? ३७ इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैं ने उसको तेरा स्वामी ठहराया, और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है: सो अब, हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिये क्या करूँ? ३८ एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझ को भी आशीर्वाद दे: यों कहकर एसाव फूट

फूटके रोया। ३६ उसके पिता इमहाक ने उस से कहा,

मुन, तेरा निवाम उपजाऊ भूमि पर हो,

और ऊपर मे आकाश की ओग उस पर पड़े ॥

४० और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे,

और अपने भाई के अधीन तो होए ,

पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा, तब उसके जूए को अपने कप्रे * पर से तोड़ फेके ।

४१ एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण वैर रखा, सो उस ने सोचा, कि मेरे पिता के अन्तकाल † का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। ४२ जब रिबका को अपने पहिलीठे पुत्र एसाव की ये बाने बताई गईं, तब उस ने अपने लहुरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, मुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिये अपने मन को धीरज दे रहा है। ४३ सो अब, हे मेरे पुत्र, मगे मुन, और हारान को मेरे भाई लावान के पाम भाग जा, ४४ और थोडे दिन तक, अर्थात् जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। ४५ फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे, और जो काम तू ने उस से किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहा से बलवा भेजूंगी : ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े ?

* मूल में—अपनी गर्दन।

† मूल में—शोक।

४६ फिर रिबका ने इमहाक से कहा, हिन्ती लडकियों के कारण मैं अपने प्राण से धिन करती हू, सो यदि ऐसी हिन्ती लडकियों में से, जैसी इस देश की लडकिया हैं, याकूब भी एक को कही ब्याह ले, तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा ?

२८

तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया, और आज्ञा दी, कि तू किसी कनानी लडकी को न ब्याह लेना। २ पद्दनराम में अपने नाना बतूगल के घर जाकर वहा अपने मामा लावान को एक बेटे को ब्याह लेना। ३ और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे, और फुला-फुलाकर बढ़ाए और तू राज्य राज्य की मराडली का सुख ही। ४ और वह तुझे और तेरे वश को भी इब्राहीम की गी आशीष दे, कि तू यह देश जिम में तू परदेशी हाकर रहता है, और जिसे परमेश्वर न इब्राहीम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। ५ और इमहाक ने याकूब को विदा किया, और वह पद्दनराम को अग्रामी बतूगल के उम पुत्र लावान के पाम चला जा याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। ६ जब इमहाक ने याकूब का आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया, कि वह वही में पत्नी ब्याह लागे, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी, कि तू किसी कनानी लडकी को ब्याह न लेना, ७ और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया, ८ तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर, कि कनानी लडकिया मेरे पिता इमहाक को बुरी लगती हैं, ९ इब्राहीम के पुत्र इस्माएल के पाम गया, और इस्माएल की बेटे महलत

को, जो नवायोत की बहिन थी व्याहकर अपनी पतिनयो मे मिला लिया ॥

(याकूब के परदेश जाने का वर्णन)

१० सो याकूब ब्रेशवा मे निकलकर हागन की ओर चला । ११ और उस ने किमी स्थान मे पहुचकर रात वही ब्रिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, सो उस ने उस स्थान के पत्थरो मे मे एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उमी स्थान मे सो गया । १२ तब उस ने स्वप्न मे क्या देखा, कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खडी है, और उसका सिंग स्वर्ग तक पहुचा है और परमेश्वर के दूत उस पर मे चढ़ते उतरने है । १३ और यहांवा उसके ऊपर खडा होकर कहता है, कि मे यहांवा तेरे दादा इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का भी परमेश्वर है जिम भूमि पर तू पडा है, उसे मे तुभ को और तेरे वश को दूगा । १४ और तेरा वश भूमि की धूल के किनको के समान बहुत होगा, और पच्छिम, पूरब, उत्तर, दक्खिन चारो ओर फैलता जाएगा और तेरे और तेरे वश के द्वारा पृथ्वी के मारे कुल आशीष पाएगे । १५ और मुन, मे तेरे मग रहूगा, और जहा कही तू जाए वहा तेरी रक्षा करूगा, और तुभे इस देश मे लौटा ले आऊगा मे अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लू तब तक तुभ को न छोडूगा । १६ अब याकूब जाग उठा, और कहने लगा, निश्चय इस स्थान मे यहोवा है, और मे इस बात को न जानता था । १७ और भय खाकर उस ने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है ! यह तो परमेश्वर के भवन को छोड और कुछ नही हो सकता ;

वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा । १८ भोर को याकूब तडके उठा, और अपन तकिया का पत्थर लेकर उसका खम्भा खडा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया । १९ और उस ने उस स्थान का नाम बेतेल * रखा, पर उस नगर का नाम पहिले लूज था । २० और याकूब ने यह मन्त्र मानी, कि यदि परमेश्वर मेरे मग रहकर इस यात्रा मे मेरी रक्षा करे, और मुभे खाने के लिये रोटी, और पहिनने के लिये कपडा दे, २१ और मे अपने पिता क घर मे कुशल क्षम से लौट आऊ ता यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा । २२ और यह पत्थर, जिसका मे न खम्भा खडा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुभे दे उसका दशमांश मे अवश्य ही तुभे दिया करूगा ॥

(याकूब के विवाहों और उसके पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन)

२६ फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया, और पूर्वियों के देश मे आया । २ और उस ने दृष्टि करके क्या देखा, कि मैदान मे एक कुआ है, और उसके पास भेड-बकरियों के तीन भुण्ड बैठे हुए है, क्योंकि जो पत्थर उस कुए के मुह पर धरा रहता था, जिम मे मे भुण्डो को जल पिलाया जाता था वह भारी था । ३ और जब सब भुण्ड वहा इकट्ठे हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुए के मुह पर से लुटकाकर भेड-बकरियों को पानी पिलाने, और फिर पत्थर को कुए के मुह पर ज्यो का त्यो रख देने थे । ४ सो याकूब ने चरवाहो से पूछा, हे मेरे भाइयो,

* अर्थात् ईश्वर का भवन ।

तुम कहा के हो? उन्हो ने कहा, हम हागन के है। ५ तब उम ने उन मे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लावान को जानते हो? उन्हो ने कहा, हा, हम उमे जानते है। ६ फिर उस ने उन से पूछा, क्या वह कुगल मे है? उन्हो ने कहा, हा, कुगल स तो है और वह देख, उमकी बेटी राहेल भेड-बकगियो को लिये हुए चली आती है। ७ उस ने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं सो भेड-बकगियो को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। ८ उन्हो ने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकने, जब सब भुगाड इकट्ठे होते है तब पत्थर कुए के मुह पर से लुढकाया जाता है, और तब हम भेड-बकगियो को पानी पिलाते है। ९ उनकी यह बातचीत हो ही गयी थी, कि राहेल जो पशु चराया करती थी, सो अपने पिता की भेड-बकगियो को लिये हुए आ गई। १० अपने मामा लावान की बेटी राहेल को, और उसकी भेड-बकगियो को भी देखकर याकूब ने निकट जाकर कुए के मुह पर से पत्थर को लुढकाकर अपने मामा लावान की भेड-बकगियो को पानी पिलाया। ११ तब याकूब ने राहेल को चूमा, और ऊबे स्वर मे रोया। १२ और याकूब ने राहेल को बता दिया, कि मे तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात् रिबका का पुत्र हूँ तब उस ने दौड के अपने पिता से कह दिया। १३ अपने भानजे याकूब का समाचार पाते ही लावान उस मे भेट करने को दौडा, और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने लावान से अपना सब वृत्तान्त बर्णन किया। १४ तब लावान ने याकूब से कहा, तू

तो सचमुच मेरी हठी और माम है। सो याकूब एक महीना भर उमके साथ रहा। १५ तब लावान ने याकूब से कहा, भाईबन्धु होने के कारण तुझ मे संतमंत सेवा कराना मुझे उचित नहीं है, सो कह मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूँ? १६ लावान के दो बेटिया थी, जिन म मे बडी का नाम लिआ, और छोटी का राहेल था। १७ लिआ के तो धुन्धनी आवे थी, पर राहेल रूपवती और सुन्दर थी। १८ सो याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिये सात बरस तेरी सेवा करूंगा। १९ लावान ने कहा, उमे पगार पुरुष को देने से तुझ को देना उत्तम होगा, सो मेरे पास रह। २० सो याकूब ने राहेल के लिये सात बरस सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोडे ही दिनों के बराबर जान पडे। २१ तब याकूब ने लावान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे, और मैं उमके पाम जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। २२ सो लावान ने उम स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया, और उनकी जेवनार की। २३ साभ के समय वह अपनी बेटी लिआ को याकूब के पास ले गया और वह उसके पाम गया। २४ और लावान ने अपनी बेटी लिआ को उमकी लौडी होने के लिये अपनी लौडी जिल्पा दी। २५ भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिआ है, सो उस ने लावान से कहा, यह तू ने मुझ से क्या किया है? मे ने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या राहेल के लिये नहीं की? फिर तू ने मुझ से क्यों ऐसा छल किया है? २६ लावान ने कहा, हमारे यहा ऐसी

रीति नहीं, कि जेठों में पहिले दूसरी का विवाह कर दें। २७ उसका मप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुम्हें उस सेवा के लिये मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और मात वर्ष तक करेगा। २८ सो याकूब ने ऐसा ही किया, और लिआ के मप्ताह को पूरा किया, तब लावान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया कि वह उसकी पत्नी हो। २९ और लावान ने अपनी बेटी राहेल की लौड़ी होने के लिये अपनी लौड़ी बिल्हा को दिया। ३० तब याकूब राहेल के पास भी गया, और उसकी प्रीति लिआ से अधिक उसी पर हुई, और उस ने लावान के साथ रहकर मात वर्ष और उसकी सेवा की ॥

३१ जब यहोवा ने देखा, कि लिआ अप्रिय हुई, तब उस ने उसकी कोख खोली, पर राहेल बाध रही। ३२ सो लिआ गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस ने यह कहकर उसका नाम रूबेन * रखा, कि यहोवा ने मेरे दुःख पर दृष्टि की है सो अब मेरा पति मुझ से प्रीति रखेगा। ३३ फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उस ने यह कहा कि यह सुनके, कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया। इसलिये उस ने उसका नाम शिमोन † रखा। ३४ फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस ने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझ से मिल जाएगा, क्योंकि उस से मेरे तीन पुत्र उत्पन्न हुए इसलिये उसका नाम लेवी ‡ रखा गया। ३५ और फिर वह

गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस ने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगी, इसलिये उस ने उसका नाम यहूदा * रखा; तब उसकी कोख बन्द हो गई ॥

३० जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिये मरु से कोई सन्तान नहीं होता, तब वह अपनी बहिन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी सन्तान दे, नहीं तो मर जाऊँगी। २ तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर ? तेरी कोख तो उसी ने बन्द कर रखी है। ३ राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी लौड़ी बिल्हा हाजिर है उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी, और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। ४ तो उस ने उसे अपनी लौड़ी बिल्हा को दिया, कि वह उसकी पत्नी हो; और याकूब उसके पास गया। ५ और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ६ और राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया इसलिये उस ने उसका नाम दान † रखा। ७ और राहेल की लौड़ी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। ८ तब राहेल ने कहा, मैं ने अपनी बहिन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई: सो उस ने उसका नाम नप्ताली ‡ रखा। ९ जब लिआ ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उस ने

* अर्थात् देखो बेटा।

† अर्थात् सुन लेना।

‡ अर्थात् जुटना।

* अर्थात् जिसका धन्यवाद हुआ हो।

† अर्थात् न्यायी।

‡ अर्थात् मेरा मल्लयुद्ध।

अपनी लौडी जिल्पा को लवर याकूब की पत्नी हाने के लिये दे दिया। १० और लिआ की लौडी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ११ तब लिआ ने कहा, अहा भाग्य ! मो उम ने उमका नाम गाद * रखा। १२ फिर लिआ की लौडी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। १३ तब लिआ ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय मित्रिया † मुझे धन्य कहेगी। मो उम ने उमका नाम आशर ‡ रखा। १४ गेहूँ की कटनी के दिनों में खेतेन को मैदान में दूदाफल मिले, और वह उनका अपनी माता लिआ के पास ले गया, तब गहेल ने लिआ से कहा, अपने पुत्र के दूदाफलों में से कुछ मुझे दे। १५ उम ने उम से कहा, तू ने जो मेरे पति को ले लिया है मैं क्या छोटी बात है ? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूदाफल भी लेने चाहती है ? गहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूदाफलों के बदले वह आज रात को तेरे सग सोएगा। १६ सो माऊ को जब याकूब मैदान में आ रहा था, तब लिआ उम से भेट करने को निकली, और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैं ने अपने पुत्र के दूदाफल देकर तुझे मन्मन्च मोल लिया। तब वह उम रात को उमी के सग सोया। १७ तब परमेश्वर ने लिआ की सुनी, सो वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके पाचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। १८ तब लिआ ने कहा, मैं ने जो अपने पति को अपनी लौडी दी, इसलिये परमेश्वर ने मुझे मेरी मजूरी दी है : सो उम ने उमका नाम इस्माकार § रखा। १९ और

लिआ फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके छठवा पुत्र उत्पन्न हुआ। २० तब लिआ ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे सग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उम से छ पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। मो उम ने उमका नाम जबूलू * रखा। २१ तत्पश्चात् उमके एक बेटे भी हुई, और उम ने उसका नाम दीना रखा। २२ और परमेश्वर ने गहेल की भी सुधि ली, और उसकी सुनकर उसकी कोख खाली। २३ सो वह गर्भवती हुई और उमके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सो उम ने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधरई को दूर कर दिया है। २४ सो उम ने यह कहकर उमका नाम यूसुफ † रखा, कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा ॥

२५ जब गहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लावान से कहा, मुझे विदा कर, कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊँ। २६ मेरी मित्रिया और मेरे लडके-बाले, जिनके लिये मैं ने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे, कि मैं चला जाऊँ, तू तो जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की है। २७ लावान ने उम से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैं ने अनुग्रह पाया है, तो रह जा, क्योंकि मैं ने अनुभव से जान लिया है, कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। २८ फिर उस ने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझे को क्या दूँ, और मैं उसे दूँगा। २९ उस ने उम से कहा तू जानता है कि मैं ने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। ३० मेरे

* अर्थात् मीभाग्य।

† मूल में—बेटिया। ‡ अर्थात् धन्य।

§ अर्थात् मजूरी में मिला।

* अर्थात् निवाम।

† अर्थात् वह दूर करता है ! वा वह और भी देगा।

आने से पहिले वे कितने थे, और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुम्हें तो आशीष दी है पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा ? ३१ उस ने फिर कहा, मैं तुम्हें क्या दूँ ? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिये एक काम करे, तो मैं फिर तेरी भेड-बकगियों को चराऊंगा, और उनकी रक्षा करूँगा। ३२ मैं आज तेरी सब भेड-बकगियों के बीच होकर निकनूँगा, और जो भेड वा बकरी चित्तीवाली वा चित्कबरी हो, और जो भेड काली हो, और जो बकरी चित्कबरी वा चित्तीवाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूँगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। ३३ और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे साम्हने चले, तब धर्म की यही माक्षी होगी, अर्थात् बकगियों में से जो कोई न चित्तीवाली न चित्कबरी हो, और भेडों में से जो कोई काली न हो, सो यदि मेरे पास निकले, तो चोरी की ठहरेंगी। ३४ तब लावान ने कहा, तेरे कहने के अनुमार हो। ३५ सो उस ने उसी दिन सब धारीवाले और चित्कबरे बकरो, और सब चित्तीवाली और चित्कबरी बकगियों को, अर्थात् जिन में कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेडों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। ३६ और उस ने अपने और याकूब के बीच में तीन दिन के मार्ग का अन्तर ठहराया : सो याकूब लावान की भेड-बकगियों को चराने लगा। ३७ और याकूब ने चनार, और बादाम, और अमोन वृक्षों की हरी हरी छड़िया लेंकर, उनके छिलके कहीं कहीं छीलके, उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों को सफेदी

दिखाई देने लगी। ३८ और तब छीली हुई छड़ियों को भेड-बकगियों के साम्हने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिये आईं तब गाभिन हो गईं। ३९ और छड़ियों के साम्हने गाभिन होकर, भेड-बकगिया धारीवाले, चित्तीवाले और चित्कबरे बच्चे जनी। ४० तब याकूब ने भेडों के बच्चों को अलग अलग किया, और लावान की भेड-बकगियों के मुँह को चित्तीवाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने भगदों को उन में अलग रखा, और लावान की भेड-बकगियों से मिलने न दिया। ४१ और जब जब बलवन्त भेड-बकगिया गाभिन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके साम्हने रख देता था, जिम से वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। ४२ पर जब निर्बल भेड-बकगिया गाभिन होती थी, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इम में निर्बल निर्बल लावान की रही, और बलवन्त बलवन्त याकूब की हो गईं। ४३ सो वह पुरुष अत्यन्त धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सौ भेड-बकगिया, और लौटिया और दाम, और ऊट और गदहे हो गए ॥

(याकूब के घर जाने का वर्षाव)

३१ फिर लावान के पुत्रों की ये बाने याकूब के सुनने में आईं, कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। २ और याकूब ने लावान के मुखडे पर दृष्टि की और ताड लिया, कि वह उसके प्रति पहिले के समान नहीं है। ३ तब यहोवा ने

याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे सग रहूँगा। ४ तब याकूब ने राहेल और लिआ को, मैदान में अपनी भेड़-बकरियों के पास, बुलवाकर कहा ५ तुम्हारे पिता के मुखड़े में मुझे समझ पड़ता है, कि वह तो मुझे पहिले की नाई अब नही देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे सग है। ६ और तुम भी जानती हो, कि मैं ने तुम्हारे पिता की सेवा क्विंत भर की है। ७ और तुम्हारे पिता ने मुझ से छल करके मेरी मजदूरी को दस बार बदल दिया, परन्तु परमेश्वर ने उमको मेरी हानि करने नही दिया। ८ जब उमू ने कहा, कि चित्तीवाल बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़-बकरीया चित्तीवाले ही जनने लगी, और जब उम ने कहा, कि धारीवाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़-बकरीया धारीवाल जनने लगी। ९ इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझ को दे दिए। १० भेड़-बकरीयो के गाभिन होने के समय मैं ने स्वप्न में क्या देखा, कि जा बकरे बकरीयो पर चढ़ रहे हैं, सो धारीवाले, चित्तीवाले, और धब्बेवाले हैं। ११ और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझ से कहा, हे याकूब मैं ने कहा, क्या आज्ञा *। १२ उम ने कहा, आवे उठाकर उन सब बकरो को, जो बकरीयो पर चढ़ रहे हैं, देख, कि वे धारीवाले, चित्तीवाले, और धब्बेवाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझ से करता है, सो मैं ने देखा है। १३ मैं उम बेतेल का ईश्वर हूँ, जहा तू ने एक खम्भे पर तेल डाल दिया, और मेरी

* मूल में—मुझे देख।

मन्नन मानी थी अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। १४ तब राहेल और लिआ ने उम से कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग वा अन्न बचा है? १५ क्या हम उमकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उम ने हम को तो बेच डाला, और हमारे रूपे को खा बैठा है। १६ सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है, सो हमारा, और हमारे लडकेबालों का है, अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है, सो कर। १७ तब याकूब ने अपने लडके-बालों और स्त्रियों का ऊटो पर चढाया, १८ और जितने पशुओं को वह पद्दनगम में इकट्ठा करके घनाढ्य हो गया था, सब को कनान में अपने पिता इसहाव के पास जाने की मनमा से, साथ ले गया। १९ लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिये चला गया था। और राहेल अपने पिता के गृहदेवताओं को चुग ले गई। २० सो याकूब लाबान अग्रामी के पास से चोरी से चला गया, उमको न बताया कि मैं भागा जाता हूँ। २१ वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुह गिलाद के पहाडी देश की ओर किया।।

२२ तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला, कि याकूब भाग गया है। २३ सो उस ने अपने भाइयो को साथ लेकर उसका मात दिन तक पीछा किया, और गिलाद के पहाडी देश में उसको जा पकडा। २४ तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अग्रामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। २५ और लाबान याकूब के पास पहुच गया, याकूब तो अपना

तम्बू गिलाद नाम पहाडी देश में खडा किए पडा था और लाबान ने भी अपने भाइयो के साथ अपना तम्बू उसी पहाडी देश में खडा किया। २६ तब लाबान याकूब से कहने लगा, तू ने यह क्या किया, कि मेरे पास से चोरी से चला आया, और मेरी बेटियो को ऐसा ले आया, जैसा कोई तलवार के बल से बन्दी बनाए गए? २७ तू क्यों चुपके से भाग आया, और मुझ से बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया, नहीं तो मैं तुम्हें आनन्द के साथ मृदग और वीणा बजवाने, और गीत गवाते विदा करता? २८ तू ने तो मुझे अपने बेटे बेटियो को चूमने तक न दिया? तू ने मूर्खता की है। २९ तुम लोगो की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझ से बीती हुई रात में कहा, मावधान रह, याकूब मे न तो भला कहना और न बुरा। ३० भला, अब तू अपने पिता के घर का बडा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुग ले आया है? ३१ याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह मोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियो को मुझ से छीन न ले। ३२ जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए, सो जीता न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले, सो भाई-बन्धुओं के साम्हने पहिचानकर ले ले। क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृहदेवताओं को चुग ले आई है। ३३ यह सुनकर लाबान, याकूब और लिआ और दोनो दामियो के तम्बूओं में गया, और कुछ न मिला। तब लिआ के तम्बू में से निकलकर राहेल

के तम्बू में गया। ३४ राहेल तो गृह-देवताओं को ऊट की काठी में रखके उन पर बैठी थी। सो लाबान ने उसके सारे तम्बू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। ३५ राहेल ने अपने पिता में कहा, हे मेरे प्रभु, इस से अप्रसन्न न हो, कि मैं तेरे साम्हने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्रीधर्म से हू। सो उसके दूढ़ ढाढ़ करने पर भी गृह-देवता उसको न मिले। ३६ तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से भगडने लगा, और कहा, मेरा क्या अपराध है? मेरा क्या पाप है, कि तू ने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? ३७ तू ने जो मेरी मारी मामश्री को टटोलकर देखा, सो तुझ को अपने घर की सारी सामश्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहा अपने और मेरे भाइयो के साम्हने रख दे, और वे हम दोनो के बीच न्याय करे। ३८ इन बीस वर्षों में मैं तेरे पास रहा, इन में न तो तेरी भड-बकरियों के गर्भ गिरे, और न तेरे मेढो का मास मैं ने कभी खाया। ३९ जिसे वनैले जन्तुओं ने फाड डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको ले लेता था। ४० मेरी तो यह दशा थी, कि दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नीन्द मेरी आखो से भाग जाती थी। ४१ बीस वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, चौदह वर्ष तो मैं ने तेरी दोनो बेटियो के लिये, और छ वर्ष तेरी भेड-बकरियों के लिये सेवा की और तू ने मेरी मजदूरी को दस बार बदल डाला। ४२ मेरे पिता का परमेश्वर, अर्थात् इब्राहीम का परमेश्वर, जिसका

भय इसहाक भी मानना है, यदि मेरी और न होता, तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुःख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने वीथी हुई गत में तुझे दपटा। ४३ लावान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं, और ये पुत्र भी मेरे ही हैं, और ये भेड़-बकरिया भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देव पडता है सो सब मेरा ही है और अब मैं अपनी इन बेटियों वा इनके मन्तान में क्या कर सकता हूँ? ४४ अब आ मैं और तू दोनों आपस में वाचा बान्ध, और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी रहे। ४५ तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खम्भा खड़ा किया। ४६ तब याकूब ने अपने भाई-बन्धुओं में कहा, पत्थर डकट्टा करो, यह मुनकर उन्हीं ने पत्थर डकट्टा करके एक ढेर लगाया और वही ढेर के पास उन्हीं ने भोजन किया। ४७ उस ढेर का नाम लावान ने तो यज्ज मझादुथा,* पर याकूब ने जिलियाद † रखा। ४८ लावान ने कहा, कि यह ढेर आज मैं मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया, ४९ और मिजपा ‡ भी, क्योंकि उस ने कहा, कि जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहीवा मेरी और तेरी देवभाल करता रहे। ५० यदि तू मेरी बेटियों को दुःख दे, वा उनके सिवाय और स्त्रिया ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देव मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। ५१ फिर लावान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देव और इस खम्भे को

भी देव, जिनको मैं ने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ५२ यह ढेर और यह खम्भा दोनों इस बात के साक्षी रहे, कि हानि करने की मनमा में न तो मैं इस ढेर को लाघकर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खम्भे को लाघकर मेरे पास आएगा। ५३ इब्राहीम और नाहोर और उनके पिता, तीनों का जो परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। ५४ और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल-बलि चढाया, और अपने भाई-बन्धुओं को भोजन करने के लिये बुलाया, सो उन्हीं ने भोजन करके पहाड़ पर गत बिताई। ५५ बिहान को लावान तडके उठा, और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया, और अपने स्थान को लौट गया।

३२ और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। २ उनको देखने ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है सो उस ने उस स्थान का नाम महनैम * रखा ॥

(याकूब के एसाव से मिलने और उसके एसाव नाम रखे जाने का वर्णन)

३ तब याकूब ने सेईर देश में, अर्थात् एदोम देश में, अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। ४ और उस ने उन्हे यह आज्ञा दी, कि मेरे प्रभु एसाव से यो कहना; कि तेरा दास याकूब तुझ से यो कहता है, कि मैं लावान के यहा परदेशी होकर अब तक रहा, ५ और मेरे पास गाय-बैल, गदहे, भेड़-बकरिया, और दास-

* अर्थात् अरामी भाषा में, साक्षी का ढेर।

† अर्थात् इब्रानी भाषा में, साक्षी का ढेर।

‡ अर्थात् ताकने का स्थान।

* अर्थात् दो दल।

दासिया है: सो मैं ने अपने प्रभु के पास इसलिये सदेशा भेजा है, कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। ६ वे दूत याकूब के पास लौटके कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझ से भेंट करने को चार सौ पुरुष सग लिये हुए चला आता है। ७ तब याकूब निपट डर गया, और सकट में पड़ा: और यह सोचकर, अपने सगवाली के, और भेड-बकरियो, और गाय-बैली, और ऊंटों के भी अलग अलग दो दल कर लिये, ८ कि यदि एसाव आकर पहिले दल को मारने लगे, तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। ९ फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहीम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तू ने तो मुझ से कहा, कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा, और मैं तेरी भलाई करूंगा। १० तू ने जो जो काम अपनी करूणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे दो दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। ११ मेरी बिनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा: मैं तो उस से डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मा समेत लड़कों को भी मार डाले। १२ तू ने तो कहा है, कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, और तेरे वश को समुद्र की बालू के किनको के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। १३ और उस ने उस दिन की रात वही बिताई, और जो कुछ उसके पास था उस में से अपने भाई एसाव की भेंट के लिये छाट छांटकर निकाला, १४ अर्थात्

दो सौ बकरिया, और बीस बकरे, और दो सौ भेड़ें, और बीस भेड़े, १५ और बच्चों समेत दूध देनेवाली तीस ऊटनिया, और चालीस गायें, और दस बैल, और बीस गदहिया और उनके दस बच्चे। १६ इनको उस ने भुण्ड भुण्ड करके, अपने दासों को सौंपकर उन से कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ, और भुण्डों के बीच बीच में अन्न रखो। १७ फिर उस ने अगले भुण्ड के रखवाले को यह आज्ञा दी, कि जब मेरा भाई एसाव तुम्हें मिल, और पूछने लगे, कि तू किस का दास है, और कहा जाता है, और ये जा तेरे आगे आगे हैं, सो किस के हैं? १८ तब कहना, कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिये तेरे पाम भेजे गए हैं, और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। १९ और उम न दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सभी को जो भुण्डों के पीछे पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी, कि जब एसाव तुम को मिले तब इसी प्रकार उम में कहना। २० और यह भी कहना, कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। क्योंकि उस ने यह सोचा, कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शान्त करके तब उसका दर्शन करूंगा; हो सकता है वह मुझ से प्रसन्न हो जाए। २१ सो वह भेंट याकूब से पहिले पार उतर गई, और वह आप उस रात को छावनी में रहा ॥

२२ उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों, और दोनों लौएडियों, और ग्यारहों लड़कों को सग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। २३ और उस ने उन्हे उस नदी के पार उतार दिया

बरन अपना मब कुछ पार उतार दिया । २४ और याकूब आप अकेला रह गया ; तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक उस से मल्लयुद्ध करता रहा । २५ जब उस ने देखा, कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छूभा ; सो याकूब की जांघ की नस उस से मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई । २६ तब उस ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है ; याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा । २७ और उस ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है ? उस ने कहा याकूब । २८ उस ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परन्तु इस्राएल * होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है । २९ याकूब ने कहा, मैं बिनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता । उस ने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है ? तब उस ने उसको वही आशीर्वाद दिया । ३० तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल † रखा : कि परमेश्वर को आम्हने-साम्हन देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है । ३१ पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया, और वह जांघ से लगड़ाता था । ३२ इस्राएली जो पशुओं की जांघ की जोड़वाले जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है, कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ मे जंघानस को छूभा था ।।

३३ और याकूब ने आखें उठाकर यह देखा, कि एसाव चार सौ

* अर्थात् ईश्वर से युद्ध करनेवाला ।

† अर्थात् ईश्वर का मुख ।

पुरुष सग लिये हुए चला आता है । तब उस ने लड़केबालों को अलग अलग बाटकर लिया, और राहेल, और दोनों लौएडियों को सौंप दिया । २ और उस ने सब के आगे लड़को समेत लौएडियों को उसके पीछे लड़को समेत लिया : को, और सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रखा, ३ और आप उन सब के आगे बढ़ा, और सात बार भूमि पर गिरके दण्डवत् की, और अपने भाई के पास पहुंचा । ४ तब एसाव उस से भेट करने को दौड़ा, और उसको हृदय से लगाकर, गले से लिपटकर चूमा : फिर वे दोनों रो पड़े । ५ तब उस ने आखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालो को देखा ; और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं सो कौन है ? उस ने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझ को दिया है । ६ तब लड़को समेत लौएडियों ने निकट आकर दण्डवत् की । ७ फिर लड़को समेत लिया : निकट आई, और उन्हो ने भी दण्डवत् की : पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दण्डवत् की । ८ तब उस ने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझ को मिला, उसका क्या प्रयोजन है ? उस ने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो । ९ एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है ; जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे । १० याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तो मेरी भेंट ग्रहण कर : क्योंकि मैं ने तेरा दर्शन पाकर, मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझ से प्रसन्न हुआ है । ११ सो यह भेंट, जो तुझे भेजी गई है, ग्रहण कर : क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, और मेरे पास बहुत है ।

जब उम ने उसको दबाया, तब उस ने भेट को ग्रहण किया। १२ फिर एसाव ने कहा, आ, हम बढ चले : और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। १३ याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लडके, और दूध देनेहारी भेड-बकरिया और गायें हैं, यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाके जाएं तो सब के सब मर जाएंगे। १४ सो मेरा प्रभु अपने दाम के आगे बढ जाए, और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार, जो मेरे आगे हैं, और लडकेबालो की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर मे अपने प्रभु के पाम पहुँचा। १५ एसाव ने कहा, तो अपने मगवालों में मैं मैं कई एक तेरे साथ छोड जाऊ। उम ने कहा, यह क्यों ? इतना ही बहुत है, कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। १६ तब एसाव ने उमी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया। १७ और याकूब वहा से कूच करके सुक्कोत को गया, और वहा अपने लिये एक घर, और पशुओं के लिये भोपडे बनाए : इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत * पडा।

१८ और याकूब जो पद्मनराम से आया था, सो कनान देश के शकेम नगर के पाम कुशल क्षेम से पहुँचकर नगर के साम्हने डेरे खडे किए। १९ और भूमि के जिस खगड पर उस ने अपना तम्बू खडा किया, उसको उस ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से एक सौ कमीतो † में मोल लिया। २० और वहा उस ने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलेलोहे इस्त्राएल ‡ रखा।

* अर्थात् भोपडे।

† इनका मूल्य संदिग्ध है।

‡ अर्थात् ईश्वर इस्त्राएल का परमेश्वर।

(दीना के छठे किये जाने का बर्णन)

३४ और लिआ. की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लडकियो से भेट करने को निकली। २ तब उम देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उस देखा, और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। ३ तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया, और उम ने उस कन्या से प्रेम की बातें की, और उस से प्रेम करने लगा। ४ और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लडकी का मेरी पत्नी होने के लिये दिला दे। ५ और याकूब ने सुना, कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उम समय पशुओं के सग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। ६ और शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिये उसके पास गया। ७ और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए : क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्त्राएल के घराने में मूर्खता का ऐसा काम किया था, जिमका करना अनुचित था। ८ हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिये उसको दे दो। ९ और हमारे साथ व्याह किया करो; अपनी बेटिया हम को दिया करो, और हमारी बेटियों को आप लिया करो। १० और हमारे संग बसे रहो : और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है; इस में रहकर लेनदेन करो, और इसकी भूमि को अपने लिये ले लो। ११ और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से

कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो, तो जो कुछ तुम मुझ से कहो, सो मैं दूंगा। १२ तुम मुझ से कितना ही मूल्य वा बदला क्यों न मागो, तौभी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा : परन्तु उम कन्या को पत्नी होने के लिये मुझे दो। १३ तब यह सोचकर, कि शकेम ने हमारी बहिन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, १४ कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते, कि किसी खतनारहित पुरुष को अपनी बहिन दे; क्योंकि इस से हमारी नामधराई हांगी : १५ इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे, कि हमारी नाई तुम मैं से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। १६ तब हम अपनी बेटिया तुम्हें ब्याह देंगे, और तुम्हारी बेटिया ब्याह लेंगे, और तुम्हारे सग बसे भी रहेंगे, और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। १७ पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे, तो हम अपनी लड़की को लंके यहा से चले जाएंगे। १८ उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए। १९ और वह जवान, जो याकूब की बेटि को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उस ने विलम्ब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। २० सो हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यो समझाने लगे; २१ कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं; सो उन्हें इस देश में रहके लेनदेन करने दो, देखो, यह देश उनके लिये भी बहुत है; फिर हम लोग उनकी

बेटियों को ब्याह ले, और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करे। २२ वे लोग केवल इस बात पर हमारे सग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न हैं, कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। २३ क्या उनकी भेड़-बकरिया, और गाय-बैल बरन उनके सारे पशु और धन सम्पत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान लें, तो वे हमारे सग रहेंगे। २४ सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, उन सभी ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी; और हर एक पुरुष का खतना किया गया, जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। २५ तीसरे दिन, जब वे लोग पीड़ित पडे थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। २६ और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला, और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। २७ और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिये लूट लिया, कि उस में उनकी बहिन अशुद्ध की गई थी। २८ उन्होंने ने भेड़-बकरी, और गाय-बैल, और गदहे, और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। २९ उस सब को, और उनके बाल-बच्चों, और स्त्रियों को भी हर ले गए, बरन घर घर में जो कुछ था, उसको भी उन्होंने लूट लिया। ३० तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुम ने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के

मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है,* इस से तुम ने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं,† सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे, और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। ३१ उन्होने कहा, क्या वह हमारी बहिन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे ?

(चिन्यामीन की उत्पत्ति और राबेल की मृत्यु का वर्णन)

३५ तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहा से कूच करके बेटेल को जा, और वही रहः और वहा ईश्वर के लिये वेदी बना, जिस ने तुझे उस समय दर्शन दिया, जब तू अपने भाई एमाव के डर से भागा जाता था। २ तब याकूब ने अपने घराने से, और उन सब से भी जो उसके सग थे, कहा, तुम्हारे बीच में जो पराए देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको; और अपने अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो; ३ और आओ, हम यहा से कूच करके बेटेल को जाएं; वहा मैं ईश्वर के लिये एक वेदी बनाऊंगा, जिस ने सकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था, उस में मेरे संग रहा। ४ सो जितने पराए देवता उनके पास थे, और जितने कुएडल उनके कानों में थे, उन सभों को उन्होने याकूब को दिया; और उस ने उनको उस सिन्दूर वृक्ष के नीचे, जो शकेम के पास है, गाड़ दिया। ५ तब उन्हों ने कूच किया: और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर

की ओर से ऐसा भय समा गया, कि उन्होने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। ६ सो याकूब उन सब समेत, जो उसके सग थे, कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेटेल भी कहलाता है। ७ वहां उस ने एक वेदी बनाई, और उस स्थान का नाम एलबेटेल * रखा; क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रगट हुआ था। ८ और रिबका की दूध पिलानेहारी घाय दबोरा मर गई, और बेटेल के नीचे सिन्दूर वृक्ष के तले उमको मिट्टी दी गई, और उस सिन्दूर वृक्ष का नाम ग्रन्लीनबक्कून † रखा गया ॥

९ फिर याकूब के पटनराम से आने के पश्चात् परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। १० और परमेश्वर ने उम से कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है; पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा: सो उम ने उसका नाम इस्राएल रखा। ११ फिर परमेश्वर ने उस से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तू फूले-फले और बड़े; और तुझ से एक जाति बरन जातियों की एक मण्डली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। १२ और जो देश मैं ने इज्राहीम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। १३ तब परमेश्वर उस स्थान में, जहां उस ने याकूब से बातें कीं, उसके पास से ऊपर चढ गया। १४ और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खम्भा खड़ा किया,

* मूल में—परिजिज्यों में मुझे दुर्गन्धित किया।

† मूल में—मैं थोड़े ही लोग हूँ।

* अर्थात् बेटेल का ईश्वर।

† अर्थात् रूलाई का बांज।

श्रीर उम पर अर्घ्य देकर नेल डाल दिया । १५ श्रीर जहा परमेश्वर ने याकूब से बाते की, उम स्थान का नाम उस ने बेतेल रखा । १६ फिर उन्होने बेतेल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था, कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीडा आने लगी । १७ जब उमको बड़ी बड़ी पीडा उठती थी तब घाय ने उस से कहा, मत डर; अब की भी तेरे बेटा ही होगा । १८ तब ऐसा हुआ, कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उस ने उस बेटे का नाम बेनोनी * रखा : पर उसके पिता ने उमका नाम बिन्यामीन † रखा । १९ यो राहेल मर गई, और एप्राना, अर्थात् बेनेलहेम के मार्ग में, उसको मिट्टी दी गई । २० और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खम्भा खड़ा किया . राहेल की कब्र का वही खम्भा आज तक बना है । २१ फिर इस्त्राएल ने कूच किया, और एदेर नाम गुम्मत के आगे बढ़कर अपना तम्बू खड़ा किया । २२ जब इस्त्राएल उम देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ, कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया : और यह बात इस्त्राएल को मालूम हो गई ॥

२३ याकूब के बारह पुत्र हुए । उन में से लिआः के पुत्र ये थे; अर्थात् याकूब का जेठा, रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, और जबूलून । २४ और राहेल के पुत्र ये थे; अर्थात् यूसुफ, और बिन्यामीन । २५ और राहेल की लौन्डी बिल्हा के पुत्र ये थे; अर्थात् दान, और नप्ताली । २६ और लिआः की लौन्डी जिल्पा के

* अर्थात् मेग शोक मूल पुत्र ।

† अर्थात् दहिने हाथ का पुत्र ।

पुत्र ये थे : अर्थात् गाद, और आशेर; याकूब के ये ही पुत्र हुए, जो उस से पद्मनराम में उत्पन्न हुए ॥

२७ और याकूब मन्ने में, जो करियत-अर्वा, अर्थात् हन्नोन है, जहां इब्राहीम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया । २८ इसहाक की अवस्था एक सौ अस्सी बरस की हुई । २९ और इमहाक का प्राण छूट गया, और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उमको मिट्टी दी ॥

(एसाव को वंशावली)

३६

एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है । २ एसाव ने तो कनानी लडकियां ब्याहली, अर्थात् हिन्नी एलोन की बेटी आदा को, और ओहोलीवामा को जो अना की बंटी, और हिन्वी मिबोन की नतिनी थी । ३ फिर उम ने इस्त्राएल की बेटी वाममन को भी, जो नवायोन की बहिन थी, ब्याह लिया । ४ आदा ने तो एसावके जन्माए एलीपज को, और बासमत ने रूएल को उत्पन्न किया । ५ और ओहोलीवामा ने यूश, और यालाम, और कोरह को उत्पन्न किया, एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए । ६ और एसाव अपनी पत्नियों, और बेटे-बेटियों, और घर के सब प्राणियों, और अपनी भेड़-बकरी, और गाय-बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी सम्पत्ति को, जो उस ने कनान देश में सचय की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पाम से दूसरे देश को चला गया । ७ क्योंकि उनकी सम्पत्ति इतनी हो गई

थी, कि वे इकट्ठे न रह सके; और पशुओं की बहुतायत के मारे उस देश में, जहा वे परदेशी होकर रहते थे, उनकी ममाई न रही। ८ एसाव जो एदोम भी कच्छाना है : सो सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। ९ सेईर नाम पहाड़ी देश मे रहनेहारे एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वशावली यह है : १० एसाव के पुत्रो के नाम ये है; अर्थात् एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज, और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। ११ और एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात् तेमान, ओमार, सपो, गाताम, और कनज। १२ और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नाम एक सुरैतिन थी, जिम ने एलीपज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया : एसाव की पत्नी आदा के वंश मे ये ही हुए। १३ और रूएल के ५ पुत्र हुए, अर्थात् नहत, जेरह, शम्मा, और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वश मे ये ही हुए। १४ और ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी, और सिबोन की नतिनी और अना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए। अर्थात् उम ने एसाव के जन्माए यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। १५ एसाववशियों के अधिपति ये हुए : अर्थात् एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तो तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, १६ कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेख अधिपति : एलीपज-वंशियों मेंसे, एदोम देश मे ये ही अधिपति हुए : और ये ही आदा के वंश में हुए। १७ और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए; अर्थात् नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति रूएलवशियों में से, एदोम देश में

ये ही अधिपति हुए; और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वश में हुए। १८ और एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वश में ये हुए; अर्थात् यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति, अना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वश मे ये ही हुए। १९ एसाव जो एदोम भी कच्छाना है, उसके वंश ये ही हैं, और उनके अधिपति भी ये ही हुए ॥

२० सेईर जो होरी नाम जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश मे बसिले थे रहते थे; अर्थात् लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, २१ दीशोन, एसेर, और दीशान; एदोम देश में सेईर के ये ही होरी जातिवाले अधिपति हुए। २२ और लोतान के पुत्र, होरी, और हेमाम हुए; और लोतान की बहिन तिम्ना थी। २३ और शोबाल के ये पुत्र हुए; अर्थात् आल्वान, मानहत, एबाल, शपो, और ओनाम। २४ और सिबोन के ये पुत्र हुए; अर्थात् अय्या, और अना; यह वही अना है जिस को जगल मे अपने पिता सिबोन के गदहों को चराने चराते गरम पानी के भरने मिले। २५ और अना के दीशोन नाम पुत्र हुआ, और उसी अना के ओहोलीबामा नाम बेटी हुई। २६ और दीशोन के ये पुत्र हुए; अर्थात् हेमदान, एस्वान, यिन्नान, और करान। २७ एसेर के ये पुत्र हुए; अर्थात् बिल्हान, जावान, और अकान। २८ दीशान के ये पुत्र हुए; अर्थात् ऊस, और अरान। २९ होरियों के अधिपति ये हुए; अर्थात् लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, सिबोन अधिपति, ३० अना अधिपति, दीशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दीशान अधिपति, सेईर देश में होरी जातिवाले ये ही अधिपति हुए ॥

३१ फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए; ३२ अर्थात् वोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया, और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा है। ३३ बेला के मरने पर, बोस्त्रानिवासी जेगह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। ३४ और योबाब के मरने पर, तेमानियों के देश का निवासी हूशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। ३५ फिर हूशाम के मरने पर, बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ यह वही है जिम ने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। ३६ और हदद के मरने पर, मसंकावासी मम्ला उसके स्थान पर राजा हुआ। ३७ फिर मम्ला के मरने पर, शाऊल जो महानद के तटवाले रहोबोत नगर का था, सो उसके स्थान पर राजा हुआ। ३८ और शाऊल के मरने पर, अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। ३९ और अकबोर के पुत्र बाल्हानान के मरने पर, हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है; और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल है, जो मेजाहब की नतिनी और मत्रेद की बेटे थी। ४० फिर एसाववंशियों के अधिपतियों के कुलो, और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं; अर्थात् तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, ४१ ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पीनोन अधिपति, ४२ कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, ४३ मग्दीएल अधिपति, ईराम अधिपति : एदोमवंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवासस्थानों में उनके

ये ही अधिपति हुए। और एदोमी जाति का मूलपुरुष एसाव है ॥

(यूसुफ के बच्चे जाने का वर्षण)

३७ याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। २ और याकूब के वंश का वृत्तान्त * यह है : कि यूसुफ सतरह वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड-बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा, और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पाम पहुँचाया करता था। ३ और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढके यूसुफ में प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था : और उम ने उसके लिये रगबिरंगा अंगरखा बनवाया। ४ सो जब उसके भाइयों ने देखा, कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उस से बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। ५ और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया : तब वे उस से और भी द्वेष करने लगे। ६ और उस ने उन से कहा, जो स्वप्न मैं ने देखा है, सो सुनो : ७ हम लोग खेत में पूलें बान्ध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया; तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दण्डवत् किया। ८ तब उसके भाइयों ने उस से कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा ? वा सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा ? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उस से और भी अधिक बैर

* मूल में—याकूब की वंशावली।

करने लगे। ६ फिर उस ने एक और स्वप्न देखा, और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया, कि सुनो, मैं ने एक और स्वप्न देखा है, कि सूर्य और चन्द्रमा, और ग्यारह तारे मुझे दराडवत् कर रहे हैं। १० यह खन्न उम ने अपने पिता, और भाइयों से वर्णन किया. तब उसके पिता ने उसको दपटके कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तू ने देखा है? क्या मच्चमुच में और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरके दराडवत् करेगे? ११ उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उचकै उस वचन को स्मरण रखा। १२ और उसके भाई अपने पिता की भेड-बकरियों को चराने के लिये शकेम को गए। १३ तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम हीं में भेड-बकरीं चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उस ने उम से कहा जो आज्ञा * में हाजिर हूँ। १४ उम ने उस से कहा, जा, अपने भाइयों और भेड-बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मैंने पास समाचार ले आ। सो उम ने उसको हेन्नोन की तराई में बिदा कर दिया, और वह शकेम में आया। १५ और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उस से पूछा, तू क्या ढूढना है? १६ उस ने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूढता हूँ: कृपा कर मुझे बता, कि वे भेड-बकरियों को कहा चरा रहे हैं? १७ उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहा से चले गए हैं: और मैं ने उनको यह कहते सुना, कि आओ, हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला, और उन्हें दोतान में पाया। १८ और ज्योही उन्हों ने उसे दूर

* मूल में—मुझे देख।

से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहिले ही उसे मार डालने की युक्ति की। १९ और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखनेहारा आ रहा है। २० सो आओ, हम उसको घात करके किमी गडहे में डाल दे, और यह कह देंगे, कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। २१ यह मुनके रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। २२ फिर रूबेन ने उन में कहा, लोह मत बहाओ, उसको जगल के इम गडहे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुँचाना चाहता था। २३ सो ऐसा हुआ, कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुँचा तब उन्हों ने उसका रगबिरगा अगरखा, जिसे वह पहिने हुए था, उताग लिया। २४ और यूसुफ को उठाकर गडहे में डाल दिया वह गडहा तो सूखा था और उस में कुछ जल न था। २५ तब वे रोटो खाने को बैठ गए. और आखे उठाकर क्या देखा, कि इस्राएलियों का एक दल ऊटो पर सुगन्धद्रव्य, बलसान, और गन्धरस लादे हुए, गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। २६ तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? २७ आओ, हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच डालें, और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है, सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे: २८ सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गडहे में से खीचके बाहर

निकाला, और इश्माएलियों के हाथ चादी के बीस टुकड़ों में बेच दिया : और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए । २६ और रूबेन ने गड़हे पर लौटकर क्या देखा, कि यूसुफ गड़हे में नहीं है, सो उस ने अपने वस्त्र फाड़े । ३० और अपने भाइयों के पाम लौटकर कहने लगा, कि लडका तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊँ ? ३१ और तब उन्होंने ने यूसुफ का अग्ररखा लिया, और एक बकरे को मारके उसके लोहू में उसे डुबा दिया । ३२ और उन्होंने ने उस रगबिरगे अग्ररखों को अपने पिता के पाम भंजकर कहला दिया ; कि यह हम को मिला है, सो देखकर पहिचान ले, कि यह मेरे पुत्र का अग्ररखा है कि नहीं । ३३ उस ने उसको पहिचान लिया, और कहा, हा यह मेरे ही पुत्र का अग्ररखा है ; किमी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, नि मन्देह यूसुफ फाड़ डाला गया है । ३४ तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा, और अपने पुत्र के लिये बहुत दिनों तक विलाप करता रहा । ३५ और उसके सब बेटे-बेटियों ने उसको शान्ति देने का यत्न किया, पर उसको शान्ति न मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पाम अधोलोक में उतर जाऊंगा । इस प्रकार उसका पिता उसके लिये रोता ही रहा । ३६ और मिद्यानियों * ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम, फ़िरौन के एक हाकिम, और जल्लादों के प्रधान, के हाथ बेच डाला ॥

(यज्ञदा के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन)

३८ उन्ही दिनों में ऐसा हुआ, कि यहूदा अपने भाइयों के पास से

* मूल में—मदानियों ।

चला गया, और हीरा नाम एक अदुल्लाम-वासी पुरुष के पास बेरा किया । २ वहाँ यहूदा ने शूआ नाम एक कनानी पुरुष की बेंटी को देखा ; और उसको ब्याहकर उसके पास गया । ३ वह गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ ; और यहूदा ने उसका नाम एर रखा । ४ और वह फिर गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, और उसका नाम ओनान रखा गया । ५ फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, और उसका नाम शेला रखा गया और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था । ६ और यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया । ७ परन्तु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लंखे में दुष्ट था, इसलिये यहोवा ने उसको मार डाला । ८ तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा, और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिये सन्तान उत्पन्न कर । ९ ओनान तो जानता था कि सन्तान तो मेरी न ठहरेगी : सो ऐसा हुआ, कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उस ने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिस से ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले । १० यह काम जो उस ने किया उस से यहोवा अप्रसन्न हुआ : और उस ने उसको भी मार डाला । ११ तब यहूदा ने इस डर के मारे, कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों की नाईं शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह, सो तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी । १२ बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शूआ की बेंटी थी सो मर गई ; फिर यहूदा शोक से

छूटकर अपने मित्र हीरा अद्दुल्लामवासी समेत अपनी भेड़-बकरियों का ऊन कतरने-वालों के पास तिम्नाथ को गया। १३ और तामार को यह समाचार मिला, कि तेरा समुर अपनी भेड़-बकरियों का ऊन कतराने के लिये तिम्नाथ को जा रहा है। १४ तब उस ने यह सोचकर, कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उमकी स्त्री नहीं होने पाई; अपना विधवापन का पहिरावा उतारा, और घूँघट डालकर अपने को ढाप लिया, और एनैम नगर के फाटक के पास, जो तिम्नाथ के मार्ग में है, जा बैठी : १५ जब यहूदा ने उसको देखा, उम ने उम को वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुँह ढाँपे हुए थी। १६ और वह मार्ग में उसकी ओर फिरा, और उस से कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, (क्योंकि उमे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है)। और वह कहने लगी, कि यदि मैं तुम्हें अपने पास आने दूँ, तो तू मुझे क्या देगा ? १७ उम ने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूँगा। तब उस ने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा ? १८ उस ने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊँ ? उस ने कहा, अपनी मुहर, और बाजूबन्द, और अपने हाथ की छड़ी। तब उस ने उसको वे वस्तुएँ दे दी, और उसके पास गया, और वह उस से गर्भवती हुई। १९ तब वह उठकर चली गई, और अपना घूँघट उतारके अपना विधवापन का पहिरावा फिर पहिन लिया। २० तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अद्दुल्लामवासी के हाथ भेज दिया, कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएँ उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए; पर वह स्त्री उसको न मिली। २१ तब उस ने

वहा के लोगों से पूछा, कि वह देवदासी जो एनैम में मार्ग की एक ओर बैठी थी, कहाँ है ? उन्हो ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। २२ सो उस ने यहूदा के पास लौटके कहा, मुझे वह नहीं मिली; और उस स्थान के लोगों ने कहा, कि यहाँ तो कोई देवदासी न थी। २३ तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बन्धक उसीके पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे : देख, मैं ने बकरी का यह बच्चा भेज दिया, पर वह तुम्हें नहीं मिली। २४ और तीन महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला, कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया है; वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ, कि वह जलाई जाए। २५ जब उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उस ने अपने समुर के पास यह कहला भेजा, कि जिस पुरुष की ये वस्तुएँ हैं, उसी से मैं गर्भवती हूँ; फिर उस ने यह भी कहलाया, कि पहिचान तो सही, कि यह मुहर, और बाजूबन्द, और छड़ी किस की है। २६ यहूदा ने उन्हें पहिचानकर कहा, वह तो मुझ से कम दोषी है; क्योंकि मैं ने उसे अपने पुत्र शेला को न ब्याह दिया। और उस ने उस से फिर कभी प्रसंग न किया। २७ जब उसके जनने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। २८ और जब वह जनने लगी तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया : और धाय ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुये बान्ध दिया, कि पहिले यही उत्पन्न हुआ। २९ जब उस ने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया : तब उस धाय ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है ?

इसलिये उसका नाम पेरिस * रखा गया।
३० पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल मृत बन्धा था उत्पन्न हुआ, और उसका नाम जेरह रखा गया।।

(यूसुफ के बन्दोख में पड़ने और उस में बूटने का वर्णन)

३९ जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री, जो फ़िरोन का हाकिम, और जल्लादो का प्रधान था, उस ने उसको इश्माएलियो के हाथ से, जो उसे वहाँ ले गए थे, मोल लिया। २ और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके सग था, सो वह भाग्यवान् पुरुष हो गया। ३ और यूसुफ के स्वामी ने देखा, कि यहोवा उसके सग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सुफल कर देता है। ४ तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिये नियुक्त किया गया : फिर उस ने उसको अपने घर का अधिकारी बनाके अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। ५ और जब से उस ने उसको अपने घर का और अपनी सारी सम्पत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। ६ सो उस ने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया : कि अपने खाने की रोटी को छोड़, वह अपनी सम्पत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुन्दर और रूपवान् था। ७ इन बातों के पश्चात् ऐसा हुआ, कि

उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की और आख लगाई, और कहा, मेरे साथ सो। ८ पर उस ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है; उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उस ने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। ९ इस घर में मुझ से बड़ा कोई नहीं; और उस ने, तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है; मुझ से कुछ नहीं रख छोड़ा; सो भला, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्योंकर बनूँ ? १० और ऐसा हुआ, कि वह प्रति दिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उस ने उसकी न भानी, कि उसके पास लेटे वा उसके सग रहे। ११ एक दिन क्या हुआ, कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिये घर में गया, और घर के सेवको में से कोई भी घर के अन्दर न था। १२ तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा, और बाहर निकल गया। १३ यह देखकर, कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, १४ उस स्त्री ने अपने घर के सेवको को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिये हमारे पास ने आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अन्दर आया था और मैं ऊँचे स्वर से चिल्ला उठी। १५ और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा, और बाहर निकल गया। १६ और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। १७ तब उस ने उस से इस प्रकार की बातें कही, कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझ से हंसी करने के

* अर्थात् दूट पड़ना।

लिये मेरे पास आया था। १८ और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। १९ अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर, कि तेरे दास ने मुझ से ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। २० और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बन्दीगृह में, जहाँ राजा के कैदी बन्द थे, डलवा दिया : सो वह उस बन्दीगृह में रहने लगा। २१ पर यहीवा यूसुफ के सग सग रहा, और उस पर करुणा की, और बन्दीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। २२ सो बन्दीगृह के दारोगा ने उन सब बन्धुओं को, जो कारागार में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे, वही उसी की आज्ञा से होता था। २३ बन्दीगृह के दारोगा के वश में जो कुछ था; क्योंकि उस में से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिये कि यहीवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था, यहीवा उसको उस में सफलता देता था ॥

४० इन बातों के पश्चात् ऐसा हुआ, कि मिस्र के राजा के पिलानेहारों और पकानेहारों ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। २ तब फ़िरोन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर, अर्थात् पिलानेहारों के प्रधान, और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर ३ उन्हें कैद कराके, जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बन्दीगृह में, जहाँ यूसुफ बन्धुआ था, डलवा दिया। ४ तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा, और वह उनकी सेवा टहल करने लगा : सो वे कुछ दिन तक बन्दीगृह में रहे। ५ और मिस्र के राजा का पिलानेहारा और

पकानेहारा, जो बन्दीगृह में बन्द थे, उन दोनों ने एक ही रात में, अपने अपने होनहार के अनुसार,* स्वप्न देखा। ६ बिहान को जब यूसुफ उनके पास अन्दर गया, तब उन पर उस ने जो दृष्टि की, तो क्या देखता है, कि वे उदास हैं। ७ सो उस ने फ़िरोन के उन हाकिमों से, जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बन्दीगृह में थे, पूछा, कि आज तुम्हारे मुह क्यों उदास हैं? ८ उन्हों ने उस से कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है, और उनके फल का बतानेवाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उन से कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। ९ तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यों बताने लगा : कि मैं ने स्वप्न में देखा, कि मेरे साम्हने एक दाखलता है; १० और उस दाखलता में तीन डालियाँ हैं : और उस में मानो कलियाँ लगी हैं, और वे फूली और उसके गुच्छों में दाखल करके पक गईं. ११ और फ़िरोन का कटोरा मेरे हाथ में था : सो मैं ने उन दाखलों को लेकर फ़िरोन के कटोरे में निचोड़ा, और कटोरे को फ़िरोन के हाथ में दिया। १२ यूसुफ ने उस से कहा, इसका फल यह है, कि तीन डालियों का चूथें तीन दिन है : १३ सो अब से तीन दिन के भीतर फ़िरोन तेरा सिर ऊंचा करेगा,† और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले की नाई फ़िरोन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। १४ सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण

* मूल में—अपने अपने स्वप्न के फल कहने के अनुसार।

† मूल में—तेरा सिर उठाएगा।

करना, और मुझ पर कृपा करके, फ़िरौन से मेरी चर्चा चलाना, और इस घर से मुझे छुड़वा देना। १५ क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं, और यहा भी मैं ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊ। १६ यह देखकर, कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारो के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैं ने भी स्वप्न देखा है, वह यह है : मैं ने देखा, कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की तीन टोकरियां हैं : १७ और ऊपर की टोकरी मे फ़िरौन के लिये सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं; और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी मे से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। १८ यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है; कि तीन टोकरियों का अर्थ तीन दिन है। १९ सो अब से तीन दिन के भीतर फ़िरौन तेरा सिर कटवाकर * तुझे एक वृक्ष पर टगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। २० और तीसरे दिन फ़िरौन का जन्मदिन था, उस ने अपने सब कर्मचारियों की जेबनार की, और उन में से पिलानेहारों के प्रधान, और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बन्दीगृह से निकलवाया †। २१ और पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फ़िरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। २२ पर पकानेहारों के प्रधान को उस ने टगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उन से कहा था। २३ फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा; परन्तु उसे भूल गया ॥

* मूल में—तेरा सिर तुझ पर से उठाके।

† मूल में—दोनों के सिर उठाये।

४१ पूरे दो बरस के बीतने पर फ़िरौन ने यह स्वप्न देखा, कि वह नील नदी * के किनारे पर खड़ा है। २ और उस नदी मे से सात सुन्दर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। ३ और, क्या देखा, कि उनके पीछे और सात गायें, जो कुरूप और दुर्बल हैं, नदी से निकली; और दूसरी गायो के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। ४ तब ये कुरूप और दुर्बल गाये उन सात सुन्दर और मोटी मोटी गायो को खा गईं। तब फ़िरौन जाग उठा। ५ और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा, कि एक डठी में मे सात मोटी और अच्छी अच्छी बाले निकली। ६ और, क्या देखा, कि उनके पीछे सात बाले पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। ७ और इन पतली बालों ने उन मातो मोटी और अन्न से भरी हुई बालो को निगल लिया। तब फ़िरौन जागा, और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। ८ भोर को फ़िरौन का मन व्याकुल हुआ, और उस ने मिस्र के सब ज्योतिषियों, और परिष्ठतो को बुलवा भेजा, और उनको अपने स्वप्न बताए; पर उन में से कोई भी उनका फल फ़िरौन से न कह सका। ९ तब पिलानेहारों का प्रधान फ़िरौन से बोल उठा, कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए : १० जब फ़िरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था, और मुझे और पकानेहारो के प्रधान को क्रोध कराके जल्लादो के प्रधान के घर के बन्दीगृह में डाल दिया था; ११ तब हम दोनों ने, एक ही रात में, अपने अपने होनहार के अनुसार, †

* मूल में—योर।

† मूल में—अपने अपने स्वप्न के फल कहने के अनुसार।

स्वप्न देखा; १२ और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था, जो जल्लादों के प्रधान का दास था; सो हम ने उसको बताया, और उस ने हमारे स्वप्नों का फल हम से कहा, हम में से एक एक के स्वप्न का फल उस ने बता दिया। १३ और जैसा जैसा फल उस ने हम से कहा था, वैसा ही हुआ भी, अर्थात् मुझ को तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। १४ तब फ़िरोन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। और वह भटपट बन्दीगृह से बाहर निकाला गया, और बाल बनवाकर, और वस्त्र बदलकर फ़िरोन के साम्हने आया। १५ फ़िरोन ने यूसुफ से कहा, मैं ने एक स्वप्न देखा है, और उसके फल का वतानेवाला कोई भी नहीं, और मैं ने तेरे विषय में सुना है, कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। १६ यूसुफ ने फ़िरोन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता * : परमेश्वर ही फ़िरोन के लिये शुभ वचन देगा। १७ फिर फ़िरोन यूसुफ से कहने लगा, मैं ने अपने स्वप्न में देखा, कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूं। १८ फिर, क्या देखा, कि नदी में से सात मोटी और सुन्दर सुन्दर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। १९ फिर, क्या देखा, कि उनके पीछे सात और गायें निकली, जो दुबली, और बहुत कुरूप, और दुर्बल हैं; मैं ने तो सारे मिस्र देश में ऐसी कुडौल गायें कभी नहीं देखी। २० और इन दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली सातों मोटी मोटी गायों को खा लिया। २१ और जब वे उनको खा गईं तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको

खा गई हैं, क्योंकि वे पहिले की नाईं जैसी की तैसी कुडौल गयीं। तब मैं जाग उठा। २२ फिर मैं ने दूसरा स्वप्न देखा, कि एक ही डठी में सात अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। २३ फिर, क्या देखता हूँ, कि उनके पीछे और सात बाले छूछी छूछी और पतली और पुरवाई से मुग्भाई हुई निकली। २४ और इन पतली बालों ने उन सात अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैं ने ज्योतिषियों को बताया, पर इस का समझानेहारा कोई नहीं मिला। २५ तब यूसुफ ने फ़िरोन से कहा, फ़िरोन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम किया चाहना है, उसको उस ने फ़िरोन को जताया है। २६ त्रे सान अच्छी अच्छी गायें सात वर्ष हैं; और वे सात अच्छी अच्छी बालें भी सात वर्ष हैं, स्वप्न एक ही है। २७ फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडौल गायें निकली, और जो सात छूछी और पुरवाई से मुग्भाई हुई बाले निकाली, वे अकाल के सात वर्ष होंगे। २८ यह वही बात है, जो मैं फ़िरोन से कह चुका हूँ, कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है, उसे उस ने फ़िरोन को दिखाया है। २९ सुन, सारे मिस्र देश में सात वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। ३० उनके पश्चात् सात वर्ष अकाल के आयेंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जायेंगे; और अकाल से देश का नाश होगा। ३१ और सुकाल (बहुतायत की उपज) देश में फिर स्मरण न रहेगा क्योंकि अकाल अत्यन्त भयंकर होगा। ३२ और फ़िरोन ने जो यह स्वप्न दो बार देखा है इसका भेद यही है, कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। ३३ इसलिये अब

* मूल में—मेरे बिना।

फिरोन किसी समझदार और बुद्धिमान् पुरुष को ढूढ़ करके उसे मिस्र देश पर प्रधान मंत्री ठहराए। ३४ फिरोन यह करे, कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक मुकाल के सात वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की ७७७ का पचमाश लिया करे। ३५ और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजनवस्तु इकट्ठा करे, और नगर नगर में भण्डार घर भोजन के लिये फिरोन के वश में करके उमकी रक्षा करे। ३६ और वह भोजनवस्तु अकाल के उन मात वर्षों के लिये, जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के निमित्त रखी रहें, जिम से देश उस अकाल से मत्यानाश न हो जाए। ३७ यह बात फिरोन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। ३८ सो फिरोन ने अपने कर्मचारियों से कहा, कि क्या हम को ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिस में परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? ३९ फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुम्हें इतना ज्ञान दिया है, कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान् नहीं, ४० इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझ से बड़ा ठहरेगा। ४१ फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझ को मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। ४२ तब फिरोन ने अपने हाथ से अगूठी निकालके यूसुफ के हाथ में पहिना दी; और उसको बढिया मलमल के वस्त्र पहिनावा दिए, और उसके गले में सोने की जजीर डाल दी; ४३ और उसको अपने दूसरे रथ पर चढवाया; और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले, कि घुटने टेककर

दण्डवत् करो * और उस ने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधान मंत्री ठहराया। ४४ फिर फिरोन ने यूसुफ से कहा, फिरोन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाव न हिलाएगा। ४५ और फिरोन ने यूसुफ का नाम सापन-त्पानेह † रखा। और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया। और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौग करने लगा। ४६ जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरोन के सम्मुख खडा हुआ, तब वह तीस वर्ष का था। सो वह फिरोन के सम्मुख से निबलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करन लगा। ४७ मुकाल के सातों वर्षों में भूमि बहुतायत स अन्न ‡ उपजाती रही। ४८ और यूसुफ उन सानो वर्षों में सब प्रकार की भोजनवस्तुएँ, जो मिस्र देश में होती थी, जमा करके नगरों में रखना गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजनवस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। ४९ सो यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यन्त बहुतायत से राशि राशि करके रखा, यहा तक कि उस ने उनका गिनना छोड़ दिया; क्योंकि वे अमर्ष्य हो गईं। ५० अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहिले यूसुफ के दो पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे। ५१ और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहके मनश्शे § रखा, कि परमेश्वर ने मुझ से मेरा सारा क्लेश, और मेरे पिता का सारा धराना भुला दिया है।

* मूल में—अन्नक। इस मिस्री शब्द का अर्थ निश्चिन्त नहीं।

† इस मिस्री शब्द के अर्थ में सन्देश है।

‡ मूल में—मुट्टी भर भरके।

§ अर्थात् बिसरवानेहारा।

५२ और दूसरे का नाम उम ने यह कहकर एग्रम * रखा, कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुनाया फलाया है। ५३ और मिस्र देश के मुकाल के वे सात वर्ष ममाप्त हो गए। ५४ और यूसुफ के कहने के अनुमाग सात वर्षों के लिये अकाल आरम्भ हो गया। और सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परन्तु मारे मिस्र देश में अन्न था। ५५ जब मिस्र का मारा देश भूखी मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्लाकर रोटी मागने लगी और वह सब मिस्रिया में कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुम में कहे, वही करो। ५६ सो जब अकाल मारी पृथ्वी पर फैल गया, और मिस्र देश में काल का भयकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भगडारों को खोल खोलके मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। ५७ मा मारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिये यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि मारी पृथ्वी पर भयकर अकाल था ॥

(यूसुफ के भाइयों के उस से मिस्र में आ बर्षान)

४२ जब याकूब ने मुना कि मिस्र में अन्न है, तब उस ने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुह क्यों देख रहे हो। २ फिर उस ने कहा, मैं ने मुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिये तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिये अन्न मोल ले आओ, जिस से हम न मरें, वरन जीवित रहे। ३ सो यूसुफ के दम भाई अन्न मोल लेने के लिये मिस्र को गए। ४ पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा, कि कही ऐसा न हो कि

उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। ५ सो जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। ६ यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था, और उम देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचना था; इसलिये जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुह के बल गिरके उमको दराडवत् किया। ७ उनको देखकर यूसुफ ने पहिचान तो लिया, परन्तु उनके साम्हने भाला वनके कटागता के साथ उन से पूछा, तुम कहा में आते हो? उन्हो ने कहा, हम तो कनान देश में अन्न मोल लेने के लिये आए हैं। ८ यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहिचान लिया, परन्तु उन्हो ने उसको न पहिचाना। ९ तब यूसुफ अपने उन स्वपनों को स्मरण करके जो उस ने उनके विषय में दखे थे, उन से कहने लगा, तुम भेदिए हो; इस देश की दुर्दशा * को देखने के लिये आए हो। १० उन्हो ने उस से कहा, नहीं, नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजनवस्तु मोल लेने के लिये आए हैं। ११ हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। १२ उस ने उन से कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। १३ उन्हो ने कहा, हम तेरे दास बारह भाई हैं, और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है, और एक जाता रहा। १४ तब यूसुफ ने उन से कहा, मैं ने तो तुम से कह दिया, कि तुम भेदिए हो; १५ सो इसी रीति से तुम परखे जाओगे, फिरौन के जीवनी की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए तब तक तुम यहाँ से

* अर्थात् अत्यन्त उपजाऊ।

* मूल में—नंगेपन।

न निकलने पाओगे। १६ सो अपने मे से एक को भेज दो, कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लॉग बन्धुआई मे रहोगे, इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी, कि तुम मे सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिर उन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। १७ तब उम ने उनको तीन दिन तक बन्दी-गृह मे रखा। १८ तीसरे दिन यूमुफ ने उन मे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मे परमेश्वर का भय मानता हूँ, १९ यदि तुम सीधे मनुष्य हो, तो तुम सब भाइयों मे से एक जन इस बन्दीगृह मे बन्धुआ रहे, और तुम अपने घरवालों की भूख बुझाने के लिये अन्न ले जाओ। २० और अपने छोटे भाई को मेरे पास ल आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी, और तुम मांग डाले न जाओगे। तब उन्हो ने वैसा ही किया। २१ उन्हो ने आपस मे कहा, नि सन्देह हम अपने भाई के विषय मे दोषी है, क्योंकि जब उम ने हम से गिड़गिड़ाके बिनती की, तौभी हम ने यह देखकर, कि उमका जीवन कैसे सकट मे पडा है, उसकी न सुनी, इसी कारण हम भी अब इस सकट मे पडे है। २२ रूबेन ने उन मे कहा, क्या मे ने तुम से न कहा था, कि लड़के के अपराधी मत बनो ? परन्तु तुम ने न सुना : देखो, अब उसके लोह का पलटा दिया जाता है। २३ यूमुफ की और उनकी बातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती थी; इस से उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। २४ तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा; फिर उनके पास लौटकर और उन से बातचीत करके उन में से शिमोन को छांट निकाला और उसके साम्हने बन्धुआ रखा। २५ तब

यूमुफ ने आज्ञा दी, कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे मे उसके रुपये को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिये सीधा दो सो उनके साथ ऐसा ही किया गया। २६ तब वे अपना अन्न अपने गदहो पर लादकर वहा मे चल दिए। २७ सगय मे जब एक ने अपने गदहे को चारा देने के लिये अपना बोग खोला, तब उसका रुपया बोरे के मोहडे पर रखा हुआ दिखलाई पडा। २८ तब उस ने अपने भाइया से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखा, वह मेरे बोरे मे है; तब उनके जी मे जो न रहा, और वे एक दूसरे की ओर भय मे ताकने लग, और बोले, परमेश्वर न यह हम मे क्या किया है ! २९ और वे कनान देश मे अपने पिता याकूब के पास आए, और अपना साग वृत्तान्त उम मे इस प्रकार वर्णन किया ३० कि जो पुरुष उम देश का स्वामी है, उस ने हम से कठोरता के साथ बातें की, और हम को देश के भेदिए कहा। ३१ तब हम ने उस से कहा, हम सीधे लोग है, भेदिए नहीं। ३२ हम बारह भाई एक ही पिता के * पुत्र है, एक तो जाता रहा, परन्तु छोटा इस समय कनान देश मे हमारे पिता के पास है। ३३ तब उस पुरुष ने, जो उम देश का स्वामी है, हम से कहा, इस से मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो, तुम अपने मे से एक को मेरे पास छोडके अपने घरवालों की भूख बुझाने के लिये कुछ ले जाओ। ३४ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मे तुम्हारे भाई को तुम्हें सौप दूंगा, और तुम इस देश में लेन

* मूल में—अपने पिता के।

देन कर सकोगे। ३५ यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे, तब, क्या देखा, कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। ३६ तब उनके पिता याकूब ने उन में कहा, मुझ को तुम ने निर्वंश कर दिया, देखो, यूसुफ नहीं रहा, और गिमान भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो ये सब विपत्तियाँ मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। ३७ रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तरे पास न लाऊ, तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, तू उसको मेरे हाथ में मौप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुँचा दूँगा। ३८ उस ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे सग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है, और वह अब अकेला रह गया इसलिये जिस मार्ग से तुम जाओगे, उस में यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बूढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊँगा * ॥

४३ और अकाल देश में और भी भयकर होता गया। २ जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया तब उनके पिता ने उन से कहा, फिर जाकर हमारे लिये थोड़ी सी भोजनवस्तु मोल ल आओ। ३ तब यहूदा ने उस से कहा, उस पुरुष ने हम को चितावनी देकर कहा, कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सग न आए, तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। ४ इसलिये यदि तू हमारे भाई को हमारे सग भेज, तब तो हम जाकर तेरे लिये

* भूल में—तुम मेरे पक्के बाल अधोलोक में शोक के साथ उतारोगे।

भोजनवस्तु मोल ले आएँगे, ५ परन्तु यदि तू उसको न भेजे, तो हम न जाएँगे क्योंकि उस पुरुष ने हम से कहा, कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सग न हो, तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। ६ तब इस्राएल ने कहा, तुम ने उस पुरुष को यह बताकर, कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझ से बुरा बर्ताव किया ? ७ उन्होने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुम्बियों की दशा को इस रीति पूछा, कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है ? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है ? तब हम ने इन प्रश्नों के अनुसार उस से वर्णन किया, फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, कि अपने भाई को यहा ले आओ। ८ फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लडके को मेरे सग भेज दे, कि हम चले जाएँ, इस से हम, और तू, और हमारे बालबच्चे मरने न पाएँगे, वरन जीवित रहेंगे। ९ मैं उसका जामिन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको फेर लेना यदि मैं उसको तेरे पास पहुँचाकर साम्हने न खड़ा कर दूँ, तब तो मैं सदा के लिये तेरा अपराधी ठहरूँगा। १० यदि हम लोग बिलम्ब न करते, तो अब तक दूसरी बार लौट आते। ११ तब उनके पिता इस्राएल ने उन से कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है, तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरो में उस पुरुष के लिये भेंट ले जाओ जैसे थोड़ा सा बलसान, और थोड़ा सा मधु, और कुछ सुगन्ध द्रव्य, और गन्धरस, पिस्ते, और बादाम। १२ फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ; और जो रुपया तुम्हारे बोरो के मुह पर रखकर फेर दिया गया था, उसको भी लेते जाओ; कदाचित् यह भूल से हुआ हो। १३ और अपने भाई

को भी सग लेकर उस पुरुष के पाम फिर जाओ, १४ और सर्वगन्तमान् ईश्वर उम पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिम में कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे और यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो ।

१५ तब उन मनुष्यो ने वह भेट, और दूना रुपया, और बिन्यामीन को भी मग लिया, और चल दिए और मिस्र में पहुचकर यूसुफ के साम्हने खडे हुए । १६ उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी में कहा, उन मनुष्यो को घर में पहुचा दो, और पछ मारके भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे सग भोजन करेगे । १७ तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषो को यूसुफ के घर में ले गया । १८ जब वे यूसुफ के घर को पहुचाए गए तब वे आपस में डरकर कहने लगे, कि जा रुपया पहिली बार हमारे बोरो में फेर दिया गया था, उमी के कारण हम भीतर पहुचाए गए हैं, जिस में कि वह पुरुष हम पर टूट पडे, और हमें बग म करके अपने दास बनाए, और हमारे गदहो को भी जीव ल । १९ तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, २० कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहिली बार अन्न मोल लेने को आए थे, २१ तब हम ने सराय में पहुचकर अपने बोरो को खाला, तो क्या देखा, कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुह पर रखा है, इसलिये हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं । २२ और दूसरा रुपया भी भोजनवस्तु मोल लेने के लिये लाए हैं, हम नही जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरो में किस ने रख दिया था । २३ उम ने कहा, तुम्हारा

कुशल हो, मत डरो तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उमी ने तुम को तुम्हारे बोरो में धन दिया होगा, तुम्हारा रुपया तो मुझ को मिल गया था फिर उम ने गिमोन को निकालकर उनके मग कर दिया । २४ तब उस जन ने उन मनुष्यो को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया, तब उन्हो ने अपने पावो को धोया ; फिर उम ने उनके गदहो के लिये चागा दिया । २५ तब यह सुनकर, कि आज हम को यही भोजन करना होगा, उन्हो ने यूसुफ के आने के समय तक, अर्थात् दोपहर तक, उम भेट को इकट्ठा कर रखा । २६ जब यूसुफ घर आया तब वे उम भेट को, जो उनके हाथ में थी, उसके सम्मुख घर में ले गए, और भूमि पर गिरकर उसको दण्डवत् किया । २७ उम ने उनका कुशल पूछा, और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढा पिता, जिसकी तुम ने चर्चा की थी, कुशल से है ? क्या वह अब तक जीवित है ? २८ उन्हो ने कहा, हा, नेग दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है, तब उन्हो ने मिर भुकाकर फिर दण्डवत् किया । २९ तब उम ने आखे उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई, जिसकी चर्चा तुम ने मुझ से की थी, यही है ? फिर उम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे । ३० तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर, कि मैं कहा जाकर रोऊ, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया, और बहा रो पडा । ३१ फिर अपना मुह धोकर निकल आया, और अपने को शातकर कहा, भोजन परोसो । ३२ तब उन्हो ने उसके लिये तो अलग, और भाइयों के लिये भी अलग, और

जो मिस्री उसके सग खाने थे, उनके लिये भी अलग, भोजन परोसा, इसलिये कि मिस्री इन्नियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणा समझते थे। ३३ मो यूसुफ के भाई उसके साम्हने, बड़े बड़ पहिले, और छोटे छोटे पीछे, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, क्रम से बैठाने गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ३४ तब यूसुफ अपने साम्हने से भोजन-वस्तुएं उठा उठाके उनके पाम भेजने लगा, और बिन्यामीन का अपने भाइया से पचगुगी अधिक भाजनवस्तु मिली। और उन्हों ने उसके सग मनमाना खाया पिया ॥

४४ तब उम ने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, कि इन मनुष्यों के बोरो में जितनी भोजनवस्तु समा मके उतनी भर दे, और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुह पर रख दे। २ और मेग चादी का कटोरा छोटे के बोरे के मुह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की दम आज्ञा के अनुसार उम ने किया। ३ विहान को भोग हों ही वे मनुष्य अपने गदहों समेत विदा किए गए। ४ वे नगर से निकले ही थे, और दूर न जाने पाए थे, कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर, और उनको पाकर उन से कह, कि तुम ने भलाई की सन्ती बुराई क्यों की है? ५ क्या यह वह वस्तु नहीं जिम में मेग स्वामी पीता है, और जिम से वह शकुन भी बिचारा करता है? तुम ने यह जो किया है सो बुग किया। ६ तब उस ने उन्हें जा लिया, और ऐसी ही बातें उन से कही। ७ उन्हों ने उस से कहा, हे हमारे प्रभु,

तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों में दूर रहे। ८ देख, जो रुपया हमारे बोरो के मुह पर निकला था, जब हम ने उसको कनान देश से ले आकर तुम्हें फेर दिया, तब, भला, तेरे स्वामी के घर में से हम कोर्ट चादी वा सोने की वस्तु क्योंकर चुग सकते हैं? ९ तेरे दासों में से जिम किसी के पाम वह निकले, वह मार डाला जाए, और हम भी अपने उम प्रभु के दाम हों जाए। १० उम ने कहा, तुम्हारा ही रहना सही, जिमके पास वह निकले सो मेग दाम होगा और तुम लोग निरपराध ठहरांगे। ११ इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उनार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। १२ तब वह दृढ़ने लगा और वड़ के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। १३ तब उन्हों ने अपने अपने वस्त्र फाड़े, और अपना अपना गदहा लादकर नगर को लौट गए। १४ जब यहदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे, और यूसुफ वही था, तब वे उसके साम्हन भूमि पर गिरे। १५ यूसुफ ने उन से कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे, कि मुझ सा मनुष्य शकुन बिचार सकता है? १६ यहदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहे? हम क्या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है: हम, और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। १७ उस ने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे: जिस जन के पास कटोरा निकला है, वही मेग दास होगा; और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ ॥

१८ तब यहूदा उसके पाम जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मेरे दास को अपने प्रभु मे एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दाम पर न भडके, तू तो फिरौन के तुल्य है। १९ मेरे प्रभु ने अपने दासों मे पूछा था, कि क्या तुम्हारे पिता वा भाई है? २० और हम ने अपने प्रभु से कहा, हा, हमारा बूढा पिता तो है, और उसके बुढापे का एक छोटा सा बालक भी है, परन्तु उसका भाई मर गया है, इसलिये वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उस से स्नेह रखता है। २१ तब तू ने अपने दासो से कहा था, कि उसको मेरे पास ले आओ, जिस से मैं उसको देख। २२ तब हम ने अपने प्रभु मे कहा था, कि वह लडका अपने पिता को नहीं छोड सकता, नही तो उसका पिता मर जाएगा। २३ और तू ने अपने दासो से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे सग न आए, तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने पाओगे। २४ सो जब हम अपने पिता तेरे दास के पाम गए, तब हम ने उस से अपने प्रभु की बाते कही। २५ तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिये थोडी सी भोजनवस्तु मोल ले आओ। २६ हम ने कहा, हम नहीं जा सकते, हा, यदि हमारा छोटा भाई हमारे सग रहे, तब हम जाएंगे क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे सग न रहे, तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। २७ तब तेरे दास मेरे पिता ने हम से कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से दो पुत्र उत्पन्न हुए। २८ और उन मे से एक तो मुझे छोड ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया, कि वह फाड डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुह न देख पाया। २९ सो यदि तुम इसको भी मेरी आख की

आड मे ले जाओ, और कोई विपत्ति इस पर पडे, तो तुम्हारे कारण मैं इस पक्के बाल की अवस्था मे दु ख के साथ अधोलोक मे उतर जाऊंगा *। ३० सो जब मैं अपने पिता तेरे दाम के पाम पहुचू, और यह लडका सग न रहे, तब, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहना है ३१ इस कारण, यह देखके कि लडका नहीं है, वह तुरन्त ही मर जाएगा। तब तेरे दासो के कारण तेरा दास हमारा पिता, जो पक्के बालो की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक मे उतर जाएगा †। ३२ फिर तेरा दास अपने पिता के यहां यह कहके इस लडके का जागिन हुआ है, कि यदि मैं इसका तरे पाम न पहुचा दू, तब तो मैं सदा के लिय तेरा अपराधी ठहरूंगा। ३३ सो अब तंग दाम इस लडके की मन्ती अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए, और यह लडका अपने भाइया के सग जान दिया जाए। ३४ क्योंकि लडके के बिना सग रहे मैं क्याकर अपने पिता के पास जा सकूंगा, ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दु ख पडेगा वह मुझे दखना पडे ॥

४५ तब यूमुफ उन सब के साम्हने, जा उमके ग्राम पाम खडे थे अपने को और गेज न सका, और पुकार के कहा मेरे आस पाम से सब लोगो को बाहर कर दो। भाइयो के साम्हने अपने को प्रगट करने के समय यूमुफ के सग और कोई न रहा। २ तब वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा और मिथियो ने सुना, और फिरौन के घर के लोगो को भी इसका समाचार

* मूल में—तुम मेरे पक्के बाल अधोलोक में दु ख के साथ उतारोगे।

† मूल में—तेरे दास हमारे पिता के पक्के बाल शोक के साथ अधोलोक में उतारेंगे।

मिला। ३ तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके साम्हने घबरा गए थे। ४ फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उस ने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुम ने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। ५ अब तुम लोग मत पछताओ, और तुम ने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इस से उदाम मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिये मुझे आगे से भेज दिया है। ६ क्योंकि अब दो वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब पाच वर्ष और ऐसे ही होंगे, कि उन में न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। ७ सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसी लिये भेजा, कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। ८ इस रीति अब मुझ को यहाँ पर भेजनेवाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरेगा और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा, और उसके सारे घर का स्वामी, और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। ९ सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है, कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिये तू मेरे पास बिना बिलम्ब किए चला आ। १० और तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू, बेटे, पोतो, भेड-बकरियों, गाय-बैलों, और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। ११ और अकाल के जो पाच वर्ष और होंगे, उन में मैं वही तेरा पालन पोषण करूँगा, ऐसा न हो कि तू, और तेरा घराना, बरन जितने तेरे हैं, सो

भूखो मरे*। १२ और तुम अपनी आखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आखों से देखता है, कि जो हम से बातें कर रहा है सो यूसुफ है। १३ और तुम मेरे सब विभव का, जो मिस्र में है और जो कुछ तुम ने देखा है, उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरन्त मेरे पिता को यहाँ ले आना। १४ और वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपटकर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपटकर रोया। १५ तब वह अपने सब भाइयों को चूमकर उन से मिलकर रोया और इसके पश्चात् उसके भाई उस से बातें करने लगे ॥

१६ इस बात का चर्चा, कि यूसुफ के भाई आए हैं, फिरौन के भवन तक पहुँच गई, और इस से फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। १७ सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह, कि एक काम करो, अपने पशुओं को लादकर कनान देश में चले जाओ। १८ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूँगा, और तुम्हें देश के उत्तम में उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। १९ और तुम्हें आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो, कि मिस्र देश से अपने बालबच्चों और स्त्रियों के लिये गाडियाँ ल जाओ, और अपने पिता को ले आओ। २० और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सो तुम्हारा है। २१ और इलाएल के पुत्रों ने वैसा ही किया। और यूसुफ ने फिरौन की मानके उन्हें गाडियाँ दी, और मार्ग के लिये

* मूल में—निर्धन हो जाय।

सीधा भी दिया। २२ उन में से एक एक जन को तो उम ने एक एक जोडा वस्त्र भी दिया, और बिग्यामीन को तीन सौ रूपे के टुकडे और पाच जोड़े वस्त्र दिए। २३ और अपने पिता के पास उम ने जा भेजा वह यह है, अर्थात् मिस्त्र की अच्छी वस्तुआ से लदे हुए दस गदहे, और अन्न और गोटी और उसके पिता के मार्ग के लिये भोजनवस्तु से लदी हुई दस गदहिया। २४ और उम न अपने भाइया को विदा किया, और वे चल दिए और उम ने उन से कहा, मार्ग म रुही भगडा न करना। २५ मिस्त्र से चलकर व कनान देश मे अपने पिता याकूब के पास पहुचे। २६ और उस से यह वरगन किया, कि यूसुफ अब तब जीवित है, और मार मिस्त्र दश रंग प्रभता वहाँ करता है। पर उस ने उनकी प्रतीत न की, और वह अपने आपे में न रहा। २७ तब उन्हो ने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें, जा उम ने उन से वहाँ थी, कह दी, जब उम न उन गाडिया को देखा, जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिये भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। २८ और इस्राएल न कहा, बस, मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है मैं अपनी मृत्यु से पहिले जाकर उसको देखूंगा ॥

(याकूब के सारे परिवार समेत मिस्त्र में बस जाने का वर्षाव)

४६ तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेशैबा को गया, और वहा अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढाए। २ तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उस ने कहा, क्या आज्ञा *।

* भूल में—मुझे देख।

३ उम ने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तू मिस्त्र में जाने में मत डर, क्योंकि मैं तुझ में वहा एक बडी जाति बनाऊंगा। ४ मैं तेरे मग मग मिस्त्र को चलता हूँ, और मैं तुझ वहा में फिर निश्चय ले आऊंगा और यूगुफ अपना हाथ तेरी आम्बो पर लगाएगा। ५ तब याकूब वेशैबा में चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब, और अपने बाल-बच्चा, और स्त्रियों को उन गाडियों पर, जो फिरोन न उनके ले आने को भेजी थी चढाकर चल पडे। ६ और वे अपनी भेड-वकरी, गाय-बैल, और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए मारे गन को लेकर मिस्त्र में आए। ७ और याकूब अपने बेटे-बेटिया, पोते-पानिया, निदान अपने वश भर का अपने मग मिस्त्र म ल आया ॥

८ याकूब के मार्ग जो इस्राएली, अर्थात् उमके बेटे पात आदि मिस्त्र में आए उनके नाम ये हैं याकूब का जेटा ता स्त्रेन था। ९ और स्त्रेन के पुत्र इस्राएल पल्लू, इस्राएल और कर्मी थे। १० और शिमोन के पुत्र, यमाएल यामीन, आहद, याकीन, मोहर और एर कनानी स्त्री से जन्मा हुआ गाऊल भी था। ११ और लवी के पुत्र, गर्शोन, कहान, और मरारी थे। १२ और यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेम, और जंगह नाम पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरेम के पुत्र, हेस्वान और हामूल थे। १३ और इस्राएल के पुत्र, तोला, पुब्बा, योव, और शिमोन थे। १४ और जबूलन के पुत्र, सेरेद, एलोन, और यहनेल थे। १५ लिआः के पुत्र, जो याकूब से पटनराम से उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते ये ही थे, और इन से अधिक उस ने उसके साथ एक बेटा दीना को भी जन्म दिया। यहा तक तो याकूब के सब

वशवाले * तेनीस प्राणी हुए। १६ फिर गाद के पुत्र, सिम्बोन, हाग्गी, गूनी, एसबोन, एरी, अरोदी, और अरेली थे। १७ और आशेर के पुत्र, यिम्ना, यिश्वा, यिम्बी, और बरीआ थे, और उनकी बहिन मेग्ह थी और बरीआ के पुत्र, हेवेर और मल्कीएल थे। १८ जिल्पा, जिसे लावान ने अपनी बेटी लिआ को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे, सो उसके द्वारा याकूब के मोलह प्राणी उत्पन्न हुए ॥

१९ फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और विन्यामीन थे। २० और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनन में यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात् मनश्शे और एप्रैम। २१ और विन्यामीन के पुत्र, बेला, बेकेर, अश्वल गेरा नामान, एही, रोश, मप्पीम, हुप्पीम, और आदं थे। २२ राहेल के पुत्र जो याकूब में उत्पन्न हुए उनमें थे **चौ पुत्र थे**, उसके ये सब बेटे पोते चौदह प्राणी हुए। २३ फिर दान का पुत्र हूशीम था। २४ और नानानी के पुत्र, यहसेल, गूनी, सेसेर, और शिल्लेम थे। २५ बिल्ला, जिसे लावान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते ये ही हैं, उसके द्वारा याकूब के वश में सात प्राणी हुए। २६ याकूब के निज वश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उनकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर छिया-मठ प्राणी हुए। २७ और यूसुफ के पुत्र, जो मिस्र में उस से उत्पन्न हुए, वे दो प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए सो सब मिलकर मत्तर हुए ॥

२८ फिर उस ने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पाम भेज दिया, कि वह उसको

* मल में—बेटे बेटिया।

गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। २९ तब यूसुफ अपना रथ जुनवाकर अपने पिता इम्नाएल में भेंट करने के लिये गोशेन देश को गया, और उम से भेंट करके उसके गले से लिपटा, और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ होता रहा। ३० तब इम्नाएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने में भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हें जीवित पाया और तेरा मह देख लिया। ३१ तब यूसुफ ने अपने भाइयों में और अपने पिता के घराने में कहा, मैं जाकर फिरोन को यह बतकर समान्तर दगा, कि मेरे भाई और मेरे पिता के मारे घराने के लोग, जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं। ३२ और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं इसलिये वे अपनी भेड़-बकरी, गाय-बैल, और जो कुछ उनका है, सब ले आए हैं। ३३ जब फिरोन तुम को बुलाके पूछे, कि तुम्हारा उद्यम क्या है? ३४ तब यह कहना कि तेरे दाम लडकपन में लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरगवा भी रक्षा **चौ करते थे**। इस से तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहे में मिस्री लोग घृणा करते हैं ॥

४७ तब यूसुफ ने फिरोन के पास जाकर यह समाचार दिया, कि मेरा पिता और मेरे भाई, और उनकी भेड़-बकरीया, गाय-बैल, और जो कुछ उनका है, सब कनान देश से आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। २ फिर उस ने अपने भाइयों में से पांच जन लेकर फिरोन के साम्हने खडे कर दिए। ३ फिरोन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्हो ने फिरोन से कहा तेरे दाम चरवाहे

हैं, और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। ४ फिर उन्हो ने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिये आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भंड-बकरियों के लिये चारा न रहा सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। ५ तब फिरौन ने यूमुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पाम आ गए हैं, ६ और मिस्र देश तेरे साम्हन पडा है, इस देश का जो सब से अच्छा भाग हो, उम में अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात् वे गोशेन ही देश में रहे और यदि तू जानता हो, कि उन में से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। ७ तब यूमुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खडा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। ८ तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है? ९ याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो एक सौ तीस वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बापदादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। १० और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। ११ तब यूमुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में, अर्थात् रामसेस नाम देश में, भूमि देकर उनको सौंप दिया। १२ और यूमुफ अपने पिता का, और अपने भाइयों का, और पिता के सारे घराने का, एक एक के बालबच्चों के घगने की गिनती के अनुसार, भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा ॥

१३ और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। १४ और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सब को यूमुफ ने उम अन्न की सन्ती जो उनके निवासी मोल लेने थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुँचा दिया। १५ जब मिस्र और कनान देश का रुपया चुक गया, तब सब मिस्री यूमुफ के पाम आ आकर कहने लगे, हम को भोजनवस्तु दे क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहने हुए मर जाए? १६ यूमुफ ने कहा, यदि रुपये न हों तो अपने पशु दे दो, और मैं उनकी सन्ती तुम्हें खाने को दूँगा। १७ तब वे अपने पशु यूमुफ के पाम ले आए, और यूमुफ उनको घोड़ों, भट-बकरियों, गाय-बैला और गदहों की सन्ती खाने को देने लगा उम वर्ष में वह सब जाति के पशुओं की सन्ती भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। १८ वह वर्ष तो यो कट गया, तब अगले वर्ष में उन्हो ने उमके पाम आकर कहा, हम अपने प्रभु में यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया चुक गया है, और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं; इसलिये अब हमारे प्रभु के साम्हने हमारे शरीर और भूमि छोडकर और कुछ नहीं रहा। १९ हम तेरे देखते क्यों मरे, और हमारी भूमि क्यों उजड जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की सन्ती मोल ले, कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों। और हमको बीज दे, कि हम मरने न पाए, बरन जीवित रहे, और भूमि न उजडे*। २० तब यूमुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिये मोल

* मूल में—हम और हमारी भूमि क्यों मरे।

लिया; क्योंकि उस कठिन अकालके पडने से मिस्त्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पडा। इम प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। २१ और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्त्र देश में जो प्रजा रहती थी, उसको उम ने नगरों में लाकर बसा दिया। २२ पर याजको की भूमि तो उस ने न मोल ली : क्योंकि याजको के लिये फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बन्दोबस्त था, और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाने थे, इम कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पडी। २३ तब यूसुफ ने प्रजा के लोगो मे कहा, मुनो, मैं ने आज के दिन तुम को और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिये मोल लिया है, देवो, तुम्हारे लिये यहा बीज है, इमे भूमि में बोओ। २४ और जो कुछ उपजे उमका पचमाश फिरौन को देना, बाकी चार अश तुम्हारे रहेंगे, कि तुम उसे अपने खेतो में बोओ, और अपने अपने बालबच्चों और घर के और लोगो समेत खाया करो। २५ उन्हो ने कहा, तू ने हमको बचा लिया है : हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और हम फिरौन के दाम होकर रहेंगे। २६ सो यूसुफ ने मिस्त्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया, जो आज के दिन तक चला आता है, कि पचमाश फिरौन को मिला करे; केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। २७ और इस्राएली मिस्त्र के गोशेन देश में रहने लगे; और वहां की भूमि को अपने वश में कर लिया, और फूले-फले, और अत्यन्त बढ गए ॥

(इस्राएल के आशीर्वादों और नित्य का बचन)

२८ मिस्त्र देश में याकूब सतरह वर्ष जीवित रहा : इस प्रकार याकूब की सारी

आयु एक सौ सैतालीस वर्ष की हुई। २९ जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उम ने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तो अपना हाथ मेरी जाघ के तले रखकर शपथ आ, कि मैं तेरे साथ कृपा और मच्चाई का यह काम करूंगा, कि तुझे मिस्त्र में मिट्टी न दूंगा। ३० जब तू अपने बाप-दादो के सग सो जाएगा, तब मैं तुझे मिस्त्र में उठा ले जाकर उन्ही के कब्रिस्तान में रखूंगा, तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे बचन के अनुसार करूंगा। ३१ फिर उस ने कहा, मुझ से शपथ आ। सो उम ने उम से शपथ खाई। तब इस्राएल ने खाट के सिग्हाने की ओर सिर झुकाया ॥

४८ इन बातों के पश्चात् किमी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है, तब वह मनश्शे और एप्रैम नाम अपने दोनो पुत्रों को सग लेकर उसके पास चला। २ और किमी ने याकूब को बता दिया, कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है; तब इस्राएल अपने को सम्भालकर खाट पर बैठ गया। ३ और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान् ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी, ४ और कहा, सुन, मैं तुझे फुलाफलाकर बड़ाउगा, और तुझे राज्य राज्य की मण्डली का मूल बनाऊंगा, और तेरे पश्चात् तेरे वंश को यह देश दे दूंगा, जिस से कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। ५ और अब तेरे दोनों पुत्र, जो मिस्त्र में मेरे आने से पहिले उत्पन्न हुए है, वे मेरे ही ठहरेंगे; अर्थात् जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे।

६ और उनके पश्चात् जो सन्तान उत्पन्न हो, वह तेरे तो ठहरेंगे, परन्तु बटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वश म गिने जाएंगे*। ७ जब मैं पदान † में आता था, तब एप्राना पहचाने से थोड़ी ही दूर पहिले राहेल कनान देश में, मार्ग में, मेरे माम्हने मर गई और मैं ने उसे वही, अर्थात् एप्राना जो बेनलेहेम भी कहलाता है, उमी के मार्ग में मिट्टी दी। ८ तब इस्त्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पडे, और उस ने पूछा, ये कौन है? ९ यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र है, जो परमेश्वर ने मुझे यहा दिए है उस ने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद द। १० इस्त्राएल की आख बुढापे के कारण धुन्धली हो गई थी, यहा तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया, और उस ने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। ११ तब इस्त्राएल ने यूसुफ से कहा मुझे आशा न थी, कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊगा परन्तु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वश भी दिखाया है। १२ तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच में हटाकर और अपने मुह के बल भूमि पर गिरके दगडवन् की। १३ तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर, अर्थात् एप्रैम को अपने दहिने हाथ में, कि वह इस्त्राएल के बाए हाथ पडे, और मनश्शे को अपने बाए हाथ में, कि इस्त्राएल के दहिने हाथ पडे, उन्हें उनके पास ले गया। १४ तब इस्त्राएल ने अपना दहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बाया हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया, उस ने तो जान बूझकर ऐसा किया, नही तो जेठा मनश्शे ही था।

* मूल में—भाइयों के वश पर कहाएगे।

† अर्थात् पदनराम।

१५ फिर उस ने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप-दादे इब्राहीम और इमहाक (अपने को जानकर*) चलते थे वही परमेश्वर मेरे जन्म में लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है १६ और वही दूत मुझे मारी बुराई में छुडाता आया है, वही अब इन लडको को आशिष दे, और ये मेरे और मेरे बापदादे इब्राहीम और इमहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत में बडे। १७ जब यूसुफ ने देखा, कि मेरे पिता ने अपना दहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी सो उस ने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पकड लिया, कि एप्रैम के सिर पर मैं उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। १८ और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नही क्योंकि जेठा यही है, अपना दहिना हाथ इसके सिर पर रख। १९ उसके पिता ने कहा, नही मुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हू यद्यपि इस में भी मनुष्यों की एक मगडली उत्पन्न होगी, और यह भी महान् हो जाएगा, तोभी इसका छोटा भाई इस में अधिक महान् हो जाएगा, और उसके वश में बहुत सी जातिया निबलेंगी। २० फिर उस ने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, कि इस्त्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेगे, कि परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे : और उस ने मनश्शे से पहिले एप्रैम का नाम लिया। २१ तब इस्त्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हू परन्तु परमेश्वर तुम लोगो के मग रहेगा, और तुम को

* मूल में—जिसके साम्हने मेरे बापदादे इब्राहीम और इमहाक चले।

मुन्हारे पितरो के देश मे फिर पहुँचा देगा ।
२२ और मैं तुभ को तेरे भाइयो से अधिक
भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैं ने
एमीरियों के हाथ मे अपनी तलवार और
धनुष के बल मे ले लिया है ॥

४६ फिर याकूब ने अपने पुत्रो को
यह कहकर तुलाया, कि इकट्ठे हो
जाओ, मैं तुम को बताऊँगा, कि अन्न के
दिनो मे तुम पर क्या क्या बीतेगा । २ हे
याकूब के पुत्रो, इकट्ठे होकर मुनो, अपने
पिता इस्राएल की आँग कान लगाओ ।

३ हे रुबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल
और मेरे पौरुष का पहिला
फल है,

प्रतिष्ठा का उत्तम भाग, और शक्ति
का भी उत्तम भाग तू ही है ।

४ तू जो जल की नाई उबलनेवाला
है, इसलिये आँग मे थोँठ न
ठहरेगा

क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर
चढ़ा,

तब तू ने उमको अशुद्ध किया, वह
मेरे बिछोने पर चढ़ गया ॥

५ शिमोन और लेवी तो भाई भाई है,
उनकी तलवारे उपद्रव के हथियार
है ।

६ हे मेरे जीव, उनके मर्म मे न पड,
हे मेरी महिमा, उनकी मभा मे मत
मिल,

क्योंकि उन्हो ने कोप मे मनुष्यों को
घात किया,

और अपनी ही इच्छा पर चलकर
बंनों की पूछे काटी है ॥

७ धिक्कार उनके कोप को, जो
प्रचराइ था;

और उनके रोष को, जो निर्दय था,
मैं उन्हें याकूब मे अलग अलग
और इस्राएल मे तित्तर बित्तर कर
दूँगा ॥

८ हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद
करगे,

तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर
पड़ेगा

तेर पिता के पुत्र तुभे दगडवत्
करेगे ॥

९ यहूदा सिंह का डारू है ।

हे मेरा पुत्र तू अहेर तन्वें गुफा मे
गया है *

वह सिंह वा सिंहनी की नाई दबकर
बैठ गया,

फिर कौन उसको छेड़ेगा ॥

१० जब तक शीतलो न आए

तब तक न तो यहूदा मे राजदगड
छूटगा,

न उमके वश मे † व्यवस्था देन-
वाला अलग होगा,

और राज्य राज्य के लोग उमके
अधीन हो जाणगे ॥

११ वह अपने जवान गदहे को दाख-
लता मे,

और अपनी गदही के बच्चे को
उत्तम जाति की दाखलता मे
बान्धा करेगा

उम ने अपने वरुष दाखमधु मे,
और अपना पहिगावा दाखो के
रम ‡ मे धोया है ॥

१२ उसकी आखे दाखमधु मे चमकीली,
और उमके दात दूध से श्वेत होंगे ॥

* मूल मे—अहेर से चढ़ गया है ।

† मूल मे—उसके पैरो के बीच से ।

‡ मूल मे—लोहू ।

- १३ जबूलून ममुद्र के तीर पर निवास करेगा, वह जहाजों के लिये बन्दरगाह का काम देगा, और उमका परला भाग सीदोन के निकट पहुँचेगा ॥
- १४ इस्माकार एक बडा और बलवन्त गदहा है, जो पशुओं के बाड़ो के बीच मे दबका रहना है ॥
- १५ उम ने एक विश्रामस्थान देखकर, कि अच्छा है, और एक देश, कि मनोहर है, अपने कन्धे को बौभ उठाने के लिये भुकाया, और बेगारी मे दास का सा काम करने लगा ॥
- १६ दान इस्लाम का एक गोत्र होकर अपने जातिभाइयों का न्याय करेगा ॥
- १७ दान मार्ग मे का एक साप, और रास्ते मे का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डमता है, जिस मे उमका सवार पछाड खाकर गिर पडता है ॥
- १८ हे यहोवा, मे तुम्ही से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हू ॥
- १९ गाद पर एक दल चढाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा ॥
- २० आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा, और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा ॥
- २१ नप्ताली एक छटी हुई हरिणी है; वह सुन्दर बातें बोलता है ॥
- २२ यूसुफ बलवन्त लता की एक शाखा * है, वह सोते के पाम लगी हुई फलवन्त लता की एक शाखा * है; उसकी डालिया † भीत पर से चढकर फैल जाती है ॥
- २३ धनुर्धारियों ने उमको खेदित किया, और उम पर तीर मारे, और उमके पीछे पडे है ॥
- २४ पर उमका धनुष दृढ रहा, और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी ब्रह्मिमान ईश्वर के हाथो के द्वारा फुर्तिले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, जो इस्लाम का पत्थर भी ठहरेगा ॥
- २५ यह तेरे पिता के उम ईश्वर का काम है, जो तेरी सहायता करेगा, उम सर्वशक्तिमान् का जो तुम्हे ऊपर से आकाश मे की आशीषें, और नीचे मे गहिरें जल मे की आशीषें, और स्नानो, और गर्भ की आशीषें देगा ॥
- २६ तेरे पिता के आशीर्वाद, मेरे पितरो के आशीर्वादो से अधिक बढ गए है और सनातन पहाडियों की मनचाही वस्तुओं की नाई बने रहेंगे : वे यूसुफ के सिर पर, जो अपने भाइयों मे से न्यारा हुआ, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेगे ॥

* मूल में—पुत्र ।

† मूल में—बेटियां ।

२७ बिन्यामीन फाड़नेहारा हुण्डार है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा, और साभ को लूट बाट लेगा ॥

२८ इस्त्राएल के बारहों गोत्र ये ही हैं : और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया, सो ये ही हैं, एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उस ने आशीर्वाद दिया । २९ तब उस ने यह कहकर उनको आज्ञा दी, कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ : इसलिये मुझे हिंती एप्रोन की भूमिवाली गुफा में मेरे बापदादो के साथ मिट्टी देना, ३० अर्थात् उसी गुफा में जो कनान देश में मझे के साभनेवाली मकपेला की भूमि में है, उम भूमि को तो इब्राहीम ने हिंती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था, कि वह कबरिस्तान के लिये उमकी निज भूमि हो । ३१ वहा इब्राहीम और उसकी पत्नी मारा को मिट्टी दी गई; और वही इमहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और बही में ने लिआः को भी मिट्टी दी । ३२ वह भूमि और उस में की गुफा हित्तियों के हाथ में मोल ली गई । ३३ यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब अपने पाव खाट पर समेट प्राण छोड़े, और अपने लोगों में जा मिला ।

५० तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा । २ और यूसुफ ने उन वैद्यों को, जो उसके सेवक थे, आज्ञा दी, कि मेरे पिता की लोथ में सुगन्धद्रव्य भरो; तब वैद्यों ने इस्त्राएल की लोथ में सुगन्धद्रव्य भर दिए । ३ और उसके चालीस दिन पूरे हुए । क्योंकि जिनकी लोथ में सुगन्धद्रव्य भरे जाते हैं, उनको इतने ही दिन पूरे लगते

हैं : और मिस्री लोग उसके लिये सत्तर दिन तक विलाप करते रहे ॥

४ जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह बिनती फिरौन को सुनाओ, ५ कि मेरे पिता ने यह कहकर, कि देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई, कि जो कबर तू ने अपने लिये कनान देश में खुदवाई है उसी में मैं तुझे मिट्टी दूंगा । इसलिये अब मुझे वहा जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात् मैं लौट आऊंगा । ६ तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उनको मिट्टी दे । ७ सो यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिये चला, और फिरौन के सब कर्मचारी, अर्थात् उसके भवन के पुरनिये, और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके सग चले । ८ और यूसुफ के घर के सब लोग, और उसके भाई, और उसके पिता के घर के सब लोग भी सग गए : पर वे अपने बालबच्चों, और भेड-बकरियों, और गाय-बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए । ९ और उसके सग रथ और सवार गए, सो भीड़ बहुत भारी हो गई । १० जब वे आताद के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है पहुँचे, तब वहा अत्यन्त भारी विलाप किया, और यूसुफ ने अपने पिता के लिये सात दिन का विलाप कराया । ११ आताद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा, इसी कारण उस स्थान का नाम आबेलमिस्रैम * पड़ा, और वह यरदन के पार है । १२ और

* अर्थात् मिस्रियों का विलाप ।

इस्त्राएल के पुत्रों ने उस में वही काम किया, जिमकी उस ने उनको आज्ञा दी थी। १३ अर्थात् उन्होने उनको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमिवाली गुफा में, जो मन्ने के साम्हने है, मिट्टी दी, जिमको इब्राहीम ने हिन्ती एप्रोन के हाथ में इस निमित्त माल लिया था, कि वह कबरिस्तान के लिये उसकी निज भूमि हो ॥

(यूसुफ का उषर चरिच)

१४ अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत, जो उसने पिता को मिट्टी देने के लिये उसके मग गए थे, मिन्न में लोट आया। १५ जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित्त यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े, और जितनी बुगई हम ने उस में की थी सब वा पूरा पलटा हम से ले। १६ इसलिये उन्होने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, कि तेरे पिता ने मरने में पहिले हमें यह आज्ञा दी थी, १७ कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना, कि हम बिनती करते हैं, कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हम ने तुझ में बुगई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। १८ और उसके भाई आप भी जाकर उसके साम्हने गिर पड़े, और कहा, देख, हम तेरे दास हैं। १९ यूसुफ ने उन से कहा; मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ ?

२० यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिये बुगई का विचार किया था, परन्तु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिम में वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रगट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। २१ सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल-बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा, इस प्रकार उस ने उनको समझा बुझाकर शान्त दी ॥

२२ और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिन्न में रहता रहा, और यूसुफ एक सौ दस वर्ष जीवित रहा। २३ और यूसुफ एप्रैम के परंपरों तक देखन पाया और मनश्श के पोते, जा माकीर के पुत्र थे, वे उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए *। २४ और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परन्तु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी मुधि लेंगा, और तुम्हें इस देश में निकालकर उस देश में पहुँचा देगा, जिमके देने की उस ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब से शपथ खाई थी। २५ फिर यूसुफ ने इस्त्राएलियों से यह कहकर, कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी मुधि लेंगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, कि हम तेरी हाडियों को वहाँ से उष देश में ले जाएंगे। २६ निदान यूसुफ एक सौ दस वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ में सुगन्धद्रव्य भरे गए, और वह लोथ मिन्न में एक सन्दूक में रखी गई ॥

* मूल में—यूसुफ के घुटनों पर जन्मे।

निर्गमन नाम पुस्तक

(मिस्र में दख्खिनियों की दुर्दशा)

१ इस्त्राएल के पुत्रों के नाम, जो अपने अपने घराने को लेकर याकब के साथ मिस्र देश में आए, ये हैं २ अर्थान रुवेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, ३ इस्माकर, जवूलून, त्रिन्यामीन, ४ दान, नप्ताली, गाद और आशेर। ५ और यूसुफ तो मिस्र में पहिले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब मत्तर प्राणी थे। ६ और यूसुफ, और उनके सब भाई, और उम पीढी के सब लोग मर मिटे। ७ और इस्त्राएल की सन्तान फूलने फलने लगी, और वे लोग अत्यन्त सामर्थी बनते चले गए, और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उन से भर गया।।

८ मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। ९ और उस ने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्त्राएली हम से गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। १० इसलिये आज्ञाओ, हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करे, कही ऐमा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए, और यदि संग्राम का समय आ पड़े, तो हमारे बैरियों से मिलकर हम से लड़े और इस देश से निकल जाए। ११ इसलिये उन्होने उन पर बेगारी करानेवालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुःख दिया करे, तब उन्होने फिरौन के लिये पितोम और रामसेस नाम भण्डार-वाले नगरो को बनाया। १२ पर ज्यो ज्यो वे उनको दुःख देते गए त्यो त्यो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिये वे इस्त्राएलियो

में अत्यन्त डर गए। १३ तीभी मिस्रियो ने इस्त्राएलियो से कठोरता के साथ सेववाई करवाई। १४ और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भाति भाति के काम की कठिन सेवा से दुःखी* कर डाला, जिम किसी काम में वे उन से सेवा करवाते थे उम में वे कठोरता का व्यवहार करते थे।।

१५ शिप्रा और पूआ नाम दो इब्री धाइयो को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, १६ कि जब तुम इब्री स्त्रियो को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरो पर बैठी देखो तब यदि बेटा हो, तो उसे मार डालना, और बेटा हो, तो जीवित रहने दना। १७ परन्तु वे धाइया परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिये मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लडको को भी जीवित छोड़ देती थी। १८ तब मिस्र के राजा ने उनको बूलवाकर पूछा तुम जो लडका को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? १९ धाइयो ने फिरौन को उत्तर दिया, कि इब्री स्त्रिया मिस्री स्त्रियो के समान नहीं हैं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयो के पहुचने से पहिले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। २० इसलिये परमेश्वर ने धाइयो के साथ भलाई की, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। २१ और धाइया इसलिये कि वे परमेश्वर का भय मानती थी उस ने उनके घर बसाए †। २२ तब फिरौन ने अपनी मारी प्रजा के लोगो को आज्ञा दी, कि इब्रियो के

* मूल में—कडुआ।

† मूल में—उनके लिये घर बनाए।

जिनने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी * में डाल देना, और मव बेटियों को जीवित रख छोड़ना ॥

(मूसा को उत्पत्ति और चादि चरित्र)

२ लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया । २ और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुन्दर है, उसे तीन महीने तक छिपा रखा । ३ और जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिये सर्कडों की एक टोकरी लेकर, उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर, उस में बालक को रखकर नील नदी * के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई । ४ उस बालक की बहिन दूर खड़ी रही, कि देखे इसका क्या हाल होगा । ५ तब फिरौन की बेटी नहाने के लिये नदी * के तीर आई; उसकी सखिया नदी * के तीर तीर टहलने लगी; तब उस ने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिये भेजा । ६ तब उस ने उसे खोलकर देखा, कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उस ने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा । ७ तब बालक की बहिन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊँ जो तेरे लिये बालक को दूध पिलाया करे ? ८ फिरौन की बेटी ने कहा, जा । तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई । ९ फिरौन की बेटी ने उस से कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिये दूध पिलाया कर, और मैं तुम्हें मजदूरी दूँगी । तब वह स्त्री बालक

को ले जाकर दूध पिलाने लगी । १० जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा; और उस ने यह कहकर उसका नाम मूसा * रखा, कि मैं ने इसको जल से निकाल लिया ॥

११ उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, और बाहर अपने भाई बन्धुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा; तब उस ने देखा, कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है । १२ जब उस ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया ॥

१३ फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उस ने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं; उस ने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है ? १४ उस ने कहा, किस ने तुम्हें हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया ? जिस भांति तू ने मिस्री को घात किया क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है ? तब मूसा यह सोचकर डर गया, कि निश्चय वह बात खुल गई है । १५ जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की । तब मूसा फिरौन के साम्हने से भागा, और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा; और वह वहाँ एक कुएँ के पास बैठ गया । १६ मिद्यान के याजक की सात बेटिया थी; और वे वहाँ आकर जल भरने लगीं, कि कठौतों में भरके अपने पिता की भेड़-बकरियों को पिलाएँ । १७ तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे; इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की, और भेड़-

* मूल में—योर ।

* अर्थात् जल से निकाला हुआ ।

बकरियों को पानी पिलाया। १८ जब वे अपने पिता हूल के पास फिर आईं, तब उम ने उन से पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो? १९ उन्हो ने कहा, एक मिली पुरुष ने हम को चरवाहो के हाथ से छुड़ाया, और हमारे लिये बहुत जल भरके भेड-बकरियों को पिलाया। २० तब उम ने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहा है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। २१ और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रमत्त हुआ, उस ने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया। २२ और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब मूसा ने यह कहकर, कि मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेशोम * रखा ॥

(यहोवा के मुसा को दर्शन देकर फिरौन के पास भेजने का बर्णन)

२३ बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लम्बी लम्बी साम लेकर आते भरणे लगे, और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुँची। २४ और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उम ने इब्राहीम, और इसहाक, और याकूब के साथ बान्धी थी, स्मरण किया। २५ और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चिन्त लगाया ॥

३ मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड-बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जगल की परली और हारेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास

* अर्थात् बहा परदेशी था, निकाल दिया जाना।

ले गया। २ और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली भाडी के बीच आग की ली में उसको दर्शन दिया, और उम ने दृष्टि उठाकर देखा कि भाडी जल रही है, पर अस्म नहीं होती। ३ तब मूसा ने सोचा, कि मैं उधर फिरके इम बड़े अचम्भे को देखूंगा, कि वह भाडी क्यों नहीं जल जाती। ४ जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुडा चला आता है, तब परमेश्वर ने भाडी के बीच से उसको पुकारा, कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा *। ५ उस ने कहा इधर पास मत आ, और अपने पावों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिम स्थान पर तू खडा है वह पवित्र भूमि है। ६ फिर उस ने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, और इब्राहीम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था अपना मुह ढाप लिया। ७ फिर यहोवा ने कहा, मैं ने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुःख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करानेवालों के कारण होती है उसको भी मैं ने सुना है, और उनकी पीडा पर मैं ने चिन्त लगाया है; ८ इसलिये अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुडाऊँ, और उस देश से निकालकर एक अर्द्ध, और बड़े देश में जिस में दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात् कनानी, हिती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, और यब्सी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। ९ सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पडी है, और मिस्रियों का उन पर अन्धेर करना भी मुझे दिखाई

* मूल में—शुके देख।

पडा है। १० इसलिये आ, मे तुम्हें फिरोन के पास भेजना है कि तू मेरी इस्त्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। ११ तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरोन के पास जाऊँ, और इस्त्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? १२ उस ने कहा, निश्चय मैं तेरे सग रहूँगा, और इस बात का कि तेरा भजनेवाला मैं हूँ, तेरे लिये यह चिन्ह होगा, कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। १३ मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्त्राएलियों के पास जाऊँ उन से यह कहूँ, कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझ तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझ से पूछें, कि उसका क्या नाम है? तब मैं उनको क्या बताऊँ? १४ परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। * फिर उस ने कहा, तू इस्त्राएलियों से यह कहना, कि जिसका नाम मैं हूँ ते उसी ने मुझ तुम्हारे पास भेजा है। १५ फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, कि तू इस्त्राएलियों से यह कहना, कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात् इब्राहीम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर, यहाँवा, उसी ने मुझ को तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। १६ इसलिये अब जाकर इस्त्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर, और उन से कह, कि तुम्हारे पितर इब्राहीम, इसहाक, और याकूब के परमेश्वर, यहाँवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है, कि मैं ने तुम पर और तुम से जो

* कितने टीकाकार कहते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ।

† कितने टीकाकार कहते हैं, मैं हूँ।

बतवि मिस्र में किया जाता है उस पर भी चिन्त लगाया है, १७ और मैं ने ठान लिया है कि तुम को मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी हिब्वी, और यवमी लोगों के देश में ले चलूँगा, जो ऐसा देश है कि जिस में दूध और मधु की धारा बहती है। १८ तब वे तेरी मानेंगे, और तू इस्त्राएली पुरनियों को सग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उस में यों कहना, कि इब्रियों के परमेश्वर, यहाँवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिये अब हम को तीन दिन के मार्ग पर जगल में जाने दे, कि अपने परमेश्वर यहाँवा को बलिदान चढ़ाए। १९ मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुम को जाने न देगा वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। २० इसलिये मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्यकर्मों में जो मिस्र के बीच करूँगा उस देश को मारूँगा, और उसके पश्चात् वह तुम का जाने देगा। २१ तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अग्रह करवाऊँगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। २२ वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन, और अपने अपने घर की पाहुनी से मोने चादी के गहने, और वस्त्र माग लेंगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहिगाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे।

४ तब मूसा ने उत्तर दिया, कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, कि यहाँवा ने तुम्हें दर्शन नहीं दिया। २ यहाँवा ने उस से कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। ३ उस ने कहा, उसे भूमि पर डाल दे, जब उस ने उसे

भूमि पर डाला तब वह मर्प बन गई, और मूसा उसके साम्हने से भागा। ४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूछ पकड़ ले कि वे लोंग प्रतीति करे कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात् इब्राहीम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, और याकूब के परमेश्वर, यहोवा ने तुम्हें का दर्शन दिया है। ५ जब उस ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। ६ फिर यहोवा ने उस से यह भी कहा, कि अपना हाथ छाती पर रखकर टाप। मो उस ने अपना हाथ छाती पर रखकर टाप लिया, फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा, कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। ७ तब उस ने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर टाप। और उस ने अपना हाथ छाती पर रखकर टाप लिया, और जब उस ने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखा है, कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। ८ तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करे, और पहिले चिन्ह को न मान, तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करगे। ९ और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करे और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी * में कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जा जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लोंह बन जायगा। १० मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहिले था, और न जब से तू अपने दाम से बाने करने लगा; मैं तो मूह और जीभ का भद्दा हूँ। ११ यहोवा ने उस से कहा, मनुष्य का मूह

किस ने बनाया है ? और मनुष्य का गूंगा, वा बहिर्ग, वा देखनेवाला, वा अन्धा, मुझ यहोवा का छोड़ कौन बनाता है ? १२ अब जा, मैं तेरे मुख के सग होकर जो तुम्हें कहना होगा वह तुम्हें सिखलाता जाऊगा। १३ उस ने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहें उसी के हाथ से भेज। १४ तब यहोवा का कोप मूसा पर भडका और उस ने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हासन नहीं है ? मुझ ता निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, और वह तेरी भट के लिये निकला भी आता है, और तुम्हें देखकर मन में आनन्दित होगा। १५ इमानिय तू उसे य बात सिखाना, * और मैं उसके मख के सग और तेरे मख के सग होकर जा कुछ तुम्हें करना होगा वह तुम का सिखलाता जाऊगा। १६ और वह तेरी आर में लोंगों में बात किया करेगा, वह तेरे लिये मह आर तू उसके लिये परमेश्वर ठहरेगा। १७ और तू उस लाठी को हाथ में लिए जा, और उसी में उन चिन्ह का दिखाना ॥

१८ तब मूसा अपने समुग यिश्त्रों के पास लौटा और उस में कहा मुझे विदा कर, कि मैं मिस्र में रहनेवाले अपने भाटयों के पास जाकर देखू कि वे अब तक जीवित हैं वा नहीं। यिश्त्रों ने कहा, कुशल से जा। १९ और यहोवा ने मिस्रान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं २० तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिये हुए लौटा। २१ और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुँचे तब सावधान हो

* मूल में उसमें बाने करना और उसके मुह में से बाने डालना।

* मूल में—योग।

जाना, और जो चमत्कार मैं ने तेरे वश मे किए हैं उन सभी को फिरौन को दिखलाना, परन्तु मैं उसके मन को हठीला करूंगा, और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। २२ और तू फिरौन से कहना, कि यहोवा यो कहता है, कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, २३ और मैं जो तुझ से कह चुका हूँ, कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तू ने अब तब उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। २४ और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सगरा में यहोवा ने मूसा मे भेट करके उसे मार डालना चाहा। २५ तब मिस्रपौरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलडी को काट डाला, और मूसा के पावों पर यह कहकर फेंक दिया, कि निश्चय तू लोह बहानेवाला मेरा पति है। २६ तब उस ने उसको छोड़ दिया। और उसी समय खनने के कारण वह बोली, तू लोह बहानेवाला पति है ॥

(मूसा के इस्राएलियों और फिरौन से भेट करने का वर्णन)

२७ तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेट करने को जंगल में जा। और वह गया, और परमेश्वर के पर्वत पर उस से मिला और उसको चूसा। २८ तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है, और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। २९ तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया। ३० और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई, और लोगों के साम्हने वे चिन्ह भी दिखलाए। ३१ और लोगो ने उनकी

प्रतीति की, और यह सुनकर, कि यहोवा ने इस्राएलियों की मुधि ली और उनके दु खो पर दृष्टि की है, उन्हो ने मिर भुकाकर दण्डवत् की ॥

५ इसके पश्चात् मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो बहता है, कि मेरी प्रजा के लोगो को जाने दे, कि वे जंगल में मेरे लिये पर्वत करे। २ फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है, कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूँ ? मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। ३ उन्हा ने कहा, इत्रियों के परमेश्वर ने हम से भेट की है, सो हमें जंगल में तीन दिन के मार्ग पर जाने दे, कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिये नलिदान करे, ऐसा न हो कि वह हम में मरी फेनाए वा तलवार चलवाए। ४ मिस्र के राजा ने उन से कहा हे मूसा, हे हारून, तुम क्या लोगो से काम छडवाने चाहते हो ? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। ५ और फिरौन ने कहा, मुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। ६ और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करवानेवालों को जो उन लोगो के ऊपर थे, और उनके सरदारो को यह आज्ञा दी, ७ कि तुम जो अब तक ईंटे बनाने के लिये लोगो को पुआल दिया करते थे सो आगे को न देना, वे आप ही जाकर अपने लिये पुआल इकट्ठा करे। ८ तौभी जितनी ईंट अब तक उन्हें बनानी पडती थी उतनी ही आगे को भी उन से बनवाना, ईंटो की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे झालसी हैं; इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, कि हम

जाकर अपने परमेश्वर के लिये बलिदान करे। ६ उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उस में परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। १० तब लोगों के परिश्रम करानेवालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उन से कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। ११ तुम ही जाकर जहा कही पुआल मिले वहा से उसको बटोर कर ले आओ, परन्तु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। १२ सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर-बितर हुए कि पुआल की मती खूटी बटोरे। १३ और परिश्रम करनेवाले यह कह कहकर उन से जल्दी करते रहे, कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। १४ और इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम करानेवालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होने मार खाई, और उन से पूछा गया, कि क्या कारण है कि तुम ने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई? १५ तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई यह कहकर दी, कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? १६ तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हम से कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परन्तु दोष तेरे ही लोगों का है। १७ फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी; इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिये बलिदान करने को जाने दे। १८ और अब जाकर अपना काम करो, और पुआल तुम को नहीं दिया जाएगा,

परन्तु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। १९ जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी, और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। २० जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए तब मूसा और हारून, जो उन से भेट करने के लिये खड़े थे, उन्हें मिले। २१ और उन्होने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुम ने हम को फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित * ठहरवाकर हमें घात करने के लिये उनके हाथ में तलवार दे दी है। २२ तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तू ने इस प्रजा के माथ ऐसी बुराई क्यों की? और तू ने मुझ यहा क्यों भेजा? २३ जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिये गया तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तू ने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया।।

६ तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिस से वह उनको बरबस निकालेगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा।।

२ और परमेश्वर ने मूसा से कहा, कि मैं यहोवा हूँ। ३ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहीम, इसहाक, और याकूब को दर्शन देता था, परन्तु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रगट न हुआ। ४ और मैं ने उनके साथ अपनी वाचा दृढ की है, अर्थात् कनान देश जिस में वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूँ। ५ और इस्राएली जिन्हें मिस्री

* मूल में—दुर्गन्धित।

लोग दासत्व में रखने हैं उनका कराहना भी सुनकर मैं ने अपनी वाचा को स्मरण किया है। ६ इस कारण तू इस्राएलियों से कह, कि मैं यहोवा हूँ, और तुम को मिस्रियों के बंधों के नीचे से निकालूँगा, और उनके दासत्व से तुम को छुड़ाऊँगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दण्ड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, ७ और मैं तुम को अपनी प्रजा बनाने के लिये अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा, और तुम जान लोग कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रिया के बंधों के नीचे से निकाल ले आया। ८ और जिस देश के देने की शपथ* मैं ने इब्राहीम, इमहाक, और याकूब से खाई थी † उमी म मैं तुम्हें पहचानकर उम्हें तुम्हारा भाग्यकर दूँगा। मैं तो यहोवा हूँ। ९ और ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परन्तु उन्होंने ने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी।।

१० तब यहोवा ने मूसा से कहा, ११ तू जाकर मिस्र के राजा फिरोन से कह, कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। १२ और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरोन मुझ भद्दे बोलनेवाले ‡ की क्योकर सुनेगा? १३ और यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरोन के लिये आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए।।

१४ उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं इस्राएल के जेठा रूबेन के

* मूल में—को हाथ।

† मूल में—उठाया था।

‡ मूल में—खतनारहित होठवाले।

पुत्र हनोक, पत्लू, हेखोन और कर्मी थे; इन्हीं में रूबेन के कुल निकले। १५ और शिमोन के पुत्र. यमूल, यामीन, आहद, याकिन और सोहर थे, और एक कनानी स्त्री का बेटा शाउल भी था, इन्हीं में शिमोन के कुल निकले। १६ और लेवी के पुत्र जिन में उनकी वशावली चली है, उनके नाम ये हैं अर्थान् गेशॉन, कहान और मरारी, और लेवी की पूरी अवस्था एक सौ मंतीम वर्ष की हुई। १७ गेशॉन के पुत्र जिन में उनका कुल चला लिबनी और शिमी थे। १८ और कहान के पुत्र अन्नाम यिमहार, हन्नोन और उज्जीएल थे, और कहान की पूरी अवस्था एक सौ मंतीम वर्ष की हुई। १९ और मरारी के पुत्र महली और मूशी थे। लेवियों के कुल जिन में उनकी वशावली चली ये ही हैं। २० अन्नाम ने अपनी फूरी योकेबेद को ब्याह लिया और उस में हारून और ममा उत्पन्न हुए, और अन्नाम की पूरी अवस्था एक सौ मंतीम वर्ष की हुई। २१ और यिमहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जित्री थे। २२ और उज्जीएल के पुत्र मीशाएल एलमापन और मित्री थे। २३ और हारून ने अम्मिनादाब की बेटी, और नहशोन की बहिन एलीशेवा को ब्याह लिया, और उस से नादाब, अबीह, ऐलाजार और ईतामार उत्पन्न हुए। २४ और कोरह के पुत्र : अस्मीर, एलकाना और अबीआसाप थे, और इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। २५ और हारून के पुत्र ऐलाजार ने पूतीएल की एक बेटी को ब्याह लिया, और उस से पीनहास उत्पन्न हुआ जिन से उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही हैं। २६ हारून और मूसा वे ही हैं जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी, कि इस्राएलियों को

दल दल करके उनके जत्थों के अनुमार मिस्र देश से निकाल ले आओ। २७ ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरोन से कहा, कि हम इस्त्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे ॥

२८ जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, २९ कि मैं तो यहीवा हूँ, इसलिये जो कुछ मैं तुम में कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरोन से कहना। ३० और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ*, और फिरोन क्योंकर मेरी सुनेगा ?

७ तब यहोवा ने मूसा से कहा, मुन, मैं तुम्हें फिरोन के लिये परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। २ जो जो आज्ञा मैं तुम्हें दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरोन से कहेगा जिस से वह इस्त्राएलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। ३ और मैं फिरोन के मन को कठोर कर दूँगा, और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊँगा। ४ तौभी फिरोन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दण्ड देकर अपनी सेना अर्थात् अपनी इस्त्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। ५ और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्त्राएलियों को उनके बीच से निकाल लूँगा तब मिस्री जान लेंगे, कि मैं यहोवा हूँ। ६ तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। ७ और जब मूसा और हारून फिरोन से बात करने लगे तब मूसा तो अस्सी वर्ष का, और हारून तिरासी वर्ष का था ॥

८ फिर यहोवा ने, मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, ९ कि जब फिरोन तुम से कहे, कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ तब तू हारून से कहना, कि अपनी लाठी को लेकर फिरोन के साम्हने डाल दे, कि वह अजगर बन जाए। १० तब मूसा और हारून ने फिरोन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरोन और उसके कर्मचारियों के साम्हने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। ११ तब फिरोन ने पण्डितों और गणहो करनेवालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। १२ उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। १३ परन्तु फिरोन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उस ने मूसा और हारून की बात को नहीं माना ॥

(मिस्रियों पर दस भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन)

१४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरोन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। १५ इसलिये बिहान को फिरोन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा; और जो लाठी सर्प बन गई थी, उसको हाथ में लिए हुए नील नदी* के तट पर उस से भेंट करने के लिये खड़ा रहना। १६ और उस से इस प्रकार कहना, कि इस्त्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिये तेरे पास भेजा है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे

* मूल में—सतनारहित होठवाला हूँ।

* मूल में—योर।

कि जिस से वे जगल में मेरी उपासना करे, और अब तक तू ने मेरा कहना नहीं माना । १७ यहोवा यों कहता है, इस से तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ; देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी * के जल पर मारूँगा, और जल लोह बन जाएगा, १८ और जो मछलियाँ नील नदी * में हैं वे मर जाएँगी, और नील नदी * बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिये मिस्रियों का जी न चाहेगा । १९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह, कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात् उमकी नदियाँ, नहरें, झीलें, और पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लोह बन जाए; और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भाति के जलपात्रों में लोह ही लोह हो जाएगा । २० तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात् उस ने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी * के जल पर मारा, और नदी का सब जल लोह बन गया । २१ और नील नदी * में जो मछलियाँ थीं वे मर गईं; और नदी * से दुर्गन्ध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके; और सारे मिस्र देश में लोह हो गया । २२ तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र-मंत्रों से वैसा ही किया, तीर्थी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उस ने मूसा और हारून की न मानी । २३ फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुँह फेर के अपने घर में चला गया । २४ और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिये नील नदी * के आस

पास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी * का जल नहीं पी सकते थे । २५ और जब यहोवा ने नील नदी * को मारा था तब से सात दिन हो चुके थे ॥

८ और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझ से इस प्रकार कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिस से वे मेरी उपासना करे । २ और यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मँडक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुँचानेवाला हूँ । ३ और नील नदी-मेढको से भर जाएँगी, और वे तेरे भवन में, और तेरे बिछीने पर, और तेरे कर्मचारियों के घरों में, और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तन्दूरों और कठीतियों में भी चढ़ जाएँगे । ४ और तुझ पर, और तेरी प्रजा, और तेरे कर्मचारियों, सभी पर मेढक चढ़ जाएँगे । ५ फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, कि हारून से कह दे, कि नदियों, नहरों, और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढको को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए । ६ तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया; और मेढको ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया । ७ और जादूगर भी अपने तंत्र-मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेढक चढ़ा ले आए । ८ तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से बिनती करो कि वह मेढको को मुझ से और मेरी प्रजा से दूर करे; और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूँगा जिस से वे यहोवा के लिये बलिदान करे । ९ तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा धमंड रहे, अब मैं तेरे, और तेरे कर्मचारियों, और

* मूल में—योर ।

* मूल में—योर ।

प्रजा के निमित्त कब बिनती करूँ, कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेढकों को दूर करे, और वे केवल नील नदी * में पाए जाएँ ? १० उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। ११ और मेढक तेरे पास से, और तेरे घरों में से, और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। १२ तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेढकों के विषय यहोवा की दोहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। १३ और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेढक घरों, आगनों, और खेतों में मर गए। १४ और लोगों ने इकट्ठे करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गन्ध से भर गया। १५ परन्तु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया, और उनकी न सुनी ॥

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, कि तू अपनी लाठी बढाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकिया बन जाए। १७ और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात् हारून ने लाठी को ले हाथ बढाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया हो गई वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकिया बन गई। १८ तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकिया ले आएँ, परन्तु यह उनसे न हो सका। और मनुष्यों और पशुओं

* मूल में—योर।

दोनों पर कुटकिया बनी ही रही। १९ तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। * तीभी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया, और उसने मूसा और हारून की बात न मानी ॥

२० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तडके उठकर फिरौन के साम्हने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, कि यहोवा तुझ से यह कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपासना करें। २१ यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो मुन, मैं तुझ पर, और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर, और तेरे घरों में झुंड के झुंड डाम भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डसों से भर जाएगी। २२ उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूँगा, और उसमें डसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। २३ और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अन्तर ठहराऊँगा। यह चिन्ह कल होगा। २४ और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन, और उसके कर्मचारियों के घरों में, और सारे मिस्र देश में डसों के झुंड के झुंड भर गए, और डसों के मारे वह देश नाश हुआ। २५ तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिये इसी देश में बलिदान करो। २६ मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिये मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम

* मूल में— १६ परमेश्वर की अगुली है।

मिस्त्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करे तो क्या वे हम को पत्थरवाह न करेगे ? २७ हम जगल में तीन दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिये जैसा वह हम से कहेगा वैसा ही बलिदान करेगे। २८ फिरौन ने कहा, मैं तुम को जगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर-यहोवा के लिये जगल में बलिदान करो; केवल बहुत दूर न जाना, और मेरे लिये बिनती करो। २९ तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से बिनती करूंगा कि डासों के भुड़ तेरे, और तेरे कर्मचारियों, और प्रजा के पास से कल ही दूर हो, पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिये बलिदान करने को जाने देने के लिये नाही न करे। ३० सो मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से बिनती की। ३१ और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डासों के भुड़कों को फिरौन, और उसके कर्मचारियों, और उसकी प्रजा से दूर किया; यहा तक कि एक भी न रहा। ३२ तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को सुन्न किया, और उन लोगों को जाने न दिया।।

६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुम्ह से इस प्रकार कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि मेरी उपासना करें। २ और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे, ३ तो सुन, तेरे जो घोड़े, गदहे, जैट, गाय-बैल, भेड़-बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। ४ और यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्त्रियों के पशुओं

में ऐसा अन्तर करेगा, कि जो इस्राएलियों के हैं उन में से कोई भी न मरेगा। ५ फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, कि मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। ६ दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया; और मिस्त्र के तो सब पशु मर गए, परन्तु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। ७ और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तौभी फिरौन का मन सुन्न हो गया, और उम ने उन लोगों को जाने न दिया।।

८ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कि तुम दोनों भट्टी में से एक एक भट्टी रख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के साम्हने आकाश की ओर उडा दे। ९ तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्त्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। १० सो वे भट्टी में की रख लेकर फिरौन के साम्हने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उडा दिया, और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। ११ और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के साम्हने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्त्रियों के जैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। १२ तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, उस ने उसकी न सुनी।।

१३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के साम्हने खड़ा हो, और उस से कह इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपासना करें। १४ नहीं तो अब की बार

में तुझ पर, * और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियाँ डालूँगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। १५ में ने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, १६ परन्तु सचमुच मैं ने इसी कारण तुझे बनाए रखा है, कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊँ, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूँ। १७ क्या तू अब भी मेरी प्रजा के साम्हने अपने आप को बड़ा समझता है, और उन्हें जाने नहीं देता? १८ सुन, कल में इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊँगा, कि जिन के तुल्य मिस्र की नेव पडने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। १९ सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सब को फुर्ती से आड में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य वा पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठे न किए जाए उन पर ओले गिरेंगे, और वे मर जाएंगे। २० इसलिये फिरीन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे उन्होने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। २१ पर जिन्होने यहोवा के वचन पर मन न लगाया उन्होने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया ॥

२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा, कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरें। २३ तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया; और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने

लगा, और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। २४ जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। २५ इसलिये मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य, क्या पशु, जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। २६ केवल गोशेन देश में जहाँ इस्त्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। २७ तब फिरीन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उन से कहा, कि इस बार मैं ने पाप किया है, यहोवा धर्मी है, और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी हैं। २८ मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया, अब भविष्य में यहोवा से बिनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूँगा, और तुम न रोके जाओगे। २९ मूसा ने उस से कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊँगा, तब बादल का गरजना बन्द हो जाएगा, और ओले फिर न गिरेंगे, इस से तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। ३० तौभी मैं जानता हूँ, कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। ३१ सन और जब तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जब की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगने हुए थे। ३२ पर गेहूँ और कठिया गेहूँ जो बढ़े न थे, इस कारण वे मारे न गए। ३३ जब मूसा ने फिरीन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बन्द हुआ, और फिर बहुत में भूमि पर न पड़ा।

* मूल में—तेरे हृदय पर।

३४ यह देखकर कि मंह और ओलों और बादल का गरजना बन्द हो गया फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। ३५ और फिरौन का मन हठीला होता गया, और उस ने इस्राएलियों को जाने न दिया; जैसा कि यहाँवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था।।

१० फिर यहाँवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा; क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिये कठोर कर दिया है, कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊँ। २ और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्गन करो कि यहाँवा ने मित्रियों को कैसे ठट्टे में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रगट किए हैं, जिस से तुम यह जान लोगे कि मैं यहाँवा हूँ। ३ तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, कि इत्रियों का परमेश्वर यहाँवा तुझ से इस प्रकार कहता है, कि तू कब तक मेरे साम्हने दीन होने से सकोच करना रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपासना करे। ४ यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा। ५ और वे धरती को ऐसा छा लेंगी, कि वह देख न पड़ेगी; और तुम्हारा जो कुछ ओलो से बच रहा है उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएगी, ६ और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों, निदान सारे मित्रियों के घरों में भर जाएंगी; इतनी टिड्डियाँ तेरे बापदादों ने वा उनके पुरखाओ ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से

आज तक कभी न देखी। और वह मुह फेरकर फिरौन के पास से बाहर गया। ७ तब फिरौन के कर्मचारी उस से कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिये फन्दा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे, कि वे अपने परमेश्वर यहाँवा की उपासना करे, क्या तू अब तक नहीं जानता, कि माग मिस नाश हो गया है? ८ तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए, और उस ने उन से कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहाँवा की उपासना करो; परन्तु वे जो जानवाले हैं, कौन कौन है? ९ मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड-बकड़ियों, गाय-बैलो समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमे यहाँवा के लिये पर्व्व करना है। १० उम ने इस प्रकार उन से कहा, यहाँवा तुम्हारे सग रहे जब कि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो, तुम्हारे आगे को बुराई है। ११ नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहाँवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए।।

१२ तब यहाँवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा, कि टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढके भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सन को चट कर जाए। १३ और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहाँवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई; और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आईं। १४ और टिड्डियों ने चढके मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया, उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहिले ऐसी टिड्डियाँ आई थी, और न उनके पीछे ऐसी फिर आएगी।

१५ वे तो सारी धरती पर छा गई, यहां तक कि देश अन्धेरा हो गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल, निदान जो कुछ ओलों से बचा था, सब को उन्होंने ने चट कर लिया, यहां तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। १६ तब फिरोन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवाके कहा, मैं ने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। १७ इसलिये अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो, और अपने परमेश्वर यहोवा से बिनती करो, कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। १८ तब मूसा ने फिरोन के पास से निकल कर यहोवा से बिनती की। १९ तब यहोवा ने बहुत प्रचण्ड पछुवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुन्द्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डि न रह गई। २० तौभी यहोवा ने फिरोन के मन को कठोर कर दिया, जिस से उस ने इस्राएलियों को जाने न दिया ॥

२१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अन्धकार छा जाए, ऐसा अन्धकार कि टटोला जा सके। २२ तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में तीन दिन तक घोर अन्धकार छाया रहा। २३ तीन दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा, और न कोई अपने स्थान से उठा; परन्तु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। २४ तब फिरोन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो; अपने बालकों को भी संग ले जाओ; केवल अपनी भेड़-बकरी और गाय-बैल को छोड़ जाओ।

२५ मूसा ने कहा, तुम्हें को हमारे हाथ मेलबलि और होमबलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिये चढ़ाए। २६ इसलिये हमारे पशु भी हमारे सग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हम को अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होंगी। २७ पर यहोवा ने फिरोन का मन हठीला कर दिया, जिस से उस ने उन्हें जाने न दिया। २८ तब फिरोन ने उस से कहा, मेरे साम्हने से चला जा; और सचेत रह; मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुह दिखलाए उसी दिन तू मारा जाएगा। २९ मूसा ने कहा, कि तू ने ठीक कहा है; मैं तेरे मुह को फिर कभी न देखूंगा ॥

११ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरोन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात् वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा; और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। २ मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना, कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी, और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। ३ तब यहांवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरोन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान् था ॥

४ फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, कि आधी रातके लगभग

में मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। ५ तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फ़िरोन से लेकर चक्की पीसनेवाली दासी तक के पहिलौठे; वरन पशुओं तक के सब पहिलौठे मर जाएंगे। ६ और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। ७ पर इस्राएलियों के विरुद्ध, क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भोकेगा, जिस से तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में यहोवा अन्तर करता है। ८ तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दगडवत् करके यह कहेंगे, कि अपने सब अनुचरो समेत निकल जा। और उसके पश्चात् मैं निकल जाऊंगा। यह कह कर मूसा बड़े क्रोध में फ़िरोन के पास से निकल गया ॥

६ यहोवा ने मूसा से कह दिया था, कि फ़िरोन तुम्हारी न सुनेगा; क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार कर्ण। १० मूसा और हारून ने फ़िरोन के साम्हने ये सब चमत्कार किए; पर यहोवा ने फ़िरोन का मन और कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने न दिया ॥

(कषच नाम पर्व का विधान और दशरथियों का कूच करना)

१२ फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, २ कि यह महीना तुम लोगों के लिये आरम्भ का ठहरे; अर्थात् वर्ष का पहिला महीना यही ठहरे। ३ इस्राएल की सारी मण्डली से इस प्रकार कहो, कि इसी महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने पितरो के घरानों के अनुसार, घराने पीछे एक एक

मेम्ना ले रलो। ४ और यदि किसी के घराने में एक मेम्ने के खाने के लिये मनुष्य कम हों, तो वह अपने सब से निकट रहनेवाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेम्ना ले रखे; और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेम्ने का हिसाब करना। ५ तुम्हारा मेम्ना निर्दोष और पहिले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। ६ और इस महीने के चौदहवें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूलि के समय इस्राएल की सारी मण्डली के लोग उसे बलि करे। ७ तब वे उसके लोह में से कुछ लेकर जिन घरों में मेम्ने को लाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगो और चौखट के सिरे पर लगाए। ८ और वे उसके मास को उसी रात आग में भूजकर अखमीरी रोटी और कडवे सागपात के साथ लाए। ९ उसको सिर, पैर, और अतडियों समेत आग में भूजकर खाना, कच्चा वा जल में कुछ भी पकाकर न खाना। १० और उस में से कुछ बिहान तक न रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए, तो उसे आग में जला देना। ११ और उसके खाने की यह विधि है; कि कमर बान्धे, पाव में जूती पहिने, और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना; वह तो यहोवा का पर्व* होगा। १२ क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, सब के पहिलौठों को मारूंगा; और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दण्ड दूंगा; मैं तो यहोवा हूं। १३ और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह

* अर्थात् लाघनपर्व ।

लोह तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात् मैं उस लोह को देखकर तुम को छोड़ * जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगो को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। १४ और वह दिन तुम को स्मरण दिलानेवाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिये पब्लं करके मानना, वह दिन तुम्हारी पीढियो मे सदा की विधि जानकर पब्लं माना जाए। १५ सात दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उन मे से पहिले ही दिन अपने अपने घर मे से खमीर उठा डालना, वरन जो कोई पहिले दिन से लेकर सातवे दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्त्राएलियो मे से नाश किया जाए। १६ और पहिले दिन एक पवित्र सभा, और सातवे दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन दोनो दिनों मे कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। १७ इसलिये तुम बिना खमीर की रोटी का पब्लं मानना, क्योंकि उसी दिन † मानो मैं ने तुम को दल दल करके मिस्र देश से निकाला है, इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढियो मे सदा की विधि जानकर माना जाए। १८ पहिले महीने के चौदहवे दिन की साभ से लेकर इक्कीसवे दिन की साभ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। १९ सात दिन तक तुम्हारे घरों मे कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्त्राएलियो की मगडली से नाश किया जाए। २० कोई खमीरी वस्तु न खाना, अपने

सब घरों मे बिना खमीर की रोटी खाया करना ॥

२१ तब मूसा ने इस्त्राएल के सब पुरनियो को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेम्ना अलग कर रखो, और फसह का पशु बलि करना। २२ और उसका लोह जो तसले मे होगा उस मे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले मे के लोह से द्वार * के चौखट के सिरे और दोनो अलगो पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम मे से कोई घर से बाहर न निकले। २३ क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियो को मारता जाएगा, इसलिये जहा जहा वह चौखट के सिरे, और दोनो अलगो पर उस लोह को देखेगा, वहा वहा वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करनेवाले को तुम्हारे घरों मे मारने के लिये न जाने देगा। २४ फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वश के लिये सदा की विधि जानकर माना करो। २५ जब तुम उस देश मे जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुम को देगा प्रवेश करो, तब वह काम किया करना। २६ और जब तुम्हारे लडकेवाले तुम से पूछे, कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है? २७ तब तुम उनको यह उत्तर देना, कि यहोवा ने जो मिस्रियो के मारने के समय मिस्र मे रहने-वाले हम इस्त्राएलियो के घरों को छोडकर † हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह * का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगो ने सिर झुकाकर दरडवत् की। २८ और इस्त्राएलियो ने जाकर, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी, उसी के अनुसार किया ॥

* मूल में—लाघके।

† मूल में—आज ही के दिन।

* अर्थात् लाघनपब्लं।

† मूल में—लाघ।

२६ और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजनेवाले फ़िरौन से लेकर गड़हे में पड़े हुए बन्धुए तक सब के पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला ।

३० और फ़िरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्री उठे; और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। ३१ तब फ़िरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ; और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। ३२ अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़-बकरियों और गाय-बैलों को साथ ले जाओ; और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। ३३ और मिस्री जो कहते थे, कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्हो ने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, कि देश से भ्रष्ट निकल जाओ। ३४ तब उन्हो ने अपने गन्धे गुन्धाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बान्धके अपने अपने कन्धे पर डाल लिया। ३५ और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चादी के गहने और वस्त्र माग लिये। ३६ और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया, कि उन्हो ने जो जो मागा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया ॥

३७ तब इस्राएली रामसेस से कूच करके मुक्कोत को चले, और बालबच्चों को छोड़ वे कोई छः लाख पुरुष प्यादे थे। ३८ और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़-बकरी, गाय-बैल, बहुत

से पशु भी साथ गए। ३९ और जो गून्धा आटा वे मिस्र से साथ ले गए उसकी उन्हो ने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई; क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए, कि उन्हें भ्रवसर भी न मिला की मार्ग में खाने के लिये कुछ पका सके, इसी कारण वह गून्धा हुआ आटा बिना खमीर का था। ४० मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को चार सौ तीस वर्ष बीत गए थे। ४१ और उन चार सौ तीस वर्षों के बीतने पर, ठीक उसी दिन, यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। ४२ यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य है; यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढी पीढी में मानना इस्राएलियों के लिये अति अवश्य है ॥

४३ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व * की विधि यह है; कि कोई परदेशी उस में से न खाए, ४४ पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो, और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उस में से खा सकेगा। ४५ पर परदेशी और मजदूर उस में से न खाए। ४६ उसका खाना एक ही घर में हो; अर्थात् तुम उसके मास में से कुछ घर से बाहर न ले जाना, और बलिपशु की कोई हड्डी न तोड़ना। ४७ पर्व * का मानना इस्राएल की सारी मरइती का कर्तव्य कर्म है। ४८ और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिये पर्व * को मानना चाहे, तो वह अपने यहां के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह देशी

* अर्थात् लांघनपर्व ।

मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना-रहित पुरुष उस में से न खाने पाए। ४६ उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहनेवाले परदेशी दोनों के लिये एक ही हो। ५० यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया। ५१ और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया ॥

१३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
२ कि क्या मनुष्य के क्या पशु के, इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी मा के जेठे हों, उन्हें मेरे लिये पवित्र मानना; वह तो मेरा ही है ॥

३ फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो, जिस में तुम लोग दासत्व के घर, अर्थात् मिस्र से निकल आए हो, यहोवा तो तुम को वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया; इस में खमीरी रोटी न खाई जाए। ४ आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। ५ इस-लिये जब यहोवा तुम को कनानी, हिती, एमोरी, हिब्बी, और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उस ने तुम्हारे पुरखाओ से शपथ खाई थी, और जिस में दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना। ६ सात दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और सातवें दिन * यहोवा के लिये पर्व मानना। ७ इन सातों दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए; वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी, न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। ८ और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कहके समझा देना,

* मूल में—उस दिन।

कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं, जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिये किया था। ९ फिर यह तुम्हारे लिये तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा, और तुम्हारी आंखों के साम्हने स्मरण करानेवाली वस्तु ठहरे; जिस से यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे: क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवन्त हाथों से मिस्र से निकाला है। १० इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना ॥

११ फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार, जो उस ने तुम्हारे पुरखाओं से और तुम से भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, १२ तब तुम में से जितने अपनी अपनी मा के जेठे हों उनको, और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिये अर्पण करना; सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। १३ और गदही के हर एक पहिलौठे की सन्ती मेम्ना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना। पर अपने सब पहिलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। १४ और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुम से पूछें, कि यह क्या है? तो उन से कहना, कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से, अर्थात् मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। १५ उस समय जब फिराने ने कठोर होकर हम को जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सब के पहिलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी मा के पहिलौठे नर हैं, उन्हें हम यहोवा के लिये बलि करते हैं; पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। १६ और यह तुम्हारे

हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भौहों के बीच टीका सा ठहरे; क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है ॥

१७ जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तीभी परमेश्वर यह सोच कर उनको उम मार्ग से नहीं ले गया, कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पल्लताकर मिस्र को लौट आए। १८ इसलिये परमेश्वर उनको चक्कर ग्विलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। और इस्राएली पाति बान्धे हुए मिस्र से निकल गए। १९ और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया; क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहके, कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ ग्विलाई थी, कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। २० फिर उन्होंने ने सुककोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। २१ और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिये मेघ के खम्भे में, और रात को उजियाला देने के लिये आग के खम्भे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। २२ उस ने न तो बादल के खम्भे को दिन में और न आग के खम्भे को रात में लोगों के आगे से हटाया ॥

(इस्राएल के लाल समुद्र के पार जाने का वर्यन)

१४ यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्राएलियों को आज्ञा दे, कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच,

पीहाहीरोत के मम्मूख, बालसपोन के साम्हने अपने डेरे खड़े करें, उसी के साम्हने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। ३ तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, कि वे देश के उलझनों में बभ्ने हैं और जंगल में घिर गए हैं। ४ तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, और वह उनका पीछा करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्हो ने वैसा ही किया। ५ जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया, और वे कहने लगे, हम ने यह क्या किया, कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया ? ६ तब उम ने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को सग लिया। ७ उम ने छ' सौ अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सभों पर सरदार बैठाए। ८ और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। सो उम ने इस्राएलियों का पीछा किया; परन्तु इस्राएली तो बेखटके * निकले चले जाते थे। ९ पर फिरौन के सब घोड़ों, और रथों, और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें, जो पीहाहीरोत के पास, बालसपोन के साम्हने, समुद्र के तीर पर डेरें डाले पड़े थे, जा लिया ॥

१० जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा, कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं; और इस्राएली अत्यन्त डर गए, और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। ११ और

* मूल में—ऊचे हाथ के साथ।

वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कबरें न थी जो तू हम को वहां में मरने के लिये जगल में ले आया है ? तू ने हम से यह क्या किया, कि हम को मिस्र से निकाल लाया ? १२ क्या हम तुझ में मिस्र में यही बान न कहने रहे, कि हमें रहने दे कि हम मित्रियों की सेवा करें ? हमारे लिये जगल में मरने से मित्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। १३ मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिये करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। १४ यहोवा आप ही तुम्हारे लिये लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो।।

१५ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है ? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। १६ और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। १७ और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे, तब फिरौन और उसकी सारी सेना, और रथों, और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। १८ और जब फिरौन, और उसके रथों, और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। १९ तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया; और बादल का खम्भा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। २० इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अन्धकार

तो हुआ, तीभी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। २१ और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचण्ड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया, जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। २२ तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देना था। २३ तब मिस्री, अर्थात् फिरौन के सब घोड़े, रथ, और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। २४ और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खम्भे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। २५ और उस ने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया, तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ, हम इस्राएलियों के साम्हने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है।।

२६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, कि जल मिस्रियों, और उनके रथों, और सवारों पर फिर बहने लगे। २७ तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ, कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया; और मिस्री उलटे भागने लगे, परन्तु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में भटक दिया। २८ और जल के पलटने से, जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उस में डूब गई, और उस में से एक भी न बचा। २९ परन्तु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर

होकर चले गए, और जल उनकी दहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। ३० और यहोवा ने उम दिन इस्त्राएलियों को मित्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इस्त्राएलियों ने मित्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। ३१ और यहोवा ने मित्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उमको देखकर इस्त्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उमके दास मूसा की भी प्रतीति की ॥

१५ तब मूसा और इस्त्राएलियों ने यहोवा के लिये यह गीत गाया।
उन्हो ने कहा,

मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है,
घोड़ों समेत सवारों को उस ने समुद्र में डाल दिया है ॥

२ यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है,
और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है;
मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, (मैं उमके लिये निवासस्थान बनाऊंगा),
मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है,
मैं उसको सराहूंगा ॥

३ यहोवा योद्धा है;
उसका नाम यहोवा है ॥

४ फिरौन के रथों और सेना को उम ने समुद्र में डाल दिया;
और उसके उत्तम में उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए ॥

५ गहिरें जल ने उन्हें ढाप लिया;
वे पत्थर की नाईं गहिरें स्थानों में डूब गए ॥

६ हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ
हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है ॥

७ और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है;
तू अपना कोप भडकाता, और वे भूमे की नाईं भ्रम हो जाते हैं ॥
८ और तेरे नथनों की सास से जल एकत्र हो गया,
धाराएँ ढेर की नाईं थम गईं;
समुद्र के मध्य में गहिरा जल जम गया ॥

९ शत्रु ने कहा था,
मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा,
मैं लूट के माल को बाट लूंगा,
उन से मेरा जी भर जाएगा।
मैं अपनी तलवार खींचने ही अपने हाथ में उनको नाश कर डालूंगा ॥

१० तू ने अपने श्वाम का पवन चलाया,
तब समुद्र ने उनको ढाप लिया;
वे महाजलराशि में मीसे की नाईं डूब गए ॥

११ हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है ?

तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी, और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य,
और आश्चर्य कर्म का कर्ता है ॥

१२ तू ने अपना दहिना हाथ बढ़ाया,
और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है ॥

१३ अपनी करूंगा से तू ने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की

अपने बल से तू उमे अपने पवित्र निवासस्थान को ले चला है ॥

१४ देश देश के लोग सुनकर काप उठेंगे; पलिस्तियों के प्राणों के लाले पड जाएंगे ॥

१५ एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे; मोआब के पहलवान थगथग उठेंगे; सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे ॥

१६ उन में डर और घबराहट समा जाएगा;
तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे,
जब तक, हे यहोवा, तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए,
जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तू ने मोल लिया है पार न निकल जाए ॥

१७ तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग-वाले पहाड पर बसाएगा, यह वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तू ने अपने निवास के लिये बनाया, और वही पवित्रस्थान है जिसे, हे प्रभु, तू ने आप ही स्थिर किया है ॥

१८ यहोवा सदा सर्वदा गज्य करता रहेगा ॥

१९ यह जीत गाने का कारण यह है, कि फिरोन के छोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया; परन्तु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। २० और हाहून की बहिन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया; और सब स्त्रिया डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली।

२१ और मरियम उनके साथ यह टेक गाना गई कि —

यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महा-प्रतापी ठहरा है;

घोड़ों समेत सवारों को उम ने समुद्र में डाल दिया है ॥

२२ तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र में आगे ले गया, और वे शूर नामजगल में आए; और जगल में जाते हुए तीन दिन तक पानी का सोता न मिला। २३ फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उमे वे न पी सके; इस कारण उस स्थान का नाम मारा * पडा।

२४ तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकभक करने लगे, कि हम क्या पीए ?

२५ तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उस ने पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिये एक विधि और नियम बनाया, और वही उस ने यह कहकर उनकी परीक्षा की, २६ कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैं ने मित्रियों पर भेजा है उन में मे एक भी तुझ पर न भेजूगा; क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करनेवाला यहोवा हूँ ॥

(इस्राएलियों को खाकाश में रोटी और चडान में से पानी मिलाने का वर्णन)

२७ तब वे एलीम को आए, जहां पानी के बारह सोते और सत्तर खजूर के पेड थे;

* अर्थात् खारा वा कड़वा।

और वहा उन्हो ने जल के पास डेरे खड़े किए ।।

१६ फिर एलीम से कूच करके इस्त्राएलियों की सारी मरगडली, मिश्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के पंद्रहवें दिन को, मीन नाम जगल में, जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है, आ पहुँची। २ जगल में इस्त्राएलियों की सारी मरगडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकभक करने लगी। ३ और इस्त्राएली उन से कहने लगे, कि जब हम मिश्र देश में मास की हाडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाने थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था; पर तुम हम को इस जगल में इसलिये निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखो मार डालो। ४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिये आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा; और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इस से मैं उनकी परीक्षा करूँगा, कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। ५ और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से दूना होगा, इसलिये जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। ६ तब मूसा और हारून ने सारे इस्त्राएलियों से कहा, साभ को तुम जान लोगे कि जो तुम को मिश्र देश से निकाल ले आया है वह वहीवा है। ७ और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुडाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं, कि तुम हम पर बुड़बुडाते हो? ८ फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा साभ को तुम्हें खाने के लिये मांस और भोर को रोटी मनमाने

देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुडाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुडाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। ९ फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्त्राएलियों की सारी मरगडली को आज्ञा दे, कि यहोवा के साम्हने वरन उमके समीप आवे, क्योंकि उस ने उनका बुड़बुडाना सुना है। १० और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्त्राएलियों की सारी मरगडली से ऐसी ही बातें कर रहा था, कि उन्हो ने जगल की ओर दृष्टि करके दवा, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। ११ तब यहोवा ने मूसा से कहा, १२ इस्त्राएलियों का बुड़बुडाना मैं ने सुना है, उन से कह दे, कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। १३ और ऐसा हुआ कि साभ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारो ओर ओस पड़ी। १४ और जब ओस सूख * गई तो वे क्या देखते हैं, कि जगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनको के समान पड़े हैं। १५ यह देखकर इस्त्राएली, जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना † है। तब मूसा ने उन से कहा, यह तो वही भोजन-वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिये देता है। १६ जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, कि तुम उस में से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात् अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार, प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना; जिसके डेरे में जितने हों वह उन्ही भर के लिये

* मूल—में चढ ।

† मन्ना क्या, वा अन्न ।

बटोरा करे। १७ और इस्राएलियों ने वैसा ही किया; और किसी ने अधिक, और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। १८ और जब उन्हो ने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। १९ फिर मूसा ने उन से कहा, कोई इस में से कुछ बिहान तक न रख छोड़े। २० तीभी उन्हो ने मूसा की बात न मानी, इसलिये जब किसी किसी मनुष्य ने उस में से कुछ बिहान तक रख छोड़ा, तो उस में कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा; तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। २१ और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी, तब वह गल जाता था। २२ और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्हो ने दूना, अर्थात् प्रति मनुष्य के पीछे दो दो ओमेर बटोर लिया, और मण्डली के सब प्रधानो ने आकर मूसा को बता दिया। २३ उस ने उन से कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम-विश्राम, अर्थात् यहोवा के लिये पवित्र विश्राम होगा; इसलिये तुम्हें जो तन्दूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिंभाना हो उसे सिंभाओ, और इस में से जितना बचे उसे बिहान के लिये रख छोड़ो। २४ जब उन्हो ने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया, और न उस में कीड़े पड़े। २५ तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम-दिन है; इसलिये आज तुम को वह मैदान में न मिलेगा। २६ छः दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे; परन्तु सातवा दिन तो

विश्राम का दिन है, उस में वह न मिलेगा। २७ तीभी लोगों में से कोई कोई सातवें दिन भी बटोरने के लिये बाहर गए, परन्तु उनको कुछ न मिला। २८ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? २९ देखो, यहोवा ने जो तुम को विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह छठवें दिन को दो दिन का भोजन तुम्हें देता है; इसलिये तुम अपने अपने यहां बैठे रहना, सातवें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। ३० लोगों ने मानवें दिन विश्राम किया। ३१ और इस्राएल के घरानेवालो ने उम वस्तु का नाम मन्ना रखा; और वह धनिया के समान श्वेत था, और उमका स्वाद मधु के बने हुए पूए का सा था। ३२ फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है, कि इस में से ओमेर भर अपने वश की पीठी पीठी के लिये रख छोड़ो, जिससे वे जानें कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। ३३ तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उस में ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिये रखा रहे। ३४ जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के सन्दूक के आगे धर दिया, कि वह वही रखा रहे। ३५ इस्राएली जब तक बसे हुए देश में न पहुँचे तब तक, अर्थात् चालीस वर्ष तक मन्ना को खाते रहे; वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुँचे तब तक मन्ना को खाते रहे। ३६ एक ओमेर तो एपा का दसवा भाग है।

१७

फिर इस्राएलियों की सारी मण्डली सीन नाम जंगल से निकल

चली, और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहा उन लोगो का पीने का पानी न मिला। २ इसलिए वे मूसा में वादविवाद करके कहने लगे, कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उन में कहा, तुम मुझ में क्यों वादविवाद करने हो ? और यहोवा की परीक्षा क्या करने हो ? ३ फिर वहा लोगो का पानी की प्यास लगी तब वे यह कहकर मूसा पर बुडबुडाने लगे, कि तू हमें लडकेवाला और पशुआ समेत प्यासों मार डालने के लिये मिस्र से क्यों ले आया है ? ४ तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और कहा, इन लोगो में मैं क्या करू ? ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार हैं। ५ यहोवा ने मूसा में कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगो में मैं कुछ को अपने साथ ले ले, और जिम लाठी में तू न नील नदी* पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगो के आगे बढ चल। ६ देख, मैं नेरे आगे चलकर होरेब पहाड की एक चट्टान पर खडा रहूगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उस में से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पीए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगो के देखते वैसा ही किया। ७ और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा† और मरीबा ‡ रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहा वादविवाद किया था, और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, कि क्या यहोवा हमारे बीच है वा नहीं ?

(अमालेकियों पर विजय)

८ तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लडने लगे। ९ तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिये कई एक पुरुषों

* मूल में—योर।

† अर्थात् परीक्षा। ‡ अर्थात् भगड़ा।

को चुनकर छाट ले, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिये हुए पहाडी की चोटी पर खडा रहूगा। १० मूसा की इस आज्ञा क अनुसार यहोशू अमालेकियों से लडने लगा, और मूसा, हारून, और हूर पहाडी की चोटी पर चढ गए। ११ और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहना था तब तक ता इस्राएल प्रबल होता था, परन्तु जब जब वह उसे नीचे करना तब तब अमालेक प्रबल होता था। १२ और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्हो ने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को सम्भाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। १३ और यहोशू ने अनुचरो समेत अमालेकियों को तलवार के बल में हरा दिया। १४ तब यहोवा ने मूसा में कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे, कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति में मिटा डालूगा। १५ तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवानिस्मी* रखा, १६ और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है, कि यहोवा अमालेकियों से पीडियो तक लडाई करता रहेगा ॥

(बुधा को अपने ससुर से भेंट करने का बर्षण)

१८ और मूसा के ससुर मिदान के याजक यित्री ने यह सुना, कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिये क्या क्या किया है, अर्थात् यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र

* अर्थात् ईश्वर सहाय।

से निकाल ले आया। २ तब मूसा के समुद्र यित्रो मूसा की पत्नी मिप्पोरा को, जो पहिले नैहर भेज दी गई थी, ३ और उसके दोनो बेटो को भी ले आया, इन में से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ। ४ और दूसरे का नाम उम ने यह कहकर एलीएजेर* रखा, कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा महायक होकर मुझे फिरोन की तलवार से बचाया। ५ मूसा की पत्नी और पुत्रों को उमका समुद्र यित्रो मग लिए मूसा के पास जगल के उम स्थान में आया, जहा परमेश्वर के पर्वत के पास उमवा डेरा पडा था। ६ और आकर उम ने मूसा के पास यह कहला भेजा, कि मैं तेरा समुद्र यित्रो हूँ, और दोनो बेटो समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। ७ तब मूसा अपने समुद्र में भेट करने के लिये निबला, और उमको दण्डवत् करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। ८ वहा मूसा ने अपने समुद्र से वार्णन किया, कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरोन और मित्रियों में क्या क्या किया, और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुडाता आया है। ९ तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, कि उन्हें मित्रियों के वश से छुडाया था, मग्न होकर कहा, १० धन्य हैं यहोवा, जिस ने तुम को फिरोन और मित्रियों के वश से छुडाया, जिस ने तुम लोगो को मित्रियों की मुट्टी में से छुडाया है। ११ अब मैं ने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है;

* अर्थात् यहोवा मेरा भ्रूण है।

वरन उम विषय में भी जिस में उन्हो ने इस्राएलियों में अभिमान किया था। १२ तब मूसा के समुद्र यित्रो ने परमेश्वर के लिये होमबलि और मेलबलि चढाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुर्नियो समेत मूसा के समुद्र यित्रो के मग परमेश्वर के आगं भोजन करने का आया। १३ दूसरे दिन मूसा लोगो का न्याय करने को बैठा, और भोर से साभ तक लोग मूसा के आस-पास खडे रहे। १४ यह देखकर कि मूसा लोगो के लिये क्या क्या करता है, उसके समुद्र ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगो के लिय करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है, और लोग भोर से साभ तक तेरे आसपास खडे रहते हैं? १५ मूसा ने अपने समुद्र से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। १६ जब जब उनका कोई मुकद्दमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता, और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताना हूँ। १७ मूसा के समुद्र ने उस से कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। १८ और इस से तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे मग हैं निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिये बहुत भारी है; तू इसे अकेला नहीं कर सकता। १९ इस-लिये अब मेरी सुन ले, मैं तुझ को सम्मति देता हूँ, और परमेश्वर तेरे मग रहे। तू तो इन लोगो के लिये परमेश्वर के सम्मुख जाया कर, और इनके मुकद्दमो को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर। २० इन्हे विधि और व्यवस्था प्रगट कर करके, जिस मार्ग पर इन्हे चलना, और जो जो काम इन्हे करना हो, वह इनको जता दिया कर। २१ फिर तू इन सब लोगो में से ऐसे पुरुषों

को छाट लें, जो गुग्गी, और परमेश्वर का भय मानने वाले, मन्चे, और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों; और उनको हजार-हजार, सौ-सौ, पचास-पचास, और दस-दस मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। २२ और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकद्दमों को तो तेरे पाम ले आया करे; और छोटे छोटे मुकद्दमों का न्याय आप ही किया करे; तब तेरा बोझ हलका होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। २३ यदि तू यह उपाय करे, और परमेश्वर तुझ को ऐसी आज्ञा दे, तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुँच सकेंगे। २४ अपने समुद्र की यह बात मान कर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। २५ सो उस ने सब इस्त्राएलियों में से गुग्गी गुग्गी पुरुष चुनकर उन्हें हजार-हजार, सौ-सौ, पचास-पचास, दस-दस लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया। २६ और वे सब लोगों का न्याय करने लगे, जो मुकद्दमा कठिन होता उसे तो वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकद्दमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। २७ और मूसा ने अपने समुद्र को विदा किया, और उस ने अपने देश का मार्ग लिया ॥

(सौमि पर्वत पर यहोवा के दर्शन देने का बर्णन)

१६ इस्त्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन तीन महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। २ और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए; और वही पर्वत के आगे इस्त्राएलियों ने छावनी डाली। ३ तब

मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकारकर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह, और इस्त्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, ४ कि तुम ने देखा है कि मैं ने मिस्रियो से क्या क्या किया; तुम को मानो उकाब पक्षी के पखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। ५ इसलिये अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। ६ और तुम मेरी दृष्टि में याजको का राज्य और पवित्र आति ठहरोगे। जो बातें तुम इस्त्राएलियों से कहनी हैं वे ये ही हैं। ७ तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियो को बुलवाया, और ये सब बातें, जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी, उनको समझा दी। ८ और सब लोग मिलकर बोल उठे, जी कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाईं। ९ तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिये कि जब मैं तुझ से बातें करूँ तब वे लोग सुनें, और सदा तेरी प्रतीति करे। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का बर्णन किया। १० तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज्ञा और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें, ११ और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। १२ और तू लोगों के लिये चारों ओर बाड़ा बान्ध देना, और उन से कहना, कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवाने को भी न छूओ; और

जो कोई पहाड़ को छूए वह निश्चय मार डाला जाए। १३ उमको कोई हाथ से तो न छूए, परन्तु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए, वा तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। १४ तब मूसा ने पर्वत पर म उतरकर लोगोंके पास आकर उनको पवित्र करवाया, और उन्होने अपने वस्त्र धो लिए। १५ और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। १६ जब तीसरा दिन आया तब भोर होने बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब काप उठे। १७ तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिये छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। १८ और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुए से भर गया, और उसका धुआ भट्टे का सा उठ रहा था, और ममस्त पर्वत बहुत काप रहा था। १९ फिर जब नरसिंगे का शब्द बढना और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वासी सुनाकर उसको उत्तर दिया। २० और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा, और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। २१ तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतरके लोगों को चितावनी दे, कही ऐसा न हो कि वे बाडा तोडके यहोवा के पास देखने को धुसें, और उन में से बहुत नाश हो जाए। २२ और याजक जो यहोवा के समीप आया

करने हैं वे भी अपने को पवित्र करे, कही ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। २३ मूसा ने यहोवा से कहा वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तू ने तो आप हम को यह कहकर चिताया, कि पर्वत के चारो ओर बाडा बान्धकर उसे पवित्र रखो। २४ यहोवा ने उस से कहा, उतर तो जा, और हाहन ममेत तू ऊपर आ, परन्तु याजक और साधारण लोग कही यहोवा के पास बाडा तोडके न चढ़ आए, कही ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। २५ ये ही बातें मूसा ने लोगों के पास उतरके उनको सुनाई ॥

(सब इस्त्राएलियों को दस आज्ञाओं के लिये जाने का वचन)

२० तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, २ कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें दामत्व के घर अर्थात् मिस्र देश में निकाल लाया है ॥

३ तू मुझे छोड दूमरों को ईश्वर नरके न मानना ॥

४ तू अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी कि प्रतिमा बनाना, जो आकाश में, वा पृथ्वी पर, वा पृथ्वी के जल में है। ५ तू उनको दगडवत् न करना, और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझ से बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों, और परपोतों का भी पितरों का दगड दिया करता हूँ, ६ और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानने हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ ॥

७ तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ * न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ * ले वह उमको निर्दोष न ठहगाएगा ॥

* वा भूठी बात पर।

८ तू विश्रामदिन को पवित्र मानने के लिये स्मरण रखना। ९ छ दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, १० परन्तु सातवा दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये विश्रामदिन है। उस में न तो तू किसी भाति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई पग्देशी जो तेरे फाटको के भीतर हो। ११ क्योंकि छ दिन में यहोवा ने आकाश, और पृथ्वी, और समुद्र, और जो कुछ उन में है, सब को बनाया, और सातवें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्रामदिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया ॥

१२ तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिन में जो देश तेरा परमेश्वर यहाँवा तुझे देता है उस में तू बहुत दिन तक रहने पाए ॥

१३ तू खून न करना ॥

१४ तू व्यभिचार न करना ॥

१५ तू चोरी न करना ॥

१६ तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना ॥

१७ तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास-दासी वा बैल गदहे वा, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना ॥

१८ और सब लोग गरजने और विजली और नरमिगे के शब्द सुनने, और धुआ उठने हुए पर्वत को देखने रहे, और देखके, कापकर दूर खड़े हो गए, १९ और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हम से बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परन्तु परमेश्वर हम से बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर

जाए। २० मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका भय तुम्हारे मन में * बना रहे, कि तुम पाप न करो। २१ और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परन्तु मूसा उस घोर अन्धकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था ॥

(सुधा से कच्ची ऊँर यहाँवा को बखशा)

२२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्त्राएलियों को मेरे ये वचन सुना, कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है कि मैं न तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। २३ तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात् अपने लिये चान्दी वा सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। २४ मेरे लिये मिट्टी की एक वेदी बनाना, और अपनी भेड़-बकरियों और गाय-बैलों के हामबाल और मेलबाल को उस पर चढ़ाना, जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूँगा। २५ और यदि तुम मेरे लिये पत्थरों की वेदी बनाओ, तो तराशें हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुम ने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तू उसे अशुद्ध कर देगा। २६ और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नगा देखा पड़े ॥

२१ फिर जो नियम तुम्हें उनको समझाने हैं वे ये हैं ॥

२ जब तुम कोई इस्री दास मोल लो, तब वह छ वर्ष तक सेवा करना रहे, और सातवें वर्ष स्वतन्त्र होकर मतमें चला जाए। ३ यदि वह अकेला आया हो, तो

* मूल में—तुम्हारे साम्हने।

अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो, तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। ४ यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उम में उमके बेटे वा बेटिया उत्पन्न हुई हों, तो उसकी पत्नी और बालक उम स्वामी के ही रहे, और वह अकेला चला जाए। ५ परन्तु यदि वह दाम दृढ़ता से कहे, कि मैं अपने स्वामी, और अपनी पत्नी, और बालको से प्रेम रखता हूँ, इसलिये मैं स्वतन्त्र होकर न चला जाऊंगा, ६ तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर * के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ वा बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह मदा उसकी सेवा करता रहे।

७ यदि कोई अपनी बेटी को दामी होने के लिये बेच डाले, तो वह दामी की नाई बाहर न जाए। ८ यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए, और फिर उम से प्रसन्न न रहे, तो वह उम दाम से छुड़ाई जाने दे, उसका विश्वामघात करने के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। ९ और यदि उस ने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो, तो उस से बेटी का सा व्यवहार करे। १० चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले, तीसरी वह उसका भोजन, वस्त्र, और सगति न घटाए। ११ और यदि वह इन तीन बातों में घटी करे, तो वह स्त्री सेतमेत बिना दाम चुकाए ही चली जाए।

१२ जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। १३ यदि वह उसकी घात

में न बैठे हो, और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारनेवाले के भागने के निर्मात्त मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहा वह भाग जाए। १४ परन्तु यदि कोई ठिठाई से किसी पर चढाई करके उम छल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिये मेरी बेदी के पास से भी भ्रमल ले जाना।

१५ जो अपने पिता वा माता को मारे-पीटे वह निश्चय मार डाला जाए।

१६ जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उम ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहा पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए।

१७ जो अपने पिता वा माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए।

१८ यदि मनुष्य भगडन हो, और एक दूसरे को पत्थर वा मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परन्तु बिछौने पर पडा रहे, १९ तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे, तब वह मारनेवाला निर्दोष ठहरे, उम दशा में वह उसके पडे रहने के समय की हानि तो भर दे, और उसको भला चगा भी करा दे।

२० यदि कोई अपने दाम वा दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्चय दण्ड दिया जाए। २१ परन्तु यदि वह दो एक दिन जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दण्ड न दिया जाए; क्योंकि वह दास उसका धन है।

२२ यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुँचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परन्तु और कुछ हानि न हो, तो मारनेवाले से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पच की मर्मात् से ठहराए।

* वा न्यायियों।

२३ परन्तु यदि उमको और कुछ हानि पहुंचे, तो प्राण की सन्ती प्राण का, २४ और आख की सन्ती आख का, और दात की सन्ती दात का, और हाथ की सन्ती हाथ का, और पाव की सन्ती पाव का, २५ और दाग की सन्ती दाग का, और घाव की सन्ती घाव का, और मार की सन्ती मार का दण्ड हो ॥

२६ जब कोई अपने दास वा दामी की आख पर ऐसा मारे कि फूट जाए, तो वह उसकी आख की सन्ती उसे स्वतन्त्र करके जाने दे। २७ और यदि वह अपने दास वा दामी को मारके उसका दात तोड़ डाले, तो वह उसके दात की सन्ती उसे स्वतन्त्र करके जाने दे ॥

२८ यदि बैल किसी पुरुष वा स्त्री को ऐसा मीग मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल तो निश्चय पत्थरवाह करके मार डाला जाए, और उसका मास खाया न जाए; परन्तु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। २९ परन्तु यदि उस बैल की पहिले से मीग मारने की बान पडी हो, और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उमको न बान्ध रखा हो, और वह किसी पुरुष वा स्त्री को मार डाले, तब तो वह बैल पत्थरवाह किया जाए, और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। ३० यदि उम पर छुडौती ठहरी जाए, तो प्राण छुडाने को जो कुछ उसके लिये ठहरी जाए उसे उतना ही देना पडेगा। ३१ चाहे बैल ने किसी बेटे को, चाहे बेटे को मारा हो, तोभी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए।

३२ यदि बैल ने किसी दाम वा दामी को मीग मारा हो, तो बैल का स्वामी उस दाम के स्वामी को तीस शेकेल रूपा दे, और वह बैल पत्थरवाह किया जाए ॥

३३ यदि कोई मनुष्य गडहा खोलकर वा खोदकर उमको न ढापे, और उस में किसी का बैल वा गदहा गिर पड़े, ३४ तो जिसका वह गडहा हो वह उम हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे, और लोथ गडहवाले को ठहरे ॥

३५ यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए, कि वह मर जाए, तो व दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बाट ले; और लोथ को भी वैसा ही बाटे। ३६ यदि यह प्रगट हो कि उम बैल की पहिले से मीग मारने की बान पडी थी, पर उसके स्वामी ने उसे बान्ध नहीं रखा, तो निश्चय यह बैल की सन्ती बैल भर दे, पर लोथ उसी को ठहरे ॥

२२ यदि कोई मनुष्य बैल, वा भेड़, वा बकरी चुराकर उमका घात करे वा बेच डाले, तो वह बैल की सन्ती पाँच बैल, और भेड़-बकरी की सन्ती चार भेड़-बकरी भर दे। २ यदि चोर संध लगाने हुए पकडा जाए, और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए, तो उसके खून का दोष न लगे, ३ यदि सूर्य निकल चुके, तो उसके खून का दोष लगे; अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो, तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। ४ यदि चुराया हुआ बैल, वा गदहा, वा भेड़, वा बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए, तो वह उमका दूना भर दे ॥

५ यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत वा दाख की बारी चराए, अर्थात् अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी

दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे ॥

६ यदि कोई आग जलाए, और वह काटो में लग जाए और फूलों के ढेर वा अनाज वा खडा खेत जल जाए, तो जिम ने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे ॥

७ यदि कोई दूसरे को रूपए वा सामग्री की धरोहर धरे, और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकडा जाए, तो दूना उसी को भर देना पडेगा । ८ और यदि चोर न पकडा जाए, तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए, कि निश्चय हो जाय कि उस ने अपने भाई बन्धु की सम्पत्ति पर हाथ लगाया है वा नहीं । ९ चाहे बैल, चाहे गदहे, चाहे भेड वा बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाय, जिसे दो जन अपनी अपनी कहते हों, तो दोनों का मुकद्दमा परमेश्वर * के पास आए; और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए † वह दूसरे को दूना भर दे ॥

१० यदि कोई दूसरे को गदहा वा बैल वा भेड-बकरी वा कोई और पशु रखने के लिये सौपे, और किसी के बिना देवे वह मर जाए, वा चोट खाए, वा हाक दिया जाए, ११ तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैं ने इसकी सम्पत्ति पर हाथ नहीं लगाया; तब सम्पत्ति का स्वामी इसको सच माने, और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा । १२ यदि वह सचमुच उसके यहा से चुराया गया हो, तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे । १३ और यदि वह फाड डाला गया हो, तो वह फाड़े हुए को प्रमाराण के लिये ले

* वा न्यायियों ।

† वा न्यायी दोषी ठहराए ।

आए, तब उसे उसको भी भर देना न पडेगा ॥

१४ फिर यदि कोई दूसरे से पशु माग लाए, और उसके स्वामी के सग न रहते उसको चोट लगे वा वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे । १५ यदि उसका स्वामी सग हो, तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पडे; और यदि वह भाडे का हो तो उसकी हानि उसके भाडे मे आ गई ॥

१६ यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके सग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल देके उसे ब्याह ले । १७ परन्तु यदि उसका पिता उसे देने को बिलकुल इनकार करे, तो कुकर्म करनेवाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुमार रुपये तौल दे ॥

१८ तू डाइन को जीवित रहने न देना ॥

१९ जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए ॥

२० जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिये बलि करे वह सत्यानाश किया जाए । २१ और परदेशी को न सताना और न उस पर अन्धेर करना, क्योंकि मिस्र देश मे तुम भी परदेशी थे । २२ किसी विधवा वा अनाथ बालक को दुःख न देना । २३ यदि तुम ऐसे को किसी प्रकार का दु ख दो, और वे कुछ भी मेरी दोहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दोहाई सुनूंगा; २४ तब मेरा क्रोध भड़केगा, और मैं तुम को तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे ॥

२५ यदि तू मेरी प्रजा मे से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रूपए का ऋण दे, तो उस से महाजन की नाई ब्याज न

लेना । २६ यदि तू कभी अपने भाईबन्धु के वस्त्र को बन्धक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना ; २७ क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किस ओढ़कर मोएगा ? तौभी जब वह मेरी दांहाई देगा तब मैं उसकी सुत्गा, क्योंकि मैं तो करगामय हूँ ॥

२८ परमेश्वर * को श्राप न देना, और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना । २९ अपने खतो की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब न करना । अपने बेटों में से पहिलौठे को मुझे देना । ३० वैसे ही अपनी गायों और भेड़-बकियों के पहिलौठे भी देना, सात दिन तक तो बच्चा अपनी माता के सग रहे, और आठवे दिन तू उसे मुझ को दे देना । ३१ और तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य बनना, इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मास न खाना, उसको कुत्तों के प्रागे फेंक देना ॥

२३ भूठी बात न फैलाना । अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना । २ बुराई करने के लिये न तो बहुतो के पीछे हो लेना, और न उनके पीछे फिरके मुकद्दमे में न्याय बिगाडने को साक्षी देना, ३ और कगाल के मुकद्दमे में उसका भी पक्ष न करना ॥

४ यदि तेरे शत्रु का बैल वा गदहा भटकता हुआ तुझे मिले, तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना । ५ फिर यदि तू अपने बैरी के गदहे को बोझ के भारे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिये छोड़ाने के लिये तेरा मन न चाहे, तौभी

* वा न्यायियों ।

अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छोड़ा लेना ॥

६ तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकद्दमे में न्याय न बिगाडना । ७ भूठे मुकद्दमे से दूर रहना, और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा । ८ घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अन्धा कर देता, और धर्मियों की बातें पलट देता है । ९ परदेशी पर अन्धेग न करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मित्र देश में परदेशी थे ॥

१० छ वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, ११ परन्तु मातवे वर्ष में उसको पडती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बन्धुओं में के दरिद्र लोग उस से खाने पाएँ, और जो कुछ उन में भी बचे वह बनलें पशुओं के खाने के काम में आएँ । और अपनी दाब और जलपाई की बागियों को भी ऐसे ही करना । १२ छ दिन तक तो अपना काम काज करना, और मातवे दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गदहे सुस्ताएँ, और तेरी दामियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठढा कर सकें । १३ और जो कुछ मैं ने तुम से कहा है उस में सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुह से सुनाई भी न दे ।

१४ प्रति वर्ष तीन बार मेरे लिये पब्लं मानना । १५ अखमीरी रोटी का पब्लं मानना, उस में मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर सात दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उमी महीने में तुम मिस्र से निकल आए । और मुझ को कोई छुछे हाथ अपना मुह

न दिखाए। १६ और जब तेरी बोई हुई खेती की पहिली उपज तैयार हो, तब कटनी का पब्व मानना। और वर्ष के अन्त में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पब्व मानना। १७ प्रति वर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुह दिखाए ॥

१८ मेरे बलिपशु का लोहू खभीरी रोटी के मग न चढाना, और न मेरे पब्व के उत्तम बलिदान * में से कुछ बिहान तक रहने देना। १९ अपनी भूमि की पहिली उपज का पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना ॥

२० मुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैं नैतार किया है उस में तुम्हें पहुँचाएगा। २१ उसके साम्हने मावधान रहना, और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिये कि उस में मेरा नाम रहना है। २२ और यदि तू मचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूँगा। २३ इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुम्हें एमोरी, हिती, परज्जी, कनानी, हिब्बी, और यबूसी लोगों के यहा पहुँचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूँगा। २४ उनके देवताओं को दगडवत् न करना, और न उनकी उपासना करना, और न उनके से काम करना, वरन उन मूरतों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, और उन लोगों की लाटों को टुकड़े

टुकड़े कर देना। २५ और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। २६ तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बाभ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूँगा। २७ जितने लोगों के बीच तू जायगा उन सभों के मन में मैं अपना भय पहिले में ऐसा ममवा दूँगा कि उनको व्याकुल कर दूँगा, और मैं तुम्हें सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊँगा। २८ और मैं तुम्हें से पहिले बरों को भेजूँगा जो हिब्बी, कनानी, और हिती लोगों को तेरे साम्हने से भगा के दूर कर देगी। २९ मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो न निकाल दूँगा, ऐसा न हो कि देश उजाड हो जाए, और बनैले पशु बढ़कर तुम्हें दुख देने लगे। ३० जब तक तू फूल फलकर देश को अपने अधिकार में न कर ले तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोडा थोडा करके निकालता रहूँगा। ३१ मैं लाल समुद्र से लेकर पलिस्तियों के समुद्र तक और जगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूँगा, मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूँगा, और तू उन्हें अपने साम्हने से बरबस निकालेगा। ३२ तू न तो उन में वाचा बान्धना और न उनके देवताओं से। ३३ वे तेरे देश में रहने न पाएँ, ऐसा न हो कि वे तुम्हें से मेरे विरुद्ध पाप कराएँ, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे, तो यह तेरे लिये फदा बनेगा ॥

(यहोवा और एषारखियों के बीच वाचा बांधने का वर्णन)

२४ फिर उस ने मूसा से कहा, तू, हारून, नादाब, अवीहू, और इम्नाग-लियों के सत्तर पुत्रियों ममेत यहोवा के

* मल में—की चर्बा।

पाम ऊपर आकर दूर में दगडवत् करना । २ और केवल मूसा यहोवा के समीप आए; परन्तु वे समीप न आए, और दूसरे लोग उसके सग ऊपर न आए । ३ तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए; तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे । ४ तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए । और बिहान को सबेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्त्राएल के बारहो गोत्रों के अनुसार बारह खम्भे भी बनवाए । ५ तब उस ने कई इस्त्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिये होमबलि और बैलों के मेलबलि चढाए । ६ और मूसा ने आधा लोह तो लेकर कटोरो में रखा, और आधा वेदी पर छिड़क दिया । ७ तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया; उसे सुनकर उन्होंने ने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे, और उसकी आज्ञा मानेंगे । ८ तब मूसा ने लोह को लेकर लोगों पर छिड़क दिया, और उन से कहा, देखो, यह उस वाचा का लोह है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बान्धी है । ९ तब मूसा, हारून, नादाब, अर्बीहू और इस्त्राएलियों के सत्तर पुरनिए ऊपर गए, १० और इस्त्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया; और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था । ११ और उस ने इस्त्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया; तब उन्होंने ने परमेश्वर का दर्शन किया, और खाया पिया ॥

१२ तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़, और वहां रह; और

में तुम्हें पत्थर की पटियाए, और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा, कि तू उनको मिखाए । १३ तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया । १४ और पुरनियों से वह यह कह गया, कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए, तब तक तुम यही हमारी बात जोहते रहो, और सुनो, हारून और हूए तुम्हारे सग हैं; तो यदि किसी का मुकद्मा हो तो उन्हीं के पास जाए । १५ तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, और बादल ने पर्वत को छा लिया । १६ तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवाम किया, और वह बादल उस पर छः दिन तक छाया रहा, और सातवें दिन उस ने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा । १७ और इस्त्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचण्ड आग सा देव पड़ना था । १८ तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया । और मूसा पर्वत पर चालीस दिन और चालीस रात रहा ॥

(सामान सचिन पविचस्त्रान के बनाने की आज्ञाए)

२५ यहाँवा ने मूसा से कहा, २ इस्त्राएलियों से यह कहना, कि मेरे लिये भेंट लाए; जिनने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना । ३ और जिन वस्तुओं की भेंट उन से लेनी है वे ये हैं; अर्धात् सोना, चाँदी, पीतल, ४ नीले, बैजनी और लाल रग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, धकरी का बाल, ५ लाल रग से रंगी हुई मेढों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, ६ उजियाले के लिये तेल, अभिषेक के तेल के लिये और सुगन्धित धूप के लिये सुगन्ध

द्रव्य, ७ एपोद और चपरागम के लिये मुलैमानी पत्थर, और जडने के लिये मणि।
 ८ और वे मेरे लिये एक पवित्रस्थान बनाए, कि मैं उनके बीच निवास करूँ।
 ९ जो कुछ मैं तुम्हें दिखाना हूँ, अर्थात् निवामस्थान और उसके सब मामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना ॥

१० बबूल की लकड़ी का एक मन्दूक बनाया जाए, उसकी लम्बाई अठ्ठाई हाथ, और चौड़ाई और ऊँचाई डेढ़ डेढ़ हाथ की हो। ११ और उसको चोखे मोने से भीतर और बाहर मढवाना, और मन्दूक के ऊपर चारों ओर मोने की बाड बनवाना। १२ और मोने के चार कडे ढलवाकर उसके चारों पायों पर, एक अलग दो कडे और दूसरी अलग भी दो कडे लगवाना। १३ फिर बबूल की लकड़ी के डगडे बनवाना, और उन्हें भी मोने से मढवाना। १४ और डगडो को मन्दूक की दोनों अलगों के कडो में डालना जिस में उनके बल मन्दूक उठाया जाए। १५ वे डगडे मन्दूक के कडो में लगे रहें, और उस से अलग न किए जाए। १६ और जो साक्षीपत्र मैं तुम्हें दूँगा उसे उसी मन्दूक में रखना। १७ फिर चोखे मोने का एक प्रायश्चित्त का ढकना बनवाना; उसकी लम्बाई अठ्ठाई हाथ, और चौड़ाई डेढ़ हाथ की हो। १८ और सोना ढालकर दो करूब बनवाकर प्रायश्चित्त के ढकने के दोनों सिरो पर लगवाना। १९ एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित्त के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरो पर लगवाना। २० और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए

वने कि प्रायश्चित्त का ढकना उन से ढपा रहे, और उनके मुख आम्हने-साम्हने और प्रायश्चित्त के ढकने की ओर रहे। २१ और प्रायश्चित्त के ढकने को मन्दूक के ऊपर लगवाना; और जो साक्षीपत्र मैं तुम्हें दूँगा उसे मन्दूक के भीतर रखना। २२ और मैं उसके ऊपर रहकर * तुम्हें से मिला करूँगा, और इस्त्राएलियों के लिये जितनी आज्ञाएँ मुझ को तुम्हें देनी होंगी, उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से, जो साक्षीपत्र के मन्दूक पर होंगे, तुम्हें से वार्तालाप किया करूँगा ॥

२३ फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना; उसकी लम्बाई दो हाथ, चौड़ाई एक हाथ, और ऊँचाई डेढ़ हाथ की हो। २४ उसे चोखे मोने से मढवाना, और उसके चारों ओर सोने की एक त्राड बनवाना। २५ और उसके चारों ओर चार अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इम पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड बनवाना। २६ और मोने के चार कडे बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। २७ वे कडे पटरी के पाम ही हों, और डगडो के घरों का काम दें कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। २८ और डगडो को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढवाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए। २९ और उसके परात और धूपदान, और चमचे और उडेलने के कटोरे, सब चोखे मोने के बनवाना। ३० और मेज पर मेरे आगे भेट की रोटियाँ नित्य रखा करना ॥

* मूल में—मैं वहाँ।

३१ फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना । सोना ढलवाकर वह दीवट, पाये और डगडी सहित बनाया जाए, उसके पुष्पकोप, गाठ और फूल, सब एक ही टुकड़े के बने, ३२ और उमकी अलगो से छ डालिया निकले, तीन डालिया तो दीवट की एक अलग से और तीन डालिया उमकी दूमरी अलग से निकली हुई हो, ३३ एक एक डाली में बादाम के फूल के समान तीन तीन पुष्पकोप, एक एक गाठ, और एक एक फूल हो, दीवट से निकली हुई छहो डालियो का यही आकार या रूप हो, ३४ और दीवट की डगडी में बादाम के फूल के समान चार पुष्पकोप अपनी अपनी गाठ और फूल समेत हा, ३५ और दीवट से निकली हुई छहो डालियो में से दो दो डालियो के नीचे एक एक गाठ हो, वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो । ३६ उनकी गाठे और डालिया, सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो, चोखा सोना ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना । ३७ और सान दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के साम्हने प्रकाश दे । ३८ और उसके गुलतरग और गुलदान सब चोखे सोने के हो । ३९ वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोने का बने । ४० और सावधान रहकर इन सब वस्तुओ को उस नमूने के समान बनवाना, जो तुम्हे इस पर्वत पर दिखाया गया है ॥

२६

फिर निवासस्थान के लिये दस परदे बनवाना; इनको बटी हुई सतीवाले और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपडे का कढाई के काम किए हुए करुडो के साथ बनवाना । २ एक एक

परदे की लम्बाई अट्टाईस हाथ और चाडाई चार हाथ की हो, सब परदे एक ही नाप के हो । ३ पाच परदे एक दूमरे से जुडे हुए हो, और फिर जो पाच परदे रहेंगे वे भी एक दूमरे से जुडे हुए हा । ४ और जहा ये दोना परदे जाडे जाए, वहा की दोनो छोरों पर नीली नीली फलिया लगवाना । ५ दोनो छोरों में पचाम पचाम फलिया ऐसे लगवाना कि वे आम्हन-साम्हने हों । ६ और सोने के पचाम अकडे बनवाना, और परदो के पचो को अकडा के द्वाग एक दूमरे से ऐसा जुडवाना कि निवामस्थान मिलकर एक ही हो जाए । ७ फिर निवाम के ऊपर तम्बू का काम देने के लिय बकरी के जाल के ग्यारह परदे बनवाना । ८ एक एक परदे की लम्बाई तीस हाथ और चौडाई चार हाथ की हो, ग्यारहो परदे एक ही नाप के हो । ९ और पाच परदे अलग और फिर छ परदे अलग जुडवाना, और छटवे परदे को तम्बू के साम्हने मोड कर दुहरा कर देना । १० और तू पचास अकडे उम परदे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और पचाम ही अकडे दूमरी और के परदे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना । ११ और पीतल के पचाम अकडे बनाना, और अकडो को फलियो में लगाकर तम्बू को ऐसा जुडवाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए । १२ और तम्बू के परदो का लटका हुआ भाग, अर्थात् जो आधा पट रहेगा, वह निवास की पिछली ओर लटका रहे । १३ और तम्बू के परदो की लम्बाई में से हाथ भर इधर, और हाथ भर उधर निवास के ढाकने के लिये उसकी दोनो अलगो पर लटका हुआ रहे । १४ फिर तम्बू के लिये लाल रंग से रगी हुई मेढो की

खालों का एक श्रोत्रना और उसके ऊपर मूइसो की खालों का भी एक श्रोत्रना बनवाना ॥

१५ फिर निवाम को खड़ा करने के लिये बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना । १६ एक एक तख्ते की लम्बाई दस हाथ और चौड़ाई डेढ़ हाथ की हो । १७ एक एक तख्ते में एक दूमरे में जोड़ी हुई दो दो चूले हों, निवाम के सब तख्तों को इसी भाँति से बनवाना । १८ और निवाम के लिये जो तख्ते तू बनवाएगा उन में से त्रीम तख्ते तो दक्खिन की ओर के लिये हों, १९ और त्रीमो तख्तों के नीचे चादी की चालीस कुर्सियाँ बनवाना, अर्थात् एक एक तख्ते के नीचे उसके चूलों के लिये दो दो कुर्सियाँ । २० और निवाम की दूसरी अलग, अर्थात् उत्तर की ओर त्रीम तख्ते बनवाना । २१ और उनके लिये चादी की चालीस कुर्सियाँ बनवाना, अर्थात् एक एक तख्ते के नीचे दो दो कुर्सियाँ हो । २२ और निवास की पिछली अलग, अर्थात् पश्चिम की ओर के लिये छ तख्ते बनवाना । २३ और पिछले अलंग में निवाम के कोनों के लिये दो तख्ते बनवाना ; २४ और ये नीचे से दो दो भाग के हों, और दोनों भाग ऊपर के मिरे तक एक एक कडे में मिलाये जाएं ; दोनों तख्तों का यही रूप हो ; ये तो दोनों कोनों के लिये हों । २५ और आठ तख्ते हों, और उनकी चादी की सोलह कुर्सियाँ हो ; अर्थात् एक एक तख्ते के नीचे दो दो कुर्सियाँ हो । २६ फिर बबूल की लकड़ी के बेंडे बनवाना, अर्थात् निवास की एक अलंग के तख्तों के लिये पांच, २७ और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिये पांच बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर

पिछले भाग में होगी, उसके लिये पांच बेंडे बनवाना । २८ और बीचवाला बेंडा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तम्बू के एक मिरे से दूसरे मिरे तक पहुँचे । २९ फिर तख्तों को सोने में मढ़वाना, और उनके कडे जो बेंडों के घरो का काम देंगे उन्हें भी सोने में बनवाना, और बेंडों को भी सोने में मढ़वाना । ३० और निवाम को इस रीति खड़ा करना जैसा हम पर्वत पर तुम्हें दिखाया गया है ॥

३१ फिर नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपडे का एक बीचवाला पर्दा बनवाना ; वह कढाई के काम किये हुए कर्बो के साथ बने । ३२ और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के चार खम्भों पर लटकाना, इनकी अकड़ियाँ सोने की हों, और ये चादी की चार कुर्सियों पर खड़ी रहे । ३३ और बीचवाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर, उसकी आड में साक्षीपत्र का सन्दूक भीतर लिवा ले जाना, सो वह बीचवाला पर्दा तुम्हारे लिये पवित्रस्थान को परमपवित्रस्थान से अलग किये रहे । ३४ फिर परमपवित्रस्थान में साक्षीपत्र के सन्दूक के ऊपर प्रायश्चित्त के ढकने को रखना । ३५ और उम पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना ; और उसकी दक्खिन अलंग मेज के साम्हने दीवट को रखना । ३६ फिर तम्बू के द्वार के लिये नील, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपडे का कढाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना । ३७ और इस पर्दे के लिये बबूल के पांच खम्भे बनवाना, और उनको सोने से मढ़वाना ; उनकी कड़ियाँ सोने की हों, और उनके लिये पीतल की पांच कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना ॥

२७ फिर वेदी को ब्रूल की लकड़ी की, पाच हाथ लम्बी और पाच हाथ चौड़ी बनवाना, वेदी चौकोर हो, और उसकी ऊंचाई तीन हाथ की हो। २ और उसके चारों कोनों पर चार सींग बनवाना, वे उम समेत एक ही टुकड़े के हों, और उम पीतल से मढ़वाना। ३ और उसकी गख उठाने के पात्र, और फावडिया और कटारे, और काटे, और अगीठिया बनवाना, उमका कुल मामान पीतल का बनवाना। ४ और उसके पीतल की जाली एक झुंझरी बनवाना, और उसके चारों सिंगों में पीतल के चार कड़े लगवाना। ५ और उम झुंझरी को वेदी के चारों ओर की कगनी के नीचे ऐसे लगवाना, कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। ६ और वेदी के लिये ब्रूल की लकड़ी के डगड़े बनवाना, और उन्हें पीतल से मढ़वाना। ७ और डड़े कड़ों में डाले जाए, कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसकी दोनों अलगों पर रहें। ८ वेदी को तख्ती से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुम्हें दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए ॥

६ फिर निवाम के आगन को बनवाना। उसकी दक्खिन अलग के लिये तो बटी हुई सूक्ष्म मनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लम्बाई सौ हाथ की हो; एक अलग पर तो इतना ही हो। १० और उनके बीस खम्भे बनें, और इनके लिये पीतल की बीस कुर्सियां बनें, और खम्भों के कुण्डे और उनकी पट्टियां चादी की हो। ११ और उसी भाति आगन की उत्तर अलग की लम्बाई में भी सौ हाथ लम्बे पर्दे हो, और उनके भी बीस खम्भे और इनके लिये भी पीतल के बीस खाने हो, और उन

खम्भों के कुण्डे और पट्टियां चादी की हों। १२ फिर आगन की चौड़ाई में पच्छिम की ओर पचास हाथ के पर्दे हों, उनके खम्भे दस और खान भी दस हों। १३ और पूरव अलग पर आगन की चौड़ाई पचास हाथ की हो। १४ और आगन के द्वार का एक ओर पन्द्रह हाथ के पर्दे हो, और उनके खम्भ तीन और खाने तीन हो। १५ और दूसरी ओर भी पन्द्रह हाथ के पर्दे हों, उनके भी खम्भ तीन और खाने तीन हों। १६ और आगन के द्वार के लिये एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म मनी के कपड़े का कामदार बना हुआ बीस हाथ का हो, उसके खम्भे चार और खाने भी चार हों। १७ आगन की चारों ओर के सब खम्भे चादी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, उनके कुण्डे चादी के और खाने पीतल के हों। १८ आगन की लम्बाई सौ हाथ की, और उसकी चौड़ाई बराबर पचास हाथ की, और उसकी कनात की ऊंचाई पाच हाथ की हो, उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म मनी के कपड़े की बनें, और खम्भों के खाने पीतल के हों। १९ निवाम के भाति भाति के बर्तन और मंत्र सामान और उसके मंत्र खूटे और आगन के भी सब खूटे पीतल ही के हों ॥

२० फिर तू इस्त्रालियों को आजा देना, कि मेरे पाम दीवट के लिये कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिस से दीपक नित्य जलना * रहे। २१ मिलाप के तम्बू में, उस बीचवाले पर्दे से बाहर जो साक्षीपत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट साक्ष से भोर

* मूल से—चढ़ा।

तक यहोवा के साम्हने सजा कर रखे । यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिये सदैव बनी रहेगी ॥

(याजकों के पवित्र वस्त्र बनाने और उनके संस्कार होने की आज्ञा)

२८ फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून, और नादाब, अबीहू, एलिआजार और ईतामार नाम उनके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिये याजक का काम करें । २ और तू अपने भाई हारून के लिये विभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना । ३ और जितनो के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैं ने बुद्धि देनेवाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिये पवित्र बनें । ४ और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात् सीनाबन्द, और एपोद, और जामा, चार-खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप, और कमरबन्द; ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिये बनाए जाए कि वे मेरे लिये याजक का काम करें । ५ और वे सोने और नीले और बैजनी और लाल रंग का और सूक्ष्म मनी का कपडा ले ॥

६ और वे एपोद को सोने, और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म मनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करनेवाले के हाथ का काम हो । ७ और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कन्धों के सिरे आपस में मिले रहें । ८ और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़

के हों, और सोने और नीले, बैजनी और लाल रंगवाले और बटी हुई सूक्ष्म मनीवाले कपड़े के हों । ९ फिर दो सुलैमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना, १० उनके नामों में से छ तो एक मणि पर, और शेष छ नाम दूसरे मणि पर, इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना । ११ मणि खोदनेवाले के काम से जैसे छापा खांदा जाता है, वैसे ही उन दो मणियों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना; और उनको सोने के खानो में जडवा देना । १२ और दोनों मणियों को एपोद के कन्धों पर लगवाना, वे इस्राएलियों के निमित्त स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे; अर्थात् हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कन्धों पर स्मरण के लिये लगाए रहे ॥

१३ फिर सोने के खाने बनवाना, १४ और डोरियों की नाई गूथे हुए दो जजीर चौखे सोने के बनवाना; और गूथे हुए जजीरो को उन खानो में जडवाना । १५ फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना; एपोद की नाई सोने, और नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म मनी के कपड़े की उसे बनवाना । १६ वह चौकोर और दोहरी हो, और उसकी लम्बाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो । १७ और उस में चार पाति मणि जड़ाना । पहिली पाति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी हो; १८ दूसरी पाति में मरकत, नीलमणि और हीरा; १९ तीसरी पाति में लशम, सूर्यकांत और नीलम; २० और चौथी पाति में फीरोजा, सुलैमानी मणि और यशब हो; ये सब सोने के खानो में जड़े जाए । २१ और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम

हैं उनमें मणि हो, अर्थात् उनके नामों की गिनती के अनुसार बारह नाम खुदे, बारहों गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर एमं खुदे जैसे छाप्या खांदा जाता है। २२ फिर चपरास पर डोंगियों की नाई गूथें हुए चांखे सोन की जजीर लगवाना, २३ और चपरास में सोने की दो कडिया लगवाना, और दोनों कडियों को चपरास के दोनों मिरों पर लगवाना। २४ और सोन के दोना गूथे जजीरों को उन दोनों कडियों में जो चपरास के मिरों पर टोंगी लगवाना, २५ और गूथे हुए दोना जजीरों के दोना बाकी मिरों को दोना खाना में जडवा के एपोद के दोनो कन्धों के बधनो पर उमके साम्हने लगवाना। २६ फिर सोने की दो और कडिया बनवाकर चपरास के दोनो मिरों पर, उमकी उम कोर पर जो एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना। २७ फिर उनके सिवाय सोने की दो और कडिया बनवाकर एपोद के दोनो कन्धों के बधनो पर, नीचे से उमके साम्हने और उमके जोड़ के पाम एपोद के काढे हुए पटुके के ऊपर लगवाना। २८ और चपरास अपनी कडियों के द्वारा एपोद की कडियों में नीले फीने से बाधी जाए, इस रीति वह एपोद के काढे हुए पटुके पर बनी रहे, और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। २९ और जब जब हारून पवित्रस्थान में प्रवेश करे, तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्त्राएलियों के नामों को लगाए रहे, जिस से यहोवा के साम्हने उनका स्मरण नित्य रहे। ३० और तू न्याय की चपरास में ऊरीम * और तुम्मीम † को रखना, और जब जब हारून यहोवा के

साम्हने प्रवेश करे, तब तब वे उमके हृदय के ऊपर हो, इस प्रकार हारून इस्त्राएलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के साम्हने नित्य लगाए रहे।

३१ फिर एपोद के बागों को सम्पूर्ण नीले रंग का बनवाना। ३२ और उमकी बनावट एमी हो कि उमके बीच में मिर टालने के लिये छेद हो, और उम छेद की चारों ओर बखतर के छेद की मी एक बुनी हुई कोर हो, कि वह फटने न पाए। ३३ और उमके नीचेवाले घेरे में चारों ओर नीले, ब्रैजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घटिया लगवाना, ३४ अर्थात् एक सोने की घटी और एक अनार, फिर एक सोने की घटी और एक अनार, इसी रीति बागों के नीचेवाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। ३५ और हारून उम बागों को सेवा टहल करने के समय पहिना करे, कि जब जब वह पवित्रस्थान के भीतर यहोवा के साम्हने जाए, वा बाहर निकले, तब तब उमका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा।

३६ फिर चौखे सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उम में ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात् यहोवा के लिये पवित्र। ३७ और उसे नीले फीने में बाधना, और वह पगड़ी के साम्हने के हिस्से पर रहे। ३८ और वह हारून के माथे पर रहे, इसलिये कि इस्त्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात् जितनी पवित्र वस्तुएं भेट में चढ़ावे उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिस से यहोवा उन से प्रसन्न रहे।

३९ और अगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाना बुनवाना, और एक

* अर्थात् ज्योतियां।

† अर्थात् पूर्णतायं।

पगडी भी सूक्ष्म मनी के कपडे की बनवाना, और कार्बोवी काम किया हुआ एक कमरबन्द भी बनवाना ।।

४० फिर हारून के पुत्रो के लिये भी अग्रखे और कमरबन्द और टोपिया बनवाना, ये वस्त्र भी विभव और शोभा के लिये बने। ४१ अपने भाई हारून और उसके पुत्रो को ये ही सब वस्त्र पहिनाकर उनका अभिषेक और सम्कार * करना, और उन्हे पवित्र करना, कि वे मेरे लिये याजक का काम करे। ४२ और उनके लिये सनी के कपडे की जाधिया बनवाना जिन मे उनका तन ढपा रहे, वे कमर मे जाध तक की हो, ४३ और जब जब हारून वा उसके पुत्र मिलापवाले तम्बू में प्रवेश करे, वा पवित्र स्थान मे सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए तब तब वे उन जाधियो को पहिने रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिये और उसके बाद उसके वंश के लिये भी सदा की विधि ठहरे।।

२६ और उन्हे पवित्र करने को जो काम तुम्हे उन से करना है, कि वे मेरे लिये याजक का काम करे वह यह है। एक निर्दोष बछड़ा और दो निर्दोष भेढे लेना, २ और अश्वमीरी रोटी, और तेल से सने हुए मँदे के अश्वमीरी फुलके, और तेल से चुपडी हुई अश्वमीरी पपडिया भी लेना। ये सब गेहूँ के मँदे के बनवाना। ३ इनको एक टोकरी मे रखकर उस टोकरी को उम बछड़े और उन दोनो भेढों समेत समीप ले आना। ४ फिर हारून

* यहा, और जहा कही याजकों के संस्कार वा याजकों के मस्कार की चर्चा हो बहा जानो, कि मूल का शब्दार्थ हाथ भर देना वा भर लेना है।

और उसके पुत्रो को मिलापवाले तम्बू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। ५ तब उन वस्त्रो को लेकर हारून को अग्रखा और एपोद का बागा पहिनाना, और एपोद और चपरास बान्धना, और एपोद का काठा हुआ पटुका भी बान्धना; ६ और उसके सिर पर पगडी को रखना, और पगडी पर पवित्र मुकुट को रखना। ७ तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। ८ फिर उसके पुत्रो को समीप ले आकर उनको अग्रखे पहिनाना, ९ और उनके अर्थात् हारून और उसके पुत्रो के कमर बान्धना और उनके सिर पर टोपिया रखना; जिस से याजक के पद पर मदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रो का सम्कार करना। १० और बछड़े को मिलापवाले तम्बू के साम्हने समीप ले आना। और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे, ११ तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलापवाले तम्बू के द्वार पर बलिदान करना, १२ और बछड़े के लोह मे से कुछ लेकर अपनी उगली से वेदी के सींगो पर लगाना, और शेष सब लोह को वेदी के पाए पर उडेल देना। १३ और जिस चरबी से अतडिया ढपी रहती है, और जो फिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनो गुदों को उनके ऊपर की चरबी समेत लेकर सब को वेदी पर जलाना। १४ और बछड़े का मास, और खाल, और गोबर, छावनी से बाहर आग मे जला देना; क्योंकि यह पापबलि होगा। १५ फिर एक भेडा लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे, १६ तब उस भेढे को बलि करना, और उसका लोह लेकर

वेदी पर चारों ओर छिड़कना। १७ और उम मेढे को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतडियो और पैरो को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना, १८ तब उस पूरे मेढे को वेदी पर जलाना; वह तो यहोवा के लिये होमबलि होगा; वह सुख-दायक सुगन्ध और यहोवा के लिये हवन * होगा। १९ फिर दूसरे मेढे को लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें, २० तब उम मेढे को बलि करना, और उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दहिने कान के सिरे पर, और उनके दहिने हाथ और दहिने पाव के अंगुठों पर लगाना, और लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। २१ फिर वेदी पर के लोहू, और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर, और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना, तब वह अपने वस्त्रों समेत, और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। २२ तब मेढे को सस्कारवाला जानकर उस में से चरबी और मोटी पूछ को, और जिस चरबी से अंतडिया ढपी रहती है उसको, और कलेजे पर की भिल्ली को, और चरबी समेत दोनों गुदों को, और दहिने पुट्टे को लेना, २३ और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी उस में से भी एक रोटी, और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका, और एक पपड़ी लेकर, २४ इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ढहराके यहोवा के आगे हिलाया जाए। २५ तब उन वस्तुओं को उनके हाथों

* अर्थात् जो वस्तु अग्नि में छोड़के चढ़ाई जाए।

से लेकर होमबलि की वेदी पर जला देना, जिस में वह यहोवा के साम्हने सुखदायक सुगन्ध ठहरे; वह तो यहोवा के लिये हवन होगा। २६ फिर हारून के सस्कार का जो मेढा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिये यहोवा के आगे हिलाना; और वह तेरा भाग ठहरेगा। २७ और हारून और उसके पुत्रों के सस्कार का जो मेढा होगा, उम में से हिलाए जाने की भेंटवाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंटवाला पुट्टा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। २८ और ये सदा की विधि की रीति पर इस्त्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी हैं; और यह इस्त्राएलियों की ओर से उनके मेलबलियों में से यहोवा के लिये उठाए जाने की भेंट होगी। २९ और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलने रहे, जिस से उन्हीं को पहिने हुए उनका अभिषेक और मस्कार किया जाए। ३० उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्रस्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तम्बू में पहिले आए, तब उन वस्त्रों को सात दिन तक पहिने रहे। ३१ फिर याजक के सस्कार का जो मेढा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना; ३२ तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढे का मांस और टोकरी की रोटी, दोनों को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर खाए। ३३ और जिन पदार्थों से उनका सस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिये प्रायश्चित्त किया जाएगा उनको तो वे खाएं, परन्तु पराए कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र

होंगे। ३४ और यदि सस्कारवाले मास वा रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। ३५ और मैं ने तुम्हें जो जो आज्ञा दी है, उन सभी के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और सात दिन तक उनका सस्कार करने रहना, ३६ अर्थात् पापबलि का एक बछड़ा प्रायश्चित्त के लिये प्रतिदिन चढाना। और वेदी को भी प्रायश्चित्त करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिये उसका अभिषेक करना। ३७ सात दिन तक वेदी के लिये प्रायश्चित्त करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम-पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उस से छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा ॥

३८ जो तुम्हें वेदी पर नित्य चढाना होगा वह यह है; अर्थात् प्रतिदिन एक एक वर्ष के दो भेडी के बच्चे। ३९ एक भेड के बच्चे को तो भोर के समय, और दूसरे भेड के बच्चे को गोधूलि के समय चढाना। ४० और एक भेड के बच्चे के सग हीन की चौथाई कूटके निकाले हुए तेल से मना हुआ एपा का दसवा भाग मैदा, और अर्घ के लिये हीन की चौथाई दाखमधु देना। ४१ और दूसरे भेड के बच्चे को गोधूलि के समय चढाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्नबलि और अर्घ दोनों देना, जिस में वह सुखदायक सुगन्ध और यहोवा के लिये हवन ठहरे। ४२ तुम्हारी पीढी पीढी में यहोवा के आगे मिलापवाले तम्बू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होमबलि हुआ करे, यह वह स्थान है जिस में मैं तुम लोगों से इसलिये मिला करूंगा, कि तुम्हें मे बातें करूँ। ४३ और मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, और वह तम्बू मेरे तेज से पवित्र

किया जाएगा। ४४ और मैं मिलापवाले तम्बू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा, कि वे मेरे लिये याजक का काम करें। ४५ और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा, और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ४६ तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिये निकाल ले आया, कि उनके मध्य निवास करूँ; मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

(भांति भांति की पवित्र वस्तुएं बनाने और भांति भांति की रीति चढाने की आज्ञाएं)

३० फिर धूप जलाने के लिये बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। २ उसकी लम्बाई एक हाथ और चौड़ाई एक हाथ की हो, वह चौकोर हो, और उसकी ऊंचाई दो हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं। ३ और वेदी के ऊपरवाले पल्ले और चारों ओर की अलगाओ और सींगों को चौखे सोने से मढना, और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड बनाना। ४ और इसकी बाड के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के दो दो कडे बनाकर इसके दोनों ओर लगाना, वे इसके उठाने के डगडो के खानों का काम देंगे। ५ और डगडो को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढना। ६ और तू उसको उम पदों के आगे रखना जो साक्षीपत्र के मन्दूक के साम्हने हैं, अर्थात् प्रायश्चित्त-वाले ढकने के आगे जो साक्षीपत्र के ऊपर हैं, वही मैं तुम्हें से मिला करूंगा। ७ और उसी वेदी पर हारून सुगन्धित धूप जलाया करे; प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए, ८ तब गोधूलि के समय जब हारून दीपको को

जलाए * तब धूप जलाया करे, यह धूप यहोवा के साम्हने तुम्हारी पीठी पीठी में नित्य जलाया जाए। ६ और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होमबलि और न अन्नबलि चढाना, और न इस पर अर्घ्य देना। १० और हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित्त करे, और तुम्हारी पीठी पीठी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित्त के पापबलि के लोहू से इस पर प्रायश्चित्त किया जाए, यह यहोवा के लिये परमपवित्र है ॥

११ और तब यहोवा ने मूसा से कहा, १२ जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिये यहोवा को प्रायश्चित्त दे, जिस से जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। १३ जितने लोग गिने जाए ऽ वे पवित्रस्थान के शकेल के लिये आधा शकेल दे, यह शकेल बीस गेरा का होता है, यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। १४ बीस वर्ष के वा उस से अधिक अवस्था के जितने गिने जाए ऽ उन में से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। १५ जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित्त के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए, तब न तो धनी लोग आधे शकेल से अधिक दे, और न कगाल लोग उस से कम दे। १६ और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित्त का रुपया लेकर मिलापवाले तम्बू के काम में लगाना, जिस में वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे, और उनके प्राणों का प्रायश्चित्त भी हो ॥

१७ और यहोवा ने मूसा से कहा, १८ धोने के लिये पीतल की एक हौदी और

* मूल में—चढ़ाएगा।

† मूल में— गिने हुआओं के पास पार जायं।

उसका पाया पीतल का बनाना। और उसे मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच में रखकर उस में जल भर देना, १९ और उस में हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पाव धोया करे। २० जब जब वे मिलापवाले तम्बू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पाव जल में धोए, नहीं तो मर जाएंगे, और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने, अर्थात् यहोवा के लिये हव्य जलाने का आए तब तब वे हाथ पाव धोए, न हों कि मर जाए। २१ यह हारून और उसके पीठी पीठी के वश के लिये सदा की विधि ठहरे ॥

२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २३ तू मुख्य मुख्य सुगन्ध द्रव्य, अर्थात् पवित्रस्थान के शकेल के अनुसार पाच सौ शकेल अपने आप निकला हुआ गन्धरम, और उसका आधा, अर्थात् अठ्ठाई सौ शकेल सुगन्धित दालचीनी, और अठ्ठाई सौ शकेल सुगन्धित अगर, २४ और पाच सौ शकेल तज, और एक हीन जलपाई का तेल लेकर २५ उन से अभिषेक का पवित्र तेल, अर्थात् गन्धी की रीति से तैयार किया हुआ सुगन्धित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। २६ और उस से मिलापवाले तम्बू का, और साक्षीपत्र के सन्दूक का, २७ और सारे सामान समेत मेज का, और सामान समेत दीवट का, और धूपवेदी का, २८ और सारे सामान समेत होमवेदी का, और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना। २९ और उनको पवित्र करना, जिस से वे परमपवित्र ठहरे, और जो कुछ उन से छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। ३० फिर हारून का उसके पुत्रों के माथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिये याजक का काम करने के लिये पवित्र करना। ३१ और

इस्त्राएलियो को मेरी यह आज्ञा सुनाना, कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिये पवित्र अभिषेक का तेल होगा। ३२ वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना, वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिये पवित्र होगा। ३३ जो कोई उसके समान कुछ बनाए, वा जो कोई उस में से कुछ पचाए कुलवाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए ॥

३४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुन्दरू, ये सुगन्ध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले लेना, ये सब एक तौल के हो, ३५ और इनका धूप अर्थात् लोन मिलाकर गन्धी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगन्ध द्रव्य बनवाना, ३६ फिर उस में से कुछ पीसकर बूकनी कर डालना, तब उस में से कुछ मिलापवाले तम्बू में साक्षीपत्र के आगे, जहा पर मैं तुम्हें से मिला करूंगा वहा रखना, वह तुम्हारे लिये परमपवित्र होगा। ३७ और जो धूप तू बनवाएगा, मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिये और कुछ न बनवाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिये पवित्र होगा। ३८ जो कोई सूघने के लिये उसके समान कुछ बनाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए ॥

३१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ सुन, मैं ऊरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। ३ और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, और सब प्रकार के कार्यों की समझ देनेवाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ, ४ जिम से वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से

निकाल निकालकर सब भाति की बनावट में, अर्थात् सोने, चादी, और पीतल में, ५ और जडने के लिये मरिण काटने में, और लकड़ी के खोदने में काम करे। ६ और सुन, मैं दान के गोत्रवाले अहीमामाक के पुत्र अहोलीआब को उसके सग कर देता हूँ; वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सभी के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिम से जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं ने तुम्हें दी है उन सभी को वे बनाए; ७ अर्थात् मिलापवाला तम्बू, और साक्षीपत्र का सन्दूक, और उस पर का प्रायश्चित्तवाला ढकना, और तम्बू का सारा सामान ८ और सामान सहित मेज, और सारे सामान समेत चोखे मोने की दीवट, और धूपवेदी, ९ और सारे सामान सहित होमवेदी, और पाए समेत हीदी, १० और काढे हुए वस्त्र, और हारून याजक के याजकवाले काम के पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र, ११ और अभिषेक का तेल, और पवित्र-स्थान के लिये सुगन्धित धूप, इन सभी को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैं ने तुम्हें दी है ॥

१२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १३ तू इस्त्राएलियो से यह भी कहना, कि निश्चय तुम मेरे विश्रामदिनो को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिस से तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करनेहार है। १४ इस कारण तुम विश्रामदिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिये पवित्र ठहरा है, जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए; जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। १५ छ दिन तो काम काज किया जाए, पर सातवा दिन परमविश्राम का दिन और

यहोवा के लिये पवित्र है; इसलिये जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। १६ मों इस्राएली विश्रामदिन को माना करें, वरन पीढी पीढी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। १७ वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि छः दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और सातवें दिन विश्राम करके अपना जी ठण्डा किया ॥

१८ जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उम ने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देनेवाली पत्थर की दोनो तस्लिया दी ॥

(इस्राएलियों के प्रतिपूजा में पसने का बंधन)

३२

जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिये देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले; क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिश्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ ? २ हारून ने उन से कहा, तुम्हारी स्त्रियो और बेटे बेटियों के कानो में सोने की जो बालिया हैं उन्हें तोड़कर उतारो, और मेरे पाम ले आओ। ३ तब सब लोगो ने उनके कानो से सोने की बालियो को तोड़कर उतारा, और हारून के पास ले आए। ४ और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, और एक बछड़ा ढालकर बनाया, और टांकी से गढ़ा; तब वे कहने लगे, कि हे इस्राएल तेरा परमेश्वर जो तुम्हें मिश्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ५ यह देखके हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई; और यह प्रचार किया, कि कल यहोवा के लिये पर्वत

होगा। ६ और दूसरे दिन लोगो ने तडके उठकर होमबलि चढाए, और मेलबलि ले आए; फिर बैठकर खाया पिया, और उठकर खेलने लगे ॥

७ तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग, जिन्हे तू मिश्र देश से निकाल ले आया है, सो बिगड गए हैं, ८ और जिम मार्ग पर चलने की आज्ञा मैं ने उनको दी थी उसको भटपट छोड़कर उन्हो ने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दगडवत् किया, और उसके लिये बलिदान भी चढाया, और यह कहा है, कि हैं इस्राएलियो तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हे मिश्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। ९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ने इन लोगो को देखा, और सुन, वे हठीले हैं *। १० अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भडक उठा है जिम से मैं उन्हें भस्म करू; परन्तु तुम्हें मे एक बडी जाति उपजाऊगा। ११ तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहके मनाने लगा, कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भडका है, जिसे तू बड़े मामर्थ्य और बलवन्त हाथ के द्वारा मिश्र देश से निकाल लाया है ? १२ मिश्री लोग यह क्यों कहने पाएँ, कि वह उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात् पहाड़ो में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया ? तू अपने भडके हुए कोप को शांत कर, और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। १३ अपने दास इब्राहीम, इसहाक, और याकूब को स्मरण कर, जिन से तू ने अपनी ही किरिया खाकर यह कहा था, कि मैं तुम्हारे वश को आकाश के तारो के तुल्य बहुत करूंगा, और

* मूल में—कड़ी गर्दन वाले।

यह सारा देश जिसकी मैं ने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहें। १४ तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उम ने कहा था पछताया ॥

१५ तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों तस्तियों को हाथ में लिये हुए पहाड़ से उतर गया, उन तस्तियों के तो इधर और उधर दोनों अलगो पर कुछ लिखा हुआ था। १६ और वे तस्तिया परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोदकर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था ॥

१७ जब यहोशू को लोगो के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उस ने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। १८ उस ने कहा, वह जो शब्द है वह न तो जीतनेवालो का है, और न हारनेवालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पडता है। १९ छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पडा, तब मूसा का कोप भड़क उठा, और उस ने तस्तियों को अपने हाथो से पर्वत के नीचे पटककर तोड डाला। २० तब उस ने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डालके फूक दिया। और पीसकर चूर चूरकर डाला, और जल के ऊपर फेंक दिया, और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया। २१ तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगो ने तुझ से क्या किया कि तू ने उनको इतने बडे पाप में फंसाया ? २२ हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के; तू तो उन लोगोको जानता ही है, कि वे बुराई में मन लगाए रहते है। २३ और उन्हों ने मुझ से कहा, कि हमारे लिये देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले; क्योंकि उस पुरुष मूसा को, जो हमें मिस्र देश

से छुड़ा लाया है, हम नही जानते कि उसे क्या हुआ ? २४ तब मैं ने उन से कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो, वे उनको तोडकर उतार लाए; और जब उन्हो ने मुझ को दिया, मैं ने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पडा। २५ हारून ने उन लोगो को ऐसा निरकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास * के योग्य हुए, २६ उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए, तब सारे लेवीय उस के पास इकट्ठे हुए। २७ उस ने उन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि अपनी अपनी जाघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक धूम धूमकर अपने अपने भाइयों, सगियों, और पडोसियों को घात करो। २८ मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया; और उस दिन तीन हजार के अटकल लोग मारे गए। २९ फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिये अपना याजकपद का सस्कार करो †, बरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिस से वह आज तुम को आशीष दे। ३० दूसरे दिन मूसा ने लोगो से कहा, तुम ने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा; सम्भव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित्त कर सकू। ३१ तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, कि हाय, हाय, उन लोगो ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। ३२ तौभी अब तू उनका पाप क्षमा कर— नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट

* मूल में—फुसफुसाहट।

† मूल में—अपना हाथ भरो।

दे* । ३३ यहोवा ने मूसा से कहा, जिस ने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा । ३४ अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैं ने तुझ से की थी; देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा । परन्तु जिस दिन मैं दण्ड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दण्ड दूंगा । ३५ और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था ॥

३३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगो को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैं ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब से शपथ खाकर कहा था, कि मैं उसे तुम्हारे वश को दूंगा । २ और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, एमोरी, हिन्ती, परिज्जी, हिब्बी, और यबूसी लोगो को बरबस निकाल दूंगा । ३ तुम लोग उस देश को जाओ जिस में दूध और मधु की धारा बहती है; परन्तु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अन्त कर डालू । ४ यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे; और कोई अपने गहने पहिने हुए न रहा । ५ क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, कि तुम लोग तो हठीले हो; जो मैं पल भर के लिये तुम्हारे बीच होकर चलू, तो तुम्हारा अन्त कर डालूंगा । इसलिये अब अपने अपने गहने अपने अंगो से उतार दो, कि मैं जानू कि तुम्हारे साथ क्या करना

* मूल में—मुझी को मिटा ।

चाहिए । ६ तब इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे ॥

(बूसा के इस्राएलियों के लिये पापनीचन मार्गने का वर्णन)

७ मूसा तम्बू को छावनी से बाहर बरन दूर खड़ा कराया करता था, और उसको मिलापवाला तम्बू कहता था । और जो कोई यहोवा को ढूँढ़ता वह उस मिलापवाले तम्बू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था । ८ और जब जब मूसा तम्बू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तम्बू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी और ताकते रहते थे । ९ और जब मूसा उस तम्बू में प्रवेश करता था, तब बादल का खम्भा उतर के तम्बू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था । १० और सब लोग जब बादल के खम्भे को तम्बू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दण्डवत् करते थे । ११ और यहोवा मूसा से इस प्रकार आम्हने-साम्हने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे । और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तम्बू में से न निकलता था ॥

१२ और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझ से कहता है, कि इन लोगो को ले चल; परन्तु यह नही बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा । तीसरी तू ने कहा है, कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है,* और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है । १३ और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की

* मूल में—मैं तुम्हें नाम से जानता हू ।

दृष्टि हो, तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिस से जब मैं तेरा ज्ञान पाऊ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। १४ यहोवा ने कहा, मैं आप चलाऊँ * और तुझे विश्राम दूँगा। १५ उस ने उस से कहा, यदि तू आप † न चले, तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। १६ यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इस से नहीं कि तू हमारे संग सग चले, जिस से मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे ?

१७ यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तू ने की है करूँगा; क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है ‡। १८ उस ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। १९ उस ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊँगा, § और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूँगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। २० फिर उस ने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता; क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। २१ फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो; २२ और जब तक मेरा तेज

तेरे साम्हने होके चलता रहे * तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे साम्हने होकर न निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढाँपे रखूँगा; २३ फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएँगा, परन्तु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा ॥

३४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहिली तल्लियों के समान पत्थर की दो और तल्लिया गढ़ ले; तब जो वचन उन पहिली तल्लियों पर लिखे थे, जिन्हें तू ने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तल्लियों पर भी लिखूँगा। २ और बिहान को तैयार रहना, और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे साम्हने खड़ा होना। ३ और तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कही दिखाई न दे; और न भेड़-बकरी और गाय-बैल भी पर्वत के आगे चरने पाएँ। ४ तब मूसा ने पहिली तल्लियों के समान दो और तल्लियाँ गढ़ी; और बिहान को सबेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तल्लियाँ लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। ५ तब यहोवा ने बादल में उतरके उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। ६ और यहोवा उसके साम्हने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, कि यहोवा, यहोवा, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजबन्त, और अति करुणामय और सत्य, ७ हज़ारों पीढ़ियों तक निरन्तर करुणा करनेवाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करनेवाला है, परन्तु दोषी को वह किसी

* मूल में—मेरा मुँह चलेगा।

† मूल में—तेरा मुँह।

‡ मूल में—मैं तुझे नाम से जानता हूँ।

§ मूल में—अपनी सागी भलाई तेरे साम्हने से चलाऊँगा।

* मूल में—मेरा तेज तेरे साम्हने होके चलता रहे।

प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरो के अधर्म का दण्ड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देनेवाला है। ८ तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दण्डवत् की। ९ और उस ने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु, हम लोगों के बीच में होकर चले, ये लोग हठीले तो हैं, तौभी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर, और हमें अपना निज भाग मानके ग्रहण कर। १० उस ने कहा, सुन, मैं एक वाचा बान्धता हू। तेरे सब लोगों के साम्हने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए; और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहीवा के कार्य को देखेंगे; क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हू वह भय योग्य काम है। ११ जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हू उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हिती, परिज्जी, हिब्वी, और यबूसी लोगों को निकालता हू। १२ इसलिये सावधान रहना कि जिस देश में तू जानेवाला है उसके निवासियों से वाचा न बान्धना; कही ऐसा न हो कि वह तेरे लिये फदा ठहरे। १३ वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, और उनकी अशोरा नाम मूर्तियों को काट डालना; १४ क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दण्डवत् करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहीवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठनेवाला ईश्वर है ही, १५ ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बान्धे, और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें, और उनके लिये बलिदान भी करें, और कोई तुम्हें नेवता दे और तू भी उसके बलिपशु का प्रसाद खाए,

१६ और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिये लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। १७ तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर न बना लेना। १८ अखमीरी रोटी का पब्लं मानना। उस में मेरी आज्ञा के अनुसार आबीब महीने के नियत समय पर सात दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना; क्योंकि तू मिस्र से आबीब महीने में निकल आया। १९ हर एक पहिलौठा मेरा है; और क्या बछड़ा, क्या मेम्ना, तेरे पशुओं में से जो नर पहिलौठे हो वे सब मेरे ही हैं। २० और गदही के पहिलौठे की सन्ती मेम्ना देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। परन्तु अपने सब पहिलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुह न दिखाए। २१ छ. दिन तो परिश्रम करना, परन्तु सातवें दिन विश्राम करना; वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। २२ और तू अठवारों का पब्लं मानना जो पहिले लवे हुए गेहूं का पब्लं कहलाता है, और वर्ष के अन्त में बटोरन का भी पब्लं मानना। २३ वर्ष में तीन बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहीवा को अपने मुह दिखाएं। २४ मैं तो अन्यजातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा; और जब तू अपने परमेश्वर यहीवा को अपना मुह दिखाने के लिये वर्ष में तीन बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। २५ मेरे बलिदान के लोह को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फसह के पब्लं के बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना।

२६ अपनी भूमि की पहिली उपज का पहिला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी मा के दूध में न सिझाना। २७ और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले; क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बान्धता हूँ। २८ मूसा तो वहा यहोवा के सग चालीस दिन और रात रहा, और तब तक न तो उस ने रोटी खाई और न पानी पिया। और उस ने उन तस्त्वियो पर वाचा के वचन अर्थात् दस आज्ञाएं* लिख दीं ॥

२९ जब मूसा साक्षी की दोनों तस्त्विया हाथ में लिये हुए सीनै पर्वत से उतरा आता था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें † निकल रही थी, परन्तु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें † निकल रही हैं। ३० जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें † निकलती हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। ३१ तब मूसा ने उनको बुलाया; और हारून मरडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उन से बातें करने लगा। ३२ इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उस ने उन्हें बताईं। ३३ जब तक मूसा उन से बात न कर चुका तब तक अपने मुह पर ओढ़ना डाले रहा। ३४ और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके साम्हने जाता तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था; फिर बाहर

आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। ३५ सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उस से किरणें * निकलती हैं; और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था ॥

(सारे सामान्य समेत पवित्रस्थान और याजकों के वस्त्र बनाए जाने का वर्णन)

३५ मूसा ने इस्राएलियों की सारी मरडली इकट्ठी करके उन से कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। २ छ. दिन तो काम काज किया जाए, परन्तु सातवां दिन तुम्हारे लिये पवित्र और यहोवा के लिये परमविश्राम का दिन ठहरे; उस में जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए; ३ वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना ॥

४ फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मरडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। ५ तुम्हारे पास से यहोवा के लिये भेंट ली जाए, अर्थात् जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएँ, अर्थात् सोना, रूपा, पीतल; ६ नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा; बकरी का बाल, ७ लाल रंग से रगी हुई भेड़ों की खालें, सूइसों की खाने; ८ बबूल की लकड़ी, ९ उजियाला देने के लिये तेल, अभिषेक का तेल, और धूप के लिये सुगन्धद्रव्य, ९ फिर एपोद और चपरास के लिये सुलैमानी मणि और जड़ने के लिये मणि। १० और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा

* मूल में—वचन। † मूल में—सींग।

* मूल में—सींग।

यहोवा ने दी है वे सब बनाए। ११ अर्थात् तम्बू, और ओहार समेत निवास, और उसकी घुडी, तख्ते, बेंडे, खम्भे और कुर्सियां; १२ फिर डगडों समेत सन्दूक, और प्रायश्चित्त का ढकना, और बीचवाला पर्दा; १३ डगडों और सब सामान समेत मेज, और भेंट की रोटियां; १४ सामान और दीपकों समेत उजियाला देनेवाला दीवट, और उजियाला देने के लिये तेल; १५ डगडों समेत धूपवेदी, अभिषेक का तेल, सुगन्धित धूप, और निवास के द्वार का पर्दा; १६ पीतल की भंभरी, डगडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी; १७ खम्भों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे, और आंगन के द्वार के पर्दे; १८ निवास और आंगन दोनों के खूटे, और डोरिया; १९ पवित्रस्थान में सेवा टहल करने के लिये काढे हुए वस्त्र, और याजक का काम करने के लिये हारून याजक के पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र भी ॥

२० तब इस्राएलियों की सारी मण्डली मूसा के साम्हने से लौट गई। २१ और जितनों को उत्साह हुआ, * और जितनों के मन † में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलापवाले तम्बू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिये यहोवा की भेंट ले आने लगे। २२ क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनु, नथुनी, मुदरी, और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे, इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिये सोने की भेंट के देनेवाले थे वे सब उनको ले आए।

* मूल में—जितनों को उनके मन ने उठाया।

† मूल में—आत्मा।

२३ और जिस जिस पुरुष के पाम नीले, बैजनी वा लाल रंग का कपडा, वा सूक्ष्म सनी का कपडा, वा बकरी का बाल, वा लाल रंग से रगी हुई मेढों की खाले, वा सूइसों की खाले थी वे उन्हो ने आए। २४ फिर जितने चादी, वा पीतल की भेंट के देनेवाले थे वे यहोवा के लिये वैसी भेंट ले आए; और जिस जिसके पाम सेवकाई के किसी काम के लिये बबूल की लकडी थी वे उसे ले आए। २५ और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत कात कातकर नीले, बैजनी और लाल रंग के, और सूक्ष्म सनी के काने हुए सूत को ले आईं। २६ और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने ने बकरी के बाल भी काते। २७ और प्रधान लोग एपोद और चपराम के लिये मुलैमानी मरिण, और जड़ने के लिये मरिण, २८ और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगन्धद्रव्य और तेल ले आये। २९ जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिये जो कुछ आवश्यक था, उमे वे सब पुरुष और स्त्रिया ले आईं, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिये अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए ॥

३० तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्रवाले बमलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। ३१ और उम ने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिये उसको ऐसी बुद्धि, समझ, और ज्ञान मिला है, ३२ कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चादी, और पीतल में, ३३ और जड़ने के लिये मरिण काटने में

श्रीर लकड़ी के खोदने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। ३४ फिर यहोवा ने उसके मन में श्रीर दान के गोत्रवाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। ३५ इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है, कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े, और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में, और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें।।

३६ श्रीर बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो, कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्रस्थान की सेवकाई के लिये सब प्रकार का काम करना जानें, वे सब यह काम करें।।

२ तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात् जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था * उन सभी को बुलवाया। ३ और इस्राएली जो जो भेंट पवित्रस्थान की सेवकाई के काम और उसके बनाने के लिये ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाने रहे; ४ और जितने बुद्धिमान पवित्रस्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए, ५ और कहने लगे, जिस काम के करने की

* मूल में—जिसको काम करने के लिये पास आने को उसके मन ने उठाया हो।

आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिये जितना चाहिये उससे अधिक वे ले आए हैं। ६ तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, कोई पवित्रस्थान के लिये और भेंट न लाए, इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। ७ क्योंकि सब काम बनाने के लिये जितना सामान आवश्यक था उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था।।

८ और काम करनेवाले जितने बुद्धिमान थे उन्होने निवास के लिये बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के, और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े के दस पटों को काढ़े हुए कर्बों सहित बनाया। ९ एक एक पट की लम्बाई अट्ठाईस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की हुई; सब पट एक ही नाप के बने। १० उस ने पांच पट एक दूसरे से जोड़ दिए, और फिर दूसरे पाच पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए। ११ और जहा ये पट जोड़े गए वहां की दोनों छोरों पर उस ने नीली नीली फलियां लगाईं। १२ उस ने दोनों छोरों में पचास पचास फलियां इस प्रकार लगाईं कि वे आम्हने-साम्हने हुईं। १३ और उस ने सोने की पचास घुंडियां बनाईं, और उनके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। १४ फिर निवास के ऊपर के तम्बू के लिये उस ने बकरी के बाल के ग्यारह पट बनाए। १५ एक एक पट की लम्बाई तीस हाथ और चौड़ाई चार हाथ की हुई; और ग्यारहों पट एक ही नाप के थे। १६ इन में से उस ने पाच पट अलग और छः पट अलग जोड़ दिए। १७ और जहां दोनों जोड़े गए वहां की छोरों में उस ने पचास पचास फलियां लगाईं। १८ और

दोनों पल्लों पर उस ने सोने के दो कड़े बनाए, जो उसके उठाने के डण्डों के खानों का काम दे। २८ और डण्डों को उस ने बबूल की लकड़ी का बनाया, और सोने से मढ़ा। २९ और उस ने अभिषेक का पवित्र तेल, और सुगन्धद्रव्य का धूप, गन्धी की रीति के अनुसार बनाया ॥

३८

फिर उस ने बबूल की लकड़ी की होमवेदी भी बनाई; उसकी लम्बाई पाच हाथ और चौड़ाई पाच हाथ की थी; इस प्रकार से वह चौकोर बनी, और ऊंचाई तीन हाथ की थी। २ और उस ने उसके चारों कोनों पर उसके चार सींग बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने; और उसने उसको पीतल से मढ़ा। ३ और उस ने वेदी का सारा सामान, अर्थात् उसकी हाड़ियों, फावड़ियों, कटोरो, काटो, और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उस ने पीतल का बनाया। ४ और वेदी के लिये उसके चारो ओर की कगनी के तले उस ने पीतल की जाली की एक झर्री बनाई, वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँची। ५ और उस ने पीतल की झर्री के चारो कोनों के लिये चार कड़े ढाले, जो डण्डों के खानों का काम दे। ६ फिर उस ने डण्डों को बबूल की लकड़ी का बनाया, और पीतल से मढ़ा। ७ तब उस ने डण्डों को वेदी की झर्रियों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिये डाल दिया। वेदी को उस ने तख्तों से खोखली बनाया ॥

८ और उस ने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, यह मिलापवाले तम्बू के द्वार पर सेवा करनेवाली महिलाओं के दर्पणों के लिये पीतल के बनाए गए ॥

९ फिर उस ने आगन बनाया; और दक्खिन अलंग के लिये आगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे, और सब मिलाकर सौ हाथ लम्बे थे; १० उनके लिये बीस खम्भे, और इनकी पीतल की बीस कुर्सिया बनी; और खम्भों की घुंडिया और जोड़ने की छड़े चादी की बनी। ११ और उत्तर अलंग के लिये भी सौ हाथ लम्बे पर्दे बने, और उनके लिये बीस खम्भे, और इनकी पीतल की बीस ही कुर्सिया बनी, और खम्भो की घुंडिया और जोड़ने की छड़े चादी की बनी। १२ और पश्चिम अलंग के लिये सब पर्दे मिलाकर पचास हाथ के थे; उनके लिये दस खम्भे, और दस ही उनकी कुर्सियां थी, और खम्भो की घुंडिया और जोड़ने की छड़े चादी की थी। १३ और पूरब अलंग में भी वह पचास हाथ के थे। १४ आगन के द्वार के एक ओर के लिये पंद्रह हाथ के पर्दे बने; और उनके लिये तीन खम्भे और तीन कुर्सिया थी। १५ और आगन के द्वार की दूमरी ओर भी वैसे ही बना था; और आगन के दरवाजे के इधर और उधर पंद्रह पंद्रह हाथ के पर्दे बने थे; और उनके लिये तीन ही तीन खम्भे, और तीन ही तीन इनकी कुर्सिया भी थी। १६ आगन की चारो ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। १७ और खम्भो की कुर्सियां पीतल की, और घुंडिया और छड़ें चांदी की बनी, और उनके सिरे चादी से मढ़े गए, और आगन के सब खम्भे चादी के छड़ो से जोड़े गए थे। १८ आगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, और वह नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे; और उसकी लम्बाई बीस हाथ की थी, और उसकी ऊंचाई आगन की कनात

की चौड़ाई के समान पाच हाथ की बनी । १६ और उनके लिये चार खम्भे, और खम्भों की चार ही कुर्सियां पीतल की बनी, उनकी धुंडिया चादी की बनी, और उनके सिरे चादी से मढ़े गए, और उनकी छड़े चादी की बनी । २० और निवास और आगन की चारों ओर के सब खूटे पीतल के बने थे ॥

२१ साक्षीपत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवकाई के लिये बना, और जिमकी गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका वर्णन यह है । २२ जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसको यहूदा के गोत्रवाले बसलेल ने; जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया । २३ और उसके सग दान के गोत्रवाले, अहीसामाक का पुत्र, ओहोलीआब था, जो खोदने और काढनेवाला और नीले, बैजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोब करनेवाला निपुण कारीगर था ॥

२४ पवित्रस्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह उनतीस किक्कार, और पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से सात सौ तीन शेकेल था । २५ और मण्डली के गिने हुए लोगो की भेंट की चादी सौ किक्कार, और पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से सतरह सौ पचहत्तर शेकेल थी । २६ अर्थात् जितने बीस बरस के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे, वे छः लाख तीन हजार साढ़े पांच सौ पुरुष थे, और एक एक जन की ओर से पवित्रस्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है मिला । २७ और वह सौ किक्कार चांदी पवित्रस्थान और बीचवाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई;

सौ किक्कार से सौ कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी एक किक्कार की बनी । २८ और सतरह सौ पचहत्तर शेकेल जो बच गए उन से खम्भो की धुंडिया बनाई गई, और खम्भो की चोटिया मढ़ी गई, और उनकी छड़े भी बनाई गई । २९ और भेंट का पीतल सत्तर किक्कार और दो हजार चार सौ शेकेल था; ३० उससे मिलापवाले तम्बू के द्वार की कुर्सिया, और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी, और वेदी का सारा सामान, ३१ और आगन के चारों ओर की कुर्सिया, और उसके द्वार की कुर्सियां, और निवास, और आगन की चारों ओर के खूटे भी बनाए गए ॥

३६ फिर उन्होंने ने नीले, बैजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्रस्थान की सेवकाई के लिये, और हारून के लिये भी पवित्र वस्त्र बनाए; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

२ और उस ने एपोद को सोने, और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया । ३ और उन्होंने ने सोना पीट-पीटकर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरो को काट-काटकर तार बनाए, और तारो को नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े में, और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया । ४ एपोद के जोड़ने को उन्होंने ने उसके कंधों पर के बन्धन बनाए, वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया । ५ और उसके कसने के लिये जो काढ़ा हुआ पट्टा उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का, और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात् सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी

दोनों पल्लों पर उस ने सोने के दो कड़े बनाए, जो उसके उठाने के डण्डों के खानों का काम दे। २८ और डण्डों को उस ने बबूल की लकड़ी का बनाया, और सोने से मढ़ा। २९ और उस ने अभिषेक का पवित्र तेल, और सुगन्धद्रव्य का धूप, गन्धी की रीति के अनुसार बनाया ॥

३८ फिर उस ने बबूल की लकड़ी की होमवेदी भी बनाई; उसकी लम्बाई पाच हाथ और चौड़ाई पाच हाथ की थी; इस प्रकार से वह चौकोर बनी, और ऊंचाई तीन हाथ की थी। २ और उस ने उसके चारों कोनों पर उसके चार सीग बनाए, वे उसके साथ बिना जोड़ के बने, और उसने उसको पीतल से मढ़ा। ३ और उस ने वेदी का सारा सामान, अर्थात् उसकी हाडियों, फावडियों, कटोरो, काटो, और करछो को बनाया। उसका सारा सामान उस ने पीतल का बनाया। ४ और वेदी के लिये उसके चारो ओर की कगनी के तले उस ने पीतल की जाली की एक भंभरी बनाई, वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। ५ और उस ने पीतल की भंभरी के चारो कोनों के लिये चार कड़े ढाले, जो डण्डों के खानों का काम दें। ६ फिर उस ने डण्डों को बबूल की लकड़ी का बनाया, और पीतल से मढ़ा। ७ तब उस ने डण्डों को वेदी की अलंगो के कड़ों में वेदी के उठाने के लिये डाल दिया। वेदी को उस ने तख्तों से खोखली बनाया ॥

८ और उस ने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, यह मिलापवाले तम्बू के द्वार पर सेवा करनेवाली महिलाओं के दर्पणों के लिये पीतल के बनाए गए ॥

९ फिर उस ने आगन बनाया; और दक्खिन अलग के लिये आगन के पदों बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे, और सब मिलाकर सौ हाथ लम्बे थे, १० उनके लिये बीस खम्भे, और इनकी पीतल की बीस कुर्सियां बनी, और खम्भों की घुडिया और जोड़ने की छड़े चादी की बनी। ११ और उत्तर अलग के लिये भी सौ हाथ लम्बे पदों बने, और उनके लिये बीस खम्भे, और इनकी पीतल की बीस ही कुर्सियां बनी, और खम्भों की घुडिया और जोड़ने की छड़े चादी की बनी। १२ और पश्चिम अलग के लिये सब पदों मिलाकर पचास हाथ के थे, उनके लिये दस खम्भे, और दस ही उनकी कुर्सिया थी, और खम्भों की घुडिया और जोड़ने की छड़े चादी की थी। १३ और पूरब अलग में भी वह पचास हाथ के थे। १४ आगन के द्वार के एक ओर के लिये पद्रह हाथ के पदों बने; और उनके लिये तीन खम्भे और तीन कुर्सिया थी। १५ और आगन के द्वार की दूसरी ओर भी वंसा ही बना था; और आगन के दरवाजे के इधर और उधर पद्रह पद्रह हाथ के पदों बने थे; और उनके लिये तीन ही तीन खम्भे, और तीन ही तीन इनकी कुर्सियां भी थी। १६ आगन की चारो ओर सब पदों सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। १७ और खम्भों की कुर्सियां पीतल की, और घुडिया और छड़े चांदी की बनी, और उनके सिरे चादी से मढ़े गए, और आगन के सब खम्भे चादी के छड़ों से जोड़े गए थे। १८ आगन के द्वार के पदों पर बेल बूटे का काम किया हुआ था, और वह नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे; और उसकी लम्बाई बीस हाथ की थी, और उसकी ऊंचाई आगन की कनात

की चौड़ाई के समान पाच हाथ की बनी । १६ और उनके लिये चार खम्भे, और खम्भो की चार ही कुर्सिया पीतल की बनी, उनकी घुडिया चादी की बनी, और उनके सिरे चादी से मढे गए, और उनकी छड़े चादी की बनी । २० और निवास और आगन की चारो ओर के सब खूटे पीतल के बने थे ॥

२१ साक्षीपत्र के निवास का सामान जो लेवियो की सेवकाई के लिये बना, और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका वर्णन यह है । २२ जिम जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहाँवा ने मूसा को दी थी उसको यहूदा के गोत्रवाले वसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया । २३ और उसके सग दान के गोत्रवाले, अहीमामाक का पुत्र, ओहोलीआब था, जो खोदने और काढनेवाला और नीले, बंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोब करनेवाला निपुण कारीगर था ॥

२४ पवित्रस्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह उनतीस किक्कार, और पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से सात सौ तीन शेकेल था । २५ और मण्डली के गिने हुए लोगों की भेंट की चादी सौ किक्कार, और पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से सतरह सौ पचहत्तर शेकेल थी । २६ अर्थात् जितने बीस बरस के और उससे अधिक अवस्था के गिने गए थे, वे छः लाख तीन हजार साढ़े पांच सौ पुरुष थे, और एक एक जन की ओर से पवित्रस्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है मिला । २७ और वह सौ किक्कार चादी पवित्रस्थान और बीचवाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई;

सौ किक्कार से सौ कुर्सिया बनी, एक एक कुर्सी एक किक्कार की बनी । २८ और सतरह सौ पचहत्तर शेकेल जो बच गए उन से खम्भो की घुडिया बनाई गई, और खम्भो की चोटिया मढ़ी गई, और उनकी छड़े भी बनाई गई । २९ और भेंट का पीतल सत्तर किक्कार और दो हजार चार सौ शेकेल था; ३० उससे मिलापवाले तम्बू के द्वार की कुर्सिया, और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी, और वेदी का सारा सामान, ३१ और आगन के चारो ओर की कुर्सिया, और उसके द्वार की कुर्सिया, और निवास, और आगन की चारो ओर के खूटे भी बनाए गए ॥

३६ फिर उन्होने नीले, बंजनी और लाल रंग के काढे हुए कपड़े पवित्रस्थान की सेवकाई के लिये, और हारून के लिये भी पवित्र वस्त्र बनाए; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

२ और उस ने एपोद को सोने, और नीले, बंजनी और लाल रंग के कपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया । ३ और उन्हों ने सोना पीट-पीटकर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरों को काट-काटकर तार बनाए, और तारो को नीले, बंजनी और लाल रंग के कपड़े में, और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया । ४ एपोद के जोड़ने को उन्होने उसके कन्धों पर के बन्धन बनाए, वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया । ५ और उसके कसने के लिये जो काढ़ा हुआ पट्टा उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का, और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात् सोने और नीले, बंजनी और लाल रंग के कपड़े का, और सूक्ष्म बटी हुई सनी

के कपड़े का बना; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

६ और उन्होने सुलैमानी मरिण काटकर उनमें इस्राएल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे, और सोने के खानो में जड दिए। ७ और उस ने उनको एपोद के कन्धे के बन्धनो पर लगाया, जिस से इस्राएलियो के लिये स्मरण कराने-वाले मरिण ठहरे; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

८ और उस ने चपरास को एपोद की नाई सोने की, और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े की, और सूक्ष्म बटी हुई मनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। ९ चपरास तो चौकोर बनी, और उन्होने उसको दोहरा बनाया, और वह दोहरा होकर एक बित्ता लम्बा और एक बित्ता चौडा बना। १० और उन्होने उस में चार पाति मरिण जडे। पहिली पाति में तो मरिणक्य, पन्धरग, और लालड़ी जडे गए; ११ और दूसरी पाति में मरकत, नीलमरिण, और हीरा; १२ और तीसरी पाति में लशम, सूर्यकान्त, और नीलम; १३ और चौथी पाति में फीरोजा, सुलैमानी मरिण, और यशब जडे; ये सब अलग अलग सोने के खानो में जडे गए। १४ और ये मरिण इस्राएल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार बारह थे; बारहों गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदा गया। १५ और उन्होने चपरास पर डोरियो की नाई गूथे हुए चोखे सोने की जजीर बनाकर लगाई; १६ फिर उन्होने सोने के दो खाने, और सोने की दो कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरो पर लगाया; १७ तब उन्हों ने सोने की दोनों गूथी हुई जंजीरों को

चपरास के सिरो पर की दोनों कड़ियो में लगाया। १८ और गूथी हुई दोनों जंजीरो के दोनों बाकी सिरो को उन्होने दोनों खानो में जडके, एपोद के साम्हने दोनों कन्धों के बन्धनों पर लगाया। १९ और उन्होने सोने की और दो कड़िया बनाकर चपरास के दोनो सिरो पर उसकी उस कोर पर, जो एपोद की भीतरी भाग में थी, लगाई। २० और उन्होने सोने की दो और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनो कन्धो के बन्धनो पर नीचे से उसके साम्हने, और जोड के पास, एपोद के काढे हुए पटुके के ऊपर लगाई। २१ तब उन्होने चपरास को उमकी कड़ियो के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीने से ऐसा बान्धा, कि वह एपोद के काढे हुए पटुके के ऊपर रहे, और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

२२ फिर एपोद का बागा सम्पूर्ण नीले रंग का बनाया गया। २३ और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्तर के छेद के समान एक छेद बना, और छेद के चारो ओर एक कोर बनी, कि वह फटने न पाए। २४ और उन्होने उसके नीचेवाले घेरे में नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। २५ और उन्होने चोखे सोने की घटिया भी बनाकर बागे के नीचे-वाले घेरे के चारो ओर अनारो के बीचोंबीच लगाई; २६ अर्थात् बागे के नीचेवाले घेरे की चारो ओर एक सोने की घंटी, और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी. और एक अनार लगाया गया कि उन्हे पहिने हुए सेवा टहल करे; जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

२७ फिर उन्हों ने हारून, और उसके पुत्रों के लिये बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े

के अंगरखे, २८ और सूक्ष्म सनी के कपडे की पगडी, और सूक्ष्म सनी के कपडे की सुन्दर टोपियां, और सूक्ष्म बटी हुई मनी के कपड़े की जाघिया, २९ और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपडे की और नीले, बैजनी और लाल रंग की कारचोबी काम की हुई पगडी; इन सभी को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया ॥

३० फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई; और जैसे छापे में वैसे ही उस में ये अक्षर खोदे गए, अर्थात् यहोवा के लिये पवित्र । ३१ और उन्होने उस में नीला फीता लगाया, जिस से वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

३२ इस प्रकार मिलापवाले तम्बू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियो ने उसी के अनुसार किया ॥

३३ तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात् घुडिया, तख्ते, बेडे, खम्भे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तम्बू; ३४ और लाल रंग से रगी हुई मेढो की खालो का ओढना, और सूइसो की खालो का ओढना, और बीच का पर्दा; ३५ डण्डो सहित साक्षीपत्र का सन्दूक, और प्रायश्चित्त का ढकना; ३६ सारे सामान समेत मेज, और भेट की रोटी; ३७ सारे सामान सहित दीवट, और उसकी सजावट के दीपक, और उजियाला देने के लिये तेल; ३८ सोने की वेदी, और अभिषेक का तेल, और सुगन्धित धूप, और तम्बू के द्वार का पर्दा; ३९ पीतल की भंभरी, डण्डो, और सारे सामान समेत पीतल की वेदी; और पाए समेत हौदी; ४० खम्भों, और कुर्सियों समेत आगन के पर्दे, और आंगन के द्वार का पर्दा,

और डोरिया, और खूटे, और मिलापवाले तम्बू के निवास की सेवकाई का सारा सामान; ४१ पवित्रस्थान में सेवा टहल करने के लिये बेल बूटा काढ़े हुए वस्त्र, और हासून याजक के पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हे पहिनकर उन्हें याजक का काम करना था । ४२ अर्थात् जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्ही के अनुसार इस्राएलियो ने सब काम किया । ४३ तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा, कि उन्होने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है । और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया ॥

(यहोवा के निवास के चढ़े किए जाने और उसकी प्रतिष्ठा होने का वर्णन)

४० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ पहिले महीने के पहिले दिन को तू मिलापवाले तम्बू के निवास को खड़ा करा देना । ३ और उस में साक्षीपत्र के सन्दूक को रखकर बीचवाले पर्दे की ओट में करा देना । ४ और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना; तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपको को जला देना । ५ और साक्षीपत्र के सन्दूक के साम्हने सोने की वेदी को जो धूप के लिये है उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना । ६ और मिलापवाले तम्बू के निवास के द्वार के साम्हने होमवेदी को रखना । ७ और मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच हौदी को रखके उस में जल भरना । ८ और चारो ओर के आगन की कनात को खड़ा करना, और उस आगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना । ९ और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उस में होगा सब कुछ का अभिषेक

करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना; तब वह पवित्र ठहरेगा। १० और सब सामान समेत होमवेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना; तब वह परमपवित्र ठहरेगी। ११ और पाए समेत हीदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। १२ और हारून और उसके पुत्रों को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, १३ और हारून को पवित्र वस्त्र पहिनाना, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना, कि वह मेरे लिये याजक का काम करे। १४ और उसके पुत्रों को ले जाकर अग्रखे पहिनाना, १५ और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना, कि वे मेरे लिये याजक का काम करे; और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिये उनके सदा के याजकपद का चिन्ह ठहरेगा। १६ और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया।।

१७ और दूसरे बरगम के पहिले महीने के पहिले दिन को निवास खडा किया गया। १८ और मूसा ने निवाम को खडा करवाया, और उसकी कुर्मिया घर उसके तख्ते लगाके उन में बेंडे डाले, और उसके खम्भों को खडा किया; १९ और उस ने निवाम के ऊपर तम्बू को फैलाया, और तम्बू के ऊपर उस ने ओढने को लगाया; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। २० और उस ने साक्षीपत्र को लेकर मन्दूक में रखा, और सन्दूक में डण्डों को लगाके उसके ऊपर प्रायश्चित्त के ढकने को धर दिया; २१ और उस ने सन्दूक को निवाम में पहुँचाया, और बीचवाले पर्दे को लटक-बाके साक्षीपत्र के सन्दूक को उसके अन्दर

किया; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। २२ और उस ने मिलापवाले तम्बू में निवास की उत्तर अलग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगवाया, २३ और उस पर उस ने यहोवा के सम्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। २४ और उस ने मिलापवाले तम्बू में मेज के साम्हने निवाम की दक्खिन अलग पर दीवट को रखा, २५ और उस ने दीपको को यहोवा के सम्मुख जला दिया; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। २६ और उस ने मिलापवाले तम्बू में बीच के पर्दे के साम्हने सोने की वेदी को रखा, २७ और उस ने उस पर सुगन्धित घूप जलाया; जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। २८ और उस ने निवाम के द्वार पर पर्दे को लगाया। २९ और मिलापवाले तम्बू के निवाम के द्वार पर होमवेदी को रखकर उस पर होमबलि और अन्नबलि को चढाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ३० और उस ने मिलापवाले तम्बू और वेदी के बीच हीदी को रखकर उस में धोंत के लिये जल डाला, ३१ और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उस में अपने अपने हाथ पाव धोए, ३२ और जब जब वे मिलापवाले तम्बू में वा वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ३३ और उस ने निवाम की चारों ओर और वेदी के आमपाम आगन की कनात को खडा करवाया, और आगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया।।

३४ तब बादल मिलापवाले तम्बू पर छा गया, और यहोवा का तेज निवामस्थान

में भर गया। ३५ और बादल जो मिलापवाले तम्बू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज जो निवासस्थान में भर गया, इम कारण मूसा उस में प्रवेश न कर सका। ३६ और इस्त्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था, कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता तब तब वे कृच

कण्ठे थे। ३७ और यदि वह न उठता, तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कृच नहीं करते थे। ३८ इस्त्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उमी बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती थी ॥

लैव्यव्यवस्था

(होमबलि की विधि)

१ यहोवा ने मिलापवाले तम्बू में से मूसा को बुलाकर उस से कहा, २ इस्त्राएलियों से कह, कि तुम मे से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिये पशु का चढावा चढाए, तो उसका बलिपशु गाय-बैलो वा भेड़-बकरियों में से एक का हो ॥

३ यदि वह गाय-बैलो में से होमबलि करे, तो निर्दोष नर मिलापवाले तम्बू के द्वार पर चढाए, कि यहोवा उसे ग्रहण करे। ४ और वह अपना हाथ होमबलिपशु के मिर पर रखे, और वह उनके लिये प्रायश्चित्त करने को ग्रहण किया जाएगा। ५ तब वह उस बछड़े को यहोवा के साम्हने बलि करे; और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों ओरों पर छिड़कें जो मिलापवाले तम्बू के द्वार पर हैं। ६ फिर वह होमबलिपशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे; ७ तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें, और आग पर लकड़ी मजाकर घरे; ८ और हारून के पुत्र जो याजक हैं

वे सिर और चरबी समेत पशु के टुकड़ों को उम लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी मजाकर घरे; ९ और वह उसकी अतडियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सब को वेदी पर जलाए, कि वह होमबलि यहोवा के लिये मुखदायक मुगन्ध-वाला हवन ठहरे ॥

१० और यदि वह भेड़ों वा बकरो का होमबलि चढाए, तो निर्दोष नर को चढाए। ११ और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तरवाली ओर पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लोहू को वेदी की चारों ओरों पर छिड़कें। १२ और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे, और मिरं और चरबी को अलग करे, और याजक इन सब को उम लकड़ी पर सजाकर घरे जो वेदी की आग पर होगी; १३ और वह उसकी अतडियों और पैरों को जल से धोए। और याजक सब को समीप ले जाकर वेदी पर जलाए, कि वह होमबलि और यहोवा के लिये मुखदायक मुगन्धवाला हवन ठहरे ॥

१४ और यदि वह यहोवा के लिये पक्षियों का होमबलि चढ़ाए, तो पड़ुको वा कबूतरो का चढ़ावा चढ़ाए। १५ याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़के सिर को धड़ में अलग करे, और वेदी पर जलाए, और उसका माग लोहू उस वेदी की अलग पर गिराया जाए; १६ और वह उमका ओभर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे, १७ और वह उसको पखी के बीच में फाड़ें, पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए, कि वह होमबलि और यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्धवाना हवन ठहरे ॥

(अन्नबलि की विधि)

२ और जब कोई यहोवा के लिये अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, तो वह मैदा चढ़ाए; और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखें; २ और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए। और अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उस में आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलानेवाले भाग के लिये वेदी पर जलाए, कि यह यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्धित हवन ठहरे। ३ और अन्नबलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे; यह यहोवा के हवनो में से परमपवित्र वस्तु होगी ॥

४ और जब तू अन्नबलि के लिये तन्दूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सूजे हुए अखमीरी मैदे के फुलको, वा तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो।

५ और यदि तेरा चढ़ावा तबे पर पकाया हुआ अन्नबलि हो, तो वह तेल में सने हुए अखमीरी मैदे का हो; ६ उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। ७ और यदि तेरा चढ़ावा कड़ाही में तला हुआ अन्नबलि हो, तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए। ८ और जो अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना; और जब वह याजक के पास लाया जाए, तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए। ९ और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलानेवाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए, कि वह यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्धवाला हवन ठहरे, १० और अन्नबलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे; वह यहोवा के हवनो में परमपवित्र वस्तु होगी। ११ कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिये चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए; तुम कभी हवन में यहोवा के लिये खमीर और मधु न जलाना। १२ तुम इनको पहिली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिये चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगन्ध के लिये वेदी पर चढ़ाए न जाएं। १३ फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना; और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बन्धी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना; अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना ॥

१४ और यदि तू यहोवा के लिये पहिली उपज का अन्नबलि चढ़ाए, तो अपनी पहिली उपज के अन्नबलि के लिये आग से झुलसाई हुई हरी हरी बालें, अर्थात् हरी हरी बालों को भीजके निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना। १५ और उस में तेल डालना, और उसके ऊपर लोबान रखना; तब वह

अन्नबलि हो जाएगा। १६ और याजक मीजकर निकाले हुए अन्न को, और तेल को, और सारे लोबान को स्मरण दिलानेवाला भाग करके जला दे; वह यहोवा के लिये हवन ठहरे ॥

(नेल्लबलि की विधि)

३ और यदि उसका चढ़ावा मेलबलि का हो, और यदि वह गाय-बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। २ और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलापवाले तम्बू के द्वार पर बलि करे; और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों भ्रलगों पर छिड़के। ३ और वह मेलबलि में से यहोवा के लिये हवन करे, अर्थात् जिस चरबी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं, और जो चरबी उन में लिपटी रहती है वह भी, ४ और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चरबी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्ली, इन सभी को वह भ्रलग करे। ५ और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं, कि यह यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्धवाला हवन ठहरे ॥

६ और यदि यहोवा के मेलबलि के लिये उसका चढ़ावा भेड़-बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। ७ यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो, तो उसको यहोवा के साम्हने चढ़ाए, ८ और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलापवाले तम्बू के आगे बलि करे; और

हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों भ्रलगों पर छिड़के। ९ और मेलबलि में से चरबी को यहोवा के लिये हवन करे, अर्थात् उसकी चरबी भरी मोटी पूछ को वह रीढ़ के पास से भ्रलग करे, और जिस चरबी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं, और जो चरबी उन में लिपटी रहती है, १० और दोनों गुर्दे, और जो चरबी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्ली, इन सभी को वह भ्रलग करे। ११ और याजक इन्हें वेदी पर जलाए; यह यहोवा के लिये हवन रूपी भोजन ठहरे ॥

१२ और यदि वह बकरा वा बकरी चढ़ाए, तो उसे यहोवा के साम्हने चढ़ाए। १३ और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे, और उसको मिलापवाले तम्बू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों भ्रलगों पर छिड़के। १४ और वह उस में से अपना चढ़ावा यहोवा के लिये हवन करके चढ़ाए, अर्थात् जिस चरबी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं, और जो चरबी उन में लिपटी रहती है वह भी, १५ और दोनों गुर्दे और जो चरबी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की भिल्ली, इन सभी को वह भ्रलग करे। १६ और याजक इन्हें वेदी पर जलाए; यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगन्ध के लिये होता है; क्योंकि सारी चरबी यहोवा की है। १७ यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिये सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चरबी और लोहू कभी न खाओ ॥

(पाषण्डि की विधि)

४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा २ कि इस्राएलियों से यह कह, कि यदि

कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए; ३ और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे, जिस से प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पापबलि करके चढ़ाए। ४ और वह उम बछड़े को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उमके सिर पर हाथ रखे, और उम बछड़े को यहोवा के साम्हने बलि करे। ५ और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर मिलापवाले तम्बू में ले जाए; ६ और याजक अपनी उगली लोहू में डुबो डुबोकर और उस में से कुछ लेकर पवित्रस्थान के बीचवाले पर्दे के आगे यहोवा के साम्हने सात बार छिड़के। ७ और याजक उस लोहू में से कुछ और लेकर सुगन्धित धूप की वेदी के सीगो पर जो मिलापवाले तम्बू में है यहोवा के साम्हने लगाए, फिर बछड़े के सब लोहू को वेदी के पाए पर जो मिलापवाले तम्बू के द्वार पर है उडेल दे। ८ फिर वह पापबलि के बछड़े की सब चरबी को उस से अलग करे, अर्थात् जिस चरबी से अतडिया ढपी रहती हैं, और जितनी चरबी उन में लिपटी रहती है, ९ और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चरबी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की फिल्ली, इन सभी को वह ऐसे अलग करे, १० जैसे मेलबलिवाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होमबलि की वेदी पर जलाए। ११ और उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अंतडियां, गोबर, १२ और सारा मांस, निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में, जहां राख डाली जाएगी, ले जाकर लकड़ी पर

रखकर आग से जलाए; जहां राख डाली जाती है वह वही जलाया जाए ॥

१३ और यदि इस्त्राएल की सारी मण्डली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मण्डली की आँवो से छिपी हो, और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ कर्के दोषी ठहरे हो, १४ तो जब उनका किया हुआ पाप प्रगत हो जाए तब मण्डली एक बछड़े को पापबलि करके चढ़ाए। वह उसे मिलापवाले तम्बू के आगे ले जाए, १५ और मण्डली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे, और वह बछड़ा यहोवा के साम्हने बलि किया जाए। १६ और अभिषिक्त याजक बछड़े के लोहू में से कुछ मिलापवाले तम्बू में ले जाए; १७ और याजक अपनी उगली लोहू में डुबो डुबोकर उसे बीचवाले पर्दे के आगे सात बार यहोवा के साम्हने छिड़के। १८ और उसी लोहू में से वेदी के सीगो पर जो यहोवा के आगे मिलापवाले तम्बू में है लगाए; और बचा हुआ सब लोहू होमबलि की वेदी के पाए पर जो मिलापवाले तम्बू के द्वार पर है उडेल दे। १९ और वह बछड़े की कुल चरबी निकालकर वेदी पर जलाए। २० और जैसे पापबलि के बछड़े से किया था वैसे ही इस से भी करे; इस भांति याजक इस्त्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। २१ और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहिले बछड़े को जलाया था; यह तो मण्डली के निमित्त पापबलि ठहरेगा ॥

२२ जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके, अर्थात् अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो

जाए, २३ और उसका पाप उस पर प्रगट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिये ले आए; २४ और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे, और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहा होमबलिपशु यहोवा के आगे बलि किये जाते है; यह तो पापबलि ठहरेगा। २५ और याजक अपनी उगली से पापबलिपशु के लोहू में से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सीगों पर लगाए, और उसका लोहू होमबलि की वेदी के पाए पर उडेल दे। २६ और वह उसकी कुल चरबी को मेलबलि की चरबी की नाई वेदी पर जलाए; और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित्त करे, तब वह क्षमा किया जाएगा ॥

२७ और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात् कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर प्रगट हो जाए, २८ तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिये ले आए; २९ और वह अपना हाथ पापबलिपशु के सिर पर रखे, और होमबलि के स्थान पर पापबलिपशु का बलिदान करे। ३० और याजक उसके लोहू में से अपनी उगली से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सीगों पर लगाए, और उसके सब लोहू को उसी वेदी के पाए पर उडेल दे। ३१ और वह उसकी सब चरबी को मेलबलिपशु की चरबी की नाई अलग करे, तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगन्ध के लिये जलाए; और इस प्रकार याजक उसके लिये प्रायश्चित्त करे, तब उसे क्षमा मिलेगी ॥

३२ और यदि वह पापबलि के लिये एक भेड़ी का बच्चा ले आए, तो वह निर्दोष मादा

हो, ३३ और वह अपना हाथ पापबलिपशु के सिर पर रखे, और उसको पापबलि के लिये वही बलिदान करे जहां होमबलिपशु बलि किया जाता है। ३४ और याजक अपनी उगली से पापबलि के लोहू में से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सीगों पर लगाए, और उसके सब लोहू को वेदी के पाए पर उडेल दे। ३५ और वह उसकी सब चरबी को मेलबलिवाले भेड़ के बच्चे की चरबी की नाई अलग करे, और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए; और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिये प्रायश्चित्त करे, और वह क्षमा किया जाएगा ॥

(दोषबलि की विधि)

५ और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी, कि क्या तू ने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रगट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। २ और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनैले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगनेवाले जीव-जन्तु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। ३ और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिस से लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। ४ और यदि कोई बुरा वा भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। ५ और जब वह इन बातों में से

किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उस ने पाप किया हो वह उसको मान ले, ६ और वह यहोवा के साम्हने अपना दोषबलि ले आए, अर्थात् उस पाप के कारण वह एक भेड़ वा बकरी पापबलि करने के लिये ले आए; तब याजक उस पाप के विषय उसके लिये प्रायश्चित्त करे। ७ और यदि उसे भेड़ वा बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण दो पडुकी वा कबूतरी के दो बच्चे दोषबलि चढ़ाने के लिये यहोवा के पास ले आए, उन में से एक तो पापबलि के लिये और दूसरा होमबलि के लिये। ८ और वह उनको याजक के पास ले आए, और याजक पापबलिवाले को पहिले चढाए, और उसका सिर गले से मरोड डाले, पर अलग न करे, ९ और वह पापबलिपशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलग पर छिड़के, और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए; वह तो पापबलि ठहरेगा। १० और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होमबलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित्त करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा ॥

११ और यदि वह दो पडुकी वा कबूतरी के दो बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढावा एपा का दसवा भाग मैदा पापबलि करके ले आए; उम पर न तो वह तेल डाले, और न लोबान रखे, क्योंकि वह पापबलि होगा। १२ वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उम में से अपनी मुट्टी भर स्मरण दिलाने-वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए; वह तो पापबलि ठहरेगा। १३ और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित्त करे, और तब

वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पापबलि का शेष अन्नबलि के शेष की नाई याजक का ठहरेगा ॥

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १५ यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढा दोषबलि के लिये ले आए; उसका दाम पवित्रस्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपये का हो जितना याजक ठहरेगा। १६ और जिस पवित्र वस्तु के विषय उस ने पाप किया हो, उस में वह पाचवा भाग और बढ़ाकर याजक को दे; और याजक दोषबलि का मेढा चढ़ाकर उसके लिये प्रायश्चित्त करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा ॥

१७ और यदि कोई ऐसा पाप करे, कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, तौभी वह दोषी ठहरेगा, और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पडेगा। १८ इसलिये वह एक निर्दोष मेढा दोषबलि करके याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहरेगा, और याजक उसके लिये उमकी उस भूल का जो उम ने अनजाने में की हो प्रायश्चित्त करे, और वह क्षमा किया जाएगा। १९ यह दोषबलि ठहरे; क्योंकि वह मनुष्य निःसन्देह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा ॥

२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि घरोहर, वा लेनदेन, वा लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, वा उस पर अन्धेरे करे, ३ वा पड़ी

हुई वस्तु को पाकर उसके विषय भूठ बोले और भूठी शपथ भी खाए; ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरने है, ४ तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उस ने लूट, वा अन्धेर करके, वा धरोहर, वा पडी पाई हो, ५ चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उस ने भूठी शपथ खाई हो; तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे, और पांचवा भाग भी बढ़ाकर भर दे, जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। ६ और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोषबलि भी ले आए, अर्थात् एक निर्दोष मेढ़ा दोषबलि के लिये याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। ७ इस प्रकार याजक उसके लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी ॥

(भान्ति भान्ति के बलिदानों की विधि)

८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ९ हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह, कि होमबलि की व्यवस्था यह है; अर्थात् होमबलि ईधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। १० और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहिनकर होमबलि की राख, जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। ११ तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहिनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। १२ और वेदी पर अग्नि जलती रहे, और

कभी बुझने न पाए; और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होमबलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेलबलियों की चरबी को जलाया करे। १३ वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए ॥

१४ अन्नबलि की व्यवस्था इस प्रकार है, कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए। १५ और वह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्नबलि के स्मरणार्थ के इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगन्ध के लिये वेदी पर जलाए। १६ और उस में से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खा जाए; वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात् वे मिलापवाले तम्बू के आगन में उमे खाए। १७ वह खमीर के साथ पकाया न जाए; क्योंकि मैं ने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिये उन्हें दिया है; इसलिये जैसा पापबलि और दोषबलि परमपवित्र है, वैसा ही वह भी है। १८ हारून के वंश के सब पुरुष उस में से खा सकते हैं, तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा; जो कोई उन हवनों को छूए वह पवित्र ठहरेगा ॥

१९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २० जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढावा चढ़ाए; अर्थात् एपा का दसवा भाग मैदा नित्य अन्नबलि में चढ़ाए, उस में से आधा भोर को और आधा सन्ध्या के समय चढ़ाए। २१ वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए; जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना, इस अन्नबलि के पके

हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगन्ध के लिये चढ़ाना। २२ और उसके पुत्रों में से जो भी उम याजकपद पर अभिषिक्त होगा, वह भी उमी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे, यह विधि मदा के लिये है, कि यहोवा के सम्मुख वह सम्पूर्ण चढ़ावा जलाया जाये। २३ याजक के सम्पूर्ण अन्नबलि भी मब जलाए जाए, वह कभी न खाया जाए ॥

२४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २५ हाऊन और उसके पुत्रों से यह वह, कि पापबलि की व्यवस्था यह है, अर्थात् जिस स्थान में होमबलिपशु वध किया जाता है उसी में पापबलिपशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए, वह परमपवित्र है। २६ और जो याजक पापबलि चढ़ावे वह उसे खाएँ, वह पवित्र स्थान में, अर्थात् मिलापवाले तम्बू के आंगन में खाया जाए। २७ जो कुछ उसके मांस से छू जाए, वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लोह के छीटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए, तो उसे किसी पवित्रस्थान में धो देना। २८ और वह मिट्टी का पात्र जिस में वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए, यदि वह पीतल के पात्र में सिंभाया गया हो, तो वह माजा जाए, और जल में धो लिया जाए। २९ और याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं; वह परमपवित्र वस्तु है। ३० पर जिस पापबलिपशु के लोह में से कुछ भी खून मिलापवाले तम्बू के भीतर पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त करने को पहुँचाया जाए तब तो उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए ॥

७ फिर दोषबलि की व्यवस्था यह है। वह परमपवित्र है; २ जिस स्थान पर होमबलिपशु का वध करने है उसी स्थान

पर दोषबलिपशु का भी बलि करे, और उसके लोह को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़के। ३ और वह उस में की सब चरबी को चढ़ाए, अर्थात् उमकी मोटी पूछ को, और जिस चरबी से अतडिया ढपी रहती है वह भी, ४ और दोनों गुदों और जो चरबी उनके ऊपर और कमर के पास रहती है, और गुदों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली इन सभी को वह अलग करे, ५ और याजक इन्हे वेदी पर यहोवा के लिये हवन करे, तब वह दोषबलि होगा। ६ याजकों में के सब पुरुष उस में से खा सकते हैं, वह किसी पवित्रस्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परमपवित्र है। ७ जैसा पापबलि है वैसा ही दोषबलि भी है, उन दोनों की एक ही व्यवस्था है, जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित्त करे वही उन वस्तुओं को ले ले। ८ और जो याजक किसी के लिये होमबलि को चढ़ाए उस होमबलिपशु की खाल को वही याजक ले ले। ९ और तदूर में, वा कढ़ाही में, वा तवे पर पके हुए सब अन्नबलि उसी याजक की होगी जो उन्हें चढ़ाता है। १० और सब अन्नबलि, जो चाहे तेल से सने हुए हो चाहे रूखे हो, वे हाऊन के सब पुत्रों को एक समान मिले ॥

११ और मेलबलि की जिसे कोई यहोवा के लिये चढ़ाए व्यवस्था यह है। १२ यदि वह उसे धन्यवाद के लिये चढ़ाए, तो धन्यवाद-बलि के साथ तेल से सने हुए अलसमीरी फुलके, और तेल से चुपडी हुई अलसमीरी रोटिया, और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाए। १३ और वह अपने धन्यवादवाले मेलबलि के साथ अलसमीरी रोटिया भी चढ़ाए। १४ और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा

को उठाने की भेंट करके चढ़ाए, वह मेलबलि के लोहू के छिड़कनेवाले याजक की होगी । १५ और उस धन्यवादवाले मेलबलि का मास बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उम में से कुछ भी भोर तक शेष न रह जाए । १६ पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का वा स्वेच्छा का हो, तो उस बलिदान को जिम दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए, और उम में से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए । १७ परन्तु जो कुछ बलिदान के मास में से तीसरे दिन तक रह जाए, वह आग में जला दिया जाए । १८ और उसके मेलबलि के मास में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो वह ग्रहण न किया जाएगा, और न पुन में गिना जाएगा, वह धृणित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उम में से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा । १९ फिर जो मास किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह न खाया जाए; वह आग में जला दिया जाए । फिर मेलबलि का मास जितने शुद्ध हो वे ही खाए, २० परन्तु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेलबलि के मास में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए । २१ और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेलबलिपशु के मास में से खाए, तो वह भी अपने लोगों में से नाश किया जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु वा अशुद्ध पशु वा कोई भी अशुद्ध और धृणित वस्तु हो ॥

२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २३ इस्राएलियों से इस प्रकार कह, कि तुम लोग न तो बैल की कुछ चरबी खाना और न भंड वा बकरी की । २४ और जो पशु स्वयं मर जाए, और जो दूसरे पशु से

फाड़ा जाए, उसकी चरबी और और काम में लाना, परन्तु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं । २५ जो कोई ऐसे पशु की चरबी खाएगा जिम में से लोग कुछ यहोवा के लिये हवन करके चढ़ाया करते हैं वह खानेवाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा । २६ और तुम अपने घर में किमी भाति का लोहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, न खाना । २७ हर एक प्राणी जो किसी भाति का लोहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा ॥

२८ फिर यहोवा ने ममा से कहा, २९ इस्राएलियों में इस प्रकार कह, कि जो यहोवा के लिये मेलबलि चढ़ाए वह उसी मेलबलि में से यहोवा के पाम भेंट ले आए; ३० वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्य को, अर्थात् छाती समेत चरबी को ले आए, कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के साम्हने हिलाई जाए । ३१ और याजक चरबी को तो वेदी पर जलाए, परन्तु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी । ३२ फिर तुम अपने मेलबलियों में से दहिनी जाघ को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना; ३३ हारून के पुत्रों में से जो मेलबलि के लोहू और चरबी को चढ़ाए दहिनी जाघ उसी का भाग होगा । ३४ क्योंकि इस्राएलियों के मेलबलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जाघ को लेकर मैं ने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है, कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे ॥

३५ जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिये लाए गए उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका यही अभिविक्त भाग ठहराया गया;

३६ अर्थात् जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया उसी दिन उस ने आज्ञा दी कि उनको इस्त्राएलियों की ओर से ये ही भाग नित मिला करे; उनकी पीठी पीठी के लिये उनका यही हक ठहराया गया। ३७ होमबलि, अन्नबलि, पापबलि, दोषबलि, याजको के सस्कार बलि, और मेलबलि की व्यवस्था यही है; ३८ जब यहोवा ने सीनै पर्वत के पाम के जगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्त्राएली मेरे लिये क्या क्या चढावे चढाएं, तब उस ने उनको यही व्यवस्था दी थी ॥

(याजकों के सस्कार का वर्षण)

८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ तू-हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों, और अभिषेक के तेल, और पापबलि के बछड़े, और दोनो मेढ़ो, और अन्नमीरी रोटी की टोकरी को ३ मिलापवाले तम्बू के द्वार पर ले आ, और वही सारी मण्डली को इकट्ठा कर। ४ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया; और मण्डली मिलापवाले तम्बू के द्वार पर इकट्ठी हुई। ५ तब मूसा ने मण्डली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। ६ फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। ७ तब उस ने उनको अंगरखा पहिनाया, और कटिबन्ध लपेटकर बागा पहिना दिया, और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पटुके से एपोद को बान्धकर कस दिया। ८ और उस ने उनके चपरास लगाकर चपरास में ऊरीम और तुम्मीम रख दिए। ९ तब उस ने उसके सिर पर पगड़ी बान्धकर पगड़ी के साम्हने पर सोने के टीके को, अर्थात् पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने

मूसा को आज्ञा दी थी। १० तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उस में था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। ११ और उस तेल में से कुछ उस ने वेदी पर सात बार छिड़का, और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हीदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। १२ और उस ने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। १३ फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर, अंगरखे पहिनाकर, फटे बान्धे के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। १४ तब वह पापबलि के बछड़े को समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पापबलि के बछड़े के सिर पर रखे। १५ तब वह बलि किया गया, और मूसा ने लोहू को लेकर उगली से वेदी के चारो सीगो पर लगाकर पवित्र किया, और लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया, और उसके लिये प्रायश्चित्त करके उसको पवित्र किया। १६ और मूसा ने अंतडियों पर की सब चरबी, और कलेजे पर की झिल्ली, और चरबी समेत दोनो गुदों को लेकर वेदी पर जलाया। १७ और बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको, अर्थात् गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उस ने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। १८ फिर वह होमबलि के मेढ़े को समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। १९ तब वह बलि किया गया, और मूसा ने उसका लोहू वेदी पर चारों ओर छिड़का। २० तब मेढ़ा टुकड़े टुकड़े

किया गया, और मूसा ने सिर और चरबी समेत टुकड़ों को जलाया। २१ तब अंतडिया और पाव जल से धोये गए, और मूसा ने पूरे मेढे को वेदी पर जलाया, और वह सुखदायक सुगन्ध देने के लिये होमबलि और यहोवा के लिये हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। २२ फिर वह दूसरे मेढे को जो सस्कार का मेढा था समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढे के सिर पर रखे। २३ तब वह बलि किया गया, और मूसा ने उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून के दहिने कान के सिरे पर और उसके दहिने हाथ और दहिने पाव के अंगूठों पर लगाया। २४ और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया, और लोहू में से कुछ एक एक के दहिने कान के सिरे पर और दहिने हाथ और दहिने पाव के अंगूठों पर लगाया; और मूसा ने लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का। २५ और उम ने चरबी, और मोटी पूछ, और अंतडियों पर की सब चरबी, और कनेजे पर की भिल्ली समेत दोनों गुदों, और दहिनी जांघ, ये सब लेकर अलग रखे, २६ और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उस में से एक रोटी, और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका, और एक रोटी लेकर चरबी और दहिनी जाघ पर रख दी; २७ और ये सब वस्तुएँ हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई, और हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के आगे हिलाई गई। २८ और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया, यह सुखदायक सुगन्ध देने के लिये सस्कार की भेंट और यहोवा के लिये हव्य था। २९ तब मूसा ने छाती को

लेकर हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के आगे हिलाया; और सस्कार के मेढे में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ३० और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहू, दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर, और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का; और उस ने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। ३१ और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मास को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर पकाओ, और उस रोटी को जो सस्कार की टोकरी में है वही खाओ, जैसा मैं ने आज्ञा दी है, कि हारून और उसके पुत्र उसे खाएं। ३२ और मास और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। ३३ और जब तक तुम्हारे सस्कार के दिन पूरे न हों तब तक, अर्थात् सात दिन तक मिलापवाले तम्बू के द्वार के बाहर न जाना, क्योंकि वह सात दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। ३४ जिस प्रकार आज्ञा किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिस से तुम्हारा प्रायश्चित्त किया जाए। ३५ इसलिये तुम मिलापवाले तम्बू के द्वार पर सात दिन तक दिन रात ठहरे रहना, और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ; क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। ३६ तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उस ने मूसा के द्वारा दी थी हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया ॥

६ आठवें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इलाएली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा,

२ पापबलि के लिये एक निर्दोष बछड़ा, और होमबलि के लिये एक निर्दोष भेड़ा लेकर यहोवा के साम्हने भेंट चढ़ा। ३ और इस्राएलियों से यह कह, कि तुम पापबलि के लिये एक बकरा, और होमबलि के लिये एक बछड़ा और एक भेड़ा का बच्चा लो, जो एक वर्ष के हो और निर्दोष हो, ४ और मेलबलि के लिये यहोवा के सम्मुख चढ़ाने के लिये एक बैल और एक भेड़ा, और तेल से मने हुए मैदे का एक अन्नबलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुम को दर्शन देगा। ५ और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलापवाने तम्बू के आगे ले आए; और सारी मण्डली समीप जाकर यहोवा के साम्हने खड़ी हुई। ६ तब मूसा ने कहा, यह वह काम है जिसके करने के लिये यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उसे करो; और यहोवा की महिमा का तेज तुम को दिखाई पड़ेगा। ७ और मूसा ने हावरून से कहा, यहोवा की आज्ञा के अनुसार वेदी के समीप जाकर अपने पापबलि और होमबलि को चढ़ाकर अपने और सब जनता के लिये प्रायश्चित्त कर; और जनता के चढ़ावे को भी चढ़ाकर उनके लिये प्रायश्चित्त कर। ८ इसलिये हावरून ने वेदी के समीप जाकर अपने पापबलि के बछड़े का बलिदान किया। ९ और हावरून के पुत्र लोहू को उसके पास ले गए, तब उस ने अपनी उगली को लोहू में डुबाकर वेदी के सींगों पर लोहू को लगाया, और शेष लोहू को वेदी के पाए पर उडेल दिया; १० और पापबलि में की चरबी और गुर्दों और कलेजे पर की फिल्ली को उस ने वेदी पर जलाया, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ११ और मांस और खाल को उस ने छविनी से बाहर आग में जलाया। १२ तब

होमबलिपशु का बलिदान किया; और हावरून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया, और उस ने उसको वेदी पर चारो ओर छिड़क दिया। १३ तब उन्हो ने होमबलिपशु का टुकड़ा टुकड़ा करके सिंग सहित उसके हाथ में दे दिया और उस ने उनको वेदी पर जला दिया। १४ और उस ने अन्नडियो और पावो को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। १५ और उस ने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पापबलि के बकरे को जो उनके लिये था लेकर उमका बलिदान किया, और पहिले के ममान उमे भी पापबलि करके चढ़ाया। १६ और उस ने होमबलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया। १७ और अन्नबलि को भी समीप ले जाकर उस में से मुट्टी भर वेदी पर जलाया, यह भोर के होमबलि के अलावा चढ़ाया गया। १८ और बैल और भेड़ा, अर्थात् जो मेलबलिपशु जनता के लिये थे वे भी बलि किये गए; और हावरून के पुत्रों ने लोहू को उसके हाथ में दिया, और उस ने उसको वेदी पर चारो ओर छिड़क दिया; १९ और उन्हो ने बैल की चरबी को, और भेड़े में से मोटी पूछ को, और जिस चरबी से अन्नडियां ढपी रहती हैं उसको, और गुर्दों सहित कलेजे पर की फिल्ली को भी उसके हाथ में दिया; २० और उन्हो ने चरबी को छातियो पर रखा; और उस ने वह चरबी वेदी पर जलाई, २१ परन्तु छातियों और दहिनी जांघ को हावरून ने मूसा की आज्ञा के अनुसार हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के साम्हने हिलाया। २२ तब हावरून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया; और पापबलि, होमबलि, और मेलबलियों को चढ़ाकर वह नीचे

उतर आया। २३ तब मूसा और हारून मिलापवाले तम्बू में गए, और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया; तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। २४ और यहोवा के साम्हने से आग निकलकर चरबी सहित होमबलि को वेदी पर भस्म कर दिया, इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा, और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दण्डवत किया ॥

(नादाब और अबीहू के भस्म होने का वर्णन)

१० तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, और उन में आग भरी, और उस में धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख आरती दी। २ तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के साम्हने मर गए। ३ तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था, कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने, और सारी जनता के साम्हने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। ४ तब मूसा ने मीशाएल और एलसाफान को जो हारून के चाचा उज्जीएल के पुत्र थे बुलाकर कहा, निकट आओ, और अपने भतीजों को पवित्रस्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। ५ मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखो सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। ६ तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलीआजर और ईतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ, और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि

तुम भी मर जाओ, और सारी मरइली पर उसका क्रोध भड़क उठे; परन्तु वह इस्त्राएल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाईबन्धु हैं यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। ७ और तुम लोग मिलापवाले तम्बू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ; क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्हो ने किया ॥

८ फिर यहोवा ने हारून से कहा, ९ कि जब जब तू वा तेरे पुत्र मिलापवाले तम्बू में आए तब तब तुम में से कोई न तो दावमधु लिए हो न और किसी प्रकार का मद्य, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ; तुम्हारी पीठी पीठी में यह विधि प्रचलित रहे, १० जिस से तुम पवित्र और अपवित्र में, और शुद्ध और अशुद्ध में अन्तर कर सको, ११ और इस्त्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको सुनवा दी है ॥

१२ फिर मूसा ने हारून से और उसके बच्चे हुए दोनों पुत्र ईतामार और एलीआजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्नबलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर ज्ञाओ, क्योंकि वह परमपवित्र है; १३ और तुम उसे किसी पवित्रस्थान में खाओ, वह तो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है; क्योंकि मैं ने ऐसी ही आज्ञा पाई है। १४ और हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग, अर्थात् तू और तेरे बेटे-बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ; क्योंकि वे इस्त्राएलियों के मेलबलियों में से तुम्हें और तेरे लड़केबालों की हक ठहरा दी गई है। १५ चरबी के हव्यों समेत जो उठाई हुई

जांच और हिलाई हुई छाती यहोवा के साम्हने हिलाने के लिये भ्राया करेंगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे लड़केबालों के लिये है ॥

१६ फिर मूसा ने पापबलि के बकरे की जो ढूढ़-ढाढ की, तो क्या पाया, कि वह जलाया गया है, सो एलीआजर और ईतामार जो हारून के पुत्र बचे थे उन से वह क्रोध में आकर कहने लगा, १७ कि पापबलि जो परमपवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिये दिया है कि तुम मरुडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करो, तुम ने उमका मांस पवित्रस्थान में क्यों नहीं खाया? १८ देखो, उसका लोह पवित्रस्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया, निःसन्देह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्रस्थान में खाते। १९ इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, कि देख, आज ही उन्होंने ने अपने पापबलि और होमबलि को यहोवा के साम्हने चढाया; फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पडी हैं! इसलिये यदि मे आज पापबलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती? २० जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ ॥

(द्वादश और अद्वादश मांस की विधि)

११ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २ इस्राएलियों से कहो, कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सभों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। ३ पशुओं में से जितने चिरे वा फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। ४ परन्तु पागुर करनेवाले वा फटे

खुरवालों में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात् ऊंट, जो पागुर तो करता है परन्तु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिये वह तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहरा है। ५ और शापान, जो पागुर तो करता है परन्तु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिये अशुद्ध है। ६ और खरहा, जो पागुर तो करता है परन्तु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिये वह भी तुम्हारे लिये अशुद्ध है। ७ और सूअर, जो चिरे अर्थात् फटे खुर का होता तो है परन्तु पागुर नहीं करता, इसलिये वह तुम्हारे लिये अशुद्ध है। ८ इनके मांस में से कुछ न खाना, और इनकी लोथ को छूना भी नहीं; ये तो तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥

९ फिर जितने जलजन्तु हैं उन में से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात् समुद्र वा नदियों के जलजन्तुओं में से जिनको के पख और चोयेटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। १० और जलचरी प्रागिययो में से जितने जीवधारी बिना पख और चोयेटे के समुद्र वा नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिये घृणित है। ११ वे तुम्हारे लिये घृणित ठहरे; तुम उनके मांस में से कुछ न खाना, और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। १२ जल में जिस किसी जन्तु के पख और चोयेटे नहीं होते वह तुम्हारे लिये अशुद्ध है ॥

१३ फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाएं, अर्थात् उकाब, हड़फोड़, कुरर, १४ शाही, और भांति भांति की चील, १५ और भांति भांति के सब काग, १६ शतु-मुंग, तखमास, जलकुक्कुट, और भांति भांति के बाज, १७ हवासिल, हाड़गील, उल्लु, १८ राजहँस, धनेश, गिद्ध, १९ लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटीहरी और चमगीदड़ ॥

२० जितने पंखवाले चार पांवों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं । २१ पर रेंगनेवाले और पंखवाले जो चार पांवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फादने को टांगे होती हैं उनको तो खा सकते हो । २२ वे ये हैं, अर्थात् भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगें, भांति भांति के हर्गोल, और भांति भांति के हागाब । २३ परन्तु और सब रेंगनेवाले पंखवाल जो चार पाववाले होते हैं वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥

२४ और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगें; जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वह सांभ तक अशुद्ध ठहरे । २५ और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांभ तक अशुद्ध रहे । २६ फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परन्तु न तो बिलकुल फटे खुर और न पागुर करनेवाले हैं वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं, जो कोई उन्हें छूए वह अशुद्ध ठहरेगा । २७ और चार पाव के बल चलनेवालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं, जो कोई उनकी लोथ छूए वह सांभ तक अशुद्ध रहे । २८ और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांभ तक अशुद्ध रहे; क्योंकि वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥

२९ और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उन में से ये रेंगनेवाले तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं, अर्थात् नेवला, चूहा, और भांति भांति के गोह, ३० और छिपकली, मगर, टिकटिक, साडा, और गिरगिटान । ३१ सब रेंगनेवालों में से ये ही तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं; जो कोई इनकी लोथ छूए वह सांभ तक अशुद्ध रहे । ३२ और इन में से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध

ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्रादि क्यों न हो; वह जल में डाला जाए, और सांभ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए । ३३ और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिस में इन जन्तुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना । ३४ उस में जो खाने के योग्य भोजन हो, जिस में पानी का छुआव हो वह सब अशुद्ध ठहरे; फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिये कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे । ३५ और यदि इनकी लोथ में का कुछ तदूर वा चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे, और तोड़ डाला जाए; क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिये भी अशुद्ध ठहरे । ३६ परन्तु सोता वा तालाब जिस में जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे; परन्तु जो कोई इनकी लोथ को छूए वह अशुद्ध ठहरे । ३७ और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोन के लिये हो पड़े, तो वह बीज शुद्ध रहे; ३८ पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उम पर पड़ जाए, तो वह तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहरे ॥

३९ फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुम को दी गई है यदि उन में से कोई पशु मरे, तो जो कोई उसकी लोथ छूए वह सांभ तक अशुद्ध रहे । ४० और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांभ तक अशुद्ध रहे; और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांभ तक अशुद्ध रहे । ४१ और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगनेवाले जन्तु चिनांने हैं; वे खाए न जाएं । ४२ पृथ्वी पर सब रेंगनेवालों में से जितने

पेट वा चार पांवों के बल चलते हैं, वा अधिक पांववाले होते हैं, उन्हें तुम न खाना; क्योंकि वे घिनौने हैं। ४३ तुम किसी प्रकार के रेगनेवाले जन्तु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना; और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना। ४४ क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ; इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिये तुम किसी प्रकार के रेगनेवाले जन्तु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। ४५ क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मित्र देश से इसलिये निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरे; इसलिये तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ ॥

४६ पशुओं, पक्षियों, और सब जलचरी प्राणियों, और पृथ्वी पर सब रेंगनेवाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है, ४७ कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए ॥

(प्रकृता के विषय की विधि)

१२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्त्राएलियों से कह, कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसके लड़का हो, तो वह सात दिन तक अशुद्ध रहेगी; जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती। ३ और आठवे दिन लड़के का खतना किया जाए। ४ फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करनेवाले रुधिर में तैंतीस दिन रहे; और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हों तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छूए, और न पवित्रस्थान में प्रवेश करे। ५ और यदि उसके लड़की पैदा हो, तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता चौबह दिन की लगे; और फिर छियासठ दिन तक

अपने शुद्ध करनेवाले रुधिर में रहे। ६ और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हों, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटा, वह होमबलि के लिये एक वर्ष का भेड़ी का बच्चा, और पापबलि के लिये कबूतरी का एक बच्चा वा पड़ुकी मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के पास लाए। ७ तब याजक उसको यहोवा के साम्हने भेंट चढ़ाके उसके लिये प्रायश्चित्त करे; और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का वा लड़की उत्पन्न हो उसके लिये यही व्यवस्था है। ८ और यदि उसके पास भेड़ वा बकरी देने की पूंजी न हो, तो दो पड़ुकी वा कबूतरी के दो बच्चे, एक तो होमबलि और दूसरा पापबलि के लिये दे; और याजक उसके लिये प्रायश्चित्त करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी ॥

(कोढ़ की विधि)

१३ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २ जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन वा पपड़ी वा फूल हो, और इस से उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ देख पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उन में से किसी के पास ले जाएं। ३ जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे, और यदि उस व्याधि के स्थान के रोएं उजले हो गए हों और व्याधि चर्म से गहरी देख पड़े, तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है; और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। ४ और यदि वह फूल उसके चर्म में उजला तो हो, परन्तु चर्म से गहरा न देख पड़े, और न बहां के रोएं उजले हो गए हों, तो याजक उनको सात दिन तक बन्दकर

रखे; ५ और सातवें दिन याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में न फंली हो, तो याजक उसको और भी सात दिन तक बन्द कर रखे; ६ और सातवे दिन याजक उसको फिर देखे, और यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम है और व्याधि चर्म पर फंली न हो, तो याजक उसको शुद्ध ठहराए; क्योंकि उसके तो चर्म में पपडी है; और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। ७ और यदि याजक की उम्र जाच के पश्चात् जिस में वह शुद्ध ठहराया गया था, वह पपडी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर याजक को दिखाया जाए; ८ और यदि याजक को देख पड़े कि पपडी चर्म में फैल गई है, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए; क्योंकि वह कोढ़ ही है ॥

९ यदि कोढ़ की सी व्याधि किसी मनुष्य के हो, तो वह याजक के पास पहुँचाया जाए; १० और याजक उसको देखे, और यदि वह सूजन उसके चर्म में उजली हो, और उसके कारण रोए भी उजले हो गए हो, और उस सूजन में बिना चर्म का मांस हो, ११ तो याजक जाने कि उसके चर्म में पुराना कोढ़ है, इसलिये वह उसको अशुद्ध ठहराए; और बन्द न रखे, क्योंकि वह तो अशुद्ध है। १२ और यदि कोढ़ किसी के चर्म में फूटकर यहा तक फैल जाए, कि जहाँ कहीं याजक देखे व्याधित के सिर से पैर के तलवे तक कोढ़ ने सारे चर्म को छा लिया हो, १३ तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो, तो वह उस व्याधित को शुद्ध ठहराए; और उसका शरीर जो बिलकुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। १४ पर जब उस में चर्महीन मांस देख पड़े, तब तो वह अशुद्ध ठहरे। १५ और याजक

चर्महीन मांस को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए; क्योंकि बैसा चर्महीन मांस अशुद्ध ही होता है, वह कोढ़ है। १६ पर यदि वह चर्महीन मांस फिर उजला हो जाए, तो वह मनुष्य याजक के पास जाए, १७ और याजक उसको देखे, और यदि वह व्याधि फिर से उजली हो गई हो, तो याजक व्याधित को शुद्ध जाने; वह शुद्ध है ॥

१८ फिर यदि किसी के चर्म में फोड़ा होकर चगा हो गया हो, १९ और फोड़े के स्थान में उजली सी सूजन वा लाली लिये हुए उजला फूल हो, तो वह याजक को दिखाया जाए। २० और याजक उस सूजन को देखे, और यदि वह चर्म से गहिरा देख पड़े, और उसके रोग भी उजले हो गए हो, तो याजक यह जानकर उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए; क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है जो फोड़े में से फूटकर निकली है। २१ और यदि याजक देखे कि उस में उजले रोए नहीं हैं, और वह चर्म से गहिरा नहीं, और उसकी चमक कम हुई है, तो याजक उस मनुष्य को सात दिन तक बन्द कर रखे। २२ और यदि वह व्याधि उस समय तक चर्म में सचमुच फैल जाए, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए; क्योंकि वह कोढ़ की व्याधि है। २३ परन्तु यदि वह फूल न फैले और अपने स्थान ही पर बना रहे, तो वह फोड़े का दाग है; याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए ॥

२४ फिर यदि किसी के चर्म में जलने का घाव हो, और उस जलने के घाव में चर्महीन फूल लाली लिये हुए उजला वा उजला ही हो जाए, २५ तो याजक उसको देखे, और यदि उस फूल में के रोए उजले हो गए हों और वह चर्म से गहिरा देख पड़े, तो वह कोढ़ है; जो उस जलने के दाग में से फूट निकला है; याजक उस मनुष्य को अशुद्ध

ठहराए; क्योंकि उस में कोढ़ की व्याधि है। २६ और यदि याजक देखे, कि फूल में उजले रोंए नही और न वह चर्म से कुछ गहिरा है, और उसकी चमक कम हुई है, तो वह उसको सात दिन तक बन्द कर रखे, २७ और सातवे दिन याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फूल गई हो, तो वह उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए; क्योंकि उसको कोढ़ की व्याधि है। २८ परन्तु यदि वह फूल चर्म में नही फैला और अपने स्थान ही पर जहां का तहां ही बना हो, और उसकी चमक कम हुई हो, तो वह जल जाने के कारण सूजा हुआ है, याजक उस मनुष्य को शुद्ध ठहराए; क्योंकि वह दाग जल जाने के कारण से है ॥

२९ फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के सिर पर, वा पुरुष की डाढ़ी में व्याधि हो, ३० तो याजक व्याधि को देखे, और यदि वह चर्म से गहिरा देख पड़े, और उस में भूरे भूरे पतले बाल हों, तो याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठहराए, वह व्याधि सेहुआ, अर्थात् मिर वा डाढ़ी का कोढ़ है। ३१ और यदि याजक सेंहुए की व्याधि को देखे, कि वह चर्म से गहिरा नही है और उस में काले काले बाल नही हैं, तो वह सेंहुए के व्याधित को सात दिन तक बन्द कर रखे, ३२ और सातवे दिन याजक व्याधि को देखे, तब यदि वह सेंहुआ फैला न हो, और उस में भूरे भूरे बाल न हो, और सेंहुआ चर्म से गहिरा न देख पड़े, ३३ तो यह मनुष्य मूडा तो जाए, परन्तु जहां सेंहुआ हो वहां न मूडा जाए; और याजक उस सेंहुएवाले को और भी सात दिन तक बन्द करे; ३४ और सातवे दिन याजक सेंहुए को देखे, और यदि वह सेंहुआ चर्म में फैला न हो और चर्म से गहिरा न देखे पड़े, तो याजक उस मनुष्य को शुद्ध

ठहराए; और वह अपने वस्त्र धोके शुद्ध ठहरे। ३५ और यदि उसके शुद्ध ठहरने के पश्चात् सेंहुआ चर्म में कुछ भी फले, ३६ तो याजक उसको देखे, और यदि वह चर्म में फैला हो, तो याजक यह भूरे बाल न दूढ़े; क्योंकि वह मनुष्य अशुद्ध है। ३७ परन्तु यदि उसकी दृष्टि में वह सेंहुआ जैसे का तैमा बना हो, और उस में काले-काले बाल जमे हो, तो वह जाने कि सेंहुआ चंगा हो गया है, और वह मनुष्य शुद्ध है; याजक उसको शुद्ध ही ठहराए ॥

३८ फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के चर्म में उजले फूल हों, ३९ तो याजक देखे, और यदि उसके चर्म में वे फूल कम उजले हो, तो वह जाने कि उसको चर्म में निकली हुई चाई ही है, वह मनुष्य शुद्ध ठहरे ॥

४० फिर जिसके सिर के बाल भङ्ग गए हो, तो जानना कि वह चन्दुला तो है परन्तु शुद्ध है। ४१ और जिसके सिर के आगे के बाल भङ्ग गए हों, तो वह माथे का चन्दुला तो है परन्तु शुद्ध है। ४२ परन्तु यदि चन्दुले मिर पर वा चन्दुले माथे पर लाली लिये हुए उजली व्याधि हो, तो जानना कि वह उसके चन्दुले सिर पर वा चन्दुले माथे पर निकला हुआ कोढ़ है। ४३ इसलिये याजक उसको देखे, और यदि व्याधि की सूजन उसके चन्दुले सिर वा चन्दुले माथे पर ऐसी लाली लिये हुए उजली हो जैसा चर्म के कोढ़ में होता है, ४४ तो वह मनुष्य कोढ़ी है और अशुद्ध है; और याजक उसको अवश्य अशुद्ध ठहराए; क्योंकि वह व्याधि उसके सिर पर है ॥

४५ और जिस में वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और मिर के बाल त्रिखरे रहें, और वह अपने ऊपरवाले होंठ को ढांपे

हुए अशुद्ध, अशुद्ध पुकारा करे। ४६ जितने दिन तक वह व्याधि उस में रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा; और वह अशुद्ध ठहरा रहे; इसलिये वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो ॥

४७ फिर जिस वस्त्र में कोढ़ की व्याधि हो, चाहे वह वस्त्र ऊन का हो चाहे सनी का, ४८ वह व्याधि चाहे उस सनी वा ऊन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में, वा वह व्याधि चमड़े में वा चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में हो, ४९ यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में, वा चमड़े में वा चमड़े की किसी वस्तु में हरी हो वा लाल सी हो, तो जानना कि वह कोढ़ की व्याधि है और वह याजक को दिखाई जाए। ५० और याजक व्याधि को देखे, और व्याधिवाली वस्तु को सात दिन के लिये बन्द करे; ५१ और सातवे दिन वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में, वा चमड़े में वा चमड़े की बनी हुई किसी वस्तु में फैल गई हो, तो जानना कि व्याधि गलित कोढ़ है, इसलिये वह वस्तु, चाहे कैसे ही काम में क्यों न आती हो, तौभी अशुद्ध ठहरेगी। ५२ वह उस वस्त्र को जिसके ताने वा बाने में वह व्याधि हो, चाहे वह ऊन का हो चाहे सनी का, वा चमड़े की वस्तु हो, उसको जला दे, वह व्याधि गलित कोढ़ की है; वह वस्तु भाग में जलाई जाए। ५३ और यदि याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने वा बाने में, वा चमड़े की उस वस्तु में नहीं फैली, ५४ तो जिस वस्तु में व्याधि हो उसके धोने की आज्ञा दे, तब उसे और भी सात दिन तक बन्द कर रखे; ५५ और उसके धोने के बाद याजक उसको देखे, और यदि व्याधि का न तो रंग बदला हो, और

न व्याधि फैली हो, तो जानना कि वह अशुद्ध है; उसे भाग में जलाना, क्योंकि चाहे वह व्याधि भीतर चाहे ऊपरी हो तौभी वह खा जाने वाली व्याधि है। ५६ और यदि याजक देखे, कि उसके धोने के पश्चात् व्याधि की चमक कम हो गई, तो वह उसको वस्त्र के चाहे ताने चाहे बाने में से, वा चमड़े में से फाड़के निकाले; ५७ और यदि वह व्याधि तब भी उस वस्त्र के ताने वा बाने में, वा चमड़े की उस वस्तु में देख पड़े, तो जानना कि वह फूट के निकली हुई व्याधि है; और जिस में वह व्याधि हो उसे भाग में जलाना। ५८ और यदि उस वस्त्र से जिसके ताने वा बाने में व्याधि हो, वा चमड़े की जो वस्तु हो उस से जब धोई जाए और व्याधि जाती रही, तो वह दूसरी बार धुल कर शुद्ध ठहरे। ५९ ऊन वा सनी के वस्त्र में के ताने वा बाने में, वा चमड़े की किसी वस्तु में जो कोढ़ की व्याधि हो उसके शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है ॥

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, कि वह याजक के पास पहुँचाया जाए। ३ और याजक छावनी के बाहर जाए, और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चगी हुई हो, ४ तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने-वाले के लिये दो शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारु की लकड़ी, और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिये जाएं; ५ और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। ६ तब वह जीवित पक्षी को देवदारु की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सबों को लेकर एक संग

उस पक्षी के लोहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे; ७ और कोढ़ से शुद्ध ठहरनेवाले पर सात बार छिड़ककर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीबित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। ८ और शुद्ध ठहरनेवाला अपने वस्त्रों को धोए, और सब बाल मुड़ाकर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा; और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परन्तु सात दिन तक अपने डेरे में बाहर ही रहे। ९ और सातवें दिन वह सिर, डाढ़ी और भौहों के सब बाल मुड़ाए, और सब अंग मुएडन कराए, और अपने वस्त्रों को धोए, और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। १० और आठवें दिन वह दो निर्दोष भेड़ के बच्चे, और एक वर्ष की निर्दोष भेड़ की बच्ची, और अन्नबलि के लिये तेल से सना हुआ एपा का तीन दहाई अश मैदा, और लोज भर तेल लाए। ११ और शुद्ध ठहराने-वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होनेवाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलापवाले तम्बू के द्वार पर खड़ा करे। १२ तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोषबलि के लिये उसे और उम लोज भर तेल को समीप लाए, और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के साम्हने हिलाए; १३ और वह उस भेड़ के बच्चे को उसी स्थान में जहा वह पापबलि और होमबलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात् पवित्रस्थान में बलिदान करे; क्योंकि जैसा पापबलि याजक का निज भाग होगा वैसा ही दोषबलि भी उसी का निज भाग ठहरेगा; वह परमपवित्र है। १४ तब याजक दोषबलि के लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरनेवाले के दहिने कान के सिरे पर, और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के

अगूठों पर लगाए। १५ और याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाए हाथ की हथेली पर डाले, १६ और याजक अपने दहिने हाथ की उगली को अपने बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख सात बार छिड़के। १७ और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उस में से कुछ शुद्ध होनेवाले के दहिने कान के मिरे पर, और उमके दहिने हाथ और दहिने पांव के अगूठों पर दोपबलि के लोहू के ऊपर लगाए; १८ और जो तेल याजक का हथेली पर रह जाए उमको वह शुद्ध होनेवाले के सिर पर डाल दे। और याजक उसके लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे। १९ और याजक पापबलि को भी चढाकर उमके लिये जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होनेवाला हो प्रायश्चित्त करे; और उमके बाद होमबलि पशु का बलिदान करके २० अन्नबलि समेत वेदी पर चढाए; और याजक उसके लिये प्रायश्चित्त करे, और वह शुद्ध ठहरेगा ॥

२१ परन्तु यदि वह दग्ध हो और इतना लाने के लिये उमके पास पूजा न हो, तो वह अपना प्रायश्चित्त करवाने के निमित्त, हिलाने के लिये भेड़ का बच्चा दोषबलि के लिये, और तेल से सना हुआ एपा का दसवा अश मैदा अन्नबलि करके, और लोज भर तेल लाए; २२ और दोपबलि, वा कबूतरी के दो बच्चे लाए जो वह ला सके; और इन में से एक तो पापबलि के लिये और दूसरा होमबलि के लिये हो। २३ और आठवें दिन वह इन सभों को अपने शुद्ध ठहरने के लिये मिलापवाले तम्बू के द्वार पर, यहोवा के सम्मुख, याजक के पास ले

आए; २४ तब याजक उस लोच भर तेल और दोष बलिवाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिये यहोवा के साम्हने हिलाए। २५ फिर दोषबलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए; और याजक उसके लोहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरनेवाले के दहिने कान के सिरे पर, और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठो पर लगाए। २६ फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाए हाथ की हथेली पर डालकर, २७ अपने दहिने हाथ की उगली से अपनी बाईं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख सात बार छिड़के; २८ फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरनेवाले के दहिने कान के सिरे पर, और उसके दहिने हाथ और दहिने पांव के अंगूठों पर, दोषबलि के लोहू के स्थान पर, लगाए। २९ और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरनेवाले के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करने को उसके सिर पर डाल दे। ३० तब वह पडुकों वा कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, ३१ अर्थात् जो पक्षी वह ला सका हो, उन में से वह एक को पापबलि के लिये और अन्नबलि समेत दूसरे को होमबलि के लिये चढ़ाए; इस रीति से याजक शुद्ध ठहरनेवाले के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे। ३२ जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो, और उसके इतनी पूंजी न हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिये यही व्यवस्था है ॥

३३ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ३४ जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो, जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिये तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़

की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊ, ३५ तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे, कि मुझे ऐसा देख पडता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। ३६ तब याजक आज्ञा दे, कि उस घर में व्याधि देखने के लिये मेरे जाने से पहिले उसे खाली करो, कही ऐसा न हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे; और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। ३७ तब वह उस व्याधि को देखे; और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी वा लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो, और ये लकीरे दीवार में गहिरी देख पड़ती हो, ३८ तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को सात दिन तक बन्द कर रखे। ३९ और सातवे दिन याजक आकर देखे; और यदि वह व्याधि घर की दीवारो पर फैल गई हो, ४० तो याजक आज्ञा दे, कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दें; ४१ और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए, और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए; ४२ और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाएं और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। ४३ और यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, ४४ तो याजक आकर देखे; और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है; वह अशुद्ध है। ४५ और वह सब गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवाकर गिरा दे; और उन सब वस्तुओं को उठाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान

पर फिंकवा दे। ४६ और जब तक वह घर बन्द रहे तब तक यदि कोई उस में जाए तो वह सांभ तक अशुद्ध रहे; ४७ और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए; और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। ४८ और यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा गया है तब से उस में व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वह व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। ४९ और उस घर को पवित्र करने के लिये दो पक्षी, देवदारु की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लिवा लाए, ५० और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे, ५१ तब वह देवदारु की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी इन सभी को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लोह में और बहते हुए जल में डुबा दे, और उस घर पर सात बार छिड़के। ५२ और वह पक्षी के लोह, और बहते हुए जल, और जीवित पक्षी, और देवदारु की लकड़ी, और जूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे; ५३ तब वह जीवित पक्षी को नगर से बाहर मैदान में छोड़ दे; इसी रीति से वह घर के लिये प्रायश्चित्त करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा ॥

५४ सब भाँति के कोढ़ की व्याधि, और सेंहूँ, ५५ और वस्त्र, और घर के कोढ़, ५६ और सूजन, और पपड़ी, और फूल के विषय में, ५७ शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार के कोढ़ की व्यवस्था यही है ॥

(रहे लोगों की विधि जिसके प्रमेह हो)

१५

फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २ कि इस्राएलियों

से कहो, कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो, तो वह प्रमेह के कारण से अशुद्ध ठहरे। ३ और चाहे बहना रहे, चाहे बहना बन्द भी हो, तभी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। ४ जिसके प्रमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। ५ और जो कोई उसके बिछौने को छूए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांभ तक अशुद्ध ठहरा रहे। ६ और जिसके प्रमेह हो और वह जिस वस्तु पर बैठा हो, उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांभ तक अशुद्ध ठहरा रहे। ७ और जिसके प्रमेह हो उस से जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांभ तक अशुद्ध रहे। ८ और जिसके प्रमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर धूके, तो वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांभ तक अशुद्ध रहे। ९ और जिसके प्रमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह अशुद्ध ठहरे। १० और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छूए वह सांभ तक अशुद्ध रहे; और जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांभ तक अशुद्ध रहे। ११ और जिसके प्रमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छूए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांभ तक अशुद्ध रहे। १२ और जिसके प्रमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छूए वह तोड़ डाला जाए, और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाएं। १३ फिर जिसके प्रमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए, तब से शुद्ध ठहरने के सात दिन

गिन ले, और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहने हुए जल से स्नान करे; तब वह शुद्ध ठहरेगा। १४ और आठवें दिन वह दो पंडुक वा कबूतरी के दो बच्चे लेकर मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक को दे। १५ तब याजक उन में से एक को पापबलि, और दूसरे को होमबलि के लिये भेंट चढ़ाए; और याजक उसके लिये उसके प्रमेह के कारण यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे ॥

१६ फिर यदि किसी पुरुष का वीर्य्य स्वलित हो जाए, तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए, और साभ तक अशुद्ध रहे। १७ और जिस किसी वस्त्र वा चमड़े पर वह वीर्य्य पड़े वह जल से धोया जाए, और साभ तक अशुद्ध रहे। १८ और जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे, तो वे दोनों जल से स्नान करे, और साभ तक अशुद्ध रहें ॥

१९ फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे, तो वह सात दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, और जो कोई उसको छूए वह साभ तक अशुद्ध रहे। २० और जब तक वह अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेंटे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरें। २१ और जो कोई उसके बिछौने को छूए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे, और साभ तक अशुद्ध रहे। २२ और जो कोई किसी वस्तु को छूए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे, और साभ तक अशुद्ध रहे। २३ और यदि बिछौने वा और किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो, तो छूनेहारा साभ तक अशुद्ध रहे। २४ और यदि कोई पुरुष उस से प्रसंग करे, और उसका रुधिर

उसके लग जाए, तो वह पुरुष सात दिन तक अशुद्ध रहे, और जिस जिस बिछौने पर वह लेंटे वे सब अशुद्ध ठहरे ॥

२५ फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे, वा उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। २६ उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेंटे वे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे; और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों की नाई अशुद्ध ठहरे। २७ और जो कोई उन वस्तुओं को छूए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिये वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और साभ तक अशुद्ध रहे। २८ और जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए, तब से वह सात दिन गिन ले, और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। २९ फिर आठवे दिन वह दो पंडुक वा कबूतरी के दो बच्चे लेकर मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के पास जाए। ३० तब याजक एक को पापबलि और दूसरे को होमबलि के लिये चढ़ाए; और याजक उसके लिये उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे ॥

३१ इस प्रकार से तुम इस्त्राएलियों को उनकी अशुद्धता से न्यारे रखा करो, कही ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाए ॥

३२ जिसके प्रमेह हो और जो पुरुष वीर्य्य स्वलित होने से अशुद्ध हो; ३३ और जो स्त्री ऋतुमती हो; और क्या पुरुष

क्या स्त्री, जिस किसी के धातुरोग हो, और जो पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसंग करे, इन सभी के लिये यही व्यवस्था है ॥

(प्रायश्चित्त के दिन का आचार)

१६ जब हारून के दो पुत्र यहोवा के साम्हने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें कीं; २ और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह, कि सन्दूक के ऊपर के प्रायश्चित्तवाले ढकने के आगे, बीचवाले पर्दे के अन्दर, पवित्रस्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा; क्योंकि मैं प्रायश्चित्तवाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। ३ और जब हारून पवित्रस्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात् पापबलि के लिये एक बछड़े को और होमबलि के लिये एक मेढ़े को लेकर आए। ४ वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा, और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहिने हुए, और सनी के कपड़े का कटिबन्द, और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे; ये पवित्र वस्त्र हैं, और वह जल से स्नान करके उन्हें पहिने। ५ फिर वह इस्त्राएलियों की मण्डली के पास से पापबलि के लिये दो बकरे और होमबलि के लिये एक मेढ़ा ले। ६ और हारून उस पापबलि के बछड़े को जो उसी के लिये होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिये प्रायश्चित्त करे। ७ और उन दोनों बकरों को लेकर मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के साम्हने खड़ा करे; ८ और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्टी यहोवा के लिये और दूसरी अजाजेल के लिये हो। ९ और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्टी

निकले उसको हारून पापबलि के लिये चढ़ाए; १० परन्तु जिस बकरे पर अजाजेल के लिये चिट्टी निकले वह यहोवा के साम्हने जीवता खड़ा किया जाए कि उस से प्रायश्चित्त किया जाए, और वह अजाजेल के लिये जंगल में छोड़ा जाए। ११ और हारून उस पापबलि के बछड़े को जो उसी के लिये होगा समीप ले आए, और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिये प्रायश्चित्त करे। १२ और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलो से भरे हुए धूपदान को लेकर, और अपनी दोनों मुट्टियों को फूटे हुए सुगन्धित धूप से भरकर, बीचवाले पर्दे के भीतर ले आकर १३ उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिस से धूप का धूआ माक्षीपत्र के ऊपर के प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा; १४ तब वह बछड़े के लोह में से कुछ लेकर पूरब की ओर प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर अपनी उगली से छिड़के, और फिर उस लोह में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के साम्हने भी सात बार छिड़क दे। १५ फिर वह उस पापबलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिये होगा बलिदान करके उसके लोह को बीचवाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लोह से उस ने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लोह से भी करे, अर्थात् उसको प्रायश्चित्त के ढकने के ऊपर और उसके साम्हने छिड़के। १६ और वह इस्त्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता, और अपराधों, और उनके सब पापों के कारण पवित्रस्थान के लिये प्रायश्चित्त करे; और मिलापवाला तम्बू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के

बीच रहता है * उसके लिये भी वह वैसा ही करे। १७ और जब हारून प्रायश्चित्त करने के लिये पवित्रस्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्त्राएल की सारी मण्डली के लिये प्रायश्चित्त करके बाहर न निकले तब तक कोई मनुष्य मिलापवाले तम्बू में न रहे। १८ फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के साम्हने है जाए और उसके लिये प्रायश्चित्त करे, अर्थात् बछड़ के लोहू और बकरे के लोहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए। १९ और उस लोहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा सात बार उस पर छिड़ककर उसे इस्त्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। २० और जब वह पवित्रस्थान और मिलापवाले तम्बू और वेदी के लिये प्रायश्चित्त कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए; २१ और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्त्राएलियों के सब अधर्म के कामों, और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिये तैयार हो जंगल में भेजके छुड़वा दे। २२ और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा; इसलिये वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। २३ तब हारून मिलापवाले तम्बू में आए, और जिस सनी के वस्त्रों को पहिने हुए उस ने पवित्रस्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतारकर वहीं पर

* मूल में—बास किए रहता है।

रख दे। २४ फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहिन ले, और बाहर जाकर अपने होमबलि और साधारण जनता के होमबलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिये प्रायश्चित्त करे। २५ और पापबलि की चरबी को वह वेदी पर जलाए। २६ और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिये छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए, और जल से स्नान करे, और तब वह छावनी में प्रवेश करे। २७ और पापबलि का बछड़ा और पापबलि का बकरा भी जिनका लोहू पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त करने के लिये पहुँचाया जाए वे दोनों छावनी से बाहर पहुँचाए जाएं; और उनका चमड़ा, मांस, और गोबर आग में जला दिया जाए। २८ और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जल से स्नान करे, और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए ॥

२९ और तुम लोगो के लिये यह सदा की विधि होगी कि सातवें महीने के दसवें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुःख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे; ३० क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिये तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित्त किया जाएगा; और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। ३१ यह तुम्हारे लिये परमविश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुःख देना; यह सदा की विधि है। ३२ और जिसका अपने पिता के स्थान पर याजकपद के लिये अभिषेक और संस्कार किया जाए वह

याजक प्रायश्चित्त किया करे, अर्थात् वह सनी के पवित्र वस्त्रों को पहिनकर, ३३ पवित्रस्थान, और मिलापवाले तम्बू, और वेदी के लिये प्रायश्चित्त करे; और याजको के और मण्डली के सब लोगो के लिये भी प्रायश्चित्त करे। ३४ और यह तुम्हारे लिये सदा की विधि होगी, कि इस्त्राएलियों के लिये प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापो के लिये प्रायश्चित्त किया जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी **आज्ञा** ने किया ॥

(**बलिदान केवल पवित्र तम्बू के सामने करने की आज्ञा**)

१७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ **हो** और उसके पुत्रों से और कुल इस्त्राएलियों से कह, कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, ३ कि इस्त्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल वा भेड़ के बच्चे, वा बकरी को, चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके ४ मिलापवाले तम्बू के द्वार पर, यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लोहू बहाने का दोष लगेगा; और वह मनुष्य जो लोहू बहाने वाला ठहरेगा, वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। ५ इस विधि का यह कारण है कि इस्त्राएली अपने बलिदान जिनको वह खुले मैदान में बध करते हैं, वे उन्हें मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के पास, यहोवा के लिये ले जाकर उसी के लिये मेलबलि करके बलिदान किया करे; ६ और याजक लोहू को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के, और चरवी को उसके सुखदायक सुगन्ध के लिये जलाए। ७ और वे जो बकरो के

पूजक * होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलिपशुओं को उनके लिये बलिदान न करे। तुम्हारी पीढ़ियों के लिये यह सदा की विधि होगी ॥

८ और तू उन से कह, कि इस्त्राएल के घराने के लोगों में से वा उनके बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होमबलि वा मेलबलि चढाए, ९ और उसको मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के लिये चढ़ाने को न ले आए; वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए ॥

(**लोहू की पवित्रता**)

१० फिर इस्त्राएल के घराने के लोगो में से वा उनके बीच रहनेवाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लोहू खाए, मैं उस लोहू खानेवाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। ११ क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है, और उसको मैं ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिये दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिये प्रायश्चित्त किया जाए; क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित्त होता है। १२ इस कारण मैं इस्त्राएलियों से कहता हूँ, कि तुम में से कोई प्राणी लोहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लोहू कभी न खाए ॥

१३ और इस्त्राएलियों में से वा उनके बीच रहनेवाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु वा पक्षी को पकड़े, वह उसके लोहू को उडेलकर धूल से ढांप दे। १४ क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लोहू ही

* मूल में—के पीछे।

हैं जो उसके प्राण के साथ एक हैं; इसी लिये मैं इस्त्राएलियो से कहता हूँ, कि किसी प्रकार के प्राणी के लोहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लोहू ही है; जो कोई उसको खाए वह नाश किया जाएगा। १५ और चाहे वह देशी हो वा परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ वा फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और सांभ तक अशुद्ध रहे; तब वह शुद्ध होगा। १६ और यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा ॥

(भाति भाति के धिनोमे कामो वा जिबेध)

१८

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्त्राएलियो से कह, कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ३ तुम मिस्र देश के कामो के अनुसार जिस में तुम रहते थे न करना; और कनान देश के कामो के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना; और न उन देशों की विधियों पर चलना। ४ मेरे ही नियमों को मानना, और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ५ इसलिये तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरन्तर मानना; जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूँ। ६ तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुम्बिन का तन उछाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूँ। ७ अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है न उछाड़ना; वह तो तुम्हारी माता है, इसलिये तुम उसका तन न उछाड़ना। ८ अपनी सौतेली माता का भी तन न उछाड़ना; वह तो तुम्हारे

पिता ही का तन है। ९ अपनी बहिन चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन न उछाड़ना। १० अपनी पोती वा अपनी नतिनी का तन न उछाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है। ११ तुम्हारी सौतेली बहिन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई, वह तुम्हारी बहिन है, इस कारण उसका तन न उछाड़ना। १२ अपनी फूफी का तन न उछाड़ना; वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुम्बिन है। १३ अपनी मौसी का तन न उछाड़ना; क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुम्बिन है। १४ अपने चाचा का तन न उछाड़ना, अर्थात् उसकी स्त्री के पास न जाना; वह तो तुम्हारी चाची है। १५ अपनी बहू का तन न उछाड़ना; वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उछाड़ना। १६ अपनी भौजी का तन न उछाड़ना; वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। १७ किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उछाड़ना, और उसकी पोती को वा उसकी नतिनी को अपनी स्त्री करके उसका तन न उछाड़ना; वे तो निकट कुटुम्बिन हैं; ऐसा करना महापाप है। १८ और अपनी स्त्री की बहिन को भी अपनी स्त्री करके उछाड़ना सौत न करना, कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उछाड़े। १९ फिर जब तक कोई स्त्री अपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उछाड़ने को न जाना। २० फिर अपने भाईबन्धु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना। २१ और अपने सन्तान में से किसी को मोलेक के लिये होम करके न चढाना, और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र

ठहराना; मैं यहोवा हूँ। २२ स्त्रीगमन की रीति से पुरुषगमन न करना; वह तो घिनीना काम है। २३ किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के साम्हने इसलिये खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे; यह तो उलटी बात है ॥

२४ ऐसा ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई हैं; २५ और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है, इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का बरद देता हूँ, और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है। २६ इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरन्तर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहनेवाला परदेशी हो तुम में से कोई भी ऐसा घिनीना काम न करे; २७ क्योंकि ऐसे सब घिनीने कामों को उस देश के मनुष्य जो तुम से पहिले उस में रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है। २८ अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुम से पहिले उस देश में रहती थी उसको उस ने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो, तो वह तुम को भी उगल दे। २९ जितने ऐसा कोई घिनीना काम करें वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाएं। ३० यह आज्ञा जो मैं ने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनीनी रीतियां तुम से पहिले प्रचलित हैं उन में से किसी पर न चलना, और न उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

(भांति भांति का आचार)

१९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्राएलियों की सारी मण्डली से कह, कि तुम पवित्र बने रहो; क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। ३ तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना, और मेरे विश्राम दिनों को मानना; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ४ तुम मूरतों की और न फिरना, और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ५ जब तुम यहोवा के लिये मेलबलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुम से प्रसन्न हो जाऊँ। ६ उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परन्तु तीसरे दिन तक जो रह जाए वह आग में जला दिया जाए। ७ और यदि उस में से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए, तो यह घृणित ठहरेगा, और ग्रहण न किया जाएगा। ८ और उसका खानेवाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिये उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा; और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा ॥

९ फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालो को न चुनना। १० और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के भड़े हुए भंगूरों को न बटोरना; उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिये छोड़ देना; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ११ तुम चोरी न करना, और एक दूसरे से न तो कपट करना, और न झूठ बोलना। १२ तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का

नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूँ। १३ एक दूसरे पर अन्धेर न करना, और न एक दूसरे को लूट लेना। और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। १४ बहिरे को शाप न देना, और न अन्धे के आगे ठोकर रखना; और अपने परमेश्वर का भय मानना; मैं यहोवा हूँ। १५ न्याय में कुटिलता न करना; और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुह देखा विचार करना; एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। १६ लुतारा बनके अपने लोगो में न फिरा करना, और एक दूसरे के लोहू बचाने की युक्तिया न बान्धना; मैं यहोवा हूँ। १७ अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना; अपने पडोसी को अवश्य डाटना नहीं, तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। १८ पलटा न लेना, और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परन्तु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना; मैं यहोवा हूँ। १९ तुम मेरी विधियों को निरन्तर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना; अपने खेत में दो प्रकार के बीज इकट्ठे न बोना; और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहिनना। २० फिर कोई स्त्री दासी हो, और उसकी मगनी किसी पुरुष से हुई हो, परन्तु वह न तो दाम से और न सेतमेंत स्वाधीन की गई हो; उस से यदि कोई कुकर्म करे, तो उन दोनों को दण्ड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाएं। २१ पर वह पुरुष मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोषबलि के लिये ले आए। २२ और याजक उसके किये हुए पाप के कारण दोषबलि के मेढ़े

के द्वारा उसके लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे; तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा। २३ फिर जब तुम खाना देश में पहुँचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल तीन वर्ष तक तुम्हारे लिये मानो खतनारहित ठहरे रहे; इसलिये उन में से कुछ न खाया जाए। २४ और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिये पवित्र ठहरे। २५ तब पाँचवें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिये कि उन से तुम को बहुत फल मिलें; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। २६ तुम लोहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना। और न टोना करना, और न शुभ वा अशुभ मूहूर्तों को मानना। २७ अपने सिर में घेरा रखकर न मुड़ाना, और न अपने गाल के बालों को मुड़ाना। २८ मुदों के कारण अपने शरीर को बिलकुल न चीरना, और न उस में छाप लगाना; मैं यहोवा हूँ। २९ अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। ३० मेरे विश्रामदिन को माना करना, और मेरे पवित्रस्थान का भय निरन्तर मानना; मैं यहोवा हूँ। ३१ ओझाओ और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ३२ पक्के बालवाले के साम्हने उठ खड़े होना, और बूढ़े का आदरमान करना, और अपने परमेश्वर का भय निरन्तर मानना; मैं यहोवा हूँ। ३३ और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, तो उसको दुःख न देना। ३४ जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वंह तुम्हारे लिये देशी के समान हो,

और उस से अपने ही समान प्रेम रखना ; क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे ; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ । ३५ तुम न्याय में, और परिमार्ण में, और तौल में, और नाप में कुटिलता न करना । ३६ सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा, और धर्म का हीन * तुम्हारे पास रहे, मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहीवा हूँ जो तुम को मिस्र देश से निकाल ले आया । ३७ इसलिये तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरन्तर पालन करो ; मैं यहीवा हूँ ॥

(प्राचरक के योग्य भांति भांति के पापों का बर्षन)

२० फिर यहीवा ने मूसा से कहा, २ इस्त्राएलियों से कह, कि इस्त्राएलियों में से, वा इस्त्राएलियों के बीच रहनेवाले परदेशियों में से, कोई क्यों न हो जो अपनी कोई सन्तान मोलेक को बलिदान करे वह निश्चय मार डाला जाए ; और जनता उसको पत्थरवाह करे । ३ और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूँगा, कि उस ने अपनी सन्तान मोलेक को देकर मेरे पवित्रस्थान को अशुद्ध किया, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया । ४ और यदि कोई अपनी सन्तान मोलेक को बलिदान करे, और जनता उसके विषय में आनाकानी करे, और उसके मार न डाले, ५ तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नाश करूँगा । ६ फिर जो प्राणी

* हीन—तौल बराबर ६ हंडरबेट के ।

प्रोभाओं वा भूतसाधनेवालों की ओर फिरके, और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूँगा । ७ इसलिये तुम अपने आप को पवित्र करो ; और पवित्र बने रहो ; क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूँ । ८ और तुम मेरी विधियों को मानना, और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करनेवाला यहीवा हूँ । ९ कोई क्यों न हो जो अपने पिता वा माता को शाप दे वह निश्चय मार डाला जाए ; उस ने अपने पिता वा माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा । १० फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिस ने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं । ११ और यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उखाड़नेवाला ठहरेगा ; सो इसलिये वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । १२ और यदि कोई अपनी पतोहू के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं ; क्योंकि वे उलटा काम करनेवाले ठहरेगे, और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । १३ और यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों धिनीना काम करनेवाले ठहरेगे ; इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा । १४ और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है ; इसलिये वह पुरुष और वे स्त्रियाँ तीनों के तीनों आश में जलाए जाएं,

जिस से तुम्हारे बीच महापाप न हो। १५ फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। १६ और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके सग कुकर्म करे, तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना; वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्ही के सिर पर पड़ेगा। १७ और यदि कोई अपनी बहिन का, चाहे उसकी सगी बहिन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे, और उसकी बहिन भी उसका नग्न तन देखे, तो यह निन्दित बात है, वे दोनों अपने जाति भाइयों की आँखों के साम्हने नाश किए जाए, क्योंकि जो अपनी बहिन का तन उघाड़नेवाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। १८ फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के सग सोकर उसका तन उघाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़नेवाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उघाड़नेवाली ठहरेगी; इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश किए जाए। १९ और अपनी मौसी वा फूफ़ी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुम्बिन को न ज्ञा करंता है; इसलिये उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। २० और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए, तो वह अपने चाचा का तन उघाड़नेवाला ठहरेगा; इसलिये वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्बन्ध मर जाएंगे। २१ और यदि कोई अपनी भौजी वा भयाहू को अपनी पत्नी बनाए, तो इसे धिनौना काम जानना और वह अपने भाई का तन उघाड़नेवाला ठहरेगा, इस कारण वे दोनों निर्बन्ध रहेंगे ॥

२२ तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना; जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिये जा रहा हूँ वह तुम को उगल देवे। २३ और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना; क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उन से घृणा हो गई है। २४ और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिस में दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूँगा; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जिस ने तुम को और देशों के लोगों से अलग किया है। २५ इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में, और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना; और कोई पशु वा पक्षी वा किसी प्रकार का भूमि पर रेगनेवाला जीवजन्तु क्यों न हो, जिसको मैं ने तुम्हारे लिये अशुद्ध ठहगाकर वर्जित किया है, उस से अपने आप को अशुद्ध न करना। २६ और तुम मेरे लिये पवित्र बने रहना; क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैं ने तुम को और देशों के लोगों से इसलिये अलग किया है कि तुम निरन्तर मेरे ही बने रहो ॥

२७ यदि कोई पुरुष वा स्त्री ओभाई वा भूत की साधना करे, तो वह निश्चय मार डाला जाए; ऐसी का पत्थरवाह किया जाए, उनका खून उन्ही के सिर पर पड़ेगा ॥

(याजकों के लिये विशेष विशेष विधियाँ)

२१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उन से कह, कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे, तो

उसके कारण तुम मे से कोई अपने को अशुद्ध न करे; २ अपने निकट कुटुम्बियों, अर्थात् अपनी माता, वा पिता, वा बेटे, वा बेटी, वा भाई के लिये, ३ वा अपनी कुंवारी बहिन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका समीपी सम्बन्ध है; उनके लिये वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। ४ पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगो में प्रधान है, इसलिये वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। ५ वे न तो अपने सिर मुड़ाए, और न अपने गाल के बालो को मुड़ाएं, और न अपने शरीर चीरे। ६ वे अपने परमेश्वर के लिये पवित्र बने रहे, और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करे; क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढाया करते हैं; इस कारण वे पवित्र बने रहे। ७ वे वेश्या वा भ्रष्टा को ब्याह न लें; और न त्यागी हुई को ब्याह लें; क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिये पवित्र होता है। ८ इसलिये तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढाया करता है; इसलिये वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे; क्योंकि मैं यहोवा, जो तुम को पवित्र करता हूँ, पवित्र हूँ। ९ और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे, तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है; वह आग में जलाई जाए।

१० और जो अपने भाइयो में महा-याजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहिनने के लिये संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिल्लरने न दे, और न अपने वस्त्र फाड़े; ११ और न वह किसी लोथ के मास जाए, और न अपने पिता वा माता के कारण अपने को अशुद्ध करे;

१२ और वह पवित्रस्थान से बाहर भी न निकले, और न अपने परमेश्वर के पवित्र-स्थान को अपवित्र ठहराए; क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेलरूपी मुकुट धारण * किए हुए है; मैं यहोवा हूँ। १३ और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे। १४ जो विधवा, वा त्यागी हुई, वा भ्रष्ट, वा वेश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे, वह अपने ही लोगो के बीच में की किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे; १५ और वह अपने वीर्य को अपने लोगो में अपवित्र न करे; क्योंकि, मैं उसका पवित्र करनेवाला यहोवा हूँ।

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १७ हारून से कह, कि तेरे वंश की पीढ़ी-पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढाने के लिये समीप न आए। १८ कोई क्यों न हो जिस में दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह अन्धा हो, चाहे लंगडा, चाहे नकचपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, १९ वा उसका पांव, वा हाथ टूटा हो, २० वा वह कुबडा, वा बौना हो, वा उसकी आँख में दोष हो, वा उस मनुष्य के चाँई वा खजुली हो, वा उसके अंड पिचके हो; २१ हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो वह यहोवा के हव्य चढाने के लिये समीप न आए; वह जो दोषयुक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढाने के लिये समीप न आए। २२ वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परमपवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, २३ परन्तु उसके दोष के कारण वह न तो बीचवाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिस से ऐसा

* वा, का तेल जो उसके ग्यारे किये जाने का चिन्ह है उसे।

न हो कि वह मेरे पवित्रस्थानों को अपवित्र करे; क्योंकि मैं उनका पवित्र करनेवाला यहोवा हूँ। २४ इसलिये मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा कुल इस्राएलियों को यह बातें कह सुनाई ॥

२२

फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ हारून और उसके पुत्रों से कह, कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिये पवित्र करते हैं न्यारे रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे; मैं यहोवा हूँ। ३ और उन से कह, कि तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए, जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिये पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे साम्हने से नाश किया जाएगा, मैं यहोवा हूँ। ४ हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो, वा उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो, वा जिसका वीर्य स्वलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छूए, ५ और जो कोई किसी ऐसे रेंगनेहारे जन्तु को छूए जिस से लोग अशुद्ध हो सकते हैं, वा किसी ऐसे मनुष्य को छूए जिस में किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है ६ तो वह प्राणी जो इन में से किसी को छूए सांभ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। ७ तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा; और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। ८ जो जानवर आप से मरा हो वा पशु से

फाड़ा गया हो उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे; मैं यहोवा हूँ। ९ इसलिये याजक लोग मेरी सौपी हुई वस्तुओं की रक्षा करे, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए, और इसके कारण मर भी जाएं; मैं उनका पवित्र करनेवाला यहोवा हूँ। १० पराए कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का पाहुन हो वा मजदूर हो, तीभी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। ११ यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले, तो वह प्राणी उस में से खा सकता है; और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हो वे भी उसके भोजन में से खाएं। १२ और यदि याजक की बेटो पराए कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो, तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए। १३ यदि याजक की बेटो विधवा वा त्यागी हुई हों, और उसकी सन्तान न हो, और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए; पर पराए कुल का कोई उस में से न खाने पाए। १४ और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए, तो वह उसका पांचवां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। १५ और वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को, जिन्हें वे यहोवा के लिये चढ़ाएं, अपवित्र न करे। १६ वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उन से अपराध का दोष न उठवाएं; मैं उनका पवित्र करनेवाला यहोवा हूँ ॥

१७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १८ हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझाकर कह, कि इस्राएल के घराने वा इस्राएलियों में रहनेवाले

परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मग्नत वा स्वेच्छाबलि करने के लिये यहोवा को कोई होमबलि चढ़ाए, १६ तो अपने निमित्त ग्रहणयोग्य ठहरने के लिये बैलो वा भेड़ों वा बकरियों मे से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। २० जिस में कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहणयोग्य न ठहरेगा। २१ और जो कोई बैलो वा भेड़-बकरियों मे से विशेष वस्तु सकल्प करने के लिये वा स्वेच्छाबलि के लिये यहोवा को मेलबलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिये अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उस मे कोई भी दोष न हो। २२ जो अन्धा वा बग वा टूटा वा लूला हो, वा उस मे रमौली वा गौरा वा खुजली हो, ऐसो को यहोवा के लिये न चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के लिये हव्य न चढ़ाना। २३ जिस किसी बैल वा भेड़ वा बकरे का कोई अंग अधिक वा कम हो उसको स्वेच्छाबलि के लिये चढ़ा सकते हो, परन्तु मग्नत पूरी करने के लिये वह ग्रहण न होगा। २४ जिमके अंड दबे वा कुचले वा टूटे वा कट गए हो उसको यहोवा के लिये न चढ़ाना, और अपने देश मे भी शेष न करना। २५ फिर इन में से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ; क्योंकि उन में उनका बिगाड वर्तमान है, उन में दोष है, इसलिये वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे ॥

२६ फिर यहाँवा ने मूसा से कहा, २७ जब बछड़ा वा भेड़ वा बकरी का बच्चा उत्पन्न हो, तो वह सात दिन तक अपनी मां के साथ रहे; फिर आठवें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्यवाह चढ़ावे के लिये ग्रहणयोग्य ठहरेगा। २८ चाहे गाय, चाहे भेड़ी वा बकरी हो, उसको और उसके

बच्चे को एक ही दिन मे बलि न करना। २९ और जब तुम यहोवा के लिये धन्यवाद का मेलबलि चढ़ाओ, तो उसे इसी प्रकार से करना जिस मे वह ग्रहणयोग्य ठहरे। ३० वह उसी दिन खाया जाए, उस मे से कुछ भी बिहान तक रहने न पाए; मे यहोवा है। ३१ और तुम मेरी आज्ञाओ को मानना और उनका पालन करना, मे यहोवा है। ३२ और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मे इस्त्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा; मे तुम्हारा पवित्र करनेवाला यहोवा हूँ, ३३ जो तुम को मिस्र देश मे निकाल लाया हूँ जिस से तुम्हारा परमेश्वर बना रहे; मे यहोवा है ॥

(बचें भर के नियत त्योहारों की विधियाँ)

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्त्राएलियों से कह, कि यहोवा के पर्व जिनका तुम को पवित्र सभा एकत्रित करने के लिये नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। ३ छ. दिन कामकाज किया जाए, पर सातवा दिन परमविश्राम का और पवित्र सभा का दिन है; उस मे किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए; वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे ॥

४ फिर यहोवा के पर्व जिन मे से एक एक के ठहराये हुए समय मे तुम्हे पवित्र सभा करने के लिये प्रचार करना होगा वे ये हैं। ५ पहिले महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय यहोवा का फसह हुआ करे। ६ और उसी महीने के पंद्रहवें दिन को यहोवा के लिये अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे, उस मे तुम मात दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। ७ उन मे से

पहिले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो; और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। ८ और सातों दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना; और सातवें दिन पवित्र सभा हो; उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना ॥

९ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १० इस्त्राएलियों से कह, कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उस में के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहिली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना; ११ और वह उस पूले को यहोवा के साम्हने हिलाए, कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए; वह उसे विश्रामदिन के दूसरे दिन हिलाए। १२ और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन एक वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिये होमबलि चढ़ाना। १३ और उसके साथ का अन्नबलि एपा के दो दसवें अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, वह सुखदायक सुगन्ध के लिये यहोवा का हव्य हो; और उसके साथ का अर्घ हीन भर की चौथाई दाखमधु हो। १४ और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक बथे खेल में भी न तो रोटि खाना और न भूना हुआ अन्न और न हरी बालें; यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे ॥

१५ फिर उस विश्रामदिन के दूसरे दिन से, अर्थात् जिस दिन तुम हिलाई जानेवाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे सात विश्रामदिन गिन लेना; १६ सातवें विश्रामदिन के दूसरे दिन तक पचास दिन गिनना, और पचासवें दिन यहोवा के लिये नया अन्नबलि चढ़ाना। १७ तुम अपने

घरों में से एपा के दो दसवें अंश मैदे की दो रोटियां हिलाने की भेंट के लिये ले आना; वे खमीर के साथ पकाई जाएं, और यहोवा के लिये पहिली उपज ठहरे। १८ और उस रोटि के संग एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड़ के बच्चे, और एक बछड़ा, और दो मेढ़े चढ़ाना; वे अपने अपने साथ के अन्नबलि और अर्घ समेत यहोवा के लिये होमबलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात् वे यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हव्य ठहरे। १९ फिर पापबलि के लिये एक बकरा, और मेलबलि के लिये एक एक वर्ष के दो भेड़ के बच्चे चढ़ाना। २० तब याजक उनको पहिली उपज की रोटि समेत यहोवा के साम्हने हिलाने की भेंट के लिये हिलाए, और इन रोटियों के संग वे दो भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं; वे यहोवा के लिये पवित्र, और याजक का भाग ठहरे। २१ और तुम उसी दिन यह प्रचार करना, कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी; और परिश्रम का कोई काम न करना; यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे ॥

२२ जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना; उसे दीनहीन और परदेशी के लिये छोड़ देना; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २४ इस्त्राएलियों से कह, कि सातवें महीने के पहिले दिन को तुम्हारे लिये परमविश्राम हो, उस में स्मरण दिलाने के लिये नरसिंगे फूके जाएं, और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। २५ उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना, और यहोवा के लिये एक हव्य चढ़ाना ॥

२६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २७ उसी सातवें महीने का दसवां दिन प्रायश्चित्त का दिन माना जाए; वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उस में तुम अपने अपने जीव को दुःख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। २८ उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना; क्योंकि वह प्रायश्चित्त का दिन नियुक्त किया गया है जिस में तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के साम्हने तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त किया जाएगा। २९ इसलिये जो प्राणी उस दिन दुःख न सहे वह अपने लोगो में से नाश किया जाएगा। ३० और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगो के बीच में से नाश कर डालूंगा। ३१ तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना; यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानो में सदा की विधि ठहरे। ३२ वह दिन तुम्हारे लिये परमविश्राम का हो, उस में तुम अपने अपने जीव को दुःख देना; और उस महीने के नवें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्रामदिन माना करना ॥

३३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ३४ इस्राएलियों से कह, कि उसी सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन से सात दिन तक यहोवा के लिये भोंपड़ियों का पर्व रहा करे। ३५ पहिले दिन पवित्र सभा हो; उस में परिश्रम का कोई काम न करना। ३६ सातों दिन यहोवा के लिये हव्य चढ़ाया करना, फिर आठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और यहोवा के लिये हव्य चढ़ाना; वह महासभा का दिन है, और उस में परिश्रम का कोई काम न करना ॥

३७ यहोवा के नियत पर्व ये ही हैं, इन में तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात्

होमबलि, अन्नबलि मेलबलि, और अर्घ, प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। ३८ इन सभो से अधिक यहोवा के विश्राम-दिनों को मानना, और अपनी भेंटो, और सब मन्त्रों, और स्वेच्छाबलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना ॥

३९ फिर सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब सात दिन तक यहोवा का पर्व मानना; पहिले दिन परमविश्राम हो, और आठवें दिन परमविश्राम हो। ४० और पहिले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज, और खजूर के पत्ते, और घने वृक्षों की डालियां, और नालो में के मजजू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने सात दिन तक आनन्द करना। ४१ और प्रतिवर्ष सात दिन तक यहोवा के लिये यह पर्व माना करना; यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे, कि सातवें महीने में यह पर्व माना जाए। ४२ सात दिन तक तुम भोंपड़ियों में रहा करना, अर्थात् जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब भोंपड़ियों में रहें, ४३ इसलिये कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें, कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उस ने उनको भोंपड़ियों में टिकाया था; में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ४४ और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए ॥

(पवित्र रीषकों और रीषियों की विधि)

२४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, कि मेरे पास उजियाला देने के लिये कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले

ग्राना, कि दीपक नित्य जलता रहे * ।
३ हारून उसको, मिलापवाले तम्बू में,
साक्षीपत्र के बीचवाले पर्दे से बाहर, यहोवा
के साम्हने नित्य सांभ से भोर तक सजाकर
रखे; यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिये सदा
की विधि ठहरे । ४ वह दीपको के स्वच्छ
दीबट पर यहोवा के साम्हने नित्य मजाया
करे ॥

५ और तू मैदा लेकर बारह रोटिया
पकवाना, प्रत्येक रोटि में एपा का दो दसवां
अंश मैदा हो । ६ तब उनकी दो पांति †
करके, एक एक पांति में ‡ छ छः रोटिया,
स्वच्छ मेज पर यहोवा के साम्हने धरना ।
७ और एक एक पांति पर § चोखा लोबान
रखना, कि वह रोटि पर स्मरण दिलानेवाला
वस्तु और यहोवा के लिये हव्य हो । ८ प्रति
विश्रामदिन को वह उसे नित्य यहोवा के
सम्मुख क्रम से रखा करे, यह सदा की वाचा
और ¶ इस्त्राएलियों की और से हुआ करे ।
९ और वह हारून और उसके पुत्रों की
होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में
खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा
की विधि के अनुसार हारून के लिये परम-
पवित्र वस्तु ठहरी है ॥

(यहोवा की निन्दा आदि प्राचक्ष्य योग्य
पापों की शपथ!)

१० उन दिनों में किसी इस्त्राएली स्त्री
का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था,
इस्त्राएलियों के बीच चला गया; और वह
इस्त्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्त्राएली
पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट
करने लगे, ११ और वह इस्त्राएली स्त्री

मूल में—चढाया जाया करे ।

† वा उनके दो ढेर । ‡ वा एक एक ढेर में ।
§ वा एक एक ढेर पर ।

का बेटा यहोवा के नाम की निन्दा करके
शाप देने लगा । यह सुनकर लोग उसको
मूसा के पास ले गए । उसकी माता का
नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के
दिब्री की बेटी थी । १२ उन्हों ने उसको
हवालात में बन्द किया, जिस से यहोवा की
आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए ॥

१३ तब यहोवा ने मूसा से कहा,
१४ तुम लोग उस शाप देने वाले को
छावनी से बाहर लिवा ले जाओ; और
जितनों ने वह निन्दा सुनी हो वे सब अपने
अपने हाथ उसके सिर पर टेकें, तब सारी
मरडली के लोग उसको पत्थरबाह करे ।
१५ और तू इस्त्राएलियों से कह, कि कोई
क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे
उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा ।
१६ यहोवा के नाम की निन्दा करनेवाला
निश्चय मार डाला जाए; सारी मरडली के
लोग निश्चय उसको पत्थरबाह करे, चाहे
देशी हो चाहे परदेशी, यदि कोई उस नाम
की निन्दा करे तो वह मार डाला जाए ।
१७ फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से
मारे वह निश्चय मार डाला जाए ।
१८ और जो कोई किसी घरेलू पशु को
प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात् प्राणी
की सन्ती प्राणी दे । १९ फिर यदि कोई
किसी दूसरे को चोट पहुँचाए, * तो जैसा
उस ने किया हो वैसा ही उसके साथ भी
किया जाए, २० अर्थात् अंग अंग करने
की सन्ती अंग अंग किया जाए, अंग की
मन्ती अंग, दांत की सन्ती दांत, जैसी चोट
जिस ने किसी को पहुँचाई हो वैसी ही
उसको भी पहुँचाई जाए । २१ और पशु
का मार डालनेवाला उसको भर दे, परन्तु

* मूल में—यदि कोई अपने भाईबन्धु में
दोष दे ।

मनुष्य का मार डालनेवाला मार डाला जाए। २२ तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिये वैसा ही परदेशी के लिये भी हो; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। २३ और मूसा ने इस्राएलियों को यही समझाया; तब उन्होने उस शाप देनेवाले को छावनी से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ॥

(सातवें वर्ष और पचासवें वर्ष के विश्राम-
बाकों की विधि)

२५ फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, २ इस्राएलियों से कह, कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिये विश्राम मिला करे। ३ छ वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और छहों वर्ष अपनी अपनी दाख की वारी छांट छांटकर देश की उपज इकट्ठी किया करना, ४ परन्तु सातवें वर्ष भूमि को यहोवा के लिये परमविश्रामकाल मिला करे, उस में न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। ५ जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखो को न तोड़ना; क्योंकि वह भूमि के लिये परम-विश्राम का वर्ष होगा। ६ और भूमि के विश्रामकाल ही की उपज से तुम को, और तुम्हारे दास-दासी को, और तुम्हारे साथ रहनेवाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा; ७ और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीवजन्तु हों उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा ॥

८ और सात विश्रामवर्ष, अर्थात् सात-गुना सात वर्ष गिन लेना, सातो विश्राम-वर्षों का यह समय उनचास वर्ष होगा। ९ तब मातवें महीने के दसवें दिन को, अर्थात् प्रायश्चित्त के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरमिगा अपने सारे देश में सब कही फुकवाना। १० और उस पचामवें वर्ष को पवित्र करके मानना, और देश के सारे निवासियों के लिये छुटकारे का प्रचार करना; वह वर्ष तुम्हारे यहा जुबली * कहलाए, उस में तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। ११ तुम्हारे यहा वह पचामवा वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए; उस में तुम न बोना, और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छांटी हुई दाखलता की दाखो को तोड़ना। १२ क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा, वह तुम्हारे लिये पवित्र होगा, तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेके खाना। १३ इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। १४ और यदि तुम अपने भाईबन्धु के हाथ कुछ बेचो वा अपने भाईबन्धु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अन्धेर न करना। १५ जुबली * के पीछे जितने वर्ष बीते हों उनकी गिनती के अनुसार दाम बचराके एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। १६ जितने वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहें उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। १७ और तुम अपने अपने भाईबन्धु पर अन्धेर न करना; अपने

* अर्थात् नरसिंहे का शब्द।

परमेश्वर का भय मानना; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। १८ इसलिये तुम मेरी विधियों को मानना, और मेरे नियमों पर ममक ब्रूकर चलना; क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। १९ और भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी, और तुम पेट भर खाया करोगे, और उम देश में निडर बसे रहोगे। २० और यदि तुम कहो, कि सातवें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठी करेंगे? २१ तो जानो कि मैं तुम को छठवें वर्ष में ऐसी आशीष दूँगा, * कि भूमि की उपज तीन वर्ष तक काम आएगी। २२ तुम आठवें वर्ष में सोओगे, और पुरानी उपज में से खाने रहोगे, और नवें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाने रहोगे। २३ भूमि सदा के लिये तो बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है, और उस में तुम परदेशी और बाहरी होगे। २४ लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा देने देना ॥

२५ यदि तेरा कोई भाईबन्धु कगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुम्बियों में से जो सब से निकट हो वह आकर अपने भाईबन्धु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। २६ और यदि किसी मनुष्य के लिये कोई छुड़ानेवाला न हो, और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके, २७ तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिस ने उसे मोल लिया हो फेर दे; तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए।

* मूल में—अपनी आशीष को आशा दूँगा।

२८ परन्तु यदि उसके इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली * के वर्ष तक मोल लेनेवालों के हाथ में रहे; और जुबली * के वर्ष में छूट जाए तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए ॥

२९ फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाहवाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अन्दर उसे छुड़ा मकेगा, अर्थात् पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। ३० परन्तु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाहवाले नगर में हो मोल लेनेवाले का बना रहे, और पीढी-पीढी में उसी के वंश का बना रहे, और जुबली * के वर्ष में भी न छूटे। ३१ परन्तु बिना शहरपनाह के गावों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाए, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा, और वे जुबली * के वर्ष में छूट जाए। ३२ और लेबियों के निज भाग के नगरों के जो घर ही उनको लेवीय जब चाहे तब छुड़ाए। ३३ और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली * के वर्ष में छूट जाए; क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेबियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही हैं। ३४ और उनके नगरों की चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए; क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा ॥

३५ फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु कगाल हो जाए, और उसकी दशा तेरे साम्हने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना; वह परदेशी वा यात्री की नाईं तेरे सग रहे। ३६ उस से ब्याज वा बढ़ती न

* अर्थात् महाशब्दवाले नरसिंहे का शब्द।

लेना; अपने परमेश्वर का भय मानना; जिस से तेरा भाईबन्धु तेरे सग जीवन निर्वाह कर सके। ३७ उसको ब्याज पर रुपया न देना, और न उसको भोजनवस्तु लाभ के लालच से देना। ३८ में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ; मैं तुम्हे कनान देश देने के लिये और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनमा से तुम को मिस्र देश से निकाल लाया हूँ।

३९ फिर यदि तेरा कोई भाईबन्धु तेरे साम्हने कगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उस से दास के समान सेवा न करवाना। ४० वह तेरे सग मजदूर वा यात्री की नाई रहे, और जुबली * के वर्ष तक तेरे सग रहकर सेवा करता रहे; ४१ तब वह बालबच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए, और अपने कुटुम्ब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए। ४२ क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ; इसलिये वे दास की रीति से न बेचे जाए। ४३ उस पर कठोरता से अधिकार न करना; अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। ४४ तेरे जो दास-दासिया हो वे तुम्हारी चारों ओर की जातियों में से हों, और दास और दासिया उन्हीं में से मोल लेना। ४५ और जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उन में से और उनके घरानो में से भी जो तुम्हारे आस पास हों, और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों, उन में से तुम दास और दासी मोल लो; और वे तुम्हारा भाग ठहरे। ४६ और तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे, और वे उनका भाग ठहरे; उन में से तुम सदा अपने लिये दास लिया करना, परन्तु तुम्हारे

भाईबन्धु जो इस्राएली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना।

४७ फिर यदि तेरे साम्हने कोई परदेशी वा यात्री धनी हो जाए, और उसके साम्हने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे साम्हने उस परदेशी वा यात्री वा उसके वश के हाथ बेच डाले, ४८ तो उसके बिक जानं के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है; उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, ४९ वा उसका चाचा, वा चचेरा भाई, तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुम्बी उसको छुड़ा सकता है, वा यदि वह धनी हो जाए, तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। ५० वह अपने मोल लेनेवाले के साथ अपने बिकने-के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे, और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात् वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। ५१ यदि जुबली * के बहुत वर्ष रह जाए, तो जितने रुपयो से वह मोल लिया गया हो उन में से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। ५२ और यदि जुबली * के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो, तौभी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। ५३ वह अपने स्वामी के सग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो; और उसका स्वामी उस पर तेरे साम्हने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। ५४ और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए, तो वह जुबली * के वर्ष में अपने बाल-बच्चों समेत छूट जाए। ५५ क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास हैं; वे मिस्र देश

* अर्थात् महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द।

* अर्थात् महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द।

से मेरे ही निकाले हुए दास हैं; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

(धर्म तथा अधर्म के फल)

२६ तुम अपने लिये मूर्तें न बनाना, और न कोई खुदी हुई मूर्ति वा लाट अपने लिये खडी करना, और न अपने देश में दराडवत् करने के लिये नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना; क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ । २ तुम मेरे विश्राम-दिनों का पालन करना और मेरे पवित्रस्थान का भय मानना; मैं यहोवा हूँ ॥

३ यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, ४ तो मैं तुम्हारे लिये समय समय पर मेंह बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे; ५ यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे, और बोन के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, और अपने देश में निश्चिन्त बसे रहोगे । ६ और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डरानेवाला न होगा; और मैं उस देश में दुष्ट जन्तुओं को न रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी । ७ और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे, और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे । ८ और तुम मे से पांच मनुष्य सौ को और सौ मनुष्य दस हजार को खदेड़ेंगे; और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे; ९ और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम को फलवन्त करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा । १० और तुम रखे हुए पुराने

धनाज को खाओगे, और नये के रहते भी पुराने को निकालोगे । ११ और मैं तुम्हारे बीच अपना निवासस्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुम से घृणा नहीं करेगा । १२ और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे । १३ मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम को मिस्र देश से इसलिये निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैं ने तुम्हारे जूए को तोड़ डाला है, और तुम को सीधा खड़ा करके चलाया है ॥

१४ यदि तुम मेरी न सुनोगे, और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, १५ और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निराणों से घृणा करे, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोडोगे, १६ तो मैं तुम से यह करूंगा; अर्थात् मैं तुम को बेचैन करूंगा, और क्षयरोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुधली हो जाएगी, और तुम्हारा मन अति उदास होगा । और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे; १७ और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा, और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे; और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुम को खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे । १८ और यदि तुम इन बातों के उपरान्त भी मेरी न सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें सातगुणी ताड़ना और दूंगा, १९ और मैं तुम्हारे बल का घमण्ड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे छिबे आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा; २० और तुम्हारा बल अकारण

गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने फल न देगे। २१ और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और सातगुणा सकट डालूंगा। २२ और मैं तुम्हारे बीच बन पशु भेजूंगा, जो तुम को निर्वश करेगा, और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाशकर डालेगा, और तुम्हारी गिनती घटाएगा, जिस से तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। २३ फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो, और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, २४ तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुम को सातगुणा मारूंगा। २५ और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा, जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी; और जब तुम अपने नगरो में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा, और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। २६ और जब मैं तुम्हारे लिये अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब दस स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौलकर बांट देंगी; और तुम खाकर भी तृप्त न होगे ॥

२७ फिर यदि तुम इसके उपरान्त भी मेरी न सुनोगे, और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, २८ तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा, और तुम्हारे पापों के कारण तुम को सातगुणा ताड़ना और भी दूंगा। २९ और तुम को अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। ३० और मैं तुम्हारे पूजा के ऊँचे स्थानों को ढा दूंगा, और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा, और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई

मूर्तियों पर फेंक दूंगा; और मेरी आत्मा को तुम से घृणा हो जाएगी। ३१ और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारा सुखदायक सुगन्ध ग्रहण न करूंगा। ३२ और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा, और तुम्हारे शत्रु जो उस में रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे। ३३ और मैं तुम को जाति जाति के बीच तितर-बितर करूंगा, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा; और तुम्हारा देश सुना हो जाएगा, और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। ३४ तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे उतने दिन वह अपने विश्रामकालों को मानता रहेगा, तब ही वह देश विश्राम पाएगा, अर्थात् अपने विश्रामकालों को मानता रहेगा। ३५ और जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात् जो विश्राम उसको तुम्हारे वहा बसे रहने के समय तुम्हारे विश्रामकालों में न मिला होगा वह उसको तब मिलेगा। ३६ और तुम में से जो बच रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा; और वे पत्तों के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे। ३७ और जब कोई पीछा करने-वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, और तुम को अपने शत्रुओं के साम्हने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। ३८ तब तुम जाति जाति के बीच पञ्चकर नाश हो जाओगे, और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुम को खा जाएगी। ३९ और तुम में से जो

बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशों में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे; और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं की नाईं गल जाएंगे। ४० तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात् उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेगे, और यह भी मान लेंगे, कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, ४१ इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतनारहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दण्ड को भगीकार करेंगे; ४२ तब जो वाचा मैं ने याकूब के सग बान्धी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैं ने इसहाक से और जो वाचा मैं ने इब्राहीम से बान्धी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। ४३ और वह देश उन से रहित होकर सूना पड़ा रहेगा, और उनके बिना सूना रहकर भी अपने विश्रामकालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दण्ड को भगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्हो ने मेरी आज्ञाओं का उलघन किया था, और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। ४४ इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, और न उन से ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूँ और अपनी उस वाचा को तोड़ दूँ जो मैं ने उन से बान्धी है; क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ; ४५ परन्तु मैं उनके भलाई के लिये उनके पितरों से बान्धी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्यजातियों की आँखों के साम्हने मिस्र देश से निकालकर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूँ, मैं यहोवा हूँ ॥

४६ जो जो विधिया और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इस्राएलियों के लिये सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे ये ही हैं ॥

(विशेष संकल्प की विधि)

२७

फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
२ इस्राएलियों से यह कह, कि जब कोई विशेष संकल्प माने, तो संकल्प किए गए प्रार्थना तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे; ३ इसलिये यदि वह बीस वर्ष वा उम से अधिक और साठ वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो, तो उसके लिये पवित्रस्थान के शेकेल के अनुसार पचास शेकेल का रूपया ठहरे। ४ और यदि वह स्त्री हो, तो तीस शेकेल ठहरे। ५ फिर यदि उसकी अवस्था पाच वर्ष वा उमसे अधिक और बीस वर्ष से कम की हो, तो लडके के लिये तो बीस शेकेल, और लडकी के लिये दस शेकेल ठहरे। ६ और यदि उसकी अवस्था एक महीने वा उस से अधिक और पाच वर्ष से कम की हो, तो लडके के लिये तो पाच, और लडकी के लिये तीन शेकेल ठहरे। ७ फिर यदि उसकी अवस्था साठ वर्ष की वा उस से अधिक हो, और वह पुरुष हो तो उसके लिये पद्रह शेकेल, और स्त्री हो तो दस शेकेल ठहरे। ८ परन्तु यदि कोई इतना कगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके, तो वह याजक के साम्हने खड़ा किया जाए, और याजक उसकी पूजा ठहराए, अर्थात् जितना संकल्प करनेवाले से हो सके, याजक उसी के अनुसार ठहराए ॥

९ फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढावा चढाते हैं, यदि ऐसी में से कोई संकल्प किया जाए, तो जो पशु कोई यहोवा

को दे वह पवित्र ठहरेंगा । १० वह उसे किसी प्रकार से न बदले, न तो वह बुरे की सन्ती अर्च्छा, और न अर्च्छे की सन्ती बुरा दे; और यदि वह उस पशु की सन्ती दूसरा पशु दे, तो वह और उमका बदला दोनो पवित्र ठहरेंगे । ११ और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिये चढ़ावा नहीं चढ़ाते ऐसी में से यदि वह हो, तो वह उसको याजक के साम्हने खड़ा कर दे, १२ तब याजक पशु के गुण भ्रवगुण दोनो विचारकर उमका मोल ठहराए; और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे । १३ और यदि संकल्प करनेवाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे, तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उम में उसका पांचवा भाग और बढ़ाकर दे ॥

१४ फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिये पवित्र ठहराकर संकल्प करे, तो याजक उसके गुण-भ्रवगुण दोनो विचारकर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे । १५ और यदि घर का पवित्र करनेवाला उसे छुड़ाना चाहे, तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया हो उस में वह पांचवा भाग और बढ़ाकर दे, तब वह घर उसी का रहेगा ॥

१६ फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिये पवित्र ठहराना चाहे, तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे, कि उस में कितना बीज पड़ेगा; जितना भूमि में होमेर भर जा पड़े उतनी का मोल पचास शकेल ठहरे । १७ यदि वह अपना खेत जुबली * के वर्ष ही में पवित्र ठहराए, तो उसका दाम तेरे

ठहराने के अनुसार ठहरे; १८ और यदि वह अपना खेत जुबली * के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए, तो जितने वर्ष दूसरे जुबली * के वर्ष के बाकी रहें उन्ही के अनुसार याजक उसके लिये रुपये का हिसाब करे, तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो । १९ और यदि खेत का पवित्र ठहरानेवाला उसे छुड़ाना चाहे, तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उस में वह पाचवा भाग और बढ़ाकर दे, तब खेत उसी का रहेगा । २० और यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे, वा उस ने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो, तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए; २१ परन्तु जब वह खेत जुबली * के वर्ष में छूटे, तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत की नाई यहोवा के लिये पवित्र ठहरे, अर्थात् वह याजक ही की निज भूमि हो जाए । २२ फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत, जो उसकी निज भूमि के खेतों में का न हो, यहोवा के लिये पवित्र ठहराए, २३ तो याजक जुबली * के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिये जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिये पवित्र जानकर उसी दिन दे दे । २४ और जुबली * के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिस से वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात् जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए । २५ और जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्रस्थान ही के शकेल के हिसाब से ठहरे: शकेल बीस गेरा का ठहरे ॥

२६ पर धरेलू पशुओं का पहिलौठा, जो यहोवा का पहिलौठा ठहरा है, उसको तो

* अर्थात् नरसिंघे का शब्द ।

* अर्थात् नरसिंघे का शब्द ।

कोई पवित्र न ठहराए; चाहे वह बछड़ा हो, चाहे भेड़ वा बकरी का बच्चा, वह यहोवा ही का है। २७ परन्तु यदि वह अशुद्ध पशु का हो, तो उसका पवित्र ठहरानेवाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका पाचवा भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है, और यदि वह न छुड़ाया जाए, तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए ॥

२८ परन्तु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिये अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए; जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिये परमपवित्र ठहरे। २९ मनुष्यों में से जो कोई अर्पण किया जाए, वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए ॥

३० फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है; वह यहोवा के लिये पवित्र ठहरे। ३१ यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, तो पाचवा भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। ३२ और गाय-बैल और भेड़-बकरिया, निदान जो जो पशु जिम्मे के सिंचे लाठी के तले निकल जानेवाले हैं उनका दशमांश, अर्थात् दस दस पीछे एक एक पशु यहोवा के लिये पवित्र ठहरे। ३३ कोई उसके गुण अवगुण न विचारे, और न उसको बदले; और यदि कोई उसको बदल भी ले, तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे; और वह कभी छुड़ाया न जाए ॥

३४ जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिये सीने पर्वत पर मूसा को दी थी वे ये ही हैं ॥

गिनती नाम पुस्तक

(इस्राएलियों की गिनती)

१ इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहिले दिन को, यहोवा ने सीने के जंगल में, मिलापवाले तम्बू में, मूसा से कहा, २ इस्राएलियों की सारी मण्डली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार, एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना; ३ जितने इस्राएली बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के हों, और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सभी को उनके दलों के

अनुसार तू और हारून गिन ले। ४ और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। ५ तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात् रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर; ६ शिमोन के गोत्र में से सूरीशई का पुत्र शलूमीएल; ७ यहूदा के गोत्र में से अस्मीनादाब का पुत्र नहशोन; ८ इसाकार के गोत्र में से सूआर का पुत्र नतनेल; ९ जबूलन के गोत्र में से हेलीन का पुत्र एलीआब; १० युसुफवंशियों में से

ये हैं, अर्थात् एप्रैम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गम्लीएल; ११ बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान; १२ दान के गोत्र में से अम्मीशदई का पुत्र अहीएजेर; १३ आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगीएल; १४ गाद के गोत्र में से इएल का पुत्र एल्यासाप; १५ नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। १६ मरडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे ये ही हैं, और ये इस्राएलियों के हजारों * में मुख्य पुरुष थे। १७ और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर, १८ मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहिले दिन सारी मरडली इकट्ठी की, तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्थावालों के नामों की गिनती करवाके अपनी अपनी वंशावली लिखवाई; १९ जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उस ने सीनै के जंगल में उनकी गणना की ॥

२० और इस्राएल के पहिलीठे रुबेन के वंश ने जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : २१ और रुबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष साढ़े छियालीस हजार थे ॥

२२ और शिमोन के वंश के लोग जितने पुरुष अपने कुलो और अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस से

अधिक अवस्था के थे, और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : २३ और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष उनसठ हजार तीन सौ थे ॥

२४ और गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : २५ और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष पैंतालीस सज़ार साढ़े छः सौ थे ॥

२६ और यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलो और अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : २७ और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष चौहत्तर हजार छः सौ थे ॥

२८ और इस्राकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : २९ और इस्राकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष चौवन हजार चार सौ थे ॥

३० और जबूलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलो और अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : ३१ और जबूलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष सत्तावन हजार चार सौ थे ॥

३२ और यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध

* वा कुलों ।

करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : ३३ और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष साठे चालीस हजार थे ॥

३४ और मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : ३५ और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष बत्तीस हजार दो सौ थे ॥

३६ और बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलो और अपने पितरों के घरानो के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : ३७ और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष पैंतीस हजार चार सौ थे ॥

३८ और दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलो और अपने पितरों के घरानो के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : ३९ और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष बासठ हजार सात सौ थे ॥

४० और आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलो और अपने पितरों के घरानो के अनुसार बीस वर्ष वा उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : ४१ और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष साठे एकतालीस हजार थे ॥

४२ और नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानो के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए : ४३ और

नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष तिरपन हजार चार सौ थे ॥

४४ इस प्रकार मूसा और हारून और इस्त्राएल के बारह प्रधानो ने, जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे, उन सभी को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी । ४५ सो जितने इस्त्राएली बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, ४६ और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर छः लाख तीन हजार साठे पाच सौ थे ॥

४७ इन में लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए । ४८ क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, ४९ कि लेवीय गोत्र की गिनती इस्त्राएलियों के संग न करना; ५० परन्तु तू लेवीयो को साक्षी के तम्बू पर, और उसके कुल सामान पर, निदान जो कुछ उस से सम्बन्ध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना; और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें, और वे ही उस में सेवा टहल भी किया करें, और तम्बू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे । ५१ और जब जब निवास का कूच हो तब तब लेवीय उसको गिरा दें, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवीय उसको खड़ा किया करें; और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए । ५२ और इस्त्राएली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झरंडे के पास खड़ा किया करें; ५३ पर लेवीय अपने डेरे साक्षी के तम्बू ही की चारो ओर खड़े किया करें, कही ऐसा न हो कि इस्त्राएलियों की मण्डली पर कोप भड़के; और लेवीय साक्षी के तम्बू की रखा किया करें । ५४ जो आज्ञाएं यहोवा ने

मूसा को दी थीं इस्राएलियों ने उन्हीं के अनुसार किया ॥

(१८वाँ खिद्यो की श्रावणी का क्रम)

२ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २ इस्राएली मिलापवाले तम्बू की चारो ओर और उसके साम्हने अपने अपने झरड़े और अपने अपने पितरो के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। ३ और जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें वे ही यहूदा की छावनीवाले झरड़े के लोग होंगे, और उनका प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा, ४ और उनके दल के गिने हुए पुरुष चौहत्तर हजार छः सौ हैं। ५ उनके समीप जो डेरे खड़े किया करे वे इस्ताकार के गोत्र के हो, और उनका प्रधान सूझार का पुत्र नतनेल होगा, ६ और उनके दल के गिने हुए पुरुष चौवन हजार चार सौ हैं। ७ इनके पास जबलून के गोत्रवाले रहेंगे, और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब होगा, ८ और उनके दल के गिने हुए पुरुष सत्तावन हजार चार सौ हैं। ९ इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर एक लाख छियासी हजार चार सौ हैं। पहिले ये ही कूच किया करे ॥

१० दक्खिन अलग पर रूबेन की छावनी के झरड़े के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें, और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा, ११ और उनके दल के गिने हुए पुरुष साढ़े छियालीस हजार हैं। १२ उनके पास जो डेरे खड़े किया करें वे शिमोन के गोत्र के होंगे, और उनका प्रधान सूरीशई का पुत्र शलूमिअल होगा,

१३ और उनके दल के गिने हुए पुरुष उनसठ हजार तीन सौ हैं। १४ फिर गाद के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान रूपल का पुत्र एल्यासाप होगा, १५ और उनके दल के गिने हुए पुरुष पैंतालीस हजार साढ़े छ सौ हैं। १६ रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर डेढ लाख एक हजार साढ़े चार सौ हैं। दूसरा कूच इनका हो ॥

१७ उनके पीछे और सब छावनियों के बीचोबीच लेवियों की छावनी समेत मिलापवाले तम्बू का कूच हुआ करे, जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झरड़े के पास पास चले ॥

१८ पच्छिम अलग पर एप्रैम की छावनी के झरड़े के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा होगा, १९ और उनके दल के गिने हुए पुरुष साढ़े चालीस हजार हैं। २० उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गल्लीअल होगा, २१ और उनके दल के गिने हुए पुरुष बत्तीस हजार दो सौ हैं। २२ फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा, २३ और उनके दल के गिने हुए पुरुष पैंतीस हजार चार सौ हैं। २४ एप्रैम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर एक लाख आठ हजार एक सौ पुरुष हैं। तीसरा कूच इनका हो ॥

२५ उत्तर अलग पर दान की छावनी के झरड़े के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें, और उनका प्रधान अम्मीशई का पुत्र अहीऐजेर होगा, २६ और उनके दल के

गिने हुए पुरुष बासठ हजार सात सौ हैं । २७ और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे आक्षेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा, २८ और उनके दल के गिने हुए पुरुष साठे इकतालीस हजार हैं । २९ फिर नप्ताली के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा, ३० और उनके दल के गिने हुए पुरुष तिरपन हजार चार सौ हैं । ३१ और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर डेढ़ लाख सात हजार छ सौ हैं । ये अपने अपने भ्रण्डे के पास पास होकर सब से पीछे कूच करें ॥

३२ इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे ये ही हैं, और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर छ लाख तीन हजार साठे पाच सौ थे । ३३ परन्तु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो इस्राएलियों में गिने नहीं गए । ३४ और जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार, अपने अपने भ्रण्डे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे ॥

(पश्चिमीयों को चर्को लेवियों का यज्ञोपास वे पक्ष्य किया जाना)

३ जिस समय यहोवा ने सीन पर्वत के पास मूसा से बातें की उस समय हारून और मूसा की यह वशावली थी । २ हारून के पुत्रों के नाम ये हैं : नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलीआजार और ईतामार; ३ हारून के पुत्र, जो अभिषिक्त याजक थे, और उनका सत्कार

याजक का काम करने के लिये हुआ था उनके नाम ये ही हैं । ४ नादाब और अबीहू जिस समय सीन के जंगल में यहोवा के मम्मूख ऊपरी आग ले गए उसी समय यहोवा के साम्हने मर गए थे; और वे पुत्रहीन भी थे । एलीआजार और ईतामार अपने पिता हारून के साम्हने याजक का काम करते रहे ॥

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ६ लेवी गोत्रवालों को समीप ले आकर हारून याजक के साम्हने खड़ा कर, कि वे उसकी सेवा टहल करें । ७ और जो कुछ उसकी ओर से और सारी मण्डली की ओर से उन्हें सौपा जाए उसकी रक्षा वे मिलापवाले तम्बू के साम्हने करें, इस प्रकार वे तम्बू की सेवा करें, ८ वे मिलापवाले तम्बू के कुल सामान की ओर इस्राएलियों की सौपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें, इस प्रकार वे तम्बू की सेवा करें । ९ और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौप दे, और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को सम्पूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हों । १० और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक-पद की रक्षा किया करें; और यदि अन्य मनुष्य समीप आए, तो वह मार डाला जाए ॥

११ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १२ सुन इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलीठों की सन्ती में इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हू; सो लेवीय मेरे ही हों । १३ सब पहिलीठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैं ने मिस्र देश में के सब पहिलीठों को मारा, उसी दिन मैं ने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहिलीठों को अपने लिये पवित्र ठहराया; इसलिये वे मेरे ही ठहरेंगे; मैं यहोवा हू ॥

१४ फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, १५ लेबियों में से जितने पुरुष एक महीने वा उस से अधिक भ्रवस्था के हों उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। १६ यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। १७ लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात् गेशॉन, कहात, और मरारी। १८ और गेशॉन के पुत्र जिन से उसके कुल चले उनके नाम ये हैं, अर्थात् लिब्नी और शिमी। १९ कहात के पुत्र जिन से उसके कुल चले ये हैं, अर्थात् अम्राम, यिसहार, हेबोन, और उज्जीएल। २० और मरारी के पुत्र जिन से उनके कुल चले ये हैं, अर्थात् महली और मूशी। ये लेबियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं ॥

२१ गेशॉन से लिब्णियों और शिमियों के कुल चले; गेशॉनवंशियों के कुल ये ही हैं। २२ इन में से जितने पुरुषों की भ्रवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी, उन सभी की गिनती साढ़े सात हजार थी। २३ गेशॉनवाले कुल निवास के पीछे पच्छिम की ओर अपने डेरे डाला करें; २४ और गेशॉनियों के मूलपुरुष से घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एल्यासाप हो। २५ और मिलापवाले तम्बू की जो वस्तुएं गेशॉनवंशियों को सौंपी जाएं वे ये हों, अर्थात् निवास और तम्बू, और उसका छोटा, और मिलापवाले तम्बू से द्वार का पर्दा, २६ और जो आंगन निवास और बेदी की चारों ओर है उसके पर्दे, और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उस में काम आती हैं ॥

२७ फिर कहात से अम्रामियों, यिसहारियों, हेबोनियों, और उज्जीएलियों के

कुल चले; कहातियों के कुल ये ही हैं। २८ उन में से जितने पुरुषों की भ्रवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी उनकी गिनती आठ हजार छः सौ थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। २९ कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करें जो दक्खिन की ओर है; ३० और कहातवाले कुलों से मूलपुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसापाप हो। ३१ और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाएं वे सन्दूक, मेज, दीवट, बेदियां, और पवित्रस्थान का वह सामान जिस से सेवा टहल होती है, और पर्दा; निदान पवित्रस्थान में काम में आनेवाला सारा सामान हो। ३२ और लेबियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलीआजार हो, और जो लोग पवित्रस्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे ॥

३३ फिर मरारी से महलियों और मूशियों के कुल चले; मरारी के कुल ये ही हैं। ३४ इन में से जितने पुरुषों की भ्रवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी उन सभी की गिनती छः हजार दो सौ थी। ३५ और मरारी के कुलों के मूलपुरुष के घराने का प्रधान अबीहेल का पुत्र सूरीएल हो; ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें। ३६ और जो वस्तुएं मरारी-वंशियों को सौंपी जाएं, कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेंड़े, खम्भे, कुर्सियां, और सारा सामान; निदान जो कुछ उसके बरतने में काम आए; ३७ और चारों ओर के आंगन के खम्भे, और उनकी कुर्सियां, खूटे और डोरियां हों। ३८ और जो मिलापवाले तम्बू के साम्हने, अर्थात् निवास के साम्हने, पूरब की ओर जहां से सूर्योदय

होता है, अपने डेरे डाला करे, वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों, और पवित्रस्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही किया करे, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। ३६ यहोवा की इस आज्ञा को पाकर एक महीने की वा उस से अधिक अवस्थावाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब के सब बाईस हजार थे ॥

४० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहिलौठे पुरुषों की अवस्था एक महीने की वा उस से अधिक है, उन सभी को नाम ले लेकर गिन ले। ४१ और मेरे लिये इस्राएलियों के सब पहिलौठों की सन्ती लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहिलौठों की सन्ती लेवियों के पशुओं को ले, मैं यहोवा हूँ। ४२ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहिलौठों को गिन लिया। ४३ और सब पहिलौठे पुरुष जिनकी अवस्था एक महीने की वा उस से अधिक थी, उनके नामों की गिनती बाईस हजार दो सौ तिहत्तर थी ॥

४४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, ४५ इस्राएलियों के सब पहिलौठों की सन्ती लेवियों को, और उनके पशुओं की सन्ती लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हों, मैं यहोवा हूँ। ४६ और इस्राएलियों के पहिलौठों में से जो दो सौ तिहत्तर गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिये, ४७ पुरुष पीछे पाच शेकेल ले, वे पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से हों, अर्थात् तीस गेरा का शेकेल हो। ४८ और जो रुपया उन अधिक पहिलौठों की छुड़ौती का होगा उसे हारून

और उसके पुत्रों को दे देना। ४९ और जो इस्राएली पहिलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुए से अधिक थे उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया। ५० और एक हजार तीन सौ पैसठ शेकेल रुपया पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। ५१ और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुए का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया ॥

(लेवियों के बर्चब कर्त्त)

४ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २ लेवियों में से कहातियों की, उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार, गिनती करो, ३ अर्थात् तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्थावालों की सेना में, जितने मिलापवाले तम्बू में कामकाज करने को भरती हैं। ४ और मिलापवाले तम्बू में परमपवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, ५ अर्थात् जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर, बीचवाले पर्दे को उतार के उस से साक्षीपत्र के सन्दूक को ढाप दे, ६ तब वे उस पर सूइसों की खालों का ओहार डालें, और इसके ऊपर सम्पूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें, और सन्दूक में डण्डों को लगाए। ७ फिर भेटवाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करवों, और उडेलने के कटोरो को रखें, और नित्य की रोटी भी उस पर हो; ८ तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सूइसों की खालों के ओहार से ढापें, और मेज के डण्डों को लगा दे। ९ फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपको, गुलतराशों, और गुलदानों

समेत उजियाला देनेवाले दीवट को, और उसके सब तेल के पात्रों को जिन से उसकी सेवा टहल होती है ढापें; १० तब वे सारे सामान समेत दीवट को सूइसों की खालो के ओहार के भीतर रखकर डण्डे पर धर दें । ११ फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सूइसों की खालो के ओहार से ढापें, और उसके डण्डो को लगा दे; १२ तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिस से पवित्रस्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सूइसों की खालो के ओहार से ढापें, और डण्डे पर धर दें । १३ फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बंजनी रग का कपड़ा बिछाए; १४ तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात् उसके करछे, काटे, फावडिया, और कटोरे आदि, वेदी का सारा सामान उस पर रखें; और उसके ऊपर सूइसों की खालो का ओहार बिछाकर वेदी में डण्डों को लगाए । १५ और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्रस्थान और उमके सारे सामान को ढाप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिये आएँ, पर किसी पवित्र वस्तु को न छूए, कही ऐसा न हो कि मर जाए । कहातियों के उठाने के लिये मिलापवाले तम्बू की ये ही वस्तुएं हैं । १६ और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलीजार को रक्षा के लिये सौंपी जाए वे ये हैं, अर्थात् उजियाला देने के लिये तेल, और सुगन्धित धूप, और नित्य अन्नबलि, और अभिषेक का तेल, और सारे निवाम, और उस में की सब वस्तुएं, और पवित्रस्थान और उसके कुल समान ॥

१७ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कही, १८ कहातियों के कुलों के गोत्रियों

को लेवियों में से नाश न होने देना; १९ उनके साथ ऐसा करो, कि जब वे परमपवित्र वस्तुओं के समीप आएँ तब न मरें परन्तु जीवित रहे; अर्थात् हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिये उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे, २० और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिये भी भीतर आने न पाएँ, कही ऐसा न हो कि मर जाए ॥

२१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २२ गेशोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर; २३ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्थावाले, जितने मिलापवाले तम्बू में सेवा करने को सेना में भरती हो उन सभी को गिन ले । २४ सेवा करने और भार उठाने में गेशोनियों के कुलवालों की यह सेवकाई हो; २५ अर्थात् वे निवास के पटो, और मिलापवाले तम्बू और उसके ओहार, और इसके ऊपरवाले सूइसों की खालो के ओहार, और मिलापवाले तम्बू के द्वार के पर्दे, २६ और निवास, और वेदी की चारो ओर के आगन के पर्दों, और आगन के द्वार के पर्दे, और उनकी डोरियों, और उन में बरतने के सारे सामान, इन सभी को वे उठाया करे; और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए । २७ और गेशोनियों के वश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात् जो कुछ उनको उठाना, और जो जो सेवकाई उनको करनी हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो । २८ मिलापवाले तम्बू में गेशोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे; और उन पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार रखे ॥

२६ फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले; ३० तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्थावाले, जितने मिलापवाले तम्बू की सेवा करने को सेना में भरती हों, उन सभी को गिन ले। ३१ और मिलापवाले तम्बू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हों, अर्थात् निवास के तख्ते, बेड़े, खम्भे, और कुर्सियाँ, ३२ और चारों ओर के आगन के खम्भे, और इनकी कुर्सियाँ, खूटे, डोरियाँ, और भाँति भाँति के बरतने का सारा सामान; और जो जो सामान ढोने के लिये उनको सीपा जाए उस में से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। ३३ मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलापवाले तम्बू के विषय करनी होगी वह यही है; वह हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे ॥

३४ तब मूसा और हारून और मण्डली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को, उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार, ३५ तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष की अवस्था के, जितने मिलापवाले तम्बू की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, उन सभी को गिन लिया; ३६ और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे दो हज़ार साठे सात सौ थे। ३७ कहातियों के कुलों में से जितने मिलापवाले तम्बू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे; जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया ॥

३८ और गेशोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, ३९ अर्थात् तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्था के, जो मिलापवाले तम्बू

की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, ४० उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार दो हज़ार छः सौ तीस थी। ४१ गेशोनियों के कुलों में से जितने मिलापवाले तम्बू में सेवा करनेवाले गिने गए वे इतने ही थे; यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया ॥

४२ फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, ४३ अर्थात् तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्था के, जो मिलापवाले तम्बू की सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, ४४ उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार तीन हज़ार दो सौ थी। ४५ मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने, यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी, गिन लिया वे इतने ही थे ॥

४६ लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्त्राएली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, ४७ अर्थात् तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक की अवस्थावाले, जितने मिलापवाले तम्बू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाज़िर होने वाले थे, ४८ उन सभी की गिनती आठ हज़ार पाँच सौ अस्सी थी। ४९ ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के अनुसार यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए ॥

(कोड़ी चादि चयन लोगों का चार कर दिया जाना)

यू फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्राएलियों को आज्ञा दे, कि वे

सब कौटुंबियों को, और जितनों के प्रमेह हो, और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों, उन सबों को छावनी से निकाल दें; ३ ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकालकर बाहर कर दें, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी, जिसके बीच में निवास करता हूँ, उनके कारण अशुद्ध हो जाए। ४ और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात् ऐसे लोगो को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया; जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था इस्राएलियों ने वैसा ही किया ॥

(दोषों की जाति भरने की विधि)

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ६ इस्राएलियों से कह, कि जब कोई पुरुष वा स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे, और वह प्राणी दोषी हो, ७ तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले; और पूरे मूल में पांचवाँ अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे, जिसके विषय दोषी हुआ हो। ८ परन्तु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो, और वह उस प्रायश्चित्तवाले मेढ़े से अधिक हो जिस से उसके लिये प्रायश्चित्त किया जाए। ९ और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेट करके याजक के पास लाएं, वे उसी की हों; १० सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरें; कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे ॥

(पति के अपराधी स्त्री पर जलने की व्यवस्था)

११ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १२ इस्राएलियों से कह, कि यदि किसी

मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर * उसका विश्वासघात करे, १३ और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परन्तु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो, और वह अशुद्ध हो गई, परन्तु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो, और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो; १४ और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात् वह अपने स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो; वा उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात् वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परन्तु वह अशुद्ध न हुई हो; १५ तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए, और उसके लिये एपा का दसवा अंश जब का मैदा चढावा करके ले आए; परन्तु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वह जलनवाला और स्मरण दिलानेवाला, अर्थात् अशुद्ध का स्मरण करानेवाला अन्नबलि होगा। १६ तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के साम्हने खड़ी करे; १७ और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले, और निवासस्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। १८ तब याजक उस स्त्री को यहोवा के साम्हने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए, और स्मरण दिलानेवाले अन्नबलि को जो जलनवाला है उसके हाथों पर धर दे। और अपने हाथ में याजक कड़ुवा जल लिये रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। १९ तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे, कि यदि किसी पुरुष ने तुझ से कुकर्म न किया हो, और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़ुवे जल के गुण से जो शाप का कारण

* मूल में—बटके।

होता है बची रहे। २० पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध हुई हो, और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझ से प्रसंग किया हो, २१ (और याजक उसे शाप देनेवाली शपथ घराकर कहे,) यहोवा तेरी जाघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए, और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार * दिया करे; २२ अर्थात् वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अतडियो में जाकर तेरे पेट को फुलाए, और तेरी जाघ को सडा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन, आमीन। २३ तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कडुवे जल से मिटाके, २४ उस स्त्री को वह कडुवा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कडुवा हो जाएगा। २५ और याजक स्त्री के हाथ में से जलनवाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुँचाए; २६ और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलानेवाला भाग, अर्थात् मुट्टी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। २७ और जब वह उसे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कडुवा हो जाएगा, और उसका पेट फूलेगा, और उसकी जांघ सड जाएगी, और उस स्त्री का नाम उसके लोगो के बीच स्थापित होगा। २८ पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। २९ जलन की

व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिरके अशुद्ध हो, ३० चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे; तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ी कर दे, और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। ३१ तब पुरुष अघर्म से बचा रहेगा, और स्त्री अपने अघर्म का बोझ आप उठाएगी ॥

(नाज़ीरो को बखशा)

६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्राएलियों से कह, कि जब कोई पुरुष वा स्त्री नाज़ीर * की मन्नत, अर्थात् अपने को यहोवा के लिये न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, ३ तब वह दाखमधु आदि मदिरा से न्यारा रहे; वह न दाखमधु का, न और मदिरा का सिरका पीए, और न दाख का कुछ रस भी पीए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। ४ जितने दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक, जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है, उस में से कुछ न खाए। ५ फिर जितने दिन उस ने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए; और जब तक वे दिन पूरे न हो जिन में वह यहोवा के लिये न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा, और अपने सिर के बालो को बढ़ाए रहे। ६ जितने दिन वह यहोवा के लिये न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए। ७ चाहे उसका पिता, वा माता, वा भाई, वा बहिन भी मरे, तौभी वह उनके कारण अशुद्ध न हो; क्योंकि अपने परमेश्वर के लिये न्यारे रहने का चिन्ह † उसके सिर

* अर्थात् न्यारा किया हुआ।

† वा उसके परमेश्वर का मुकुट।

* मूल में—किरिया।

पर होगा। ८ अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिये पवित्र ठहरा रहे। ९ और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए, और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह * उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन, अर्थात् सातवें दिन अपना सिर मुड़ाए। १० और आठवें दिन वह दो पंडुक वा कबूतरी के दो बच्चे मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, ११ और याजक एक को पापबलि, और दूसरे को होमबलि करके उसके लिये प्रायश्चित्त करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, १२ और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिये न्यारे ठहराए, और एक वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोषबलि करके ले आए; और जो दिन इस से पहिले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह † अशुद्ध हो गया ॥

१३ फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों, उस समय के लिये उसकी यह व्यवस्था है; अर्थात् वह मिलापवाले तम्बू के द्वार पर पहुंचाया जाए, १४ और वह यहोवा के लिये होमबलि करके एक वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पापबलि करके, और एक वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेलबलि के लिये एक निर्दोष भेड़ा, १५ और अखमीरी रोटियों की एक टोकरी, अर्थात् तेल से सने हुए मैदे के फुलके, और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां, और उन बलियों के अन्नबलि और अर्घ; ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। १६ इन

* वा उसका जो मुकुट।

† वा उसका मुकुट।

सब को याजक यहोवा के साम्हने पहुंचाकर उसके पापबलि और होमबलि को चढ़ाए १७ और अखमीरी रोटि की टोकरी समेत मेढे को यहोवा के लिये मेलबलि करके, और उस मेलबलि के अन्नबलि और अर्घ को भी चढ़ाए। १८ तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्हवाले सिर को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर मुगडाकर अपने बालो को उस आग पर डाल दे जो मेलबलि के नीचे होगी। १९ फिर जब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्हवाले * सिर को मुगडा चुके तब याजक मेढे का पकाया हुआ कन्धा, और टोकरी मे से एक अखमीरी रोटि, और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे, २० और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के साम्हने हिलाए, हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिये पवित्र ठहरे; इसके बाद वह नाजीर दाखमधु पी सकेगा। २१ नाजीर की मन्नत की, और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिये चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूजी के अनुसार चढ़ा सके, उस से अधिक जैसी मन्नत उस ने मानी हो, वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा ॥

(याजकों के आशीर्वाद देने की रीति)

२२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २३ हारून और उसके पुत्रों से कह, कि तुम इस्त्राएलियों को इन बचनों से आशीर्वाद दिया करना कि,

२४ यहोवा तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे :

* वा अपने मुकुटवाले।

२५ यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, और तुझ पर अनुग्रह करे ।

२६ यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, और तुझे शांति दे ।

२७ इस रीति वे मेरे * नाम को इस्त्राएलियों पर रखे, और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा ॥

(वेदी के अभिषेक के उल्लेख की भेंट)

७ फिर जब मूसा ने निवास को खडा किया, और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, २ तब इस्त्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष, और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, ३ वे यहोवा के साम्हने भेंट ले आए, और उनकी भेंट छः छाई हुई गाड़ियाँ और बारह बैल थे, अर्थात् दो दो प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी, और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल; इन्हे वे निवास के साम्हने यहोवा के समीप ले गए। ४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, ५ उन वस्तुओं को तू उन से ले ले, कि मिलापवाले तम्बू के बरतन में काम आए, सो तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बाट दे। ६ सो मूसा ने वे सब गाड़ियाँ और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। ७ गोशोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उस ने दो गाड़ियाँ और चार बैल दिए; ८ और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उस ने चार गाड़ियाँ और आठ बैल दिए; ये सब हारून याजक

* मूल में—और वे मेरा नाम इस्त्राएलियों पर धरे ।

के पुत्र ईतामार के अधिकार में किए गए ।

६ और कहातियों को उस ने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिये पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वह उसे अपने कन्धों पर उठा लिया करें ॥

१० फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। ११ तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिये प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएँ ॥

१२ सो जो पुरुष पहिले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्रवाले अम्मीनादाब का पुत्र महशोन था; १३ उसकी भेंट यह थी, अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; १४ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; १५ होमबलि के लिये एक बछड़ा, एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; १६ पापबलि के लिये एक बकरा; १७ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पाच मेढे, और पाच बकरे, और एक एक वर्ष के पाच भेड़ी के बच्चे । अम्मीनादाब के पुत्र महशोन की यही भेंट थी ॥

१८ और दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सूअार का पुत्र नतनेल भेंट ले आया; १९ वह यह थी, अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे; २० फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; २१ होमबलि के लिये एक

बछड़ा, एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; २२ पापबलि के लिये एक बकरा; २३ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी ॥

२४-और तीसरे दिन जबूलूनियो का प्रधान हेलोन का पुत्र एलीआब यह भेंट ले आया, २५ अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे; २६ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; २७ होमबलि के लिये एक बछड़ा, एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; २८ पापबलि के लिये एक बकरा; २९ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलीआब की यही भेंट थी ॥

३० और चौथे दिन रुबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, ३१ अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे; ३२ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ३३ होमबलि के लिये एक बछड़ा, और एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; ३४ पापबलि के लिये एक बकरा; ३५ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी ॥

३६ और पांचवे दिन शिमोनियो का प्रधान सूरीशहूँ का पुत्र शलूमीएल यह भेंट ले आया, ३७ अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे; ३८ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ३९ होमबलि के लिये एक बछड़ा, और एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, ४० पापबलि के लिये एक बकरा; ४१ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। सूरीशहूँ के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी ॥

४२ और छठवे दिन गादियो का प्रधान दूएल का पुत्र एल्यासाप यह भेंट ले आया, ४३ अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक कटोरा ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे; ४४ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ४५ होमबलि के लिये एक बछड़ा, और एक मेढ़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; ४६ पापबलि के लिये एक बकरा; ४७ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढ़े, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। दूएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी ॥

४८ और सातवें दिन एप्रैमियों का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा यह भेंट ले आया, ४९ अर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चादी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के

लिये तेल से सन हुए और मँदे से भरे हुए थे; ५० फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ५१ होमबलि के लिये एक बछड़ा, एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; ५२ पापबलि के लिये एक बकरा, ५३ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढे, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। अम्मीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी ॥

५४ और आठवे दिन मनश्शेइयो का प्रधान पदासूर का पुत्र गम्लीएल यह भेंट ले आया, ५५ अर्थात् पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे, ५६ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ५७ होमबलि के लिये एक बछड़ा, और एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; ५८ पापबलि के लिये एक बकरा; ५९ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढे, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गम्लीएल की यही भेंट थी ॥

६० और नवें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया, ६१ अर्थात् पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे; ६२ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ६३ होमबलि के लिये एक बछड़ा, और एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; ६४ पापबलि के लिये एक बकरा; ६५ और मेलबलि के लिये दो बैल, और

पांच मेढे, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी ॥

६६ और दसवें दिन दानियों का प्रधान अम्मीशहूई का पुत्र अखीआजर यह भेंट ले आया, ६७ अर्थात् पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे; ६८ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ६९ होमबलि के लिये एक बछड़ा, और एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; ७० पापबलि के लिये एक बकरा; ७१ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढे, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। अम्मीशहूई के पुत्र अखीआजर की यही भेंट थी ॥

७२ और ग्यारहवें दिन आशोरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया ७३ अर्थात् पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चादी का एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे; ७४ फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ७५ होमबलि के लिये एक बछड़ा, और एक मेढा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; ७६ पापबलि के लिये एक बकरा; ७७ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पांच मेढे, और पांच बकरे, और एक एक वर्ष के पांच भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी ॥

७८ और बारहवें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले आया, ७९ अर्थात् पवित्रस्थान के शेकेल

के हिसाब से एक सौ तीस शेकेल चांदी का एक परात, और सत्तर शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिये तेल से सने हुए और मँदे से भरे हुए थे; ८० फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल सोने का एक धूपदान; ८१ होमबलि के लिये एक बछड़ा, और एक भेड़ा, और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा; ८२ पापबलि के लिये एक बकरा; ८३ और मेलबलि के लिये दो बैल, और पाच भेड़े, और पाच बकरे, और एक एक वर्ष के पाच भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी।

८४ वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात् चांदी के बारह परात, चांदी के बारह कटोरे, और सोने के बारह धूपदान। ८५ एक एक चांदी का परात एक सौ तीस शेकेल का, और एक एक चांदी का कटोरा सत्तर शेकेल का था; और पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र दो हजार चार सौ शेकेल के थे। ८६ फिर धूप से भरे हुए सोने के बारह धूपदान जो पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से दस दस शेकेल के थे, वे सब धूपदान एक सौ बीस शेकेल सोने के थे। ८७ फिर होमबलि के लिये सब मिलाकर बारह बछड़े, बारह भेड़े, और एक एक वर्ष के बारह भेड़ी के बच्चे, अपने अपने अन्नबलि सहित थे; फिर पापबलि के सब बकरे बारह थे; ८८ और मेलबलि के लिये सब मिला कर चौबीस बैल, और साठ भेड़े, और साठ बकरे, और एक एक वर्ष के साठ भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। ८९ और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलापवाले तम्बू में गया, तब उस ने प्रायश्चित्त के ढकने

पर से, जो साक्षीपत्र के सन्दूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उस से बातें कर रहा था; और उस ने (यहोवा) उस से बातें की।

(दीवट के बारने की रीति)

८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ हाँरून को समझाकर यह कह, कि जब जब तू दीपको को बारे तब तब सातों दीपक का प्रकाश दीवट के साम्हने हो। ३ निदान हाँरून ने वैसा ही किया, अर्थात् जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उमने दीपको को बाग, कि वे दीवट के साम्हने उजियाला दे। ४ और दीवट की बनावट यह थी, अर्थात् यह पाए से लेकर फूलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था; जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उस ने दीवट को बनाया।

(लेवियों के नियुक्त होने का वर्षण)

५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ६ इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। ७ उन्हें शुद्ध करने के लिये तू ऐसा कर, कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे, फिर वे सर्वाङ्ग मुण्डन कराए, और वस्त्र धोए, और वे अपने को स्वच्छ करें। ८ तब वे तेल से सने हुए मँदे के अन्नबलि समेत एक बछड़ा ले ले, और तू पापबलि के लिये एक दूसरा बछड़ा लेना। ९ और तू लेवियों को मिलापवाले तम्बू के साम्हने समीप पहुँचाना, और इस्राएलियों की सारी मण्डली को इकट्ठा करना। १० तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना, और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखें, ११ तब हाँरून लेवियों को यहोवा के साम्हने इस्राएलियों की ओर

से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे, कि वे यहोवा की सेवा करनेवाले ठहरे। १२ और लेवीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे; तब तू लेवीयों के लिये प्रायश्चित्त करने को एक बछड़ा पापबलि और दूसरा होमबलि करके यहोवा के लिये चढाना। १३ और लेवीयों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खडा करना, और उनको हिलाने की भेंट के लिये यहोवा को अर्पण करना। १४ और उन्हें इस्त्राएलियों में से अलग करना, सो वे मेरे ही ठहरेगे। १५ और जब तू लेवीयों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिये अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलापवाले तम्बू सम्बन्धी सेवा टहल करने के लिये अन्दर आया करे। १६ क्योंकि वे इस्त्राएलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं; मैं ने उनको सब इस्त्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहिलौठे की सन्ती अपना कर लिया है। १७ इस्त्राएलियों के पहिलौठे, चाहे मनुष्य के हो चाहे पशु के, सब मेरे हैं; क्योंकि मैं ने उन्हें उस समय अपने लिये पवित्र ठहराया जब मैं ने मिस्र देश के सब पहिलौठों को मार डाला। १८ और मैं ने इस्त्राएलियों के सब पहिलौठों के बदले लेवीयों को लिया है। १९ उन्हें लेकर मैं ने हारून और उसके पुत्रों को इस्त्राएलियों में से दान करके दे दिया है, कि वे मिलापवाले तम्बू में इस्त्राएलियों के निमित्त सेवकाई और प्रायश्चित्त किया करे, कही ऐसा न हो कि जब इस्त्राएली पवित्रस्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। २० लेवीयों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्त्राएलियों की सारी मण्डली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। २१ लेवीयों ने तो अपने को

पाप से पावन किया, और अपने वस्त्रों को धो डाला; और हारून ने उन्हें यहोवा के साम्हने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया, और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिये प्रायश्चित्त भी किया। २२ और उसके बाद लेवीय हारून और उसके पुत्रों के साम्हने मिलापवाले तम्बू में अपनी अपनी सेवकाई करने को गए; और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवीयों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उन से व्यवहार करने लगे ॥

२३ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २४ जो लेवीयों को करना है वह यह है, कि पच्चीस वर्ष की अवस्था से लेकर उस से अधिक आयु में वे मिलापवाले तम्बू सम्बन्धी काम करने के लिये भीतर उपस्थित हुआ करे; २५ और जब पचास वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिये न आए और न काम करे; २६ परन्तु वे अपने भाई बन्धुओं के साथ मिलापवाले तम्बू के पास रक्षा का काम किया करे, और किसी प्रकार की सेवकाई न करे। लेवीयों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तू उन से ऐसा ही करना ॥

(दूसरी बार फसल का माना जाना, और चरा के लिये फसल की विधि)

इस्त्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहिले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, २ इस्त्राएली फसल नाम पर्व्व को उसके नियत समय पर माना करें। ३ अर्थात् इसी महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। ४ तब मूसा ने इस्त्राएलियों से फसल मानने के लिये कह

दिया। ५ और उन्हो ने पहले महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय सीन के जंगल में फसह को माना, और जो जो आज्ञाएँ यहोवा ने मूसा को दी थी उन्ही के अनुसार इस्राएलियों ने किया। ६ परन्तु कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वाग अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके, वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर श्वा से कहने लगे, ७ हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध है; परन्तु हम क्यों रुके रहे, और इस्राएलियों के सग यहोवा का चढावा नियत समय पर क्यों न चढाएँ ? ८ मूसा ने उन से कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लू कि यहोवा तुम्हारे विषय मे क्या आज्ञा देता है ॥

९ यहोवा ने मूसा से कहा, १० इस्राएलियों से कह, कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वश मे से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वा दूर की यात्रा पर हो, तीभी वह यहोवा के लिये फसह को माने। ११ वे उसे दूसरे महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय मानें; और फसह के बलिपशु के मांस को अखमीरी रोटी और कडए सागपात के साथ खाए। १२ और उस मे से कुछ भी बिहान तक न रख छोडे, और न उसकी कोई हड्डी तोडे; वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मानें। १३ परन्तु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो, परन्तु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, उस मनुष्य को यहोवा का चढावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। १४ और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिये फसह माने, तो वृह उसी विधि और नियम के अनुसार

उमको माने, देशी और परदेशी दोनों के लिये तुम्हारी एक ही विधि हो ॥

(इस्राएलियों की यात्रा की रौति)

१५ जिस दिन निवास जो साक्षी का तम्बू भी कहलाता है खडा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और सन्ध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। १६ और नित्य ऐसा ही हुआ करता था; अर्थात् दिन को बादल छाया रहता, और रात को आग दिखाई देती थी। १७ और जब जब वह बादल तम्बू पर से उठ जाता तब इस्राएली प्रस्थान करते थे; और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इस्राएली अपने डेरे खडे करने थे। १८ यहोवा की आज्ञा से इस्राएली कूच करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खडे भी करते थे; और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पडे रहते थे। १९ और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते, और प्रस्थान नहीं करते थे। २० और कभी कभी वह बादल थोडे ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पडे रहते थे; और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। २१ और कभी कभी बादल केवल सन्ध्या से भोर तक रहता; और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे, और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। २२ वह बादल चाहे दो दिन, चाहे एक महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इस्राएली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान

नहीं करते थे, परन्तु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। २३ यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते, और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे; जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे।।

(चादी की तुरहियों के बनाने और बबचार में जाने की विधि)

१० फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
२ चादी की दो तुरहिया गढ़के बनाई जाए; तू उनको मराडली के बुलाने, और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। ३ और जब वे दोनों फूकी जाए, तब सारी मराडली मिलापवाले तम्बू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। ४ और यदि एक ही तुरही फूकी जाए, तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाए। ५ जब तुम लोग सास बान्धकर फूको, तो पूरब दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। ६ और जब तुम दूसरी बेर सास बान्धकर फूको, तब दक्खिन दिशा की छावनियों का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिये वे सास बान्धकर फूके। ७ और जब लोगो को इकट्ठा करके सभा करनी हो तब भी फूकना, परन्तु सास बान्धकर नहीं। ८ और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उन तुरहियों को फूका करें। यह बात तुम्हारी पीढी-पीढी के लिये सर्वदा की विधि रहे। ९ और जब तुम अपने देश में किसी सतानेवाले बैरी में लडने को निकलो, तब तुरहियों को सास बान्धकर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा, और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। १० और अपने आनन्द के दिन में, और

अपने नियत पर्वों में, और महीनो के आदि में, अपने होमबलियों और मेलबलियों के साथ उन तुरहियों को फूकना; इस से तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।।

(इस्राएलियों का छौत्र पर्वत से प्रस्थान करना)

११ और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के बीसवें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया, १२ तब इस्राएली सीनै के जगल में से निकलकर प्रस्थान करके निकले, और बादल पारान नाम जगल में ठहर गया। १३ उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी आरम्भ हुआ। १४ और सब से पहले तो यहूदियों की छावनी के ऋडे का प्रस्थान हुआ, और वे दल बान्धकर चले, और उनका सेनापति अम्मिनादाब का पुत्र नहशोन था। १५ और इस्राकारियों के गोत्र का सेनापति सूआर का पुत्र नतनेल था। १६ और जबलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। १७ तब निवास उतारा गया, और गेशोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। १८ फिर रूबेन की छावनी ऋडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले, और उनका सेनापति शदेऊर का पुत्र एलीशूर था। १९ और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरीशहै का पुत्र शलूमि-एल था। २० और गादियों के गोत्र का सेनापति दूएल का पुत्र एल्यासाप था। २१ तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचने तक गैर्बैलियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया। २२ फिर एप्रैमियों की छावनी के ऋडे का कूच हुआ, और वे भी

दल बनाकर चले; और उनका सेनापति अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा था। २३ और मनश्शेइयों के गोत्र का सेनापति पदासुर का पुत्र गम्लीएल था। २४ और बिन्यामीनियों के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र अबीदान था। २५ फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके ऊँडे का प्रस्थान हुआ, और वे भी दल बनाकर चले; और उनका सेनापति अम्मीशई का पुत्र अखीआज़र था। २६ और आशरियों के गोत्र का सेनापति ओक्रान का पुत्र पजीएल था। २७ और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहीरा था। २८ इस्राएली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते, और आगे बढ़ा करते थे।

२९ और मूसा ने अपने ससुर रूपल मिद्यानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है, कि मैं उसे तुम को दूंगा; सो तू भी हमारे संग चल, और हम तेरी भलाई करेंगे; क्योंकि यहोवा ने इस्राएल के विषय में भला ही कहा है। ३० होबाब ने उसे उत्तर दिया, कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुम्बियों में लौट जाऊंगा। ३१ फिर मूसा ने कहा, हम को न छोड़, क्योंकि हमें जगल में कहा कहा डेरा खड़ा करना चाहिये, यह तुम्हें ही मालूम है, तू हमारे लिये आंखों का काम देना। ३२ और यदि तू हमारे संग चले, तो निश्चय जो भलाई यहोवा हम से करेगा उसी के अनुसार हम भी तुझ से वैसा ही करेंगे ॥

३३ फिर इस्राएलियों ने * यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके तीन दिन की यात्रा

की; और उन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का सन्दूक उनके लिये विश्राम का स्थान दूढ़ता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। ३४ और जब वे छावनी के आग से प्रस्थान करते थे तब दिन भर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। ३५ और जब जब सन्दूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, कि हे यहोवा, उठ, और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं, और तेरे बैरी तेरे साम्हने से भाग जाए। ३६ और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, कि हे यहोवा, हजारो-हजार इस्राएलियों में लौटकर आ जा ॥

(इस्राएलियों का कुड़कुड़ावा, और उसका दृष्ट भोबना)

११ फिर वे लोग बुडबुडाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे; निदान यहोवा ने सुना, और उसका कोप भडक उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी, और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। २ तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए; और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई, ३ और उस स्थान का नाम तबेरा * पडा, क्योंकि यहोवा की आग उन में जल उठी थी ॥

४ फिर जो मिली-जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी; और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, कि हमें मांस खाने को कौन देगा। ५ हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंतमेत खाया करते थे, और वे खीरे, और खरबूजे, और गन्दने, और प्याज, और लहसुन

* मूल में—उन्होंने।

* अर्थात् जलन।

भी; ६ परन्तु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। ७ मन्ना तो धनिये के समान था, और उसका रंग रूप मोती का सा था। ८ लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते, और चक्की में पीसते वा ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते, और उसके फुलके बनाते थे; और उसका स्वाद तेल में बने हुए पूए का सा था। ९ और रात को जब छावनी में ओम पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। १० और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यन्त भडका, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। ११ तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैं ने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया, कि तू ने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? १२ क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया, जो तू मुझ से कहता है, कि जैसे पिता दूध पीने बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊँ, जिसके देने की शपथ तू ने उनके पूर्वजों से खाई है? १३ मुझे इतना मास कहा से मिले कि इन सब लोगों को दू? ये तो यह कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं, कि तू हमें मास खाने को दे। १४ मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं सम्भाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। १५ और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो, कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिस से मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊँ।

१६ यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से सत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं; और मिलापवाले तम्बू के पास ले आ, कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। १७ तब मैं उतरकर तुझ से वहाँ बातें करूँगा; और जो आत्मा तुझ में है उस में से कुछ लेकर उन में समवाऊँगा; और वे इन लोगों का भार तेरे सग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। १८ और लोगों से कह, कल के लिये अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मास खाने को मिलेगा; क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कहकर रोए हो, कि हमें मास खाने को कौन देगा? हम मिस्र ही में भले थे। सो यहोवा तुम को मास खाने को देगा, और तुम खाना। १९ फिर तुम एक दिन, वा दो, वा पाच, वा दस, वा बीस दिन ही नहीं, २० परन्तु महीने भर उसे खाने रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुम को उस से घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके साम्हने यह कहकर रोए हो, कि हम मिस्र से क्यों निकल आए? २१ फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उन में से छ लाख तो प्यादे ही हैं, और तू ने कहा है, कि मैं उन्हें इतना मास दूँगा, कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। २२ क्या वे सब भेड़-बकरी गाय-बैल उनके लिये मारे जाएँ, कि उनको बाँध मिले? वा क्या समुद्र की सब मछलियाँ उनके लिये इकट्ठी की जाएँ, कि उनको बाँध मिले?

२३ यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा, कि मेरा वचन जो मैं ने तुझ से कहा है वह

पूरा होता है कि नहीं। २४ तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई; और उनके पुरनियों में से सत्तर पुरुष इकट्ठे करके तम्बू के चारों ओर खड़े किए। २५ तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उस ने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उस में थी उस में से लेकर उन सत्तर पुरनियों में समवा दिया; और जब वह आत्मा उन में आई तब वे नबूवत करने लगे। परन्तु फिर और कभी न की। २६ परन्तु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिन में से एक का नाम एलदाद और दूसरे का मेदाद था, उन में भी आत्मा आई; ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिये गये थे, पर तम्बू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। २७ तब किसी जवान ने दौड़ कर मूसा को बतलाया, कि एलदाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। २८ तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, * उस ने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। २९ मूसा ने उस से कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सभी में समवा देता! ३० तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। ३१ तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आधी आई, और वह समुद्र से बटेरें उड़ाके छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई, कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर दो हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। ३२ और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर, और दूसरे दिन

भी दिन भर बटेरो को बटोरते रहे; जिस ने कम से कम बटोरा उस ने दस होमेर बटोरा; और उन्हो ने उन्हें छावनी के चारों ओर फेंका दिया। ३३ मांस उनके मुह ही में था, और वे उसे खाने न पाए थे, कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उस ने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। ३४ और उस स्थान का नाम किन्नोथ-त्तावा * पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। ३५ फिर इस्राएली किन्नोथत्तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे, और वही रहे।।

(बुधा की श्रेष्ठता का प्रमाण)

१२ मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निन्दा करने लगे, २ उन्हीं ने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उस ने हम से भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। ३ मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। ४ सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों भिलापवाले तम्बू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। ५ तब यहोवा ने बादल के खम्भे में उतरकर तम्बू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया; सो वे दोनों उसके पास निकल आए। ६ तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रगट करूंगा, वा स्वप्न में उस से बातें करूंगा। ७ परन्तु

* मूल में—उसके चुने हुएों में से।

* अर्थात् तृष्णा की कबरें।

मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है; वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। ८ उस से मैं गुप्त रीति से नहीं, परन्तु आम्हने-साम्हने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ; और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निन्दा करते हुए क्यों नहीं डरे ? ९ तब यहोवा का कोप उन पर भडका, और वह चला गया; १० तब वह बादल तम्बू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोष्ठ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की, और देखा, कि वह कोठिन हो गई है। ११ तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। १२ और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी मा के पेट से निकलते ही अधगली हो। १३ सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, कि हे ईश्वर, कृपा कर, और उमको चगा कर। १४ यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुह पर धूका ही होता, तो क्या सात दिन तक वह लज्जित न रहती ? सो वह सात दिन तक छावनी से बाहर बन्द रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। १५ सो मरियम सात दिन तक छावनी से बाहर बन्द रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगो ने प्रस्थान न किया। १६ उसके बाद उन्हो ने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जगल में अपने डेरे खड़े किए ॥

(इबारतियों के कमान देश में जाने से वाश करने और इसके दृष्ट पाने का वर्णन)

१३

फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
२ कनान देश जिसे मैं इस्राएलियो

को देता हूँ उसका भेद लेने के लिये पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हों। ३ यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जगल से भेज दिया, जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। ४ उनके नाम ये हैं, अर्थात् रूबेन के गोत्र में से जककूर का पुत्र शम्भू, ५ शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात; ६ यहूदा के गोत्र में से ययुषे का पुत्र कालेब, ७ इससाकार के गोत्र में से योसेप का पुत्र यिगाल; ८ एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, ९ बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती; १० जबलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गदीएल; ११ यूसुफ वशियों में, मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, १२ दान के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अम्मीएल; १३ आशेर के गोत्र में से मीकाएल का पुत्र सतूर, १४ नप्ताली के गोत्र में से बोप्सी का पुत्र नहूबी, १५ गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गूएल। १६ जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिये भेजा था उनके नाम ये ही हैं। और नून के पुत्र होशे का नाम उस ने यहोशू रखा। १७ उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से, अर्थात् दक्षिण देश होकर जाओ, १८ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उस में बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान् हैं वा निबल, थोड़े हैं वा बहुत, १९ और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है, अच्छा वा बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तम्बुओं में रहते हैं वा गढ़ वा किलों में रहते हैं, २० और वह देश कैसा है, उपजाऊ है वा बजर है, और उस में वृक्ष हैं

वा नहीं। और तुम हियाब बान्धे चलो, और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। २१ सो वे चल दिए, और सीन नाम जंगल से ले रहोब तक, जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभालकर उसका भेद लिया। २२ सो वे दक्षिण देश होकर चले, और हेब्रोन तक गए; वहा अहीमन, शेश, और तल्म नाम अनाकवशी रहते थे। हेब्रोन तो मिस्र के सोअन से सात वर्ष पहिले बसाया गया था। २३ तब वे एशकोल नाम नाले तक गए, और वहा से एक डाली दाखो के गुच्छे समेत तोड़ ली, और दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए; और वे अनारो और अजीरो में से भी कुछे कुछ ले आए। २४ इस्राएली वहां से जो दाखो का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल * नाला रखा गया। २५ चालीस दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। २६ और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मण्डली के पास पहुंचे; और उनको और सारी मण्डली को संदेश दिया, और उस देश के फल उनको दिखाए। २७ उन्होंने ब्रह्मा से यह कहकर बर्णन किया, कि जिस देश में तू ने हम को भेजा था उस में हम गए; उस में सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। २८ परन्तु उस देश के निवासी बलवान् हैं, और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं; और फिर हम ने वहां अनाकवशियों को भी देखा। २९ दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए

हैं; और पहाड़ी देश में हिली, यबूसी, और एमोरी रहते हैं; और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ३० पर कालेब ने मूसा के साम्हने प्रजा के लोगो को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढके उस देश को अपना कर ले; क्योंकि निःसन्देह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ३१ पर जो पुरुष उसके सग गए थे उन्हो ने कहा, उन लोगों पर चढने की शक्ति हम में नहीं है; क्योंकि वे हम से बलवान् हैं। ३२ और उन्हो ने इस्राएलियों के साम्हने उस देश की जिसका भेद उन्हो ने लिया था यह कहकर निन्दा भी की, कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है, जो अपने निवासियों को निगल जाता है; और जितने पुरुष हम ने उस में देखे वे सब के सब बड़े डील डील के हैं। ३३ फिर हम ने वहां नपीलो को, अर्थात् नपीली जातिवाले अनाकवशियों को देखा; और हम अपनी दृष्टि में तो उनके साम्हने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे।

१४ तब सारी मण्डली चिल्ला उठी; और रात भर वे लोग रोते ही रहे। २ और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे; और सारी मण्डली उन से कहने लगी, कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते! वा इस जगल ही में मर जाते! ३ और यहोवा हम को उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बालबच्चे तो लूट में चले जाएंगे; क्या हमारे लिये अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? ४ फिर वे आपस में कहने लगे, आओ, हम किसी को अपना प्रधान बना लें, और मिस्र को

* अर्थात् दाखों का गुच्छा।

लीट चलें। ५ तब मूसा और हाबून इस्राएलियों की सारी मण्डली के साम्हने मुह के बल गिरे। ६ और नून का पुत्र यहीशू और यपुत्रे का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेनेवालो मे से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर, ७ इस्राएलियों की सारी मण्डली ने कहने लगे, कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यन्त उत्तम देश है। ८ यदि यहोवा हम से प्रमन्न हो, तो हम को उस देश में, जिस में दूध और मधु की घाराए बहती हैं, पहुँचाकर उसे हम दे देगा। ९ केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो; और न तो उस देश के लोगो से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे; छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है; उन में न डरो। १० तब सारी मण्डली चिल्ला उठी, कि इनको पत्थरवाह करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ।

११ तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? १२ मैं उन्हें मरी से मारूंगा, और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और तुझ से एक जाति उपजाऊंगा जो उन से बड़ी और बलवन्त होगी। १३ मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगो को निकाल ले आया है यह सुनेगे, १४ और इस देश के निवासियों से कहेंगे। उन्होंने ने तो यह सुना है, कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है; और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खम्भे में, और रात

को अग्नि के खम्भे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। १५ इसलिये यदि तू इन लोगो को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी, १६ कि यहोवा उन लोगो को उस देश में जिसे उस ने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुँचा न सका, इस कारण उस ने उन्हें जगल में घात कर डाला है। १७ सो अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो, १८ कि यहोवा कोप करने में धीरजवन्त और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करनेवाला है, परन्तु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजो के अधर्म का दण्ड उनके बेटों, और पोतो, और परपोतो को देता है। १९ अब इन लोगो के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, और जैसे तू मिस्र से लेकर यहा तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। २० यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हू, २१ परन्तु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी; २२ उन सब लोगो ने जिन्हो ने मेरी महिमा मिस्र देश में और जगल में देखी, और मेरे किए हुए आश्चर्यकर्मों को देखने पर भी दस बार मेरी परीक्षा की, और मेरी बातें नहीं मानी, २३ इसलिये जिस देश के विषय मैं ने उनके पूर्वजो से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे; अर्थात् जितनो ने मेरा अपमान किया है उन में से कोई भी उसे देखने न पाएगा। २४ परन्तु इस कारण से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और उस ने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिस में वह हो आया है पहुँचाऊंगा, और

उसका वश उस देश का अधिकारी होगा । २५ अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, सो कल तुम घूमकर प्रस्थान करो, और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ ॥

२६ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २७ यह बुरी मण्डली मुझ पर बुड़बुडाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूँ ? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुडाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुडाना मैं ने तो सुना है । २८ सो उन से कह, कि यहोवा की यह वारणी है, कि मेरे जीवन की शपथ जो बाते तुम ने मेरे सुनते कही हैं, निःसन्देह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा । २९ तुम्हारी लोथे इसी जंगल में पड़ी रहेंगी; और तुम सब में से बीस वर्ष की वा उस से अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे, और मुझ पर बुड़बुडाते थे, ३० उन में से यपुत्रे के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैं ने शपथ खाई * है कि तुम को उस में बसाऊंगा । ३१ परन्तु तुम्हारे बालबच्चे जिनके विषय तुम ने कहा है, कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा; और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुम ने तुच्छ जाना है । ३२ परन्तु तुम लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी । ३३ और जब तक तुम्हारी लोथें जंगल में न गल जाएं तब तक, अर्थात् चालीस वर्ष तक, तुम्हारे बालबच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे । ३४ जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात् चालीस दिन,

उनकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे एक वर्ष, अर्थात् चालीस वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दण्ड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है । ३५ मैं यहोवा यह कह चुका हूँ, कि इस बुरी मण्डली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे; और निःसन्देह ऐसा ही करूंगा भी । ३६ तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिये भेजा था, और उन्होंने ने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मण्डली को कुडकुडाने के लिये उभारा था, ३७ उस देश की वे नामधराई करनेवाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके साम्हने मर गये । ३८ परन्तु देश के भेद लेनेवाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालिब दोनो जीवित रहे । ३९ तब मूसा ने ये बाते सब इस्राएलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे । ४० और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे, कि हम ने पाप किया है; परन्तु अब तैयार है, और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था । ४१ तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो ? यह सुफल न होगा । ४२ यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे । ४३ वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे; तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिये वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा । ४४ परन्तु वे छिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परन्तु यहोवा की वाचा का सन्दूक, और मूसा, छावनी से न हटे । ४५ तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन

* मूल में—हाथ उठाया ।

पर चढ़ आए, और होर्मा तक उनको मारते चले आए ।।

(**अन्नबलियों और बच्चों की विधि**)

१५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्त्राएलियों से कह, कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुँचो, जो मैं तुम्हें देता हूँ, ३ और यहोवा के लिये क्या होमबलि, क्या मेलबलि, कोई हव्य चढ़ावो, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो चाहे स्वेच्छाबलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय-बैल चाहे भेड़-बकरियों में का हो, जिस से यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो, ४ तब उस होमबलि वा मेलबलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिये चौथाई हिन तेल से सना हुआ एपा का दसवा अंश मैदा अन्नबलि करके चढ़ाना, ५ और चौथाई हिन दाखमधु अर्घ्य करके देना । ६ और मेढ़े पीछे तिहाई हिन तेल से सना हुआ एपा का दो दसवा अंश मैदा अन्नबलि करके चढ़ाना; ७ और उसका अर्घ्य यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला तिहाई हिन दाखमधु देना । ८ और जब तू यहोवा को होमबलि वा किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिये बलि वा मेलबलि करके बछड़ा चढ़ाए, ९ तब बछड़े का चढ़ानेवाला उसके संग आध हिन तेल से सना हुआ एपा का तीन दसवा अंश मैदा अन्नबलि करके चढ़ाए । १० और उसका अर्घ्य आध हिन दाखमधु चढ़ाए, वह यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हव्य होगा । ११ एक एक बछड़े, वा मेढ़े, वा भेड़ के बच्चे, वा बकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ावा चढ़ाया जाए । १२ तुम्हारे बलिघरों की जितनी गिनती हो, उसी गिनती के अनुसार

एक एक के साथ ऐसा ही किया करना । १३ जितने देशी हों वे यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हव्य चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से किया करें । १४ और यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हो, वा तुम्हारी किसी पीढी में तुम्हारे बीच कोई रहनेवाला हो, और वह यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हव्य चढ़ाना चाहे, तो जिस प्रकार तुम करोगे उसी प्रकार वह भी करे । १५ मरडली के लिये, अर्थात् तुम्हारे और तुम्हारे संग रहनेवाले परदेशी दोनों के लिये एक ही विधि हो; तुम्हारी पीढी पीढी में यह सदा की विधि ठहरे, कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहोवा के लिये ठहरता है । १६ तुम्हारे और तुम्हारे संग रहनेवाले परदेशियों के लिये एक ही व्यवस्था और एक ही नियम है ।।

१७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १८ इस्त्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, कि जब तुम उस देश में पहुँचो जहाँ मैं तुम को लिये जाता हूँ, १९ और उस देश की उपज का अन्न खाओ, तब यहोवा के लिये उठाई हुई भेंट चढ़ाया करो । २० अपने पहिले गूधे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई भेंट करके यहोवा के लिये चढ़ाना; जैसे तुम खलिहान में से उठाई हुई भेंट चढ़ाओगे वैसे ही उसको भी उठाया करना । २१ अपनी पीढी पीढी में अपने पहिले गूधे हुए आटे में से यहोवा को उठाई हुई भेंट दिया करना ।।

(**अन्नदाने और आम वृक्ष के लिए ऊपर पाषाण का भेंट**)

२२ फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो, २३ अर्थात्

जिस दिन से यहोवा आज्ञा देने लगा, और आगे की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में उस दिन से उस ने जितनी आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी है, २४ उस में यदि भूल से किया हुआ पाप मण्डली के बिना जाने हुआ हो, तो सारी मण्डली यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने-वाला होमबलि करके एक बछड़ा, और उसके सग नियम के अनुसार उसका अन्नबलि और अर्घ चढाए, और पापबलि करके एक बकरा चढाए। २५ तब याजक इस्राएलियों की सारी मण्डली के लिये प्रायश्चित्त करे, और उनकी क्षमा की जाएगी; क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ, और उन्होंने अपनी भूल के लिये अपना चढावा, अर्थात् यहोवा के लिये हव्य और अपना पापबलि उसके साम्हने चढाया। २६ सो इस्राएलियों की सारी मण्डली का, और उसके बीच रहनेवाले परदेशी का भी, वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों के अनजान में हुआ। २७ फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे, तो वह एक वर्ष की एक बकरी पापबलि करके चढाए। २८ और याजक भूल से पाप करनेवाले प्राणी के लिये यहोवा के साम्हने प्रायश्चित्त करे; सो इस प्रायश्चित्त के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। २९ जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इस्राएलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सब के लिये तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। ३० परन्तु क्या देशी क्या परदेशी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, वह यहोवा का अनादर करनेवाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। ३१ वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है, और उसकी आज्ञा का टालने-वाला है, इसलिये वह प्राणी निश्चय नाश

किया जाए; उसका अघर्म उसी के सिर पड़ेगा ॥

३२ जब इस्राएली जगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। ३३ और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, वे उसको मूसा और हारून, और सारी मण्डली के पास ले गए। ३४ उन्होंने ने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिये वह प्रकट नहीं किया गया था। ३५ तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए; सारी मण्डली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थरवाह करे। ३६ सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मण्डली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया, और वह मर गया ॥

३७ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ३८ इस्राएलियों से कह, कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना; ३९ और वह तुम्हारे लिये ऐसी झालर ठहरे, जिस से जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुम को स्मरण आ जाए; और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो। ४० परन्तु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो, और अपने परमेश्वर के लिये पवित्र बनो। ४१ मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरे; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू ॥

(कोरह दातान और अबीराम का मन्नाया
उखा बलवा)

१६ कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता, और यिसहार का पुत्र था, वह एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम, और पेलेत के पुत्र ओन, २ इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मरडली के अढाई सौ प्रधान, जो सभासद और नामी थे, उनको सग लिया; ३ और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए, और उन से कहने लगे, तुम ने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मरडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिये तुम यहोवा की मरडली में ऊंचे पदवाले क्यों बन बैठे हो? ४ यह सुनकर मूसा अपने मुह के बल गिरा; ५ फिर उस ने कोरह और उसकी सारी मरडली से कहा, कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है, और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा; जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। ६ इसलिये, हे कोरह, तुम अपनी सारी मरडली समेत यह करो, अर्थात् अपना अपना धूपदान ठीक करो; ७ और कल उन में आग रखकर यहोवा के साम्हने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बाते करते हो, अब बस करो। ८ फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों, सुनो, ९ क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है, कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुम को इस्राएल की मरडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने, और मरडली के साम्हने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिये अपने समीप बुला लिया है; १० और तुम्हें

और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है? फिर भी तुम याजक पद के भी खोजो हो? ११ और इसी कारण तू ने अपनी सारी मरडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है; हारून कौन है कि तुम उस पर बुडबुडाते हो? १२ फिर मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा; और उन्हो ने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। १३ क्या यह एक छोटी बात है, कि तू हम को ऐसे देश से जिस में दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं इसलिये निकाल लाया है, कि हमें जगल में मार डाले, फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? १४ फिर तू हमें ऐसे देश में जहा दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं नहीं पहुँचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आखों में धूल * डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। १५ तब मूसा का कोप बहुत भडक उठा, और उस ने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेट की ओर दृष्टि न कर। मे ने तो उन से एक गदहा नहीं लिया, और न उन में से किसी की हानि की है। १६ तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मरडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के साम्हने हाजिर होना; १७ और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उन में धूप देना, फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत अढाई सौ होंगे यहोवा के साम्हने ले जाना; विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। १८ सो उन्हो ने अपना अपना धूपदान लेकर और उन में आग रखकर उन पर धूप डाला; और मूसा

* मल में—आखें फोड़।

और हारून के साथ मिलापवाले तम्बू के द्वार पर खड़े हुए। १६ और कोरह ने सारी मण्डली को उनके विरुद्ध मिलापवाले तम्बू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मण्डली को दिखाई दिया ॥

२० तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २१ उस मण्डली के बीच में से अलग हो जाओ। कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूँ। २२ तब वे मुह के बल गिरके कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मण्डली पर होगा? २३ यहोवा ने मूसा से कहा, २४ मण्डली के लोगों से कह, कि कोरह, दाबान, और अबीराम के तम्बुओं के आसपास से हट जाओ। २५ तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया; और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। २६ और उस ने मण्डली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ, और उनकी कोई वस्तु न छूओ, कही ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फसकर मिट जाओ। २७ यह सुन वे कोरह, दातान, और अबीराम के तम्बुओं के आसपास से हट गए; परन्तु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों, और बालबच्चों समेत अपने अपने डेरों के द्वार पर खड़े हुए। २८ तब मूसा ने कहा, इस से तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूँ, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। २९ यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो, और उनका दण्ड सब मनुष्यों के समान हो, तब जाओ

कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। ३० परन्तु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे, * और पृथ्वी अपना मुँह पसारकर उनको, और उनका सब कुछ निगल जाए, और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। ३१ वह ये सब बातें कह ही चुका था, कि भूमि उन लोगों के पाव के नीचे फट गई; ३२ और पृथ्वी ने अपना मुँह खोल दिया और उनका, और उनका घरद्वार का सामान, और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी सम्पत्ति को भी निगल लिया। ३३ और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढाप लिया, और वे मण्डली के बीच में से नष्ट हो गए। ३४ और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे, कि कही पृथ्वी हम को भी निगल न ले! ३५ तब यहोवा के पास से आग निकली, और उन भढ़ाई सौ धूप चढ़ानेवालों को भस्म कर डाला ॥

३६ तब यहोवा ने मूसा से कहा, ३७ हारून याजक के पुत्र एलीआज़ार से कह, कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले; और आग के अगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। ३८ जिन्होंने ने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्तर पीट पीटकर बनाए जाए जिस से कि वह वेदी के मढ़ने के काम आवे; क्योंकि उन्होंने यहोवा के साम्हने रखा था; इस से वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिये एक निशान ठहरेगा।

* मूल में—यहोवा सृष्टि सिरजे।

३६ सो एलीआज़र याज़क ने उन पीतल के धूपदानों को, जिन में उन जने हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्तर पीटकर वेदी के मढ़ने के लिये बनवा दिए, ४० कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे, कि कोई दूसरा, जो हारून के वंश का न हो, यहोवा के साम्हने धूप चढ़ाने को समीप न जाए, ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मण्डली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी ॥

४१ दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मण्डली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी, कि यहोवा की प्रजा को तुम ने मार डाला है। ४२ और जब मण्डली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्हो ने मिलापवाले तम्बू की ओर दृष्टि की; और देखा, कि बादल ने उसे छा लिया है, और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। ४३ तब मूसा और हारून मिलापवाले तम्बू के साम्हने आए, ४४ तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ४५ तुम उस मण्डली के लोगों के बीच से हट जाओ, कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूँ। तब वे मुह के बल गिरे। ४६ और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उस में वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मण्डली के पास फुरती से जाकर उसके लिये प्रायश्चित्त कर; क्योंकि यहोवा का कोप अत्यन्त भड़का है,* और मरी फीलने लगी है। ४७ मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मण्डली के बीच में दौड़ा गया; और यह देखकर कि लोगों में मरी फीलने लगी है, उस ने धूप

* मूल में—यहोवा के सम्मुख से क्रोध निकला है।

जलाकर लोगों के लिये प्रायश्चित्त किया। ४८ और वह मुँहों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ; तब मरी थम गई। ४९ और जो कोरह के सङ्ग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे चौदह हजार सात सौ थे। ५० तब हारून मिलापवाले तम्बू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया, और मरी थम गई ॥

(बाबकों और लेवियों को भयादा और कर्मब कर्म)

१७ तब यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार, उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले; और उन बारह छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, ३ और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख। क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। ४ और उन छड़ियों को मिलापवाले तम्बू में साक्षीपत्र के आगे, जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। ५ और जिस पुरुष को मैं चुनूँगा उसकी छड़ी में कलिया फूट निकलेंगी; और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूँगा। ६ सो मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही; और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिये, अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार, एक एक छड़ी उसे दी, सो बारह छड़ियाँ हुईं; और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। ७ उन छड़ियों को मूसा ने साक्षीपत्र के तम्बू में यहोवा के साम्हने रख दिया। ८ दूसरे दिन मूसा साक्षीपत्र के तम्बू में गया; तो क्या देखा, कि हारून की छड़ी जो लेवी के

घराने के लिये थी उस में कलिया फूट निकली, अर्थात् उस में कलिया लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हैं। ६ सो मूसा उन सब छडियों को यहोवा के साम्हने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया; और उन्हो ने अपनी अपनी छड़ी पहिचानकर ले ली। १० फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाऊन की छड़ी को साक्षीपत्र के साम्हने फिर धर दे, कि यह उन दगा करनेवालो के लिये एक निशान बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुडाना जो भेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए। ११ और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया ॥

१२ तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकला चाहते हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। १३ जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है। तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे ॥

१८ फिर यहोवा ने हाऊन से कहा, कि पवित्रस्थान के अधर्म का भार तुम्ह पर, और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा; और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। २ और लेवी का गोत्र, अर्थात् तेरे मूलपुरुष के गोत्रवाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुम्ह से मिल जाए, और तेरी सेवा टहल किया करें, परन्तु साक्षीपत्र के तम्बू के साम्हने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। ३ जो तुम्हें सौंपा गया है उसकी और सारे तम्बू की भी वे रक्षा किया करे; परन्तु पवित्रस्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आएँ, ऐसा न हो कि

वे और तुम लोग भी मर जाओ। ४ सो वे तुम्ह से मिल जाए, और मिलापवाले तम्बू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे; परन्तु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। ५ और पवित्रस्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिस से इस्राएलियों पर फिर कोप न भड़के। ६ परन्तु मैं ने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलापवाले तम्बू की सेवा करने के लिये तुम को और यहोवा को सौंप दिये गए हैं। ७ पर वेदी की और बीचवाले पदों के भीतर की बातों की सेवकाई के लिये तू और तेरे पुत्र अपने याजकपद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना; क्योंकि मैं तुम्हें याजकपद की सेवकाई दान करता हू; और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए ॥

८ फिर यहोवा ने हाऊन से कहा, सुन, मैं आप तुम्ह को उठाई हुई भेटे सौंप देता हू, अर्थात् इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं; जितनी हों उन्हें मैं तेरा अभिषेकवाला भाग ठहराकर तुम्हें और तेरे पुत्रों को सदा का हक्क करके दे देता हू। ९ जो परमपवित्र वस्तुएं प्राग में दोष न की जायेंगी वे तेरी ही ठहरें, अर्थात् इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्नबलि, सब पापबलि, और सब दोषबलि, जो वे मूम्ह को दे, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिये परमपवित्र ठहरें। १० उनको परमपवित्र वस्तु जानकर खाया करना; उनको हर एक पुरुष खा सकता है; वे तेरे लिये पवित्र हैं। ११ फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें, अर्थात् जितनी भेंटें इस्राएली हिलाने के लिये दें, उनको मैं तुम्हें और तेरे बेटे-बेटियों को सदा

का हक करके दे देता हूँ; तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वह उन्हें खा सकेंगे। १२ फिर उत्तम मे उत्तम ताजा तेल, और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु, और गेहूँ, अर्थात् इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दें, वह मैं तुम्हें देता हूँ। १३ उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज, जो वे यहोवा के लिये ले आएँ, वह तेरी ही ठहरे; तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। १४ इस्त्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। १५ सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी मां के पहिलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिये चढाएँ, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहिलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरे, परन्तु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहिलौठों को दाम लेकर छोड़ देना। १६ और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हों तब उनके लिये अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात् पवित्रस्थान के बीस गेरा के शेकेल के हिसाब से पाच शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। १७ पर गाय, वा भेड़ी, वा बकरी के पहिलौठे को न छोड़ना; वे तो पवित्र हैं। उनके लोह को वेदी पर छिड़क देना, और उनकी चरबी को हव्य करके जलाना, जिस से यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो; १८ परन्तु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती, और दहिनी जांघ भी तेरा ही ठहरे। १९ पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्त्राएली यहोवा को दें, उन सभी को मैं तुम्हें और तेरे बेटे-बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ: यह तो तेरे और तेरे वंश के लिये यहोवा की * सदा के लिये नमक की अटल वाचा है। २० फिर यहोवा ने हारून

* मूल में—के साम्हने।

से कहा, इस्त्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा; उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ ॥

२१ फिर मिलापवाले तम्बू की जो सेवा लेबी करते हैं उसके बदले मैं उनको इस्त्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूँ। २२ और भविष्य में इस्त्राएली मिलापवाले तम्बू के समीप न आएँ, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे, और वे मर जाएँ। २३ परन्तु लेबी मिलापवाले तम्बू की सेवा किया करे, और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे; यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे; और इस्त्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा। २४ क्योंकि इस्त्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेबियों को निज भाग करके देता हूँ, इसीलिये मैं ने उनके विषय में कहा है, कि इस्त्राएलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले ॥

२५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २६ तू लेबियों से कह, कि जब जब तुम इस्त्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुम को तुम्हारा निज भाग करके उन से दिलाता है, तब तब उस में से यहोवा के लिये एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। २७ और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिये एसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न, वा रसकुण्ड में का दाखरस गिना जाता है। २८ इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से, जो इस्त्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना; और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। २९ जितने दान तुम पाओगे उन में से हर एक का उत्तम से

उत्तम भाग, जो पवित्र ठहरा है, सो उसे यहोवा के लिये उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। ३० इसलिये तू लेवियों से कह, कि जब तुम उस में का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिये खलिहान में के अन्न, और रसकुण्ड के रस के तुल्य गिना जाएगा; ३१ और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलापवाले तम्बू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है। ३२ और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुम को पाप न लगेगा। परन्तु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ।।

(छोष आदि को स्वर्णजन्य अशुद्धता के निवारण का उपाय)

१९ फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २ व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, कि तू इस्राएलियों से कह, कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिस में कोई भी दोष न हो, और जिस पर जूआ कभी न रखा गया हो। ३ तब उसे एलीआजर याजक को दो, और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, और कोई उसको उसके साम्हने बलिदान करे; ४ तब एलीआजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लोह लेकर मिलापवाले तम्बू के साम्हने की ओर सात बार छिड़क दे। ५ तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लोह, और गोबर समेत उसके साम्हने जलाए; ६ और याजक देबदारु की लकड़ी, जूफा, और लाल रङ्ग का कपड़ा लेकर उस भाग में जिस में बछिया जन्ती हो डाल दे। ७ तब वह अपने वस्त्र

धोए और स्नान करे, इसके बाद छावनी में तो आए, परन्तु सांभ तक अशुद्ध रहे। ८ और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, और सांभ तक अशुद्ध रहे। ९ फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोरकर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े; और वह राख इस्राएलियों की मरइली के लिये अशुद्धता से छुड़ानेवाले जल के लिये रखी रहे; वह तो पापबलि है। १० और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए, और सांभ तक अशुद्ध रहे। और यह इस्राएलियों के लिये, और उनके बीच रहनेवाले परदेशियों के लिये भी सदा की विधि ठहरे। ११ जो किसी मनुष्य की लोथ छूए वह सात दिन तक अशुद्ध रहे; १२ ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे, और सातवें दिन शुद्ध ठहरे; परन्तु यदि वह तीसरे दिन आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे, तो सातवें दिन शुद्ध न ठहरेगा। १३ जो कोई किसी मनुष्य की लोथ छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वह यहोवा के निवासस्थान का अशुद्ध करनेवाला ठहरेगा, और वह प्राणी इस्राएल में से नाश किया जाए; अशुद्धता से छुड़ानेवाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उस में बनी रहेगी। १४ यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है, कि जितने उस डेरे में रहे, वा उस में जाए, वे सब सात दिन तक अशुद्ध रहे। १५ और हर एक खुला हुआ पात्र, जिस पर कोई ढकना लगा न हो, वह अशुद्ध ठहरे। १६ और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को, वा अपनी मृत्यु से मरे हुए को, वा मनुष्य की हड्डी को,

वा किसी कब्र को छूए, तो सात दिन तक अशुद्ध रहे। १७ अशुद्ध मनुष्य के लिये जलाए हुए पापबलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए; १८ तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उम डेरें पर, और जितने पात्र और मनुष्य उस में हों, उन पर छिड़के, और हड्डी के, वा मारे हुए के, वा अपनी मृत्यु से मरे हुए के, वा कब्र के छूनेवाले पर छिड़क दे; १९ वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और सातवें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के; और सातवें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे, तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके साभ्र को शुद्ध ठहरे। २० और जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए, वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करनेवाला ठहरेगा, इस कारण वह मरडली के बीच में से नाश किया जाए; अशुद्धता से छुड़ानेवाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा। २१ और यह उनके लिये सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ानेवाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए; और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ानेवाला जल छू जाए वह भी साभ्र तक अशुद्ध रहे। २२ और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छूए वह भी अशुद्ध ठहरे; और जो प्राणी उस वस्तु को छूए वह भी साभ्र तक अशुद्ध रहे।।

(बूछा और दाखन का पाप और चच पाप का दण्ड)

२० पहिले महीने में सारी इस्त्राएली मरडली के लोग सीनै नाम जंगल में आ गए, और कादेश में रहने लगे; और

वहां मरियम मर गई, और वही उसको मिट्टी दी गई। २ वहां मरडली के लोगों के लिये पानी न मिला; सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। ३ और लोग यह कहकर मूसा से भगडने लगे, कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के साम्हने मर गए! ४ और तुम यहोवा की मरडली को इस जगल में क्यों ले आए हो, कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाए? ५ और तुम ने हम को मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहां तो बीज, वा अजीर, वा दाखलता, वा अनार, कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। ६ तब मूसा और हारून मरडली के साम्हने से मिलापवाले तम्बू के द्वार पर जाकर अपने मुह के बल गिरे। और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। ७ तब यहोवा ने मूसासे कहा, ८ उस लाठी को ले, और तू अपने भाई हारून समेत मरडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी; इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिये जल निकाल कर मरडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। ९ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके साम्हने से लाठी को ले लिया। १० और मूसा और हारून ने मरडली को उस चट्टान के साम्हने इकट्ठा किया, तब मूसा ने उस से कहा, हे दंगा करनेवालो, सुनो; क्या हम को इस चट्टान में से तुम्हारे लिये जल निकालना होगा? ११ तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार मारी; और उस में से बहुत पानी फूट निकला, और मरडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। १२ परन्तु मूसा और

हारून से यहोवा ने कहा, तुम ने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, और मुझे इस्त्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिये तुम इस मरडली को उस देश में पहुचाने न पाओगे जिसे मैं ने उन्हें दिया है। १३ उस सोते का नाम मरीबा पडा, क्योंकि इस्त्राएलियो ने यहोवा से भगडा किया था, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया ॥

(एदोमियों का इस्त्राएलियों को अपने पास छोडकर चलने से बरजना)

१४ फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, कि तेरा भाई इस्त्राएल यो कहता है, कि हम पर जो जो क्लेश पडे है वह तू जानता होगा; १५ अर्थात् यह कि हमारे पुरखा मिस्र मे गए थे, और हम मिस्र में बहुत दिन रहे; और मिस्रियो ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया; १६ परन्तु जब हम ने यहोवा की बोहाई दी तब उस ने हमारी सुनी, और एक दूत को भेजकर हमे मिस्र से निकाल ले आया है; सो अब हम कादेश नगर में है जो तेरे सिवाने ही पर है। १७ सो हमे अपने देश मे से होकर जाने दे। हम किसी खेत वा दाख की बारी से होकर न चलेगे, और कूयों का पानी न पीएंगे; सडक-सडक होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए, तब तक न दहिने न बाए मुड़ेगे। १८ परन्तु एदोमियो ने उसके पास कहला भेजा, कि तू मेरे देश मे से होकर मत जा, नही तो मैं तलवार लिये हुए तेरा साम्हना करने को निकलूंगा। १९ इस्त्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, कि हम सडक ही सडक च्रोंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरा

पानी पीए, तो उसका दाम देंगे, हम को और कुछ नही, केवल पाव पांव चलकर निकल जान दे। २० परन्तु उस ने कहा, तू आने न पाएगा। और एदोम बडी सेना लेकर भुजबल से उसका साम्हना करने को निकल आया। २१ इस प्रकार एदोम ने इस्त्राएल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इन्कार किया; इसलिये इस्त्राएल उसकी ओर से मुड गए ॥

(हाऊन को मृत्यु)

२२ तब इस्त्राएलियो की सारी मरडली कादेश से कूच करके होर नाम पहाड के पास आ गई। २३ और एदोम देश के सिवाने पर होर पहाड में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, २४ हारून अपने लोगों मे जा मिलेगा; क्योंकि तुम दोनो ने जो मरीबा नाम सोते पर मेरा कहना छोडकर मुझ से बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैं ने इस्त्राएलियो को दिया है। २५ सो तू हारून और उसके पुत्र एलीआजर को होर पहाड पर ले चल; २६ और हारून के वस्त्र उतारके उसके पुत्र एलीआजर को पहिना; तब हारून वही मरकर अपने लोगो में जा मिलेगा। २७ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया: और वे सारी मरडली के देखते होर पहाड पर चढ गए। २८ तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतारके उसके पुत्र एलीआजर को पहिनाए और हारून वही पहाड की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलीआजर पहाड पर से उतर आए। २९ और जब इस्त्राएल की सारी मरडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्त्राएल के सब घराने के लोग उसके लिये तीस दिन तक रोते रहे ॥

(कनानी राजा पर वश)

२१ तब अराद का कनानी राजा, जो दक्खिन देश में रहता था, यह सुनकर, कि जिस मार्ग से वे भेदिये आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा, और उन में से कितनों को बन्धुआ कर लिया। २ तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे, तो हम उनके नगरों को मत्यानाश कर देगे। ३ इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया; सो उन्हो ने उनके नगरो समेत उनको भी सत्यानाश किया; इस से उस स्थान का नाम होर्मा * रखा गया ॥

(चीनख का वना उच्छा सर्ष)

४ फिर उन्हो ने होर पहाड से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए; और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। ५ सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, और मूसा से कहा, तुम लोग हम को मिस्र से जंगल में मरने के लिये क्यों ले आए हो? यहा न तो रोटी है, और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। ६ सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विषवाले † साप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। ७ तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हम ने पाप किया है, कि हम ने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं; यहोवा से प्रार्थना कर, कि वह सापो को हम से दूर करे। तब मूसा ने उनके लिये

प्रार्थना की। ८ यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषवाले* साप को प्रतिभा बनवाकर खम्भे पर लटका; तब जो साप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। ९ सो मूसा ने पीतल का एक साप बनवाकर खम्भे पर लटकाया; तब सांप के डसे हुआओं में से जिस जिस ने उस पीतल के साप की और देखा वह जीवित बच गया। १० फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले। ११ और ओबोत से कूच करके अबारीम नाम डीहो में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के साम्हने के जंगल में है। १२ वहां से कूच करके उन्हो ने जेरेद नाम नाले में डेरे डाले। १३ वहा से कूच करके उन्हो ने अर्नोन नदी, जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी परली ओर डेरे खडे किए; क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश का सिवाना ठहरा है। १४ इस कारण यहोवा के संग्राम नाम पुस्तक में इस प्रकार लिखा है,

कि सूपा में बाहेब,
और अर्नोन के नाले,

१५ और उन नालो की डलान
जो अरार नाम नगर की ओर है,
और जो मोआब के सिवाने पर
है †।

१६ फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए; वहा वही कूआ है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, कि उन लोगों को इकट्ठा कर, और मैं उन्हे पानी दूंगा ॥

* अर्थात् सत्यानाश।

† मूल में—जलते हुए।

* मूल में—जलते हुए।

† मूल में—उठंगी है।

१७ उस समय इस्लाम ने यह गीत गाया, कि

हे कूए, उबल-आ, उस कूए के विषय में गाओ !

१८ जिसको हाकिमों ने खोदा, और इस्लाम के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया ॥

१९ फिर वे जंगल से मत्ताना को, और मत्ताना से नहलीएल को, और नहलीएल से बामोत को, २० और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यसीमोन की ओर भुका है पहुंच गए ॥

(सीहोन और ओज नाम राजाओं का पराजय और उनका देश इस्त्राएलियों के बश में आना)

२१ तब इस्लाम ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, २२ कि हमें अपने देश में होकर जाने दे; हम मुड़कर किसी खेत वा दाख की बारी में तो न जाएंगे; न किसी कूए का पानी पीएंगे; और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। २३ तौभी सीहोन ने इस्लाम को अपने देश से होकर जाने न दिया; वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्लाम का साम्हना करने को जंगल में निकल आया, और यहस को आकर उन से लड़ा। २४ तब इस्लामियों ने उसको तलवार से मार लिया, और अर्नोन से यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना था, उसके देश के अधिकारी हो गए; अम्मोनियों का सिवाना तो दूढ़ था। २५ सो इस्लाम ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया, और उन में, अर्थात् हेसबोन और उसके आठ आठ के नगरों में रहने-

लगे। २६ हेसबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था; उस ने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। २७ इस कारण गूढ़ बात के कहनेवाले कहते हैं, कि

हेसबोन में आओ,
सीहोन का नगर बसे, और दूढ़ किया जाए।

२८ क्योंकि हेसबोन से आग, अर्थात् सीहोन के नगर से लौ निकली; जिस से मोआब देश का आर नगर, और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए।

२९ हे मोआब, तुझ पर हाय !
कमोश देवता की प्रजा नाश हुई,
उस ने अपने बेटों को भगेड़,
और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया।

३० हम ने उन्हें गिरा दिया है, हेसबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है,
और हम ने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है ॥

३१ सो इस्लाम एमोरियों के देश में रहने लगा। ३२ तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा; और उन्होंने उनसे गांवों को ले लिया, और वहा के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। ३३ तब वे मुड़के बाशान के मार्ग से जाने लगे; और बाशान के राजा ओग ने उनका साम्हना किया, अर्थात् लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। ३४ तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस से मत डर; क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूं; और जैसा तू ने

एमोरियों के राजा हेगबोनवासी सीहोन के साथ किया है, वंसा ही उसके साथ भी करना। ३५ तब उन्हो ने उसको, और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहा तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए।

२२ तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अरबा में डेरे खड़े किए ॥

(बिलाम का चरित्र)

२ और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है। ३ इसलिये मोआब यह जानकर, कि इस्राएली बहुत है, उन लोगों से अत्यन्त डर गया; यहा तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यन्त व्याकुल हुआ। ४ तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारो ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था; ५ और इस ने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जातिभाइयों की भूमि थी, वहा बिलाम के पास दूत भेजे, कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, कि सुन एक दल मिस्र से निकल आया है, और भूमि उन से ढक गई है, और अब वे मेरे साम्हने ही आकर बस गए हैं। ६ इसलिये आ, और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझ से अधिक बलवन्त हैं; तब सम्भव है कि हम उन पर जयवन्त हों, और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें; क्योंकि यह तो मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप

देता है वह स्रापित होता है। ७ तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले, और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बाते कह सुनाई। ८ उस ने उन से कहा, आज रात को यहां टिको, और जो बात यहोवा मुझ से कहेगा, उसी के अनुसार मैं तुम को उत्तर दूंगा; तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहा ठहर गए। ९ तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, कि तेरे यहा ये पुरुष कौन हैं? १० बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, ११ कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उस से भूमि ढप गई है, इसलिये आकर मेरे लिये उन्हें शाप दे; सम्भव है कि मैं उनसे लडकर उनको बरबस निकाल सकूंगा। १२ परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके सग मत जा; उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। १३ और को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ; क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। १४ तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, कि बिलाम ने हमारे साथ आने से नाह किया है। १५ इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहिलो से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। १६ उन्हो ने बिलाम के पास आकर कहा, कि सिप्पोर का पुत्र बालाक यों कहता है, कि मेरे पास आने से किसी कारण नाह न कर; १७ क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझ से कहे वही मैं करूंगा; इसलिये आ, और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। १८ बिलाम ने बालाक के

कर्मचारियों को उत्तर दिया, कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तीभी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता, कि उसे घटाकर वा बढ़ाकर मानूँ। १६ इसलिये अब तुम लोग आज रात को यही टिक रहो, ताकि मैं जान लूँ, कि यहोवा मुझ से और क्या कहता है। २० और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुम्हें बुलाने आए हैं, तो तू उठकर उनके संग जा; परन्तु जो बात मैं तुम्हें से कहूँ उसी के अनुसार करना। २१ तब बिलाम भोर को उठा, और अपनी गदही पर काठी बान्धकर, मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। २२ और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप षडक उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिये मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके दो सेवक भी थे। २३ और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नगी तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा; तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई, तब बिलाम ने गदही को मारा, कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। २४ तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। २५ यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई, कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया; तब उस ने उसको फिर मारा। २६ तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकेत स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। २७ वहां यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिये दिग्गै बैठ गई; फिर तो बिलाम का कोप

भड़क उठा, और उस ने गदही को लाठी से मारा। २८ तब यहोवा ने गदही का मुह खोल दिया, और वह बिलाम से कहने लगी, मैं ने तेरा क्या किया है, कि तू ने मुझे तीन बार मारा? २९ बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तू ने मुझ से नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। ३० गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिम पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुम्हें से कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। ३१ तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नगी तलवार लिये हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा; तब वह झुक गया, और मुंह के बल गिरके दरडवत की। ३२ यहोवा के दूत ने उम से कहा, तू ने अपनी गदही को तीन बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिये कि तू मेरे साम्हने उलटी चाल चलता है; ३३ और यह गदही मुझे देखकर मेरे साम्हने से तीन बार हट गई। जो वह मेरे साम्हने से हट न जाती, तो निःसन्देह मैं अब तक तुम्हें तो मार ही डालता, परन्तु उसको जीवित छोड़ देता। ३४ तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैं ने पाप किया है; मैं नहीं जानता था कि तू मेरा साम्हना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिये अब यदि तुम्हें बुरा लगता है, तो मैं लौट जाता हूँ। ३५ यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा; परन्तु केवल वही बात कहता जो मैं तुम्हें से कहूंगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। ३६ यह सुनकर, कि बिलाम आ रहा है, बालाक उस से भेंट करने के लिये मोआब के उस नगर तक जो षष्ठ दिग्गै के

अर्नोन्वाले सिवाने पर है गया। ३७ बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैं ने बड़ी आशा से तुम्हें नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? ३८ बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूँ! परन्तु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुँह में डालेगा वही बात मैं कहूँगा। ३९ तब बिलाम बालाक के सग सग चला, और वे किर्यथूसीत तक आए। ४० और बालाक ने वेल और भेड़-बकरियों को बलि किया, और बिलाम और उमके साथ के हाकिमो के पास भेजा। ४१ बिहान को बालाक बिलाम को बालू के ऊँचे स्थानों पर चढ़ा ले गया; और वहाँ से उमको सब इस्त्राएली लोग दिखाई पड़े।

२३ तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिये सात वेदिया बनवा, और इसी स्थान पर सात बछड़े और सात मेढ़े तैयार कर। २ तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया, और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। ३ फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह, और मैं जाता हूँ, सम्भव है कि यहोवा मुझ से भेंट करने को आए; और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुम्हें को बताऊँगा। तब वह एक मुण्डे पहाड़ पर गया। ४ और परमेश्वर बिलाम से मिला; और बिलाम ने उस से कहा, मैं ने सात वेदिया तैयार की हैं, और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। ५ यहोवा ने बिलाम के मुँह में एक बात डाली, और कहा, बालाक

के पास लौट जा, और यो कहना। ६ और वह उसके पास लौटकर आ गया, और क्या देखता है, कि वह सारे मोआबी हाकिमो समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। ७ तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरम्भ की, और कहने लगा,

बालाक ने मुझे आराम से, अर्थात् मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा :

आ, मेरे लिये याकूब को शाप दे, आ, इस्त्राएल को धमकी दे !

८ परन्तु जिन्हें ईश्वर ने नहीं शाप दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूँ? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूँ?

९ चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ;

वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी,

और अन्यजातियों से अलग गिनी जाएगी !

१० याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है,

वा इस्त्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है ?

सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी,

और मेरा अन्त भी उन्हीं के समान हो !

११ तब बालाक ने बिलाम से कहा, तू ने मुझ से क्या किया है? मैं ने तुम्हें अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परन्तु तू ने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। १२ उस ने कहा, जो बात

यहोवा ने मुझे सिखलाई क्या मुझे उसी को साबधानी से बोलना न चाहिये ?

१३ बालाक ने उस से कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहा से वे तुझे दिखाई देगे; तू उन सभी को तो नहीं, केवल बाहरवालों को देख सकेगा, वहा से उन्हें मेरे लिये शाप दे। १४ तब वह उसको सोपीम नाम मैदान मे पिमगा के सिरे पर ले गया, और वहा सात वेदिया बनवाकर प्रत्येक पर एक बछडा और एक मेढा चढाया। १५ तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होमबलि के पास यही खडा रह, और मैं उधर जाकर यषोबा से भेंट करू। १६ और यहोवा ने बिलाम से भेंट की, और उस ने उसके मुह में एक बात डाली, और कहा, कि बालाक के पास लोट जा, और यो कहना। १७ और वह उसके पास गया, और क्या देखता है, कि वह मोआबी हाकिमो समेत अपने होमबलि के पास खडा है। और बालाक ने पूछा, कि यहोवा ने क्या कहा है ? १८ तब बिलाम ने अपनी गूढ बात आरम्भ की, और कहने लगा,
हे बालाक, मन लगाकर * सुन,
हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा :

१९ ईश्वर मनुष्य नहीं, कि भूठ बोले,
और न वह आदमी है, कि अपनी इच्छा बदले।

क्या जो कुछ उस ने कहा उसे न करे ?

क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे ?

२० देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मे ने पाई है :

वह आशीष दे चुका है, और मैं उसे नहीं पलट सकता।

२१ उस ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया; और न इस्राएल में अन्याय देखा है।

उसका परमेश्वर यहोवा उसके सम है,

और उन में राजा की सी ललकार होती है।

२२ उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिये आ रहा है, वह तो बनले सांड के समान बल रखता है।

२३ निश्चय कोई मन्त्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना काई अर्थ नहीं रखता;

परन्तु याकूब और इस्राएल के विषय अब यह कहा जाएगा, कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है !

२४ सुन, वहदल सिहनी की नाई उठेगा, और सिंह की नाई खडा होगा; वह जब तक अहेर को न खा ले, और मारे हुआ के लोहू को न पी ले,
तब तक न लेंटेगा ॥

२५ तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप देना, और न आशीष देना। २६ बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मे ने तुभ से नहीं कहा, कि जो कुछ यहोवा मुभ से कहेगा, वही मुभे करना पड़ेगा ? २७ बालाक ने बिलाम से कहा, चल, मैं तुभ को एक और स्थान पर ले चलता हू; सम्भव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहां से उन्हें मेरे लिये शाप दे।

* मूल में—उठकर।

२८ तब बालाक बिलाम को पीर के सिरे पर, जहा से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। २९ और बिलाम ने बालाक से कहा, यहां पर मेरे लिये सात वेदिया बनवा, और यहां सात बछड़े और सात मेढे तैयार कर। ३० बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढा चढाया ॥

२४ यह देखकर, कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहिले की नाई शकुन देखने को न गया, परन्तु अपना मुह जंगल की ओर कर लिया। २ और बिलाम ने आखें उठाई, और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। ३ तब उसने अपनी गूढ़ बात आरम्भ की, और कहने लगा, कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वारणी है,

जिस पुरुष की आखें बन्द थी उसी की यह वारणी है,

४ ईश्वर के वचनों का सुननेवाला, जो दगडवत मे पड़ा हुआ खुली हुई आखों से

सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वारणी है : कि

५ हे याकूब, तेरे डेरे, और हे इस्राएल, तेरे निवासस्थान क्या ही मनभावने है !

६ वे तो नालों वा घाटियों की नाई, और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष, और जल के निकट के देवदारु।

७ और उसके डोलों से जल उमरगडा करेगा, और उसका बीज बहुतेरे जलभरे चबौं मे पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा।

८ उसको मिस्र मे से ईश्वर ही निकाले लिये आ रहा है; वह तो बनैले साड के समान बल रखता है, जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वह खा जायेगा, और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और अपने तीरो से उनको बेधेगा।

९ वह दबका बैठा है, वह सिंह वा सिंहनी की नाई लेट गया है; अब उसको कौन छेड़े ? जो कोई तुम्हे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो कोई तुम्हे शाप दे वह स्थापित हो ॥

१० तब बालाक का कोप बिलाम पर भडक उठा; और उस ने हाथ पर हाथ पटककर बिलाम से कहा, मैं ने तुम्हे अपने शत्रुओं के शाप देने के लिये बुलवाया, परन्तु तू ने तीन बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। ११ इसलिये अब तू अपने स्थान पर भाग जा; मैं ने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परन्तु अब यहोवा ने तुम्हे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। १२ बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तू ने मेरे पास भेजे थे, क्या मैं ने उन से भी न कहा था, १३ कि चाहे बालाक अपने घर

को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तौभी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा, जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा ?
 १४ अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ; परन्तु पहिले मैं तुम्हें चिता देता हूँ कि अन्त के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। १५ फिर वह अपनी गूढ़ बात आरम्भ करके कहने लगा, कि

बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है,

जिस पुरुष की आंखें बन्द थी उसी की यह वाणी है,

१६ ईश्वर के बचनो का सुननेवाला, और परमप्रधान के ज्ञान का जाननेवाला, जो दरदवत में पडा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है,

उसी की यह वाणी है : कि

१७ मैं उसको देखूँगा तो सही, परन्तु अभी नहीं;
 मैं उसको निहाळूँगा तो सही, परन्तु समीप होके नहीं :
 याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से एक राज दरद उठेगा;
 जो मोआब की भलंगों को चूर कर देगा,
 और सब दंगा करनेवालों को गिरा देगा।

१८ तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं,
 दोनों उसके वश में पड़ेंगे,

और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा।

१९ और याकूब ही में से एक अधिपति आवेगा जो प्रभुता करेगा,
 और नगर में से बचे हुआ को भी सत्यानाश करेगा ॥

२० फिर उस ने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरम्भ की, और कहने लगा,
 अमालेक अन्यजातियों में श्रेष्ठ तो था,
 परन्तु उसका अन्त विनाश ही है ॥

२१ फिर उस ने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरम्भ की, और कहने लगा,
 तेरा निवासस्थान अति दृढ़ तो है,
 और नेग बसेरा चट्टान पर तो है;

२२ तौभी केन उजड़ जाएगा।
 और अन्त में अशूर तुम्हें बन्धुआई में ले जाएगा ॥

२३ फिर उस ने अपनी गूढ़ बात आरम्भ की, और कहने लगा,
 हाय जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा ?

२४ तौभी कित्तियों के पास से जहाज-वाले आकर अशूर को और एबेर को भी दुःख देंगे;
 और अन्त में उसका भी विनाश हो जाएगा ॥

२५ तब बिलाम चल दिया, और अपने स्थान पर लौट गया; और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया ॥

(रत्नाएलियों का वैश्यागमन और उसका दृष्य)

२५ इस्राएली शिन्तीम में रहते थे, और लोग मोआबी लड़कियों के सग कुकर्म करने लगे। २ और जब उन स्त्रीयो ने उन लोगो को अपने देवताओं के यज्ञो में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दण्डवत करने लगे। ३ यो इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भडक उठा; ४ और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानो को पकडकर यहोवा के लिये धूप में लटका दे, जिस से मेरा भडका हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। ५ तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो ॥

६ और जब इस्राएलियों की सारी मण्डली मिलापवाले तम्बू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इस्राएली पुरुष मूसा और सब लोगो की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पाम ले आया। ७ इसे देखकर एलीआज़र का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उस ने मण्डली में से उठकर हाथ में एक बरछी ली, ८ और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया, और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बरछी बेध दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह धम गई। ९ और मरी से चौबीस हजार मनुष्य मर गए ॥

१० तब यहोवा ने मूसा से कहा, ११ हारून याजक का पोता एलीआज़र का पुत्र पीनहाम, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उस ने मेरी जलजलाहट

को उन पर से यहां तक दूर किया है, कि मैं ने जलकर उनका अन्त नहीं कर डाला।

१२ इसलिये तू कह दे, कि मैं उस से शांति की वाचा बान्धता हू* ; १३ और वह उसके लिये, और उसके बाद उसके वश के लिये, सदा के याजकपद की वाचा होगी, क्योंकि उमे अपने परमेश्वर के लिये जलन उठी, और उस ने इस्राएलियों के लिये प्रायश्चित्त किया। १४ जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री के सग मारा गया, उसका नाम जिम्मी था, वह साल का पुत्र और शिमोनियो में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। १५ और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई उसका नाम कोजबी था, वह सूर की बेटी थी, जो मिद्यानी पितरो के एक घराने के लोगों का प्रधान था ॥

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १७ मिद्यानियों को सता, और उन्हें मार; १८ क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय वे तुम को छल करके सताते हैं। कोजबी तो एक मिद्यानी प्रधान की बेटी और मिद्यानियों की जाति बहिन थी, और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई ॥

(रत्नाएलियों की दूसरी बार गिनती किए जाने का वर्णन)

२६ फिर यहोवा ने मूसा और एलीआज़र नाम हारून याजक के पुत्र से कहा, २ इस्राएलियों की सारी मण्डली में जितने बीस वर्ष के, वा उस से अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरो के घरानों के अनुसार उन सभी की गिनती

* मूल में—मैं उसे अपनी शांतिवाली वाचा देता हूँ।

करो। ३ सो मूसा और एलीआब और याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उन से समझाके कहा, ४ बीस वर्ष के और उस से अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इस्त्राएलियो को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी ॥

५ रूबेन जो इस्त्राएल का जेठा था; उसके ये पुत्र थे; अर्थात् हनोक, जिस से हनोकियो का कुल चला; और पल्लू, जिस से पल्लूइयो का कुल चला; ६ हेखोन, जिस से हेखोनियो का कुल चला; और कर्मी, जिस से कर्मियो का कुल चला। ७ रूबेनवाले कुल ये ही थे; और इन में से जो गिने गए वे तैंतालीस हजार सात सौ तीस पुरुष थे। ८ और पल्लू का पुत्र एलीआब था। ९ और एलीआब के पुत्र नमूएल, दातान, और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे; और जिस समय कोरह की मरडली ने यहोवा से झगडा किया था, उस समय उस मरडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगडे थे; १० और जब उन अढाई सौ मनुष्यो के आग में भस्म हो जाने से वह मरडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया; और वे एक दृष्टान्त ठहरे। ११ परन्तु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे ॥

१२ शिमोन के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे ये थे; अर्थात् नमूएल, जिस से नमूएलियों का कुल चला; और यामीन, जिस से यामीनियों का कुल चला; और याकीन, जिस से याकीनियों का कुल चला; १३ और जेरह, जिस से जेरहियों का कुल चला; और शाऊल, जिस से शाऊलियों का कुल चला। १४ शिमोनवाले कुल ये ही

थे; इन में से बाईस हजार दो सौ पुरुष गिने गए ॥

१५ और गाद के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे ये थे; अर्थात् सपोन, जिस से सपोनियों का कुल चला; और हाग्गी, जिस से हाग्गियों का कुल चला; और शूनी, जिस से शूनियों का कुल चला; और ओजनी, जिस से ओजनियों का कुल चला; १६ और एरी, जिस से एरियों का कुल चला; और अरोद, जिस से अरोदियों का कुल चला; १७ और अरेली, जिस से अरेलियों का कुल चला। १८ गाद के वंश के कुल ये ही थे; इन में से साठे चालीस हजार पुरुष गिने गए ॥

१९ और यहूदा के एर और अनान नाम पुत्र तो हुए, परन्तु वे कनान देश में मर गए। २० और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे; अर्थात् शेला, जिस से शेलियों का कुल चला; और पेरेस, जिस से पेरेसियों का कुल चला, और जेगह, जिस से जेरहियों का कुल चला। २१ और पेरेस के पुत्र ये थे; अर्थात् हेखोन, जिस से हेखोनियों का कुल चला; और हामूल, जिस से हामूलियों का कुल चला। २२ यहूदियों के कुल ये ही थे; इन में से साठे छिहत्तर हजार पुरुष गिने गए ॥

२३ और इस्साकार के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे ये थे; अर्थात् तोला, जिस से तोलियों का कुल चला; और पुब्बा, जिस से पुब्बियों का कुल चला; २४ और याशूब, जिस से याशूबियों का कुल चला; और शिमोन, जिस से शिमोनियों का कुल चला। २५ इस्साकारियों के कुल ये ही थे; इन में से चौसठ हजार तीन सौ पुरुष गिने गए ॥

२६ और जबूलून के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे ये थे; अर्थात् सेरेद, जिस से

सेरेदियों का कुल चला; और एलोन, जिन से एलोनियों का कुल चला; और यहलेल, जिस से यहलेलियों का कुल चला। २७ जबूलनियों के कुल ये ही थे; इन में से साढ़े साठ हजार पुरुष गिने गए ॥

२८ और युसुफ के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। २९ मनश्शे के पुत्र ये थें; अर्थात् माकीर, जिस से माकीरियों का कुल चला; और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ; और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। ३० गिलाद के तो पुत्र ये थें; अर्थात् ईएजेर, जिस से ईएजेरियों का कुल चला; ३१ और हेलेक, जिस से हेलेकियों का कुल चला और अस्ली-एल, जिस से अस्लीएलियों का कुल चला; और शेकेम, जिस से शेकेमियों का कुल चला; और शमीदा, जिस से शमीदियों का कुल चला; ३२ और हेपेर, जिस से हेपेरियों का कुल चला। ३३ और हेपेर के पुत्र सलो-फाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुईं; इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होग्ला, मिल्का, और तिसा हैं। ३४ मनश्शेवाले कुल ये ही थे; और इन में से जो गिने गए वे बावन हजार सात सौ पुरुष थें ॥

३५ और एप्रैम के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे ये थें; अर्थात् शूतेलह, जिस से शूतेलहियों का कुल चला; और बेकेर, जिस से बेकेरियों का कुल चला; और तहन, जिस से तहनियों का कुल चला। ३६ और शूतेलह के यह पुत्र हुआ; अर्थात् एरान, जिस से एरानियों का कुल चला। ३७ एप्रैमियों के कुल ये ही थें; इन में से साढ़े बत्तीस हजार पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार युसुफ के बंश के लोग ये ही थें ॥

३८ और बिन्यामीन के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे ये थें; अर्थात् बेला

जिस से बेलियों का कुल चला; और अशबेल, जिस से अशबेलियों का कुल चला; और अहीराम, जिस से अहीरामियों का कुल चला; ३९ और शूपाम, जिस से शूपामियों का कुल चला; और हूपाम, जिस से हूपामियों का कुल चला। ४० और बेला के पुत्र अर्द और नामान थें; तथा अर्द से तो अर्दियों का कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। ४१ अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी ये ही थें; और इन में से जो गिने गए वे पैंतालीस हजार छः सौ पुरुष थें ॥

४२ और दान का पुत्र जिस से उनका कुल निकला यह था; अर्थात् शूहाम, जिस से शूहामियों का कुल चला। और दान का कुल यही था। ४३ और शूहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में चौसठ हजार चार सौ पुरुष थें ॥

४४ और आशेर के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे ये थें; अर्थात् यिम्ना, जिस से यिम्नियों का कुल चला; यिथ्री, जिस से यिथ्रियों का कुल चला, और बरीआ, जिस से बरीइयों का कुल चला। ४५ फिर बरीआ के ये पुत्र हुए; अर्थात् हेबेर, जिस से हेबेरियों का कुल चला; और मल्कीएल, जिस से मल्कीएलियों का कुल चला। ४६ और आशेर की बेटों का नाम सेरह है। ४७ आशेरियों के कुल ये ही थें; इन में से तिर्पन हजार चार सौ पुरुष गिने गए ॥

४८ और नप्ताली के पुत्र जिन से उनके कुल निकले वे ये थें; अर्थात् यहसेल, जिस से यहसेलियों का कुल चला; और गूनी, जिस से गूनियों का कुल चला; ४९ येसेर, जिस से येसेरियों का कुल चला; और शिल्लेम, जिस से शिल्लेमियों का कुल चला। ५० अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल

ये ही थे; और इन में से जो गिने गए वे पैंतालीस हजार चार सौ पुरुष थे ॥

५१ सब इस्राएलियों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे; अर्थात् छः लाख एक हजार सात सौ तीस पुरुष थे ॥

५२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ५३ इनको, इनकी गिनती के अनुसार, वह भूमि इनका भाग होने के लिये बांट दी जाए। ५४ अर्थात् जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिस में कम हों उनको कम भाग देना; प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। ५५ तीसरी देश चिट्टी डालकर बांटा जाए; एषाखियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम, जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं। ५६ चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो, जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्टी डालकर बांटे जाए ॥

५७ फिर लेवियों में से जो अपने कुल के अनुसार गिने गए वे ये हैं; अर्थात् गेशोनियों से निकला हुआ गेशोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल; और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। ५८ लेवियों के कुल ये हैं; अर्थात् लिब्णियों का, हेब्रानियों का, महलियों का, मूशियों का, और कोरहियों का कुल। और कहात से अब्राम उत्पन्न हुआ। ५९ और अब्राम की पत्नी का नाम योकेबेद है, वह लेवी के वंश की थी जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी; और वह अब्राम से हारून और मूसा और उनकी बहिन मरियम को भी जनी। ६० और हारून से नादाब, अबीहू, एलीआजर, और ईतामार उत्पन्न हुए। ६१ नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे, जब वे यहोवा के साम्हने

ऊपरी आग ले गए थे। ६२ सब लेवियों में से जो गिने गये, अर्थात् जितने पुरुष एक महीने के वा उस से अधिक अवस्था के थे, वे तेईस हजार थे; वे इस्राएलियों के बीच इसलिये नहीं गिने गए, क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था ॥

६३ मूसा और एलीआजर याजक जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। ६४ परन्तु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उन में से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में न था। ६५ क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे, इसलिये यमुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़, उन में से एक भी पुरुष नहीं बचा ॥

(सलौफाद की बेटियों की विनती)

२७ तब युसुफ के पुत्र मनश्शे के बश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र, और गिलाद का पोता, और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होग्ला, मिलका, और तिसा हैं वे पास आईं। २ और वे मूसा और एलीआजर याजक और प्रधानों और सारी मरडली के साम्हने मिलापवाले तम्बू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, ३ हमारा पिता जंगल में मर गया; परन्तु वह उस मरडली में का न था जो कोरह की मरडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध झकट्टी हुई थी, वह अपने ही पाप के कारण मरा; और उसके कोई पुत्र न था। ४ तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों

मिट जाए ? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। ५ उनकी यह बिनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। ६ यहोवा ने मूसा से कहा, ७ सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं; इसलिये तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात् उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। ८ और इस्राएलियों में यह कह, कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए, तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना। ९ और यदि उसके कोई बेटा भी न हो, तो उसका भाग उसके भाइयों को देना। १० और यदि उसके भाई भी न हों, तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना। ११ और यदि उसके चाचा भी न हो, तो उसके कुल में से उसका जो कुटुम्बी सब से समीप हो उसको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिये यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी।।

(यज्ञोद्घ के दूसा के खान पर नियुक्त किए जाने का वर्णन)

१२ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अब्राहीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़के उस देश को देख ले जिसे मैं ने इस्राएलियों को दिया है। १३ और जब तू उसको देख लेगा, तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, १४ क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मरडली के ऋगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझ से बलवा किया, और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। (यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है)। १५ मूसा ने यहोवा से कहा,

१६ यहोवा, जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मरडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, १७ जो उसके साम्हने आया जाया करे, और उनका निकालने और पंढानेवाला हो; जिस से यहोवा की मरडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। १८ यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख; वह तो ऐसा पुरुष है जिस में मेरा आत्मा बसा है; १९ और उसको एलीआजर याजक के और सारी मरडली के साम्हने खडा करके उनके साम्हने उसे आज्ञा दे। २० और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिस से इस्राएलियों की सारी मरडली उसकी माना करे। २१ और वह एलीआजर याजक के साम्हने खडा हुआ करे, और एलीआजर उसके लिये यहोवा से ऊरीम की आज्ञा पूछा करे; और वह इस्राएलियों की सारी मरडली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसी के कहने से लौट भी आया करे। २२ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर, एलीआजर याजक और सारी मरडली के साम्हने खडा करके, २३ उस पर हाथ रखे, और उसको आज्ञा दी जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था।।

(नियत नियत समर्थों के विशेष विशेष बलिदान)

२८ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना, कि मेरा चढ़ावा, अर्थात् मुझे सुखदायक सुगन्ध देनेवाला मेरा हव्यरूपी भोजन, तुम लोग मेरे लिये उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिये स्मरण रखना। ३ और तू उन से कह, कि जो जो तुम्हें यहोवा के

लिये चढ़ाना होगा वे ये हैं; अर्थात् नित्य होमबलि के लिये एक एक वर्ष के दो निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे। ४ एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूलि के समय चढ़ाना; ५ और भेड़ के बच्चे के पीछे एक चौथाई हीन कूटके निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के दसवें अंश मैदा का अन्नबलि चढ़ाना। ६ यह नित्य होमबलि है, जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगन्धवाला हव्य होने के लिये ठहराया गया। ७ और उमका अर्घ्य प्रति एक भेड़ के बच्चे के सग एक चौथाई हीन हो; मदिरा का यह अर्घ्य यहोवा के लिये पवित्रस्थान में देना। ८ और दूसरे बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना; अन्नबलि और अर्घ्य समेत भोर के होमबलि की नाई उसे यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देनेवाला हव्य करके चढ़ाना ॥

९ फिर विश्रामदिन को दो निर्दोष भेड़ के एक साल के नर बच्चे, और अन्नबलि के लिये तेल से सना हुआ एपा का दो दसवा अंश मैदा अर्घ्य समेत चढ़ाना। १० नित्य होमबलि और उसके अर्घ्य के अलावा प्रत्येक विश्रामदिन का यही होमबलि ठहरा है ॥

११ फिर अपने महीनों के आरम्भ में प्रतिमास यहोवा के लिये होमबलि चढ़ाना; अर्थात् दो बछड़े, एक मेढा, और एक एक वर्ष के निर्दोष भेड़ के सात बच्चे; १२ और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का तीन दसवां अंश मैदा, और उम एक मेढे के साथ तेल से सना हुआ एपा का दो दसवा अंश मैदा; १३ और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का दसवा अंश मैदा, उन सभी को अन्नबलि करके चढ़ाना; वह सुखदायक सुगन्ध देने के लिये होमबलि

और यहोवा के लिये हव्य ठहरेगा। १४ और उनके साथ ये अर्घ्य हों; अर्थात् बछड़े पीछे आध हीन, मेढे के साथ तिहाई हीन, और भेड़ के बच्चे पीछे चौथाई हीन दाखमधु दिया जाए; वर्ष के सब महीनों में से प्रति एक महीने का यही होमबलि ठहरे। १५ और एक बकरा पापबलि करके यहोवा के लिये चढ़ाया जाय; यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ्य के अलावा चढ़ाया जाए ॥

१६ फिर पहिले महीने के चौदहवें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे। १७ और उसी महीने के पन्द्रहवें दिन को पर्व लगा करे; सात दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। १८ पहिले दिन पवित्र सभा हो; और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए; १९ उस में तुम यहोवा के लिये एक हव्य, अर्थात् होमबलि चढ़ाना; सो दो बछड़े, एक मेढा, और एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे हो; ये सब निर्दोष हो; २० और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदा का हो; बछड़े पीछे एपा का तीन दसवा अंश और मेढे के सात एपा का दो दसवा अंश मैदा हो। २१ और सातों भेड़ के बच्चों में से प्रति एक बच्चे पीछे एपा का दसवां अंश चढ़ाना। २२ और एक बकरा भी पापबलि करके चढ़ाना, जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त हो। २३ भोर का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। २४ इस रीति से तुम उन सातों दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने के लिये हो; यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ्य के अलावा चढ़ाया जाए। २५ और सातवें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो; और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना ॥

२६ फिर पहिली उपज के दिन में, जब तुम अपने अठवारे नाम पञ्च में यहोवा के लिये नया अन्नबलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो; और परिश्रम का कोई काम न करना। २७ और एक होमबलि चढ़ाना, जिस से यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो; अर्थात् दो बछड़े, एक मेढ़ा, और एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे; २८ और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो; अर्थात् बछड़े पीछे एपा का तीन दसवां अंश, और मेढ़े के सग एपा का दो दसवां अंश, २९ और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां अंश मैदा चढ़ाना। ३० और एक बकरा भी चढ़ाना, जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त हो। ३१ ये सब निर्दोष हों; और नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना ॥

२६ फिर सातवे महीने के पहिले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो; उस में परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिये जयजयकार का नरसिगा फूकने का दिन ठहरा है; २ तुम होमबलि चढ़ाना, जिस से यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध हो; अर्थात् एक बछड़ा, एक मेढ़ा, और एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड़ के बच्चे; ३ और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो; अर्थात् बछड़े के साथ एपा का तीन दसवां अंश, और मेढ़े के साथ एपा का दो दसवां अंश, ४ और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे पीछे एपा का दसवां अंश मैदा चढ़ाना। ५ और एक बकरा भी पापबलि करके चढ़ाना, जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त हो। ६ इन सभी से अधिक नए चांद का होमबलि और उसका

अन्नबलि, और नित्य होमबलि और उसका अन्नबलि, और उन सभी के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगन्ध देने के लिये यहोवा का हव्य करके चढ़ाना ॥

७ फिर उसी सातवें महीने के दसवें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो; तुम अपने अपने प्राण को दुःख देना, और किसी प्रकार का कामकाज न करना; ८ और यहोवा के लिये सुखदायक सुगन्ध देने को होमबलि; अर्थात् एक बछड़ा, एक मेढ़ा, और एक एक वर्ष के सात भेड़ के बच्चे चढ़ाना; फिर ये सब निर्दोष हों; ९ और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो; अर्थात् बछड़े के साथ एपा का तीन दसवां अंश, और मेढ़े के साथ एपा का दो दसवां अंश, १० और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का दसवां अंश मैदा चढ़ाना। ११ और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढ़ाना; ये सब प्रायश्चित्त के पापबलि और नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि के, और उन सभी के अर्घों के अलावा चढ़ाए जाए ॥

१२ फिर सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो; और उस में परिश्रम का कोई काम न करना, और सात दिन तक यहोवा के लिये पञ्च मानना; १३ तुम होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने के लिये हव्य करके चढ़ाना; अर्थात् तेरह बछड़े, और दो मेढ़े, और एक एक वर्ष के चौदह भेड़ के बच्चे; ये सब निर्दोष हों; १४ और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो; अर्थात् तेरहो बछड़ों में से एक एक बछड़े के पीछे एपा का तीन दसवां अंश, और दोनों मेढ़ों में से एक एक मेढ़े के पीछे एपा का दो दसवां अंश, १५ और चौदहो भेड़ के बच्चों में से एक

एक बच्चे के पीछे एपा का दसवा अश मीदा चढाना । १६ और पापबलि के लिये एक बकरा चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढाए जाएं ॥

१७ फिर दूसरे दिन बारह बछड़े, और दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष भेड़ के बच्चे चढाना; १८ और बछड़ो, और मेढो, और भेड़ के बच्चो के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और नियम के अनुसार चढाना । १९ और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए ॥

२० फिर तीसरे दिन ग्यारह बछड़े, और दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष भेड़ के बच्चे चढाना; २१ और बछड़ो, और मेढो, और भेड़ के बच्चो के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और नियम के अनुसार चढाना । २२ और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए ॥

२३ और फिर चौथे दिन दस बछड़े, और दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष भेड़ के बच्चे चढाना; २४ बछड़ो, और मेढो, और भेड़ के बच्चो के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और नियम के अनुसार चढाना । २५ और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए ॥

२६ फिर पांचवे दिन नौ बछड़े, दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष भेड़ के बच्चे चढाना; २७ और बछड़ो, मेढो, और भेड़ के बच्चो के साथ उनके अन्नबलि

और अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और नियम के अनुसार चढाना । २८ और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए ॥

२९ फिर छठवे दिन आठ बछड़े, और दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष भेड़ के बच्चे चढाना; ३० और बछड़ो, और मेढो, और भेड़ के बच्चो के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और नियम के अनुसार चढाना । ३१ और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए ॥

३२ फिर सातवे दिन सात बछड़े, और दो मेढे, और एक एक वर्ष के चौदह निर्दोष भेड़ के बच्चे चढाना; ३३ और बछड़ो, और मेढो, और भेड़ के बच्चो के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और नियम के अनुसार चढाना । ३४ और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए ॥

३५ फिर आठवे दिन तुम्हारी एक महासभा हो; उस मे परिश्रम का कोई काम न करना, ३६ और उस मे होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगन्ध देने के लिये हव्य करके चढाना; वह एक बछड़े, और एक मेढे, और एक एक वर्ष के सात निर्दोष भेड़ के बच्चो का हो; ३७ बछड़े, और मेढे, और भेड़ के बच्चो के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ, उनकी गिनती के अनुसार, और नियम के अनुसार चढाना । ३८ और पापबलि के लिये एक बकरा भी चढाना; ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढाए जाए ॥

३६ अपनी मन्नतों और स्वेच्छाबलियों के भलावा, अपने अपने नियत समयों में, ये ही होमबलि, अन्नबलि, अर्घ, और मेलबलि, यहोवा के लिये चढाना । ४० यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो उस ने इस्राएलियों को सुनाई ॥

(मन्नत मानने की विधि)

३० फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, २ कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, वा अपने आप को वाचा से बान्धने के लिये शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले; जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। ३ और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में, अपने पिता के घर से रहते हुए, यहोवा की मन्नत माने, वा अपने को वाचा से बान्धे, ४ तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत वा उसका वह वचन सुनकर, जिस से उसने अपने आप को बान्धा हो, उस से कुछ न कहे; तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे, और कोई बन्धन क्यों न हो, जिस से उस ने अपने आप को बान्धा हो, वह भी स्थिर रहे। ५ परन्तु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो उसकी मन्नतें वा और प्रकार के बन्धन, जिन से उस ने अपने आप को बान्धा हो, उन में से एक भी स्थिर न रहे, और यहोवा यह जान कर, कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। ६ फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने, वा बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिस से वह बन्धन में पड़े, ७ और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे; तब तो उसकी मन्नतें

स्थिर रहें, और जिन बन्धनों से उस ने अपने आप को बान्धा हो वह भी स्थिर रहें। ८ परन्तु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उस ने मानी है, और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उस ने अपने आप को वाचा से बान्धा हो, वह टूट जाएगी; और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। ९ फिर विधवा वा त्यागी हुई स्त्री की मन्नत, वा किसी प्रकार की वाचा का बन्धन क्यों न हो, जिस से उस ने अपने आप को बान्धा हो, तो वह स्थिर ही रहे। १० फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने, वा शपथ खाकर अपने आप को बान्धे, ११ और उसका पति सुनकर कुछ न कहे, और न उसे मना करे; तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे, और हर एक बन्धन क्यों न हो, जिस से उस ने अपने आप को बान्धा हो, वह स्थिर रहे। १२ परन्तु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि, जो कुछ उसके मुंह से अपने बन्धन के विषय निकला हो, उस में से एक बात भी स्थिर न रहे; उसके पति ने सब तोड़ दिया है; इसलिये यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। १३ कोई भी मन्नत वा शपथ क्यों न हो, जिस से उस स्त्री ने अपने जीव को दुःख देने की वाचा बान्धी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे, और चाहे तो तोड़े, १४ अर्थात् यदि उसका पति दिन प्रति दिन उस से कुछ भी न कहे, तो वह उसको सब मन्नतें आदि बन्धनों को जिन से वह बन्धी हो दृढ़ कर देता है; उसने उनको दृढ़ किया है, क्योंकि सुनने के दिन उस ने कुछ नहीं कहा। १५ और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे, तो अपनी स्त्री

के अधर्म का भार वही उठाएगा। १६ पति-पत्नी के बीच, और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटे के बीच, जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे ये ही हैं।।

(मिद्यानियों वे पछाडा लेने का बर्षण)

३१ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ मिद्यानियों से इस्त्राएलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। ३ तब मसा ने लोगों से कहा, अपने मे से पुरुषों को युद्ध के लिये हथियार बन्धाओ, कि वे मिद्यानियों पर चढके उन से यहोवा का पलटा लें। ४ इस्त्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के एक एक हजार पुरुषों को युद्ध करने के लिये भेजो। ५ तब इस्त्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के एक एक हजार पुरुष चुने गये, अर्थात् युद्ध के लिये हथियार-बन्द बारह हजार पुरुष। ६ प्रत्येक गोत्र में से उन हजार हजार पुरुषों को, और एलीआजर याजक के पुत्र पिनहास को, मूसा ने युद्ध करने के लिये भेजा, और उसके हाथ में पवित्रस्थान के पात्र और वे तुरहिया थी जो सास बान्ध बान्ध कर फूकी जाती थी। ७ और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार उन्हो ने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। ८ और दूसरे जूभे हुओ को छोड उन्हो ने एबी, रेकेम, सूर, हूर, और रेबा नाम मिद्यान के पाचो राजाओ को घात किया; और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्हो ने तलवार से घात किया। ९ और इस्त्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बालबच्चो समेत बन्धुआई में कर लिया; और उनके गाय-बैल, भेड-बकरी, और उनकी सारी सम्पत्ति को लूट लिया।

१० और उनके निवास के सब नगरों, और सब छावनियों को फूक दिया; ११ तब वे, क्या मनुष्य क्या पशु, सब बन्धुओ और सारी लूट-पाट को लेकर १२ यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर, मोआब के अराबा में, छावनी के निकट, मूसा और एलीआजर याजक और इस्त्राएलियों की मण्डली के पास आए।।

१३ तब मूसा और एलीआजर याजक और मण्डली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। १४ और मूसा सहस्रपति-शतपति आदि, सेनापतियों से, जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, १५ क्या तुम ने सब स्त्रियों को जीवित छोड दिया? १६ देखो, बिलाम की सम्मति से, पोर के विषय में इस्त्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्ही ने कराया, और यहोवा की मण्डली में मरी फैली। १७ सो अब बालबच्चो में से हर एक लडके को, और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुह देखा हो उन सभी को घात करो। १८ परन्तु जितनी लडकियों ने पुरुष का मुह न देखा हो उन सभी को तुम अपने लिये जीवित रखो। १९ और तुम लोग सात दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनो ने किसी प्राणी को घात किया, और जितनो ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बन्धुओ समेत तीसरे और सातवे दिनों में अपने अपने को पाप छुडाकर पावन करे। २० और सब वस्त्रो, और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओ, और बकरी के बालो की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओ को पावन कर लो। २१ तब एलीआजर याजक ने सेना के उन पुरुषो से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह

है, २२ कि सोना, चादी, पीतल, लोहा, रांगा, और सीमा, २३ जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा; तौभी वह अशुद्धता से छुड़ाने-वाले जल के द्वारा पावन किया जाए; परन्तु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ। २४ और सातवे दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे; और तब छावनी में आना ॥

२५ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २६ एलीआज़र याजक और मरडली के पितरों के बरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर; २७ तब उनको आधा-आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे, और दूसरा भाग मरडली को दे। २८ फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे, उनके आधे में से यहोवा के लिये, क्या मनुष्य, क्या गाय-बैल, क्या गदहे, क्या भेड़-बकरियां, २९ पांच सौ के पीछे एक को कर मानकर ले ले; और यहोवा की भेंट करके एलीआज़र याजक को दे दे। ३० फिर इस्राएलियों के आधे में से, क्या मनुष्य, क्या गाय-बैल, क्या गदहे, क्या भेड़-बकरियां, क्या किसी प्रकार का पशु हो, पचास के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करनेवाले लेवियों को दे। ३१ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उस ने मूसा को दी मूसा और एलीआज़र याजक ने किया। ३२ और जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने पीछे लूट ली थी उन से अधिक की लूट यह थी; अर्थात् छः लाख पचहत्तर हजार भेड़-बकरियां, ३३ बहत्तर हजार गाय-बैल, ३४ इकसठ हजार गदहे, ३५ और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुह

नहीं देखा था वह सब बत्तीस हजार थी। ३६ और इसका आधा, अर्थात् उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उस में भेड़-बकरियां तीन लाख साढ़े सैंतीस हजार, ३७ जिन में से पौने सात सौ भेड़-बकरियां यहोवा का कर ठहरी। ३८ और गाय-बैल छत्तीस हजार, जिन में से बहत्तर यहोवा का कर ठहरे। ३९ और गदहे साढ़े तीस हजार, जिन में से इकसठ यहोवा का कर ठहरे। ४० और मनुष्य सोलह हजार जिन में से बत्तीस प्राणी यहोवा का कर ठहरे। ४१ इस कर को जो यहोवा की भेंट थी मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलीआज़र याजक को दिया। ४२ और इस्राएलियों की मरडली का आधा ४३ तीन लाख साढ़े सैंतीस हजार भेड़-बकरियां, ४४ छत्तीस हजार गाय-बैल, ४५ साढ़े तीस हजार गदहे, ४६ और सोलह हजार मनुष्य हुए। ४७ इस आधे में से, जिसे मूसा ने युद्ध करनेवाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने, क्या मनुष्य क्या पशु, पचास पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करनेवाले लेवियों को दिया। ४८ तब सहस्रपति-शतपति आदि, जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, ४९ जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली, और उन में से एक भी नहीं घटा। ५० इसलिये पायजेब, कडे, मुदरिया, बालियां, बाजूबन्द, सोने के जो गहने, जिस ने पाया है, उनको हम यहोवा के साम्हने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित्त करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। ५१ तब मूसा और एलीआज़र याजक ने उन से वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले

लिए। ५२ और सहस्रपतियों और शत-पतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया वह सब का सब सोलह हजार साठे सात सौ शेकेल का था। (५३ योद्धाओं ने तो अपने अपने लिये लूट ले ली थी।) ५४ यह सोना मूसा और एलीआजर याजक ने सहस्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलापवाले तम्बू में पहुँचा दिया, कि इस्राएलियों के लिये यहोवा के साम्हन स्मरण दिलानेवाली वस्तु ठहरे ॥

(चढ़ाई गोच के इस्राएलियों को यरदन के रवौ पार का भाग भिखने का वषण)

३२ रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्हो ने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया, कि वह डोरो के योग्य देश है, २ तब मूसा और एलीआजर याजक और मण्डली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, ३ अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्ना, हेसबोन, एलाले, सबाम, नबो, और बोन नगरी का देश ४ जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मण्डली को विजय दिलवाई है, वह डोरो के योग्य है; और तेरे दासों के पास ढोर हैं। ५ फिर उन्हो ने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो, तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। ६ मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहा बैठे रहोगे? ७ और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? ८ जब मैं ने तुम्हारे बापदादों को कादेशबर्ने से कनान देश देखने के लिये भेजा, तब उन्हो ने भी ऐसा ही किया था।

९ अर्थात् जब उन्हो ने एशकोल नाम नाले तक पहुँचकर देश को देखा, तब इस्राएलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। १० इसलिये उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि, ११ नि सन्देह जो मनुष्य मिश्र से निकल आए है उन में से, जितने बीस वर्ष के वा उस से अधिक अवस्था के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैं ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिये, १२ परन्तु यपुत्रे कनजी का पुत्र कालेब, और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिये हैं ये तो उसे देखने पाएंगे। १३ सो यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भडका, और जब तक उस पीढी के सब लोगों का अन्त न हुआ, जिन्हो ने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात् चालीस वर्ष तक वह उन्हें जगल में मारे मारे फिराता रहा। १४ और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसी लिये अपने बाप-दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो, कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा से भडके हुए कोप को और भी भडकाओ! १५ यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ, तो वह फिर हम सभों को जगल में छोड़ देगा, इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। १६ तब उन्हो ने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने डोरो के लिये यही भेडशाले बनाएंगे, और अपने बालबच्चों के लिये यही नगर बसाएंगे, १७ परन्तु आप इस्राएलियों के आगे आगे हथियार-बन्द तब तक चलेगें, जब तक उनको उनके स्थान में न पहुँचा दे, परन्तु हमारे बालबच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढवाले नगरो

में रहेंगे। १८ परन्तु जब तक इस्लामी अपने अपने भाग के अधिकारी न हों तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। १९ हम उनके साथ यरदन पार वा कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। २० तब मूसा ने उन से कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात् यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बान्धो, २१ और हर एक हथियार-बन्द यरदन के पार तब तक चले, जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले २२ और देश यहोवा के वश में न आए; तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे, और यहोवा के और इस्लाम के विषय निर्दोष ठहरोगे; और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। २३ और यदि तुम ऐसा न करो, तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे; और जान रखो कि तुम को तुम्हारा पाप लगेगा। २४ तुम अपने बालबच्चों के लिये नगर बसाओ, और अपनी भेड़-बकरियों के लिये भेड़शाले बनाओ; और जो तुम्हारे मुँह से निकला है वही करो। २५ तब गादियों और रूबे-नियो ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। २६ हमारे बालबच्चे, स्त्रियाँ, भेड़-बकरी आदि, सब पशु तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे; २७ परन्तु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिये हथियार-बन्द यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। २८ तब मूसा ने उनके विषय में एलीआज़र याजक, और नून के पुत्र यहोशू, और इस्लामियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी, २९ कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिये हथियार-बन्द तुम्हारे संग

यरदन पार जाएं, और देश तुम्हारे वश में आ जाए, तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना। ३० परन्तु यदि वे तुम्हारे संग हथियार-बन्द पार न जाएं, तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। ३१ तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। ३२ हम हथियार-बन्द यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परन्तु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे।

३३ तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को, और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग, दोनों के राज्यों का देश, नगरों, और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। ३४ तब गादियों ने दीबोन, अतारोत, अरोएर, ३५ अत्रैत, शोपान, याजेर, योगबहा, ३६ बेतनिआ, और बेथारान नाम नगरों को दृढ़ किया, और उन में भेड़-बकरियों के लिये भेड़शाले बनाए। ३७ और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले, और किर्यातैम को, ३८ फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको, और सिबमा को दृढ़ किया, और उन्होने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और और नाम रखे। ३९ और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंशवालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उस में रहते थे उनको निकाल दिया। ४० तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया, और वे उस में रहने लगे। ४१ और मनश्शेई याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियाँ ले ली, और उनके नाम

हव्वोल्याईर* रखे। ४२ और नोबह ने जाकर गांवों समेत कनात को ले लिया, और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा।।

(१८) अरबियों के पड़ाव पड़ाव की
बाणाबली)

३३ जब से इस्लामी मूसा और हारून की अगुवाई से † दल बान्धकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। २ मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए; और वे ये हैं। ३ पहिले महीने के पन्द्रहवें दिन को उन्होने रामसेस से कूच किया; फसह के दूसरे दिन इस्लामी सब मिस्रियों के देवते बेखटके ‡ निकल गए, ४ जब कि मिस्री अपने सब पहिलीठो को मिट्टी दे रहे थे जिन्हे यहोवा ने मारा था; और उस ने उनके देवताओ को भी दगड दिया था। ५ इस्लामियों ने रामसेस से कूच करके मुक्कोत में डेरे डाले। ६ और मुक्कोत से कूच करके एताम में, जो जगल के छोर पर है, डेरे डाले। ७ और एताम से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए, जो बालसपोन के साम्हने है; और मिगदोल के साम्हने डेरे खड़े किए। ८ तब वे पीहहीरोत के साम्हने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जगल में गए, और एताम नाम जंगल में तीन दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। ९ फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के बारह सोते और सत्तर खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होनें ने वहा डेरे खड़े किए। १० तब उन्होनें ने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के

तीर पर डेरे खड़े किए। ११ और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। १२ फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होनें ने दोपका में डेरा किया। १३ और दोपका से कूच करके अलूश में डेरा किया। १४ और अलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहा उन लोगों को पीने का पानी न मिला। १५ फिर उन्होनें रपीदीम से कूच करके सीन के जगल में डेरे डाले। १६ और सीन के जगल से कूच करके किन्नोथत्तावा में डेरा किया। १७ और किन्नोथत्तावा से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले। १८ और हसेरोत से कूच करके रिस्मा में डेरे डाले। १९ फिर उन्होनें रिस्मा से कूच करके रिम्मोनपेरेस में डेरे खड़े किए। २० और रिम्मोनपेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए। २१ और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए। २२ और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया। २३ और कहेलाता से कूच करके शोपेर पर्वत के पास डेरा किया। २४ फिर उहोनें ने शोपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया। २५ और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया। २६ और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए। २७ और तहत से कूच करके तेरह में डेरे डाले। २८ और तेरह से कूच करके मित्का में डेरे डाले। २९ फिर मित्का से कूच करके उन्होनें ने हशमोना में डेरे डाले। ३० और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए। ३१ और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया। ३२ और याकानियों के बीच से कूच करके होर्हिग्गदगाद में डेरा किया। ३३ और होर्हिग्गदगाद से कूच करके योतबाता में

* अर्थात् यार्ईर की बस्तियां।

† मूल में—के हाथ से।

‡ मूल में—ऊंचे हाथ से।

डेटा किया। ३४ और योतबाता से कूच करके अब्रोनोना में डेरे खड़े किए। ३५ और अब्रोनोना से कूच करके एस्प्योनगेवेर में डेरे खड़े किए। ३६ और एस्प्योनगेवेर से कूच करके उन्होंने ने सीन नाम जंगल के कादेश में डेटा किया। ३७ फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो एदोम देश के सिवाने पर है, डेरे डाले। ३८ वहां इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के चालीसवें वर्ष के पांचवें महीने के पहिले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहां मर गया। ३९ और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह एक सौ तेईस वर्ष का था। ४० और अरात का कनानी राजा, जो कनान देश के दक्खिन भाग में रहता था, उस ने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। ४१ तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले। ४२ और सलमोना से कूच करके पूनोन में डेरे डाले। ४३ और पूनोन से कूच करके अब्रोबोस में डेरे डाले। ४४ और अब्रोबोस से कूच करके अबरारीम नाम डीहों में जो मोआब के सिवाने पर है, डेरे डाले। ४५ तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने ने दीबोनगाद में डेटा किया। ४६ और दीबोनगाद से कूच करके अल्मोनदिबलातैम में डेटा किया। ४७ और अल्मोनदिबलातैम से कूच करके उन्होंने ने अबरारीम नाम पहाड़ों में नबो के साम्हने डेटा किया। ४८ फिर अबरारीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में, यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेटा किया। ४९ और वे मोआब के अराबा में वेत्यशीमोत से लेकर आबेलगितीम तक यरदन के तीर तीर डेरे डाले ॥

५० फिर मोआब के अराबा में, यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर, यहोवा ने मूसा से कहा, ५१ इस्राएलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुँचो, ५२ तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना; और उनके सब नक्काशे पत्थरों को और ढली हुई मूर्तियों को नाश करना, और उनके सब पूजा के ऊँचे स्थानों को ढा देना। ५३ और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उस में निवास करना, क्योंकि मैं ने वह देश तुम्हीं को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। ५४ और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना; अर्थात् जो कुल अधिकवाले है उन्हें अधिक, और जो थोड़ेवाले है उनको थोड़ा भाग देना; जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिये निकले वही उसका भाग ठहरे; अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। ५५ परन्तु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने भागे से न निकालोगे, तो उन में से जिनको तुम उस में रहने दोगे वे मानी तुम्हारी आखों में कांटे और तुम्हारे पाजुरों में कीलें ठहरेंगे, और वे उस देश में जहा तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। ५६ और उन से जैसा बर्ताव करने की मनसा मैं ने की है वैसा ही तुम से करूंगा ॥

(कनान देश के सिवाने)

३४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २ इस्राएलियों को यह आज्ञा दे, कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह तो चारों ओर के सिवाने तक का कनान देश है, इसलिये जब तुम कनान देश में पहुँचो, ३ तब तुम्हारा दक्खिनी प्रान्त सीन नाम

जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए, और तुम्हारा दक्खिनी सिवाना खारे ताल के सिरे पर आरम्भ होकर पश्चिम की ओर चले; ४ वहा से तुम्हारा सिवाना अक्रब्बीम नाम चढ़ाई की दक्खिन की ओर पहुचकर मुडे, और तीन तक आए, और कादेशबर्ने की दक्खिन की ओर निकले, और हसरद्वार तक बढ़के अस्मोन तक पहुंचे; ५ फिर वह सिवाना अस्मोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुंचे, और उसका अन्त समुद्र का तट ठहरे। ६ फिर पच्छिमी सिवाना महासमुद्र हो; तुम्हारा पच्छिमी सिवाना यही ठहरे। ७ और तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यह हो, अर्थात् तुम महासमुद्र से ले होर-पर्वत तक सिवाना बान्धना; ८ और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सिवाना बान्धना, और वह सदाद पर निकले; ९ फिर वह सिवाना जिप्रोन तक पहुंचे, और हसरेनान पर निकले; तुम्हारा उत्तरीय सिवाना यही ठहरे। १० फिर अपना पूरबी सिवाना हसरेनान से शपाम तक बान्धना; ११ और वह सिवाना शपाम से रिबला तक, जो ऐन की पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किशेरेत नाम ताल के पूर्व से लग जाए; १२ और वह सिवाना यरदन तक उतरके खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश के चारों सिवाने ये ही ठहरे। १३ तब मूसा ने इस्राएलियों से फिर कहा, जिस देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होगे, और यहोवा ने उसे साढ़े नौ गोत्र के लोगो को देने की आज्ञा दी है, वह यही है; १४ परन्तु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं, और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी

अपना भाग पा चुके हैं; १५ अर्थात् उन अढ़ाई गोत्रो के लोग यरीहो के पास की यरदन के पार पूर्व दिशा में, जहा सूर्योदय होता है, अपना अपना भाग पा चुके हैं ॥

१६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १७ कि जो पुरुष तुम लोगों के लिये उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं; अर्थात् एली-आज़र याजक और नून का पुत्र यहोशू। १८ और देश को बांटने के लिये एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। १९ और इन पुरुषो के नाम ये हैं; अर्थात् यहूदागोत्री ययुझे का पुत्र कालेब, २० शिमोनगोत्री अम्मीहूद का पुत्र शमूएल, २१ बिन्यामीनगोत्री किसलोन का पुत्र एलीदाद, २२ दानियों के गोत्र का प्रधान योग्ली का पुत्र बुक्की, २३ यूसुफियों में से मनश्शेइयो के गोत्र का प्रधान एपोद का पुत्र हन्निएल, २४ और एश्रैमियों के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र कमूएल, २५ जबूलूनियों के गोत्र का प्रधान पर्नाक का पुत्र एलीमापान, २६ इस्माकारियों के गोत्र का प्रधान अज्जान का पुत्र पलती-एल, २७ आशेरियों के गोत्र का प्रधान शलोमी का पुत्र अहीहूद, २८ और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र पदहेल। २९ जिन पुरुषो को यहोवा ने कनान देश को इस्राएलियों के लिये बांटने की आज्ञा दी वे ये ही हैं ॥

(लेवियों के नगरो को और अरबनगरो को बिधि)

३५ फिर यहोवा ने, मोआब के अराबा में, यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, २ इस्राएलियों को आज्ञा दे, कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को

रहने के लिये नगर देना; और नगरो के चारों ओर की चराइया भी उनको देना । ३ नगर तो उनके रहने के लिये, और चराइयां उनके गाय-बैल और भेड़-बकरी आदि, उनके सब पशुओं के लिये होगी । ४ और नगरो की चराइयां, जिन्हें तुम लेवियों को दोगे, वह एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारो ओर एक एक हजार हाथ तक की हों । ५ और नगर के बाहर पूर्व, दक्खिन, पच्छिम, और उत्तर अलग, दो दो हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचोंबीच हो, लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि की हो । ६ और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उन में से छ शरणनगर हो, जिन्हें तुम को खूनी के भागने के लिये ठहराना होगा, और उन से अधिक बयालीस नगर और भी देना । ७ जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब अडतालीस हों, और उनके साथ चराइया देना । ८ और जो नगर तुम इस्राएलियों की निज भूमि में से दो, वे जिनके बहुत नगर हो उन से बहुत, और जिनके थोड़े नगर हो उन से थोड़े लेकर देना; सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दें ।।

६ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १० इस्राएलियों से कह, कि जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, ११ तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिये शरण-नगर हों, कि जो कोई किसी को भूल से मारके खूनी ठहरा हो वह वहा भाग जाए । १२ वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने-वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिये मण्डली के मामूहने खड़ा न हो तब तक वह न मार डाला जाए ।

१३ और शरण के जो नगर तुम दोगे वे छ हों । १४ तीन नगर तो यरदन के इस पार, और तीन कनान देश में देना; शरण-नगर इतने ही रहे । १५ ये छहों नगर इस्राएलियों के और उनके बीच रहनेवाले परदेशियों के लिये भी शरणस्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वही भाग जाए । १६ परन्तु यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वह खूनी ठहरेगा; और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए । १७ और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर, जिस से कोई मर सकता है, किसी को मारे, और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए । १८ वा कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर, जिस से कोई मर सकता है, किसी को मारे, और वह मर जाए, तो वह भी खूनी ठहरेगा; और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए । १९ लोह का पलटा लेनेवाला आप ही उस खूनी को मार डाले; जब भी वह मिले तब ही वह उसे मार डाले । २० और यदि कोई किसी को बैर से ढकेल दे, वा घात लगाकर कुछ उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, २१ वा शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिस ने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए; वह खूनी ठहरेगा; लोह का पलटा लेनेवाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले । २२ परन्तु यदि कोई किसी को बिना सोचे, और बिना शत्रुता रखे ढकेल दे, वा बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, २३ वा ऐसा कोई पत्थर लेकर, जिस से कोई मर सकता है, दूसरे को बिना देखे उस पर फेक दे, और वह मर जाए, परन्तु वह न

उसका शत्रु हो, और न उसकी हानि का खोजी रहा हो; २४ तो मरडली मारनेवाले और लोहू के पलटा लेनेवाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे; २५ और मरडली उस खूनी को लोहू के पलटा लेनेवाले के हाथ से बचाकर उस शरणनगर में जहां वह पहिले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। २६ परन्तु यदि वह खूनी उस शरणनगर के सिवाने से जिस में वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कही जाए, २७ और लोहू का पलटा लेनेवाला उसको शरणनगर के सिवाने के बाहर कही पाकर मार डाले, तो वह लोहू बहाने का दोषी न ठहरे। २८ क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरणनगर में रहना चाहिये; और महायाजक के मरने के पश्चात् वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। २९ तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधि होगी। ३० और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परन्तु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए। ३१ और जो खूनी प्राणदण्ड के योग्य ठहरे उस से प्राणदण्ड के बदले में जुरमाना न लेना; वह अवश्य मार डाला जाए। ३२ और जो किसी शरणनगर में भागा हो उसके लिये भी इस मतलब से जुरमाना न लेना, कि वह याजक के मरने से पहिले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। ३३ इसलिये जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना; खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लोहू बहाने ही से उस

देश का प्रायश्चित्त हो सकता है। ३४ जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना; मैं यहोवा तो इस्राएलियों के बीच रहता हूँ ॥

(गोच गोच के भाग में गड़बड़ पड़ने का निषेध)

३६ फिर यूसुफियों के कुलो मे से गिलाद, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरो के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के साम्हने, जो इस्राएलियों के पितरो के घरानो के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, २ यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी, कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बाट देना; और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु की मिली, कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना। ३ तो यदि वे इस्राएलिये के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए, तो उनका भाग हमारे पितरो के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। ४ और जब इस्राएलियों की जुबली * होगी, तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा; और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिये छूट जाएगा। ५ तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियो से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। ६ सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है, कि जो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए; परन्तु वे

* अर्थात् महाशब्दवाले नरसिंहे का शब्द।

अपने मूलपुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाए। ७ और इस्त्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए; इस्त्राएली अपने अपने मूलपुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे। ८ और इस्त्राएलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पानेवाली हो, वह अपने ही मूलपुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिये कि इस्त्राएली अपने अपने मूलपुरुष के भाग के अधिकारी रहे। ९ किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए; इस्त्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहे।

१० यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उस ने मूसा को दी सलोफाद की बेटियों ने किया। ११ अर्थात् महला, तिसर्ता, होग्ला, मिलका, और नोआ, जो सलोफाद की बेटिया थीं, उन्होंने ने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। १२ वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में ब्याही गईं, और उनका भाग उनके मूलपुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा ॥

१३ जो आज्ञाएँ और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इस्त्राएलियों को दिए वे ये ही हैं ॥

व्यवस्थाविवरण

(पूर्व इशान्त का विवरण)

१ जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में, अर्थात् सूफ के साम्हने के अराबा में, और पारान और तोपेल के बीच, और लांबान हसेरोत और दीजाहाब में, सारे इस्त्राएलियों से कहीं वे ये हैं। २ होरेब से कादेशबर्न तक सेइर पहाड़ का मार्ग ग्यारह दिन का है। ३ चालीसवें वर्ष के ग्यारहवें महिने के पहिले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्त्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उन से ये बातें कहने लगा। ४ अर्थात् जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन और बागान के राजा अशतारोतवासी ओग को एद्रेई में मार डाला, ५ उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण

यों करने लगा, ६ कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हम से कहा था, कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं; ७ इसलिये अब यहां से कूच करो, और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्खिन देश में, क्या समुद्र के तीर पर, जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात् लबानोन पर्वत तक और परात नाम महानद तक रहनेवाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। ८ सुनी, मैं उस देश को तुम्हारे साम्हने किए देता हूँ; जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब, तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था, कि मैं

इसे तुम को और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। ६ फिर उसी समय मैं ने तुम से कहा, कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता; १० क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को यहा तक बढ़ाया है, कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। ११ तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम को हजारगुणा और भी बढ़ाए, और अपने वचन के अनुसार तुम को आशीष भी देता रहे! १२ परन्तु तुम्हारे जजाल, और भार, और भगड़े रगड़े को मैं अकेला कहा तक सह सकता हूँ? १३ सो तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो, और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। १४ इसके उत्तर में तुम ने मुझ से कहा, जो कुछ तू हम से कहता है उसका करना अच्छा है। १५ इसलिये मैं ने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात् हजार-हजार, सौ-सौ, पचास-पचास, और दस-दस के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। १६ और उस समय मैं ने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, कि तुम अपने भाइयों के मुकद्दमे सुना करो, और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। १७ न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना; जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना; किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है; और जो मुकद्दा तुम्हारे लिये कठिन हो, वह मेरे पास ले आना, और मैं उसे सुनूंगा। १८ और मैं ने उसी

समय तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्म तुम को बता दिए।।

१९ और हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले, जिसे तुम ने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेशबर्ने तक आए। २० वहा मैं ने तुम से कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। २१ देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साम्हने किए देता है, इसलिये अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढो, और उसे अपने अधिकार में ले लो; न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। २२ और तुम सब मेरे पास आकर कड़ने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज दोगे, जो उस देश का पता लगाकर हम को यह सन्देश दे, कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा? २३ इस बात से प्रसन्न होकर मैं ने तुम में से बारह पुरुष, अर्थात् गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया; २४ और वे पहाड़ पर चढ़ गए, और एशकोल नाम नाले को पहुचकर उस देश का भेद लिया। २५ और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए, और हम को यह सन्देश दिया, कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। २६ तीसरी तुम ने वहां जाने से नाह किया, किन्तु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर २७ अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, कि यहोवा हम से बैर रखता है, इस कारण हम को मिस्र देश से निकाल ले आया है, कि हम को एमोरियों के वश में

करके सत्यानाश कर डाले। २८ हम किधर जाएँ ? हमारे भाइयों ने यह कहके हमारे मन को कच्चा कर दिया है, कि वहाँ के लोग हम से बड़े और लम्बे हैं; और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है* ; और हम ने वहाँ अनाकबंशियों को भी देखा है। २९ मैं ने तुम से कहा, उनके कारण त्रास मत खाओ और न डरो। ३० तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उस ने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिये किया; ३१ फिर तुम ने जंगल में भी देखा, कि जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हम को इस स्थान पर पहुँचने तक, उस सारे मार्ग में जिस से हम आए हैं, उठाये रहा। ३२ इस बात पर भी तुम ने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, ३३ जो तुम्हारे आगे आगे इसलिये चलता रहा, कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिये ढूँढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रगट होकर चला, ताकि तुम को वह मार्ग दिखाए जिस से तुम चलो। ३४ परन्तु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, और उस ने यह शपथ खाई, ३५ कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा, जिसे मैं ने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। ३६ यपुत्रे का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूँगा; क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति

* मूल में—नगर बड़े और आकाश लों दृढ़ हैं।

से हो लिया है। ३७ और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ, और यह कहा, कि तू भी वहाँ जाने न पाएगा; ३८ नून का पुत्र यहोशू जो तेरे साम्हने खड़ा रहता है, वह तो वहाँ जाने पाएगा; सो तू उसको हियाब दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। ३९ फिर तुम्हारे बालबच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो, कि ये लूट में चले जाएँगे, और तुम्हारे जो लड़केबाले अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहाँ प्रवेश करेंगे, और उनको मैं वह देश दूँगा, और वे उसके अधिकारी होंगे। ४० परन्तु तुम लोग घूमकर कूच करो, और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। ४१ तब तुम ने मुझ से कहा, हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है; अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बान्धकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। ४२ तब यहोवा ने मुझ से कहा, उन से कह दे, कि तुम मत चढ़ो, और न लड़ो; क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ; कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। ४३ यह बात मैं ने तुम से कह दी, परन्तु तुम ने न मानी; किन्तु ठिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। ४४ तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा साम्हना करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाईं तुम्हारा पीछा किया, और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। ४५ तब तुम लौटकर यहोवा के साम्हने रोने लगे; परन्तु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। ४६ और तुम कादेश में

बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहां तक कि एक जुग हो गया ॥

२ तब उस आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा ने मुझ को दी थी, हम ने घूमकर कूच किया, और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले; और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। २ तब यहोवा ने मुझ से कहा, ३ तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। ४ और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना, कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों के सिवाने के पास होकर जाने पर हो; और वे तुम से डर जाएंगे। इसलिये तुम बहुत चौकस रहो; ५ उन्हें न छेड़ना; क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव धरने का ठौर तक न दूंगा, इस कारण कि मैं ने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। ६ तुम उन से भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे, और रुपया देकर कुंओं से पानी भरके पी सकोगे। ७ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है; इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है; इन चालीस वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है; और तुम को कुछ घटी नहीं हुई। ८ यों हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर, अराबा के मार्ग, और एलत और एस्थोत्तगेबेर को पीछे छोड़कर चले ॥

फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले। ९ और यहोवा ने मुझ से कहा, मोआबियों को न सताना और न-सड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में

से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा क्योंकि मैं ने आर को लूतियों के अधिकार में किया है। (१० अगले दिनों में वहा एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवन्त और लम्बे लम्बे और गिनती में बहुत थे; ११ और अनाकियों की नाई वे भी रपाई गिने जाते थे, परन्तु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। १२ और अगले दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परन्तु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया, और अपने साम्हने से नाश करके उनके स्थान पर आप बस गए; जैसे कि इस्राएलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया।)

१३ अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ, तब हम जेरेद नदी के पार आए। १४ और हमारे कादेशबर्न को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक अड़तीस वर्ष बीत गए, उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए। १५ और जब तक वे नाश न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिये उनके विशुद्ध बढ़ा ही रहा ॥

१६ जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नाश हो गए, १७ तब यहोवा ने मुझ से कहा, १८ अब मोआब के सिवाने, अर्थात् आर को पार कर; १९ और जब तू अम्मोनियों के साम्हने जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैं ने उसे लूसियों के अधिकार में कर दिया है। (२० वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि अगले दिनों में रपाई, जिन्हें

अम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहा रहते थे; २१ वे भी अनाकियों के समान बलवान और लम्बे लम्बे और गिनती में बहुत थे; परन्तु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के साम्हने से नाश कर डाला, और उन्हो ने उनको उस देश से निकाल दिया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे; २२ जैसे कि उस ने सेईर के निवासी एसावियों के साम्हने से होरियों को नाश किया, और उन्हो ने उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। २३ वैसा ही अश्वियों को, जो अज्जा नगर तक गावो में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नाश किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे।) २४ अब तुम लोग उठकर कूच करो, और अर्नोन के नाले के पार चलो; सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तेरे हाथ में कर देता हूँ; इसलिये उस देश को अपने अधिकार में लेना आरम्भ करो, और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। २५ और जितने लोग धरती पर * रहते हैं उन सभी के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा; वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे ॥

२६ और मैं ने कदेमोत नाम जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, २७ कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे; मैं राजपथ पर चला जाऊंगा, और दहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। २८ तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजनवस्तु देना कि मैं खाऊं, और

पानी भी रुपया लेकर मुझ को देना कि मैं पीऊं; केवल मुझे पाव पाव चले जाने दे, २९ जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआवियों ने मुझ से किया, वैसा ही तू भी मुझ से कर, इस रीति में यरदन पार होकर उस देश में पहुँचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। ३० परन्तु हेशबोन के राजा सीहोन ने हम को अपने देश में से होकर चलने न दिया; क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिये कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रगट है। ३१ और यहोवा ने मुझ से कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ; उस देश को अपने अधिकार में लेना आरम्भ कर। ३२ तब सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया, और हमारा साम्हना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया। ३३ और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हम ने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। ३४ और उसी समय हम ने उसके सारे नगर ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल-बच्चों समेत यहा तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा; ३५ परन्तु पशुओं को हम ने अपना कर लिया, और उन नगरों की लूट भी हम ने ले ली जिनको हम ने जीत लिया था। ३६ अर्नोन के नाले के छोरवाले अरोएर नगर से लेकर, और उस नाले में के नगर से लेकर, गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे साम्हने ठहर सकता था; क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सभी को हमारे वश में कर दिया। ३७ परन्तु हम अम्मोनियों

* मूल में—आकाश के तले।

के देश के निकट, वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है, और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम को मना किया था, वहाँ हम नहीं गए ॥

२ तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले; और बाशान का भ्रोग नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा साम्हना करने को निकल आया, कि एद्रेई में युद्ध करे। २ तब यहोवा ने मुझ से कहा, उस से मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ; और जैसा तू ने हेसबोन के द्विवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है वैसा ही उस से भी करना। ३ सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा भ्रोग को भी हमारे हाथ में कर दिया; और हम उसको यहां तक मारते रहे कि उन में से कोई भी न बच पाया। ४ उसी समय हम ने उनके सारे नगरो को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हम ने उन से न ले लिया हो, इस रीति अर्गोब का सारा देश, जो बाशान में भ्रोग के राज्य में था और उस में साठ नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ५ ये सब नगर गढ़वाले थे, और उनके ऊंची ऊंची शहरपनाह, और फाटक, और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। ६ और जैसा हम ने हेसबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था वैसा ही हम ने इन नगरों से भी किया, अर्थात् सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बालबच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। ७ परन्तु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हम ने अपनी कर ली।

८ यों हम ने उस समय यरदन के इस पार रहनेवाले एमोरियों के दोनो राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेमोन पर्वत तक का देश ले लिया। (९ हेमोन को सीदोनी लोग सियोन, और एमोरी लोग सनीर कहते हैं।) १० समथर देश के सब नगर, और सारा गिलाद, और सल्का, और एद्रेई तक जो भ्रोग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। ११ जो रपाई रह गए थे, उन में से केवल बाशान का राजा भ्रोग रह गया था, उसकी चारपाई जो लोहे की है वह तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है, साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लम्बाई नौ हाथ की और चौड़ाई चार हाथ की है। १२ जो देश हम ने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह यह है, अर्थात् अर्नोन के नाले के किनारेवाले अरोएर नगर से ले सब नगरो समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैं ने रुबेनियों और गादियों को दे दिया, १३ और गिलाद का बचा हुआ भाग, और सारा बाशान, अर्थात् अर्गोब का सारा देश जो भ्रोग के राज्य में था, इन्हे मैं ने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। (सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है। १४ और मनश्शेई यार्डर ने गशूरियों और माकावासियों के सिबानों तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत्याईर* रखा, और वही नाम आज तक बना है।) १५ और मैं ने गिलाद देश माकीर को दे दिया, १६ और रुबेनियों और गादियों को मैं ने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक

* अर्थात् यार्डर की बस्तियां।

का देश दे दिया, अर्थात् उस नाले का बीच उनका सिवाना ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियो का सिवाना है, १७ और किन्नैरेत से ले पिसगा की सलामी के नीचे के अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, अराबा और यरदन की पूर्व की ओर का सारा देश भी मैं ने उन्हीं को दे दिया ॥

१८ और उस समय मैं ने तुम्हें यह आज्ञा दी, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो; तुम सब योद्धा हथियार-बन्द होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो। १९ परन्तु तुम्हारी स्त्रिया, और बालबच्चे, और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरो में जो मैं ने तुम्हें दिए हैं रह जाए। २० और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसे विश्राम दे जैसा कि उस ने तुम को दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैं ने तुम्हें दी है लौटोगे। २१ फिर मैं ने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तू ने अपनी आखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनो राजाओं से क्या क्या किया है; वैसे ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिन में तू पार होकर जाएगा। २२ उन से न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़नेवाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है ॥

२३ उसी समय मैं ने यहोवा से गिड-गिडाकर बिनती की, कि हे प्रभु यहोवा, २४ तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवन्त हाथ दिखाने लगा है; स्वर्ग में और

पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके?

२५ इसलिये मुझे पार जाने दे कि यरदन पारके उस उत्तम देश को, अर्थात् उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। २६ परन्तु यहोवा तुम्हारे कारण मुझ से रुष्ट हो गया, और मेरी न सुनी; किन्तु यहोवा ने मुझ से कहा, बस कर; इस विषय में फिर कभी मुझ से बातें न करना। २७ पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा, और पूर्व, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन, चारो ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले; क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न पाएगा। २८ और यहोशू को आज्ञा दे, और उसे ढाढस देकर दृढ़ कर; क्योंकि इन लोगो के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। २९ तब हम बेतपोर के साम्हने की तराई में ठहरे रहे ॥

(इस्रा का उपदेश)

४ अब, हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो, और उन पर चलो, जिस से तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरो का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उस में जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। २ जो आज्ञा मैं तुम को सुनाता हूँ उस में न तो कुछ बढ़ाना, और न कुछ घटाना; तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। ३ तुम ने तो अपनी आखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया; अर्थात् जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिये थे उन सभो को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से

सत्यानाश कर डाला; ४ परन्तु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो सब के सब आज तक जीवित हो। ५ सुनो, मैं ने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं, कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उस में तुम उनके अनुसार चलो। ६ सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के साम्हने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रगट होगी, अर्थात् वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। ७ देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जब कि हम उस को पुकारते हैं? ८ फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे साम्हने रखता हूँ? ९ यह अत्यन्त आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कही ऐसा न हो कि जो जो बातें तुम ने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिये तुम्हारे मन से जाती रहे; किन्तु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। १० विशेष करके उस दिन की बातें जिस में तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझ से कहा था, कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊँ, जिस से वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें, और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाएं। ११ तब तुम समीप जाकर उस

पर्वत के नीचे खड़े हुए. और वह पहाड़ आग से धधक रहा था, और उसकी ली आकाश तक पहुँचनी थी, और उसके चारों ओर अग्निधारा, और बादल, और घोर अग्निधारा छाया हुआ था। १२ तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुम से बातें की; बातों का शब्द तो तुम को सुनाई पडा, परन्तु कोई रूप न देखा; केवल शब्द ही शब्द सुन पडा। १३ और उस ने तुम को अपनी वाचा के दसो वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी; और उन्हें पत्थर की दो पट्टियाँ पर लिख दिया। १४ और मुझ को यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिये कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उस में तुम उनको माना करो। १५ इसलिये तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। क्योंकि जब यहोवा ने तुम से होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुम को कोई रूप न देख पडा, १६ कही ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, १७ चाहे पृथ्वी पर चलनेवाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़नेवाले किसी पक्षी के, १८ चाहे भूमि पर रंगनेवाले किसी जन्तु, चाहे पृथ्वी के जल में * रहनेवाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, १९ वा जब तुम आकाश की ओर आँखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा, और तारों को, अर्थात् आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहुकर उन्हें दराडवत् करके उनकी सेवा करने लगे जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशवालों के लिये रखा † है। २० और तुम को यहोवा लोहे के भट्टे

* मूल में—पृथ्वी के नीचे जल में।

† मूल में—बाँट दिया।

के सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिये कि तुम उसकी प्रजासूची निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रगट है। २१ फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझ से क्रोध करके यह शपथ खाई, कि तू यरदन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है उस में तू प्रवेश करने न पाएगा। २२ किन्तु मुझे इसी देश में मरना है, मैं तो यरदन पार नहीं जा सकता, परन्तु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। २३ इसलिये अपने विषय में तुम सावधान रहो, कही ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम में बान्धी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को मना किया है। २४ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करनेवाली आग है; वह जल उठनेवाला ईश्वर है ॥

२५ यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर, और अपने बेटे-पौते उत्पन्न होने पर, तुम बिगडकर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ, और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, २६ तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ, कि जिस देश के अधिकारी होने के लिये तुम यरदन पार जाने पर हो उस में तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे, और बहुत दिन रहने न पाओगे, किन्तु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। २७ और यहोवा तुम को देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुम को पहुँचाएगा उन में तुम थोड़े ही से रह जाओगे। २८ और

वहा तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते, और न सुनते, और न खाते, और न सूघते हैं। २९ परन्तु वहा भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूँढोगे, तो वह तुम को मिल जाएगा, शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूँढो। ३० अन्त के दिनों में जब तुम मकट में पडो, और ये सब विपत्तियाँ तुम पर आ पडेगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना; ३१ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुम को न तो छोडेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उस ने तेरे पितरों से शपथ खाकर बान्धी है उसको नहीं भूलेगा। ३२ और जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ, क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई वा सुनने में आई है? ३३ क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तू ने सुनी है? ३४ फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बान्धकर परीक्षा, और चिन्ह, और चमत्कार, और युद्ध, और बली हाथ, और बढाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? ३५ यह सब तुम्हें को दिखाया गया, इसलिये कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है; उसको छोड और कोई ही नहीं। ३६ आकाश में से उस ने तुम्हें अपनी वाणी सुनाई कि तुम्हें शिक्षा दे;

और पृथ्वी पर उस ने तुम्हें अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुम्हें सुन पड़े। ३७ और उस ने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुम्हें अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिये निकाल लाया, ३८ कि तुम्हें से बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुम्हें उनके देश में पहुंचाए, और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है; ३९ सो आज जान ले, और अपने मन में सोच भी रख, कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है; और कोई दूसरा नहीं। ४० और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानना, इसलिये कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उस में तेरे दिन बहुत बरन सदा के लिये हों।

४१ तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर तीन नगर अलग किए, ४२ इसलिये कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उन में से किसी नगर में भाग जाए, और भागकर जीवित रहे: ४३ अर्थात् रुबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनश्शेइयों के बाशान का गोलान ॥

४४ फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी वह यह है; ४५ ये ही वे चित्तौनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, ४६ अर्थात् यरदन के

पार बंतपोर के साम्हने की तराई में, एमोरियों के राजा हेसबोनवासी सीहोन के देश में, जिस राजा को उन्होने मिस्र से निकलने के पीछे मागा। ४७ और उन्होने उसके देश को, और बाशान के राजा ओग के देश को, अपने वंश में कर लिया; यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहनेवाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। ४८ यह देश अर्नोन के नाले के छोरवाले ओरोएर से लेकर सीओन, जो हेर्मोन भी कहलाता है, ४९ उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की मलामी के नीचे के अराबा के ताल तक, यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है ॥

५ मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिये कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। २ हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हम से वाचा बान्धी। ३ इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बान्धा, जो यहा आज के दिन जीवित है। ४ यहोवा ने उम पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आम्हने साम्हने बाते की; ५ उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिये मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उस ने कहा, ६ तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुम्हें दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ ॥

७ मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना * ॥

* बा मेरे साम्हने पराध देवताओं को न मानना ।

८ तू अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, वा पृथ्वी पर, वा पृथ्वी के जल में * है; ९ तू उनको दण्डवत् न करना और न उनकी उपासना करना; क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेवाला ईश्वर हूँ, और जो मुझ से वैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, और परपोतों को पितरों का दण्ड दिया करता हूँ, १० और जो मुझ से प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ ॥

११ तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना; क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ † ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा ॥

१२ तू विश्रामदिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। १३ छ दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, १४ परन्तु सातवा दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये विश्रामदिन है, उस में न तू किसी भाँति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटा, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गदहा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो; जिस से तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। १५ और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया; इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्रामदिन मानने की आज्ञा देता है ॥

* मूल में—पृथ्वी के नीचे के जल में।

† वा झूठी बात पर।

१६ अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है; जिस से जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस में तू बहुत दिन तक रहने पाए, और तेरा भला हो ॥

१७ तू हत्या न करना ॥

१८ तू व्यभिचार न करना ॥

१९ तू चोरी न करना ॥

२० तू किसी के विशुद्ध झूठी साक्षी न देना ॥

२१ तू न किसी की पत्नी का लालच करना, और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल वा गदहे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना ॥

२२ यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग, और बादल, और घोर अन्धकार के बीच में से तुम्हारी सारी मण्डली से पुकारकर कहा; और इस से अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उस ने पत्थर की दो पट्टियाँ पर लिखकर मुझे दे दिया।

२३ जब पर्वत आग से दहक रहा था, और तुम ने उस शब्द को अन्धियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिए मेरे पास आए; २४ और तुम कहने लगे, कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम को अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हम ने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना; आज हम ने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तौभी मनुष्य जीवित रहता है, २५ अब हम क्यों मर जाएँ? क्योंकि ऐसी बड़ी आग

से हम भस्म हो जाएंगे; और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब तो मर ही जाएंगे। २६ क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे? २७ इसलिये तू समीप जा, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले; फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हम से कहना; और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। २८ जब तुम मुझ से ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी; तब उस ने मुझ से कहा, कि इन लोगों ने जो जो बातें तुझ से कही हैं मैं ने सुनी हैं; इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। २९ भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे, कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिस से उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे! ३० इसलिये तू जाकर उन से कह दे, कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ। ३१ परन्तु तू यही मेरे पास खड़ा रह, और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझ से कहूंगा, जिस से वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ मानें। ३२ इसलिये तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना; न तो दहिने मुड़ना और न बाएं। ३३ जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो, कि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उस में तुम बहुत दिनों के लिये बने रहो ॥

६ यह वह आज्ञा, और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो; २ और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अपने जीवन भर चलते रहें, जिस से तू बहुत दिन तक बना रहे। ३ हे इस्राएल, सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर; इसलिये कि तेरा भला हो, और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ ॥

४ हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है; ५ तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, और सारे जीव, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ६ और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझ को सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें; ७ और तू इन्हें अपने बालबच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना। ८ और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बान्धना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे। ९ और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना ॥

१० और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उस ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुम्हें देने की शपथ खाई, और जब वह तुझ को बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तू ने नहीं बनाए, ११ और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर, जो तू ने नहीं भरे

श्रीर खुदे हुए कूएं, जो तू ने नहीं खोदे, श्रीर दास की बारिया श्रीर जलपाई के वृक्ष, जो तू ने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे, श्रीर तू खाके तृप्त हो, १२ तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल लाया है। १३ अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना; उसी की सेवा करना, श्रीर उसी के नाम की शपथ खाना। १४ तुम पराए देवताओं के, अर्थात् अपने चारो ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना; १५ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठनेवाला ईश्वर है; कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भडके, श्रीर वह तुझ को पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले ॥

१६ तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुम ने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। १७ अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों, श्रीर विधियों को, जो उस ने तुझ को दी हैं, सावधानी से मानना। १८ श्रीर जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक श्रीर सुहावना है वही किया करना, जिस से कि तेरा भला हो, श्रीर जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उस में तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, १९ कि तेरे सब शत्रु तेरे साम्हने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था ॥

२० फिर आगे को जब तेरा लडका तुझ से पूछे, कि ये चितौनियां श्रीर विधि श्रीर नियम, जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को दी है, इनका प्रयोजन क्या है? २१ तब अपने लडके

से कहना, कि जब हम मिस्र में फ़िरोन के दास थे, तब यहोवा बलवन्त हाथ से हम को मिस्र में से निकाल ले आया; २२ श्रीर यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फ़िरोन श्रीर उसके सारे घराने को दुःख देनेवाले बड़े बड़े चिन्ह श्रीर चमत्कार दिखाए; २३ श्रीर हम को वह वहां से निकाल लाया, इसलिये कि हमें इस देश में पहुंचाकर, जिसके विषय में उस ने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। २४ श्रीर यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिये कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानें, श्रीर इस रीति सदैव हमारा भला हो, श्रीर वह हम को जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। २५ श्रीर यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिये धर्म ठहरेगा ॥

☉ फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए, श्रीर तेरे साम्हने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, श्रीर यबूसी नाम, बहुत सी जातियों को, अर्थात् तुम से बड़ी श्रीर सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, २ श्रीर तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, श्रीर तू उन पर जय प्राप्त कर ले; तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना; उन से न वाचा बान्धना, श्रीर न उन पर दया करना।

३ श्रीर न उन से ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, श्रीर न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिये ब्याह लेना। ४ क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी, श्रीर दूसरे देवताओं

की उपासना करवाएंगी; और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर बढ़क उठेगा, और वह तुम्हें को शीघ्र सत्यानास कर डालेगा। ५ उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना, कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठी को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट काटकर गिरा देना, और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। ६ क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुम्हें चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। ७ यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुम को चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किन्तु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे; ८ यहोवा ने जो तुम को बलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से, और मिस्र के राजा फ़िरोन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुम से प्रेम रखता है, और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उस ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। ९ इसलिये जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वासयोग्य ईश्वर है; और जो उस से प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह हज़ार पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता, और उन पर क़रणा करता रहता है; १० और जो उस से बैर रखते हैं वह उनके देखते उन से बदला लेकर नष्ट कर डालता है; अपने बैरी के विषय वह विलम्ब न करेगा, उसके देखते ही उस से बदला लेगा। ११ इसलिये इन आज्ञाओं, विधियों, और नियमों को, जो मैं आज तुम्हें चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना ॥

१२ और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस क़रणाग्रय वाचा को पालेगा जिसे उम ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बान्धी थी; १३ और वह तुम्हें से प्रेम रखेगा, और तुम्हें आशीष देगा, और गिनती में बढ़ाएगा; और जो देश उस ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा है उस में वह तेरी सन्तान पर, और अन्न, नये दाखमधु, और टटके तेल आदि, भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय-बैल और भेड़-बकरियों की बढ़ती करेगा। १४ तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा; तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। १५ और यहोवा तुम्हें से सब प्रकार के रोग दूर करेगा; और मिस्र की बुरी बुरी व्याधिया जिन्हें तू जानता है उन में से किसी को भी तुम्हें लगने न देगा, ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। १६ और देश-देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सभी को सत्यानास करना; उन पर तरस की दृष्टि न करना, और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फन्दे में फँस जाएगा। १७ यदि तू अपने मन में सोचे, कि वे जातिया जो तुम्हें से अधिक हैं; तो मैं उनको क्योंकर देश से निकाल सकूँगा? १८ तोभी उन से न डरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फ़िरोन से और सारे मिस्र से किया उसे भली भाँति स्मरण रखना। १९ जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तू ने अपनी आँखों से देखे, और जिन चिन्हों, और चमत्कारों, और जिस बलवन्त हाथ, और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें को निकाल लाया, उनके

अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिन से तू डरता है करेगा। २० इस से अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बरें भी भेजेगा, यहां तक कि उन में से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे साम्हने से नाश हो जाएंगे। २१ उन से भय न खाना; क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान् और भय योग्य ईश्वर है। २२ तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आग से धीरे धीरे निकाल देगा; तो तू एक दम से उनका अन्त न कर सकेगा, नहीं तो बनने लगे पशु बढकर तेरी हानि करेंगे। २३ तौभी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझ से हरवा देगा, और जब तक वे सत्यानाश न हो जाएं तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। २४ और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरनी पर से * मिटा डालेगा; उन में से कोई भी तेरे साम्हने खड़ा न रह सकेगा, और अन्त में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। २५ उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना; जो चादी वा सोना उन पर मढा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फन्दे में फंसेगा; क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। २६ और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा; उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उस से घृणा करना और उसे कदापि न चाहना; क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है।

८ जो जो आज्ञा में आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सभी पर चलने की चौकसी

* मूल में—आकाश के तले से।

करना, इसलिये कि तुम जीवित रहो और बढते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उस में जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। २ और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन चालीस वर्षों में तुम्हें सारे जगल के मार्ग में से इसलिये ले आया है, कि वह तुम्हें नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। ३ उस ने तुम्हें नम्र बनाया, और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना, जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुम्हें खिलाया; इसलिये कि वह तुम्हें मिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परन्तु जो जो वचन यहोवा के मुह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। ४ इन चालीस वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, और तेरे तन से भी नहीं गिरे, और न तेरे पांव फूले। ५ फिर अपने मन में यह तो विचार कर, कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें को ताड़ना देता है। ६ इसलिये अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना, और उसका भय मानते रहना। ७ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें एक उत्तम देश में लिये जा रहा है, जो जल की नदियों का, और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहिरें गहिरें सोतों का देश है। ८ फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों, और अनारों का देश है; और तेलवाली जलपाई और मधु का भी देश है। ९ उस देश में अन्न की महगी न होगी, और न उस में तुम्हें किसी पदार्थ की घटी

होगी; वहा के पत्थर लोहे के है, * और वहां के पहाड़ों में से तू ताबा खोदकर ढिङ्गाल सकेगा। १० और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देगा उसका धन्य मानेगा। ११ इसलिये सावधान रहना, कही ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम, और विधि में आज तुम्हें सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे; १२ ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, और अच्छे अच्छे घर बनाकर उन में रहने लगे, १३ और तेरी गाय-बैलों और भेड़-बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना, चादी, और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, १४ तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुम्हें को दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल लाया है, १५ और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विषवाले † सर्प और बिच्छू हैं, और जलरहित सूखे देश में उस ने तेरे लिये चकमक की चट्टान से जल निकाला, १६ और तुम्हें जगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिये कि वह तुम्हें नष्ट बनाए, और तेरी परीक्षा करके अन्त में तेरा भला ही करे। १७ और कही ऐसा न हो कि तू सोचने लगे, कि यह सम्पत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। १८ परन्तु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें सम्पत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिये देता है, कि जो वाचा उस ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बान्धी थी उसको पूरा करे,

* मूल में—जिसके पत्थर लोहा हैं।

† मूल में—जलते हुए।

जैसा आज प्रगट है। १९ यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा, और उनकी उपासना और उनको दण्डवत् करेगा, तो मैं आज तुम्हें को चिता देता हूँ कि तुम निःसन्देह नष्ट हो जाओगे। २० जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे ॥

हे इस्त्राएल, सुन, आज तू यरदन पार इसलिये जानेवाला है, कि ऐसी जातियों को जो तुम्हें से बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर-पनाह आकाश से बातें करती हैं,* अपने अधिकार में ले ले। २ उन में बड़े बड़े और लम्बे लम्बे लोग, अर्थात् अनाकवशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तू ने यह सुना है, कि अनाक-वंशियों के साम्हने कौन ठहर सकता है? ३ इसलिये आज तू यह जान ले, कि जो तेरे प्रागे भस्म करनेवाली प्राग की नाई पार जानेवाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है; और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे साम्हने दबा देगा; और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। ४ जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हीं तेरे साम्हने से निकाल चुके तब यह न सोचना, कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुम्हें इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किन्तु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे साम्हने से निकालता है। ५ तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिये जा रहा है, इसका

* मूल में—आकाश तक गढ़वाले नगरों को।

कारण तेरा धर्म वा मन की सिधार्ई नहीं है; तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे साम्हने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उस ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब, तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। ६ इसलिये यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है; क्योंकि तू तो एक हठीली * जाति है। ७ इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना, कि जंगल में तू ने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया; और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है जब तक तुम इस स्थान पर न पहुँचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। ८ फिर होरेब के पास भी तुम ने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। ९ जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुम से बान्धी थी लेने के लिये पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब चालीस दिन और चालीस रात पर्वत ही के ऊपर रहा; और मैं ने न तो रोटी खाई न पानी पिया। १० और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ † की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुम से कहे थे वे सब उन पर लिखे हुए थे। ११ और चालीस दिन और चालीस रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे दो वाचा की पटियाएँ मुझे

दे दीं। १२ और यहोवा ने मुझ से कहा, उठ, यहां से झुटपट नीचे जा; क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकालकर ले आया है वे बिगड़ गए हैं; जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैं ने उन्हें दी थी उसको उन्होंने ने झुटपट छोड़ दिया है; अर्थात् उन्होंने ने तुरन्त अपने लिये एक मूर्ति ढालकर बना ली है। १३ फिर यहोवा ने मुझ से यह भी कहा, कि मैं ने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति * के लोग हैं; १४ इसलिये अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूँ, और घरती के ऊपर से † उनका नाम वा चिन्ह तक मिटा डालूँ, और मैं उन से बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुम्ही से उत्पन्न करूँगा। १५ तब मैं उलटे पैर पर्वत से नीचे उतर चला, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था; और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएँ थीं। १६ और मैं ने देखा कि तुम ने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया; और अपने लिये एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरन्त उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुम को दी थी उसको तुम ने तज दिया। १७ तब मैं ने उन दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आँखों के साम्हने उनको तोड़ डाला। १८ तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुम ने यहोवा की दृष्टि में बुराई की, और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के साम्हने मूह के बल गिर पड़ा, और पहिले की नाई, अर्थात् चालीस दिन और चालीस रात तक, न तो रोटी खाई और न पानी पिया। १९ मैं तो यहोवा के उस कोप और जल-

* मूल में—कबी गर्दनवाली।

† मूल में—परमेश्वर की झंगुली।

* मूल में—कबी गर्दनवाले।

† मूल में—आकाश के तले से।

जलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुम से अप्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाश करने को था। परन्तु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। २० और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना चाहा; परन्तु उसी समय मैं ने हारून के लिये भी प्रार्थना की। २१ और मैं ने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर, आग में डालकर फूंक दिया; और फिर उसे पीस पीसकर ऐसा चूर चूरकर डाला कि वह धूल की नाईं जीर्ण हो गया; और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। २२ फिर तबेरा, और मस्सा, और किब्रोटहतावा में भी तुम ने यहोवा को रीस दिलाई थी। २३ फिर जब यहोवा ने तुम को कादेशबर्ने से यह कहकर भेजा, कि जाकर उस देश के जिसे मैं ने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुम ने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया, और न तो उसका विश्वास किया, और न उसकी बात ही मानी। २४ जिस दिन मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। २५ मैं यहोवा के साम्हने चालीस दिन और चालीस रात मुझ के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था, कि वह तुम को सत्यानाश करेगा। २६ और मैं ने यहोवा से यह प्रार्थना की, कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजासूयी निज भाग, जिनको तू ने अपने महान् प्रताप से छुड़ा लिया है, और जिनको तू ने अपने बलवन्त हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। २७ अपने दास इब्राहीम, इसहाक, और याकूब को स्मरण कर; और इन्क लोगों की कठोरता, और दुष्टता, और

पाप पर दृष्टि न कर, २८ जिस से ऐसा न ही कि जिस देश से तू हम को निकालकर ले आया है, वहा के लोग कहने लगें, कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पट्टुचा सका, और उन से बैर भी रखता था, इसी कारण उस ने उन्हें जगल में निकालकर मार डाला है। २९ ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, जिनको तू ने अपने बडे सामर्थ्य और बलवन्त भुजा के द्वारा निकाल ले आया है।।

१०

उम समय यहोवा ने मुझ से कहा, पहिली पटियाओ के समान पत्थर की दो और पटियाए गढ ले, और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा, और लकडी का एक सन्दूक भी बनवा ले। २ और मैं उन पटियाओ पर वे ही वचन लिखूंगा, जो उन पहिली पटियाओ पर थे, जिन्हें तू ने तोड डाला, और तू उन्हें उस सन्दूक में रखना। ३ तब मैं ने बवूल की लकडी का एक सन्दूक बनवाया, और पहिली पटियाओ के समान पत्थर की दो और पटियाए गढीं, तब उन्हें हाथों में लिये हुए पर्वत पर चढ़ गया। ४ और जो दस वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुम से कहे थे, वे ही उस ने पहिलो के समान उन पटियाओ पर लिखे, और उनको मुझे सौंप दिया। ५ तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया, और पटियाओ को अपने बनवाए हुए सन्दूक में धर दिया; और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वही रखी हुई है। (६ तब इस्राएली याकानियों के कूबों से कूच करके मोसेरा तक आए। वहा हारून मर गया, और उसको वही मिट्टी दी गई; और उसका पुत्र

एलीआजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। ७ वे वहाँ से कूच करके गुदगोदा को, और गुदगोदा से योतबाता को चले, इस देश में जल की नदिया है। ८ उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिये अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का सन्दूक उठाया करें, और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवाटहल किया करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिम प्रकार कि आज के दिन तक होता आ रहा है। ९ इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अश वा भाग नहीं मिला; यहोवा ही उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन से कहा था।) १० मैं तो पहिले की नाई उस पर्वत पर चालीस दिन और चालीस रात ठहरा रहा, और उम बार भी यहोवा ने मेरी सुनी, और तुम्हे नाश करने की मनसा छोड़ दी। ११ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, उठ, और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैं ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था उस में वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले।

१२ और अब, हे इस्त्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें से इसके सिवाय और क्या चाहता है, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और उसके सारे मागों पर चले, उस से प्रेम रखे, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, १३ और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुम्हें मुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिस से तेरा भला हो? १४ सुन, स्वर्ग और सब से ऊँचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और उस में जो कुछ है, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है; १५ तौभी यहोवा ने

तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी सन्तान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। १६ इसलिये अपने अपने हृदय का खतना करो, और आगे को हठीले * न रहो। १७ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरो का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वह महान् पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। १८ वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता, और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। १९ इसलिये तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना; क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। २० अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना; उम्मी की सेवा करना और उसी से लिपट रहना, और उसी के नाम की शपथ खाना। २१ वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है †, और वही तेरा परमेश्वर है, जिस ने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तू ने अपनी आँखों से देखा है। २२ तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब सत्तर ही मनुष्य थे; परन्तु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है।

११ इसलिये तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यन्त प्रेम रखना, और जो कुछ उस ने तुम्हें सौंपा है उसका, अर्थात् उसकी विधियों, नियमों, और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। २ और तुम आज यह सोच समझ लो (क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल-

* मूल में—कड़ी गर्दनवाले ।

† मूल में—वही तेरी स्तुति है।

बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की, और कैसी महिमा, और बलवन्त हाथ, और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, ३ और मिस्र में वहां के राजा फ़िरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए; ४ और उस ने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात् जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उस ने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला, कि आज तक उनका पता नहीं; ५ और तुम्हारे इस स्थान में पहुँचने तक उस ने जगल में तुम से क्या क्या किया; ६ और उस ने रूबेनी एलीआब के पुत्र दातान और अत्रीराम से क्या क्या किया; अर्थात् पृथ्वी ने अपना मुँह पसारके उनको घरानो, और डेरों, और सब अनुचरो समेत सब इस्राएलियों के देखते * देखते कैसे निगल लिया; ७ परन्तु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुम ने अपनी आँखों से देखा है। ८ इस कारण जितनी आज्ञाएँ मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सभी को माना करना, इसलिये कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिये तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ, ९ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे बंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उस में दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं। १० देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकलकर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे

और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे; ११ परन्तु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से मिचता है, १२ वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है; और वर्ष के आदि से लेकर अन्त तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरन्तर लगी रहती है ॥

१३ और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान में सुनकर, अपने सम्पूर्ण मन और सारे प्राण के साथ, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, १४ तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अन्त दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिस से तू अपना अन्न, नया दाखमधु, और टटका तेल सचय कर सकेगा। १५ और मैं तेरे पशुओं के लिये तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और सन्तुष्ट रहेगा। १६ इसलिये अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाएँ, और तुम बहककर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे और उनको दरडवत् करने लगे, १७ और यहोवा का कोप तुम पर भड़के, और वह आकाश की वर्षा बन्द कर दे, और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। १८ इसलिये तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्हानी के लिये अपने हाथों पर बान्धना, और वे तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम दें। १९ और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते-उठते इनकी

* मूल में—भीच में।

चर्चा करके अपने लड़केबालों को सिखाया करना। २० और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटको के ऊपर लिखना; २१ इसलिये कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उस में तुम्हारे और तुम्हारे लड़केबालों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। २२ इसलिये यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, और उसके सब मार्गों पर चलो, और उस से लिपटे रहो, २३ तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। २४ जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात् जंगल से लबानोन तक, और परात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। २५ तुम्हारे साम्हने कोई भी खड़ा न रह सकेगा; क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पाव पड़ेंगे उस सब पर **रचनेवालों के मन के** तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उन में डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा ॥

२६ सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। २७ अर्थात् यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी, २८ और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे

तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा ॥

२६ और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में पहुँचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरीज्जीम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना *। ३० क्या वे यरदन के पार, सूर्य के अस्त होने की ओर, अराबा के निवासी कनानियों के देश में, गिल्गाल के साम्हने, मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं हैं? ३१ तुम तो यरदन पार इसी लिये जाने पर हो, कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ; और तुम उसके अधिकारी होकर उस में निवास करोगे, ३२ इसलिये जितनी विधियाँ और नियम मैं आज तुम को सुनाता हूँ उन सभी के मानने में चौकसी करना ॥

१२ जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उस में जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। २ जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उनके लोग ऊँचे ऊँचे पहाड़ों वा टीलों पर, वा किसी भाति के हरे वृक्ष के तले, जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सभी को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना; ३ उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों में तोड़ डालना, उनकी अशोरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना, और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काटकर गिरा देना, कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। ४ फिर **जैषा**

* मूल में—यर्वत पर रखना।

वे करते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिये वैसा न करना। ५ किन्तु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, कि वहा अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवासस्थान के पास जाया करना; ६ और वही तुम अपने होमबलि, और मेलबलि, और दशमाश, और उठाई हुई भेंट, और मन्नत की वस्तुएं, और स्वेच्छा-बलि, और गाय-बैलो और भेड़-बकरियों के पहिलीठे ले जाया करना; ७ और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत उन सब कामो पर, जिन में तुम ने हाथ लगाया हो, और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, आनन्द करना। ८ जैसे हम आजकल यहा जो काम जिसको भाता है वही करते हैं वैसा तुम न करना; ९ जो विश्रामस्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहा तुम अब तक तो नही पहुंचे। १० परन्तु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिमके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हे करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हे विश्राम दे, ११ और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिये चुन ले उसी में तुम अपने होमबलि, और मेलबलि, और दशमाश, और उठाई हुई भेंटें, और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिये संकल्प करोगे, निदान जितनी वस्तुओं की आज्ञा में तुम को सुनाता हू उन सभी को वही ले जाया करना। १२ और वहा तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दामियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने आनन्द करना, और जो

लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी खावन्त करे, क्योंकि उसका तुम्हारे सग कोई निज भाग वा अन्न न होगा। १३ और सावधान रहना कि तू अपने होमबलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना; १४ परन्तु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं अपने होमबलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा में तुझ को सुनाता हूं उसको वही करना। १५ परन्तु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मारके खा सकेगा, शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकारे और हरिण का मास। १६ परन्तु उसका लोह न खाना; उसे जल की नाई भूमि पर उडेल देना। १७ फिर अपने अन्न, वा नये दाखमधु, वा टटके तेल का दशमाश, और अपने गाय-बैलो वा भेड़-बकरियों के पहिलीठे, और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु, और अपने स्वेच्छाबलि, और उठाई हुई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर न खाना; १८ उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दामियों के, और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना, और तू अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने अपने सब कामो पर जिन में हाथ लगाया हो आनन्द करना। १९ और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवीयों को न छोडना ॥

२० जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए, और तेरा जी मास खाना चाहे, और तू मोचने लगे, कि मैं मास खाऊंगा, तब जो मास तेरा जी

चाहे वही खा सकेगा। २१ जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिये चुन ले वह यदि तुझ में बहुत दूर हो, तो जो गाय-बैल भेड़-बकरी यहोवा ने तुझे दी हो, उन में से जो कुछ तेरा जी चाहे, उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मारके अपने फाटके के भीतर खा सकेगा। २२ जैसे चिकारे और हरिण का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे। २३ परन्तु उनका लोहू किसी भाति न खाना; क्योंकि लोहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी न खाना। २४ उसको न खाना; उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना। २५ तू उसे न खाना, इसलिये कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। २६ परन्तु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे, वा मन्त्र माने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, २७ और वहा अपने होमबलियों के माम और लोहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढाना, और मेलबलियों का लोहू उसकी वेदी पर उंडेलकर उनका माम खाना। २८ इन बातों को जिनकी आज्ञा में तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे ॥

२९ जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे, और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, ३० तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न

हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए, अर्थात् यह कहकर उनके देवताओं के सम्बन्ध में यह पूछपाछ न करना, कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति करते थे?—मैं भी वैसे ही करूंगा। ३१ तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना; क्योंकि जितने प्रकार के कामों में यहोवा घृणा करता है और बैर-भाव रखता है, उन सभी को उन्होने अपने देवताओं के लिये किया है, यहा तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिये अग्नि में डालकर जला देते हैं ॥

३२ जितनी बातों की मैं तुम को आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना; और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना ॥

१३

यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता वा स्वप्न देखनेवाला प्रगत होकर तुझे कोई चिन्ह वा चमत्कार दिखाए, २ और जिस चिन्ह वा चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझ से कहे, कि आओ हम पराए देवताओं के अनुयायी होकर, जिन से तुम अब तक अनजान रहे, उनकी पूजा करे, ३ तब तुम उम भविष्यद्वक्ता वा स्वप्न देखनेवाले के वचन पर कभी कान न धरना; क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिस में यह जान ले, कि ये मुझ से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं वा नहीं? ४ तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, और उसका भय मानना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसका वचन मानना, और उसकी सेवा करना, और उमी में लिपटे रहना। ५ और ऐसा भविष्यद्वक्ता वा स्वप्न

देखनेवाला जो तुम को तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेरके, जिस ने तुम को मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहनेवाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना ॥

६ यदि तेरा सगा भाई, वा बेटा, वा बेटा, वा तेरी अर्द्धांगिनी *, वा प्राणप्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझ को यह कहकर फुसलाने लगे, कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना वा पूजा करें, जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखा जानते थे, ७ चाहे वे तुम्हारे निकट रहनेवाले आस पास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक दूर दूर के रहनेवालों के देवता हों, ८ तो तू उसकी न मानना, और न तो उसकी बात सुनना, और न उम पर तरस खाना, और न कोमलता दिखाना, और न उसको छिपा रखना; ९ उसको अवश्य घात करना; उसके घात करने में पहिले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों के हाथ उठें। १० उस पर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए, क्योंकि उस ने तुझ को तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझ को दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। ११ और सब इस्त्राएली सुनकर भय खाएंगे, और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे ॥

१२ यदि तेरे किसी नगर के विषय में, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें रहने के लिये देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए,

* मूल में—तुम्हारी गोद की स्त्री ।

१३ कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है, कि आओ हम और देवताओं की जिन से अब तक अनजान रहे उपासना करें, १४ तो पूछपाछ करना, और खोजना, और भली भाँति पता लगाना, और यदि यह बात सच हो, और कुछ भी सन्देह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, १५ तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना, और पशु आदि उस सब समेत जो उस में हो उसको तलवार से सत्यानाश करना। १६ और उस में की मारी लूट चोरी के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिये मानो मर्वांग होम करके जलाना; और वह सदा के लिये डीह रहे, वह फिर बसाया न जाए। १७ और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए; जिस से यहोवा अपने भडके हुए कोप से शान्त होकर जैसा उस ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझ से दया का व्यवहार करे, और दया करके तुझ को गिनती में बढ़ाए। १८ यह तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएँ मैं आज्ञा तुम्हें सुनाता हूँ उन सभी को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा ॥

१४ तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो; इसलिये मरे हुएओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना, और न भौंहों के बाल मुँडाना *। २ क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये एक पवित्र

* मूल में—अपनी आंखों के बीच गंजापन न करना ।

समाज है, और यहोवा ने तुझ को पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज सम्पत्ति होने के लिये चुन लिया है ॥

३ तू कोई धिनीनी वस्तु न खाना ।

४ जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात् गाय-बैल, भेड़-बकरी, ५ हरिण, चिकारा, यखमूर, बनैली बकरी, साबर, नीलगाय, और बनैली भेड़ । ६ निदान पशुओं में से जितने पशु चिरे वा फटे खुर-वाले और पागुर करनेवाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो । ७ परन्तु पागुर करनेवाले वा चिरे खुरवालों में से इन पशुओं को, अर्थात् ऊंट, खरहा, और गापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परन्तु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं । ८ फिर सूअर, जो चिरे खुर का तो होता है परन्तु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिये अशुद्ध है । तुम न तो इनका मांस खाना, और न इनकी लोथ छूना ॥

९ फिर जितने जलजन्तु हैं उन में से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात् जितनों के पख और छिलके होते हैं । १० परन्तु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना; क्योंकि वे तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं ॥

११ सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो । १२ परन्तु इनका मांस न खाना, अर्थात् उकाब, हड़फोड़, कुरर; १३ गरुड़, चील और भांति भांति के शाही, १४ और भांति भांति के सब काग; १५ शतभुंग, तहमास, जलकुक्कुट, और भांति भांति के बाज; १६ छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू, और घुघू; १७ धनेश, गिद्ध, हाड़गील; १८ सारस, भांति भांति के बगुले, नौवा,

और चमगीदड़ । १९ और जितने रंगनेवाले पक्षर हैं वे सब तुम्हारे लिये अशुद्ध हैं; वे खाए न जाएं । २० परन्तु सब शुद्ध पंखवालों का मांस तुम खा सकते हो ॥

२१ जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना; उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिये दे सकते हो, वा किसी पराए के हाथ बेच सकते हो; परन्तु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र समाज है । बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना ॥

२२ बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश भ्रवश्य अलग करके रखना । २३ और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिये चुन ले उस में अपने अन्न, और नये दाखमधु, और टटके तेल का दशमांश, और अपने गाय-बैलो और भेड़-बकरियों के पहिलीठे अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाया करना; जिस से तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे । २४ परन्तु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिये चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहा की यात्रा तेरे लिये इतनी लम्बी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके, २५ तो उसे बेचके, रुपये को बान्ध, हाथ में लिये हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, २६ और वहां गाय-बैल, वा भेड़-बकरी, वा दाखमधु, वा मदिरा, वा किसी भांति की वस्तु क्यो न हो, जो तेरा जी चाहे, उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने खाकर आनन्द करना । २७ और अपने फाटको

के भीतर के लेवीय को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग वा अंश न होगा ॥

२८ तीन तीन वर्ष के बीतने पर तीसरे * वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना; २९ तब लेवीय जिसका तेरे सग कीई निज भाग वा अंश न होगा वह, और जो परदेशी, और अनाथ, और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर लाए; जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे ॥

१५ सात सात वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, २ अर्थात् जिस किसी ऋण देनेवाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो, तो वह उसे छोड़ दे; और अपने पड़ोसी वा भाई से उसको बरबस न भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। ३ परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परन्तु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। ४ तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, कि तू उसका अधिकारी हो, उस में वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। ५ इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। ६ तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परन्तु तुझे उधार लेना न पड़ेगा; और तू बहुत जातियों पर प्रभुता

करेगा, परन्तु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी ॥

७ जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिये न तो अपना हृदय कठोर करना, और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना; ८ जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। ९ सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिन्ता न समाए, कि सातवा वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से कृप करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, तो यह तेरे लिये पाप ठहरेगा। १० तू उसको अवश्य देना, और उसे देने समय तेरे मन को बुरा न लगे; क्योंकि इसी बातके कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिन में तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। ११ तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे; इसलिये में तुझे यह आज्ञा देता हूँ, कि तू अपने देश में अपने दीन-दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना ॥

१२ यदि तेरा कोई भाईबन्धु, अर्थात् कोई इब्री वा इब्रिन, तेरे हाथ बिके, और वह छः वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो सातवें वर्ष उसको अपने पास से स्वतन्त्र करके जाने देना। १३ और जब तू उसको स्वतन्त्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ न जाने देना; १४ वरन अपनी भेड़-बकरियों, और खलिहान, और दाखमधु के कुराड में से उसको बहुतायत से देना; तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी

* मूल में—उस।

हो उसी के अनुसार उसे देना। १५ और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छोड़ा लिया; इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। १६ और यदि वह तुझ से और तेरे घराने से प्रेम रखता, और तेरे सग आनन्द से रहता हो, और इस कारण तुझ से कहने लगे, कि मैं तेरे पास से न जाऊंगा, १७ तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। १८ जब तू उसको अपने पास से स्वतन्त्र करके जाने दे, तब उसे छोड़ देना तुझ को कठिन न जान पड़े; क्योंकि उस ने छ. वर्ष दो मजदूरी के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझ को आशीष देगा ॥

१९ तेरी गायों और भेड़-बकरियों के जितने पहिलौठे नर हो उन सभी को अपने परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र रखना, अपनी गायों के पहिलौठे से कोई काम न लेना, और न अपनी भेड़-बकरियों के पहिलौठे का ऊन कतरना। २० उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा तू यहोवा के साम्हने अपने अपने घराने समेत प्रति वर्ष उसका मास खाना। २१ परन्तु यदि उस में किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात् वह लगड़ा वा अन्धा हो, वा उस में किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिये बलि न करना। २२ उसको अपने फाटकों के भीतर खाना; शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिण का मास खाते हैं वैसे ही उसका

भी खा सकेंगे। २३ परन्तु उसका लोह न खाना; उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना ॥

१६ आबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिये फसह का पर्व मानना; क्योंकि आबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। २ इसलिये जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिये भेड़-बकरियों और गाय-बैल फसह करके बलि करना। ३ उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना; सात दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना; क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था, इस रीति से तुझ को मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। ४ सात दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए, और जो पशु तू पहिले दिन की संध्या को बलि करे उसके मास में से कुछ बिहान तक रहने न पाए। ५ फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि न करना; ६ जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिये चुन ले केवल वही, वर्ष के उसी समय जिस में तू मिस्र से निकला था, अर्थात् सूरज डूबने पर सध्याकाल को, फसह का पशुबलि करना। ७ तब उसका मास उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूजकर खाना; फिर बिहान को उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। ८ छः दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना; और सातवें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के

लिये महासभा हो; उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए ॥

६ फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब से आरम्भ करके सात अठवारे गिनना। १० तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिये स्वेच्छा-बलि देकर अठवारो नाम पर्व मानना; ११ और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले अपने अपने बेटे-बेटियों, दास-दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हों, और जो जो परदेशी, और अनाथ, और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने आनन्द करें। १२ और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था; इसलिये इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना ॥

१३ तू जब अपने खलिहान और दास-मधु के कुण्ड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब भोपड़ियों नाम पर्व सात दिन मानते रहना, १४ और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे-बेटियों, दास-दासियों समेत तू और जो लेवीय, और परदेशी, और अनाथ, और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों वे भी आनन्द करें। १५ जो स्थान यहोवा चुन ले उस में तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये सात दिन तक पर्व मानते रहना; क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझे को आशीष देगा; तू आनन्द ही करना। १६ वर्ष में तीन बार, अर्थात् अखमीरी रोटी के पर्व, और अठवारो के पर्व, और भोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने उस स्थान में जो वह चुन लेगा

जाएं। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के साम्हने कोई न जाए; १७ सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी, और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे को दी हो, दिया करे ॥

१८ तू अपने एक एक गोत्र में से, अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे को देता है न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। १९ तुम न्याय न बिगाड़ना; तू न तो पक्षपात करना; और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आँखें अन्धी कर देती है, और धर्मियों की बातें पलट देती है। २० जो कुछ नितान्त ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिस से तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे ॥

२१ तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न करना। २२ और न कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उस से तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है ॥

१७ तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये कोई बैल वा भेड़-बकरी बलि न करना जिस में दोष वा किसी प्रकार की खोट हो; क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है ॥

२ जो बस्तिया * तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उन में से किसी में कोई पुरुष वा स्त्री ऐसी पाई जाए, जिस ने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो, जो उसकी दृष्टि में बुरा है, ३ अर्थात् मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराए

* मूल में—फाटक।

देवताओं की, वा सूर्य, वा चंद्रमा, वा आकाश के गए में से किसी की उपासना की हो, वा उनको दण्डवत किया हो, ४ और यह बात तुम्हें बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए; तब भली भांति पूछपाछ करना, और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्लाम में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, ५ तो जिस पुरुष वा स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष वा स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए। ६ जो प्राणदण्ड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किन्तु दो वा तीन मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। ७ उसके मार डालने के लिये सब से पहिले साक्षियों के हाथ, और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना ॥

८ यदि तेरी बस्तियों * के भीतर कोई भगड़े की बात हो, अर्थात् आपस के खून, वा विवाद, वा मारपीट का कोई मुकद्दमा उठे, और उसका न्याय करना तेरे लिये कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा; ९ लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछपाछ करना, कि वे तुम को न्याय की बातें बतलाए। १० और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुम्हें बता दें, उसी के अनुसार करना; और जो व्यवस्था वे तुम्हें दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना; ११ व्यवस्था की जो बात वे तुम्हें बताए, और न्याय की जो बात वे तुम्हें से कहें, उसी के अनुसार करना, जो बात वे तुम्हें को

बताएं उस से दहिने वा बाएं न मुड़ना।

१२ और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की, जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा, न माने, वा उस न्यायी की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए, इस प्रकार तू इस्लाम में से ऐसी बुराई को दूर कर देना।

१३ इस से सब लोग सुनकर डर जाएंगे, और फिर अभिमान नहीं करेंगे ॥

१४ जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, और उसका अधिकारी हो, और उन में बसकर कहने लगे, कि चारों ओर की सब जातियों की नाई में भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा; १५ तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना; किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। १६ और वह बहुत घोड़े न रखे, और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुम से कहा है, कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना।

१७ और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए; और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। १८ और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक, जो लेवीय याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिये कर ले। १९ और वह उसे अपने पास रखे, और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिस से वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना

* मूल में—फाटक।

सीखे; २० जिस से वह अपने मन में घमण्ड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, और इन आज्ञाओं से न तो दहिने मुड़े और न बाएँ, जिस से कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे ॥

१८ लेवीय याजकों का, वरन सारे लेवीय गोत्रियों का, इस्राएलियों के संग कोई भाग वा अंश न हो; उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। २ उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो; क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। ३ और चाहे गाय-बैल चाहे भेड़-बकरी का मेलबलि हो, उससे करनेवाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो, कि वे उसका कन्धा और दोनों गाल और भोक्त याजक को दें। ४ तू उसको अपनी पहिली उपज का अन्न, नया दाखमधु, और टटका तेल, और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहिली बार कतरा गया हो। ५ क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है, कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करें ॥

६ फिर यदि कोई लेवीय इस्राएल की बस्तियों * में से किसी से, जहाँ वह परदेशी की नाई रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, ७ तो अपने सब लेवीय भाइयों की नाई, जो वहाँ अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करे। ८ और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़

* मूल में—फाटक।

उसको भोजन का भाग भी उनके ममान मिला करे ॥

९ जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार धिनीना काम करने को न सीखना। १० तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे वा बेटी को प्राग में होम करके चढ़ानेवाला, वा भावी कहनेवाला, वा शुभ अशुभ मुहूर्तों का माननेवाला, वा टोन्हा, वा तान्त्रिक, ११ वा बाजीगर, वा ओम्हो से पूछनेवाला, वा भूत साधनेवाला, वा भूतों का जगानेवाला हो। १२ क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं; और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे साम्हने से निकालने पर है। १३ तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। १४ वे जातियाँ जिनका अधिकारी तू होने पर है शुभ-अशुभ मुहूर्तों के माननेवालों और भावी कहनेवालों की सुना करती हैं; परन्तु तुझ को तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। १५ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात् तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा; तू उसी की सुनना; १६ यह तेरी उस बिनती के अनुसार होगा, जो तू ने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना, और न वह बड़ी प्राग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाऊँ। १७ तब यहोवा ने मुझ से कहा, कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। १८ सो मैं उनके लिये उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा; और अपना वचन उसके मुँह में डालूँगा; और जिस जिस बात की मैं उसे

आज्ञा दूगा वही वह उनको कह सुनाएगा। १६ और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उस से लूंगा। २० परन्तु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैं ने उसे न दी हो, वा पराए देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। २१ और यदि तू अपने मन में कहे, कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहिचानें ? २२ तो **पहिचान यह है कि** जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं; परन्तु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उस में भय न खाना ॥

१६ जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नाश करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी हों के उनके नगरो और घरों में रहने लगे, २ तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है तीन नगर अपने लिये अलग कर देना। ३ और तू अपने लिये मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है तीन भाग करना, ताकि हर एक खूनी वही भाग जाए। ४ और जो खूनी वहा भागकर अपने प्राण को बचाए, वह इस प्रकार का हो; अर्थात् वह किसी से बिना पहिले बैर रखे वा उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो—५ जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए, और वृक्ष काटने को कुल्हाडी हाथ से उठाए, और कुल्हाडी बेट से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए—

तो वह उन नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे; ६ ऐसा न हो कि मार्ग की लम्बाई के कारण खून का पलटा लेनेवाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े, और मार डाले, यद्यपि वह प्राणदण्ड के योग्य नहीं, क्योंकि उस से बैर नहीं रखता था। ७ इसलिये मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, कि अपने लिये तीन नगर अलग कर रखना। ८ और यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उस ने तेरे पूर्वजों से खाई थी तेरे सिवानों को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे, जिसके देने का वचन उस ने तेरे पूर्वजों को दिया था—९ यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुझ को सुनाता हूँ चौकसी करे, और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे— तो इन तीन नगरों से अधिक और भी तीन नगर अलग कर देना, १० इसलिये कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए, और **दोष** तुझ पर न लगे। ११ परन्तु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे, और उस पर लपककर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए, और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, १२ तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहा से मगाकर खून के पलटा लेनेवाले के हाथ में सौंप दें, कि वह मार डाला जाए। १३ उस पर तरस न खाना, परन्तु निर्दोष के खून का **दोष** इस्राएल से दूर करना, जिस से तुम्हारा भला हो ॥

१४ जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को देता है, उसका जो भाग तुझे

मिलेगा, उस में किसी का सिवाना जिसे भगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना ॥

१५ किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म वा पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परन्तु दो वा तीन साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे । १६ यदि कोई भूठी साक्षी देनेवाला किसी के विरुद्ध यहीवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, १७ तो वे दोनों मनुष्य, जिनके बीच ऐसा मुकद्दमा उठा हो, यहीवा के सम्मुख, अर्थात् उन दिनों के याजको और न्यायियों के साम्हने खड़े किए जाए; १८ तब न्यायी भली भाँति पूछपाछ करे, और यदि यह निर्णय पाए कि वह भूठा साक्षी है, और अपने भाई के विरुद्ध भूठी साक्षी दी है १९ तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उस ने की हो वैसी ही तुम भी उसकी करना; इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना । २० और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे, और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे । २१ और तू बिलकुल तरस न खाना; प्राण की सन्ती प्राण का, आँसू की सन्ती आँसू का, दात की सन्ती दाँत का, हाथ की सन्ती हाथ का, पाव की सन्ती पाँव का रख देना ॥

२० जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, और घोड़े, रथ, और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उन से न डरना; तेरा परमेश्वर यहीवा जो तुझ को मिला देश से निकाल ले आया है वह तेरे संग है । २ और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, ३ हे इस्त्राएलियो सुनो,

आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो; तुम्हारा मन कच्चा न हो; तुम मत डरो, और न थरथराओ, और न उनके साम्हने भय खाओ; ४ क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहीवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिये तुम्हारे सग सग चलता है । ५ फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे, कि तुम में से कौन है जिस ने नया घर बनाया हो और उमका समर्पण न किया हो? तो वह अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे । ६ और कौन है जिस ने दाब की बारी लगाई हो, परन्तु उसके फल न खाए हो? वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि वह संग्राम में मारा जाए, और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए । ७ फिर कौन है जिस ने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हों, परन्तु उसको ब्याह न लाया हो? वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए, और दूसरा मनुष्य उस से ब्याह कर ले । ८ इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहें, कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि उसकी देखादेखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए । ९ और जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुकें, तब उन पर प्रधानता करने के लिये सेनापतियों को नियुक्त करें ॥

१० जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहिले उस से सन्धि करने का समाचार दे । ११ और यदि वह सन्धि करना अंगीकार करे और तेरे लिये अपने फाटक खोल दे, तब जितने उस में हों वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिये बेगार

करनेवाले ठहरें। १२ परन्तु यदि वे तुम्ह से सन्धि न करें, परन्तु तुम्ह से लड़ना चाहें, तो तू उस नगर को घेर लेना; १३ और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे तब उस में के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना। १४ परन्तु स्त्रिया और बालबच्चे, और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो उसे अपने लिये रख लेना; और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें दे उसे काम में लाना। १५ इस प्रकार उन नगरों से करना जो तुम्ह से बहुत दूर हैं, और इन जातियों के नगर नहीं हैं। १६ परन्तु जो नगर इन लोगों के हैं, जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें को ठहराने पर है, उन में से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, १७ परन्तु उनको अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात् हितियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिबियों, और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें आज्ञा दी है; १८ ऐसा न हो कि जितने धनीने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसे ही करना तुम्हें भी सिखाए, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगे।

१९ जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिये उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिये उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य हैं कि तू उनको भी घेर रखे? २० परन्तु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं हैं, तो उनको काटकर नाश करना, और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक कौट बांधे रहना जब तक वह तेरे दश में न आ जाए।

२१

यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है किसी मारे हुए की लोथ पड़ी हुई मिले, और उसको किस ने मार डाला है यह जान न पड़े, २ तो तेरे सियाने * लोग और न्यायी निकलकर उस लोथ से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापें; ३ तब जो नगर उस लोथ के सब से निकट ठहरे, उसके सियाने * लोग एक ऐसी कलोर ले रखे, जिस से कुछ काम न लिया गया हो, और जिस पर जूआ कभी न रखा गया हो। ४ तब उस नगर के सियाने * लोग उस कलोर को एक बारहमासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो ले जाएं, और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दें। ५ और लेवीय याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, और उनके कहने के अनुसार हर एक ऋगड़े और मारपीट के मुकद्दमे का निर्णय हो। ६ फिर जो नगर उस लोथ के सब से निकट ठहरे, उसके सब सियाने * लोग उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो अपने अपने हाथ धोकर कहें, ७ यह खून हम से नहीं किया गया, और न यह हमारी आंखों का देखा हुआ काम है। ८ इसलिये, हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इस्राएली प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष के खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून का दोष उनको क्षमा कर दिया जाएगा। ९ जो वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तू निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना।

* बुद्ध लोग, वा पुरनिये।

१० जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे, और तू उन्हें बन्धुआ कर ले, ११ तब यदि तू बन्धुओं में किसी सुन्दर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए, और उस से ब्याह कर लेना चाहे, १२ तो उसे अपने घर के भीतर ले आना, और वह अपना मिर मुड़ाए, नाखून कटाए, १३ और अपने बन्धुआई के वस्त्र उतारके तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिये बिलाप करती रहे; उसके बाद तू उसके पास जाना, और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने। १४ फिर यदि वह तुझ को अच्छी न लगे, तो जहा वह जाना चाहे वहा उसे जाने देना; उसको रुपया लेकर कही न बेचना और तू ने जो उसकी पत-पानी ली, इस कारण उस से दासी का सा व्यवहार न करना ॥

१५ यदि किसी पुरुष की दो पत्निया हो, और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो, और प्रिया और अप्रिया दोनों स्त्रिया बेटे जने, परन्तु जेठा अप्रिया का हो, १६ तो जब वह अपने पुत्रों को अपनी सम्पत्ति का बटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह प्रिया के बेटे को जेठांस न दे सकेगा; १७ वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहिला फल है, और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी सम्पत्ति में से दो भाग देकर जेठांसी माने ॥

१८ यदि किसी के हठीला और दंगत बेटा हो, जो अपने माता-पिता की बात न माने, किन्तु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, १९ तो उसके माता-पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट

नगर के सियानों* के पास ले जाएं, २० और वे नगर के सियानो* से कहे, कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगत है, यह हमारी नहीं सुनता; यह उड़ाऊ और पियकड़ है। २१ तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डाले, यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्त्राएली सुनकर भय खाएंगे ॥

२२ फिर यदि किसी से प्राणदण्ड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिस से वह मार डाला जाए, और तू उसको छोच को वृक्ष पर लटका दे, २३ तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टगी न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की और से शापित ठहरता है, इसलिये जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध न करना ॥

२२ तू अपने भाई के गाय-बैल वा भेड-बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। २ परन्तु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो, वा तू उसे न जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूँढे तब तक वह तेरे पास रहे; और जब वह उसे ढूँढे तब उसको दे देना। ३ और उसके गदहे वा वस्त्र के विषय, वरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो, जो उस से खो गई हो और तुझ को मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना; तू देखी-अनदेखी न करना ॥

४ तू अपने भाई के गदहे वा बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न

* बुद्ध लोग, वा पुरनिये ।

करना; उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना ॥

५ कोई स्त्री पुरुष का पहिरावा न पहिने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहिरावा पहिने; क्योंकि ऐसे कामों के सब करनेवाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है ॥

६ यदि वृक्ष वा भूमि पर तेरे साम्हने मार्ग में किसी चिडिया का घोंसला मिले, चाहे उस में बच्चे हों चाहे अण्डे, और उन बच्चों वा अण्डों पर उनकी मां बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत मां को न लेना; ७ बच्चों को अपने लिये ले तो ले, परन्तु मां को अवश्य छोड़ देना; इसलिये कि तेरा भला हो, और तेरी आयु के दिन बहुत हो ॥

८ जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिये मूखेर बनाना, ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े, और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। ९ अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज, अर्थात् तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। १० बैल और गदहा दोनों सग जोतकर हल न चलाना। ११ ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहिनना ॥

१२ अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना ॥

१३ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याहे, और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे, १४ और वह उस स्त्री की नामधराई करे, और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, कि इस स्त्री को मैं ने ब्याहा, और जब उस से संगति की तब उस में कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए, १५ तो उस कन्या के माता-पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध

लोगों के पास फाटक के बाहर जाएं; १६ और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैं ने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी, और वह उसको अप्रिय लगती है; १७ और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है, कि मैं ने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए। परन्तु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये हैं। तब उसके माता-पिता नगर के वृद्ध लोगों के साम्हने उस चदर को फैलाए। १८ तब नगर के सियाने * लोग उस पुरुषको पकड़कर ताड़ना दें; १९ और उस पर सौ शेकेल रूपे का दण्ड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिये कि उस ने एक इस्लामली कन्या की नामधराई की है, और वह उसी की पत्नी बनी रहे, और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। २० परन्तु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाएं, और उस पुरुष की बात सच ठहरे, २१ तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाएं, और उस नगर के पुरुष उसको पत्थरबाह करके मार डालें; उस ने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है; यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना ॥

२२ यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं; इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्लामल में से दूर करना ॥

२३ यदि किसी कुंवारी कन्या के ब्याह की बात लगी हो, और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उस से कुकर्म कहे, २४ तो

* वृद्ध लोग, वा पुरानिये।

तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पत्थरवाह करके मार डालना, उस कन्या को तो इसलिये कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चित्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उस ने अपने पड़ोसी की स्त्री की पत-पानी ली है; इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना ॥

२५ परन्तु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके व्याह की बात लगी हो मैदान में पाकर बर्बस उस से कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिस ने उस से कुकर्म किया हो। २६ और उस कन्या से कुछ न करना, उस कन्या का पाप प्राणदण्ड के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढाई करके उसे मार डाले, वैसी ही यह बात भी ठहरेगी, २७ कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया, और वह चित्लाई तो मही, परन्तु उसको कोई बचानेवाला न मिला ॥

२८ यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके व्याह की बात न लगी हो, और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे, और वे पकड़े जाए, २९ तो जिस पुरुष ने उस से कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को पचास शेकेल रूपा दे, और वह उसी की पत्नी हो, उस ने उसकी पत-पानी ली, इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागने पाए ॥

३० कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पिता का ओढना न उघाये ॥

२३ जिसके अण्ड कुचले गए वा लिंग काट डाला गया हो वह यहोवा की सभा में न आने पाए ॥

२ कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए; किन्तु दस पीढ़ी तक उसके बंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए ॥

३ कोई अम्मोनी वा मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए; उनकी दसवीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए; ४ इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने ने अन्न जल लेकर मार्ग में तुम से भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमनहरैम देश के पतोर नगरवाले बोर के पुत्र बिलाम को तुम्हें शाप देने के लिये दक्षिणा दी। ५ परन्तु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम को न सुनी; किन्तु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिये कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें से प्रेम रखता था। ६ तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना ॥

७ किसी एदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है, किसी मिन्की से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। ८ उनके जो परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए ॥

९ जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचा रहना। १० यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए, और छावनी के भीतर न आए; ११ परन्तु सध्या से कुछ पहिले वह स्नान करे, और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। १२ छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, और वही दिशा फिरने को जाया करना;

१३ और तेरे पाम के हथियारो मे एक खनती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे, तब उस से खोदकर अपने मल को ढाप देना। १४ क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को बचाने और तेरे शत्रुओ को तुझ से हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमना रहेगा, इसलिये तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिये, ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य मे कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझ मे फिर जाए ॥

१५ जो दाम अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले उसको उसके स्वामी के हाथ न पकडा देना, १६ वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी मे तेरे सग रहने पाए, और तू उस पर अन्धेर न करना ॥

१७ इस्राएली स्त्रियो मे से कोई देव-दासी न हो, और न इस्राएलियो मे से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करनेवाला हो। १८ तू वेश्यापन की कमाई वा कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिये अपने परमेश्वर यहोवा के घर मे न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनो की दोनों कमाई घृणित कर्म है ॥

१९ अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन-वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाति है, उसे ब्याज न देना। २० तू परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परन्तु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है, वहाँ जिस जिस काम मे अपना हाथ लगाए उन सभी मे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे ॥

२१ जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिये मन्नत माने, तो उसके पूरी करने मे विलम्ब न करना; क्योंकि तेरा परमेश्वर

यहोवा उसे निश्चय तुझ से ले लेगा, और बिछान्न करने से तू पापी ठहरेगा। २२ परन्तु यदि तू मन्नत न माने, तो तेरा कोई पाप नहीं। २३ जो कुछ तेरे मुह से निकले उसके पूरा करने मे चौकसी करना, तू अपने मुह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसी ही स्वतन्त्रता पूर्वक उसे पूरा करना ॥

२४ जब तू किसी दूसरे की दाख की वारी मे जाए, तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परन्तु अपने पात्र मे कुछ न रखना। २५ और जब तू किसी दूसरे के खडे खेत मे जाए, तब तू हाथ से वाल तोड सकता है, परन्तु किसी दूसरे के खडे खेत पर हसुआ न लगाना ॥

२४ यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को व्याह ले, और उसके बाद उसमे कुछ लज्जा की बात पाकर उस से अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिये त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ मे देकर उसको अपने घर से निकाल दे। २ और जब वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। ३ परन्तु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे, और वह उसके लिये त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ मे देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वा वह दूसरा पुरुष जिस ने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, ४ तो उसका पहिला पति, जिस ने उसका निकाल दिया हो, उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है ॥ इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना * ॥

* मूल मे—देश से पाप न कराना।

५ जो पुरुष हाल का ब्याहा हुआ हो, वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए; वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे।
६ कोई मनुष्य चक्की को वा उसके ऊपर के पाट को बन्धक न रखे; क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बन्धक रखना है।

७ यदि कोई अपने किसी इलाएली भाई को दास बनाने वा बेच डालने की मनसा से चुराता हुआ पकड़ा जाए, तो ऐसा चोर मार डाला जाए; ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना।

८ कोठ की व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवीय याजक तुम्हें सिखाए, उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना; जैसी आज्ञा में ने उनको दी है वैसा करने में चौकसी करना। ९ स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने, जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे, तब मार्ग में मरियम से क्या किया।

१० जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे, तब बन्धक की वस्तु लेने के लिये उसके घर के भीतर न घुसना। ११ तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बन्धक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। १२ और यदि वह मनुष्य कगाल हो, तो उसका बन्धक अपने पास रखे हुए न सोना, १३ सूर्य अस्त होते होते उसे वह बन्धक अवश्य फेर देना, इसलिये कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुम्हें आशीर्वाद दे; और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा।

१४ कोई मजदूर जो दीन और कगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहनेवाले परदेशियों

में से हो, उस पर अन्धेरे न करना; १५ यह जानकर, कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहिले तू उसकी मजदूरी देना; ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे, और तू पापी ठहरे।

१६ पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए, और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए; जिस ने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए।

१७ किसी परदेशी मनुष्य वा अनाथ बालक का न्याय न बिगाडना, और न किसी विधवा के कपड़े को बन्धक रखना; १८ और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वहा से छुड़ा लाया है; इस कारण में तुम्हें यह आज्ञा देता हू।

१९ जब तू अपने पक्के खेत को काटे, और एक-पूला खेत में भूल में छूट जाए, तो उसे लेने को फिर न लौट जाना; वह परदेशी, अनाथ, और विधवा के लिये पड़ा रहे; इस-लिये कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुम्हें को आशीष दे। २० जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े, तब डालियों को दूसरी बाग न झाडना; वह परदेशी, अनाथ, और विधवा के लिये रह जाए। २१ जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े, तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना; वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिये रह जाए। २२ और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था; इस कारण में तुम्हें यह आज्ञा देता हू।

२५ यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो, और वे न्याय करवाने के लिये न्यायियों के पास जाए, और वे

उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएँ, २ और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने साम्हने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिनकर लगवाए। ३ वह उसे चालीस कोड़े तक लगवा सकता है, इस से अधिक नहीं लगवा सकता; ऐसा न हो कि इस से अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे ॥

४ दांवते समय चलते हुए बैल का मुह न बान्धना ॥

५ जब कई भाई सग रहते हो, और उन में से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का ब्याह परगोत्री से न किया जाए; उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले, और उस से पति के भाई का धर्म पालन करे। ६ और जो पहिला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिस से कि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए। ७ यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए, तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है, और मुझे से पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। ८ तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अडा रहे, और कहे, कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भावता, ९ तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के साम्हने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे, और उसके मुह पर थूक दे; और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उस से इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा।

१० तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात् जूती उतारे हुए पुरुष का घराना ॥

११ यदि दो पुरुष आपस में मागपीट करते हो, और उन में से एक की पत्नी अपने पति को मारनेवाले के हाथ से छुड़ाने के लिये पास जाए, और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, १२ तो उस स्त्री का हाथ काट डालना; उस पर तरस न खाना ॥

१३ अपनी धैली में भांति भांति के, अर्थात् घटती-बढ़ती बटखरे न रखना।

१४ अपने घर में भांति भांति के, अर्थात् घटती-बढ़ती नपुए न रखना। १५ तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो; इसलिये कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस में तेरी आयु बहुत हो। १६ क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं ॥

१७ स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझ से मार्ग में क्या किया, १८ अर्थात् उनको परमेश्वर का भय न था; इस कारण उस ने जब तू मार्ग में थका मादा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सब से पीछे थे उन सभी को मारा। १९ इसलिये जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में, जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से * मिटा डालना, और तुम इस बात को न भूलना ॥

२६ फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज

* भूल में—आकाश के तले से।

भाग करके तुम्हें देता है पहुंचे, और उसका अधिकारी होकर उस में बस जाए, २ तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहिली उपज तू अपने घर लाएगा, उस में से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। ३ और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के साम्हने निवेदन करता हूँ, कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उस में मैं आ गया हू। ४ तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के साम्हने धर दे। ५ तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, कि मेरा मूलपुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिला गया, और वहां परदेशी होकर रहा; और वहां उस से एक बड़ी, और सामर्थी, और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। ६ और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया, और हमें दुःख दिया, और हम से कठिन सेवा ली। ७ परन्तु हम ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुःख-श्रम और अन्धेर पर दृष्टि की; ८ और यहोवा ने बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हम को मिस्र से निकाल लाया; ९ और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया है। १० अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तू ने मुझे दी है उसकी पहली उपज

में तेरे पास ले आया हूँ। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने रखना; और यहोवा को दण्डवत् करना; ११ और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवीयों और अपने मध्य में रहनेवाले परदेशियों सहित आनन्द करना ॥

१२ तीसरे वर्ष जो दशमाश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढती के दशमाश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ, और विधवा को देना, कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो; १३ और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, कि मैं ने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर में निकाला. और लेवीय, परदेशी, अनाथ, और विधवा को दे दिया है; तेरी किसी आज्ञा को मैं ने न तो टाला है, और न भूला है। १४ उन वस्तुओं में से मैं ने शोक के समय नहीं खाया, और न उन में से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शोक करनेवालों को * दिया; मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैं ने तेरी सब आज्ञाओं के अनुमार किया है। १५ तू स्वर्ग में मे जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तू ने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है ॥

१६ आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें को इन्ही विधियों और नियमों के मानने की आज्ञा देता है; इसलिये अपने सारे मन और मारे प्राण से इनके मानने में चौकसी

* मूल में—सुर्दे के लिये।

करना। १७ तू ने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है, कि मैं तेरे बनाए ऋष मार्गों पर चलूंगा, और तेरी विधियों, आज्ञाओं, और नियमों को माना करूंगा, और तेरी सुना करूंगा। १८ और यहोवा ने भी आज तुझ को अपने वचन के अनुसार अपना प्रजासूची निज धन-सम्पत्ति माना है, कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, १९ और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम, और शोभा के विषय में तुझ को प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे ॥

(आशोच और भाप)

२७ फिर इस्राएल के वृद्ध लोगो समेत मूसा ने प्रजा के लोगो को यह आज्ञा दी, कि जितनी आज्ञाएं में आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना। २ और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुँचो, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना, और उन पर चूना पोतना, ३ और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिये कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हें देता है, और जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। ४ फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना, और उन पर चूना पोतना। ५ और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिये पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। ६ अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों

की बनाकर उस पर उसके लिये होमबलि चढ़ाना; ७ और वहीं मेलबलि भी चढ़ाकर भोजन करना, और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनन्द करना। ८ और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना ॥

९ फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा, कि हे इस्राएल, चुप रहकर सुन; आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है। १० इसलिये अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना, और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उनका पालन करना ॥

११ फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगो को यह आज्ञा दी, १२ कि जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाका, यूसुफ, और बिन्यामीन, ये गिरिज्जीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। १३ और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान, और नप्ताली, ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके शाप सुनाए। १४ तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकारके कहें,

१५ कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर वा ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इस से यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहें, आमीन ॥

१६ शापित हो वह जो अपने पिता वा माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें, आमीन ॥

१७ शापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवाने को हटाए। तब सब लोग कहें, आमीन ॥

१८ शापित हो वह जो अन्धे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें, भ्रामीन ॥

१९ शापित हो वह जो परदेशी, भ्रानाथ, वा विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें, भ्रामीन ॥

२० शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का भोड़ना उधारता है। तब सब लोग कहे, भ्रामीन ॥

२१ शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, भ्रामीन ॥

२२ शापित हो वह जो अपनी बहिन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, उस से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें, भ्रामीन ॥

२३ शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहे, भ्रामीन ॥

२४ शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहे, भ्रामीन ॥

२५ शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिये धन ले। तब सब लोग कहें, भ्रामीन ॥

२६ शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहें, भ्रामीन ॥

२८ यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। २ फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण मैं सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे।

३ धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में।

४ धन्य हो तेरी सन्तान, और तेरी भूमि

की उपज, और गाय और भेड़-बकरी आदि

पशुओं के बच्चे। ५ धन्य हो तेरी टोकरी

और तेरी कठौती। ६ धन्य हो तू भीतर

आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते

समय। ७ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे

शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से

हार जाएंगे; वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई

करेंगे, परन्तु तेरे साम्हने से सात मार्ग से

होकर भाग जाएंगे। ८ तेरे खेतों पर

और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन

सभों पर यहोवा आशीष देगा; इसलिये

जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है

उस में वह तुझे आशीष देगा। ९ यदि तू

अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को

मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह

अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र

प्रजा करके स्थिर रखेगा। १० और पृथ्वी

के देश देश के सब लोग यह देखकर, कि

तू यहोवा का कहलाता है*, तुझ से डर

जाएंगे। ११ और जिस देश के विषय

यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे

देने को कहा था, उस में वह तेरी सन्तान

की, और भूमि की उपज की, और पशुओं

की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा।

१२ यहोवा तेरे लिये अपने आकाशरूपी

उत्तम भण्डार को खोलकर तेरी भूमि पर

समय पर मँह बरसाया करेगा, और तेरे

सारे कामों पर आशीष देगा; और तू बहुतेरी

जातियों को उधार देगा, परन्तु किसी से

तुझे उधार लेना न पड़ेगा। १३ और

यहोवा तुझ को पुछ नहीं, किन्तु सिर ही

ठहराएगा, और तू नीचे नहीं, परन्तु ऊपर

* मूल में—यहोवा का नाम तुझ पर पुकारा गया है।

ही रहेगा; यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे; १४ और जिन वचनों की मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ उन में से किसी से दहिने वा बाएँ मुड़के पराये देवताओं के पीछे न हो ले, और न उनकी सेवा करे।।

१५ परन्तु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुम्हें पर आ पड़ेंगे। १६ अर्थात् शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। १७ शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठीती। १८ शापित हो तेरी सन्तान, और भूमि की उपज, और गायों और भेड़-बकरियों के बच्चे। १९ शापित हो तू भीतर आते समय, और शापित हो तू बाहर जाते समय। २० फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए, उस में यहोवा तब तक तुम्हें कोशाप देता, और भयातुर करता, और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट न जाए, और शीघ्र नष्ट न हो जाए; यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्यागकर दुष्ट काम करेगा। २१ और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुम्हें फँसकर उस समय तक लगी * रहेगी, जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिये तू जा रहा है उस पर से तेरा अन्त न हो जाए। २२ यहोवा तुम्हें को क्षयरोग से, और ज्वर, और दाह, और बड़ी जलन से, और तलवार, और भुलस, और गेरुई से मारेगा; और ये उस समय तक तेरा पीछा किये रहेंगे, जब तक तू सत्यानाश न हो जाए। २३ और तेरे सिर के

ऊपर आकाश पीतल का, और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। २४ यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूलि बरसाएगा; वह आकाश से तुम्हें पर यहां तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। २५ यहोवा तुम्हें को शत्रुओं से हरवाएगा; और तू एक मार्ग से उनका साम्हना करने को जाएगा, परन्तु सात मार्ग से होकर उनके साम्हने से भाग जाएगा; और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। २६ और तेरी लीथ आकाश के भाँति भाँति के पक्षियों, और धरती के पशुओं का आहार होगी; और उनका कोई हाकनेवाला न होगा। २७ यहोवा तुम्हें को मित्र के से फोड़े, और बवासीर, और दाद, और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा, कि तू चगा न हो सकेगा। २८ यहोवा तुम्हें पागल और अन्धा कर देगा, और तेरे मन को अत्यन्त घबरा देगा; २९ और जैसे अन्धा अन्धियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दुपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सुफल न होंगे; और तू सदैव केवल अन्धेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ानेवाला न होगा। ३० तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा, परन्तु दूसरा पुरुष उसको अष्ट करेगा; घर तू बनाएगा, परन्तु उस में बसने न पाएगा; दाख की बारी तू लगाएगा, परन्तु उसके फल खाने न पाएगा। ३१ तेरा बैल तेरी आँखों के साम्हने मारा जाएगा, और तू उसका मांस खाने न पाएगा; तेरा गददा तेरी आँख के साम्हने लूट में चला जाएगा, और तुम्हें फिर न मिलेगा; तेरी भेड़-बकरियाँ तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी, और तेरी और से उनका कोई छुड़ानेवाला न होगा। ३२ तेरे बेटे-बेटियाँ दूसरे देश के लोगों के हाथ लग

* मूल में—चिमटी।

जाएंगे, और उनके लिये चाब से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी; और तेरा कुछ बस न चलेगा। ३३ तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे; और सर्वदा तूकेवल अन्धेर सहता और पीसा जाता रहेगा; ३४ यहां तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। ३५ यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में, वरन नख * से शिख तक भी असाध्य फोड़े निकालकर तुझ को पीड़ित करेगा। ३६ यहोवा तुझ को उस राजा समेत, जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा; और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। ३७ और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझ को पहुंचाएगा, वहां के लोगों के लिये तू चकित होने का, और दृष्टान्त और शाप का कारण समझा जाएगा। ३८ तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परन्तु उपज थोड़ी ही बटोरेगा; क्योंकि टिट्टियां उसे खा जाएंगी। ३९ तू दाख की वारियां लगाकर उन में काम तो करेगा, परन्तु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा; क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। ४० तेरे सारे देश में जलपाई के वृक्ष तो होंगे, परन्तु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा; क्योंकि वे झड़ जाएंगे। ४१ तेरे बेटे-बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परन्तु तेरे रहेंगे नहीं; क्योंकि वे बन्धुआई में चले जाएंगे। ४२ तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिट्टियां खा

जाएंगी। ४३ जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझ से बढ़ता जाएगा; और तू आप घटता चला जाएगा। ४४ वह तुझ को उधार देगा, परन्तु तू उसको उधार न दे सकेगा; वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। ४५ तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे, और तेरे पीछे पड़े रहेंगे, और तुझ को पकड़ेंगे, और अन्त में तू नष्ट हो जाएगा। ४६ और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिये बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे; ४७ तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनन्द और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, ४८ इस कारण तुझ को भूखा, प्यासा, नङ्गा, और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा; और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जूआ डाल रखेगा। ४९ यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से, वरन पृथ्वी के छोर से वेग उड़नेवाले उकाब सी एक जाति को चढ़ा लाएगा जिसकी भाषा को तू न समझेगा, ५० उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा, वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे, और न बालकों पर दया करेंगे; ५१ और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहां तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा; और वे तेरे लिये न अन्न, और न नया दाखमधु, और न टटका तेल, और न बछड़े, न मेन्ने छोड़ेंगे, यहां तक कि तू नाश हो जाएगा। ५२ और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर

* मूल में—पांव के तलवे।

रहेंगे; वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे, जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाएं। ५३ तब घिर जाने और उस सकेती के समय जिस में तेरे शत्रु तुझ को डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे-बेटियों का मास जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को देगा खाएगा। ५४ और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो वह भी अपने भाई, और अपनी प्राण्यारी, और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा; ५५ और वह उन में से किसी को भी अपने बालको के मास में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और उम सकेती में, जिस में तेरे शत्रु तेरे सारे फाटको के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ न रहेगा। ५६ और तुझ में जो स्त्री यहां तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राणप्रिय पति, और बेटे, और बेटा को, ५७ अपनी खेरी, वरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती के समय जिस में तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटको के भीतर घेरकर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। ५८ यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों के पालने में, जो इस पुस्तक में लिखे हैं, चौकसी करके उस आदरनीय और भययोग्य नाम का, जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, ५९ तो यहोवा तुझ को और तेरे वश को अनोखे अनोखे दण्ड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन रहनेवाले रोग और भारी भारी दण्ड होंगे। ६० और वह मिस्र के उन सब रोगों को

फिर तेरे ऊपर लगा देगा, जिनसे तू भय खाता था; और वे तुझ में लगे रहेंगे। ६१ और जितने रोग आदि दण्ड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सभी को भी यहोवा तुझ को यहां तक लगा देगा, कि तू सत्यानाश हो जाएगा। ६२ और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनित होने की सन्ती तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ६३ और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा; और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। ६४ और यहोवा तुझ को पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा; और वहा रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा। ६५ और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा, और न तेरे पाव को ठिकाना मिलेगा; क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कापता रहेगा, और तेरी आखें धुधली पड़ जाएंगी, और तेरा मन कलपता रहेगा; ६६ और तुझ को जीवन का नित्य सन्देह रहेगा; और तू दिन रात थरथराता रहेगा, और तेरे जीवन का कल्ल परोसा न रहेगा। ६७ तेरे मन में जो भय बना रहेगा, और तेरी आखों को जो कुछ दीखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मारके कहेगा, कि साभ कब होगी! और साभ को आह मारके कहेगा, कि भोर कब होगा! ६८ और यहोवा तुझ को नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा, जिसके

विषय में मैंने तुम्हसे कहा था, कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा; और वहाँ तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास-दासी होने के लिये बिकाऊ तो रहोगे, परन्तु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा ॥

२६ इस्राएलियों से जिस वाचा के बान्धने की आज्ञा यहीवा ने मूसा को मोआब के देश में दी उसके ये ही वचन हैं, और जो वाचा उसने उन से होरेब पहाड़ पर बान्धी थी यह उस से अलग है ॥

२ फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहीवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फ़िरौन और उसके सब कर्मचारियों, और उसके सारे देश से किया वह तुम ने देखा है; ३ वे बड़े बड़े परीक्षा के काम, और चिन्ह, और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आज्ञाओं के साम्हने हुए; ४ परन्तु यहीवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि, और न देखने की आँख, और न सुनने के कान दिए हैं। ५ मैं तो तुमको जंगल में चालीस वर्ष लिए फिरा; और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जूतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई; ६ रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और दाखमधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिये हुआ कि तुम जानो कि मैं यहीवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ७ और जब तुम इस स्थान पर आए, तब हेसबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिये हमारा साम्हना करने को निकल आए, और हम ने उनको जीतकर उनका देश ले लिया; ८ और रूबेनियों, गादियों, और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। ९ इसलिये इस वाचा की बातों

का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सुफल हो ॥

१० आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएली पुरुष, ११ क्या तुम्हारे बालबच्चे और स्त्रियाँ, क्या लकड़हारे, क्या पनभरे, क्या तेरी छावनी में रहनेवाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहीवा के साम्हने इसलिये खड़े हुए हो, १२ कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहीवा आज तुम्हसे बान्धता है, और जो शपथ वह आज तुम्हको खिलाता है, उसमें तू साभी हो जाए; १३ इसलिये कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुम्हको दिया, और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राहीम, इसहाक, और याक़ूब, तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुम्हको अपनी प्रजा ठह्राए, और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। १४ फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं, १५ परन्तु उनको भी, जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहीवा के साम्हने खड़े हैं, और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं हैं, साभी करता हूँ। १६ तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे, और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, १७ तब तुम ने उनकी कौसी कौसी धिनीनी वस्तुएं, और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कौसी मूर्तें देखी। १८ इसलिये ऐसा न हो, कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष, वा स्त्री, वा कुल, वा गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहीवा से फिर जाए, और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें; फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो, जिस से विष वा कड़वा बीज उगा हो, १९ और

ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने, और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूँ, और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूँ*, तीभी मेरा कुशल होगा। २० यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धूँआ उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से † मिटा देगा। २१ और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब शापो के अनुसार यहोवा उसको इस्त्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिये भ्रमण करेगा। २२ और आने-वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे, और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियाँ और उस में यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर, २३ और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गन्धक और लौह से भर गई है, और यहाँ तक जल गई है कि इस में न कुछ बोया जाता, और न कुछ जम सकता, और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा और सबोथीम के समान हो गया है जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था, २४ और सब जातियों के लोग पूछेंगे, कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया? और इस बड़े कोप के भडकने का क्या कारण है? २५ तब लोग यह उत्तर देंगे, कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बान्थी थी उसको उन्हो

* वा प्यास पर मतवालापन भी बढ़ाऊँ, वा प्यासे और तृप्त दोनों को मिटा डालूँ।

† मूल में—आकाश के तले से।

ने तोड़ा है, २६ और पराएँ देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहिले नहीं जानते थे, और यहोवा ने उनको नहीं दिया था; २७ इसलिये यहोवा का कोप इस देश पर भडक उठा है, कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े; २८ और यहोवा ने कोप, और जलजलाहट, और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रगट है ॥

२९ गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वंश में हैं; परन्तु जो प्रगट की गई हैं वे सदा के लिये हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेंगी, इसलिये कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएँ ॥

३० फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैं ने तुभु को कह सुनाई हैं तुभु पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर, जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुभु को बरबस पट्टुचाएगा, इन बातों को स्मरण करे, २ और अपनी सन्तान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आएँ, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुभु सुनाता हूँ उसकी बातें माने, ३ तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुभु को बन्धुआई से लौटा ले आएगा, और तुभु पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुभु को तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। ४ चाहे धरती* के छोर तक तेरा बरबस पट्टुचाया जाना हो, तीभी तेरा परमेश्वर यहोवा तुभु को वहाँ से ले आकर इकट्ठा करेगा। ५ और तेरा परमेश्वर

* मूल में—आकाश।

यहोवा तुम्हें उसी देश में पढ़ाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा; और वह तेरी भलाई करेगा, और तुम्हें को तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा । ६ और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा में अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिस में तू जीवित रहे । ७ और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुम्हें से बैर करके तेरे पीछे पड़ेगे भेजेगा । ८ और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा, और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुम्हें को सुनाता हूँ । ९ और यहोवा तेरी भलाई के लिये तेरे सब कामों में, और तेरी सन्तान, और पशुओं के बच्चों, और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिये वैसा ही आनन्द करेगा जैसा उस ने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, १० क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण में मन फिराएगा ॥

११ देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, वह न तो तेरे लिये अनोखी, और न दूर है । १२ और न तो यह आज्ञाश मे है, कि तू कहे, कि कौन हमारे लिये आज्ञाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए, और हम को सुनाए कि हम उसे मानें ? १३ और न यह समुद्र पार है, कि तू कहे, कौन हमारे लिये समुद्र पार जाए, और उसे हमारे पास

ले आए, और हम को सुनाए कि हम उसे मानें ? १४ परन्तु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले ॥

१५ सुन, आज मैं ने तुम्हें को जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है । १६ क्योंकि मैं आज तुम्हें आज्ञा देना हूँ, कि अपने परमेश्वर यहोवा में प्रेम करना, और उसके मार्गों पर चलना, और उसकी आज्ञाओं विधियों, और नियमों को मानना, जिस से तू जीवित रहे, और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुम्हें आशीष दे । १७ परन्तु यदि तेरा मन भटक जाए, और तू न सुने, और भटक कर परगए देवताओं को दण्डवत् करे और उनकी उपासना करने लगे, १८ तो मैं तुम्हें आज यह चिन्ता दी देना हूँ कि तुम निन्दित न रह जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिये तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिये रहने न पाओगे । १९ मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों का तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, कि मैं ने जीवन और मरण आशीष और शाप को तुम्हारे आग रखा है; इसलिये तू जीवन ही का अपना ल, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रह, २० इसलिये अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, और उसकी बात मानो, और उस से लिपट रहो । क्योंकि तूरा जीवन और दीर्घजीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहीम, इसहाक, और याकूब, तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी उस देश में तू बसा रहेगा ॥

(इसा का प्रथम जीव)

३१ और मूसा ने जाकर यह बातें सब इस्राएलियों को सुनाई। २ और उस ने उन से यह भी कहा, कि आज मैं एक सौ बीस वर्ष का हूँ; और अब मैं चल फिर नहीं सकता; क्योंकि यहोवा ने मुझ से कहा है, कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। ३ तेरे आगे पार जानेवाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है; वह उन जातियों को तेरे साम्हने से नष्ट करेगा, और तू उनके देश का अधिकारी होगा; और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। ४ और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। ५ और जब यहोवा उनको तुम से हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उन से करना जो मैं ने तुम को सुनाई हैं। ६ तू हियाव बान्ध और दृढ़ हो, उन से न डर और न भयभीत हो; क्योंकि तेरे संग चलनेवाला तेरा परमेश्वर यहोवा है; वह तुझ को धोखा न देगा और न छोड़ेगा। ७ तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, कि तू हियाव बान्ध और दृढ़ हो जा; क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा; और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। ८ और तेरे आगे आगे चलनेवाला यहोवा है; वह तेरे मग रहेगा, और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ेगा; इसलिये मत डर और तेरा मन कच्चा न हो।

९ फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा के सन्दूक उठानेवाले थे, और इस्राएल के सब

बुद्ध लोगों को सौंप दी। १० तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, कि सात सात वर्ष के वीतने पर, अर्थात् उगाही न होने के वर्ष के झोपड़ीवाले पर्व में, ११ जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हों, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। १२ क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटको के भीतर के परदेशी, सब लोगो को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें, और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर, इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें, १३ और उनके लड़केवाले जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वे भी सुनकर सीखें. कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें, जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो।

१४ फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है; तू यहोशू को बुलवा, और तुम दोनों मिलापवाले तम्बू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूँ। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलापवाले तम्बू में उपस्थित हुए। १५ तब यहोवा ने उस तम्बू में बादल के खम्भे में होकर दर्शन दिया; और बादल का खम्भा तम्बू के द्वार पर ठहर गया। १६ तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है; और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्यागकर उस वाचा को जो मैं ने उन से बान्धी है तोड़ेंगे। १७ उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा, और मैं भी इन्हें त्यागकर इन से अपना मुंह छिपा

लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे; और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहां तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा? १८ उस समय में उन सब बुराईयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे निःसन्देह उन से अपना मुंह छिपा लूंगा। १९ सो अब तुम यह गीत लिख लो, और तू इसे इस्त्राएलियों को सिखाकर कठ करा देना, इसलिये कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। २० जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैं ने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते-खाते इनका पेट भर जाए, और ये हूष्ट-पुष्ट हो जाएंगे; तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे, और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। २१ वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय मैं ने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है, कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं; इसलिये जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी सन्तान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। २२ तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्त्राएलियों को सिखाया। २३ और उस ने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, कि हियाव बान्ध और दुड़ हो; क्योंकि इस्त्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैं ने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा; और मैं आप तेरे सग रहूंगा।

२४ जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अन्त तक पुस्तक में लिख चुका,

२५ तब उस ने यहोवा के सन्दूक उठानेवाले लेवियों को आज्ञा दी, २६ कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के सन्दूक के पास रख दो, कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। २७ क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है; देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो; फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे! २८ तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं। २९ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिलकुल बिगड़ जाओगे, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैं ने तुम को सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे; और अन्त के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी।

३० तब मूसा ने इस्त्राएल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अन्त तक कह सुनाए:

३२ हे आकाश, कान लगा, कि मैं बोलूँ; और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन।

२ मेरा उपदेश मैं ही की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी,

जैसे कि हरी घास पर भीसी, और पीधों पर झड़ियां।

३ मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो!

- ४ वह चट्टान है, उसका काम खरा है;
 और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उस में कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है ॥
- ५ परन्तु इसी जाति * के लोग टेढ़े और तिछें हैं; ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं; यह उनका कलंक है ॥
- ६ हे मूढ़ और निर्बुद्ध लोगो,
 क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो?
 क्या वह तेरा पिता नहीं है,
 जिस ने तुझ को मोल लिया है?
 उस ने तुझ को बनाया और स्थिर भी किया है ॥
- ७ प्राचीनकाल के दिनों को स्मरण करो,
 पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो;
 अपने बाप से पूछो, और वह तुम को बताएगा;
 अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो,
 और वे तुझ से कह देंगे ॥
- ८ जब परमप्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया,
 और आदमियों को अलग अलग बसाया,
 तब उस ने देश देश के लोगो के सिवाने
 इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराए ॥
- ९ क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है;

* मूल में—पीढ़ी ।

याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है ॥

- १० उस ने उसको जंगल में,
 और सुनसान और गरजनेवालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया;
 उस ने उसके चहुं ओर रहकर उसकी रक्षा की,
 और अपनी आंस की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी ॥
- ११ जैसे उकाब अपने घोसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मण्डलाता है,
 वैसे ही उस ने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया ॥
- १२ यहोवा अकेला ही उसकी भगुवाई करता रहा,
 और उसके संग कोई पराया देवता न था ॥
- १३ उस ने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया,
 और उसको खेतों की उपज खिलाई;
 उस ने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया ॥
- १४ गायों का दही, और भेड़-बकरियों का दूध, भेड़ों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े,
 और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी;
 और तू दाखरस का मधु पिया करता था ॥
- १५ परन्तु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा;

तू मोटा और हूँ-पुष्ट हो गया,
और चर्बी से छा गया है;
तब उस ने अपने सृजनहार ईश्वर
को तज दिया,
और अपने उदारमूल चट्टान को
तुच्छ जाना ॥

१६ उन्होंने ने पराए देवताओं को मान-
कर उस में जलन उपजाई;
और धृष्ट कर्म करके उसको
रिस दिलाई ॥

१७ उन्होंने ने पिशाचों के लिये जो ईश्वर
न थे बलि चढ़ाए,
और उनके लिये वे अनजाने देवता
थे,
वे तो नये नये देवता थे जो थोड़े
ही दिन से प्रकट हुए थे,
और जिन से उनके पुरखा कभी
डरे नहीं ।

१८ जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ
उसको तू भूल गया,
और ईश्वर जिस से तेरी उत्पत्ति
हुई उसको भी तू भूल गया
है ॥

१९ रज बानों को देखकर यहोवा ने
तुच्छ जाना,
क्योंकि उसके बेटे-बेटियों ने उसे
रिस दिलाई थी ॥

२० तब उस ने कहा, मैं उन से अपना
मुख छिपा लूँगा,
और देखूँगा कि उनका अन्त कैसा
होगा,
क्योंकि इस जाति * के लोग बहुत
टेढ़े हैं
और धोखा देनेवाले पुत्र हैं ॥

२१ उन्होंने ने ऐसी वस्तु मानकर जो
ईश्वर नहीं है, मुझ में जलन
उत्पन्न की,
और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा
मुझे रिस दिलाई ।

इसलिये मैं भी उनके द्वारा जो
मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में
जलन उत्पन्न करूँगा;
और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें
रिस दिलाऊँगा ॥

२२ क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क
उठी है,
जो पाताल की तह तक जलती
जाएगी,
और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म
हो जाएगी,
और पहाड़ों की नेवों में भी आग
लगा देगी ॥

२३ मैं उन पर विपत्ति पर विपत्ति
भेजूँगा;
और उन पर मैं अपने सब तीरों
को छोड़ूँगा ॥

२४ वे भूख से दुबले हो जाएँगे, और
अंगारों से
और कठिन महारोगों से ग्रसित
हो जाएँगे;
और मैं उन पर पशुओं के दांत
लगवाऊँगा,
और घूलि पर रेंगनेवाले सर्पों का
विष छोड़ दूँगा ॥

२५ बाहर वे तलवार से मरेंगे,
और कोठरियों के भीतर भय से;
क्या कुंवारे और क्या कुवारियां,
क्या दूध पीता हुआ बच्चा क्या
पक्के बालवाले, सब इसी प्रकार
बरबाद होंगे ।

* भूख में—पीढ़ी ।

- २६ मैं ने कहा था, कि मैं उनको दूर
दूर तक तितर-बितर करूंगा,
और मनुष्यों में से उनका स्मरण
तक मिटा डालूंगा;
- २७ परन्तु मुझे शत्रुओं की छेड़ छाड़
का डर था,
ऐसा न हो कि द्रोही इसको उलटा
समझकर यह कहने लगे, कि
हम अपने ही बाहुबल से प्रबल
हुए,
और यह सब यहोवा से नहीं हुआ ॥
- २८ यह जाति युक्तहीन तो है,
और इन में समझ है ही नहीं ॥
- २९ भला होता कि ये बुद्धिमान होते,
कि इसको समझ लेंते,
और अपने अन्त का विचार
करते !
- ३० यदि उनकी चट्टान ही उनको न
बेच देती,
और यहोवा उनको औरों के हाथ
में न कर देता;
तो यह क्योंकर हो सकता कि
उनके हजार का पीछा एक मनुष्य
करता,
और उनके दस हजार को दो मनुष्य
भगा देते ?
- ३१ क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है
वैसी उनकी चट्टान नहीं है,
चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी
हों ॥
- ३२ क्योंकि उनकी दाखलता सदांम की
दाखलता से निकली,
और अमोरा की दाख की बारियों
में की है;
उनकी दाख विषभरी,
और उनके गुच्छे कड़वे हैं;
- ३३ उनका दाखमधु सांपों का सा विष,
और काले नागों का सा हलाहल
है ॥
- ३४ क्या यह बात मेरे मन में सचित,
और मेरे भगडारों में मुहरबन्द
नहीं है ?
- ३५ पलटा लेना और बदला देना मेरा
ही काम है, यह उनके पाव
फिसलने के समय प्रगड षोगा;
क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन
निकट है, और जो दुःख उन पर
पडनेवाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं ॥
- ३६ क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी
प्रजा की शक्ति जाती रही,
और क्या बन्धुआ और क्या
स्वाधीन, उन में कोई बचा नहीं
रहा,
तब यहोवा अपने लोगों का न्याय
करेगा,
और अपने दासों के विषय तरस
खाएगा ॥
- ३७ तब वह कहेगा, उनके देवता
कहा है,
अर्थात् वह चट्टान कहां जिस पर
उनका भरोसा था,
- ३८ जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते,
और उनके तपावनों का दाखमधु
पीते थे ?
वे ही उठकर तुम्हारी सहायता
करे,
और तुम्हारी आड हो !
- ३९ इसलिये अब तुम देख लो कि मैं
ही वह हूँ,
और मेरे सग कोई देवता नहीं;
मैं ही मार डालता, और मैं
जिलाता भी हूँ;

में ही घायल करता, और मैं ही चंगा भी करता हूँ;
 और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता ॥

४० क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ,
 क्योंकि मैं अनन्त काल के लिये जीवित हूँ,

४१ सो यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर भूलकाऊँ,
 और न्याय अपने हाथ में ले लूँ,
 तो अपने द्रोहियों से बदला लूँगा,
 और अपने बैरियों को बदला दूँगा ॥

४२ मैं अपने तीरो को लोह से मतवाला करूँगा,
 और मेरी तलवार मास खाएगी—
 वह लोह, मारे हुआ और बन्धुओं का,
 और वह मास, शत्रुओं के प्रधानों के शीश का होगा ॥

४३ हे अन्यायियों, उसकी प्रजा के साथ आनन्द मनाओ;
 क्योंकि वह अपने दासों के लोह का पलटा लेगा,
 और अपने द्रोहियों को बदला देगा,
 और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिये प्रायश्चित्त देगा ॥

४४ इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए ।
 ४५ जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, ४६ तब उस ने उन से कहा,
 कि जितनी बातें मैं आज तुम से चिताकर कहता हूँ उन सब पर अपना अपना मन लगाओ, और उनके अर्थात् इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने

की आज्ञा अपने लड़केबालों को दो ।
 ४७ क्योंकि यह तुम्हारे लिये व्यर्थ काम नहीं, परन्तु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो ॥

४८ फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, ४९ उस अमरातीम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के साम्हने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसको देख ले । ५० तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा, और अपने लोगों में मिल जाएगा । ५१ इसका कारण यह है, कि सीन जगल में, कादेश के मरीवा नाम सोते पर, तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुम ने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया । ५२ इसलिये वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ, तू अपने साम्हने देख लेगा, परन्तु वहाँ जाने न पाएगा ॥

(वृषा का रक्षार्थियों को दिया
 ऊँचा चाभीबाँद)

३३ जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहिले इस्राएलियों को दिया वह यह है ॥

२ उस ने कहा,
 यहोवा सीन से आया,
 और सेईर से उनके लिये उदय हुआ;
 उस ने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया,
 और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया,

- उसके दहिने हाथ से उनके लिये
ज्वालामय विषिया निकली ॥
- ३ वह निश्चय देश देश के लोगों से
प्रेम करता है,
उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ
में हैं :
वे तेरे पावों के पास बैठे रहते
हैं,
एक एक तेरे बचनो से लाभ उठाता
है ॥
- ४ मूसा ने हमें व्यवस्था दी,
और याकूब की मसंडली का निज
भाग ठहरी ॥
- ५ जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष,
और इस्लाम के गोत्री एक सग
होकर एकत्रित हुए, तब वह
यशूरून में राजा ठहरा ॥
- ६ रूबेन न मरे, वरन जीवित रहे,
तौभी उसके यहां के मनुष्य थोड़े
हो ॥
- ७ और यहूदा पर यह आशीर्वाद
हुआ जो श्लेषा ने कहा,
हे यहोवा, तू यहूदा की सुन,
और उसे उसके लोगों के पास
पहुंचा ।
वह अपने लिये आप अपने हाथो
से लडा,
और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध
उसका सहायक हो ॥
- ८ फिर लेवी के विषय में उस ने
कहा,
तेरे तुम्मीम और ऊरीम तेरे भक्त
के पास है, जिसको तू ने मस्सा
में परख लिया,
और जिसके साथ मरीबा नाम
सोते पर तेरा वादविवाद हुआ ;
- ९ उस ने तो अपने माता पिता के
विषय में कहा, कि मैं उनको
नहीं जानता ;
और न तो उस ने अपने भाइयो
को अपना माना,
और न अपने पुत्रो को पहिचाना ।
क्योंकि उन्हो ने तेरी बातें मानी,
और वे तेरी वाचा का पालन
करते हैं ॥
- १० वे याकूब को तेरे नियम,
और इस्लाम को तेरी व्यवस्था
सिखाएंगे ;
और तेरे आगे धूप,
और तेरी वेदी पर सर्वाङ्ग पशु
को होमबलि करेगे ॥
- ११ हे यहोवा, उसकी सम्पत्ति पर
आशीष दे,
और उसके हाथो की सेवा को
ग्रहण कर ;
उसके विरोधियो और बैंगियो की
कमर पर ऐसा मार, कि वे फिर
न उठ सके ॥
- १२ फिर उस ने विन्यामीन के विषय
में कहा,
यहोवा का वह प्रिय जन, उसके
पास निडर बास करेगा,
और वह दिन भर उस पर छाया
करेगा,
और वह उमके कन्धो के बीच रहा
करता है ॥
- १३ फिर यूसुफ के विषय में उस ने
कहा,
इसका देश यहोवा से आशीष पाए,
अर्थात् आकाश के अनमोल पदार्थ
और ओस,
और वह गहिरा जल जो नीचे है,

- १४ और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल,
और जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के उगाए उगने हैं,
- १५ और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ,
और मनानतन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ,
- १६ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उस में भरे हैं,
और जो भाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता ।
इन सभी के विषय में यूसुफ के सिर पर,
अर्थात् उसी के सिर के चाद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था आशीष ही आशीष फले ॥
- १७ वह प्रतापी है, मानों गाय वा पहिलीठा है,
और उसके मींग बनने बेल के मे है,
उन से वह देश देश के लोगों को, वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा,
वे एप्रेम के लाखों लाख,
और मनश्शे के हजारी हजार हैं ॥
- १८ फिर जबूलून के विषय में उस ने कहा,
हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय,
और हे इस्साकार, तू अपने डेरो में आनन्द करे ॥
- १९ वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे;
वे वहा धर्मयज्ञ करेगे;
क्योंकि वे समुद्र का धन,
और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे ॥
- २० फिर गाद के विषय में उस ने कहा,
धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता - है !
गाद तो सिहनी के समान रहता है,
और बाह को, वरन सिर के चाद तक का फाड़ डालता है ॥
- २१ और उस न पहिला अश तो अपने लिये चुन लिया,
क्याकि वहा रईस के योग्य भाग रखा हुआ था;
तब उस ने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के सग आकर
यहोवा का उचाराया उचारा धर्म,
और इस्त्राएल के माथ हीकर उसके नियम का प्रतिपालन किया ॥
- २२ फिर दान के विषय में उस ने वहा,
दान तो वाग्यान से कूदनेवाला सिंह का बच्चा है ॥
- २३ फिर नप्तानी के विषय में उम न कहा,
हे नप्तानी, तू जो यहावा की प्रसन्नता रो तूत,
और उसकी आशीष से भरपूर है,
तू पच्छिम और दक्खिन के देश का अधिकारी हो ॥
- २४ फिर आशेर के विषय में उस ने कहा,
आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए;
वह अपने भाइयों में प्रिय रहे,
और अपना पांव तेल में डुबोए ॥

२५ तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे,
और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी
शक्ति हो * ॥

२६ हे यशुस्न, ईश्वर के तुल्य और
कोई नहीं है,
वह तेरी सहायता करने को
आकाश पर,
और अपना प्रताप दिखाता हुआ
आकाशमण्डल पर सवार होकर
चलता है ॥

२७ अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है,
और नीचे मनातन भुजाए है ।
वह शत्रुओं को तेरे साम्हने से
निकाल देता,
और कहता है, उनको सत्यानाश
कर दे ॥

२८ और इस्त्राएल निडर बसा रहता है,
अन्न और नये दाखमयु के देश में
याक़ूब का सोता अकेला ही रहता
है;
और उसके ऊपर के आकाश से
भोस पड़ा करती है ॥

२९ हे इस्त्राएल, तू क्या ही धन्य है !
हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा,
तेरे तुल्य कौन है ?
वह तो तेरी सहायता के लिये
ढाल,
और तेरे प्रताप के लिये तलवार
है; तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे,
और तू उनके ऊंचे स्थानों को
रौंदेगा ॥

(ख़षा की ख़त्य)

३४ फिर मूसा मोआब के अरावा
से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की

एक चोटी और यरीहो के साम्हने है, चढ़
गया; और यहोवा ने उसको दान तक का
गिलाद नाम सारा देश, २ और नफ्ताली
का सारा देश, और एप्रैम और मनश्शे का
देश, और पच्छिम के समुद्र तक का यहूषा
का सारा देश, ३ और दक्खिन देश, और
सोन्नर तक की यरीहो नाम खजूरवाले नगर
की तराई, यह सब दिखाया । ४ तब
यहोवा ने उस से कहा, जिस देश के विषय
में मैं ने इब्राहीम, इसहाक, और याक़ूब से
शपथ खाकर कहा था, कि मैं इसे तेरे वश
को दूंगा वह यही है । मैं ने इसको तुझे
साक्षात् दिखला दिया है, परन्तु तू पार
होकर वहां जाने न पाएगा । ५ तब यहोवा
के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं
मोआब के देश में मर गया, ६ और उस ने
उसे मोआब के देश में बेतपोर के साम्हने
एक तराई में मिट्टी दी; और आज के दिन
तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र
कहां है । ७ मूसा अपनी मृत्यु के समय
एक सौ बीस वर्ष का था; परन्तु न तो
उसकी आंखें धुंधली पड़ी, और न उसका
पौरुष घटा था । ८ और इस्त्राएली मोआब
के अरावा में मूसा के लिये तीस दिन तक
रोते रहे; तब मूसा के लिये रोने और
विलाप करने के दिन पूरे हुए । ९ और
नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से
परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ
उस पर रखे थे; और इस्त्राएली उस आज्ञा
के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी
उसकी मानते रहे । १० और मूसा के
तुल्य इस्त्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं
उठा, जिस से यहोवा ने आम्हने-साम्हने
बातों की, * ११ और उसको यहोवा ने

* मूल में—उसको आम्हने-साम्हने
जाना ।

* मूल में—जैसे तेरे दिन वैसा तेरा चैन ।

फ़िरोन और उसके सब कर्मचारियों के साम्हने, और उसके सारे देश में, सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, १२ और उस ने सारे इस्त्राएलियों की दृष्टि में बलवन्त हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए ॥

यहोशू

(यहोशू का हियाव बन्धाया जाना)

१ यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, २ मेरा दास मूसा मर गया है; सो अब तू उठ, कमर बान्ध, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात् इस्त्राएलियों को देता हूँ। ३ उस वचन के अनुसार जो मैं ने मूसा से कहा, अर्थात् जिस जिस स्थान पर तुम पाव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। ४ जगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक, और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हितियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ५ तेरे जीवन भर कोई तेरे साम्हने ठहर न सकेगा; जैसे मैं मूसा के सग रहा वैसे ही तेरे सग भी रहूँगा; और न तो मैं तुम्हें धोखा दूँगा, और न तुम्हें छोड़ूँगा। ६ इसलिये हियाव बान्धकर दृढ़ हो जा; क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैं ने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। ७ इतना हो कि तू हियाव बान्धकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना; और उस से न तो दहिने

मुड़ना और न बाए, तब जहा जहां तू जाएगा वहा वहा तेरा काम सुफल होगा। ८ व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, * इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिये कि जो कुछ उस में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे; क्योंकि ऐसा ही करने मे तेरे सब काम सुफल होंगे, और तू प्रभावशाली होगा। ९ क्या मैं ने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हियाव बान्धकर दृढ़ हो जा; भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा ॥

(चढार गीर्षों का आज्ञा साजना)

१० तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, ११ कि छावनी मे इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो, कि अपने अपने लिये भोजन तैयार कर रखो; क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम को इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार मे लेने के लिये जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार मे देनेवाला है ॥

* मूल में—पुस्तक तेरे मुँह से न बटे।

१२ फिर यहोशू ने रुबेनियों, गादियों, और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, १३ जो वात यहोवा के दास मूसा ने तुम से कही थी, कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है, और यही देश तुम्हें देगा, उसकी मुधि करो। १४ तुम्हारी स्त्रिया, बालबच्चे, और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परन्तु तुम जो शूरवीर हो पाति बान्धे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो, और उनकी सहायता करो; १५ और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे; तब तुम अपने अधिकार के देश में, जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होंगे। १६ तब उन्होंने ने यहोशू को उत्तर दिया, कि जो कुछ तू ने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहा कहीं तू हमें भेजे वहा हम जाएंगे। १७ जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे; इतना ही कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। १८ कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने, तो वह मार डाला जाएगा। परन्तु तू दृढ़ और हियाव बान्धे रह ॥

(यरीहो का भेद छिपा जाना)

२ तब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को शिक्तीम से चुपके से भेज दिया, और उन से कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरन्त वे चल दिए, और

राहाब नाम किसी बेचया के घर में जाकर सो गए। २ तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, कि आज की रात कई एक इस्त्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहा आए हुए हैं। ३ तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यो कहला भेजा, कि जो पुरुष तेरे यहा आए हैं उन्हें बाहर ले आ; क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। ४ उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा; और इस प्रकार कहा, कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परन्तु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे; ५ और जब अन्धेरा हुआ, और फाटक बन्द होने लगा, तब वे निकल गए; मुझे मालूम नहीं कि वे कहा गए; तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। ६ उस ने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उस ने छत पर सजा कर रखी थी। ७ वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए; और ज्यों ही उनको खोजने-वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बन्द किया गया। ८ और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर ९ इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं *। १० क्योंकि हम ने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे साम्हने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यरदन पार रहनेवाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है।

* मूल में—पिघल गए।

११ और यह सुनने ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा; क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। १२ अब मैं ने जो तुम पर दया की है, इसलिये मुझ से यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो, १३ कि तुम मेरे माता-पिता, भाइयों और बहिनों को, और जो कुछ उनका है उन सभी को भी जीवित रख छोड़ो, और हम मभो का प्राण मरने से बचाओगे। १४ तब उन पुरुषों ने उस से कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रगट न करे, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए; और जब यहोवा हम को यह देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। १५ तब राहाब जिमका घर शहरपनाह पर बना था, और वह वही रहती थी, उस ने उनका खिडकी से रस्सी के बल उतारके नगर के बाहर कर दिया। १६ और उस ने उन से कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजनेवाले तुम को पाए; इसलिये जब तक तुम्हारे खोजनेवाले लौट न आए तब तक, अर्थात् तीन दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। १७ उन्हो ने उस से कहा, जो शपथ तू ने हम को खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। १८ सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिडकी से तू ने हम को उतारा है उस में यही लाल रंग के सूत की डोरी बान्ध देना, और अपने माता-पिता, भाइयों, बरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। १९ तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके

खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेगे. परन्तु यदि तेरे सग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। २० फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रगट करे, तो जो शपथ तू ने हम को खिलाई है उस से हम निर्बन्ध ठहरेगे। २१ उस ने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उस ने उनको विदा किया, और वे चले गए; और उस ने लाल रंग की डोरी को खिडकी में बान्ध दिया। २२ और वे जाकर पहाड़ पर पहुँचे, और वहाँ खोजनेवालों के लौटने तक, अर्थात् तीन दिन तक रहे, और खोजनेवाले उनको सारे मार्ग में दूढ़ते रहे और कहीं न पाया। २३ तब वे दोनों पुरुष पहाड़ में उतरे, और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुँचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वार्णन किया। २४ और उन्हो ने यहोशू से कहा, नि.सन्देह यहावा न वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं* ॥

(इस्राएलियों का यरदन पार उतर जाना)

बिहान को यहोशू सबेरे उठा, और सब इस्राएलियों को साथ ले शिलीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने में पहिले वही टिक गए। २ और तीन दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर ३ प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, कि जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का सन्दूक और उसे उठाए हुए लेबीय याजक भी देव पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, ४ परन्तु उसके और तुम्हारे बीच में दो

* मूल में—पिघल गए।

हजार हाथ के अटकल अन्तर रहे, तुम सन्दूक के निकट न जाना। ताकि तुम देख सको, कि किस मार्ग से तुम को चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। ५ फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो; क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य मे आश्चर्यकर्म करेगा। ६ तब यहोशू ने याजकों मे कहा, वाचा का सन्दूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का सन्दूक उठाकर आगे आगे चले। ७ तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मे सब इस्राएलियों के मम्मूख तेरी प्रशसा करना आरम्भ करूंगा, जिम से वे जान लें कि जैसे मे मूसा के सग रहता था वैसे ही मे तेरे सग भी हू। ८ और तू वाचा के सन्दूक के उठानेवाले याजकों को यह आज्ञा दे, कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुँचो, तब यरदन में खड़े रहना ॥

९ तब यहोशू ने इस्राएलियों मे कहा, कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। १० और यहोशू कहने लगा, कि इस से तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य मे है, और वह तुम्हारे साम्हने से निःसन्देह कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों, और यबूसियों को उनके देश मे से निकाल देगा। ११ सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का सन्दूक तुम्हारे आगे आगे यरदन मे जाने पर है। १२ इसलिये अब इस्राएल के गोत्रों में से बारह पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र मे से एक पुरुष हो। १३ और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का सन्दूक उठानेवाले याजकों के पांव यरदन के जल मे पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा, और डेर

होकर ठहरा रहेगा। १४ सो जब प्रजा के लोगो ने अपने डेरो से यरदन पार जाने को कूच किया, और याजक वाचा का सन्दूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, १५ और सन्दूक के उठानेवाले यरदन पर पहुँचे, और सन्दूक के उठानेवाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए (यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारो के ऊपर ऊपर बहा करता है), १६ तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात् आदाम नगर के पास जो माग्नान के निकट है रुककर एक डेर हो गया, और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अगवा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया; और प्रजा के लोग यरीहो के साम्हने पार उतर गए। १७ और याजक यहोवा की वाचा का सन्दूक उठाए हुए यरदन के बीचोबीच पहुँचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरने रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए ॥

४ जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, २ प्रजा में से बारह पुरुष, अर्थात् गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, ३ कि तुम यरदन के बीच में, जहा याजकों ने पांव धरे थे वहा से बारह पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पडाव होगा वहीं उनको रख देना। ४ तब यहोशू ने उन बारह पुरुषो को, जिन्हें उस ने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र मे से छांटकर ठहरा रखा था, ५ बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर

यहोवा के सन्दूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कन्धे पर रखो, ६ जिस से यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछें, कि इन पत्थरों का क्या मतलब है? ७ तब तुम उन्हें यह उत्तर दो, कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के सन्दूक के साम्हने से दो भाग हो गया था; क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब यरदन का जल दो भाग हो गया। सो वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिये स्मरण दिलानेवाले ठहरेंगे। ८ यहोशू की इम आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार बारह पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए; और उनको अपने साथ ले जाकर पडाव में रख दिया। ९ और यरदन के बीच, जहा याजक वाचा के सन्दूक को उठाए हुए अपने पाव धरे थे वहा यहोशू ने बारह पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वही पाए जाते हैं। १० और याजक सन्दूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए; ११ और जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक और यहोवा का सन्दूक भी उनके देखते पार हुए। १२ और रूबेनी, गादी, और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों के आगे पांति बान्धे हुए पार गए; १३ अर्थात् कोई चालीस हजार पुरुष युद्ध के हथियार बान्धे हुए संग्राम करने के लिये यहोवा के साम्हने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे।

१४ उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के साम्हने यहोशू की महिमा बढ़ाई; और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे ॥

१५ और यहोवा ने यहोशू से कहा, १६ कि साक्षी का सन्दूक उठानेवाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। १७ तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, कि यरदन में से निकल आओ। १८ और ज्यों ही यहोवा की वाचा का सन्दूक उठानेवाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए, और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया, और पहिले की नाई कडारो के ऊपर फिर बहने लगा। १९ पहिले महीने के दसवें दिन को प्रजा के लोगो ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। २० और जो बारह पत्थर यरदन में से निकाले गए थे, उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। २१ तब उम ने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लडकेवाले अपने अपने पिता से यह पूछें, कि इन पत्थरों का क्या मतलब है? २२ तब तुम यह कहकर उनको बताना, कि इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे। २३ क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे साम्हने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उस ने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे साम्हने से हटाकर सुखा रखा; २४ इसलिये कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवन्त है; और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो ॥

(**इसाएलियों का खतना किया जाना और पवित्र मानना**)

पू जब यरदन के पच्छिम की ओर रहनेवाले एमोरियों के सब राजाओं ने, और समूद्र के पास रहनेवाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना, कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके साम्हने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा * गया, और उनके जी में जी न रहा ॥

२ उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना करा दे। ३ तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खनडिया नाम टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। ४ और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है, कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। ५ जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परन्तु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उन में से किसी का खतना न हुआ था। ६ क्योंकि इस्राएली तो चालीस वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात् जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी; सो यहोवा ने शपथ खाकर उन से कहा था, कि जो देश में ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश में तुम को नहीं दिखाने का। ७ तो उन लोगों के पुत्र जिन-

को यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतनारहित थे। ८ और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। ९ तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैं ने आज दूर की है। * इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल † पड़ा है ॥

१० सो इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे, और उन्होने यरीहो के पास के भराबा में पूर्णमासी की सन्ध्या के समय फसह माना। ११ और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। १२ और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन के बिहान को मन्ना बन्द हो गया; और इस्राएलियों को भ्रागे फिर कभी मन्ना न मिला, परन्तु उस वर्ष उन्होने कनान देश की उपज में से खाई ॥

(**यरीहो का खे किया जाना**)

१३ जब यहोशू यरीहो के पास था तब उस ने अपनी आखें उठाई, और क्या देखा, कि हाथ में नगी तलवार लिये हुए एक पुरुष साम्हने खड़ा है; और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वा हमारे बैरियों की ओर का? १४ उस ने उत्तर दिया, कि नहीं; मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हू। तब यहोशू ने पृथ्वी पर भुंहे के बल गिरकर दण्डवत् किया,

* मूल में—सुदका दी है।

† अर्थात् सुदकना।

* मूल में—गल।

और उस से कहा, अपने दास के लिये मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है ? १५ यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया ॥

६ और यरीहो के सब फाटक इस्त्राएलियों के डर के मारे लगानार बन्द रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। २ फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। ३ सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। और छ दिन तक ऐसा ही किया करना। ४ और सात याजक सन्दूक के आगे आगे जुबली * के सात नरसिंगे लिये हुए चलें, फिर सातवें दिन तुम नगर के चारों ओर सात बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। ५ और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयजयकार करे, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, और सब लोग अपने अपने साम्हने चढ़ जाएं। ६ सो नून के पुत्र यहोशू ने याजको को बुलवाकर कहा, वाचा के सन्दूक को उठा लो, और सात याजक यहोवा के सन्दूक के आगे आगे जुबली के सात नरसिंगे लिए चले। ७ फिर उस ने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ; और हथियारबन्द पुरुष यहोवा के सन्दूक के आगे आगे चलें। ८ और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे सात याजक

जो यहोवा के साम्हने मात नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का सन्दूक उनके पीछे पीछे चला। ९ और हथियारबन्द पुरुष नरसिंगे फूंकने-वाले याजको के आगे आगे चले, और पीछे-वाले सन्दूक के पीछे पीछे चले, और बाजब नरसिंगे फूंकते हुए चले। १० और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, कि जब तक मैं तुम्हें जयजयकार करने की आज्ञा न दूँ, तब तक जयजयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुँह से निकलने पाए; आज्ञा पाते ही जयजयकार करना। ११ उस ने यहोवा के सन्दूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया; तब वे छावनी में आए, और रात बही काटी ॥

१२ बिहान को यहोशू सवेरे उठा, और याजकों ने यहोवा का सन्दूक उठा लिया। १३ और उन सात याजको ने जुबली * के सात नरसिंगे लिए और यहोवा के सन्दूक के आगे आगे फूंकते हुए चले; और उनके आगे हथियारबन्द पुरुष चले, और पीछेवाले यहोवा के सन्दूक के पीछे पीछे चले, और बाजब नरसिंगे फूंकते चले गए। १४ इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने ने छ दिन तक किया। १५ फिर सातवें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर सात बार घूम आए; केवल उसी दिन वे सात बार घूमे। १६ तब सातवीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जयजयकार करो; क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है।

* मेढों के सींगों के।

* मेढों के सींगों के।

१७ और नगर और जो कुछ उस में है यहोवा के लिये अर्पण की वस्तु ठहरेगी; केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उस ने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। १८ और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। १९ सब चादी, सोना, और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिये पवित्र हैं, और उसी के भण्डार में रखे जाएं। २० तब लोगो ने जयजयकार किया, और बाजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगो ने नरसिंगे का गन्ध सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जयजयकार किया, तब शहरपनाह नेब से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने साम्हने से उस नगर में चढ़ गए, और नगर को ले लिया। २१ और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, बरन बैल, भेड़-बकरी, गन्धे, और जितने नगर में थे, उन सभी को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। २२ तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेद्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हों उन्हें भी निकाल ले आओ। २३ तब वे दोनों जवान भेषिए भीतर जाकर राहाब को, और उसके माता-पिता, भाइयों, और सब को जो उसके यहा रहते थे, बरन उसके सब कुटुम्बियों को निकाल लाए, और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। २४ तब उन्हो ने नगर को, और जो कुछ उस में था, सब को भाग लगाकर फूंक दिया;

केवल चादी, सोना, और जो पात्र पीतल और लोहे के थे, उनको उन्हो ने यहोवा के भवन के भण्डार में रख दिया। २५ और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को, बरन उसके सब लोगो को जीवित छोड़ दिया; और आज तक इसका बंध इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उनको उस ने छिपा रखा था। २६ फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी, और कहा, कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नेब डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगावाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा *। २७ और यहोवा यहोशू के संग रहा; और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई ॥

(आकाश का पाष)

परन्तु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया; अर्थात् यहूदा गोत्र का आकाश, जो जेरहवंशी जब्दी का पीता और कर्मी का पुत्र था, उस ने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया; इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा ॥

२ और यहोशू ने यरीहो से ऐ नाम नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा, कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया।

* मूल में—वह अपने जेठे के बदले में उसकी नेब डालेगा, और अपने लड्डरे के बदले में उसके फाटक खड़े करेगा।

३ और उन्होंने ने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई दो वा तीन हज़ार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं; सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। ४ इसलिये कोई तीन हज़ार पुरुष वहां गए; परन्तु ऐ के रहनेवालो के साम्हने से भाग आए, ५ तब ऐ के रहनेवालो ने उन मे से कोई छत्तीस पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगो का मन पिघलकर * जल सा बन गया। ६ तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इस्राएली बूढ़ लोग यहोवा के सन्दूक के साम्हने बूह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांभ तक पड़े रहे; और उन्होंने ने अपने अपने सिंग पर धूल डाली। ७ और यहोशू ने कहा, हाय, प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमे एमोरियों के बश मे करके नष्ट करने के लिये ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। ८ हाय, प्रभु मे क्या कहूं, जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओ को पीठ दिखाई है! ९ क्योंकि कनानी वरन इस देश वे सब निवासी यह सुनकर हम को घेर लेंगे, और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे; फिर तू अपने बड़े नाम के लिये क्या करेगा? १० यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? ११ इस्राएलियों ने पाप किया है; और जो वाचा मे ने उन से अपने साथ बन्धाई थी उसको उन्होंने ने तोड़ दिया है, उन्होंने ने अर्पण की वस्तुओ में से

ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने मामान में रख लिया है। १२ इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओ के साम्हने खड़े नहीं रह सकते; वे अपने शत्रुओ को पीठ दिखाते हैं, इसलिये कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य मे से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे सग नही रहूंगा। १३ उठ, प्रजा के लोगो को पवित्र कर, उन से कह, कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो; क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है; इसलिये जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य मे से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओ के साम्हने खड़ा न रह सकेगा। १४ इसलिये बिहान को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे; और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए; और जिस कुल को यहोवा पकड़े सो घराना घराना करके पास आए; फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। १५ तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकडा जाएगा, वह और जो कुछ उसका ही सब आग मे डालकर जला दिया जाए; क्योंकि उस ने यहोवा की वाचा को तोडा है, और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। १६ बिहान को यहोशू सबेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप लिवा ले गया, और यहूदा का गोत्र पकडा गया; १७ तब उस ने यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेरहवंशियों का कुल पकडा गया; फिर जेरहवंशियो के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी पकडा गया; १८ तब उस ने उसके घराने

* मूल में—गलकर।

के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कम्मि का पुत्र था, पकड़ा गया। १६ तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, और उसके आगे झंगीकार कर; और जो कुछ तू ने किया है वह मुझ को बता दे, और मुझ से कुछ मत छिपा। २० और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, कि सचमुच मैं ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैं ने किया है, २१ कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुन्दर ओढ़ना, और दो सौ शेकेल चांदी, और पचास शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैं ने उनका लालच करके उन्हें रख लिया; वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सब के नीचे चादी है। २२ तब यहोशू ने दूत भेजे, और वे उस डेरे में दौड़े गए; और क्या देखा, कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं, और सब के नीचे चादी है। २३ उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के साम्हने रख दिया। २४ तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को, और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को, और उसके बेटे-बेटियों को, और उसके बेलों, गदहो और भेड़-बकरियों को, और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। २५ तब यहोशू ने उस से कहा, तू ने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुम्ही को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया; और उनको आग में डालकर जलाया, और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। २६ और उन्होंने उसके

ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है; तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शान्त हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर * तराई पड़ा है ॥

(२२ नगर का खे छिपा जाना)

तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, और तेरा मन कच्चा न हो; कयर बान्धकर सब योद्धाओं को साथ ले, और ऐ पर चढ़ाई कर; सुन, मैं ने ऐ के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। २ और जैसा तू ने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना; केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिये ले सकोगे; इसलिये उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। ३ सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई करने की तैयारी की; और यहोशू ने तीस हज़ार पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा। ४ और उनको यह आज्ञा दी, कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना; नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना; ५ और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा। और जब वे पहिले की तराई हमारा साम्हना करने को निकलें, तब हम उनके आगे से भागेगे; ६ तब वे यह सोचकर, कि वे पहिले की भांति हमारे साम्हने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे; इस प्रकार हम उनके साम्हने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे; ७ तब तुम घात में से उठकर नगर को अपने कर

* अर्थात् कष्ट देना।

सेना; क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। ८ और जब नगर को ले लो, तब उस में भाग लगाकर फूक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना; सुनो, मैं ने तुम्हें आज्ञा दी है। ९ तब यहोशू ने उनको भेज दिया; और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतेल और ऐ के मध्य में और ऐ की पश्चिम की ओर बैठे रहे; परन्तु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा।।

१० बिहान को यहोशू सबेरे उठा, और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के भागे भागे ऐ की ओर चला। ११ और उसके सग के सब योद्धा चढ़ गए, और ऐ नगर के निकट पहुंचकर उसके साम्हने उतर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ऐ के बीच एक तराई थी। १२ तब उस ने कोई पांच हजार पुरुष चुनकर बेतेल और ऐ के मध्यस्त नगर की पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। १३ और जब लोगों ने नगर की उत्तर ओर की सारी सेना को और उसकी पश्चिम ओर घात में बैठे हुआ को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। १४ जब ऐ के राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सबेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के साम्हने उन से लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के साम्हने है पहुंचा; और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। १५ तब यहोशू और सब इस्राएली उन से मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। १६ तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करनेको पुकारपुकारके बुलाए गए; और वे यहोशू का पीछा

करते हुए नगर से दूर निकल गए। १७ और न ऐ में और न बेतेल में कोई पुरुष रह गया, जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो; और जन्हीं ने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। १८ तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा; क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। १९ उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे, और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया; और झटपट उस में भाग लगा दी। २० जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा, कि नगर का धूम्रा आकाश की ओर उठ रहा है; और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही, और न उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़नेवालों पर टूट पड़े। २१ जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया, और उसका धूम्रा उठ रहा है, तब घूमकर ऐ के पुरुषों को मारने लगे। २२ और उनका साम्हना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए; सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए, कुछ इस्राएली तो उनके भागे, और कुछ उनके पीछे थे; सो उन्होंने उनको यहां तक मार डाला कि उन में से न तो कोई बचने और न भागने पाया। २३ और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। २४ और जब इस्राएली ऐ के सब निवासियों को मैदान में, अर्थात् उस जंगल में जहां उन्होंने ने उनका पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहां तक कि उनका अन्त ही हो गया, तब सब

इस्त्राएलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। २५ और स्त्री पुरुष, सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे बारह हजार थे, और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे। २६ क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब तक उस ने अपना हाथ, जिस से बर्छा बढ़ाया था, फिर न खींचा। २७ यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उस ने यहोशू को दी थी इस्त्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। २८ तब यहोशू ने ऐ को फूका दिया, और उसे सदा के लिये खडहर कर दिया : वह आज तक उजाड़ पड़ा है। २९ और ऐ के राजा को उस ने सारू तक वृक्ष पर लटका रखा; और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के साम्हने डाल दी गई, और उस पर पत्थरो का बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज तक बना है ॥

(आशोर्बाद और आप का सुनाया जाना)

३० तब यहोशू ने इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, ३१ जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्त्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, ३२ वे समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर आज्ञार नहीं चलाया गया था। और उस पर उन्होंने ने यहोवा के लिये होमबलि चढ़ाए, और मेलबलि किए। ३२ उसी स्थान पर अशोश्म ने इस्त्राएलियों के साम्हने उन पत्थरो के ऊपर मूसा की व्यवस्था, जो उस ने लिखी थी, उसकी नकल कराई। ३३ और वे, क्या देशी क्या परदेशी, सारे इस्त्राएली अपने बृद्ध लोगों, सरदारों, और स्त्रियों समेत यहोवा की वाचा का सन्भूक

उठानेवाले लेवीय याजकों के साम्हने उस सन्भूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात् आधे लोग तो गिरिज्जीम पर्वत के, और आधे एबाल पर्वत के साम्हने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहिले से आज्ञा दी थी, कि इस्त्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। ३४ उसके बाद उस ने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन, जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। ३५ जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी, उन में से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्त्राएल की सारी सभा, और स्त्रियों, और बाल-बच्चों, और उनके साथ रहनेवाले * परदेशी लोगों के साम्हने भी पढ़कर न सुनाई ॥

(निबोधियों का बह)

६ यह सुनकर हिती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिक्वी, और यबूसी, जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, और लबानोन के साम्हने के महासागर के तट पर रहते थे, २ वे एक मन होकर यहोशू और इस्त्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए ॥

३ जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐ से क्या क्या किया है, ४ तब उन्होंने ने छल किया, और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गदहों पर पुराने बोरे, और पुराने फटे, और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लादकर ५ अपने पांवों में पुरानी गांठी हुई जूतियां, और तन पर पुराने वस्त्र पहिने, और अपने भोजन के लिये सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। ६ तब वे गिलगाल की छावनी में

* मूल में—चलते हुए।

यहोशू के पास जाकर उस से श्रीर इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं; इसलिये अब तुम हम से वाचा बान्धो। ७ इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्रियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो; फिर हम तुम से वाचा कैसे बान्धें? ८ उन्हो ने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उन से कहा, तुम कौन हो? श्रीर कहा से आए हो? ९ उन्हो ने उस से कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं; क्योंकि हम ने यह सब सुना है, अर्थात् उसकी कीर्ति श्रीर जो कुछ उम ने मिस्र में किया, १० श्रीर जो कुछ उस ने एमोरियों के दोनो राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात् हेसबोन के राजा सीहोन से, श्रीर बाशान के राजा ओग से जो अशतारोत में था। ११ इसलिये हमारे यहां के बृद्ध लोगों ने श्रीर हमारे देश के सब निवासियों ने हम से कहा, कि मार्ग के लिये अपने साथ भोजन-वस्तु लेकर उन से मिलने को जाओ, श्रीर उन से कहना, कि हम तुम्हारे दास हैं; इसलिये अब तुम हम से वाचा बान्धो। १२ जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हम ने अपने अपने घर से यह रोटी गरम श्रीर ताजी ली थी; परन्तु अब देखो, यह सूख गई है श्रीर इस में फफूदी लग गई है। १३ फिर ये जो मदिरा के कूप्ये हम ने भर लिये थे, तब तो नये थे, परन्तु देखो अब ये फट गए हैं; श्रीर हमारे ये वस्त्र श्रीर जूतिया बड़ी लम्बी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। १४ तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिये उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। १५ तब यहोशू ने उन से मेल करके उन से यह वाचा बान्धी, कि तुम को जीवित छोड़ेंगे; श्रीर

मरडली के प्रधानों ने उन से शपथ खाई। १६ श्रीर उनके साथ वाचा बान्धने के तीन दिन के बाद उनको यह समाचार मिला, कि वे हमारे पड़ोस के रहनेवाले लोग हैं, श्रीर हमारे ही मध्य में बसे हैं। १७ तब इस्राएली-कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत, श्रीर किर्यत्यारीम हैं पहुंच गए, १८ श्रीर इस्राएलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मरडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मरडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुडकुड़ाने लगे। १९ तब सब प्रधानों ने सारी मरडली से कहा, हम ने उन से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिये अब उनको छू नहीं सकते। २० हम उन से यही करेंगे, कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। २१ फिर प्रधानों ने उन से कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मरडली के लिये लकड़हारे श्रीर पानी भरनेवाले बने। २२ फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुम ने हम से यह कहकर क्यों छल किया है, कि हम तुम से बहुत दूर रहते हैं? २३ इसलिये अब तुम शापित हो, श्रीर तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास, अर्थात् मेरे परमेश्वर के भवन के लिये लकड़हारा श्रीर पानी भरनेवाला न हो। २४ उन्होंने ने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था, कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास भूसा को आज्ञा दी थी कि तुम को वह सारा देश दे, श्रीर उसके सारे निवासियों को तुम्हारे

साम्हने से सर्वनाश करे; इसलिये हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिये हम ने ऐसा काम किया। २५ और अब हम तेरे वश में हैं, जैसा बर्ताव तुम्हें भला लगे और ठीक जान पड़े, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। २६ तब उस ने उन से वैसा ही किया, और उन्हें इस्त्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया, कि वे उन्हें घात करने न पाए। २७ परन्तु यहोशू ने उसी दिन उनको मगडली के लिये, और जो स्थान यहोवा चुन ले उस में उसकी वेदी के लिये, लकड़हारे और पानी भरनेवाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है ॥

(कनान के इस्त्राएली भाग का जीता जाना)

१० जब यरूशलेम के राजा अदोनी-सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले लिया, और उसको मत्यानाश कर डाला है, और जैसा उस ने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ऐ और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्त्राएलियों से मेल किया, और उनके बीच रहने लगे हैं, २ तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐ से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। ३ इसलिये यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यर्मूत के राजा पिराम, लाकीश के राजा यापी, और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा, ४ कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो, और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उस ने यहोशू और इस्त्राएलियों से मेल कर लिया है। ५ इसलिये यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश, और एग्लोन के पांचो एमोरी राजाओं ने अपनी

अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी, और गिबोन के साम्हने डेरे डालकर उस से युद्ध छेड़ दिया। ६ तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यों कहला भेजा, कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना; शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले, और हमारी सहायता कर; क्योंकि पहाड़ पर रहनेवाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। ७ तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा *। ८ और यहोवा ने यहोशू से कहा, उन से मत डर, क्योंकि मैं ने उनको तेरे हाथ में कर दिया है; उन में से एक पुरुष भी तेरे साम्हने टिक न सकेगा। ९ तब यहोशू रातोंरात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। १० तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्त्राएलियों से घबरा गए, और इस्त्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा सहाय किया, और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। ११ फिर जब वे इस्त्राएलियों के साम्हने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वे मर गए; जो शीलों से मारे गए उनकी गिनती इस्त्राएलियों की तलवार से मारे हुआँ से अधिक थी ॥

१२ और उस समय, अर्थात् जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्त्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्त्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा,
हे सूर्य, तू गिबोन पर,
और हे चन्द्रमा, तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह ॥

* मूल में—बड़ा।

१३ और सूर्य उस समय तक धमा रहा, और चन्द्रमा उस समय तक ठहरा रहा *।

जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया ॥

क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य धाकाशमण्डल के बीचोबीच ठहरा रहा, और लगभग चार पहर तक न डूबा ? १५ न तो उस से पहिले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जिस में यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो; क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की और से लड़ता था ॥

१५ तब यहोशू सारे इस्राएलियों समेत मिलगाल की छावनी को लौट गया ॥

१६ और वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे ।

१७ तब यहोशू को यह समाचार मिला, कि पांचों राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमे मिले है । १८ यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देख भाल के लिये मनुष्यों को उसके पास बैठा दो; १९ परन्तु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उन में से जो जो पिछड़ गए है उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो; क्योंकि तुम्हारे परमेस्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है ।

२० जब यहोशू और इस्राएली उनका संहार करके नाश कर चुके, और उन में से जो बच गए वे अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, २१ तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल-क्षेम से

लौट आए; और इस्राएलियों के विचढ़ किसी ने जीभ तक न हिलाई * । २२ तब यहोशू ने आज्ञा दी, कि गुफा का मुंह खोलकर उन पांचों राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ । २३ उन्होंने ने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश, और एग्लोन के उन पांचों राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए । २४ जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलनेवाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पाव इन राजाओं की गर्दनो पर रखो । और उन्होंने ने निकट जाकर अपने अपने पाव उनकी गर्दनो पर रखे । २५ तब यहोशू ने उन से कहा, डरो मत, और न तुम्हारा मन कच्चा हो; हियाव बान्धकर दूढ़ हो; क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिन से तुम लड़नेवाले हो ऐसा ही करेगा । २६ इस-के बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला, और पाच वृक्षो पर लटका दिया । और वे साभ तक उन वृक्षो पर लटके रहे । २७ सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगो ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतारके उसी गुफा में जहा वे छिप गए थे डाल दिया, और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए, वे आज तक वहीं धरे हुए है ॥

२८ उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया, और उसको तलवार से मारा, और उसके राजा को सत्यानाश किया; और जितने प्राणी उस में थे उन सभी में से किसी को जीवित न छोड़ा; और जैसा उस ने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया ॥

* मूल में—घुस हो गया ।

* मूल में—सान न चढ़ाई ।

२६ तब यहोशू सब इस्त्राएलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया, और लिब्ना से लड़ा; ३० और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्त्राएलियों के हाथ में कर दिया; और षचीय ने उसको और उस में के सब प्राणियों को तलवार से मारा; और उस में से किसी को भी जीवित न छोड़ा; और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उस ने यरीहो के राजा के साथ किया था ॥

३१ फिर यहोशू सब इस्त्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया, और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा; ३२ और यहोवा ने लाकीश को इस्त्राएल के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उस ने उसको जीत लिया; और जैसा उस ने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उस ने लाकीश से भी किया ॥

३३ तब गोजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ आया; और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिये किसी को जीवित न छोड़ा ॥

३४ फिर यहोशू ने सब इस्त्राएलियों समेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया; और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा; ३५ और उसी दिन उन्होने उसको ले लिया, और उसको तलवार से मारा; और उसी दिन जैसा उस ने लाकीश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उस ने एग्लोन से भी किया ॥

३६ फिर यहोशू सब इस्त्राएलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया, और उस से लड़ने लगा; ३७ और उन्होने उसे ले लिया, और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उन में के सब प्राणियों को तलवार से मारा; जैसा षचीय ने एग्लोन

से किया था वैसा ही उस ने हेब्रोन में भी किसी को जीवित न छोड़ा; उस ने उसको और उस में के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला ॥

३८ तब यहोशू सब इस्त्राएलियों समेत घूमकर दबीर को गया, और उस से लड़ने लगा; ३९ और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया; और उन्होने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उन में थे सब को सत्यानाश कर डाला; किसी को जीवित न छोड़ा, जैसा षचीय ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था वैसा ही उस ने दबीर और उसके राजा से भी किया ॥

४० इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात् पहाड़ी देश, दक्खिन देश, नीचे के देश, और डालू देश को, उनके सब राजाओं समेत मारा; और इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सभी को सत्यानाश कर डाला ॥ ४१ और यहोशू ने कादेशबर्न से ले अज्जा तक, और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा ॥ ४२ इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्त्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्त्राएलियों की ओर से लड़ता था ॥ ४३ तब यहोशू सब इस्त्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया ॥

(कानान के उत्तरीय भाग का जीता जाना)

११ यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादीन के राजा योबाब, और शिम्रोन और प्रक्षाय के राजाओं को, २ और जो जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में, और किभरेत की दक्खिन के

अराबा में, और नीचे के देश में, और पच्छिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको, ३ और पूरब पच्छिम दोनों ओर के रहनेवाले कनानियों, और एमोरियों, हितियों, परिजियों, और पहाड़ी यबूसियों, और मिस्र देश में हेमोन पहाड़ के नीचे रहनेवाले हिज्वियों को बुलवा भेजा । ४ और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे की बालू के ढिबनों के समान बज्जत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत ही बोड़े और रथ भी थे । ५ तब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए, और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक सग छावनी डाली । ६ तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उन से मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सभी को इस्राएलियों के बश करके मरवा डालूंगा; तब तू उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाना, और उनके रथ भस्म कर देना । ७ और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पाम अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा । ८ और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया, इसलिये उन्होने उन्हें मार लिया, और बड़े नगर सीदोन और मिस्रपोतर्मम तक, और पूर्व की ओर मिस्र के मैदान तक उनका पीछा किया; और उनको मारा, और उन में से किसी को जीवित न छोड़ा । ९ तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन से किया, अर्थात् उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाई, और उनके रथ भाग में जलाकर भस्म कर दिए ॥

१० उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को जो पहिले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था ले लिया, और उसके राजा को तलवार से मार डाला । ११ और जितने

प्राणी उस में थे उन सभी को उन्होने तलवार से मारकर सत्यानाश किया; और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा, और हासोर को बचोशू ने भाग लगाकर फुकवा दिया । १२ और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया । १३ परन्तु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया । १४ और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया; परन्तु मनुष्यों को उन्होने तलवार से मार डाला, यहा तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया । १५ जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी, जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन में से बचोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी ॥

(समस्त कनान का राजाओं समेत जीता जाना)

१६ तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात् पहाड़ी देश, और सारे दक्खिनी देश, और कुल गोशेन देश, और नीचे के देश, अराबा, और इस्राएल के पहाड़ी देश, और उसके नीचेवाले देश को, १७ हालाक नाम पहाड़ से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक, जो लबानोन के मैदान में हेमोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला । १८ उन

सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। १६ गिबोन के निवासी हिब्वियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया; और सब नगरों को उन्होंने ने लड़ लड़कर जीत लिया। २० क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी, कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उस ने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उस ने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए, कि उन्होंने ने इस्राएलियों का साम्हना करके उन से युद्ध किया ॥

२१ उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहनेवाले अनाकियों को नाश किया; यहोशू ने नगरो समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। २२ इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया; केवल अज्जा, गत, और अशदोद में कोई कोई रह गए। २३ जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया; और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुमार बाट करके उन्हें दे दिया। और देश को लड़ाई से शान्ति मिली ॥

१२ यरदन पार सूर्योदय की ओर, अर्थात् अर्नोन नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश, और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था वे हैं; २ एमोरियों का हेशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नोन नाले के किनारे के अरोएर से लेकर, और उसी नाले के बीच के नबर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना है, आधे गिलाद

पर, ३ और किशेरैत नाम ताल से लेकर बेत्यशीमोत से होकर अराबा के ताल तक, जो सारा ताल और कच्छाणा है, पूर्व की ओर के अराबा, और दक्खिन की ओर पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। ४ फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा भोग का देश था, जो अशतारोत और ऐर्देई में रहा करता था, ५ और हेर्मोन पर्वत सलका, और गशूरियों, और माकियों के सिवाने तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सीहोन के सिवाने तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। ६ इस्राएलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया; और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रुबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया ॥

७ और यरदन के पश्चिम की ओर, लबानोन के मैदान में के बालगात से लेकर सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियों ने मारकर उनका देश इस्राएलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था वे ये हैं, ८ हिती, और एमोरी, और कनानी, और परिज्जी, और हिब्वी, और यबूसी, जो पहाड़ी देश में, और नीचे के देश में, और अराबा में, और डालू देश में, और जंगल में, और दक्खिनी देश में रहते थे। ९ एक, यरीहो का राजा; एक, बेटेल के पास के ऐ का राजा; १० एक, यरूशलम का राजा; एक, हेब्रोन का राजा; ११ एक, यर्मूत का राजा; एक, लाकीश का राजा; १२ एक, एग्लोन का राजा; एक, गेजेर का राजा; १३ एक, दबीर का राजा; एक, गेदेर का राजा; १४ एक, होर्मा का राजा; एक, अराब का राजा; १५ एक, लिब्ना का

राजा; एक, अदुल्लाम का राजा; १६ एक, मक्केदा का राजा; एक, बेतेल का राजा; १७ एक, तप्पूह का राजा; एक, हेपेर का राजा; १८ एक, अफेक का राजा; एक, लवशारोन का राजा; १९ एक, मादोन का राजा; एक, हासोर का राजा; २० एक, शिओन्मरोन का राजा; एक, अक्षाप का राजा; २१ एक, तानाक का राजा; एक, मगिहो का राजा; २२ एक, केदेश का राजा; एक, कर्मेल मे के योकनाम का राजा; २३ एक, दोर नाम ऊंचे देश में के दोर का राजा; एक, गिलगाल मे के गोयीम का राजा; २४ और एक, तिसर्ता का राजा है; इस प्रकार सब राजा इकतीस हुए ॥

(कनान देश का इस्त्राएली मोच मोच में बांटा जाया)

१३ यहोशू बड़ा और बहुत उम्र का हो गया; और यहोवा ने उस से कहा, तू बड़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं, जो इस्त्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। २ ये देश रह गए हैं, अर्थात् पलिश्तियो का सारा प्रान्त, और सारे गशूरी ३ (मिस्र के भ्रागे शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है; और पलिश्तियो के पाचो सरदार, अर्थात् अज्जा, अशदोद, अशकलोन, गत, और एक्रोन के लोग), और दक्खिनी ओर अज्जी भी, ४ फिर अफेक और एमोरियो के सिवाने तक कनानियों का सारा देश, और सीदोनियो का मारा नाम देश, ५ फिर गवालियो का देश, और सूर्योदय की ओर हेमोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, ६ फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोतमम

तक सीदोनियों के पहाडी देश के निवासी। इनको मैं इस्त्राएलियों के साम्हने से निकाल दूंगा; इतना हो कि तू मेरी भासा के अनुसार चिट्टी डाल डालकर उनका देश इस्त्राएल को बांट दे। ७ इसलिये तू अब इस देश को नवो गोत्रों और मनसो के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिये बांट दे ॥

८ इसके साथ रुबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था, जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्ही को दिया था, ९ अर्थात् अनोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर, और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मेदबा के पाछ का मारा चौरस देश; १० और अम्मोनियो के सिवाने तक हेसबोन मे त्रिगरजनेवाले एमोरियो के राजा सीहोन के सारे नगर; ११ और गिलाद देश, और गशूरियो और माकावासियो का सिवाना, और सारा हेमोन पर्वत, और सल्का तक कुल बाशान, १२ फिर आशतारोत और एद्रई मे बिराजनेवाले उस भोग का सारा राज्य जो रपाइयों मे से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्ही को मूसा ने मारकर उनको प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। १३ परन्तु इस्त्राएलियो ने गशूरियो और माकियो को उनके देश से न निकाला; इसलिये गशूरी और माकी इस्त्राएलियों के मध्य मे आज तक रहते हैं। १४ और लेवी के गोत्रियो को उस ने कोई भाग न दिया; क्योंकि इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिये भाग ठहरे हैं ॥

१५ मूसा ने रुबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, १६ अर्थात् घर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के षाष का सारा चौरस देश; १७ फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव; फिर दीबोन, बामोतबाल, बेतबालमोन, १८ यहसा, कदेमोत, मेपात, १९ किर्यातैम, सिवमा, और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथशहर, २० बेतपोर, पिसगा की सलामी और बेत्यशीमोत, २१ निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजनेवाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर, और रेबा नाम मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। २२ और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुआ के साथ बोर के पुत्र भावी कहनेवाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। २३ और रुबेनियों का सिवाना यरदन का तीर ठहरा। रुबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा ॥

२४ फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। २५ तब यह ठहरा, अर्थात् याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, और रब्बा के साम्हने के अरोएर तक अम्मोनियों का आधा देश, २६ और हेशबोन से रामतम्रिप्से और बतोनीम् तक, और महनैम से दबीर के सिवाने तक, २७ और तराई में बेयारम, बेत्रिन्ना, मुक्कोत, और सापोन, और हेसबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत

नाम ताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसका सिवाना यरदन है। २८ गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा ॥

२९ फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया; वह मनश्शेइयों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। ३० वह यह है, अर्थात् महनैम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देश, और बाशान में बसी हुई याईर की साठों बस्तियां, ३१ और गिलाद का आधा भाग, और अश्शारोत, और एद्रेई, जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे, ये मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश का, अर्थात् माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे ॥

३२ जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वे ये ही हैं। ३३ परन्तु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया; इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा ॥

१४ जो जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एली-आजर याजक, और नून के पुत्र यहोषू, और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया वे ये हैं। २ जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा साढ़े नौ गोत्रों के लिये दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। ३ मूसा ने तो अठ्ठाईस गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे; परन्तु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। ४ यूसुफ के

वंश के तो दो गोत्र हो गए थे, अर्थात् मनश्शे और एश्रम; और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने के नगर, और पशु आदि धन रखने को और शराइयां उनको मिलीं। ५ जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया; और उन्होंने न देश को बांट लिया।।

६ तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए; और कनजी यपुत्रे के पुत्र कालेब ने उस से कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेशबर्ने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था।

७ जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिये कादेशबर्ने से भेजा था तब मैं अलीस वर्ष का था; और मैं सच्चे मन से * उसके पास सन्देश ले आया। ८ और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने ने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया †, परन्तु मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी।

९ तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझ से कहा, तू ने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण नि सन्देह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिये तेरा और तेरे वंश का भाग होगी।

१० और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से पैतालीस वर्ष हो चुके हैं, जिन में इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे; उन में यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है; और अब मैं पचासी वर्ष का हूँ। ११ जितना बल मूसा के भेजने के दिन

* मूल में—जैसा मेरे मन के साथ था वैसा ही।

† मूल में—गला दिया।

मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है; युद्ध करने, वा भीतर बाहर जाने के लिये जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है।

१२ इसलिये अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी बर्चा यहोवा ने उस दिन की थी; तू ने तो उस दिन सुना होगा कि उस में अनाकवशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं; परन्तु क्या जाने सम्भव है कि यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूँ।

१३ तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया; और हेब्रोन को यपुत्रे के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। १४ इस कारण हेब्रोन कनजी यपुत्रे के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। १५ पहिले समय में तो हेब्रोन का नाम किर्यतंबा था; अब अनाकियो में सब से बड़ा पुरुष था। और उस देश को लडाई से शान्ति मिली।।

१५

यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम के सिवाने तक, और दक्खिन की ओर मीन के जंगल तक जो दक्खिनी सिवाने पर है ठहरा। २ उनके भाग का दक्खिनी सिवाना खारे ताल के उस सिरेवाले कोल से आरम्भ हुआ जो दक्खिन की ओर बढ़ा है; ३ और वह अक्रब्बीम नाम बढ़ाई की दक्खिनी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेशबर्ने के दक्खिन की ओर को चढ़ गया, फिर हेब्रोन के पास हो अद्दार को चढ़कर कर्काआ की ओर मुड़ गया, ४ वहा से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकला, और उस सिवाने का

अन्त समुद्र हुआ। तुम्हारा दक्खिनी सिवाना यही होगा। ५ फिर पूर्वी सिवाना यरदन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरा, और उत्तर दिशा का सिवाना यरदन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरम्भ करके, ६ बेथोग्ला को चढते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहनवाले नाम पत्थर तक चढ़ गया; ७ और वही सिवाना आकोर नाम तराई से दबीर की ओर चढ़ गया, और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर भुका जो नाले की दक्खिन ओर की अदुम्मीम की चढाई के साम्हने है; वहा से वह एनगेमेश नाम सोते के पास पहुचकर एनरोगेल पग निकला; ८ फिर वही सिवाना हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस * (जो यरूगलेम कहलाता है) उसकी दक्खिन अलग में चढते हुए उस पहाड की चोटी पर पहुचा, जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के साम्हने और रपाईम की तराई के उत्तरवाले सिरे पर है; ९ फिर वही सिवाना उस पहाड की चोटी से नेप्तोह नाम सोते को चला गया, और एप्रोन पहाड के नगरो पर निकला, फिर वहा से बाला को (जो किर्यंत्यारीम भी कहलाता है) पहुचा; १० फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुडकर सेईर पहाड तक पहुचा, और यारीम पहाड (जो कसालोन भी कहलाता है) उसकी उत्तरवाली अलग से होकर बेतशेमेश को उतर गया, और वहा से तिम्ना पर निकला; ११ वहा से वह सिवाना एक्रोन की उत्तरी अलग के पास होते हुए शिक्करोन गया, और बाला पहाड होकर यब्नेल पर निकला; और उस सिवाने का अन्त समुद्र

* मूल में—यबूसी।

का तट हुआ। १२ और पश्चिम का सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला उसकी चारो ओर का सिवाना यही हुआ ॥

१३ और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात् किर्यंतर्बा जो हेबोन भी कहलाता है (८४ वर्षी अनाक का पिता था)। १४ और कालेब ने वहा से शेषी, अहीमन, और तल्म नाम, अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। १५ फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया; पूर्वकाल में तो दबीर का नाम किर्यत्सेपेर था। १६ और कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपेर को मारकर ले ले उसे मैं अपनी बेटी अकसा को ब्याह दूंगा। १७ तब कालेब के भाई ओत्लीएल कनजी ने उसे ले लिया; और उस ने उसे अपनी बेटी अकसा को ब्याह दिया। १८ और जब वह ४४के पाच आई, तब उस ने उसको पिता से कुछ भूमि मागने को उभारा, फिर वह अपने गदहे पर से उतर पडी, और कालेब ने उस से पूछा, तू क्या चाहती है? १९ वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे; तू ने मुझे दक्खिन देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उस ने ऊपर के सोते, नीचे के सोते, दोनों उसे दिए ॥

२० यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा ॥

२१ और यहूदियों के गोत्र के किनारे-वाले नगर दक्खिन देश में एदोम के सिवाने की ओर ये हैं, अर्थात् कबसेल, एदेर, यागूर, २२ कीना, दीमोना, अदादा, २३ केदेश, हासांग, यित्दान, २४ जीप, नेलेम, बालोत, २५ हासोहंदत्ता, किर्य्योथेन्नोक्; (जो हासोर भी कहलाता है), २६ और अमाम,

शामा, मोलादा, २७ हसगंदा, हेघामोन, बेत्पालेत, २८ हसशूरभाल, बेशोबा, बिष्पोत्या, २९ बाला, इय्मीम, एसेम, ३० एलतोलाद, कसील, होर्मा, ३१ सिकल्लग, मदमन्ना, सनसन्ना, ३२ लबाओत, शिलहीम, ऐन, और रिम्मोन; ये सब नगर उन्तीस हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

३३ और नीचे के देश में ये हैं; अर्थात् एशताओल सोरा, अशना, ३४ जानोह, एनगभीम, तप्पूह, एनाम, ३५ यर्मूत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, ३६ शारैम, अदीतैम, गदेरा, और गदेरोतैम; ये सब चौदह नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

३७ फिर सनान, हदाशा, मिगदलगाद, ३८ दिलान, मिस्से, योक्तेल, ३९ लाकीश, बोस्कत, एलोन, ४० कब्बोन, लहमास, कितलीश, ४१ गदेरोत, बेतदागोन, नामा, और मक्केदा; ये सोलह नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

४२ फिर लिब्ना, ऐतेर, आशान, ४३ यिप्ताह, अशना, नसीब, ४४ कौला, अकजीब और मारेशा; ये नौ नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

४५ फिर नगरो और गावो समेत एक्रोन, ४६ और एक्रोन से लेकर समुद्र त्क, अपने अपने गावों समेत जितने नगर अशदोद की अलग पर हैं ॥

४७ फिर अपने अपने नगरो और गावो समेत अशदोद, और अज्जा, वरन मिल के नाले तक और महासमुद्र के तीर तक जितने नगर हैं ॥

४८ और पहाड़ी देश में ये हैं; अर्थात् शामीर, यतीर, सोको, ४९ दन्ना, किर्यत्सन्ना (जो दबीर भी कहलाता है), ५० अनाब, एशतमो, आनीम, ५१ गोशेन,

होलोन, और गीजो; ये ग्यारह नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

५२ फिर अरार, दूमा, एशान, ५३ यानीम, बेत्तप्पूह, अजेका, ५४ हुमता, किर्यतर्बा (जो हेब्रोन भी कहलाता है, और सीओर;) ये नौ नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

५५ फिर माओन, कर्मेल, जीप, यूता, ५६ यिष्बेल, योक्दाम, जानोह, ५७ कैन, गिबा, और लिब्ना; ये दस नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

५८ फिर हलहल, बेतसूर, गदोर, ५९ मरात, बेतनोत, और एलतकोन; ये छः नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

६० फिर किर्यतबाल (जो किर्यत्वारीम भी कहलाता है), और रब्बा; ये दो नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

६१ और जगल में ये नगर हैं, अर्थात् बेतराबा, मिद्दीन, सकाका; ६२ निबशान, लोनवाला नंगर, और एनगदी, ये छः नगर हैं, और इनके गांव भी हैं ॥

६३ यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल सके; इसलिये आज के दिन तक यबूमी यहूदियों के सग यरूशलेम में रहते हैं ॥

१६ फिर यूसुफ की सन्तान का भाग चिट्टी डालने से ठहराया गया, उनका मिवाना यरीहो के पास की यरदन नदी में, अर्थात् पूर्ब की ओर यरीहो के जल से आरम्भ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए, जो जंगल में है, बेतेल को पहुंचा; २ वहा से वह लूज तक पहुंचा, और एरेकियों के सिवाने होते हुए अतारोत पर जा निकला; ३ और पश्चिम की ओर यपलेतियों के सिवाने से उतरकर फिर नीचेवाले बेयोरोन के सिवाने से होकर

गेजेर को पहुँचा, और समुद्र पर निकला । ४ तब मनश्शे और एप्रैम नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों की सन्तान ने अपना अपना भाग लिया । ५ एप्रैमियों का सिवाना उनके कुलों के अनुसार यह ठहरा; अर्थात् उनके भाग का सिवाना पूर्व से आरम्भ होकर अत्रोतदार से होते हुए ऊपरवाले बेथोरोम तक पहुँचा; ६ और उत्तरी सिवाना पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरम्भ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तानतशीली को पहुँचा, और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुँचा; ७ फिर यानोह से वह अतारोत और नारा को उतरता हुआ यरीहो के पास होकर यरदन पर निकला । ८ फिर वही सिवाना तप्पूह से निकलकर, और पश्चिम की ओर जाकर, काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकला । एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा । ९ और मनश्शेइयो के भाग के बीच भी कई एक * नगर अपने अपने गावों समेत एप्रैमियों के लिये अलग किये गए । १० परन्तु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों ने वहा से नहीं निकाला; इसलिये वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं, और बेगारी में दास के समान काम करते हैं ॥

१७ फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्टी डालने से यह ठहरा । मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके बंधु को गिलाद और बाशान मिला । २ इसलिये यह भाग दूसरे मनश्शेइयो के लिये उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात् अबीएजेर, हेलेक, असीएल, शेकेम, हेपेर,

और शमीदा; जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिये ठहरा । ३ परन्तु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता, और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, बेटियाँ ही हुईं; और उनके नाम महला, नोआ, होग्ला, मिलका, और तिसा हैं । ४ तब वे एलीआजर याजक, नून के पुत्र यहोशू, और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, कि वह हम को हमारे भाइयों के बीच भाग दे । तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया । ५ तब मनश्शे को, यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़, दस भाग मिले; ६ क्योंकि मनश्शेइयो के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला । और दूसरे मनश्शेइयो को गिलाद देश मिला । ७ और मनश्शे का सिवाना आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुँचा, जो शेकेम के साम्हने है; फिर वह दक्खिन की ओर बढ़कर एनतप्पूह के निवासियों तक पहुँचा । ८ तप्पूह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परन्तु तप्पूह नगर जो मनश्शे के सिवाने पर बसा है वह एप्रैमियों का ठहरा । ९ फिर वहा से वह सिवाना काना के नाले तक उतरके उसके दक्खिन की ओर तक पहुँच गया; ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरो के बीच में थे तीभी एप्रैम के ठहरे; और मनश्शे का सिवाना उस नाले की उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकला; १० दक्खिन की ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला, और उसका सिवाना समुद्र ठहरा; और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकार

* मूल में—सब ।

से जा मिले। ११ और मनश्शे को, इस्साकार और भाखेर अपने अपने नगरों समेत बेतश्चान, यिबलाम, और अपने नगरो समेत दोर के निवासी, और अपने नगरो समेत एनदोर के निवासी, और अपने नगरो समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मगिदो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले। १२ परन्तु मनश्शेई उन नगरो के निवाशियों को उन मे से नहीं निकाल सके; इसलिये वे कनानी उस देश मे बरियाई से बसे ही रहे। १३ तीभी जब इस्त्राएली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परन्तु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया ॥

१४ यूसुफ की सन्तान यहोशू से कहने लगी, हम तौ गिनती मे बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमे आशीष ही देता आया है, फिर तू ने हमारे भाग के लिये चिट्ठी डालकर क्यों एक ही भ्रंश दिया है? १५ यहोशू ने उन से कहा, यदि तुम गिनती मे बहुत हो, और एग्रैम का पहाडी देश तुम्हारे लिये छोटा हो, तो परिज्जयो और रपाइयो का देश जो जगल है उसमे जाकर पेडो को काट डालो। १६ यूसुफ की सन्तान ने कहा, वह पहाडी देश हमारे लिये छोटा है; और क्या बेतमान और उसके नगरों मे रहनेवाले, क्या यिज्जेलकी तराई में रहनेवाले, जितने कनानी तींचे के देश मे रहने है, उन सभों के पाम लोहे के रथ है। १७ फिर यहोशू ने, क्या एग्रैमी क्या मनश्शेई, अर्थात् यूसुफ के सारे घराने से कहा, हां तुम लोग तो गिनती मे बहुत हो, और तुम्हारी बडी सामर्थ्य भी है, इसलिये तुम को केवल एक ही भाग न मिलेगा; १८ पहाडी देश भी तुम्हारा हो जाएगा; क्योंकि वह जगल तो है, परन्तु उसके पेड

काट डालो, तब उसके भ्रास पास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा; क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हों, और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तीभी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे ॥

१८ फिर इस्त्राएलियो की सारी मण्डली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहा मिलापवाले तम्बू को खड़ा किया; क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। २ और इस्त्राएलियो में से सात गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाये रह गए थे। ३ तब यहोशू ने इस्त्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजो के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हे दिया है, उसे अपने अधिकार मे कर लेने मे तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? ४ अब प्रति गोत्र के पीछे तीन मनुष्य ठहरा लो, और में उन्हें इसलिये भेजूंगा कि वे चलकर देश में धूमें फिरे, और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिखकर मेरे पाम लौट आए। ५ और वे देश के सात भाग लिखे, यहूदी तो दक्खिन की ओर अपने भाग मे, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग मे रहें। ६ और तुम देश के सात भाग लिखकर मेरे पाम ले आओ; और मे यहा तुम्हारे लिये अपने परमेश्वर यहोवा के साम्हने चिट्ठी डालूंगा। ७ और लेवियो का तुम्हारे मध्य मे कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजकपद ही उनका भाग है; और गाद, रुबेन, और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। ८ तो वे पुरुष उठकर चल दिए; और जो उस देश का हाल

लिखने को चले उन्हे यहोशू ने यह आज्ञा दी, कि जाकर देश में घूमो फिरो, और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ; और मैं यहां शिलो मे यहोवा के साम्हने तुम्हारे लिये चिट्ठी डालूंगा। ६ तब वे पुरुष चल दिए, और उस देश मे घूमे, और उसके नगरो के सात भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शिलो की छावनी में यहोशू के पास आए। १० तब यहोशू ने शिलो में यहोवा के साम्हने उनके लिये चिट्ठिया डालीं; और वही यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागो के अनुसार देश बाट दिया ॥

११ और बिन्यामीनियो के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलो के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियो और यूसुफियो के बीच मे पड़ा। १२ और उनका उत्तरी सिवाना यरदन से आरम्भ हुआ, और यरीहो की उत्तर भ्रमण से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाडी देश मे होकर बेतावेन के जगल में निकला; १३ वहा से वह लूज को पहुंचा (जो बेतेल भी कहलाता है), और लूज की दक्खिन भ्रमण से होते हुए निचले बेथोरोन की दक्खिन ओर के पहाड के पास हो अत्रोटहार को उतर गया। १४ फिर पश्चिमी सिवाना मुड़के बेथोरोन के साम्हने और उसकी दक्खिन ओर के पहाड़ से होते हुए किर्यतबाल नाम यहूदियो के एक नगर पर निकला (जो किर्यत्यारोम भी कहलाता है); पश्चिम का सिवाना यही ठहरा। १५ फिर दक्खिन भ्रमण का सिवाना पश्चिम से आरम्भ होकर किर्यत्यारोम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुंचा; १६ और उस पहाड के सिरे पर उतरा, जोहिभोमके पुत्र की तराई के साम्हने और रपाईम नाम तराई की

उत्तर ओर है; वहां से वह हिभोम की तराई में, अर्थात् यबूस की दक्खिन भ्रमण होकर एनरोगेस की उतरा; १७ वहा से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनसेमेश को निकलकर उस गलीलोट की ओर गया, जो अद्रुम्मीम की चढ़ाई के साम्हने है, फिर वहा से वह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गया; १८ वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के साम्हने के पहाड़ की भ्रमण से होते हुए अराबा को उतरा; १९ वहां से वह सिवाना बेथोग्ला की उत्तर भ्रमण से जाकर खारे ताल की उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर * निकला; दक्खिन का सिवाना यही ठहरा। २० और पूर्व की ओर का सिवाना यरदन ही ठहरा। बिन्यामीनियो का भाग, चारो ओर के सिवानो सहित, उनके कुलो के अनुसार, यही ठहरा। २१ और बिन्यामीनियो के गोत्र को उनके कुलो के अनुसार ये नगर मिलें, अर्थात् यरीहो, बेथोग्ला, एमेवकसीस, २२ बेतराबा, समारैम, बेतेल, २३ अब्बीम, पारा, ओप्रा, २४ कपरम्मोनी, ओपनी और गेबा; ये वारह नगर और इनके गांव मिले। २५ फिर गिबोन, रामा, बेरोत, २६ मिस्पे, कपीरा, मोसा, २७ रेकेम, यिर्षैल, तरला, २८ सेला, एलेप, यबूस (जो यरूशलेम भी कहलाता है), गिबत और किर्यत; ये चौदह नगर और इनके गांव उन्हे मिले। बिन्यामीनियो का भाग उनके कुलो के अनुसार यही ठहरा ॥

१६ दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर, अर्थात् शिमोनियो के कुलो के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली; और उनका भाग यहूदियो के भाग के

* यूल में—दक्खिनी सिरे पर।

बीच में ठहरा। २ उनके भाग में ये नगर हैं, अर्थात् बेशोबा, शेबा, मोलादा, ३ हस-शूभ्राल, बाला, एसेम, ४ एलतोलद, बतूल होर्मा, ५ सिकलग, बेत्मकबीत, हसशूसा, ६ बेतलबाओत, और शारुहेन; ये तेरह नगर और इनके गाव उन्हें सिंघे। ७ फिर ऐन, रिम्मोन, एतेर, और आशान, ये चार नगर गावों समेत; ८ और बालत्वेर जो दक्खिन देश का रामा भी कहलाता है, वहा तक इन नगरो के चारो ओर के सब गाव भी उन्हें सिंघे। शिमोनियोके गोत्र का भाग उनके कुलो के अनुसार यही ठहरा। ९ शिमोनियो का भाग तो यहूदियो के अशर में से दिया गया; क्योकि यहूदियो का भाग उनके लिये बहुत था, इस कारण शिमोनियो का भाग उन्ही के भाग के बीच ठहरा ॥

१० तीसरी चिट्ठी जबूलनियो के कुलो के अनुसार उनके नाम पर निकली। और उनके भाग का सिवाना सारीद तक पहुँचा; ११ और उनका सिवाना पश्चिम की ओर भरला को चढ़कर दब्बेशेत को पहुँचा, और योक्नाम के साम्हने के नाले तक पहुँच गया; १२ फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोताबोर के सिवाने तक पहुँचा, और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकला, और यापी की ओर जा निकला; १३ वहा से वह पूर्व की ओर भागे बढ़कर गथेपेर और इल्कासीन को गया, और उस रिम्मोन में निकला जो नेम्ना तक फैला हुआ है; १४ वहा से वह सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुँचा, और यिप्तहेल की तराई में जा निकला; १५ कत्तात, नह्नाल, शिओन, यिदला, और बेतलेहम; ये बारह नगर उनके गांवों समेत उसी

भाग के ठहरे। १६ जबूलनियो का भाग उनके कुलो के अनुसार यही ठहरा; और उस में अपने अपने गावों समेत ये ही नगर हैं ॥

१७ चौथी चिट्ठी इस्साकारियो के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। १८ और उनका सिवाना यिप्पेल, कसुल्लोत, शूनेम १९ हपारैम, शीओन, अनाहरत, २० रब्बीत, किश्योत, एबेस, २१ रेमेत, एनगश्रीम, एनहदा, और बेत्पस्सेस तक पहुँचा। २२ फिर वह सिवाना ताबोर-शहमूमा और बेतशोमेश तक पहुँचा, और उनका सिवाना यरदन नदी पर जा निकला; इस प्रकार उनको मोलह नगर अपने अपने गावों समेत मिले। २३ कुलो के अनुसार इस्साकारियो के गोत्र का भाग नगरो और गावों समेत यही ठहरा ॥

२४ पाचवी चिट्ठी आशेरियो के गोत्र के कुलो के अनुसार उनके नाम पर निकली। २५ उनके सिवाने में हेल्कत, हली, बेतेन, अक्षाप, २६ अलाम्मेन्लेक, अमाद, और मिशाल थे; और वह पश्चिम की ओर काम्मेल तक और शीहोर्लिन्नात तक पहुँचा; २७ फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को गया, और जबलून के भाग तक, और यिप्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नीएल तक पहुँचा; और उत्तर की ओर जाकर कानूस पर निकला, २८ और वह एओन, रहोब, हम्मोन, और काना से होकर बडे सीदोन को पहुँचा; २९ वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सोर नाम गढ़वाले नगर तक चला गया; फिर सिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकला, ३० उम्मा, अयेक, और रहोब भी उनके भाग में ठहरे;

इस प्रकार बाईस नगर अपने अपने गांवों समेत उनको मिले। ३१ कुलो के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरी और गांवों समेत यही ठहरा।।

३२ छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलो के अनुसार उनके नाम पर निकली। ३३ और उनका सिवाना हेलेप से, और सानन्नीम मे के बाज बृक्ष से, अदामीनेकेब और यवनेल से होकर, और लक्कूम को जाकर यरदन पर निकला; ३४ वहां से वह सिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर अजनुत्ताबोर को गया, और वहा से हुक्कोक को गया, और दक्खिन, और जबूलून के भाग तक, और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक, और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यरदन नदी पर पहुंचा। ३५ और उनके गड़वाले नगर ये हैं, अर्थात् सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किष्नेरेत, ३६ अदामा, रामा, हासीर, ३७ केदेश, एन्हासेर, ३८ यिरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात, और बेतशेमेश; ये उन्नीस नगर गांवों समेत उनको मिले। ३९ कुलो के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरी और उनके गांवों समेत यही ठहरा।।

४० सातवीं चिट्ठी कुलो के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली। ४१ और उनके भाग के सिवाने में सोरा, एशताभोल, ईरशेमेश, ४२ शालब्बीन, अय्यालोन, यितला, ४३ एलोन, तिम्ना, एक्रोन, ४४ एलतके, गिब्बतोन, बालात, ४५ यहूद, बनेबराक, गत्रिम्मोन, ४६ मेय-कॉन, और रक्कोन ठहरे, और यापो के साम्हने का सिवाना भी उनका था। ४७ और दानियों का भाग इस से * अधिक

* मूल में—उन से।

हो गया, अर्थात् दानी लेशेम पर चढ़कर उस से लड़े, और उसे लेकर तलबार से मार डाला, और उसको अपने अधिकार में करके उस में बस गए, और अपने मूलपुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। ४८ कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा।।

४९ जब देश का बाटा जाना सिवानो के अनुसार निपट गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। ५० यहोवा के कहने के अनुसार उन्हों ने उसको उसका मागा हुआ नगर दिया, यह एर्रम के पहाड़ी देश में का विम्नत्सेरह हैं; और वह उस नगर को बसाकर उस में रहने लगा।।

५१ जो जो भाग एलीआजर याजक, और नून के पुत्र यहोशू, और इस्राएलियों के गोत्रों के बराबों के पूर्वजों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने शीलो में, मिलापवाले तम्बू के द्वार पर, यहोवा के साम्हने चिट्ठी डाल डालके बाट दिए वे ये ही हैं। निदान उन्हों ने देश विभाजन का काम निपटा दिया।।

(अरथ नगरों का उचारावा जाना)

२० फिर यहोवा ने यहोशू से कहा,
२ इस्राएलियों से यह कह, कि मैं ने मूसा के द्वारा तुम में शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, ३ जिस से जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले, वह उन में से किसी में भाग जाए; इसलिये वे नगर खून के पलटा लेनेवाले से बचने के लिये तुम्हारे शरणस्थान ठहरे। ४ वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए, और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकद्मा कह सुनाए; और वे उसको

अपने नगर में अपने पाम टिका लें, और उसे कोई स्थान दें, जिम में वह उनके साथ रहे। ५ और यदि खून का पलटा लेनेवाला उसका पीछा करे, तो वे यह जानकर कि उस ने अपने पडोसी को बिना जाने, और पहिले उस से बिना बँर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दें। ६ और जब तक वह मरइली के साम्हने न्याय के लिये खड़ा न हो, और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे; उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिम से वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। ७ और उन्हो ने नप्ताली के पहाडी देश में गलील के केदेश को, और एप्रैम के पहाडी देश में शकेम को, और यहूदा के पहाडी देश में किय्रतर्बा को, (जो हेब्रोन भी कहलाता है) पवित्र ठहराया। ८ और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्हों ने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को, जो जगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोट को, और मनश्शे के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया। ९ सारे इस्राएलियों के लिये, और उनसे बीच रहनेवाले परदेशियों के लिये भी, जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उन में से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिये मरइली के साम्हने खड़ा न हो, तब तक खून का पलटा लेनेवाला उसे मार डालने न पाए, वे ये ही हैं।

(लेबियों को बसने से जजरों का
दिखा जाना)

२१ तब लेबियों के पूर्वजों के घरानों
के मुख्य मुख्य पुरुष एलीआज्जर

याजक, और नून के पुत्र यहोशू, और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर २ कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिये नगर, और हमारे पशुओं के लिये उन्ही जजरों की चराइया भी देने की आज्ञा दिलाई थी। ३ तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेबियों को चराइयों समेत ये नगर दिए।

४ और कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्टी निकली। इसलिये लेबियों में से हारून याजक के वश को यहूदी, शिमोन, और विन्यामीन के गोत्रों के भागों में से तेरह नगर मिले।

५ और बाकी कहातियों को एप्रैम के गोत्र के कुलों, और दान के गोत्र, और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्टी डाल डालकर दस नगर दिए गए।

६ और गेशोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों, और आशेर, और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से, और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्टी डाल डालकर तेरह नगर दिए गए।

७ और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद, और जबूलन के गोत्रों के भागों में से बारह नगर दिए गए।

८ जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेबियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्टी डाल डालकर दिए। ९ उन्हों ने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए; १० ये नगर लेबीय कहाती कुलों में से हारून के वश के लिये थे; क्योंकि पहिली चिट्टी उन्हीं के नाम

पर निकली थी। ११ अर्थात् उन्होंने उन-
को यहूदा के पहाड़ी देश में चारो ओर की
चराइयो समेत किर्यतर्वा नगर दे दिया, जो
अनाक के पिता चर्बा के नाम पर कच्छकाया
और हेब्रोन भी कहलाता है। १२ परन्तु
उम नगर के खेत और उसके गाव उन्होंने ने
यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि
करके दे दिए।।

१३ तब उन्होंने ने हारून याजक के बश
को चराइयो समेत खूनी के शरण नगर
हेब्रोन, और अपनी अपनी चराइयो समेत
लिब्ना, १४ यत्तीर, एशतमो, १५ होलोन,
दंबीर, ऐन, १६ युत्ता और बेतशेमेश दिए,
इस प्रकार उन दोनो गोत्रो के भागो में से नौ
नगर दिए गए। १७ और बिन्यामीन के
गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयो
समेत ये चार नगर दिए गए, अर्थात् गिबोन,
गेबा, १८ अनातोत और अरमोन। १९ इस
प्रकार हारूनवशी याजको को तेरह नगर
और उनकी चराइया मिली।।

२० फिर बाकी कहाती लेबियो के कुलो
के भाग के नगर चिट्टी डाल डालकर एप्रैम
के गोत्र के भाग में से दिए गए। २१ अर्थात्
उनको चराइयो समेत एप्रैम के पहाड़ी देश
में खूनी के शरण लेने का शकेम नगर दिया
गया, फिर अपनी अपनी चराइयो समेत
गेजेर, २२ किबसैम, और बेथोरोन; ये
चार नगर दिए गए। २३ और दान के गोत्र
के भाग में से अपनी अपनी चराइयो समेत,
एलतके, गिब्वतोन, २४ अय्यालोन, और
गत्रिम्मोन; ये चार नगर दिए गए। २५ और
मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी
अपनी चराइयो समेत तानाक और गत्रि-
म्मोन; ये दो नगर दिए गए। २६ इस
प्रकार बाकी कहातियो के कुलो के सब नगर
चराइयो समेत दस ठहरे।।

२७ फिर लेबियो के कुलो में के गेशो-
नियो को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से
अपनी अपनी चराइयो समेत खूनी के शरण
नगर बाशान का गोलान और बेशतरा;
ये दो नगर दिए गए। २८ और इस्साकार
के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयो
समेत किष्योन दाबरत, २९ यर्मूत, और
एनगन्नीम; ये चार नगर दिए गए। ३० और
आशोर के गोत्र के भाग में से अपनी
अपनी चराइयो समेत मिशाल, अम्बोन,
३१ हेल्कात, और रहोब; ये चार नगर
दिए गए। ३२ और नप्ताली के गोत्र के
भाग में से अपनी अपनी चराइयो समेत खूनी
के शरण नगर गलील का केदेश, फिर
हम्मोतदोर, और कर्तान; ये तीन नगर दिए
गए। ३३ गेशोनियो के कुलो के अनुसार
उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयो
समेत तेरह ठहरे।।

३४ फिर बाकी लेबियो, अर्थात् मरारियो
के कुलो को जबूलून के गोत्र के भाग में से
अपनी अपनी चराइयो समेत योक्नाम, कर्ता,
३५ दिम्ना, और नहलाल; ये चार नगर दिए
गए। ३६ और रूबेन के गोत्र के भाग में
से अपनी अपनी चराइयो समेत बेसेर, यहसा,
३७ कदेमोत, और मेपात; ये चार नगर
दिए गए। ३८ और गाद के गोत्र के भाग
में से अपनी अपनी चराइयो समेत खूनी के
शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर
महनैम, ३९ हेष्बोन, और याजेर, जो सब
मिलाकर चार नगर हैं दिए गए।
४० लेबियो के बाकी कुलो अर्थात् मरारियो
के कुलो के अनुसार उनके सब नगर ये ही
ठहरे, इस प्रकार उनको बारह नगर चिट्टी
डाल डालकर दिए गए।।

४१ इस्राएलियो की निज भूमि के बीच
लेबियो के सब नगर अपनी अपनी चराइयो

समेत अडतानीस ठहरे। ४२ ये सब नगर अपने अपने चारो ओर की चराइयो के माथ ठहरे, इन सब नगरो की यही दशा थी ॥

४३ इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियो को वह मारा देश दिया, जिसे उम ने उनके पूर्वजो से शपथ खाकर देने को कहा था; और वे उमके अधिकारी होकर उस मे बस गए। ४४ और यहोवा ने उन सब बातो के अनुसार, जो उम ने उनके पूर्वजो से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारो ओर से विश्राम दिया; और उनके शत्रुओ में से कोई भी उनके साम्हने टिक न सका, यहोवा ने उन सभो को उनके वश मे कर दिया। ४५ जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थीं उन मे से कोई बात भी न छूटी; सब की सब पूरी हुई ॥

२२

उस समय यहोशू ने रूबेनियो, गादियो, और मनश्शे के आधे गोत्रियो को बुलवाकर कहा, २ जो जो आज्ञा यहाँवा के दास मूसा ने तुम्हे दी थी वे सब तुम ने मानी है, और जो जो आज्ञा में ने तुम्हे दी है उन सभो को भी तुम ने माना है; ३ तुम ने अपने भाइयो को इस मुद्दत मे आज के दिन तक नही छोडा, परन्तु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुम ने चौकसी से मानी है। ४ और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयो को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है; इसलिये अब तुम लौटकर अपने अपने डेरो को, और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दाम मूसाने यरदन पार तुम्हे दिया है चले जाओ। ५ केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और ब्यवस्था यहोवा के दास मूसाने तुम को दी है उसको

मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाए मानो, उसकी भक्ति में लीलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी मेवा करो। ६ तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया; और वे अपने अपने डेरे को चले गए ॥

७ मनश्शे के आधे गोत्रियो को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परन्तु दूमरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भइयो के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाए, ८ तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु, और चादी, सोना, पीतल, लोहा, और बहुत से वस्त्र, और बहुत धन-सम्पत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ, और अपने शत्रुओ की लूट की सम्पत्ति को अपने भाइयो के सग बाट लेना ॥

९ तब रूबेनी, गादी, और मनश्शे के आधे गोत्री इस्राएलियो के पाम से, अर्थात् कनान देश के शीलो नगर से, अपनी गिलाद नाम निज भूमि में, जो मूसा से दिलाई हुई, यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट गए। १० और जब रूबेनी, गादी, और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुँचे जो कनान देश में है, तब उन्हो ने बहा देखने के योग्य एक बडी वेदी बनाई। ११ और इसका समाचार इस्राएलियो के सुनने में आया, कि रूबेनियो, गादियो, और मनश्शे के आधे गोत्रियो ने कनान देश के साम्हने यरदन की तराई में, अर्थात् उसके उस पार जो इस्राएलियो का है, एक वेदी बनाई है। १२ जब इस्राएलियो ने यह सुना, तब इस्राएलियो की सारी अराबली

उन से लड़ने के लिये चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई।

१३ तब इस्त्राएलियों ने रूबेनियों, गादियों, और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलीआजर याजक के पुत्र पीनहास को, १४ और उसके संग दस प्रधानों को, अर्थात् इस्त्राएल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इस्त्राएल के हज़ारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। १५ वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों, और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, १६ यहोवा की सारी मरदली यह कहती है, कि तुम ने इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया ; आज जो तुम ने एक वेदी बना ली है, इस में तुम ने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है ? १७ सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिये कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मरदली को भारी दण्ड मिला तौभी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए ; क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है, १८ कि आज तुम यहोवा को त्यागकर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो ? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो, और कल वह इस्त्राएल की सारी मरदली से क्रोधित होगा। १९ परन्तु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहा यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो ; परन्तु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलबा करो, और न हम से। २० देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु

के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इस्त्राएल की पूरी मरदली पर न भड़का ? और उस पुरुष के अधर्म का प्राणदण्ड अकेले उसी को न मिला।

२१ तब रूबेनियों, गादियों, और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इस्त्राएल के हज़ारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, २२ कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इस्त्राएली भी इसे जान लेंगे, कि यदि यहोवा से फिरके वा उसका विश्वासघात करके हम ने यह काम किया हो, तो तू आज हम को जीवित न छोड़, २३ यदि आज के दिन हम ने वेदी को इसलिये बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, वा इसलिये कि उस पर होमबलि, अन्नबलि, वा मेलबलि चढ़ाए, तो यहोवा आज इसका हिसाब ले ; २४ परन्तु हम ने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी सन्तान हमारी सन्तान से यह न कहने लगे, कि तुम को इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम ? २५ क्योंकि, हे रूबेनियो, हे गादियो, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को हृद ठहरा दिया है, इसलिये यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी सन्तान हमारी सन्तान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। २६ इसीलिये हम ने कहा, आओ, हम अपने लिये एक वेदी बना लें, वह होमबलि वा मेलबलि के लिये नहीं, २७ परन्तु इसलिये कि हमारे और तुम्हारे, और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे ; इसलिये कि हम होमबलि, मेलबलि, और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें ; और भविष्य में तुम्हारी सन्तान हमारी

सन्तान से यह न कहने पाए, कि यहोवा मैं तुम्हारा कोई भाग नहीं। २८ इसलिये हम ने कहा, कि जब वे लोग भविष्य में हम से बा हमारे वश से यों कहने लगें, तब हम उन से कहेंगे, कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओ ने होमबलि वा मेलबलि के लिये नहीं बनाया; परन्तु इसलिये बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। २९ यह हम से दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें, और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के साम्हने है होमबलि, और अभबलि, वा मेलबलि के लिये दूसरी वेदी बनाए।

३० रूबेनियों, गादियों, और मनश्शे के भाघे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पीनहास याजक और उसके सग मण्डली के प्रधान, जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे भ्रति प्रसन्न हुए। ३१ और एलीआजर याजक के पुत्र पीनहास ने रूबेनियों, गादियों, और मनश्शेइयों से कहा, तुम ने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इस से आज हम ने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है : और तुम लोगो ने इस्राएलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। ३२ तब एलीआजर याजक का पुत्र पीनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होने हुए कनान देश में इस्राएलियों के पास लौट गया : और यह वृत्तान्त उनको कह सुनाया। ३३ तब इस्राएली प्रसन्न हुए; और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिये चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। ३४ और रूबेनियों

और गादियों ने यह कहकर, कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का साक्षी ठहरी है, कि यहोवा ही परमेश्वर है : उस वेदी का नाम एद * रखा।

(यशूअ के पिछले उपदेश)

२३ इसके बहुत दिनों के बाद, जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, २ तब यहोशू सब इस्राएलियों को, अर्थात् पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों, और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयुका होगया हूँ; ३ और तुम ने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। ४ देखो, मैं ने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है; और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहनेवाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैं ने काट डाला है। ५ और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे साम्हने से उनके देश से निकाल देगा; और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। ६ इसलिये बहुत हियाव बान्धकर, जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उस से न तो दाहिने मुड़ना और न बाए। ७ ये जो जातियाँ तुम्हारे बीच रह गई हैं इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और

* अर्थात् साक्षी।

न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दण्डवत् करना, ८ परन्तु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। ९ यहोवा ने तुम्हारे साम्हने से बड़ी बड़ी और बलवन्त जातिया निकाली है; और तुम्हारे साम्हने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। १० तुम मे से एक मनुष्य हजार मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी और से लड़ता है। ११ इसलिये अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। १२ क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगे जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इन से ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिस्ता जोडो, १३ तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे साम्हने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिये जाल और फदे, और तुम्हारे पाजरो के लिये कोडे, और तुम्हारी आखों में काटे ठहरेंगी, और अन्त में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। १४ सुनो, मैं तो अब सब मसागियों* की गति पर जानेवाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो, कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही; वे सब की सब तुम पर घट गई है, उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही।

* मूल में—सारी पृथ्वी।

१५ तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे ही यहोवा बिपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते तुम को इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर डालेगा। १६ जब तुम उस बाचा को, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम को आज्ञा देकर अपने साथ बन्धाया है, उल्लघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दण्डवत् करने लगे, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उस ने तुम को दिया है शीघ्र नाश हो जाओगे ॥

२४ फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, और इस्राएल के बृद्ध लोगो, और मुख्य पुरुषो, और न्यायियों, और सरदारो को बुलवाया; और वे परमेश्वर के साम्हने उपस्थित हुए। २ तब यहोशू ने उन सब लोगो से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, कि प्राचीन काल में इस्राहीम और नाहोर का पिता तेरह आदि, तुम्हारे पुग्वा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करने थे। ३ और मैं ने तुम्हारे मूलपुरुष इस्राहीम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानो में फिराया, और उसका बंश बढ़ाया। और उसे इसहाक को दिया; ४ फिर मैं ने इसहाक को याकूब और एसाब दिया। और एसाब को मैं ने सेईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परन्तु याकूब बेटो-पोतो समेत मिस्र को गया। ५ फिर मैं ने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामो के द्वारा जो मैं ने

मिस्र में किए उस देश को मारा; और उसके बाद तुम को निकाल लाया। ६ और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे; और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। ७ और जब तुम ने यहोवा की दोहाई दी तब उस ने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अन्धियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया; और जो कुछ मैं ने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा; फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। ८ तब मैं तुम को उन एमोरियों के देश में ले आया, जो यरदन के उस पार बसे थे; और वे तुम से लड़े, और मैं ने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैं ने उनको तुम्हारे साम्हने से सत्यानाश कर डाला। ९ फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा; और तुम्हें शाप देने के लिये बोर के पुत्र बेलाम को बुलवा भेजा, १० परन्तु मैं ने बेलाम की सुनने के लिये नहीं की; वह तुम को आशीष ही आशीष देता गया; इस प्रकार मैं ने तुम को उसके हाथ से बचाया। ११ तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग, और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हिती, गिर्याशी, हिब्बी, और यबूसी तुम से लड़े, तब मैं ने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। १२ और मैं ने तुम्हारे आगे बरों को भेजा, और उन्होंने ने एमोरियों के दोनो राजाओं को तुम्हारे साम्हने से भगा दिया; देखो, यह तुम्हारी तलवार वा धनुष का काम नहीं हुआ। १३ फिर मैं ने तुम्हें ऐसा देश दिया जिस में तुम ने परिश्रम न किया था, और ऐसे

नगर भी दिए हैं जिन्हें तुम ने न बसाया था, और तुम उन में बसे हो; और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुम ने नहीं लगाया था। १४ इसलिये अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा करार्य और सच्चाई से करो; और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। १५ और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किस की सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो; परन्तु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। १६ तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्यागकर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हम से दूर रहे; १७ क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हम को और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर, अर्थात् मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उन में हमारी रक्षा की; १८ और हमारे साम्हने से इस देश में रहनेवाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है; इसलिये हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। १९ यहोशू ने लोगों से कहा, तुम से यहोवा की सेवा नहीं हो सकती; क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है; वह जलन रखनेवाला ईश्वर है; वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। २० यदि तुम यहोवा को त्यागकर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो

यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तौभी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा, और तुम्हारा अन्त भी कर डालेगा। २१ लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं; हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। २२ यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुम ने यहोवा की सेवा करनी अगीकार कर ली है। उन्होंने ने कहा, हां, हम साक्षी हैं। २३ बरषोय ने कहा, अपने बीच में से पराए देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। २४ लोगो ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे, और उसी की बात मानेंगे। २५ तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बन्वाई, और शकेम में उनके लिये विधि और नियम ठहराया ॥

२६ यह सारा वृत्तान्त यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया; और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बाज-वृक्ष के तले खड़ा किया, जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। २७ तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगो का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हम से कहे हैं उन्हें इस ने सुना है; इसलिये यह तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा न हो कि

तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। २८ तब यहोशू ने लोगो को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिये विदा किया ॥

(बरषोय और शखोषाज्जर का मरना)

२९ इन बातों के बाद यहोवा का दास, नून का पुत्र यहोशू, एक सौ दस वर्ष का होकर मर गया। ३० और उसको तिमन्त्सेरह मे जो एप्रैम के पहाड़ी देश मे गाश नाम पहाड की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। ३१ और यहोशू के जीवन भर, और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिये कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। ३२ फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हे इस्राएली मिस्र से ले आए थे वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाडी गईं, जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से एक सौ चांदी के सिक्कों में मोल लिया था; इसलिये वह यूसुफ की सन्तान का निज भाग हो गया। ३३ और हारून का पुत्र एलीआज्जर भी मर गया; और उसको एप्रैम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र पीनहाम के नाम पर गिबत्पीनहास कहलाती है और उसको दे दी गई थी ॥

न्यायियों

(कनानियों में से किसी किसी का बट होना और किसी किसी का बच जाना)

१ यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहिले कौन चढ़ाई करेगा? २ यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा; सुनो, मैं ने इस देश को उमके हाथ में दे दिया है। ३ तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ, कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे भाग में जाऊँगा। सो शिमोन उसके संग चला। ४ और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया; तब उन्होंने ने बेजेक में उन में से दस हजार पुरुष मार डाले। ५ और बेजेक में अदोनीबेजेक को पाकर वे उस से लड़े, और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। ६ परन्तु अदोनीबेजेक भागा; तब उन्होंने ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया, और उसके हाथ पाव के अंगूठे काट डाले। ७ तब अदोनीबेजेक ने कहा, हाथ पाव के अंगूठे काटे हुए सत्तर राजा मेरी भेज के नीचे टुकड़े बीनते थे; जैसा मैं ने किया था, वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहाँ वह मर गया ॥

८ और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया, और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला, और नगर को फूँक दिया। ९ और तब यहूदी पहाड़ी

देश, और दक्खिन देश, और नीचे के देश में रहनेवाले कनानियों से लड़ने को गए।

१० और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे (हेब्रोन का नाम तो पूर्वकाल में किर्यतर्बा था); और उन्होंने ने शैशै, अहीमन, और तर्मे को मार डाला। ११ वहाँ से उस ने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। (दबीर का नाम तो पूर्वकाल में किर्यत्सेपर था।)

१२ तब कालेब ने कहा, जो किर्यत्सेपर को मारके ले ले उसे मैं अपनी बेटी अकसा को ब्याह दूंगा। १३ इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्लीएल ने उसे ले लिया, और उस ने उसे अपनी बेटी अकसा को ब्याह दिया। १४ और जब वह ओत्लीएल के पास आई, तब उस ने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मागने को उभारा; फिर वह अपने गदहे पर से उतरी, तब कालेब ने उस से पूछा, तू क्या चाहती है? १५ वह उस से बोली मुझे आशीर्वाद दे; तू ने मुझे दक्खिन देश तो दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनो सोते दे दिए ॥

१६ और मूसा के साले, एक केनी मनुष्य के सन्तान, यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए जो अर्राद के दक्खिन की ओर है, और जाकर एषायी लोगों के साथ रहने लगे। १७ फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहनेवाले कनानियों

को मार लिया, और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिये उस नगर का नाम होर्मा* पडा। १८ और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अशकलोन, और एक्रोन को ले लिया। १९ और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिये उस ने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया; परन्तु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिये वह उन्हें न निकाल सका। २० और उन्होंने ने मूसा के कहने के अनुसार हेन्नोन कालेब को दे दिया और उस ने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। २१ और यरूशलेम में रहनेवाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला; इसलिये यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते हैं ॥

२२ फिर यूमुफ के घराने ने बतेल पर चढ़ाई की; और यहोवा उनके सग था। २३ और यूमुफ के घराने ने बतेल का भेद लेने को लोग भेजे। (और उस नगर का नाम पूर्वकाल में लूज था।) २४ और पहरुओ ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा, और उस से कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। २५ जब उस ने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्हो ने नगर को तो तलवार से मारा, परन्तु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। २६ उस मनुष्य ने हितियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा; और आज के दिन तक उसका नाम वही है ॥

* अर्थात् सत्यानाश करना।

२७ मनश्शे ने अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम, और मगिदों के निवासियों को न निकाला; इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। २८ परन्तु जब इस्त्राएली सामर्षी हुए, तब उन्हो ने कनानियों से बेगारी ली, परन्तु उन्हें पूरी रीति से न निकाला ॥

२९ और एप्रैम ने गेजेर में रहनेवाले कनानियों को न निकाला; इसलिये कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे ॥

३० जबलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला; इसलिये कनानी उनके बीच में बसे रहे, और उनके वश में हो गए ॥

३१ आशोर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेलबा, अपीक, और रहोब के निवासियों को न निकाला; ३२ इसलिये आशोरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्हो ने उनको न निकाला था ॥

३३ नप्ताली ने बेतशंमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परन्तु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए; तीभी बेतशंमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए ॥

३४ और एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया, और तराई में आने न दिया, ३५ इसलिये एमोरी हेरेम नाम पहाड़, अय्यलोन और शालबीम में बसे ही रहे, तीभी यूमुफ का घराना यहा तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। ३६ और एमोरियों के देश का सिवाना अक्रब्बीम नाम पर्वत की चढ़ाई से आरम्भ करके ऊपर की ओर था ॥

(रक्षारक्षियों का चिन्तना और उसका दण्ड भोजना, और फिर पचापाप करके बुढकारा पात्रा)

२ और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, कि मैं ने तुम को मिस्र से ले आकर इस देश में पहुँचाया है, जिसके विषय मे मैं ने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैं ने कहा था, कि जो वाचा मैं ने तुम से बान्धी है, उसे मैं कभी न तोड़ूँगा; २ इसलिये तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बान्धना; तुम उनकी वेदियों को ढा देना। परन्तु तुम ने मेरी बात नहीं मानी। तुम ने ऐसा क्यों किया है? ३ इसलिये मैं कहता हूँ, कि मैं उन लोगों को तुम्हारे साम्हने सँ न निकालूँगा; और वे तुम्हारे पांजर मे कांटे, और उनके देवता तुम्हारे लिये फंदे ठहरेंगे। ४ जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। ५ और उन्होंने ने उस स्थान का नाम बोकीम * रखा। और वहाँ उन्होंने ने यहोवा के लिये बलि चढाया।।

६ जब यहोशू ने लोगो को विदा किया था, तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिये अपने अपने निज भाग पर गए। ७ और यहोशू के जीवन भर, और उन बृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिये कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। ८ निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू एक सौ दस वर्ष का होकर मर गया। ९ और उसको

* अर्थात् रोनेवाले।

तिम्नयेरेस में जो एप्रैम के पहाड़ी देश में गाशा नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। १० और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए; तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उस ने इस्राएल के लिये किया था।।

११ इसलिये इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे; १२ वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्यागकर पराये देवताओं, अर्थात् आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे, और उन्हें दण्डवत् किया; और यहोवा को रिस दिलाई। १३ वे यहोवा को त्याग कर के बाल देवताओं और अशतोरेत देवियों की उपासना करने लगे। १४ इसलिये यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, और उस ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे; और उस ने उनको चारों ओर के शत्रुओं के आधीन कर दिया; और वे फिर अपने शत्रुओं के साम्हने ठहर न सके। १५ जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उन से कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी; इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। १६ तभी यहोवा उनके लिये न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। १७ परन्तु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे; वरन व्यभिचारिन की नाई पराये

देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दण्ड-वत् करते थे; उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने न शीघ्र ही छोड़ दिया, और उनके अनुसार न किया। १८ और जब जब यहोवा उनके लिये न्यायी को ठहराता तब तब वह उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था; क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अन्धेर और उपद्रव करनेवालों के कारण होता था सुनकर दुःखी था। १९ परन्तु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते, और उन्हें दण्डवत् करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे; और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। २० इसलिये यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा; और उस ने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैं ने उनके पूर्वजों से बान्धी थी तोड़ दिया, और मेरी बात नहीं मानी, २१ इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है उन में से मे अब किसी को उनके साम्हने से न निकालूंगा; २२ जिस से उनके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूँ, कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। २३ इसलिये यहोवा ने उन जातियों को एकाएक न निकाला, बरन रहने दिया, और उस ने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था ॥

इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिये यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिये रहने दिया; २ कि

पीढी पीढी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहिले न जानते थे वे सीखें, और जान लें, ३ अर्थात् पांचो सरदारों समेत पलिस्तियों, और सब कनानियों, और सीदोनियों, और बालहेमोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहनेवाले हिब्वियों को। ४ ये इसलिये रहने पाए * कि इनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात में परीक्षा हो, कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे वा नहीं। ५ इसलिये इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्वियों, और यबूसियों के बीच में बस गए; ६ तब वे उनकी बेटियां ब्याह मे लेने लगे, और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे; और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे ॥

(ओलीयस का चरित्र)

७ इस प्रकार इस्राएलियो ने यहोवा की दृष्टि मे बुरा किया, और अपने पर-मेस्वर यहोवा को भूलकर बाल नाम देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लग गए। ८ तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का, और उस ने उनको अरम्नहरैम के राजा कूश-त्रिशातैम के अधीन कर दिया; सो इस्राएली आठ वर्ष तक कूशत्रिशातैम के अधीन में रहे। ९ तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी, और उसने इस्राएलियों के लिये कालेब के छोटे भाई ओलीएल नाम एक कनजी छुड़ानेवाले को ठहराया, और उस ने उनको छुड़ाया। १० उस में यहोवा का आत्मा समाया, और वह

* मूल में—दुप।

इस्त्राएलियों का न्यायी बन गया, और लड़ने को निकला, और यहोवा ने अराम के राजा कूशत्रिशतैम को उसके हाथ में कर दिया; और वह कूशत्रिशतैम पर जयवन्त हुआ। ११ तब चालीस वर्ष तक देश में शान्ति बनी रही। और उन्हीं दिनों में कनजी ओलीएल मर गया ॥

(शब्द का चरित्र)

१२ तब इस्त्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया; और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्त्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। १३ इसलिये उस ने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया, और जाकर इस्त्राएल को मार लिया; और खजूरवाले नगर को अपने वश में कर लिया। १४ तब इस्त्राएली अठारह वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। १५ फिर इस्त्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी, और उस ने गेरा के पुत्र एहूद नाम एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ानेवाला ठहराया, वह बँहत्या था। इस्त्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। १६ एहूद ने हाथ भर लम्बी एक दोधारी तलवार बनवाई थी, और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जाघ पर लटका लिया। १७ तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास जो बड़ा मोटा पुरुष था ले गया। १८ जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लानेवाले को विदा किया। १९ परन्तु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूरतों के पास लौट गया, और एग्लोन के पास

कहला भेजा, कि हे राजा, मुझे तुम से एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिये बाहर जाओ*। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। २० तब एहूद उसके पास गया; वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बँठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुम से एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। २१ इतने में एहूद ने अपना बाया हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जाघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी; २२ और फल के पीछे मूठ भी पँठ गई, और फल चर्बी में धसा रहा, क्योंकि उस ने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके अरारपर निकल गई। २३ तब एहूद छज्जे में निकलकर बाहर गया, और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बन्द करके ताला लगा दिया। २४ उसके निकल जाते ही राजा † के दास आए, तो क्या देखते हैं, कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है; इस कारण वे बोले, कि निश्चय वह हवादार कोठरी में लघुशंका करता होगा। २५ वे बात जोहते जोहते लज्जित हो गए; तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने ने कुजी लेकर किवाड़ खोल तो क्या देखा, कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। २६ जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक एहूद भाग निकला, और खुदी हुई मूरतों की परली ओर होकर सेइरे में जाकर शरण ली। २७ वहाँ पहुँचकर उस ने

* मूल में—चुप रहो।

† मूल में—बस।

एग्रम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूँका; तब इस्लाएली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए। २८ और उस ने उन से कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ; क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्हो ने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया, और किसी को उतरने न दिया। २९ उस समय उन्होंने ने कोई दस हजार मोआबियों को मार डाला; वे सब के सब हूष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परन्तु उन में से एक भी न बचा। ३० इस प्रकार उस समय मोआब इस्लाएल के हाथ के तले दब गया। तब अस्सी वर्ष तक देश में शान्ति बनी रही ॥

३१ उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उस ने छः सौ पलिशती पुरुषों को बैल के पंने में मार डाला, इस कारण वह भी इस्लाएल का छुड़ानेवाला हुआ ॥

(दबोरा और बाराक का चरित्र)

४ जब एहूद मर गया तब इस्लाएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। २ इसलिये यहोवा ने उनको हामोर में बिराजनेवाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्यजातियों की हरोशेत का निवासी था। ३ तब इस्लाएलियों ने यहोवा की दोहाई दी; क्योंकि सीसरा के पास लोहे के नौ सौ रथ थे, और वह इस्लाएलियों पर बीस वर्ष तक बड़ा अन्धेर करता रहा ॥

४ उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी इस्लाएलियों का न्याय करती थी। ५ वह एग्रम के

पहाड़ी देश में रामा और बतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्लाएली उसके पास न्याय के लिये जाया करते थे। ६ उस ने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्लाएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी, कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़*, और नप्तालियों और जबूलूनियों में के दस हजार पुरुषों को संग ले जा ? ७ तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीडभाड समेत कौशोन नदी तक तेरी ओर खीच ले आऊंगा; और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। ८ बाराक ने उस से कहा, यदि तू मेरे सग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। ९ उस ने कहा, नि मन्देह मैं तेरे सग चलूंगी; तौभी इस यात्रा में तेरी तो कुछ बडाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बागक के सग केदेश को गई।

१० तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया, और उसके पीछे दस हजार पुरुष चढ़ गए; और दबोरा उसके संग चढ़ गई।

११ हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वश के थे, अपने को अलग करके केदेश के पास के सानभ्रीम के बाजवृक्ष तक जाकर अपना डेरा बही डाला था। १२ जब सीसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है,

१३ तब सीसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के नौ सौ रथ थे, और अपने संग

* मूल में—खीच।

की सारी सेना को अन्यजातियों के हरोशेत से कीशोन नदी पर बुलवाया। १४ तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ ! क्योंकि आज वह दिन है जिस में यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे भागे नहीं निकला है ? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे दस हजार पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। १५ तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के साम्हने घबरा दिया; और सीसरा रथ पर से उतरके पांव पाव भाग चला। १६ और बाराक ने अन्यजातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई; और एक भी मनुष्य न बचा ॥

१७ परन्तु सीसरा पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया; क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। १८ तब याएल सीसरा की भेंट के लिये निकलकर उस से कहने लगी, हे मेरे प्रभु, भा, मेरे पास भा, और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया, और उस ने उसके ऊपर कम्बल डाल दिया। १९ तब सीसरा ने उस से कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उस ने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया, और उसको थोड़ा दिया। २० तब उस ने उस से कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझ से पूछे, कि यहां कोई पुरुष है ? तब कहना, कोई भी नहीं। २१ इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूटी ली, और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव

उसके पास जाकर खूटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूटी पार होकर भूमि में घस गई; वह तो थका था ही इसलिये गहरी नींद में सो रहा था। सो वह मर गया। २२ जब बाराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया, तब याएल उस से भेंट करने के लिये निकली, और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उस ने उसके साथ जाकर क्या देखा; कि सीसरा मरा पड़ा है, और वह खूटी उसकी कनपटी में गड़ी है। २३ इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के साम्हने नीचा दिखाया। २४ और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहां तक कि उन्होंने ने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला ॥

(दबोरा का गौन)

५ उसी दिन दबोरा और अबीनोम्रम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया,
२ कि इस्राएल के भगवों ने जो भगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिये यहोवा को धन्य कहो !
३ हे राजाभो, सुनो; हे अधिपतियों, कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिये गीत गाऊंगी;
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी ॥
४ हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला,
जब तू ने एदोम के देश से प्रस्थान किया,

- तब पृथ्वी डोल उठी, और
आकाश टूट पड़ा,
बादल से भी जल बरसने लगा ॥
- ५ यहोवा के प्रताप से पहाड़,
इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा के
प्रताप से वह सीनै पिघलकर
बहने लगा ॥
- ६ अनात के पुत्र शमगर के दिनों में,
और याएल के दिनों में सड़के
सूनी पड़ी थी,
और बटोही पगदड़ियों से चलते
थे ॥
- ७ जब तक मैं दबोरा न उठी,
जब तक मैं इस्त्राएल में माता
होकर न उठी,
तब तक गांव सूने पड़े थे ॥*
- ८ नये नये देवता माने गए,
उस समय फाटक़ों में लड़ाई होती
थी ।
क्या चालीस हजार इस्त्राएलियों
में भी
ढाल वा बर्छी कही देखने में
आती थी ?
- ९ मेरा मन इस्त्राएल के हाकिमों
की ओर लगा है,
जो प्रजा के बीच में अपनी ही
इच्छा से भरती हुए ।
यहोवा को धन्य कहो ॥
- १० हे उजली गदहियों पर चढ़नेवालों,
हे फ़शों पर विराजनेवालों,
हे मार्ग पर पैदल चलनेवालों,
ध्यान रखो ॥
- ११ पनघटों के आस पास धनुर्धारियों
की बात के कारण,

* वा इस्त्राएलियों में कोई प्रधान न रहा ।

- वहां वे यहोवा के धर्ममय कामों
का,
इस्त्राएल के लिये उसके धर्ममय
कामों का बख़ान करेंगे ।
उस समय यहोवा की प्रजा के
लोग फाटक़ों के पास गए ॥
- १२ जाग, जाग, हे दबोरा !
जाग, जाग, गीत सुना !
हे बाराक, उठ, हे अबीनोम
के पुत्र, अपने बन्धुओं को बन्धु-
धर्म में ले चल ।
- १३ उस समय थोड़े से* रईस प्रजा
समेत उतर पड़े;
यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध † मेरे
हित उतर आया ॥
- १४ एप्रैम में से वे आए जिसकी जड़
अमालेक में है;
हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दलों
में,
माकीर में से हाकिम, और जबू-
लून में से सेनापति का दण्ड
लिए हुए उतरे;
- १५ और इस्त्राकार के हाकिम
दबोरा के संग हुए,
जैसा इस्त्राकार बैसा ही बाराक
भी था;
उसके पीछे लगे हुए वे तराई में
भ्रष्टकर गए ।
रूबेन की नदियों के पास
बड़े बड़े काम मन में ठाने
गए ॥
- १६ तू चरबाहो ‡ का सीटी बजाना
सुनने को

* मूल में—प्रजा के बचे हुए ।

† वा संग ।

‡ मूल में—मेव-वकरियों के मुँहों ।

- भेड़शालो के बीच क्यों बैठा
रहा ?
रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े
काम सोचे गए ॥
- १७ गिलाद यरदन पार रह गया;
और दान-क्यों जहाजों में रह
गया ?
आशेर समुद्र के तीर पर बैठा
रहा,
और उसकी खाडियों के पास
रह गया ॥
- १८ जबलून अपने प्राण पर खेलने-
वाले लोग ठहरे;
नप्ताली भी देश के ऊचे ऊंचे
स्थानों पर बैसा ही ठहरा ।
- १९ राजा आकर लड़े,
उस समय कनान के राजा मगिद्दो
के सौतों के पास तानाक मे
लड़े;
पर रूपयों का कुछ लाभ न
पाया ॥
- २० आकाश की ओर से भी लडाई
हुई,
वरन ताराओं ने अपने अपने
मण्डल से सीसरा से लडाई
की ॥
- २१ कीशोन नदी ने उनको बहा दिया,
अर्थात् वही प्राचीन नदी जो
कीशोन नदी है ।
हे मन, हियाव बान्धे आगे बढ ॥
- २२ उस समय घोड़े के खुरों से टाप
का शब्द होने लगा,
उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने
से यह हुआ ॥
- २३ यहोवा का दूत कहता है, कि
मेरोज को शाप दो,
- उसके निवासियों को भारी शाप
दो,
क्योंकि वे यहोवा की सहायता
करने को,
शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की
सहायता करने को न आए ॥
- २४ सब स्त्रियों में से केनी हेवेर की
स्त्री याएल धन्य ठहरेगी;
डेरो में से रहनेवाली सब स्त्रियों
में वह धन्य ठहरेगी ॥
- २५ सीसरा ने पानी मांगा, उस ने
दूध दिया,
रईसो के योग्य बतन में वह
मक्खन ले आई ॥
- २६ उस ने अपना हाथ खूटी की ओर,
अपना दाहिना हाथ बढ़ाई के
हथौड़े की ओर बढ़ाया,
और हथौड़े से सीसरा को मारा,
उसके सिर को फोड़ डाला,
और उसकी कनपटी को आर-
पार छेद दिया ॥
- २७ उस स्त्री के पांवों पर वह
भुका, वह गिरा, वह पड़ा
रहा;
उस स्त्री के पावों पर वह भुका,
वह गिरा, जहा भुका, वही
मरा पड़ा रहा ॥
- २८ खिडकी में से एक स्त्री भाककर
चिल्लाई,
सीसरा की माता ने झिलमिली
की झोट से पुकारा,
कि उसके रथ के आने में इतनी
देर क्यों लगी ?
उसके रथों के पहियों को अबेर
क्यों हुई है ?

२६ उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उस ने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया,

३० कि क्या उन्हो ने लूट पाकर बांट नहीं ली ?

क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुवारियां:

और सीसरा को रगे हुए वस्त्र की लूट,

वरन बूटे काढे हुए रगीले वस्त्र की लूट,

और लूटे हुओं के गले मे दोनों ओर बूटे काढे हुए रगीले वस्त्र नहीं मिले ?

३१ हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाएं !

परन्तु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो ॥

फिर देश मे चालीस वर्ष तक शान्ति रही ॥

(मिर्दोम का चरित्र)

हे तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि मे बुरा किया, इसलिये यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के बश मे सात वर्ष कर रखा । २ और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए । मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियो ने पहाडों के गहिरे खड्डो, और गुफाओं, और किलों को अपने निवास बना लिए । ३ और जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके ४ अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे, और इस्राएलियो के

लिये न तो कुछ भोजनवस्तु, और न भेड़-बकरी, और न गाय-बैल, और न गदहा छोड़ते थे । ५ क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरो को लिए हुए चढ़ाई करते, और टिड्डियो के दल के समान बहुत आते थे; और उनके ऊट भी अनगिनत होते थे; और वे देश को उजाड़ने के लिये उस में आया करते थे । ६ और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बडी दुर्दशा मे पड़ गए; तब इस्राएलियो ने यहोवा की दोहाई दी ॥

७ जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, ८ तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा, जिस ने उन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि मैं तुम को मिस्र में से ले आया, और दासत्व के घर से निकाल ले आया; ९ और मैं ने तुम को मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अन्धे करते थे उन सभो के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे साम्हने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हे दे दिया; १० और मैं ने तुम से कहा, कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू; एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना । परन्तु तुम ने मेरा कहना नहीं माना ॥

११ फिर यहोवा का दूत आकर उस बांजवृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा मे अबीएजेरी योप्राश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुएड में गेहू इसलिये भाड रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे । १२ उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है । १३ गिदोन

ने उस से कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने भ्रातृचर्यकर्मों का बरान हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, कि क्या यहोवा हम को मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहें? अब तो यहोवा ने हम को त्याग दिया, और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। १४ तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्त्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा; क्या मैं ने तुम्हें नहीं भेजा? १५ उस ने कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, मैं इस्त्राएल को क्योंकर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे मे सब से कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने मे सब से छोटा हूँ। १६ यहोवा ने उस से कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा; सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। १७ गिदोन ने उस से कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझ से बातें कर रहा है। १८ जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे साम्हने न रखूँ, तब तक तू यहा से न जा। उस ने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। १९ तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मंदे की भ्रखमीरी रोटियां तैयार की; तब मांस को टोकरी में, और जूस को तसले में रखकर बांजवृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। २० पर-मेश्वर के दूत ने उस से कहा, मांस और भ्रखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे, और जूस को उगडेल दे। उर्स ने ऐसा ही किया। २१ तब यहोवा

के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बड़ाकर मांस और भ्रखमीरी रोटियों को छूआ; और चट्टान से भाग निकली जिस से मांस और भ्रखमीरी रोटियां भस्म हो गईं; तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अन्तरध्यान हो गया। २२ जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाथ, प्रभु यहोवा! मैं ने तो यहोवा के दूत को साक्षात् देखा है। २३ यहोवा ने उस से कहा, तुम्हें शान्ति मिले; मत डर, तू न मरेगा। २४ तब गिदोन ने वहा यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम * रखा। वह आज के दिन तक भ्रबीएजूरियों के भ्रोभा में बनी है ॥

२५ फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल, अर्थात् दूसरा सात वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो भ्रशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल; २६ और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना; तब उस दूसरे बैल को ले, और उस भ्रशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होमबलि चढ़ा। २७ तब गिदोन ने अपने संग दस दासों को लेकर यहोवा के बचन के अनुसार किया; परन्तु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिये रात में किया। २८ बिहान को नगर के लोग सबेरे उठकर क्या देखते हैं, कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है, और उसके पास की भ्रशेरा कटी पड़ी है, और दूसरा बैल

* अर्थात् यहोवा शान्ति [देनेवाला है।]

बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। २६ तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किस ने किया? और पूछपाछ और दूढ़-ढांड करके वे कहने लगे, कि यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। ३० तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ, कि मार डाला जाए, क्योंकि उस ने बाल की वेदी को गिरा दिया है, और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। ३१ योआश ने उन सभी से जो उसके साम्हने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिये वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिये वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। बिहान तक ठहरे रहो; तब तक यदि वह परमेश्वर हो, तो जिस ने उसकी वेदी गिराई है उस से वह आप ही अपना वाद विवाद करे। ३२ इसलिये उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरुब्बाल * रखा गया, कि इस ने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले ॥

३३ इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए, और पार आकर यिज्जेल की तराई में डरे डाले। ३४ तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया†; और उस ने नरसिंगा फूका, तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिये इकट्ठे हुए। ३५ फिर उस ने कुल मनश्शे के पास अपने दूत भेजे; और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए। और उस ने आशेर, जबूलून, और नप्ताली के

* अर्थात् बाल वाद विवाद करे।

† मूल में—आत्मा ने गिदोन को पहिन लिया।

पास भी दूत भेजे; तब वे भी उस से मिलने को चले आए। ३६ तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छोड़ा-एगा, ३७ तो सुन, मैं एक भेडी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े, और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छोड़ा-एगा। ३८ और ऐसा ही हुआ। इसलिये जब उस ने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उस में से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। ३९ फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ, तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के; मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँ, अर्थात् केवल ऊन ही सूखी रहे, और सारी भूमि पर ओस पड़े। ४० उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया; अर्थात् केवल ऊन ही सूखी रह गई, और सारी भूमि पर ओस पड़ी ॥

७ तब गिदोन जो यरुब्बाल भी कह-लाता है और सब लोग जो उसके सग थे सवेरे उठे, और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए; और मिद्या-नियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी ॥

२ तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्या-नियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे, कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। ३ इसलिये

तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, कि जो कोई डर के मारे धरधराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब बाईस हजार लोग लौट गए, और केवल दस हजार रह गए ॥

४ फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं; उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिये परखूंगा; और जिम जिसके विषय में मैं तुम्ह से कहूँ, कि यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले; और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ, कि यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। ५ तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया, वहा यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पीए उनको भ्रलग रख; और वँसा ही उन्हें भी जो घुटने टेककर पीए। ६ जिन्हो ने मुँह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती तीन सौ ठहरी; और बाकी सब लोगो ने घुटने टेककर पानी पिया। ७ तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन तीन सौ चपड़ चपड़ करके पीनेवालों के द्वारा मैं तुम को छुडाऊंगा, और मिद्यानियो को तेरे हाथ में कर दूंगा; और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएँ। ८ तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए; और उस ने इस्राएल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परन्तु उन तीन सौ पुरुषों को अपने पास रख छोडा; और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी ॥

९ उसी रात को यहोवा ने उस से कहा, उठ, छावनी पर चढाई कर; क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। १० परन्तु

यदि तू चढाई करने डरता हो, तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन, ११ कि वे क्या कह रहे हैं; उसके बाद तुम्हें उस छावनी पर चढाई करने का हियाब होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियार-बन्दों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। १२ मिद्यानी और भ्रमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिट्ठियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे; और उनके ऊट समुद्रतीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। १३ जब गिदोन वहाँ भ्राया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था, कि सुन, मैं ने स्वप्न में क्या देखा है कि जो की एक रोटी लुडकते लुडकते मिद्यान की छावनी में आई, और डेरे को ऐमा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया, कि डेरा गिरा पडा रहा। १४ उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योभाश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड कुछ नहीं है; उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है ॥

१५ उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दराडवत् की; और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। १६ तब उस ने उन तीन सौ पुरुषों के तीन भ्रुगड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घडा दिया, और घडों के भीतर एक मशाल थी। १७ फिर उस ने उन से कहा, मुम्हें देखो, और वँसा ही करो; सुनो, जब मैं उस छावनी की

छोर पर पहुँच, तब जैसा मैं करूँ वैसा ही तुम भी करना। १८ अर्थात् जब मैं और मेरे सब सगी नरसिंगा फूके तब तुम भी छावनी की चारो ओर नरसिंगे फूकना, और ललकारना, कि यहोवा की और गिदोन की तलवार ॥

१९ बीचवाले पहर के आदि में ज्योही पहरओ की बदली हो गई थी त्योही गिदोन अपने सग के सौ पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया, और नरसिंगे को फूक दिया और अपने हाथ के घडो को तोड़ डाला। २० तब तीनो भुगडो ने नरसिंगो को फूका और घडो को तोड़ डाला, और अपने अपन बाएँ हाथ में मशाल और दहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। २१ तब वे छावनी के चारो ओर अपने अपने स्थान पर खड रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्हो ने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। २२ और उन्हो ने तीन सौ नरसिंगो को फूका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके सगी पर और सब सेना पर चलवाई, तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतश्चिता तक और तब्बात के पास के आबेलमहोला तक भाग गए। २३ तब इस्त्राएली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिद्यानियो के पीछे पडे। २४ और गिदोन ने एप्रैम के सब पहाडी देश में यह कहने को दूत भेज दिए, कि मिद्यानियो से मुठभेड करने को चले आओ, और यरदन नदी के घाटो को बेतबारा तक उन से पहिले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रैमी पुरुषो ने इकट्ठे होकर

यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया। २५ और उन्हो ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के दो हाकिमो को पकडा, और ओरेब को ओरेब नाम चट्टान पर, और जेब को जेब नाम दाखरस के कुण्ड पर घात किया, और वे मिद्यानियो के पीछे पडे, और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए ॥

तब एप्रैमी पुरुषो ने गिदोन से कहा, तू ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है, कि जब तू मिद्यान से लडने को चला तब हम को नहीं बुलवाया? सो उन्हो ने उस से बडा भगडा किया। २ उस ने उन से कहा, मैं ने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोडी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फमल में अच्छी नहीं है? ३ तुम्हारे ही हाथो में परमेस्वर ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमो को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उस ने यह बात कही, तब उनका जी उसकी ओर से ठडा हो गया ॥

४ तब गिदोन और उसके सग तीनो सौ पुरुष, जो थके मान्दे थे तीभी खडेडते ही रहे थे, यरदन के तीर आकर पार हो गए। ५ तब उस ने सुक्कोत के लोगो से कहा, मेर पीछे इन आनेवालो को रोटिया दो, क्योंकि ये थके मान्दे हैं, और मैं मिद्यान के जबह और सल्मुन्ना नाम राजाओ का पीछा कर रहा हूँ। ६ सुक्कोत के हाकिमो ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सल्मुन्ना तेरे हाथ में पड चुके हैं, कि हम तेरी सेना को रोटी

दें ? ७ गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सल्मुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इस बात के कारण तुम को जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। ८ वहाँ से वह पनूएल को गया, और वहाँ के लोगों * से ऐसी ही बात कही, और पनूएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। ९ उस ने पनूएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा, तब इस गुम्मत को ढा दूंगा ॥

१० जेबह और मन्मुन्ना तो कर्कोंर में थे, और उनके साथ कोई पन्द्रह हजार पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे; और जो मारे गए थे वे एक लाख बीस हजार हथियारबन्द थे। ११ तब गिदोन ने नोबह और योग्बहा के पूर्व की ओर डेरों में रहनेवालों के मार्ग में चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। १२ और जब जेबह और सल्मुन्ना भागे, तब उस ने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं, अर्थात् जेबह और सल्मुन्ना को पकड़ लिया, और सारी सेना को भगा दिया। १३ और योग्बहा का पुत्र गिदोन हेरेम नाम चढाई पर से लडाई से लौटा †। १४ और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उस से पूछा, और उस ने सुक्कोत के सतहतारों हाकिमों और बृद्ध लोगों के पते लिखवाये। १५ तब वह सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सल्मुन्ना को देखो,

* मूल में—उन।

† वा सूर्य उदय न होने पाया कि योग्बहा का पुत्र गिदोन लडाई से लौटा।

जिनके विषय में तुम ने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था, कि क्या जेबह और सल्मुन्ना अभी तेरे हाथ में हैं, कि हम तेरे थके मान्दे जनों को रोटी दे ? १६ तब उस ने उस नगर के बृद्ध लोगों को पकड़ा, और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया। १७ और उस ने पनूएल के गुम्मत को ढा दिया, और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। १८ फिर उस ने जेबह और सल्मुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुम ने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे ? उन्हों ने उत्तर दिया, जैसा तू बैसे ही वे भी थे, अर्थात् एक एक का रूप राजकुमार का सा था। १९ उस ने कहा, वे तो मेरे भाई, वरन मेरे सहोदर भाई थे; यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुम ने उनको जीवित छोड़ा होता, तो मैं तुम को घात न करता। २० तब उस ने अपने जेठे पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परन्तु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लडका ही था, इसलिये वह डर गया। २१ तब जेबह और सल्मुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर; क्योंकि जैसा पुरुष हो, वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह और सल्मुन्ना को घात किया; और उनके ऊंटों के गलों के चन्द्रहारों को ले लिया ॥

२२ तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे; क्योंकि तू ने हम को मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। २३ गिदोन ने उन से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा,

और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा; यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। २४ फिर गिदोन ने उन से कहा, मैं तुम से कुछ मागता हूँ; अर्थात् तुम मुझ को अपनी अपनी लूट में की बालिया दो। (वे तो इस्राएली थे, इस कारण उनकी बालिया सोने की थी।) उन्होंने कहा, निश्चय हम देगे। २५ तब उन्होंने ने कपडा बिछाकर उस में अपनी अपनी लूट में से निकालकर बालिया डाल दी। २६ जो सोने की बालिया उस ने मांग ली उनका तीन एक हजार सात सौ शेकेल हुआ; और उनको छोड़ चन्द्रहार, भुमके, और बंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहिने थे, और उनके ऊंटों के गलों की जजीर। २७ उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नाम नगर में रखा; और सब इस्राएल वहा व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिये फन्दा ठहरा। २८ इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियो से दब गया, और फिर सिर न उठाया। और गिदोन के जीवन भर अर्थात् चालीस वर्ष तक देश चैन से रहा ॥

२९ योआश का पुत्र यरुब्बाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा। ३० और गिदोन के सत्तर बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसके बहुत स्त्रियां थी। ३१ और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलोक रखा। ३२ निदान योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबीएजेरियों के ओप्रा नाम गांव में उसके पिता योआश की कबर में उसको मिट्टी दी गई ॥

३३ गिदोन के मरते ही इस्राएली फिर गए, और व्यभिचारिणी की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और बालबरीत को अपना देवता मान लिया। ३४ और इस्राएलियो ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिस ने उनको चारो ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा; ३५ और न उन्होंने ने यरुब्बाल अर्थात् गिदोन की उस सागी भलाई के अनुसार जो उस ने इस्राएलियो के साथ की थी उनके घराने को प्रीति दिखाई ॥

(अबीमेलोक का चरित्र)

६ यरुब्बाल का पुत्र अबीमेलोक शकेम को अपने मामाओं के पाम जाकर उन में और अपने नाना के सब घराने में यों कहने लगा, २ शकेम के सब मनुष्यो में यह पूछो, कि तुम्हारे लिये क्या भला है? क्या यह कि यरुब्बाल के सत्तर पुत्र तुम पर प्रभुता करें? वा यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड माम हू। ३ तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों में ऐसी ही बातें कही; और उन्हो ने यह सोचकर कि अबीमेलोक तो हमारा भाई है अपना मन उसके पीछे लगा दिया। ४ तब उन्होंने ने बालबरीत के मन्दिर में से सत्तर टुकड़े रूपे उसको दिए, और उन्हे लगाकर अबीमेलोक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए, जो उसके पीछे हो लिए। ५ तब उस ने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरुब्बाल के सत्तर पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया; परन्तु यरुब्बाल का योताम नाम लहुरा पुत्र छिपकर बच गया ॥

६ तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिल्लो के सब लोगो ने इकट्ठे होकर शकेम के खम्भे के पासवाले बाजवृक्ष के पाम अबीमेलक को राजा बनाया । ७ इसका समाचार सुनकर योताम गरिज्जीम पहाड की चोटी पर जाकर खडा हुआ, और ऊचे स्वर से पुकार के कहने लया, हे शकेम के मनुष्यो, मेरी सुनो, इसलिय कि परमेश्वर तुम्हारी सुने । ८ किसी युग मे वृक्ष किमी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहरान को चल, तब उन्हो न जलपाई के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर । ९ तब जलपाई के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उम चिकनाहट को छोडकर, जिस मे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनो का आदर मान करने हे, वृक्षो का अधिकारी होकर इधर उधर डोलन को चलू ? १० तब वृक्षो ने अजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर । ११ अजीर के वृक्ष न उन से कहा, क्या मैं अपने मीठपन और अपन अच्छे अच्छे फलो को छोड वृक्षो का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलू ? १२ फिर वृक्षो ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर । १३ दाखलता ने उन से कहा, क्या मैं अपने नये मधु को छोड, जिस से परमेश्वर और मनुष्य दोनो को आनन्द होता है, वृक्षो की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलू ? १४ तब सब वृक्षो ने ऋडबेडी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर । १५ ऋडबेडी ने उन वृक्षो से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाह मे शरण लो, और नही तो, ऋडबेडी से

भाग निकलेगी जिस मे लवानोन के देव-दार भी भस्म हो जाएंगे । १६ इसलिये अब यदि तुम ने सच्चाई और खराई से अबीमेलक को राजा बनाया है, और यरुब्बाल और उमके घराने से भलाई की, और उस से उमके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला । १७ (मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लडा, और अपने प्राण पर खेलकर तुम को मिद्यानियो के दाय मे छुडाया, १८ परन्तु तुम ने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया, और उसके सत्तर पुत्र एक ही पत्थर पर धान किए, और उसकी लौडी के पुत्र अबीमेलक को इसलिये शकेम के मनुष्यो के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है), १९ इसलिये यदि तुम लोगो ने आज के दिन यरुब्बाल और उमके घराने मे सच्चाई और खराई मे बर्ताव किया हो, तो अबीमेलक के कारण आनन्द करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनन्द करे, २० और नही, तो अबीमेलक मे गम्भी आग निकल जिस मे शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो भस्म हो जाए और शकेम के मनुष्यो और बेतमिल्लो मे ऐसी आग निकले जिस मे अबीमेलक भस्म हो जाए । २१ तब योताम भागा, और अपने भाई अबीमेलक के डर के मारे बर को जाकर वही रहने लगा ॥

२२ और अबीमेलक इस्त्राएल के ऊपर तीन वर्ष हाकिम रहा । २३ तब परमेश्वर ने अबीमेलक और शकेम के मनुष्यो के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, सो शकेम के मनुष्य अबीमेलक का विश्वासघात करने लगे, २४ जिस से यरुब्बाल के सत्तर पुत्रो पर किए हुए उपद्रव का

फल भोगा जाए*, और उनका खून उनके घात करनेवाले उनके भाई अबी-मेलक के सिर पर, और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करनेवाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। २५ तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिये घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सब भ्रान्त जानेवालों को लूटते थे, और इसका समाचार अबीमेलक को मिला ॥

२६ तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शकेम में आया; और शकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया। २७ और उन्होंने ने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौन्दा, और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मन्दिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलक को कोसने लगे। २८ तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलक कौन है? शकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहे? क्या वह यरुबबाल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका नाइब नहीं? शकेम के पिता हमोर के लोगों के तो अधीन हो, परन्तु हम उसके अधीन क्यों रहे? २९ और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता! तब तो मैं अबीमेलक को दूर करता। फिर उस ने अबीमेलक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकल आ। ३० एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा। ३१ और उस ने अबीमेलक के पास खिपके † दूतों से कहला भेजा, कि एबेद का पुत्र गाल

और उसके भाई शकेम में आके नगरवालों को तेरा विरोध करने को उसका रहे हैं। ३२ इसलिये तू अपने संगवालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा। ३३ फिर बिहान को सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना; और जब वह अपने संगवालों समेत तेरा साम्हना करने को निकले तब जो तुझ से बन पड़े वही उस से करना ॥

३४ तब अबीमेलक और उसके सग के सब लोग रात को उठ चार भूगड बान्धकर शकेम के विरुद्ध घात में बैठ गए। ३५ और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ, तब अबीमेलक और उसके मगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। ३६ उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर मे लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उस से कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। ३७ गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचोबीच होकर उतरे आते हैं, और एक भूगड मोननीम नाम बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। ३८ जबूल ने उस से कहा, तेरी यह बात कहां रही, कि अबीमेलक कौन है कि हम उसके अधीन रहे? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तू ने निकलना जाना था, इसलिये अब निकलकर उन से लड़। ३९ तब गाल शकेम के पुरुषों का अग्रगुहा हो बाहर निकलकर अबीमेलक से लड़ा। ४० और अबीमेलक ने उसको खदेड़ा, और वह अबीमेलक के साम्हने से भागा; और नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहु-तेरे घायल होकर गिर पड़े। ४१ तब

* मूल में—उपद्रव आए।

† मूल में—चपराई से।

अबीमेलिक अरूमा में रहने लगा; और जबल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया, और शकेम में रहने न दिया। ४२ दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए; और यह अबीमेलिक को बताया गया। ४३ और उस ने अपनी सेना के तीन दल बान्धकर मैदान में घात लगाई; और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। ४४ अबीमेलिक अपने मंग के दलो समेत आगे दौडकर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और दो दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। ४५ उमी दिन अबीमेलिक ने नगर में दिन भर लडकर उसको ले लिया, और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया, और उस पर नमक छिड़कवा दिया ॥

४६ यह सुनकर शकेम के गुम्मट के सब रहनेवाले एलबरीत के मन्दिर के गढ़ में जा घुसे। ४७ जब अबीमेलिक को यह समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, ४८ तब वह अपने सब सगियो समेत मलमोन नाम पहाड़ पर चढ़ गया; और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी, और उसे उठाकर अपने कन्धे पर रख ली। और अपने मगवालो से कहा कि जैसा तुम ने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी भटपट करो। ४९ तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली, और अबीमेलिक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ * में आग लगाई; तब

* मूल में—उनके ऊपर गढ़।

शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो अटकल एक हजार थे मर गए ॥

५० तब अबीमेलिक ने तेबेस को जाकर उसके साम्हने डेरे खड़े करके उस को ले लिया। ५१ परन्तु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, सो क्या स्त्री क्या पुरुष, नगर के सब लोग भागकर उस में घुसे, और उसे बन्द करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। ५२ तब अबीमेलिक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लडने लगा, और गुम्मट के द्वार तक गया कि उस में आग लगाए। ५३ तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलिक के सिर पर डाल दिया, और उसकी खोपड़ी फट गई। ५४ तब उस ने अट अपने हथियारों के ढोनेवाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खीचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं, कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी, और वह मर गया। ५५ यह देखकर कि अबीमेलिक मर गया है इस्राएली अपने अपने स्थान को चले गए। ५६ इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलिक ने अपने सत्तर भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया; ५७ और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए, और यहूबाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया ॥

(तोला और याईर के चरित्र)

१० अबीमेलिक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिये तोला नाम एक

इस्साकारी उठा, वह दोदो का पोता और पूषा का पुत्र था; और एप्रैम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। २ वह तेईस वर्ष तक इस्त्राएल का न्याय करता रहा। तब मर गया, और उसको शामीर में मिट्टी दी गई ॥

३ उसके बाद गिलादी याईर उठा, वह बाईस वर्ष तक इस्त्राएल का न्याय करता रहा। ४ और उसके तीस पुत्र थे जो गदहियों के तीस बच्चों पर सवार हुआ करते थे; और उनके तीस नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं, और आज तक हम्बोत्याईर * कहलाते हैं। ५ और याईर मर गया, और उसको कामोन में मिट्टी दी गई ॥

६ तब इस्त्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात् बाल देवताओं और अशतोरेत देवियों और आराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों, और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे; और यहोवा को त्याग दिया, और उसकी उपासना न की। ७ तब यहोवा का क्रोध इस्त्राएल पर भडका, और उस ने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया, ८ और उस वर्ष ये इस्त्राएलियों को सताते और पीसते रहे। बरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहनेवाले सब इस्त्राएलियों पर अठारह वर्ष तक अन्धे करते रहे। ९ अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन में और एप्रैम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहां तक कि इस्त्राएल बड़े संकट में पड़ गया। १० तब इस्त्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी,

* अर्थात् याईर की बस्तियां।

कि हम ने जो अपने परमेश्वर को त्यागकर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हम ने तेरे विरुद्ध महा पाप किया है। ११ यहोवा ने इस्त्राएलियों में कहा, क्या मैं ने तुम को मिलियों, एमोरियों, अम्मोनियों, और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? १२ फिर जब सीदोनी, और अमालेकी, और माओनी लोगो ने तुम पर अन्धे किया, और तुम ने मेरी दोहाई दी, तब मैं ने तुम को उनके हाथ से भी न छुड़ाया? १३ तौभी तुम ने मुझे त्यागकर पराये देवताओं की उपासना की है; इसलिये मैं फिर तुम को न छुड़ाऊंगा। १४ जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दोहाई दो, तुम्हारे सकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। १५ इस्त्राएलियों ने यहोवा से कहा, हम ने पाप किया है, इसलिये जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हम से कर; परन्तु अभी हमें छुड़ा। १६ तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे; और वह इस्त्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ ॥

१७ तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इस्त्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। १८ तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे में कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से सप्राप्त आरम्भ करेगा? वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा ॥

११ यिप्तह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था, और वह बेश्या का बेटा था; और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ

था। २ गिलाद की स्त्री के भी बंटे उत्पन्न हुए; और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, कि तू तो पराई स्त्री का बंटा है; इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। ३ तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तांब देश में रहने लगा; और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए; और उसके सग फिरने लगे ॥

४ और कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इस्राएल में लड़ने लगे। ५ जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तांब देश से ले आने को गए, ६ और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा, कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। ७ यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुम नें मुझ से बँर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? ८ गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं, कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े; तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। ९ यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो, और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरेगा? १० गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे; यहोवा हमारे और तेरे बीच में एक बचनी का सुननेवाला है। ११ तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला,

और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया; और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्रा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई ॥

१२ तब यिप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, कि तुम मुझ से क्या काम, कि तू मेरे देश में लड़ने को आया है? १३ अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह के दूतों से कहा, कारण यह है, कि जब इस्राएली मिस्र से आए, तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने नें छीन लिया; इसलिये अब उसको बिना भगडा किए फें दे। १४ तब यिप्तह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे, १५ कि यिप्तह तुम से यो कहता है, कि इस्राएल ने न तो मोआब का देश ले लिया और न अम्मोनियों का, १६ वरन जब वे मिस्र से निकले, और इस्राएली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले, और कादेश को आए, १७ तब इस्राएल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा, कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे; और एदोम के राजा ने उनकी न मानी। इसी रीति उस ने मोआब के राजा से भी कहला भेजा, और उस ने भी न माना। इसलिये इस्राएल कादेश में रह गया। १८ तब उस ने जगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश की पूर्व ओर से आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले; और मोआब के सिवाने के भीतर न गया, क्योंकि मोआब का सिवाना अर्नोन था। १९ फिर इस्राएल ने एमोनियों के राजा सीहोन के पास जो हेश्बोन

का राजा था दूतों से यह कहला भेजा, कि हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। २० परन्तु सीहोन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता; वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठी कर अपने डेरे यहस में खड़े करके इस्राएल से लड़ा। २१ और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया, और उन्होने उनको मार लिया; इसलिये इस्राएल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। २२ अर्थात् वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। २३ इसलिये अब इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इस्राएली प्रजा के साम्हने से एमोरियों को उनके देश से निकाल दिया है; फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? २४ क्या तू उसका अधिकारी न होगा, जिसका तेरा कर्मोश देवता तुम्हें अधिकारी कर दे? इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साम्हने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। २५ फिर क्या तू मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उस ने कभी इस्राएलियों से कुछ भी ऋगड़ा किया? क्या वह उन से कभी लड़ा? २६ जब कि इस्राएल हेबोन और उसके गावों में, और अरोएर और उसके गांवों में, और अर्नोन के किनारे के सब नगरों में तीन सौ वर्ष से बसा है, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? २७ मैं ने तेरा अपराध

नहीं किया; तू ही मुझ से युद्ध छोड़कर बुरा व्यवहार करता है; इसलिये यहोवा जो न्यायी है, वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच में आज न्याय करे। २८ तौभी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें न मानी जिनको उस ने कहला भेजा था ॥

२९ तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया, और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्ये में आया, और गिलाद के मिस्ये में होकर अम्मोनियों की ओर चला। ३० और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्त्रत मानी, कि यदि तू निःसन्देह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, ३१ तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास में लौट आऊँ तब जो कोई मेरे भेट के लिये मेरे घर के द्वार में निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होमबलि करके चढाऊँगा। ३२ तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। ३३ और वह अरोएर से ले मिन्नीत तक, जो बीस नगर हैं, वरन आबेलकरामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया। और अम्मोनी इस्राएलियों से हार गए ॥

३४ जब यिप्तह मिस्या को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिये निकल आई; वह उसकी एकलौती थी; उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और कोई न बेटी। ३५ उसको देखते ही उम ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय, मेरी बेटी! तू ने कमर तोड़ दी*, और तू भी मेरे कष्ट देनेवालों में

* शूल में—तू ने मुझे बहुत झुकाया है।

हो गई है; क्योंकि मैं ने यहोवा को बचन दिया है, और उसे टाल नहीं सकता। ३६ उम ने उम से कहा, हे मेरे पिता, तू ने जो यहोवा को बचन दिया है, तो जो बात तेरे मुह से निकली है उसी के अनुसार मुझ से बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। ३७ फिर उस ने अपने पिता से कहा, मेरे लिये यह किया जाए, कि दो महीने तक मुझे छोड़ रह, कि मैं अपनी सहेलियो सहित जाकर पहाड़ों पर फिरनी हुई अपनी कुवारीपन पर रोती रहूँ। ३८ उम ने कहा, जा। तब उस ने उसे दो महीने की छुट्टी दी, इसलिये वह अपनी सहेलियों सहित चली गई, और पहाड़ों पर अपनी कुवारीपन पर रोती रही। ३९ दो महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, और उम ने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्त्र को पूरी किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुह कभी न देखा था। इसलिये इस्राएलियों में यह रीति चली ४० कि इस्राएली स्त्रियाँ प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटों का यश गाने को वर्ष में चार दिन तक जाया करती थीं ॥

१२ तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठे होकर सापोन को जाकर यिप्तह से कहने लगे, कि जब तू अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। २ यिप्तह ने उन से कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था; और जब मैं ने तुम से सहायता मांगी, तब तुम ने

मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। ३ तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया, फिर तुम अब मुझ से लड़ने को क्यों चढ़ आए हो? ४ तब यिप्तह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रैम से लडा, और एप्रैम जो कहता था, कि हे गिलादियों, तुम तो एप्रैम और मनश्शे के बीच रहनेवाले एप्रैमियों के भगोड़े हो, और गिलादियों ने उनको मार लिया। ५ और गिलादियों ने यरदन का घाट उन से पहिले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रैमी भगोडा कहता, कि मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उस में पूछते थे, क्या तू एप्रैमी * है? और यदि वह कहता, नहीं, ६ तो वे उस से कहते, अच्छा, शिब्बोलैत कह, और वह कहता शिब्बोलैत, क्योंकि उस से वह ठीक बोला नहीं जाता था; तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय बयालीस हजार एप्रैमी मारे गए ॥

७ यिप्तह छः वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। तब यिप्तह गिलादी मर गया, और उसको गिलाद के किसी नगर में † मिट्टी दी गई ॥

८ उसके बाद बेतलेहेम का निवासी इबसान इस्राएल का न्याय करने लगा। ९ और उसके तीस बेटे हुए; और उस ने अपनी तीस बेटियाँ बाहर ब्याह दी, और बाहर से अपने बेटों का ब्याह करके तीस बहू ले आया। और वह इस्राएल

* मूल में—एप्रैमी।

† मूल में—नगरो में।

का न्याय सात वर्ष तक करता रहा । १० तब इबसान मर गया, और उसको बेतलहेम में मिट्टी दी गई ॥

११ उसके बाद जबलूनी एलोन इस्त्राएल का न्याय करने लगा, और वह इस्त्राएल का न्याय दस वर्ष तक करता रहा । १२ तब एलोन जबलूनी मर गया, और उसको जबलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई ॥

१३ उसके बाद हिल्लेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन इस्त्राएल का न्याय करने लगा । १४ और उसके चालीस बेटे और तीस पोते हुए, जो गदहियों के सत्तर बच्चों पर सवार हुमा करते थे । वह आठ वर्ष तक इस्त्राएल का न्याय करता रहा । १५ तब हिल्लेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन मर गया, और उसको एप्रैम के देश के पिरातोन में, जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई ॥

(शिशरोन का चरित्र)

१३ और इस्त्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया; इसलिये यहोवा ने उनको पलितियों के बश में चालीस वर्ष के लिये रखा ॥

२ दानियों के कुल का सोरावामी मानोह नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांभ होने के कारण कोई पुत्र न था । ३ इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांभ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं; परन्तु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा । ४ इसलिये अब सावधान रह, कि न तो तू दाखमघु वा और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु

खाए, ५ क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा । और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा; और इस्त्राएलियों को पलितियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा । ६ उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग्य था, और मैं ने उस से न पूछा कि तू कहा का है? और न उस ने मुझे अपना नाम बताया, ७ परन्तु उस ने मुझ से कहा, सुन तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा; इसलिये अब न तो दाखमघु वा और किसी भांति की मदिरा पीना, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लडका जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा । ८ तब मानोह ने यहोवा से यह बिनती की, कि हे प्रभु, बिनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तू ने भेजा था फिर हमारे पास आए, और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होनेवाला है उस से हम क्या क्या करें । ९ मानोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिये जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी, और उसका पति मानोह उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया । १० तब उस स्त्री ने भट दौडकर अपने पति को यह समाचार दिया, कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है । ११ यह सुनते ही मानोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला, और उस पुरुष के पास आकर पूछा, कि क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थीं? उस ने कहा, मैं वही हूँ ।

१२ मानोह ने कहा, अब तेरे वचन पूरे हो जाए तो, उम बालक का कैसा ढग और उसका क्या काम होगा ? १३ यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा में ने इस स्त्री से की थी उन सब से यह पते रहे। १४ यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाखमधु वा और किसी भाति की मदिरा पीए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, जो जो आज्ञा में ने इसको दी थी उमी को यह माने। १५ मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझ को रोक ले, कि तेरे लिये बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। १६ यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परन्तु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिये कर। (मानोह तो न जानता था, कि यह यहोवा का दूत है।) १७ मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता*, इसलिये कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदरमान कर सकें। १८ यहोवा के दूत ने उम से कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिये तू उसे क्यों पूछता है ? १९ तब मानोह ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिये चढाया, तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया। २० अर्थात् जब लौ उस बेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस बेदी की लौ में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ गया,

तब वे भूमि पर मुह के बल गिरे। २१ परन्तु यहोवा के दूत ने मानोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। २२ तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हम ने परमेश्वर का दर्शन पाया है। २३ उमकी पत्नी ने उस से कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता, तो हमारे हाथ में होमबलि और अन्नबलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हम को दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। २४ और उम स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसका नाम शिमशोन रखा; और वह बालक बढता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा। २५ और यहोवा का आत्मा सोरा और एशताभोल के बीच महनेदान * में उसको उभारने लगा ॥

१४ शिमशोन तिम्ना को गया, और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। २ तब उस ने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैं ने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उस से मेरा ब्याह करा दो। ३ उसके माता पिता ने उस से कहा, क्या तेरे धाइयो की बेटियो में, वा हमारे सब लोगो में कोई स्त्री नहीं है, कि तू खतनाहीन पलिश्तियो में से स्त्री ब्याहने चाहता है ? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। ४ उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर

* मूल में—तेरा नाम क्या है।

* अर्थात् दान की छावनी।

से होती है, कि वह पलिशितयो के विरुद्ध दाब दृढ़ता है। उस समय तो पलिशनी इस्लाम पर प्रभुता करते थे ॥

५ तब शिमशोन अपने माता पिता को सग ल तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुँचा, वहा उसके साम्हन एक जवान मिह गरजन लगा। ६ तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ म कुछ न था, तीभी उम न उसको ऐसा फाड डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाडे। अपना यह काम उसन अपने पिता वा माता को न बतलाया। ७ तब उम न जाकर उस स्त्री मे बातचीत की, और वह शिमशोन को अच्छी लगी। ८ कुछ दिनों के बीतने पर वह उमे लान को लौट चला, और उम मिह की लोथ देखन के लिय मार्ग मे मुड गया, तो क्या देखा, कि मिह की लोथ मे मधुमक्खियो का एक भुगड और मधु भी है। ९ तब वह उम म मे कुछ हाथ मे लकर खाते खाते अपन माता पिता के पाम गया, और उनको यह बिना बताए, कि मैं न इसको मिह की लाथ म से निकाला है, कुछ दिया, और उन्हो ने भी उमे खाया। १० तब उमका पिता उम स्त्री के यहा गया, और शिमशोन ने जवानो की गीति के अनुसार वहा जेवनार की। ११ उसको देखकर वे उसके सग रहने के लिये तीस मगियो को ले आए। १२ शिमशोन ने उन से कहा, मैं तुम से एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस जेवनार के सातो दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो, तो मैं तुम को तीस कुरते और तीस जोडे कपडे दूंगा, १३ और यदि तुम उमे न बता सको, तो तुम को मुझे तीस

कुरते और तीस जोडे कपडे देने पडेगे। उन्हो ने उस से कहा, अपनी पहेली कह, कि हम उसे सुने। १४ उस ने उन से कहा, खानेवाले मे से खाना, और बलबन्त मे से मीठी वस्तु निकनी।

इस पहेली का अर्थ वे तीन दिन के भीतर न बता सके। १५ सातवे दिन उन्हो ने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुम्हें तेरे पिता के घर ममेत प्राग मे जलाएंगे। क्या तुम लोगो ने हमारा धन लन के लिय हमारा नेवता किया है? क्या यही बात नहीं है? १६ तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके साम्हन गोन लगी, कि तू तो मझ से प्रेम नहीं बैर ही रखता है, कि तू ने एक पहेली मेरी जाति के लोगो मे तो वही है, परन्तु मुझ को उसका अर्थ भी नहीं बताया। उम न कहा, मैं ने उसे अपनी माता वा पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुम्हें को बता दूँ? १७ और जवनार के सातो दिनों मे वह स्त्री उसके साम्हने रोती रही, और सातवे दिन जब उस ने उसको बहुत तग किया, तब उम ने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उम ने उसे अपनी जाति के लोगो को बता दिया। १८ तब सातवे दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के मनुष्यो ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा? और मिह से अधिक क्या बलबन्त है? उस ने उन से कहा,

यदि तुम मेरी कलोर को हल मे न जोलते,

तो मेरी पहेली को कभी न बूझते ॥

१६ तब यहोबा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उस ने आशकलोन को जाकर वहाँ के तीस पुरुषों को मार डाला, और उनका धन लूटकर तीस जोड़े कपड़ों को पहेली के बतानेवालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भडका, और वह अपने पिता के घर गया। २० और शिमशोन की पत्नी उसके एक सगी को जिस से उस ने मित्र का सा बर्ताव किया था ब्याह दी गई ॥

१५ परन्तु कुछ दिनों बाद, गेहूँ की कटनी के दिनों में, शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास-कोठरी में जाऊंगा। परन्तु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। २ और उसके ससुर ने कहा, मैं मचमुच यह जानता था कि तू उस से बैर ही रखता है, इसलिये मैं ने उसे तेरे सगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहिन उस से सुन्दर नहीं है? उसके बदले उसी को ब्याह ले। ३ शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिशियों की हानि भी करूँ, तौभी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूँगा। ४ तब शिमशोन ने जाकर तीन सौ लोमडिया पकड़ी, और मशाल लेकर दो दो लोमडियों की पूछ एक साथ बान्धी, और उनके बीच एक एक मशाल बान्धा। ५ तब मशालों में आग लगाकर उस ने लोमडियों को पलिशियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया; और पूलियों के ढेर बरन खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गईं। ६ तब पलिशती पूछने लगे, यह किस ने किया है? लोगों ने कहा,

उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिये किया, कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसके सगी को ब्याह दी। तब पलिशियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। ७ शिमशोन ने उन से कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिये मैं तुम से पलटा लेकर ही चुप रहूँगा। ८ तब उस ने उनको अति निठुरता के साथ * बड़ी मार से मार डाला; तब जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा ॥

६ तब पलिशियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए, और लही में फैल गए। १० तब यहूदी मनुष्यों ने उन से पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्हो ने उत्तर दिया, शिमशोन को बान्धने के लिये चढ़ाई करते हैं, कि जैसे उस ने हम से किया वैसे ही हम भी उस से करे। ११ तब तीन हजार यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिशती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तू ने हम से ऐसा क्यों किया है? उस ने उन से कहा, जैसा उन्हो ने मुझ से किया था, वैसा ही मैं ने भी उन से किया है। १२ उन्हो ने उस से कहा, हम तुम्हें बान्धकर पलिशियों के हाथ में कर देने के लिये आए हैं। शिमशोन ने उन से कहा, मुझ से यह शपथ स्थापित कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। १३ उन्हो ने कहा, ऐसा न होगा; हम तुम्हें कसकर उनके हाथ में कर देगे; परन्तु तुम्हें किसी रीति मार न डालेंगे।

* मूल में—जांच पर टांग।

तब वे उसको दो नई रस्सियों से बान्धकर उस चट्टान में से ले गए। १४ वह लही तक आ गया था, कि पलिश्वती उसको देखकर ललकारने लगे; तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सिया आग में जले हुए सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बन्धन मानों गलकर टूट पड़े। १५ तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उस ने हाथ बढ़ा उमे लेकर एक हजार पुरुषों को मार डाला। १६ तब शिमशोन ने कहा,

गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए,

गदहे के जबड़े की हड्डी ही से मैं ने हजार पुरुषों को मार डाला ॥

१७ जब वह ऐसा कह चुका, तब उस ने जबड़ की हड्डी फेंक दी, और उस स्थान का नाम रामत-लही * रखा गया। १८ तब उसको बड़ी प्यास लगी, और उस ने यहोवा को पुकार के कहा, तू ने अपने दास में यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मरके उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूँ? १९ तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गढ़वा कर दिया, और उस में से पानी निकलने लगा; और जब शिमशोन ने पीया, तब उसके जी में जी आया, और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहक्कोरे † रखा गया, वह आज के दिन तक लही में है। २० शिमशोन तो पलिश्वतियों के दिनों में बीस वर्ष तक इस्त्राएल का न्याय करता रहा ॥

* अर्थात् जबड़े का टीला।

† अर्थात् पुकारनेवाले का सोना।

१६ तब शिमशोन अज्जा को गया, और वहां एक बेथया को देखकर उसके पास गया। २ जब अज्जियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहां आया है, तब उन्होंने ने उसको घेर लिया, और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लग रहे, और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे, कि बिहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। ३ परन्तु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रह कर, आधी रात को उठकर, उस ने नगर के फाटक के दोनों पल्लो और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया, और अपने कन्धों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया, जो हेब्रोन के साम्हने है ॥

४ इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहनेवाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। ५ तब पलिश्वतियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों, कि उसे बान्धकर दबा रखें; तब हम तुम्हें ग्यारह ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी देगे। ६ तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, और किस रीति से कोई तुम्हें बान्धकर दबा रख सके। ७ शिमशोन ने उस से कहा, यदि मैं सात ऐसी नई नई तातों से बान्धा जाऊँ जो सुल्पाई न गई हों, तो मेरा बल घट जायेगा, और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊँगा। ८ तब पलिश्वतियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई सात ताते ले गए जो सुल्पाई न गई थी, और उन से उस ने शिमशोन को बान्धा।

६ उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उस ने उस से कहा, हे शिमशोन, पलिशती तेरी घात में है! तब उस ने तातों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग में छूते ही टूट जाता है। और उसके बल का भेद न खुला। १० तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तू ने तो मुझ से छल किया, और भूठ कहा है; अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन्ध सकता है। ११ उस ने उस से कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बान्धा जाऊ, तो मेरा बल घट जाएगा, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। १२ तब दलीला ने नई नई रस्सिया लेकर और उसको बान्धकर कहा, हे शिमशोन, पलिशती तेरी घात में है! कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उस ने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। १३ तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझ से छल करता, और भूठ बोलता आया है; अब मुझे बता दे कि तू काहे से बन्ध सकता है? उस ने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटें ताने में बुने तो बन्ध सकूंगा। १४ सो उस ने उसे खूटी से जकड़ा। तब उस से कहा, हे शिमशोन, पलिशती तेरी घात में है! तब वह नींद से चौंक उठा, और खूटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। १५ तब दलीला ने उस से कहा, तेरा मन तो मुझ में नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है, कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ? तू ने ये तीनों बार मुझ से छल किया, और मुझे नहीं बताया

कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। १६ मो जब उस ने हर दिन बातें करते करते उसको नग किया, और यहाँ तक हठ किया, कि उसके नाको में दम आ गया, १७ तब उस ने अपने मन का सारा भेद खोलकर उम में कहा, मेरे मिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं भा के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ, यदि मैं मूडा जाऊ, तो मेरा बल इतना घट जाएगा, कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। १८ यह देखकर, कि उस ने अपने मन का सारा भेद मुझ से कह दिया है, दलीला ने पलिशतियों के सरदारों के पास कहला भेजा, कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उस ने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिशतियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। १९ तब उस ने उसको अपने घुटनों पर मुला रखा, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें मुरडवा डाली। और वह उसको दवाने लगी, और वह निर्बल हो गया। २० तब उस ने कहा, हे शिमशोन, पलिशती तेरी घात में है! तब वह चौंककर सोचने लगा, कि मैं पहिले की नाई बाहर जाकर भटकूंगा। वह तो न जानता था, कि यहीवा उसके पास से चला गया है। २१ तब पलिशतियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया; और वह बन्दीगृह में चक्की पीसने लगा। २२ उसके सिर के बाल मुरड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे ॥

२३ तब पलिशतियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिये बड़ा यज्ञ,

धीर भ्रानन्द करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। २४ और जब लोगों ने उसे देखा, तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति की, कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करनेवाले को, जिस ने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। २५ जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्हों ने कहा, शिमशोन को बुलवा लो, कि वह हमारे लिये तमाशा करे। इसलिये शिमशोन बन्दीगृह में से बुलवाया गया, और उनके लिये तमाशा करने लगा, और खम्भों के बीच खड़ा कर दिया गया। २६ तब शिमशोन ने उस लडके में जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खम्भों को जिन से घर सम्भला हुआ है छूने दे, कि मैं उस पर टेक लगाऊँ। २७ वह घर तो स्त्री पुरुषों में भरा हुआ था, और पलित्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे, और छत पर कोई तीन हजार स्त्री पुरुष थे, जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। २८ तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले; हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे, कि मैं पलित्तियों से अपनी दोनों भ्रातृओं का एक ही पलटा लूँ। २९ तब शिमशोन ने उन दोनों बीचवाले खम्भों को जिन से घर सम्भला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएँ हाथ से बल लगा दिया। ३० और शिमशोन ने कहा, पलित्तियों के सग भेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका; तब वह घर

सब सरदारों और उस में के सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उस ने मरते समय मार डाला वे उन से भी अधिक थे जिन्हें उस ने अपने जीवन में मार डाला था। ३१ तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए, और उसे उठाकर ले गए, और सारा और एस्ताभोल के मध्य उसके पिता मानोह की कबर में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय बीस वर्ष तक किया था ॥

१७ एशैम के पहाड़ी देश में मीका नाम एक पुरुष था। २ उस ने अपनी माता से कहा, जो ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी तुम्ह से ले लिए गए थे, जिनके विषय में तू ने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास हैं; मैं ने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की और से आशीष होए। ३ जब उस ने वे ग्यारह सौ टुकड़े चान्दी अपनी माता को फेर दिए; तब माता ने कहा, मैं अपनी और से अपने बेटे के लिये यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ ताकि उस से एक मूरत खोदकर, और दूसरी ढालकर बनाई जाए, सो अब मैं उसे तुम्ह को फेर देती हूँ। ४ जब उस ने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने दो सौ टुकड़े ढलवैयों को दिए, और उस ने उन से एक मूर्ति खोदकर, और दूसरी ढालकर बनाई; और वे मीका के घर में रहीं। ५ मीका के पास एक देवस्थान था, तब उस ने एक एपोद, और कई एक गृहदेवता बनवाए; और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। ६ उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न

था; जिनको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था ॥

७ यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बेतलेहेम में परदेशी होकर रहता था। ८ वह यहूदा के बेतलेहेम नगर से इसलिये निकला, कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ जा रहे। चलते चलते वह एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। ९ मीका ने उस से पूछा, तू कहाँ से आता है? उस ने कहा, मैं तो यहूदा के बेतलेहेम से आया हुआ एक लेवीय हूँ, और इसलिये चला जाता हूँ, कि जहाँ कहीं ठिकाना भुँके मिले वहीं रहूँ। १० मीका ने उस से कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिये पिता और पुरोहित बन, और मैं तुझे प्रति वर्ष दस टुकड़े रूपे, और एक जोड़ा कपड़ा, और भोजनवस्तु दिया करूँगा; तब वह लेवीय भीतर गया। ११ और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ; और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। १२ तब मीका ने उस लेवीय का संस्कार किया, और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। १३ और मीका सोचता था, कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैं ने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है ॥

(दानियों का देश की ओरकर चर में
वच जाने की कथा)

१८ उन दिनों में ह्लाएलियों का कोई राजा न था। और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिये कोई भाग दूढ रहे थे; क्योंकि ह्लाएली गोत्रों के बीच उनका भाग

उस समय तक न मिला था। २ तब दानियों ने अपने सब कुल में से पांच शूरवीरों को सोरा और एशताभोल से देश का भेद लेने और उस में देख भाल करने के लिये यह कहकर भेज दिया, कि जाकर देश में देख भाल करो। इसलिये वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहाँ टिक गए। ३ जब वे मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेवीय का बोल पहचाना; इसलिये वहाँ मुडकर उस से पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया? और तू यहाँ क्या करता है? और यहाँ तेरे पास क्या है? ४ उस ने उन से कहा, मीका ने मुझ से ऐसा ऐसा व्यवहार किया है, और मुझे नौकर रखा है, और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। ५ उन्हीं ने उस से कहा, परमेश्वर से सलाह ले, कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी वा नहीं। ६ पुरोहित ने उन से कहा, कुशल से चले जाओ। जो यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा के साम्हने है ॥

७ तब वे पांच मनुष्य चल निकले, और लैश को जाकर वहाँ के लोगों को देखा कि सीदोनियों की नाई निडर, बेखटके, और शान्ति से रहते हैं; और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है, जो उन्हें किसी काम में रोके*, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं, और दूसरे मनुष्यों से कुछ व्यवहार नहीं रखते। ८ तब वे सोरा और एशताभोल को अपने भाइयों के पास गए, और उनके भाइयों ने उन से पूछा, तुम क्या समाचार ले आए हो?

* मूल में—सजवाए।

६ उन्हो ने कहा, आओ, हम उन लोगो पर चढाई करे; क्योंकि हम ने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहा चलकर उस देश को अपने वश मे कर लेने मे भ्रालस न करो। १० वहां पहुचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को, और लम्बा चौड़ा देश पाओगे; और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ मे दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिस मे पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नही है ॥

११ तब वहां से अर्थात् सोरा और एंशतामोल से दानियों के कुल के छः सौ पुरुषो ने युद्ध के हथियार बान्धकर प्रस्थान किया। १२ उन्हों ने जाकर यहूदा देश के किर्यंत्यारीम नगर में डरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान * आज तक पड़ा है, वह तो किर्यंत्यारीम के पश्चिम की ओर है। १३ वहां से वे आगे बढ़कर एग्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। १४ तब जो पांच मनुष्य लैश के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों मे एक एपोद, कई एक गृहदेवता, एक खुदी और एक ढली हुई मूरत है? इसलिये अब सोचो, कि क्या करना चाहिये। १५ वे उधर मुड़कर उस जवान लेबीय के घर गए, जो मीका का घर था, और उसका कुशल क्षेम पूछा। १६ और वे छः सौ दानी पुरुष फाटक मे हथियार बान्धे हुए खड़े रहे। १७ और जो पांच मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्हो ने वहा घुसकर उस खुदी हुई मूरत, और

एपोद, और गृहदेवताओं, और ढली हुई मूरत को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक मे उन हथियार बान्धे हुए छः सौ पुरुषो के संग खड़ा था। १८ जब वे पांच मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृहदेवता, और ढली हुई मूरत को ले आए थे, तब पुरोहित ने उन से पूछा, यह तुम क्या करते हो? १९ उन्हों ने उस से कहा, चुप रह, अपने मुह को हाथ से बन्दकर, और हम लोगो के संग चलकर, हमारे लिये पिता और पुरोहित बन। तेरे लिये क्या अच्छा है? यह, कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, वा यह, कि इस्राएलियो के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो? २० तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, सो वह एपोद, गृहदेवता, और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। २१ तब वे मुड़े, और बालबच्चों, पशुओं, और सामान को अपने आगे करके चल दिए। २२ जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पासवाले घरों मे रहते थे उन्हों ने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया। २३ और दानियों को पुकारा, तब उन्हों ने मुह फेर के मीका से कहा, तुम्हे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है*? २४ उस ने कहा, तुम तो मेरे बनवाए हुए देवताओ और पुरोहित को ले चले हो; फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझ से क्यों पूछते हो, कि तुम्हे क्या हुआ है? २५ दानियों ने उस से कहा, तेरा बोल हम लोगों मे सुनाई न दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रीषी जन तुम

* अर्थात् दान की झावनी।

* मूल में—तू इकट्ठा हुआ है।

लोगों पर प्रहार करें, और तू अपना और अपने घर के लोगो के भी प्राण को खो दे। २६ तब दानियों ने अपना मार्ग लिया; और मीका यह देखकर कि वे मुझ से अधिक बलवन्त हैं फिरके अपने घर लौट गया। २७ और वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लेश के पास आए, जिसके लोग शान्ति से और बिना खटके रहते थे, और उन्हो ने उनको तलवार से मार डाला, और नगर को भाग लगाकर फूक दिया। २८ और कोई बचानेवाला न था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था, और वे और मनुष्यों से कुछ व्यवहार न रखते थे। और वह बेतुहोब की तराई में था। तब उन्हो ने नगर को दूढ़ किया, और उस में रहने लगे। २९ और उन्हो ने उस नगर का नाम इस्त्राएल के एक पुत्र अपने मूलपुरुष दान के नाम पर दान रखा; परन्तु पहिले तो उस नगर का नाम लेश था। ३० तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया; और देश की बन्धुभाई के समय वह योनातान जो गेशोम का पुत्र और मूसा * का पीता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। ३१ और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे ॥

(विन्बामोविचो के बाघ में चड़े रहने और प्रायः जाह्न किश्र जामे की कथा)

१९ उन दिनों में जब इस्त्राएलियों का कोई राजा न था, तब एक सेबीय पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की

* वा मनश्चे।

परली और परदेशी होकर रहता था, जिस ने यहूदा के बेतलेहेम में की एक सुरैतिन रख ली थी। २ उसकी सुरैतिन व्यभिचार करके यहूदा के बेतलेहेम को अपने पिता के घर चली गई, और चार महीने वही रही। ३ तब उसका पति अपने साथ एक सेबक और दो गदहे लेकर चला, और उसके यहां गया, कि उमें समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई; और उस जवान स्त्री का पिता उसे देखकर उसकी भेट से आनन्दित हुआ। ४ तब उसके ससुर अर्थात् उस स्त्री के पिता ने बिनती करके उसे रोक लिया, और वह तीन दिन तक उसके पास रहा; सो वे वहां खाते पिते टिके रहे। ५ चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे, और वह चलने को हुआ; तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठण्डा कर, तब तुम लोग चले जाना। ६ तब उन दोनों ने बैठकर सग संग खाया पिया; फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहने को प्रसन्न हो और आनन्द कर। ७ वह पुरुष विदा होने को उठा, परन्तु उसके ससुर ने बिनती करके उसे दबाया, इसलिये उस ने फिर उसके यहां रात बिताई। ८ पांचवें दिन भोर को वह तो विदा होने को सवेरे उठा; परन्तु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठण्डा कर, और तुम दोनों दिन ठलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। ९ जब वह पुरुष अपनी सुरैतिन और सेबक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात् स्त्री के पिता ने उस से कहा, देख दिन तो ढल चला है, और सांभ होने

पर है; इसलिये तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है; सो यही आनन्द करता हुआ रात बिता, और बिहान को सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना, और अपने डेरे को चले जाना। १० परन्तु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिये वह उठकर विदा हुआ, और काठी बान्धे हुए दो गदहे और अपनी सुरैतिन सग लिए हुए, यबूस के साम्हने तक (जो यरूशलेम कहलाता है) पहुँचा। ११ वे यबूस के पास थे, और दिन बहुत ढल गया था, कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। १२ उसके स्वामी ने उस से कहा, हम पराए नगर में जहा कोई इस्त्राएली नहीं रहता, न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। १३ फिर उस ने अपने सेवक से कहा, आ, हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाए, हम गिबा वा रामा में रात बिताए। १४ और वे आगे की ओर चले; और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया, १५ इसलिये वे गिबा में टिकने के लिये उसकी ओर मुड़ गए। और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। १६ तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांभ को चला आया; वह तो एग्रैम के पहाड़ी देश का था, और गिबा में परदेशी होकर रहता था; परन्तु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। १७ उम ने आँखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा; और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर आता, और

कहा मैं आता हूँ? १८ उस ने उस से कहा, हम लोग तो यहूदा के बेतलेहेम से आकर एग्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं, मैं तो वही का हूँ, और यहूदा के बेतलेहेम तक गया था, और यहोवा के भवन को जाता हूँ, परन्तु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। १९ हमारे पाम तो गदहों के लिये पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिये भी जो तेरे दामों के सग हैं रोटी और दाख-मधु भी है; हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। २० बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परन्तु रात को चौक में न बिता। २१ तब वह उसको अपने घर ले चला, और गदहों को चारा दिया; तब वे पाव धोकर खाने पीने लगे। २२ वे आनन्द कर रहे थे, कि नगर के लुन्चो ने घर को घेर लिया, और द्वार को खटखटा-खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया, उसे बाहर ले आ, कि हम उस से भोग करें। २३ घर का स्वामी उनके पाम बाहर जाकर उन से कहने लगा, नहीं, नहीं, हे मेरे भाइयो, ऐसी बुराई न करो; यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इस से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। २४ देखो, यहां मेरी कुंवारी बेंटी है, और उस पुरुष की सुरैतिन भी है; उनको मैं बाहर ले आऊंगा। और उनका पत-पानी लो तो लो, और उन से तो जो चाहो सो करो; परन्तु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। २५ परन्तु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपने

सुरैतिन को पकडकर उनके पाम बाहर कर दिया; और उन्हो न उस में कुकर्म किया, और रात भर क्या और तक उस से लीला क्रीडा करने रहे। और पह फटते ही उमे छोड दिया। २६ तब वह स्त्री पह फटते हुए जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिस में उसका पति था गिर गई, और उजियाले के होने तक वहीं पडी रही। २७ सवेरे जब उसका पति उठ, घर का द्वार खोल, अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा, कि मेरी सुरैतिन घर के द्वार के पाम डेवढी पर हाथ फैलाए हुए पडी है। २८ उम ने उस से कहा, उठ, हम चले। जब कोई न बोला, तब वह उसको गदहे पर लादकर अपने स्थान को गया। २९ जब वह अपने घर पहुचा, तब छूरी ले सुरैतिन को भ्रग भ्रग भ्रलग करके काटा; और उसे बारह टुकडे करके इस्त्राएल के देश में भेज दिया। ३० जितनों ने उसे देखा, वे सब आपस में कहने लगे, इस्त्राएलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, और न देखा गया; सो इसको सोचकर सम्मति करो, और बताओ ॥

२० तब दान से लेकर बर्षाबा तक के सब इस्त्राएली और गिलाद के लोग भी निकले, और उनकी मरडली एक मत होकर मिस्रा में यहोबा के पास इकट्ठी हुई। २ और सारी प्रजा के प्रधान लोग, वरन सब इस्त्राएली गोत्रो के लोग जो चार लाख तलवार चलाने-वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सन्ना में उपस्थित हुए। ३ (बिन्यामीनियो

ने तो मुना कि इस्त्राएली मिस्रा को आए है।) और इस्त्राएली पूछने लगे, हम में कहो, यह बुराई कैसे हुई? ४ उस मार डाली हुई स्त्री के लेबीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी सुरैतिन समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। ५ तब गिबा के पुरुषो ने मुझ पर चढाई की, और रात के समय डर को घेरके मुझे घात करना चाहा; और मेरी सुरैतिन में इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। ६ तब मैं ने अपनी सुरैतिन को लेकर टुकडे टुकडे किया, और इस्त्राएलियो के भाग के सारे देश में भेज दिया, उन्हो ने तो इस्त्राएल में महापाप और मूढता का काम किया है। ७ सुनो, हे इस्त्राएलियो, सब के सब देखो, और यही अपनी मम्मति दो। ८ तब सब लोग एक मन हो, उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डरे जाएगा, और न कोई अपने घर की ओर मुडेगा। ९ परन्तु अब हम गिबा में यह करेगे, अर्थात् हम चिट्ठी डाल डालकर उस पर चढाई करेगे, १० और हम सब इस्त्राएली गोत्रो में सौ पुरुषो में से दस, और हजार पुरुषो में से एक सौ, और दस हजार में से एक हजार पुरुषो को ठहराए, कि वे सेना के लिये भोजनवस्तु पहुचाए, इसलिये कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुचकर उसको उस मूढता का पूरा फल भुगता सके जो उन्हो ने इस्त्राएल में की है। ११ तब सब इस्त्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए इकट्ठे हो गए ॥

१२ और इस्त्राएली गोत्रियो ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियो में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे, कि यह क्या बुराई

है जो तुम लोगो मे की गई है ? १३ अब उन गिबावासी लुच्चो को हमारे हाथ कर दो, कि हम उनको जान से मार के इस्त्राएल मे से बुराई नाश करे। परन्तु बिन्यामीनियो ने अपने भाई इस्त्राएलियो की मानने से इनकार किया। १४ और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा मे इसलिये इकट्ठे हुए, कि इस्त्राएलियो से लडने को निकले। १५ और उसी दिन गिबावासी पुरुषो को छोड, जिनकी गिनती सात सौ चुने हुए पुरुष ठहरी, और और नगरो से आए हुए तलवार चलानेवाले बिन्यामीनियो की गिनती छब्बीस हजार पुरुष ठहरी। १६ इन सब लोगो मे से सात सौ बेहत्थे चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने मे बाल भर भी न चूकते थे। १७ और बिन्यामीनियो को छोड इस्त्राएली पुरुष चार लाख तलवार चलानेवाले थे, ये सब के सब योद्धा थे ॥

१८ सब इस्त्राएली उठकर बेतेल को गए, और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली, और इस्त्राएलियो ने पूछा, कि हम मे से कौन बिन्यामीनियो से लडने को पहिले चढाई करे ? यहोवा ने कहा, यहूदा पहिले चढाई करे। १९ तब इस्त्राएलियो ने बिहान को उठकर गिबा के साम्हने डेरे डाले। २० और इस्त्राएली पुरुष बिन्यामीनियो से लडने को निकल गए; और इस्त्राएली पुरुषो ने उस से लडने को गिबा के विरुद्ध पाति बान्धी। २१ तब बिन्यामीनियो ने गिबा से निकल उसी दिन बाईस हजार इस्त्राएली पुरुषो को मारके मिट्टी मे मिला दिया। २२ तीसरी इस्त्राएली पुरुष लोगो ने हियाब

बान्धकर उसी स्थान मे जहा उन्हो ने पहिले दिन पाति बान्धी थी, फिर पाति बान्धी। २३ और इस्त्राएली जाकर साभ तक यहोवा के साम्हने रोते रहे, और यह कहकर यहोवा से पूछा, कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियो से लडने को फिर पास जाए ? यहोवा ने कहा, हा, उन पर चढाई करो ॥

२४ तब दूसरे दिन इस्त्राएली बिन्यामीनियो के निकट पहुचे। २५ तब बिन्यामीनियो ने दूसरे दिन उनका साम्हना करने को गिबा से निकलकर फिर अठारह हजार इस्त्राएली पुरुषो को मारके, जो सब के सब तलवार चलानेवाले थे, मिट्टी मे मिला दिया। २६ तब सब इस्त्राएली, वरन सब लोग बेतेल को गए; और रोते हुए यहोवा के साम्हने बेटे रहे, और उस दिन साभ तक उपवास किए रहे, और यहोवा को होमबलि और मेलबलि चढाए। २७ और इस्त्राएलियो ने यहोवा मे सलाह ली (उस समय तो परमेश्वर का वाचा का सन्दूक वही था, २८ और पीनहास, जो हारून का पोता और एलीआजर का पुत्र था, उन दिनों मे उसके साम्हने हाजिर रहा करता था) उन्हो ने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियो से लडने को निकल जाऊ, वा उनको छोडू ? यहोवा ने कहा, चढाई कर; क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ मे कर दूगा। २९ तब इस्त्राएलियो ने गिबा के चारो ओर लोगो को घात मे बैठाया ॥

३० तीसरे दिन इस्त्राएलियो ने बिन्यामीनियो पर फिर चढाई की, और पहिले की नाई गिबा के विरुद्ध पाति बान्धी। ३१ तब बिन्यामीनी उन लोगो का

साम्भना करने को निकल, और नगर के पास से खींच गए, और जो दो सड़क, एक बेंतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उन में लोगो को पहिले की नाई मारने लगे, और मैदान में कोई तीस इस्त्राएली मारे गए। ३२ बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहिले की नाई हम से मारे जाते हैं। परन्तु इस्त्राएलियो न कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़को में खींच ल आए। ३३ तब सब इस्त्राएली पुरुषो ने अपने स्थान में उठकर बालतामार में पाति बान्धी, और घात में बैठे हुए इस्त्राएली अपने स्थान में, अर्थात् मारेगवा से अचानक निकल। ३४ तब सब इस्त्राएलियो में से द्वाट हुए दस हजार पुरुष गिबा के साम्हने आए, और घोर लडाई होने लगी, परन्तु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पडा चाहती है। ३५ तब यहोवा न बिन्यामीनियो को इस्त्राएल से हरवा दिया, और उस दिन इस्त्राएलियो ने पचीस हजार एक सौ बिन्यामीनी पुरुषो को नाश किया, जो सब के सब तलवार चलानेवाले थे ॥

३६ तब बिन्यामीनियो ने देखा कि हम हार गए। और इस्त्राएली पुरुष उन घातको का भरोसा करके जिन्हे उन्हो ने गिबा के पास बैठाया था बिन्यामीनियो के साम्हने से चले गए। ३७ परन्तु घातक लोग फूर्ती करके गिबा पर झपट गए; और घातको ने भागे बढकर कुल नगर को तलवार से मारा। ३८ इस्त्राएली पुरुषो और घातको के बीच तो यह चिन्ह ठहराया गया था, कि वे नगर में से बहुत बडा धूए का खम्भा उठाए। ३९ इस्त्राएली पुरुष तो लडाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियो ने यह कहकर कि

निश्चय वे पहिली लडाई की नाई हम से हारे जाते हैं, इस्त्राएलियो को मार डालने लगे, और तीस एक पुरुषो को घात किया। ४० परन्तु जब वह धूए का खम्भा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियो ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा, कि नगर का नगर धूआ होकर आकाश की ओर उड रहा है। ४१ तब इस्त्राएली पुरुष धूमे, और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए, कि हम पर विपत्ति आ पडी है। ४२ इसलिये उन्हो ने इस्त्राएली पुरुषो को पीठ दिखाकर जगल का मार्ग लिया, परन्तु लडाई उन से होती ही रही, और जो और नगरो में से आए थे उनको इस्त्राएली रास्ते में नाश करते गए। ४३ उन्हो न बिन्यामीनियो को घेर लिया, और उन्हें खदेडा, वे मनुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताडते गए। ४४ और बिन्यामीनियो में से अठारह हजार पुरुष जो सब के सब शूरवीर थे मारे गए। ४५ तब वे धूमकर जगल में की रिम्मोन नाम चट्टान की ओर तो भाग गए, परन्तु इस्त्राएलियो ने उन में से पाच हजार को बीनकर सड़को में मार डाला, फिर गिदोम तक उनके पीछे पडके उन में से दो हजार पुरुष मार डाले। ४६ तब बिन्यामीनियो में से जो उस दिन मारे गए वे पचीस हजार तलवार चलानेवाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे। ४७ परन्तु छ सौ पुरुष धूमकर जगल की ओर भागे, और रिम्मोन नाम चट्टान में पहुंच गए, और चार महीने वही रहे। ४८ तब इस्त्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियो पर लपके और नगरो में क्या मनुष्य, क्या

पशु, क्या जो कुछ मिला, सब को तलवार से नाश कर डाला। और जितने नगर उन्हें मिले उन सभी को भ्राज लगाकर फूंक दिया ॥

२१ इस्त्राएली पुरुषों ने तो मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, कि हम से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को न ब्याह देगा। २ वे बेतेल को जाकर सांक्रु तक परमेश्वर के साम्हने बैठे रहे, और फूट फूटकर बहुत रोते रहे। ३ और कहते थे, हे इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्त्राएल में ऐसा क्यों होने पाया, कि आज इस्त्राएल में एक गोत्र की घटी हुई है? ४ फिर दूसरे दिन उन्हों ने सवेरे उठ बहा वेदी बनाकर होमबलि और मेलबलि चढाए। ५ तब इस्त्राएली पूछने लगे, इस्त्राएल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पाम सभा में न आया था? उन्हों ने तो भारी शपथ खाकर कहा था, कि जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। ६ तब इस्त्राएली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, कि आज इस्त्राएल में से एक गोत्र कट गया है। ७ हम ने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है, कि हम उन्हें अपनी किसी बेटी को न ब्याह देंगे, इसलिये बचे हुए लोगों को स्त्रिया मिलने के लिये क्या करें? ८ जब उन्हों ने यह पूछा, कि इस्त्राएल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था? तब यह मालूम हुआ, कि गिलादी यावेश से कोई छाननी में सभा को न आया था। ९ अर्थात् जब लोगों की गिनती की गई, तब यह जाना गया कि गिलादी

यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। १० इसलिये मरडली ने बारह हज़ार शूरवीरों को वहाँ यह आज्ञा देकर भेज दिया, कि तुम जाकर स्त्रियों और बालबच्चों समेत गिलादी यावेश को तलवार से नाश करो। ११ और तुम्हें जो करना होगा वह यह है, कि सब पुरुषों को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुह देखा हो उनको सत्यानाश कर डालना। १२ और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से चार सौ जबान कुमारियाँ मिली जिन्हों ने पुरुष का मुह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलों को जो कनान देश में है छाननी में ले आए ॥

१३ तब सारी मरडली ने उन बिन्यामीनियों के पास जो रिम्मोन नाम चट्टान पर थे कहला भेजा, और उन से सधि का प्रचार कराया। १४ तब बिन्यामीन उभी समय लौट गए; और उनको वे स्त्रिया दी गई जो गिलादी यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी; तौभी वे उनके लिये थोड़ी थी। १५ तब लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कहके पछताये, कि यहोवा ने इस्त्राएल के गोत्रों में घटी की है ॥

१६ तब मरडली के बृद्ध गोत्रों ने कहा, कि बिन्यामीनी स्त्रियाँ जो नाश हुई हैं, तो बचे हुए पुरुषों के लिये स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें? १७ फिर उन्हों ने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिये कोई भाग चाहिये, ऐसा न हो कि इस्त्राएल में से एक गोत्र मिट जाए। १८ परन्तु हम तो अपनी किसी बेटी को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते, क्योंकि इस्त्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई

है कि शापित हो वह जा किसी बिन्यामीनी को अपनी लडकी ब्याह दे। १६ फिर उन्हो ने कहा, सुनो, शीलो जो बनेल की उत्तर और, और उस सडक की पूर्व और है जो बनेल मे शकेन को चली गई है, और लबोना की दक्खिन और है, उस मे प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। २० इसलिये उन्हो ने बिन्यामीनियो को यह आज्ञा दी, कि तुम जाकर दाख की बागियो के बीच घात लगाए बैठे रहो, २१ और देखते रहो, और यदि शीलो की लडकिया नाचने को निकले, तो तुम दाख की बागियो मे निकलकर शीलो की लडकियो मे अपनी अपनी स्त्री को पकडकर बिन्यामीन के देश को चले जाना। २२ और जब उनके पिता वा भाई हमारे पाम भगडने को आएंगे, तब हम उन से कहेंगे,

कि अनुग्रह करके उनको हमे दे दो, क्योंकि लडाई के समय हम ने उन मे से एक एक के लिये स्त्री नही बचाई*, और तुम लोगो न तो उनको ब्याह नही दिया, नही तो तुम अब दापी ठहरते। २३ तब बिन्यामीनियो ने ऐसा ही किया, अर्थात् उन्हो ने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचनेवालयो मे पकडकर स्त्रिया ले ली, तब अपन भाग को लौट गए, और नगरो का बसाकर उन मे रहने लगे। २४ उमी समय इस्राएली वहा मे चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए, और वहा से वे अपने अपन निज भाग का गए। २५ उन दिनों मे इस्राएलियो का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पडता था वही वह करता था ॥

* मूल में—ली।

रूत

१ जिन दिनों मे न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों मे देश मे अकाल पडा, तब यहूदा के बेतलेहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनो पुत्रो को सग लेकर मोआब के देश मे परदेशी होकर रहने के लिय चला। २ उस पुरुष का नाम एलीमेलक, और उसकी पत्नि का नाम नाम्रोमी, और उसके दो बेटो के नाम महलोन और किल्योन थे, ये ऐश्राती अर्थात् यहूदा के बेतलेहेम के

रहनेवाले थे। और मोआब के देश मे आकर वहा रहे। ३ और नाम्रोमी का पति एलीमेलक मर गया, और नाम्रोमी और उसके दोनो पुत्र रह गए। ४ और इन्हो ने एक एक मोआबिन ब्याह ली; एक स्त्री का नाम तो ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहा कोई दस वर्ष रहे। ५ जब महलोन और किल्योन दोनो मर गए, तब नाम्रोमी अपने दोनो पुत्रो और पति से रहित हो

गई। ६ तब वह मोआब के देश में यह सुनकर, कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की मुधि लेके उन्हें भोजनवस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ७ तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहा रहती थी निकली, और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। ८ तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मंके लौट जाओ। और जैसे तुम ने उन से जो मर गए हैं और मुझ से भी प्रीति की है, बंसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। ९ यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उस ने उनको चूमा, और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी, १० और उस ने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेगी। ११ नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियो, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी ? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो ? १२ हे मेरी बेटियो, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी, कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी, और मेरे पुत्र भी होते, १३ तीभी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती ? और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती ? हे मेरी बेटियो, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुःख * तुम्हारे दुःख से बहुत बढ़कर है; देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। १४ तब वे फिर से उठी; और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परन्तु

रूत उस से अलग न हुई। १५ तब उस ने कहा, देख, तेरी जिठानी * तो अपने लोगो और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिये तू अपनी जिठानी * के पीछे लौट जा। १६ रूत बोली, तू मुझ से यह बिनती न कर, कि मुझे त्याग वा छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी; जहां तू टिके वहा मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, १७ जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझ से अलग होऊ, तो यहोवा मुझ से वैसा ही वरन उस से भी अधिक करे। १८ जब उस ने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उस ने उस से और बात न कही। १९ सो वे दोनों चल निकली और बतलेहेम को पहुंची। और उनके बतलेहेम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची; और स्त्रिया कहने लगी, क्या यह नाओमी है ? २० उस ने उन से कहा, मुझे नाओमी † न कहो, मुझे मारा ‡ कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान् ने मुझ को बड़ा दुःख दिया § है। २१ मैं भरी पूरी चली गई थी, परन्तु यहोवा ने मुझे छूड़ी करके लौटाया है। सो जब कि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दो, और सर्वशक्तिमान् ने मुझे दुःख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो ? २२ इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहु रूत के

* वा देवराती। † अर्थात् मनोहर।

‡ अर्थात् दुखियार्गी। मूल में—कड़वी।

§ मूल में—मुझ से बहुत कड़वा व्यवहार किया।

* मूल में—कड़वाहट।

साथ लौटी, जो मोघ्राब देश से आई थी। और वे जो कटने के धारम्भ के समय बतलेंहेम में पहुँची ॥

२ नाग्रोमी के पति एलीमेलक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुम्बी था, जिसका नाम बाग्रज था। २ और मोघ्राबिन रूत न नाग्रोमी से कहा, मुझ किसी खत में जाने दे, कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे में सिला बीनती जाऊ। उस ने कहा, चली जा, बेटी। ३ सो वह जाकर एक खेत में लवनेवालो के पीछे बीनन लगी, और जिम खेत में * वह सयांग से गई थी वह एलीमेलक के कुटुम्बी बाग्रज का था। ४ और बाग्रज बतलेंहेम से आकर लवनेवालो से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे सग रहे, और वे उस से बोले, यहोवा तुम आशीष दे। ५ तब बाग्रज ने अपने उस सेवक से जो लवनेवालो के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किस की कन्या है। ६ जो सेवक लवनेवालो के ऊपर ठहराया गया था उस ने उत्तर दिया, वह मोघ्राबिन कन्या है, जो नाग्रोमी के सग मोघ्राब देश से लौट आई है। ७ उस ने कहा था, मुझे लवनेवालो के पीछे पीछे पुलो के बीच बीनने और बाल बटोरने दे। तो वह आई, और और से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। ८ तब बाग्रज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के सग यही रहना। ९ जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बन्धा रहे, और उन्ही के

* मूल में—बिस खेत के भाग में।

पीछे पीछे चला करना। क्या मैं ने जबानो को आज्ञा नहीं दी, कि तुम से न बोले? और जब जब तुम्हें प्यास लगे, तब तब तू बरतनो के पास जाकर जबानो का भरा हुआ पानी पीना। १० तब वह भूमि तक भुंककर मुह के बल गिरी, और उस में कहन लगी, क्या कारण है कि तू न मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? ११ बाग्रज ने उत्तर दिया, जो कुछ तू ने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहिले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। १२ यहाँवा तेरी करनी का फल दे, और इस्त्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पखो तले तू शरण लेने आई है तुम पूरा बदला दे। १३ उस ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तौभी तू ने अपनी दासी के मन में पठनेवाली बाने कहकर मुझे शान्ति दी है। १४ फिर खाने के समय बाग्रज ने उस से कहा, यही आकर रोटी खा, और अपना कौर मिरके में बोर। तो वह लवनेवालो के पास बैठ गई, और उस ने उसको भुनी हुई बाल दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। १५ जब वह बीनने को उठी, तब बाग्रज ने अपने जबानो को आज्ञा दी, कि उसको पुलो के बीच बीच में भी बीनने दो, और दोष मत लगाओ। १६ वरन मुट्टी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और

उसके बीनने के लिये छोड़ दो, और उसे घुड़को मत। १७ सो वह साफ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका, और वह कोई एपा भर जो निकला। १८ तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उमकी माम न उमका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उस ने तृप्त हांकर बचाया था उसका उस ने निकालकर अपनी सास को दिया। १९ उमकी मास ने उम से पूछा, आज तू कहा बीनती, और कहा काम करती थी? धन्य वह हो जिस ने तेरी सुधि ली है। तब उस ने अपनी सास को बता दिया, कि मैं ने किस के पास काम किया, और कहा, कि जिस पुरुष के पास मैं ने आज काम किया उसका नाम बोभ्रज है। २० नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उस ने न तो जीवित पर मे और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उस से कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुम्बी है, वरन उन में मैं है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। २१ फिर रूत मोआबिन बोली, उस न मुझ से यह भी कहा, कि जब तक मेरे सेबक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्ही के सग सग लगी रह। २२ नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेंटी यह अच्छा भी है, कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे, और वे तुझ में दूसरे के खेत में न मिले। २३ इसलिये रूत जो और गेहू दोनो की कटनी के अन्त तक बीनने के लिये बोभ्रज की दासियों के साथ साथ लगी रही, और अपनी सास के यहा रहती थी ॥

२ उसकी सास नाओमी ने उस से कहा, हे मेरी बेंटी, क्या मैं तेरे लिये ठाव न दूँ कि तेरा भला हो? २ अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोभ्रज हमारा कुटुम्बी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जो फटकेगा। ३ तू स्नान कर तेल लगा, वस्त्र पहिनकर खलिहान को जा, परन्तु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रगट न करना। ४ और जब वह लेंट जाए, तब तू उस के लेंटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा उसके पाव उधारके लेंट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिये। ५ उस ने उस से कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। ६ तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। ७ जब बोभ्रज खा पी चुका, और उसका मन आनन्दित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेंट गया। तब वह चुपचाप गई, और उसके पाव उधार के लेंट गई। ८ आधी रात को वह पुरुष चौक पडा, और आगे की ओर झुककर क्या पाया, कि मेरे पावो के पास कोई स्त्री लेंटी है। ९ उस ने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने-वाला कुटुम्बी है। १० उस ने कहा, हे बेंटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तू ने अपनी पिछली प्रीति पहिली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू, क्या धनी, क्या कगाल, किसी जवान के पीछ नही लगी। ११ इसलिये अब, हे मेरी बेंटी, मत डर, जो कुछ तू कह्यगी मैं तुझ

से करूंगा; क्योंकि मेरे नगर के सब लोग * जानते हैं कि तू भली स्त्री है। १२ और अब सब तो है कि मैं छुड़ानेवाला कुटुम्बी हूँ, तौमी एक और है जिसे मुझ से पहिले ही छुड़ाने का अधिकार है। १३ सो रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिये छुड़ानेवाले का काम करना चाहे; तो भ्रन्खा, वही ऐसा करे; परन्तु यदि वह तेरे लिये छुड़ानेवाले का काम करने को प्रसन्न न हो, तो यहोवा के जीवन की शपथ में ही वह काम करूंगा। और तक लेटी रह। १४ तब वह उमके पांवों के पास और तक लेटी रही, और उस से पहिले कि कोई दूसरे को चीन्ह सके वह उठी; और बोभ्रज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। १५ तब बोभ्रज ने कहा, जो चढ़र तू छोड़े है उसे फँलाकर थाम्भ ले। और जब उस ने उसे थाम्भा तब उस ने छः नपुए जो नापकर उसको उठा दिया; फिर वह नगर में चली गई। १६ जब रूत अपनी सास के पास आई तब उस ने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ † ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उस से किया था वह सब उस ने उसे कह सुनाया। १७ फिर उस ने कहा, यह छः नपुए जो उस ने यह कहकर मुझे दिया, कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। १८ उस ने कहा, हे भेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बंठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा ॥

* मूल में—मेरे लोगों का मारा फाटक।

† मूल में—तू कौन है ?

४ तब बोभ्रज फाटक के पास जाकर बैठ गया; और जिस छुड़ानेवाले कुटुम्बी की चर्चा बोभ्रज ने की थी, वह भी आ गया। तब बोभ्रज ने कहा, हे फुलाने, इधर आकर यहीं बैठ जा; तो वह उधर जाकर बैठ गया। २ तब उस ने नगर के दस बृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ; वे भी बैठ गए। ३ तब वह उस छुड़ानेवाले कुटुम्बी से कहने लगा, नामोमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमेलक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। ४ इसलिये मैं ने सोचा कि यह बात तुझ को जताकर रहूंगा, कि तू उसको इन बैठे हुए के साम्हने और मेरे लोगों के इन बृद्ध लोगों के साम्हने मोल ले। और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे, तो छुड़ा; और यदि तू छुड़ाना न चाहे, तो मुझे ऐसा ही बता दे, कि मैं समझ लू; क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उस ने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। ५ फिर बोभ्रज ने कहा, जब तू उस भूमि को नामोमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मोआबीन के हाथ से भी जो मरे हुए की स्त्री है इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा, कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। ६ उस छुड़ानेवाले कुटुम्बी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। इसलिये मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझ से वह छुड़ाया नहीं जाता। ७ अगले समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिये यह व्यवहार था, कि मनुष्य अपनी जूती

उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में गवाही इसी रीति होती थी। ८ इस-लिये उस छुड़ानेवाले कुटुम्बी ने बोअज से यह कहकर, कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। ९ तब बोअज ने बूढ़ लोगों और सब लोगो से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एली-मेलक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वह सब मैं नाम्रोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। १० फिर महलोन की स्त्री रुत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिये इस मनसा से मोल लेता हूँ, कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करू, कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयो में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए; तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। ११ तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्हो ने और बूढ़ लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इस्राएल के घराने की दो उपजानेवाली * राहेल और लिआ: के समान करे। और तू एप्राता मे वीरता करे, और बेतलेहेम में तेरा बड़ा नाम हो; १२ और जो सन्तान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुम्हें दे उसके कारण से तेरा घराना परेस का

* मूल में—घर की बनानेवाली।

सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। १३ तब बोअज ने रुत को ब्याह लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई; और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भं रहा, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। १४ तब स्त्रियों ने नाम्रोमी से कहा, यहोवा धन्य है, जिस ने तुम्हें आज छुड़ानेवाले कुटुम्बी के बिना नहीं छोड़ा; इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो। १५ और यह तेरे जी में जी ले आनेवाला और तेरा बुढ़ापे में पालनेवाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुम्ह से प्रेम रखती और सात बेटों से भी तेरे लिये श्रेष्ठ है उसी का यह बेटा है। १६ फिर नाम्रोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। १७ और उसकी पड़ोसिनो ने यह कहकर, कि नाम्रोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशी का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ।

१८ परेस की यह वशावली है, अर्थात् परेस से हेस्लोन, १९ और हेस्लोन से राम, और राम से अम्मीनादाब, २० और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सल्मोन, २१ और सल्मोन से बोअज, और बोअज से ओबेद, २२ और ओबेद से यिशी, और यिशी मे दाऊद उत्पन्न हुआ। ॥

शमूएल की पहिली पुस्तक

(अमूरुष के जन्म और अदृश्यता का वर्ष)

१ एप्रैम के पहाड़ी देश के रामार्तम-सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम एक पुरुष था, वह एप्रैमी था, और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता, और यरोहाम का पुत्र था। २ और उसके दो पत्नियां थी; एक का तो नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। और पनिन्ना के तो बालक हुए, परन्तु हन्ना के कोई बालक न हुआ। ३ वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दण्डवत् करने और मेलबलि चढ़ाने के लिये शीलो में जाता था; और वहा होप्नी और पीनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। ४ और जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे-बेटियों को दान दिया करता था; ५ परन्तु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था; तौभी यहोवा ने उसकी कोख बन्द कर रखी थी। ६ परन्तु उसकी सौत इस कारण से, कि यहोवा ने उसकी कोख बन्द कर रखी थी, उसे अत्यन्त चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। ७ और वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था; और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। इसलिये वह रोती और खाना न खाती थी। ८ इसलिये उसके पति एल्काना ने उस से कहा,

हे हन्ना, तू क्यों रोती है? और खाना क्यों नहीं खाती? और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिये मैं दस बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? ९ तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। और यहोवा के मन्दिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। १० और यह मन में व्याकुल * होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलखकर रोने लगी। ११ और उस ने यह मन्त्र मानी, कि हे मेनाओ के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुःख पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिये यहोवा को अर्पण कर्लंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। १२ जब वह यहोवा के साम्हने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुह की ओर ताक रहा था। १३ हन्ना मन ही मन कह रही थी; उसके होंठ तो हिलते थे परन्तु उसका शब्द न सुन पड़ता था; इसलिये एली ने समझा कि वह नशे में है। १४ तब एली ने उस से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार †। १५ हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुःखिया हूँ; मैं ने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा, मैं ने अपने मन

* मूल में—कन्धी।

† मूल में—अपना दाखमधु अपने घर से दूर कर।

की बात खोलकर यहोवा से कही है * । १६ अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैं ने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है । १७ एली ने कहा, कुशल से चली जा; इस्त्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे । १८ उस ने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए । तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुह फिर उदास न रहा । १९ ब्रिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दरइवत् करके रामा में अपने घर लौट गए । और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी मुधि ली, २० तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल † रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैं ने यहोवा से मांगकर इसे पाया है । २१ फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के साम्हने प्रति वर्ष की भेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिये गया । २२ परन्तु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई ‡, कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको लें जाऊंगी, कि वह यहोवा को मुह दिखाए, और वहा सदा बना रहे । २३ उसके पति एल्काना ने उस से कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यही ठहरी रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे । इसलिये

* मूल में—मैं ने अपना जीव यहोवा के साम्हने उखड़े दिया ।

† अर्थात् ईश्वर का सुना हुआ ।

‡ मूल में—न चढ़ गई ।

वह स्त्री वही वर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही । २४ जब उस ने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई, और तीन बछड़े, और एपा भर भ्राटा, और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुँचा दिया, उस समय वह लड़का ही था । २५ और उन्हीं ने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुँचा दिया । २६ तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खडी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी । २७ यह वही बालक है जिसके लिये मैं ने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुह मागा वर दिया है । २८ इसी लिये मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ * , कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे † । तब उस ने वही यहोवा को दरइवत् किया ॥

२ और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है; मेरा मींग यहोवा के कारण ऊँचा, हुआ है ।

मेरा मुह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उदार से आनन्दित हूँ ॥

२ यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझ को छोड़ और कोई है ही नहीं;

* मूल में—मैं ने इसे यहोवा का मांगा हुआ मान लिया ।

† मूल में—यहोवा ही का मांगा हुआ ठहरे ।

- श्रीर हमारे परमेस्वर के समान
कोई षट्टान नहीं है ॥
- ३ फूलकर झहकार की श्रीर बालें
मत करो,
श्रीर अन्धेर की बाले तुम्हारे
मुह से न निकलें;
क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है,
श्रीर कामो का तौलनेवाला है ॥
- ४ शूरवीरो के धनुष टूट गए,
श्रीर ठोकर खानेवालो की कटि
में बल का फंटा कसा गया ॥
- ५ जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के
लिये मजदूरी करनी पड़ी,
जो भूखें थे वे फिर ऐसे न रहे ।
वरन जो बाभ्र थी उसके सात
हुए,
श्रीर अनेक बालको की माना
घुलनी जाती है ॥
- ६ यहोवा मारता है श्रीर जिलाता
भी है;
वही अधोलोक में उतारता श्रीर
उस से निकालता भी * है ॥
- ७ यहोवा निर्धन करता है श्रीर
धनी भी बनाता है,
वही नीचा करता श्रीर ऊचा
भी करता है ॥
- ८ वह कङ्काल को धूलि में से
उठाता,
श्रीर दरिद्र को धूरे में से निकाल
खड़ा करता है,
ताकि उनको अधिपतियों के सग
बिठाए,
श्रीर महिमायुक्त मिहासन के
अधिकारी बनाए ।

क्योंकि पृथ्वी के सम्भने यहोवा
के है,

श्रीर उस ने उन पर जगत को
घरा है ॥

९ वह अपन भक्तो के पावो को
सम्भाले रहेगा,

परन्तु दुष्ट अन्धियारे में चुपचाप
पडे रहेंगे,

क्योंकि कोई मनुष्य अपन बल
के कारण प्रबल न होगा ॥

१० जो यहोवा से भगडते हैं वे
चकनाचूर होंगे,

वह उनके विरुद्ध आकाश में
गरजेगा ।

यहोवा पृथ्वी की छोर तक
न्याय करेगा,

श्रीर अपने राजा को बल देगा,
श्रीर अपने अभिषिक्त के सींग
को ऊचा करेगा ॥

११ तब एल्काना रामा को अपने
घर चला गया । श्रीर वह बालक एली
याजक के साम्हने यहोवा की सेवा टहल
करने लगा ॥

१२ एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्हो
ने यहोवा को न पहिचाना । १३ श्रीर
याजको की रीति लोगो के साथ यह थी,
कि जब कोई मनुष्य मेलबलि चढाता था
तब याजक का मेवक मास पकाने के
समय एक त्रिशूली काटा हाथ में लिये
हुए आकर १४ उसे कडाही, वा हाडी,
वा हड, वा तमले के भीतर डालता था;
श्रीर जितना मास काटे में लग जाता
था उतना याजक आप लेता था । यो
ही वे शीलो में सारे इश्वाएलियो में किया
करते थे जो बहा आते थे । १५ श्रीर
चर्बी जलाने में पहिले भी याजक का

* मूल में—श्रीर उस ने चढया ।

मेवक धाकर मेलबलि चढ़ानेवाले से कहता था, कि कबाब के लिये याजक को मांस दे; वह तुम्ह से पका हुआ नहीं, कच्चा ही मांस लेगा। १६ और जब कोई उस से कहता, कि निश्चय चर्बी भभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं, भभी दे; नहीं तो मैं छीन लूंगा। १७ इसलिये उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ; क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की मेंट का तिरस्कार करते थे ॥

१८ परन्तु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहिने हुए यहोवा के साम्हने मेवा टहल किया करता था। १९ और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिये एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने जाती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। २० और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की सन्ती जो उसको अर्पण किया गया है * तुम्ह को इस पत्नी से बश दे, तब वे अपने यहां चले गए। २१ और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई और उसके तीन बेटे और दो बेटियां उत्पन्न हुईं। और शमूएल बालक यहोवा के मग रहता हुआ बढ़ता गया ॥

२२ और एली तो प्रति बूढ़ा हो गया था, और उस ने मुना कि मेरे पुत्र सारे इस्त्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलापवाले तम्बू के द्वार पर मेवा करनेवाली स्त्रियों के संग कुकर्म

* भूल में—इस मांगी हुई वस्तु की सन्ती जो उसके निश्चि मांगी गई है।

भी करते हैं। २३ तब उस ने उन से कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। २४ हे मेरे बेटो, बेशा ब करो; क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं; तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। २५ यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो पर-मेश्वर * उसका न्याय करेगा; परन्तु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिये कौन बिनती करेगा? तौभी उन्हो ने अपने पिता की बात न मानी; क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। २६ परन्तु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उस से प्रसन्न रहते थे ॥

२७ और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उस से कहने लगा, यहोवा यो कहता है, कि जब तेरे मूलपुरुष का घराना मिस्र में फिरोन के घराने के बश में था, तब क्या मैं उम पर निश्चय प्रगट न हुआ था? २८ और क्या मैं ने उसे इस्त्राएल के सब गोत्रों में से इसलिये चुन नहीं लिया था, कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए, और धूप जलाए, और मेरे साम्हने एपोद पहिना करे? और क्या मैं ने तेरे मूलपुरुष के घराने को इस्त्राएलियों के कुल हृष्य न दिए थे? २९ इसलिये मेरे मेलबलि और अन्नबलि जिनको मैं ने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों

* वा न्यायी।

पांव तले रींचते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है, कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेटें खा खाके मोटे हो जाओ? ३० इसलिये इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, कि मैं ने कहा 'तो था, कि तेरा घराना और तेरे मूलपुरुष का घराना मेरे साम्हने सदैव चला करेगा; परन्तु अब यहोवा की वाणी यह है, कि यह बात मुझ से दूर हो; क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानें वे छोटे समझे जाएंगे। ३१ सुन, वे दिन आते हैं, कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूलपुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा, कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। ३२ इस्राएल का कितना ही कल्याण क्यों न हो, तौभी तुम्हें मेरे धाम का दुःख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। ३३ मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परन्तु तौभी तेरी आंखें देखती रह जाएगी, और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। ३४ और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होनी और पीनहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी; अर्थात् वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। ३५ और मैं अपने लिये एक विश्वासयोग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर

करूंगा*, और वह मेरे अभिषिक्त के भागे भागे सब दिन चला फिरा करेगा। ३६ और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चान्दी के वा एक रोटी के लिये दगड़वत् करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिस में मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले ॥

३ और वह बालक शमूएल एली के साम्हने यहोवा की सेवा टहल करता था। और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था; और दर्शन कम मिलता था। २ और उस समय ऐसा हुआ कि (एली की आखे तो धुधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था) जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, ३ और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मन्दिर में जहां परमेश्वर का सन्दूक था लेटा था, ४ तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा; और उस ने कहा, क्या आज्ञा! ५ तब उस ने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तू ने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैं ने नहीं पुकारा; फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। ६ तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल! शमूएल उठकर एली के पास गया, और कहा, क्या आज्ञा, तू ने तो मुझे पुकारा है। उस ने कहा, हे मेरे बेटे, मैं ने नहीं पुकारा; फिर जा लेट रह। ७ उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रगट हुआ था। ८ फिर

* मूल में—मैं उसके लिये एक स्थिर घर बनाऊंगा।

तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। और वह उठके एली के पास गया, और कहा, क्या आज्ञा, तू ने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। ६ इसलिये एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह; और यदि वह तुझे फिर पुकारे, तो तू कहना, कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। १० तब यहोवा आ खड़ा हुआ, और पहिले की नाईं पुकारा, शमूएल! शमूएल! शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ११ यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ, जिससे सब सुनने-वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा*। १२ उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरम्भ से अन्त तक पूरा करूँगा। १३ क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ, कि मैं उस अधर्म का दरुद जिसे वह जानता है सदा के लिये उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं, और उस ने उन्हें नहीं रोका। १४ इस कारण मैं ने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई, कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित्त न तो मेलबलि से कमी होगा, और न अन्न-बलि से। १५ और शमूएल भोर तक लेटा रहा; तब उस ने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला। और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से

डरा। १६ तब एली ने शमूएल को पुकारकर कहा, हे मेरे बेटे, शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा। १७ तब उस ने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझ से कही है? उसे मुझ से न छिपा। जो कुछ उस ने तुझ से कहा हो यदि तू उस में से कुछ भी मुझ से छिपाए, तो परमेश्वर तुझ से वैसा ही वरन उस से भी अधिक करे। १८ तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई, और कुछ भी न छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। १९ और शमूएल बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा, और उस ने उसकी कोई भी बात निष्फल होने* नहीं दी। २० और दान से बेशर्बा तक के रहनेवाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिये नियुक्त किया गया है। २१ और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रगट किया ॥

(बकिच सन्धक की चम्पुआई और
छोटाया आजा)

४ और शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा। और इस्राएली पलितियों से युद्ध करने को निकले; और उन्होंने ने तं एवंनेजेर के आस-पास छावनी डाली, और पलितियों ने अपेक में छावनी डाली। २ तब पलितियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बान्धी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली पलितियों से हार गए, और उन्होंने

* मूल में—उस के दोनों कान सनसनायेंगे।

* मूल में—भूमि पर गिरने।

ने कोई चार हजार इस्लामी सेना के पुरुषों को मैदान ही में मार डाला। ३ और जब वे लोग छावनी में लौट आए, तब इस्लाम के बूढ़ लोग कहने लगे, कि यहोवा ने आज हमें पलिशतियों से क्यों हरबा दिया है? आओ, हम यहोवा की वाचा का सन्दूक शीलो से मांग ले आए, कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। ४ तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहा से कर्बों के ऊपर विराजनेवाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का सन्दूक मंगा लिया; और परमेश्वर की वाचा के सन्दूक के साथ एली के दोनों पुत्र, होप्नी और पिनहास भी वहां थे। ५ जब यहोवा की वाचा का सन्दूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्लामी इतने बल से ललकार उठे, कि भूमि गूंज उठी। ६ इस ललकार का शब्द सुनकर पलिशतियों ने पूछा, इब्रियो की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्हो ने जान लिया, कि यहोवा का सन्दूक छावनी में आया है। ७ तब पलिशती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्हो ने कहा, हाय! हम पर ऐसी बात पहिले नही हुई थी। ८ हाय! ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ में हम को कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्त्रियों पर जगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। ९ हे पलिशतियो, तुम हियाब बान्धो, और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा न हो कि जैसे इबी तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ; पुरुषार्थ करके संग्राम करो। १० तब

पलिशती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े, और इस्लामी हारकर अपने अपने डेरे को भागने लगे; और ऐसा अत्यन्त सहार हुआ, कि तीस हजार इस्लामी पैदल खेत आए। ११ और परमेश्वर का सन्दूक छीन लिया गया; और एली के दोनों पुत्र, होप्नी और पिनहास, भी मारे गए। १२ तब एक बिन्यामीनी मनुष्य ने सेना में मे दौड़कर उसी दिन अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो में पहुंचा। १३ वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के सन्दूक की चिन्ता से धरधरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोह रहा था। और ज्योंही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया त्योंही सारा नगर चिल्ला उठा। १४ चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने ऋत जाकर एली को पूरा हाल मुनाया। १५ एली तो अट्टानवे वर्ष का था, और उसकी आंखें धुन्धली पड़ गई थी, और उसे कुछ सूझता न था। १६ उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हू जो सेना में से आया हू, और मैं सेना से आज ही भाग आया। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? १७ उस समाचार देनेवाले ने उत्तर दिया, कि इस्लामी पलिशतियों के साम्हने से भाग गए हैं, और लोगों का बड़ा भयानक सहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए, और परमेश्वर का सन्दूक भी छीन लिया गया है। १८ ज्योंही उस ने परमेश्वर के सन्दूक का नाम लिया त्योंही एली फाटक

के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पडा; और बड़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई, और वह मर गया। उस ने तो इस्राएलियों का न्याय चालीस वर्ष तक किया था। १६ उसकी बहू पीनहास की स्त्री गर्भवती थी, और उसका समय ममीप था। और जब उस ने परमेश्वर के सन्दूक के छीन लिए जाने, और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जल्बा का दर्द उठा, और वह दुहर गई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। २० उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आस पास खड़ी थी उस से कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परन्तु उस ने कुछ उत्तर न दिया, और न कुछ ध्यान दिया। २१ और परमेश्वर के सन्दूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उस ने यह कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद * रखा, कि इस्राएल मे से महिमा उठ गई! २२ फिर उस ने कहा, इस्राएल मे से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का सन्दूक छीन लिया गया है ॥

पू और पलिशितयो ने परमेश्वर का सन्दूक एबनेजेर से उठाकर भ्रशदोद मे पहुँचा दिया; २ फिर पलिशितयो ने परमेश्वर के सन्दूक को उठाकर दागोन के मन्दिर में पहुँचाकर दागोन के पास धर दिया। ३ बिहान को भ्रशदोदियो ने तडके उठकर क्या देखा, कि दागोन यहोवा के सन्दूक के साम्हने झींघे मुह भूमि पर गिरा पडा है। तब उन्हो ने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खडा

* अर्थात् महिमा जाती रही।

किया। ४ फिर बिहान को जब वे तडके उठे, तब क्या देखा, कि दागोन यहोवा के सन्दूक के साम्हने झींघे मुह भूमि पर गिरा पडा है; और दागोन का सिर और दोनों हथेलिया डेबड़ी पर कटी हुई पडी है, निदान दागोन का केवल थड़ ममूचा रह गया। ५ इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मन्दिर मे जाते है, वे भ्रशदोद मे दागोन की डेबड़ी पर पांव नहीं धरने ॥

६ तब यहोवा का हाथ भ्रशदोदियों के ऊपर भारी पडा, और वह उन्हे नाश करने लगा, और उस ने भ्रशदोद और उसके आस पाम के लोगो के गिलटियां निकानी। ७ यह हाल देखकर भ्रशदोद के लोगो ने कहा, इस्राएल के देवता का सन्दूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पडा है। ८ तब उन्हो ने पलिशितयो के सब सरदारों को बुलवा भेजा, और उन मे पूछा, हम इस्राएल के देवता के सन्दूक मे क्या करे? वे बोले, इस्राएल के देवता का सन्दूक घुमाकर गत नगर मे पहुँचाया जाए। तो उन्हो ने इस्राएल के परमेश्वर के सन्दूक को घुमाकर गत मे पहुँचा दिया। ९ जब वे उमको घुमाकर वहां पहुँचे, तो यू हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उस में अत्यन्त बडी हलचल मच गई, और उस ने छोटे से बडे तक उस नगर के सब लोगो को मारा, और उनके गिलटियां निकलने लगी। १० तब उन्हो ने परमेश्वर का सन्दूक एकोन को भेजा। और ज्योंही परमेश्वर का सन्दूक एकोन

में पहुंचा क्योंकि एफ्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, कि इस्राएल के देवता का सन्दूक घुमाकर हमारे पास इसलिये पहुंचाया गया है, कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। ११ तब उन्होंने ने पलिशतियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया, और उन से कहा, इस्राएल के देवता के सन्दूक को निकाल दो, कि वह अपने स्थान पर लौट जाए, और हम को और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था। १२ और जो मनुष्य न मरे वे भी गिलतियों के मारे पड़े रहे; और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची।

६ यहोवा का सन्दूक पलिशतियों के देश में सात महीने तक रहा। २ तब पलिशतियों ने याजकों और भावी कहने-वालों को बुलाकर पूछा, कि यहोवा के सन्दूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित्त देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें? ३ वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का सन्दूक वहां भेजो, तो उसे वैसे ही न भेजना; उसकी हानि भरने के लिये अवश्य ही दोषबलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे, और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। ४ उन्होंने ने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिये कौन सा दोषबलि दें? वे बोले, पलिशती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की पांच गिलटियां, और सोने के पांच चूहे; क्योंकि तुम

सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। ५ तो तुम * अपनी गिलटियों और अपने देश के नाश करनेवाले चूहों की भी मूरते बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो; मम्भव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। ६ तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो जैसे मिलियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे? जब उस ने उनके मध्य में प्रचम्भित काम किए, तब क्या उन्होंने ने उन लोगों को जाने न दिया, और क्या वे चले न गए? ७ सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ, और ऐसी दो दुधार गायें लो जो जूए नले न आईं ही, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास में लेकर घर को लौटा दो। ८ तब यहोवा का सन्दूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिये दोषबलि की रीति में दोगे उन्हें दूसरे सन्दूक में घर के उमके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए। ९ और देखते रहना; यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बतशोमेश को चले, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई और यदि नहीं, तो हम को निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं, परन्तु सयोग ही में हुई। १० उन मनुष्यों ने बैसा ही किया; अर्थात् दो दुधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोतीं, और उनके बच्चों को

* मूल में—उन।

घर में बन्द कर दिया। ११ और यहोवा का सन्दूक, और दूसरा सन्दूक, और सोने के चूहे और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाडी पर रख दिया। १२ तब गावों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया; वे सड़क ही सड़क बम्बाती हुई चली गईं, और न दाहिने मुड़ी और न बायें; और पलिशतियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेतशेमेश के सिवाने तक गए। १३ और बेतशेमेश के लोग तराई में गेहूँ काट रहे थे; और जब उन्हो ने आंखे उठाकर सन्दूक को देखा, तब उसके देखने से आनन्दित हुए। १४ और गाडी यहोशू नाम एक बेतशेमेशी के खेत में जाकर वहा ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्हो ने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गावों को हौमबलि करके यहोवा के लिये चढाया। १५ और लेवीयो ने यहोवा के सन्दूक को उस सन्दूक के समेत जो साथ था, जिम में सोने की वस्तुए थी, उतारके उस बड़े पत्थर पर धर दिया, और बेतशेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिये हौमबलि और मेलबलि चढाए। १६ यह देखकर पलिशतियों के पांचो सरदार उसी दिन एकोन को लौट गए।

१७ सोने की गिलटिया जो पलिशतियो ने यहोवा की हानि भरने के लिये दोषबलि करके दे दी थी उन में से एक तो अशदोद की और से, एक अज्जा, एक अस्कलोन, एक गत, और एक एकोन की और से दी गई थी। १८ और वह सोने के चूहे, क्या शहरपनाहवाले नगर, क्या बिना शहरपनाह के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का सन्दूक धरा गया था

वहां पलिशतियों के पांचों सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर तो आज तक बेतशेमेशी यहोशू के खेत में है। १९ फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगो ने यहोवा के सन्दूक के भीतर भाका था उस ने उन में से सत्तर मनुष्य, और फिर पचास हजार मनुष्य मार डाले, और वहां के लोगों ने इसलिये विलाप किया कि यहोवा ने लोगो का बड़ा ही संहार किया था। २० तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के साम्हने कौन खड़ा रह सकता है? और वह हमारे पास से किस के पास चला जाए? २१ तब उन्हों ने किर्यत्यारीम के निवासियों के पाम यो कहने को दूत भेजे, कि पलिशतियों ने यहोवा का सन्दूक लौटा दिया है, इसलिये तुम आकर उसे अपने यहा ले जाओ।

७ तब किर्यत्यारीम के लोगो ने जाकर यहोवा के सन्दूक को उठाया, और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के सन्दूक की रक्षा करने के लिये अबीनादाब के पुत्र एलीआज़ार को पवित्र किया।।

(शमूएल बच्चों और न्यायों के कार्य)

२ किर्यत्यारीम में रहते रहते सन्दूक को बहुत दिन हुए, अर्थात् बीस वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। ३ तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराए देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने

बीच में मे दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उमी की उपामना करो, तब वह तुम्हें पलिशितयो के हाथ में छोड़ाएगा। ४ तब इस्राएलियो ने बाल देवताओं और प्रस्तोते देवियों को दूर किया, और केवल यहोवा ही की उपामना करने लगे ॥

५ फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियो को मिस्या में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिये यहोवा में प्रार्थना करूँगा। ६ तब वे मिस्या में इकट्ठे हुए, और जल भरके यहोवा के माँहने उडेल दिया, और उस दिन उपवाम किया, और वहाँ कहने लगे, कि हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्या में इस्राएलियो का न्याय किया। ७ जब पलिशितयो ने सुना कि इस्राएली मिस्या में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके मरदारो ने इस्राएलियो पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिशितयो से भयभीत हुए। ८ और इस्राएलियो ने शमूएल में कहा, हमारे लिये हमारे परमेश्वर यहोवा की दोहाई देना न छोड़, जिस से वह हम को पलिशितयो के हाथ से बचाए। ९ तब शमूएल ने एक दूधपिउवा मेम्ना ले सर्बाङ्ग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियो के लिये यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। १० और जिस समय, शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था उस समय पलिशती इस्राएलियो के सग युद्ध करने के लिये निकट आ गए, तब उमी दिन यहोवा ने पलिशितियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया; और के इस्राएलियो से हार गए। ११ तब

इस्राएली पुरुषो ने मिस्या में निकलकर पलिशितयो को खदेडा, और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारने चले गए। १२ तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्या और शन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर* रखा, कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। १३ तब पलिशती दब गए, और इस्राएलियो के देश में फिर न आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिशितयो के विरुद्ध बना रहा। १४ और एकोन और गत तक जितने नगर पलिशितयो ने इस्राएलियो के हाथ में छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियो के वश में आ गए, और उनका देश भी इस्राएलियो ने पलिशितयो के हाथ में छोड़ाया। और इस्राएलियो और एमोरियो के बीच भी सन्धि हो गई। १५ और शमूएल जीवन भर इस्राएलियो का न्याय करता रहा। १६ वह प्रति वर्ष बतेल और गिलगल और मिस्या में घूम-घूमकर उन सब स्थानों में इस्राएलियो का न्याय करता था। १७ तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया, और वहाँ भी इस्राएलियो का न्याय करता था, और वहाँ उस ने यहोवा के लिये एक वेदी बनाई ॥

(ब्राह्मण की राजवद का विच्छेद)

जब शमूएल बूढा हुआ, तब उस ने अपने पुत्रों को इस्राएलियो पर न्यायी ठहराया। २ उसके जेठे पुत्र का नाम योएल, और दूसरे का नाम अबिष्याह था, ये बेशोबा में न्याय करने थे। ३ परन्तु उसके पुत्र उसकी राह

* अब्राह्म सहायता का पत्थर।

पर न चले, अर्थात् लालच में आकर * घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे ॥

४ तब सब इस्राएली बृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर ५ उस से कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया, और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते; अब हम पर न्याय करने के लिये सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिये एक राजा नियुक्त कर दे। ६ परन्तु जो बात उन्हों ने कही, कि हम पर न्याय करने के लिये हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। ७ और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझ में कहे उसे मान ले; क्योंकि उन्हों ने तुझ को नहीं परन्तु मुझी को निकम्मा जाना है, कि मैं उनका राजा न रहूँ। ८ जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें भिन्न से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं, कि मुझ को त्यागकर पराए देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझ से भी करते हैं। ९ इसलिये अब तू उनकी बात मान, तोभी तू गम्भीरता से उनको भली भाँति समझा दे, और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा ॥

१० और शमूएल ने उन लोगों को जो उस से राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। ११ और उस ने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात् वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और

घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के भागे भागे दौड़ा करेंगे; १२ फिर वह उनको हजार हजार और पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा, और अपने खेत कटवाएगा, और अपने लिये युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। १३ फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उन से सुगन्ध-द्रव्य और रसोई और रोटियों बनवाएगा। १४ फिर वह तुम्हारे खेतों और दाल और जलपाई की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगे उन्हें लं लेकर अपने कर्म-चारियों को देगा। १५ फिर वह तुम्हारे बीज और दाल की बारियों का दसवां भ्रश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्म-चारियों को देगा। १६ फिर वह तुम्हारे दास-दासियों को, और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को, और तुम्हारे गदहों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। १७ वह तुम्हारी भेड़-बकरियों का भी दसवां भ्रश लेगा; निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे। १८ और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परन्तु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। १९ तोभी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी; और कहने लगे, नहीं! हम निश्चय अपने लिये राजा चाहते हैं, २० जिस से हम भी और सब जातियों के समान हो जाए, और हमारा राजा हमारा न्याय करे, और हमारे भागें भागें बसकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। २१ लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुँचाया। २२ यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके

* मूल में—लालच के पीछे घुड़के।

लिये राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों में कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ ॥

६ बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अर्पिह के पुत्र, बकोरत का परपोता, और सरोर का पोता, और अबीएल का पुत्र था; वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। २ उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था, जो सुन्दर था, और इस्राएलियों में कोई उस से बढ़कर सुन्दर न था; वह इतना लम्बा था कि दूसरे लोग उसके कान्धे ही तक आते थे। ३ जब शाऊल के पिता कीश की गदहियाँ लो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूँढ़ ला। ४ तब वह एग्रैम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परन्तु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नाम देश भी होकर गए, और वहा भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परन्तु गदहिया न मिली। ५ जब वे सूफ नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ, हम लौट चलें, ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिन्ता छोड़कर हमारी चिन्ता करने लगे। ६ उस ने उस से कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है; और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, सम्भव है वह हम को हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। ७ शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम

उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिये क्या ले चलें? देख, हमारी बैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? ८ सेवक ने फिर शाऊल से कहा, कि मेरे पास तो एक शकेल चान्दी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा, कि वह हम को बताए कि किधर जाएं। (६ पूर्वकाल में तो इस्राएल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, कि चलो, हम दर्शी के पास चलें; क्योंकि जो आज कल नबी कहलाता है वह पूर्वकाल में दर्शी कहलाता था।) १० तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तू ने भला कहा है; हम चलें। सो वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। ११ उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई एक लडकियां मिली जो पानी भरने को निकली थीं; उन्होंने ने उन से पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? १२ उन्हो ने उत्तर दिया, कि है; देखो, वह तुम्हारे प्रांगे है। अब फूँटी करो; आज ऊंचे स्थान पर लोगो का यज्ञ है, इसलिये वह आज नगर में आया हुआ है। १३ ज्योंही तुम नगर में पहुँचो त्योही वह तुम को ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहिले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुँचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिये कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके पीछे ही न्योतहरी भोजन करते हैं। इसलिये तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। १४ वे नगर में चढ़ गए और ज्योंही नगर के भीतर पहुँचे त्योही शमूएल ऊंचे

स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके साम्हने आ रहा था ॥

१५ शाऊल के आने से एक दिन पहिले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा * था, १६ कि कल इसी समय में तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिये अभिषेक करना। और वह मेरी प्रजा को पलि-कितियों के हाथ से छुड़ाएगा; क्योंकि मैं ने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिये कि उनकी चित्लाहट मेरे पास पहुंची है। १७ फिर जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उस से कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैं ने तुझ से की थी वह यही है; मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। १८ तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहां है? १९ उस ने कहा, दर्शी तो मैं हूँ; मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। २० और तेरी गदहिया जो तीन दिन हुए खी गई थी उनकी कुछ भी चिन्ता न कर, क्योंकि वे मिल गईं। और इस्राएल में जो कुछ मनभाऊ है वह किस का है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? २१ शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामिनी, अर्थात् सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामिनी के गोत्र के सारे

कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिये तू मुझ से ऐसी बातें क्यों कहता है? २२ तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर न्योताहारी, जो लगभग तीस जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। २३ फिर शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैं ने तुझे देकर, अपने पास रख छोड़ने को कहा था, उसे ले आ। २४ तो रसोइये ने जांच को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया; तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख, और अपने साम्हने धरके खा; क्योंकि वह तेरे लिये इसी नियत समय तक, जिसकी चर्चा करके मैं ने लोगों को न्योता दिया, रखा हुआ है। और शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। २५ तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए, और उस ने घर की छत पर शाऊल से बातें कीं। २६ बिहान को वे तड़के उठे, और पह फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझ को विदा करूंगा। तब शाऊल उठा, और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। २७ और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हम से आगे बढ़ने की आज्ञा दे, (वह आगे बढ़ गया,) परन्तु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेस्वर का वचन सुनाऊं ॥

१० तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, और उसे घूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग

* मूल में—शमूएल का कान खोला।

के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? २ भाज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कन्न के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसह में है दो जन तुझे मिलेंगे, और कहेंगे, कि जिन गदहियों को तू दूढ़ने गया था वे मिली है; और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिन्ता छोडकर तुम्हारे कारण कुदता हुआ कहता है, कि मैं अपने पुत्र के लिये क्या करूँ? ३ फिर वहां से भागे बढ़कर जब तू ताबोर के बांजवृक्ष के पाम पहुंचेगा, तब वहां तीन जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिन में से एक तो डूकरी के तीन बच्चे, और दूसरा-तीन रोटी, और तीसरा एक कुप्पा दाख-मधु लिए हुए होगा। ४ और वे तेरा कुशल पूछेंगे, और तुझे दो रोटी देगे, और तू उन्हें उनके हाथ में ले लेना। ५ तब तू परमेश्वर के पहाड पर पहुंचेगा * जहां पलिसितियों की चौकी है; और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियो का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा; और उनके भागे सितार, डफ, बांसुली, और बीणा होंगे; और वे नबूवत करते होंगे। ६ तब यहोबा का धारमा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। ७ और जब ये चिन्ह तुझे देख पडेंगे, तब जो काम करने का भवसर तुझे मिले उस में लग जाना; क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ८ और तू मुझ से पहिले गिलगाल को

जाना; और मैं होमबलि और मेलबलि चढाने के लिये तेरे पास आऊंगा। तू सात दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझ को क्या क्या करना है। ९ ज्योंही उस ने शमूएल के पास मे जाने को पीठ फेरी त्योंही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया; और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रगट हुए ॥

१० जब वे उधर उस पहाड के पास * आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला; और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। ११ जब उन सभी ने जो उसे पहिले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लग, कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? १२ वहा के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला, उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, कि क्या शाऊल भी नबियो में का है? १३ जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ गया ॥

१४ तब शाऊल के चचा ने उस से और उसके सेवक से पूछा, कि तुम कहां गए थे? उस ने कहा, हम तो गदहियों को दूढ़ने गए थे; और जब हम ने देखा कि वे कही नहीं मिलतीं, तब शमूएल के पास गए। १५ शाऊल के चचा ने कहा, मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुम से क्या कहा। १६ शाऊल ने अपने चचा से कहा, कि उस ने हमें निश्चय

* वा तू परमेश्वर की पहाडी को पहुंचेगा।

* वा पहाडी।

करके बताया कि गद्दहियां मिल गईं। परन्तु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उस ने उसको न बनाई ॥

१७ तब शमूएल ने प्रजा के लोगो को मिस्रा में यहोवा के पास बुलवाया, १८ तब उस ने इस्राएलियो से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया, और तुम को मिस्रियों के हाथ से, और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अन्धे करते थे छोड़ाया है। १९ परन्तु तुम ने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छोड़नेवाला है तुच्छ जाना; और उस से कहा है, कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिये अब तुम गोत्र और हज़ार हज़ार करके यहोवा के साम्हने खड़े हो जाओ। २० तब शमूएल सारे इस्राएली गोत्रियो को समीप लाया, और चिट्टी बिन्यामीन के नाम पर निकली *। २१ तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया, और चिट्टी मन्नी के कुल के नाम पर निकली †; फिर चिट्टी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली ‡। और जब वह दूँड़ा गया, तब न मिला। २२ तब उन्होंने ने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहां कोई और प्रानेवाला है? यहोवा ने कहा, हां, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। २३ तब वे दौड़कर उमे वहां से लाए; और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वह कान्धे से सिर तक §

* मूल में—बिन्यामीन का गोत्र लिया गया।

† मूल में—मन्नी का कुल लिया गया।

‡ मूल में—कीश का पुत्र शाऊल लिया गया।

§ मूल में—ऊपर।

सब लोगों से लम्बा * था। २४ शमूएल ने सब लोगों में कहा, क्या तुम ने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगो में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकारके बोल उठे, राजा चिरजीव रहे ॥

२५ तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वरान किया, और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। २६ और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया, और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। २७ परन्तु कई लुच्चे लोगो ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने ने उसको तुच्छ जाना, और उनके पाम भेंट न लाए। तौभी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा † ॥

(चम्पियो पर आच्छ जो जय)

११ तब अम्मोनी नाहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषो ने नाहाश से कहा, हम में वाचा बान्ध, और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। २ अम्मोनी नाहाश ने उन से कहा, मैं तुम से वाचा इस शर्त पर बान्धूंगा, कि मैं तुम सभों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूं। ३ याबेश के बृद्ध लोगों ने उस से कहा, हमें सात दिन का अवकाश दे तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे। और यदि हम को कोई बचाने-

* मूल में—सब लोग उसके कान्धे तक थे।

† मूल में—वह बहिरा सा हो गया।

बाला न मिलेगा, तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। ४ दूतों ने शाऊलबाले गिबा' में आकर लोगों को यह सन्देश सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे। ५ और शाऊल बैलो के पीछे पीछे मैदान से चला आता था; और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्हो ने याबेश के लोगों का सन्देश उसे सुनाया। ६ यह सन्देश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और उसका कोप बहुत भड़क उठा। ७ और उस ने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भंजा, कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा उसके बैलो से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर * निकल आए। ८ तब उस ने उन्हें बेजेक में गिन लिया, और इस्राएलियों के तीन लाख, और यहूदियों के तीस हजार ठहरे। ९ और उन्हो ने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यो कहो, कि कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को सन्देश दिया, और वे आनन्दित हुए। १० तब याबेश के लोगों ने कहा, कल हम तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुम को अच्छा लगे वही हम से करना। ११ दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के तीन दल किए; और उन्हो ने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच

* मूल में—एक पुरुष के समान।

में आकर अम्मोनियों को मारा; और घाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि दो जन भी एक सग कही न रहे। १२ तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था, कि क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा? उनको लाभो कि हम उन्हें मार डालें। १३ शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा; क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है ॥

(सभा में बखूबका उपदेश)

१४ तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ, हम गिलगल को चले, और वहा राज्य को नये सिरे से स्थापित करे। १५ तब सब लोग गिलगल को चले, और वहा उन्हो ने गिलगल में यहोवा के साम्हने शाऊल को राजा बनाया; और वही उन्हो ने यहोवा को मेलबलि चढ़ाए; और वही शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यन्त आनन्द मनाया ॥

१२ तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, मुनो, जो कुछ तुम ने मुझ से कहा था उसे मानकर मैं ने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है। २ और अब देखो, वह राजा तुम्हारे भागे भागे चलता है *; और अब मैं बूढ़ा हूँ, और मेरे बाल उजले हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं; और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे साम्हने काम करता † रहा

* मूल में—तुम्हारे साम्हने चल फिर रहा है।

† मूल में—हमारे साम्हने चलता फिरता।

हूँ। ३ मैं उपस्थित हूँ; इसलिये तुम यहोवा के साम्हने, और उसके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो, कि मैं ने किस का बैल ले लिया ? वा किस का गदहा ले लिया ? वा किस पर अन्धेर किया ? वा किस को पीसा ? वा किस के हाथ से अपनी आँखें बन्द करने के लिये धूस लिया ? बताओ, और मैं वह तुम को फेर दूँगा ? ४ वे बोले, तू ने न तो हम पर अन्धेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया है। ५ उस ने उन से कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी, और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है, कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। ६ फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। ७ इसलिये अब तुम खड़े रहो, और मैं यहोवा के साम्हने उसके सब धर्म के कामों के विषय में, जिन्हें उस ने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूँगा। ८ याकूब मिस्र में गया, और तुम्हारे पूर्वजो ने यहोवा की दोहाई दी; तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा, और उन्होंने ने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला, और इस स्थान में बसाया। ९ फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उस ने उन्हें हासोर के सेनापति सीसरा, और पलिश्तियों और मोआब के राजा के अधीन कर दिया *; और वे उन से लड़े। १० तब उन्होंने ने

यहोवा की दोहाई देकर कहा, हम ने यहोवा को त्यागकर और बाल देवताओं और अशतोरेत देवियों की उपासना करके महा पाप किया है; परन्तु अब तू हम को हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी उपासना करेंगे। ११ इसलिये यहोवा ने यरब्बाल, बदान, यिप्तह, और शमूएल को भेजकर तुम को तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया; और तुम निडर रहने लगे। १२ और जब तुम ने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था तीभी तुम ने मुझ से कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। १३ अब उस राजा को देखो जिसे तुम ने चुन लिया, और जिसके लिये तुम ने प्रार्थना की थी; देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। १४ यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते, और उसकी बात सुनते रहो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उस से बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलनेवाले बने रहो, तब तो भला होगा, १५ परन्तु यदि तुम यहोवा की बात न मानो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उस से बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। १६ इसलिये अब तुम खड़े रहो, और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आँखों के साम्हने करने पर है। १७ आज क्या गेहूँ की कटनी नहीं हो रही ? मैं यहोवा को पुकारूँगा, और

* मूल में—के हाथ बेच डाला।

वह मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा; तब तुम जान लोगे, और देख भी लोगे, कि तुम ने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। १८ तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया; और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यन्त डर गए। १९ और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दानों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर, कि हम मर न जाए; क्योंकि हम ने अपने सारे पापो से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। २० शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत; तुम ने यह सब बुराई तो की है, परन्तु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परन्तु अपने सम्पूर्ण मन से उस की उपासना करना; २१ और मत मुड़ना; नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिन से न कुछ लाभ पहुंचेगा, और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। २२ यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। २३ फिर यह मुझ से दूर हो कि मैं तुम्हारे लिये प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूँ; मैं तो तुम्हें अर्द्धा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। २४ केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, और सच्चाई से अपने सम्पूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो; क्योंकि यह तो सोचो कि उस ने तुम्हारे लिये कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। २५ परन्तु यदि तुम बुराई

करते ही रहोगे, तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे ॥

(शाऊल राजा का पहिला चरपाथ और चरका पथ)

१३ शाऊल तीस वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और उस ने इस्राएलियों पर दो * वर्ष तक राज्य किया। २ फिर शाऊल ने इस्राएलियों में से तीन हजार पुरुषों को अपने लिये चुन लिया; और उन में से दो हजार शाऊल के साथ मिकमाश में और बेंतेल के पहाड पर रहे, और एक हजार योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे; और दूसरे सब लोगो को उस ने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। ३ तब योनातान ने पलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया; और इसका समाचार पलिस्तियों के कानो में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिगा फुकवाकर यह कहला भेजा, कि इन्नी लोग सुनें। ४ और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिस्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि पलिस्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए ॥

५ और पलिस्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिये इकट्ठे हो गए, अर्थात् तीस हजार रथ, और छः हजार सवार, और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए; और बेंतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। ६ जब

* जान पड़ता है कि दो से अधिक कोई संख्या यहां छूट गई है, यथा नतीस बयालीस इत्यादि।

इस्त्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं (श्रीर सचमुच लोग संकट में पड़े थे), तब वे लोग गुफाओं, भाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों, और गढ़ों में जा छिपे। ७ और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए; परन्तु शाऊल गिलगाल ही में रहा, और सब लोग धरधराते हुए उसके पीछे हो लिए ॥

८ वह शमूएल के ठहराए हुए समय, अर्थात् सात दिन तक बाट जोहता रहा; परन्तु शमूएल गिलगाल में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। ९ तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उस ने होमबलि को चढ़ाया। १० ज्योंही वह होमबलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुँचा, और शाऊल उस से मिलने और नमस्कार करने को निकला। ११ शमूएल ने पूछा, तू ने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैं ने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और पलिश्ती मिकमाश मे इकट्ठे हुए हैं, १२ तब मैं ने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैं ने यहाँवा से बिनती भी नहीं की है; सो मैं ने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाया। १३ शमूएल ने शाऊल से कहा, तू ने भूर्खता का काम किया है; तू ने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना; नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्त्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। १४ परन्तु अब तेरा राज्य बना न रहेगा; यहोवा ने अपने लिये एक ऐसे पुरुष को

बूढ़ लिया है जो उसके मन के अनुसार है; और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तू ने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना ॥

१५ तब शमूएल चल निकला, और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया। और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई छः सी पाए। १६ और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे; और पलिश्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। १७ और पलिश्तियों की छावनी से नाश करनेवाले तीन दल बाणधर निकले; एक दल ने शूभ्राल नाम देश की ओर फिर के ओत्रा का मार्ग लिया, १८ एक और दल ने मुडकर बेथोरोन का मार्ग लिया, और एक और दल ने मुडकर उस देश का मार्ग लिया जो सबोईम नाम तराई की ओर जगल की तरफ है ॥

१९ और इस्त्राएल के पूरे देश में लोहार कही नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था, कि इब्री तलवार वा भाला बनाने न पाए; २० इसलिये सब इस्त्राएली अपने अपने हल की फली, और भाले, और कुल्हाड़ी, और हंसुधा तेज करने के लिये पलिश्तियों के पास जाते थे; २१ परन्तु उनके हंसुधों, फालों, खेती के त्रिशूलों, और कुल्हाड़ियों की धारें, और पैनों की नोकें ठीक करने के लिये वे रैती रखते थे। २२ सो युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे।

२३ और पलिशतियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश की घाटी को गए ॥

(बीशानाब चौ अब और शाऊल का चढ)

१४ एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोनेवाले जबान से कहा, आ, हम उषर पलिशतियों की चौकी के पास चलें। २ शाऊल तो गिबा के सिरे पर मिश्रोन में के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था, और उसके संग के लोग कोई छः सौ थे; ३ और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पीनहास का पोता, और ईकाबोद के भाई, अहीतूब का पुत्र अहिय्याह भी एपोद पहिने हुए संग था। परन्तु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। ४ उन घाटियों के बीच में, जिन से होकर योनातान पलिशतियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनो झलगे पर एक एक नोकीली चट्टान थी, एक चट्टान का नाम तो बोसेस, और दूसरी का नाम सेने था। ५ एक चट्टान तो उत्तर की ओर मिकमाश के साम्हने, और दूसरी दक्खिन की ओर गेबा के साम्हने खड़ी है। ६ तब योनातान ने अपने हथियार ढोनेवाले जबान से कहा, आ, हम उन सतनारहित लोगो की चौकी के पास जाएं; क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे; क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं, कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। ७ उसके हथियार ढोनेवाले ने उस से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर; उषर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। ८ योनातान ने कहा,

सुन, हम उन मनष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएँ। ९ यदि वे हम से बौं कहें, हमारे भाने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें, और उनके पास न चढ़ें। १० परन्तु यदि वे यह कहें, कि हमारे पास चढ़ आओ, तो हम यह जानकर चढ़ें, कि यहोवा उन्हें हमारे साथ कर देगा। हमारे लिये यही चिन्ह हो। ११ तब उन दोनों ने अपने को पलिशतियों की चौकी पर प्रगट किया, तब पलिशती कहने लगे, देखो, इसी लोग उन बिलों में से जहां वे छिप रहे थे निकले आते हैं। १२ फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोनेवाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुम को कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोनेवाले से कहा, भेरे पीछे पीछे चढ़ आ; क्योंकि यहोवा उन्हें इस्त्राएलियों के हाथ में कर देगा। १३ और योनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया, और उसका हथियार ढोनेवाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। और पलिशती योनातान के साम्हने गिरते गए, और उसका हथियार ढोनेवाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। १४ यह पहिला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोनेवाले से हुआ, उस में आधे बीघे * भूमि में बीस एक पुरुष मारे गए। १५ और छावनी में, और मैदान पर, और उन सब लोगों में धरधराहट हुई; और चौकीवाले और नाश करनेवाले भी धरधराने लगे; और भुईंढोल भी हुआ, और

* मूल में—आधे बीघे की रेवारी।

अत्यन्त बड़ी धरधराहट * हुई। १६ और बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरेधों ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती † जाती है, और वे लोग इधर उधर चले जाते हैं ॥

१७ तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा, कि योनातान और उसका हथियार ढोनेवाला यहाँ नहीं है। १८ तब शाऊल ने अहियाह से कहा, परमेश्वर का सन्दूक इधर ला। उस समय तो परमेश्वर का सन्दूक इस्राएलियों के साथ था। १९ शाऊल याजक से बातें कर रहा था, कि पलिशतियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक होता गया; तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच। २० तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए; वहाँ उन्होंने ने क्या देखा, कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है, और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। २१ और जो इन्नी पहिले की नाई पलिशतियों की ओर के थे, और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातान के संग के इस्राएलियों में मिल गए। २२ और जितने इस्राएली पुरुष एग्रेम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि पलिशती भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा करने में लग गए। २३ तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया; और लड़नेवाले बेतावेन की परली और तक चले गए।

* मूल में—परमेश्वर की बरबराहट।

† मूल में—गलती।

२४ परन्तु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह, जो सांभ से पहिले कुछ खाए; इसी रीति मैं अपने शत्रुधों से पलटा ले सकूंगा। तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया। २५ और सब लोग * किसी वन में पहुँचे, जहाँ भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। २६ जब लोग वन में आए तब क्या देखा, कि मधु टपक रहा है, तौभी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुँह तक न ले गया। २७ परन्तु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिये उस ने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया, और अपना हाथ अपने मुँह तक लगाया; तब उसकी आँखों में ज्योति आई। २८ तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता से शपथ धरा के कहा, शापित हो वह, जो आज कुछ खाए। और लोग थके मादे थे। २९ योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को † कष्ट दिया है; देखो, मैं ने इस मधु को थोड़ा सा चखा, और मुझे आँखों से कैसा सूझने लगा। ३० यदि आज लोग अपने शत्रुधों की लूट से जिसे उन्होंने ने पाया मनमाना खाते, तो कितना अच्छा होता; अभी तो बहुत पलिशती मारे नहीं गए। ३१ उस दिन वे मिकमाश से लेकर अय्यालोन तक पलिशतियों को मारते गए; और लोग बहुत ही थक गए। ३२ सो वे लूट पर टूटे, और भेड़-बकरी, और गाय-बैल, और बछड़े लेकर भूमि पर

* मूल में—सारा देश।

† मूल में—देश को।

मारके चणका बाँध लोहू समेत खाने लगे । ३३ जब इसका समाचार शाऊल को मिला, कि लोग लोहू समेत बाँध खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं । तब उस ने उन से कहा, तुम ने तो विश्वास-घात किया है; अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो । ३४ फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिरके उन से कहो, कि अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ, और वहीं बलि करके खाओ; और लोहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो । तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया । ३५ तब शाऊल ने यहोवा के लिये एक वेदी बनवाई; "वह तो पहिली वेदी है जो उस ने यहोवा के लिये बनवाई ॥

३६ फिर शाऊल ने कहा, हम इसी रात को पलित्तियों का पीछा करके उन्हें और तक लूटते रहें; और उन में से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़ें । उन्होंने ने कहा, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे वही कर । परन्तु याजक ने कहा, हम इधर परमेश्वर के समीप आएँ । ३७ तब शाऊल ने परमेश्वर से पुछवाया, कि क्या मैं पलित्तियों का पीछा करूँ? क्या तू उन्हें इस्त्राएल के हाथ में कर देगा? परन्तु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला । ३८ तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुख्य लोगो, इधर आकर बूझो; और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है । ३९ क्योंकि इस्त्राएल के छुड़ानेवाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो, तौभी निश्चय वह मार डाला जाएगा । परन्तु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया ।

४० तब उस ने सारे इस्त्राएलियों से कहा, तुम एक धीर हो, धीर मैं धीर मेरा पुत्र योनातान दूसरी धीर होंगे । लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगे वही कर । ४१ तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इस्त्राएल के परमेश्वर, मृत्यु बात बता * । तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली †, और प्रजा बच गई । ४२ फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो । तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली ‡ । ४३ तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता, कि तू ने क्या किया है । योनातान ने बताया, और उस से कहा, मैं ने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चूस तो लिया है; और देख, मुझे मरना है । ४४ शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इस से भी अधिक करे; हे योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा । ४५ परन्तु लोगो ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए, जिस ने इस्त्राएलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा न होगा ! यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा; क्योंकि आज के दिन उस ने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है । तब प्रजा के लोगो ने योनातान को बचा लिया, और वह मारा न गया । ४६ तब शाऊल पलित्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया; और पलित्तियों भी अपने स्थान को चले गए ॥

* मूल में—सराई दे ।

† मूल में—योनातान और शाऊल पकड़े गए ।

‡ मूल में—योनातान पकड़ा गया ।

४७ जब शाऊल इस्राएलियों के राज्य में स्थिर हो गया*, तब वह मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, और पलिश्ती, अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से, और सोबा के राजाओं से लड़ा, और जहां जहां वह जाता वहां जय पाता था। ४८ फिर उस ने वीरता करके अमालेकियों को जीता, और इस्राएलियों को लूटनेवालों के हाथ से छुड़ाया ॥

४९ शाऊल के पुत्र योनातान, यिशवी, और मलकीश थे, और उसकी दो बेटियों के नाम ये थे, बड़ी का नाम तो मेरब और छोटी का नाम मीकल था। ५० और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनीअम था जो अहीमास की बेटि थी। और उसके प्रधान सेनापति का नाम अन्नोर था जो शाऊल के चचा नेर का पुत्र था। ५१ और शाऊल का पिता कीश था, और अन्नोर का पिता नेर अबीएल का पुत्र था ॥

५२ और शाऊल जीवन भर पलिश्तियों से सग्राम करता रहा; जब जब शाऊल को कोई वीर वा अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, तब तब उस ने उसे अपने पास रख लिया ॥

(शाऊल का दूसरा चरित्र और
अच्छा पद)

१५ शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिये तेरा अभिषेक करने की मुझे भेजा था; इसलिये अब यहोवा की बातें सुन ले। २ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि मुझे चेत आता है कि

* मूल में—शाऊल ने इस्राएल पर राज्य ले लिया।

अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने ने मार्ग में उनका साम्हना किया। ३ इसलिये अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर; क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूधपिउवा, क्या गाय-बैल, क्या भेड़-बकरी, क्या ऊट, क्या गदहा, सब को मार डाल ॥

४ तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया, और उन्हें तलाईम में गिना, और वे दो लाख प्यादे, और दस हजार यहूदी पुरुष भी थे। ५ तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया। ६ और शाऊल ने केनियों से कहा, कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अन्त कर डालू, क्योंकि तुम ने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। ७ तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के साम्हने है अमालेकियों को मारा। ८ और उनके राजा अगग को जीवित पकड़ा, और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। ९ परन्तु अगग पर, और अच्छी से अच्छी भेड़-बकरियों, गाय-बैलों, मोटे पशुओं, और मेम्नो, और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की, और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा; परन्तु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने ने सत्यानाश किया ॥

१० तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुँचा, ११ कि मैं शाऊल को राजा बना के पख़ताता हूँ, क्योंकि उम ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भडका; और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। १२ बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिये सबेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, कि शाऊल कर्मेल को आया था, और अपने लिये एक निशानी खड़ी की, और धूमकर गिलगाल को चला गया है। १३ तब शमूएल शाऊल के पास गया, और शाऊल ने उस से कहा, तुम्हें यहोवा की ओर से आशीष मिले; मैं ने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। १४ शमूएल ने कहा, फिर भेड-बकरियों का यह मिमियाना, और गाय-बैलों का यह बंबाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? १५ शाऊल ने कहा, वे तो भ्रमालेकियों के यहां से आए हैं; अर्थात् प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड-बकरियों और गाय-बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये बलि करने को छोड़ दिया है; और बाकी सब को तो हम ने सत्यानाश कर दिया है। १६ तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा! और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझ से कही है वह मैं तुझ को बताता हूँ। उस ने कहा, कह दे। १७ शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली गोत्रियों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? १८ और यहोवा ने तुझे याज्ञ करने की आज्ञा दी, और

कहा, जाकर उन पापी भ्रमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं, तब तक उन से लडता रह। १९ फिर तू ने किस लिये यहोवा की वह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? २० शाऊल ने शमूएल से कहा, निःसन्देह मैं ने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और भ्रमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, और भ्रमालेकियों को सत्यानाश किया है। २१ परन्तु प्रजा के लोग लूट में से भेड-बकरियों, और गाय-बैलों, अर्थात् सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिये बलि चढ़ाने को ले आए हैं। २२ शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम-बलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है, जितना कि अपनी बात के माने जाने में प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढों की चर्बी में उत्तम है। २३ देख, बलवा करना और भावी कहनेवालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूरतों और गृहदेवताओं की पूजा के तुल्य है। तू ने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिये उस ने तुझे राजा होने के लिये तुच्छ जाना है। २४ शाऊल ने शमूएल से कहा, मैं ने पाप किया है; मैं ने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। २५ परन्तु अब मेरे पाप को क्षमा कर, और मेरे साथ लौट आ, कि मैं यहोवा को दण्डवत् करूँ। २६ शमूएल ने शाऊल से कहा,

मैं तेरे साथ न लौटूंगा; क्योंकि तू ने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल के राजा होने के लिये तुच्छ जाना है। २७ तब शमूएल जाने के लिये घूमा, और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा, और वह फट गया। २८ तब शमूएल ने उस से कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझ से छीन लिया, और तेरे एक पडोसी को जो तुझ से प्रच्छा है दे दिया है। २९ और जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है, कि पछताए। ३० उस ने कहा, मैं ने पाप तो किया है, तौभी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के साम्हने मेरा आदर कर, और मेरे साथ लौट, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दण्डवत् करूँ। ३१ तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया, और शाऊल ने यहोवा को दण्डवत् की ॥

३२ तब शमूएल ने कहा, भ्रमालेकियो के राजा अगग को मेरे पास ले आओ। तब अगग आनन्द के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया, कि निश्चय मृत्यु का दुःख जाता रहा। ३३ शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रिया तेरी तलवार से निर्बंश हुई हैं, वैसे ही तेरी माता स्त्रियो मे निर्बंश होगी। तब शमूएल ने अगग को गिलगाल में यहोवा के साम्हने टुकड़े टुकड़े किया ॥

३४ तब शमूएल रामा को चला गया, और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। ३५ और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिये विलाप

करता रहा। और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था ॥

(राजा का राज्याभिषेक)

१६ और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैं ने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिये तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल; मैं तुझ को बेललेहेमी यिश्ई के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैं ने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिये चुना है। २ शमूएल बोला, मैं क्योंकर जा सकता हूँ? यदि शाऊल मुन लेगा, तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, कि मैं यहोवा के लिये यज्ञ करने को आया हूँ। ३ और यज्ञ पर यिश्ई को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझ को क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊ उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। ४ तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया, और बेललेहेम को गया। उस नगर के पुरनिये धरधराते हुए उस में मिलने को गए, और कहने लगे, क्या तू मित्रभाव से आया है कि नहीं? ५ उस ने कहा, हां, मित्रभाव से आया हूँ; मैं यहोवा के लिये यज्ञ करने को आया हूँ; तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उस ने यिश्ई और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। ६ जब वे आए, तब उस ने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, कि निश्चय जो यहोवा के साम्हने है वही उसका अभिषिक्त होगा। ७ परन्तु यहोवा ने शमूएल

मे कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैं ने उसे भ्रयोग्य जाना है; क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है; मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परन्तु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ८ तब यिशी ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के साम्हने भेजा। और उस ने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। ९ फिर यिशी ने शम्मा को साम्हने भेजा। और उस ने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। १० योंही यिशी ने अपने सात पुत्रों को शमूएल के साम्हने भेजा। और शमूएल यिशी से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। ११ तब शमूएल ने यिशी से कहा, क्या सब लडके भ्रा गए? वह बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया, और वह भेड़-बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशी से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न भ्राए तब तक हम खाने * को न बैठेंगे। १२ तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली भलकती थी, और उसकी आंखें सुन्दर, और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इस का अभिषेक कर यही है। १३ तब शमूएल ने अपना तेल का सीग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया; और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया ॥

१४ और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से

* मूल में—हम चारों ओर।

एक दुष्ट आत्मा उसे घबराते लगा। १५ और शाऊल के कर्मचारियों ने उस से कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। १६ हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे, कि वे किसी अच्छे वीणा बजानेवाले को ढूँढ ले भ्राए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ में बजाए, और तू अच्छा हो जाए। १७ शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो, और उसे मेरे पास लाओ। १८ तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैं ने बेतलेहेमी यिशी के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह बीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है; और यहोवा उसके साथ रहता है। १९ तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशी के पास कहला भेजा, कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़-बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। २० तब यिशी ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा, और कुप्पा भर दाखमधु, और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। २१ और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके साम्हने उपस्थित रहने लगा। और शाऊल उस से बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोनेवाला हो गया। २२ तब शाऊल ने यिशी के पास कहला भेजा, कि दाऊद को मेरे साम्हने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उस से बहुत प्रसन्न हूँ। २३ और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद

वीगा लेकर बजाता; और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उम में से हट जाता था ॥

(दाऊद का मोक्षित को मार दाऊद।)

१७ अब पलिश्तियो ने युद्ध के लिये अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया; और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एये-सदम्मीम में डेरे डाले। २ और शाऊल और इस्त्राएली पुरुषो ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले, और युद्ध के लिये पलिश्तियो के विरुद्ध पानी बान्धी। ३ पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्त्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे, और दोनों के बीच तराई थी। ४ तब पलिश्तियो की छावनी में से एक वीर * मोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसके डील की लम्बाई छ. हाथ एक बिन्ता थी। ५ उसके सिर पर पीतल का टोप था; और वह एक पत्तर का फ़िलम पहिने हुए था, जिसका तौल पाच हजार शेकेल पीतल का था। ६ उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उस से कन्धों के बीच बरछी बन्धी थी। ७ उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोगी के समान थी, और उस भाले का फल छ सौ शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। ८ वह खड़ा होकर इस्त्राएली पातियो को ललकार के बोला, तुम ने यहा आकर लड़ाई के लिये क्यो पानि बान्धी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ, और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो, कि

वह मेरे पास उतर आए। ९ यदि वह मुझ से लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे; परन्तु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूँ, तो तुम को हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। १० फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्त्राएली पातियो को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पाम भेजो *, कि हम एक दूसरे से लड़ें। ११ उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्त्राएलियो का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यन्त डर गए ॥

१२ दाऊद तो यहूदा के बेटलेहेम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था, जिसका नाम यिशी था, और उसके आठ पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। १३ यिशी के तीन बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके तीन पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे वे थे, अर्थात् ज्येष्ठ का नाम एलीआब, दूसरे का अबी-नादाब, और तीसरे का शम्मा था। १४ और सब से छोटा दाऊद था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे, १५ और दाऊद बेटलेहेम में अपने पिता की भंड बकरिया चराने को शाऊल के पाम से आया जाया करता था ॥

१६ वह पलिश्ती तो चालीस दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। १७ और यिशी ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चर्बना, और ये दस रोटिया लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड

* मूल में—दोनों ओर का पुरुष।

* मूल में—मुझे दो।

जा; १८ और पनीर की ये दस टिकिया उनके सहस्रपति के लिये ले जा। और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आना। १९ शाऊल, और वे भाई, और समस्त इस्राएली पुरुष एला नाम तराई में पलिशतियों से लड़ रहे थे। २० और दाऊद बिहान को सवेरे उठ, भेड बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर, उन वस्तुओं को लेकर चला; और जब मेना रणभूमि को जा रही, और संग्राम के लिये ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पडाव पर पहुँचा। २१ तब इस्राएलियों और पलिशतियों ने अपनी अपनी मेना आम्हने-आम्हने करके पाति बान्धी। २२ और दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा, और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। २३ वह उनके साथ बातें कर ही रहा था, कि पलिशतियों की पातियों में से वह बीर, अर्थात् गतवासी गोलियात नाम वह पलिशती योद्धा चढ आया, और पहिले की सी बातें कहने लगा। और दाऊद ने उन्हें सुना। २४ उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यन्त भय खाकर उसके साम्हने से भागे। २५ फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुम ने उस पुरुष को देखा है जो चढा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढा आता है; और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, और अपनी बेटी ब्याह देगा, और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतन्त्र कर देगा। २६ तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास पास खड़े थे पूछा, कि जो

उस पलिशती को मारके इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिये क्या किया जाएगा? वह क्षतनारहित पलिशती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की मेना को ललकारे? २७ तब लोगों ने उस से वही बातें कही, अर्थात् यह, कि जो कोई उसे मारेगा उस में ऐसा ऐसा किया जाएगा। २८ जब दाऊद उन मनुष्यों में बातें कर रहा था, तब उसका बडा भाई एलीआब सुन रहा था; और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहा क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड बकरियों को तू किस के पास छोड आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लडाई देखने के लिये यहा आया है। २९ दाऊद ने कहा, मैं ने अब क्या किया है? वह तो निरी बात थी? ३० तब उस ने उसके पास से मुह फेरके दूसरे के सम्मुख होकर बंसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहिले की नाई उत्तर दिया। ३१ जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई; और उस ने उसे बुलवा भेजा। ३२ तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिशती से लडेगा। ३३ शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिशती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता; क्योंकि तू तो लडका ही है, और वह लडकपन ही से योद्धा है। ३४ दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड बकरियां चराता था; और जब कोई सिंह वा भालू भुड में से मेम्ना उठा ले गया, ३५ तब मैं ने उसका पीछा करके उसे मारा, और मेम्ने को

उसके मुह से छुड़ाया, और जब उस ने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैं ने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। ३६ तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतनारहित पलिशती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उस ने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ३७ फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिस ने मुझे सिंह और भालू दोनों के पजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिशती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। ३८ तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहिनाए, और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, और झिलम उसको पहिनाया। ३९ और दाऊद से उनकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी, और चलने का यत्न किया, उस ने तो उनको न परखा था। इसलिये दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हे पहिने हुए मुझ से चला नहीं जाता, क्योंकि मैं ने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। ४० तब उस ने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से पाच चिकने पत्थर छोटकर अपनी चरवाही की धैली, अर्थात् अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिशती के निकट चला। ४१ और पलिशती चलते चलते दाऊद के निकट पहुँचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। ४२ जब पलिशती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लडका ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, और वह सुन्दर था। ४३ तब पलिशती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ, कि तू लाठी

लेकर मेरे पास आता है? तब पलिशती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ४४ फिर पलिशती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मास आकाश के पक्षियों और बनपशुओं को दे दूंगा। ४५ दाऊद ने पलिशती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परन्तु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली मेना का परमेश्वर है, और उसी को तू न ललकारा है। ४६ आज के दिन यहोवा तुझ को मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझ को मारूंगा, और तेरा सिर तेरे घड से भलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिशती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जन्तुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। ४७ और यह समस्त मण्डली जान लेंगी कि यहोवा तलवार वा भाले के द्वारा जयवन्त नहीं करता, इसलिये कि सग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। ४८ जब पलिशती उठकर दाऊद का साम्हना करने के लिये निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिशती का साम्हना करने के लिये फुर्ती से दौड़ा। ४९ फिर दाऊद ने अपनी धैली में हाथ डालकर उस में से एक पत्थर निकाला, और उसे गोफन में रखकर पलिशती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुह के बल गिर पडा। ५० यो दाऊद ने पलिशती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला; परन्तु दाऊद के हाथ में तलवार न थी।

५१ तब दाऊद दौड़कर पलिशती के ऊपर लडा हुआ, और उमकी तलवार पकड़कर मियान में खींची, और उसको घात किया, और उसका सिर उसी तनवार में काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया पलिशती भाग गए। ५२ इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष नलकार उठे, और गंत * और एक्रोन से फाटको तक पलिशतियों का पीछा करते गए, और घायल पलिशती शारैम के मार्ग में और गन और एक्रोन तक गिरते गए। ५३ तब इस्राएली पलिशतियों का पीछा छोड़कर लौट आए, और उनके डेरो को लूट लिया। ५४ और दाऊद पलिशती का सिर यब्जशलेम में ले गया; और उसके हथियार अपने डेरे में धर लिए ॥

(शाऊल को शत्रुता का कारण और बदतौ)

५५ जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिशती का साम्हना करने के लिये जाने देखा, तब उस ने अपने सेनापति अन्नोर से पूछा, हे अन्नोर, वह जवान किस का पुत्र है? अन्नोर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। ५६ राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किस का पुत्र है। ५७ जब दाऊद पलिशती को मारकर लौटा, तब अन्नोर ने उसे पलिशती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के साम्हने पहुँचाया। ५८ शाऊल ने उस से पूछा, हे जवान, तू किस का पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलेहेमी यिशा का पुत्र हूँ ॥

१८ जब वह शाऊल से बात कर चुका, तब योनातन का मन

* वा तराई ।

दाऊद पर ऐसा लग गया, कि योनातन उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। २ और उम दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा, और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। ३ तब योनातन ने दाऊद से वाचा बान्धी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। ४ और योनातन ने अपना बागा जो वह स्वयं पहिने था उतारकर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिवन्द भी उसको दे दिए। ५ और जहा कही शाऊल दाऊद को भेजता था वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था, और शाऊल ने उसे योद्धाओ का प्रधान नियुक्त किया। और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उस में प्रसन्न थे ॥

६ जब दाऊद उम पलिशती को मारकर लौटा आता था, और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए, आनन्द के साथ गाती और नाचती हुई, शाऊल राजा के स्वागत में निकली। ७ और वे स्त्रिया नाचती हुई एक दूसरी के साथ यह गाती गईं, कि शाऊल ने तो हजारों को,

परन्तु दाऊद ने लाखों को मारा है ॥

८ तब शाऊल अनि क्रोधित हुआ, और यह बात उसको बुरी लगी; और वह कहने लगा, उन्हीं ने दाऊद के लिये तो लाखों और मेरे लिये हजारों ही ठहराया; इसलिये अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है? ९ तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा ॥

१० दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा, और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा; दाऊद प्रति दिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था। और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था; ११ तब शाऊल ने यह सोचकर, कि मैं ऐसा मारुंगा कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में घस जाए, भाले को चलाया, परन्तु दाऊद उसके साम्हने से दो बार हट गया। १२ और शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से झलग हो गया था। १३ शाऊल ने उसको अपने पास से झलग करके सहस्र-पति किया, और वह प्रजा के साम्हने आया जाया करता था। १४ और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था; और यहोवा उसके साथ साथ था। १५ और जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उस से डर गया। १६ परन्तु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे; क्योंकि वह उनके देखते आया जाया करता था ॥

१७ और शाऊल ने यह सोचकर, कि मेरा हाथ नहीं, वरन पलिशितियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उस से कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेंटी मेरब को तुम्हें ब्याह दूंगा, इतना कर, कि तू मेरे लिये बीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। १८ दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ, और मेरा जीवन क्या है, और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है, कि मैं राजा का दामाद हो जाऊँ? १९ जब समय आ गया कि शाऊल की

बेंटी मेरब दाऊद से ब्याही जाए, तब वह महोलाई भद्रीएल में ब्याही गई। २० और शाऊल की बेंटी मीकल दाऊद में प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला, तब वह प्रसन्न हुआ। २१ शाऊल तो सोचता था, कि वह उसके लिये फन्दा हो, और पलिशितियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो तू अवश्य ही * मेरा दामाद हो जाएगा। २२ फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, कि दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो, कि सुन, राजा तुम्ह से प्रसन्न है, और उसके सब कर्मचारी भी तुम्ह से प्रेम रखते हैं; इसलिये अब तू राजा का दामाद हो जा। २३ तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही। परन्तु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? २४ जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया, कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही। २५ तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यो कहो, कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिशितियों की एक सी खलड़ियां चाहता है, कि वह अपने शत्रुओं से पलटा ले। शाऊल की मनसा यह थी, कि पलिशितियों से दाऊद को मरवा डाले। २६ जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताईं, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब ब्याह के दिन कुछ रह गए, २७ तब दाऊद अपने जनो को संग लेकर चला, और पलिशितियों के दो

* मूल में—आज दूसरी रीति पर तू।

सी पुरुषों को मारा; तब दाऊद उनकी खलदियों को ले आया, और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिये कि वह राजा का दामाद हो जाए। और शाऊल ने अपनी बेटी मीकल को उसे ब्याह दिया। २८ जब शाऊल ने देखा, और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ है, और मेरी बेटी मीकल उस में प्रेम रखती है, २९ तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। और शाऊल सदा के लिये दाऊद का बंदी बन गया ॥

३० फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए तब तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई; इस से उसका नाम बहुत बड़ा हो गया * ॥

१९ और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों में दाऊद को मार डालने की चर्चा की। परन्तु शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद में बहुत प्रसन्न था। २ और योनातन ने दाऊद को बताया, कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है; इसलिये तू बिहान को सावधान रहना, और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, ३ और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उस से तेरी चर्चा करूंगा; और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। ४ और योनातन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उस से कहा, कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो; क्योंकि उस ने तेरा कुछ अपराध

नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं; ५ उस ने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्त्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनन्दित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? ६ तब शाऊल ने योनातन की बात मानकर यह शपथ खाई, कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाएगा। ७ तब योनातन ने दाऊद को बुलाकर य समस्त बाने उसको बताई। फिर योनातन दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वह पहिले की नाई उसके साम्हने रहने लगा ॥

८ तब फिर लड़ाई होने लगी, और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लडा, और उन्हें बड़ी मार में मारा, और वे उसके साम्हने से भाग गए। ९ और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था; और दाऊद हाथ में बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढा। १० और शाऊल ने चाहा, कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधने हुए भीत में धस जाए; परन्तु दाऊद शाऊल के साम्हने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया। और दाऊद भागा, और उस रात को बच गया। ११ और शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिये भेजे कि वे उसकी घात में रहे, और बिहान को उसे मार डाले, तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, कि यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए, तो बिहान को मारा जाएगा। १२ तब मीकल ने दाऊद को खिडकी से उतार दिया;

* मूल में—अनमोल।

घोर वह भाग कर बच निकला। १३ तब मीकल ने गृहदेवताओं को ले चारपाई पर लिटाया, और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढा दिए। १४ जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिये दूत भेजे, तब वह बोली, वह तो बीमार है। १५ तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिये भेजा, और कहा, उसे चारपाई ममेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालू। १६ जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृहदेवता पड़े हैं, और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। १७ सो शाऊल ने मीकल से कहा, तू ने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तू ने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है? मीकल ने शाऊल से कहा, उस ने मुझ से कहा, कि मुझे जाने दे; मैं तुम्हें क्यों मार डालू।

१८ और दाऊद भागकर बच निकला, और रामा में शमूएल के पास पहुँचकर जो कुछ शाऊल ने उस से किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शमूएल जाकर नबायोत * में रहने लगे। १९ जब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत * में है, २० तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिये दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए, और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा, और वे भी नबूवत करने लगे। २१ इसका समाचार

पाकर शाऊल ने घोर दूत भेजे, और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे, और वे भी नबूवत करने लगे। २२ तब वह आप ही रामा को चला, और उस बड़े गड़हे पर जो मेकू में है पहुँचकर पूछने लगा, कि शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत * में हैं। २३ तब वह उधर, अर्थात् रामा के नबायोत * को चला; और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा, और वह रामा के नबायोत * को पहुँचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। २४ और उस ने भी अपने वस्त्र उतारे, और शमूएल के साम्हने नबूवत करने लगा, और भूमि पर गिरकर दिन और रात नङ्गा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, कि क्या शाऊल भी नबियों में से है?

(दाऊद का भागना और शाऊल के घर के मारे उधर उधर घूमना।)

२० फिर दाऊद रामा के नबायोत * से भागा, और योनातन के पास जाकर कहने लगा, मैं ने क्या किया है? मुझ से क्या पाप हुआ? मैं ने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है, कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? २ उस ने उस से कहा, ऐसी बात नहीं है; तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझ को बिना जताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा; फिर वह ऐसी बात को मुझ से क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ३ फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे

* अर्थात् कई वास्तवान।

* अर्थात् कई वास्तवान।

अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है; और वह सोचता होगा, कि योनातन इस बात को न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परन्तु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, नि सन्देह, मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अन्तर है। ४ योनातन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे नियम कर्णगा। ५ दाऊद ने योनातन से कहा, सुन कल नया चाँद होगा, और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूँ, परन्तु तू मुझे बिदा कर, और मैं परसो मास तक मैदान में छिपा रहूँगा। ६ यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिन्ता करे, तो कहना, कि दाऊद ने अपने नगर बेतलेहेम को शीघ्र जान के लिये मुझ से बिनती करके छूटी मागी है, क्योंकि वहाँ उसके ममस्त कुल के नियम वार्षिक यज्ञ है। ७ यदि वह यो कहें, कि अच्छा। तब तो तेरे दाम के लिये कुशल होगा, परन्तु यदि उमका क्रोध बहुत भडक उठे, तो जान लेना कि उस ने बुराई ठानी है। ८ और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तू ने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बन्धवाई है। परन्तु यदि मुझ से कुछ अपराध हुआ हो, तो तू आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुँचाए? ९ योनातन ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझ से बुराई करनी ठानी है, तो क्या मैं तुझ को न बताता? १० दाऊद ने योनातन से कहा, यदि तेरा पिता तुझ को कठोर उत्तर दे, तो कौन मुझे बताएगा? ११ योनातन ने दाऊद से कहा, चलो, हम मैदान को

निकल जाए। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए।

१२ तब योनातन दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल वा परसो इसी समय अपने पिता का भेद पाऊँ, तब यदि दाऊद की भलाई देखूँ, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुझ न बताऊँगा? १३ यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो, और मैं तुझ पर यह प्रगट करके तुझे बिदा न करूँ कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन से ऐसा ही वरन इस से भी अधिक करे। और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा। १४ और न केवल जब तक मैं जीवित रहूँ, तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसा करना, कि मैं न मरूँ, १५ परन्तु मेरे घराने पर मैं भी अपनी कृपादृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। १६ इस प्रकार योनातन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बन्धवाई, कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा लें। १७ और योनातन दाऊद से प्रेम रखता था, और उस ने उमको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उस से अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। १८ तब योनातन ने उस से कहा, कल नया चाँद होगा, और तेरी चिन्ता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी। १९ और तू तीन दिन के वीतने पर तुरन्त आना, और उस स्थान पर जाकर जहाँ तू उम काम के दिन छिपा था, अर्थात् एजेल नाम पत्थर के पास रहना। २० तब

मे उमकी झलग, मानो अपने किमी ठहराए हुए चिन्ह पर तीन तीर चलाऊंगा। २१ फिर मैं अपने टहलुए छोकरे को यह कहकर भेजूंगा, कि जाकर तीरो को दूढ ले आ। यदि मैं उम छोकरे से माफ माफ कहूँ, कि देख, तीर इधर नेरी इम झलग पर है, तो तू उसे ले आ, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे लिये कुशल को छोड और कुछ न होगा। २२ परन्तु यदि मैं छोकरे से यो कहूँ, कि सुन, तीर उधर तेरे उस झलग पर है, तो तू चला जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। २३ और उस बात के विषय जिमकी चर्चा मैं ने और तू ने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे ॥

२४ इसलिये दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चाँद हुआ, तब राजा भोजन करने को बैठा। २५ राजा तो पहिले की नाई अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातन खड़ा हुआ, और अन्नर शाऊल के निकट बैठा, परन्तु दाऊद का स्थान खाली रहा। २६ उस दिन तो शाऊल यह मोचकर चुप रहा, कि इमका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, नि सन्देह शूढ न होगा। २७ फिर नये चाँद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन से पूछा, क्या कारण है कि यिशाँ का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था, और न आज ही आया है? २८ योनातन ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेतलेहेम जाने के लिये मुझ से बिनती करके छुट्टी मागी, २९ और कहा, मुझ जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है, और मेरे भाई ने मुझ को

वहा उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयो से भेट कर आऊँ। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। ३० तब शाऊल का कोप योनातन पर भडक उठा, और उस ने उस से कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशाँ के पुत्र पर लगा है? इसी मे तेरी आज्ञा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। ३१ क्योंकि जब तक यिशाँ का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिये अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। ३२ योनातन ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उस से कहा, वह क्यों मारा जाए? उम ने क्या किया है? ३३ तब शाऊल ने उसको मारने के लिये उस पर भाला चलाया, इससे योनातन ने जान लिया, कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। ३४ तब योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया, और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिये कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था ॥

३५ बिहान का योनातन एक छोटा लडका सग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। ३६ तब उस ने अपने छोकरे से कहा, दौडकर जो जो तीर में चलाऊ उन्हें दूढ ले आ। छोकरा दौडता ही था, कि उस ने एक तीर उसके परे चलाया। ३७ जब छोकरा

योनातन के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातन ने उसके पीछे से पुकारके कहा, तीर तो तेरी परली ओर है। ३८ फिर योनातन ने छोकरे के पीछे से पुकारके कहा, बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातन का छोकरा तीरो कचे बटोरके अपने स्वामी के पास ले आया। ३९ इसका भेद छोकरा तो कुछ न जानता था, केवल योनातन और दाऊद उस बात को जानते थे। ४० और योनातन ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा, जा, इन्हे नगर को पहुंचा। ४१ ज्योंही छोकरा चला गया, त्योही दाऊद दक्खिन दिशा की अलग से निकला, और भूमि पर अधे मुह गिरके तीन बार दण्डवत् की, तब उन्हो ने एक दूसरे को चूमा, और एक दूसरे के साथ रोए, परन्तु दाऊद का रोना अधिक था। ४२ तब योनातन ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहके यहोवा के नाम की शपथ खाई है, कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य, और मेरे और तेरे वश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया, और योनातन नगर में गया ॥

२१ और दाऊद नोब को अहीमेलक याजक के पाम आया; और अहीमेलक दाऊद से भेट करने को बरथराता हुआ निकला, और उस में पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है, और तेरे साथ कोई नहीं? २ दाऊद ने अहीमेलक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझ से कहा, जिस काम को मैं तुम्हें भेजता, और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, वह किसी पर प्रकट न होने पाए;

और मैं ने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। ३ अब तेरे हाथ में क्या है? पांच रोटी, वा जो कुछ मिले उमे मेरे हाथ में दे। ४ याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पाम साधारण रोटी तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी है; इतना हो कि वे जवान स्त्रियो से अलग रहे हों। ५ दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उस से कहा, मच है कि हम तीन दिन से स्त्रियो में अलग है, फिर जब मैं निकल आया, तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे; यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। ६ तब याजक ने उमको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहा न थी, केवल भेट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी, कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। ७ उसी दिन वहा दोग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था. वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। ८ फिर दाऊद ने अहीमेलक से पूछा, क्या यहा तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ, और न अपना कोई हथियार ही लाया। ९ याजक ने कहा, हां, पलिशती गोलियात जिसे तू ने एला तराई में घात किया उमकी तलवार कपडे में लपेटेी हुई एपोद के पीछे धरी है; यदि तू उमे लेना चाहे, तो ले ले, उमे छोड और कोई यहां नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं; वही मुझे दे ॥

१० तब दाऊद चला, और उसी दिन शाऊल के डर के आगे भागकर गत के

राजा आकीश के पास गया। ११ और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था, कि

शाऊल ने हजारों को,

और दाऊद ने लाखों को मारा है?

१२ दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी, और गत के राजा आकीश में अत्यन्त डर गया। १३ तब वह उनके साम्हने दूसरी चाल चली, और उनके हाथ में पडकर बौडहा, अर्थात् पागल बन गया; और फाटक के किवाड़ों पर लकीरे खींचते, और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर वहांने लगा। १४ तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पाम क्यों लाए हो? १५ क्या मेरे पाम बावलो की कुछ घटी है, कि तुम उसको मेरे साम्हने बाबलापन करने के लिये लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा?

२२ और दाऊद वहां से चला, और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया, और यह सुनकर उसके भाई, वरन उसके पिता का ममस्त घराना वहां उसके पास गया। २ और जिनने सकट में पड़े थे, और जितने ऋणी थे, और जितने उदाम थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए; और वह उनका प्रधान हुआ। और कोई चार सौ पुरुष उसके साथ हो गए।

३ वहां से दाऊद ने मोआब के मिसपे को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर

रहने दो, जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिये क्या करेगा। ४ और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा, तब तक वे उसके पास रहे। ५ फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह; चल, यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के बन में गया।

६ तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके मगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर, एक भाऊ के पेड़ के तले, हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था, और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। ७ तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियो, सुनो, क्या यिषी का पुत्र तुम सभी को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सभी को सहस्रपति और गतपति करेगा? ८ तुम सभी ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिर्श के पुत्र से वाचा बान्धी, तब किसी ने मुझ पर प्रगट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिये शोकित होकर मुझ पर प्रगट नहीं किया, कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा धान लगाने को उभारा है, जैसा आज के दिन है। ९ तब एदोमी दोगे ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैं ने तो यिर्श के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा, १० और उस ने उसके लिये यहोवा में पूछा और उसे भोजन वस्तु दी, और पलिशती गोलियात

की तलवार भी दी। ११ श्रीर राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलैक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को, अर्थात् नोब में रहनेवाले याजकों को बुलवा भेजा; और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, १२ तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र, सुन, वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा? १३ शाऊल ने उस से पूछा, क्या कारण है कि तू और यिषै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तू ने उसे रोटी और तलवार दी, और उसके लिये परमेश्वर से पूछा भी, जिस से वह मेरे विरुद्ध उठे, और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है? १४ अहीमेलैक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वासयोग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है, और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता, और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। १५ क्या मैं ने आज ही उसके लिये परमेश्वर से पूछना आरम्भ किया है? वह मुझ से दूर रहे! राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब पषेडों के विषय कुछ भी * नहीं जानता। १६ राजा ने कहा, हे अहीमेलैक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। १७ फिर राजा ने उन पहरेदारों से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, कि मुझे और यहोवा के याजको को मार डालो; क्योंकि उन्होंने ने भी दाऊद की सहायता की है, और उसका भागना

जानने पर भी मुझ पर प्रगट नहीं किया। परन्तु राजा के मेवक यहोवा के याजको को मारने के लिये हाथ बढाना चाहते थे। १८ तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुडकर याजको को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुडकर याजको को मारा, और उस दिन सनीवाला एपोद पहिने हुए पचासी पुरुषों को घात किया। १९ और याजको के नगर नोब को उस ने स्त्रियो-पुरुषों, और बालबच्चों, और दूधपिउवों, और बैलों, गदहों, और भेड-बकरियों समेत तलवार से मारा। २० परन्तु अहीतूब के पुत्र अहीमेलैक का एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला, और दाऊद के पास भाग गया। २१ तब एब्यातार ने दाऊद को बताया, कि शाऊल ने यहोवा के याजको को बध किया है। २२ और दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग बहा था, उसी दिन मैं ने जान लिया, कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ। २३ इसलिये तू मेरे साथ निडर रह, जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है; परन्तु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी ॥

२३ और दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं, और खलिहानों को लूट रहे हैं। २ तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारू? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा, और पलिश्तियों को मार के कीला को बचा। ३ परन्तु दाऊद के जनों ने उस से कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी

* मूल में—छोटा और बड़ा।

डरते रहते हैं, यदि हम कीला जाकर पलिशितियों की सेना का साम्हना करे, तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे ? ४ तब दाऊद ने यहोवा में फिर प्रार्थना की, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बान्धकर कीला को जा, क्योंकि मैं पलिशितियों को तेरे हाथ में कर दूंगा । ५ इसलिये दाऊद अपने जनो को सग लेकर कीला को गया, और पलिशितियों से लड़कर उनके पशुओं को हाक लाया, और उन्हें बड़ी मार से मारा । यो दाऊद ने कीला के निवासियों को बचाया । ६ जब अहीमेलक का पुत्र एब्द्यातार दाऊद के पाम कीला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था ।।

७ तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है । और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेडेवाले नगर में घुसकर बन्द हो गया है । ८ तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लडाई के लिये बुलवाया, कि कीला को जाकर दाऊद और उसके जनो को घेर ले । ९ तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिये उस ने एब्द्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ । १० तब दाऊद ने कहा, हे इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नाश करने को आना चाहता है । ११ क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे ? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है, वैसे ही शाऊल आएगा ? हे इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता । यहोवा ने कहा, हा, वह आएगा । १२ फिर दाऊद ने

प्रार्थना की, क्या कीला के लोग मुझे और मेरे जनो को शाऊल के वश में कर देंगे ? यहोवा ने कहा, हा, वे कर देंगे । १३ तब दाऊद और उसके जन जो कोई छ सौ थे कीला में निकल गए, और इधर उधर जहा कही जा सके वहा गए । और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला में निकल आया है, तब उस ने वहा जाने की मनसा छोड दी ।।

१४ तब दाऊद तो जगल के गढों में रहने लगा, और पहाडी देश के जीप नाम जगल में रहा । और शाऊल उसे प्रति दिन बूढता रहा, परन्तु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पडने दिया ।

१५ और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राग की खोज में निकला है । और दाऊद जीप नाम जगल के होरेश नाम स्थान में था, १६ कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में गया, और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढस दिलाया * । १७ उस ने उस से कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पडगा, और तू ही इस्त्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूंगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है । १८ तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर † आपस में वाचा बान्धी, तब दाऊद होरेश में रह गया, और योनातन अपने घर चला गया । १९ तब जीपी लोग गिवा म शाऊल के पास जाकर कहने लगे दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढों में, अर्थात् उस हकीला नाम पहाडी पर छिपा रहता

* मूल में—परमेश्वर ने उसके हाथ बली किए ।

† मूल में—यहोवा के साम्हने ।

है, जो यशीमोन के दक्खिन की ओर है। २० इसलिये अब, हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है, तो आ; और उसको राजा के हाथ में पकडवा देना हमारा काम होगा। २१ शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुम ने मुझ पर दया की है। २२ तुम चलकर और भी निश्चय कर लो; और देख भालकर जान लो, और उसके भट्टे का पता लगा लो, और बूझो कि उसको वहा किमने देखा है, क्योंकि किमी ने मुझ से कहा है, कि वह बडी चतुराई से काम करता है। २३ इसलिये जहा कही वह छिपा करता है उन सब स्थानो को देख देखकर पहिचानो, तब निश्चय करके मेरे पाम लौट आना। और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यदि वह उस देश में कही भी हो, तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूढ निकालूंगा। २४ तब वे चलकर शाऊल से पहिले जीप को गए। परन्तु दाऊद अपने जनों समेत माओन नाम जगल में चला गया था, जो अरावा में यशीमोन के दक्खिन की ओर है। २५ तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतरके माओन जगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। २६ शाऊल तो पहाड की एक ओर, और दाऊद अपने जनों समेत पहाड की दूसरी ओर जा रहा था; और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिये घेरा बनाना चाहता था, २७ कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती

से चला आ; क्योंकि पलिशितयों ने देश पर चढाई की है। २८ यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोडकर पलिशितयों का साम्हना करने को चला; इस कारण उस स्थान का नाम सेलाहम्महलकोत * पडा। २९ वहां में दाऊद चढकर एनगदी के गढों में रहने लगा ॥

२४

जब शाऊल पलिशितयों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला, कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। २ तब शाऊल ममस्त इस्त्राएलियो में से तीन हजार को छाटकर दाऊद और उसके जनों को बनैले बकरों की चट्टानो पर खोजने गया। ३ जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहा एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। और उसी गुफा के कोनो में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। ४ तब दाऊद के जनों ने उस से कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझ से कहा था, कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, कि तू उस से मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। ५ इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया †। ६ और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करू, कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ७ ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को बुडकी लगाई, और उन्हें शाऊल

* अर्थात् बच निकलने का ठग।

† मूल में—दाऊद के मन ने उसे मारा।

की हानि करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। ८ उसके पीछे दाऊद भी उठकर गुफा में निकला, और शाऊल को पीछे से पुकार के बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर मिर झुकाकर दण्डवत् की। ९ और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं, कि दाऊद तेरी हानि चाहता है उनकी तू क्यों सुनता है? १० देख, आज तू ने अपनी आँखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी किसी ने तो मुझ से तुझे मारने को कहा था, परन्तु मुझे तुझ पर तरस आया; और मैं ने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा; क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ११ फिर, हे मेरे पिता, देख, अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख; मैं ने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परन्तु तुझे घात न किया; इस से निश्चय करके जान ले, कि मेरे मन * में कोई बुराई वा अपराध का सोच नहीं है। और मैं ने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परन्तु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। १२ यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझ से मेरा पलटा ले, परन्तु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। १३ प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परन्तु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। १४ इस्राएल का राजा किस का पीछा करने को निकला है? और किस के पीछे पड़ा है? एक

* शूल में—हाथ।

मरे कुत्ते के पीछे! एक पिस्तूल के पीछे! १५ इसलिये यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकद्दमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। १६ दाऊद शाऊल से ये बातें कही चुका था, कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। १७ फिर उस ने दाऊद से कहा, तू मुझ में अधिक धर्मी है; तू ने तो मेरे साथ भलाई की है, परन्तु मैं ने तेरे साथ बुराई की। १८ और तू ने आज यह प्रगट किया है, कि तू ने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तू ने मुझे घात न किया। १९ भला! क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिये जो तू ने आज मेरे साथ किया है, इसका अर्द्धा बदला यहोवा तुझे दे। २० और अब, मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा, और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। २१ अब मुझ से यहोवा की शपथ खा, कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश न करूंगा, और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगा। २२ तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया; और दाऊद अपने जनों समेत गदों में चला गया।।

२५ और शमूएल मर गया; और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिये छाती पीटी, और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जगल को चला गया।।

२ माधोन में एक पुरुष रहता था जिसका माल कर्मेल में था। श्रीर वह पुरुष बहुत बड़ा था, श्रीर उमके तीन हज़ार भेडे, श्रीर एक हज़ार बकरिया थी, श्रीर वह अपनी भेडो का ऊन कतर रहा था। ३ उस पुरुष का नाम नाबाल, श्रीर उमकी पत्नी का नाम अर्बीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान श्रीर रूपवती थी, परन्तु पुरुष कठोर, श्रीर बने बुरे काम करनेवाला था, वह तो कालेवबशी था। ४ जब दाऊद ने जगल में समाचार पाया, कि नाबाल अपनी भेडो का ऊन कतर रहा है, ५ तब दाऊद ने दस जवानो को वहा भेज दिया, श्रीर दाऊद ने उन जवानो से कहा, कि कर्मेल में नाबाल के पास जाकर मेरी आर में उसका कुशलक्षेम पूछो। ६ श्रीर उम में यो कहा, कि तू चिरजीव रहे, तेरा कल्याण हो, श्रीर तेरा घराना कल्याण से रहे, श्रीर जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। ७ मैं ने सुना है, कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगो के पास रहे, श्रीर न तो हम ने उनकी कुछ हानि की * , श्रीर न उनका कुछ खोया गया। ८ अपने जवानो से यह बात पूछ ले, श्रीर वे तुझ को बताएंगे। सा इन जवानो पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हम तो आनन्द के समय में आए हैं, इसलिये जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासो श्रीर अपने बेटे दाऊद को दे। ९ ऐसी ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे †। १० नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उन से कहा, दाऊद कौन है ? यिहीं

का पुत्र कौन है ? आज कल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। ११ क्या मैं अपनी रोटी-पानी श्रीर जो पशु मैं ने अपने कतरनेवालो के लिये मारे हैं लेकर ऐसे लोगो को दे दूँ जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं ? १२ तब दाऊद के जवानो ने लौटकर अपना मार्ग लिया, श्रीर लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। १३ तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बान्ध लो। तब उन्हो ने अपनी अपनी तलवार बान्ध ली, श्रीर दाऊद ने भी अपनी तलवार बान्ध ली, श्रीर कोई चार सौ पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले, श्रीर दो सौ सामान के पास रह गए। १४ परन्तु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अर्बीगेल को बताया, कि दाऊद ने जगल में हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिये दूत भेजे थे श्रीर उम ने उन्हें ललकार दिया। १५ परन्तु वे मनुष्य हम में बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे, श्रीर जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई * , श्रीर न हमारा कुछ खोया गया, १६ जब तक हम उनके साथ भेड-बकरिया चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड बने रहे। १७ इसलिये अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हो ने हमारे स्वामी को श्रीर उसके ममस्त घराने की हानि ठानी होगी, वह तो ऐसा दुष्ट है कि उस से कोई बोल भी नहीं सकता। १८ तब अर्बीगेल ने फुर्ती में दो सौ रोटी, श्रीर दो कुप्पी दालमधु,

* मूल में—उनको लज्जवाया।

† मूल में—विभ्राम किया।

* मूल में—न हम लज्जवाय गए।

श्रीर पाच भेडियो का मास, श्रीर पाच सभ्रा * भूना हुआ भनाज, श्रीर एक सौ गुच्छे किगमिश, श्रीर अजीरो की दो सौ टिकिया नंकर गदहो पर लदवाई। १६ श्रीर उस ने अपने जवानो मे कहा, तुम मेरे भागे भागे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ, परन्तु उम ने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। २० वह गदहे पर चढ़ी हुई पहाड की झाड में उतरी जाती थी, श्रीर दाऊद अपने जनों समेत उसके साम्हने उतरा आता था, श्रीर वह उनको मिली। २१ दाऊद ने तो सोचा था, कि मैं ने जो जगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी न खोया, यह नि सन्देह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उम ने भलाई के बदले मुझ से बुराई ही की है। २२ यदि बिहान को उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगो में से एक लडके को भी मैं जीवित छोड़ूँ, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओ मे ऐसा ही, वरन इस से भी अधिक करे। २३ दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गदहे पर से उतर पडी, श्रीर दाऊद के सम्मुख मुह के बल भूमि पर गिरकर दगडवत् की। २४ फिर वह उसके पाव पर गिरके कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही मिर पर हो, तेरी दामी तुझ मे कुछ कहना चाहती है, श्रीर तू अपनी दासी की बातो को सुन ले। २५ मेरा प्रभु उम दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उमका नाम है वैसा ही वह आप है, उमका नाम तो नाबाल † है, श्रीर मचमुच उम में मूढता पाई जाती है, परन्तु मुझ तेरी दासी

ने अपने प्रभु के जवानो को जिन्हे तू ने भेजा था न देखा था। २६ श्रीर अब, हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ श्रीर तेरे जीवन की शपथ, कि यहोवा ने जो तुम्हे खून से श्रीर अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने में रोक रखा है, इसलिये अब तेरे शत्रु श्रीर मेरे प्रभु की हानि के चाहनेवाले नाबाल ही के समान ठहरे। २७ श्रीर अब यह भेट जो तेरी दामी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानो को दी जाण जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। २८ अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा श्रीर स्थिर करेगा, इसलिये कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लडता है, श्रीर जन्म भर तुझ मे कोई बुराई नही पाई जाएगी। २९ श्रीर यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने श्रीर तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तौभी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवनरूपी गठरी में बन्धा रहेगा, श्रीर तेरे शत्रुओ के प्राणो को वह मानो गोफन में रखकर फेक देगा। ३० इसलिये जब यहोवा मेरे प्रभु के लिये यह समस्त भलाई करेगा जो उस ने तेरे विषय में कही है, श्रीर तुम्हे इस्त्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, ३१ तब तुम्हे इस कारण पछताना न होगा, वा मेरे प्रभु का हृदय पीडित न * होगा कि तू ने अकारण खून किया, श्रीर मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु में भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। ३२ दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्त्राएल का परमेश्वर

* यह विशेष नपुंज का नाम है।

† अर्थात् मूढ।

* मूल में—हृदय का ठोकर खाना।

यहोवा धन्य है, जिस ने आज के दिन मुझ से भेट करने के लिये तुझे भेजा है ! ३३ और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है, कि तू ने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया है। ३४ क्योंकि सचमुच इन्शाएल का परमेश्वर यहोवा, जिस ने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझ से भेट करने को न आती, तो नि मन्देह बिहान को उजियाला होने तक नाबाल का कोई लडका भी न बचता। ३५ तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिये लाई थी, फिर उस ने उस ने कहा, अपन घर कुशल मे जा, मुन, मे तेरी बात मानी है और तेरी बिनती ग्रहण कर ली है। ३६ तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई, और क्या देखती है, कि वह घर मे राजा की सी जेवनार कर रहा है। और नाबाल का मन मगन है, और वह नशे में ध्रति चूर हो गया है, इसलिये उस ने भोर के उजियाले होने से पहिले उस से कुछ भी* न कहा। ३७ बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया, तब उसके मन का हियाव जाता रहा †, और वह पत्थर मा मुन्न हो गया। ३८ और दस दिन के पश्चात् यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा, कि वह मर गया। ३९ नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिस ने नाबाल के साथ

* मूल में—छोटा और बरा कुछ।

† मूल में—उसका हृदय उसके अन्तर में मर गया।

मेरी नामघराई का मुकद्दमा लडकर अपने दाम को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उमी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिये भेजा कि वे उस से उसकी पत्नी होने की बातचीत करे। ४० तो जब दाऊद के सेवक कर्मेल को अबीगैल के पास पहुंचे, तब उस से कहने लगे, कि दाऊद ने हमे तेरे पास इसलिये भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। ४१ तब वह उठी, और मुह के बल भूमि पर गिर दगडवत् करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवको के चरग घोने के लिये लीडी बने। ४२ तब अबीगैल फुर्ती मे उठी, और गदहे पर चढी, और उसकी पाच महेलिया उसके पीछे पीछे हो ली, और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई, और उसकी पत्नी हो गई। ४३ और दाऊद ने यिज्जेल नगर की अहिनोअम को भी ब्याह लिया, तो वे दोनो उसकी पत्निया हुई। ४४ परन्तु शाऊल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मीकल को लेश के पुत्र गल्लीमवामी पलनी को दे दिया था ॥

२६ फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाडी पर जो यशीमोन के माम्हने है छिपा नहीं रहता ? २ तब शाऊल उठकर इन्शाएल के तीन हज्जार छाटे हुए थोडा सग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जगल मे खाजे। ३ और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नाम पहाडी पर जो यशीमोन के माम्हने है डाली। परन्तु दाऊद जगल मे रहा, और उस ने जान लिया, कि शाऊल मेरा पीछा करने को जगल मे

आया है; ४ तब दाऊद ने भेदियो को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच भ्रा गया है। ५ तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहा शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहा शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था, शाऊल तो गाड़ियो की आड में पड़ा था, और उसके लोग उसके चारो ओर डेरे डाले हुए थे। ६ तब दाऊद ने हिन्ती अहीमेलेक और जरूयाह के पुत्र योआव के भाई अबीशी से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन चलेगा? अबीशी ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। ७ सो दाऊद और अबीशी रातो रात उन लोगो के पास गए, और क्या देखते हैं, कि शाऊल गाड़ियो की आड में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारो ओर पड़े हुए हैं। ८ तब अबीशी ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिये अब मैं उसको एक बार ऐमा मारू कि भाला उमें बेधता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझ को उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। ९ दाऊद ने अबीशी से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? १० फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ यहोवा ही उसको मारेगा, वा वह अपनी मृत्यु में मरेगा *, वा वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। ११ यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के

* मूल में—उसका दिन आएगा और वह मरेगा।

अभिषिक्त पर बड़ाऊ, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की भारी उठा ले, और हम यहा से चले जाएं। १२ तब दाऊद ने भाले और पानी की भारी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया, और वे चले गए। और किसी ने इसे न देखा, और न जाना, और न कोई जागा; क्योंकि वे सब इस कारण मोए हुए थे, कि यहोवा की ओर में उन में भारी नीद समा गई थी। १३ तब दाऊद परली ओर जाकर दूर के पहाड की चांटी पर खड़ा हुआ, और दोनों के बीच बड़ा अन्तर था, १४ और दाऊद ने उन लोगो को, और नेर के पुत्र अब्नेर को पुकार के कहा, हे अब्नेर, क्या तू नही मुनता? अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? १५ दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नही है? इस्राएल में तेरे तुल्य कौन है? तू ने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नही की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने घुसा था। १६ जो काम तू ने किया है वह अच्छा नही। यहोवा के जीवन की शपथ तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुम ने अपने स्वामी, यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नही की। और अब देख, राजा का भाला और पानी की भारी जो उसके सिरहाने थी वे कहा है? १७ तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहिचानकर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हा, मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। १८ फिर उस ने कहा, मेरा प्रभु अपने दाम का पीछा क्यों करता है? मैं ने क्या किया है? और मुझ से कौन सी बुराई हुई

है * ? १६ अब मेरा प्रभु राजा, अपने दास की बातें सुन लें। यदि यहोवा ने तुम्हें मेरे विरुद्ध उसकाया हा, तब तो वह भेंट ग्रहण करे †, परन्तु यदि धादमियों ने ऐसा किया हो, तो वे यहोवा की ओर से शापित हों, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में न रहूँ, और उन्होंने ने कहा है, कि जा, पराए देवताओं की उपासना कर। २० इसलिये अब मेरा लोहूँ यहोवा की आखों की ओट म भूमि पर न बहने ‡ पाएँ, इस्राएल का राजा तो एक पिस्सू बूढ़ने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर नीतर का अहरे करे। २१ शाऊल ने कहा, मैं ने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, छोट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूँगा, सुन, मैं ने मूर्खता की, और मुझ में बड़ी भूल हुई है। २२ दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इमे ले जाए। २३ यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और मच्चाई का फल देगा, देख, आज यहोवा ने तुम्ह को मेरे हाथ में कर दिया था, परन्तु मैं ने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ बढाना उचित न समझा। २४ इसलिये जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय § ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। २५ शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद,

* मूल में—मेरे हाथ में क्या डुराई है।

† मूल में—संधे।

‡ मूल में—गिरने।

§ मूल में—बड़ा।

तू धन्य है! तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सुफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया, और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया ॥

(दाऊद का पल्लितियों के यहाँ ग्रहण लेना और शाऊल और योनातान का बारा जाना)

२७ और दाऊद मोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ में नाश हो जाऊँगा, अब मेरे लिये उत्तम यह है कि मैं पल्लितियों के देश में भाग जाऊँ, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा, और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न दूँगेगा, यो मैं उसके हाथ से बच निकलूँगा। २ तब दाऊद अपने छ सौ मर्गी पुरुषों को लेकर चला गया, और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया। ३ और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपनी दो स्त्रियों के साथ, अर्थात् यिञ्जेली अहीनोअम, और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। ४ जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उस ने उसे फिर कभी न दूँगा ॥

५ दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहाँ मैं रहूँ, तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे? ६ तब आकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी, इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है ॥

७ पल्लितियों के देश में रहते रहते दाऊद को एक वर्ष चार महीने बीत गए।

८ और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गश्चरियों, गिर्जियों, और भ्रमालेकियों पर चढ़ाई की; ये जातिया तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थीं जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक हैं। ९ दाऊद ने उस देश को नाश किया, और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा, और भेड़-बकरी, गाय-बैल, गदहे, ऊट, और वस्त्र लेकर लौटा, और अक्कीश के पास गया। १० अक्कीश ने पूछा, आज तुम ने चढ़ाई तो नहीं की? दाऊद ने कहा, हा, यहूदा यहूदियों और केनियों की दक्खिन दिशा में। ११ दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुँचाए, उस ने सोचा था, कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहे, कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वह पलिशियों के देश में रहता है, तब से उसका काम ऐसा ही है। १२ तब अक्कीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लोगों की दृष्टि में अति धृष्टिगुण हुआ है, इसलिये यह सदा के लिये मेरा दास बना रहेगा ॥

२८ उन दिनों में पलिशियों ने इस्राएल से लड़ने के लिये अपनी सेना इकट्ठी की। और अक्कीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुम्हें अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। २ दाऊद ने अक्कीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। अक्कीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुम्हें अपने सिर का रक्षक सदा के लिये ठहराऊंगा ॥

३ शमूएल तो मर गया था, और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती

पीटी, और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओम्भों और भूतसिद्धि करनेवालों को देश से निकाल दिया था ॥

४ जब पलिशनी इकट्ठे हुए, और शूनैम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया, और उन्हो ने गिलबो में छावनी डाली। ५ पलिशियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया, और उसका मन अत्यन्त भयभीत हो काप उठा। ६ और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और न ऊरीम के द्वारा, और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। ७ तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिये किसी भूतसिद्धि करनेवाली को ढूँढो, कि मैं उसके पास जाकर उस से पूछूँ। उसके कर्मचारियों ने उस से कहा, एन्दोर में एक भूतसिद्धि करनेवाली रहती है। ८ तब शाऊल ने अपना भेष बदला, और दूसरे कपड़े पहिनकर, दो मनुष्य सग लेकर, रातोंरात चलकर उस स्त्री के पास गया; और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिये भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा * दे। ९ स्त्री ने उस से कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उस ने ओम्भों और भूतसिद्धि करनेवालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिये क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। १० शाऊल ने यहोवा की शपथ स्नाकर उस से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुम्हें दण्ड न मिलेगा।

* बुलवा में—चढ़ा।

११ स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिये किस को बुलाऊँ * ? उस ने कहा, शमूएल को मेरे लिये बुला। १२ जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊँचे शब्द से चिल्लाई; और शाऊल से कहा, तू ने मुझे क्यों धोखा दिया ? तू तो शाऊल है। १३ राजा ने उस से कहा, मत डर; तुझे क्या देख पड़ता है ? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। १४ उस ने उस से पूछा, उसका कैसा रूप है ? उस ने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, अभी मुह भूमि पर गिरके दण्डवत् किया। १५ शमूएल ने शाऊल से पूछा, तू ने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है ? शाऊल ने कहा, मैं बड़े सकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिशती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देना है, और न स्वप्नों के; इसलिये मैं ने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूँ। १६ शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझ से क्यों पूछता है ? १७ यहोवा ने तो जैसे मुझ से कहलवाया था वैसे ही उस ने व्यवहार किया है; अर्थात् उस ने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। १८ तू ने जो यहोवा की बात न मानी, और न अमालेकियों को उसके भडके हुए कोप के अनुसार दण्ड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझ से आज ऐसा बर्ताव किया। १९ फिर यहोवा

तुझ समेत इस्राएलियों को पलिशतियों के हाथ में कर देगा; और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिशतियों के हाथ में कर देगा। २० तब शाऊल तुरन्त मुँह के बल भूमि पर गिर पडा, और शमूएल की बातों के कारण अत्यन्त डर गया; उस ने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इस से उस में बल कुछ भी न रहा। २१ तब वह स्त्री शाऊल के पाम गई, और उसको अति व्याकुल देखकर उस से कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी, और मैं ने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को मुन लिया जो तू ने मुझ से कहा। २२ तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान; और मैं तेरे साम्हने एक टुकड़ा रोटी रखूँ; तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। २३ उस ने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा। परन्तु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहां तक उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर, भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। २४ स्त्री के घर में तो एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उस ने फुर्ती करके उमे मारा, फिर आटा लेकर गूधा, और अखमीरी रोटी बनाकर २५ शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई; और उन्हीं ने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए ॥

२६ पलिशतियों ने अपनी समस्त सेना को अपने में इकट्ठा किया; और इस्राएली यिञ्जेल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। २ तब पलिशतियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हज़ारों

* मूल में—चढ़ाऊँ।

समेत आगे बढ़ गए, और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। ३ तब पलिशती हाकिमों ने पूछा, उन इभ्रियों का यहां क्या काम है? आकीश ने पलिशती सरदारों से कहा, क्या वह इस्राएल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया, तब से आज तक मैंने उस में कोई दोष नहीं पाया। ४ तब पलिशती हाकिम उस से क्रोधित हुए; और उस से कहा, उस पुरुष को लौटा दे, कि वह उम स्थान पर जाए जो तू ने उसके लिये ठहराया है, वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कही ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। फिर वह अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे? क्या लोगों के सिर कटवाकर न करेगा? ५ क्या यह वही दाऊद नहीं है, जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, कि

शाऊल ने हजारों को,

पर दाऊद ने लाखों को मारा है?

६ तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उस से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ तू तो सीधा है, और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है; क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तो तुझ में कोई बुराई नहीं पाई। तौभी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते। ७ इसलिये अब तू कुशल से लौट जा; ऐसा न हो कि पलिशती सरदार तुझ से अप्रसन्न हों। ८ दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है?

और जब से मैं तेरे साम्हने आया तब से आज तक तू ने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊ? ९ आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हां, यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है; तौभी पलिशती हाकिमों ने कहा है, कि वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। १० इसलिये अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं बिहान को तडके उठना; और तुम बिहान को तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। ११ इसलिये बिहान को दाऊद अपने जनों समेत तडके उठकर पलिशतियों के देश को लौट गया। और पलिशती यिज्जेल को चढ़ गए।।

३० तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने ने क्या देखा, कि अमालेकियों ने दक्खिन देश और सिकलग पर चढ़ाई की। और सिकलग को मार के फूक दिया, २ और उस में की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे, सब को बन्धुघ्राई में ले गए; उन्होंने ने किसी को मार तो नहीं डाला, परन्तु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। ३ इसलिये जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे-बेटियां बन्धुघ्राई में चली गई थीं। ४ तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चित्लाकर इतना रोए, कि फिर उन में रोने की शक्ति न रही। ५ और दाऊद की दो स्त्रियां, यिज्जेली अहीनोअम, और कर्भेली नाबाल की स्त्री अबीगैल, बन्धुघ्राई में गई थीं। ६ और दाऊद बड़े सकट में पड़ा; क्योंकि

लोग अपने बेटे-बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरबाह कर देने की चर्चा कर रहे थे। परन्तु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके * हियाब बान्धा ॥

७ तब दाऊद ने ग्रहीमिलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। ८ और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूँ? क्या उसको जा पकड़ूँगा? उस ने उस से कहा, पीछा कर; क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, और निःसन्देह सब कुछ छुड़ा जाएगा; ९ तब दाऊद अपने छ सौ साथी जनों को लेकर बसोर नाम वाले तक पहुँचा; वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। १० दाऊद तो चार सौ पुरुषों समेत पीछा किए चला गया; परन्तु दो सौ जो ऐसे थक गए थे, कि बसोर वाले के पार न जा सके, वहीं रहे। ११ उनको एक मिली पुरुष मैदान में मिला, जन्हीं ने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी; और उस ने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया, १२ फिर उन्होंने उसको अजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे किशमिश दिए। और जब उस ने खाया, तब उसके जी में जी आया; उस ने तीन दिन और तीन रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। १३ तब दाऊद ने उस से पूछा, तू किस का जन है? और कहा का है? उस ने कहा, मैं तो मिली जवान और एक भ्रमालेकी मनुष्य का दास हूँ; और तीन दिन हुए

कि मैं बीमार पड़ा, और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। १४ हम लोगो ने करेतियों की दक्खिन दिशा में, और यहूदा के देश में, और कालेब की दक्खिन दिशा में चढ़ाई की; और सिकलग को आग लगाकर फूक दिया था। १५ दाऊद ने उस ने पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुँचा देगा? उस ने कहा, मुझ से परमेश्वर की यह शपथ खा, कि मैं तुम्हें न तो प्राण से मारूँगा, और न तेरे स्वामी के हाथ कर दूँगा, तब मैं तुम्हें उस दल के पास पहुँचा दूँगा। १६ जब उस ने उसे पहुँचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते, और उस बड़ी लूट के कारण, जो वे पलितियों के देश और यहूदा देश से लाए थे, नाच रहे हैं। १७ इसलिये दाऊद उन्हें रात के पहिले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांभ तक मारता रहा; यहाँ तक कि चार सौ जवान को छोड़, जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, उन में से एक भी मनुष्य न बचा। १८ और जो कुछ भ्रमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया; और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। १९ वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियाँ, क्या लूट का माल, सब कुछ जो भ्रमालेकी ले गए थे, उस में से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो; क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। २० और दाऊद ने सब भेड़-बकरियाँ, और गाय-बैल भी लूट लिए; और इन्हे लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाकते गए, कि यह दाऊद की लूट है। २१ तब दाऊद उन दो सौ पुरुषों के पास आया, जो

* मूल में—यहोवा में।

ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे न जा सके थे, और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे; और वे दाऊद से और उसके सग के लोगो से मिलने को चले, और दाऊद ने उनके पास पहुचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। २२ तब उन लोगो में से जो दाऊद के सग गए थे सब दुष्ट और मोछे लोगो ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं चले थे, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ न देगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देगे, कि वे उन्हें लेकर चले जाए। २३ परन्तु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयो, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है; और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिस ने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है। २४ और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लडाई में जानेवाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग होगा, दोनो एक ही समान भाग पाएंगे। २५ और दाऊद ने इस्त्राएलियों के लिये ऐसी ही विधि और नियम ठहराया, और वह उस दिन से लेकर आगे को बरन आज लो बना है।

२६ सिकलग में पहुचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियो के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा, और यह कहलाया, कि यहोवा के शत्रुओ से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिये यह भेंट है। २७ अर्थात् बेतेल के दक्खिन देश के रामोत, यत्तीर, २८ अरोएर, निपमोत, एस्तमो, २९ राकाल, यरहमेलियों के नगरों, केनियों के नगरों, ३० होर्मा,

कोरासान, अताक, ३१ हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनो समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियो के पास उसने कुछ कुछ भेजा ॥

३१ पलिश्ती तो इस्त्राएलियों ने लडे; और इस्त्राएली पुरुष पलिश्तियो के साम्हने से भागे, और गिलबो नाम पहाड़ पर मारे गए। २ और पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे; और पलिश्तियो ने शाऊल के पुत्र योनातन, अबीनादाब, और मल्कीश को मार डाला। ३ और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण अत्यन्त व्याकुल हो गया। ४ तब शाऊल ने अपने हथियार ढोनेवाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोक दे, ऐसा न हो कि वे खतनारहित लोग आकर मुझे भोक दे, और मेरी ठट्ठा करे। परन्तु उसके हथियार ढोनेवाले ने अत्यन्त भय खाकर ऐसा करने से इन्कार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खडी करके उस पर गिर पड़ा। ५ यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोनेवाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। ६ यों शाऊल, और उसके तीनों पुत्र, और उसका हथियार ढोनेवाला, और उसके समस्त जन उनी दिन एक सग मर गए। ७ यह देखकर कि इस्त्राएली पुरुष भाग गए, और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई की परली ओर वाले और यरदन के पार रहनेवाले भी इस्त्राएली मनुष्य अपने अपने नगरो को छोड़कर भाग गए; और पलिश्ती आकर उन में रहने लगे ॥

८ दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुआओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। ९ तब उन्होंने ने शाऊल का सिर काटा, और हथियार लूट लिए, और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिये भेजा, कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। १० तब उन्हो ने उसके हथियार तो आस्तोरेत नाम देवियों के मन्दिर में रखे, और

उसकी लोथ बेतशान की शहरपनाह में जड़ दी। ११ जब गिलादवाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, १२ तब सब शूरवीर चले, और रातोंरात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों की लोथें बेतशान की गहरपनाह पर से याबेश में ले आए, और वही फूंक दी। १३ तब उन्हो ने उनकी हड्डिया लेकर याबेश के भाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी, और सात दिन तक उपवास किया ॥

दूसरा शमूएल

(दाऊद का शाऊल के खून का दण्ड देना)

१ शाऊल के मरने के बाद, जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा, और दाऊद को सिकलम में रहने हुए दो दिन हो गए, २ तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूलि डाले हुए आया। और जब वह दाऊद के पास पहुँचा, तब भूमि पर गिरा और दण्डवत् किया। ३ दाऊद ने उस से पूछा, तू कहा से आया है? उस ने उस से कहा, मैं इस्त्राएली छावनी में से बचकर आया हूँ। ४ दाऊद ने उस से पूछा, वहाँ क्या बात हुई? मुझे बता। उस ने कहा, यह, कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए, और बहुत लोग मारे गए; और शाऊल और उसका पुत्र योनातन

भी मारे गए हैं। ५ दाऊद ने उस समाचार देनेवाले जवान से पूछा, कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए? ६ समाचार देनेवाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था; तो क्या देखा, कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है; फिर मैं ने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। ७ उस ने पीछे फिरकर मुझे देखा, और मुझे पुकारा। मैं ने कहा, क्या आज्ञा? ८ उस ने मुझ से पूछा, तू कौन है? मैं ने उस से कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। ९ उस ने मुझ से कहा, मेरे पास * खड़ा होकर मुझे मार डाल;

* वा मुक्त पर।

क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है, परन्तु प्राण नहीं निकलता*। १० तब मैं ने यह निश्चय जान लिया, कि वह गिर जाने के पश्चात् नहीं बच सकता, उसके पास † खड़े होकर उसे मार डाला; और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। ११ तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े; और जितने पुरुष उसके सग थे उन्होने भी वैसे ही किया; १२ और वे शाऊल, और उसके पुत्र योनातन, और यहोवा की प्रजा, और इस्राएल के घराने के लिये छाती पीटने और रोने लगे, और साभ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। १३ फिर दाऊद ने उस समाचार देनेवाले जवान से पूछा, तू कहां का है? उस ने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात् अमालेकी हूँ। १४ दाऊद ने उस से कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिये हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? १५ तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उस ने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। १६ और दाऊद ने उस से कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तू ने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुँह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है ॥

(शाऊल और योनातन के लिये दाऊद का बनाया हुआ विलापगीत)

१७ तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातन के विषय यह विलापगीत

* मूल में—मेरा प्राण मुझ में अब तक है

† वा उस पर।

बनाया, १८ और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी; यह याशाार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है:

१९ हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊँचे स्थान पर मारा गया ॥

हाय, शूरवीर क्योंकि गिर पड़े है ।

२० गत में यह न बताओ, और न अशकलोन की सड़को में प्रचार करना; न हो कि पलिशती स्त्रिया आनन्दित हों, न हो कि खननारहित लोगों की बेटियाँ गर्व करने लगे ॥

२१ हे गिनबो पहाड़ो, तुम पर न ओस पड़े, और न वर्षा हो, और न भेट के योग्य उपजवाले खेत पाए जाए ! क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं, और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई ॥

२२ जूँके हुआँ के लोहू बहाने से, और शूरवीरों की चर्बी खाने से, योनातन का धनुष लौट न जाता था, और न शाऊल की तलवार छूँछी फिर आती थी ॥

२३ शाऊल और योनातन जीवनकाल में तो प्रिय और मनभाऊ थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए; वे उकाव से भाँ वेग चलनेवाले, और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे ॥

२४ हे इस्राएली स्त्रियो, शाऊल के लिये रोओ, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहिनाकर मुख देता, और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहिनाता था ॥

२५ हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए !

हे योनातन, हे ऊचे स्थानों पर जूझे हुए,

२६ हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुःखित हूँ;

तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था;

तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत, वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढकर था ॥

२७ हाय, शूरवीर क्योंकर गिर गए, और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं !

(दाऊद के हेब्रोन में राज्य करने का इत्तफाक)

२ इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊ ? यहोवा ने उस से कहा, हाँ, जा । दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊ ? उस ने कहा, हेब्रोन में । २ तब दाऊद यिज्जेली अहीनोअम, और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नाम, अपनी दोनों पत्नियों समेत वहाँ गया । ३ और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहाँ ले गया; और वे हेब्रोन के गाँवों में रहने लगे । ४ और यहूदी लोग गए, और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो ॥

५ और दाऊद को यह समाचार मिला, कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं । तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, कि यहोवा की आज्ञाशुदा तुम पर हो, क्योंकि तुम ने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी । ६ इसलिये अब यहोवा तुम से कृपा और सच्चाई का बदला करे; और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुम को दूँगा, क्योंकि तुम ने यह काम किया है । ७ और अब हियाव बान्धो, और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया, और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है ॥

८ परन्तु नेर का पुत्र अन्नोर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उस ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को सग ले पार जाकर महनैम में पहुँचाया, ९ और उसे गिलाद अशूरियों के देश यिज्जेल, एप्रैम, बिन्यामीन, वरन समस्त इस्राएल के देश पर राजा नियुक्त किया । १० शाऊल का पुत्र ईशबोशेत चालीस वर्ष का था जब वह इस्राएल पर राज्य करने लगा, और दो वर्ष तक राज्य करता रहा । परन्तु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा । ११ और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय साढ़े सात वर्ष था ॥

१२ और नेर का पुत्र अन्नोर, और शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के जन, महनैम से गिबोन को आए । १३ तब सख्याह का पुत्र योआब, और दाऊद के जन, हेब्रोन से निकलकर उन से गिबोन के पोखरे के पास मिले; और दोनों बल

उस पोखरे की एक एक ओर बैठ गए ।
 १४ तब अन्नोर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे साम्हने खेलें । योआब ने कहा, वे उठें । १५ तब वे उठे, और बिन्यामीन, अर्थात् शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पक्ष के लिये बारह जन गिनकर निकले, और दाऊद के जनो में से भी बारह निकले । १६ और उन्होंने ने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी, और वे एक ही सग मरे । इस से उस स्थान का नाम हेल्कथस्सूरीम * पड़ा, वह गिबोन में है । १७ और उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ, और अन्नोर और इस्राएल के पुरुष दाऊद के जनो से हार गए । १८ वहां तो योआब, अबीश, और असाहेल नाम सख्याह के तीनों पुत्र थे । और असाहेल बनले चिकारे के समान वेग दौड़नेवाला था । १९ तब असाहेल अन्नोर का पीछा करने लगा, और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर । २० अन्नोर ने पीछे फिरके पूछा, क्या तू असाहेल है ? उस ने कहा, हा मैं वही हूँ । २१ अन्नोर ने उस से कहा, चाहे दाहिनी, चाहे बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बकतर ले ले । परन्तु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा । २२ अन्नोर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझ को क्यों तुझे मारके मिट्टी में मिला देना पड़े ? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा ? २३ तीसरी उस ने हट जाने को नकारा, तब अन्नोर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में

ऐसे मारी, कि भाला धारदार होकर पीछे निकला; और वह वही गिरके मर गया । और जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असाहेल गिरके मर गया, वहा वे सब खड़े रहे । २४ परन्तु योआब और अबीश अन्नोर का पीछा करते रहे; और सूर्य डूबने डूबने वे अम्माम नाम उम पहाड़ी तक पहुँचे, जो गिबोन के जगल के मार्ग में गीह के साम्हने है । २५ और बिन्यामीनी अन्नोर के पीछे होकर एक दल हो गए, और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए । २६ तब अन्नोर योआब को पुकारके कहने लगा, क्या तलवार सदा भारती रहे ? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई * होगा ? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा, कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो ? २७ योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ, कि यदि तू न बोला होता, तो निःसन्देह लोग सवेरे ही चले जाते, और अपने अपने भाई का पीछा न करते । २८ तब योआब ने नरसिगा फूका, और सब लोग ठहर गए, और फिर इस्राएलियों का पीछा न किया, और लड़ाई फिर न की । २९ और अन्नोर अपने जनो समेत उसी दिन रातोंरात अराबा से होकर गया; और घरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महर्नम में पहुँचा । ३० और योआब अन्नोर का पीछा छाड़कर लौटा; और जब उस ने सब लोगों को इकट्ठा किया, तब क्या देखा, कि दाऊद के जनो में से उन्नीस पुरुष और असाहेल भी नहीं है । ३१ परन्तु दाऊद के जनो ने बिन्यामीनियों और अन्नोर

* अर्थात्, छुरियों का खेत ।

* मूल में—कडुवाहट ।

के जनों को ऐसा मारा कि उन में से तीन सौ साठ जन मर गए। ३२ और उन्हों ने असहैल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में, जो बेतलेहेम में था, मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों ममेत रात भर चलकर पह फटने हेब्रोन में पहुंचा ॥

३ शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परन्तु दाऊद प्रबल होता गया, और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया ॥

२ और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए; उसका जेठा बेटा अम्मोन था, जो यिज्जेली अहीनोअम से उत्पन्न हुआ था, ३ और उसका दूसरा किलाब था, जिमकी मां कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल थी, तीमरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तल्म की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था, ४ चौथा अदोनिय्याह, जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था; पांचवा शपत्याह, जिसकी मां अबीतल थी, ५ छठवां यिन्नाम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से ये ही सन्तान उत्पन्न हुए ॥

६ जब शाऊल और दाऊद दोनों के घरानों के मध्य लड़ाई हो रही थी, तब अन्नोर शाऊल के घराने की सहायता में बल बढ़ाता गया। ७ शाऊल की एक रखेली थी जिसका नाम रिस्पा था, वह अय्या की बेटी थी; और ईशबोशेत ने अन्नोर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेली के पास क्यों गया? ८ ईशबोशेत की बातों के कारण अन्नोर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते

का सिर हूँ? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूँ, और तुम्हें दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया; फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है? ९ यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूँ, तो परमेश्वर अन्नोर से वैसा ही, वरन उस में भी अधिक करे; १० अर्थात् मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूँगा, और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेशेबा तक इस्त्राएल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूँगा। ११ और वह अन्नोर को कीर्ई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उस से डरता था ॥

१२ तब अन्नोर ने उसके नाम से दाऊद के पाम दूतों में कहला भेजा, कि देश किम का है? और यह भी कहला भेजा, कि तू मेरे साथ वाचा बान्ध, और मैं तेरी सहायता करूँगा कि समस्त इस्त्राएल के मन तेरी ओर फेर दू। १३ दाऊद ने कहा, भला, मैं तेरे साथ वाचा तो बान्धूँगा, परन्तु एक बात मैं तुम्हें से चाहता हूँ, कि जब तू मुझ से भेंट करने आए, तब यदि तू पहिले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए, तो मुझ से भेंट न होगी। १४ फिर दाऊद ने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पास दूतों से यह कहला भेजा, कि मेरी पत्नी मीकल, जिसे मैं ने एक सौ पलिश्तियों को खलड़िया देकर अपनी कर लिया था, उसको मुझे दे दे। १५ तब ईशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतीएल के पास से छीन लिया। १६ और उसका पति उसके साथ चला, और बहरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब

अब्नेर ने उस से कहा, लौट जा; और वह लौट गया ॥

१७ और अब्नेर ने इस्राएल के पुरनियो के संग इस प्रकार की बातचीत की, कि पहिले तो तुम लोग चाहते थे कि दाऊद हमारे ऊपर राजा हो। १८ अब वैसा करो; क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहा है, कि अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएल को पलिश्तियों, वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। १९ फिर अब्नेर ने बिन्यामीन में भी बातें कीं; तब अब्नेर हेब्रोन को चला गया, कि इस्राएल और बिन्यामीन के समस्त घराने को जो कुछ अच्छा लगा, वह दाऊद को सुनाए। २० तब अब्नेर बीस पुरुष सग लेकर हेब्रोन में आया, और दाऊद ने उसके और उसके सगी पुरुषों के लिये जेवनार की। २१ तब अब्नेर ने दाऊद से कहा, मैं उठकर जाऊंगा, और अपने प्रभु राजा के पास सब इस्राएल को इकट्ठा करूंगा, कि वे तेरे साथ वाचा बान्धे, और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य कर सके। तब दाऊद ने अब्नेर को विदा किया, और वह कुशल से चला गया। २२ तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कही चढाई करके* बहुत सी लूट लिये हुए आ गए। और अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में न था, क्योंकि उस ने उसको विदा कर दिया था, और वह कुशल से चला गया था। २३ जब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई, तब लोगो ने योआब को बताया, कि नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था,

* मूल में—दल से।

और उस ने उसको विदा कर दिया, और वह कुशल से चला गया। २४ तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तू ने यह क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तू ने उसको जाने दिया, और वह चला गया है? २५ तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने, और तेरे आने जाने, और कुल काम का भेद लेने आया था। २६ योआब ने दाऊद के पास से निकलकर दाऊद के अनजाने अब्नेर के पीछे दूत भेजे, और वे उसको सीरा नाम कुण्ड से लौटा ले आए। २७ जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उस से एकान्त में बातें करने के लिये उमको फाटक के भीतर अलग ले गया, और वहां अपने भाई असाहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। २८ इसके बाद जब दाऊद ने यह सुना, तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में सदैव निर्दोष रहूंगा। २९ वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वश में कोई न कोई प्रमेह का रोगी, और कोठी, और बैसाखी का लगानेवाला, और तलवार से खेत आनेवाला, और भूखों मरनेवाला सदा होता रहे। ३० योआब और उसके भाई अबीशै ने अब्नेर को इस कारण घात किया, कि उस ने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था ॥

३१ तब दाऊद ने योआब और अपने सब सगी लोगो से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो, और कमर में टाट बान्धकर अब्नेर

के भागे भागे चलो। और दाऊद राजा स्वयं ग्रथी के पीछे पीछे चला। ३२ अन्नर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई; और राजा अन्नर की कन्न के पास फूट-फूटकर रोया, और सब लोग भी रोए। ३३ तब दाऊद ने अन्नर के विषय यह विलापगीत बनाया कि,

क्या उचित था कि अन्नर मृद की नाई मरे ?

३४ न तो तेरे हाथ बान्धे गए, और न तेरे पांवों में बेड़िया डाली गई;

जैसे कोई कुटिल मनुष्यो से मारा जाए, वैसे ही तू मारा गया ॥

३५ तब सब लोग उसके विषय फिर रो उठे। तब सब लोग कुछ दिन रहते दाऊद को गेटी खिलाने आए; परन्तु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य के अस्त होने से पहिले रोटी वा और कोई वस्तु खाऊ, तो परमेश्वर मुझ से ऐसा ही, वरन इस से भी अधिक करे। ३६ और सब लोगो ने इस पर विचार किया और इस से प्रसन्न हुए, वैसे ही जो कुछ राजा करता था उस से सब लोग प्रसन्न होते थे।

३७ तब उन सब लोगो ने, वरन समस्त इस्राएल ने भी, उसी दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अन्नर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं हुआ। ३८ और राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इस्राएल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है ? ३९ और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं; और वे सख्याह के पुत्र मुझ से अधिक प्रचण्ड हैं। परन्तु यहाँवा बुराई करनेवाले को उसकी बुराई के अनुसार ही पलटा दे ॥

४ जब शाऊल के पुत्र ने सुना, कि अन्नर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए, और सब इस्राएली भी घबरा गए। २ शाऊल के पुत्र के दो जन थे जो दलों के प्रधान थे, एक का नाम बाना; और दूसरे का नाम रेकाब था, ये दोनों बेरोतबासी बिन्यामीनी रिम्मोन के पुत्र थे, (क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है; ३ और बेरोती लोग गित्तैम को भाग गए, और आज के दिन तक वही परदेशी होकर रहते हैं ॥)

४ शाऊल के पुत्र योनातन के एक लगडा बेटा था। जब यिज्जेल से शाऊल और योनातन का समाचार आया तब वह पाच वर्ष का था, उस समय उसकी घाई उसे उठाकर भागी, और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिरके लंगडा हो गया। और उसका नाम मपीबोशेत था ॥

५ उस बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़े घाम के समय ईशबोशेत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था आए। ६ और गेहू ले जाने के बहाने से घर में घुस गए, और उसके पेट में मारा, तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। ७ जब वे घर में घुमे, और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सोता था, तब उन्हो ने उसे मार डाला, और उसका सिर काट लिया, और उसका सिर लेकर गतौरात अराबा के मार्ग में चले। ८ और वे ईशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का माहक था, उसके पुत्र ईशबोशेत का यह सिर है;

तो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके बश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। ६ दाऊद ने बेरोती रिम्मोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उन से कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुडाता आया है, उसके जीवन की शपथ, १० जब किसी ने यह जानकर, कि मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग मे मुझ को शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैं ने उसको पकड़कर घात कराया; अर्थात् उसको समाचार का यही बदला मिला। ११ फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर मे, वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का पलटा तुम से लूगा, और तुम्हे घरती पर से नष्ट कर डालूगा। १२ तब दाऊद ने जवानो को आज्ञा दी, और उन्होंने ने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए, और उनकी लोथों को हेन्नोन के पोखरे के पास टाग दिया। तब ईशबोशेत के सिर को उठाकर हेन्नोन मे अन्नोर की कब्र मे गाड़ दिया ॥

(दाऊद के यरूशलेम में राज्य करने का चारण)

५ तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेन्नोन मे आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड मास हैं। २ फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुझ से कहा, कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा, और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। ३ सो सब इस्राएली पुरनिये हेन्नोन मे राजा के पास आए; और दाऊद राजा

ने उनके साथ हेन्नोन मे यहोवा के साम्हने वाचा बान्धी, और उन्हो ने इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद का अभिषेक किया ॥

४ दाऊद तीस वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और चालीस वर्ष तक राज्य करता रहा। ५ साढ़े सात वर्ष तक तो उस ने हेन्नोन में यहूदा पर राज्य किया, और तैंतीस वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। ६ तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने ने यह समझकर, कि दाऊद यहां पैठ न सकेगा, उस से कहा, जब तक तू अन्धों और लगड़े को दूर न करे, तब तक यहां पैठने न पाएगा। ७ तीभी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। ८ उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिये कि नाले से होकर चड़े, और अन्धे और लगड़े जिन से दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इस से यह कहावत चली, कि अन्धे और लगड़े भवन में आने न पाएंगे। ९ और दाऊद उस गढ मे रहने लगा, और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारो ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। १० और दाऊद की बडाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके सग रहता था ॥

११ और सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत, और देवदारु की लकड़ी, और बड़ई, और राजमिस्त्री भेजे, और उन्हो ने दाऊद के लिये एक भवन

बनाया। १२ और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्त्राएल का राजा करके स्थिर किया, और अपनी इस्त्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है ॥

१३ जब दाऊद हेब्रोन से आया तब उसके बाद उस ने यरूशलेम की और और रखेलिया रख ली, और पत्नियां बना ली; और उसके और बेटे बेटिया उत्पन्न हुईं। १४ उसके जो सन्तान यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उनके ये नाम हैं, अर्थात् शम्भू, शोबाव, नातान, सुलेमान, १५ यिभार, एलोशू, नेपेग, यापी, १६ एलीशामा, एल्यादा, और एलीपेलेत ॥

१७ जब पलिशतियों ने यह सुना कि इस्त्राएल का राजा होने के लिये दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिशती दाऊद की खोज में निकले; यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। १८ तब पलिशती आकर रपाईम नाम तराई में फैल गए। १९ तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मे पलिशतियों पर चढ़ाई करूँ? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर; क्योंकि मैं निश्चय पलिशतियों को तेरे हाथ कर दूंगा। २० तब दाऊद बालपरासीम को गया, और दाऊद ने उन्हें वही मारा; तब उस ने कहा, यहोवा मेरे साम्हने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उस ने उस स्थान का नाम बालपरासीम * रखा। २१ वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया, और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए ॥

* अर्थात्—टूट पड़ने का स्थान।

२२ फिर दूसरी बार पलिशती चढ़ाई करके रपाईम नाम तराई में फैल गए। २३ जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उस ने कहा, चढ़ाई न कर; उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के साम्हने में उन पर छापा मार। २४ और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से मेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना, कि यहोवा पलिशतियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। २५ यहोवा की इस आज्ञा के अनुमार दाऊद गेवा से लेकर गेजेर तक पलिशतियों को मारता गया ॥

(पवित्र सन्दूक का यरूशलेम में पञ्चाया जाना)

६ फिर दाऊद ने एक और बार इस्त्राएल में मे सब बड़े वीरों को, जो तीस हज़ार थे, इकट्ठा किया। २ तब दाऊद और जितने लोग उसके मग थे, वे सब उठकर यहूदा के वाले नाम स्थान से चले, कि परमेश्वर का वह सन्दूक ले आए, जो करुबों पर विराजनेवाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है *। ३ तब उन्होंने ने परमेश्वर का सन्दूक एक नई गाड़ी पर चढाकर टीले पर रहनेवाले अबीनादाब के घर से निकाला; और अबीनादाब के उज्जा और अहह्यो नाम दो पुत्र उस नई गाड़ी को हाकने लगे। ४ और उन्होंने ने उसको परमेश्वर के सन्दूक समेत टीले पर रहनेवाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला; और अहह्यो सन्दूक के आगे आगे चला। ५ और

* मूल में—जिस पर नाम करुबों पर विराजनेवाले सेनाओं के यहोवा का नाम पुकारा गया।

दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनौवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के वाजे और धीरा, सारगिया, डफ, डमरू, भाभ्र बजाते रहे।

६ जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के सन्दूक की ओर बढ़ाकर उसे धाम लिया, क्योंकि बेलो ने ठोकर खाई। ७ तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा; और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहा ऐसा मारा, कि वह वहा परमेश्वर के सन्दूक के पास मर गया। ८ तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पडा था; और उस ने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा * रखा, यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। ९ और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का सन्दूक मेरे यहा क्योंकिर आए? १० इसलिये दाऊद ने यहोवा के सन्दूक को अपने यहा दाऊदपुर में पहुचाना न चाहा; परन्तु गतवासी ओबेदेदोम के यहा पहुचाया। ११ और यहोवा का सन्दूक गती ओबेदेदोम के घर में तीन महीने रहा; और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशिष दी। १२ तब दाऊद राजा को यह बताया गया, कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर, और जो कुछ उसका है, उस पर भी परमेश्वर के सन्दूक के कारण आशिष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के सन्दूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनन्द के साथ पहुचा दिया। १३ जब यहोवा के सन्दूक के उठानेवाले छः कदम

* अर्थात् उज्जा पर टूट पडना।

चल चुके, तब दाऊद ने एक बेल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। १४ और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। १५ यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के सन्दूक को जय जयकार करते और नरसिगा फूकते हुए ले चला। १६ जब यहोवा का सन्दूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से भाककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। १७ और लोग यहोवा का सन्दूक भीतर ले आए, और उसके स्थान में, अर्थात् उस तम्बू में रखा, जो दाऊद ने उसके लिये खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होमबलि और मेलबलि चढाए। १८ जब दाऊद होमबलि और मेलबलि चढा चुका, तब उस ने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। १९ तब उस ने समस्त प्रजा को, अर्थात्, क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी, और एक एक टुकडा मांस, और किशमिश की एक एक टिकिया बटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। २० तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिये लौटा। और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली, और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौडियों के साम्हने ऐसा उधाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उधाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था! २१ दाऊद ने मीकल से कहा,

यहोवा, जिस ने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की सन्ती मुझ को चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ने ऐसा खेला—और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा। २२ और इस से भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा, और अपने लेखे नीच ठहरूंगा; और जिन लौडियों की तू ने चर्चा की वे भी मेरा आदरमान करेंगी। २३ और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसके कोई सन्तान न हुआ ॥

(दाऊद का मन्दिर बनवाने की इच्छा करना, और यहोवा का दाऊद के वंश में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना।)

७ जब राजा अपने भवन में रहता था, और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, २ तब राजा नातान नाम भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारु के बने हुए घर में रहता हूँ, परन्तु परमेश्वर का सन्दूक तम्बू में रहता है। ३ नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर; क्योंकि यहोवा तेरे संग है। ४ उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुँचा, ५ कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है, कि क्या तू मेरे निवास के लिये घर बनवाएगा ? ६ जिस दिन-से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तम्बू के निवास में आया जाया करता हूँ। ७ जहाँ जहाँ मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैं ने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैं ने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही

करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कहीं, कि तुम ने मेरे लिये देवदारु का घर क्यों नहीं बनवाया ? ८ इसलिये अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, कि मैं ने तो तुम्हें भेडशाला से, और भेड-बकरियों के पीछे पीछे फिरने से, इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। ९ और जहाँ कहीं तू आया गया, वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा, और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे साम्हने से नाश किया है; फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। १० और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिये एक स्थान ठहराऊंगा, और उसको स्थिर करूंगा, कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी, और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुःख न देने पाएँगे, जैसे कि पहिले दिनों में करते थे, ११ वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था; और मैं तुम्हें तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। और यहोवा तुम्हें यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा *। १२ जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को † तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। १३ मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। १४ मैं उसका पिता ठहरूंगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे, तो मैं

* मूल में—तेरे लिये घर बनाएगा।

† मूल में—तेरे वंश को जो तेरी अंतर्द्वियों से निकलेगा।

उसे मनुष्यों के योग्य दण्ड से, और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूगा। १५ परन्तु मेरी कृष्णा उस पर से ऐंसे न हटेगी, जैसे मैं ने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया। १६ वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे साम्हने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। १७ इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया ॥

१८ तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बंठा, और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, और मेरा घराना क्या है, कि तू ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है? १९ परन्तु तीभी, हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तू ने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है! २० दाऊद तुझ से और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है! २१ तू ने अपने वचन के निमित्त, और अपने ही मन के अनुसार, यह सब बड़ा काम किया है, कि तेरा दास उसको जान ले। २२ इस कारण, हे यहोवा परमेश्वर, तू महान् है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। २३ फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छोड़ाया, इसलिये कि वह अपना नाम करे, (और तुम्हारे लिये बड़े बड़े काम करे) और तू अपनी प्रजा के साम्हने, जिसे तू ने मिस्री

आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिये भयानक काम करे। २४ और तू ने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिये ठहराया; और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। २५ अब हे यहोवा परमेश्वर, तू ने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, उसे सदा के लिये स्थिर कर, और अपने कहने के अनुसार ही कर, २६ और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें, कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है; और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे साम्हने अटल रहे। २७ क्योंकि, हे सेनाओं के यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तू ने यह कहकर अपने दास पर प्रगट किया है, कि मैं तेरा घर बनाए रखूँगा *; इस कारण तेरे दास को तुझ से यह प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। २८ और अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तेरे वचन सत्य हैं, और तू ने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है; २९ तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे, कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे; क्योंकि, हे प्रभु यहोवा, तू ने ऐसा ही कहा है, और तेरे दास का घराना तुझ से आशीष पाकर सदैव धन्य रहे ॥

(दाऊद के विषयों का संक्षेप वर्णन)

८ इसके बाद दाऊद ने पलिशतियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और दाऊद ने पलिशतियों की राजधानी

* मूल में—तेरे लिये घर बनाऊँगा।

की प्रभुता * उनके हाथ से छीन ली। २ फिर उस ने मोआबियों को भी जीता, और इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा; तब दो डोरी से लोगों को मापकर घात किया, और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। ३ फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजेर महानद के पास अपना राज्य † फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया। ४ और दाऊद ने उस से एक हज़ार मात सौ सवार, और बीस हज़ार प्यादे छीन लिए, और सब रथवाले घोड़ों के सुम की नस कटवाई, परन्तु एक सौ रथवाले घोड़े बचा रखे। ५ और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से बाईस हज़ार पुरुष मारे। ६ तब दाऊद ने दमिश्क में अराम के सिपाहियों की चौकिया बँटाई; इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवन्त करता था। ७ और हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थीं उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। ८ और बेतह और बरीत नाम हददेजेर के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। ९ और जब हमाम के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, १० तब तोई ने योराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास

उसका कुशल क्षेम पूछने, और उसे इसलिये बधाई देने को भेजा, कि उस ने हददेजेर से लड़ कर उसको जीत लिया था; क्योंकि हददेजेर तोई से लड़ा करता था। और योराम चांदी, सोने और पीतल के पात्र लिए हुए आया। ११ इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिये पवित्र करके रखा; और बैसा ही अपने जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, १२ अर्थात् अरामियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिशतियों, और अमालेकियों के सोने चांदी को, और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। १३ और जब दाऊद लोमवाली तराई में अठारह हज़ार अरामियों को मारके लौट आया, तब उसका बड़ा नाम हो गया। १४ फिर उस ने एदोम में सिपाहियों की चौकियाँ बँटाई; पूरे एदोम में उस ने सिपाहियों की चौकियाँ बँटाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवन्त करता था।

(दाऊद के कर्मचारियों की नामावली)

१५ दाऊद तो समस्त इस्राएल पर राज्य करता था, और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। १६ और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था; इतिहास का लिखनेवाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था; १७ प्रधान याजक अहीतब का पुत्र सादोक और एब्यातर का पुत्र अहीमेलक थे; मंत्री सरयाह था; १८ करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था; और दाऊद के पुत्र भी मंत्री * थे।

* मूल में—पलिशतियों की माता का भाग।

† मूल में—हाथ।

* वा याजक।

(मपीबोशेत का जंघा पद प्राप्त करना)

६ दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई भ्रब तक बचा है, जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊँ ? २ शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया; और जब राजा ने उस से पूछा, क्या तू सीबा है ? तब उस ने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। ३ राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई भ्रब तक बचा है, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊँ ? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है, जो लंगडा है। ४ राजा ने उस से पूछा, वह कहाँ है ? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में, अम्मोएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। ५ तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से, अम्मोएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। ६ जब मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुह के बल गिरके दण्डवत् किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत ! उस ने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा ? ७ दाऊद ने उस से कहा, मत डर; तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझ को प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा; और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। ८ उस ने दण्डवत् करके कहा, तेरा दास क्या है, कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे ? ९ तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उस से कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैं ने तेरे स्वामी

के पोते को दे दिया है। १० अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे; परन्तु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और सीबा के तो पन्द्रह पुत्र और बीस सेवक थे। ११ सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे, उन सभी के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। १२ मपीबोशेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था। और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। १३ और मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। और वह दोनों पावों का पंगुला था ॥

(अम्मोनियों के साथ युद्ध होने का वर्णन)

१० इसके बाद अम्मोनियों का राजा मर गया, और उसका हानून नाम पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। २ तब दाऊद ने यह सोचा, कि जैसे हानून के पिता नाहाश ने मुझ को प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिताके विषय शान्ति देने के लिये भेज दिया। और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए। ३ परन्तु अम्मोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शान्ति देनेवाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर

करने की मनसा मे भेजे है ? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पाम इसी मनसा मे नहीं भेजा कि इस नगर मे दूढ़ डाढ करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे ? ४ इसलिये हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकडा, और इनकी आधी-आधी डाढी मुडवाकर और आधे बस्त्र, अर्थात् नितम्ब तक कटवाकर, उनको जाने दिया । ५ इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उन मे मिलने के लिये भेजा, क्योंकि वे बहुत लजाने थे । और राजा ने यह कहा, कि जब तक तुम्हारी डाढिया बढ न जाए तब तक यरीहो म ठहरे रहो, तब लौट आना । ६ जब अम्मोनियो ने देखा कि हम मे दाऊद अप्रसन्न है, तब अम्मोनियो ने बेन्नहोब और सोबा के बीस हजार अरामी प्यादो को, और हजार पुरुषो समेत माका के राजा को, और बारह हजार तोबी पुरुषो को, बेतन पर बुलवाया । ७ यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरो की समस्त सेना को भेजा । ८ तब अम्मोनी निकले और फाटक ही के पास पाती बान्धी, और सोबा और रहोब के अरामी और तोब और माका के पुरुष उन से न्यारे मैदान मे थे । ९ यह देखकर कि आगे पीछे दोनो ओर हमारे विरुद्ध पाति बन्धी है, योआब ने सब बडे बडे इस्त्राएली बीरो मे से बहुतो को छाटकर अरामियो के साम्हने उनकी पाति बन्धाई, १० और और लोगो को अपने भाई अबीशै के हाथ मौप दिया, और उस ने अम्मोनियो के साम्हने उनकी पाति बन्धाई । ११ फिर उस ने कहा, यदि अरामी सुभ्र पर प्रबल होने लगे, तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी सुभ्र पर प्रबल होने

लगे, तो मे आकर तेरी महायता करूंगा । १२ तू हियाब बान्ध, और हम अपने लोगो और अपने परमेश्वर के नगरो के निमित्त पुरुषार्थ करे, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे । १३ तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियो मे युद्ध करने को निकट गए, और वे उसके साम्हने से भागे । १४ यह देखकर कि अरामी भाग गए है अम्मोनी भी अबीशै के साम्हने से भागकर नगर के भीतर घुसे । तब योआब अम्मोनियो के पास से लौटकर यरूशलेम को आया । १५ फिर यह देखकर कि हम इस्त्राएलियो मे हार गए अरामी इकट्टे हुए । १६ और हददेजेर ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियो को बुलवाया, और वे हददेजेर के मेनापति शोबक को अपना प्रधान बनाकर हेला म को आए । १७ इसका समाचार पाकर दाऊद ने समस्त इस्त्राएलियो को इकट्टा किया, और यरदन के पार होकर हेला म मे पहुचा । तब अराम दाऊद के विरुद्ध पाति बान्धकर उस मे लडा । १८ परन्तु अरामी इस्त्राएलियो मे भागे, और दाऊद ने अरामियो मे मे सात सौ रथियो और चालीस हजार सवारो को मार डाला, और उनके सेनापति शोबक को ऐसा घायल किया कि वह वही मर गया । १९ यह देखकर कि हम इस्त्राएल मे हार गए है, जितने राजा हददेजेर के अधीन थे उन मभो ने इस्त्राएल के साथ मधि की, और उसके अधीन हो गए । और अरामी अम्मोनियो की और सहायता करने मे डर गए ॥

(दाऊद के साथ मे लड़ने का बर्षण)

११

फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते है, उन

समय, अर्थात् वर्ष के आरम्भ में दाऊद ने योआब को, और उसके सग अपने मेवको और समस्त इस्त्राएलियों को भेजा, और उन्होंने ने अम्मोनियों को नाश किया, और रब्बा नगर को घेर लिया। परन्तु दाऊद यरूशलेम में रह गया ॥

२ साभ के समय दाऊद पलग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री, जो अति सुन्दर थी, नहानी हुई देख पड़ी। ३ जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री का पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी, और हिली ऊरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? ४ तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई, और वह उसके साथ सोया। (वह तो ऋतु में शुद्ध हो गई थी)। तब वह अपने घर लौट गई। ५ और वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला भेजा, कि मुझे गर्भ है। ६ तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, कि हिली ऊरिय्याह को मेरे पास भेज, तब योआब ने ऊरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। ७ जब ऊरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उस से योआब और मेना का कुशल धेम और युद्ध का हाल पूछा। ८ तब दाऊद ने ऊरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाव धो। और ऊरिय्याह राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास में कुछ इनाम भेजा गया। ९ परन्तु ऊरिय्याह अपने स्वामी के सब मेवको के सग राजभवन के द्वार में लट गया, और अपने घर न गया। १० जब दाऊद को यह समाचार मिला, कि ऊरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने ऊरिय्याह

से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? ११ ऊरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब मन्दूक और इस्त्राएल और यहूदा भोपड़ियों में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के मेवक कुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊ, पीऊ, और अपनी पत्नी के साथ सोऊ? तेरे जीवन की शपथ, और तेरे प्राण की शपथ, कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। १२ दाऊद ने ऊरिय्याह से कहा, आज यही रह, और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इमनिये ऊरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। १३ तब दाऊद ने उसे नेवता दिया, और उस ने उसके साम्हने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया; और साभ को वह अपने स्वामी के मेवको के सग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परन्तु अपने घर न गया। १४ बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ऊरिय्याह के हाथ में भेज दी। १५ उस चिट्ठी में यह लिखा था, कि सब से घोर युद्ध के साम्हने ऊरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ, कि वह घायल होकर मर जाए। १६ और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देख भालकर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में ऊरिय्याह को ठहरा दिया। १७ तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगो में से, अर्थात् दाऊद के सेवको में से कितने खेत आए, और उन में हिली ऊरिय्याह भी मर गया। १८ तब योआब ने भेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया, १९ और दूत को आज्ञा दी,

कि जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, २० तब यदि राजा जलकर कहने लगे, कि तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे?—२१ यरुब्बेगेत के पुत्र अबीमेलक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का उपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस में मर गया? फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यो कहना, कि तेरा दास ऊरिय्याह हिती भी मर गया। २२ तब दूत चल दिया, और जाकर दाऊद से योआब की सब बातें वर्णन की। २३ दूत ने दाऊद से कहा, कि वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हम ने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। २४ तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनो पर तीर छोड़े, और राजा के कितने जन मर गए, और तेरा दास ऊरिय्याह हिती भी मर गया। २५ दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यो कहना, कि इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नाश करती है; तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे। और तू उसे हियाव बन्धा। २६ जब ऊरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिये रोने पीटने लगी। २७ और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परन्तु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ ॥

१२ तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिन में से एक धनी और एक निर्धन था। २ धनी के पास तो बहुत सी भेड़-बकरियाँ और गाय बैल थे; ३ परन्तु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उम ने मोल लेकर जिलाया था। और वह उसके यहां उसके बालबच्चों के साथ ही बड़ी थी, वह उसके टुकड़े में से खाती, और उसके कटोरे में से पीती, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेंटी के समान थी। ४ और धनी के पास एक बटोही आया, और उस ने उस बटोही के लिये, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़-बकरियों वा गाय बैलों में से कुछ न लिया, परन्तु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिये, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। ५ तब दाऊद का कोप उम मनुष्य पर बहुत भडका, और उस ने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दण्ड के योग्य है, ६ और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुणा भर देना होगा, क्योंकि उम ने ऐसा काम किया, और कुछ दया नहीं की।

७ तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि मैं ने तेरा अभिषेक कराके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैं ने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया; ८ फिर मैं ने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्निया तेरे भोग के लिये दी, और मैं ने इस्राएल

और यहूदा का घराना तुम्हें दिया था, और यदि यह थोड़ा था, तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देनेवाला था। ६ तू ने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हिती ऊरिय्याह को तू ने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और ऊरिय्याह को अपनी कर लिया है, और ऊरिय्याह को अपनी कर लिया है। १० इसलिये अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तू ने मुझे तुच्छ जानकर हिती ऊरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। ११ यहोवा यो कहता है, कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे साम्हने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दुपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। १२ तू ने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के साम्हने दिन दुपहरी कराऊंगा। १३ तब दाऊद ने नातान से कहा, मैं ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। १४ तौभी तू ने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। १५ तब नातान अपने घर चला गया ॥

और जो बच्चा ऊरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। १६ और दाऊद उस लडके के लिये परमेश्वर से विनती करने लगा, और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर

पड़ा रहा। १७ तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिये उसके पास गए, परन्तु उस ने न चाहा, और उनके सग रोटी न खाई। १८ सातवें दिन बच्चा मर गया, और दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे, उन्हो ने तो कहा था, कि जब तक बच्चा जीवित रहा, तब तक उस ने हमारे समझाने पर मन न लगाया, यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए, तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। १९ अपने कर्मचारियों को आपस में फूसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया, तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्हो ने कहा, हा, मर गया है। २० तब दाऊद भूमि पर से उठा, और नहाकर तेल लगाया, और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दण्डवत् की, फिर अपने भवन में आया, और उसकी आज्ञा पर रोटी उमको परोसी गई, और उस ने भोजन किया। २१ तब उसके कर्मचारियों ने उस से पूछा, तू ने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा, तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परन्तु ज्योंही बच्चा मर गया, त्योंही तू उठकर भोजन करने लगा। २२ उस ने उत्तर दिया, कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा, कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। २३ परन्तु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूँ? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा,

परन्तु वह मेरे पास लौट न आया। २४ तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शान्ति दी, और वह उसके पास गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस ने उसका नाम मुलैमान रखा। और वह यहोवा का प्रिय हुआ। २५ और उस ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा सन्देश भेज दिया, और उस ने यहोवा के कारण उसका नाम यदीद्याह* रखा ॥

२६ और योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। २७ तब योआब ने दूतों में दाऊद के पास यह कहला भेजा, कि मैं रब्बा में लड़ा और जलवाले नगर को ले लिया है। २८ सो अब रहे हुए लोगों का इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले, ऐसा न हो कि मैं उसे ले लू, और वह मेरे नाम पर कहलाए। २९ तब दाऊद सब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया, और उस से युद्ध करके उसे ले लिया। ३० तब उस ने उनके राजा † का मुकुट, जो तौल में किस्कार भर सोने का था, और उस में मणि जड़े थे, उसको उसके सिर पर से उतारा, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उस ने उस नगर की बहुत ही लूट पाई। ३१ और उस ने उसके रहनेवालों को निकालकर आरो से दो दो टुकड़े कराया, और लोहे के हेंगे उन पर फिरवाए, और लोहे की कुल्हाड़ियों से उन्हें कटवाया, और ईंट के पजावे में

* अर्थात् यहोवा का प्रिय।

† मूल में—मेरा नाम उस पर पुकारा जावे।

‡ वा मल्काम।

से चलवाया*, और अम्मोनियों के सब नगरो में भी उस ने ऐसा ही किया। तब दाऊद ममस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट आया ॥

(अम्मोन का कुर्बान करना और मार डाला जाना)

१३

इसके बाद तामार नाम एक सुन्दरी जो दाऊद के पुत्र अबशा लाम की बहिन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्मोन मोहित हुआ। २ और अम्मोन अपनी बहिन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड गया, क्योंकि वह कुमारी थी, और उसके माथ कुछ करना अम्मोन को कठिन जान पड़ता था। ३ अम्मोन के योनादाब नाम एक मित्र था, जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था, और वह बड़ा चतुर था। ४ और उस ने अम्मोन से कहा, है राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रति दिन ऐसा दुबला होता जाता है क्या तू मुझे न बनाएगा? अम्मोन ने उस से कहा, मैं तो अपने भाई अबशालाम की बहिन तामार पर मोहित हू। ५ योनादाब ने उस से कहा, अपने पलग पर लटककर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने को आए, तब उस से कहना, मेरी बहिन तामार आकर मुझे रोटी खिलाए, और भोजन का मेरे साम्हने बनाए, कि मैं उसको देखकर उसके हाथ में खाऊ। ६ और अम्मोन लटककर बीमार बना, और जब राजा उसे देखने आया, तब अम्मोन ने राजा से कहा, मेरी बहिन तामार आकर मेरे देखते दो पूंगे बनाए,

* वा आरो, लोहे के हेंगों, और लोहे की कुल्हाड़ियों के काम पर लगाया और उन से ईंट के पजावे में परिश्रम कराया।

कि मैं उसके हाथ से खाऊँ। ७ और दाऊद ने अपने घर तामार के पास यह कहला भेजा, कि अपने भाई अम्मोन के घर जाकर उसके लिये भोजन बना। ८ तब तामार अपने भाई अम्मोन के घर गई, और वह पडा हुआ था। तब उस ने आटा लेकर गूधा, और उसके देखते पूरिया पकाई। ९ तब उस ने थाल लेकर उनको उसके लिये पगेसा, परन्तु उस ने खाने से इनकार किया। तब अम्मोन ने कहा, मेरे आस पास से सब लोगों को निकाल दो, तब सब लोग उसके पास से निकल गए। १० तब अम्मोन ने तामार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ, कि मैं तेरे हाथ से खाऊँ। तो तामार अपनी बनाई हुई पूरियो को उठाकर अपने भाई अम्मोन के पास कोठरी में ले गई। ११ जब वह उनको उसके खाने के लिये निकट ले गई, तब उस ने उसे पकड़कर कहा, हे मेरी बहिन, आ, मुझ में मिल। १२ उस ने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट न कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिये, ऐसी मूढता का काम न कर। १३ और फिर मैं अपनी नामधराई लिये हुए कहा जाऊँगी? और तू इस्राएलियों में एक मूढ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझ को तुझे ब्याह देने के लिये मना न करेगा। १४ परन्तु उस ने उसकी न सुनी, और उस में बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। १५ तब अम्मोन उस से अत्यन्त बैर रखने लगा, यहां तक कि यह बैर उसके पहिले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्मोन ने उस से कहा, उठकर चली जा। १६ उस ने कहा,

ऐसा नहीं, क्योंकि यह बडा उपद्रव, अर्थात् मुझे निकाल देना उस पहिले से बढ़कर है जो तू ने मुझ में किया है। परन्तु उस ने उसकी न सुनी। १७ तब उस ने अपने टहलुए जवान को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास में बाहर निकाल दे, और उसके पीछे किबाड में चिटकनी लगा दे। १८ वह तो रगबिरगी कुर्ती पहिने थी, क्योंकि जो राजकुमारिया कुवारी रहनी थी वे ऐसे ही वस्त्र पहिनती थी। सो अम्मोन के टहलुए ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किबाड में चिटकनी लगा दी। १९ तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली, और अपनी रगबिरगी कुर्ती को फाड डाला, और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। २० उसके भाई अबशालोम ने उस में पूछा, क्या तेरा भाई अम्मोन तेरे साथ रहा है? परन्तु अब, हे मेरी बहिन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिन्ता न कर। तब तामार अपने भाई अबशालोम के घर में मन मारे बैठी रही। २१ जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पडी, तब वह बहुत भुंकेला उठा। २२ और अबशालोम ने अम्मोन में भला-बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्मोन ने उसकी बहिन तामार को भ्रष्ट किया था, इस कारण अबशालोम उस से घृणा रखता था ॥

२३ दो वर्ष के बाद अबशालोम ने एग्रैम के निकट के बाल्हासोर में अपनी भेडो का ऊन कतरवाया और अबशालोम ने सब राजकुमारो को नेवता दिया। २४ वह राजा के पास जाकर कहन लगा, विनती यह है, कि तेरे दास की भेडो का ऊन कतरा जाता है, इसलिये राजा अपने कर्मचारियो समेत अपने दास

के संग चले। २५ राजा ने अबशालोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं; हम सब न चलेंगे, ऐसा न हो कि तुम्हें अधिक कष्ट हो। तब अबशालोम ने उसे विनती करके दबाया, परन्तु उस ने जाने से इनकार किया, तभी उसे आशीर्वाद दिया। २६ तब अबशालोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे सग जाने दे। राजा ने उस से पूछा, वह तेरे सग क्यों चले? २७ परन्तु अबशालोम ने उसे ऐसा दबाया कि उस ने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। २८ और अबशालोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, कि सावधान रहो और जब अम्नोन दासमधु पीकर नशे में आ जाए, और मैं तुम से कहूँ, अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देनेवाला मैं नहीं हूँ? हियाव बान्धकर पुरुषार्थ करना। २९ तो अबशालोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशालोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए, और अपने अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। ३० वे मार्ग ही में थे, कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम ने सब राजकुमारों को मार डाला, और उन में से एक भी नहीं बचा। ३१ तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े, और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। ३२ तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान, अर्थात् राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उस ने अबशालोम की बहिन

तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशालोम की आज्ञा से ऐसी ही बात ठनी थी। ३३ इसलिये अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो; क्योंकि केवल अम्नोन ही मर गया है। ३४ इतने में अबशालोम भाग गया। और जो जवान पहरा देता था उस ने आखे उठाकर देखा, कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। ३५ तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार तो आ गए हैं; जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। ३६ वह कह ही चुका था, कि राजकुमार पहुँच गए, और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे; और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। ३७ अबशालोम तो भागकर गश्ूर के राजा अम्मीहूर के पुत्र तल्म के पास गया। और दाऊद अपने पुत्र के लिये दिन दिन विलाप करता रहा ॥

(अबशालोम के राजद्रोह की गोष्ठी)

३८ जब अबशालोम भागकर गश्ूर को गया, तब वहाँ तीन वर्ष तक रहा। ३९ और दाऊद के मन में अबशालोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही; क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उस ने उसके विषय में शान्ति पाई ॥

१४ और सख्याह का पुत्र योआब ताड गया कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है। २ इसलिये योआब ने तको नगर में दूत भेजकर वहाँ से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया, और उस से कहा, शोक करनेवाली बन, अर्थात् शोक

का पहिरावा पहिन, और तेल न लगा, परन्तु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मुए के लिये विलाप करती रही हो। ३ तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना। और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। ४ जब वह तकोइन राजा से बाने करने लगी, तब मुह के बल भूमि पर गिर दण्डवत् करके कहने लगी, राजा की दोहाई। ५ राजा ने उस से पूछा, तुम्हें क्या चाहिये ? उस ने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया, और मैं विधवा हो गई। ६ और तेरी दासी के दो बेटे थे, और उन दोनों ने मैदान में मार पीट की, और उनको छुड़ानेवाला कोई न था, इसलिये एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। ७ और यह मुन सब कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं, कि जिस ने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौप दे, कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के पलटे में उसको प्राण दण्ड दे; और वारिस को भी नाश करे। इम तरह वे मेरे भगारे को जो बच गया हैं बुझाएंगे, और मेरे पति का नाम और सन्तान धरती पर से मिटा डालेंगे। ८ राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा, और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। ९ तकोइन ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे; और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। १० राजा ने कहा, जो कोई तुझ से कुछ बोले उसको मेरे पाम ला, तब वह फिर तुम्हें छूने न पाएगा। ११ उस ने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे, कि खून का पलटा

लेनेवाला और नाश करने न पाए, और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उस ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। १२ स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। १३ उस ने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तू ने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिये ऐसी ही युक्ति क्यों की है ? राजा ने जो यह वचन कहा है, इस से वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। १४ हम को तो मरना ही है, और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता; तौभी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। १५ और अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है, कि लोगो ने मुझे डरा दिया था; इसलिये तेरी दासी ने सोचा, कि मैं राजा से बोलूंगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। १६ नि.सन्देह राजा मुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नाश करना चाहता है। १७ तो तेरी दासी ने सोचा, कि मेरे प्रभु राजा के वचन से शान्ति मिले; क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले-बुरे में भेद कर सकता है; इसलिये तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सग रहें। १८ राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बात मैं तुझ से पूछता हूँ उसे मुझ से न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा

प्रभु राजा कहे जाए। १६ राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा मगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है, उम में कोई न दाहिनी ओर मुड़ सकती है और न बाईं। तेरे दाम योआब ही ने मुझे भ्राजा दी, और ये सब बाने उसी ने तेरी दामी को सिखाई है। २० तेरे दाम योआब ने यह काम इमलिये किया कि बात का रग बदले। और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहा तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है। २१ तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैं ने यह बात मानी है, तू जाकर अबशालोम जवान को लीटा ला। २२ तब योआब ने भूमि पर मुह के बल गिर दगडवत् कर राजा को आशीर्वाद दिया, और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दाम जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। २३ और योआब उठकर गधूर को गया, और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। २४ तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे, और मेरा दर्शन न पाए। तब अबशालोम अपने घर जा रहा, और राजा का दर्शन न पाया।

२५ समस्त इस्राएल में सुन्दरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था; वरन उम में नख में सिल तक कुछ दोष न था। २६ और वह वर्ष के अन्त में अपना मिर मुंडवाता था (उसके बाल उसको भारी जनि पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता

था), और जब जब वह उसे मुंडाता तब तब अपने मिर के बाल तीलकर राजा के तील के अनुमार दो मी शेकेल भर पाता था। २७ और अबशालोम के तीन बेटे, और तामार नाम एक बेटी उत्पन्न हुई थी, और यह रूपवती स्त्री थी।

२८ और अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में दो वर्ष रहा। २९ तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उमे राजा के पाम भेजे, परन्तु योआब ने उसके पास आने में इनकार किया। और उस ने उमे दूसरी बार बुलवा भेजा, परन्तु तब भी उस ने आने में इनकार किया। ३० तब उस ने अपने सेवको से कहा, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है, और उम में उसका जव खडा है, तुम जाकर उम में आग लगाओ। और अबशालोम के सेवको ने उस खेत में आग लगा दी। ३१ तब योआब उठा, और अबशालोम के घर में उमके पाम जाकर उम में पूछने लगा, तेरे सेवको ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई है? ३२ अबशालोम ने योआब से कहा, मैं ने तो तेरे पाम यह कहला भेजा था, कि यहा आना कि मैं तुम्हें राजा के पास यह कहने को भेजू, कि मैं गधूर से क्यों आया? मैं अब तक वहा रहता तो अच्छा होता। इसलिये अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हू, तो वह मुझे मार डाले। ३३ तो योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई, और राजा ने अबशालोम को बुलवाया। और वह उसके पास गया, और उसके सम्मुख भूमि पर मुह के बल गिरके दगडवत् की, और राजा ने अबशालोम को चूमा।

१५ इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े, और अपने प्रागे प्रागे दीड़नेवाले पचास मनुष्य रख लिए। २ और अबशालोम सबेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिये आता, तब तब अबशालोम उसको पुकारके पूछता था, तू किस नगर में आता है? ३ और वह कहता था, कि तेरा दाम इस्त्राएल के फुलाने गोत्र का है। तब अबशालोम उस में कहता था, कि मुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है; परन्तु राजा की और में तेरी मुननेवाला कोई नहीं है। ४ फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता। कि जितने मुकद्दमावाले होते वे सब मेरे ही पास आते, और मैं उनका न्याय चुकाता। ५ फिर जब कोई उसे दगडवत् करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकडके चूम लेता था। ६ और जितने इस्त्राएली राजा के पास अपना मुकद्दमा न करने को आते उन सभी में अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था, इस प्रकार अबशालोम ने इस्त्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया ॥

७ चार * वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा में कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नन को पूरी करने दे, जो मैं ने यहोवा की मानी है। ८ तेरा दाम तो जब आराम के गशूर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नन मानी, कि यदि यहोवा मुझे मच्चमुच्च यरूशलेम को लौटा ले जाए, तो मैं यहोवा की

उपासना करूंगा। ९ राजा ने उस से कहा, कुशल क्षेम मे जा। और वह चलकर हेब्रोन को गया। १० तब अबशालोम ने इस्त्राएल के ममस्त गोत्रो में यह कहने के लिये भेदिए भेजे, कि जब नरसिंगे का शब्द तुम को मुन पड़े, तब कहना, कि अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। ११ और अबशालोम के मग दो सौ नेबत-हारी यरूशलेम में गए, वे सीधे मन में उसका भेद बिना जाने गए। १२ फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उस ने गिलोवामी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मन्त्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीला में आए। और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकडा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ने गए ॥

(दाऊद का भावना)

१३ तब किमी ने दाऊद के पास जाकर यह ममाचार दिया, कि इस्त्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की और हो गए है। १४ तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों में जो यरूशलेम में उसके मग थे कहा, आओ, हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम में न बचेगा; इसलिये फुर्ती करने चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे, और हमारी हानि करे, और इस नगर को तलवार में मार ले। १५ राजा के कर्मचारियों ने उस में कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े, वैसा ही करने के लिये तेरे दाम तैयार है। १६ तब राजा निकल गया, और उसके पीछे उसका ममस्त धराना निकला। और राजा दम रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिये छोड़ गया। १७ और

* वा चार्लस

राजा निकल गया, और उसके पीछे* सब लोग निकले, और वे बेतमेहंक † म ठहर गए। १८ और उसके मब कर्मचारी उसके पाम मे होकर आगे गए, और सब करेती, और मब पलेती, और सब गती, अर्थात् जो छ्र भी पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे वे मब राजा के साम्हने मे होकर आगे चले। १९ तब राजा ने गती इत्ते मे पूछा, हमारे सग तू क्यो चलता है ? लौटकर राजा ने पाम रह, क्योकि तू परदेशी और अपने देश मे दूर है, इसलिये अपने स्थान को लौट जा। २० तू तो बल ही आया है, क्या मे आज तुम्हे अपने साथ माग माग फिराऊ ? मे तो जहा जा सकूगा वहा जाऊंगा। तू लौट जा, और अपने भाइयो को भी लौटा दे, ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे सग रहे। २१ इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान मे मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिये हो चाहे जीवित रहने के लिये, उसी स्थान मे तेरा दास भी रहेगा। २२ तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। सो गती इत्ते अपने समस्त जनो और अपने साथ के सब बाल-बच्चो समेत पार हो गया। २३ सब रहनेवाले ‡ चिल्ला चिल्लाकर रोए, और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नाम नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जगल के मार्ग की और पार होकर चल

* मूल में—उसके पावों पर।

† अर्थात् दूराभ्रम।

‡ मूल में—सारा देश।

पडे। २४ तब क्या देखने मे आया, कि सादोक भी और उसके सग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का मन्दूक उठाए हुए है, और उन्हो ने परमेश्वर के मन्दूक को धर दिया, तब एब्यातार चढा, और जब तक मब लोग नगर मे न निकले तब तक वही रहा। २५ तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के मन्दूक को नगर मे लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वामस्थान को भी दिखाएगा, २६ परन्तु यदि वह मुझ मे ऐसा कहे, कि मे तुझ से प्रसन्न नही, तोभी मे हाजिर हू, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। २७ फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नही है ? सो कुशल क्षेम से नगर मे लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास, और एब्यातार का पुत्र योनातन, दोनो तुम्हारे सग लौटे। २८ सुनो, मे जङ्गल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा, जब तक तुम लोगो से मुझे हाल का समाचार न मिले। २९ तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के मन्दूक को यरूशलेम मे लौटा दिया, और आप वही रहे ॥

३० तब दाऊद जलपाइयो के पहाड की चढाई पर सिर ढापे, नगे पाव, रोता हुआ चढने लगा, और जिनने लोग उसके सग थे वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ गए। ३१ तब दाऊद को यह समाचार मिला, कि अबशालोम के सगी राजद्रोहियो के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। ३२ जब दाऊद चोटी तक पहुचा, जहा परमेश्वर को दगडवत्

किया करते थे, तब एरेकी हूशें अगरेखा फाडे, सिर पर मिट्टी डाले हुए उस से मिलने को आया। ३३ दाऊद ने उस से कहा, यदि तू मेरे सग आगे जाए, तब तो मेरे लिये भार ठहरेगा। ३४ परन्तु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा; जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसा ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिये अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। ३५ और क्या वहां तेरे सग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिये राजभवन में से जो हाल तुम्हें सुन पडे, उसे सादोक और एब्यातार याजको को बताया करना। ३६ उनके साथ तो उनके दो पुत्र, अर्थात् सादोक का पुत्र अहीमास, और एब्यातार का पुत्र योनातन, वहा रहेंगे, तो जो समाचार तुम लोगो को मिले उसे मेरे पास उन्ही के हाथ भेजा करना। ३७ और दाऊद का मित्र, हूशें, नगर को गया, और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया।।

१६ दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ गया था, कि मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बान्धे हुए गदहों पर दो सौ रोटी, किशमिश की एक सौ टिकिया, धूपकाल के फल की एक सौ टिकिया, और कुप्पी भर दाखमधु, लादे हुए उस से आ मिला। २ राजा ने सीबा से पूछा, इन से तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गदहे तो राजा के घराने की सवारी के लिये हैं, और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिये हैं, और दाखमधु इसलिये है कि

जो कोई जगल में थक जाए वह उसे पीए। ३ राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहा है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया, कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। ४ राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मपीबोशेत का था वह सब तुम्हें मिल गया। सीबा ने कहा, प्रणाम; हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे।।

५ जब दाऊद राजा बहरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुम्बी वहां से निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था; और वह कोसता हुआ चला आया। ६ और दाऊद पर, और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेकने लगा, और शूरवीरो समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। ७ और शिमी कोसता हुआ यो बकता गया, कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा! ८ यहोवा ने तुम्हें से शाऊल के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। और इसलिये कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फस गया। ९ तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। १० राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुम से क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उस से कहा है, कि दाऊद को शाप दे, तो उस में कौन पूछ सकता, कि तू ने

ऐसा क्यों किया ? ११ फिर दाऊद ने प्रबीश और अपने सब कर्मचारियों में कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे ? उसको रहन दो, और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उम में कहा है। १२ कदाचित् यहावा इस उपद्रव पर, जो मुझ पर हो रहा है, दृष्टि करके आज के शाप की मन्ती मुझे भला बखला दे। १३ तब दाऊद अपने जनों समेत अपना मार्ग चला गया, और शिमी उसके साम्हने के पहाड की अलग पर में शाप देता, और उम पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। १४ निदान राजा अपने सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुँचा, और वहाँ विश्राम किया ॥

१५ अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया, और उसके सब अहीतोपेल भी आया। १६ जब दाऊद का मित्र एरेकी हूँ अबशालोम के पास पहुँचा, तब हूँ ने अबशालोम में कहा, राजा चिरजीव रहे ! राजा चिरजीव रहे ! १७ अबशालोम ने उम में कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है ? तू अपने मित्र के सब क्यों नहीं गया ? १८ हूँ ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इस्राएली लोग चाहे, उमी का मैं हूँ, और उसी के सब मैं रहूँगा। १९ और फिर मैं किमकी सेवा करूँ ? क्या उसके पुत्र के साम्हने रहकर सेवा न करूँ ? जैसा मैं तेरे पिता के साम्हने रहकर सेवा करता था, वंसा ही तेरे साम्हने रहकर सेवा करूँगा। २० तब अबशालोम ने अहीतोपेल में कहा,

तुम लोग अपनी सम्मति दो, कि क्या करना चाहिये ? २१ अहीतोपेल ने अबशालोम में कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकमी करने को छोड गया, उनके पास तू जा, और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे, कि अबशालोम का पिता उम में घिन करता है, तब तेरे सब सगी हियाव बान्धेगे। २२ मो उसके लिये भवन की छत के ऊपर एक तम्बू खडा किया गया, और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखने अपने पिता की रखेलियों के पास गया। २३ उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो, अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को, जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी ॥

१७ फिर अहीतोपेल ने अबशालोम में कहा, मुझे बारह हजार पुरुष छाटने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूँगा। २ और जब वह थकित और निर्बल होगा, तब मैं उसे पकडगा, और डगाऊँगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागगे। और मैं राजा ही को मारूँगा, ३ और मैं सब लोगों को तेरे पाम लौटा लाऊँगा, जिम मनुष्य वा तू खाजी है उसके मिलने में समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, और समस्त प्रजा कुशल क्षेम में रहेगी। ४ यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पडा ॥

५ फिर अबशालोम ने कहा, एरेकी हूँ को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। ६ जब हूँ अबशालोम के पास आया, तब अबशालोम ने उम से

कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है; क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं, तो तू कह दे। हूशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। ८ फिर हूशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनो को जानता है कि वे शूरवीर हैं, और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। और तेरा पिता योद्धा है, और और लोगो के साथ रात नहीं बिनाता। ९ इस समय तो वह किसी गढहे, वा किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इन में से पहिले पहिले कोई कोई मारे जाए, तब इसके सब मुननेवाले कहने लगेंगे, कि अबशालोम के पक्षवाले हार गए। १० तब वीर का हृदय, जो सिंह का सा होता है, उसका भी हियाव छूट जाएगा, समस्त इस्त्राएली तो जानता है कि तेरा पिता वीर है, और उसके सगी बडे योद्धा है। ११ इसलिये मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेशैबातक रहनेवाले समस्त इस्त्राएली तेरे पास समुद्रतीर की बालू के किनको के समान इकट्ठे किए जाए, और तू आप ही * युद्ध को जाए। १२ और जब हम उसको किसी न किमी स्थान में जहा वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे, तब न तो वह बचेगा, और न उसके सगियो में से कोई बचेगा। १३ और यदि वह किसी नगर में घुसा हो, तो सब इस्त्राएली उस नगर के पाम रस्सिया ले आएंगे, और हम उसे नाले में खीचेंगे, यहा तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। १४ तब

* मूल में—तेरा सुख।

अबशालोम और सब इस्त्राएली पुरुषो ने कहा, ऐरेकी हूशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति में उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिये ठाना था, कि यह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले ॥

१५ तब हूशै ने सादोक और एब्यातार याजको से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इस्त्राएली पुरनियो को इस इस प्रकार की सम्मति दी, और मैं ने इस इस प्रकार की सम्मति दी है। १६ इसलिये अब फूर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो, कि आज रात जगली घाट के पाम न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना, ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके सग हो, सब नाश हो जाए। १७ योनातन और अहीमाम एनरोगेल के पाम ठहरे रहे; और एक लौडी जाकर उन्हें सन्देश दे आती थी, और वे जाकर राजा दाऊद को सन्देश देते थे, क्योंकि वे किमी के देखने नगर में नहीं जा सकने थे। १८ एक छोकरे ने तो उन्हें देखकर अबशालोम को बताया; परन्तु वे दोनो फूर्ती से चले गए, और एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुचकर जिसके आगन में कुआ था उस में उतर गए। १९ तब उसकी स्त्री ने कपडा लेकर कुए के मुह पर बिछाया, और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फेंका दिया; इसलिये कुछ मालूम न पडा। २० तब अबशालोम के मेवक उस घर में उस स्त्री के पाम जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातन कहा है? स्त्री ने उन से कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्हो ने उन्हें दूबा, और न पाकर यरूशलेम को लौटे। २१ जब वे

चले गए, तब ये कुएं में से निकले, और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया, और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो, फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ; क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। २२ तब दाऊद अपने सब सगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया; और पह फटने तक उन में से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। २३ जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उस ने अपने गदहे पर काठी कमी, और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया। और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने कौं फांसी लगा ली, और वह मर गया, और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई ॥

२४ दाऊद तो महनैम में पहुँचा। और अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों समेत यरदन के पार गया। २५ और अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इस्राएली यित्रो था, और वह योआब की माता, सरूयाह की बहिन, अबीगल नाम नाहाश की बेटे के सग सोया था। २६ और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली ॥

२७ जब दाऊद महनैम में आया, तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी, और लोदबरवासी अम्मोएल का पुत्र माकीर, और रोगलीमवासी गिलादी बर्जिल्लै, २८ चारपाइया, तसले मिट्टी के बर्तन, गेहूँ, जव, मैदा, लोबिया,

मसूर, चबेना, २९ मधु, मक्खन, भेड़-बकरिया, और गाय के दही का पनीर, दाऊद और उसके सगियों के खाने को यह सोचकर ले आए, कि जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके माँदे होंगे ॥

१८ तब दाऊद ने अपने सग के लोगों की गिनती ली, और उन पर सहस्र-पति और शतपति ठहराए। २ फिर दाऊद ने लोगों की एक तिहाई तो योआब के, और एक तिहाई सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीश के, और एक तिहाई गती इत्त के, अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। और राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अबदय तुम्हारे साथ चलूँगा। ३ लोगो ने कहा, तू जान न पाएगा। क्योंकि चाहे हम भाग जाए, तोभी वे हमारी चिन्ता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाए, तोभी वे हमारी चिन्ता न करेंगे। क्योंकि हमारे सरीखे दम हजार पुरुष हैं; इसलिये अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। ४ राजा ने उन से कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूँगा। और राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा, और सब लोग सौ सौ, और हजार हजार, करके निकलने लगे। ५ और राजा ने योआब, अबीश, और इत्त को आज्ञा दी, कि मेरे निमित्त उस जवान, अर्थात् अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। ६ सो लोग इस्राएल का साम्हना करने को मैदान में निकले; और एप्रैम नाम वन में युद्ध हुआ। ७ वहा इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार

गए, और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि बीस हजार खेत भ्राए। ८ और युद्ध उस समस्त देश में फैल गया; और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए, उन से भी अधिक वन के कारण मर गए। ९ सयोग से अबशालोम और दाऊद के जनो की भेंट हो गई। अबशालोम तो एक खच्चर पर चढा हुआ जा रहा था, कि खच्चर एक बड़े बाज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया, और उसका सिर उस बाज वृक्ष में अटक गया, और वह अघर में लटका रह गया, और उसका खच्चर निकल गया। १० इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, कि मैं ने अबशालोम को बाज वृक्ष में टगा हुआ देखा। ११ योआब ने बतानेवाले से कहा, तू ने यह देखा ! फिर क्यों उसे वही मारके भूमि पर न गिरा दिया ? तो मैं तुम्हें दस टुकड़े चांदी और एक कटिबन्द देता। १२ उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में हजार टुकड़े चांदी तौलकर दिए जाएं, तीभी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगो के सुनते राजा ने तुम्हें और अबीश और इतै को यह आज्ञा दी, कि तुम मे से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात् अबशालोम को न छूए। १३ यदि मैं घोखा देकर उसका प्राण लेता, तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बान छिपी नहीं रहती। १४ योआब ने कहा, मैं तेरे सग योही ठहरा नहीं रह सकता ! सो उस ने तीन लकड़ी हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में, जो बाज वृक्ष में जीवति लटका था, छेद डाला। १५ तब योआब के दस हथियार ढोनेवाले जवानों

ने अबशालोम को घेरके ऐसा मारा कि वह मर गया। १६ फिर योआब ने नरसिगा फूका, और लोग इस्राएल का पीछा करने से लौटे; क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। १७ तब लोगो ने अबशालोम को उतारके उस वन के एक बड़े गड़हे में डाल दिया, और उस पर पत्थरो का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया; और सब इस्राएली अपने अपने ढेरों को भाग गए। १८ अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करानेवाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिये वह लाठ खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाठ का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशालोम की लाठ कहलाती है ॥

१९ और सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे, कि यहोवा ने न्याय करके तुम्हें तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। २० योआब ने उस से कहा, तू आज के दिन समाचार न दे; दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परन्तु आज समाचार न दे, इसलिये कि राजकुमार मर गया है। २१ तब योआब ने एक कूशी से कहा जो कुछ तू ने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। तो वह कूशी योआब को दण्डवत् करके दौड़ गया। २२ फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परन्तु मुझे भी कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है ? २३ उस ने यह कहा, जो हो सो हो, परन्तु मुझे दौड़

जाने दे। उसने उम में कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा, और तराई में हांकर कूशी के प्रांगे बढ़ गया ॥

२४ दाऊद तो दो फाटक के बीच बैठा था, कि पहरेआ जाँ फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उस ने आखे उठाकर क्या देखा, कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। २५ जब पहरेआ ने पुकारके राजा को यह बना दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो, तो सन्देश लाता होगा। वह दौड़ने दौड़ते निकल आया। २६ फिर पहरेआ ने एक और मनुष्य को दौड़ने हुए देख फाटक के रखवाले को पुकारके कहा, मुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी सन्देश लाता होगा। २७ पहरेआ ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सादोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह तो भला मनुष्य है, तो भला सन्देश लाता होगा। २८ तब अहीमास ने पुकारके राजा से कहा, कल्याण। फिर उम ने भूमि पर मुह के बल गिर राजा को दगडवत् करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिस ने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठानवाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया है। २९ राजा ने पूछा, क्या उस जवान अबशालोम का कल्याण है? अहीमाम ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परन्तु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। ३० राजा ने कहा, हटकर यही खड़ा रह। और वह हटकर खड़ा रहा। ३१ तब कूशी भी आ गया, और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के

लिये ममाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके तुम्हें उन सभी के हाथ से बचाया है जो मेरे विरुद्ध उठे थे। ३२ राजा ने कूशी में पूछा, क्या वह जवान अर्थात् अबशालोम कल्याण में है? कूशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु, और जितने तेरी हानि के लिये उठे हैं, उनकी दशा उम जवान की सी हो। ३३ तब राजा बहुत घबराया, और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा; और चलते चलते यो कहता गया, कि हाय मेरे बेटे अबशालोम! मेरे बेटे, हाय! मेरे बेटे अबशालोम! भला होता कि मैं आप तेरी सन्ती मरता, हाय! अबशालोम! मेरे बेटे, मेरे बेटे!।

(दाऊद का यरुशलेम को लौटना)

१९ तब योआब को यह समाचार मिला, कि राजा अबशालोम के लिये रो रहा है और विलाप कर रहा है। २ इसलिये उम दिन का विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गया; क्योंकि लोगों ने उम दिन सुना, कि राजा अपने बेटे के लिये खिदित है। ३ और उम दिन लोग ऐसा मुह चुराकर नगर में घुमें, जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुह चुराते हैं। ४ और राजा मुह ढापे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा, कि हाय मेरे बेटे अबशालोम! हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे! ५ तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा, और तेरे बेटे-बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखैलियों का प्राण तो बचाया है, परन्तु तू ने आज के दिन उन सभी का मुह काला किया है;

६ इसलिये कि तू अपने बैरियो से प्रेम और अपने प्रेमियो से बैर रखता है। तू ने आज यह प्रगट किया कि तुझे हाकिमो और कर्मचारियो की कुछ चिन्ता नही; वरन मैं ने आज जान लिया, कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता, तो तू बहुत प्रसन्न होता। ७ इसलिये अब उठकर बाहर जा, और अपने कर्मचारियो को शान्ति दे, नही तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ, कि यदि तू बाहर न जाएगा, तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे सग न रहेगा; और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तिया तुझ पर पडी है उन सब से यह विपत्ति बडी होगी। ८ तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। और जब सब लोगो को यह बताया गया, कि राजा फाटक में बैठा है; तब सब लोग राजा के साम्हने आए।

और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। ९ और इस्राएल के सब गोत्रो में सब लोग आपस में यह कहकर झगडते थे, कि राजा ने हमे हमारे शत्रुओ के हाथ में बचाया था, और पलिस्तियो के हाथ से उसी ने हमे छुडाया; परन्तु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। १० और अबशालोम जिसको हम ने अपना राजा होने को अभियेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते? और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नही करते?

११ तब राजा दाऊद ने सादोक और एब्बातार याजको के पास कहला भेजा, कि यहूदी पुरनियो से कहो, कि तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिये सब से

पीछे क्यों होते हो जब कि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है, कि उसको भवन में पहुंचाए? १२ तुम लोग तो मेरे भाई, वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सब के पीछे क्यों होते हो? १३ फिर अमामा में यह कहो, कि क्या तू मेरी हड्डी और मांस नही है? और यदि तू योआब के स्थान पर मदा के लिये सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझ से बैसा ही वरन उस में भी अधिक करे। १४ इस प्रकार उस ने सब यहूदी पुरुषो के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानों एक ही पुरुष था, और उन्हो ने राजा के पास कहला भेजा, कि तू अपने सब कर्मचारियो को सग लेकर लौट आ। १५ तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया; और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उस से मिलकर उसे यरदन पार ले आए।

१६ यहूदियों के सग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी जो बहूरीमी था फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया; १७ उसके सग हजार बिन्यामीनी पुरुष थे। और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने पन्द्रह पुत्रों और बीस दासों समेत था, और वे राजा के साम्हने यरदन के पार पांव पैदल उतर गए। १८ और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने, और जिस काम में वह उसे लगाने चाहे उसी में लगने के लिये पार गया। और जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पावों पर गिरके, १९ राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न करे, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा

यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दाम ने जो कुटिल काम किया, उमे ऐमा स्मरण न कर कि राजा उमे अपने ध्यान में रखे। २० क्योंकि तेरा दाम जानता है कि मैं ने पाप किया, देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिये यमुफ के समस्त घराने में मैं ही पहिला आया हूँ। २१ तब मर्याह के पुत्र अबीश ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिपिक्क को शाप दिया था, इम कारण क्या उसको बध करना न चाहिये? २२ दाऊद ने कहा, हे मर्याह के बेटे, मुझे तुम से क्या काम, कि तुम आज मेरे विगंधी ठहरे हो? आज क्या इस्त्राएल में किमी को प्राण दगड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्त्राएल का राजा हुआ हूँ? २३ फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दगड न मिलेगा। और राजा ने उम से शपथ भी खाई ॥

२४ तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया, उम ने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक न अपने पाबो के नाखून काटे, और न अपनी दाढी बनवाई, और न अपने कपड़े धुलवाए थे। २५ तो जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए, तब राजा ने उस से पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे सग क्यों नहीं गया था? २६ उस ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया था, तेरा दास जो पगु है, इसलिये तेरे दास ने सोचा, कि मैं गदहे पर काठी कसबाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। २७ और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के साम्हने मेरी चुगली

खाई है। परन्तु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। २८ मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दगड के योग्य था, परन्तु तू ने अपने दाम को अपनी मेज पर खानेवालो में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की ओर दोहाई दूँ? २९ राजा ने उम से कहा, तू अपनी वान की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है, कि उम भूमि को तुम और मीवा दोनो आपस में बाट लो। ३० मपीबाशेत ने राजा से कहा, मेरे प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिये मीवा ही सब कुछ ले ले ॥

३१ तब गिलादी बर्जिल्लै रोगलीम में आया, और राजा के साथ यरदन पार गया, कि उसको यरदन के पार पहुँचाए। ३२ बर्जिल्लै तो बृद्ध पुरुष था, अर्थात् अस्मी वर्ष की आयु का था, जब तक राजा महनेम में रहता था तब तक वह उमका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। ३३ तब राजा ने बर्जिल्लै से कहा, मेरे सग पार चल, और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रखकर तेरा पालन पोषण करूँगा। ३४ बर्जिल्लै ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है, कि मैं राजा के सग यरूशलेम को जाऊँ? ३५ आज मैं अस्सी वर्ष का हूँ, क्या मैं भले-बुरे का विवेक कर सकता हूँ? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहिचान सकता है? क्या मुझे गवैय्यो वा गायिकाओ का शब्द अब सुन पडता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिये क्यों बोझ का कारण हो? ३६ तेरा दास राजा के सग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा

बडा बदला मुझे क्यों दे? ३७ अपने दास को लौटने दे, कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान के पास मरूँ। परन्तु तेरा दास किम्हाम उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा ही उस में व्यवहार करना। ३८ राजा ने कहा, हा, किम्हाम मेरे संग पार चलेगा, और जैसा तुझे भाए वैसा ही मैं उस में व्यवहार करूँगा, वरन जो कुछ तू मुझ से चाहेगा वह मैं तेरे लिये करूँगा। ३९ तब सब लोग यरदन पार गए, और राजा भी पार हुआ, तब राजा ने बर्जिल्लै को चूमकर आशीर्वाद दिया, और वह अपने स्थान को लौट गया।

(बेबा की राजद्रोह की गोष्ठी)

४० तब राजा गिलगाल की ओर पार गया, और उसके संग किम्हाम पार हुआ, और सब यहूदी लोगों ने और आधे इस्राएली लोगों ने राजा को पार पहुँचाया। ४१ तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आए, और राजा में कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुम्हें चोरी से ले आए, और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए हैं? ४२ सब यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया, कि कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है। तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हम ने राजा का दिया हुआ कुछ खाय़ा है? वा उस ने हमें कुछ दान दिया है? ४३ इस्राएली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में दस अश्व हमारे हैं; और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है।

तो फिर तुम ने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले जाने की चर्चा पहिले हम ही ने न की थी? और यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही।

२० वहा सयोग से शेबा नाम एक विन्यामीनी था, वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था, वह नरमिगा फूककर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अश्व नहीं, और न यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है, हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ! २ इसलिये सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए; परन्तु सब यहूदी पुरुष यरदन में यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे।

३ तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया; और राजा ने उन दस रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा, और उनका पालन पोषण करता रहा, परन्तु उन से सहवास न किया। इसलिये वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बन्द रही।

४ तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को तीन दिन के भीतर मेरे पास बुला ला, और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। ५ तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया; परन्तु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। ६ तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशालोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा; इसलिये तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, ऐसा न हो कि वह

गढवाले नगर पाकर हमारी दृष्टि में छिप जाए* । ७ तब योआब के जन, और करेती और पनेती लोग, और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए; और बिक्री के पुत्र शंवा का पीछा करने को यरूशलेम में निकले । ८ वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पाम पहुंचे ही थे, कि अमामा उन में आ मिला । योआब तो योआब का वस्त्र फेंटे में कमें हुए था, और उस फेंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बन्धी हुई थी, और जब वह चला, तब वह निकलकर गिर पडी । ९ तो योआब ने अमामा में पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल में है ? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमामा को चूमने के लिये उसकी दाढी पकडी । १० परन्तु अमामा ने उस तलवार की कुछ चिन्ता न की जो योआब के हाथ में थी; और उस ने उसे अमामा के पेट में भोक दी, जिस में उसकी अन्तर्दिया निकलकर धरती पर गिर पडी, और उस ने उसको दूसरी बार न मारा, और वह मर गया । तब योआब और उसका भाई अबीश बिक्री के पुत्र शंवा का पीछा करने को चले । ११ और उसके पाम योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले । १२ अमामा तो सड़क के मध्य अपने लोहू में लोट रहा था । तो जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमामा को सड़क पर से मँदान में उठा ले गया, और जब देखा कि जितने उसके पास घाते हैं वे खड़े हो जाते हैं,

* मूल में—हमारी आंख निकाले ।

तब उस ने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया । १३ उसके सड़क पर में सरकाए जाने पर, सब लोग बिक्री के पुत्र शंवा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए । १४ और वह सब इस्त्राएली गोत्रों में होकर अबेल और बेतमाका और बेरियो के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए । १५ तब उन्होंने ने उसको बेतमाका के अबेल में घेर लिया; और नगर के साम्हने ऐसा दमदमा बान्धा कि वह शहरपनाह में सट गया, और योआब के सग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिये धक्का देने लगे । १६ तब एक बढ़िमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, मुनो ! मुनो ! योआब में कहो, कि यहां आए, ताकि मैं उस से कुछ बात करू । १७ जब योआब उसके निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है ? उस ने कहा, हा, मैं वही हू । फिर उस ने उस में कहा, अपनी दामी के वचन सुन । उस ने कहा, मैं तो सुन रहा हू । १८ वह कहने लगी, प्राचीनकाल में तो लोग कहा करते थे, कि अबेल में पूछा जाए, और इस रीति भगडे को निपटा देते थे । १९ मैं तो मेलमिलापवाले और विश्वासयोग्य इस्त्रा-एलियो में से हू; परन्तु तू एक प्रधान नगर* नाश करने का यत्न करता है; तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा ? २० योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझ से दूर हो, दूर, कि मैं निगल जाऊ वा नाश करू ! २१ बात ऐसी नहीं है । शंवा नाम एप्रैम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उस ने दाऊद

* मूल में—नगर और मा ।

राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। सो तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर मे तेरे पास फेंक दिया जाएगा। २२ तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होने बिक्री के पुत्र शेबा का भिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिगा फूका, और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। और योआब यरूशलेम को राजा के पाल लौट गया ॥

२३ योआब तो समस्त इस्त्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा; और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों के ऊपर था, २४ और अदोगाम बेगारों के ऊपर था; और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, २५ और शया मन्त्री था, और सादोक और एब्यातार याजक थे, २६ और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मन्त्री था ॥

(गिबोनियों का पकड़ा किया जाना)

२१ दाऊद के दिनों में लगानार तीन बरस तक अकाल पडा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की *। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उम ने गिबोनियों को मरवा डाला था। २ तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उन से बाने की। गिबोनी लोग तो इस्त्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे; और इस्त्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी, परन्तु शाऊल को जो

इस्त्राएलियों और यहूदियों के लिये जलन हुई थी, इस में उम ने उन्हें मार डालने के लिये यत्न किया था ॥

३ तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिये क्या करूँ? और क्या करके ऐसा प्रायश्चित्त करूँ, कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको? ४ गिबोनियों ने उस में कहा, हमारे और शाऊल वा उसके घराने के मध्य रुपये पैसे * का कुछ भगडा नहीं, और न हमारा काम है कि किसी इस्त्राएली को मार डालें। उम ने कहा, जो कुछ तुम कहो, वही मैं तुम्हारे लिये करूँगा। ५ उन्होने राजा में कहा, जिम पुरुष ने हम को नाश कर दिया, और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति दी कि हम ऐसे मरवानाश हा जाएँ, कि इस्त्राएल के देश में आगे को न रह सकें, ६ उसके वश के मान जन हमें मौप दिए जाएँ, और हम उन्हें यहोवा के लिये यहोवा के चने हुए शाऊल की गिबा नाम बस्ती में फामी दगे। राजा ने कहा, मैं उनको मौप दूँगा। ७ परन्तु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातन ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण राजा ने योनातन के पुत्र मपीबोशेत को जो शाऊल का पोता था बचा रखा। ८ परन्तु अर्मोनी और मपीबोशेत नाम, अय्या की बेटी रिग्गा के दोनो पुत्र जो शाऊल में उत्पन्न हुए थे; और शाऊल की बेटी मीकन के पाचो बेटे, जो वह महोलवामी बर्जिल्ले के पुत्र अद्रीएल की ओर में थे, इनको राजा ने पकडवाकर ९ गिबोनियों के हाथ मौप दिया, और उन्होने उन्हें पहाड पर यहोवा के माम्हने

* मूल में—यहोवा का दर्शन हुआ।

* मूल में—तोने चान्दी।

कासी दी, और सातो एक साथ नाश हुए। उनका भार डाला जाना तो कटनी के पहिले दिनों में, अर्थात् जब की कटनी के आरम्भ में हुआ। १० तब अय्या की बेटी रिम्पा ने टाट लेकर, कटनी के आरम्भ में लेकर जब तक आकाश में उन पर अत्यन्त दृष्टि न पड़ी, तब तक चट्टान पर उमें अपने नीचे बिछाये रही, और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को, और न रात में बनैले पशुओं को उन्हें छूने * दिया। ११ जब अय्या की बेटी शाऊल की खवेली रिम्पा के डम काम का समाचार दाऊद को मिला, १२ तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को गिलादी यावेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, जहाँ पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टागा था, जब उन्होंने शाऊल को गिल्बो पहाड़ पर मार डाला था; १३ तो वह वहाँ से शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को ले आया; और फासी पाए हुए हड्डियों की हड्डिया भी इकट्ठी की गई। १४ और शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डिया बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल † के पिता कीश के क़न्निस्तान गाड़ी गई; और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिये प्रार्थना सुन ली।

(दाऊद का पलिश्तियों पर विजय का नाम)

१५ पलिश्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया, और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा; परन्तु

* मूल में—उन पर विश्राम करने।

† मूल में—हम।

दाऊद थक गया। १६ तब यिशबोबनोब, जो रपाई के वंश का था, और उसके भाले का फल तौल में तीन सौ शेकेल पीतल का था, और वह नई तलवार * बांधे हुए था, उस ने दाऊद को मारने को ठाना। १७ परन्तु मरूयाह के पुत्र अबीश ने दाऊद की महायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उस से कहा, तू फिर हमारे सग युद्ध को जाने न पाएगा, ऐसा न हो कि तेरे मरने में इस्राएल का दिया बुझ जाए ॥

१८ इसके बाद पलिश्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ, उस समय हूशाई मिम्बक ने रपाईवशी रूप को मारा। १९ और गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ, उस में बेतलेहेमवासी यारयोरगीम के पुत्र एन्हनान ने गती गोन्यत को मार डाला, जिसके बछे की छड़ जोलाहे की डोंगी के समान थी। २० फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहाँ एक बड़ी डील का रपाईवशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पाव में, छः छः उगली, अर्थात् गिनती में चौबीस उगलियां थी। २१ जब उस ने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र यहोनातान ने उसे मारा। २२ ये ही चार गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके जनों से मार डाले गए ॥

(दाऊद का एक भजन)

२२ और जिस समय यहोबा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब उस ने

* वा नये हथियार।

यहोवा के लिये इस गीत के वचन गाए .

२ उस ने कहा,

यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा
गढ, मेरा छुडानेवाला,

३ मेरा चट्टानरूपी परमेश्वर है,
जिसका मैं शरणागत हूँ,

मेरी ढाल, मेरा बचानेवाला सींग,
मेरा ऊँचा गढ, और मेरा
शरणास्थान है,

हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से
मेरा उद्धार किया करता है ॥

४ मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य
हूँ पुकारूँगा,

और अपने शत्रुओं से बचाया
जाऊँगा ॥

५ मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों
ओर घेरा डाला,

नास्तिकपन की धाराओं ने मुझ
को घबडा दिया था;

६ अधोलोक की रस्तियाँ मेरे चारों
ओर थीं,

मृत्यु के फन्दे मेरे साम्हने थे ॥

७ अपने संकट में मैं ने यहोवा को
पुकारा;

और अपने परमेश्वर के सम्मुख
चिल्लाया ।

और उस ने मेरी बात को अपने
मन्दिर में से सुन लिया,

और मेरी दोहाई उसके कानों
में पहुँची ॥

८ तब पृथ्वी हिल गई और ढोल
उठी;

और आकाश की नेवें कांपकर
बहुत ही हिल गईं,

क्योंकि वह प्रति क्रोधित हुआ
था ॥

९ उसके नधनों से धुंधा निकला,
और उसके मुह से भाग निकलकर
भस्म करने लगी .

जिस से कोयले दहक उठे ॥

१० और वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे
उतर आया;

और उसके पांवों के तले धोर
भ्रष्टकार छाया था ॥

११ और वह करुब पर सवार होकर
उडा.

और पवन के पलों पर चढ़कर
दिसाई दिया ॥

१२ और उस ने अपने चारों ओर के
अधियारे को, मेघों * के समूह,

और आकाश की काली घटाओं
को अपना मण्डप बनाया ॥

१३ उसके सम्मुख की झलक तो
उसके आगे आगे थी,

भाग के कोयले दहक उठे ॥

१४ यहोवा आकाश में से गरजा,
और परमप्रधान ने अपनी वाणी

सुनाई ॥

१५ उस ने तीर चला चलाकर मेरे
शत्रुओं को † तितर बितर कर

दिया,

और बिजली गिरा गिराकर
उसको परास्त कर दिया ॥

१६ तब समुद्र की बाह दिसाई देने
लगी,

और जगत की नेवें झुल गईं,

यह तो यहोवा की डांट से,

और उसके नधनों की सांस की
झोंक से हुआ ॥

* मूळ में—बल्लों ।

† मूळ में—उनको ।

- १७ उस ने ऊपर मे हाथ बढ़ाकर
मुझे थाम लिया,
और मुझे गहरे जल में मे खीचकर
बाहर निकाला ॥
- १८ उम ने मुझे मेरे बलवन्त शत्रु में,
और मेरे बैरियों में, जो मुझ में
अधिक मामर्थी थे, मुझे छड़ा
लिया ॥
- १९ उन्होंने ने मेरी विपत्ति के दिन मेरा
साम्हना तो किया,
परन्तु यहोवा मेरा आश्रय था ॥
- २० और उम ने मुझे निकालकर चीटे
स्थान में पहुँचाया,
उम ने मुझे को छोड़ाया, क्योंकि
वह मुझ में प्रसन्न था ॥
- २१ यहोवा ने मुझ में मेरे धर्म के
अनुसार व्यवहार किया,
मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार
उस ने मुझे बदला दिया ॥
- २२ क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर
चलता रहा,
और अपने परमेश्वर से मुह
मोड़कर दुष्ट न बना ॥
- २३ उसके सब नियम तो मेरे साम्हने
बने रहे,
और मैं उसकी विधियों से हट
न गया ॥
- २४ और मैं उसके साथ खरा बना
रहा,
और अधर्म से अपने को बचाए
रहा, जिस में मेरे फसने का
डर था * ॥
- २५ इसलिये यहोवा ने मुझे मेरे धर्म
के अनुसार बदला दिया,
- मेरी उम शुद्धता के अनुसार जिसे
वह देखता था ॥
- २६ दयावन्त के साथ तू अपने को
दयावन्त दिखाता,
खरे पुस्त्य के साथ तू अपने को
खरा दिखाता है;
- २७ शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध
दिखाना,
और टेढ़े के साथ तू तिरछा
बनता है ॥
- २८ और दीन लोगों को तो तू बचाता
है,
परन्तु अभिमानियों पर दृष्टि
करके उन्हें नीचा करना है ॥
- २९ हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है,
और यहोवा मेरे अन्धियारे को
दूर करके उजियाला कर देता
है ॥
- ३० तेरी महायता में मैं दल पर धावा
करता,
अपने परमेश्वर की सहायता से
मैं शहरपनाह को फाद जाता
हूँ ॥
- ३१ ईश्वर की गति खरी है;
यहोवा का वचन ताया हुआ है;
वह अपने सब शरणागतों की
ढाल है ॥
- ३२ यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर
है ?
हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या
और कोई चट्टान है ?
- ३३ यह वही ईश्वर है, जो मेरा प्रति
दूढ़ किला है,
वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग
में लिए चलता है ॥

* मूल में—अपने अधर्म से ।

- ३४ वह मेरे पैरो को हरिणियों के से
बना देता है,
और मुझे ऊँचे स्थानों * पर
खड़ा करता है ॥
- ३५ वह मेरे हाथों को युद्ध करना
सिखाता है,
यहाँ तक कि मेरी बाह पीतल के
धनुष का झुका देनी है ॥
- ३६ और तू ने मुझे को अपने उद्धार
की ढाल दी है,
और नेरी नश्रता मुझे बढ़ाती है ।
- ३७ तू मेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा
करता है,
और मेरे पैर नहीं फिसले ॥
- ३८ मैं ने अपने शत्रुओं का पीछा करके
उन्हें सत्यानाश कर दिया,
और जब तक उनका अन्त न
किया तब तक न लौटा ॥
- ३९ और मैं ने उनका अन्त किया,
और उन्हें ऐसा छेद डाला है
कि वे उठ नहीं सकते,
वरन वे तो मेरे पावों के नीचे
गिरे पड़े हैं ॥
- ४० और तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर
बलवन्त की;
और मेरे विरोधियों को मेरे ही
साम्हने परास्त कर दिया ॥
- ४१ और तू ने मेरे शत्रुओं की पीठ
मुझे दिखाई,
ताकि मैं अपने बैरियों को काट
डालू ॥
- ४२ उन्हो ने बाट तो जोही, परन्तु
कोई बचानेवाला न मिला,
उन्हो ने यहोवा की भी बाट जोही,

* मूल में—मेरे ऊँचे स्थानों।

- परन्तु उम ने उनको कोई
उत्तर न दिया ॥
- ४३ तब मैं ने उनको कूट कूटकर
भूमि की धूल के समान कर
दिया,
मैं ने उन्हें मडको और गली कूचों
की कीचड़ के समान पटककर
चारे घोर फेंका दिया ॥
- ४४ फिर तू ने मुझे प्रजा के भगडों से
छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान
होने के लिये मेरी रक्षा की,
जिन लोगों को मैं न जानता था
वे भी मेरे आधीन हो जायेंगे ॥
- ४५ परदेशी मेरी चापनूसी करेंगे,
वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश
में आयेंगे ॥
- ४६ परदेशी मुर्झायेंगे,
और अपने कोठों में से थरथरते
हुए निकलेंगे ॥
- ४७ यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान
धन्य है,
और परमेश्वर जो मेरे उद्धार
की चट्टान है, उसकी महिमा
हो ॥
- ४८ धन्य हैं मेरा पलटा लेनेवाला
ईश्वर,
जो देश देश के लोगों को मेरे
वश में कर देता है,
४९ और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से
निकालता है,
हा, तू मुझे मेरे विरोधियों से
ऊँचा करता है,
और उपद्रवी पुरुष से बचाता है ॥
- ५० इस कारण, हे यहोवा, मैं जाति
जाति के साम्हने तेरा धन्यवाद
करूँगा,

श्रीर तेरे नाम का भजन गाऊंगा ॥

५१ वह अपने ठहराए हुए राजा का
बड़ा उद्धार करता है,
वह अपने अभियुक्त दाऊद, श्रीर
उसके बश पर युगानुयुग करणा
करता रहेगा ॥

(शाब्द के जीवन के अन्तिम
वचन के वचन)

२३ दाऊद के अन्तिम वचन ये हैं
यिशा के पुत्र की यह वाणी है,
उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा
किया गया,

श्रीर याकूब के परमेश्वर का
अभियुक्त,
श्रीर इस्राएल का मधुर भजन
गानेवाला है :

२ यहोवा का आत्मा मुझ में होकर
बोला,
श्रीर उसी का वचन मेरे मुह
में * प्राया ॥

३ इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है,
इस्राएल की चट्टान ने मुझ से
बाते की है, कि मनुष्यों में
प्रभुता करनेवाला एक धर्मी
होगा,

जो परमेश्वर का भय मानता
हुआ प्रभुता करेगा,

४ वह मानो भोर का प्रकाश होगा
जब सूर्य निकलता है,
ऐसा भोर जिस में बादल न हो,
जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश
के कारण भूमि से हरी हरी
घास उगती है ॥

५ क्या मेरा घराना ईश्वर की
दृष्टि में ऐसा नहीं है ?

उस ने तो मेरे साथ सदा की
एक ऐसी वाचा बान्धी है,
जो सब बातों में ठीक की हुई
श्रीर भटल भी है ।

क्योंकि चाहे वह उसको प्रगट न
करे *,

तोभी † मेरा पूर्ण उद्धार श्रीर
पूर्ण अभिलाषा का विषय
वही है ॥

६ परन्तु मोझे लोग सब के सब
निकम्मी भाड़ियों के समान
हैं जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती ;

७ श्रीर जो पुरुष उनको छूए उसे
लोहे श्रीर भाले की छड़ से ‡
सुसज्जित होना चाहिये ।

इसलिये वे अपने ही स्थान में
भाग से भस्म कर दिए जाएंगे ॥

(शाब्द के बीरो की नामावली)

८ दाऊद के शूरवीरो के नाम ये हैं :
अर्थात् तहकमोनी योशेब्यशेबेत, जो
सरदारो में मुख्य था; वह एस्नी अदीनो
भी कहलाता था; जिस ने एक ही समय
में घाठ सौ पुरुष मार डाले । ९ उसके
बाद अहोही दोदै का पुत्र एलीआजर था ।
वह उस समय दाऊद के संग के तीनों बीरों
में से था, जब कि उन्होंने ने युद्ध के लिये
एकत्रित हुए पलिशितियों को ललकारा,
श्रीर इस्राएली पुरुष चले गए थे । १० वह
कमर बान्धकर पलिशितियों को तब तक

* मूल में—न उगाए। वा, सो क्या वह
उसको न संसाधगा ।

† वा इस कारण ।

‡ मूल में—से भरा ।

* मूल में—वैसी जीभ पर ।

मारता रहा जब तक उसका हाथ धक न गया, और तलवार हाथ से चिपट न गई; और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई; और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिये उसके पीछे हो लिए। ११ उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिशितयो ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बान्धा, जहा मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। १२ तब उस ने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया, और पलिशितयों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। १३ फिर तीसों मुख्य सरदारों में से तीन जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम गुफा में आए, और पलिशितयो का दल रपाईम नाम तराई में छावनी किए हुए था। १४ उस समय दाऊद गढ़ में था; और उस समय पलिशितयों की चौकी बेतलेहेम में थी। १५ तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलेहेम के फाटक के पास के कुएँ का पानी पिलाएगा? १६ तो वे तीनों वीर पलिशितयों की छावनी में टूट पड़े, और बेतलेहेम के फाटक के कुएँ से पानी भरके दाऊद के पास ले आए। परन्तु उस ने पीने से इनकार किया, और यहोवा के साम्हने अर्घ्य करके उएडेला, १७ और कहा, हे यहोवा, मुझ से ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लोहू पीऊँ जो अपने प्राणों पर खेलकर गए थे? इसलिये उस ने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन तीन वीरों ने तो ये ही काम किए। १८ और अबीशै जो सख्याह के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में से मुख्य था। उस ने अपना

भाला चलाकर तीन सौ को मार डाला, और तीनों में नामी हो गया। १९ क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था? और इसी से वह उनका प्रधान हो गया; परन्तु मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा। २० फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कबसेलवासी एक बड़े काम करनेवाले वीर का पुत्र था; उस ने सिंह सरीखे दो मोघ्राबियों को मार डाला। और बर्फ के समय उस ने एक गडहे में उतरके एक सिंह को मार डाला। २१ फिर उस ने एक रूपवान् मिस्री पुण्य को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था; परन्तु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया, और मिस्री के हाथ से भाला को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। २२ ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। २३ वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परन्तु मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया।

२४ फिर तीसों में योआब का भाई असाहेल, बेतलेहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, २५ हेरोदी शम्मा, और एलीका, पेलती हेलेस, २६ तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, २७ अनातोती अबीणजेर, हूशार्ई मबुन्ने, २८ अहोही सल्मोन, नतोपाही महर्, २९ एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेलेब, बिन्यामीनियों के गिबा नगर के रीबे का पुत्र हुत्तै, ३० पिरातोनी, बनायाह, गाश के नालों के पास रहनेवाला हिद्दै, ३१ अराबा का अबीअल्बोन, बहूरीमी अजमाबेत, ३२ शालबोनी एल्यहबा, याशोन के बंश में से योनातन, ३३ पहाड़ी

शम्मा, अरारी शारार का पुत्र अहीआम, ३४ अहसबे का पुत्र एलीपेलप्त माका देश का, गिलोई अहीतांपेल का पुत्र एलीआम, ३५ कम्मेली-हेन्वां, अराबी पारं ३६ सोबाई नातान का पुत्र यिगाल, गादी बानी, ३७ अम्मोनी मेलक, बेगेती नहरं को सरुयाह के पुत्र योआब का हथियार डोनेवांला था, ३८ येनेरी ईग, और गारंब, ३९ और हिली ऊरिव्याह था : मव मिलाकर सतीस थे ।

(दाऊद का चपनी प्रजा की गिनती
बेना, और इस पाप का दण्ड भोगना,
और पापसोचन पाना)

२४ और यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भडका, और उम ने दाऊद को इनकी हानि के लिये यह कहकर उभारा, कि इस्राएल और यहूदा की गिनती ने । २ सो राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पाम था कहा, तू दान से बेशेबा तक रहनेवाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम, और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लू कि प्रजा की कितनी गिनती है । ३ योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हों, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको सौगुरगा बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए, परन्तु, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है ? ४ तौमी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई । सो योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए । ५ उन्हो ने यरदन पार जाकर अरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद के नाले के मध्य

में और याजेर की ओर है । ६ तब बे गिलाद में और तहतीम्होदशी नाम देश में गए, फिर दान्यान को गए, और चक्कर लगाकर मीदोन में पहुंचे ; ७ तब वे सोर नाम दूढ़ गढ, और हिल्वियों और कनानियों के सब नगरों में गए, और उन्हो ने यहूदा देश की दक्खिन दिशा में बेशेवा म दौरा निपटायी । ८ और सब देश में इधर उधर घूम घूमकर वे नौ महीने और बीस दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए । ९ तब योआब ने प्रजा की गिनती का जो ड्राजा को सुनाया, और तलवार चलानेवाले योआब इस्राएल के तो आठ लाख, और यहूदा के पाच लाख निकले ।।

१० प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ । और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जा मैं ने किया वह महापाप है । तो अब, हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझ से बड़ी मूर्खता हुई है । ११ बिहान को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा, १२ कि जाकर दाऊद से कह, कि यहोवा यों कहता है, कि मैं तुझ को तीन विपत्तियां दिखाता हू, उन में से एक को चुन लें, कि मैं उसे तुझ पर डालू । १३ सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया, और उस से पूछा, क्या तेरे देश में सात वर्ष का अकाल पड़े ? वा तीन महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उन से भागता रहे ? वा तेरे देश में तीन दिन तक मरी फंली रहे ? अब सोच विचार कर, कि मैं अपने अज्ञेनेवाले को क्या उत्तर दू । १४ दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े

संकट में हूँ; हम यहोवा के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी दया बड़ी है; परन्तु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूँगा। १५ तब यहोवा इस्त्राएलियों में बिहान' से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा; और दान से लेकर बेशोबा तक रहनेवाली प्रजा मे से सत्तर हजार पुरुष मर गए। १६ परन्तु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ, और प्रजा के नाश करनेवाले दूत मे कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरौना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था। १७ तो जब प्रजा का नाश करनेवाला दूत दाऊद को दिखाई पडा, तब उस ने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया, और कुटिलता मैं ही ने की है; परन्तु इन भेडों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो ॥

१८ उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उस से कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान मे यहोवा की एक वेदी बनवा। १९ सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। २० जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद

को कर्मचारियों समेत अपनी और आते देखा, तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुह के बल गिर राजा को दराडवत् की। २१ और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझ से यह खलिहान मोल लेने आया हूँ, कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊँ, इसलिये कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। २२ अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढाए, देख, होमबलि के लिये तो बैल है, और दांवन के हथियार, और बैलों का सामान ईंधन का काम देगे। २३ यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ से प्रसन्न होए। २४ राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुए तुझ से अवश्य दाम देकर लूँगा; मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंटमेंत के होमबलि नहीं चढाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलो को चांदी के पचास शकैल में मोल लिया। २५ और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढाए। और यहोवा ने देश के निमित्त बिनती सुन ली, तब वह व्याधि इस्त्राएल पर से दूर हो गई ॥

राजाओं का वृत्तान्त—पहिला भाग

(अदोनिव्याह को राजद्वेष को मोड़ी और
उसका तोड़ा जाना)

१ दाऊद राजा बूढ़ा बरन बहुत पुर-
निया हुआ, और यद्यपि उसको कपड़ें
ओढ़ायें जाते थे, तोभी वह गर्म न होता था।
२ सो उसके कर्मचारियों ने उस से कहा,
हमारे प्रभु राजा के लिये कोई जवान कुवारी
बूढ़ी जाए, जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी
सेवा किया करे और तेरे पास * लेटा करे,
कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे।
३ तब उन्हो ने समस्त इस्लामी देश में
सुन्दर कुवारी बूढ़ते बूढ़ते अबीशग नाम एक
शूनेमिन को पाया, और राजा के पास ले
आए। ४ वह कन्या बहुत ही सुन्दर थी;
और वह राजा की दानी होकर उसकी सेवा
करती रही, परन्तु राजा उस से सहवास
न हुआ ॥

५ तब हग्गीत का पुत्र अदोनिव्याह सिर
ऊचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा;
सो उस ने रथ और सवार और अपने भागे
भागें दौड़ने को पचास पुरुष रख लिए।
६ उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे
कभी यह कहकर उदास न किया था कि
तू ने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान
था, और अबशालोम के पीछे उसका जन्म
हुआ था। ७ और उस ने सख्याह के पुत्र
योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत
की, और उन्हो ने उसके पीछे होकर उसकी
सहायता की। ८ परन्तु सादोक याजक
यहोयादा का पुत्र बनायाह, नातान नबी,
शिमी रेई, और दाऊद के शूरवीरो ने अदो-

निव्याह का साथ न दिया। ९ और अदो-
निव्याह ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास जो
एनरोगेल के निकट है, भेड-बैल और तैयार
किए हुए पशु बलि किए, और अपने भाई
सब राजकुमारो को, और राजा के सब
यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया।
१० परन्तु नातान नबी, और बनायाह और
शूरवीरो को और अपने भाई सुलैमान को
उस ने न बुलाया ॥

११ तब नातान ने सुलैमान की माता
बतशेबा से कहा, क्या तू ने सुना है कि हग्गीत
का पुत्र अदोनिव्याह राजा बन बैठा है और
हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता ?
१२ इसलिये अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति
देता हूँ, जिस से तू अपना और अपने पुत्र
सुलैमान का प्राण बचाए। १३ तू दाऊद
राजा के पास जाकर, उस से यो पूछ, कि हे
मेरे प्रभु ! हे राजा ! क्या तू ने शपथ
खाकर अपनी दासी से नहीं कहा, कि तेरा
पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा, और वह
मेरी राजगद्दी पर विराजेगा ? फिर अदो-
निव्याह क्यों राजा बन बैठा है ? १४ और
जब तू वहा राजा से ऐसी बातें करती रहेगी,
तब मैं तेरे पीछे आकर, तेरी बातों को पुष्ट
करूंगा ॥

१५ तब बतशेबा राजा के पास कोठरी
में गई : राजा तो बहुत बूढ़ा था, और
उसकी सेवा टहल शूनेमिन अबीशग करती
थी। १६ और बतशेबा ने झुककर राजा
को दरखवत् की, और राजा ने पूछा, तू क्या
चाहती है ? १७ उस ने उत्तर दिया, हे मेरे
प्रभु, तू ने तो अपने परमेश्वर यहोवा की

* शूल में—तेरी गोद में।

शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। १८ अब देख अदोनिय्याह राजा बन बैठा है, और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। १९ और उस ने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेडे बलि की, और सब राजकुमारो की और एब्द्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परन्तु नेने दास सुलैमान को नहीं बुलाया। २० और हे मेरे प्रभु ! हे राजा ! सब इस्राएली तुम्हें ताक रहे हैं कि तू उन से कहे, कि हमारा प्रभु राजा की गद्दी पर उसके पीछे कौन बैठेगा। २१ नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा, अपने पुरखाओ के सग मोएगा, तब मैं और मेरा पुत्र सुलैमान दोनो अपराधी गिने जाएंगे ॥

२२ यो बतशेबा राजा मे बान कर ही रही थी, कि नातान नबी भी आ गया। २३ और राजा से कहा गया कि नातान नबी हाजिर है, तब वह राजा के सम्मुख आया, और मुह के बल गिरवर राजा को दण्डवत् की। २४ और नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा ! क्या तू ने कहा है, कि अदोनिय्याह मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा ? २५ देख उस ने आज नीचे जाकर बहुत से बैल, तैयार किए हुए पशु और भेडे बलि की है, और सब राजकुमारो और सेनापतियो को और एब्द्यातार याजक को भी बुला लिया है, और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं कि अदोनिय्याह राजा जीवित रहे। २६ परन्तु मुझ तेरे दास को, और सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनायाह, और तेरे दास सुलैमान को उस ने नहीं बुलाया। २७ क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ ? तू ने तो अपने दास को यह

नहीं जताया है, कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके पीछे विराजेगा ॥

२८ दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके साम्हने खडी हुई। २९ राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोबा जो मरा प्राण सब जोखिमो से बचाता आया है, ३० उसके जीवन की शपथ, जैसा मैं ने तुम्ह मे इस्राएल के परमेश्वर यहोबा की शपथ खाकर कहा था, कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा, और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, बैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। ३१ तब बतशेबा ने भूमि पर मुह के बल गिर राजा को दण्डवत् करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे ! ३२ तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक नातान नबी, अहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। सो वे राजा के साम्हने आए। ३३ राजा ने उन से कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियो को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलैमान को मेरे निज खच्चर पर चढाओ, और गीहोन को ले जाओ, ३४ और वहा सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करे, तब तुम सब नरसिगा फूककर कहना, राजा सुलैमान जीवित रहे। ३५ और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना, और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले मे वही राजा होगा और उसी को मैं ने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। ३६ तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन ! मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोबा भी ऐसा ही कहे। ३७ जिस रीति यहोबा मेरे प्रभु राजा के सग रहा, उसी रीति वह सुलैमान के भी सग रहे, और

उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य में भी अधिक बढ़ाएँ ॥

३८ तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियो और पलेतियो को मग लिए हुए नीचे गए, और सुलैमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढाकर गीहोन को ले चले ।

३९ तब सादोक याजक ने यहोवा के नम्बू में मे तेल भरा हुआ सींग निकाला, और सुलैमान का राज्याभिषेक किया । और वे नरसिगे फूकने लगे; और सब लोग बोल उठे, राजा सुलैमान जीवित रहे । ४० तब सब लोग उसके पीछे पीछे बासुली बजाने और इतना बड़ा आनन्द करते हुए ऊपर गए, कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी * ॥

४१ जब अदोनियाह और उसके सब नेवतहरी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी । और योआब ने नरसिगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है ?

४२ वह यह कहता ही था, कि एब्यातार याजक का पुत्र योनातन आया और अदोनियाह ने उस से कहा, भीतर आ; तू तो भला मनुष्य है, और भला † समाचार भी लाया होगा । ४३ योनातन ने अदोनियाह से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलैमान को राजा बना दिया । ४४ और राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनायाह और करेतियों और पलेतियो को उसके सग भेज दिया, और उन्हो ने उसको राजा के खच्चर पर चढाया है । ४५ और सादोक याजक, और

नातान नबी ने गीहोन में उसका राज्याभिषेक किया है; और वे वहा से ऐसा आनन्द करते हुए ऊपर गए है कि नगर में हलचल मच गई, और जो शब्द तुम को सुनाई पड रहा है वही है । ४६ सुलैमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है । ४७ फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए, कि तेरा परमेश्वर, सुलैमान का नाम, तेरे नाम से भी महान करे, और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए, और राजा ने अपने पलग पर दण्डवत् की । ४८ फिर राजा ने यह भी कहा, कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिस ने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है ॥

४९ तब जितने नेवतहरी अदोनियाह के सग थे वे सब थरथरा गए, और उठकर अपना अपना मार्ग लिया । ५० और अदोनियाह सुलैमान से डर कर उठा, और जाकर बेदी के सींगो को पकड़ लिया । ५१ तब सुलैमान को यह समाचार मिला कि अदोनियाह सुलैमान राजा से ऐसा डर गया है कि उस ने बेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है, कि आज राजा सुलैमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा । ५२ सुलैमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाने तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परन्तु यदि उस में दुष्टता पाई जाए, तो वह मारा जाएगा । ५३ तब राजा सुलैमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको बेदी के पास से उतार ले आए तब उस ने आकर राजा सुलैमान को दण्डवत् की और सुलैमान ने उस से कहा, अपने घर चला जा ॥

* मूल में—फट गई ।

† मूल में—अच्छा ।

(दाऊद की स्वयं और सुलेमान के राज्य का चारका)

२ जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उस ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, २ कि मैं लोक की रीति पर कूच करनेवाला हूँ इसलिये तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। ३ और जो कुछ तेरे पर-मेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, और नियमों, और चितौनियों का पालन करते रहना; जिस से जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए, उस में तू सफल होए; ४ और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उस ने मेरे विषय में कहा था, कि यदि तेरी सन्तान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहें, कि अपने सम्पूर्ण हृदय और सम्पूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहे * तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर बिराजनेवाले की, तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी ॥

५ फिर तू स्वयं जानता है, कि सरूयाह के पुत्र योआब ने मुझ से क्या क्या किया ! अर्थात् उस ने नेर के पुत्र अब्नेर, और येतेर के पुत्र अमासा, इस्राएल के इन दो सेना-पतियों से क्या क्या किया। उस ने उन दोनों को घात किया, और मेल के समय युद्ध का लोहू बहाकर उस से अपनी कमर का कभरबन्द और अपने पांवों की जूतियां भिगो दी। ६ इसलिये तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बालबाले को अघोलोक में शांति से उतरने न देना। ७ फिर गिलादी बर्जिल्ले के पुत्रों पर कृपा

* मूल में—मेरे साम्ने चलते रहें।

रखना, और वे तेरी मेज पर खानेवालों में रहे, क्योंकि तब मैं नेरे भाई अबशालोम के साम्ने ने भागा जा रहा था, तब उन्हो ने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। ८ फिर मुन, तेरे पाम त्रिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहगीमी शिमी रहता है, जिस दिन मैं महनैम को जाता था उम दिन उम ने मुझे कडाई से शाप दिया था पर जब वह मेरी भेट के लिये यरदन को आया, तब मैं ने उस से यहोवा की यह शपथ खाई, कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा। ९ परन्तु अब तू इमें निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है; तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिये, और उम पक्के बालबाले का लोहू बहाकर उसे अघोलोक में उतार देना ॥

१० तब दाऊद अपने पुरखाओं के मग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। ११ दाऊद ने इस्राएल पर चालीम वर्ष राज्य किया, मान वर्ष तो उस ने हब्रोन में और तैंतीम वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। १२ तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर बिराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ ॥

१३ और हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह, सुलेमान की माता बतशेबा के पाम आया, और बतशेबा ने पूछा, क्या तू मित्रभाव से आता है ? १४ उम ने उत्तर दिया, हां, मित्रभाव से ! फिर वह कहने लगी, मुझे तुझ में एक बात कहनी है। उम ने कहा, कह ! १५ उस ने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था, और समस्त इस्राएली मेरी ओर मुंह किए थे, कि मैं राज्य करूँ; परन्तु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उमको मिला है। १६ इसलिये

श्रब में तुम्ह से एक बात मांगता हूँ, मुझ से नाहीं न करना उम न कह, कह जा । १७ उस ने कहा, राजा सुलैमान तुम्ह से नाहीं न करेगा, इसलिये उम मे कह, कि वह मुझे शूनेमिन श्रबीशग को ब्याह दे । १८ बतशेबा ने कहा, श्रच्छा, मैं तेरे लिये राजा से कहूँगी । १९ तब बतशेबा श्रदो-निय्याह के लिये राजा सुलैमान मे बातचीत करने को उमके पास गई, और राजा उसकी भेट के लिये उठा, और उसे दगडवन् करके अपने सिहासन पर बैठ गया फिर राजा ने अपनी माता के लिये एक सिहासन रख दिया, और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई । २० तब वह कहने लगी, मैं तुम्ह से एक छोटा सा वरदान मागती हूँ इसलिये मुझ से नाहीं न करना, राजा ने कहा, हे माता माग, मैं तुम्ह से नाहीं न करूँगा । २१ उस ने कहा, वह शूनेमिन श्रबीशग तेरे भाई श्रदो-निय्याह को ब्याह दी जाए । २२ राजा सुलैमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू श्रदो-निय्याह के लिये शूनेमिन श्रबीशग ही को क्यों मागती है ? उसके लिये राज्य भी माग, क्योंकि वह तो मेरा बडा भाई है, और उसी के लिये क्या । एब्यातार याजक और सरूयाह के पुत्र योश्राब के लिये भी माग । २३ और राजा सुलैमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि श्रदो-निय्याह ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो तो पर-मेश्वर मुझ से बैसा ही क्या वरन उस से भी अधिक करे । २४ श्रब यहोवा जिस ने मुझे स्थिर किया, और मेरे पिता दाऊद की राज-गद्दी पर बिराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही श्रदो-निय्याह मार डाला जाएगा । २५ और राजा सुलैमान ने यहोवादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया,

और उम ने जाकर, उसको ऐसा माग कि वह मर गया ॥

२६ और एब्यातार याजक से राजा ने कहा, श्रनातोत मे अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्रागदगड के योग्य है । आज के दिन तो मैं तुम्हें न मार डालूँगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के माम्हने प्रभु यहोवा का सन्दूक उठाया करता था, और उन सब दुखो म जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था । २७ और सुलैमान ने एब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिये कि जो वचन यहोवा ने एली के वश के विषय म शीलो मे कहा था, वह पूरा हो जाए ॥

२८ इसका समाचार योश्राब तक पहुँचा, योश्राब श्रबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परन्तु श्रदो-निय्याह के पीछे हो लिया था । तब योश्राब यहोवा के तम्बू को भाग गया, और वेदी के सींगो को पकड लिया । २९ जब राजा सुलैमान को यह समाचार मिला, कि योश्राब यहोवा के तम्बू को भाग गया है, और वह वेदी के पास है, तब सुलैमान ने यहोवादा के पुत्र बनायाह को यह कहकर भेज दिया, कि तू जाकर उसे मार डाल । ३० तब बनायाह ने यहोवा के तम्बू के पाम जाकर उसमे कहा, राजा की यह आज्ञा है, कि निकल आ । उस ने कहा, नहीं, मैं यही मर जाऊँगा । तब बनायाह ने लौटकर यह सन्देश राजा को दिया कि योश्राब ने मुझे यह उत्तर दिया । ३१ राजा ने उस से कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल, और उसे मिट्टी दे, ऐसा करके निर्दोषो का जो खून योश्राब ने किया है, उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा । ३२ और यहोवा उसके सिर वह खून लौटा देगा

क्योंकि उम ने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों पर, अर्थात् इस्त्राएल के प्रधान मेनापति नेर के पुत्र अन्नोर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। ३३ यो योआब के सिर पर और उसकी मन्तान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परन्तु दाऊद और उसके वंश और उनके घराने और उसके राज्य पर * यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। ३४ तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला, और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। ३५ तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान मेनापति ठहराया, और एब्द्यातार के स्थान पर सादोक याजक को ठहराया।।

३६ और राजा ने शिमी को बुलवा भेजा, और उस से कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वही रहना. और नगर से बाहर कहीं न जाना। ३७ तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निःसन्देह मार डाला जाएगा, और तेरा लोहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। ३८ शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है, वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा। ३९ परन्तु तीन वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के दो दाम, गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए, और शिमी को यह समाचार मिला, कि तेरे दास गत में हैं। ४० तब शिमी उठकर अपने गदहे पर काठी कसकर, अपने दास को ढूढ़ने

के लिये गत को आकीश के पास गया, और अपने दामो को गत से ले आया। ४१ जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, कि शिमी यरूशलेम में गत को गया, और फिर लौट आया है, ४२ तब उस ने शिमी को बुलवा भेजा, और उम से कहा, क्या मैं ने तुम्हें यहोवा की शपथ न खिलाई थी? और तुझ से चिताकर न कहा था, कि यह निश्चय जान रख कि जिम दिन तू निकलकर कहीं चला जाए, उमी दिन तू निःसन्देह मार डाला जाएगा? और क्या तू ने मुझ में न कहा था, कि जो बान मैं ने मुनी, वह अच्छी है? ४३ फिर तू ने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? ४४ और राजा ने शिमी से कहा, कि तू आप ही अपने मन में उम सब दुष्टता को जानता है, जो तू ने मेरे पिता दाऊद से की थी? इसलिये यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। ४५ परन्तु राजा सुलेमान धन्य रहेगा, और दाऊद का राज्य यहोवा के साम्हने सदैव दृढ़ रहेगा। ४६ तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी, और उस ने बाहर जाकर, उमको ऐसा मारा कि वह भी मर गया। और सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया।।

३ फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरोन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया, और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह न बनवा चुका, तब तक उसको वही रखा। २ क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊँचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था।।

* मूल में—उसकी राजगद्दी पर।

३ मुलैमान यहोवा मे प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियो पर चलता नो रहा, परन्तु वह ऊंचे स्थानो पर भी बलि चढाया और धप जलाया करता था । ४ और राजा गिबोन को बलि चढाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान बन्नी था, तब वहा की बेदी पर मुलैमान ने एक हजार होमबलि चढाए । ५ गिबोन मे यहावा ने रात को स्वप्न के द्वारा मुलैमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दू, वह माग । ६ मुलैमान ने कहा, तू अपने दाम मेरे पिता दाऊद पर बडी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ मच्चाई और धर्म और मन की मीध्मई मे चलता रहा, और तू ने यहा तक उम पर करुणा की थी कि उमे उमकी गद्दी पर बिराजनेवाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है । ७ और अब ह मेरे परमेश्वर यहोवा ! तू ने अपने दाम का मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परन्तु मैं छोटा लडका सा हू जो भीतर बाहर आना जाना नही जानता । ८ फिर तेरा दाम तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगो के मध्य मे है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नही हो सकती । ९ तू अपने दाम को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये समझने की ऐसी शक्ति * दे, कि मैं भले बुरे को परख सकू क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बडी प्रजा का न्याय कर सके ? १० इस बात मे प्रभु प्रसन्न हुआ, कि मुलैमान ने ऐसा वरदान मागा है । ११ तब परमेश्वर ने उस मे कहा, इसलिये कि तू ने यह वरदान मागा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओ का नाश मागा है, परन्तु

* मूल में—सुननेवाला मन ।

समझने के विवेक का वरदान मागा है इसलिये सुन, १२ मैं तेरे वचन के अनुसार करता हू, तुझे बुद्धि और विवेक मे भरा मन देता हू, यहा तक कि तेरे समान न तो तुझे से पहिले कोई कभी हुआ, और न बाद में कोई कभी होगा । १३ फिर जो तू ने नही मागा, अर्थात् धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहा तक देता हू, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा । १४ फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों मे चलता हुआ, मेरी विधियो और आज्ञाओ को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढाऊगा ।।

१५ तब मुलैमान जाग उठा, और देखा कि यह स्वप्न था, फिर यह यरूशलेम को गया, और यहोवा की वाचा के सन्दूक के साम्हने खडा होकर, होमबलि और मेलबलि चढाए, और अपने सब कर्मचारियो के लिये जेवनाग की ।।

१६ उम समय दो वेध्याग राजा के पास आकर उमके सम्मुख खडी हुई । १७ उन म मे एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु ! मैं और यह स्त्री दोनो एक ही घर मे रहती हैं ; और इसके सग घर मे रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ । १८ फिर मेरे जच्चा के तीन दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई, हम तो सग ही सग थी, हम दोनो को छोडकर घर मे और कोई भी न था । १९ और रात मे डम स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया । २० तब इस ने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लडका मेरे पाम मे लेकर अपनी छाती मे रखा, और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती मे लिटा दिया । २१ भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया,

परन्तु भोर को मैं ने ध्यान से यह देखा, कि वह मेरा पुत्र नहीं है। २२ तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं जीवित पुत्र मेरा है, और मरा पुत्र तेरा है। परन्तु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है, यो बं राजा के साम्हने बाते करती रही। २३ राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है, वही मेरा पुत्र है, और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है, और जो जीवित है, वह मेरा पुत्र है। २४ फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ, सो एक तलवार राजा के साम्हने लाई गई। २५ तब राजा बोला, जीविने बालक को दो टुकड़े करके आधा डमको और आधा उमको दो। २६ तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया, और उम ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु! जीवित बालक उसी को दे, परन्तु उमको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह दो टुकड़े किया जाए। २७ तब राजा ने कहा, पहिली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। २८ जो न्याय राजा ने चुकाया था, उमका समाचार समस्त इस्त्राएल को मिला, और उन्हो ने राजा का भय माना, क्योंकि उन्हो ने यह देखा, कि उसके मन में न्याय करने के लिये परमेश्वर की बुद्धि है।

(दुखेयान का राजप्रबन्ध और नाट्याख्य)

४ राजा सुलैमान तो समस्त इस्त्राएल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था। २ और उसके हाकिम ये थे, अर्थात् सादोक का पुत्र अजर्याह याजक, और शीशा के पुत्र एलीहोरेय और अहिय्याह प्रधान मन्त्री थे।

३ अहीलूद का पुत्र यहोशापात, इतिहास का लेखक था। ४ फिर यहायादा का पुत्र बनायाह प्रधान मेनापति था, और मादोक और एब्यातार याजक थे। ५ और नातान का पुत्र अजर्याह मगडारियो के ऊपर था, और नातान का पुत्र जाबद याजक, और राजा का मित्र भी था। ६ और अहीशार राजपरिवार के ऊपर था, और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बंगारो के ऊपर मुखिया था। ७ और सुलैमान के बारह भगडारी थे, जो समस्त इस्त्राएलियो के अधिकारी होकर राजा और उमके घराने के लिये भोजन का प्रबन्ध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबन्ध करता था। ८ और उनके नाम ये थे, अर्थात् एप्रैम के पहाडी देश में बन्दूक। ९ और माकम, शाब्बीम बेतघेमेश और एलोनबेथानान में बन्देकर था। १० अरुब्बोत में बन्देमेद जिसके अधिकार में मौको और हेपेर का समस्त देश था। ११ दोर के समस्त ऊचे देश में बेनबीनादाब जिसकी स्त्री सुलैमान की बेटी तापत थी। १२ और अहीलूद का पुत्र वाना जिसके अधिकार में तानाक, मगिहो और बेतशान का वह सब देश था, जो सारतान के पाम और यिञ्जेल के नीचे और पेतशान में ले आबेलमहोला तक अर्थात् योकमाम की परली और तक है। १३ और गिला के रामोत में बेनगेबेर था, जिसके अधिकार में मनशोई यार्ई के गिलाद के गाव थे, अर्थात् डमी के अधिकार में बाशान के अर्गोब का देश था, जिस में शहरप्रनाह और पीतल के बेडेवाले साठ बडे बडे नगर थे। १४ और इद्दा के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनैम था। १५ नप्ताली में अहीमास था, जिस ने सुलैमान की बाममत नाम बेटी को ब्याह लिया था।

१६ और आशेर और आलोन में हर्ष का पुत्र बाना, १७ इस्साकार में पारुह का पुत्र यहोशापात, १८ और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। १९ ऊरी का पुत्र गेबेर गिलाद में अर्थात् एमोरियो के राजा सीहोन और-बासान के राजा ओग के देश में था, इस समस्त देश में वही भण्डारी था। २० यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे, और खाते-पीते और आनन्द करते रहे।

२१ सुलैमान तो महानद में लेकर पलि-स्तियो के देश, और मिस्र के सिवाने तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उनके लोग सुलैमान के जीवन भर भेंट लाते, और उसके अधीन रहते थे। २२ और सुलैमान की एक दिन की रसोई में इतना उठना था, अर्थात् तीस कोर मैदा, २३ साठ कोर आटा, दस तैयार किए हुए बल और चराइयो में से बीस बल और मी भेड़-बकरी और इनको छोड़ २४ हरिन, चिकारे, यख-मूर और तैयार किए हुए पक्षी क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात् तिप्सह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे, उन सभी पर सुलैमान प्रभुता करता, और अपने चारो ओर के सब रजनैवाओं से मेल रखता था। २५ और दान से बेथेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अजीर के वृक्ष तले सुलैमान के जीवन भर निडर रहते थे। २६ फिर उसके रथ के घोडों के लिये सुलैमान के चालीस हजार थान थे, और उसके बारह हजार सवार थे। २७ और वे भण्डारी अपने अपने महीने में राजा सुलैमान के लिये और जितने उसकी मेज पर आते थे, उन सभी के लिये भोजन का प्रबन्ध करते थे,

किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। २८ और घोडों और बैग चलनेवाले घोडों के लिये जब और पुआल जहा प्रयोजन पड़ता था वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था।

२९ और परमेश्वर ने सुलैमान को बुद्धि दी, और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किण्वों के तुल्य अलगिनित गुण * दिए। ३० और सुलैमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। ३१ वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजेही और हेमान, और माहोल के पुत्र कलकोल, और दर्दा में भी अधिक बुद्धिमान था : और उसकी कीर्ति चारो ओर की सब जातियों में फैल गई। ३२ उस ने तीन हजार नीतिवचन कहे, और उसके एक हजार पाँच गीत भी हैं। ३३ फिर उस ने लवानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में मे उगते हुए जूफा तक के सब पेडों की चर्चा और पशुओं पक्षियों और रेगनेवाले जन्तुओं और मछलियों की चर्चा की। ३४ और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलैमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे।

(अन्धिर के जन्म की तैयारी)

पू और सोर नगर के हीराम राजा ने अपने दूत सुलैमान के पास भेजे, क्योंकि उस ने सुना था, कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है : और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। २ और सुलैमान ने हीराम के पास यों कहला भेजा, कि तुम्हें मालूम है,

* मूल में—हृदय की चौड़ाई।

३ कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिये न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक बंभा रहा, जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पाव तले न कर दिया । ४ परन्तु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है और न तो कोई विरोधी है, और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है । ५ मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है अर्थात् उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी; कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा । ६ इसलिये अब तू मेरे लिये लबानोन पर मे देवदारु काटने की आज्ञा दे, और मेरे दाम तेरे दासों के सग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए, वही मैं तुझे तेरे दासों के लिये दूंगा, तुझे मालूम तो है, कि सीदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता । ७ मुलैमान की ये बातें सुनकर, हीराम बहुत आनन्दित हुआ, और कहा, आज यहोवा धन्य है, जिस ने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिये एक बुद्धिमान पुत्र दिया है । ८ तब हीराम ने मुलैमान के पास यो कहला भेजा कि जो तू ने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया, देवदारु और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे, वही मैं करूंगा । ९ मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुँचाएंगे, फिर मैं उनके बड़े बनवाकर, जो स्थान तू मेरे लिये ठहराए, वही पर समुद्र के मार्ग में उनको पहुँचवा दूंगा . वहाँ मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा, और तू उन्हें ले लेना : और तू मेरे परिवार के लिये भोजन देकर, मेरी भी इच्छा पूरी करना । १० इस

प्रकार हीराम मुलैमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारु और सनोवर की लकड़ी देने लगा । ११ और मुलैमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिये उसे बीस हजार कोर गेहूँ और बीस कोर पेरा हुआ तेल दिया , इस प्रकार मुलैमान हीराम को प्रति वर्ष दिया करता था । १२ और यहोवा ने मुलैमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हीराम और मुलैमान के बीच मेल बना रहा वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बान्ध ली ।।

१३ और राजा मुलैमान ने पूरे इस्त्राएल में मे तीन हजार पुरुष बेगार लगाए, १४ और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी पारी करके, महीने महीने दस हजार भेज दिया करता था और एक महीना तो वे लबानोन पर, और दो महीने घर पर रहा करते थे, और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया । १५ और मुलैमान के सत्तर हजार बोभ ढोनेवाले और पहाड़ पर अस्सी हजार वृक्ष काटनेवाले और पत्थर निकालनेवाले थे । १६ इनको छोड़ मुलैमान के तीन हजार तीन सौ मुखिये थे, जो काम करनेवालों के ऊपर थे । १७ फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिये खोदकर निकाले गए कि भवन की नव, गढ़े हुए पत्थरों में डाली जाए । १८ और मुलैमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गढ़ा, और भवन के बनाने के लिये लकड़ी और पत्थर तैयार किए ।।

(मन्दिर चादि की बनावट)

इस्त्राएलियों के मिस्र देश में निकलने के चार सौ अस्सीवें वर्ष के बाद जो मुलैमान के इस्त्राएल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे

महीने में बह यहोवा का भवन बनाने लगा । २ और जो भवन राजा सुलैमान ने यहोवा के लिये बनाया उसकी लम्बाई साठ हाथ, चौड़ाई बीस हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की थी । ३ और भवन के मन्दिर के साम्हने के भोसारे की लम्बाई बीस हाथ की थी, अर्थात् भवन की चौड़ाई के बराबर थी, और भोसारे की चौड़ाई जो भवन के साम्हने थी, वह दस हाथ की थी । ४ फिर उस ने भवन में स्थिर फ़िलिमिलीदार खिडकिया बनाई । ५ और उस ने भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए अर्थात् मन्दिर और दर्शन-स्थान दोनों भीतों के आसपास उस ने मंजिलें और कोठरिया बनाई । ६ सब से नीचेवाली मजिल की चौड़ाई पांच हाथ, और बीचवाली की छः हाथ, और ऊपरवाली की सात हाथ की थी, क्योंकि उस ने भवन के आसपास भीत को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था इसलिये कि कड़ियां भवन की भीतों को पकड़े हुए न हों । ७ और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया, जो वहां ले आने से पहिले गड़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े बसूली वा और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पडा । ८ बाहर की बीचवाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलग में था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीचवाली कोठरियों में जाते, और उन से ऊपरवाली कोठरियों पर जाया करते थे । ९ उस ने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी छत देवदारु की कड़ियों और तल्लो से बनी थी । १० और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उस ने बनाई वह पांच हाथ ऊंची थीं, और वे देवदारु की कड़ियों के द्वारा अर्धन से मिलाई गई थी ।।

११ तब यहोवा का यह वचन सुलैमान के पास पहुंचा, कि यह भवन जो तू बना रहा है, १२ यदि तू मेरी विधियो पर चलेगा, और मेरे नियमों को मानेगा, और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैं ने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा । १३ और मैं इस्त्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा, और अपनी इस्त्राएली प्रजा को न तज्जुगा ।।

१४ सो सुलैमान ने भवन को बनाकर पूरा किया । १५ और उस ने भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारु की तल्लाबदी की; और भवन के फर्श से छत तक भीतों में भीतरवार लकड़ी की तल्लाबदी की, और भवन के फर्श को उस ने सनोत्र के तल्लो से बनाया । १६ और भवन की पिछली अलग में भी उस ने बीस हाथ की दूरी पर फर्श से लें भीतों के ऊपर तक देवदारु की तल्लाबदी की; इस प्रकार उस ने परमपवित्र स्थान के लिये भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई । १७ उसके साम्हने का भवन अर्थात् मन्दिर की लम्बाई चालीस हाथ की थी । १८ और भवन की भीतों पर भीतर-वार देवदारु की लकड़ी की तल्लाबदी थी, और उस में इन्द्रायन और खिले हुए फूल खुदे थे, सब देवदारु ही था : पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था । १९ भवन के भीतर उस ने एक दर्शन-स्थान यहोवा की वाचा का सन्दूक रखने के लिये तैयार किया । २० और उस दर्शन-स्थान की लम्बाई चौड़ाई और ऊंचाई बीस बीस हाथ की थी; और उस ने उस पर चोखा सोना मढ़वाया और बेदी की तल्लाबदी देवदारु से की । २१ फिर सुलैमान ने भवन को भीतर भीतर चोखे सोने से मढ़वाया, और दर्शन-

स्थान के साम्हने सोने की साकले लगाई; और उसको भी सोने से मढवाया। २२ और उस ने पूरे भवन को सोने से मढवाकर उसका पूरा काम निपटा दिया। और दर्शन-स्थान की पूरी वेदी को भी उस ने सोने से मढवाया ॥

२३ दर्शन-स्थान में उस ने दस दस हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के दो करूब बना रखे। २४ एक करूब का एक पख पाच हाथ का था, और उसका दूसरा पख भी पाच हाथ का था, एक पख के सिरे से, दूसरे पख के सिरे तक दस हाथ थे। २५ और दूसरा करूब भी दस हाथ का था; दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। २६ एक करूब की ऊंचाई दस हाथ की, और दूसरे की भी इतनी ही थी। २७ और उस ने करूबों को भीतरवाले स्थान में धरवा दिया; और करूबों के पख ऐसे फैले थे, कि एक करूब का एक पख, एक भीत से, और दूसरे का दूसरा पख, दूसरी भीत से लगा हुआ था, फिर उनके दूसरे दो पख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे हुए थे। २८ और करूबों को उस ने सोने से मढवाया। २९ और उस ने भवन की भीतो में बाहर और भीतर चारो ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। ३० और भवन के भीतर और बाहरवाले फर्श उस ने सोने से मढवाए। ३१ और दर्शन-स्थान के द्वार पर उस ने जलपाई की लकड़ी के किवाड लगाए और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की खम्बाई भवन की चौड़ाई का पाचवा भाग थी। ३२ दोनो किवाड जलपाई की लकड़ी के थे, और उस ने उन में करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने में मढा और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढवा

दिया गया। ३३ इसी की रीति उस ने मन्दिर के द्वार के लिये भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए और वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। ३४ दोनो किवाड मनोवर की लकड़ी के थे, जिन में से एक किवाड के दो पल्ले थे, और दूसरे किवाड के दो पल्ले थे जो पलटकर दुहर जाते थे। ३५ और उन पर भी उस ने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उस ने सोना मढवाया। ३६ और उस ने भीतरवाले आगन के घेरे को गढे हुए पत्थरो के तीन रद्दे, और एक परत देवदारू की कड़िया लगा कर बनाया। ३७ चौथे वर्ष के जीव नाम महीने में यहोना के भवन की नेव डाली गई। ३८ और ग्यारहवें वर्ष के बूल नाम आठवें महीने में, वह भवन उस सब समेत जो उस में उचित समझा गया बन चुका : इस रीति मुलमान को उसके बनाने में सात वर्ष लगे ॥

७ और मुलमान ने अपने महल को बनाया, और उसके पूरा करने में तेरह वर्ष लगे। २ और उस ने लबानोनी बन नाम महल बनाया जिसकी लम्बाई सौ हाथ, चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की थी; वह तो देवदारू के खम्भों की चार पाति पर बना और खम्भों पर देवदारू की कड़िया धरी गईं। ३ और खम्भों के ऊपर देवदारू की छतवाली पंतालीस कोठरिया अर्थात् एक एक महल में पन्द्रह कोठरिया बनी। ४ तीनों महलों में कड़िया धरी गईं, और तीनों में खिड़किया आम्हने साम्हने बनी। ५ और सब द्वार और बाजुओं की कड़िया भी चौकार थी, और तीनों महलों में खिड़किया

ग्राम्हने साम्हने बनी। ६ और उस ने एक खम्भेवाला भोसारा भी बनाया जिसकी लम्बाई पचास हाथ और चौड़ाई तीस हाथ की थी, और इन खम्भो के साम्हने एक खम्भेवाला भोसाग और उसके साम्हने डेबडी बनाई। ७ फिर उस ने न्याय के सिंहासन के लिये भी एक भोसारा बनाया, जो न्याय का भोसारा कहलाया, और उस में एक फर्श में दूसरे फर्श तक देवदार की तल्लाबन्दी थी ॥

८ और उमी के रहने का भवन जो उस भोसारे के भीतर के एक और प्रांगण में बना, वह भी उसी ढब से बना। फिर उसी भोसारे के ढब में सुलैमान ने फिगन की बेटे के लिये जिसको उस ने व्याह लिया था, एक और भवन बनाया। ९ ये सब घर बाहर भीतर नेव में मुडेर तक ऐसे भनमोल और गढे हुए पत्थरो के बने जो नापकर, और आरो से चीरकर तैयार किये गए थे और बाहर के प्रांगण से ले बडे प्रांगण तक लगाए गए। १० उसकी नेव तो बडे मोल के बडे बडे अर्थात् दस दस और आठ आठ हाथ के पत्थरों की डाली गई थी। ११ और ऊपर भी बडे मोल के पत्थर थे, जो नाप से गढे हुए थे, और देवदार की लकड़ी भी थी। १२ और बडे प्रांगण के चारों ओर के घेरे में गढे हुए पत्थरों के तीन रूंदे, और देवदार की कड़ियों का एक परत था, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतरवाले प्रांगण और भवन के भोसारे में लगे थे ॥

१३ फिर राजा सुलैमान ने सोर से हीराम को बुलवा भेजा। १४ वह नप्ताली के गोत्र की किसी बिधवा का बेटा था, और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा

था, और वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। सो वह राजा सुलैमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। १५ उस ने पीतल ढालकर अठारह अठारह हाथ ऊंचे दो खम्भे बनाए, और एक एक का घेरा बारह हाथ के सूत का था। १६ और उस ने खम्भो के सिरो पर लगाने को पीतल ढालकर दो कंगनी बनाई; एक एक कंगनी की ऊंचाई, पाच पाच हाथ की थी। १७ और खम्भो के सिरो पर की कंगनियों के लिये चारखाने की सात सात जालिया, और मांकों की सात सात झालरे बनी। १८ और उस ने खम्भो को भी इस प्रकार बनाया; कि खम्भो * के सिरो पर की एक एक कंगनी के ढापने को चारों ओर जालियों की एक एक पाति पर अनारों की दो पातिया हो। १९ और जो कंगनिया भोसारों में खम्भो के सिरो पर बनी, उन में चार चार हाथ ऊंचे मोसन के फूल बने हुए थे। २० और एक एक खम्भे के सिरे पर, उस गोलाई के पास जो जाली में लगी थी, एक और कंगनी बनी, और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पाति पाति करके बने थे वह दो सौ थे। २१ उन खम्भो को उस ने मन्दिर के भोसारे के पास खडा किया, और दाहिनी ओर के खम्भे को खडा करके उसका नाम याकीन † रखा; फिर बाई ओर के खम्भे को खडा करके उसका नाम बोआज़ ‡ रखा। २२ और खम्भो के सिरो पर मोसन के फूल का काम बना था

* मूल में—खनारो।

† अर्थात् वह स्थिर रहे।

‡ अर्थात् उसी में बल।

खम्भों का काम इसी रीति हुआ । २३ फिर उस ने एक ढाला हुआ एक बड़ा हीज बनाया, जो एक छोर में दूसरी छोर तक दस हाथ चौड़ा था, उसका आकार गोल था, और उसकी ऊंचाई पांच हाथ की थी, और उसके चारों ओर का घेरा तीस हाथ के मूत के बराबर था । २४ और उसके चारों ओर मोहड़े के नीचे एक एक हाथ में दस दस इन्द्रायन बने, जो हीज को घेरे थे; जब वह ढाला गया; तब ये इन्द्रायन भी दो पाति करके ढाले गए । २५ और वह बारह बने हुए बेलों पर रखा गया जिन में से तीन उत्तर, तीन पश्चिम, तीन दक्खिन, और तीन पूर्व की ओर मुह किए हुए थे, और उन ही के ऊपर हीज था, और उन सभी का पिछला अंग भीतर की ओर था । २६ और उसका दल चौबा भर का था, और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई सोसन के फूलों के काम से बना था, और उस में दो हजार बत की समाई थी ॥

२७ फिर उस ने पीतल के दस पाये बनाए, एक एक पाये की लम्बाई चार हाथ, चौड़ाई भी चार हाथ और ऊंचाई तीन हाथ की थी । २८ उन पायों की बनावट इस प्रकार थी, उनके पटरियां थी, और पटरियों के बीचो बीच जोड़ भी थे । २९ और जोड़ों के बीचो बीच की पटरियों पर सिंह, बैल, और कर्बूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और पाया बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकते हुए हार बने थे । ३० और एक एक पाये के लिये पीतल के चार पहिये और पीतल की धुरियां बनीं; और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए कंधे

भी ढालकर बनाए गए जो हीदी के नीचे तक पहुँचने थे, और एक एक कंधों के पास हार बने हुए थे । ३१ और हीदी का मोहड़ा जो पायों की कगनी के भीतर और ऊपर भी था वह एक हाथ ऊंचा था, और पायों का मोहड़ा जिसकी चौड़ाई डेढ़ हाथ की थी, वह पायों की बनावट के समान गोल बना, और पायों के उम्मी मोहड़े पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरिया गोल नहीं, चौकोर थी । ३२ और चारों पहिये, पटरियों के नीचे थे, और एक एक पायों के पहियों में धुरिया भी थी, और एक एक पहिये की ऊंचाई डेढ़ डेढ़ हाथ की थी । ३३ पहियों की बनावट, रथ के पहिये की सी थी, और उनकी धुरिया, पुट्टिया, आरे, और नाभें सब ढाली हुई थी । ३४ और एक एक पायों के चारों कोनों पर चार कंधे थे, और कंधे और पायों दोनों एक ही टुकड़े के बने थे । ३५ और एक एक पायों के सिरे पर आध हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी, और पायों के सिरे पर की टेके और पटरियां पायों से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे । ३६ और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी, उस में उस ने कर्बूब, और सिंह, और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिये, और चारों ओर हार भी बनाए । ३७ इसी प्रकार से उस ने दसों पायों को बनाया; सभी का एक ही सांचा और एक ही नाप, और एक ही आकार था ॥

३८ और उस ने पीतल की दस हीदी बनाई । एक एक हीदी में चालीस चालीस बत की समाई थी; और एक एक, चार चार हाथ चौड़ी थी, और दसों पायों

में से एक एक पर, एक एक हीदी थी । ३६ और उम ने पांच हीदी भवन की दक्खिन की ओर, और पांच उसकी उत्तर की ओर रख दी, और हीज का भवन की दाहिनी ओर अर्थात् पूर्व की ओर, और दक्खिन के माम्हने घर दिया । ४० और हीराम ने हीदियो *, फावडियों, और कंटों को भी बनाया । सो हीराम ने राजा सुलैमान के लिये यहोवा के भवन में जितना काम करना था, वह सब निपटा दिया, ४१ अर्थात् दो खम्भे, और उन कगनियों की गोलाइयां जो दोनो खम्भो के सिरे पर थी, और दोनो खम्भो के सिरो पर की गोलाइयों के ढांपने को दो दो बालिया, और दोनो जालियों के लिये चार चार सौ अनार, ४२ अर्थात् खम्भो के सिरो पर जो गोलाइया थी, उनके ढांपने के लिये अर्थात् एक एक जाली के लिये अनारो को दो दो पाति; ४३ दस पाये और इन पर की दस हीदी, ४४ एक हीज और उसके नीचे के बारह बेल, और हडे, फावाडिया, ४५ और कटोरे बने । ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निर्मित्त राजा सुलैमान के लिये बनाया, वह भलकायं हुए पीतल के बने । ४६ राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात् मुक्कोत और मारतान के मध्य की चिकनी मिट्टीवाली भूमि में ढाला । ४७ और सुलैमान ने सब पात्रो को बहुत अधिक होने के कारण बिना तौले छोड दिया, पीतल के तौल का बजन मालूम न हो सका ॥

४८ यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलैमान ने सब बनाए, अर्थात् सोने

की वेदी, और सोने की वह मेज जिस पर भेट की रोटी रखी जाती थी, ४९ और चोखे सोने की दीवटे जो भीतरी कोठगी के आगे पांच तो दक्खिन की ओर, और पांच उत्तर की ओर रखी गईं; और सोने के फूल, ५० दीपक और चिमटे, और चोखे सोने के तमले, कंचिया, कटोरे, धूपदान, और करछे और भीतरवाला भवन जो परमपवित्र स्थान कहलाता है, और भवन जो मन्दिर कहलाता है, दोनों के किवाडो के लिये सोने के कब्जे बने । ५१ निदान जो जो काम राजा सुलैमान ने यहोवा के भवन के लिये किया, वह सब पूरा किया गया । तब सुलैमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चादी और पात्रों को भीतर पहुँचा कर यहोवा के भवन के भगडारों में रख दिया ॥

(मन्दिर की प्रतिष्ठा)

तब सुलैमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रो के सब मुख्य पुरुष जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में अपने पास इस मनसा से इकट्ठा किया, कि वे यहोवा की वाचा का सन्दूक दाऊदपुर अर्थात् मियोन से ऊपर ले आए । २ सो सब इस्राएली पुरुष एतानीम नाम सातवे महीने के पर्व के समय राजा सुलैमान के पास इकट्ठे हुए । ३ जब सब इस्राएली पुरनिये आए, तब याजको ने सन्दूक को उठा लिया । ४ और यहोवा का सन्दूक, और मिलाप का तम्बू, और जितने पवित्र पात्र उस तम्बू में थे, उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए । ५ और राजा सुलैमान और समस्त इस्राएली मडली, जो उसके पास इकट्ठी हुई थी,

* वा हंडो ।

वे सब सन्दूक के साम्हने इतनी भेड़ और बल बलि कर रहे थे, जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। ६ तब याजकों ने यहोवा की वाचा का सन्दूक उसके स्थान को अर्थात् भवन के दर्शन-स्थान में, जो परमपवित्र स्थान है, पहुंचाकर कर्बुओं के पङ्क्तियों के तले रख दिया। ७ कर्बुब तो सन्दूक के स्थान के ऊपर पंख ऐसे फैलाए हुए थे, कि वे ऊपर से सन्दूक और उसके डंडों को ढाके थे। ८ डंडे तो ऐसे लम्बे थे, कि उनके सिरे उम पवित्र स्थान से जो दर्शन-स्थान के साम्हने था दिखाई पड़ते थे परन्तु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही वर्तमान हैं। ९ सन्दूक में कुछ नहीं था, उन दो पटरियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बान्धी थी। १० जब याजक पवित्रस्थान से निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर आया। ११ और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था ॥

१२ तब सुलैमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था, कि मैं घोर अधकार में बास किए रहूंगा। १३ सचमुच मैं ने तेरे लिये एक वासस्थान, बरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है, जिस में तू युगानुयुग बना रहे। १४ और राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुंह फेरकर उसको आशीर्वाद दिया; और पूरी सभा खड़ी रही। १५ और उस ने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ! जिस ने अपने मुह से मेरे पिता दाऊद को यह

वचन दिया था, और अपने हाथ से उसे पूरा किया है, १६ कि जिस दिन से मैं अपने प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैं ने किसी इस्राएली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना, जिस में मेरे नाम के निवास के लिये भवन बनाया जाए; परन्तु मैं ने दाऊद को चुन लिया, कि वह मेरी प्रजा इस्राएल का अधिकारी हो। १७ मेरे पिता दाऊद की यह मनसा तो थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए। १८ परन्तु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी मनसा है, कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तू ने भला तो किया; १९ तीभी तू उस भवन को न बनाएगा; तेरा जो निज पुत्र होगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। २० यह जो वचन यहोवा ने कहा था, उसे उस ने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर, यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हू, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम में इस भवन को बनाया है। २१ और इस में मैं ने एक स्थान उस सन्दूक के लिये ठहराया है, जिस में यहोवा की वह वाचा है, जो उस ने हमारे पुरखाओं को मिस्र देश में निकालने के समय उन से बान्धी थी ॥

२२ तब सुलैमान इस्राएल की पूरी सभा के देखने यहोवा की बेदी के साम्हने खड़ा हुआ, और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा ! २३ हे इस्राएल के परमेश्वर ! तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में, और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है : तेरे जो दास अपने सम्पूर्ण

मन मे अपने को तेरे सम्मुख जानकर * चलने हे, उनके लिये तू अपनी वाचा पूरी करता, और कफ़गा करना रहता है। २४ जो वचन तू ने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तू ने पालन किया है, जैसा तू ने अपने मुह मे कहा था, बँसा ही अपने हाथ मे उसको पूरा किया हे, जैसा आज है। २५ हमलिये अब हे इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा ! इम वचन को भी पूरा कर, जो तू ने अपने दाम मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल मे, मेरे साम्हने इस्त्राएल की गद्दी पर विराजनेवाले मदेव बने रहेंगे इतना हो कि जैमे तू स्वय मुझे सम्मुख जानकर† चलता रहा, वैमे ही तेरे बश के लोग अपनी चालचलन मे ऐसी ही चौकमी करे। २६ इसलिये अब हे इस्त्राएल के परमेश्वर अपना जो वचन तू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उमे सच्चा सिद्ध कर। २७ क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा, स्वर्ग मे वरन सब से ऊचे स्वर्ग मे भी तू नही समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन मे क्योकर समाएगा। २८ तौभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा ! अपने दाम की प्रार्थना और गिडगिडाहट की ओर कान लगाकर, मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन ! जो मैं आज तेरे साम्हने कर रहा हू, २९ कि तेरी आज इस भवन की ओर अर्थात् इसी स्थान की ओर जिसके विषय तू ने कहा है, कि मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे : और जो प्रार्थना तेरा दास

* मूल में—तेरे साम्हने।

† मूल में—तेरे साम्हने।

इम स्थान की ओर करे, उमे तू सुन ले। ३० और तू अपने दाम, और अपनी प्रजा इस्त्राएल की प्रार्थना जिसको वे इम स्थान की ओर गिडगिडा के करे उमे सुनना, वरन स्वर्ग मे मे जो तेरा निवासस्थान है सुन लेना, और सुनकर क्षमा करना। ३१ जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे, और उमको शपथ खिलाई जाए, और वह आकर इम भवन मे तेरी वेदी के साम्हने शपथ खाए, ३२ तब तू स्वर्ग मे सुन कर, अर्थात् अपने दामो का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उमी के सिरु लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर, उमके धर्म के अनुमार उमको फल देना। ३३ फिर जब तेरी प्रजा इस्त्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओ मे हार जाए, और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम ले और इस भवन मे तुझ से गिडगिडाहट के साथ प्रार्थना करे, ३४ तब तू स्वर्ग मे से सुनकर अपनी प्रजा इस्त्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश मे लौटा ले आना, जो तू ने उनके पुरखाओ को दिया था। ३५ जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे, और इस कारण आकाश बन्द हो जाए, कि वर्षा न होए, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने जब तू उन्हें दुःख देता है, और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग मे से सुनकर क्षमा करना, ३६ और अपने दासो, अपनी प्रजा इस्त्राएल के पाप को क्षमा करना; तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है, जिस पर उन्हें चलना चाहिये, इसलिये अपने इस देश पर, जो तू ने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है, पानी बरसा देना। ३७ जब

इस देश में काल वा मरी वा भुलस हो वा गेरुई वा टिड्डियां वा कीडे लगे वा उनके शत्रु उनके देश के फाटको में उन्हें घेर रखे, अथवा कोई विपत्ति वा गोग क्यों न हो, ३८ तब यदि कोई मनुष्य वा तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुःख जान ले, और गिडगिडाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फंलाए; ३९ तो तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से सुनकर क्षमा करना, और ऐसा करना, कि एक एक के मन को जानकर उसकी ममस्त चाल के अनुसार उसको फल देना तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों का जानने वाला है। ४० तब वे जितने दिन इस देश में रहे, जो तू ने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहे। ४१ फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का न हो, जब वह तेरा नाम सुनकर, दूर देश से आए, ४२ वह तो तेरे बड़े नाम और बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए, इसलिये जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, ४३ तब तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से सुन, और जिस बात के लिये ऐसा परदेशी तुझे पुकारे, उसी के अनुसार व्यवहार करना जिस से पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाई तेरा भय माने, और निश्चय जाने, कि यह भवन जिसे मैं ने बनाया है, वह तेरा ही कहलाता है। ४४ जब तेरी प्रजा के लोग जहा कही तू उन्हें भेजे, वहा अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए, और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे

मैं ने तेरे नाम पर बनाया है, यहांवा से प्रार्थना करे, ४५ तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिडगिडाहट सुनकर उनका न्याय कर। ४६ निष्पत्त तो कोई मनुष्य नहीं है यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे, और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वे उनको बन्धुआ करके अपने देश को चाहे वह दूर हो, चाहे निकट ले जाए, ४७ तो यदि वे बन्धुआई के देश में सोच विचार करे, और फिरकर अपने बन्धुआ करनेवालों के देश में तुझ से गिडगिडाकर कहे, कि हम ने पाप किया, और कुटिलता और दुष्टता की है, ४८ और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बन्धुआ करके ले गए हो, अपने सम्पूर्ण मन और सम्पूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तू ने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का बनाया है, तुझ से प्रार्थना करे, ४९ तो तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से उनकी प्रार्थना और गिडगिडाहट सुनना; और उनका न्याय करना, ५० और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे, और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सब को क्षमा करके, उनके बन्धुआ करनेवालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करे। ५१ क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग है, जिन्हें तू लोहे के भट्टे के मध्य में से अर्थात् मिस्र में निकाल लाया है। ५२ इसलिये तेरी आखें तेरे दाम की गिडगिडाहट और तेरी प्रजा इस्राएल की गिडगिडाहट की ओर ऐसी खुली रहे, कि जब जब

बे तुम्हें पुकारें, तब तब तू उनकी सुन ले; ५३ क्योंकि हे प्रभु यहोवा अपने उस कब्र के अनुसार, जो तू ने हमारे पुरस्कारों को मिस्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तू ने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिये पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है ॥

५४ जब सुलैमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा की बेदी के साम्हने से उठा, ५५ और खड़ा हो, समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, कि धन्य है यहोवा, ५६ जिस ने ठीक अपने कब्र के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है, जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। ५७ हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरस्कारों के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे, वह हम को त्याग न दे और न हम को छोड़ दे। ५८ वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे, कि हम उसके सब मागों पर चला करें, और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरस्कारों को दिया था, नित माना करें। ५९ और मेरी ये बातें जिनकी मैं ने यहोवा के साम्हने बिनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे*, और जैसा दिन दिन प्रयोजन हो वैसे ही वह अपने दास का और

* मूल में—यहोवा के निकट रहे।

अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे, ६० और इस से पृथ्वी की सब जातियां यह जान लें, कि यहोवा ही परमेश्वर है; और कोई दूसरा नहीं। ६१ तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे, कि आज की नाई उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। ६२ तब राजा समस्त इस्राएल समेत यहोवा के सम्मुख मेलबलि चढ़ाने लगा। ६३ और जो पशु सुलैमान ने मेलबलि में यहोवा को चढ़ाए, सो बाईस हजार बैल और एक लाख बीस हजार भेड़ें थी। इस रीति राजा ने सब इस्राएलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। ६४ उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के साम्हनेवाले आगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया और होमबलि, और अन्नबलि और मेलबलियों की चरबी वही चढ़ाई; क्योंकि जो पीतल की बेदी यहोवा के साम्हने थी, वह उनके लिये छोटी थी। ६५ और सुलैमान ने और उसके संग समस्त इस्राएल की एक बड़ी सभा ने जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सब देशों से इकट्ठी हुई थी, दो सप्ताह तक अर्थात् चौदह दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के साम्हने पर्व को माना। फिर आठवें दिन उस ने प्रजा के लोगों को बिदा किया। ६६ और वे राजा को धन्य, धन्य, कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपनी प्रजा इस्राएल से की थी, आनन्दित और मगन होकर अपने अपने डेरों को चले गए ॥

६ जब सुलैमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और जो कुछ उम ने करना चाहा था, उमे कर चुका, २ तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उमको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया । ३ और यहोवा ने उम से कहा, जो प्रार्थना गिडगिडाहट के साथ तू ने मुझ से की है, उसको मैं ने सुना है, यह जो भवन तू ने बनाया है, उस में मैं ने अपना नाम मदा के लिये रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आज्ञा और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे । ४ और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाईं मन की खराई और सिधार्ई से अपने को मेरे साम्हने जानकर * चलता रहे, और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य † इस्राएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर करूंगा, ५ जैसे कि मैं ने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, कि तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजनेवाले सदा बने रहेंगे । ६ परन्तु यदि तुम लोग वा तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे, और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैं ने तुम को दी है, न माने, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दगडवत करने लगे, ७ तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैं ने उनको दिया है, काट डालूंगा और इस भवन को जो मैं ने अपने नाम के लिये पवित्र किया है, अपनी दृष्टि से उतार दूंगा,

* शूल में—मेरे साम्हने ।

† शूल में—राजगद्दी ।

और सब देशों के लोगो में इस्राएल की उपमा दी जायेगी और उसका दृष्टान्त चलेगा । ८ और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा, वह चकित होगा, और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे, कि यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्या ऐसा किया है, ९ तब लोग कहेंगे, कि उन्हों ने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं का मिस्र देश से निकाल लाया था । तजकर पराये देवताओं को पकड लिया, और उनको दगडवत की और उनकी उपासना की इस कारण यहोवा न यह सब विपत्ति उन पर डाल दी ॥

१० सुलैमान को तो यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में बीस वर्ष लग गए । ११ तब सुलैमान ने सोर के राजा हीराम को जिस ने उसके मनमाने देवदारू और सनोबर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के बीस नगर दिए । १२ जब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरो को देखा, जो सुलैमान ने उसको दिए थे, तब वे उमको अच्छे न लगे । १३ तब उस ने कहा, हे मेरे भाई, ये नगर क्या तू ने मुझे दिए हैं ? और उस ने उनका नाम कबूल देश रखा । १४ और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है । फिर हीराम ने राजा के पास साठ किस्कार मोना भेज दिया ॥

१५ राजा सुलैमान ने लोगो को जो बेगारी में रखा, इनका प्रयोजन यह था, कि यहोवा का और अपना भवन बनाए, और भिल्लो और यरूशलेम की शहरपनाह और हामोर, मगिदो और गेजेर नगरों को बुक करे । १६ गेजेर पर तो मिस्र के

राजा फिरौन ने चढाई करके उसे ले लिया और भ्राग लगाकर फूक दिया, और उस नगर में रहनेवाले कनानियों को मार डालकर, उसे अपनी बेटी मुलैमान की रानी का निज भाग करके दिया था, १७ सां मुलैमान ने गेजेर और नीचेवाले बंधांगेन, १८ बालात और तामार को जो जगल में हैं, दूढ किया, ये तो देश म है । १९ फिर मुलैमान के जितने भगडार के नगर थे, और उसके रथो और मवारो के नगर, उनको वरन जो कुछ मुलैमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशो में बनाना चाहा, उन सब को उस ने दूढ किया । २० एमोरी, हिली, पर्गज्जी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इन्नाएलियो में के न थ, २१ उनके बश जो उनके बाद देश में रह गए, और उनको इस्त्राएली सत्यानाश न कर सके, उनको तो मुलैमान ने दाम कर के बेगारी में रखा, और आज तक उन्को वही दशा है । २२ परन्तु इन्नाएलियो में से मुलैमान ने किसी को दाम न बनाया; वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार, और उसके रथो, और सवारो के प्रधान हुए । २३ जो मुख्य हाकिम मुलैमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करनेवालों पर प्रभुता करते थे, ये पाच सौ पचास थे ॥

२४ जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर में से अपने उस भवन को प्रा गई, जो उस ने उसके लिये बनाया था तब उस ने मिल्लो को बनाया । २५ और मुलैमान उस बेदी पर जो उस ने दलोबा के लिये बनाई थी, प्रति वर्ष में तीन बार होमबलि और मेलबलि चढ़ाया करता था और साथ ही उस बेदी पर जो यहोबा के

सम्मुख थी, घूप जलाया करता था, इस प्रकार उस ने उस भवन को नैयार कर दिया ॥

(मुलैमान की धनसम्पत्ति और बोषार और शीबा की रानी का भाग)

२६ फिर राजा मुलैमान ने एस्थोन-गेबेर में जो एदोम देश में लाल समुद्र के तीर एलोत के पास है, जहाज बनाए । २७ और जहाजों में हीगम ने अपने अधिकार के मल्लाहो को, जो समुद्र से जानकारी रखते थे, मुलैमान के सेवकों के मग भेज दिया । २८ उन्हों ने ओपोर को जाकर वहा से चार सौ बीस किक्कार मोना, राजा मुलैमान को लाकर दिया ॥

१० जब शीबा की रानी ने यहोबा के नाम के विषय मुलैमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों में उसकी परीक्षा करने को चल पडी । २ वह तो बहुत भारी दल, और मसालो, और बहुत सोने, और मणिए से लदे ऊट साथ लिये हुए यरूशलेम को आई; और मुलैमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उस से बातें करने लगी । ३ मुलैमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया, कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही * कि वह उसको न बता सका । ४ जब शीबा की रानी ने मुलैमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन, और उसकी मेज पर का भोजन देखा, ५ और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते, और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते, और कैसे कैसे कपड़े पहिने रहते हैं, और उसके पिलानेवाले कैसे हैं, और वह कैसे चढाई

* मूल में—कोई बात राजा से न छिपी ।

है, जिस से वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उस ने देखा, तब वह चकित हो गई। ६ तब उस ने राजा से कहा, तेरे कामो और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैं ने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है। ७ परन्तु जब तक मैं ने आप ही आकर अपनी आत्मा से यह न देखा, तब तक मैं ने उन बातों की प्रतीत न की, परन्तु उसका आधा भी मुझे न बताया गया था, तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति में भी बढ़कर है, जो मैं ने सुनी थी। ८ धन्य है तेरे जन ! धन्य है तेरे ये सेवक ! जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। ९ धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा ! जो तुझ से ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया यहोवा इस्राएल में सदा प्रेम रखता है, इस कारण उस ने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। १० और उस ने राजा को एक सौ बीस किक्कार मोना, बहुत सा सुगन्ध द्रव्य, और मरिण दिया, जितना सुगन्ध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं आया। ११ फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे, वह बहुत सी चन्दन की लकड़ी और मरिण भी लाए। १२ और राजा ने चन्दन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिये जगले और गर्बियों के लिये बीणा और मारगिया बनवाई ऐसी चन्दन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई, और न दिखाई पड़ी है। १३ और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा, वही राजा सुलेमान ने उसकी

इच्छा के अनुसार उसको दिया, फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया, तब वह अपने जनों ममेत भ्रान देश को लौट गई ॥

१४ जो मोना प्रति वर्ष सुलेमान के पाम पहुँचा करता था, उसका तौल छ सौ छियामठ किक्कार था। १५ इस में अधिक मौदागरो में, और व्योपारियों के लेन देन में और दोगली जातियों के सब राजाओं, और अपने देश के गवर्नरो से भी बहुत कुछ बिजला था। १६ और राजा सुलेमान ने मोना गठवाकर दो सौ बड़ी बड़ी ढाल बनवाई, एक एक ढाल में छ छ सौ शेकेल सोना लगा। १७ फिर उस ने मोना गठवाकर तीन सौ छोटी ढाल भी बनवाई, एक एक छोटी ढाल में, तीन माने मोना लगा, और राजा ने उनको लवानोनी वन नाम भवन में रखवा दिया। १८ और राजा ने हाथीदात का एक बड़ा सिंहासन बनवाया, और उत्तम कुन्दन में गठवाया। १९ उस सिंहासन में छ. मीढिया थी, और सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था, और बैठने के स्थान की दोनों भ्रलग टेक लगी थी, और दोनों टेको के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। २० और छहो मीढियों की दोनों भ्रलग एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, कुल बारह हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी नहीं बना। २१ और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र मोने के बने थे, और लवानोनी वन नाम भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे, चादी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था। २२ क्योंकि ममुद्र पर हीराम के अहाजो के साथ

राजा भी तर्षाश के जहाज रखता था, और तीन तीन वर्ष पर तर्षाश के जहाज सोना, चादी, हाथीदात, बन्दर और मयूर ले आते थे। २३ इस प्रकार राजा सुलैमान, धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं में बढ़कर हो गया। २४ और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलैमान का दर्शन पाना चाहते थे। २५ और वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट, अर्थात् चादी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगन्ध द्रव्य, घोड़े, और खच्चर ले आते थे। २६ और सुलैमान ने रथ और मवार इकट्ठे कर लिए, तो उसके चौदह सौ रथ, और बारह हजार सवार हुए, और उनको उस ने रथों के नगरो में, और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। २७ और राजा ने बहुतायत के कारण, यरूशलेम में चाँदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारु को जैसे नीचे के देश के गूलर। २८ और जो घोड़े सुलैमान रखता था, वे मिस्र में आते थे, और राजा के व्योपारी उन्हें भुगड भुगड करके बबराह ञ्चर दाम पर लिया करते थे। २९ एक रथ तो छः सौ शेकेल चादी पर, और एक घोड़ा डेढ़ सौ शेकेल पर, मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिये भी व्योपारियों के द्वारा आते थे ॥

(दुर्जेवान का विनाइ और ईश्वर का क्रोध और दुर्जेवान की बन्धु)

११ परन्तु राजा सुलैमान फिरौन की बेटी, और बहुतेरी और पराये स्त्रियों से, जो मोभाबी, अम्मोनी, एदोमी,

सीदोनी, और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। २ वे उन जातियों की थी, जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों में कहा था, कि तुम उनके मध्य में न जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर नि मन्देह फेरेंगी, उन्हीं की प्रीति में सुलैमान लिप्त हो गया। ३ और उसके मान सी रानिया, और तीन सौ रखेलिया हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। ४ सो जब सुलैमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। ५ सुलैमान तो सीदोनियों की अशतोरेत नाम देवी, और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। ६ और सुलैमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति में न चला। ७ उन दिनों सुलैमान ने यरूशलेम के साम्हने के पहाड पर मोभाबियों के कमोश नाम घृणित देवता के लिये और अम्मोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिये एक एक ऊँचा स्थान बनाया। ८ और अपनी सब पराये स्त्रियों के लिये भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती, और बलिदान करती थी, उस ने ऐसा ही किया ॥

९ तब यहोवा ने सुलैमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा में फिर गया था जिस ने दो बार उसको दर्शन दिया था। १० और उस ने इसी बात के विषय में

भ्राजा दी थी, कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, तौभी उस ने यहोवा की भ्राजा न मानी। ११ और यहोवा ने सुलैमान से कहा, तुझ से जो ऐसा काम हुआ है, और मेरी बन्वाई हुई वाचा और दी हुई विधि तू ने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझ से छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। १२ तौभी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न कसंगा; परन्तु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। १३ फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीन लूंगा, परन्तु अपने दास दाऊद के कारण, और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण, मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा।

१४ सो यहोवा ने एदोमी हृदद को जो एदोमी राजवंश का था, सुलैमान का शत्रु बना दिया। १५ क्योंकि जब दाऊद एदोम में था, और योआब सेनापति मारे हुएओं को मिट्टी देने गया, १६ (योआब तो समस्त इस्राएल समेत वहा छः महीने रहा, जब तक कि उस ने एदोम के सब पुरुषों को नाश न कर दिया)। १७ तब हृदद जो छोटा लड़का था, अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने की मनसा से भागा। १८ और वे मिद्यान से होकर परान को आए, और परान में से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए, और फिरौन ने उसको घर दिया, और उसको भोजन मिलने की भ्राजा दी और कुछ भूमि भी दी। १९ और हृदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई, और उस ने उसको अपनी साली अर्थात् तहपनेस रानी की बहिन ब्याह दी। २० और तहपनेस की बहिन से गनूबत उत्पन्न हुआ

और इसका दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया, तब गनूबत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। २१ जब हृदद ने मिस्र में रहते यह सुना, कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया, और योआब सेनापति भी मर गया है, तब उस ने फिरौन से कहा, मुझे भ्राजा दे कि मैं अपने देश को जाऊं! २२ फिरौन ने उस से कहा, क्यों? मेरे यहां तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को बला जाना चाहता है? उस ने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई, तौभी मुझे भ्रवश्य जाने दे।

२३ फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात् एल्यादा के पुत्र रजोन को, वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हृददेजर के पास से भागा था; २४ और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठे करके, एक दल का प्रधान हो गया, और वह दमिश्क को जाकर वही रहने और राज्य करने लगा। २५ और उस हानि को छोड़ जो हृदद ने की, रजोन भी, सुलैमान के जीवन भर इस्राएल का शत्रु बना रहा; और वह इस्राएल में घुसा रखता हुआ अराम पर राज्य करता था।

२६ फिर नबात का और सख्पाह नाम एक विषवा का पुत्र यारोबाम नाम एक एग्नेमी सरेदावासी जो सुलैमान का कर्मचारी था, उस ने भी राजा के विरुद्ध सिर * उठाया। २७ उसका राजा के विरुद्ध सिर * उठाने का यह कारण हुआ, कि सुलैमान मिल्वो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर के

* मूल में—हाब।

दरार बन्द कर रहा था। २८ यारोबाम बड़ा शूरवीर था, और जब मुलैमान ने जबान को देखा, कि यह परिश्रमी है, तब उस ने उमको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। २९ उन्ही दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था, कि शिलोबामी अहिय्याह नबी, नई चद्दर ओढे हुए मार्ग पर उम से मिला, और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। ३० और अहिय्याह ने अपनी उम नई चद्दर को ले लिया, और उसे फाड़कर बारह टुकड़े कर दिए। ३१ तब उस ने यारोबाम से कहा, दस टुकड़े ले ले; क्योंकि, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, यो कहता है, कि सुन, मैं राज्य को मुलैमान के हाथ से छीन कर दस गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। ३२ परन्तु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैं ने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। ३३ इसका कारण यह है कि उन्हो ने मुझे त्याग कर सीदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश, और अम्मोनियों के देवता मिल्कोम को दण्डवत की, और मेरे मार्गों पर नहीं चले। और जो मेरी दृष्टि में ठीक है, वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। ३४ तीभी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूंगा, परन्तु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएँ और विधियाँ मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूंगा। ३५ परन्तु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात् दस गोत्र लेकर तुम्हें दे दूंगा।

३६ और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिये कि यरूशलेम अर्थात् उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैं ने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे साम्हने सदैव बना रहे। ३७ परन्तु तुम्हें मैं ठहरा लूंगा, और तू अपनी इच्छा भर इस्राएल पर राज्य करेगा। ३८ और यदि तू मेरे दास दाऊद की नाई मेरी सब आज्ञाएँ माने, और मेरे मार्गों पर चले, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है, वही करे, और मेरी विधियाँ और आज्ञाएँ मानता रहे, तो मैं तेरे सग रहूंगा, और जिस तरह मैं ने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा, और तेरे हाथ इस्राएल को दूंगा। ३९ इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुःख दूंगा, तीभी सदा तक नहीं। ४० और मुलैमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परन्तु यारोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया, और मुलैमान के मरने तक वही रहा ॥

४१ मुलैमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन, क्या मुलैमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ४२ मुलैमान को यरूशलेम में सब इस्राएल पर राज्य करते हुए चालीस वर्ष बीते। ४३ और मुलैमान अपने पुरखाओं के सग सोया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ ॥

(इस्राएल के राज्य का दो भाग जो बना)

१२ रहबियाम तो शकेम को गया, क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिये वही गए थे। २ और

जब नबात के पुत्र यारोबाम ने यह मुना, (जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योंकि यारोबाम मुलमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था। ३ सो उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा) तब यारोबाम और इस्त्राएल की समस्त सभा रूहबियाम के पास जाकर यो कहने लगी, ४ कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जूझा डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की बर्तन मेवा को, और उस भारी जूझ को, जो उस ने हम पर डाल रखा है, कुछ हलका कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। ५ उस ने कहा, अभी तो जाओ, और तीन दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। ६ तब राजा रूहबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता मुलमान के जीवन भर उसके साम्हने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली, कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इस में तुम क्या सम्मति देते हो? ७ उन्हो ने उसको यह उत्तर दिया, कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दाम बनकर उनके अधीन हो और उन में मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। ८ रूहबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया, जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली, जो उसके सग बड़े हुए थे, और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। ९ उन से उस ने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दू? इस में तुम क्या सम्मति देते हो? उन्हो ने तो मुझ से कहा है, कि जो जूझा तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे तू हलका कर। १० जवानों ने जो उसके सग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, कि उन लोगों

ने तुझ से कहा है, कि तेरे पिता ने हमारा जूझा भारी किया था, परन्तु तू उसे हमारे लिये हलका कर, तू उन में यो कहना, कि मेरी छिगुलिया मेरे पिता की कमर में भी माटी है। ११ मेरे पिता ने तुझ पर जो भारी जूझा रखा था, उसे मैं और भी भारी करूंगा, मेरा पिता तो तुम को कोडो से ताडना देता था, परन्तु मैं बिच्छुओं से दूंगा। १२ तीसरे दिन, जैसे राजा ने ठहरीया था, कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और समस्त प्रजासग रूहबियाम के पास उपस्थित हुए। १३ अब राजा ने प्रजा से बड़ी बात की, १४ और बूढ़ा की दी हुई सम्मति छोड़कर, जवानों की सम्मति के अनुसार उन से कहा, कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जूझा भारी कर दिया, परन्तु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा मेरे पिता ने तो कोडो से तुम को ताडना दी, परन्तु मैं तुम को बिच्छुओं से ताडना दूंगा। १५ मा राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी, इसका कारण यह है, कि जो वचन यहोवा ने शीलोबामी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिये उस ने ऐसा ही ठहराया था। १६ जब सब इस्त्राएल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले * कि दाऊद के साथ हमारा क्या भग इनाग तो यिसे के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इस्त्राएल अपने अपने डेरे को चले जाओ अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिन्ता कर। १७ सो इस्त्राएल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्त्राएली यहूदा

* मूल में—राजा को उत्तर दिया।

के नगरो में बसे हुए थे उन पर रूहबियाम राज्य करता रहा। १८ तब राजा रूहबियाम ने अदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया, और सब इस्त्राएलियों ने उमको पत्थरवाह किया, और वह मर गया : तब रूहबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। १९ और इस्त्राएल दाऊद के घराने में फिर गया, और आज तक फिग हुआ है। २० यह सुनकर कि यारोबाम लौट आया है, समस्त इस्त्राएल ने उमको मगडली में बुलवा भेजकर, पूर्ण इस्त्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया, और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने में कोई मिला न रहा ॥

२१ जब रूहबियाम यरूशलेम को आया, तब उस ने यहूदा के पूर्ण घराने को, और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर एक लाख अस्सी हजार अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया, कि वे इस्त्राएल के घराने के साथ लड़कर सुलैमान के पुत्र रूहबियाम के बश में फिर राज्य कर दे। २२ तब परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन शमायाह के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रूहबियाम से, २३ और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने से, और सब लोगों से कह, यहोवा यो कहता है, २४ कि अपने भाई इस्त्राएलियों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो; तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही और से हुई है। यहोवा का यह वचन मानकर उन्होंने ने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया ॥

(यारोबाम का बुर्जिपूजा बहाणा)

२५ तब यारोबाम एप्रैम के पहाडी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उम में रहने लगा; फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। २६ तब यारोबाम सोचने लगा, कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। २७ यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रूहबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रूहबियाम के हो जाएंगे। २८ तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के दो बछड़े बनाए और लोगों में कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति में बाह्य है इसलिये हे इस्त्राएल अपने देवताओं को देखो, जो तुम्हें मित्र देश में निकाल लाए हैं। २९ तो उस ने एक बछड़े को बेतेल, और दूसरे को दान में स्थापित किया। ३० और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के माम्हने दण्डवत करने को दान तक जाने लगे। ३१ और उस ने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए, और सब प्रकार के लोगों * में से जो लेवीवशी न थे, याजक ठहराए। ३२ फिर यारोबाम ने आठवे महीने के पन्द्रहवे दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया, और बेदी पर बलि चढ़ाने लगा; इस रीति उम ने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिये बेदी पर, बलि किया, और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया ॥

(यज्ञदी बबौ की बचा)

३३ और जिस महीने की उस ने अपने मन में कल्पना की थी अर्थात्

* मूल में—अन्त के लोगों।

घाठवे महीने के पन्द्रहवें दिन को वह बतेल में अपनी बनाई हुई बेदी के पास चढ गया। उस ने एसाएलियों के लिये एक पर्व्व ठहरा दिया, और धूप जलाने को बेदी के पास चढ गया ॥

१३ तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बतेल को आया, और यारोबाम धूप जलाने के लिये बेदी के पास खडा था। २ उस जन ने यहोवा से वचन पाकर बेदी के विरुद्ध यो पुकारा, कि बेदी, हे बेदी ! यहोवा यो कहता है, कि सुन, दाऊद के कुल में योगिय्याह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊचे स्थानो के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। ३ और उस ने, उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिह्न भी बताया, कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिह्न यह है कि यह बेदी फट जाएगी, और इस पर की राख गिर जाएगी। ४ तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उस ने बतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने बेदी के पास में हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड लो तब उसका हाथ जो उसकी और बढ़ाया गया था, सूख गया और वह उसे अपनी और खींच न सका। ५ और बेदी फट गई, और उस पर की राख गिर गई; सो वह चिह्न पूरा हुआ, जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। ६ तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिये प्रार्थना कर,

कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए : तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। ७ तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे सग घर चलकर अपना प्राण ठडा कर, और मैं तुम्हें दान भी दूंगा। ८ परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना प्राधा घर भी दे, तौभी तेरे घर न चलूंगा; और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा। ९ क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यो आज्ञा मिली है, कि न तो रोटी खाना, और न पानी पीना, और न उस मार्ग से लौटना जिस से तू जाएगा। १० इसलिये वह उस मार्ग से जिसे बतेल को गया था न लौटकर, दूसरे मार्ग में चला गया ॥

११ बतेल में एक बूढा नबी रहता था, और उसके एक बेटे ने आकर उस से उन सब कामो का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी, उनको भी उम ने अपने पिता से कह सुनाया। १२ उसके बेटो ने तो यह देखा था, कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था, किस मार्ग से चला गया, सो उनके पिता ने उन से पूछा, वह किस मार्ग में चला गया ? १३ और उस ने अपने बेटों से कहा, मेरे लिये गदहे पर काठी बान्धो; तब उन्होंने ने गदहे पर काठी बान्धी, और वह उस पर चढा, १४ और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांजबूक्ष के तले बैठा हुआ पाया; और उस से पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है ? १५ उस

ने कहा हा, वही हू। उम ने उम से कहा, मेरे मग घर चलकर भोजन कर। १६ उम ने उम से कहा, मैं न तो तेरे मग लौट सकता। और न तंरे मंग घर में जा सकता हू और न मैं इस स्थान में तेरे मग रोटी खाऊंगा, वा पानी पीऊंगा। १७ क्योंकि यहाँवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है, कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग में तू जाएगा उम से न लौटना। १८ उम ने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हू, और मुझ में एक दूत ने यहाँवा में वचन पाकर कहा, कि उम पुरुष को अपने मग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए, और पानी पीए। यह उम ने उम से भूठ कहा। १९ अतएव वह उमके मग लौट गया और उमके घर में रोटी खाई और पानी पीया। २० और जब वे मेज पर बैठे ही थे, कि यहाँवा का वचन उम नबी के पास पहुँचा, जो दूसरे को लौटा ले आया था। २१ और उम ने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा में आया था, पुकार के कहा, यहाँवा यो कहता है इसलिए कि तू ने यहाँवा का वचन न माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहाँवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, २२ परन्तु जिस स्थान के विषय उम ने तुझ से कहा था, कि उस में न तो रोटी खाना और न पानी पीना, उसी में तू ने लौट कर रोटी खाई, और पानी भी पीया है इस कारण तुझे अपने पुरखाओ के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। २३ जब यह खा पी चुका, तब उस ने परमेश्वर के उम जन के लिये जिसको वह लौटा ले आया था गदहे पर काठी बन्धाई। २४ जब वह मार्ग में चल रहा

था, तो एक सिंह उसे मिला, और उसको मार डाला, और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही, और गदहा उमके पास खड़ा रहा और सिंह भी लोथ के पास खड़ा रहा। २५ जो लोग उधर से चले आ रहे थे उन्हो ने यह देख कर कि मार्ग पर एक लोथ पड़ी है, और उमके पास सिंह खड़ा है, उम नगर में जाकर जहाँ वह बूढ़ा नबी रहता था यह समाचार सुनाया। २६ यह सुनकर उम नबी ने जो उमको मार्ग पर से लौटा ले आया था, कहा, परमेश्वर का वही जन होगा, जिस ने यहाँवा के वचन के विरुद्ध किया था, इस कारण यहाँवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहाँवा के उम वचन के अनुसार जो उस ने उस से कहा था, सिंह ने उसे फाड़कर मार डाला होगा। २७ तब उम ने अपने बेटों से कहा, मेरे लिये गदहे पर काठी बान्धो, जब उन्हो ने काठी बान्धी, २८ तब उम ने जाकर उम जन की लोथ मार्ग पर पड़ी हुई, और गदहे, और सिंह दोनों को लोथ के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने न तो लोथ को खाया, और न गदहे को फाड़ा है। २९ तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन की लोथ उठाकर गदहे पर लाद ली, और उमके लिये छाती पीटने लगा, और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में लौटा ले गया। ३० और उम ने उसकी लोथ को अपने कब्रिस्तान में रखा, और लोग हाय, मेरे भाई! यह कहकर छाती पीटने लगे। ३१ फिर उसे मिट्टी देकर उस ने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना, जिस में परमेश्वर का यह जन रखा गया

है, और मेरी हड्डिया उसी की हड्डियों के पास घर देना। ३२ क्योंकि जो वचन उम ने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और शोमरोन के नगरों के सब ऊँचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा है, वह निश्चय पूरा हो जाएगा।।

(यारोबाम का अन्तर्वास)

३३ इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उस ने फिर सब प्रकार के लोगो में से ऊँचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था, उसका मस्कार करके, वह उसको ऊँचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। ३४ और यह बात यारोबाम के घराने का पाप ठहरी, इस कारण उमका विनाश हुआ, और वह घरती पर मे नाश किया गया।।

१४ उम समय यारोबाम का बेटा अहिय्याह रोगी हुआ। २ तब यारोबाम ने अपनी स्त्री मे कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहिचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहा तो अहिय्याह नबी रहता है जिस ने मुझ मे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। ३ उमके पास तू दस रोटी, और पपडियां और एक कुप्पी मधु लिये हुए जा, और वह तुझे बताएगा कि लडके को क्या होगा। ४ यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया, और चलकर शीलो को पहुची और अहिय्याह के घर पर आई: अहिय्याह को तो कुछ सूझ न पडता था, क्योंकि बुढापे के कारण उसकी आँखें धुन्धली पड गई थी। ५ और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन यारोबाम की स्त्री तुझ से

अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है, तू उम से ये ये बातें कहना; वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। ६ जब अहिय्याह ने द्वार में आते हुए उसके पाव की आहट सुनी तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री! भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे नेरे लिये भारी सन्देशा मिला है। ७ तू जाकर यारोबाम से कह कि इस्त्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझ से यो कहता है, कि मैं ने तो तुझ को प्रजा मे मे बढाकर अपनी प्रजा इस्त्राएल पर प्रधान किया, ८ और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझ को दिया, परन्तु तू मेरे दाम दाऊद के समान न हुआ जो मेरी आज्ञाओं को मानता, और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। ९ तू ने उन मभो से बढकर जो तुझ मे पहिले थे बुराई की है, और जाकर परायें देवता की उपासना की और मूरते ढालकर बनाई, जिस से मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तां पीठ के पीछे फेंक दिया है। १० इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लडके को और क्या बन्धुए, क्या स्वाधीन इस्त्राएल के मध्य हर एक रहनवाने को भी नष्ट कर डालूंगा और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाना रहता है जब तक वह मव उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। ११ यारोबाम के घराने का जो कोई नगर मे मर जाए, उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान मे मरे, उसको अकिसा के पक्षी

खा जाएंगे; क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। १२ इसलिये तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पाव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। १३ उसे तो समस्त इस्राएली छाती पीटकर मिट्टी देंगे; यारोबाम के मन्तानो में से केवल उसी को कबर मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है। १४ फिर यहोवा इस्राएल के लिये एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नाश कर डालेगा, परन्तु कब? १५ यह अभी होगा। क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा, जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़कर महानद के पार तित्तर-बित्तर करेगा; क्योंकि उन्होंने ने अशेरा नाम भूते अपने लिये बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। १६ और उन पापों के कारण जो यारोबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। १७ तब यारोबाम की स्त्री बिदा होकर चली और तिरजा को आई, और वह भवन की डेवढी पर जैसे ही पहुँची कि वह बालक मर गया। १८ तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहलाया था, समस्त इस्राएल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिये शोक मनाया। १९ यारोबाम के और काम अर्थात् उसने कैसा कैसा युद्ध किया, और कैसा राज्य किया, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। २० यारोबाम बाईस वर्ष तक

राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया और नादाब नाम उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ।।

(रूडबियाम का राज्य)

२१ और सुलैमान का पुत्र रूडबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रूडबियाम इकतालीस वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम जिसको यहोवा ने मागे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिये चुन लिया था, उस नगर में वह सत्रह वर्ष तक राज्य करता रहा; और उसकी माता का नाम नामा था जो अम्मोनी स्त्री थी। २२ और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। २३ उन्होने तो सब ऊँचे टीलो पर, और सब हरे वृक्षों के तले, ऊँचे स्थान, और लाठे, और अशेरा नाम भूते बना ली। २४ और उनके देश में पुरुषगामी भी थे, निदान वे उन जातियों के से सब धिनीने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से निकाल दिया था। २५ राजा रूडबियाम के पाँचवें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक, यरूशलेम पर चढ़ाई करके, २६ यहोवा के भवन की अन्नमोल वस्तुएँ और राजभवन की अन्नमोल वस्तुएँ, सब की सब उठा ले गया; और सोने की जो डाले सुलैमान ने बनाई थी सब को वह ले गया। २७ इसलिये राजा रूडबियाम ने उनके बदले पीतल की ढाले बनवाई और उन्हें पहरेदारों के प्रधानों के हाथ सौंप दिया जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। २८ और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था

तब तब पहुँचए उन्हे उठा ले चलते, और फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख देते थे। २६ रूबियाम के और सब काम जो उस ने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? ३० रूबियाम और यारोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही। ३१ और रूबियाम जिसकी माना नामा नाम एक अम्मोनिन थी, अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबिव्याम उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(अबिव्याम का राज्य)

१५ नाबात के पुत्र यागेबाम के राज्य के अठारहवें वर्ष में अबिव्याम यहूदा पर राज्य करने लगा। २ और वह तीन वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम माका था जो अबशालोम की पुत्री थी - ३ वह वैसे ही पापो की लीक पर चलता रहा जैसे उसके पिता ने उस से पहिले किए थे और उसका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने परदादा दाऊद की नाई पूरी रीति से सिद्ध न था, ४ तौभी दाऊद के कारण उसके परमेश्वर यहोवा ने यरूशलेम में उसे एक दीपक दिया अर्थात् उसके पुत्र को उसके बाद ठहराया और यरूशलेम को बनाए रखा। ५ क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती ऊरिव्याह की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा में जीवन भर कभी न मुड़ा। ६ रूबियाम के जीवन भर तो उसके और यारोबाम के बीच लड़ाई होती

रही। ७ अबिव्याम के और सब काम जो उस ने किए, क्या वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? और अबिव्याम की यारोबाम के साथ लड़ाई होती रही। ८ निदान अबिव्याम अपने पुरखाओं के सग सोया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(आसा का राज्य)

६ इस्राएल के राजा यारोबाम के बीसवें वर्ष में आसा यहूदा पर राज्य करने लगा, १० और यरूशलेम में इकतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। ११ और आसा ने अपने मूलपुरुष दाऊद की नाई वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। १२ उस ने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया, और जितनी मूर्तें उनके पुरखाओं ने बनाई थी उन सभी को उस ने दूर कर दिया। १३ वरन उसकी माता माका जिस ने अशेरा के लिये एक घिनौनी मूर्त बनाई थी उसको उस ने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूर्त को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूक दिया। १४ परन्तु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए, तौभी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। १५ और जो सोना चादी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सभी को उस ने यहोवा के भवन में पहुँचा दिया। १६ और आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच उनके

जीवन भर युद्ध होता रहा। १७ और इस्लाएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की, और रामा को इसलिये दूढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आमा के पास आने जाने न पाए। १८ तब आमा ने जितना माना चादी यहोवा के भवन और राजभवन के भग्दारो म रह गया था उस सब को निकाल अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर, दमिश्क्यामी अराम के राजा बेन्हदद के पास जाँ डेज्योन का पाता और तब्रिमोन का पुत्र था भेजवर यह कहा, कि जैसा मेरे और तेरे पिता के मध्य मे वैसा ही मेरे और तेरे मध्य भी वाचा बान्धी जाए। १९ देख, मैं तेरे पास चादी मोने की भेंट भेजता हूँ, इसलिये आ, इस्लाएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को टाल दे, कि वह मेरे पास मे चला जाए। २० राजा आसा की यह बात मानकर बेन्हदद ने अपने दलो के प्रधानों से इस्लाएली नगरो पर चढ़ाई करवाकर इज्योन, दान, आबेस्वेत्माका और समस्त किन्नेरेत को और नप्ताली के समस्त देश को पूरा जीत लिया। २१ यह सुनकर बाशा ने रामा को दूढ़ करना छोड़ दिया, और तिसी मे रहने लगा। २२ तब राजा आसा ने सारे यहूदा में प्रचार करवाया और कोई अनसुना न रहा, तब वे रामा के पत्थरो और लकडी को जिन से बासा उसे दूढ़ करता था उठा ले गए, और उन से राजा आसा ने बिन्यामीन के गेबा और मिस्या को दूढ़ किया। २३ आसा के और काम और उसकी कीरता और जो कुछ उस ने किया, और जो नगर उस ने दूढ़ किए, यह सब क्या यहूदा के राजाओ के इतिहास की पुस्तक

मे नही लिखा है? २४ परन्तु उसके बुढापे में तो उसे पाबो का रोग लग गया। निदान आसा अपने पुरखाओ के मग सा गया, और उमे उसके मूलपुरुष दाऊद के नगर में उन्ही के पास मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा।।

(नादाब का राज्य)

२५ यहूदा के राजा आमा के दूमरे वर्ष मे यारोबाम का पुत्र नादाब इस्लाएल पर राज्य करने लगा, और दो वर्ष तक राज्य करता रहा। २६ उस ने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि मे बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उस ने इस्लाएल से करवाया था। २७ नादाब सब इस्लाएल समेत पलिस्तियो के देश के गिब्वतोन नगर को घरे था। और इस्साकार के गोत्र के अहिय्याह के पुत्र बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके गिब्वतोन के पास उसको मार डाला। २८ और यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बाशा ने नादाब को मार डाला, और उसके स्थान पर राजा बन गया। २९ राजा होते ही बाशा ने यारोबाम के समस्त घराने को मार डाला, उस ने यारोबाम के बश को यहा तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उस ने अपने दास शीलोबासी अहिय्याह से कहवाया था। ३० यह इस कारण हुआ कि यारोबाम ने स्वय पाप किए, और इस्लाएल से भी करवाए थे, और उस ने इस्लाएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया था।

३१ नादाब के और सब काम जो उम ने किए, वह क्या इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? ३२ आसा और इस्त्राएल के राजा बाशा के मध्य में तो उनके जीवन भर युद्ध होता रहा ॥

(बाशा का राज्य)

३३ यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में अहिय्याह का पुत्र बाशा, तिर्मा में ममस्त इस्त्राएल पर राज्य करने लगा, और चौबीस वर्ष तक राज्य करता रहा। ३४ और उम ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करना रहा जिसे उस ने इस्त्राएल से करवाया था ॥

१६ और बाशा के विषय यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुँचा, २ कि मैं ने तुम्हें को मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इस्त्राएल का प्रधान किया, परन्तु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्त्राएल में ऐसे पाप कराता आया है जिन से वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। ३ सुन, मैं बाशा और उसके घराने की पूरी रीति से सफाई कर दूँगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूँगा। ४ बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए, उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मंदिर में मर जाए, उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे ॥

५ बाशा के और सब काम जो उस ने किए, और उसकी बीरता यह सब क्या इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ६ निदान बाशा अपने पुरस्कारों के संग सो गया

और तिर्मा में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ७ यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बाशा और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उम ने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन् इस कारण भी आया, कि उम ने उसको मार डाला था ॥

(रख्बा का राज्य)

८ यहूदा के राजा आसा के छब्बीसवें वर्ष में बाशा का पुत्र एला तिर्मा में इस्त्राएल पर राज्य करने लगा, और दो वर्ष तक राज्य करता रहा। ९ जब वह तिर्सा में अर्सा नाम भगडारी के घर में जो उसके तिर्मावाले भवन का प्रधान था, दाह पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिम्मी नाम एक कर्मचारी ने जो उसके आघे रथों का प्रधान था, १० राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला, और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के सत्ताइसवें वर्ष में हुआ। ११ और जब वह राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उस ने बाशा के पूरे घराने को मार डाला, वरन् उन ने न तो उसके कुटुम्बियों और न उसके मित्रों में से एक लडके को भी जीवित छोड़ा। १२ इस रीति यहोवा के उम वचन के अनुसार जो उम ने येहू नबी के द्वारा बाशा के विरुद्ध कहा था, जिम्मी ने बाशा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। १३ इसका कारण बाशा के सब पाप

और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होने स्वयं भ्राप करके और इस्त्राएल से भी करवा के इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों में क्रोध दिलाया था। १४ एला के और सब काम जो उसने किए, वह क्या इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं।

(जिञ्जी का राज्य)

१५ यहूदा के राजा आसा के मत्तार्दमबे वषं म जिञ्जी तिसर्सा में राज्य करने लगा, और तिसर्सा में मात दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग पलिग्नियों के देश गिबबतोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। १६ तो जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना, कि जिञ्जी ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला, तब उमी दिन समस्त इस्त्राएल ने आञ्जी नाम प्रधान सेनापति को छावनी में इस्त्राएल का राजा बनाया। १७ तब आञ्जी ने समस्त इस्त्राएल को सग ले गिबबतोन को छोड़कर तिसर्सा को घेर लिया। १८ जब जिञ्जी ने देखा, कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मत में जाकर राजभवन में आग लगा दी, और उमी में स्वयं जल मरा। १९ यह उसके पापों के कारण हुआ क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम की सी चाल और उसके किए हुए और इस्त्राएल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। २० जिञ्जी के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की, यह सब क्या इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ?

(ओझी का राज्य)

२१ तब इस्त्राएली प्रजा के दो भाग किए गए, प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नाम गीनन के पुत्र को राजा करने के लिये उमी के पीछे हो लिए, और आधे ओञ्जी के पीछे हो लिए। २२ अन्त में जो लोग ओञ्जी के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए जो गीनन के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे, इसलिये तिब्नी मारा गया और ओञ्जी राजा बन गया। २३ यहूदा के राजा आशा के इकतीसवें वर्ष में ओञ्जी इस्त्राएल पर राज्य करने लगा, और बारह वर्ष तक राज्य करता रहा, उमने छ वर्ष तो तिसर्सा में राज्य किया। २४ और उसने शमेर से शोमरोन पहाड़ को दो किक्कार चादी में मोल लेकर, उस पर एक नगर बसाया, और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शमेर के नाम पर शोमरोन रखा। २५ और ओञ्जी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था वरन उन सभी में भी जो उससे पहिले थे अधिक बुराई की। २६ वह नवात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला, और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इस्त्राएल से करवाए थे जिसके कारण इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा को उन्होने अपने व्यर्थ कर्मों में क्रोध दिलाया था। २७ ओञ्जी के और काम जो उसने किए, और जो बीरता उसने दिखाई, यह सब क्या इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ? २८ निदान ओञ्जी अपने पुरखाओं के सग मो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(अह्राब के राज्य का चारण)

२६ यहूदा के राजा आसा के अडतीमवे वर्ष में ओझी का पुत्र अह्राब इस्राएल पर राज्य करने लगा, और इस्राएल पर शोमरोन में बाईस वर्ष तक राज्य करता रहा। ३० और ओझी के पुत्र अह्राब ने उन सब से अधिक जो उम में पहिले थे, वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। ३१ उम ने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापो में चलना हलकी सी बात जानकर, सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी ईजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दगडवत किया। ३२ और उस ने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उस में बाल की एक वेदी बनाई। ३३ और अह्राब ने एक अशोरा भी बनाया, वरन उम ने उन सब इस्राएली राजाओं में बढ़कर जो उस से पहिले थे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। ३४ उसके दिनों में बेतेलवामी हीएल ने यरीहो को फिर बसाया, जब उस ने उसकी नेब डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उस ने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया, यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ, जो उस ने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था ॥

(रखिय्याह के काम का चारण)

१७ और तिशावी एलिय्याह जो गिलाद के परदेसियों में था उस ने अह्राब में कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके मम्मूख में उपस्थित रहता है, उसके जीवन की शपथ इन

वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मेह बरसेगा, और न आंस पड़ेगी। २ तब यहोवा का यह वचन उमके पास पहुंचा, ३ कि यहा में चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के माहने है छिप जा। ४ उमी नाले का पानी तू पिया कर, और मैं ने कौबों को आज्ञा दी है कि वे तुम्हें बहा खिलाए*। ५ यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के माहने के करीत नाम नाले में जाकर छिप रहा। ६ और सबेरे और साभ को कौबे उमके पास रोटी और मास लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। ७ कुछ दिनों के बाद उम देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया ॥

८ तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ९ कि चलकर सीदोन के मारपत नगर में जाकर वही रह सुन, मैं ने बहा की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। १० सो वह बहा में चल दिया, और मारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उस ने क्या देखा कि, एक विधवा लकड़ी बीन रही है, उसको बुलाकर उम ने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। ११ जब वह लेने जा रही थी, तो उस ने उसे पुकार के कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा राटी भी मेरे पास लेती आ। १२ उस ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है केवल घडे में मुट्टी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए

* मूल में—तेरे पालने पोसने की।

जाती हू कि अपने और अपने बेटे के लिये उसे पकाऊ, और हम उसे खाए, फिर मर जाए। १३ एलिय्याह ने उम से कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुमार कर, परन्तु पहिले मेरे लिये एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पाम ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिये बनाना। १४ क्योंकि इन्नाएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि जब तक यहोवा भूमि पर मह न बरमाएगा तब तक न तो उम घड़े का मँदा चुकेगा, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। १५ तब वह चली गई, और एलिय्याह के वचन के अनुमार किया, तब मे वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाने रहे। १६ यहोवा के उम वचन के अनुमार जो उम ने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उम घटे का मँदा चूका, और न उस कुप्पी का तेल घट गया। १७ इन बातों के बाद उम स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी, रोगी हुआ, और उसका रोग यहा तक बढ़ा कि उसका माम लेना बन्द हो गया। १८ तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन ! मेरा तुम्ह से क्या काम ? क्या तू इसलिये मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए ? १९ उस ने उम से कहा अपना बेटा मुझे दे, तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उम अटारी पर ले गया जहा वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। २० तब उम ने यहोवा को पुकारकर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा ! क्या तू इस विषया का बेटा मार डालकर जिसके यहा मैं टिका हू, इस पर भी

विपत्ति ले आया है ? २१ तब वह बालक पर तीन बार पसर गया और यहोवा को पुकारकर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा ! इस बालक का प्राण इस में फिर डाल दे। २२ एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उम में फिर आ गया और वह जी उठा। २३ तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिय्याह ने यह कहकर उमकी माता के हाथ में मौप दिया, कि देख तेरा बेटा जीवित है। २४ स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुह से निकलता है, वह मच होता है ॥

(यहोवा की विजय और बाबल का पराजय)

१८ बहुत दिनों के बाद, तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पाम पहुँचा, कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, और मैं भूमि पर मेह बरसा दूँगा। २ तब एलिय्याह अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। ३ इसलिये अहाब ने ओबद्याह को जो उसके घराने का दीवान था बुलवाया। ४ ओबद्याह तो यहोवा का भय यहा तक मानता था कि जब ईजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने एक सौ नबियों को लेकर पचास-पचास करके गुफाओं में छिपा रखा; और अन्न जल देकर उनका पालन-पोषण करता रहा। ५ और अहाब ने ओबद्याह से कहा, कि देश में जल के सब मोतो और सब नदियों के पास जा, कदाचित्त इननी

दास मिले कि हम घोडो और खच्चरो को जीवित बचा सके, ६ और हमारे सब पशु न मर जाए। और उन्हो ने आपस में देश बाटा कि उस में होकर चले, एक और अहाब और दूसरी और ओबद्याह चला। ७ ओबद्याह मार्ग में था, कि एलिय्याह उसको मिला, उसे चीन्ह कर वह मुह के बल गिरा, और कहा, हे मेरे प्रभु एलिय्याह, क्या तू है? ८ उस ने कहा हा मैं ही हू जाकर अपने स्वामी से कह, कि एलिय्याह मिला है। ९ उस ने कहा, मैं ने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिये अहाब के हाथ करना चाहता है? १० तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ कोई ऐसी जाति वा राज्य नहीं, जिम में मेरे स्वामी ने तुझे दूढ़ने को न भंजा हो, और जब उन लोगो ने कहा, कि वह यहा नहीं है, तब उस ने उस राज्य वा जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिय्याह नहीं मिला। ११ और अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह, कि एलिय्याह मिला। १२ फिर ज्यो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यो ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहा उठा ले जाएगा, सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा, और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा परन्तु मैं तेरा दास अपने लडकपन में यहोवा का भय मानता आया हू। १३ क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया, कि जब ईजेबेल यहोवा के नबियो को घान करती थी तब मैं ने क्या किया? कि यहोवा के नबियो में से एक सौ लेकर पचाम-पचास करके गुफाओं में छिपा रखा, और उन्हे

अन्न जल देकर पालता रहा। १४ फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह, कि एलिय्याह मिला है। तब वह मुझे घान करेगा। १५ एलिय्याह ने कहा, मेनाओ का यहोवा जिमके साम्हने मैं रहता हू, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उमे दिखाऊंगा। १६ तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया, और उसको बता दिया, सो अहाब एलिय्याह से मिलने चला। १७ एलिय्याह का देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्त्राएल के मतानेवाले क्या तू ही है? १८ उस ने कहा, मैं ने इस्त्राएल का कष्ट नहीं दिया, परन्तु तू ही ने और तेरे पिता के घराने में दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। १९ अब दूत भेजकर सारे इस्त्राएल को और बाल के माढे चार सौ नबियो और अशोरा के चार सौ नबियो को जो ईजेबेल की भेज पर खाते हैं, मेरे पास कम्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले।

२० तब अहाब ने सारे इस्त्राएलियो को बुला भेजा और नबियो को कम्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। २१ और एलिय्याह सब लोगो के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारो में नटके रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो, तो उसके पीछे हो लेओ, और यदि बाल हो, तो उसके पीछे हो लेओ। लोगो ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। २२ तब एलिय्याह ने लोगो से कहा, यहोवा के नबियो में से केवल मैं ही रह गया हू, और बाल के नबी साढे चार सौ मनुष्य हैं। २३ इसलिये दो बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने

लिये चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें, और कुछ भाग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ भाग न लगाऊंगा। २४ तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा; और जो भाग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। २५ और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहिले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो; तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परन्तु भाग न लगाना। २६ तब उन्होंने ने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन ! परन्तु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देनेवाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूबने लगे। २७ दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है; वह तो ध्यान लगाए होगा, वा कही गया होगा वा यात्रा में होगा, वा हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। २८ और उन्होंने ने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बच्चियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लोहू लुहान हो गए। २९ वे दोपहर भर ही क्या, बरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूबत करते रहे, परन्तु कोई शब्द सुन न पड़ा; और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया।

३० तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ; और सब लोग उसके निकट आए। तब उस ने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी भरम्मत की। ३१ फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, ३२ कि तेरा नाम इस्राएल होगा, बारह पत्थर छाटे, और उन पत्थरो से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई; और उसके चारो ओर इतना बड़ा एक गडहा खोद दिया, कि उस में दो सप्ता बीज समा सके। ३३ तब उस ने वेदी पर लकड़ी को सजाया, और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया, और कहा, चार घड़े पानी भर के होमबलि, पशु और लकड़ी पर उगडेल दो। ३४ तब उस ने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो; तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उस ने कहा, तीसरी बार करो, तब लोगो ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। ३५ और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गडहे को भी उस ने जल से भर दिया। ३६ फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इस्राहीम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ! आज यह प्रगट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हू, और मैं ने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। ३७ हे यहोवा ! मेरी सुन, मेरी सुन, कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। ३८ तब यहोवा की भाग आकाश से प्रगट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों

और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड़हे में का जल भी सुखा दिया । ३६ यह देख सब लोग मुह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, ४० एलिय्याह ने उन में कहा, बाल के नवियों को पकड़ लो, उन में से एक भी छूटने न पाए, तब उन्होने उनको पकड़ लिया, और एलिय्याह ने उन्हे नीचे किशोन के नाने में ले जाकर मार डाला ।।

४१ फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भागी वर्षा की सनमनाहट सुन पड़नी है । ४२ तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह कम्मेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिर कर अपना मुह घुटनों के बीच किया । ४३ और उस ने अपने सेबक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख, तब उस ने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दीखता । एलिय्याह ने कहा, फिर सात बार जा । ४४ सातवीं बार उस ने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है । एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐमा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए । ४५ थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ, और आन्धी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर यिज्जेल को चला । ४६ तब यहोवा की शक्ति * एलिय्याह पर ऐसी हुई, कि वह कमर बान्धकर अहाब के आगे आगे यिज्जेल तक दौड़ता चला गया ।।

* शूल में—का हाथ ।

(शक्तिवाच का निरास चोका और फिर चियाव बाबका)

१६ तब अहाब ने ईज्जेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उस ने सब नवियों को तलवार से किम प्रकार मार डाला । २ तब ईज्जेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, कि यदि मैं कल इमी समय तक तेरा प्राण उनका मा न कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उस में भी अधिक कर । ३ यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा, और पट्टा के बर्षाबा को पहुचकर अपने सेबक का वही झाड़ दिया । ४ और आप जगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाड़ के पेड़ के तले बैठ गया, वहा उस ने यह कह कर अपनी मृत्यु मागी कि हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओ से अछ्छा नहीं हू । ५ वह झाड़ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा । ६ उस ने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर बनी हुई एक रोटी, और एक सुराही पानी धरा है, तब उस ने खाया और पिया और फिर लेट गया । ७ दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी याग करनी है । ८ तब उस ने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर चालीस दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुचा । ९ वहा वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुचा, कि हे एलिय्याह तैरा यहा क्या काम ? १० उस ने उत्तर दिया सेनाओं

के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी बेदियों को गिरा दिया, और तेरे नवियों को तलवार में घात किया है, और मैं ही भ्रकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। ११ उम ने कहा, निकलकर यहोवा के मम्मूब पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पाम में होकर चला, और यहोवा के मान्हने एक बड़ी प्रचण्ड आन्धी में पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तौभी यहोवा उम आन्धी में न था, फिर आन्धी के बाद भूईडोल हुआ, तौभी यहोवा उम भूईडोल में न था। १२ फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तौभी यहोवा उम आग में न था; फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। १३ यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुह चद्दर से ढापा, और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, कि हे एलिय्याह तेरा यहा क्या काम? १४ उस ने कहा, मुझे मेनाश्शों के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, और तेरी बेदियों को गिरा दिया है और तेरे नवियों को तलवार से घात किया है; और मैं ही भ्रकेला रह गया हूँ; और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। १५ यहोवा ने उस से कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहाँ पहुँचकर अराम का राजा होने के लिये हजाएल का, १६ और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिये आबेलमहोला के शापात के पुत्र एलीशा

का अभिषेक करना। १७ और हजाएल की तलवार में जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार में बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। १८ तौभी मैं मान हज़ार इस्राएलियों को बचा रखूँगा। ये तो वे सब हैं, जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके, और न मुह में उमे चूमा है।।

१९ तब वह वहा में चल दिया, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला जो बागह जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप बागहवी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उम पर डाल दी। २० तब वह बैलो को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा, और कहने लगा मुझे अपने माता-पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। उम ने कहा, लौट जा, मैं ने तुझ से क्या किया है? २१ तब वह उसके पीछे से लौट गया, और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए, और बैलो का सामान जलाकर उनका मास पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने ने खाया; तब वह कमर बान्धकर एलिय्याह के पीछे चला, और उसकी सेवा टहल करने लगा।।

(अरामियों पर विजय)

२० और अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की, और उसके साथ बत्तीस राजा और घोड़े और रथ थे, उन्हें मग लेकर उस ने शोमरोन पर चढ़ाई की, और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। २ और उस ने नगर में इस्राएल के राजा अहाब के पास दूतो को यह कहने के लिये भेजा,

कि बेन्हदद तुझ मे यों कहता है, ३ कि तेरा चान्दी मोना मेरा है, और तेरी स्त्रियाँ और लडकेवालों मे जो जो उत्तम हैं वह भी सब मेरे हैं। ४ इस्माएल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु ! हे राजा ! तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है, सब तेरा है।

५ उन्ही दूतों ने फिर आकर कहा बेन्हदद तुझ मे यों कहता है, कि मैं ने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चान्दी मोना और स्त्रियाँ और बालक भी मुझे देने पडेगे। ६ परन्तु कल डमी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों के घरों में दूढ़-ढाढ करेगे, और तेरी जो जो मनभावनी वस्तुएँ निकालें उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। ७ तब इस्माएल के राजा ने अपने देव के सब पुरनियों को बुलवाकर कहा, मोच विचार करो, कि वह मनुष्य हमारी हानि ही का अभिलाषी है, उस ने मुझ मे मेरी स्त्रियाँ, बालक, चान्दी मोना मगा भेजा है, और मैं ने इन्कार न किया। ८ तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उस से कहा, उसकी न सुनना; और न मानना। ९ तब राजा ने बेन्हदद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी और से कहो, जो कुछ तू ने पहिले अपने दास से चाहा था वह तो मैं करूँगा, परन्तु यह मुझ से न होगा। तब बेन्हदद के दूतों ने जाकर उसे यह उत्तर मुना दिया। १० तब बेन्हदद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि शोमरोन मे इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चलनेहारों की मुट्टी भर कर घट जाए तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इम मे भी अधिक

करें। ११ इस्माएल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उम मे कहो, कि जो हथियार बान्धता हो वह उसकी नाई न फले जो उन्हे उतारता हं। १२ यह वचन सुनते ही वह जो और राजाओं समेत डेरो में पी रहा था, उम ने अपने कर्मचारियों से कहा, पाति बान्धो, तब उन्हो ने नगर के विरुद्ध पाति बान्धी।।

१३ तब एक नबी ने इस्माएल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझ मे यों कहता है, यह बडी भीड जो तू ने देखी है, उस सब को मैं आज तेरे हाथ मे कर दगा, इस से तू जान लेगा, कि मैं यहोवा ह। १४ अहाब ने पूछा, किम के द्वारा ? उम ने कहा यहोवा यों कहता है कि प्रदेशो के हाकिमों के सेवको के द्वारा। फिर उम ने पूछा, युद्ध को कोन आरम्भ करे ? उम ने उत्तर दिया, तू ही। १५ तब उम ने प्रदेशों के हाकिमो के सेवको की गिनती ली, और वे दस सौ बनीम निकले; और उनके बाद उम ने सब इस्त्राएली लोगों की गिनती ली, और वे सात हजार निकले। १६ ये दोपहर को निकल गए, उस समय बेन्हदद अपने सहायक बन्नीसो राजाओ समेत डेरो में दारू पीकर मतवाला हो रहा था। १७ प्रदेशो के हाकिमों के सेवक पहिले निकले। तब बेन्हदद ने दूत भेजे, और उन्हीं ने उस से कहा, शोमरोन मे कुछ मनुष्य निकल आते हैं। १८ उस ने कहा, चाहे वे खेल करने को निकले हों, चाहे लड़ने को, तीसी उन्हें जीवित ही पकड लाओ। १९ तब प्रदेशों के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर मे निकले। २० और वे अपने अपने साम्हने के पुरुष

को मारने लगे, और अरामी आगे, और इस्त्राएल ने उनका पीछा किया, और अराम का राजा बेन्हदद, सवारों के सग घोड़े पर चढ़ा, और भागकर बच गया। २१ तब इस्त्राएल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा, और अरामियों को बड़ी मार में मारा ॥

२२ तब उम नबी ने इस्त्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिये अपने को दृढ़ कर, और सचेत होकर मोच, कि क्या करना है, क्योंकि नये वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा ॥

२३ तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उम से कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिये हम उन में चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। २४ और यह भी काम कर, अर्थात् सब राजाओं का पद ले ले, और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। २५ फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़ों के बदले घोड़ा, और रथ के बदले रथ, अपने लिये गिन ले, तब हम चौरस भूमि पर उन में लड़े, और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी यह सम्मति मानकर बेन्हदद ने बैसा ही किया ॥

२६ और नये वर्ष के लगते ही बेन्हदद ने अरामियों को इकट्ठा किया, और इस्त्राएल में लड़ने के लिये अपने को गया। २७ और इस्त्राएली भी इकट्ठे किए गए, और उनके भोजन की तैयारी हुई, तब वे उनका साम्हना करने को गए, और इस्त्राएली उनके साम्हने डेरे डालकर

बकरियों के दो छोटे भूगड में देख पड़े, परन्तु अरामियों में देश भर गया। २८ तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्त्राएल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अरामियों ने यह कहा है, कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परन्तु नीची भूमि का नहीं है, इस कारण मैं उम बड़ी भीड़ को नये हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं यहांवा हूँ। २९ और वे सात दिन साम्हने साम्हने डेरे डाले पड़े रहे, तब मानव दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इस्त्राएलियों ने एक लाख अरामी पियादे मार डाले। ३० जा बच गए, वह अपने का भागकर नगर में घुसे, और वहां उन बचे हुए लोगों में से सत्ताईस हजार पुत्र्य गहरपनाह की दीवाल के गिरने में दब कर मर गए। बेन्हदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। ३१ तब उनके कर्मचारियों ने उम से कहा, सुन, हम ने तो सुना है, कि इस्त्राएल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिये हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सिया बान्धे हुए इस्त्राएल के राजा के पास जाने दे, सम्भव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। ३२ तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सिया बान्ध कर इस्त्राएल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेन्हदद तुझ से कहता है, कृपा कर के मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। ३३ उन लोगों ने इसे शुभ शकुन जानकर, फूर्ति से बूझ लेने का यत्न किया कि यह उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हा तेरा भाई बेन्हदद। राजा ने

कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेन्हदद उसके पास निकल आया, और उस ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। ३४ तब बेन्हदद ने उस से कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे, उनको मैं फेर दूंगा। और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिये सड़के बनवाई, वैसे ही तू दमिस्क में सड़के बनवाना। अहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुम्हें छोड़ देता हूँ, तब उस ने बेन्हदद से वाचा बान्धकर, उसे स्वतन्त्र कर दिया ॥

३५ इसके बाद नवियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने सगी से कहा, मुझे मार, जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, ३६ तब उस ने उस से कहा, तू ने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्योंही तू मेरे पास में चला जाएगा, त्योंही सिंह में मार डाला जाएगा। तब ज्योंही वह उसके पास में चला गया, त्योंही उसे एक सिंह मिला, और उसको मार डाला। ३७ फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, और उस से भी उस ने कहा, मुझे मार। और उस ने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। ३८ तब वह नबी चला गया, और आखो को पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। ३९ जब राजा पाम होकर जा रहा था, तब उस ने उसकी दोहाई देकर कहा, कि जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया, और मुझ से कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर; यदि यह किसी रीति छूट जाए, तो उसके प्राण के बदले तुम्हें अपना प्राण देना होगा; नहीं तो किक्कार

भर चान्दी देना पड़ेगा। ४० उसके बाद तेरा दास इधर उधर काम में फस गया, फिर वह न मिला। इस्राएल के राजा ने उस में कहा, तेरा ऐसा ही न्याय होगा, तू ने आप अपना न्याय किया है। ४१ नबी ने भट अपना आखो से पगड़ी उठाई, तब इस्राएल के राजा ने उसे पहिचान लिया, कि वह कोई नबी है। ४२ तब उस ने राजा में कहा, यहोवा तुम्हें से यों कहता है, इसलिये कि तू ने अपने हाथ में ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया, जिसे मैं ने मत्यानाश हो जाने को ठहराया था,* तुम्हें उसके प्राण की मन्ती अपना प्राण और उसकी प्रजा की मन्ती, अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। ४३ तब इस्राएल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला, और शोमरोन को आया ॥

(नाबोत की हत्या और ईशर का क्रोध)

२१ नाबोत नाम एक यिज्जेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राजमन्दिर के पास यिज्जेल में थी। २ इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत में कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उस में साग पात की बारी लगाऊँ; और मैं उसके बदले तुम्हें उस से अच्छी एक बाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य दे दूंगा। ३ नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुम्हें दू। ४ यिज्जेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुम्हें अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और

* मूल में—मेरे मत्यानाश के मनुष्य को हाथ से जाने दिया।

अप्रसन्न हाँकर अपने घर गया, और बिछौने पर लेट गया और मुह फेर लिया, और कुछ भोजन न किया। ५ तब उसकी पत्नी ईजेबेल ने उसके पाम आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदाम है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? ६ उस ने कहा, कारण यह है, कि मैं ने यिज्जेली नाबोन से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी मन्ती दूसरी दाख की बारी दूँगा, और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूँगा। ७ उसकी पत्नी ईजेबेल ने उस से कहा, क्या तू इस्त्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर, और तेरा मन आनन्दित हो, यिज्जेली नाबोन की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूँगी। ८ तब उस ने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अगुठी की छाप लगाकर, उन पुरनियो और रईमों के पाम भेज दी जो उसी नगर में नाबोन के पड़ोस में रहते थे। ९ उस चिट्ठी में उस ने यो लिखा, कि उपवाम का प्रचार करो, और नाबोन का लोगो के साम्हने ऊँचे स्थान पर बैठाना। १० तब दो नीच जनो को उसके साम्हने बैठाना जो साक्षी देकर उस से कहे, तू ने परमेश्वर और राजा दोनो की निन्दा की*। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह करना, कि वह मर जाए। ११ ईजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहनेवाले पुरनियो और रईमों ने उपवास का प्रचार किया, १२ और नाबोन को लोगो के साम्हने ऊँचे स्थान पर बैठायो। १३ तब दो नीच जन आकर

उसके सम्मुख बैठ गए; और उन नीच जनो ने लोगो के साम्हने नाबोन के विरुद्ध यह साक्षी दी, कि नाबोन ने परमेश्वर और राजा दोनो की निन्दा की*। इस पर उन्हो ने उसे नगर से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया, और वह मर गया। १४ तब उन्हो ने ईजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोन पत्थरवाह करके मार डाला गया है। १५ यह सुनते ही कि नाबोन पत्थरवाह करके मार डाला गया है, ईजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर यिज्जेली नाबोन की दाख की बारी का जिसे उस ने तुझे रुपया लेकर देने में भी इनकार किया था अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोन जीवित नहीं परन्तु वह मर गया है। १६ यिज्जेली नाबोन की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिये वहाँ जाने को उठ खड़ा हुआ ॥

१७ तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुँचा, कि चल, १८ शोमरोन में रहनेवाले इस्त्राएल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोन की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहाँ गया है। १९ और उस से यह कहना, कि यहोवा यो कहता है, कि क्या तू ने घात किया, और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उस से यह भी कहना, कि यहोवा यो कहता है, कि जिस स्थान पर कुत्तो ने नाबोन का लोह चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लोह चाटेंगे। २० एलिय्याह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु! क्या तू ने मेरा पता लगाया है? उस ने कहा हा, लगाया तो है, और इसका

* मूल में—दोनो को बिदा किया।

* मूल में—दोनो को बिदा किया।

कारण यह है, कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिये तू ने अपने को बेच डाला है। २१ मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा; और अहाब के घर के एक एक लडके को और क्या बन्धुएँ, क्या स्वाधीन इस्त्राएल में हर एक रहनेवाले को भी नाश कर डालूंगा। २२ और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम, और अहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा; इसलिये कि तू ने मुझे क्रोधित किया है, और इस्त्राएल से पाप करवाया है। २३ और ईजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, कि यिज्जेल के किले के पास कुत्ते ईजेबेल को खा डालेंगे। २४ अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे; और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे ॥

२५ सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी ईजेबेल के उसकाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। २६ वह तो उन एमोरियों की नाईं जिनको यहोवा ने इस्त्राएलियों के साम्हने से देश से निकाला था बहुत ही धनीने काम करता था, अर्थात् मूरतो की उपामना करने लगा था। २७ एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पडा रहने लगा, और दबे पावों चलने लगा। २८ और यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, कि क्या तू ने देखा है कि अहाब मेरे साम्हने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे साम्हने नम्र

बन गया है मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा परन्तु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा ॥

(चचाप की शत्रु)

२२ और तीन वर्ष तक अरामी और इस्त्राएली बिना युद्ध रहे। २ तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्त्राएल के राजा के पास गया। ३ तब इस्त्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम को मालूम है, कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ में क्यों नहीं छीन लेते हैं? ४ और उस ने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे मंग गिलाद के रामोत में लड़ने के लिये जाएगा? यहोशापात ने इस्त्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। ५ फिर यहोशापात ने इस्त्राएल के राजा से कहा, ६ कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले, तब इस्त्राएल के राजा ने नबियों को जो कोई चार सौ पुरुष थे इकट्ठा करके उन से पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिये चढ़ाई करूँ, वा रुका रहूँ? उन्होने उत्तर दिया, चढ़ाई कर : क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। ७ परन्तु यहोशापात ने पूछा, क्या यहा यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिस में हम पूछ लें? ८ इस्त्राएल के राजा ने यहोशापात में कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मीकायाह एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा

से पूछ सकते हैं? परन्तु मैं उससे घृणा रखता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं बरन हानि ही की भविष्यद्वारणी करता है। ६ यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ना के पुत्र मीकायाह को फुर्ती से ले आ। १० इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात, अपने अपने राजवस्त्र पहिने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यद्वारणी कर रहे थे। ११ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के झींग बनाकर कहा, यहोवा यो कहता है, कि इन से तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। १२ और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यद्वारणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो; क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा।

१३ और जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था उस ने उस से कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक ही मुह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं तो तेरी बाते उनकी सी हों; तू भी शुभ वचन कहना। १४ मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ जो कुछ यहोवा मुझ से कहे, वही मैं कहूँगा। १५ जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उस से पूछा, हे मीकायाह! क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिये चढ़ाई करे वा रुके रहें? उस ने उसको उत्तर दिया हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो; और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। १६ राजा ने उस से कहा, मुझे

कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा, कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ से सच ही कह। १७ मीकायाह ने कहा मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़-बकरियों की नाईं पहाड़ों पर; तित्तर बित्तर देख पड़ों, और यहोवा का यह वचन आया, कि वे तो अनाथ हैं; अनएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। १८ तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैं ने तुझ से न कहा था, कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यद्वारणी करेगा। १९ मीकायाह ने कहा इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन! मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बायें खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। २० तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा, कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए तब किमी ने कुछ, और किसी ने कुछ कहा। २१ निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई, और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी: यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? २२ उस ने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में पैठकर उन से भूठ बुलवाऊंगी *। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सुफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। २३ तो अब सुन यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुह में एक भूठ बोलनेवाली आत्मा पैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है।

२४ तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मीकायाह के निकट जा, उसके गाल पर

मूल में—मूठा आत्मा हूँगा।

घपेडा मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुम्हें से बाने करने को किधर गया ? २५ मीकायाह ने कहा, जिम दिन तू छिड़ने के लिये कोठरी में भागेगा, तब तुम्हें बोध होगा। २६ तब इस्राएल के राजा ने कहा, मीकायाह को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा, २७ और उन में कह, राजा यो कहता है, कि इसको बन्दीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल में न आऊ, तब तक इसे दुःख की रोटी और पानी दिया करे। २८ और मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल में लौटे, तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उम ने कहा, हे लोगो तुम सब के सब सुन लो।।

२९ तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। ३० और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परन्तु तू अपने ही वस्त्र पहिने रहना। तब इस्राएल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। ३१ और अराम के राजा ने तो अपने रथों के बत्तीमो प्रधानों को आज्ञा दी थी, कि न तो छोटे से लडो और न बडे में, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। ३२ तो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है। और वे उमी से युद्ध करने को मुडे, तब यहोशापात चिल्ला उठा। ३३ यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। ३४ तब किमी ने अटक्ल में एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के भिलम और निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा, तब उसने अपने मारथी में कहा, मैं

घायल हो गया हूँ इसलिये बागडोर * फेर कर मुझे सेना में मे बाहर निकाल ले चल। ३५ और उम दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में आगे के सहारे अगमियों के सम्मुख खड़ा रहा, और साभ को मर गया, और उसके घाव का लोहू बहकर रथ के पीदान में भर गया। ३६ सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, कि हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए।।

३७ जब राजा मर गया, तब शोमरोन को पहुँचाया गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई। ३८ और यहोवा के वचन के अनुमार जब उसका रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुन्तों ने उसका लोहू चाट लिया, और वेश्याएँ यही स्नान करती थी। ३९ अहाब के और सब काम जो उस ने किए, और हाथीदात का जो भवन उम ने बनाया, और जो जो नगर उस ने बसाए थे, यह सब क्या इस्राएली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ४० निदान अहाब अपने पुरखाओं के संग मो गया और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।।

(यहोशापात का राज)

४१ इस्राएल के राजा अहाब के चौथे वर्ष में आमा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। ४२ जब यहोशापात राज्य करने लगा, तब वह पैंतीस वर्ष का था। और पचीस वर्ष तक यरूगलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ली की बेटी थी। ४३ और उमकी चाल सब प्रकार से उमके पिता आमा की सी थी, अर्थात् जो यहोवा

* मूल में—अपना हाथ।

की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा, और उस में कुछ न भुड़ा। तौभी ऊँचे स्थान ढाए न गए, प्रजा के लोग ऊँचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे और घूप भी जलाया करते थे। ४४ यहोशापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया। ४५ और यहोशापात के काम और जो बीरता उस ने दिखाई, और उस ने जो जो लडाइया की, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ४६ पुरुषगामियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों में रह गए थे, उनको उस ने देश में नै नाश किया ॥

४७ उम समय एदोम में कोई राजा न था; एक भायब राजकाज का काम करना था। ४८ फिर यहोशापात ने तर्शाश के जहाज मोना लाने के लिये ओपीर जाने का वनवा लिए, परन्तु वे एश्योनगेबेर में टूट गए, इसलिए वहा न जा सके। ४९ तब अहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात में कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों

के संग, जहाजों में जाने दे, परन्तु यहोशापात ने इनकार किया। ५० निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के साथ उसके मूलपुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(अहज्याह का राज्य)

५१ यहूदा के राजा यहोशापात के सत्रहवें वर्ष में अहाब का पुत्र अहज्याह शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और दो वर्ष तक इस्राएल पर राज्य करता रहा। ५२ और उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और उसकी चाल उसके माता पिता, और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी जिस ने इस्राएल से पाप करवाया था। ५३ जैसे उसका पिता बाल की उपासना और उसे दण्डवत करने से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा वैसे ही अहज्याह भी करता रहा ॥

राजाओं का वृत्तान्त—दूसरा भाग

(अहज्याह की मृत्यु)

१ अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। २ और अहज्याह एक भिलमिलीदार खिड़की में से, जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी, गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उस ने दूतों को यह कहकर भेजा, कि तुम जाकर

एकोन के बालजबूब * नाम देवता से यह पूछ आओ, कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं? ३ तब यहोवा के दूत ने तिशाबी एलिय्याह से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा, और उन से कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम

* अर्थात् मन्त्रियों का नाश।

एकरोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो ? ४ इसलिये भ्रम यहोवा तुम से यो कहता है, कि जिस पलंग पर तू पड़ा है, उस पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। ५ जब अह-ज्याह के दूत उसके पास लौट आए, तब उस ने उन से पूछा, तुम क्यों लौट आए हो ? ६ उन्होंने ने उस से कहा, कि एक मनुष्य हम से मिलने को आया, और कहा, कि जिस राजा ने तुम को भेजा उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यो कहता है, कि क्या इस्त्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एकरोन के बालजबूब देवता से पूछने को भेजता है ? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है, उस पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा। ७ उस ने उन से पूछा, जो मनुष्य तुम से मिलने को आया, और तुम से ये बातें कही, उसका कैसा रंग-रूप था ? ८ उन्हो ने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फटा बान्धे हुए था। उस ने कहा, वह तिशबी एलिय्याह होगा। ९ तब उस ने उसके पास पचास शिपायियों के एक प्रधान को, उसके पचासों शिपायियों समेत भेजा। प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। और उस ने उस से कहा, हे परमेश्वर के भक्त राजा ने कहा है, कि तू उतर आ। १० एलिय्याह ने उस पचास शिपायियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हू तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे पचासों समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके पचासों समेत भस्म कर दिया। ११ फिर राजा ने उसके पास पचास शिपायियों के एक और प्रधान को, पचासों शिपायियों समेत भेज दिया।

प्रधान ने उस से कहा हे परमेश्वर के भक्त राजा ने कहा है, कि कुर्सी से तू उतर आ। १२ एलिय्याह ने उत्तर देकर उन से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हू तो आकाश से आग गिरकर तुझे, तेरे पचासों समेत भस्म कर डाले, तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके पचासों समेत भस्म कर दिया। १३ फिर राजा ने तीसरी बार पचास सिपायियों के एक और प्रधान को, पचासों सिपायियों समेत भेज दिया, और पचास का वह तीसरा प्रधान चढ़कर, एलिय्याह के साम्हने घुटनों के बल गिरा, और गिडगिडा कर उस से कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त मेरा प्राण और तेरे इन पचास दासों के प्राण तेरी दृष्टि में भनमोल ठहरे। १४ पचास पचास सिपायियों के जो दो प्रधान अपने अपने पचासों समेत पहिले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परन्तु भ्रम मेरा प्राण तेरी दृष्टि में भनमोल ठहरे। १५ तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उस से मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके मग राजा के पास नीचे गया। १६ और उस से कहा, यहोवा यो कहता है, कि तू ने तो एकरोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे तो क्या इस्त्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिस से तू पूछ सके ? इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है, उस पर से कभी न उठेगा, परन्तु मर ही जाएगा। १७ यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था, वह मर गया। और उसके सन्तान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। १८ अह-ज्याह के और काम जो उस ने किए वह क्या

इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ?

(रखियाह का खमारावच)

२ जब यहोवा एलिय्याह को बबडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। २ एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेनेल तक भेजता है इसलिये तू यही ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का; इसलिये वे बेनेल को चले गए। ३ और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है ? उस ने कहा, हां, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। ४ और एलिय्याह ने उस से कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिये तू यही ठहरा रह; उस ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का, सो वे यरीहो को आए। ५ और यरीहोवासी भविष्यद्वक्ताओं के चले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है ? उस ने उत्तर दिया, हां मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। ६ फिर एलिय्याह ने उस से कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रह, उस ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का; सो वे दोनों आगे चले। ७ और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से पचास जन जाकर उनके साम्हनै दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। ८ तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर एंठ ली, और

जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया; और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। ९ उनके पार पहुँचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उस से पहिले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊ जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिये करूँ वह मांग; एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। १० एलिय्याह ने कहा, तू ने कठिन बात मागी है, तीभी यदि तू मुझे उठा लिये जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिये ऐसा ही होगा; नहीं तो न होगा। ११ वे चलते चलते वाते कर रहे थे, कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ो ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बबडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। १२ और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता! हाय मेरे पिता! हाय इस्राएल से रथ और सवारो! जब वह उसको फिर देख न पडा, तब उस ने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। १३ फिर उस ने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया, और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। १४ और उस ने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी, पकड़ कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेस्वर यहोवा कहाँ है ? जब उस ने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। १५ उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चले जो यरीहो में उसके साम्हने थे, कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी, वही एलीशा पर ठहर गई है; सो वे उस से मिलने को आए और उसके साम्हने भूमि तक झुककर दण्डवत की। १६ तब उन्होंने ने उस से कहा, सुन, तेरे दासों के पास पचास बलवान पुरुष हैं, वे जाकर

तेरे स्वामी को दूढे, सम्भव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड पर वा किसी तराई में डाल दिया हो; उस ने कहा, मत भेजो। १७ जब उन्होंने ने उसको यहा तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उस ने कहा, भेज दो, सो उन्हो ने पचास पुरुष भेज दिए, और वे उसे तीस दिन तक दूढते रहे परन्तु न पाया। १८ उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा, मो जब वे उसके पास लौट आए, तब उस ने उन से कहा, क्या मैं ने तुम से न कहा था, कि मत जाओ ?

(यहीशा के दो आश्चर्य कथं)

१९ उस नगर के निवासियो ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है परन्तु पानी बुरा है; और भूमि गर्भ गिरानेवाली है। २० उस ने कहा, एक नये प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ, वे उसे उसके पास ले आए। २१ तब वह जल के सोते के पास निकल गया, और उस में नमक डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिस से वह फिर कभी मृत्यु वा गर्भ गिरने का कारण न होगा। २२ एलीशा के इस वचन के अनु-सार पानी ठीक हो गया, और आज तक ऐसा ही है ॥

२३ वहां से वह बेतेल को चला, और मार्ग की चढाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चन्दुए चढ़ जा, हे चन्दुए चढ़ जा। २४ तब उस ने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया, तब जंगल में से दो रीछिनियों ने निकलकर उन में से बयालीस

लडके फाड डाले। २५ वहा से वह कर्मेल को गया, और फिर वहा से शोमरोन को लौट गया ॥

(यहोराम के राज्य का आरम्भ)

२ यहूदा के राजा यहोशापात के अठारहवें वर्ष में अह्राब का पुत्र यहोराम शिमरोन में राज्य करने लगा, और बारह वर्ष तक राज्य करता रहा। २ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है तौभी उस ने अपने माता-पिता के बराबर नहीं किया वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। ३ तौभी वह नवात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में जैसे उस ने इस्राएल ने भी कराए लिपटा रहा और उन से न फिरा ॥

(मोआब पर विजय)

४ मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़-बकरियां रखता था, और इस्राएल के राजा को एक लाख बच्चे और एक लाख मेढों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। ५ जब अह्राब मर गया, तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा किया। ६ उस समय राजा यहोराम ने शोमरोन से निकलकर सारे इस्राएल की गिनती ली। ७ और उस ने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यों कहला भेजा, कि मोआब के राजा ने मुझ से बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा ? उस ने कहा, हां मैं चलूंगा, जैसा तू बैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। ८ फिर उस ने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं ? उस ने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर ॥

६ तब इस्लाम का राजा, और यहूदा का राजा, और एदोम का राजा चले और जब सात दिन तक धूमकर चल चुके, तब सेना और उमके पीछे पीछे चलनेवाले पशुओं के लिये कुछ पानी न मिला। १० और इस्लाम के राजा ने कहा, हाय ! यहोवा ने इन तीन राजाओं को इसलिये इकट्ठा किया, कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। ११ परन्तु यहोशापात ने कहा, क्या यहा यहोवा का कोई नबी नहीं है, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें ? इस्लाम के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हा, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों को धुलाया करता था वह तो यहा है। १२ तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। तब इस्लाम का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। १३ तब एलीशा ने इस्लाम के राजा से कहा, मेरा तुझ से क्या काम है ? अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्लाम के राजा ने उस से कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने उन तीनों राजाओं को इसलिये इकट्ठा किया, कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। १४ एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। १५ अब कोई बजवैय्या मेरे पास ले आओ। जब बजवैय्या बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति * एलीशा पर हुई। १६ और उस ने कहा, इस नाले में

* मूल में—हाथ।

तुम लोग इतना खोदो, कि इस में गडहे ही गडहे हो जाए। १७ क्योंकि यहोवा यों कहता है, कि तुम्हारे साम्हने न तो वायु चलेगी, और न वर्षा होगी; तभी यह नाला पानी से भर जाएगा; और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। १८ और इसको हलकी सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। १९ तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नाश करना, और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना, और जल के सब खेतों को भर देना, और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेककर उन्हें ढिगाड देना। २० बिहान को अन्नबलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया, और देश जल में भर गया। २१ यह सुनकर कि राजाओं ने हम से युद्ध करने के लिये चढाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बान्धने योग्य थी, वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए, और सिवाने पर खड़े हुए। २२ बिहान को जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणों उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों की परली ओर से लोहू सा लाल दिखाई पड़ा। २३ तो वे कहने लगे वह तो लोहू होगा, निःसन्देह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए हैं, इसलिये अब हे मोआबियों लूट लेने को जाओ; २४ और जब वे इस्लाम की छावनी के पास आए ही थे, कि इस्लामी उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके साम्हने से भाग गए; और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में * पहुँच गए। २५ और उन्होंने ने नगरों को ढा दिया, और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डाल

* मूल में—बस में।

कर उन्हें भर दिया; और जल के सब सोतों को भर दिया; और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहा तक कि कीर्हरेशोत के पत्थर तो रह गए, परन्तु उसको भी चारों ओर गोफन चलानेवालों ने जाकर मारा। २६ यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने सात सौ तलवार रखनेवाले पुरुष सग लेकर एदोम के राजा तक पाति चीरकर पहुंचने का यत्न किया परन्तु पहुंच न सका। २७ तब उम ने अपने जेटे पुत्र को जो उसके स्थान में राज्य करनेवाला था पकड़कर गहरपनाह पर होमबलि चढाया। इस कारण इस्राएल पर बडा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए।

(रखीशा के चार आश्चर्य कर्म)

४ भविष्यद्वक्ताओं के चेलो की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति भर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय माननेवाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनो पुत्रो को अपने दास बनाने के लिये ले जाए। २ एलीशा ने उस से पूछा, मैं तेरे लिये क्या करूं? मुझ से कह, कि तेरे घर में क्या है? उस ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। ३ उस ने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पडोसिनों से खाली बरतन मांग ले आ, और थोड़े बरतन न लाना। ४ फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बन्द करके उन सब बरतनों में तेल उगडेल देना, और जो भर जाए उन्हें भलग रखना। ५ तब वह उसके पास से चली गई, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बन्द किया;

तब वे तो उसके पास बरतन लाते गए और वह उगडेलती गई। ६ जब बरतन भर गए, तब उस ने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ, उस ने उस से कहा, और बरतन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। ७ तब उस ने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। और उस ने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए, उस में तू अपने पुत्रो सहित अपना निर्वाह करना ॥

८ फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उस ने उसे रोटी खाने के लिये बिनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता, तब तब वह वहा रोटी खाने को उतरता था। ९ और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, मुन यह जो बार बार हमारे यहा से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पडता है। १० तो हम भीतपर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए, और उस में उसके लिये एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वह हमारे यहां आए, तब तब उसी में टिका करे। ११ एक दिन की बात है, कि वह वहा जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। १२ और उस ने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके साम्हने खड़ी हुई। १३ तब उस ने गेहजी से कहा, इस से कह, कि तू ने हमारे लिये ऐसी बड़ी चिन्ता की है, तो तेरे लिये क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा, वा प्रधान सेनापति से की जाए? उस ने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। १४ फिर उस ने कहा, तो इसके लिये क्या किया जाए? गेहजी

ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लडका नहीं, और उसका पति बूढ़ा है। १५ उस ने कहा, उसको बुला ले। और जब उस ने उसे बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। १६ तब उस ने कहा, बसन्त ऋतु म दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु ! हे परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। १७ और स्त्री को गर्भ रहा, और बसन्त ऋतु का जो समय एलीशा ने उस में कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। १८ और जब लडका बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवनेवालों के निकट निकल गया। १९ और उस ने अपने पिता से कहा, आह ! मेरा सिर, आह ! मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। २० वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। २१ तब उस ने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया, और निकलकर किबाड बन्द किया, तब उतर गई। २२ और उस ने अपने पति से पुकारकर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरन्त भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ भट पट हो सकूँ। २३ उस ने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी ? आज न तो नये चांद का, और न विश्राम का दिन है; उस ने कहा, कल्याण होगा *। २४ तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बान्ध कर अपने सेवक से कहा, हाँके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। २५ तो वह चलते चलते कर्मल पर्वत को

* मूल में—उस ने कहा कुशल।

परमेश्वर के भक्त के निकट पहुँची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह शूनैमिन है। २६ अब उस से मिलने को दौड़ जा, और उस में पूछ, कि तू कुशल से है ? तेरा पति भी कुशल से है ? और लडका भी कुशल से है ? पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हा, कुशल से है। २७ वह पहाड पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुँची, और उसके पाव पकड़ने लगी, तब गेहजी उसके पास गया, कि उसे धक्का देकर हटाए, परन्तु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उमका मन व्याकुल है, परन्तु यहोवा ने मुझ को नहीं बताया, छिपा ही रखा है। २८ तब वह कहने लगी, क्या मैं ने अपने प्रभु मे पुत्र का बर मागा था ? क्या मैं ने न कहा था मुझे धोखा न दे ? २९ तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बान्ध, और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा, मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे, तो उमको उत्तर न देना, और मेरी यह छड़ी उस लडके के मुँह पर धर देना। ३० तब लडके की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे न छोड़ूँगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। ३१ उन से पहिले पहुँचकर गेहजी ने छड़ी को उस लडके के मुँह पर रखा, परन्तु कोई शब्द न सुन पड़ा, और न उस ने कान लगाया, तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया, और उसको बतला दिया, कि लडका नहीं जागा। ३२ जब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा, कि लडका मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। ३३ तब उस ने अकेला भीतर जाकर किबाड बन्द किया, और यहोवा से प्रार्थना की। ३४ तब वह चढ़कर लडके पर इस

रीति से लेट गया कि अपना मुह उसके मुंह से और अपनी आखें उसकी आखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिये और वह लडके पर पसर गया, तब लडके की देह गर्म होने लगी। ३५ और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा, और फिर चढ़कर लडके पर पसर गया; तब लडके ने सात बार छीका, और अपनी आखें खोली। ३६ तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। ३७ वह भीतर गई, और उसके पावों पर गिर भूमि तक झुककर दगड़वत किया; फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई।

३८ तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था, और भविष्यद्वक्ताओं के चले उसके साम्हने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हगडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिये कुछ पका। ३९ तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, और कोई जगली लता पाकर अपनी अकवार भर इन्द्रायग तोड़ ले आया, और फाक फाक करके पकने के लिये हगडे में डाल दिया, और वे उसको न पहिचानते थे। ४० तब उन्होने उन मनुष्यों के खाने के लिये हगडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त हगडे में माहुर * है, और वे उस में से खा न सके। ४१ तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ, तब उसने उसे हगडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिये परोस दे, फिर हगडे में कुछ हानि की वस्तु न रही।।

* मूल में—शृत्यु।

४२ और कोई मनुष्य बालशालीगा से, पहिले उपजे हुए जब की बीस रोटिया, और अपनी बोरी में हरी बाल परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिये दे। ४३ उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं सी मनुष्यों के साम्हने इतना ही रख दू? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यो कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। ४४ तब उसने उनके आगे धर दिया, और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया।।

(शासक कोडो का शब्द किया जाना।)

५ अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था, और यह शूरवीर था, परन्तु कोडी था। २ अरामी लोग दल बान्धकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लडकी बन्धुवाई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ३ उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, तो क्या ही अच्छा होता! क्योंकि वह उसको कोड से चगा कर देता। ४ तो किमी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया, कि इस्राएली लडकी इस प्रकार कहती है। ५ अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा; तब वह दस किकार चान्दी और छह हजार टुकडे सोना, और दस जोड़े कपडे साथ लेकर रवाना हो गया। ६ और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, कि जब यह पत्र तुम्हें मिले, तब जानना कि मैंने

नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिये भेजा है, कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ७ इस पत्र के पढ़ने पर इन्नाएल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारनेवाला और जिलानेवाला परमेश्वर हूँ कि उम पुरुष ने मेरे पास किमी को इसलिये भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ ? सोच विचार तो करो, वह मुझ में भगड़े का कारण बूटना होगा। ८ यह सुनकर कि इन्नाएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तू ने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं ? वह मेरे पास आए, तब जान लेगा, कि इन्नाएल में भविष्यद्वक्ता तो है। ९ तब नामान धोड़ों और रथों गमेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। १० तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, कि तू जाकर यरदन में सात बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, और तू शुद्ध होगा। ११ परन्तु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, कि मैं ने तो सोचा था, कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा ! १२ क्या दमिश्क की अबाना और पार्वर नदियाँ इन्नाएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं ? क्या मैं उन में स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ ? इसलिये वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। १३ तब उसके सेबक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता यदि भविष्यद्वक्ता तुम्हें कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे न करता ? फिर जब वह कहता है, कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे

मानना चाहिये। १४ तब उस ने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उम में सात बार डुबकी मारी, और उमका शरीर छोटे लडके का मा हो गया, और वह शुद्ध हो गया।

१५ तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहा लौट आया, और उमके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा सुन, अब मैं ने जान लिया है, कि समस्त पृथ्वी में इन्नाएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है ! इसलिये अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। १६ एलीशा ने कहा, यहोवा जिमके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उमके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूँगा, और जब उस ने उमको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। १७ तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को दो खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे काँ तेरा दास यहोवा को छोड़ और किमी ईश्वर को होमबलि वा मेलबलि न चढाएगा। १८ एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिये क्षमा करे, कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दगडवत करने को जाए, और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यो मुझे भी रिम्मोन के भवन में दगडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दगडवत करूँ। १९ उस ने उस से कहा, कुशल छे बिदा हो। २० वह उसके यहाँ में थोड़ी दूर चला गया था, कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेबक गेहजी मोचने लगा, कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उस ने न लिया, परन्तु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उस से कुछ न कुछ ले लूँगा। २१ तब गेहजी

नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर, उस से मिलने को रथ से उतर पड़ा, और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? २२ उस ने कहा, हां, सब कुशल है; परन्तु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है, कि एप्रम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहा अभी आए हैं, इसलिये उनके लिये एक किककार चान्दी और दो जोड़े वस्त्र दे। २३ नामान ने कहा, दो किककार लेने को प्रसन्न हो, तब उस ने उस से बहुत बिनती करके दो किककार चान्दी अलग थैलियों में बांधकर, दो जोड़े वस्त्र समेत अपने दो सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हे उसके आगे आगे ले चले। २४ जब वह टीले के पास पहुँचा, तब उस ने उन वस्तुओं को उन से लेकर घर में रख दिया, और उन मनुष्यों को बिदा किया, और वे चले गए। २५ और वह भीतर जाकर, अपने स्वामी के साम्हने खड़ा हुआ। एलीशा ने उस से पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उस ने कहा, तेरा दास तो कही नहीं गया। २६ उस ने उस से कहा, जब वह पुरुष इधर मुह फेरकर तुम से मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था*; क्या यह समय चान्दी वा वस्त्र वा जलपाई वा दास की बारियां, भेड़-बकरियां, गाय-बैल और दास-दासी लेने का है? २७ इस कारण से नामान का कोढ़ तुम्हें और तेरे बंश को सदा लगा रहेगा। तब वह द्विम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके साम्हने से चला गया ॥

* मूल में—क्या मेरा मन न गया ?

(रखीजा का रथ चार्चर्च करने)

६ और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिस में हम तेरे साम्हने रहते हैं, वह हमारे लिये सकेत है। २ इसलिये हम यरदन तक जाएं, और वहा से एक एक बल्ली लेकर, यहां अपने रहने के लिये एक स्थान बना लें; उस ने कहा, चला जाओ। ३ तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो, उस ने कहा, चलता हू। ४ तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुँचकर लकड़ी काटने लगे। ५ परन्तु जब एक जन बल्ली काट रहा था, तो कुल्हाड़ी बँट से निकलकर जल में गिर गई; सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय ! मेरे प्रभु, वह तो मंगनी की थी। ६ परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहां गिरी? जब उस ने स्थान दिखाया, तब उस ने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। ७ उस ने कहा, उसे उठा ले, तब उस ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया ॥

(रखीजा का चरामी इच्छा से बचना)

८ और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था, और सम्मति करके अपने कर्म-चारियों से कहा, कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। ९ तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना क्योंकि वहां चरामी चढ़ाई करनेवाले हैं। १० तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर, अपनी रक्षा की; और इस प्रकार एक दो बार नहीं बरन बचन बार चला। ११ इस कारण अराम के राजा का मन बहुत चबरा गया;

सो उस ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उन से पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की और का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु! हे राजा! ऐसा नहीं, १२ एलीशा जे इस्त्राएल मे भविष्यद्वक्ता है, वह इस्त्राएल के राजा को वे बातें भी बताएँ करता है, जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। १३ राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मगाऊँगा। और उसको यह ममाचार मिला कि वह दोतान में है। १४ तब उस ने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने ने रात को आकर नगर को घेर लिया। १५ भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उस से कहा, हाय! मेरे स्वामी, हम क्या करें? १६ उस ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी और है, वह उन से अधिक है, जो उनकी और है। १७ तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आँखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आँखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा, कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। १८ जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अन्धा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उस ने उन्हें अन्धा कर दिया। १९ तब एलीशा ने उन से कहा, यह तो मार्ग नहीं है, और न यह नगर है, मेरे पीछे हो लो; मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास लेजसे तुम बूढ़ रहे हो पहुँचाऊँगा। तब उस ने उन्हें शोमरोन को पहुँचा दिया। २० जब

वे शोमरोन में आ गए, तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आँखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आँखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में हैं। २१ उनको देखकर इस्त्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूँ? मैं उनको मार लूँ? २२ उस ने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है, जिनको तू तलवार और धनुष में बन्धुआ बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे, कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। २३ तब उस ने उनके लिये बड़ी जेबनार की, और जब वे खा पी चुके, तब उस ने उन्हें विदा किया, और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्त्राएल के देश में फिर न आए ॥

(शोमरोन में बड़ा अकाल और उसका दूर होना)

२४ परन्तु इसके बाद अराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके, शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। २५ तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा, कि अन्न में एक गदहे का सिर चान्दी के अस्मी टुकड़ों में और कब * की चौथाई भर कबूतर की बीट पाच टुकड़े चान्दी तक बिकने लगी। २६ और इस्त्राएल का राजा शहरपनाह पर टहल रहा था, कि एक स्त्री ने पुकार के उस से कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। २७ उस ने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए, तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊँ? क्या खलिहान में से, वा दाखरस के कुएँ में से? २८ फिर राजा ने उस से पूछा, तुम्हें

* कब—नाप, पैमाना।

क्या हुआ ? उस ने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझ से कहा था, मुझे अपना बेटा दे, कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी, और हम उसे भी खाएंगी । २६ तब मेरे बेटे को पकाकर हम ने खा लिया, फिर दूसरे दिन जब मैं ने इस से कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इस ने अपने बेटे को छिपा रखा । ३० उस स्त्री की ये बाने सुनते ही, राजा ने अपने वस्त्र फाड़े (वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था), जब लोगो ने देखा, तब उनको यह देख पडा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहिने है । ३१ तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके घड पर रहने दू, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इस से भी अधिक करे ॥

३२ एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था, और पुरनियो भी उसके सग बैठे थे । सो जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहिले उस ने पुरनियो से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है; इसलिये जब वह दूत आए, तब किवाड़ बन्द करके रोके रहना । क्या उसके स्वामी के पाव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पडती ? ३३ वह उन से यो बातें कर ही रहा था कि दूत उसके पास आ पहुंचा । और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की और से है, अब मैं आगे को यहोवा की बात क्यों जोहता रहू ?

७ तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यों कहता है, कि कल इसी समय शोभरोन के फाटक में सभा भर मैदा एक शकेल में और दो सभा जब भी एक शकेल में बिकेगा ।

२ तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के भरोखे खोले, तौभी क्या ऐसी बात हो सकेगी ? उस ने कहा, सुन, तू यह अपनी आसो में तो देखेगा, परन्तु उस भ्रम में से कुछ खाने न पाएगा ॥

३ और चार कोठी फाटक के बाहर थे; वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहा बैठे बैठे मर जाए ? ४ यदि हम कहे, कि नगर में जाए, तो वहा मर जाएंगे; क्योंकि वहां मंहगी पडी है, और जो हम यही बैठे रहे, तौभी मर ही जाएंगे । तो आप्रो हम अराम की सेना में पकड़े जाए; यदि वे हम को जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हम को मार डाले, तौभी हम को मरना ही है । ५ तब वे साभ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा, कि वहा कोई नहीं है । ६ क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे कि, सुनो, इस्राएल के राजा ने हिली और मिस्री राजाओं को बेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें । ७ इसलिये वे साभ को उठकर ऐसे भाग गए, कि अपने डेरे, घोडे, गदहे, और छावनी जैसी की तैसी छोड़-छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए । ८ तो जब वे कोठी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर लाया पिया, और उस में से चान्दी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा; फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उस में से भी ले जाकर छिपा रखा ॥ ९ तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह

भ्रानन्द के समाचार का दिन है, परन्तु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पहुँचने तक ठहरे रहे तो हम को दराङ मिलेगा; मो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। १० तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, कि हम जो भ्रामर की छावनी में गए, तो क्या देखा, कि वहाँ कोई नहीं है, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बन्धे हुए घोड़े और गदहे हैं, और डेरे जैसे के तैसे हैं।

११ तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। १२ और राजा रात ही को उठा, और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भ्रामरियों ने हम से क्या क्रिया है? वे जानते हैं, कि हम लोग भूलें हैं इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं, कि जब वे नगर से निकलेगे, तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएँगे। १३ परन्तु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, कि जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उन में से लोग पांच घोड़े लें, और उनको भेजकर हम हाल जान ले। (वे तो इस्लाम की सब भीड़ के समान हैं जो नगर में रह गए हैं वरन इस्लाम की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान हैं।) १४ सो उन्होंने ने दो रथ और उनके घोड़े लिये, और राजा ने उनको भ्रामर की सेना के पीछे भेजा; और कहा, जाओ, देखो। १५ तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए, और क्या देखा, कि पूरा मार्य वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें भ्रामरियों ने उसावली के मारे फेंक दिया था; तब दूत लौट आए, और राजा से यह कह सुनाया।

१६ तब लोगों ने निकलकर भ्रामर के डेरों को लूट लिया; और यहोवा के वचन के

अनुसार एक सभ्रा मैदा एक शकेल में, और दो सभ्रा जब एक शकेल में बिकने लगा। १७ और राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया; तब वह फाटक में लोगों के पावों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उस ने राजा से उसके यहाँ भ्राने के समय कहा था। १८ परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में दो सभ्रा जब एक शकेल में, और एक सभ्रा मैदा एक शकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। १९ और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को, उत्तर देकर कहा था, कि सुन चाहे यहोवा आकाश में झरोखे खोले तोभी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उस ने कहा था, सुन, तू यह अपनी आँखों से तो देखेगा, परन्तु उस भ्रम में से खाने न पाएगा। २० सो उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ, अतएव वह फाटक में लोगों के पावों के नीचे दबकर मर गया।

(रखीरा के आश्चर्य कर्मों को चौंकिं)

जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उस से उस ने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह; क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े*, और वह इस देश में सात वर्ष तक बना रहेगा। २ परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पल्लितियों के देश में जाकर सात वर्ष रही। ३ सात वर्ष के बीतने पर वह पल्लितियों के देश से लौट आई, और अपने घर और भूमि के लिये दोहाई देने को राजा के पास गई। ४ राजा

* मूल में—यहोवा ने अकाल उठाया है।

परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहूजी से बातें कर रहा था, और उस ने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किये हैं उन्हें मुझ से वर्णन कर । ५ जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्द को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उस ने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिये दोहाई देने लगी । तब गेहूजी ने कहा, हे मेरे प्रभु ! हे राजा ! यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था । ६ जब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उस ने उस से सब कह दिया । तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था वरन जब से इस ने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे ॥

(इब्राहिम का योराम की मंत्री बनना)

७ और एलीशा दमिश्क को गया । और जब योराम के राजा बेन्हदद को जो रोगी था यह समाचार मिला, कि परमेश्वर का भक्त यहां भी आया है, ८ तब उस ने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा, और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, कि क्या बेन्हदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं ? ९ तब हजाएल भेंट के लिये दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से चालीस अठ लदवाकर, उस से मिलने को चला, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र योराम के राजा बेन्हदद ने मुझे तुझ से यह पूछने को भेजा है, कि क्या मैं जो रोगी हूँ तो बचूंगा कि नहीं ? १० एलीशा ने उस से कहा, जाकर कह, तू निश्चय बच सकता, तौभी यहोवा ने मुझ पर प्रगट किया है, कि तू निःसन्देह मर

जाएगा । ११ और वह उसकी ओर टकटकी बान्ध कर देखता रहा, यहां तक कि वह लज्जित हुआ । और परमेश्वर का भक्त रौने लगा । १२ तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है ? उस ने उत्तर दिया, इसलिये कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा, उनके गढवाले नगरों को तू फूक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बालबच्चों को तू पटक देगा, और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा । १३ हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है, वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे ? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रगट किया है कि तू योराम का राजा हो जाएगा । १४ तब वह एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया, और उस ने उस से पूछा, एलीशा ने तुझ से क्या कहा ? उस ने उत्तर दिया, उस ने मुझ से कहा कि बेन्हदद निःसन्देह बचेगा । १५ दूसरे दिन उस ने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया, और उसको उसके मुह पर ऐसा ढोका दिया कि वह मर गया । तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(इब्राहिम योराम का राजा)

१६ इस्राएल के राजा अह्राब के पुत्र योराम के पांचवें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा । १७ जब वह राजा हुआ, तब बत्तीस वर्ष का था, और आठ वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा । १८ वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, जैसे अह्राब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अह्राब की बेटी थी; और वह उस काम को करता था

जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। १६ तौमी यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाहा, यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उस ने उसको बचन दिया था, कि तेरे बश के निमित्त मैं सदा तेरे लिये एक दीपक जलता हुआ रखूंगा ॥

२० उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। २१ तब योराम अपने सब रथ साथ लिये हुए साईर को गया, और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे, और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। २२ यों एदोम यहूदा के बश से छूट गया, और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। २३ योराम के और सब काम और जो कुछ उस ने किया, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? २४ निदान योराम अपने पुरखाओं के सग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई; और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(यज्ञदौ अहज्याह का राज्य)

२५ अहाब के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के बारहवें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राज्य करने लगा। २६ जब अहज्याह राजा बना, तब बाईस वर्ष का था, और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। और उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो इस्राएल के राजा ओम्री की पोती थी। २७ वह अहाब के घराने की सी चाल चला, और अहाब के घराने की नाई वह काम करता था, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह अहाब

के घराने का दामाद था। २८ और वह अहाब के पुत्र योराम के सग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया, और अरामियों ने योराम को घायल किया। २९ सो राजा योराम इसलिये लौट गया, कि यिञ्जेल में उन घावों का इलाज कराए, जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे, जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था। और अहाब का पुत्र योराम तो यिञ्जेल में रोगी रहा, इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया ॥

(येरू का अभिषेक और राज्य)

६ तब एलीशा भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उस में कहा, कमर बान्ध, और हाथ में नेल की यह कुप्पी लेकर गिलाद के रामोत को जा। २ और वहा पहुंचकर येरू को जो यहोशापात का पुत्र और निमशी का पोता है, ढूढ़ लेना, तब भीतर जा, उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। ३ तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कह कर डालना, यहोवा यो कहता है, कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलम्ब न करना ॥

४ तब वह जवान भविष्यद्वक्ता गिलाद के रामोत को गया। ५ वहा पहुंचकर उस ने क्या देखा, कि सेनापति बैठे हुए है; तब उस ने कहा, हे सेनापति, मुझे तुझ से कुछ कहना है। येहु ने पूछा, हम सबों में किस से? उस ने कहा हे सेनापति, तुम्हीं से! ६ तब वह उठकर घर में गया; और उस ने यह कहकर उसके सिर पर तेल डाला

कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हूँ । ७ तो तू अपने स्वामी अहाब के घराने को मार डालना, जिस से मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो ईजेबेल ने बहाया, पलटा मिले । ८ क्योंकि अहाब का समस्त घराना नाश हो जाएगा, और मैं अहाब के वश के हर एक लडके को और इस्राएल में के क्या बन्धुए, क्या स्वाधीन, हर एक को नाश कर डालूंगा । ९ और मैं अहाब का घराना नबात के पुत्र यारोबाम का सा, और अहिय्याह के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा । १० और ईजेबेल को यिञ्जैल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, और उसको मिट्टी देनेवाला कोई न होगा । तब वह द्वार खोलकर भाग गया ॥

११ तब यहू अपने स्वामी के कर्म-चारियों के पास निकल आया, और एक ने उस से पूछा, क्या कुशल है ? वह बावला क्यों तेरे पास आया था ? उस ने उन से कहा, तुम को मालूम होगा कि वह कौन है और उस से क्या बातचीत हुई । १२ उन्हो ने कहा भूठ है, हमें बता दे । उस ने कहा, उस ने मुझ से कहा तो बहुत, परन्तु मतलब यह है कि यहोवा यो कहता है कि मैं इस्राएल का राजा होने के लिये तेरा अभिषेक कर देता हूँ । १३ तब उन्हो ने भट अपना अपना बस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढी ही पर बिछाया, और नरसिंघे फूककर कहने लगे, यहू राजा है ॥

१४ यों यहू जो निमशी का पोता और यहोशापात का पुत्र था, उस ने योराम से राजद्रोह की गोष्ठी की । (योराम तो सब इस्राएल समेत अराम के राजा हजाएल के कारण गिलाद के रामोत की रक्षा कर रहा

था; १५ परन्तु राजा योराम आप अपने धाव का जो अराम के राजा हजाएल से युद्ध करने के समय उसको अरामियों से लगे थे, उनका इलाज कराने के लिये यिञ्जैल को लौट गया था ।) तब यहू ने कहा, यदि तुम्हारा ऐसा मन हो, तो इस नगर में से कोई निकल कर यिञ्जैल में सुनाने को न जाने पाए । १६ तब यहू रथ पर चढ़कर, यिञ्जैल को चला जहा योराम पड़ा हुआ था, और यहूदा का राजा अहज्याह योराम के देखने को वहा आया था । १७ यिञ्जैल के गुम्मत पर, जो पहरुआ खडा था, उस ने यहू के संग आते हुए दल को देखकर कहा, मुझे एक दल दीखता है, योराम ने कहा, एक सवार को बुलाकर उन लोगों से मिलने को भेज और वह उन से पूछे, क्या कुशल है ? १८ तब एक सवार उस से मिलने को गया, और उस से कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है ? यहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम ? हटकर मेरे पीछे चल । तब पहरुए ने कहा, वह दूत उनके पास पहुंचा तो था, परन्तु लौटकर नहीं आया । १९ तब उनमें दूसरा सवार भेजा, और उस ने उनके पास पहुंचकर कहा, राजा पूछता है, क्या कुशल है ? यहू ने कहा, कुशल से तेरा क्या काम ? हटकर मेरे पीछे चल । २० तब पहरुए ने कहा, वह भी उनके पास पहुंचा तो था, परन्तु लौटकर नहीं आया । हांकना निमशी के पोते यहू का सा है; वह तो बीडहे की नाई हांकता है ॥

२१ योराम ने कहा, मेरा रथ जुतवा । जब उसका रथ जुत गया, तब इस्राएल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह, दोनों अपने अपने रथ पर चढ़कर निकल गए, और यहू से मिलने को बाहर जाकर यिञ्जैल नाबोत की भूमि में उस से भेंट की ।

२२ यहू को देखते ही योराम ने पूछा, हे यहू क्या कुशल है ? यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता ईजेबेल छिबालपन और टोना करती रहे, तब तक कुशल कहां ? २३ तब योराम रास* फेर के, और अहज्याह ने यह कहकर कि हे अहज्याह विश्वासघात है, भाग चल। २४ तब यहू ने धनुष को कान तक खींचकर † योराम के पखौडो के बीच ऐसा तीर मारा, कि वह उसका हृदय फोड़कर निकल गया, और वह अपने रथ में झुककर गिर पडा। २५ तब यहू ने बिदकर नाम अपने एक मरदार से कहा, उसे उठाकर यिज्रैली नाबोत की भूमि में फेंक दे; स्मरण तो कर, कि जब मैं और तू, हम दोनों एक संग सवार होकर उमके पिता अहाब के पीछे पीछे चल रहे थे तब यहोवा ने उस से यह भारी वचन कहवाया था, कि यहोवा की यह वाणी है, २६ कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ, उसे मैं ने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है, कि मैं उसी भूमि में तुझे बदला दूंगा। तो अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे।।

२७ यह देखकर यहूदा का राजा अहज्याह बारी के भवन के मार्ग से भाग चला। और यहू ने उसका पीछा करके कहा, उसे भी रथ ही पर मारो; तो वह भी यिबलाम के पास की गूर की चढ़ाई पर मारा गया, और मगिहो तक भागकर मर गया। २८ तब उसके कर्मचारियों ने उसे रथ पर यरूशलेम को पहुंचाकर दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी।।

* मूल में—अपने हाथ।

† मूल में—अपना हाथ धनुष से धर के।

२९ अहज्याह तो अहाब के पुत्र योराम के ग्यारहवें वर्ष में यहूदा पर राज्य करने लगा था।।

३० जब यहू यिज्रैल को आया, तब ईजेबेल यह मुन अपनी आंखों में सुर्मा लगा, अपना मिर मंवारकर, खिडकी में से झांकने लगी। ३१ जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उम ने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिभ्री, क्या कुशल है ? ३२ तब उम ने खिडकी की ओर मुह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है ? कौन ? इस पर दो तीन खोजो ने उमकी ओर झांका। ३३ तब उस ने कहा, उम नीचे गिरा दो। सो उन्हो ने उसको नीचे गिरा दिया, और उमके लोह के कुछ छीटे भीत पर और कुछ घोडों पर पड़े, और उन्हों ने उमको पाव से लनाड दिया। ३४ तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा; और कहा, जाओ उम स्नापित स्त्री को देख लो, और उसे मिट्टी दो; वह तो राजा की बेटी है। ३५ जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी पांवों और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। ३६ सो उन्हों ने लौटकर उस से कह दिया; तब उस ने कहा, यह यहोवा का वह वचन है, जो उम ने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था, कि ईजेबेल का मांस यिज्रैल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा। ३७ और ईजेबेल की लोथ यिज्रैल की भूमि पर खाद की नाई पड़ी रहेगी, यहां तक कि कोई न कहेगा, यह ईजेबेल है।।

१० अहाब के तो सत्तर बेटे, पोने, शोमरोन में रहते थे। सो यहू ने शोमरोन में उन पुरनियों के पास, और जो यिज्रैल के हाकिम थे, और जो अहाब के

लडकेबालों के पालनेवाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे, २ कि तुम्हारे स्वामी के बेटे, पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं, और तुम्हारे रथ, और घोड़े भी हैं, और तुम्हारे एक गढ़वाला नगर, और हथियार भी हैं; ३ तो इस पत्र के हाथ लगने ही, अपने स्वामी के बेटों में से जो सब से अच्छा और योग्य हो, उसको छाटकर, उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ, और अपने स्वामी के घराने के लिये लडो। ४ परंतु वे निपट डर गए, और कहने लगे, उसके साम्हने दो राजा भी ठहर न सके, फिर हम कहा ठहर सकेंगे? ५ तब जो राज घराने के काम पर था, और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने ने और पुरनियों और लडकेबालो के पालनेवालो ने येहू के पास यों कहला भेजा, कि हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हम से कहे, उसे हम करेंगे; हम किसी को राजा न बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर। ६ तब उस ने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, कि यदि तुम मेरी और के हो और मेरी मानो, तो अपने स्वामी के बेटो-पोतों के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास यिज्रैल मे हाजिर होना। राजपुत्र तो जो सत्तर मनुष्य थे, वह उस नगर के रईमों के पास पलते थे। ७ यह पत्र उनके हाथ लगते ही, उन्हो ने उन सत्तरों राजपुत्रो को पकडकर मार डाला, और उनके सिर टोकरियों मे रखकर यिज्रैल को उसके पास भेज दिए। ८ और एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, कि राजकुमारो के सिर घा गए हैं। तब उस ने कहा, उन्हें फाटक मे दो ढेर करके बिहान तक रखो। ९ बिहान को उस ने बाहर जा खडे होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो, मैं ने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परन्तु इन सभी को किस ने मार डाला ?

१० अब जान लो कि जो बचन यहोवा ने अपने दास एनिय्याह के द्वारा कहा था, उसे उस ने पूरा किया है; जो बचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा, उस में से एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी *। ११ तब अहाब के घराने के जितने लोग यिज्रैल मे रह गए, उन सभी को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सभी को येहू ने मार डाला, यहां तक कि उम ने किसी को जीवित न छोडा।।

१२ तब वह वहां से चलकर शोमरोन को गया। और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था, १३ कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई येहू से मिले और जब उस ने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने ने उत्तर दिया, हम अहज्याह के भाई हैं, और राजपुत्रो और राजमाता के बेटो का कुशलक्षेम पूछने को जाते हैं। १४ तब उस ने कहा, इन्हे जीवित पकडो। सो उन्होंने ने उनको जो बयालीस पुरुष थे, जीवित पकडा, और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला, उस ने उन मे से किसी को न छोडा।।

१५ जब वह वहा से चला, तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब साम्हने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उस ने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरी और निष्कपट है सो क्या तेरा मन भी वंसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हा, ऐसा ही है। फिर उस ने कहा, ऐसा ही, तो अपना हाथ मुझे दे। उस ने अपना हाथ उसे दिया, और वह यह कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, कि मेरे संग चल। १६ और देख, कि मुझे यहोवा के निमित्त कमी जलन रहती है। तब वह

* मूल में—भूमि पर न गिरेगी।

उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। १७ शोमरोन को पहूँचकर उस ने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उस ने एलिव्याह से कहा था, अहाब के जितने शोमरोन में बचे रहे, उन सभी को मार के विनाश किया।

१८ तब यहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब यहू उसकी उपासना बढ़के करेगा। १९ इसलिये अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ, उन में से कोई भी न रह जाए; क्योंकि बाल के लिये मेरा एक बड़ा यज्ञ होनेवाला है; जो कोई न आए वह जीवित न बचेगा। यहू ने यह काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नाश करने के लिये किया। २० तब यहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया। २१ और यहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे; तब बाल के सब उपासक आए, यहा तक कि ऐसा कोई न रह गया जो न आया हो। और वे बाल के भवन में इतने आए, कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। २२ तब उस ने उस मनुष्य से जो वस्त्र के घर का अधिकारी था, कहा, बाल के सब उपासकों के लिये वस्त्र निकाल ले आ; सो वह उनके लिये वस्त्र निकाल ले आया। २३ तब यहू रेकाब के पुत्र यहोनादाब को सग लेकर बाल के भवन में गया, और बाल के उपासकों से कहा, दूढ़कर देखो, कि यहां तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक है। तब वे मेलबलि और होमबलि चढ़ाने को भीतर गए।

२४ यहू ने तो अस्सी पुरुष बाहर ठहरा कर उन से कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं, कोई भी बचने

पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण, उसके प्राण की सन्ती जाएगा। २५ फिर जब होमबलि चढ़ चुका, तब यहू ने पहरुओ और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने न पाए। तब उन्हो नै उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंककर बाल के भवन के नगर को गए। २६ और उन्हो ने बाल के भवन में की लाठे निकालकर फूक दी। २७ और बाल की लाठ को उन्हो ने तोड़ डाला, और बाल के भवन को ढाकर पायखाना बना दिया, और वह आज तक ऐसा ही है।

२८ यो यहू ने बान को इस्राएल में से नाश करके दूर किया। २९ तीभी नबात के पुत्र यागाबाम, जिस ने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने, अर्थात् बेलतल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उस से यहू अलग न हुआ। ३० और यहोवा ने यहू से कहा, इसलिये कि तू ने वह किया, जो मेरी दृष्टि में ठीक है, और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी सन्तान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। ३१ परन्तु यहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ।

३२ उन दिनों यहोवा इस्राएल को घटाने लगा, इसलिये हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा : ३३ यरदन से पूरब की ओर गिलाद का सारा देश, और गादी और रुबेनी और मनश्सेई का देश अर्थात् अरोएर से लेकर जो अर्नोन की तराई

के पास है, गिलाद और बाशान तक । ३४ यहू के और सब काम और जो कुछ उस ने किया, और उसकी पूर्ण बीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ? ३५ निदान यहू अपने पुरखाओं के सग सो गया, और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राजा बन गया । ३६ यहू के शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय तो षट्ठाईस वर्ष का था ॥

(योआश का घात से बचकर राजा
बो जाना)

११ जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा, कि मेरा पुत्र मर गया, तब उस ने पूरे राजवंश को नाश कर डाला । २ परन्तु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटा, और अहज्याह की बहिन थी, उस ने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होनेवाले राजकुमारों के बीच में से चुनाकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठी में छिपा दिया । और उन्होंने ने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा, कि वह मारा न गया । ३ और वह उसके पास यहोबा के भवन में छः वर्ष छिपा रहा, और अतल्याह देश पर राज्य करती रही ॥

४ सातवें वर्ष में यहोयादा ने जल्लादों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा, और उनको यहोबा के भवन में अपने पास ले आया; और उन से वाचा बान्धी और यहोबा के भवन में उनको शपथ खिलाकर, उनको राजपुत्र दिखाया । ५ और उस ने उन्हें आज्ञा दी, कि एक काम करो : अर्थात् तुम में से एक तिहाई लोग जो विश्रामदिन को आनेवाले हों, वह राजभवन के पहरे की

चौकसी करे । ६ और एक तिहाई लोग सूर नाम फाटक में ठहरे रहे, और एक तिहाई लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहे; यों तुम भवन की चौकसी करके, लोगों को रोके रहना । ७ और तुम्हारे दो दल अर्थात् जितने विश्राम दिन को बाहर जानेवाले हों वह राजा के आसपास होकर यहोबा के भवन की चौकसी करे । ८ और तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिये हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पातियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते-जाते समय उसके सग रहना ॥

६ यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया । वे विश्रामदिन को आनेवाले और जानेवाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को सग लेकर यहोयादा याजक के पास गए । १० तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे, और ढाले जो यहोबा के भवन में थी दे दी । ११ इसलिये वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्खिनी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक बेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी झाड़ करके खड़े हुए । १२ तब उस ने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट, और साक्षीपत्र धर दिया; तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया; फिर ताली बजा बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे !

१३ जब अतल्याह को पहरुओं और लोगों का हलचल सुन पड़ा, तब वह उनके पास यहोबा के भवन में गई । १४ और उस ने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खम्भे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजानेवाले खड़े हैं । और

सब लोग आनन्द करते और तुरहियां बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह—राजद्रोह यों पुकारने लगी। १५ तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी कि उसे अपनी पातियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो। क्योंकि याजक ने कहा, कि वह यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। १६ इसलिये उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह उस मार्ग के बीच में चली गई, जिस में घोड़े राजभवन में जाया करते थे; और वहां वह मार डाली गई ॥

१७ तब यहोयादा ने यहोवा के, और राजा-प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की बाधा बन्वाई, और उस ने राजा और प्रजा के मध्य भी बाधा बन्वाई। १८ तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी बेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दीं; और मतान नाम बाल के याजक को बेदियों के साम्हने ही घात किया। और याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। १९ तब वह शतपतियों, जल्लादों और पहरियों और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया, और पहरियों के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया। और राजा राजगद्दी पर बिराजमान हुआ। २० तब सब लोग आनन्दित हुए, और नगर में शान्ति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी ॥

(योआश का राज्य)

१२ जब योआश राजा हुआ, उस समय वह सात वर्ष का था। येहू के सातवें वर्ष में योआश राज्य करने लगा,

और यहूशलेम में चालीस वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्बा था जो बेशेबा की थी। २ और जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। ३ तौभी ऊंचे स्थान गिराए न गए; प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे ॥

४ और योआश ने याजकों से कहा, पवित्र की हुई वस्तुओं का जितना रुपया यहोवा के भवन में पहुंचाया जाए, अर्थात् गिने हुए लोगों का रुपया और जितने रुपये के जो कोई योग्य ठहराया जाए, और जितना रुपया जिसकी इच्छा यहोवा के भवन में ले आने की हो, ५ इन सब को याजक लोग अपनी जान पहचान के लोगों से लिया करे और भवन में जो कुछ टूटा फूटा हो उसको सुधार दे। ६ तौभी याजकों ने भवन में जो टूटा फूटा था, उसे योआश राजा के तेईसवें वर्ष तक नहीं सुधारा था। ७ इसलिये राजा योआश ने यहोयादा याजक, और और याजकों को बुलवाकर पूछा, भवन में जो कुछ टूटा फूटा है, उसे तुम क्यों नहीं सुधारते? अब से अपनी जान पहचान के लोगों से और रुपया न लेना, और जो तुम्हें मिले, उसे भवन के सुधारने के लिये दे देना। ८ तब याजकों ने मान लिया कि न तो हम प्रजा से और रुपया ले और न भवन को सुधारें ॥

९ तब यहोयादा याजकने एक सन्दूक ले, उसके ढकने में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आनेवालों के दाहिने हाथ पर बेदी के पास धर दिया; और द्वार की रखवाली करनेवाले याजक उस में वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया

जाता था। १० जब उन्होंने ने देखा, कि सन्दूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे धूलियों में बान्ध दिया, और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपये को गिन लिया। ११ तब उन्होने उस तौले हुए रुपये को उन काम करानेवालों के हाथ में दिया, जो यहोवा के भवन में अधि-कारी थे; और इन्होने उसे यहोवा के भवन के बनानेवाले बड़इयो, राजी, और संगत-राशो को दिये। १२ और लकड़ी और गढे हुए पत्थर मोल लेने में, वरन जो कुछ भवन के टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था, उस में लगाया। १३ परन्तु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था, उस से चान्दी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरहियां आदि सोने वा चान्दी के किसी प्रकार के पात्र न बने। १४ परन्तु वह काम करनेवाले को दिया गया, और उन्होंने ने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की। १५ और जिनके हाथ में काम करनेवालो को देने के लिये रुपया दिया जाता था, उन से कुछ हिसाब न लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। १६ जो रुपया दोषबलियों और पापबलियों के लिये दिया जाता था, यह तो यहोवा के भवन में न लगाया गया, वह याजको को मिलता था।।

१७ तब अराम के राजा हजाएल ने गत नगर पर चढ़ाई की, और उस से लड़ाई करके उसे ले लिया। तब उस ने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुह किया। १८ तब यहूदा के राजा योआश ने उन सब पवित्र वस्तुओं को जिन्हें उसके पुरखा यहोशापात, यहोराम और अहज्याह नाम यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था, और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी और जितना सोना यहोवा के भवन के भण्डारों में और

राजभवन में मिला, उस सब को लेकर अराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया; और वह यरूशलेम के पास से चला गया।।

१९ योआश के और सब काम जो उस ने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? २० योआश के कर्मचारियों ने राजद्रोह की गोष्ठी करके, उसको मिल्लो के भवन में जो सिल्ला की उतराई पर था, मार डाला। २१ अर्थात् शिमात का पुत्र योजाकार और शोमेर का पुत्र यहोजाबाद, जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने ने उसे ऐसा मारा, कि वह मर गया। तब उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी, और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।।

(बच्चीचाचाब का राज्य)

१३ अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआश के तेईसवें वर्ष में यहूदा का पुत्र यहोआहाज शोमरोन में इस्त्राएल पर राज्य करने लगा, और सत्रह वर्ष तक राज्य करता रहा। २ और उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्त्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उनको छोड़ न दिया। ३ इसलिये यहोवा का क्रोध इस्त्राएलियों के विरुद्ध भडक उठा, और उस ने उनको अराम के राजा हजाएल, और उसके पुत्र बेन्हदद के अधीन कर दिया। ४ तब यहोआहाज यहोवा के साम्हने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली; क्योंकि उस ने इस्त्राएल पर अन्धेर देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अन्धेर करता था। ५ इसलिये यहोवा ने इस्त्राएल को एक छुड़ानेवाला दिया और वे अराम के वश से छूट गए; और इस्त्राएली

अगले दिनों की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। ६ तीसरी वे ऐसे पापों से न फिरे, जैसे यारोबाम के धराने ने किया, और जिनके अनुसार उस ने इस्राएल से पाप कराए थे : परन्तु उन में चलते रहे, और शोमरोन में अशोरा भी खड़ी रही। ७ अराम के राजा ने तो यहोआहाज की सेना में मे केवल पचास सवार, दस रथ, और दस हजार प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उस ने उनको नाश किया, और रौद गौदकर के धूल में मिला दिया था *। ८ यहोआहाज के और सब काम जो उस ने किए, और उसकी वीरता, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ९ निदान यहोआहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसे मिट्टी दी गई; और उसका पुत्र योआश उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(योआश का राज्य और योआश की मृत्यु)

१० यहूदा के राजा योआश के राज्य के तीसरे वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा, और सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। ११ और उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात् नबात का पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उन से अलग न हुआ। १२ योआश के और सब काम जो उस ने किए, और जिस वीरता से वह यहूदा के राजा अमस्याह से लड़ा, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ?

१३ निदान योआश अपने पुरखाओं के संग

* मूल में—रौदने के लिये धूल के समान कर दिया था।

सो गया और यारोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ; और योआश को शोमरोन में इस्राएल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई ॥

१४ और एलीशा को वह रोग लग गया जिस से वह मरने पर था, तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया, और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता ! हाय मेरे पिता ! हाय इस्राएल के रथ और मबारो ! एलीशा ने उस में कहा, धनुष और तीर ले आ। १५ वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। १६ तब उस ने इस्राएल के राजा में कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उस ने अपना हाथ लगाया, तब एलीशा ने अपने हाथ रागा के हाथों पर धर दिए। १७ तब उस ने कहा, पूर्व की खिडकी खोल। जब उस ने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे; उस ने तीर छोड़ा। और एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात् अराम से छुटकारे का चिह्न है, इसलिये तू अपने में अराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अन्त कर डालेगा। १८ फिर उस ने कहा, तीरों को ले; और जब उस ने उन्हें लिया, तब उस ने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार; तब वह तीन बार मार कर ठहर गया। १९ और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो पांच छः बार मारना चाहिये था, ऐसा करने से तो तू अराम को यहां तक मारता कि उनका अन्त कर डालता, परन्तु अब तू उन्हें तीन ही बार मारेगा ॥

२० तब एलीशा मर गया, और उसे मिट्टी दी गई। एक वर्ष के बाद योआश के दल देश में आए। २१ लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, कि एक दल उन्हें देख

पड़ा तब उन्होंने ने उस लोथ को एलीशा की कबर में डाल दिया, और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा, और अपने पावों के बल खड़ा हो गया ॥

२२ यहोआहाज के जीवन भर अराम का राजा हजाएल इस्त्राएल पर अन्धेर ही करता रहा। २३ परन्तु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया, और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उम ने इब्ना-हीम, इमहाक और याकूब से बान्धी थी, उन पर कृपा दृष्टि की, और न तो उन्हें नाश किया, और न अपने साम्हने से निकाल दिया ॥

२४ तब अराम का राजा हजाएल मर गया, और उसका पुत्र बेन्हदद उसके स्थान पर राजा बन गया। २५ और यहोआहाज के पुत्र योआश ने हजाएल के पुत्र बेन्हदद के हाथ से बे नगर फिर ले लिए, जिन्हें उस ने युद्ध करके उसके पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। योआश ने उसको तीन बार जीतकर इस्त्राएल के नगर फिर ले लिए ॥

(अमस्याह का राज्य)

१४ इस्त्राएल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। २ जब वह राज्य करने लगा। तब वह पचीस वर्ष का था, और यरूशलेम में उनतीस वर्ष राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यहो-अहीन था, जो यरूशलेम की थी। ३ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था तभी अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई न किया; उस ने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। ४ उसके

दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए; लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते, और धूप जलाते रहे। ५ जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उस ने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला, जिन्होंने ने उसके पिता राजा को मार डाला था। ६ परन्तु उन खूनियों के लडकेबालों को उस ने न मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए, और पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए: जिस ने पाप किया हो, वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। ७ उसी अमस्याह ने लोन की तराई में दस हजार एदोमी पुरुष मार डाले, और मेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया, और उसका नाम योक्तेल * रखा, और वह नाम आज तक चलता है ॥

८ तब अमस्याह ने इस्त्राएल के राजा योआश के पास जो यहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था दूतों से कहला भेजा, कि आ हम एक दूसरे का साम्हना करें। ९ इस्त्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यों कहला भेजा, कि लबानोन पर की एक ऋडबेरी ने लबानोन के एक देवदारु के पास कहला भेजा, कि अपनी बेंटी भेरे बेटे को ब्याह दे; इतने में लबानोन में का एक बनपशु पास से चला गया और उस ऋडबेरी को रौंद डाला। १० तू ने एदोमियों को जीता तो है इसलिये तू फूल उठा है †। उसी पर बढ़ाई मारता

* अर्थात् ईश्वर का दबाया।

† मूल में—तेरे मन ने तुझे उठाया है।

हुआ घर में रह जा; तू अपनी हानि के लिये यहां क्यों हाथ उठाता है, जिस से तू क्या बरन यहूदा भी नीचा खाएगा ?

११ परन्तु अमस्याह ने न माना। तब इस्राएल के राजा योआश ने चढ़ाई की, और उस ने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का साम्हना किया। १२ और यहूदा इस्राएल से हार गया, और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। १३ तब इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को जो अहज्याह का पोता, और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ लिया, और यरूशलेम को गया, और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रैमी फाटक से कोनेवाले फाटक तक चार सौ हाथ गिरा दिए। १४ और जितना सोना, चान्दी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भण्डारों में मिले, उन सब को और बन्धक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को लौट गया ॥

१५ योआश के और काम जो उस ने किए, और उसकी बीरता और उम ने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? १६ निदान योआश अपने पुरखाओं के सग मो गया और उसे इस्राएल के राजाओं के बीच शोमरोन में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

१७ यहोआशाह के पुत्र इस्राएल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह ५२ वर्ष जीवित रहा। १८ अमस्याह के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास

की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? १९ जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई, तब वह लाकीश को भाग गया। सो उन्होंने ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। २० तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुंचाया गया, और वहां उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। २१ तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्याह को लेकर, जो सोलह वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। २२ जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के सग सो गया, उसके बाद अजर्याह ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया ॥

(छुछरे यारोबाम का राज्य)

२३ यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के पन्द्रहवें वर्ष में इस्राएल के राजा योआश का पुत्र यारोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा, और एकतालीस वर्ष राज्य करता रहा। २४ उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात् नबान के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उन से वह अलग न हुआ। २५ उस ने इस्राएल का सिवाना हमात की घाटी से ले अराराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमिर्त के पुत्र अपने दास गथेपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। २६ क्योंकि यहोवा ने इस्राएल का दुःख देखा कि बहुत ही कठिन * है, बरन क्या बन्धुआ क्या स्वाधीन

* मूल में—कहवा।

कोई भी बचा न रहा, और न इस्राएल के लिये कोई सहायक था। २७ यहोवा ने नहीं कहा था, कि मैं इस्राएल का नाम धरती पर* से मिटा डालूंगा। सो उस ने योआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया।

२८ यारोबाम के और सब काम जो उस ने किए, और कैसे पराक्रम के साथ उस ने युद्ध किया, और दमिश्क और हमात को जो पहले यहूदा के राज्य में थे इस्राएल के वश में फिर मिला लिया, यह सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? २९ निदान यारोबाम अपने पुरखाओं के सग जो इस्राएल के राजा थे सो गया, और उसका पुत्र जकर्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।

(जकर्याह का राज्य)

१५ इस्राएल के राजा यारोबाम के सताईसवें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। २ जब वह राज्य करने लगा, तब सोलह वर्ष का था, और यरूशलेम में बावन वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्याह था, जो यरूशलेम की थी। ३ जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। ४ तीभी ऊंचे स्थान गिराए न गए; प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते, और धूप जलाते रहे। ५ और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा, कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और अलग एक घर में रहता था। और योताम

* मूल में—आकाश के तले।

नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। ६ अजर्याह के और सब काम जो उस ने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? ७ निदान अजर्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा।

(जकर्याह का राज्य)

८ यहूदा के राजा अजर्याह के अठतीसवें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकर्याह इस्राएल पर शोमरोन में राज्य करने लगा, और छः महीने राज्य किया। ९ उस ने अपने पुरखाओं की नाई वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उन से वह अलग न हुआ। १० और याबेश के पुत्र शल्लूम ने उस से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के साम्हने मारा, और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। ११ जकर्याह के और काम इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। १२ यो यद्रोवा का वह वचन पूरा हुआ, जो उस ने येहू से कहा था, कि तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी सन्तान इस्राएल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वंसा ही हुआ।

(शल्लूम का राज्य)

१३ यहूदा के राजा उज्जिय्याह के उन्तानीसवें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम

राज्य करने लगा, और महीने भर शोमरोन में राज्य करता रहा। १४ क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने, तिसा से शोमरोन को जाकर यावेश के पुत्र शल्लूम को बही मारा, और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। १५ शल्लूम के और काम और उस ने राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। १६ अब मनहेम ने तिसा से जाकर, सब निवासियों और आस पास के देश समेत तिप्सह को इस कारण मार लिया, कि तिप्सहियों ने उसके लिये फाटक न खोले थे, इस कारण उस ने उन्हें मार लिया, और उस में जितनी गर्भवती स्त्रिया थी, उन सभी को चीर डाला।।

(मन्हेम का राज्य)

१७ यहूदा के राजा अजर्याह के उन्तालीसवें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इस्त्राएल पर राज्य करने लगा, और दस वर्ष शोमरोन में राज्य करता रहा। १८ उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्त्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उन से वह जीवन भर अलग न हुआ। १९ अशूर के राजा पूल ने देश पर चढाई की, और मनहेम ने उसको हजार किकार चान्दी इस इच्छा से दी, कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। २० यह चान्दी अशूर के राजा को देने के लिये मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इस्त्राएलियों से ले ली, एक एक पुरुष को पचास पचास शकैल चान्दी देनी पडी; तब अशूर का

राजा देश को छोड़कर लौट गया। २१ मनहेम के और काम जो उस ने किए, वे सब क्या इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? २२ निदान मनहेम अपने पुरखाओं के मग मो गया और उसका पुत्र पकह्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा।।

(पकह्याह और पेकह का राज्य)

२३ यहूदा के राजा अजर्याह के पचामवे वर्ष में मनहेम का पुत्र पकह्याह शोमरोन में इस्त्राएल पर राज्य करने लगा, और दो वर्ष तक राज्य करता रहा। २४ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम जिस ने इस्त्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उन से वह अलग न हुआ। २५ उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उस से राजद्रोह की गोष्ठी करके, शोमरोन के राजभवन के गुम्मत में उसको और उसके सग भर्गों और अर्थों को मारा; और पेकह के सग पचास गिलादी पुरुष थे, और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। २६ पकह्याह के और सब काम जो उस ने किए, वह इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं।।

(पेकह का राज्य)

२७ यहूदा के राजा अजर्याह के बावनवे वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शोमरोन में इस्त्राएल पर राज्य करने लगा, और बीस वर्ष तक राज्य करता रहा। २८ उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात् नबात के पुत्र यारोबाम, जिस ने इस्त्राएल से पाप

कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा, और उन से वह अलग न हुआ ॥

२६ इस्राएल के राजा पेकह के दिनों में अशूर के राजा तिग्लत्सिलेसर ने अकर इय्योन, अबेल्बेत्माका, यानोह, केदेश और हासोर नाम नगरो को और गिलाद और गालील, वरन नप्तानी के पूरे देश को भी ले लिया, और उनके खोबों को बन्धुआ करके अशूर को ले गया। ३० उजिय्याह के पुत्र योताम के बीसवें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से सजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा, और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। ३१ पेकह के और सब काम जो उस ने किए वह इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं ॥

(योताम का राज्य)

३२ रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उजिय्याह का पुत्र योताम राजा हुआ। ३३ जब वह राज्य करने लगा, तब पचीस वर्ष का था, और यरूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। ३४ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात् जैसा उसके पिता उजिय्याह ने किया था, ठीक वैसा ही उस ने भी किया। ३५ तीसरी ऊँचे स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बनि चढ़ाते और धूप जलाने रहे। यहोवा के भवन के ऊँचे फाटक को इसी ने बनाया था। ३६ योताम के और

सब काम जो उस ने किए, वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? ३७ उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को, और रमल्याह के पुत्र पेकह को, यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। ३८ निदान योताम अपने पुरखाओं के सग मो गया और अपने मूलपुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(आहाज का राज्य)

१६ रमल्याह के पुत्र पेकह के सत्रहवें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। २ जब आहाज राज्य करने लगा, तब वह बीस वर्ष का था, और मोलह वर्ष तक यरूगलेम में राज्य करता रहा। और उस ने अपने मूलपुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया, जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। ३ परन्तु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाल दिया था, उस ने अपने बेटे को भी प्राग में होम कर दिया। ४ और ऊँचे स्थानों पर, और पहाड़ियों पर, और सब हरे वृक्षों के तले, वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था ॥

५ तब अराम के राजा रसीन, और रमल्याह के पुत्र इस्राएल के राजा पेकह ने लडने के लिये यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परन्तु युद्ध करके उन से

कुछ बन न पड़ा। ६ उस समय अराम के राजा रसीन ने, एलत को अराम के वश में करके, यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया; तब अरामी लोग एलत को गए, और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। ७ और आहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर के पास कहला भेजा कि मुझे अपना दास, वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर, और मुझे अराम के राजा और इन्नाएल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। ८ और आहाज ने यहोवा के भवन में और राज-भवन के भण्डारों में जितना सोना-चान्दी मिला उसे अशूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। ९ उसकी मानकर अशूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की, और उसे लेकर उसके लोगों को बन्धुआ करके, कीर को ले गया, और रसीन को मार डाला ॥

१० तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लत्पिलेमेर से भेंट करने के लिये दमिश्क को गया, और वहाँ की बेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नकशा ऊरिय्याह याजक के पास नमूना करके भेज दिया। ११ और ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था, ऊरिय्याह याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने तक एक बेदी बना दी। १२ जब राजा दमिश्क में आया तब उस ने उस बेदी को देखा, और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाए। १३ उसी बेदी पर उस ने अपना होमबलि और अन्नबलि जलाया, और अर्घ्य दिया और मेलबलियों का लोह छिड़क दिया। १४ और पीतल

की जो बेदी यहोवा के साम्हने रहती थी उसको उस ने भवन के साम्हने से अर्थात् अपनी बेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर, उस बेदी की उत्तर ओर रख दिया। १५ तब राजा आहाज ने ऊरिय्याह याजक को यह आज्ञा दी, कि ओर के होमबलि और साभ के अन्नबलि, राजा के होमबलि और उसके अन्नबलि, और सब साधारण लोगों के होमबलि और अर्घ्य बड़ी बेदी पर चढ़ाया कर, और होमबलियों और मेलबलियों का सब लोह उस पर छिड़क; और पीतल की बेदी के विषय में विचार करूँगा। १६ राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार ऊरिय्याह याजक ने किया। १७ फिर राजा आहाज ने कुसियों की पटरियों को काट डाला, और हौदियों को उन पर से उतार दिया, और बड़े हौद को उन पीतल के बेलों पर से जो उसके तले थे उतारकर, पत्थरों के फर्श पर धर दिया। १८ और विश्राम के दिन के लिये जो छाया हुआ स्थान भवन में बना था, और राजा के बाहर के प्रवेश करने का फाटक, उनको उस ने अशूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग * कर दिया। १९ आहाज के और काम जो उस ने किए, वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? २० निदान आहाज अपने पुरखाओं के सग मो गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

* मूल में—धुमा दिया।

(जोशे का राख और इस्त्राएली राज्य का दूत जाना)

१७ यहूदा के राजा आहाज के बारहवें वर्ष में एला का पुत्र होशे शोमरोन में, इस्त्राएल पर राज्य करने लगा, और नौ वर्ष तक राज्य करता रहा। २ उस ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परन्तु इस्त्राएल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उस से पहिले थे। ३ उस पर अशूर के राजा शल्मनेसेर ने चढाई की, और होशे उसके अधीन होकर, उसको भेंट देने लगा। ४ परन्तु अशूर के राजा ने होशे को राजद्रोह की गोष्ठी करनेवाला जान लिया, क्योंकि उस ने "सो" नाम मिस्र के राजा के पास दूत भेजे, और अशूर के राजा के पास सालियाना भेंट भेजनी छोड़ दी; इस कारण अशूर के राजा ने उसको बन्द किया, और बेडी डालकर बन्दीगृह में डाल दिया। ५ तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढाई की, और शोमरोन को जाकर तीन वर्ष तक उसे घेरे रहा। ६ होशे के नौवें वर्ष में अशूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया, और इस्त्राएल को अशूर में ले जाकर, हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया ॥

७ इसका यह कारण है, कि यद्यपि इस्त्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फ़िरौन के हाथ में छुडाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तभी उन्होंने ने उसके विरुद्ध पाप किया, और पराये देवताओं का भय माना। ८ और जिन जातियों को यहोवा ने इस्त्राएलियों के साम्हने से देश से निकाला था, उनकी

रीति पर, और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। ९ और इस्त्राएलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात् पहलुओं के गुम्मत से लेकर गडवाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊँचे स्थान बना लिए; १० और सब ऊँची पहाडियों पर, और सब हरे वृक्षों के तले लाठे और अशोरा खड़े कर लिए। ११ और ऐसे ऊँचे स्थानों में उन जातियों की नाई जिनको यहोवा ने उनके साम्हने से निकाल दिया था, धूप जलाया, और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए। १२ और मूरतों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उन से कहा था कि तुम यह काम न करना। १३ तभी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इस्त्राएल और यहूदा को यह कह कर चिताया था, कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस मारी व्यवस्था के अनुसार जो मैं ने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुँचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। १४ परन्तु उन्होंने ने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं की नाई, जिन्होंने ने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले * बन गए। १५ और वे उसकी विधिया, और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा, और जो चितौनिया उस ने उन्हें दी थी, उनको तुच्छ जानकर, निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिस में वे आप निकम्मे हो गए, और अपने चारों ओर

* मूल में—कड़ी गर्दनवाले।

की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना। १६ वरन उन्होंने ने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया, और दो बछड़ों की मूरते ढालकर बनाई, और अशोरा भी बनाई; और आकाश के सारे गरणों को दण्डवत की, और बाल की उपासना की। १७ और अपने बेटे-बेटियों को आग में होम करके चढाया; और भावी कहने-बालो से पूछने, और टोना करने लगे; और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था जिस से वह क्रोधित भी होता है, उसके करने को अपनी इच्छा से बिक गए*। १८ इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ, और उन्हें अपने साम्हने से दूर कर दिया; यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा न रहा।।

१९ यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाए न मानी, वरन जो विधिया इस्राएल ने चलाई थी, उन पर चलने लगे। २० तब यहोवा ने इस्राएल की सारी सन्तान को छोड़ कर, उनको दुःख दिया, और लूटनेवालो के हाथ कर दिया, और अन्त में उन्हें अपने साम्हने से निकाल दिया।।

२१ उस ने इस्राएल को तो दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया, और उन्हो ने नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया; और यारोबाम ने इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उन से बडा पाप कराया। २२ सो जैसे पाप यारोबाम ने किए थे, वैसे ही पाप इस्राएली भी करते रहे,

* मूल में—उन्होंने अपने को बेच डाला।

और उन से अलग न हुए। २३ अन्त में यहोवा ने इस्राएल को अपने साम्हने से दूर कर दिया, जैसे कि उस ने अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने देश से निकालकर अशूर को पहुँचाया गया, जहा वह आज के दिन तक रहता है।।

(इस्रायल के देश में अन्य जातिवालों का बसाया जाना)

२४ और अशूर के राजा ने बाबेल, कूता, अर्वाहमात और सपवैम नगरों में लोगो को लाकरे, इस्राएलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया; सो वे शोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। २५ जब वे वहा पहिले पहिल रहने लगे, तब यहोवा का भय न भानते थे, इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे, जो उनको मार डालने लगे। २६ इस कारण उन्होंने ने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तू ने उनके देशो से निकालकर शोमरोन के नगरो में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नही जानती, इस से उस ने उसके मध्य सिंह भेजे है जो उनको इसलिये मार डालते है कि वे उस देश के देवता की रीति नही जानते। २७ तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी, कि जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए, उन में से एक को वहां पहुँचा दो, और वह वहा जाकर रहे, और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। २८ तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे, उन में से एक जाकर बेतेल में रहने लगा, और

उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिये ॥

२६ तौमी एक एक जाति के लोगो ने अपने अपने निज देवता बनाकर, अपने अपने बसाए हुए नगर मे उन ऊचे स्थानो के भवनो मे रखा जो शोमरोनियों ने बसाए थे। ३० बाबेल के मनुष्यों ने तो सुक्कोतबनोत को, कूत के मनुष्यों ने नेर्गल को, हमात के मनुष्यों ने अशीमा को, ३१ और अज्वियो ने निभज, और तर्ताक को स्थापित किया; और सपवमी लोग अपने बेटो को अद्रम्मेलेक और अनम्मेलेक नाम सपवम के देवताओ के लिये होम करके चढ़ाने लगे। ३२ यो वे यहोवा का भय मानते तो थे, परन्तु सब प्रकार के लोगो मे से ऊचे स्थानो के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊचे स्थानो के भवनो मे उनके लिये बलि करते थे। ३३ वे यहोवा का भय मानते तो थे, परन्तु उन जातियों की रीति पर, जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओ की भी उपासना करने रहे। ३४ आज के दिन तक वे अपनी पहिली रीतियो पर चलते है, वे यहोवा का भय नही मानते ॥

३५ न तो अपनी विधियों और नियमो पर और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते है, जो यहोवा ने याकूब की सन्तान को दी थी, जिसका नाम उम ने इस्राएल रखा था। उन से यहोवा ने बाचा बान्धकर उन्हें यह आज्ञा दी थी, कि तुम पराये देवताओ का भय न मानना और न उन्हें दरुडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना। ३६ परन्तु यहोवा जो तुम को बडे बल और बढ़ाई हुई भुजा

के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दरुडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। ३७ और उस ने जो जो विधिया और नियम और जो व्यवस्था और आज्ञाए तुम्हारे लिये लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो, और पराये देवताओ का भय न मानना। ३८ और जो बाचा मे ने तुम्हारे साथ बान्धी है, उसे न भूलना और पराये देवताओ का भय न मानना। ३९ केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुम को तुम्हारे सब शत्रुओ के हाथ से बचाएगा। ४० तौमी उन्हीं ने न माना, परन्तु वे अपनी पहिली रीति के अनुसार करते रहे ॥

४१ अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परन्तु अपनी खुदी हुई मूरतो की उपासना भी करती रही, और जैसे वे * करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते है ॥

(हिजकिय्याह के राज्य का चारवा)

१८ एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष मे यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। २ जब वह राज्य करने लगा तब पचास वर्ष का था, और उनतीस वर्ष तक यरूशलेम मे राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अश्वी था, जो जकर्याह की बेटा थी। ३ जैसे उसके मूलपुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि मे ठीक है वसा ही उस ने भी किया। ४ उस ने ऊचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशोरा को काट डाला। और पीतल का जो सांप मूसा

* मूल मे—उनके पुरखा।

ने बनाया था, उसको उस ने इस कारण चूर चूर कर दिया, कि उन दिनों तक इस्त्राएली उसके लिये धूप जलाते थे; और उस ने उसका नाम नहुशतान * रखा। ५ वह इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ, और न उस से पहिले भी ऐसा कीर्त हुआ था। ६ और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा; और जो आज्ञाएँ यहोवा ने मूसा को दी थी, उनका वह पालन करता रहा। ७ इसलिये यहोवा उसके संग रहा; और जहाँ कहीं वह जाता था, वहाँ उसका काम सफल होता था। और उस ने अशूर के राजा से बन्धन करके, उसकी अधीनता छोड़ दी। ८ उस ने पलिशतियों को गाज्जा और उसके सिवानो तक, पहुरमो के गुम्मत और गढवाले नगर तक मारा ॥

६ राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में जो एला के पुत्र इस्त्राएल के राजा होशे का सातवा वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसेर ने शोमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। १० और तीन वर्ष के बीतने पर उन्होने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के छठवें वर्ष में जो इस्त्राएल के राजा होशे का नौवाँ वर्ष था, शोमरोन ले लिया गया। ११ तब अशूर का राजा इस्त्राएल को बन्धुआ करके अशूर में ले गया, और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरो में उसे बसा दिया। १२ इसका कारण यह था, कि उन्हों

ने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञाएँ यहोवा के दास मूसा ने दी थी, उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया ॥

(सन्हेरीब की चढ़ाई और उसको बेना का विनाश)

१३ हिजकिय्याह राजा के चौदहवें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढवाले नगरो पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। १४ तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा, कि मुझ से अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये तीन सौ किक्कार चान्दी और तीस किक्कार सोना ठहरा दिया। १५ तब जितनी चान्दी यहोवा के भवन और राजभवन के भण्डारो में मिली, उस सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। १६ उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मन्दिर के किवाड़ों से और उन खम्भो से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढा था, सोने को छीलकर अशूर के राजा को दे दिया। १७ तौभी अशूर के राजा ने तर्तान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर, लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। सो वे यरूशलेम को गए और वहाँ पहुँचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास घोंबियों के खेत की सड़क पर जाकर खडे हुए। १८ और जब उन्होने राजा को पुकारा, तब हिजकिय्याह का

* अर्थात् पीतल का टुकड़ा।

पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेन्ना जो मन्त्री था और भासाप का पुत्र योभाह जो इतिहास का लिखनेवाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए ॥

१६ रबशाके ने उन से कहा, हिजकिय्याह से कहो, कि महाराजाधिराज अर्थात् अशूर का राजा यों कहता है, कि तू किस पर भरोसा करता है ? २० तू जो कहता है, कि मेरे यहां युद्ध के लिये युक्ति और पराक्रम है *, सो तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तू ने मुझ से बलवा किया है ? २१ सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात् मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए, तो वह उसके हाथ में चुभकर छेदेगा। मिस्र का राजा फ़िरौन अपने सब भरोसा रखनेवालों के लिये ऐसा ही है। २२ फिर यदि तुम मुझ से कहो, कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह बही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा, कि तुम इसी वेदी के साम्हने जो यरूशलेम में है दण्डवत करना ? २३ तो अब मेरे स्वामी अशूर के राजा के पास कुछ बन्धक रख, तब मैं तुम्हें दो हजार घोड़े दूंगा, क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं ? २४ फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मान कर क्यों रथों और सवारों के लिये मिस्र पर भरोसा रखता है ?

* मूल में—कर्मचारियों में से एक गवर्नर का भी झुंड़ केर के।

२५ क्या मैं ने यहोवा के बिना कहे, इस स्थान को उजाड़ने के लिये चढ़ाई की है ? यहोवा ने मुझ से कहा है, कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे ॥

२६ तब हिजकिय्याह के पुत्र एल्याकीम और शेन्ना योभाह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं; और हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। २७ रबशाके ने उन से कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के, वा तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है ? क्या उस ने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा, जो शहरपनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे सग उनको भी अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े ?

२८ तब रबशाके ने खड़े हो, यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात् अशूर के राजा की बात सुनो। २९ राजा यों कहता है, कि हिजकिय्याह तुम को भुलाने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा। ३० और वह तुम से यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए, कि यहोवा निश्चय हम को बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। ३१ हिजकिय्याह की मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेट भेजकर मुझे प्रसन्न करो * और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुएँ का पानी पीता रहे। ३२ तब

* मूल में—मेरे साथ आशीर्वाद करो।

में आकर तुम को ऐसे देश में ले जाऊंगा, जो तुम्हारे देश के समान भनाज और नये दाखमधु का देश, रोटी और दाख-बारियों का देश, जलपाइयो और मधु का देश है, वहा तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे; तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुम को बहकाए, कि यहोवा हम को बचाएगा, तब उसकी न सुनना । ३३ क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है ? ३४ हमात और अर्पाद के देवता कहां रहे ? सपवैम, हेना और इब्वा के देवता कहां रहे ? क्या उन्हो ने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है ? ३५ देखा देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है, जिस ने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो ? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा ॥

३६ परन्तु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी, कि उसको उत्तर न देना । ३७ तब हिलकिय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेब्ना जो मन्त्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखनेवाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए, हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई ॥

१६ जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़, टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया । २ और उस ने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था, और शेब्ना मन्त्री को, और याजकों के पुरनियो को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस

के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया । ३ उन्हो ने उस से कहा, हिजकिय्याह यों कहता है, आज का दिन मकट, और उलहने, और निन्दा का दिन है, बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चां को जन्म देने का बल न रहा । ४ कदाचित् तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निन्दा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं उन्हें डपटे; इसलिये तू इन बच्चे हुओं के लिये जो रह गए हैं प्रार्थना कर * । ५ जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, ६ तब यशायाह ने उन से कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यों कहता है, कि जो वचन तू ने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निन्दा की है, उनके कारण मत डर । ७ सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा, कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा ॥

८ तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उस ने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है । ९ और जब उस ने कूश के राजा तिर्हाका के विषय यह सुना, कि वह मुझ से लड़ने को निकला है, तब उस ने हिजकिय्याह के पास दूतो को यह कह कर भेजा, १० तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यों कहना : तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए,

* मूल में—प्रार्थना उठा ।

कि यरूशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा । ११ देख, तू ने तो सुना है अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है उन्हें सत्यानाश कर दिया है । फिर क्या तू बचेगा ? १२ गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहनेवाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उन में से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया ? १३ हमारा का राजा, और अर्पाद का राजा, और सपवम नगर का राजा, और हेना और इब्बा के राजा ये सब कहा रहे ? इस पत्नी को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ में लेकर पठा । १४ तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के साम्हने फैला दिया । १५ और यहोवा से यह प्रार्थना की, कि हे इस्लाम के परमेश्वर यहोवा ! हे कर्बो पर विराजनेवाले ! पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है । आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है । १६ हे यहोवा ! कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख, और सन्हेरीब के बचनों को सुन ले, जो उस ने जीवते परमेश्वर की निन्दा करने को कहला भेजे है । १७ हे यहोवा, सच तो है, कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है । १८ और उनके देवताओं को आग में भोका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनको नाश कर सके । १९ इसलिये अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है ॥

२० तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, कि इस्लाम का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि जो प्रार्थना तू ने अशूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझ से की, उसे मैं ने सुना है । २१ उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, कि सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठठो में उडाती है, यरूशलेम की पुत्री, तुझ पर सिर हिलाती है । २२ तू ने जो नामधराई और निन्दा की है, वह किसकी की है ? और तू ने जो बड़ा बोल बोला और घमण्ड किया * है वह किसके विरुद्ध किया है ? इस्लाम के पवित्र के विरुद्ध तू ने किया है । २३ अपने दूतों के द्वारा तू ने प्रभु की निन्दा करके कहा है, कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर, बरन लबानोन के बीच तक चढ आया हूँ, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारुओं और अर्च्छे अर्च्छे सनोवों को काट डालूंगा ; और उस में जो सब से ऊचा टिकने का स्थान होगा उस में और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा । २४ मैं ने तो खुदवाकर परदेश का पानी पिया ; और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा । २५ क्या तू ने नहीं सुना, कि प्राचीनकाल से मैं ने यही ठहराया ? और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी, उन्हें अब मैं ने पूरा भी किया है, कि तू गढ़वाले नगरों को खण्डहर ही खण्डहर कर दे, २६ इसी कारण उनके रहनेवालों का बल घट गया ; वे विस्मित और लज्जित हुए ; वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और

* मूल में—जपनी आखे ऊपर की ओर उठाईं ।

हरी घास और छत पर की घास, और ऐसे भनाज के समान हो गए, जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। २७ में तो तेरा बैठा रहना, और कूच करना, और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। २८ इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातों मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुह में अपना लगाम लगाकर, जिस मार्ग से तू आया है, उसी से तुझे लौटा दूंगा ॥

२९ और तेरे लिये यह चिन्ह होगा, कि इस वर्ष तो तुम उसे स्नाभोगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह स्नाभोगे; और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाभोगे, और दाख की बारिया लगाने और उनका फल खाने पाभोगे। ३० और यहूदा के घराने के बच्चे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, * और फलेगे भी। ३१ क्योंकि यरूशलेम में से बच्चे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा ॥

३२ इसलिये यहोवा अशूर के राजा के विषय में यों कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने, वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके साम्हने आने, वा इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। ३३ जिस मार्ग से वह आया, उसी से वह लौट भी जाएगा, और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा, यहोवा की यही वाणी है। ३४ और मैं अपने निमित्त और अपने

दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा ॥

३५ उसी रात में क्या हुआ, कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में एक लाख पचासी हजार पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग सबेरे उठे, तब देखा, कि लोथ ही लोथ पड़ी है। ३६ तब अशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया, और लौटकर नीनवे में रहने लगा। ३७ वहा वह अपने देवता निस्त्रोक के मन्दिर में दण्डवत कर रहा था, कि अदम्येनेक और सरैसर ने उसको तलवार से मारा, और अरारात देश में भाग गए। और उसी का पुत्र एसर्हहोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(हिजकिय्याह का अत्युत्तरे बचन।)

२० . उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्य-द्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है, कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे; क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। २ तब उस ने भीत की ओर मुह फेर, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा ! ३ मैं बिन्ती करता हूँ, स्मरण कर, कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर * चलता आया हूँ; और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। ४ और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ५ कि

* मूल में—नीचे की ओर जब।

* मूल में—मेरे साम्हने।

लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह, कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेस्वर यहोवा यों कहता है, कि मैं ने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आसू देखे हैं, देख, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। ६ और मैं तेरी आयु पन्द्रह वर्ष और बढ़ा दूँगा। और अशूर के राजा के हाथ से तुम्हें और इस नगर को बचाऊँगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूँगा। ७ तब यशायाह ने कहा, अजीरो की एक टिकिया लो। जब उन्हो ने उसे लेकर फोडे पर बान्धा, तब वह चंगा हो गया ॥

८ हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसो यहोवा के भवन को जा सकूँगा, इसका क्या चिन्ह होगा? ९ यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिये यह चिन्ह होगा, कि धूपघड़ी की छाया दस अश घागे बढ़ जाएगी, वा दस अश घट जाएगी। १० हिजकिय्याह ने कहा, छाया का दस अश घागे बढ़ना तो हलकी बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया दस अश पीछे लौट जाए। ११ तब यशायाह भविष्य-द्वक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूपघड़ी की छाया, जो दस अश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया ॥

(हिजकिय्याह का अर्थ और चर्चा देख)

१२ उस समय बलदान का पुत्र बरोदकबलदान जो बाबेल का राजा

था, उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर, उसके पास पत्नी और भेट भेजी। १३ उनके सानेवालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने भनमोल पदार्थों का सब भण्डार, और चान्दी और सोना और सुगन्ध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भण्डारों में जो जो वस्तुएँ थी, वे सब दिखाई; हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही, जो उस ने उन्हें न दिखाई हो। १४ तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए? और कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात् बाबेल में आए थे। १५ फिर उस ने पूछा, तेरे भवन में उन्हो ने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है, वह सब उन्होंने ने देखा। मेरे भण्डारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो मैं ने उन्हें न दिखाई हो। १६ यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। १७ ऐसे दिन आनेवाले हैं, जिन में जो कुछ तेरे भवन में है, और जो कुछ तेरे पुरखानों का रखा हुआ भण्डार के दिन तक भण्डारों में है वह सब बाबेल को उठ जाएगा; यहोवा यह कहता है, कि कोई वस्तु न बचेगी। १८ और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हों, उन में से भी कितनों को वे बन्धुभाई में ले जाएंगे, और वे लौजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। १९ हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तू ने कहा है, वह भला ही है, फिर उस ने कहा, क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी न

रहेगी ? २० हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति उस ने एक पोखरा और नाली खुदवाकर नगर मे पानी पहुंचा दिया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक मे नहीं लिखा है ? २१ निदान हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा ।।

(मनश्शे का राज्य)

२१

जब मनश्शे राज्य करने लगा, तब वह बारह वर्ष का था, और यरूशलेम मे पचपन वर्ष तक राज्य करता रहा; और उसकी माता का नाम हेप्सीबा था । २ उस ने उन जातियो के धिनीने कामों के अनुसार, जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने देश से निकाल दिया था, वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था । ३ उस ने उन ऊचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था, फिर बनाया, और इस्राएल के राजा अहाब की नाई बाल के लिये बेदिया और एक अशेरा बनवाई, और आकाश के कुल गए को दण्डवत और उनकी उपासना करता रहा । ४ और उस ने यहोवा के उस भवन मे बेदिया बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, कि यरूशलेम मे मैं अपना नाम रखूंगा । ५ वरन यहोवा के भवन के दोनो आंगनो मे भी उस ने आकाश के कुल गए के लिये बेदिया बनाई । ६ फिर उस ने अपने बेटे को प्राय में होम करके चढाया; और शुभ-अशुभ मुहुत्तों को मानता, और टोना करता, और ओभो और भूत सिद्धिवालों

से व्यवहार करता था; वरन उस ने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे है, और जिन से वह क्रोधित होता है । ७ और अशेरा की जो मूरत उस ने खुदवाई, उसको उस ने उस भवन में स्थापित किया, जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलैमान से कहा था, कि इस भवन में और यरूशलेम में, जिसको मैं ने इस्राएल के सब गोत्रों मे से चुन लिया है, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा । ८ और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चीकसी करे, तो मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैं ने इस्राएल के पुरखाओ को दिया था, उस से वे फिर निकलकर मारे मारे फिरे । ९ परन्तु उन्होंने ने न माना, वरन मनश्शे ने उनको यहा तक भटका दिया कि उन्हो ने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हे यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने मे विनाश किया था ।।

१० इसलिये यहोवा ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओ के द्वारा कहा, ११ कि यहूदा के राजा मनश्शे ने जो ये घृणित काम किए, और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उस से पहिले थे की थी, उन से भी अधिक बुराइयां की; और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूरतों की पूजा करवा के उन्हे पाप में फसाया है । १२ इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हू कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नटे में आ जाएगा * । १३ और जो

* मूल में—बसके दोनो कान सनसना जायेंगे।

मापने की डोरी में ने शोमरोन पर डाली है और जो साहुल में ने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूगा । और मैं यरूशलेम को ऐसा पोछूंगा जैसे कोई थाली को पोछता है और उसे पोछकर उलट देता है । १४ और मैं अपने निज भाग के बचे हुए को त्यागकर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे । १५ इसका कारण यह है, कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है, मुझे रिस दिलाते आ रहे हैं ॥

१६ मनश्शे ने तो न केवल वह काम कराके यहूदियों से पाप कराया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहां तक कि उस ने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया । १७ मनश्शे के और सब काम जो उस ने किए, और जो पाप उस ने किए, वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ? १८ निदान मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उमे उसके भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अमोन उसके स्थान पर राजा हुआ ॥

(अमोन का राज्य)

१९ जब अमोन राज्य करने लगा, तब वह बाईस वर्ष का था, और यरूशलेम में दो वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम मधुल्लेमेत था जो योत्बावासी हारूस की बेटी थी । २० और उस ने अपने पिता मनश्शे

की नाईं वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है । २१ और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला, और जिन मूरतों की उपासना उसका पिता करता था, उनकी वह भी उपासना करता, और उन्हें दण्डवत करता था । २२ और उस ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को न्याग दिया, और यहोवा के मार्ग पर न चला । २३ और अमोन के कर्म-चारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला । २४ तब माधारग लोगो ने उन सभी को मार डाला, जिन्होंने राजा अमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगो ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा किया । २५ अमोन के और काम जो उस ने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं । २६ उमे भी उज्जर की बारी में उसकी निज कबर में मिट्टी दी गई; और उसका पुत्र योशिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(योशिय्याह के राज्य में बाबल्सा की पुस्तक का लिखना)

२२ जब योशिय्याह राज्य करने लगा, तब वह अठार वर्ष का था, और यरूशलेम में एकतीस वर्ष तक राज्य करता रहा । और उसकी माता का नाम यदीदा था जो बास्ततवासी अदाया की बेटी थी । २ उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूलपुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वह भी चला, और उस से न तो दाहिनी ओर और न बाईं ओर मुड़ा ॥

३ अपने राज्य के अठारहवें वर्ष में राजा योशियाह ने असत्याह के पुत्र शापान मंत्री को जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, कि हिलकिय्याह महायाजक के पास जाकर कह, ४ कि जो चान्दी यहोवा के भवन में लाई गई है, और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, ५ उसको जोड़कर, उन काम करानेवालों को सौंप दे, जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिये हैं, फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करनेवाले कारीगरों को दे, इसलिये कि उस में जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें। ६ अर्थात् बढ़इयो, राजे और संग्रहाराशे को दे, और भवन की मरम्मत के लिये लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। ७ परन्तु जिनके हाथ में वह चान्दी सौंपी गई, उन से हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। ८ और हिलकिय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है, तब हिलकिय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी, और वह उसे पढ़ने लगा। ९ तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह सन्देश दिया, कि जो चान्दी भवन में मिली, उसे तेरे कर्मचारियों ने बैलियों में डाल कर, उनको सौंप दिया जो यहोवा के भवन में काम करानेवाले हैं। १० फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया, कि हिलकिय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा ॥

११ व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े।

१२ फिर उस ने हिलकिय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मीकायाह के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और असाया नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, १३ कि यह पुस्तक जो मिली है, उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है, कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि कुछ हमारे लिये लिखा है, उसके अनुसार करते ॥

१४ हिलकिय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उस से बातें की, वह उस शल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हर्हस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, (और वह स्त्री यरूशलेम के नये टोले में रहती थी)। १५ उस ने उन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, कि जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास भेजा, उस से यह कहो, १६ यहोवा यो कहता है, कि मुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है, उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डाला चाहता हूँ। १७ उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिये धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है, इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। १८ परन्तु यहूदा का राजा जिस ने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है उस से तुम यों कहो, कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है।

१६ इसलिये कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ, और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे, और शाप दिया करेगे, तू ने यहोवा के साम्हने अपना सिर नवाया, और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे साम्हने रोया है इस कारण मैं ने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। २० इसलिये देख, मैं ऐसा करूंगा, कि तू अपने पुरखाओं के सग मिल जाएगा, और तू शानि में अपनी कबर को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति में इस स्थान पर डाला चाहता हू, उस में मे तुझे अपनी आखों में कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन्हो ने लौटकर राजा को यही सन्देश दिया।।

(योशियाह का नृनिंपूजा को बन्द करना)

२३ राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा बुलवाया। २ और राजा, यहूदा के सब लोगो और यरूशलेम के सब निवासियों और याजको और नबियों वरन छोटे बडे सारी प्रजा के लोगो को सग लेकर यहोवा के भवन में गया। तब उस ने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढकर सुनाई। ३ तब राजा ने खम्भे के पास खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बान्धी, कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा, और अपने सारे मन और सारे प्राण में उसकी आज्ञा, चितौनिया और विधियों का नित पालन किया करूंगा ? और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सब प्रजा वाचा में

सम्भागी * हुई। ४ तब राजा ने हिल-किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजको और द्वारपालो को आज्ञा दी, कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गग के लिये बने हैं, उन सबो को यहोवा के मन्दिर में से निकाल ले आओ। तब उस ने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतो में फूककर उनकी राख बेंतेल को पहुंचा दी। ५ और जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरो के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के पास पास के स्थानो में धूप जलाने के लिये ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य-चन्द्रमा, राशिचक्र और आकाश के कुल गग को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। ६ और वह अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में लिवा ले गया और वही उसको फूक दिया, और पीसकर बुकनी कर दिया। तब वह बुकनी साधारण लोगो की कबरो पर फेंक दी। ७ फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहा म्त्रिया अशेरा के लिये पदें बना करती थी, उनको उस ने ढा दिया। ८ और उस ने यहूदा के सब नगरों में याजकों को बुलवाकर गंवा से बेशेबा तक के उन ऊंचे स्थानो को, जहा उन याजकों ने धूप जलाया था, अशुद्ध कर दिया; और फाटको के ऊंचे स्थान अर्थात् जो स्थान नगर के यहोशू नाम हाकिम के फाटक पर थे, और नगर के फाटक के भीतर जानेवाले की बाईं ओर थे, उनको

* मूल में—खड़ी।

उस ने ढा दिया । ९ तीभी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए, वे भ्रष्टमीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे । १० फिर उस ने तोपेत को जो हिब्रोमवगियो की तराई में था, अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने ब्रेटे वा बेटी को मोलेक के लिये भाग में होम करके न चढाए । ११ और जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके, यहोवा के भवन के द्वार पर नतन्मेलेक नाम खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उस ने दूर किया, और सूर्य के रथों को भाग में फूक दिया । १२ और आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थीं, और जो वेदियां मनश्शे ने यहोवा के भवन के दोनों भागनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाकर पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी । १३ और जो ऊंचे स्थान इस्राएल के राजा सुलैमान ने यरूशलेम की पूर्व और और विकारी नाम पहाड़ी की दक्खिन अलंग, अशतोरैत नाम सीदोनियों की घिनीनी देवी, और कमोश नाम मोआवियों के घिनीने देवता, और मिल्कोम नाम अम्मोनियों के घिनीने देवता के लिये बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया । १४ और उस ने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला, और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए । १५ फिर बेटेल में जो वेदी थी, और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यारोबाम ने बनाया था, जिस न इस्राएल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उस ने ढा दिया, और ऊंचे स्थान को फूककर बुकनी कर

दिया और अशेरा को फूक दिया । १६ और योशिय्याह ने फिर कर वहां के पहाड़ की कबरो को देखा, और लोगो को भेजकर उन कबरों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया । यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ, जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकारकर कहा था जिम ने इन्ही बातों की चर्चा की थी । १७ तब उम ने पूछा, जो खम्भा मुझे दिखाई पडता है, वह क्या है ? तब नगर के लोगो ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कबर है, जिस ने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकारकर की जो तू ने बेटेल की वेदी से किया है । १८ तब उस ने कहा, उसको छोड़ दो; उसकी हड्डियों को कोई न हटाए । तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के सग जो शोमरोन से आया था, रहने दी । १९ फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इस्राएल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन सभी को योशिय्याह ने गिरा दिया; और जैसा जैसा उस ने बेटेल में किया था, वैसा वैसा उन से भी किया । २० और उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहा थे उन सभी को उस ने उन्ही वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया ॥

(योशिय्याह का उत्तर चरित्र)

२१ और राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, कि इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिये फसह का पर्व

मानो । २२ निश्चय ऐसा फसह न तो न्यायियों के दिनों में माना गया था जो इस्त्राएल का न्याय करते थे, और न इस्त्राएल वा यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था । २३ राजा योशियाह के अठारहवें वर्ष में यहोवा के लिये यरूशलेम में यह फसह माना गया ॥

२४ फिर ओभे, भूतसिद्धिवाले, गृह-देवता, मूरते और जितनी धिनौनी वस्तुएँ यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सभी को योशियाह ने इस मनसा से नाश किया, कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी जो हिलकियाह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे । २५ और उसके तुल्य न तो उस से पहिले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो ॥

२६ तौभी यहोवा का भडका हुआ बडा कोप शान्त न हुआ, जो इस कारण से यहूदा पर भडका था, कि मनश्शे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था । २७ और यहोवा ने कहा था जैसे मैं ने इस्त्राएल को अपने साम्हने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूँगा, और इस यरूशलेम नगर से जिसे मैं ने चुना और इस भवन से जिसके विषय मैं ने कहा, कि यह मेरे नाम का निवास होगा, मैं हाथ उठाऊँगा ॥

२८ योशियाह के और सब काम जो उस ने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे

हैं ? २९ उसके दिनों में फिरौन-नको नाम मिस्र का राजा अश्वर के राजा के विरुद्ध परात महानद तक गया तो योशियाह राजा भी उसका साम्हना करने को गया, और उस ने उसको देखते ही मगिदो में मार डाला । ३० तब उसके कर्मचारियों ने उसकी लोथ एक रथ पर रख मगिदो से ले जाकर यरूशलेम को पहुँचाई और उसकी निज कबर में रख दी । तब साधारण लोगो ने योशियाह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके, उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया ॥

(यहोआहाज का राज्य)

३१ जब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब वह तेईस वर्ष का था, और तीन महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यिमयाह की बेटा थी । ३२ उस ने ठीक अपने पुरखाओं की नाई वही किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है । ३३ उसको फिरौन-नको ने हमात देश के रिबला नगर में बान्ध रखा, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए, फिर उस ने देश पर सौ किककार चान्दी और किककार भर सोना जुरमाना किया । ३४ तब फिरौन-नको ने योशियाह के पुत्र एल्याकीम को उसके पिता योशियाह के स्थान पर राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा; और यहोआहाज को ले गया । सो यहोआहाज मिस्र में जाकर वहीं मर गया । ३५ यहोयाकीम ने फिरौन को वह चान्दी और सोना तो दिया परन्तु देश पर इसलिये कर लगाया कि फिरौन

की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात् देश के सब लोगों में जितना जिम पर लगान लगा, उतनी चान्दी और सोना उस में फिरौन-नको को देने के लिये ले लिया ॥

(यहोयाकीम का राज्य)

३६ जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, तब वह पच्चीस वर्ष का था, और ग्यारह वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम जबीदा था जो रूमावासी भदायाह की बेटी थी। ३७ उस ने ठीक अपने पुरखाओ की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है ॥

२४

उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढाई की और यहोयाकीम तीन वर्ष तक उसके अधीन रहा, तब उस ने फिर कर उस में बलवा किया। २ तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिये कमदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे, यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ, जो उस ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। ३ नि सन्देह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने साम्हने से दूर करे। यह मनश्शे के सब पापों के कारण हुआ। ४ और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उस ने किया था, क्योंकि उस ने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। ५ यहोयाकीम के और सब काम जो उस ने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं

लिखे हैं? ६ निदान यहोयाकीम अपने पुरखाओ के सग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ। ७ और मिस्र का राजा अपने देश में बाहर फिर कभी न आया, क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर परात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था, सब को अपने वश में कर लिया था ॥

(यहोयाकीम का राज्य)

८ जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह अठारह वर्ष का था, और तीन महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम नहुस्ता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। ९ उस ने ठीक अपने पिता की नाई वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। १० उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढाई करके नगर को घेर लिया। ११ और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहा आ गया। १२ और यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को सग लेकर बाबेल के राजा के पास गया, और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के आठवें वर्ष में उनको पकड़ लिया। १३ तब उस ने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहा में निकाल लिया और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलैमान ने बनाकर यहोवा के मन्दिर में रखे थे, उन सभी को उस ने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा

ने कहा था। १४ फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात् सब हाकिमों और सब धनवानों को जो मिलकर दस हजार थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बन्धुआ करके ले गया, यहा तक कि साधारण लोगों में से कगालो को छोड़ और कोई न रह गया। १५ और वह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया और उसकी माता और स्त्रियो और सोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बन्धुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। १६ और सब धनवान जो सात हजार थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर एक हजार थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बाबेल का राजा बन्धुआ करके बाबेल को ले गया। १७ और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा ॥

(सिदकिय्याह का राज्य)

१८ जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह इक्कीस वर्ष का था, और यरूशलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता रहा; और उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। १९ उस ने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। २० क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई, कि अन्त में उस ने उनको अपने साम्हने से दूर किया ॥

२५ और सिदकिय्याह ने बाबेल के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के नौवें वर्ष के दसवें महीने के दसवें दिन को बाबेल के राजा

नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढाई की, और उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर कोट बनाए। २ और नगर सिदकिय्याह राजा के ग्यारहवें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। ३ चौथे महीने के नौवें दिन में नगर में महंगी यहा तक बढ़ गई, कि देश के लोगों के लिये कुछ खाने को न रहा। ४ तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई, और दोनो भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था उस मार्ग से सब थोड़ा रात ही रात निकल भागे। कसदी तो नगर को घेरे हुए थे, परन्तु राजा ने अराबा का मार्ग लिया। ५ तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया, और उसको यरीहों के पास के अराबा में जा लिया, और उसकी पूरी सेना उसके पास में नितर बितर हो गई। ६ तब वे राजा को पकडकर रिबला में बाबेल के राजा के पास ले गए, और उसे दगड की आज्ञा दी गई। ७ और उन्हो ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके साम्हने घात किया और सिदकिय्याह की आंखे फोड़ डाली और उसे पीतल की बेडियो से जकडकर बाबेल को ले गए ॥

(यरूशलेम का विनाश)

८ बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के उन्नीसवें वर्ष के पाचवें महीने के सातवें दिन को जत्लादो का प्रधान नबूजरदान जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। ९ और उस ने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात् हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूक

दिया । १० और यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के सग थी, ढा दिया । ११ और जो लोग नगर में रह गए थे, और जो लॉग बाबेल के राजा के पास भाग गए थे, और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सभी को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान बन्धुआ करके ले गया । १२ परन्तु जल्लादों के प्रधान ने देश के कगालों में से कितनों को दाख की बारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया । १३ और यहोवा के भवन में जो पीतल के खम्भे थे और कुसियाँ और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बाबेल को ले गए । १४ और हरिण्डियों, फावडियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को जिन से सेवा टहल होती थी, वे ले गए । १५ और करछे और कटोरिया जो सोने की थी, और जो कुछ चान्दी का था, वह सब सोना, चान्दी, जल्लादों का प्रधान ले गया । १६ दोनों खम्भे, एक हौद और जो कुसिया सुलमान ने यहोवा के भवन के लिये बनाए थे, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था । १७ एक एक खम्भे की ऊर्चाई अठारह अठारह हाथ की थी और एक एक खम्भे के ऊपर तीन तीन हाथ ऊँची पीतल की एक एक कंगनी थी, और एक एक कंगनी पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे ।

१८ और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के याजक सपन्याह और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया । १९ और नगर में से उस ने

एक हाकिम को पकड़ा जो योद्धाओं के ऊपर था, और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उन में से पाच जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुन्शी जो लोगों को सेना में भरती किया करता था, और लोगों में से साठ पुरुष जो नगर में मिले । २० इनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया । २१ तब बाबेल के राजा ने उन्हें हुमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए । यों यहूदी बन्धुआ उनके अपने देश से निकाल दिए गए ।।

(गदल्याह की हत्या)

२२ और जो लोग यहूदा देश में रह गए, जिनको बाबेल के राजा नबूकद-नेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उस ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को जो शापान का पोता था अधिकारी ठहराया । २३ जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात् नतन्याह के पुत्र इश्माएल कारेहू के पुत्र योहानान, नतोपाई, तन्हमेत के पुत्र सरायाह और किसी माकाई के पुत्र याजन्याह ने और उनके जनों ने यह सुना, कि बाबेल के राजा ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्रपा में गदल्याह के पास आए । २४ और गदल्याह ने उन से और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बाबेल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा । २५ परन्तु सातबे महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माएल, जो एलीशामा का पोता और राजदश का था, उस ने दस जन

सग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके सग मिस्रा में रहते थे, उनको भी मार डाला । २६ तब क्या छोटे क्या बड़े सारी प्रजा के लोग और दलो के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे ॥

(यद्योयाकीन का बढ़ाया जाना)

२७ फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बन्धुआई के तैतीसवें वर्ष में अर्थात् जिस वर्ष में बाबेल का राजा एबील्मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के

बारहवें महीने के सत्ताईसवें दिन को उस ने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बन्दीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया । २८ और उस में मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके सग बाबेल में बन्धुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, २९ और उसके बन्दीगृह के वस्त्र बदल दिए और उस ने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया । ३० और प्रतिदिन के खर्च के लिये राजा के यहां में नित्य का खर्च ठहराया गया जा उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा ॥

इतिहास नामक पुस्तक—पहिला भाग

(चादम चादि की बंशावलिियां)

१ आदम, शेत, एनोश; २ केनान, महललेल, येरेद, ३ हनोक, मत्-शेलह, लेमेक, ४ नूह, शेम, हाम और येपेत ॥

५ येपेत के पुत्र : गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूवल, मेशेक और तीरास हैं । ६ और गोमेर के पुत्र अशकनज, दीपत और तोगर्मा हैं । ७ और यावान के पुत्र एलीशा, तर्शीश, और कित्ती और रोदानी लोग हैं ॥

८ हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान हैं । ९ और कूश के पुत्र : सवा, हबीला, सवाता, रामा और सब्तका हैं, और रामा के पुत्र : शवा और ददान

हैं । १० और कूश से निम्नोद उत्पन्न हुआ, पृथ्वी पर पहिला वीर वही हुआ । ११ और मिस्र से लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तही । १२ पत्रूसी, कसलूही (वहा से पलिशती निकले) और कप्तोरी उत्पन्न हुए । १३ कनान से उसका जेठा सीदोन और हित्त । १४ और यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी । १५ हिन्वी, अर्की, सीनी । १६ अवंदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए ॥

१७ शेम के पुत्र एनाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद, अराम, ऊम, हूल, गेतेर और मेगेक हैं । १८ और अर्पक्षद में शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ । १९ और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए :

एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई; और उसके भाई का नाम योक्तान था। २० और योक्तान से अलमोदाद, शुलेप, हसमबित, येरह। २१ हदोराम, ऊजाल, दिक्ला। २२ एबाल, अबीमाएल, शबा, २३ ओपीर, हवीला और योबाब उत्पन्न हुए, ये ही सब योक्तान के पुत्र हैं।

२४ शेम, अर्पक्षद, शेलह। २५ एबेर, पेलेग, रू। २६ सरूग, नाहोर, तेरह। २७ अन्नम, वही इब्राहीम भी कहलाता है। २८ इब्राहीम के पुत्र इसहाक और इसमाएल हैं।

२९ इनकी वशावतिया ये हैं। इसमाएल का जेठा नबायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम। ३० मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा। ३१ यतूर, नापीश, केदमा। ये इसमाएल के पुत्र हुए। ३२ फिर कतूरा जो इब्राहीम की रखेली थी, उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात् उस से जिन्नान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशवाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र : शबा और ददान। ३३ और मिद्यान के पुत्र : एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एलदा, ये सब कतूरा के पुत्र हैं।

३४ इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र एसाव और इस्राएल। ३५ एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह हैं। ३६ एलीपज के ये पुत्र हैं : तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। ३७ रूएल के पुत्र नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा।

३८ फिर सेईर के पुत्र : लोतान, ओबाल, सिबोन, अना, दीशोन, एसेर और दीशान हैं। ३९ और लोतान के

पुत्र : होरी और होमाम, और लोतान की बहिन तिम्ना थी। ४० शोबाल के पुत्र : अल्लयान, मानहत, एबाल, शपी और ओनाम। ४१ और सिबोन के पुत्र : अय्या, और अना। अना का पुत्र दीशोन। और दीशोन के पुत्र : हन्नान, एशवान, यिन्नान और करान। ४२ एसेर के पुत्र : बिल्हान, जावान और याकान। और दीशान के पुत्र : ऊस और अरान हैं।

४३ जब किसी राजा ने इस्राएलियों पर राज्य न किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए- अर्थात् बोर का पुत्र बेला और उसकी राजधानी का नाम दिन्हावा था। ४४ बेला के मरने पर, बोसाई जेरह का पुत्र योबाव, उसके स्थान पर राजा हुआ। ४५ और योबाव के मरने पर, तेमानियों के देश का हूशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। ४६ फिर हूशाम के मरने पर, बदद का पुत्र हदद, उसके स्थान पर राजा हुआ यह वही है, जिस ने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत था। ४७ और हदद के मरने पर, मन्नेकाई सम्ला उसके स्थान पर राजा हुआ। ४८ फिर सम्ला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबेत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। ४९ और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ। ५० और बाल्हानान के मरने पर, हदद उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाई था। और उसकी पत्नी का नाम महेतबेल था जो मेजाहाब की नातिनी और मन्नेद की बेटी थी। और हदद मर गया।

५१ फिर एदोम के अधिपति ये थे . अर्थात् अधिपति तिम्ना, अधिपति अत्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलीवामा, ५२ अधिपति एला, अधिपति पीनोन, अधिपति कनज, ५३ अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मग्दीएल, अधिपति ईराम । ५४ एदोम के ये अधिपति हुए ॥

२ इस्राएल के ये पुत्र हुए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्माकार, जबूलून, दान । २ यूसुफ, बिन्यामीन, नप्तानी, गाद और आशेर ॥

(यहूदा को बन्नाबलौ)

३ यहूदा के ये पुत्र हुए . एर, ओनान और शेला, उसके ये तीनों पुत्र, वतशू नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए । और यहूदा का जेठा एर, यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उम ने उसको मार डाला । ४ यहूदा की बहू तामार से पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए । यहूदा के सब पुत्र पाच हुए ॥

५ पेरेस के पुत्र हेस्त्रोन और हामूल । ६ और जेरेह के पुत्र . जिम्नी, एतान, हेमान, कलकोल और दारा सब मिलकर पाच । ७ फिर कर्मी का पुत्र आकार जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इस्राएलियों का कण्ठ देनेवाला हुआ । ८ और एतान का पुत्र अजर्याह ॥

६ हेस्त्रोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए . यरह्वेल, राम और कलूब । १० और राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ जो यहूदियों का प्रधान बना । ११ और नहशोन से सल्मा और सल्मा से बोअज, १२ और बोअज

से ओबेद और ओबेद से यिशी उत्पन्न हुआ । १३ और यिशी से उसका जेठा एलीआब और दूसरा अबीनादाब तीसरा शिमा । १४ चौथा नतनेल और पांचवां रहू । छठा ओसेम और सातवा दाऊद उत्पन्न हुआ । १५ इनकी बहिने सख्याह और अबीगेल थी । १६ और सख्याह के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल ये तीन थे । १७ और अबीगेल से अमासा उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता इस्माएली येनेर था ॥

१८ हेस्त्रोन के पुत्र कालेब के अजूबा नाम एक स्त्री में, और यरीभोत से, बेटे उत्पन्न हुए, और इसके पुत्र ये हुए * अर्थात् येशेर, शाबाब और अर्दान । १९ जब अजूबा मर गई, तब कालेब ने एघ्रात को ब्याह लिया, और जिससे हर उत्पन्न हुआ । २० और हर से ऊरी और ऊरी में वसलेल उत्पन्न हुआ ॥

२१ इसके बाद हेस्त्रोन गिलाद के पिता माकीर की बेटी के पास गया, जिसे उस ने तब ब्याह लिया, जब वह साठ वर्ष का था, और उस में सगूब उत्पन्न हुआ । २२ और सगूब में याईर जन्मा, जिसके गिलाद देश में तेईस नगर थे । २३ और गशूर और अराम ने याईर की बस्तियों को और गावों समेत कनत को, उन से ले लिया, ये सब नगर मिलकर साठ थे । ये सब गिलाद के पिता माकीर के पुत्र हुए । २४ और जब हेस्त्रोन कालेबप्राता में मर गया, तब उसकी अबिय्याह नाम स्त्री से अशहूर उत्पन्न हुआ जो तको का पिता हुआ ॥

* वा कालेब से अजूबा नाम अपनी स्त्री के द्वारा यरीभोत उत्पन्न हुआ और यरीभोन के ये पुत्र हुए ।

२५ और हेब्रोन के जेठे यरह्वेल के ये पुत्र हुए : अर्थात् राम जो उसका जेठा था; और बूना, ओरेन, ओसेम और अहिव्याह । २६ और यरह्वेल की एक और पत्नी थी, जिसका नाम अतारा था; वह ओनाम की माता थी । २७ और यरह्वेल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, अर्थात् मास, यामीन और एकेर । २८ और ओनाम के पुत्र शम्म और यादा हुए । और शम्म के पुत्र नादाब और अबीशूर हुए । २९ और अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहेल था, और उस से अहवान और मोलीद उत्पन्न हुए । ३० और नादाब के पुत्र सेलेद और अप्पेम हुए, सेलेद तो निःसन्तान मर गया । और अप्पेम का पुत्र यिशी । ३१ और यिशी का पुत्र शेशान और शेशान का पुत्र अहल । ३२ फिर शम्म के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातान हुए, येतेर तो निःसन्तान मर गया । ३३ योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा, यरह्वेल के पुत्र ये हुए । ३४ शेशान के तो बेटा न हुआ, केवल बेटियां हुईं । शेशान के पास यर्हा नाम एक मिस्री दास था । ३५ और शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, और उस से अर्त्त उत्पन्न हुआ । ३६ और अर्त्त से नातान, नातान से जाबाद । ३७ जाबाद से एपलाल, एपलाल से ओबेद । ३८ ओबेद से येहू, येहू से अजर्याह । ३९ अजर्याह से हेलेस, हेलेस से एलासा । ४० एलासा से सिस्म, सिस्म से शल्लूम । ४१ शल्लूम से यकम्याह और यकम्याह से एलीशामा उत्पन्न हुए ॥

४२ फिर यरह्वेल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए : अर्थात् उसका जेठा मेशा जो जीप का पिता हुआ । और मारेशा का

पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ । ४३ और हेब्रोन के पुत्र कोरह, तप्पूह, रेकेम और शेमा । ४४ और शेमा से योर्काम का पिता रहम और रेकेम से शम्म उत्पन्न हुआ था । ४५ और शम्म का पुत्र माओन हुआ; और माओन बेत्सूर का पिता हुआ । ४६ फिर एपा जो कालेब की रखेली थी, उस से हारान, मोसा और गाजेज उत्पन्न हुए, और हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ । ४७ फिर याहद के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेनेत, एपा और शाप । ४८ और माका जो कालेब की रखेली थी, उस से शेबेर और तिर्हाना उत्पन्न हुए । ४९ फिर उस से मदमन्ना का पिता शाप और मकबेना और गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए । और कालेब की बेटी अकसा थी । कालेब के पुत्र ये हुए ॥

५० एप्राना के जेठे हर का पुत्र किर्यंत्यारीम का पिता शोबाल । ५१ बेतलेहेम का पिता मत्मा और बेतगादेर का पिता हारोप । ५२ और किर्यंत्यारीम के पिता शोबाल के वंश में हारोप, आघे मनुहोतवामी, ५३ और किर्यंत्यारीम के कुल अर्थात् यिनी, पूनी, शूमाती और मिश्राई और इन से सोराई और एशताओली निकले । ५४ फिर मत्मा के वंश में बेतलेहेम और नतोपाई, अत्रोत-बेत्योआव और आघे मानहती, सोरी । ५५ और याबेस में रहनेवाले लेखको के कुल अर्थात् तिराती, शिमाती और सूकाती हुए । ये रेकाब के घराने के मूलपुरुष हम्मत के बंशवाले केनी हैं ॥

५ दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उस से उत्पन्न हुए वे ये हैं . जेठा अम्नोन

जो यिज्जेली अहीनोअम से, दूसरा दानिय्येल जो कर्मेली अबीगैल से उत्पन्न हुआ । २ तीसरा अबशालोम जो गश्शूर के राजा तल्म की बेटी माका का पुत्र था, चौथा ओदानिय्याह जो हरगीत का पुत्र था । ३ पाचवा शपत्याह जो अबीतल से, और छठवा यित्राम जो उसकी स्त्री एग्ला से उत्पन्न हुआ । ४ दाऊद से हेब्रोन में छः पुत्र उत्पन्न हुए, और वहा उस ने साढे सात वर्ष राज्य किया, और यरूशलेम में तेनीस वर्ष राज्य किया । ५ और यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात् शिमा, शोबाब, नानान और मुलैमान, ये चारों अम्मीएल की बेटी बतशू से उत्पन्न हुए । ६ और यिभार, एलीशामा एलीपेलेत । ७ नेगाह, नेपेग, यापी । ८ एलीशामा, एल्यादा और एलीपेलेत, ये नौ पुत्र थे, ये सब दाऊद के पुत्र थे । ९ और इनको छोड़ रखेलियों के भी पुत्र थे, और इनकी बहिन तामार थी । १० फिर मुलैमान का पुत्र रहवाम उत्पन्न हुआ, रहवाम का अबिय्याह, अबिय्याह का आसा, आसा का यहोशापात । ११ यहोशापात का योराम, योराम का अहज्याह, अहज्याह का योआश । १२ योआश का अमस्याह, अमस्याह का अजर्याह, अजर्याह का योताम । १३ योताम का आहाज, आहाज का हिजकिय्याह, हिजकिय्याह का मनश्शे । १४ मनश्शे का आमोन, और आमोन का योशिय्याह पुत्र हुआ । १५ और योशिय्याह के पुत्र उसका जेठा योहानान, दूसरा यहोयाकीम, तीसरा सिदकिय्याह, चौथा शल्लूम । १६ और यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह, इसका पुत्र सिवकिय्याह । १७ और यकोन्याह का पुत्र अस्सीर,

उसका पुत्र शालतीएल । १८ और मल्कीराम, पदायाह, सोनस्सर, यकम्याह, होशामा और नदब्याह । १९ और पदायाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिमी हुए, और जरुब्बाबेल के पुत्र मशुल्लाम और हनन्याह, जिनकी बहिन शलोमीत थी । २० और हशूबा, ओहेल, बेरेक्याह, हसद्याह और यूशमेसेद, पांच । २१ और हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह । और रपायाह के पुत्र अर्नान के पुत्र ओबद्याह के पुत्र और शकन्याह के पुत्र । २२ और तकन्याह का पुत्र शमायाह । और शमायाह के पुत्र हतूश और यिगाल, बारीह, नार्याह और शपात, छ । २३ और नार्याह के पुत्र एल्योएनै, हिजकिय्याह और अञ्जीकाम, तीन । २४ और एल्योएनै के पुत्र होदब्याह, एल्याशीब, पलायाह, अककूब, योहानान, दलायाह और अन्नानी, सात ।।

४ यहूदा के पुत्र पेरेस, हेल्होन, कर्मी, हूर और शोबाल । २ और शोबाल के पुत्र रायाह से यहत और यहत से अहमै और लहद उत्पन्न हुए, ये मोराई कुल हैं । ३ और एताम के पिता के ये पुत्र हुए अर्थात् यिज्जेल, यिश्मा और यिद्दाश, जिनकी बहिन का नाम हस्सलेलपोनी था । ४ और गदोर का पिता पनूएल, और रूशा का पिता एजेर । ये एप्राता के जेठे हूर के सन्तान हैं, जो बेतलेहेम का पिता हुआ । ५ और तको के पिता अशहूर के हेबा और नारा नाम दो स्त्रियां थीं । ६ और नारा से अहुज्जाम, हेपेर, तेमनी और हाहशतारी उत्पन्न हुए, नारा के ये ही पुत्र हुए । ७ और हेला के पुत्र, सेरेतु, यिसहर

और एलान। ८ फिर कोस में आनूब और सोबेबा उत्पन्न हुए और उसके वंश में हारून के पुत्र ग्रहहॉल के कुल भी उत्पन्न हुए। ९ और यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेस * रखा, कि मैं ने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। १० और यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, कि भला होता, कि तू मुझे सचमुच आशीष देना, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई † से ऐसा बचा रखता कि मैं उम से पीड़ित न होता। और जो कुछ उम ने मागा, वह परमेश्वर ने उसे दिया। ११ फिर शूहा के भाई कलूब में एशानोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ। १२ और एशानोन के वंश में रामा का घराना, और पामेह और ईर्नाहाश का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए, रेका के लोग ये ही हैं। १३ और कनज के पुत्र, ओलीएल और सरायाह, और ओलीएल का पुत्र हतत। १४ मोनोन से ओप्रा और सरायाह में योआब जो गेहराशीम का पिता हुआ, वे कारीगर थे। १५ और यपुत्रे के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और एला के पुत्र कनज। १६ और यहल्लेल के पुत्र, जीप, जीपा, तीरया और अमगेल। १७ और एजा के पुत्र येतेर, मेरेद, एपेर और यालोन, और उसकी स्त्री से मिय्याम, शम्म और एशतमो का पिता यिशवह उत्पन्न हुए। १८ और उसकी यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता येरेद, सोको के पिता हेबेर और जानोह के

पिता यकतीएल उत्पन्न हुए, ये फिरोन की बेटि बित्या के पुत्र थे जिसे मेरेद ने व्याह लिया था। १९ और होदिय्याह की स्त्री जो नहम की वहिन थी, उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी और एशतमो का पिता एक माकाई। २० और शीमोन के पुत्र अम्नोन, रिन्ना, बेन्हानान और तोलोन और यिशी के पुत्र जोहेत और बेनजोहेत। २१ यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा और अशबेके घराने के कुल जिस में गन के कपडे का काम होता था। २२ और योकीम और कोर्जबा के मनुष्य और योआश और साराप जो मोआब में प्रभुता करने थे और याशूब, लेहेम इनका वृत्तान्त प्राचीन है। २३ ये कुम्हार थे, और ननार्दम और गदेरा में रहते थे जहां वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पाम रहते थे ॥

(शिमोन की वंशावली)

२४ शिमोन के पुत्र नमूएल, यामीन, यारीव, जेरह और शाऊल। २५ और शाऊल का पुत्र शल्लूम, शल्लूम का पुत्र मिवमाम और मिवसाम का मिश्मा हुआ। २६ और मिश्मा का पुत्र हम्मूएल, उसका पुत्र जक्कूर, और उसका पुत्र शिमी। २७ शिमी के सोलह बेटे और छः बेटिया हुईं परन्तु उसके भाइयों के बहुत बेटे न हुए। और उनका मारा कुल यहूदियों के बराबर न बढ़ा। २८ वे बेशंबा, मोलादा, हम्शूअल। २९ बिन्हा, एमेम, तोलाद। ३० बतूएल, होर्मा, सिल्कग, ३१ बेत-मर्काबोत, हसर्मूसीम, बेतबिगी और शारंम में बस गए; दाऊद के राज्य के समय तक उनके ये ही नगर रहे।

* अर्थात् पीडा।

† वा विपत्ति।

३२ और उनके गाव एताम, ऐन, रिम्मोन, तोकेन और आशान नाम पाच नगर ।

३३ और बाल तक जितने गाव इन नगरों के आसपास थे, उनके बसने के स्थान ये ही थे, और यह उनकी वंशावली है ॥

३४ फिर मशोबाब और यम्लेक और अमस्याह का पुत्र योशा । ३५ और योएल और योशिव्याह का पुत्र येहू, जो सरायाह का पोता, और अमीएल का परपोता था । ३६ और एल्योएन और याकोबा, यशोहायाह और अमायाह और अदीएल और यमीमीएल और बनायाह । ३७ और शिपी का पुत्र जीजा जो अल्लोन का पुत्र, यह यदायाह का पुत्र, यह शिम्री का पुत्र, यह शमायाह का पुत्र था । ३८ ये जिनके नाम लिखे हुए हैं, अपने अपने कुल में प्रधान थे, और उनके पितरों के घराने बहुत बढ गए । ३९ ये अपनी भेड-बकरियों के लिये चर्गाई ढूढने को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर तक गए । ४० और उनको उत्तम में उत्तम चराई मिली, और देश लम्बा-चौडा, चैन और शांति का था, क्योंकि वहा के पहिले रहनेवाले हाम के वश के थे । ४१ और जिनके नाम ऊपर लिखे हैं, उन्हो ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहा आकर जो मृत्ती वहा मिले, उनको डेरों समेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नही है, और वे उनके स्थान में रहने लगे, क्योंकि वहा उनकी भेड-बकरियों के लिये चर्गाई थी । ४२ और उन में मे अर्थात् शिमोनियों में मे पाच सौ पुरुष अपने ऊपर पलत्याह, नार्थाह, रपायाह और उज्जीएल नाम यिशी के पुत्रों को अपने प्रधान ठहराया, ४३ तब वे सेईद

पहाड़ को गए, और जो अग्नेयकी बचकर रह गए थे उनको मारा, और आज के दिन तक वहा रहते हैं ॥

(रूबेन और गाद की वंशावलियां और मन्शासे के साथ गोच की वंशावली)

५ इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परन्तु उम ने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया । वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नही ठहरी । २ क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया, और प्रधान उमके वश से हुआ परन्तु जेठे का अधिकार यूसुफ का था । ३ इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात् हनोक, पल्लू, हेमोन और कर्मी । ४ और योएल के पुत्र शमायाह, शमायाह का गोग, गोग का शिमी । ५ शिमी का मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल । ६ और बाल का पुत्र बेरा, इसको अग्गूर का राजा तिलगतपिलनेमेर बन्धुआई में ले गया, और वह रूबेनियों का प्रधान था । ७ और उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात् मुख्य तो यीएल, फिर जकर्याह । ८ और अजाज का पुत्र बेला जो शमा का पोता और योएल का परपोता था, वह अग्गेर में और नबो और बाल्मोन तक रहता था । ९ और पूर्व ओर वह उस जगल के सिवाने तक रहा जो परान महानद तक पहुँचाता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ गए थे । १० और शाऊल के दिनों में उन्हो ने हग्रियों में युद्ध किया, और हथी उनके हाथ से मारे गए; तब वे गिलाद

की सारी पूरबी अलग में अपने डेरों में रहने लगे ॥

११ गादी उनके माम्हने सल्का तक वाशान देश में रहते थे । १२ अर्थात् मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम फिर याने और शापात, ये वाशान में रहते थे । १३ और उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मीकाएल, मशुल्लाम, शंबा, योरे, याकान, जी और एबेर, सात थे । १४ ये अबीहेल के पुत्र थे, जो हूरी का पुत्र था, यह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह यशीसी का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र था । १५ इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र, और गूनी का पोता ग्रही था । १६ ये लोग वाशान में, गिलाद और उसके गांवों में, और शारोन की सब चराइयों में उसकी परली और तक रहते थे । १७ इन सभी की वशावली यहूदा के राजा योनातन के दिनों और इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई ॥

१८ रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बान्धने, तलवार चलाने, और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे चौवालीस हजार सात सौ साठ थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे । १९ इन्होंने हथियों और यतूर नापीश और नोदाव से युद्ध किया था । २० उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली, और अभी उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी थी और उस ने उनकी विनती इस कारण मुनी, कि इन्होंने उस पर भरोसा

रखा था । २१ और इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात् ऊट तो पचास हजार, भेड़-बकरी अर्धई लाख, गदहे दो हजार, और मनुष्य एक लाख बन्धुए करके ले गए । २२ और बहुत से मरे पड़े थे क्योंकि वह लडाई परमेश्वर की और में हुई । और ये उनके स्थान में बन्धुआई के समय तक बसे रहे ॥

२३ फिर मनश्शे के आधे गोत्र की सन्तान उस देश में बसे, और वे वाशान से ले बाल्हेमोन, और सनीर और हेमोन पर्वत तक फैल गए । २४ और उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात् एपेर, यिशी, एलीएल, अजीएल, यिमयाह, होदव्याह और यहदीएल, ये बडे वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे ॥

२५ और उन्होने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके माम्हने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिन की नाई हो लिए । २६ इसलिये इस्राएल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिलगत्पिलनेसेर का मन उभारा, और इन्होंने उन्हें अर्थात् रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बन्धुआ करके हलह, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुँचा दिया, और वे आज के दिन तक वही रहते हैं ॥

(लेवी की वशावली और लेवियों के वाचस्त्राज)

६ लेवी के पुत्र गेशोन, कहात और मरारी । २ और कहात के पुत्र, अन्नम, यिसहार, हेन्नोन और उज्जीएल ।

३ और अन्नाम की सन्तान हारून, मूसा और मरियम, और हारून के पुत्र, नादाब, अबीहू, एलीआजर और ईतामार । ४ एलीआजर से पीनहास, पीनहास से अबीशू । ५ अबीशू से बुक्की, बुक्की से उज्जी । ६ उज्जी से जरह्याह, जरह्याह से मरायोत । ७ मरायोत से अमर्याह, अमर्याह से अहीतूव । ८ अहीतूव से सादोक, सादोक से अहीमास । ९ अहीमास से अजर्याह, अजर्याह से योहानान । १० और योहानान से अजर्याह, उत्पन्न हुआ (जो सुलैमान के यरूशलेम में बनाए हुए भवन में याजक का काम करता था) । ११ फिर अजर्याह से अमर्याह, अमर्याह से यहीतूव । १२ यहीतूव से सादोक, सादोक से शल्लूम । १३ शल्लूम से हिलकिय्याह, हिलकिय्याह से अजर्याह । १४ अजर्याह से सरायाह, और सरायाह में यहोसादाक उत्पन्न हुआ । १५ और जब यहोवा, यहूदा और यरूशलेम को नबूकदनेस्सर के द्वारा बन्धुआ करके ले गया, तब यहोसादाक भी बन्धुआ होकर गया ।।

१६ लेवी के पुत्र गेशोम, कहात और मरारी । १७ और गेशोम के पुत्रों के नाम ये थे, अर्थात् लिब्नी और शिमी । १८ और कहात के पुत्र अन्नाम, यिसहार, हेन्नोन और उज्जीएल । १९ और मरारी के पुत्र महली और मूशी और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार लेवियों के कुल २ हुए । २० अर्थात्, गेशोम का पुत्र लिब्नी हुआ, लिब्नी का यहत, यहत का जिम्मा । २१ जिम्मा का योआह, योआह का इदो, इदो का जेरह, और जेरह का पुत्र यातर हुआ । २२ फिर

कहात का पुत्र अम्मीनादाब हुआ, अम्मीनादाब का कोरह, कोरह का अस्सीर । २३ अस्सीर का एल्काना, एल्काना का एब्बासाप, एब्बासाप का अस्सीर । २४ अस्सीर का तहत, तहत का ऊरीएल, ऊरीएल का उज्जिय्याह और उज्जिय्याह का पुत्र शाऊल हुआ । २५ फिर एल्काना के पुत्र अमास और अहीमोत । २६ एल्काना का पुत्र सोपे, सोपे का नहत । २७ नहत का एलीआब, एलीआब का यरोहाम, और यरोहाम का पुत्र एल्काना हुआ । २८ और शमूएल के पुत्र, उसका जेठा योएल * और दूसरा अविग्याह हुआ । २९ फिर मरारी का पुत्र महली, महली का लिब्नी, लिब्नी का शिमी, शिमी का उज्जा । ३० उज्जा का शिमा, शिमा का हर्गिय्याह और हर्गिय्याह का पुत्र असायाह हुआ ।।

३१ फिर जिनको दाऊद ने सन्दूक के ठिकाना पाने के बाद यहोवा के भवन में गाने के अधिकारी ठहरा दिया वे ये हैं । ३२ जब तक सुलैमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा न चुका, तब तक वे मिलापवाले तम्बू के निवास के साम्हने गाने के द्वारा सेवा करते थे, और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे । ३३ जो अपने अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे वे ये हैं, अर्थात् कहातियों में से हेमान गबैया जो योएल का पुत्र था, और योएल शमूएल का । ३४ शमूएल एल्काना का, एल्काना यरोहाम का, यरोहाम एलीएल का, एलीएल तोह का । ३५ तोह सूप का, सूप एल्काना का, एल्काना महत

* अरामी में योएल । फिर देखो पद ३३ ।

का, महत अमसी का। ३६ अमसी एल्काना का, एल्काना योएल का, योएल अजर्याह का, अजर्याह मपन्याह का। ३७ सपन्याह तहन का, तहत अस्मीर का, अस्सीर एब्बासाप का, एब्बासाप कोरह का। ३८ कोरह यिमहार का, यिमहार कहान का, कहान लेवी का और लेवी इन्नाएल का पुत्र था। ३९ और उसका भाई असाप जो उसके दाहिने खड़ा हुआ करता था वह बेरेक्याह का पुत्र था, और बेरेक्याह गिमा का। ४० शिमा मीकाएल का, मीकाएल वामेयाह का, वामेयाह मल्किय्याह का। ४१ मल्किय्याह एली का, एली जेरह का, जेरह अदायाह का। ४२ अदायाह एतान का, एतान जिम्मा का, जिम्मा गिमी का। ४३ शिमी यहन का, यहन गेशोम का, गेशोम लेवी का पुत्र था। ४४ और दाई और उनके भाई मरानी खड़े होते थे, अर्थात् एताव जो कीशी का पुत्र था, और कीशी अब्दी का, अब्दी मल्लूक का। ४५ मल्लूक हशब्याह का, हशब्याह अमुस्याह का, अमस्याह हिलकिय्याह का। ४६ हिलकिय्याह अमसी का, अमसी बानी का, बानी शेमेर का। ४७ शेमेर महली का, महली मूशी का, मूशी मरारी का, और मरारी लेवी का पुत्र था। ४८ और इनके भाई जो लेवीय थे वह परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिये अर्पण किए * हुए थे।।

४९ परन्तु हारून और उसके पुत्र होमबलि की वेदी, और घूप की वेदी दोनों पर बलिदान चढाते, और

परम पवित्रस्थान का सब काम करते, और इन्नाएलियों के लिये प्रायश्चित्त करते थे, जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाए दी थी। ५० और हारून के वंश में ये हुए, अर्थात् उसका पुत्र एलीआजर हुआ, -और एलीआजर का पीनहास, पीनहास का अबीशू। ५१ अबीशू का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जरह्याह। ५२ जरह्याह का मरायोत मरायोत का अमर्याह, अमर्याह का अहीतूब। ५३ अहीतूब का सादोक और सादोक का अहीमाम पुत्र हुआ।।

५४ और उनके भागों में उनकी छावनियों के अनुसार उनकी वस्तियायें हैं, अर्थात् कहात के कुलों में से पहिली चिट्ठी जो हारून की मन्तान के नाब पर निकली। ५५ अर्थात् चागे और की चराइयो समेत यहूदा देश का हेब्रोन उन्हें मिला। ५६ परन्तु उम नगर के खेत और गाव यपुन्न के पुत्र कानेव को दिए गए। ५७ और हारून की मन्तान को शरगनगर हेब्रोन, और चराइयो समेत लिब्ना, ५८ और यत्तीर और अपनी अपनी चराइयो समेत एशतमों। हीलेन, दबीर। ५९ आशान और बेतशेमेश। ६० और विन्यामीन के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयो समेत गेबा, अल्लेमेत और अनातोत दिए गए। उनके घरानों के सब नगर तेरह थे।

६१ और शेष कहातियों के गोत्र के कुल, अर्थात् मनश्शे के आधे गोत्र में से चिट्ठी डालकर दस नगर दिए गए। ६२ और गेशोमियों के कुलों के अनुसार उन्हें इस्साकार, आशेर और नप्ताली के गोत्र, और बाशान में रहनेवाले मनश्शे के गोत्र में से तेरह नगर मिले। ६३ तरारियों

* मूल में—दिए।

के कुलो के अनुमार उन्हें रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों में से चिट्ठी डालकर बारह नगर दिए गए। ६४ और इन्ना-एलियो ने लेवियो को ये नगर चराइयों समेत दिए। ६५ और उन्हो ने यहूदियो, शिमोनियो और बिन्यामीनियो के गोत्रो में से वे नगर दिए, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं।।

६६ और कहातियो के कई कुलो को उनके भाग के नगर एप्रैम के गोत्र में से मिले। ६७ सो उनको अपनी अपनी चराइयो समेत एप्रैम के पहाडी देश का शकेम जो शरगनगर था, फिर गेजेर। ६८ योकमाम, वेथोरोन। ६९ अय्यालोन और गत्रिम्मोन। ७० और मनश्शे के आधे गोत्र में से अपनी अपनी चराइयो समेत आनेर और बिलाम शेष कहातियो के कुल को मिले। ७१ फिर गेशोमियो को मनश्शे के आधे गोत्र के कुल में से तो अपनी अपनी चराइयो समेत बाशान का गोलान और अशतारोत। ७२ और इस्साकार के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयो समेत केदेश, दाबरात। ७३ रामोत और आनेम, ७४ और आशेर के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयो समेत माशाल, अब्दोन। ७५ हुकोक और रहोब। ७६ और नप्ताली के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयो समेत गालील का केदेश हम्मोन और किर्यातैम मिले। ७७ फिर शेष लेवियो अर्थात् मरारियों को जबूलून के गोत्र में से तो अपनी अपनी चराइयो समेत शिम्मोन और ताबोर। ७८ और यरीहो के पास की यरदन नदी की पूर्व और रूबेन के गोत्र में से तो अपनी अपनी चराइयो समेत जंगल का बेसेर, यहसा। ७९ कदेमोत और मेपाता।

८० और गाद के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयो समेत गिलाद का रामोत महनैम, ८१ हेसोबोन और याजेर दिए गए।।

(इस्साकार, बिन्यामोन, मन्नासौ, मनश्शे, एप्रैम और आशेर की वंशावलिधां)

७ इस्साकार के पुत्र तोला, पूआ, याशूब और शिमोन, चार थे। २ और तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, यरीएल, यहमै, यिवमाम और शमूएल, ये अपने अपने पितरो के घरानो अर्थात् तोला की सन्तान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और दाऊद के दिनो में उनके वंश की गिनती बाईस हजार छ सौ थी। ३ और उज्जी का पुत्र यिज्रह्याह, और यिज्रह्याह के पुत्र मीकाएल, अब्दद्याह, योगल और यिदिशय्याह पाच थे, ये सब मुख्य पुरुष थे। ४ और उनके साथ उनकी वंशावलियो और पितरो के घरानो के अनुमार मेना के दलों के छत्तीस हजार योद्धा थे, क्योंकि उनके बहुत स्त्रिया और पुत्र थे। ५ और उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलो में से थे, वे मत्तासी हजार बड़े वीर थे, जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए।।

६ बिन्यामीन के पुत्र . बेला, बेकेर और यदीएल ये तीन थे। ७ बेला के पुत्र एमबोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और ईरी ये पाच थे। ये अपने अपने पितरो के घरानो के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती बाईस हजार चौत्तीस थी। ८ और बेकेर के पुत्र : जमीरा, योआश, एलीएजेर, एल्योएनै, ओझी, यरे-मोत, अब्बिय्याह, अनातोत और आलेमेत

ये सब बंकेर के पुत्र थे। ६ ये जो अपने अपने पितरो के घरानो के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश की गिनती अपनी अपनी वंशावली के अनुसार बीस हजार दो सौ थी। १० और यदीएल का पुत्र बिल्हान, और बिल्हान के पुत्र, यूश, बिन्यामीन, एहूद, कनाना, जेतान, तर्शीश और अहीशहर थे। ११ ये सब जो यदीएल की सन्तान और अपने अपने पितरो के घरानो में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य सत्रह हजार दो सौ पुरुष थे। १२ और ईर के पुत्र शुप्पीम और हुप्पीम और अहेर के पुत्र हूशी थे ॥

१३ नप्ताली के पुत्र, एहसीएल, गूनी, येसेर और शल्लूम थे, ये बिल्हा के पोते थे ॥

१४ मनश्शे के पुत्र, अन्नीएल जो उसकी अरामी रखेली स्त्री से उत्पन्न हुआ था, और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया। १५ और माकीर (जिसकी बहिन का नाम माका था) उस ने हुप्पीम और शुप्पीम के लिये स्त्रिया व्याह ली, और दूसरे का नाम सलोफाद था, और सलोफाद के बेटिया हुईं। १६ फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम परेश रखा, और उसके भाई का नाम शेरेश था, और इसके पुत्र ऊलाम और राकेम थे। १७ और ऊलाम का पुत्र वदान। ये गिलाद की सन्तान थे जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था। १८ फिर उसकी बहिन हम्मोलेकेत ने ईशहोद, अबीएजेर और महला को जन्म दिया। १९ और शमीदा के पुत्र अह्यान, शेकेम, लिखी और अनीआम थे।

२० और एग्रैम के पुत्र शूतेलह और शूतेलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एलादा, एलादा का तहत। २१ तहत का जाबाद और जाबाद का पुत्र शूतेलह हुआ, और येजेर और एलाद भी जिन्हे गत के मनुष्यो ने जो उम देश में उत्पन्न हुए थे इसलिये घात किया, कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे। २२ सो उनका पिता एग्रैम उनके लिये बहुत दिन शोक करता रहा, और उसके भाई उमे शांति देने को आए। २३ और वह अपनी पत्नी के पास गया, और उस ने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया और एग्रैम ने उसका नाम इस कारण बरीआ * रखा, कि उसके घराने में विपत्ति पडी थी। (२४ और उसकी पुत्री शेरा थी, जिस ने निचले और ऊपरवाले दोनों बेथोरान नाम नगरों को और उज्जेनशेरा को दूढ कराया।) २५ और उसका पुत्र रेपा था, और रेशेप भी, और उसका पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लादान, २६ लादान का अम्मीहूद, अम्मीहूद का एलीशामा। २७ एलीशामा का नून, और नून का पुत्र यहोशू था। २८ और उनकी निज भूमि और बस्तिया गावों समेत बतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गावोसमेत गेजेर, फिर गावो समेत शेकेम, और गावो समेत अज्जा थी। २९ और मनश्शेइयो के सिवाने के पास अपने अपने गावो समेत बेशान, तानाक, मगिहो और दोर। इन में इस्राएल के पुत्र युसुफ की सन्तान के लोग रहते थे ॥

३० आशेर के पुत्र, यिम्ना, यिश्वा, यिश्वी और बरीआ, और उनकी बहिन

* अर्थात् विपत्ति।

सेरह हुई। ३१ और बरीआ के पुत्र, हेबेर और मल्कीएल और यह बिर्जोत का पिता हुआ। ३२ और हेबेर ने यपलेत, शोमेर, होताम और उनकी बहिन शूआ को जन्म दिया। ३३ और यपलेत के पुत्र पासक बिम्हाल और अशवात। यपलेत के ये ही पुत्र थे। ३४ और शोमेर के पुत्र, अही, रोहगा, यहुब्बा और अराम थे। ३५ और उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपह, यिम्ना, शोलेश और आमाल थे। ३६ और सोपह के पुत्र, मूह, हर्नेपेर, शूआल, बेरी, इम्ना। ३७ बेमेर, होद, शम्मा, शिलसा, यित्रान और बेग थे। ३८ और येतेर के पुत्र, यपुले, पिस्पा और अरा। ३९ और उल्ला के पुत्र, आरह, हन्नीएल और रिस्या। ४० ये सब आशेर के वंश में हुए, और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े से बड़े वीर थे और प्रधानों में मुख्य थे। और ये जो अपनी अपनी वशावली के अनुसार मेना में युद्ध करने के लिये गिने गए, इनकी गिनती छब्बीस हजार थी ॥

(बिन्यामीन की वंशावली)

बिन्यामीन में उसका जेठा बेला, दूसरा अशबेल, तीसरा अहह, २ चौथा नोहा और पाचवा रापा उत्पन्न हुआ। ३ और बेला के पुत्र, अहार, गेरा, अबीहूद। ४ अबीगु, नामान, अहोह, ५ गेग, शूपान और हूराम थे। ६ और एहूद के पुत्र ये हुए (गेवा के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष ये थे, जिन्हें बन्धुआई में मानहत को ले गए थे)। ७ और नामान, अहिय्याह और गेरा (इन्हें भी बन्धुआ करके मानहत को ले गए थे), और

उसने उज्जा और अहिलूद को जन्म दिया। ८ और शहरम से हूशीम और बारा नाम अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मोआब देश में लडके उत्पन्न हुए। ९ और उसकी अपनी स्त्री होदेश में योआब, सिब्या, मेशा, मल्काम, यूम, सोक्या, १० और मिर्मा उत्पन्न हुए उसके ये पुत्र अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ११ और हूशीम से अबीतूब और एल्पाल का जन्म हुआ। १२ एल्पाल के पुत्र एबर, मिशाम और शोमेर, इसी ने मोनों और गावों समेत लोद को बसाया। १३ फिर बरीआ और शेमा जो अय्यालोन के निवासियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे, और जिन्होंने गत के निवासियों को भगा दिया। १४ और अहो, शासक, यरमोत। १५ जबद्याह, अराद, एदेर। १६ मीकाएल, यिस्पा, योहा, जो बरीआ के पुत्र थे। १७ जबद्याह, मशुलाम, हिजकी, हेबर। १८ यिशमर, यिजलीआ, योबाब, जो एल्पाल के पुत्र थे। १९ और याकीम, जिक्की, जब्दी। २० एलीएन, सिल्लत, एलीएल। २१ अदायाह, बरायाह और शिम्रात जो गिमी के पुत्र थे। २२ और यिशपान, यबेर, एलीएल। २३ अब्दोन, जिक्की, हानान। २४ हनन्याह, एलाम, अन्नोनियाह। २५ यिपदयाह और पनूएल जो शाशक के पुत्र थे। २६ और शमशर, शहर्याह, अतल्याह। २७ योरे-श्याह, एलियाह और जिक्की जो यरोहाम के पुत्र थे। २८ ये अपनी अपनी पीढ़ी में अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और प्रधान थे, ये यरूशलेम में रहते थे ॥

२६ और गिबोन में गिबोन का पिता रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था । ३० और उसका जेठा पुत्र अब्दोन था, फिर शूर, कीश, बाल, नादाब । ३१ गदोर, अहो और जेकेर हुए । ३२ और मिकोन से शिमा उत्पन्न हुआ । और ये भी अपने भाइयों के साम्हने यरूशलेम में रहते थे, अपने भाइयों ही के साथ । ३३ और नेर से कीश उत्पन्न हुआ, कीश से शाऊल, और शाऊल में योनातान, मलकीश, अबीनादाब, और एशबाल उत्पन्न हुआ । ३४ और योनातान का पुत्र मरीब्बाल हुआ, और मरीब्बाल में मीका उत्पन्न हुआ । ३५ और मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तारे और आहाज । ३६ और आहाज से यहोअदा उत्पन्न हुआ । और यहोअदा से आलेमेन, अजमाबेत और जिअी, और जिअी से मोसा । ३७ मोसा से बिना उत्पन्न हुआ । और इसका पुत्र रापा हुआ, रापा का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ । ३८ और आसेल के छः पुत्र हुए जिनके ये नाम थे, अर्थात् अखीकाम, बोकह, यिश्माएल, शार्याह, ओबद्याह, और हानान । ये ही सब आसेल के पुत्र थे । ३९ और उसके भाई एशेक के ये पुत्र हुए, अर्थात् उसका जेठा ऊलाम, दूसरा यूशा, तीसरा एलीपेलेत । ४० और ऊलाम के पुत्र शूरबीर और धनुर्धारी हुए, और उनके बहुत बेटे-पोते अर्थात् डेढ़ सौ हुए । ये ही सब बिन्यामीन के वंश के थे ॥

(यरूशलेम में रहनेवालों का प्रबन्ध)

६ इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार, जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक

में लिखी है, गिने गए । और यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बन्धुआई में बाबुल को पहुँचाए गए । २ जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात् अपने नगरों में रहते थे, वह इस्राएली, याजक, लेवीय और -नतीन थे । ३ और यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीन, और कुछ एग्प्टी, और मनश्शेई, रहते थे ४ अर्थात् यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र ऊतै, जो ओअी का पुत्र, और इअी का पोता, और वानी का परपोता था । ५ और शीलोइयो में से उसका जेठा पुत्र असायाह और उसके पुत्र । ६ और जेरह के वंश में से यूएल, और इनके भाई, ये छः सौ नब्बे हुए । ७ फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र, होदब्याह का पोता, और हस्सनूआ का परपोता था । ८ और यिन्निय्याह जो यरोहाम का पुत्र था, और एला जो उज्जी का पुत्र, और मिक्री का पोता था, और मशुल्लाम जो शपत्याह का पुत्र, रूएल का पोता, और यिन्निय्याह का परपोता था, ९ और इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर नौ सौ छप्पन । ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य थे ॥

१० और याजकों में से यदायाह, यहोयारीब और याकीन, ११ और अजर्याह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिलकिय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था । १२ और अदायाह जो यरोहाम का पुत्र था, यह पशहूर का पुत्र, यह मत्कियाह का पुत्र, यह मासै का पुत्र, यह अदोएल

का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह मशिल्लीत का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था । १३ और इनके भाई थे, जो अपने अपने पितरों के घरानों में मत्रह सौ साठ मुख्य पुरुष थे, वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे ॥

१४ फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमायाह जो हश्शूव का पुत्र, अज्जीकाम का पोता, और हशब्ब्याह का परपोता था । १५ और बकवक्कर, हेरेश और गालाल और आसाप के वंश में से मत्तन्याह जो मीका का पुत्र, और जिक्की का पोता था । १६ और अब्दयाह जो शमायाह का पुत्र, गालाल का पोता और यदून का परपोता था, और बेरेक्याह जो आसा का पुत्र, और एल्काना का पोता था, जो नतोपाइयो के गावों में रहता था ॥

१७ और द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लूम, अक्कूव, तल्मोन और अहीमान, इन में से मुख्य तो शल्लूम था । १८ और वह अब तक पूर्व और राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था । लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे । १९ और शल्लूम जो कोरे का पुत्र, अब्यासाप का पोता, और कोरह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूलपुरुष के घराने के अर्थात् कोरही थे, वह इस काम के अधिकारी थे, कि वे तम्बू के द्वारपाल हो । उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी, और पंठाव के रखवाले थे । २० और अगले समय में एलीआज़र का पुत्र पीनहास जिसके सग यहोवा रहता था वह उनका प्रधान था । २१ मेशेलेम्याह का पुत्र जकर्याह मिलापवाले तम्बू का द्वारपाल था । २२ ये सब जो द्वारपाल होने को

चुने गए, वह दो सौ बारह थे । ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल वंशी ने विश्वासयोग्य जानकर ठहराया था, वह अपने अपने गांव में अपनी अपनी बग़ावली के अनुसार गिने गए । २३ सो वे और उनकी मन्तान यहोवा के भवन अर्थात् तम्बू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे । २४ द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्खिन, चारों दिशा की ओर चौकी देते थे । २५ और उनके भाई जो गावों में रहते थे, उनको सात मात दिन के बाद बारी बारी से उनके मग रहने के लिये आना पड़ता था । २६ क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे विश्वासयोग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियों और भण्डारों के अधिकारी ठहराए गए थे । २७ और वे परमेश्वर के भवन के आस-पास इसलिये रात बिताते थे, कि उसकी रक्षा उन्हें सौपी गई थी, और भोर-भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था ॥

२८ और उन में से कुछ उपामना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये गिनकर भीतर पहुँचाए, और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे । २९ और उन में से कुछ सामान के, और पवित्रस्थान के पात्रों के, और मंदे, दाखमधु, तेल, लोबान और मुगन्धद्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे । ३० और याजकों के पुत्रों में से कुछ मुगन्धद्रव्यों में गंधी का काम करते थे । ३१ और मतित्याह नाम एक लेवीय जो कोरही शल्लूम का जेठा था उसे विश्वासयोग्य जानकर तबों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया था । ३२ और उसके भाइयों अर्थात् कहलितियों में से कुछ तो भेटवाली रोटी के अधिकारी

थे, कि हर एक विश्रामदिन को उसे तैयार किया करे ॥

३३ और ये गर्बये थे जो लंबीय पितरो के घरानो में मुख्य थे, और कोठरियो में रहते, और और काम में छूटे थे, क्योंकि वे रात-दिन अपने काम में लगे रहते थे । ३४ ये ही अपनी अपनी पीढी में लेवियो के पितरो के घरानो में मुख्य पुरुष थे, ये यरूशलेम में रहते थे ॥

३५ और गिबोन में गिबोन का पिता यीएल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था । ३६ उसका जेठा पुत्र अब्दोन हुआ, फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब । ३७ गदोर, अह्यो, जकयाह और मिल्कोत । ३८ और मिल्कोत से शिमाम उत्पन्न हुआ और ये भी अपने भाइयो के साम्हने अपने भाइयों के सग यरूशलेम में रहते थे । ३९ और नेर से कीश, कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातान, मल्कीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए । ४० और योनातान का पुत्र मरी-ब्वाल हुआ, और मरीब्वाल से मीका उत्पन्न हुआ । ४१ और मीका के पुत्र पीतोन, मेलेक, तहे * और अहाज थे । ४२ और अहाज से यारा और यारा से आलेमेत, अजमावेत और जिम्नी, और जिम्नी से मोसा । ४३ और मोसा से बिना उत्पन्न हुआ और बिना का पुत्र रपायाह हुआ, रपायाह का एलासा, और एलासा का पुत्र आसेल हुआ । ४४ और आसेल के छ. पुत्र हुए जिनके ये नाम थे, अर्थात् अष्कीकाम, बोकूरू, यिशमाएल, शार्याह, ओबद्याह और हनान, आसेल के ये ही पुत्र हुए ॥

* देखो ८ : ३५ ।

(शाऊल को मृत्यु और दावद के राज्य का चारण)

१० पलिशती इस्राएलियो से लडे; और इस्राएली पलिशतियो के साम्हने में भागे, और गिलबो नाम पहाड-पर मारे गए । २ और पलिशती शाऊल और उसके पुत्रो के पीछे लगे रहे, और पलिशतियो ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मल्कीश को मार डाला । ३ और शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियो ने उसे जा लिया, और वह उनके कारण व्याकुल हो गया । ४ तब शाऊल ने अपने हथियार ढोनेवाले से कहा, अपनी तलवार खीचकर मुझें भोक दे, कही ऐसा न हो कि वे खतनारहित लोग आकर मेरी ठट्टा करे, परन्तु उसके हथियार ढोनेवाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया, तब शाऊल अपनी तलवार खडी करके उस पर गिर पडा । ५ यह देखकर कि शाऊल मर गया है उसका हथियार ढोनेवाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया । ६ यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र, और उसके घराने के सब लोग एक सग मर गए । ७ यह देखकर कि वे भाग गए, और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहनेवाले सब इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोडकर भाग गए, और पलिशती आकर उन में रहने लगे ॥

८ दूसरे दिन जब पलिशती मारे हुआ के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड पर पडे हुए मिले । ९ तब उन्हो ने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और

हथियार ले लिया और पलिशियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इमलिये भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए।

१० तब उन्होंने ने उसके हथियार अपने देवालय में रखे, और उसकी खोपड़ी को दागोन के मन्दिर में लटका दिया। ११ जब गिलाद के यावेश के सब लोगो ने सुना कि पलिशियों ने शाऊल से क्या क्या किया है। १२ तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों की लोथे उठाकर यावेश में ले आए, और उनकी हड्डियों को यावेश में एक बाज वृक्ष के तले गाड़ दिया और सात दिन तक अनशन किया ॥

१३ यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया, जो उस ने यहोवा से किया था, क्योंकि उस ने यहोवा का वचन टाल दिया था, फिर उस ने भूतसिद्धि करनेवाली से पूछकर सम्मति ली थी। १४ उस ने यहोवा से न पूछा था, इमलिये यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिश्ई के पुत्र दाऊद को दे दिया ॥

११ तब सब इस्राएली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। २ अगले दिनों में जब शाऊल राजा था, तब भी इस्राएलियों का भ्रगुआ तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझ से कहा, कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा, और मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान, तू ही होगा। ३ इसलिये सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के साम्हने वाचा

बान्धी; और उन्हो ने यहोवा के वचन के अनुसार, जो उस ने शमूएल से कहा था, इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद का अभिषेक किया ॥

४ तब सब इस्राएलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया, जो यबूस भी कहलाता था, और वहां यबूसी नाम उस देश के निवासी रहते थे। ५ तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहां आने नहीं पाएगा। तौभी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। ६ और दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मर से पहिले मारेगा, वह मुख्य सेनापति होगा, तब सरूयाह का पुत्र योआब सब से पहिले चढ गया, और सेनापति बन गया। ७ और दाऊद उम गढ में रहने लगा, इसलिये उसका नाम दाऊदपुर पडा। ८ और उस ने नगर के चारो ओर, अर्थात् मिल्लो से लेकर चारो ओर शहरपनाह बनवाई, और योआब ने शेष नगर के खण्डहरो को फिर बसाया*। ९ और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके सग था ॥

(दाऊद के शूरवीर)

१० यहोवा ने इस्राएल के विषय जो वचन कहा था, उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरो ने सब इस्राएलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर, उसे राजा बनाने को जोर दिया, उन में से मुख्य पुरुष ये हैं। ११ दाऊद के शूरवीरो की नामावली † यह है, अर्थात् किसी हक्मोनी का पुत्र याशोबाम जो

* मूल में—बाकी नगर जिलाता था।

† मूल में—गिनती।

तीसों में मुख्य था, उस ने तीन सौ पुरुषों पर भाला चला कर, उन्हें एक ही समय में मार डाला। १२ उसके बाद अहोही दोदो का पुत्र एलीआज़र जो तीनों महान बीरों में से एक था। १३ वह पसदम्मीम में जहा जब का एक खेत था, दाऊद के संग रहा जब पलिशती वहा युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे, और लोग पलिशतियों के साम्हने में भाग गए। १४ तब उन्हो ने उम खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की, और पलिशतियों को मारा, और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया।।

१५ और तीसो मुख्य पुरुषो में से तीन दाऊद के पास चट्टान की, अर्थात् अदुल्लाम नाम गुफा में गए, और पलिशतियों की छावनी रपाईम नाम तराई में पडी हुई थी। १६ उस समय दाऊद गढ में था, और उस समय पलिशतियों की एक चौकी बेतलेहेम में थी। १७ तब दाऊद ने बडी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलेहेम के फाटक के पास के कुए का पानी पिलाएगा। १८ तब वे तीनों जन पलिशतियों की छावनी में टूट पडे और बेतलेहेम के फाटक के कुए में पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परन्तु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के साम्हने अर्घ करके उरडेला। १९ और उस ने कहा, मेरा परमेश्वर मुझ से ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्यों का लोहू पीऊँ जिन्हो ने अपने प्राणों पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं। इसलिये उस ने वह पानी पीने से इनकार किया। इन तीन बीरो ने ये ही काम किए।।

२० और अबीशै जो योआब का भाई था, वह तीनों में मुख्य था। और उस ने अपना भाला चलाकर तीन सौ को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। २१ दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था, और उनका प्रधान हो गया, परन्तु मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा।।

२२ यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कबजेल के एक वीर का पुत्र था, जिस ने बड़े बड़े काम किए थे, उस ने सिंह समान दो मोआबियों को मार डाला, और हिमऋतु* में उम ने एक गडहे में उतर के एक सिंह को मार डाला। २३ फिर उम ने एक डीलवाले अर्थात् पांच हाथ लम्बे मिन्नी पुरुष को मार डाला, वह मिन्नी हाथ में जुलाहो का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परन्तु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उमके पास गया, और मिन्नी के हाथ से भाले को छीनकर उमी के भाले में उमे घात किया। २४ ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरो में नामी हो गया। २५ वह तो तीसो से अधिक प्रतिष्ठित था, परन्तु मुख्य तीनों के पद को न पहुँचा। उसको दाऊद ने अपनी निज मभा में सभासद किया।।

२६ फिर दलो के वीर ये थे, अर्थात् योआब का भाई असाहेल, बेतलेहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान। २७ हरोरी शम्मोत, पलोनी हेलेस। २८ तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोती अबीएजर। २९ सिब्बके होसाती, अहोही ईलै। ३० महरे नतोपाई, एक और नतोपाई

* हिमऋतु वा बर्फाला मौसम।

बाना का पुत्र हेलेद । ३१ बिन्यामीनियों के गिबा नगरवासी रीबे का पुत्र इतै, पिरातोनी बनायाह । ३२ गाशके नालो के पास रहनेवाला हरै, अराबावासी अबीएल । ३३ बहूरीमी अजमावेत, शल्बोनी एल्यहबा । ३४ गीजोई हाशेम के पुत्र, फिर हरारी शागे का पुत्र योनानान । ३५ हरारी मकार का पुत्र अहीआम, ऊर का पुत्र एलीपाल । ३६ मकेराई हेपेर, पलोनी अहिय्याह । ३७ कर्मेली हेमो, एज्वं का पुत्र नारै । ३८ नातान का भाई योएल, हप्ती का पुत्र मिभार । ३९ अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरै जो सरूयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोनेवाला था । ४० येनेरी ईरा और गावेव । ४१ हित्ती ऊरय्याह, अहलै का पुत्र जावाद । ४२ तीस पुरुषो समेत रूबेनी शीजा का पुत्र अदीना जो रूबेनियों का मुखिया था । ४३ माका का पुत्र हानान, मेतेनी योशापात । ४४ अशतागेती उज्जय्याह, अरोएरी होताम के पुत्र शामा और यीएल । ४५ शिम्री का पुत्र यदीएल और उसका भाई तीसी, योहा । ४६ महवीमी एलीएल, एलनाम के पुत्र यरीबै और योशव्याह, ४७ मोआबी यित्मा, एलीएल, ओबेद और मसोबाई यासीएल ॥

(दाऊद के अनुचर)

१२

जब दाऊद सिकलग में कींग के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा * रहता था, तब ये उसके पाम वहा आए, और ये उन बीरो में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे । २ ये धनुर्धारी थे, जो दाहिने-बायें, दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष के तीर

* मूल में—बन्द ।

चला सकते थे; और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे । ३ मुख्य तो अही-एजेर और दूसरा योआज था जो गिबा-वासी शमाआ का पुत्र था, फिर अजमावेत के पुत्र यजीएल और पेलेत, फिर बराका और अनातोती येह । ४ और गिबोनी यिशमायाह जो नीसो में से एक बीर और उनके ऊपर भी था; फिर यिमंयाह, यहजीएल, योहानान, गदेरावासी योजा-बाद । ५ एलजै, यरीमोत, बाल्याह, शमर्याह, हारूपी शपत्याह । ६ एल्काना, यिशिय्याह, अजगेल. योएजेर, याशोबाम, जो सब कोरहवशी थे । ७ और गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योएला और जबद्याह ॥

८ फिर जब दाऊद जंगल के गढ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे, और युद्ध विद्या मीखे हुए और ढाल और भाला काम में लानेवाने थे, और उनके मूढ़ मिह के में और वे पहाडी मृग के समान वेग से दौडनेवाले थे, ये और गादियों में अलग होकर उनके पास आए । ९ अर्थात् मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, तीसरा एलीआब । १० चौथा मिश्मन्ना, पाचवा यिमंयाह । ११ छठा अर्त्तै, सातवा एनीएल । १२ आठवा योहानान, नौवा एलजाबाद । १३ दमवा यिमंयाह और ग्यारहवा मकबन्नै था । १४ ये गादी मुख्य योद्धा थे, उन में से जो सब से छोटा था वह तो एक सौ के ऊपर, और जो सब से बड़ा था, वह हजार के ऊपर था । १५ ये ही वे हैं, जो पहिले महीने में जब यरदन नदी सब कडाडो के ऊपर ऊपर बहती थी, तब उसके पार उतरे, और पूर्व और

पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के रहनेवालों को भगा दिया ॥

१६ और कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ में आए। १७ उन में मिलने को दाऊद निकला और उन में कहा, यदि तुम मेरे पाम मित्रभाव में मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मेरा मन तुम में लगा रहेगा, परन्तु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटें, क्योंकि मेरे हाथ में कोई उपद्रव नहीं हुआ। १८ अब आत्मा अमास में समाया, जो तीसो वीरों में मुख्य था, और उस ने कहा, हे दाऊद ! हम तेरे हैं, हे यिशा के पुत्र ! हम तेरी ओर के हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिये दाऊद ने उनको रख लिया, और अपने दल के मुखिये ठहरा दिए ॥

१९ फिर कुछ मनश्शेई भी उस समय दाऊद के पास भाग गए, जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परन्तु उसकी कुछ सहायता न की, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया, कि वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। २० जब वह सिकलग को जा रहा था, तब ये मनश्शेई उसके पास भाग गए, अर्थात् अदना, योजाबाद, यदीएल, भीकाएल, योजाबाद, एलीहू और सिल्लत जो मनश्शे के हजारों के मुखिये थे। २१ इन्हो ने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे, और सेना के

प्रधान भी बन गए। २२ वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पाम आते रहे, यहां तक कि परमेश्वर की मेना के ममान एक बड़ी सेना बन गई ॥

२३ फिर लोग लड़ने के लिये हथियार बान्धे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिये आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे उनके मुखियों की गिनती यह है। २४ यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए छ हजार आठ सौ हथियारबन्ध लड़ने को आए। २५ शिमोनी मात हजार एक सौ तैयार शूरवीर लड़ने को आए। २६ लेवीय चार हजार छ सौ आए। २७ और हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था, और उसके साथ तीन हजार सात सौ आए। २८ और सादोक नाम एक जवान वीर भी आया, और उसके पिता के घराने के बाईस प्रधान आए। २९ और शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से तीन हजार आए क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते रहे। ३० फिर एप्रैमियों में से बडे वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष बीस हजार आठ सौ आए। ३१ और मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिये अठारह हजार आए, जिनके नाम बताए गए थे। ३२ और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे, कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान दो सौ थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। ३३ फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाति बान्धनेवाले योद्धा

पचास हजार आए, वे पाति बान्धनेवाले थे. और चंचल न थे*। ३४ फिर नप्ताली में मे प्रधान तो एक हजार, और उनके सग ढाल और भाला लिए सैंतीस हजार आए। ३५ और दानियो में से लडने के लिये पाति बान्धनेवाले अठारह हजार छ सौ आए। ३६ और आशेर में से लडने को पाति बान्धनेवाले चालीस हजार योद्धा आए। ३७ और यरदन पार रहनेवाले रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रियो में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए एक लाख बीस हजार आए। ३८ ये सब युद्ध के लिये पाति बान्धनेवाले दाऊद को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिये हेब्रोन में सच्चे मन में आए, और और सब इस्राएली भी दाऊद को राजा बनाने के लिये सहमत थे। ३९ और वे वहा तीन दिन दाऊद के सग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिये तैयारी की थी। ४० और जो उनके निकट वरन इस्साकार, जबूलन और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गदहों, ऊटो, खच्चरो और बैलों पर मैदा, अजीरों और किशमिश की टिकिया, दाखमघु और तेल आदि भोजनवस्तु लादकर आए, और बैल और भेड़-बकरिया बहुतायत से आए, क्योंकि इस्राएल में आनन्द मनाया जा रहा था ॥

(पवित्र सन्दूक के यक्षत्रलेख में पञ्चाश
जाने का वर्षान)

१३ और दाऊद ने सहस्रपतियो, शतपतियो और सब प्रधानो से सम्मति ली। २ तब दाऊद ने इस्राएल की मारी मण्डली ने कहा, यदि यह

* मूल में—अन और मन के बिना।

तुम को अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो. तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवीय अपने अपने चराईवाले नगरो में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजे कि हमारे पास इकट्टे हो जाओ। ३ और हम अपने परमेश्वर के सन्दूक को अपने यहा ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। ४ और समस्त मण्डली ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई ॥

५ तब दाऊद ने मिस्र के शीहोर से ले हमत की घाटी तक के सब इस्राएलियो को इसलिये इकट्टा किया, कि परमेश्वर के सन्दूक को किर्यंत्यारीम से ले आए। ६ तब दाऊद सब इस्राएलियो को सग लेकर बाला को गया, जो किर्यंत्यारीम भी कहलाता और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का सन्दूक वहां से ले आए, वह तो कर्बो पर विराजनेवाला है, और उसका नाम भी यही लिया जाता है। ७ तब उन्हो ने परमेश्वर का सन्दूक एक नई गाडी पर चढ़ाकर, अबीनादाब के घर से निकाला, और उज्जा और अर्या उस गाडी को हांकने लगे। ८ और दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के साम्हने तन मन से गीत गाने और वीणा, सारंगी, डफ, भ्रांरु और तुरहियां बजाते थे ॥

९ जब वे कीदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ सन्दूक धामने को बढाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। १० तब यहोवा का कोप

उज्जा पर भड़क उठा; और उस ने उस को मारा क्योंकि उस ने सन्दूक पर हाथ लगाया था; वह वही परमेश्वर के साम्हने मर गया। ११ तब दाऊद अग्रसन्न हुआ, इसलिये कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था; और उस ने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा * रखा, यह नाम आज तक बना है। १२ और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के सन्दूक को अपने यहा कैसे ले आऊँ ? १३ तब दाऊद ने सन्दूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परन्तु ओबेदेदोम नाम गती के यहा ले गया। १४ और परमेश्वर का सन्दूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास तीन महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी ॥

१४

और सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत भेजे, और उसका भवन बनाने को देवदार की लकड़ी और राज और बढई भेजे। २ और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के निमित्त उसका राज्य अत्यन्त बढ गया था ॥

३ और यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रिया ब्याह ली, और उन से और बेटे-बेटियां उत्पन्न हुईं। ४ उनके जो सन्तान यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उनके नाम ये हैं अर्थात् शम्मू, शोबाब, नातान, मुलमान; ५ यिभार, एलीशू, एलपेलेत; ६ नोगह, नेपेग, यापी, एलीशामा, ७ बेत्यादा और एलीपेलेद ॥

* अर्थात् सज्जा पर टूट पड़ना ।

८ जब पलिस्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिये दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढाई की, यह सुनकर दाऊद उनका साम्हना करने को निकल गया। ९ और पलिस्ती आए और रपाईम नाम तराई में धावा मारा। १० तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढाई करूँ ? और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा ? यहोवा ने उम में कहा, चढाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। ११ इसलिये जब वे बालपरांमीम को आए, तब दाऊद ने उन को वही पार लिया, तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बालपरांमीम * रखा गया। १२ वहा वे अपने देवताओं को छोड़ गए, और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूक दिए गए ॥

१३ फिर दूसरी बार पलिस्तियों ने उसी तराई में धावा मारा। १४ तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, और परमेश्वर ने उस से कहा, उनका पीछा मत कर, उन में मुडकर तूत के वृक्षों के साम्हने से उन पर छापा मार। १५ और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिस्तियों की सेना को मारने के लिये तेरे आगे जा रहा है। १६ परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया, और इस्राएलियों

* अर्थात् टूट पड़ने का स्थान ।

ने पलिशितयो की मेना को गिबोन मे लेकर गेजेर तक मार लिया। १७ तब दाऊद की कीर्ति सब देशो मे फैल गई, और यहोवा ने सब जातियो के मन में उसका भय भर दिया ॥

१५ तब दाऊद ने दाऊदपुर मे भवन बनवाए, और परमेश्वर के सन्दूक के लिये एक स्थान तैयार करके एक तम्बू खडा किया। २ तब दाऊद ने कहा, लेवियो को छोड और किसी को परमेश्वर का सन्दूक उठाना नही चाहिये, क्योंकि यहोवा ने उनको इसी लिये चुना है कि वे परमेश्वर का सन्दूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। ३ तब दाऊद ने सब इस्राएलियो को यरूशलेम मे इसलिये इकट्ठा किया कि यहोवा का सन्दूक उस स्थान पर पहुचाए, जिसे उस ने उसके लिये तैयार किया था। ४ इसलिये दाऊद ने हारून के सन्तानो और लेवियो को इकट्ठा किया ५ अर्थात् कहातियो मे से ऊरीएल नाम प्रधान को और उसके एक सौ बीस भाइयों को, ६ मरारियो मे से अमायाह नाम प्रधान को और उसके दो सौ बीस भाइयो को, ७ गेशोमियो मे से योएल नाम प्रधान को और उसके एक सौ तीस भाइयो को, ८ एनीसापानियो मे से शमायाह नाम प्रधान को और उसके दो सौ भाइयो को, ९ हेन्नोनियो मे से एलीएल नाम प्रधान को और उसके अस्सी भाइयो को, १० और उज्जी-एलियो मे से अम्मीनादाब नाम प्रधान को और उसके एक सौ त्रारह भाइयो को। ११ तब दाऊद ने मादोक और एब्धातार नाम याजको को, और ऊरीएल,

असायाह, योएल, शमायाह, एलीएल और अम्मीनादाब नाम लेवियो को बुलवाकर उन से कहा, १२ तुम तो लेवीय पितरो के घरानो मे मुख्य पुरुष हो। इसलिये अपने भाइयो समेत अपने अपने को पवित्र करो, कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का सन्दूक उस स्थान पर पहुचा मको जिसको मे ने उसके लिये तैयार किया है। १३ क्योंकि पहिली बार तुम ने उसको न उठाया इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पडा, क्योंकि हम उसकी खोज मे नियम के अनुसार न लगे थे। १४ तब याजको और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया, कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का सन्दूक ले जा सके। १५ तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन मुनकर दी थी, लेवियो ने सन्दूक को डडो के बल अपने कधों पर उठा लिया ॥

१६ और दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी, कि अपने भाई गवैयो को बाजे अर्थात् सारंगी, वीणा और भांभ देकर बजाने और आनन्द के साथ ऊचे स्वर से गाने के लिये नियुक्त करे। १७ तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को, और उसके भाइयो मे से बेरेक्याह के पुत्र आसाप को, और अपने भाई मरारियो मे से कूशायाह के पुत्र एतान को ठहराया। १८ और उनके साथ उन्हो ने दूसरे पद के अपने भाइयो को अर्थात् जकर्याह, बेन, याजीएल, शमीरामोन, यहीएल, उन्नी, एलीआब, बनायाह, मासेयाह, मत्तियाह, एलीपलेह, मिकनेयाह, और ओवेदेदोम और पीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। १९ यों हेमान, आसाप और एतान नाम के

गवैये तो पीतल की झाँक बजा बजाकर राग चलाने को, २० और जकर्याह, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उभी, एलीआब, मासेयाह, और बनायाह, अला-मोत, नाम राग में मारगी बजाने को, २१ और मत्तित्याह, एलीपलेह, मिकने-याह ओबेदेदोम, यीएल और अजज्याह वीणा खर्ज में छेड़ने को ठहराए गए। २२ और राग उठाने का अधिकारी कनन्याह नाम लेवियों का प्रधान था, वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था, क्योंकि वह निपुण था। २३ और वेरेक्याह और एलकाना सन्दूक के द्वारपाल थे। २४ और शबन्याह, योशापात, नतनेल, अमामै, जकर्याह, बनायाह और एलीएजेर नाम याजक परमेश्वर के सन्दूक के आगे आगे तुरहिया बजाते हुए चले, और ओबेदेदोम और यहिय्याह उसके द्वारपाल थे।

२५ और दाऊद और इस्राएलियों के पुरनिये और सहस्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का सन्दूक ओबेदेदोम के घर से आनन्द के साथ ले आने के लिए गए। २६ जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का सन्दूक उठानेवाले थे, तब उन्हो ने सात बल और सात मेढे बलि किए। २७ दाऊद, और यहोवा की वाचा का सन्दूक उठानेवाले सब लेवीय और गानेवाले और गानेवालों के साथ राग उठानेवाले का प्रधान कनन्याह, ये सब तो सन के कपडे के बागे पहिने थे, और दाऊद सन के कपडे का एपोद पहिने था। २८ इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के सन्दूक को जयजयकार करते, और नरसिगे, तुरहियाँ और झाँक बजाते

और सारंगिया और वीणा बजाने हुए ले चले। २९ जब यहोवा की वाचा का सन्दूक दाऊदपुर में पहुँचा तब दाऊद की बेटी मीकल ने खिडकी में से झाँककर दाऊद-राजा को कूदते और खेलते हुए देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना।

१६ तब परमेश्वर का सन्दूक ले आकर उस तम्बू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिये खड़ा कराया था, और परमेश्वर के साम्हने होमबलि और मेलबलि चढाए गए। २ जब दाऊद होमबलि और मेलबलि चढा चुका, तब उस ने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। ३ और उस ने क्या पुरुष, क्या स्त्री, सब इस्राएलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बटवा दी।

४ तब उस ने कई लेवियों को इसलिये ठहरा दिया, कि यहोवा के सन्दूक के साम्हने सेवा टहल किया करे, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। ५ उनका मुखिया तो आसाप था, और उसके नीचे जकर्याह था, फिर यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलीआब बनायाह, ओबेदेदोम और यीएल थे, ये तो सारगियाँ और वीणाए लिये हुए थे, और आसाप झाँक पर राग बजाता था। ६ और बनायाह और यह-जीएल नाम याजक परमेश्वर की वाचा के सन्दूक के साम्हने नित्य तुरहियाँ बजाने के लिए नियुक्त किए गए।

७ तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया।

- ८ यहोवा का धन्यवाद करो, उस
मे प्रार्थना करो;
देश देश मे उसके कामो का
प्रचार करो ।
- ९ उसका गीत गाओ, उसका भजन
करो,
उसके सब आश्चर्य-कर्मों का
ध्यान करो ।
- १० उसके पवित्र नाम पर घमड
करो,
यहोवा के खोजियों का हृदय
आनन्दित हो ।
- ११ यहोवा और उसकी सामर्थ्य की
खोज करो,
उसके दर्शन के लिए लगातार
खोज करो ।
- १२ उसके किए हुए आश्चर्यकर्म,
उसके चमत्कार और न्यायवचन
स्मरण करो ।
- १३ हे उसके दास इस्त्राएल के वग,
हे याकूब की सन्तान तुम जो
उसके चुने हुए हो ।
- १४ वही हमारा परमेश्वर यहोवा है,
उसके न्याय के काम-मृध्वी भर
मे होने है ।
- १५ उसकी वाचा को सदा स्मरण
रखो,
यह वही वचन है जो उम ने
हजार पीढियों के लिये ठहरा *
दिया ।
- १६ वह वाचा उस ने इब्राहीम के
साथ बान्धी,
और उसी के विषय उस ने
इसहाक मे शपथ खाई,
- १७ और उसी को उम ने याकूब के
लिये विधि करके और इस्त्राएल
के लिये सदा की वाचा बान्धकर
यह कहकर दृढ किया, कि
१८ मे कनान देश तुम्ही को दूंगा,
वह वाट मे तुम्हारा निज भाग
होगा ।
- १९ उम समय तो तुम गिनती मे
थोडे थे,
वरन बहुत ही थोडे और उम
देश मे परदेशी थे ।
- २० और वे एक जाति मे दूसरी
जाति मे,
और एक राज्य मे दूसरे मे
फिरते तो रहे,
- २१ परन्तु उम ने किसी मनुष्य को
उन पर अन्धेर करने न दिया,
और वह राजाओ को उनके
निमित्त यह घमकी देता था, कि
- २२ मेरे अभिपिक्तो को मत छुओ,
और न मेरे नबियो की हानि
करो ।
- २३ हे समस्त पृथ्वी के लोगो यहोवा
का गीत गाओ ।
प्रतिदिन उमके किए हुए उद्धार
का शुभ समाचार सुनाते रहो ।
- २४ अन्यजातियो मे उसकी महिमा
का,
और देश देश के लोगो मे उसके
आश्चर्य-कर्मों का वर्णन करो ।
- २५ क्योकि यहोवा महान और स्तुति
के अति याग्य है,
वह तो सब देवताओ मे अधिक
भययोग्य है ।
- २६ क्योकि देश देश के सब देवता
मूर्तियां ही है,

* मूल में—जिसकी आज्ञा उस ने हजार
पीढियों के लिये दी ।

- परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है ।
- २७ उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनन्द है ।
- २८ हे देश देश के कुलो यहोवा का गुगानुवाद करो,
- २९ यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो ।
- यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है । भेट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दण्डवत् करो ॥
- ३० हे मारी पृथ्वी के लोगो उसके साम्हने बरथराओ । जगत ऐसा स्थिर है, कि वह टलने का नहीं ।
- ३१ आकाश आनन्द करे और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहे, कि यहोवा राजा
- ३२ हुआ है । समुद्र और उम में की सब वस्तुएँ गरज उठे, मैदान और जो कुछ उम में है सो प्रफुल्लित हों ।
- ३३ उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के साम्हने जयजयकार करे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आनेवाला है ।
- ३४ यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है ।
- ३५ और यह कहो, कि हे हमारे उद्धार करनेवाले परमेश्वर हमारा उद्धार कर,
- और हम को इकट्ठा करके अन्य-जातियो से छुडा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करे, और तेरी स्तुति करने हुए तेरे विषय बडाई करे ।
- ३६ अनादिकाल से अनन्तकाल तक इस्त्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है ।
- तब सब प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की ॥
- ३७ तब उम ने वहा अर्थान् यहोवा की वाचा के मन्दूक के साम्हने आसाप और उसके भाइयो को छोड दिया, कि प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार वे मन्दूक के साम्हने नित्य मेवा टहल किया करे ।
- ३८ और अडसठ भाइयो समेत अबेदेदोम को, और द्वारपालो के लिये यदूतून के पुत्र आबेदेदोम और होसा को छोड दिया ।
- ३९ फिर उम ने सादोक याजक और उसके भाई याजको को यहोवा के निवास के साम्हने, जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था, ठहरा दिया, ४० कि वे नित्य सबेरे और सांझ को होमबलि की वेदी पर यहोवा को होमबलि चढाया करे, और उन सब के अनुसार किया करे, जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उस ने इस्त्राएल को दिया था । ४१ और उनके सग उम ने हेमान और यदूतून और दूसरो को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया, कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करे ।
- ४२ और उनके सग उम ने हेमान और यदूतून को बजानेवालो के लिये तुरहिया और भांभे और परमेश्वर के गीत गाने के लिये बाजे दिए, और यदूतून के बेटों

को फाटक की रखवाली करने को ठहरा दिया। ४३ निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए, और दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने लौट गया ॥

(दाऊद का मन्दिर बनाने की इच्छा करना और यहोवा का दाऊद के ब्रह्म से सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना)

१७ जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारु के बने हुए घर में रहता हूँ, परन्तु यहोवा की वाचा का सन्दूक तम्बू में रहता है। २ नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है ॥

३ उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुँचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, ४ यहोवा यो कहता है, कि मेरे निवास के लिये तू घर बनवाने न पाएगा। ५ क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा; परन्तु एक तम्बू से दूसरे तम्बू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। ६ जहाँ जहाँ मैं ने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैं ने इस्राएल के न्यायियों में से जिनको मैं ने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही, कि तुम लोगो ने मेरे लिये देवदारु का घर क्यों नहीं बनवाया? ७ सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, कि मेनामो का यहोवा यों कहता है, कि मैं ने तो तुझ

को भेडशाला से और भेड-बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इम मनसा से बुला लिया, कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, ८ और जहाँ कहीं तू आया और गया, वहाँ मैं तेरे संग रहा, और तेरे सब शत्रुओं को तेरे साम्हने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूँगा। ९ और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिये एक स्थान ठहराऊँगा, और उसको स्थिर करूँगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो; और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएँगे, जैसे कि पहिले दिनों में करते थे, १० उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था, सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूँगा। फिर मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ, कि यहोवा तेरा घर बनाये रखेगा। ११ जब तेरी आयु पूरी हो जायेगी और तुम्हें अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा, खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। १२ मेरे लिये एक घर वही बनाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। १३ मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसे मैं ने अपनी करूँगा उस पर से जो तुझ से पहिले था हटाई, वैसे मैं उस पर मे न हटाऊँगा, १४ वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूँगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। १५ इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया ॥

१६ तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बँठा, और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर ! मे क्या हूँ ? और मेरा घराना क्या है ? कि तू ने मुझे यहां तक पहुँचाया है ? १७ और हे परमेश्वर ! यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तू ने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है, और हे यहोवा परमेश्वर ! तू ने मुझे ऊँचे पद का मनुष्य सा * जाना है । १८ जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझ से और क्या कह सकता है ? तू तो अपने दास को जानता है । १९ हे यहोव्य ! तू ने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है, कि तेरा दास उसको जान ले । २० हे यहोवा ! जो कुछ हम ने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है । २१ फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है ? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है, उसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिये कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे, और अपनी प्रजा के साम्हने से जो तू ने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे । २२ क्योंकि तू ने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिये ठहराया, और हे यहोवा ! तू आप उसका परमेश्वर ठहरा । २३ इसलिये, अब हे यहोवा, तू ने जो वचन अपने दास के और उसके

घराने के विषय दिया है, वह सदैव भ्रटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर । २४ और तेरा नाम सदैव भ्रटल रहे, और यह कहकर तेरी बड़ाई सदा की जाए, कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिये परमेश्वर है, और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे साम्हने स्थिर रहे । २५ क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तू ने यह कहकर अपने दास पर प्रगत किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा, इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का हियाँव हुआ है । २६ और अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है । २७ और अब तू ने प्रसन्न होकर, अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है, कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिये वह सदैव आशीषित बना रहे ॥

(दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन)

१८ इसके बाद दाऊद ने पलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और गाँवों समेत गत नगर को पलिस्तियों के हाथ से छीन लिया । २ फिर उस ने मोआबियों को भी जीत लिया, और मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे । ३ फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपना राज्य * स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया । ४ और दाऊद ने उससे एक हजार रथ, सात हजार सवार,

* वा ऊपर से आनेवारे आदम ।

* मूल में—हाथ ।

और बीस हजार पियादे हर लिए, और दाऊद ने सब रथवाले घोडों के सुम की नस कटवाई, परन्तु एक सौ रथवाले घोडे बचा रखे । ५ और जब दमिश्क के अरामी, मोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से बाईस हजार पुरुष मारे । ६ तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकिया बंठाई, सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे । और जहां जहा दाऊद जाता, वहा वहा यहोवा उसको जय दिलाता था । ७ और हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढाले थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया । ८ और हदरेजेर के तिभत और कून नाम नगरो से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से सुलेमान ने पीतल के हौद और खम्भो और पीतल के पात्रो को बनवाया ॥

६ जब हमात के राजा तोऊ ने सुना, कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, १० तब उस ने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिये कि उस ने हदरेजेर में लडकर उसे जीत लिया था, (क्योकि हदरेजेर तोऊ से लडा करता था) । और हदोराम सोने चादी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिये हुए आया । ११ इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिये पवित्र करके रखा, और बैसा ही उस सोने-चादी से भी किया जिसे सब जातियों से, अर्थात् एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिस्तियों, और अमालेकियों से प्राप्त किया था ।

१२ फिर सरूयाह के पुत्र अबीश ने लोन की तराई में अठारह हजार एदोमियों को मार लिया । १३ तब उस ने एदोम में सिपाहियों की चौकिया बंठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए । और दाऊद जहा जहा जाता था वहा वहा यहोवा उसको जय दिलाता था ॥

(दाऊद के कर्मचारियों को नामावली)

१४ दाऊद तो मारे इस्त्राएल पर राज्य करता था, और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था । १५ और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था, इतिहास का लिखनेवाला अहीलूद का पुत्र यहोशापात था । १६ प्रधान याजक, अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमेलेक थे, मन्त्री शबशा था । १७ करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिये होकर रहते थे ॥

(अम्मोनियों पर विजय)

१६ इसके बाद अम्मोनियों का राजा नाहाश मर गया, और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ । २ तब दाऊद ने यह सोचा, कि हानून के पिता नाहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिये मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा । तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिये दूत भेजे । और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए । ३ परन्तु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देनेवाले भेजे हैं, वह क्या तेरी संभ्रम में तेरे पिता का आदर करने

की मनसा मे भेजे है? क्या उसके कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नही आए, कि दूढ़-डाढ़ करे और नष्ट करे, और देश का भेद ले? ४ तब हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकडा, और उनके बाल मुडवाए, और आधे वस्त्र अर्थात् नितम्ब तक कटवाकर उनको जाँन दिया। ५ तब कितनो ने जाकर दाऊद को बता दिया, कि उन पुरुषो के साथ कैसा वर्ताव किया गया, सो उस ने लोगो को उन से मिलने के लिये भेजा क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढिया बढ न जाए, तब तक यरीही मे ठहरे रहो, और बाद को लौट आना।

६ जब अम्मोनियो ने देखा, कि हम दाऊद को घिनोने लगते है, तब हानून और अम्मोनियो ने एक हजार किक्कार चादी, अरम्नहरंम और अरम्माका और सोबा को भेजी, कि रथ और मवार किराये पर बुलाए। ७ सो उन्हो ने बत्तीस हजार रथ, और माका के राजा और उसकी सेना को किराये पर बुलाया, और इन्हो ने आकर मेदबा के साम्हने, अपने डेरे खडे किए। और अम्मोनी अपने अपने नगर मे से इकट्ठे होकर लडने को आए। ८ यह मुनकर दाऊद ने योआव और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। ९ तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पाति बान्धी, और जो राजा आए थे, वे उन से अलग मैदान मे थे। १० यह देखकर कि आगे पीछे दोनों आंर हमारे विरुद्ध पाति बन्धी है, योआव ने सब बडे बडे इस्त्राएली बीरो मे से कितनो को छाटकर अरामियो के साम्हने उनकी पाति बन्धाई, ११ और

शेष लोगो को अपने भाई अबीशै के हाथ सौप दिया, और उन्हो ने अम्मोनियो के साम्हने पाति बान्धी। १२ और उस ने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे, तो तू मेरी सहायता करना; और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे, तो मे तेरी सहायता करूंगा। १३ तू हियाव बान्ध और हम सब अपने लोगो और अपने परमेश्वर के नगरो के निमित्त पुरुषार्थ करे, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे, वैसा ही करेगा। १४ तब योआव और जो लोग उसके साथ थे, अरामियो मे युद्ध करने को उनके साम्हने गए, और वे उसके साम्हने से भागे।

१५ यह देखकर कि अरामी भाग गए है, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के साम्हने से भागकर नगर के भीतर धुसे। तब योआव यरूशलेम को लौट आया। ॥

१६ फिर यह देखकर कि वे इस्त्राएलियो से हार गए है अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और हदरेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। १७ इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्त्राएलियों को इकट्ठा किया, और यरदन पार होकर उन पर चढाई की और उनके विरुद्ध पाति बन्धाई, तब वे उस से लडने लगे। १८ परन्तु अरामी इस्त्राएलियो से भागे, और दाऊद ने उन मे से सात हजार रथियो और चालीस हजार प्यादों को मार डाला, और शोपक सेनापति को भी मार डाला। १९ यह देखकर कि वे इस्त्राएलियो से हार गए है, हदरेजेर के कर्मचारियो ने दाऊद से सधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों

ने भ्रम्भोनियों की सहायता फिर करनी न चाही ॥

२० फिर नये वर्ष के आरम्भ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग ले जाकर भ्रम्भोनियों का देश उजाड़ दिया और आकर रब्बा को घेर लिया; परन्तु दाऊद यरूशलेम में रह गया; और योआब ने रब्बा को जीतकर ढा दिया। २ तब दाऊद ने उनके राजा का मुकुट उसके सिर से उतारकर क्या देखा, कि उसका तौल किवकार भर सोने का है, और उस में मणि भी जड़े थे, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उस ने उस नगर से बहुत सामान लूट में पाया। ३ और उस ने उसके रहनेवालो को निकालकर आरो और लोहे के हेंगो और कुल्हाडियो से कटवाया, और भ्रम्भोनियों के सब नगरो के साथ भी दाऊद ने वंसा ही किया। तब दाऊद सब लोगो समेत यरूशलेम को लौट गया ॥

४ इसके बाद गेजेर में पलिश्तियो के साथ युद्ध हुआ, उस समय हुआई सिब्बक ने सिर्ष को, जो रापा की सन्तान था, मार डाला, और वे दब गए। ५ और पलिश्तियो के साथ फिर युद्ध हुआ, उस में यार्डर के पुत्र एल्हानान ने गती गोल्थत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके बछे की छड़, जुलाहे की डोगी के समान थी। ६ फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहा एक बड़े डील का पुरुष था, जो रापा की सन्तान था, और उसके एक एक हाथ पाव में छ. छ उगलिया अर्थात् सब मिलाकर चौबीस उगलिया थी। ७ जब उस ने

इस्त्राएलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। ८ ये ही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ से मार डाले गए ॥

(दाऊद का चपनी प्रजा को गिनती लेना और इस पाप के दंड और पापमोचन के द्वारा मन्दिर का खान उधराया जाना)

२१ और शंतान ने इस्त्राएल के विरुद्ध उठकर, दाऊद को उसकाया कि इस्त्राएलियों की गिनती ले। २ तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमो से कहा, तुम जाकर बशंवा में ले दान तक के इस्त्राएल की गिनती लेकर मुझे बताओ, कि मैं जान लू कि वे कितने हैं। ३ योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा के कितने ही क्यो न हो, वह उनको सी गुना बढा दे, परन्तु हे मेरे प्रभु! हे राजा! क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इस्त्राएल पर दोष लगने का कारण क्यो बने? ४ तीसरी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इस्त्राएल में घूमकर यरूशलेम को लौट आया। ५ तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़, दाऊद को सुनाया और सब तलवारिये पुरुष इस्त्राएल के तो ग्यारह लाख, और यहूदा के चार लाख सत्तर हजार ठहरे। ६ परन्तु इन में योआब ने लेवी और बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था ॥

७ और यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिये उस ने इस्त्राएल को मारा। ८ और दाऊद ने परमेश्वर के कहा, यह

काम जो मैं ने किया, वह महापाप है। परन्तु अब अपने दास का अधर्म दूर कर; मुझ से तो बड़ी मूर्खता हुई है। ६ तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, १० जाकर दाऊद से कह, कि यहोवा यों कहता है, कि मैं तुझ को तीन विपत्तियाँ दिखाता हूँ, उन में से एक को चुन ले, कि मैं उसे तुझ पर डालूँ। ११ तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उस में कहा, यहोवा यों कहता है, कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले। १२ या तो तीन वर्ष का काल पड़े, वा तीन महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करने रहे, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे; या तीन दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात् मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर बिनाश करता रहे। अब सोच, कि मैं अपने भेजनेवाले को क्या उत्तर दूँ। १३ दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े सकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परन्तु मनुष्य के हाथ में मुझे पडना न पड़े।

१४ तब यहोवा ने इस्राएल में मरी फँलाई, और इस्राएल में सत्तर हजार पुरुष मर मिटे। १५ फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था, कि यहोवा दुःख देने से खेदित हुआ, और नाश करनेवाले दूत से कहा, बस कर; अब अपना हाथ खींच ले। और यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलिहान के पास खड़ा था। १६ और दाऊद ने आखे उठाकर देखा, कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढाई हुई एक

तलवार लिये हुए आकाश के बीच खड़ा है, तब दाऊद और पुरनिये टाट पहिने हुए मुह के बल गिरे। १७ तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिस ने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूँ? हा, जिस ने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ। परन्तु इन भेड-बकरियों ने क्या किया है? इसलिये हे मेरे परमेश्वर यहोवा! तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परन्तु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो, कि वे मारे जाएँ।

१८ तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद में यह कहने की आज्ञा दी, कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। १९ गाद के इस वचन के अनुसार जो उस ने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। २० तब ओर्नान ने पीछे फिर के दूत को देखा, और उसके चारों बेटे जो उसके सग थे छिप गए, ओर्नान तो गेहूँ दावता था। २१ जब दाऊद ओर्नान के पास आया, तब ओर्नान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दण्डवत् किया। २२ तब दाऊद ने ओर्नान में कहा, इस खलिहान का स्थान मुझे दे दे, कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊँ, उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझ को दे, कि यह विपत्त प्रजा पर से दूर की जाए। २३ ओर्नान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले, और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे, मुन, मैं तुझे होमबलि के लिये बैल और ईधन के लिये दांवने के हथियार और अन्नबलि के लिये गेहूँ, यह सब मैं देता हूँ।

२४ राजा दाऊद ने ओर्नान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूंगा, जो तेरा है, उमे मैं यहोवा के लिये नहीं लूंगा, और न सेतमेत का होमबलि चढाऊंगा। २५ तब दाऊद ने उम स्थान के लिये ओर्नान को छः सौ शेकेल सोना तौलकर दिया। २६ तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि चढाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उम ने होमबलि की वेदी पर स्वर्ण से आग गिराकर उसकी सुन ली। २७ तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी, और उस ने अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली ॥

२८ यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओर्नान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। २९ यहोवा का निवास जो मूसा ने जगल में बनाया था, और होमबलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे। ३० परन्तु दाऊद परमेश्वर के पास उसके साम्हने न जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था ॥

२२ तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है, और इस्राएल के लिये होमबलि की वेदी यही है ॥

(मन्दिर के बनाने की तैयारी और उस में की भक्ति भक्ति की उपासना और उपासकों का प्रबन्ध)

२ तब दाऊद ने इस्राएल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी, और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिये राज ठहरा

दिए। ३ फिर दाऊद ने फाटकों के क्वाडों की कीलो और जोड़ों के लिये बहुत सा लोहा, और तौल से बाहर बहुत पीतल, ४ और गिनती से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि मीदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाए थे। ५ और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र मुलैमान सुकुमार और लडका है, और जो भवन यहोवा के लिये बनाना है, उसे अत्यन्त तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिये, इसलिए मैं उसके लिये तैयारी करूंगा। सो दाऊद ने मरने से पहिले बहुत तैयारी की ॥

६ फिर उस ने अपने पुत्र मुलैमान को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये भवन बनाने की आज्ञा दी। ७ दाऊद ने अपने पुत्र मुलैमान से कहा, मेरी मनमा तो थी, कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊ। ८ परन्तु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, कि तू ने लोह बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तू ने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोह बहाया है। ९ देख, तूफ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो शान्त पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शान्ति दूंगा, उसका नाम तो मुलैमान * होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शान्ति और चैन दूंगा। १० वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। और वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं

* अर्थात् शान्तिवाला।

इस्त्राएल के ऊपर सदा के लिये स्थिर रखूंगा। ११ अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे सग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस बचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है, उसका भवन बनाना। १२ अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्त्राएल का अधिकारी ठहरे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे।

१३ तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा, जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्त्राएल के लिये मूसा को दी थी। हियाव बान्ध और दृढ़ हो। मत डर, और तेरा मन कच्चा न हो। १४ मुन, मैं ने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिये एक लाख किव्कार सोना, और दस लाख किव्कार चान्दी, और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है, कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैं ने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको बढ़ा सकेगा। १५ और तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात् पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़नेवाले वरन सब भाँति के काम के लिये सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। १६ सोना, चान्दी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम में लग जा। यहोवा तेरे सग नित रहे। १७ फिर दाऊद ने इस्त्राएल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलैमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी, १८ कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उस ने तुम्हें ज़ारो और से विश्राम नहीं दिया? उस ने तो देश के निवासियों को मेरे वश

में कर दिया है; और देश यहोवा और उसकी प्रजा के साम्हने दबा हुआ है। १९ अब तन मन से * अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्रस्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का सन्दूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बननेवाला है ॥

२३ दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिये उस ने अपने पुत्र सुलैमान को इस्त्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया ॥

२ तब उस ने इस्त्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। ३ और जितने लेवीय तीस वर्ष के और उस से अधिक अवस्था के थे, वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती अड़तीस हजार हुई। ४ इन में से चौबीस हजार तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिये नियुक्त हुए, और छः हजार सरदार और न्यायी। ५ और चार हजार द्वारपाल नियुक्त हुए, और चार हजार उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिये ठहराए गए जो दाऊद † ने स्तुति करने के लिये बनाए थे। ६ फिर दाऊद ने उनको गेशॉन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया ॥

७ गेशॉनियों में से तो लादान और शिमी थे। ८ और लादान के पुत्र

* मूल में—अपना मन और अपना जीव लेकर।

† मूल में—मैं।

सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल ये तीन थे। ६ और गिमी के पुत्र : शलोमीत, हजीएल और हारान ये तीन थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। १० फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश, और बरीआ के पुत्र शिमी यही चार थे। ११ यहत मुख्य था, और जीजा दूसरा, यूश और बरीआ के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे।

१२ कहात के पुत्र : अन्नाम, यिसहार, हेन्नोन और उज्जीएल चार। अन्नाम के पुत्र : हाऊन और मूसा। १३ हाऊन तो इसलिये अलग किया गया, कि वह और उसके सन्तान सदा परमपवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए, और सदा यहोवा के सम्मुख घूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। १४ परन्तु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। १५ मूसा के पुत्र, गेशोम और एलीएजेर। १६ और गेशोम का पुत्र शबूएल मुख्य था। १७ और एलीएजेर के पुत्र : रहब्याह मुख्य; और एलीएजेर के और कोई पुत्र न हुआ, परन्तु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। १८ यिसहार के पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठहरा। १९ हेन्नोन के पुत्र : यरीय्याह मुख्य, दूसरा अमर्याह, तीसरा यहजीएल, और चौथा यकमाम था। २० उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा यिशिशय्याह था।

२१ मरारी के पुत्र : महली और मूशी। महली के पुत्र : एलीआजर और

कीश थे। २२ एलीआजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटिया हुईं, सो कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। २३ मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत यह तीन थे। २४ लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे, ये नाम ले लेकर, एक एक पुरुष करके गिने गए, और बीस वर्ष की वा उस से अधिक अवस्था के थे और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। २५ क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्लाम के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह तो यरूशलेम में सदा के लिये बस गया है। २६ और लेवियों को निवास और उस की उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा। २७ क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार बीस वर्ष वा उस से अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए। २८ क्योंकि उनका काम तो हाऊन की सन्तान की सेवा टहल करना था, अर्थात् यह कि वे आंगनों और कोठरियों में, और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें। २९ और भेंट की रोटी का, अन्नबलियों के मैदे का, और अखमीरी पपडियों का, और तबे पर बनाए हुए और सने हुए का, और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करे। ३० और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिये सङ्गे रहा करें। ३१ और विश्राम-दिनों और नये चान्द के दिनों, और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होमबलियों को

चढ़ाए। ३२ और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलापवाले तम्बू और पवित्रस्थान की रक्षा करें, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करें ॥

२४ फिर हारून की सन्तान के दल ये थे। हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलीआजर और ईतामार थे। २ परन्तु नादाब और अबीहू अपने पिता के साम्हने पुत्रहीन मर गए, इस लिये याजक का काम एलीआजर और ईतामार करते थे। ३ और दाऊद ने एलीआजर के वंश के सादोक और ईतामार के वंश के अहामेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। ४ और एलीआजर के वंश के मुख्य पुरुष, ईतामार के वंश के मुख्य पुरुषों में अधिक थे, और वे यो बांटे गए अर्थात् एलीआजर के वंश के पितरों के घरानों के सोलह, और ईतामार के वंश के पितरों के घरानों के आठ मुख्य पुरुष थे। ५ तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलीआजर और ईतामार दोनों के वंशों में पवित्रस्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। ६ और नतनल के पुत्र शमायाह ने जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक, और एब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजको और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के साम्हने लिखे, अर्थात् पितरों का एक घराना तो एलीआजर के वंश में से और एक ईतामार के वंश में से लिया गया ॥

७ पहली चिट्ठी तो यहोयारीब के, और दूसरी यदायाह, ८ तीसरी हारीम के, चौथी सोरीम के, ९ पाचवी मलिक-य्याह के, छठवी मिय्यामीन के, १० सातवी हक्कोस के, आठवी अबिव्याह के, ११ नौवी येसू के, दसवी शकन्याह के, १२ ग्यारहवी एल्याशीब के, बारहवी याकीम के, १३ तेरहवी हुप्पा के, चौदहवी येसेबाब के, १४ पन्द्रहवी बिल्गा के, सोलहवी इम्मेर के, १५ सतरहवी हेजीर के, अठारहवी हर्प्पत्मेस के, १६ उन्नीसवी पतह्याह के, बीसवी यहजेकेल के, १७ इक्कीसवी याकीन के, बाईसवी गामूल के, १८ तेईसवी दलायाह के, और चौबीसवी माज्याह के नाम पर निकली। १९ उनकी सेवकई के लिये उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूलपुरष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें ॥

२० बचे हुए लेवियों में से अग्राम के वंश में से शूबाएल, शूबाएल के वंश में से यहदयाह। २१ बचा रहब्याह, सोर-हब्याह, के वंश में से यिदिशय्याह मुख्य था। २२ इसहारियों में से शलोमोत और शलोमोत के वंश में से यहत। २३ और हेन्नोन के वंश में से मुख्य तो यरिथ्याह, दूसरा अमर्याह, तीसरा यहजीएल, और चौथा यकमाम। २४ उज्जीएल के वंश में से मीका और मीका के वंश में से शामीर। २५ मीका का भाई यिदिशय्याह, यिदिशय्याह के वंश में से जकर्याह। २६ मरारी के पुत्र महली और मूशी और याजिय्याह का पुत्र बिनो था। २७ मरारी के पुत्र

याजिव्याह से बिनो और शोहम, जक्कू और इन्नी थे। २८ महली से, एलीआजर जिसके कोई पुत्र न था। २९ कीश से कीश के वश में यरहोल। ३० और मूशी के पुत्र, महली, एदेर और यरीमोत। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवीय सन्तान के थे। ३१ इन्ही ने भी अपने भाई हारून की सन्तानों की नाई दाऊद राजा और सादोक और अहीमेलेक और याजको और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के साम्हने चिट्ठिया डाली, अर्थात् मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उसके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा।।

२५

फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदूतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिये अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और भाभ बजा बजाकर नबूवत करें। और इस सेवकाई के काम करनेवाले मनुष्यों की गिनती यह थी : २ अर्थात् आसाप के पुत्रों में से तो जक्कूर, योसेप, नतन्याह और अशरेला, आसाप के ये पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। ३ फिर यदूतूनके पुत्रों में से गदल्याह, सरी यशायाह, हसब्याह, मत्तित्याह, ये ही छह अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। ४ और हेमान के पुत्रों में से, मुक्किय्याह, मत्तन्याह, लज्जीएल, शबूल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलीआता, गिद्लती, रोममतीएजेर, योशबकाशा, मल्लोती, होतीर और महजीओत।

५ परमेश्वर की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे जो राजा का दर्शी था; क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को चौदह बेटे और तीन बेटिया दी थी। ६ ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिये अपने अपने पिता के अधीन रहकर, परमेश्वर के भवन, की सेवकाई में भाभ, सारंगी और वीणा बजाते थे। और आसाप, यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। ७ इन सभी की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत मीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे, दो सौ अठासी थी। ८ और उन्हो ने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरू, क्या चेला, अपनी अपनी बारी के लिये चिट्ठी डाली। ९ और पहिली चिट्ठी आसाप के बेटों में से योसेप के नाम पर निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। १० तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। ११ चौथी यिसी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। १२ पाचवी नतन्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। १३ छठी बुक्किय्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। १४ सातवी यसरेला के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। १५ आठवी यशायाह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। १६ नौवी मत्तन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई समेत बारह थे। १७ दसवी शिमी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस

समेत बारह थे। १८ ग्यारहवीं अजरेल के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। १९ बारहवीं हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २० तेरहवीं शूबाएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २१ चौदहवीं मत्तिय्याह के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २२ पन्द्रहवीं यरेमोट के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २३ सोलहवीं हनन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २४ सत्रहवीं योशबकाशा के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २५ अठारहवीं हनानी के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २६ उन्नीसवीं मल्लोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २७ बीसवीं इलिय्याता के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २८ इक्कीसवीं होतीर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। २९ बाईसवीं गिदलती के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। ३० तेईसवीं महजीभोट के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे। ३१ और चौबीसवीं चिट्टी रोममतीएजेर के नाम पर निकली जिसके पुत्र और भाई उस समेत बारह थे ॥

२६ फिर द्वारपालों के दल ये थे कोरहियो में से तो मशोलेम्याह, जो कोरे का पुत्र और आसाप के सन्तानों

में से था। २ और मशोलेम्याह के पुत्र हुए, अर्थात् उसका जेठा जकर्याह दूसरा यदीएल, तीसरा जबघाह, ३ चौथा यतीएल, पांचवां एलाम, छठवां यहोहानान और सातवां एल्यहोएनै। ४ फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा साकार, पांचवां नतनेल, ५ छठवां अम्मि-एल, सातवां इस्साकार और आठवां पुल्लतै, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। ६ और उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। ७ शमायाह के पुत्र ये थे, अर्थात् मोती, रपाएल, ओबेद, एलजाबाद और उनके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ८ ये सब ओबेदेदोम की सन्तान में से थे, वे और उनके पुत्र और भाई इस मेवकाई के निये बलवान और गक्तिमान थे; ये ओबेदेदोमी बासठ थे। ९ और मशोलेम्याह के पुत्र और भाई अठारह थे, जो बलवान थे। १० फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात् मुख्य तो शिअी (जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया), ११ दूसरा हिल्किय्याह, तीसरा तबल्याह और चौथा जकर्याह था, होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर तेरह थे ॥

१२ द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे, ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। १३ इन्होंने क्या छोटे, क्या बड़े, अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिये चिट्ठी डाली। १४ पूर्व की ओर की चिट्ठी शोलेम्याह के

नाम पर निकली। तब उन्होंने ने उसके पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली (वह बुद्धिमान मन्त्री था) और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिये निकली। १५ दक्खिन की ओर के लिये ओबोदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली, और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिये। १६ फिर शुष्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिये निकली, कि वे शल्लेकेत नाम फाटक के पास चढाई की सड़क पर आम्हने साम्हने चौकीदारी किया करे। १७ पूर्व और तो छ लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन चार, दक्खिन की ओर प्रतिदिन चार, और खजाने की कोठरी के पास दो दो ठहरे। १८ पश्चिम ओर के पर्वार नाम स्थान पर ऊची सड़क के पास तो चार और पर्वार के पास दो रहे। १९ ये द्वारपालों के दल थे, जिन में से कितने तो कोरह के थे और कितने मरारी के वश के थे ॥

२० फिर लेवियों में से अहिय्याह परमेस्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं, दोनों के भण्डारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। २१ ये लादान की सन्तान के थे, अर्थात् गेशोनियों की सन्तान जो लादान के कुल के थे, अर्थात् लादान और गेशोनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात् यहोएली ॥

२२ यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात् जेताम और उमका भाई योएल जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। २३ अत्रामियों, यिमहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों में में। २४ और शबूएल जो मूसा के पुत्र गेशोम के वश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। २५ और उसके भाइयों

का वृत्तान्त यह है एलीआजर के कुल में उसका पुत्र रहब्याह, रहब्याह का पुत्र यशायाह, यशायाह का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्की, और जिक्की का पुत्र शलोमोत था। २६ यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भण्डारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। २७ जो लूट लडाइयों में मिलती थी, उस में से उन्होंने ने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिये कुछ पवित्र किया। २८ वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अब्नेर, और मरूयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था ॥

२९ यिसहारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र, इन्नाएल के देश का काम अर्थात् सरदार और न्यायी का काम करने के लिये नियुक्त हुए। ३० और हेब्रोनियों में से हशब्याह और उसके भाई जो सत्रह सौ बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन की पश्चिम ओर रहनेवाले इस्त्राएलियों के अधिकारी ठहरे। ३१ हेब्रोनियों में से यर्रय्याह मुख्य था, अर्थात् हेब्रोनियों की पीढी पीढी के पितरों के घरानों के अनुमार दाऊद के राज्य के चालीसवें वर्ष में वे दृढ़ गए, और उन में से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। ३२ और उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के दो हजार मान सौ मुख्य पुरुष थे, इनको दाऊद

राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषय में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आघे गोत्र का अधिकारी ठहराया ॥

(देख का प्रबन्ध)

२७ इस्राएलियों की गिनती, अर्थात् पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पानेवाले दलों के सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे, एक एक दल में चौबीस हजार थे । २ पहिले महीने के लिये पहिले दल का अधिकारी जब्दीएल का पुत्र याशोवाम नियुक्त हुआ, और उसके दल में चौबीस हजार थे । ३ वह पेरेस के वंश का था और पहिले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था । ४ और दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदै नाम एक अहोही था, और उसके दल का प्रधान मिक्लोट था, और उसके दल में चौबीस हजार थे । ५ तीसरे महीने के लिये तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था और उसके दल में चौबीस हजार थे । ६ यह वही बनायाह है, जो तीसों शूरों में वीर, और तीसों में श्रेष्ठ भी था, और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजाबाद था । ७ चौथे महीने के लिये चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था, और उसके बाद उसका पुत्र जबद्याह था और उसके दल में चौबीस हजार थे । ८ पांचवे महीने के लिये पाचवा सेनापति यिज्जाही शम्हूत था और उसके दल में चौबीस हजार

थे । ९ छठवे महीने के लिये छठवां सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था और उसके दल में चौबीस हजार थे । १० सातवे महीने के लिये सातवा सेनापति एग्रैम के वंश का हेलेस पलोनी था और उसके दल में चौबीस हजार थे । ११ आठवे महीने के लिये आठवा सेनापति जेरह के वंश में से हूशई सिब्बक था और उसके दल में चौबीस हजार थे । १२ नौवे महीने के लिये नौवा सेनापति बिन्यामीनी अबीएजेर अनातोतवासी था और उसके दल में चौबीस हजार थे । १३ दसवे महीने के लिये दसवा सेनापति जेरही महरें नतोपावासी था और उसके दल में चौबीस हजार थे । १४ ग्यारहवे महीने के लिये ग्यारहवा सेनापति एग्रैम के वंश का बनायाह पिरातोतवामी था और उसके दल में चौबीस हजार थे । १५ बारहवे महीने के लिये बारहवा सेनापति ओत्लीएल के वंश का हेल्दे नतोपावासी था और उसके दल में चौबीस हजार थे ॥

१६ फिर इस्राएली गोत्रों के ये अधिकारी थे . अर्थात् रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलीआजर, शिमोनियों में माका का पुत्र शपत्याह । १७ लेवी से कमूएल का पुत्र हशब्द्याह; हारून की सन्तान का सादोक । १८ यहूदा का एलीहू नाम दाऊद का एक भाई, इसाकार में मीकाएल का पुत्र ओम्नी । १९ जबलून से ओबद्याह का पुत्र यिश्मायाह, नफ्ताली से अज्जीएल का पुत्र यरीमोट । २० एग्रैम से अजज्याह का पुत्र होशे, मनश्शे से आघे गोत्र का, फदायाह का पुत्र योएल । २१ गिलाद में आघे गोत्र मनश्शे से जकर्याह का पुत्र इहो, बिन्यामीन से अन्नोर

का पुत्र यासीएल, २२ और दान से यारोहाम का पुत्र अजरेल, ठहरा। ये ही इस्राएलके गोत्रों के हाकिम थे। २३ परन्तु दाऊद ने उनकी गिनती बीस वर्ष की अवस्था के नीचे न की, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिये कहा था। २४ सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा, पर निपटा न सका क्योंकि ईश्वर का क्रोध इस्राएल पर भडका, और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई ॥

२५ फिर अदीएल का पुत्र अजमावत राज भण्डारों का अधिकारी था, और देहात और नगरो और गावो और गढो के भण्डारो का अधिकारी उज्जिय्याह का पुत्र यहोनतान था। २६ और जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे। उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एच्ची था। २७ और दाख की बारियो का अधिकारी रामाई शिमी और दाख की बारियो की उपज जो दाखमधु के भण्डारो में रखने के लिये थी, उसका अधिकारी शापामी जब्दी था। २८ और नीचे के देश के जलपाई और गूलर के वृक्षो का अधिकारी गदेरी बाल्हानान था और तेल के भण्डारो का अधिकारी योआश था। २९ और शारोन में चरनेवाले गाय-बैलो का अधिकारी शारोनी शिन्ने था और तराइयो के गाय-बैलो का अधिकारी अदलै का पुत्र शापात था। ३० और ऊटों का अधिकारी इश्माएली ओबील और गदहियों का अधिकारी मेरोनोतवासी येहदयाह। ३१ और भेड-बकरियों का अधिकारी हप्पी याजीज था। ये ही सब राजा दाऊद के धन सम्पत्ति के अधिकारी थे ॥

३२ और दाऊद का भतीजा* योनातान एक समझदार मन्त्री और शास्त्री था, और किसी हकमोनी का पुत्र एहीएल राजपुत्रो के संग रहा करता था। ३३ और अहीतोपेल राजा का मन्त्री था, और एरेकी हूशै राजा का मित्र था। ३४ और अहीतोपेल के बाद बनायाह का पुत्र यहोयादा और एब्बातार मन्त्री ठहराए गए। और राजा का प्रधान सेनापति योआब था ॥

(दाऊद की अन्तिम सभा और
उचको चालु)

२८ और दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अर्थात् गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करनेवाले दलों के हाकिमों को और सहस्रपतियो और शतपतियो और राजा और उसके पुत्रो के पशु आदि सब धन सम्पत्ति के अधिकारियों, सरदारो और वीरों और सब शूरवीरो को यरूशलेम में बुलवाया। २ तब दाऊद राजा खडा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयो ! और हे मेरी प्रजा के लोगो ! मेरी सुनो, मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के सन्दूक के लिये और हम लोगो के परमेश्वर के चरणो की पीढी के लिये विश्राम का एक भवन बनाऊ, और मैं ने उसके बनाने की तैयारी की थी। ३ परन्तु परमेश्वर ने मुझ से कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करनेवाला है और तू ने लोह बहाया है। ४ तौभी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया, कि इस्राएल का

* वा चचा।

राजा सदा बना रहूँ अर्थात् उम ने यहूदा को प्रधान होने के लिये और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिये प्रसन्न हुआ । ५ और मेरे सब पुत्रों में से (यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं) उस ने मेरे पुत्र सुलैमान को चुन लिया है, कि वह इस्राएल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे । ६ और उस ने मुझ से कहा, कि तेरा पुत्र सुलैमान ही मेरे भवन और आगनों को बनाएगा, क्योंकि मैं ने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे, और मैं उसका पिता ठहरूँगा । ७ और यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आज कल की नाईं दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य मदा स्थिर रखूँगा । ८ इसलिये अब इस्राएल के देखते अर्थात् यहोवा की मण्डली के देखने, और अपने परमेश्वर के साम्हने, अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो, और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिये छोड़ जाओ ॥

९ और हे मेरे पुत्र सुलैमान । तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करतां रह, क्योंकि यहोवा मन को जाचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है । यदि तू उसकी खोज में रहे, तो वह तुझ को मिलेगा; परन्तु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिये तुझ को छोड़ देगा । १० अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा

भवन बनाने को चुन लिया है, जो पवित्र-स्थान ठहरेगा, हियाव बान्धकर इस काम में लग जा ॥

११ तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलैमान को मन्दिर के भोसारे, कोठरियों, भण्डारों अटारियों, भीतरी कोठरियों, और प्रायश्चित्त के ढकने से स्थान का नमूना, १२ और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों, और परमेश्वर के भवन के भण्डारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भण्डारों के, जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा में * उसको मिले थे, वे सब दे दिए । १३ फिर याजकों और लेवियों के दलों, और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों, और यहोवा के भवन की सेवा के सब मामान, १४ अर्थात् सब प्रकार की सेवा के लिये सोने के पात्रों के निमित्त मोना तौलकर, और सब प्रकार की सेवा के लिये चान्दी के पात्रों के निमित्त चान्दी तौलकर, १५ और सोने की दीवटों के लिये, और उनके दीपकों के लिये प्रति एक एक दीवट, और उमके दीपकों का सोना तौलकर और चान्दी के दीवटों के लिये एक एक दीवट, और उसके दीपकों की चान्दी, प्रति एक एक दीवट के काम के अनुसार तौलकर, १६ और भेट की रोटी की मेजों के लिये एक एक मेज का सोना तौलकर, और चान्दी की मेजों के लिये चान्दी, १७ और चोखे सोने के काटों, कटोरों और प्यालों और सोने की कटोरियों के लिये एक एक कटोरी का सोना तौलकर, और चान्दी की कटोरियों के लिये एक एक कटोरी की

* वा अपनी आत्मा में ।

चान्दी तौलकर, १८ और घूप की बेदी के लिये तपाया हुआ सोना तौलकर, और रथ अर्थात् यहोवा की वाचा का सन्दूक ढाकनेवाले और पख फँलाए हुए करुबों के नमूने के लिये सोना दे दिया । १६ मैं ने यहोवा की शक्ति से जो मुझ को मिली, यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है ॥

२० फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलैमान से कहा, हियाव बान्ध और दृढ होकर इस काम में लग जा । मत डर, और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, वह तेरे संग है; और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा । २१ और देख परमेश्वर के भवन के सब काम के लिये याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं, और सब प्रकार की मेवा के लिये सब प्रकार के काम प्रसन्नता में करनेवाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे, और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे ॥

२६. फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलैमान मुकुमार लडका है, और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है, काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिये नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिये बनेगा । २ मैं ने तो अपनी शक्ति भर, अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिये सोना, चान्दी की वस्तुओं के लिये चान्दी, पीतल की वस्तुओं के लिये पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिये लोहा, और लकड़ी की वस्तुओं के लिये लकड़ी,

और मुलैमानी पत्थर, और जडने के योग्य मरिण, और पच्ची के काम के लिये रङ्ग रङ्ग के नग, और सब भाँति के मरिण और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है । ३ फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैं ने पवित्र भवन के लिये इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चान्दी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिये दे देता हूँ । ४ अर्थात् तीन हजार किव्कार ओपीर का सोना, और सात हजार किव्कार तपाई हुई चान्दी, जिस में कोठरियों की भीते मढी जाए । ५ और मोने की वस्तुओं के लिये मोना, और चान्दी की वस्तुओं के लिये चान्दी, और कारीगरों में बनानेवाले सब प्रकार के काम के लिये मैं उसे देता हूँ । और कौन अपनी इच्छा में यहोवा के लिये अपने को अर्पण * कर देता है ?

६ तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से, ७ परमेश्वर के भवन के काम के लिये पाच हजार किव्कार और दस हजार दर्कनोन सोना, दस हजार किव्कार चान्दी, अठारह हजार किव्कार पीतल, और एक लाख किव्कार लोहा दे दिया । ८ और जिनके पास मरिण थे, उन्हों ने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिये गेशॉनी यहीएल के हाथ में दे दिया । ९ तब प्रजा के लोग आनन्दित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन

* मूल में—अपना हाथ भरता है ।

और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिये भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनन्दित हुआ ॥

१० तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा ! हे हमारे मूल पुरुष इस्त्राएल के परमेश्वर ! अनादिकाल मे अनन्तकाल तक तू धन्य है । ११ हे यहोवा ! महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और विभव, तेरा ही है; क्योंकि आकाश और पृथ्वी मे जो कुछ है, वह तेरा ही है, हे यहोवा ! राज्य तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है । १२ धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबो के ऊपर प्रभुता करता है । सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ मे है, और सब लोगो को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ मे है । १३ इसलिये अब हे हमारे परमेश्वर ! हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते हैं ॥

१४ मे क्या हूँ ? और मेरी प्रजा क्या है ? कि हम को इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले ? तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हम ने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है । १५ तेरी दृष्टि मे हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए और परदेशी हैं, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं, और हमारा कुछ ठिकाना नही । १६ हे हमारे परमेश्वर यहोवा ! वह जो बड़ा संचय हम ने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिये किया है, वह तेरे ही हाथ से हमे मिला था, और सब तेरा ही है । १७ और हे मेरे परमेश्वर ! मे जानता हू कि तू

मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है, मे ने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मे ने आनन्द से देखा है, कि तेरी प्रजा के लोग जो यहा उपस्थित हैं, वह अपनी इच्छा से तेरे लिये भेंट देते हैं । १८ हे यहोवा ! हे हमारे पुरखा इब्राहीम, इसहाक और इस्त्राएल के परमेश्वर ! अपनी प्रजा के मन के विचारो मे यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख । १९ और मेरे पुत्र सुलैमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओ, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे, और उस भवन को बनाए, जिसकी तैयारी मे ने की है ॥

२० तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो । तब सभा के सब लोगो ने अपने पितरो के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया, और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दण्डवत किया । २१ और दूसरे दिन उन्हो ने यहोवा के लिये बलिदान किए, अर्थात् अर्घो समेत एक हजार बैल, एक हजार भेडे और एक हजार भेड के बच्चे होमबलि करके चढाए, और सब इस्त्राएल के लिये बहुत से मेलबलि चढाए । उसी दिन यहोवा के साम्हने उन्हो ने बडे आनन्द से खाया और पिया ॥

२२ फिर उन्हों ने दाऊद के पुत्र सुलैमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिये उमका और याजक होने के लिये सादोक का अभिषेक किया । २३ तब सुलैमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर

यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यवान हुआ, और इस्राएल उसके अधीन हुआ। २४ और सब हाकिमो और शूरवीरो और राजा दाऊद के सब पुत्रो ने सुलैमान राजा की अधीनता अंगीकार की। २५ और यहोवा ने सुलैमान को सब इस्राएल के देखते बहुत बढ़ाया, और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया, जैसा उस में पहिले इस्राएल के किसी राजा का न हुआ था ॥

२६ इस प्रकार यिश् के पुत्र दाऊद ने सारे इस्राएल के ऊपर राज्य किया। २७ और उसके इस्राएल पर राज्य करने का समय चालीस वर्ष का था, उस ने सात वर्ष तो हेब्रोन में और तैंतीस वर्ष

यरूशलेम में राज्य किया। २८ और वह पूरे बूढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और विभव, मनमाना भोगकर * मर गया; और उसका पुत्र सुलैमान उसके स्थान पर राजा हुआ। २९ आदि से अन्त तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तान्त, ३० और उसके सब राज्य और पराक्रम का, और उस पर और इस्राएल पर, वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता, इसका भी वृत्तान्त शमूएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तको में † लिखा हुआ है ॥

* मूल में—दिनों धन, और विभव से रुस।
† मूल में—के वचनों में।

इतिहास नामक पुस्तक—दूसरा भाग

(सुलैमान के राज्य का चारम्भ)

१ दाऊद का पुत्र सुलैमान राज्य में स्थिर हो गया, और उसका परमेश्वर यहोवा उसके सग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया ॥

२ और सुलैमान ने सारे इस्राएल से, अर्थात् सहस्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इस्राएल के सब रईसों से जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे, बाने की। ३ और सुलैमान पूरी मण्डली समेत गिबोन के ऊचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलापवाला तम्बू, जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल

में बनाया था, वह वही पर था। ४ परन्तु परमेश्वर के सन्दूक को दाऊद किर्यत्यारीम से उस स्थान पर लं आया था जिसे उस ने उसके लिये तैयार किया था, उस ने तो उसके लिये यरूशलेम में एक तम्बू खडा कराया था। ५ और पीतल की जो बेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने, जो हूर का पीता था, बनाई थी, वह गिबोन में * यहोवा के निवास के साम्हने थी। इसलिये सुलैमान मण्डली समेत उसके पास गया। ६ और सुलैमान ने वही उस पीतल की बेदी के पास जाकर, जो

* मूल में—वहां।

यहोवा के साम्हने मिलापवाले तम्बू के पास थी, उम पर एक हजार होमबलि चढ़ाए ॥

७ उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलैमान को दर्शन देकर उस से कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दू, वह माग । ८ सुलैमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझ को उसके स्थान पर राजा बनाया है । ९ अब हे यहोवा परमेश्वर ! जो वचन तू ने मेरे पिता दाऊद को दिया था, वह पूरा हो, तू ने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनको के समान बहुत है । १० अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे, कि मैं इस प्रजा के साम्हने अन्दर-बाहर आना-जाना कर सकूँ, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके ? ११ परमेश्वर ने सुलैमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनमा हुई, अर्थात् तू ने न तो धन सम्पत्ति मागी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मागी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिस से तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मैं ने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके, १२ इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है । और मैं तुझे इतना धन सम्पत्ति और ऐश्वर्य दूंगा, जितना न तो तुझ से पहिले किसी राजा को, मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा । १३ तब सुलैमान गिबोन के ऊचे स्थान से, अर्थात् मिलापवाले तम्बू के साम्हने से यरूशलेम को आया और वहा इस्त्राएल पर राज्य करने लगा ॥

१४ फिर सुलैमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिये, और उसके चौदह सौ रथ और बारह हजार सवार थे, और उनको उस ने रथों के नगरों में, और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा । १५ और राजा ने ऐसा किया, कि यरूशलेम में सोने-चान्दी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरो का सा, और देवदारो का मूल्य नीचे के देश के गूलरो का सा बना दिया । १६ और जो घोड़े सुलैमान रखता था, वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें भ्रुगड के भ्रुगड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे । १७ एक रथ तो छ सौ शेकेल चान्दी पर, और एक घोडा डेढ सौ शेकेल पर मिस्र में आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओ और अराम के राजाओ के लिये उन्ही के द्वारा लाया करते थे ॥

(अम्बिर का बनावडा)

२ और सुलैमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया । २ इसलिये सुलैमान ने सत्तर हजार बोभिये और अस्सी हजार पहाड से पत्थर काटनेवाले और वृक्ष काटनेवाले, और इन पर तीन हजार छ सौ मुखिये गिनती करके ठहराए । ३ तब सुलैमान ने सोर के राजा हराम के पास कहला भेजा, कि जैसा तू ने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात् उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे, वैसा ही अब मुझ में भी बर्ताव कर । ४ देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ, कि उसे उसके लिये पवित्र

करू और उसके सम्मुख सुगन्धित धूप जलाऊ, और नित्य भेंट की रोटी उस में रखी जाए, और प्रतिदिन सबेरे और सांझ को, और विश्राम और नये चाद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होमबलि चढ़ाया जाए। इस्राएल के लिये ऐसी ही मदा की विधि है। ५ और जो भवन में बनाने पर हू, वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। ६ परन्तु किस की इतनी शक्ति है, कि उसके लिये भवन बनाए, वह तो स्वर्ग में वरन सब से ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता ? मैं क्या हू कि उसके साम्हने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा में उसका भवन बनाऊ ? ७ सो अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे, जो सोने, चान्दी, पीतल, लोहे और बेंजनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहने हैं, काम करे। ८ फिर लबानोन में मेरे पास देवदार, सनोवर और चदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हू कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं, और तेरे दासों के सग मेरे दास भी रहकर, ९ मेरे लिये बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हू, वह बड़ा और अचम्भे के योग्य होगा। १० और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे, उनको मैं बीस हजार कोर कूटा हुआ गेहूँ, बीस हजार कोर जव, बीस हजार बत दाखमधु और बीस हजार बत तेल दूंगा ॥

११ तब सोर के राजा हूराम ने चिट्ठी लिखकर मुलैमान के पास भेजी, कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इस से उस ने तुम्हें उनका राजा कर दिया। १२ फिर हूराम ने यह भी लिखा * कि घन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उस ने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। १३ इसलिये अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को, अर्थात् हूराम-अबी को भेजता हू, १४ जो एक दानी स्त्री का बेटा है, और उसका पिता सोर का था। और वह सोने, चान्दी, पीतल लोहे, पत्थर, लकड़ी, बेंजनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम, और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भाति की कारीगरी बना सकता है। सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग, और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग, उसको भी काम मिले। १५ और मेरे प्रभु ने जो गेहूँ, जव, तेल और दाखमधु भेजने की चर्चा की है, उसे अपने दासों के पास भिजवा दे। १६ और हम लोग जितनी लकड़ी का तुम्हें प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे, और बड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से जापा को पहुँचाएंगे, और तू उसे यरूशलेम को ले जाना ॥

१७ तब मुलैमान ने इस्राएली देश के सब परदेशियों की गिनती ली, यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे डेढ़ लाख तीन हजार

* मूल में—कहा।

छः सौ पुष्प निकले । १८ उन में से उस ने सत्तर हजार बोकिये, अस्सी हजार पहाड पर पत्थर काटनेवाले और वृक्ष काटनेवाले और तीन हजार छः सौ उन लोगों में काम करानेवाले मुखिये नियुक्त किए ॥

३ तब सुलैमान ने यरूशलेम में मोरिय्याह नाम पहाड पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरम्भ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था । २ उस ने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के, दूसरे दिन को बनाना आरम्भ किया । ३ परमेश्वर का जो भवन सुलैमान ने बनाया, उसका यह ढब है, अर्थात् उसकी लम्बाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार साठ हाथ, और उसकी चौड़ाई बीस हाथ की थी । ४ और भवन के साम्हने के ओसारे की लम्बाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर बीस हाथ की, और उसकी ऊंचाई एक सौ बीस हाथ की थी । सुलैमान ने उसको भीतर चोखे सोने से मढवाया । ५ और भवन के बडे भाग की छत उस ने सनोवर की लकड़ी से पटवाई, और उसको अच्छे सोने से मढवाया, और उस पर खजूर के वृक्ष की और साकलों की नक्काशी कराई । ६ फिर शोभा देने के लिये उस ने भवन में मणि जडवाए । और यह सोना पर्वम का था । ७ और उस ने भवन को, अर्थात् उसकी कडियो, डेवडियो, भीतों और किवाडो को सोने से मढवाया, और भीतों पर करूब खुदवाए ॥

८ फिर उस ने भवन के परमपवित्र स्थान को बनाया, उसकी लम्बाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर बीस हाथ की थी, और उसकी चौड़ाई बीस हाथ की थी, और उस ने उसे छ सौ किककार चोखे सोने से मढवाया । ९ और सोने की कीलों का तौल पचास शेकेल था । और उस ने अटारियों को भी सोने से मढवाया ॥

१० फिर भवन के परमपवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के दो करूब बनवाए और वे सोने से मढवाए गए । ११ करूबों के पख तो सब मिलकर बीस हाथ लम्बे थे, अर्थात् एक करूब का एक पख पाच हाथ का और भवन की भीत तक पहुचा हुआ था, और उसका दूसरा पख पांच हाथ का था और दूसरे करूब के पख से मिला हुआ था । १२ और दूसरे करूब का भी एक पख पाच हाथ का और भवन की दूसरी भीत तक पहुचा था, और दूसरा पख पाच हाथ का और पहिले करूब के पख से सटा हुआ था । १३ इन करूबों के पख बीस हाथ फेले हुए थे, और वे अपने अपने पांवों के बल खडे थे, और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे । १४ फिर उस ने बीचवाले पदों को नीले, बंजनी और लाल रंग के सन के कपडे का बनवाया, और उम पर करूब कढवाए ॥

१५ और भवन के साम्हने उस ने पेंतीस पेंतीस हाथ ऊंचे दो खम्भे बनवाए, और जो कगनी एक एक के ऊपर थी वह पाच पाच हाथ की थी । १६ फिर उस ने भीतरी कोठरी में साकले बनवाकर खम्भों के ऊपर लगाई, और एक सौ अनार भी बनाकर साकलों पर लटकाए ।

१७ उस ने इन खम्भो को मन्दिर के साम्हने, एक तो उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया, और दाहिने खम्भे का नाम याकीन और बाये खम्भे का नाम बोअज़ रखा ॥

४ फिर उस ने पीतल की एक वेदी बनाई, उसकी लम्बाई और चौड़ाई बीस बीस हाथ की और ऊंचाई दस हाथ की थी। २ फिर उस ने एक ढाला हुआ हीद बनवाया, जो छोर से छोर तक दस हाथ तक चौड़ा था, उसका आकार गोल था, और उसकी ऊंचाई पाच हाथ की थी, और उसके चारो ओर का घेर तीस हाथ के नाप का था। ३ और उसके तले, उसके चारो ओर, एक एक हाथ में दस दस बैलों की प्रतिमाएँ बनी थी, जो हीद को घेरे थी; जब वह ढाला गया, तब ये बैल भी दो पाति करके ढाले गए। ४ और वह बारह बने हुए बैलो पर धरा गया, जिन में से तीन उत्तर, तीन पश्चिम, तीन दक्खिन और तीन पूर्व की ओर मुह किए हुए थे, और इनके ऊपर हीद धरा था, और उन सभो के पिछले अग्र भीतरी भाग में पडते थे। ५ और हीद की मोटाई चौवा भर की थी, और उसका मोहडा कटोरे के मोहड़े की नाई, सोमन के फूलो के काम से बना था, और उम में तीन हजार बत भरकर समाता था। ६ फिर उम ने धोने के लिये दस हीदी बनवाकर, पाच दाहिनी ओर पाच बाईं ओर रख दी। उन में होमवलि की वस्तुएँ धोई जाती थी, परन्तु याजको के धोने के लिये बडा हीद था ॥

७ फिर उस ने सोने की दस दीवट विधि के अनुसार बनवाई, और पांच दाहिनी ओर और पाच बाईं ओर मन्दिर में रखवा दी। ८ फिर उस ने दस मेज बनवाकर पांच दाहिनी ओर और पांच बाईं ओर मन्दिर में रखवा दी। और उस ने सोने के एक सौ कटोरे बनवाए। ९ फिर उस ने याजको के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया, और इस आंगन में फाटक * बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढवाया। १० और उस ने हीद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात् पूर्व और दक्खिन के कोने की ओर रखवा दिया ॥

११ और हूराम ने हगडो, फावडियो, और कटोरों को बनाया। और हूराम ने राजा सुलेमान के लिये परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे निपटा दिया १२ अर्थात् दो खम्भे और गोलों समेत वे कगनिया जो खम्भो के सिरो पर थी, और खम्भो के सिरो पर के गोलों को ढापने के लिए जालियों की दो दो पाति; १३ और दोनो जालियो के लिये चार सौ अनार और जो गोलो खम्भो के सिरो पर थे, उनको ढापनेवाली एक एक जाली के लिये अनारो की दो दो पाति बनाई। १४ फिर उस ने कुसियाँ और कुसियो पर की ढाँदिया १५ और उनके नीचे के बारह बैल बनाए। १६ फिर हूराम-अब्बी ने हगडो, फावडियो, काटो और इनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिये राजा सुलेमान की आज्ञा से भुलकाए हुए पीतल के बनवाए। १७ राजा ने उसको यरदन

* मूल में—किवाड़।

की तराई में अर्थात् सुक्कोत और सरेदा के बीच की चिकनी मिट्टीवाली भूमि में ढलवाया। १८ सुलैमान ने ये सब पात्र बहुत बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब न था।।

१९ और सुलैमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की बेदी, और बे मेज जिन पर भेट की रोटी रखी जाती थी, २० और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटे, जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के साम्हने जला करती थी। २१ और सोने वरन निरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे; २२ और चोखे सोने की कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी किवाड और भवन अर्थात् मन्दिर के किवाड सोने के बने।।

इस प्रकार सुलैमान ने यहोवा के भवन के लिये जो जो काम बनवाया वह सब निपट गया। तब सुलैमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चान्दी और सब पात्रों को भीतर पहुँचाकर परमेश्वर के भवन के भण्डारों में रखवा दिया।।

(मन्दिर की प्रविष्टा)

२ तब सुलैमान ने इस्राएल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष, जो इस्राएलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस मनसा से इकट्ठा किया, कि वे यहोवा की वाचा का सन्दूक दाऊदपुर से अर्थात् सिय्मोन से ऊपर लिवा ले आए। ३ सब इस्राएली पुरुष सातबे महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। ४ जब इस्राएल के सब पुरनिये आए, तब लेवियों ने सन्दूक

को उठा लिया। ५ और लेवीय याजक सन्दूक और मिलाप का तम्बू और जितने पवित्र पात्र उस तम्बू में थे उन सभी को ऊपर ले गए। ६ और राजा सुलैमान और सब इस्राएली मण्डली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ने सन्दूक के साम्हने इतनी भेड और बल बनि किए, जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकती थी। ७ तब याजको ने यहोवा की वाचा का सन्दूक उसके स्थान में, अर्थात् भवन की भीतरी कोठरी में जो परमपवित्र स्थान है, पहुँचाकर, करूबों के पखों के तले रख दिया। ८ सन्दूक के स्थान के ऊपर करूब तो पख फैलाए हुए थे, जिससे वे ऊपर से सन्दूक और उसके डण्डों को ढापे थे। ९ डण्डे तो इतने लम्बे थे, कि उनके सिरे सन्दूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के साम्हने देख पड़ते थे, परन्तु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही हैं। १० सन्दूक में पत्थर की उन दो पटियाओं को छोड़ कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बान्धी थी। ११ जब याजक पवित्रस्थान से निकले (जितने याजक उपस्थित थे, उन सभी ने तो अपने अपने को पवित्र किया था, और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे; १२ और जितने लेवीय गवैये थे, वे सब के सब अर्थात् पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहिने भाऊ, सारंगियाँ और वीराणें लिये हुए, बेदी के पूर्व अलग में खड़े थे, और उनके साथ एक सौ बीस

याजक तुरहिया बजा रहे थे।) १३ तो जब तुरहिया बजानेवाले और गानेवाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झाँक आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊँचे शब्द से करने लगे, कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, १४ और बादल के कारण याजक लोग सेवा-टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था ॥

६ तब सुलैमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था, कि मैं घोर अधकार में वास किए रहूँगा। २ परन्तु मैं ने तेरे लिये एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ स्थान बनाया है, जिस में तू युग युग रहे। ३ और राजा ने इस्राएल की पूरी सभा की ओर मुँह फेरकर उसको आशीर्वाद दिया, और इस्राएल की पूरी सभा खड़ी रही। ४ और उस ने कहा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिस ने अपने मुँह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था, और अपने हाथों से इसे पूरा किया है, ५ कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैं ने न तो इस्राएल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिस में मेरे नाम के निवास के लिये भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। ६ परन्तु मैं ने यरूशलेम को इसलिये चुना है, कि मेरा नाम वहाँ हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इस्राएल पर प्रधान हो। ७ मेरे पिता

दाऊद की यह मनसा थी कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए। ८ परन्तु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद में कहा, तेरी जो मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी मनसा करके तू ने भला तो किया; ९ तौभी तू उस भवन को बनाने न पाएगा : तेरा जो निज पुत्र होगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। १० यह वचन जो यहोवा ने कहा था, उसे उस ने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इस्राएल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। ११ और इस में मैं ने उस सन्दूक को रख दिया है, जिस में यहोवा की वह वाचा है, जो उस ने इस्राएलियों में बान्धी थी ॥

१२ तब वह इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के साम्हने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। १३ सुलैमान ने पाच हाथ लम्बी, पाच हाथ चौड़ी और तीन हाथ ऊँची पीतल की एक चौकी बनाकर आगन के बीच रखवाई थी, उसी पर खड़े होकर उस ने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, १४ हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है. तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर* चलते हैं, उनके लिये तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता

* मूल में—तेरे साम्हने।

है। १५ तू ने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तू ने पालन किया है; जैसा तू ने अपने मुह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आँखों के साम्हने * पूरा भी किया है।

१६ इसलिये अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा इस वचन को भी पूरा कर, जो तू ने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल में मेरे साम्हने इस्राएल की गद्दी पर विराजनेवाले सदा बने रहेंगे, यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करे, कि मेरी व्यवस्था पर चलें।

१७ अब हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जो वचन तू ने अपने दास दाऊद को दिया था, वह सच्चा किया जाए ॥

१८ परन्तु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के सग पृथ्वी पर वास करेगा ? स्वर्ग में वरन सब से ऊँचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्योंकर समाएगा ? १९ तौभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिडगिडाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन, जो मैं तेरे साम्हने कर रहा हूँ। २० वह यह है कि तेरी आँखें इस भवन की ओर, अर्थात् इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तू ने कहा है कि मैं उस में अपना नाम रखूँगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। २१ और अपने दास, और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुह किए

हुए गिडगिडाकर करे, उसे सुन लेना, स्वर्ग में से जो तेरा निवासस्थान है, सुन लेना; और सुनकर क्षमा करना ॥

२२ जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए, और वह आकर इस भवन में तेरी बेदी के साम्हने शपथ खाए, २३ तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना, और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना, और उसकी चाल उसी के सिर लौटा देना, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर, उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना ॥

२४ फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए, और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने, और इस भवन में तुझ से प्रार्थना और गिडगिडाहट करे, तो तू स्वर्ग में से सुनना, २५ और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना, और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तू ने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है ॥

२६ जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें, और इस कारण आकाश इतना बन्द हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को मानें, और तू जो उन्हें दुःख देता है, इस कारण वे अपने पाप से फिरे, २७ तो तू स्वर्ग में से सुनना, और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना, तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिये, इसलिये अपने इस देश पर जिसे तू ने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है, पानी बरसा देना ॥

* मूल में—आज के दिन की नाई।

२८ जब इस देश में काल वा मरी वा भुलस हो वा गेरुई वा टिड्डियां वा कीडे लगे, वा उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे, वा कोई विपत्ति वा रोग हो; २९ तब यदि कोई मनुष्य वा तेरी सारी प्रजा इस्लाम जो अपना अपना दुःख और अपना अपना खेद जान कर और गिडगिडाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए; ३० तो तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान से सुनकर क्षमा करना, और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना, (तू ही तो आदमियों के मन का जाननेवाला है), ३१ कि वे जितने दिन इस देश में रहे, जिसे तू ने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहे ॥

३२ फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्लाम का न हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवन्त हाथ और बढाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए, और आकर इस भवन की ओर मुह किए हुए प्रार्थना करे, ३३ तब तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से सुने, और जिस बात के लिये ऐसा परदेशी तुम्हें पुकारे, उसके अनुसार करना, जिस से पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर, तेरी प्रजा इस्लाम की नाई तेरा भय मानें; और निश्चय करे, कि यह भवन जो मैं ने बनाया है, वह तेरा ही कहलाता है ॥

३४ जब तेरी प्रजा के लोग जहा कही तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लडाई करने को निकल जाए, और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है, और इस

भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का बनाया है, मुह किए हुए तुम्हें प्रार्थना करे, ३५ तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिडगिडाहट सुनना, और उनका न्याय करना ॥

३६ निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे, और वे उन्हें बन्धुआ करके किसी देश को, चाहे वह दूर हो, चाहे निकट, ले जाए, ३७ तो यदि वे बन्धुआई के देश में सोच विचार करे, और फिरकर अपनी बन्धुआई करनेवालों के देश में तुम्हें से गिडगिडाकर कहे, कि हम ने पाप किया, और कुटिलता और दुष्टता की है, ३८ तो यदि वे अपनी बन्धुआई के देश में जहा वे उन्हें बन्धुआ करके ले गए हों अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें, और अपने इस देश की ओर जो तू ने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तू ने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैं ने तेरे नाम का बनाया है, मुह किए हुए तुम्हें से प्रार्थना करे, ३९ तो तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से उनकी प्रार्थना और गिडगिडाहट सुनना, और उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें, उन्हें क्षमा करना । ४० और हे मेरे परमेस्वर ! जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रख ॥

४१ अब हे यहोवा परमेस्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के सन्दूक समेत अपने विश्रामस्थान में आ, हे यहोवा परमेस्वर तेरे यांजक उद्धाररूपी वस्त्र पहिने रहें,

श्रीर तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनन्द करते रहें। ४२ हे यहोवा पर-मेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को आनसुनी न कर *, तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख ॥

७ जब सुलैमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होमबलियों तथा और बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। २ और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ३ और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे, और फर्श पर झुककर अपना अपना मुह भूमि की ओर किए हुए दण्डवत किया, और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ४ तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। ५ और राजा सुलैमान ने बाईस हजार बैल और एक लाख बीस हजार भेड़-बकरिया चढ़ाई। यों पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। ६ और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे, और लेवीय भी यहोवा के गीत के गाने के लिये बाजे लिये हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी; और इनके साम्हने

* मूल में—अपने अभिषिक्त का मुख न करे।

याजक लोग तुरहियां बजाते रहे; और सब इस्राएली खड़े रहे ॥

७ फिर सुलैमान ने यहोवा के भवन के साम्हने प्रांगण के बीच एक स्थान पवित्र करके होमबलि और मेलबलियों की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि सुलैमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अन्नबलि और चर्बी के लिये छोटी थी ॥

८ उसी समय सुलैमान ने और उसके सग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सारे इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने सात दिन तक पर्व को माना। ९ और आठवें दिन को उन्होने महासभा की, उन्होने वेदी की प्रतिष्ठा सात दिन की, और पर्वों को भी सात दिन माना। १० निदान सातवें महीने के तेइसवें दिन को उस ने प्रजा के लोगों को विदा किया, कि वे अपने अपने डेरे को जाए, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलैमान और अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी आनन्दित थे ॥

११ यों सुलैमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उस ने बनाना चाहा, उस में उसका मनोरथ पूरा हुआ। १२ तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उस से कहा, मैं ने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिये अपनाया है। १३ यदि मैं आकाश को ऐसा बन्द करूँ, कि वर्षा न हो, वा टिडियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूँ, वा अपनी प्रजा में मरी फैलाऊँ, १४ तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना

करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यो कर दूंगा । १५ अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे । १६ और अब मैं ने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिये इस में बना रहे, मेरी आखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे । १७ और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाईं अपने को मेरे सम्मुख जानकर * चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, १८ तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैं ने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बान्धी थी, कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करनेवाला सदा बना रहेगा । १९ परन्तु यदि तुम लोग फिरो, और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं ने तुम को दी है त्यागो, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दण्डवत करो, २० तो मैं उनको अपने देश में से जो मैं ने उनको दिया है, जड़ से उखाड़ूंगा, और इस भवन को जो मैं ने अपने नाम के लिये पवित्र किया है, अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नामघराई चलेगी । २१ और यह भवन जो इतना विशाल है, उसके पास से आने जानेवाले चकित होकर पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन

से ऐसा क्यों किया है । २२ तब लोग कहेंगे, कि उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था, त्यागकर पराये देवताओं को ग्रहण किया, और उन्हें दण्डवत की और उनकी उपासना की, इस कारण उस ने यह सब विपत्ति उन पर डाली है ।।

(सुलेमान का चरित्र)

सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में बीस वर्ष लगे । २ तब जाँ नगर हूराम ने सुलेमान को दिए थे, उन्हें सुलेमान ने दूढ़ करके उन में इस्राएलियों को बसाया ।।

३ तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर, उस पर जयवन्त हुआ । ४ और उस ने तदमोर को जो जगल में है, और हमात के सब भग्दार नगरों को दूढ़ किया । ५ फिर उस ने ऊपरवाले और नीचेवाले दोनों बंधोगेन को शहरपनाह और फाटको और बंडो से दूढ़ किया ।

६ और उस ने बालात को और सुलेमान के जितने भग्दार नगर थे और उसके रथों और सवारों के जितने नगर थे उनको, और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देश में बनाना चाहा, उन सब को बनाया ।

७ हित्तियों, अमोरियों, परिजियों, हिब्रियों और यबूसियों के बचे हुए लोग जो इस्राएल के न थे, ८ उनके वश जो उनके बाद देश में रह गए, और जिनका इस्राएलियों ने अन्त न किया था, उन में से तो कितनों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है । ९ परन्तु इस्राएलियों में से सुलेमान

* मूल में—मेरे साम्ने ।

ने अपने काम के लिये किसी को दास न बनाया, वे तो योद्धा और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सबारों के प्रधान हुए। १० और सुलैमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करनेवाले थे, वे अढाई सौ थे ॥

११ फिर सुलैमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उस ने उसके लिये बनाया था, क्योंकि उस ने कहा, कि जिस जिस स्थान में यहोवा का सन्दूक आया है, वे पवित्र हैं, इसलिये मेरी रानी इन्नाएल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी ॥

१२ तब सुलैमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उस ने ओसारे के आगे बनाई थी, यहोवा को होमबलि चढाई। १३ वह मूसा की आज्ञा के और दिन दिन के प्रयोजन के अनुसार, अर्थात् विश्राम और नये चाद और प्रति वर्ष तीन बार ठहराए हुए पर्वों अर्थात् अखमीरी रोटी के पर्व, और अठवारों के पर्व, और भोपडियों के पर्व में बलि चढाया करता था। १४ और उस ने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की सेवकाई के लिये उनके दल ठहराए, और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया, कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के साम्हने सेवा-टहल किया करे, और एक एक फाटक के पास द्वारपालों को दल दल करके ठहरा दिया; क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसी आज्ञा दी थी। १५ और राजा ने भएडारों या किसी और बात में याजकों और लेवियों के लिये जो जो आज्ञा दी थी, उनको न टाला ॥

१६ और सुलैमान का सब काम जो उस ने यहोवा के भवन की नेव डालने से लेकर उसके पूरा करने तक किया वह ठीक हुआ। निदान यहोवा का भवन पूरा हुआ ॥

१७ तब सुलैमान एस्योनगेबेर और एलोट को गया, जो एदोम के देश में समुद्र के तीर पर है। १८ और हूराम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह भेज दिए, और उन्होंने सुलैमान के जहाजियों के सग ओपीर को जाकर वहा से साठे चार सौ किक्कार सोना राजा सुलैमान को ला दिया ॥

(शीबा की रानी का सुलैमान का दूशन करना)

६ जब शीबा की रानी ने सुलैमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिये यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत मोने और मरिण से लदे ऊट साथ लिये हुए आई, और सुलैमान के पास पहुचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बाते की। २ सुलैमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया, कोई बात सुलैमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही * कि वह उसे न बता सके। ३ जब शीबा की रानी ने सुलैमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, ४ और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे

* मूल में—कोई बात सुलैमान से न छिपी।

कैसे कपडे पहिने रहते हैं, और उसके पिलानेवाले कैसे हैं, और वे कैसे कपडे पहिने हैं, और वह कैसी चढाई है जिस से वह यहोवा के भवन को जाया करता है, जब उस ने यह सब देखा, तब वह चकित हो गई ॥

५ तब उस ने राजा से कहा, मैं ने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सब ही है । ६ परन्तु जब तक मैं ने आप ही आकर अपनी आँखों से यह न देखा, तब तक मैं ने उनकी प्रतीति न की; परन्तु तेरी बुद्धि की आधी बढाई भी मुझे न बताई गई थी; तू उस कीर्ति से बढकर है जो मैं ने सुनी थी । ७ धन्य हैं तेरे जन, धन्य हैं तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं । ८ धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझ से ऐसा प्रसन्न हुआ, कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिये विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे, तेरा परमेश्वर जो इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिये स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उस ने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया । ९ और उस ने राजा को एक सौ बीस किक्कार सोना, बहुत सा सुगन्धद्रव्य, और मरिण दिए, जैसे सुगन्धद्रव्य शीबा की रानी ने राजा मुलैमान को दिए, वैसे देखने में नहीं आए । १० फिर हूराम और मुलैमान दोनों के जहाजी जो ओपीर से सोना लाते थे, वे चन्दन की लकड़ी और मरिण भी लाते थे । ११ और राजा ने चन्दन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिये चबूतरे और गवैयों

के लिये वीरगाएँ और सारंगियाँ बनवाई; ऐसी वस्तुएँ उम से पहिले यहूदा देश में न देख पडी थी । १२ और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा मुलैमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया; यह उस से अधिक था, जो वह राजा के पास ले आई थी । तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई ॥

(सुलैमान का माघास्य और वस्तु)

१३ जो सोना प्रति वर्ष मुलैमान के पास पहुँचा करता था, उसका तौल छः सौ छियामठ किक्कार था । १४ यह उस से अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे, और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी मुलैमान के पास सोना चान्दी लाते थे । १५ और राजा मुलैमान ने सोना गढाकर दो सौ बड़ी बडी ढाले बनवाई, एक एक ढाल में छः सौ शेकेल गढा हुआ सोना लगा । १६ फिर उस ने सोना गढाकर तीन सौ छोटी ढाले और भी बनवाई, एक एक छोटी ढाल में तीन सौ शेकेल सोना लगा, और राजा ने उनको लबानोनी बन नामक भवन में रखा दिया । १७ और राजा ने हाथीदात का एक बडा सिंहासन बनाया और चोखे सोने में मढाया । १८ उस सिंहासन में छः सीढियाँ और सोने का एक पावदान था, ये सब सिंहासन में जुडे थे, और बँठने के स्थान की दोनों अलग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खडा हुआ बना था । १९ और छहो सीढियों की दोनों अलग में एक एक सिंह खडा हुआ बना था, वे सब बारह हुए । किसी राज्य में ऐसा कभी न बना । २० और राजा मुलैमान के पीने के सब

पात्र सोने के थे, और लबानोनी बन नामक भवन के सब पात्र भी सोखे सोने के थे; सुलैमान के दिनों में चान्दी का कुछ हिसाब न था। २१ क्योंकि हूराम के जहाजियों के सग राजा के तर्शाश को जानेवाले जहाज थे, और तीन तीन वर्ष के बाद वे तर्शाश के जहाज सोना, चान्दी, हाथीदांत, बन्दर और मोर ले आते थे ॥

२२ यों राजा सुलैमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया।

२३ और पृथ्वी के सब राजा सुलैमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। २४ और वे प्रथम वर्ष अपनी अपनी भेट अर्थात् चान्दी और सोने के पात्र, वस्त्र-शस्त्र, सुगन्धद्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। २५ और अपने घोड़ों और रथों के लिये सुलैमान के चार हजार धान और बारह हजार सवार भी थे, जिनको उस ने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। २६ और वह महानद से ले पल्लितियों के देश और मिस्र के सिवाने तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। २७ और राजा ने ऐसा किया, कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चान्दी का मूल्य पत्थरो का और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गूलरो का सा हो गया। २८ और लोग मिस्र से और और सब देशों में सुलैमान के लिये घोड़े लाते थे ॥

२९ आदि से अन्त तक सुलैमान के और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक * में, और शीलोवासी अहिव्याह

की नबूवत की पुस्तक में, और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय इहो दर्शाई के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं?

३० सुलैमान ने यरूशलेम में सारे इस्त्राएल पर चालीस वर्ष तक राज्य किया। ३१ और सुलैमान अपने पुरखाओं के सग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रूहबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ ॥

(इराक के राज्य का दो भाग हो जाना)

१० रूहबियाम शकैम को गया, क्योंकि सारे इस्त्राएली उसको राजा बनाने के लिये वही गए थे। २ और नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना (वह तो मिस्र में रहता था, जहा वह सुलैमान राजा के डर के मारे भाग गया था), और यारोबाम मिस्र में लौट आया। ३ तब उन्होंने ने उसको बुलवा भेजा, सो यारोबाम और सब इस्त्राएली आकर रूहबियाम से कहने लगे, ४ तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जूझा डाल रखा था, इसलिये अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जूझ को जिसे उस ने हम पर डाल रखा है कुछ हलका कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। ५ उस ने उन से कहा, तीन दिन के उपरान्त मेरे पास फिर आना, सो वे चले गए ॥

६ तब राजा रूहबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलैमान के जीवन भर उसके साम्हने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली, कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इस में तुम क्या सम्मति देते हो? ७ उन्हों ने उसको यह उत्तर दिया, कि यदि तू

* मूल में—के वचनों।

इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उन से मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। ८ परन्तु उस ने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली, जो उसके सग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। ९ उन से उस ने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कंसा उत्तर दू, इस में तुम क्या सम्मति देते हो ? उन्होंने ने तो मुझ से कहा है, कि जो जूआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे तू हलका कर। १० जवानों ने जो उस के संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, कि उन लोगों ने तुझ से कहा है, कि तेरे पिता ने हमारा जूआ भारी किया था, परन्तु उसे हमारे लिये हलका कर, तू उन से यों कहना, कि मेरी छिगुलिया मेरे पिता की कटि से भी मोटी ठहरेगी। ११ मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जूआ रखा था, उमे में और भी भारी कर्हूया; मेरा पिता तो तुम को कोडो से ताडना देता था, परन्तु मैं बिच्छुओं से दूगा ॥

१२ तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था, कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रूहबियाम के पास उपस्थित हुई। १३ तब राजा ने उस से कडी बातें की, और रूहबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर १४ जवानों की सम्मति के अनुसार उन से कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जूआ भारी कर दिया, परन्तु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा, मेरे पिता ने तो तुम को कोडो से ताडना दी, परन्तु मैं बिच्छुओं से ताडना दूंगा। १५ इस प्रकार राजा

ने प्रजा की बिनती न मानी; इसका कारण यह है, कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिये परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था ॥

१६ जब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले * कि दाऊद के साथ हमारा क्या अश ? हमारा तो यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इस्राएलियो, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिन्ता कर। १७ तब सब इस्राएली अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इस्राएली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन्हीं पर रूहबियाम राज्य करता रहा। १८ तब राजा रूहबियाम ने हदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था भेज दिया, और इस्राएलियो ने उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब रूहबियाम फूर्ती से अपने रथ पर चढकर, यरूशलेम को भाग गया। यों इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है ॥

(रूहबियाम का राज्य)

११ जब रूहबियाम यरूशलेम को आया, तब उस ने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को जो मिलकर एक लाख अस्सी हजार अच्छे योद्धा थे इकट्ठा किया, कि इस्राएल के साथ युद्ध करे जिस से राज्य रूहबियाम के वश में फिर आ जाए। २ तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुँचा, ३ कि यहूदा के राजा सुलैमान

* मूल में—राजा को उत्तर दिया।

के पुत्र रूहबियाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इस्त्राएलियों में कह, ४ यहोवा यों कहता है, कि अपने भाइयों पर चढाई करके युद्ध न करो। तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर में हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर, वे यारोबाम पर बिना चढाई किए लौट गए ॥

५ सो रूहबियाम यरूशलेम में रहने लगा, और यहूदा में बचाव के लिये ये नगर दृढ़ किए, ६ अर्थात् बेतलेहेम, एताम, तको। ७ बेत्सूर, सोके, अदुल्लाम। ८ गत, मारेशा, जीप। ९ अदोरैम, लाकीश, अजेका। १० सोरा, अय्यालोन और हैबोन जो यहूदा और बिन्यामीन में हैं, दृढ़ किया। ११ और उस ने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उन में प्रधान ठहराए, और भोजन वस्तु और तेल और दाखमधु के भण्डार रखवा दिए। १२ फिर एक एक नगर में उस ने ढाले और भाले रखवाकर उनको अत्यन्त दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके थे ॥

१३ और सारे इस्त्राएल के याजक और लेवीय भी अपने सब देश से उठकर उसके पास गए। १४ यों लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि छोड़कर, यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिये याजक का काम न करें। १५ और उस ने ऊँचे स्थानों और बकरों और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिये, अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। १६ और लेवियों के बाद इस्त्राएल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा के खोजी

थे वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढाने के लिये यरूशलेम को आए। १७ और उन्होंने ने यहूदा का राज्य स्थिर किया और मुलैमान के पुत्र रूहबियाम को तीन वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि तीन वर्ष तक वे दाऊद और मुलैमान की लीक पर चलते रहे ॥

१८ और रूहबियाम ने एक स्त्री को ब्याह लिया, अर्थात् महलत को जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता यिशै के पुत्र एलीआब की बेटी अबीहेल थी। १९ और उस से यूश शमर्याह और जाहम नाम पुत्र उत्पन्न हुए। २० और उसके बाद उस ने अबशलोम की नतिनी माका को ब्याह लिया, और उस में अबिय्याह, अत्ते, जीजा और शलोमीत उत्पन्न हुए। २१ रूहबियाम ने अठारह रानिया ब्याह ली और आठ रखेलियां रखी, और उसके अठाईस बेटे और साठ बेटिया उत्पन्न हुईं। अबशलोम की नतिनी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था, २२ सो रूहबियाम ने माका के बेटे अबिय्याह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस मनसा में ठहरा दिया, कि उसे राजा बनाए। २३ और वह समझ बूझकर काम करता था, और उस ने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया; और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी, और उनके लिये बहुत सी स्त्रिया ढूढ़ी ॥

१२ परन्तु जब रूहबियाम का राज्य दृढ़ हो गया, और वह आप स्थिर हो गया, तब उस ने और उसके

साथ सारे इस्त्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। २ उन्होने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रूहबियाम के पाचवें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने, ३ बारह सौ रथ और साठ हजार सवार लिये हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके सग मिस्र से आए, अर्थात् लूबी, मुक्कियी, कूशी, ये अनगिनत थे। ४ और उम ने यहूदा के गढवाले नगरो को ले लिया, और यरूशलेम तक आया। ५ तब शमायाह नबी रूहबियाम और यहूदा के हाकिमो के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यो कहता है, कि तुम ने मुझ को छोड़ दिया है, इसलिये मैं ने तुम को छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। ६ तब इस्त्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए, और कहा, यहोवा धर्मी है। ७ जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुँचा कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूँगा; मैं उनका कुछ बचाव करूँगा, और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भडकेगी। ८ तोभी वे उसके अधीन तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की भी सेवा जान लें ॥

९ तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया, और सोने की जो फरिया सुलैमान ने बनाई थी, उनको भी वह ले गया। १० तब राजा रूहबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरेओ

के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। ११ और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरेए आकर उन्हें उठा ले चलते, और फिर पहरेओ की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। १२ जब रूहबियाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया, और उस ने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा में अच्छे गुण भी थे ॥

१३ सो राजा रूहबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रूहबियाम राज्य करने लगा, तब एकतालीस वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात् उस नगर में, जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिये इस्त्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, सत्रह वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। १४ उस ने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात् उस ने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। १५ आदि से अन्त तक रूहबियाम के काम क्या शमायाह नबी और इदो दर्शी की पुस्तको * में बशाबलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं? रूहबियाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही। १६ और रूहबियाम अपने पुरखाओ के सग सो गया और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई। और उसका पुत्र अबिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(अबिय्याह का राज्य)

१३ यारोबाम के अठारहवें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। २ वह तीन वर्ष तक

* मूल में—बचनों

यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम मीकायाह था; जो गिबावासी ऊरीएल की बेटी थी। और अबिव्याह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई ॥

३ अबिव्याह ने तो बड़े योद्धाओं का दल, अर्थात् चार लाख छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिये पाति बन्धार्ई, और यारोबाम ने आठ लाख छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे, लेकर उसके विरुद्ध पाति बन्धार्ई। ४ तब अबिव्याह समारैम नाम पहाड पर, जो एप्रैम के पहाडी देग में है, खडा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इस्राएलियो, मेरी सुनो। ५ क्या तुम की न जानना चाहिए, कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने लोनवाली * वाचा बान्धकर दाऊद को और उसके वश को इस्राएल का राज्य सदा के लिये दे दिया है। ६ तीभी नबात का पुत्र यारोबाम जो दाऊद के पुत्र सुलैमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। ७ और उसके पास हलके और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं और जब सुलैमान का पुत्र रूहबियाम लडका और अल्हड मन का था और उनका साम्हना न कर सकना था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। ८ और अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का साम्हना करेंगे, जो दाऊद की सन्तान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बडा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछडे भी हैं जिन्हे यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिये बनवाया। ९ क्या तुम ने यहोवा के याजकों को,

* अर्थात् अक्षय।

अर्थात् हाऊन की सन्तान और लेवीयों को निकालकर देश देश के लोगों की नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछडा और सात मेडे अपना सस्कार कराने को ले आता, तो उनका याजक हो जाता है जो ईश्वर नहीं है। १० परन्तु हम लोगो का परमेश्वर यहोवा है और हम ने उसको नहीं त्यागा, और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करनेवाले याजक हाऊन की सन्तान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय हैं। ११ और वे नित्य सबेरे और सांभ को यहोवा के लिये होमबलि और मुगन्धद्रव्य का घूप जलाते हैं, और शुद्ध मेज पर भेट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांभ-सांभ को जलाते हैं, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहते हैं, परन्तु तुम ने उसको त्याग दिया है। १२ और देखो, हमारे सग हमारा प्रधान परमेश्वर है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सास बान्धकर फूकने को तुरहिया लिये हुए भी हमारे साथ हैं। हे इस्राएलियो अपने पूर्वजो के परमेश्वर यहोवा में मत लडो, क्योंकि तुम कृतार्थ न होंगे ॥

१३ परन्तु यारोबाम ने घातको को उनके पीछे भेज दिया, वे तो यहूदा के साम्हने थे, और घातक उनके पीछे थे। १४ और जब यहूदियो ने पीछे को मुह फेरा, तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लडाई होनेवाली है; तब उन्होंने ने यहोवा की दोहाई दी, और याजक तुरहियों को फूकने लगे। १५ तब यहूदी पुरुषो ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषो ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिव्याह और यहूदा

के साम्हने, यारोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा । १६ और इस्राएली यहूदा के साम्हने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया । १७ और अबिव्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहा तक कि इस्राएल में से पाच लाख छूटे हुए पुरुष मारे गए । १८ उस समय तो इस्राएली दब गए, और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था । १९ तब अबिव्याह ने यारोबाम का पीछा करके उस से बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरो और उनके गांवों को ले लिया । २० और अबिव्याह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ; निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया । २१ परन्तु अबिव्याह और भी सामर्थी हो गया और चौदह स्त्रिया ब्याह ली जिन से बाइस बेटे और सोलह बेटियां उत्पन्न हुई । २२ और अबिव्याह के काम और उसकी चाल चलन, और उसके वचन, इहो नबी की कथा में लिखे हैं ॥

(चाचा का राज्य)

१४

निदान अबिव्याह अपने पुरखाओ के सग सो गया, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा । इसके दिनों में दस वर्ष तक देश में चैन रहा । २ और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था । ३ उस ने तो पराई बेदियों को और ऊंचे स्थानो को दूर किया, और लाठी को तुड़वा डाला, और अशोरा नाम मूरतों

को तोड़ डाला । ४ और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजो के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को मानें । ५ और उस ने ऊंचे स्थानो और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया, और उसके साम्हने राज्य में चैन रहा । ६ और उस ने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा । और उन बरसो में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था । ७ उस ने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाए और उनके चारों ओर शहरपनाह, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बड़े बनाए; देश अब तक हमारे साम्हने पड़ा है, क्योंकि हम ने, अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है हमने उसकी खोज की और उस ने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है । तब उन्होंने ने उन नगरो को बसाया और कृतार्थ हुए । ८ फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखनेवालो की एक सेना थी, अर्थात् यहूदा में से तो तीन लाख पुरुष और बिन्यामीन में से फरी रखनेवाले और धनुर्धारी दो लाख अस्सी हजार ये सब शूरवीर थे ॥

९ और उनके विरुद्ध दस लाख पुरुषों की सेना और तीन सौ रथ लिये हुए जेरह नाम एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया । १० तब आसा उसका साम्हना करने को चला और मारेशा के निकट सापता नाम तराई में युद्ध की पाति बान्धी गई । ११ तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दोहाई दी, कि हे यहोवा ! जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की

भी; हे हमारे परमेश्वर यहोवा ! हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुम्ही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं । हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा । १२ तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के साम्हने मारा और कूशी भाग गए । १३ और आसा और उसके सग के लोगो ने उनका पीछा गरार तक किया, और इतने कूशी मारे गए, कि वे फिर सिर न उठा सके क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए, और यहूदी बहुत मा लूट ले गए । १४ और उन्हो ने गरार के आस प्रास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहनेवालों के मन में समा गया और उन्हो ने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उन में बहुत सा धन था । १५ फिर पशु-शालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़-बकरिया और ऊट लूटकर यरूशलेम को लौटे ॥

१५ तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया, २ और वह आसा से भेंट करने निकला, और उस से कहा, हे आसा, और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के सग रहोगे तब तक वह तुम्हारे सग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तब तो वह तुम से मिला करेगा, परन्तु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम को त्याग देगा । ३ बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखानेवाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा । ४ परन्तु जब जब वे सकट में पड़कर

इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूँढा, तब तब वह उनको मिला । ५ उस समय न तो जानेवाले को कुछ शांति होती थी, और न जानेवाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था । ६ और जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था । ७ परन्तु तुम लोग हियाव बान्धो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा ॥

८ जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी, तब उस ने हियाव बान्धकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से, और उन नगरों में से भी जो उस ने एग्रैम के पहाडी देश में ले लिये थे, सब घिनीनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के साम्हने थी, उसको नये सिरे से बनाया । ९ और उस ने सारे यहूदा और बिन्यामीन को, और एग्रैम, मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके सग रहते थे, उनको इकट्ठा किया, क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके सग रहता है, इस्राएल में से उसके पास बहुत से चले आए थे । १० आसा के राज्य के पन्द्रहवें वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए । ११ और उसी समय उन्हो ने उम लूट में से जो वे ले आए थे, सात सौ बैल और मात हजार भेड़-बकरिया, यहोवा को बलि करके चढाई । १२ और उन्हो ने वाचा बान्धी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेगे । १३ और क्या बड़ा, क्या छोटा,

क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे, वह मार डाला जाएगा। १४ और उन्हो ने जय जयकार के साथ तुरहिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। १५ और यह शपथ खाकर सब यहूदी आनन्दित हुए, क्योंकि उन्होंने ने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको हूँडा और वह उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया ॥

१६ वरन आसा राजा की माता माका जिस ने अशरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उस ने राज-माता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूक दी। १७ ऊंचे स्थान तो इस्त्राएलियों में से न ढाए गए, तौभी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। १८ और उस ने जो सोना चान्दी, और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे, और जो उस ने आप अर्पण किए थे, उनको परमेश्वर के भवन में पहुँचा दिया। १९ और राजा आसा के राज्य के पतीसवें वर्ष तक फिर लडाई न हुई ॥

१६ आसा के राज्य के छतीसवें वर्ष में इस्त्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढाई की और रामा को इसलिये दूढ किया, कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। २ तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भएडागे में से चान्दी-सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, ३ कि जैसे मेरे-तेरे पिता के बीच वैसे

ही मेरे-तेरे बीच भी वाचा बन्धे; देख मे तेरे पास चान्दी-सोना भेजता हूँ, इसलिये आ, इस्त्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझ से दूर हो। ४ बेन्हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर, अपने दलों के प्रधानों में इस्त्राएली नगरो पर चढाई करवाकर इय्योन, दान, आबेलमैम और नप्ताली के सब भएडाडरवाले नगरो को जीत लिया। ५ यह सुनकर बाशा ने रामा का दूढ करना छोड दिया, और अपना वह काम बन्द करा दिया। ६ तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरो और लकडी को, जिन में बासा काम करता था, उठा ले गया, और उन से उस ने गेवा, और मिस्या को दूढ किया ॥

७ उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तू ने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। ८ क्या कूशियों और लूबियों की सेना बडी न थी, और क्या उस में बहुत ही रथ, और सवार न थे? तौभी तू ने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उस ने उनको तेरे हाथ में कर दिया। ९ देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिये फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तू ने यह काम मूर्खता में किया है, इसलिये अब मे तू लडाइयो में फंसा रहेगा। १० तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उमे काठ में ठोंकवा दिया, क्योंकि वह

उसकी ऐसी बात के कारण उम पर क्रोधित था। और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा ॥

११ आदि से लेकर अन्त तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तान्त * में लिखे हैं। १२ अपने राज्य के उनतीसवें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ, और वह रोग अत्यन्त बढ़ गया, तोभी उस ने रोगी होकर यहोवा की नही बँधों ही की शरण ली। १३ निदान आसा अपने राज्य के एकतालीसवें वर्ष में मरके अपने पुरखाओ के साथ सो गया। १४ तब उसको उसी की कब्र में जो उस ने दाऊदपुर में खुदवा ली थी, मिट्टी दी गई; और वह सुगन्धद्रव्यो और गंधी के काम के भाति भाति के मसालों से भरे हुए एक बिछीने पर लिटा दिया गया, और बहुत सा सुगन्धद्रव्य उसके लिये जलाया गया ॥

(यहोशापात का राज्य)

१७ और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा, और इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। २ और उस ने यहूदा के सब गडवाले नगरों में सिपाहियो के दल ठहरा दिए, और यहूदा के देश में और एग्रैम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिये थे, सिपाहियो की चौकिया बँठा दी। ३ और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूलपुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा। ४ वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की

* मूल में—पुस्तक।

आज्ञाओं पर चलता था, और इस्राएल के से काम नहीं करता था। ५ इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दूढ़ किया, और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत धन और उसका विभव बढ़ गया। ६ और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, फिर उस ने यहूदा से ऊँचे स्थान और अशेरा नाम मूरते दूर कर दी ॥

७ और उस ने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेन्हैल, ओबद्याह, जकर्याह, नतनेल और मीकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। ८ और उनके साथ शमायाह, नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनिय्याह, तोबिय्याह और तोबदोनिय्याह नाम लेवीय और उनके सग एलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। ९ सो उन्हो ने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिये हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे ॥

१० और यहूदा के आस पास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया, कि उन्हो ने यहोशापात से युद्ध न किया। ११ वरन कितने पलिशती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चान्दी लाए; और अरबी लोग भी सात हजार सात सौ मेढे और सात हजार सात सौ बकरे ले आए। १२ और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उस ने यहूदा में किले और भण्डार के नगर तैयार किए। १३ और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था, और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात्

शूरवीर रहते थे। १४ और इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात् यहूदी सहस्रपति तो ये थे, प्रधान अदना जिसके साथ तीन लाख शूरवीर थे, १५ और उसके बाद प्रधान यहोहानान जिसके साथ दो लाख अस्सी हजार पुरुष थे। १६ और इसके बाद जिक्की का पुत्र अमस्याह, जिस ने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ दो लाख शूरवीर थे। १७ फिर बिन्यामीन में से एल्यादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ ढाल रखनेवाले दो लाख धनुर्धारी थे। १८ और उसके नीचे यहोजाबाद जिसके साथ युद्ध के हथियार बान्धे हुए एक लाख अस्सी हजार पुरुष थे। १९ वे ये हैं, जो राजा की सेवा में लवलीन थे। और ये उन से अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढवाले नगरों में ठहरा दिया ॥

१८ यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया; और उस ने अहाब के साथ समधिमाना किया। २ कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन में अहाब के पास गया, तब अहाब ने उसके और उसके सगियों के लिये बहुत सी भेड-बकरियां और गाय-बैल काटकर, उमे गिलाद के रामोत पर चढाई करने को उसकाया। ३ और इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढाई करेगा? उस ने उमे उत्तर दिया, जैसा तू बैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा, वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देगे ॥

४ फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की आज्ञा ले। ५ तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो चार सौ पुरुष थे, इकट्ठा करके उन से पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढाई करे, अथवा मे रुका रहूँ? उन्हो ने उत्तर दिया चढाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। ६ परन्तु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिस से हम पूछ ले? ७ इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हा, एक पुरुष और है, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परन्तु मैं उम से घृणा करता हूँ; क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह यिम्ला का पुत्र मीकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। ८ तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिम्ला के पुत्र मीकायाह को फुर्ती से ले आ। ९ इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहिने हुए, अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे; वे शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके साम्हने नबूवत कर रहे थे। १० तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवाकर कहा, यहोवा यों कहता है, कि इन से तू अरातियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। ११ और सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, कि गिलाद के रामोत पर चढाई कर और तू कृतार्थ होवे; क्योंकि यहोवा उमे राजा के हाथ कर देगा ॥

१२ और जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था, उस ने उस से कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं; सो तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। १३ मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की सौंह, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। १४ जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उस से पूछा, हे मीकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करे अथवा मैं रुका रहूँ ? उस ने कहा, हा, तुम लोग चढ़ाई करो, और कृतार्थ होओ, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। १५ राजा ने उस से कहा, मुझे कितनी बार तुम्हें शपथ धराकर चिताना होगा, कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझ से सच ही कह। १६ मीकायाह ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़-बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर-बितर दिखाई पडा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ हैं, इसलिये हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। १७ तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैं ने तुम्हें से न कहा था, कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं, हानि ही की नबूवत करेगा ? १८ मीकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनीं मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएँ खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पडी। १९ तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहब को कौन ऐसा बहकाएगा, कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आएँ, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा।

२० निदान एक आत्मा पाम आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई, और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। २१ यहोवा ने पूछा, किस उपाय से ? उस ने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में पैठ के उन से भूठ बुलवाऊंगी *। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। २२ इसलिये सुन अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुह में एक भूठ बोलने-वाली आत्मा पैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है ॥

२३ तब कनानों के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा, मीकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुम्हें से बाते करने को किधर गया। २४ उस ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिये कोठरी से कोठरी में भागेगा; तब जान लेगा। २५ इस पर इस्राएल के राजा ने कहा, कि मीकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर, २६ उन से कहो, राजा यों कहता है, कि इसको बन्दीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से न आऊँ, तब तक इसे दुःख की रोटी और पानी दिया करो। २७ तब मीकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे, तो जान, कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उस ने कहा, हे लोगो, तुम सब के सब सुन लो ॥

२८ तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। २९ और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परन्तु तू

* मूल में—भूठी आत्मा हूँगी।

अपने ही वस्त्र पहिने रह। इस्राएल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। ३० अराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से लड़ो। ३१ सो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब कहा इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता की। और परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने की प्रेरणा की। ३२ सो यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। ३३ तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया, और वह इस्राएल के राजा के फिलम और निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा, तब उस ने अपने सारथी से कहा, मैं धायल हुआ, इसलिये लगाम * फेरके मुझे सेना में से बाहर ले चल। ३४ और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांभ तक खड़ा रहा, परन्तु सूर्य अस्त होते-होते वह मर गया ॥

१६ और यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। २ तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र यहूदा यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उस से कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिये ? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुम्हें पर क्रोध भडका

* मूल में—अपना हाथ।

है। ३ तौभी तुम्हें मे कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। तू ने तो देश में से अशरों को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है ॥

४ यहोशापात यरूशलेम में रहता था, और उस ने बेर्शेबा से लेकर एप्रैम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके, उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया।

५ फिर उस ने यहूदा के एक एक गढ़वाले नगर में न्यायी ठहराया। ६ और उस ने न्यायियों से कहा, गोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे, वह मनुष्य के लिये नहीं, यहोवा के लिये करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। ७ अब यहोवा का भय तुम में बना रहे; चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है ॥

८ और यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकद्दमों को जाचने के लिये ठहराया। ९ और वे यरूशलेम को लौटे। और उस ने उनको आज्ञा दी, कि यहोवा का भय मानकर, सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। १० तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं, उन में से जिसका कोई मुकद्दमा तुम्हारे साम्हने आए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था, अथवा किसी आज्ञा या विधि वा नियम के विषय हो, उनको चिता देना, कि यहोवा के विषय दोषी न होओ। ऐसा

न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भडके। ऐसा करो तो तुम दोषी न ठहरोगे। ११ और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकद्दमों में तो अमर्याह महायाजक और राजा के विषय के सब मुकद्दमों में यहूदा के घराने का प्रधान इस्राएल का पुत्र जबद्याह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है; और लेवीय तुम्हारे साम्हने सरदारों का काम करेगे। इसलिये हियाव बान्धकर काम करो और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा ॥

२० इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई नूनियों* ने युद्ध करने के लिये यहोशापात पर चढाई की। २ तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, कि ताल के पार से एदोम † देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुम्हें पर चढाई कर रही है, और देख, वह हसासोन्तामार तक जो एनगदी भी कहलाता है, पहुच गई है। ३ तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ४ सो यहूदी यहोवा से सहायता मागने के लिये इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेट करने को आए ॥

५ तब यहोशापात यहोवा के भवन में नये आंगन के साम्हने यहूदियों और यरूशलेमियों की मण्डली में खडा होकर ६ यह कहने लगा, कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ! क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है ? और क्या तू जाति

* मूल में—अम्मोनियों।

† मूल में—अराम।

जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता ? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा साम्हना कोई नहीं कर सकता ? ७ हे हमारे परमेश्वर ! क्या तू ने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के साम्हने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहीम के वंश को सदा के लिये नहीं दे दिया ? ८ वे इस में बस गए और इस में तेरे नाम का एक पवित्रस्थान बनाकर कहा, ९ कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल वः और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के साम्हने और तेरे साम्हने (तेरा नाम तो इस भवन में बसा है) खडे होकर, अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देगे और तू सुनकर बचाएगा। १० और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाडी देश के लोग जिन पर तू ने इस्राएल को मिला देश में आते समय चढाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड गए और उनको विनाश न किया, ११ देख, वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तू ने हमें दिया है, हम को निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। १२ हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा ? यह जो बड़ी भीड हम पर चढाई कर रही है, उसके साम्हने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिये ? परन्तु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं ॥ १३ और सब यहूदी अपने अपने बालबच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खडे रहे। १४ तब आसाप के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवीय

जो जकर्याह का पुत्र और बनायाह का पोता और मत्तन्याह के पुत्र यीएल का परपोता था, उस में मरडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया । १५ और वह कहने लगा, हे सब यहूदियो, हे यरूशलेम के रहनेवालो, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो; यहोवा तुम से यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो; क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है । १६ कल उनका साम्हना करने को जाना । देखो वे सीस की चढाई पर चढे आते हैं और यरूएल नाम जगल के साम्हने नाले के सिरे पर तुम्हे मिलेगे । १७ इस लड़ाई में तुम्हे लडना न होगा; हे यहूदा, और हे यरूशलेम, ठहरे रहना, और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना । मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा न हो; कल उनका साम्हना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा ॥

१८ तब यहोशापात भूमि की ओर मुह करके भुका और सब यहूदियो और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के साम्हने गिरके यहोवा को दण्डवत किया । १९ और कहातियो और कोरहियो में से कुछ लेवीय खडे होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यन्त ऊंचे स्वर से करने लगे ॥

२० बिहान को वे सबेरे उठकर तको के जंगल की ओर निकल गए; और चलते समय यहोशापात ने खडे होकर कहा, हे यहूदियो, हे यरूशलेम के निवासियो, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे;

उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे ॥

२१ तब उस ने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबन्दों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है ॥

२२ जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उमी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाडी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बँठा दिया और वे मारे गए । २३ क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाडी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिये उन पर चढाई की, और जब वे सेईर के पहाडी देश के निवासियों का अन्त कर चुके, तब उन सभों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया ॥

२४ सो जब यहूदियो ने जंगल की चौकी पर पहुँचकर उस भीड की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पडी हुई लोथ हैं; और कोई नहीं बचा । २५ तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सो सम्पत्ति और मनभावने गहने मिले; जन्हों ने इतने गहने उतार लिये कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली, कि बटोरते बटोरते तीन दिन बीत गए । २६ चौथे दिन वे बराका * नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया; इस

* अर्थात् धन्यवाद वा आशिष ।

कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पडा, जो आज तक है। २७ तब वे, अर्थात् यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात, आनन्द के साथ यरूशलेम लौटे क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनन्दित किया था। २६ सो वे सारगिया, बीगाए और तुरहिया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। २६ और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्त्राएल के शत्रुओं से यहोवा झडा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। ३० और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके प्रमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया।।

३१ यों यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा तब वह पैंतीस वर्ष का था, और पन्चीस वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ही की बेटा थी। ३२ और वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उस से न मुडा, अर्थात् जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। ३३ तीभी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगो ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। ३४ और आदि से अन्त तक यहोशापात के और काम, हनानी के पुत्र येहू के विषय उस वृत्तान्त में लिखे हैं, जो इस्त्राएल के राजाओं के वृत्तान्त में पाया जाता है।।

३५ इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्त्राएल का राजा अहज्याह से जो बडी दुष्टता करता था, मेल किया।

३६ अर्थात् उस ने उसके साथ इसलिये मेल किया कि तर्शाश जाने को जहाज बनवाए, और उन्हो ने ऐसे जहाज एस्थोन गेबेर में बनवाए। ३७ तब दोदावाह के पुत्र मारेगावाशी एलीआजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत कही, कि तू ने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड डालेगा। सो जहाज टूट गए और तर्शाश को न जा सके।।

(यहोराम का राज)

२१ निदान, यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। २ इसके भाई जो यहोशापात के पुत्र थे, ये थे, अर्थात् अजर्याह, यहीएल, अजर्याह, अजर्याह, मीकाएल और शपत्याह, ये सब इस्त्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। ३ और उनके पिता ने उन्हें चान्दी सोना और अनमोल वस्तुएं और बडे बडे दान और यहूदा में गढवाले नगर दिए थे, परन्तु यहोराम को उस ने राज्य दे दिया, क्योंकि वह जेठा था। ४ जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवन्त भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इस्त्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। ५ जब यहोराम राजा हुआ, तब वह बत्तीस वर्ष का था, और वह आठ वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। ६ वह इस्त्राएल के राजाओं की सी चाल चला, जैसे अह्राब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी

पत्नी अह्राब की बेटी थी। और वह उस काम को करता था, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ७ तौभी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना न चाहा, यह उस बाचा के कारण था, जो उसने दाऊद से बान्धी थी। और उस वचन के अनुसार था, जो उस ने उसको दिया था, कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी न बुझेगा ॥

८ उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। ९ सो यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया, और रथों के प्रधानों को मारा। १० यो एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी, यह इस कारण हुआ, कि उस ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था ॥

११ और उस ने यहूदा के पहाड़ों पर ऊँचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया, और यहूदा को बहका दिया। १२ तब एलिय्याह नबी का एक पत्र उसके पास आया, कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर, १३ वरन इस्त्राएल के राजाओ की लीक पर चला है, और अह्राब के घराने की नाईं यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझ से अच्छे थे, घात किया है, १४ इस कारण यहोवा

तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी सम्पत्ति को बड़ी मार से मारेगा। १५ और तू अतडियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी अतडिया प्रतिदिन निकलती जाएगी ॥

१६ और यहोवा ने पलिशितियों को, और कूशियों के पास रहनेवाले अरबियों को, यहोराम के विरुद्ध उभारा। १७ और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर दूट पड़े, और राजभवन में जितनी सम्पत्ति मिली, उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके लहुरे बेटे यहोआहाज को छोड़, उसके पास कोई भी पुत्र न रहा ॥

१८ इन सब के बाद यहोवा ने उसे अतडियों के असाध्यरोग से पीड़ित कर दिया। १९ और कुछ समय के बाद अर्थात् दो वर्ष के अन्त में उस रोग के कारण उसकी अतडिया निकल पड़ीं, और वह अत्यन्त पीड़ित होकर मर गया। और उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिये सुगन्धद्रव्य जलाया था, वैसा उसके लिये कुछ न जलाया। २० वह जब राज्य करने लगा, तब बत्तीस वर्ष का था, और यरूशलेम में आठ वर्ष तक राज्य करता रहा, और सब को अप्रिय होकर जाता रहा। और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परन्तु राजाओ के कब्रिस्तान में नहीं ॥

(यहूदा में अषष्ठाह का राज्य)

२२ तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके लहुरे पुत्र अहज्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के सग छावनी में आया था, उस ने उसके सब बड़े बेटों

को घात किया था सो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ। २ जब अहज्याह राजा हुआ, तब वह बयालीस* वर्ष का था, और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो ओम्नी की पोती थी। ३ वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। ४ और वह अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देने थे, जिस से उमका विनाश हुआ। ५ और वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था, और इन्नाएल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के सग गिलाद के रामोत में अराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। ६ सो राजा यहोराम इसलिये लौट गया कि यिज्जेल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजाएल के साथ लड़ रहा था। और अहाब का पुत्र यहोराम जो यिज्जेल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह † उसको देखने गया ॥

७ और अहज्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। और जब वह वहां पहुंचा, तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र यहू का साम्हना करने को निकल

गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिये कराया था कि वह अहाब के घराने को नाश करे। ८ और जब यहू अहाब के घराने को दण्ड दे रहा था, तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्याह के भतीजे जो अहज्याह के दहलुए थे, मिले, और उस ने उनको घात किया। ९ तब उस ने अहज्याह को ढूँढा। वह शोमरोन में छिपा था, सो लोगो ने उसको पकड़ लिया और यहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी, कि यह यहांशापात का पोता है, जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था। और अहज्याह के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रहा ॥

(योशाफ का राज्य)

१० जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उस ने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवश को नाश किया। ११ परन्तु यहोशावत जो राजा की बेटा थी, उस ने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होनेवाले राजकुमारो के बीच से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटा यहोशावत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्याह की बहिन थी, उस ने योआश को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने न पाई। १२ और वह उसके पास परमेश्वर के भवन में छः वर्ष छिपा रहा, इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही ॥

२३ सातवें वर्ष में यहोयादा ने हियाव बान्धकर यरोहाम के पुत्र अजर्याह, यहोहानान के पुत्र इश्माएल,

* २ राजा = : २६ में बार्स।

† मूल में—अजर्याह।

आबेद के पुत्र अजर्याह, अदायाह के पुत्र मासेयाह और जिक्री के पुत्र एलीशापात, इन शतपतियों से वाचा बान्धी। २ तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों को और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए। ३ और उस सारी मण्डली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बान्धी, और यहोयादा ने उन से कहा, मुनी, यह राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। ४ तो तुम एक काम करो, अर्थात् तुम याजको और लेवियों की एक तिहाई लोग जो विश्रामदिन को आनेवाले हो, वे द्वारपाली करें, ५ और एक तिहाई लोग राजभवन में रहें और एक तिहाई लोग नेव के फाटक के पास रहें, और सब लोग यहोवा के भवन के आगनों में रहें। ६ परन्तु याजको और मेवा टहल करनेवाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए, वे तो भीतर आए, क्योंकि वे पवित्र हैं परन्तु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। ७ और लेवीय लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिये हुए राजा के चारों ओर रहें और जो कोई भवन के भीतर घुसे, वह मार डाला जाए। और तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना ॥

८ यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने ने विश्रामदिन को आनेवाले और विश्रामदिन को जानेवाले दोनों दलों के, अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा

याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। ९ तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बछें और भाले और ढाले जो परमेश्वर के भवन में थी, दे दी। १० फिर उस ने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिये हुए भवन के दक्खिनी कोने से लेकर, उत्तरी कोने तक बेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। ११ तब उन्हो ने राजकुमार को बाहर ला, उसके सिर पर मुकुट और माक्षीपत्र धरकर उसे राजा बनाया; और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे ॥

१२ जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला, जो दीडते और राजा को मगहते थे सुन पडा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। १३ और उस ने क्या देखा, कि राजा द्वार के निकट खम्भे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजानेवाले खड़े हैं, और सब लोग आनन्द कर रहे हैं और तुरहियां बजा रहे हैं और गाने बजानेवाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह, राजद्रोह ! १४ तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उन से कहा, कि उसे अपनी पातियों के बीच से निकाल ले जाओ; और जो कोई उसके पीछे चले, वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा, कि उसे यहोवा के भवन में न मार डालो। १५ तब उन्होंने ने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह राजभवन के घोडाफाटक

के द्वार तक गई, और वहां उन्होंने ने उसको मार डाला ॥

१६ तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बन्धाई। १७ तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदियो और मूरतो को टुकड़े टुकड़े किया, और मत्तान नाम बाल के याजक को वेदियो के साम्हने ही घात किया। १८ तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की मेवा के लिये उन लेबीय याजको को ठहरा दिया, जिन्हे दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके इसलिये ठहराया था, कि जैसे मूसा की व्यवस्था मे लिखा है, वैसे ही वे यहोवा को होमबलि चढाया करें, और दाऊद की चलाई हुई विधि * के अनुसार आनन्द करे और गाए। १९ और उस ने यहोवा के भवन के फाटको पर द्वारपालो को इसलिये खडा किया, कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो, वह भीतर जाने न पाए। २० और वह शतपतियो और रईसो और प्रजा पर प्रभुता करनेवालो और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन मे आया, और राजा को राजगद्दी पर बंठाया। २१ तब सब लोग आनन्दित हुए और नगर में शान्ति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार ही डाली गई थी ॥

२४ जब योआश राजा हुआ, तब वह सात वर्ष का था, और यरूशलेम मे चालीस वर्ष तक राज्य करता रहा, उसकी माता का नाम सिब्बा था,

* मूल में—दाऊद के हाथों।

जो बेशेबा की थी। २ और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा, तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि मे ठीक है। ३ और यहोयादा ने उसके दो ब्याह कराए और उस से बेटे-बेटिया उत्पन्न हुई ॥

४ इसके बाद योआश के मन मे यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। ५ तब उस ने याजको और लेवियो को इकट्ठा करके कहा, प्रति वर्ष यहूदा के नगरो मे जा जाकर सब इस्त्राएलियो से रुपये लिया करो जिस से तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो, देखो इस काम मे फुर्ती करो। तीभी लेवियो ने कुछ फुर्ती न की। ६ तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलवा कर पूछा, क्या कारण है कि तू ने लेवियो को दूढ़ आज्ञा नही दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चन्दे के रुपए ले आए जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इस्त्राएल की मरडली ने साक्षीपत्र के तम्बू के निमित्त चलाया था। ७ उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुए बाल देवताओ को दे दी थी ॥

८ और राजा ने एक सन्दूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। ९ तब यहूदा और यरूशलेम मे यह प्रचार किया गया कि जिस चन्दे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जगल मे इस्त्राएल मे चलाया था, उसके रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ। १० तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनन्दित हो रुपए लाकर जब तक चन्दा पूरा न हुआ

तब तक सन्दूक में डालते गए। ११ और जब जब वह सन्दूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुँचाया जाता और यह जान पड़ता था कि उस में रुपए बहुत हैं, तब तब राजा के प्रधान और महायाजक का नाइब आकर सन्दूक को खाली करते और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपए इकट्ठा किए। १२ तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन में काम करनेवालों को दे दिए, और उन्होने राजा और बहइयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिये, और लोहारों और ठठेरो को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिये मजदूरी पर रखा। १३ और कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया * और उन्होने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। १४ जब उन्होने वह काम निपटा दिया, तब बेशेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गए, और उन से यहोवा के भवन के लिये पात्र बनाए गए, अर्थात् सेवा टहल करने और होमबलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चान्दी के पात्र। और जब तक यहोयादा जीवित रहा, तब तक यहोवा के भवन में होमबलि नित्य चढ़ाए जाते थे।

१५ परन्तु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मर गया तब एक सौ तीस वर्ष का था। १६ और दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उस ने इस्त्राएल में और परमेश्वर के और

उसके भवन के विषय में भला किया था।।

१७ यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उमें दरखवत की, और राजा ने उनकी मानी। १८ तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशोरो और मूरतो की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। १९ तभी उस ने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए, और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परन्तु उन्होने कान न लगाया।।

२० और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया, और वह ऊँचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता है, कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते, देखो, तुम ने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उस ने भी तुम को त्याग दिया। २१ तब लोगों ने उस से द्रोह की गोष्ठी करके, राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के प्रागन में उसको पत्थरबाह किया। २२ यो राजा योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उस से की थी, उसके पुत्र को घात किया। और मरते समय उस ने कहा यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले।।

२३ नये वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की, और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नाश किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। २४ अरामियों की सेना षोडे

* मूल में—कान पर पटी चढ़ी।

ही पुरुषों की तो आई, परन्तु यहोवा ने एक बहुत बड़ी मेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने ने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। और योआश को भी उन्होंने ने दगड़ दिया ॥

२५ और जब वे उमे बहुत ही रोगी छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उस से द्रोह की गोष्ठी करके, उसे उसके बिछोने पर ही ऐमा मारा, कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परन्तु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। २६ जिन्हो ने उम में राजद्रोह की गोष्ठी की, वे ये थे, अर्थात् अम्मोनिन, शिमात का पुत्र जाबाद और शिभ्रित, मोआबिन का पुत्र यहोजाबाद। २७ उसके बेटों के विषय और उसके विरुद्ध, जो बड़े दराड की नबूवत हुई, उसके और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय ये सब बातें राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में लिखी हैं। और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राजा हुआ ॥

(अमस्याह का राज्य)

२५ जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह पचीस वर्ष का था, और यरूशलेम में उनतीस वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यहोअदान था, जो यरूशलेम की थी। २ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परन्तु खरे मन से न किया। ३ जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उस ने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। ४ परन्तु उस ने उनके लड़केबालों को न मारा क्योंकि

उस ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया, जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए, और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए, जिस ने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए ॥

५ और अमस्याह ने यहूदा को बरन सारे यहूदियों और बिन्यामीनियों को इकट्ठा करके उनको, पितरों के घरानों के अनुसार सहस्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया; और उन में से जिनको की अवस्था बीस वर्ष की अथवा उम से अधिक थी, उनकी गिनती करके तीन लाख भाला चलानेवाले और ढाल उठानेवाले बड़े बड़े योद्धा पाए। ६ फिर उस ने एक लाख इस्राएली शूरवीरों को भी एक सौ किक्कार चान्दी देकर बलवा रखा। ७ परन्तु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा इस्राएल की मेना तेरे साथ जाने न पाए; क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात् एप्रैम की कुल सन्तान के सग नही रहता। ८ यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे; और युद्ध के लिये हियाव बान्धे, तोभी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के साम्हने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। ९ अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो सौ किक्कार चान्दी मैं इस्राएली दल को दे चुका हू, उसके विषय क्या करू? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इस से भी बहुत अधिक दे सकता है। १० तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात् उस दल को जो एप्रैम की ओर से उसके पास आया था, अलग कर दिया, कि वे

अपने स्थान को लौट जाएं। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भडक उठा, और वे अत्यन्त क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए। ११ परन्तु अमस्याह हियाव बान्धकर अपने लोगों को ले चला, और लोन की तराई में जाकर, दस हजार सेईरियों को मार डाला। १२ और यहूदियों ने दस हजार को बन्धुआ करके चट्टान की चोटी पर ले गये, और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया, सो वे सब चूर चूर हो गए। १३ परन्तु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को न जाए, शोमरोन से बेथोरोन तक यहूदा के सब नगरो पर टूट पड़े, और उनके तीन हजार निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली।।

१४ जब अमस्याह एदोनियो का सहार करके लौट आया, तब उस ने सेईरियों के देवताओ को ले आकर अपने देवता करके खडा किया, और उन्ही के साम्हने दण्डवत करने, और उन्ही के लिये धूप जलाने लगा। १५ तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भडक उठा और उस ने उसके पास एक नबी भेजा जिस ने उस से कहा, जो देवता अपने लोगो को तेरे हाथ से बचा न सके, उनकी खोज मे तू क्यों लगा है ? १६ वह उस से कह ही रहा था कि उस ने उस से पूछा, क्या हम ने तुम्हे राजमन्त्री ठहरा दिया है ? चुप रह ! क्या तू मार खाना चाहता है ? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया, कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुम्हे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तू ने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी।।

१७ तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर, इस्राएल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यो कहला भेजा, कि आ हम एक दूसरे का साम्हना करे। १८ इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यो कहला भेजा, कि लबानोन पर की एक भडबेरी ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला भेजा, कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे; इतने मे लबानोन का कोई वन पशु पास से चला गया और उस भडबेरी को रोद डाला। १९ तू कहता है, कि मे ने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और बडाई मारता है ! अपने घर मे रह जा; तू अपनी हानि के लिये यहा क्यों हाथ डालता है, इस से तू क्या, वरन यहूदा भी नीचा खाएगा।।

२० परन्तु अमस्याह ने न माना। यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ, कि वह उन्हे उनके शत्रुओ के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओ की खोज मे लग गए थे। २१ तब इस्राएल के राजा योआश ने चढाई की और उस ने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश मे एक दूसरे का साम्हना किया। २२ और यहूदा इस्राएल से हार गया, और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। २३ तब इस्राएल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश मे पकडा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह मे से एप्रैमी फाटक से कोनेवाले फाटक तक चार सौ हाथ गिरा दिए। २४ और जितना सोना चान्दी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास

मिले, और राजभवन में जितना खजाना था, उस सब को और बन्धक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को लौट गया ॥

२५ यहोआहाज के पुत्र इस्त्राएल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह पन्द्रह वर्ष तक जीवित रहा । २६ आदि से अन्त तक अमस्याह के और काम, क्या यहूदा और इस्त्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ? २७ जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी, और वह लाकीश को भाग गया । सो दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा कर के, उसको वहीं मार डाला । २८ तब वह थोड़ी पर रखकर पहुँचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई ॥

(उज्जिय्याह का राज्य)

२६ तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिय्याह को लेकर जो सोलह वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया । २ जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के सग सो गया तब उज्जिय्याह ने एलोत नगर को दूढ़ कर के यहूदा में फिर मिला लिया । ३ जब उज्जिय्याह राज्य करने लगा, तब वह सोलह वर्ष का था । और यरूशलेम में बावन वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यकील्याह था, जो यरूशलेम की थी । ४ जैसे उसका पिता अमस्याह, किया करता था वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था । ५ और जकर्याह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय

ममङ्ग रखता था, * वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान् किए रहा ॥

६ तब उस ने जाकर पलिशतियों से युद्ध किया, और गते, यन्ने और अगदोद की शहरपनाहे गिरा दी, और अशदोद के आस-पाम और पलिशतियों के बीच में नगर बसाए । ७ और परमेश्वर ने पलिशतियों और गूर्बालवासी, अरबियों और मूनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की । ८ और अम्मोनी उज्जिय्याह को भेट देने लगे, वरन उसकी कीर्त्ति मिश्र के सिवाने तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यन्त सामर्थी हो गया था । ९ फिर उज्जिय्याह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहर-पनाह के मोड़ पर गुम्मत बनवाकर दूढ़ किए । १० और उसके बहुत जानवर थे इसलिये उस ने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मत बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और कर्मल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने-वाला था । ११ फिर उज्जिय्याह के योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती यीएल मुशी और भासेयाह सरदार, हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बान्धकर लड़ने को जाती थी । १२ पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती दो हजार छः सौ थी । १३ और उनके अधिकार में तीन लाख साढ़े सात हजार की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं

* या जो परमेश्वर का भय मानने की शिक्षा देता था ।

के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करनेवाले थे। १४ इनके लिये अर्थात् पूरी सेना के लिये उज्जिय्याह ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, घनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। १५ फिर उस ने यरूशलेम में गुम्मटो और कगूरो पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यन्त्र भी बनवाए जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थी हो गया।

१६ परन्तु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, और उस ने विगडकर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात् वह धूप की बेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मन्दिर में घुस गया। १७ और अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके सग यहोवा के अस्सी याजक भी जां बीर थे गए। १८ और उन्होंने उज्जिय्याह राजा का साम्हना करके उस में कहा, हे उज्जिय्याह यहोवा के लिये धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की मन्तान अर्थात् उन याजको ही का काम है, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्रस्थान में निकल जा, तू ने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर में यह तेरी महिमा का कारण न होगा। १९ तब उज्जिय्याह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिये हुए भुङ्गला उठा। और वह याजको पर भुङ्गला रहा था, कि याजको के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की बेदी के पाम ही उसके माथे पर कोठ प्रगट हुआ। २० और अजर्याह महायाजक और सब याजको ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोठ निकला है! तब उन्हो ने उसको वहां से ऋटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि

यहोवा ने मुझे कोठी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। २१ और उज्जिय्याह राजा मरने के दिन तक कोठी रहा, और कोठ के कारण अलग एक घर में रहता था, वह तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था*। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगो का न्याय भी करता था।।

२२ आदि से अन्त तक उज्जिय्याह के और कामो का वर्णन तो ग्रामोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। २३ निदान उज्जिय्याह अपने पुरखाओ के मग मो गया, और उसको उसके पुरखाओ के निकट राजाओ के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई क्योंकि उन्हो ने कहा, कि वह कोठी है। और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा।।

(योताम का राज)

२७ जब योताम राज्य करने लगा तब वह पचीस वर्ष का था, और यरूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था, जो सादोक की बेटी थी। २ उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात् जैसा उसके पिता उज्जिय्याह ने किया था, ठीक वैसा ही उस ने भी किया : तौभी वह यहोवा के मन्दिर में न घुसा। और प्रजा के लोग तब भी विगडी चाल चलने थे। ३ उसी ने यहोवा के भवन के ऊपरवाले फाटक को बनाया, और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया। ४ फिर उस ने यहूदा के पहाडी देश में कई नगर दूढ किए, और जंगलो में गड और गुम्मत बनाए। ५ और वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध

* मूल में—भवन से कटा था।

करके उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनियो ने उनको मौ किककार चादी, और दस दस हजार कोर गेहूँ और जब दिया। और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होने उसे उतना ही दिया। ६ यो योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। ७ योताम के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिखा है। ८ जब वह राजा हुआ, तब पचीस वर्ष का था, और वह यरूशलेम में सोलह वर्ष तक राज्य करता रहा। ९ निर्दान योताम अपने पुरखाओं के सग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(आहाज का राज)

२८ जब आहाज राज्य करने लगा तब वह बीस वर्ष का था, और सोलह वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और अपने मूलपुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, २ परन्तु वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, और बाल देवताओं की मूर्तियाँ ढलवाकर बनाई; ३ और हिभोम के बेटे की तराई में धूप जलाया, और उन जातियों के धिनीने कामों के अनुसार जिन्हे यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाल दिया था, अपने लडकेबालों को आग में होम कर दिया। ४ और ऊँचे स्थानों पर, और पहाड़ियों पर, और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढाया और धूप जलाया करता था ॥

५ इसलिये उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया, और वे उसको जीतकर, उसके बहुत से लोगों को बन्धुआ बनाके दमिश्क को ले गए। और वह इस्राएल के राजा के वश में कर दिया गया, जिस ने उसे बड़ी मार से मारा। ६ और रमल्याह के पुत्र पेकह ने, यहूदा में एक ही दिन में एक लाख बीस हजार लोगों को जो सब के सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। ७ और जिन्नी नामक एक एग्प्रैमी वीर ने मासेयाह नामक एक राजपुत्र को, और राजभवन के प्रधान अञ्जीकाम को, और एलकाना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला ॥

८ और इस्राएली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर दो लाख लोगों को बन्धुआ बनाके, और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की ओर ले चले। ९ परन्तु वह ओदेद नामक यहोवाका एक नबी था; वह शोमरोन को आनेवाली सेना से मिलकर उन से कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर भुल्लाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है, और तुम ने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चित्लाहट स्वर्ग को पहुँच गई है। १० और अब तुम ने ठाना है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास-दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहां दोषी नहीं हो? ११ इसलिये अब मेरी सुनो और इन बन्धुओं को जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बन्धुआ बनाके ले आए हो, लौटा दो, यहोवा का क्रोध तो तुम पर भडका है। १२ तब एग्प्रैमियों के कितने मुख्य पुरुष अर्थात् योहानान का पुत्र अजय्याह, मशिल्लेमोत का

पुत्र बेरेक्याह, शल्लूम का पुत्र यहिजकिय्याह, और हल्दै का पुत्र अमासा, लडाईं में आनेवालों का साम्हना करके, उन से कहने लगे । १३ तुम इन बन्धुओं को यहा मत लाओ; क्योंकि तुम ने वह बात ठानी है जिसके कारण हम यहोवा के यहां दोषी हो जाएंगे, और उस से हमारा पाप और दोष बढ जाएगा, हमारा दोष तो बडा है और इस्राएल पर बहुत क्रोध भडका है । १४ तब उन हथियार बन्धो ने बन्धुओं और लूट को हाकिमो और सारी सभा के साम्हने छोड दिया । १५ तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होने उठकर बन्धुओं को ले लिया, और लूट में से सब नगे लोगों को कपडे, और जूतिया पहिनाई; और खाना खिलाया, और पानी पिलाया, और तेल मला; और तब निर्बल लोगो को गदहो पर चढाकर, यरीहो को जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयो के पास पहुंचा दिया । तब वे शोमरोन को लौट आए ।

१६ उस समय राजा आहाज ने अशूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी । १७ क्योंकि एदोमियो ने यहूदा में आकर उसको मारा, और बन्धुओं को ले गए थे । १८ और पलिश्तयों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्खिन देश के नगरों पर चढाई करके, बेतलेमेश, अय्यालोन और गदे-रोत को, और अपने अपने गांवो समेत सोको, तिम्ना, और गिमजो को ले लिया; और उन में रहने लगे थे । १९ यो यहोवा ने इस्राएल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निरकुश होकर चला, और यहोवा से बडा विश्वासघात किया । २० तब अशूर का राजा तिलगतपिलनेसेर उसके विरुद्ध आया, और उसको कण्ट दिया; दूढ़ नहीं किया । २१ आहाज ने तो

यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमो के घरों में से धन निकालकर * अशूर के राजा को दिया, परन्तु इससे उसकी कुछ सहायता न हुई ।।

२२ और क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया । २३ और उस ने दमिश्क के देवताओं के लिये जिन्हो ने उसको मारा था, बलि चढाया, क्योंकि उस ने यह सोचा, कि आरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की, तो मैं उनके लिये बलि चढाऊंगा कि वे मेरी सहायता करे । परन्तु वे उसके और सारे इस्राएल के पतन का कारण हुए । २४ फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोरकर तुडवा डाले, और यहोवा के भवन के द्वारों को बन्द कर दिया; और यरूशलेम के सब कोनो में बेदियां बनाई । २५ और यहूदा के एक एक नगर में उस ने परायें देवताओं को धूप जलाने के लिये ऊंचे स्थान बनाए, और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रिस दिलाई । २६ और उसके और कामो, और आदि से अन्त तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है । २७ निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परन्तु वह इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया । और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा ।

(हिजकिय्याह के दुःखार के काम)

२६ जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह पचीस वर्ष का था,

* मूल में—शटकर ।

और उनतीस वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अब्रिय्याह था, जो जकर्याह की बेटा थी। २ जैसे उसके मूलपुरुष दाऊद ने किया था अर्थात् जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसे ही उस ने भी किया ॥

३. अपने राज्य के पहिले वर्ष के पहिले महीने में उस ने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए, और उनकी मरम्मत भी कराई। ४ तब उस ने याजको और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। ५ और उन से कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो! अब अपने अपने को पवित्र करो, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो, और पवित्रस्थान में से मूल निकालो। ६ देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था, जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुह फेरकर उसको पीठ दिखाई थी। ७ फिर उन्होने ओसारे के द्वार बन्द किए, और दीपको को बुझा दिया था, और पवित्र स्थान में इस्राएल के परमेश्वर के लिये न तो धूप जलाया और न होमबलि चढाया था। ८ इसलिये यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भडका है, और उस ने ऐसा किया, कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसे कि तुम अपनी आखों से देख रहे हो। ९ देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए, और हमारे बेटे-बेटिया और स्त्रिया बन्धुआई में चली गई है। १० अब मेरे मन ने यह निराण किया है कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बान्धू, इसलिये कि उसका भडका हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। ११ हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो

देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खडे रहने, और अपनी सेवा टहल करने, और अपने टहलुए और धूप जलानेवाले का काम करने के लिये तुम्ही को चुन लिया है ॥

१२ तब लेवीय उठ खडे हुए, अर्थात् कहातियों में से अमासै का पुत्र महत, और अजर्याह का पुत्र योएल, और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कोश, और यहल्लेलेल का पुत्र अजर्याह, और गेशोनियो में से जिम्मा का पुत्र योआह, और योआह का पुत्र एदेन। १३ और एलीसापान की सन्तान में से शिअी, और यूएन और आसाप की सन्तान में से जकर्याह और मत्तन्याह। १४ और हेमान की सन्तान में से यहूएल और शिमी, और यहूतून की सन्तान में से शमायाह और उज्जीएल। १५ इन्होने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उस ने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिये भीतर गए। १६ तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिये उस में जाकर यहोवा के मन्दिर में जितनी अशुद्ध वस्तुए मिली उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आगन में ले गए, और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुचा दिया। १७ पहिले महीने के पहिले दिन को उन्होने पवित्र करने का काम आरम्भ किया, और उसी महीने के आठवे दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होने यहोवा के भवन को आठ दिन में पवित्र किया, और पहिले महीने के सोलहवे दिन को उन्होने उस काम को पूरा किया। १८ तब उन्होने राजा हिजकियाह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रो समेत होमबलि की बेदी

और भेट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके। १६ और जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, उनको भी हम ने ठीक करके पवित्र किया है; और वे यहोवा की बेदी के साम्हने रखे हुए हैं ॥

२० तब राजा हिजकिय्याह सबरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके, यहोवा के भवन को गया। २१ तब वे राज्य और पवित्रस्थान और यहूदा के निमित्त सात बछड़े, सात भेड़ें, सात भेड़ के बच्चे, और पापबलि के लिये सात बकरे ले आए, और उस ने हारून की सन्तान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सब को यहोवा की बेदी पर चढ़ाए। २२ तब उन्हो ने बछड़े बलि किए, और याजको ने उनका लोहू लेकर बेदी पर छिड़क दिया, तब उन्हो ने भेड़े बलि किए, और उनका लोहू भी बेदी पर छिड़क दिया। और भेड़ के बच्चे बलि किए, और उनका भी लोहू बेदी पर छिड़क दिया। २३ तब वे पापबलि के बकरो को राजा और मरडली के समीप ले आए और उन पर अपने अपने हाथ रखे। २४ तब याजको ने उनको बलि करके, उनका लोहू बेदी पर छिड़क कर पापबलि किया, जिस से सारे इस्राएल के लिये प्रायश्चित्त किया जाए। क्योंकि राजा ने सारे इस्राएल के लिये होमबलि और पापबलि किए जाने की आज्ञा दी थी ॥

२५ फिर उस ने दाऊद और राजा के दर्शी गाद, और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, आरु, सारगिया और बीरगाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। २६ तब लेवीय दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए, और याजक नुरहिया

लिए हुए खड़े हुए। २७ तब हिजकिय्याह ने बेदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होमबलि चढ़ने लगी, तब यहोवा का गीत आरम्भ हुआ, और तुरहिया और इस्राएल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे। २८ और मरडली के सब लोग दण्डवत करते और गानेवाले गाते और तुरही फूकनेवाले फूकते रहे, यह सब तब तक होता रहा, जब तक होमबलि चढ़ न चुकी। २९ और जब बलि चढ़ चुकी, तब राजा और जितने उसके मग वहा थे, उन सभी ने सिर झुकाकर दण्डवत किया। ३० और राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी, कि दाऊद और आसाप दर्शी के भजन * गाकर यहोवा की स्तुति करे। और उन्हो ने आनन्द के साथ स्तुति की और मिर नवाकर दण्डवत किया ॥

३१ तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुम ने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिये समीप आकर यहोवा के भवन में मेलबलि और धन्यवादबलि पहुँचाओ। तब मरडली के लोगो ने मेलबलि और धन्यवादबलि पहुँचा दिए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्हो ने भी होमबलि पहुँचाए। ३२ जो होमबलि पशु मरडली के लोग ले आए, उनकी गिनती यह थी, सत्तर बैल, एक सौ भेड़े, और दो सौ भेड़ के बच्चे; ये सब यहोवा के निमित्त होमबलि के काम में आए। ३३ और पवित्र किए हुए पशु, छ सौ बैल और तीन हजार भेड़-बकरियां थी। ३४ परन्तु याजक ऐसे थोड़े थे, कि वे सब होमबलि पशुओं की खालें न उतार सके, तब उनके भाई लेवीय उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम निपट न

* मूल में—बचन।

गया, और याजकों ने अपने को पवित्र न किया; क्योंकि लेवीय अपने को पवित्र करने के लिये पवित्र याजकों से अधिक मीघं मन के थे। ३५ और फिर होमबलि पशु बहुत थे, और मेलबलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होमबलि के साथ अर्घ्य भी देना पडा। यों यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। ३६ तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उम काम के कारण आनन्दित हुए, जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिये तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था ॥

(चिजकिय्याह का आज्ञा उच्चा फसह)

३०- फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्त्राएल और यहूदा में कहला भेजा, और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे, कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये फसह मनाने को आओ। २ राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मण्डली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाएं। ३ वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे, क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था, और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे। ४ और यह बात राजा और सारी मण्डली को अच्छी लगी। ५ तब उन्होंने ने यह ठहरा दिया, कि बेशैबा से लेकर दान के सारे इस्त्राएलियों में यह प्रचार किया जाय, कि यरूशलेम में इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये फसह मनाने को चले आओ, ६ क्योंकि उन्होंने ने इतनी बड़ी सख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिये हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठिया लेकर, राजा की

आज्ञा के अनुसार सारे इस्त्राएल और यहूदा में घूमे, और यह कहते गए, कि हे इस्त्राएलियो ! इस्त्राहीम, इसहाक और इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह अश्शूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। ७ और अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्हो ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था, और उस ने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वय देख रहे हो। ८ अब अपने पुरखाओं को नाई हठ न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उमके उस पवित्रस्थान में आओ जिसे उस ने सदा के लिये पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, कि उसका भडका हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। ९ यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयो और लडके-बालोको बन्धुआ बनाके ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे, और वे इस देश में लौट सकेंगे क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुह तुम से न मोड़ेगा ॥

१० इस प्रकार हरकारे एप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होने हुए जबूलन तक गए; परन्तु उन्होंने ने उनकी हंसी की, और उन्हें ठट्टों में उडाया। ११ तीसरी आशर, मनश्शे और जबूलन में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। १२ और यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति * हुई, कि वे एक मन होकर, जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, उसे मानने को तैयार हुए ॥

* मूल में—दाब।

१३ इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिये इकट्ठे हुए, कि दूसरे महीने में अख-मीरी रोटी का पर्व माने। और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई। १४ और उन्हो ने उठकर, यरूशलेम की वेदियों और घूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। १५ तब दूसरे महीने के चौदहवे दिन को उन्हो ने फसह के पशु बलि किए तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होमबलियों को यहोवा के भवन में ले आए। १६ और वे अपने नियम के अनुसार, अर्थात् परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार, अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया। १७ क्योंकि सभा में बहुते ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था, इसलिये सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया, कि उनको यहोवा के लिये पवित्र करे। १८ बहुत से लोगो ने अर्थात् एग्रैम, मनश्शे, इस्साकार और जबलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तीभी वे फसह के पशु का मास लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे। क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिये यह प्रार्थना की थी, कि यहोवा जो भला है, वह उन सभो के पाप ढाप दे; १९ जो परमेश्वर की अर्थात् अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र-स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हों। २० और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगो को चगा किया। २१ और जो इस्राएली यरूशलेम में उपस्थित थे, वे सात दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व बड़े आनन्द से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवीय और याजक ऊचे शब्द

के बाजे यहोवा के लिये बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। २२ और जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शान्ति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेलबलि चढाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पापांगीकार करते रहे और उस नियत पर्व के मातो दिन तक खाते रहे।

२३ तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और सात दिन पर्व मानेंगे; सो उन्हो ने और सात दिन आनन्द में पर्व मनाया। २४ क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सभा को एक हजार बछड़े और सात हजार भेड़-बकरिया दे दी, और हाकिमो ने सभा को एक हजार बछड़े और दस हजार भेड़-बकरिया दी*, और बहुत ने याजकों ने अपने को पवित्र किया। २५ तब याजकों और लेवियों ममेत यहूदा की सारी सभा, और इस्राएल में आए हुए लोगों की सभा, और इस्राएल के देश में आए हुए, और यहूदा में रहनेवाले परदेशी, इन सभों ने आनन्द किया। २६ सो यरूशलेम में बड़ा आनन्द हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलैमान के दिनों में ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। २७ अन्त में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उनकी सुनी गई, और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात् स्वर्ग तक पहुँची।।

(हिजकिय्याह का किया उपासना का प्रवचन)

३१ जब यह सब हो चुका, तब जितने इस्राएली उपस्थित थे, उन सभो ने यहूदा के नगरो में जाकर, सारे यहूदा और बिन्यामीन और एग्रैम और मनश्शे में

* मूल में—उठाई।

की लाठी को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला, और ऊँचे स्थानों और बेंदियों को गिरा दिया; और उन्होंने उन सब का अन्त कर दिया। तब सब इस्राएली अपने अपने नगर को लौटकर, अपनी अपनी निज भूमि में पहुँचे ॥

२ और हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को वरन याजकों और लेवियों दोनों को, प्रति दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनुसार इसलिये ठहरा दिया, कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होमबलि, मेल-बलि, मेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करे। ३ फिर उस ने अपनी सम्पत्ति में से राजभङ्गा को होमबलियों के लिये ठहरा दिया, अर्थात् सबेरे और साँझ की होमबलि और विश्राम और नये चाद के दिनों और नियत समयों की होमबलि के लिये जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। ४ और उस ने यरूशलेम में रहनेवालों को याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें *। ५ यह आज्ञा सुनते ही † इस्राएली अन्न, नया दाखमधु, टटका तेल, मधु आदि खेती की सब भाँति की पहिली उपज बहुतायत में देने, और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। ६ और जो इस्राएली और यहूदी, यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बेलो और भेड-बकरियों का दशमांश, और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश, जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। ७ इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने ने तीसरे महीने में

* मूल में—व्यवस्था में बल पकड़ें।

† मूल में—यह आज्ञा फूटते ही।

आरम्भ किया और सातवे महीने में पूरा किया। ८ जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उसकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य कहा। ९ तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा।

१० और अजर्याह महायाजक ने जो सादोक के घराने का था, उस से कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गया है, उसी का यह बड़ा ढेर है ॥

११ तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरिया तैयार करने की आज्ञा दी, और वे तैयार की गई। १२ तब लोगों ने उठाई हुई भेंटें, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएँ, सच्चाई से पहुँचाई और उनके मुख्य अधिकारी तो कोनन्याह नाम एक लेवीय और दूसरा उसका भाई शिमी नायब था।

१३ और कोनन्याह और उसके भाई शिमी के नीचे, हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजर्याह दोनों की आज्ञा में अहीएल, अजज्याह, नहत, असाहेल, यरीभेत, योजाबाद, एलीएल, यिस्मक्याह, महत और बनायाह अधिकारी थे।

१४ और परमेश्वर के लिये स्वेच्छाबलियों का अधिकारी यिम्ना लेवीय का पुत्र कोरे था, जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था, कि वह यहोवा की उठाई हुई भेंटें, और परमपवित्र वस्तुएँ बाँटा करे। १५ और उसके अधिकार में एदेन, मिन्यामीन, येबू, शमायाह, अमर्याह और शकन्याह याजकों के नगरों में रहते थे, कि वे क्या बडे, क्या छोटे, अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करे, १६ और उनके अलावा

उनको भी दें, जो पुरुषों की वशावली के अनुसार गिने जाकर तीन वर्ष की अवस्था के वा उस से अधिक आयु के थे, और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवकाई निबाहने को दिन दिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे। १७ और उन याजकों को भी दे, जिनकी वशावली उनके पितरों के घरानों के अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी जो बीस वर्ष की अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार, अपने अपने काम निबाहते थे। १८ और सारी सभा में उनके बालबच्चों, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दे, जिनकी वशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई में अपने को पवित्र करते थे। १९ फिर हारून की सन्तान के याजकों को भी जो अपने अपने नगरों के चराईवाले मैदान में रहते थे, देने के लिये वे पुरुष नियुक्त किए गए थे जिनके नाम ऊपर लिखे हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करे जिनकी वशावली थी ॥

२० और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबन्ध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वह करता था। २१ और जो जो काम उस ने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उस ने अपना सारा मन लगाकर किया और उस में कृतार्थ भी हुआ ॥

(सन्हेरीब की सेना की चढ़ाई और निबाह)

३२

इन बातों और ऐसे प्रबन्ध के बाद अशूर का राजा सन्हेरीब ने

आकर यहूदा में प्रवेश कर और गठबाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिये लेना चाहा। २ यह देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मनसा * करता है, ३ हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की, कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्हों ने उसकी सहायता की। ४ इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए, और यह कहकर, कि अशूर के राजा क्यों यहा आए, और आकर बहुत पानी पाए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती थी। ५ फिर हिजकिय्याह ने हियाव बान्धकर शहरपनाह जहा कही टूटी थी, वहा वहा उसको बनवाया, और उसे गुम्मतों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई, और दाऊदपुर में मिल्लो को दृढ़ किया। और बहुत में तीर और ढाले भी बनवाईं। ६ तब उस ने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया, और यह कहकर उनको धीरज दिया, ७ कि हियाव बान्धो और दृढ़ हो तुम न तो अशूर के राजा से डरो और न उसके मंग की मारी भीड में, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है, वह उसके मंगियों से बड़ा है। ८ अर्थात् उसका सहारा तो मनुष्य ही है †; परन्तु हमारे साथ, हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिये प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे ॥

* मूल में—का लुप्त।

† मूल में—उसके संग मास की बाह।

६ इसके बाद अशूर का राजा सन्हेरीब जो सारी सेना * समेत लाकीश के साम्हने पडा था, उस ने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम मे यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम मे थे यों कहने के लिये भेजा, १० कि अशूर का राजा सन्हेरीब कहता है, कि तुम्हे किस का भरोसा है जिससे कि तुम घरे हुए यरूशलेम मे बैठे हो? ११ क्या हिजकिय्याह तुम से यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हम को अशूर के राजा के पंजे से बचाएगा तुम्हे नही भरमाता है कि तुम को भूखों प्यासो मारे? १२ क्या उसी हिजकिय्याह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी, कि तुम एक ही वेदी के साम्हने दण्डवत करना और उसी पर धूप जलाना? १३ क्या तुम को मालूम नहीं, कि मैं ने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? १४ जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है उनके सब देवताओं मे से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुम को मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? १५ अब हिजकिय्याह तुम को इस रीति भुलाने अथवा बहकाने न पाए, और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। यह

* मूल में—राज्य।

निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुम को मेरे हाथ से नही बचा सकेगा ॥

१६ इस से भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की, और उसके दास हिजकिय्याह की निन्दा की। १७ फिर उम ने ऐसा एक पत्र भेजा, जिस मे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निन्दा की ये बात लिखी थी, कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नही बचाया वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नही बचा सकेगा। १८ और उन्होंने ने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे, यहूदी बोली में पुकारा, कि उनको डराकर घबराहट मे डाल दे जिस मे नगर को ले लें। १९ और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की, कि मानो पृथ्वी के देश देश के लोगो के देवताओं के बगबर हो, जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं ॥

२० तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और अमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दोहाई दी। २१ तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया, जिस ने अशूर के राजा की छावनी मे सब शूरवीरो, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया। और वह लज्जित होकर, अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवता के भवन में था, तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। २२ यों यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अशूर के राजा सन्हेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया, और चारों ओर उनकी अगुवाई की। २३ और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिये भेंट और

यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिये अन-मोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा ॥

(हिजकिय्याह का उत्तम चरित्र)

२४ उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, कि वह मरा चाहता था, तब उस ने यहोवा से प्रार्थना की; और उस ने उस से बातें करके उसके लिये एक चमत्कार दिखाया। २५ परन्तु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भडका। २६ तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिये यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भडका ॥

२७ और हिजकिय्याह को बहुत ही घन और विभव मिला; और उस ने चान्दी, सोने, मणियों, सुगन्धद्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिये भरडार बनवाए। २८ फिर उस ने अन्न, नया दाखमधु, और टटका तेल के लिये भरडार, और सब भाँति के पशुओं के लिये धान, और भेड-बकरियों के लिये भेडशालाए बनवाईं। २९ और उस ने नगर बसाए, और बहुत ही भेड-बकरियों और गाय-बैलों की सम्पत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही घन दिया था। ३० उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाटकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊबपुर की पच्छिम भ्रलंग को सीधा पहुँचाया, और हिजकिय्याह अपने सब कामों में कृतार्थ

होता था। ३१ तीसरी जब बाबेल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए चमत्कार के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिये छोड़ दिया, कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले ॥

३२ हिजकिय्याह के और काम, और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नाम पुस्तक में, और यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। ३३ अन्त में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के सग सो गया और उसको दाऊद की सन्तान के कब्रिस्तान की चढाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदरमान किया। और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(मनश्शे का राज्य)

३३ जब मनश्शे राज्य करने लगा, तब वह बारह वर्ष का था, और यरूशलेम में पचपन वर्ष तक राज्य करता रहा। २ उस ने वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात् उन जातियों के धिनाने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से देश से निकाल दिया था। ३ उस ने उन ऊँचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था, फिर बनाया, और बाल नाम देवताओं के लिये वेदिया और अशेरा नाम मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गण को दण्डवत करता, और उनकी उपासना करता रहा। ४ और उस ने यहोवा के उस भवन में वेदिवां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना

रहेगा। ५ बरन यहोवा के भवन के दोनों प्रांगणों में भी उस ने आकाश के सारे गरग के लिये बेदियां बनाईं। ६ फिर उस ने हिब्रामो के बेटे की तराई में अपने लडकेवालों को होम करके चढ़ाया, और शुभ-अशुभ मूहूर्तों को मानता, और टोना और तत्र-मत्र करता, और ओभों और भूतसिद्धिवालो से व्यवहार करता था। बरन उस ने ऐसे बहुत से काम किए, जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिन में वह अप्रसन्न होता है। ७ और उस ने अपनी खुदवाई हुई मूर्तियों परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलैमान से कहा था, कि इस भवन में, और यरूशलेम में, जिसको मैं ने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा, ८ और मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश में ने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था, उस में से इस्राएल फिर मारा मारा फिरे; इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात् मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों को पालन करने की चौकसी करें। ९ और मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहा तक भटका दिया कि उन्हो ने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के साम्हने से विनाश किया था।।

१० और यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परन्तु उन्हो ने कुछ ध्यान नहीं दिया। ११ तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढाई कराई, और ये मनश्शे को नकेल डालकर, और पीतल की बेडिया जकडकर, उसे बाबेल को ले गए।

१२ तब सकट में पडकर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के साम्हने बहुत दीन हुआ, और

उस से प्रार्थना की। १३ तब उस ने प्रसन्न होकर उसकी बिनती सुनी, और उसको यरूशलेम में पहुँचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है।।

१४ इसके बाद उस ने दाऊदपुर से बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मच्छली फाटक तक एक शहरपनाह बनवाई, फिर ओपेल को घेरकर बहुत ऊँचा कर दिया, और यहूदा के सब गढवाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। १५ फिर उस ने पराये देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्तियों को, और जितनी बेदियां उस न यहोवा के भवन के पर्वत पर, और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। १६ तब उस ने यहोवा की बेदी की मरम्मत की, और उस पर मेलबलि और घन्यवादबलि चढ़ाने लगा, और यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। १७ तीसरी प्रजा के लोग ऊँचे स्थानों पर बलिदान करते रहे, परन्तु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिये।।

१८ मनश्शे के और काम, और उस ने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की, और उन दर्शियों के वचन जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उस से बातें करते थे, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। १९ और उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई, और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उस ने दीन होने से पहिले कहा कहां ऊँचे स्थान बनवाए, और अशोरा नाम और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई, यह सब होशे के वचनों में लिखा है।

२० निदान मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी

गई; और उसका पुत्र ग्रामोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(ग्रामोन का राज्य)

२१ जब ग्रामोन राज्य करने लगा, तब वह बाईस वर्ष का था, और यरूशलेम में दो वर्ष तक राज्य करता रहा । २२ और उस ने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है । और जितनी मूर्त्तियाँ उसके पिता मनश्शे ने खोदकर बनवाई थी, वह भी उन सभी के साम्हने बलिदान करता और उन सभी की उपासना भी करता था । २३ और जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के साम्हने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ, बरन ग्रामोन अधिक दोषी होता गया । २४ और उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके, उसको उसी के भवन में मार डाला । २५ तब साधारण लोगो ने उन सभी को मार डाला, जिन्हों ने राजा ग्रामोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगो ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया ॥

(योशिय्याह का किष्वा ऊँचा दुधार और बवष्वा को पुस्तक का भिखना)

३४ जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह आठ वर्ष का था, और यरूशलेम में इकतीस वर्ष तक राज्य करता रहा । २ उस ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूलपुरुष दाऊद चलता रहा, उन्हीं पर वह भी चला करता था और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा, और न बाईं ओर । ३ वह लडका ही था, अर्थात् उसको गद्दी पर बैठे आठ वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूलपुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और बारहवें वर्ष में वह ऊँचे स्थानों और

अशोरा नाम मूरतो को और खूदी और डली हुई मूरतों को दूर करके, यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा । ४ और बालदेवताओं की वेदियाँ उसके साम्हने तोड़ डाली गईं, और सूर्य की प्रतिमाये जो उनके ऊपर ऊँचे पर थी, उस ने काट डाली, और अशोरा नाम, और खूदी और डली हुई मूरतों को उस ने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकनी उन लोगों की कबरों पर छितरा दी, जो उनको बलि चढ़ाते थे । ५ और पुजारियों की हड्डियाँ उस ने उन्हीं की वेदियों पर जलाईं । यो उस ने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया । ६ फिर मनश्शे, एग्रम और शिमोन के बरन नत्ताली तक के नगरो के खण्डहरो में, उसने वेदियोंको तोड़ डाला, ७ और अशोरा नाम और खूदी हुई मूरतों को पीसकर बुकनी कर डाला, और इस्राएल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया ॥

८ फिर अपने राज्य के अठारहवें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उस ने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेयाह और योआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने के लिये भेज दिया । ९ सो उन्हीं ने हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात् जो लेखीय दरबानों ने मनशिशयो, एग्रमियों और सब बचे हुए इस्राएलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया । १० अर्थात् उन्हो ने उसे उन काम करने-वालो के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन

के काम पर मुखिये थे, और यहोवा के भवन के उन काम करनेवालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था, उसकी मरम्मत करने में लगाया। ११ अर्थात् उन्होंने उसे बढ़ाईयों और राजों को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिये लकड़ी मोल लें, और उन घरों को पाटें जो यहूदा के राजाओं ने नाश कर दिए थे। १२ और वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उनके अधिकारी मरारीय, यहत और अबद्याह, लेवीय और कहाती, जकर्याह और मशुल्लाम काम चलानेवाले और गाने-बजाने का भेद सब जाननेवाले लेवीय भी थे। १३ फिर वे बोकियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवकाई और काम चलानेवाले थे, और कुछ लेवीय मुषी सरदार और दरबान थे ॥

१४ जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था, निकाल रहे थे, तब हिल्कियाह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। १५ तब हिल्कियाह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है, तब हिल्कियाह ने शापान को वह पुस्तक दी। १६ तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया, और यह सन्देश दिया, कि जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। १७ और जो रुपया यहोवा के भवन में मिला, उसको उन्होंने उरडेलकर मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। १८ फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्कियाह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है तब शापान ने उस में से राजा को पढ़कर सुनाया ॥

१९ व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। २० फिर राजा ने

हिल्कियाह शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नाम अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, २१ कि तुम जाकर मेरी और से और इस्राएल और यहूदा में रहनेवालों की और से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो; क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिये भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना, और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया ॥

२२ तब हिल्कियाह ने राजा के और और दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उस से उसी बात के अनुसार बातें की, वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हस्सा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था : और वह स्त्री यरूशलेम के नये टोले में रहती थी। २३ उस ने उन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास भेजा, उस से यह कहो, २४ कि यहोवा यों कहता है, कि सुन, मैं इस स्थान और इस के निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के साम्हने जो पुस्तक पढ़ी गई, उस में जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। २५ उन लोगो ने मुझे त्यागकर पराये देवताओं के लिये धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है, इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है, और शान्त न होगी। २६ परन्तु यहूदा का राजा जिस ने तुम्हें यहोवा के पूछने को भेज दिया है उस से तुम यों कहो, कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, २७ कि इसलिये कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ, और परमेश्वर के साम्हने अपना सिर नवाया, और उसकी

बातें सुनकर जो उस ने इस स्थान और इस के निवासियों के विरुद्ध कही, तू ने मेरे साम्हने अपना सिर नवाया, और वस्त्र फाड़कर मेरे साम्हने रोया है, इस कारण मैं ने तेरी सुनी है; यहोवा की यही वारणी है। २८ सुन, मैं तुम्हें तेरे पुरस्वाभो के सग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जायगा; और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर, और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूं, उस में से तुम्हें अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही सन्देश दिया ॥

२९ तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठे होने को बुलवा भेजा। ३० और राजा यहूदा के सब लोगो और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को सग लेकर यहोवा के भवन को गया; तब उस ने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उस में की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। ३१ तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर, यहोवा से इस आशय की वाचा बान्धी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा, और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाएं, चिती-नियों और विधियों का पालन करूंगा, और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं, पूरी करूंगा। ३२ और उस ने उन सभी से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बन्धाई। और यरूशलेम के निवासी, परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था, उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। ३३ और योशियाह ने इस्राएलियों के सब देशों में से सब धिनीनी वस्तुओं को दूर करके जितने

इस्त्राएल में मिले, उन सभी से उपासना कराई, अर्थात् उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। और उसके जीवन भर उन्हो ने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा ॥

(योशियाह का किया उपासना)

३५ और योशियाह ने यरूशलेम में यहोवा के लिये फसह पर्व माना और पहिले महीने के चौदहवें दिन को फसह का पशु बलि किया गया। २ और उस ने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया, और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हियाव बन्धाया। ३ फिर लेवीय जो सब इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिये पवित्र ठहरे थे, उन से उस ने कहा, तुम पवित्र सन्दूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलैमान ने बनवाया था, अब तुम को कन्धों पर बोझ उठाना न होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो। ४ और इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलैमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार, अपने अपने पितरों के अनुसार, अपने अपने दल में तैयार रहो। ५ और तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्रस्थान में खड़े रहो, अर्थात् उनके एक भाग के लिये लेवियों के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो। ६ और फसह के पशुओं को बलि करो, और अपने अपने पवित्र करके अपने भाइयों के लिये तैयारी करो, कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सकें, जो उस ने मूसा के द्वारा कहा था ॥

७ फिर योशियाह ने सब लोगों को जो वहा उपस्थित थे, तीस हजार भेड़ों और बकरियों के बच्चे और तीन हजार बैल दिए थे; ये सब फसह के बलिदानों के लिये राजा की सम्पत्ति में से दिए गए थे। ८ और उसके हाकिमों ने प्रजा के बोगों, याजकों और लेवियों को स्वेच्छा-बलियों के लिये पशु दिए। और हिल्किय्या, जकर्याह और यहीएल नाम परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को दो हजार छ. सौ भेड़-बकरियाँ और तीन सौ बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। ९ और कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल जो उसके भाई थे, और हसब्याह, यीएल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों को पाच हजार भेड़-बकरियाँ, और पाच सौ बैल फसह के बलिदानों के लिये दिए।।

१० इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई, और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर, और लेवीय अपने अपने दल में खड़े हुए। ११ तब फसह के पशु बलि किए गए, और याजक बलि करने-वालों के हाथ से लोह को लेकर छिड़क देते और लेवीय उनकी खाल उतारते गए। १२ तब उन्होंने ने होमबलि के पशु इसलिये अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दें, कि वे उन्हें यहोवा के लिये चढ़वा दें जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है; और बैलों को भी उन्हो ने वैसा ही किया। १३ तब उन्हो ने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूँजा, और पवित्र वस्तुएँ, हंडियों और हड्डों और थालियों में सिंभा कर फूर्ति से लोगों को पहुँचा दिया। १४ तब उन्हो ने अपने लिये और याजकों

के लिये तैयारी की, क्योंकि हारून की सन्तान के याजक होमबलि के पशु और चरबी रात तक चढाते रहे, इस कारण लेवियों ने अपने लिये और हारून की सन्तान के याजकों के लिये तैयारी की। १५ और आसाप के वश के गवैयें, दाऊद, आसाप, हेमान और राजा के दर्शी यद्दूतन की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे, और द्वारपाल एक एक फाटक पर रहे। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिये तैयारी की।।

१६ यों उसी दिन राजा योशियाह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की बेदी पर होमबलि चढाने के लिये यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। १७ जो इस्राएली वहा उपस्थित थे उन्होंने ने फसह को उसी समय और अल्लमीरी रोटी के पबों को सात दिन तक माना। १८ इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था, और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया, जैसा योशियाह और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे, उन्हो ने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। १९ यह फसह योशियाह के राज्य के अठारहवें वर्ष में मनाया गया।।

(योशियाह की मृत्यु)

२० इसके बाद जब योशियाह भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के कर्कमीश नगर से लड़ने को चढाई की और योशियाह उसका साम्हना करने को गया। २१ परन्तु उस ने उसके पास दूर्तों से

कहला भेजा, कि हे यहूदा के राजा मेरा तुम्ह से क्या काम ! आज मैं तुम्ह पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ, फिर परमेश्वर ने मुझे से फुर्ती करने को कहा है। इसलिये परमेश्वर जो मेरे सग है, उससे अलग रह, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें नाश करे। २२ परन्तु योशियाह ने उस से मुह न मोड़ा, वरन उस से लड़ने के लिये भेष बदला, और नको के उन वचनो को न माना जो उस ने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिदो की तराई में उस से युद्ध करने को गया। २३ तब धनुर्धारियों ने राजा योशियाह की ओर तीर छोड़े, और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ, इसलिये मुझे यहा से ले जाओ। २४ तब उसके सेवको ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया, और यरूशलेम ले गये। और वह मर गया और उसके पुरखाओ के कन्नित्तान मे उसको मिट्टी दी गई। और यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशियाह के लिये विलाप किया। २५ और यिर्मयाह ने योशियाह के लिये विलाप का गीत बनाया और सब गानेवाले और गानेवालिआ अपने विलाप के गीतो मे योशियाह की चर्चा आज तक करती है। और इनका गाना इस्राएल मे एक विधि के तुल्य ठहराया गया और ये बाते विलापगीतो मे लिखी हुई है। २६ योशियाह के और काम और भक्ति के जो काम उस ने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था मे लिखा हुआ है। २७ और आदि से अन्त तक उसके सब काम इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक मे लिखे हुए हैं ॥

(यहोवाकाज, यहोवाकीम, यहोवाकीम और विद्विष्याह का राज्य)

३६ तब देश के लोगो ने योशियाह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। २ जब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब वह तेईस वर्ष का था, और तीन महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। ३ तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया, और देश पर सौ किककार चान्दी और किककार भर सोना जुरमाने में दण्ड लगाया। ४ तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एन्याकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। और नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र में ले गया ॥

५ जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, तब वह पचीस वर्ष का था, और ग्यारह वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उस ने वह काम किया, जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ६ उस पर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की, और बाबेल ले जाने के लिये उसको बेड़ियां पहना दी। ७ फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर, अपने मन्दिर में जो बाबेल में था, रख दिए। ८ यहोयाकीम के और काम और उस ने जो जो धिनोने काम किए, और उस में जो जो बुराइयां पाई गईं, वह इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

९ जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह आठ वर्ष का था, और तीन

महीने और दस दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उस ने वह किया, जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। १० नये वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर, उमे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बाबेल में मंगवा लिया, और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया।।

११ जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह इक्कीस वर्ष का था, और यरूशलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता रहा। १२ और उस ने वही किया, जो उमके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तौभी वह उसके साम्हने दीन न हुआ। १३ फिर नबूकदनेस्सर जिस ने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उस से उस ने बलवा किया, और उस ने हठ किया * और अपना मन कठोर किया, कि वह इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे।।

(यज्ञदियों की बन्धुवाई)

१४ वरन सब प्रधान याजको ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया, और यहोवा के भवन को जो उस ने यरूशलेम में पवित्र किया था, अशुद्ध कर डाला।।

१५ और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके † अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था; १६ परन्तु वे परमेश्वर के

दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते, और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा भुभ्रला उठा, कि बचने का कोई उपाय न रहा।।

१७ तब उस ने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई, और इस ने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बालवाले, किसी पर भी कोमलता न की; यहोवा ने सभों को उसके हाथ में कर दिया। १८ और क्या छोटे, क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन, और राजा, और उसके हाकिमों के खजाने, इन सभों को वह बाबेल में ले गया। १९ और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूक दिया, और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला, और आग लगा कर उसके सब भवनों को जलाया, और उस में का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। २० और जो तलवार से बच गए, उन्हें वह बाबेल को ले गया, और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों-पोतों के आधीन रहे। २१ यह सब इसलिये हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुह से निकला था, वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिये जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक अर्थात् सत्तर वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला।।

(यज्ञदियों का फिर से भाग्यवान होना)

२२ फारस के राजा कूलू के पहिले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा

* मूल में—अपनी गर्दन कठोर की।

† मूल में—तबके हठ उठकर।

कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था, वह पूरा हो। इसलिये उस ने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया, और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाईं, २३ कि फारस का राजा कुसू कहता है, कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने

मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उस में मेरा एक भवन बनवा; इसलिये हे उसकी प्रजा के सब लोगो, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए * ॥

* मूल में—चढ़े।

एज्रा नामक पुस्तक

(बन्धुय यरूशलेम का यरूशलेम की
जौड जाना)

१ फारस के राजा कुसू के पहिले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिये उस ने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया :

२ कि फारस का राजा कुसू यों कहता है : कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उस ने मुझे आज्ञा दी, कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। ३ उसकी समस्त प्रजा के लोगो में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो, उसका परमेश्वर उसके साथ रहे, और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए—जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। ४ और जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो,

उस स्थान के मनुष्य चान्दी, मोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इस से अधिक परमेश्वर के यरूशलेम के भवन के लिये अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएँ ॥

५ तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं, वे सब उठ खड़े हुए; ६ और उनके आसपास सब रहने-वालों ने चान्दी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर, उनकी सहायता की; यह उन सब से अधिक था, जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। ७ फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, ८ उनको कुसू राजा ने, मिथूदात खजांची से निकलवा कर, यहूदियों के शेषबस्सर नाम प्रधान को गिनकर सौंप दिया। ९ उनकी

गिनती यह थी, अर्थात् सोने के तीस और चान्दी के एक हजार परात और उनतीस छुरी, १० सोने के तीस और मध्यम प्रकार के चान्दी के चार सौ दस कटोरे तथा और प्रकार के पात्र एक हजार। ११ सोने चान्दी के पात्र सब मिलकर पांच हजार चार सौ थे। इन सभी को शेषबस्सर उस समय ले आया जब बन्धुए बाबेल से यरूशलेम को आए।।

(लौटे हुए यरूशलेम का वर्णन)

२ जिनको बाबेल का राजा नबूकद-नेस्सर बाबेल को बन्धुआ करके ले गया था, उन में से प्रान्त के जो लोग बन्धुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं। २ ये जरूबाबेल, येशू, नहेम्याह, सरायह, रेलायाह, मोदकै, बिलशान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बाना के साथ आए। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है, अर्थात् ३ परोश की सन्तान दो हजार एक सौ बहत्तर, ४ शपत्याह की सन्तान तीन सौ बहत्तर, ५ आरह की सन्तान सात सौ पछहत्तर, ६ पहत्मोआब की सन्तान येशू और योआब की सन्तान में से दो हजार आठ सौ बारह, ७ एलाम की सन्तान बारह सौ चौवन, ८ जतू की सन्तान नौ सौ पंतालीस, ९ जक्कै की सन्तान सात सौ साठ, १० बानी की सन्तान छः सौ बयालीस, ११ बेबै की सन्तान छः सौ तेईस, १२ अजगाद की सन्तान बारह सौ बाईस, १३ अदोनीकाम की सन्तान छः सौ छियासठ, १४ बिगवै की सन्तान दो हजार छप्पन, १५ आदीन की सन्तान चार सौ चौवन, १६ यहिजकिय्याह की सन्तान आतेर की सन्तान में से अठानवे,

१७ बेसै की सन्तान तीन सौ तेईस, १८ योरा के लोग एक सौ बारह, १९ हाशूम के लोग दो सौ तेईस, २० गिब्बार के लोग पचानवे, २१ बेत-लेहेम के लोग एक सौ तेईस, २२ नतोपा के मनुष्य छप्पन, २३ अनातोस के मनुष्य एक सौ अट्टाईस, २४ अज्मावेत के लोग बयालीस, २५ किर्यंतारीम कपीरा और बेरोत के लोग सात सौ पंतालीस, २६ रामा और गेबा के लोग छः सौ इक्कीस, २७ मिकमाम के मनुष्य एक सौ बाईस, २८ बेनेल और ऐ के मनुष्य दो सौ तेईस, २९ नबो के लोग बावन, ३० मग्बीस की सन्तान एक सौ छप्पन, ३१ दूसरे एलाम की सन्तान बारह सौ चौवन, ३२ हारीम की सन्तान तीन सौ बीस, ३३ लोद, हादीद और ओनो के लोग सात सौ पचीस, ३४ यरीहो के लोग तीन सौ पंतालीस, ३५ सना के लोग तीन हजार छः सौ तीस।।

३६ फिर याजको अर्थात् येशू के घराने में से यदायाह की सन्तान नौ सौ तिहत्तर, ३७ इम्मेर की सन्तान एक हजार बावन, ३८ पशहूर की सन्तान बारह सौ पंतालीस, ३९ हारीम की सन्तान एक हजार सतरह।

४० फिर लेवीय, अर्थात् येशू की सन्तान और कदमिएल की सन्तान होदब्याह की सन्तान में से चौहत्तर। ४१ फिर गबैयो में से आसाप की सन्तान एक सौ अट्टाईस। ४२ फिर दरबानों की सन्तान, शल्लूम की सन्तान, आतेर की सन्तान, तल्मीन की सन्तान, अक्कूब की सन्तान, हतीता की सन्तान, और शोबै की सन्तान, ये सब मिलकर एक सौ उनतालीस हुए। ४३ फिर नतीन की सन्तान, सीहा की सन्तान, हसूपा की सन्तान, तब्बाओत की

सन्तान । ४४ केरोस की सन्तान, सीग्रहा की सन्तान, पादोन की सन्तान, ४५ लबाना की सन्तान, हगबा की सन्तान, अक्कूब की सन्तान, ४६ हागाब की सन्तान, शमलै की सन्तान, हानान की सन्तान, ४७ गिह्ल की सन्तान, गहर की सन्तान, रायाह की सन्तान, ४८ रसीन की सन्तान, नकोदा की सन्तान, गज्जाम की सन्तान, ४९ उज्जा की सन्तान, पासेह की सन्तान, बेसै की सन्तान, ५० अस्ना की सन्तान, मूनीम की सन्तान, नपीसीम की सन्तान, ५१ बकबूक की सन्तान, हकूपा की सन्तान, हहूर की सन्तान, ५२ बसलूत की सन्तान, महीदा की सन्तान, हर्शा की सन्तान, ५३ बर्कोस की सन्तान, सीसरा की सन्तान, तेमह की सन्तान, ५४ नसीह की सन्तान, और हलीपा की सन्तान ॥

५५ फिर सुलैमान के दासों की सन्तान, सोतै की सन्तान, हस्सोपेरेत की सन्तान, परूदा की सन्तान, ५६ याला की सन्तान, दर्कों की सन्तान, गिह्ल की सन्तान, ५७ शपत्याह की सन्तान, हत्तिल की सन्तान, पोकरेतसबायीम की सन्तान, और आमी की सन्तान । ५८ सब नतीन और सुलैमान के दासों की सन्तान, तीन सौ बानवे थे ॥

५९ फिर जो तेलमेलह, तेलहर्शा, करूब, अहान और इस्मेर से आए, परन्तु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली * न बता सके कि वे इस्राएल के हैं, वे ये हैं : ६० अर्थात् दलायाह की सन्तान, तोबियाह की सन्तान और नकोदा की सन्तान, जो मिलकर छः सौ बानवे थे । ६१ और याजकों की सन्तान में से हबायाह की

सन्तान, हक्कोस की सन्तान और बजिल्लै की सन्तान, जिस ने गिलादी बजिल्ले की एक बेटी को ब्याह लिया और उमी का नाम रख लिया था । ६२ इन सभी ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में डूढ़ा, परन्तु वे न मिले, इसलिये वे अशुद्ध ठहराकर याजकपद से निकाले गए । ६३ और अधिपति * ने उन से कहा, कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम धारण करनेवाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परमपवित्र वस्तु खाने न पाए ॥

६४ समस्त मण्डली मिलकर बयालीस हजार तीन सौ साठ की थी । ६५ इनको छोड़ इनके सात हजार तीन सौ सैंतीस दास-दासियां और दो सौ गानेवाले और गानेवालि्या थी । ६६ उनके घोड़े सात सौ छत्तीस, खच्चर दो सौ पेंतालीस, ऊंट चार सौ पेंतीस, ६७ और गदहे छः हजार सात सौ बीस थे । ६८ और पितरो के घरानों के कुछ मुख्य मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है, आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिये अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया । ६९ उन्होंने ने अपनी अपनी पजी के अनुसार इकसठ हजार दर्कमोन सोना और पाच हजार माने चान्दी और याजकों के योग्य एक सौ अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए । ७० तब याजक और लेवीय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नतीन लोग अपने नगर में और सब

* मूल में—वंश ।

* मूल में—तिशता ।

इस्त्राएली अपने अपने नगर में फिर बस गए ॥

(वेदी का बनाया जाना)

जब सातवां महीना आया, और इस्त्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए । २ तब योसादाक के पुत्र येशू ने अपने भाई याजकों समेत और शालतीएल के पुत्र जरूब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बान्धकर इस्त्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होमबलि चढ़ाएँ, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है । ३ तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिये होमबलि अर्थात् प्रतिदिन सबेरे और सांभ के होमबलि चढ़ाने लगे । ४ और उन्होंने भोपडियों के पर्व को माना, जैसे कि लिखा है, और प्रतिदिन के होमबलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाएँ । ५ और उसके बाद नित्य होमबलि और नये नये चान्द और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिये सब स्वेच्छाबलि हर एक के लिये बलि चढ़ाएँ । ६ सातवें महीने के पहिले दिन से वे यहोवा को होमबलि चढ़ाने लगे । परन्तु यहोवा के मन्दिर की नेब तब तक न डाली गई थी । ७ तब उन्होंने पत्थर गढ़नेवालों और कारीगरों को रूपया, और सीदोनी और सोरी लोगों को खाने-पीने की वस्तुएँ और तेल दिया, कि वे फारस के राजा कुसू के पत्र के

अनुसार देवदार की लकड़ी लवानोन से जापा के पास के समुद्र में पहुँचाएँ ॥

(मन्दिर की नेब का डाला जाना)

उनके परमेश्वर के भवन में, जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में, शालतीएल के पुत्र जरूब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र येशू ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवीय थे, और जितने बन्धुभाई से यरूशलेम में आए थे उन्होंने भी काम को आरम्भ किया । और बीस वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिये नियुक्त किया । ६ तो येशू और उसके बेटे और भाई और कदमीएल और उसके बेटे, जो यहूदा की सन्तान थे, और हेनादाद की सन्तान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खडे हुए ॥

१० और जब राजों ने यहोवा के मन्दिर की नेब डाली तब अपने वस्त्र पहिने हुए, और तुरहिया लिये हुए याजक, और भांभ लिये हुए आसाप के वंश के लेवीय इसलिये नियुक्त किए गए कि इस्त्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति * के अनुसार यहोवा की स्तुति करें । ११ सो वे यह गा गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, कि वह भला है, और उसकी करुणा इस्त्राएल पर सदैव बनी है । और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नेब अब पड रही है, ऊचे शब्द से जय जयकार किया । १२ परन्तु बहुतेरे याजक और

* मूल में—दाऊद के हाथ ।

लेबीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात् वे बूढ़े जिन्होंने पहिला भवन देखा था, जब इस भवन की नेव उनकी आंखों के साम्हने पड़ी तब फूट फूटकर रोने लगे, और बहुतेरे आनन्द के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे । १३ इसलिये लोग, आनन्द के जय जयकार का शब्द, लोगों के रोने के शब्द से अलग पहिचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे, और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था ।

(यज्ञदियों के बच्चों के मन्दिर के बनने का रोका जाना)

४ जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बन्धुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये मन्दिर बना रहे हैं, २ तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उन से कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, और अशूर का राजा एसर्हदोन जिस ने हमें यहां पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढाते भी हैं । ३ जरुब्बाबेल, येशू और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उन से कहा, हमारे परमेश्वर के लिये भवन बनाने में तुम को हम से कुछ काम नहीं; हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुसू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिये उसे बनाएंगे ॥

४ तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मन्दिर बनाने में रुकावट डालने लगे । ५ और

फारस के राजा कुसू के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिये वकीलों को रुपया देते रहे ॥

६ क्षयर्ष के राज्य के पहिले दिनों में उन्हो ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोषपत्र उसे लिख भेजा ॥

७ फिर अर्तक्षत्र के दिनों में बिशलाम, मिथदात और ताबेल ने और उसके सहचरियों ने फारस के राजा अर्तक्षत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई ।

८ अर्थात् रहुम राजमन्त्री और शिलशै मन्त्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्तक्षत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी । ९ उस समय रहुम राजमन्त्री और शिमशै मन्त्री और उनके और सहचरियों ने, अर्थात् दीनी, अपसंतकी, तपली, अफारसी, एरेकी, बाबेली, शूशनी, देहवी, एलामी, १० आदि जातियों ने जिन्हें महान और प्रधान ओस्नप्पर ने पार ले आकर शोमरोन नगर में और महानद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी ।

११ जो चिट्ठी उन्हो ने अर्तक्षत्र राजा को लिखी, उसकी यह नकल है—तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य है, इत्यादि ।

१२ राजा को यह विदित हो, कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं । वे उस दगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं; वरन उसकी शहरपनाह को खडा कर चुके हैं और उसकी नेव को जोड चुके हैं ।

१३ अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन चुकी, तब तो वे लोग कर, चुंगी और राहदारी फिर न देंगे, और अन्त

मे राजाओं की हानि होगी। १४ हम लोग तो राजमन्दिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते ही, इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिंता देते हैं। १५ तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए; तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करनेवाला और राजाओं और प्रान्तों की हानि करनेवाला है, और प्राचीन काल से उस में बलवा मचता आया है। और इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया था। १६ हम राजा को निश्चय्य करा देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके, तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा ॥

१७ तब राजा ने रूहम राजमंत्री और शिमशै मंत्री और शोमरोन और महानद के इस पार रहनेवाले उनके और सहचरियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल, इत्यादि। १८ जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वह मेरे साम्हने पढ़ कर साफ साफ सुनाई गई। १९ और मेरी आज्ञा से खोज किये जाने पर जान पडा है, कि वह नगर प्राचीनकाल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। २० यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, और कर, चुगी और राहदारी उनको दी जाती थी। २१ इसलिये अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाए और जब तक मेरी और से आज्ञा न मिले, तब तक वह नगर बनाया न जाए। २२ और चौकस रहो, कि इस बात में

ढीले न होना; राजाओं की हानि करनेवाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए ?

२३ जब राजा अर्तक्षत्र की यह चिट्ठी रूहम और शिमशै मंत्री और उनके सहचरियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और भुजबल और बरियाई से उनको रोक दिया। २४ तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है, रुक गया; और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा ॥

(मन्दिर के बनाने का कार्य राजा की आज्ञा से निपटाया जाना)

तब हागी नामक नबी और इहो का पोता जकर्याह यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे, उन्होंने ने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उन से नबूवत की। २ तब शालतीएल का पुत्र जरूब्बाबेल और योसादाक का पुत्र येशू, कमर बान्धकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे ॥

३ उसी समय महानद के इस पार का तत्तनै नाम अधिपति और शतबॉर्जेन अपने सहचरियों समेत उनके पास जाकर यो पूछने लगे, कि इस भवन के बनाने और इस शहरपनाह के खडे करने की किस ने तुम को आज्ञा दी है ? ४ तब हम लोगो से यह कहा, कि इस भवन के बनानेवालो के क्या क्या नाम है ? ५ परन्तु यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिये जब तक इस बात की चर्चा दारा से न की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने ने इनको न रोका ॥

६ जो चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति तत्तन और शतबोजन और महानद के इस पार के उनके सहचरी अपार्सकियों ने राजा दारा के पास भेजी उसकी नकल यह है; ७ उन्हो ने उसको एक चिट्ठी लिखी, जिस में यह लिखा था : कि राजा दारा का कुशल धेम सब प्रकार से हो। ८ राजा को विदित हो, कि हम लोम यहूदा नाम प्रान्त में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे, वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है, और उसकी भीतों में कडिया जूड रही है, और यह काम उन लोगों से फुर्ती के साथ हो रहा है, और सुफल भी होता जाता है। ९ इसलिये हम ने उन पुरनियों से यो पूछा, कि यह भवन बनवाने, और यह शहरपनाह खडी करने की आज्ञा किस ने तुम्हे दी? १० और हम ने उनके नाम भी पूछे, कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुम्ह को जता सकें। ११ और उन्होंने ने हमें यो उत्तर दिया, कि हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। १२ जब हमारे पुरखाओ ने स्वर्ग के परमेश्वर को रिस् दिलाई थी, तब उस ने उन्हें बाबेल के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उस ने इस भवन को नाश किया और लोगों को बन्धुआ करके बाबेल को ले गया। १३ परन्तु बाबेल के राजा कुसू के पहिले वर्ष में उसी कुसू राजा ने परमेश्वर के इस भवन के बनाने की आज्ञा दी। १४ और परमेश्वर के भवन के जो

सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मन्दिर में से निकलवाकर बाबेल के मन्दिर में ले गया था, उनको राजा कुसू ने बाबेल के मन्दिर में से निकलवाकर शेशबस्सर नामक एक पुरुष को जिसे उम ने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। १५ और उस ने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मन्दिर में रख, और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। १६ तब उसी शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नेव डाली; और तब से अब तक यह बन रहा है, परन्तु अब तक नहीं बन पाया। १७ अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बाबेल के राजभण्डार में इस बात की खोज की जाए, कि राजा कुसू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में हैं बनवाने की आज्ञा दी थी, या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हम को बताए ॥

६ तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में जहा खजाना भी रहता था, खोज की गई। २ और मादे नाम प्रान्त के ग्रहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिम में यह वृत्तान्त लिखा था : ३ कि राजा कुसू के पहिले वर्ष में उसी कुसू राजा ने यह आज्ञा दी, कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में हैं, अर्थात् वह भवन जिस में बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नेव दृढ़ता से डाली जाए, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई साठ साठ हाथ की हों; ४. उस में तीन रूढ़े भारी भारी पत्थरों के हों, और

एक परत नई लकड़ी का हो; और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। ५ और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चान्दी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मन्दिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे वह लीटाकर यरूशलेम के मन्दिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना ॥

६ अब हे महानद के पार के अधिपति तत्तनै ! हे शतबोजनै ! तू अपने सहचरी महानद के पार के अपार्सकियों समेत वहां से अलग रहो; ७ परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो; यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। ८ वरन में आज्ञा देता हू कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा, कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए; अर्थात् राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से, उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। ९ और क्या बछड़े ! क्या भेड़े ! क्या भेम्ने ! स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलियों के लिये जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूँ, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, १० इसलिये कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगन्धवाले बलि चढ़ाकर, राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिये प्रार्थना किया करें। ११ फिर मैं ने आज्ञा दी है, कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए, और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर

जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। १२ और परमेश्वर जिस ने वहाँ अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा, उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिये हाथ बढ़ाए, नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है फुर्ती से ऐसा ही करना ॥

१३ तब महानद के इस पार के अधिपति तत्तनै और शतबोजनै और उनके सहचरियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण, उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। १४ तब यहूदी पुरनिये, हाग्वी नबी और इहो के पोते जकर्याह के नबूवत करने से मन्दिर को बनाते रहे, और कृतार्थ भी हुए। और इन्नाएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसू, दारा और अर्तक्षत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। १५ इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के छठवें वर्ष में अदर महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ ॥

१६ इस्राएली, अर्थात् याजक लेवीय और और जितने बन्धुआई से आए थे उन्होंने ने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। १७ और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने ने एक सौ बेल और दो सौ भेड़े और चार सौ भेम्ने और फिर सब इस्राएल के निमित्त पापबलि करके इस्राएल के गोत्रों की गिनती के अनुसार बारह बकरे चढ़ाए। १८ तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसे ही उन्होंने ने परमेश्वर की आराधना के लिये जो यरूशलेम में है, बारी बारी से

याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया ॥

१६ फिर पहिले महीने के चौदहवे दिन को बन्धुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना । २० क्योंकि याजको और लेवियों ने एक मन होकर, अपने अपने को शुद्ध किया था; इसलिये वे सब के सब शुद्ध थे । और उन्हीं ने बन्धुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिये और अपने अपने लिये फसह के पशु बलि किए । २१ तब बन्धुआई से लौटे हुए इस्राएली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिये अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज करे, उन सभी ने भोजन किया । २२ और अखमीरी रोटी का पबं मात दिन तक आनन्द के साथ मनाते रहे; क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनन्दित किया था, और अशूर के राजा का मन उनकी और ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात् इस्राएल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे ॥

(एजा का राजा की ओर से यरूशलेम को भेजा जाता)

७ इन बातों के बाद अर्थात् फारस के राजा अर्तक्षत्र के दिनों में, एजा बाबेल से यरूशलेम को गया । वह सरायह का पुत्र था । और सरायह अजर्याह का पुत्र था, अजर्याह हिल्किय्याह का, २ हिल्किय्याह शल्लूम का, शल्लूम शादोक का, शादोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, ३ अजर्याह मरायोत का, ४ मरायोत जरह्याह का, जरह्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का,

५ बुक्की अबीशू का, अबीशू पीनहास का, पीनहास एलीभाजर का और एलीभाजर हारून महायाजक का पुत्र था । ६ यही एजा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था । और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपादृष्टि * जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मागा वर दे दिया ॥

७ और कितने इस्राएली, और याजक लेवीय, गवैये, और द्वारपाल और नतीन के कुछ लोग अर्तक्षत्र राजा के सातबे वर्ष में यरूशलेम को ले गए । ८ और वह राजा के सातबे वर्ष के पाचवें महीने में यरूशलेम को पहुंचे । ९ पहिले महीने के पहिले दिन को वह बाबेल से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपादृष्टि † उस पर रही, इस कारण पांचवे महीने के पहिले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा । १० क्योंकि एजा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने, और उसके अनुसार चलने, और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिये अपना मन लगाया था ॥

११ जो चिट्ठी राजा अर्तक्षत्र ने एजा याजक और शास्त्री को दी थी जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का, और उसकी इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है : १२ अर्थात्, एजा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अर्तक्षत्र महाराजाधिराज की ओर से, इत्यादि । १३ मैं यह आज्ञा देता हूं, कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवीय अपनी

* मूल में—हाथ ।

† मूल में—भला हाथ ।

इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएँ। १४ तू तो राजा और उसके मानो मंत्रियों की ओर से इसलिये भेजा जाता है, कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले, १५ और जो चान्दी-सोना, राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, १६ और जितना चान्दी-सोना कुल बाबेल प्रान्त में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिये जो यरूशलेम में है देगे, उसको ले जाए। १७ इस कारण तू उस रुपये से फूर्ती के साथ बैल, मेटे और मरने उनके योग्य अन्नबलि और अर्घ्य की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढाना, जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेमवाले भवन में है। १८ और जो चान्दी-सोना बचा रहे, उस से जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। १९ और तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिये जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के साम्हने दे देना। २० और इन से अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिये आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राज-खजाने में से दे देना।

२१ मैं अर्तक्षत्र राजा यह आज्ञा देता हूँ, कि तुम महानद के पार के सब खजाचियों से जो कुछ एज्जा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे, वह फूर्ती के साथ किया जाए। २२ अर्थात् सौ किककार तक

चान्दी, सौ कोर तक गेहूँ, सौ बत तक दाखमधु, सौ बत तक तेल और नमक जितना चाहिये उतना दिया जाए। २३ जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिये किया जाय, राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भडकने पाए। २४ फिर हम तुम को चिता देते हैं, कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन या और किसी सेवक से कर, चुगी, अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है।

२५ फिर हे एज्जा ! तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करनेवालों को नियुक्त कर जो महानद के पार रहनेवाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे; और जो जो उन्हें न जानते हो, उनको तुम सिखाया करो। २६ और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फूर्ती से दगड दिया जाए, चाहे प्राणदगड, चाहे देश-निकाला, चाहे माल जप्त किया जाना, चाहे कैद करना।

२७ धन्य है हमारे पितरो का परमेश्वर यहोवा, जिस ने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है, कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को सवारे, २८ और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपादृष्टि * जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैं ने हियाव

* मूल में—हाथ।

बान्धा, और इस्त्राएल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया, कि वे मेरे सग चले ॥

(रुद्धा का चञ्चरियों समेत यरूशलेम की चञ्चरणा)

उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अर्तक्षत्र के राज्य में बाबेल से मेरे सग यरूशलेम को गए उनकी वशावली यह है : २ अर्थात् पीनहास के वंश में से गेशोम, ईतामार के वंश में से दानिय्येल, दाऊद के वंश में से हतूस। ३ शकन्याह के वंश के परोश के गोत्र में से जकर्याह, जिसके संग डेढ़ सौ पुरुषों की वशावली हुई। ४ पहल्मोआब के वंश में से जरह्याह का पुत्र एल्यहोएनै, जिसके सग दो सौ पुरुष थे। ५ शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके सग तीन सौ पुरुष थे। ६ आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके सग पचास पुरुष थे। ७ एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग सत्तर पुरुष थे। ८ शपत्याह के वंश में से मीकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके सग अस्सी पुरुष थे। ९ योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके सग दो सौ अठारह पुरुष थे। १० शलोमति के वंश में से योसिय्याह का पुत्र, जिसके सग एक सौ साठ पुरुष थे। ११ बेबै के वंश में से बेबै का पुत्र जकर्याह, जिसके सग अट्ठाईस पुरुष थे। १२ अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग एक सौ दस पुरुष थे। १३ अदोनीकाम के वंश में से जो पीछे गए उनके ये नाम हैं : अर्थात् एलीपेलेत, यीएल, और समायाह, और उनके सग

साठ पुरुष थे। १४ और बिग्वे के वंश में से ऊतै और जब्बूद थे, और उनके संग सत्तर पुरुष थे ॥

१५ इनको मैं ने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहा हम लोग तीन दिन डेरे डाले रहे, और मैं ने वहां लोगों और याजको को देख लिया परन्तु किसी लेवीय को न पाया। १६ मैं ने एलीएजेर, अरीएल, शमायाह, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकर्याह और मशुल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान थे। १७ बुलवाकर, इद्दो के पास जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था, भेज दिया; और उनको समझा दिया, कि कासिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नतीन लोगो से क्या क्या कहना, कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिये सेवा टहल करनेवालों को ले आए। १८ और हमारे परमेश्वर की कृपादृष्टि † जो हम पर हुई इसके अनुसार वे हमारे पास ईशकेल ‡ के जो इस्त्राएल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरैब्याह को, और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात् अठारह जनों को, १९ और हशब्याह को, और उसके सग मरारी के वंश में से यशायाह को, और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात् बीस जनों को; २० और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था दो सौ बीस नतिनों को ले आए। इन सभी के नाम लिखे हुए थे ॥

* मूल में—भला हाथ।

† वा एक बुद्धिमान पुरुष।

२१ तब मैं ने वहा अर्थात् अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया, कि हम परमेश्वर के साम्हने दीन हों; और उस से अपने और अपने बालबच्चों और अपनी समस्त सम्पत्ति के लिये सरल यात्रा मांगें। २२ क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिये सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, भलाई के लिये कृपादृष्टि * रखता है और जो उसे त्याग देते हैं, उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। २३ इसी विषय पर हम ने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उस ने हमारी सुनी ॥

२४ तब मैं ने मुख्य याजकों में से बारह पुरुषों को, अर्थात् शोरेब्याह, हशब्याह और इनके दस भाइयों को अलग करके, जो चान्दी, सोना और पात्र, २५ राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्लामी उपस्थित थे उन्होंने ने हमारे परमेश्वर के भवन के लिये भेंट दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। २६ अर्थात् मैं ने उनके हाथ में साढ़े छः सौ किककार चान्दी, सौ किककार चान्दी के पात्र, २७ सौ किककार सोना, हजार दर्कमोन के सोने के बीस कटोरे, और सोने सरीखे अनमोल चोखे चमकने-वाले पीतल के दो पात्र तौलकर दे दिये। २८ और मैं ने उन से कहा, तुम तो यहोवा के लिये पवित्र हो, और ये पात्र भी पवित्र हैं; और यह चान्दी और सोना भेंट का है, जो तुम्हारे पितरों के

परमेश्वर यहोवा के लिये प्रसन्नता से दी गई। २९ इसलिये जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्लाम के पितरों के घरानों के प्रधानों के साम्हने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। ३० तब याजकों और लेवियों ने चान्दी, सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुँचाए ॥

३१ पहिले महीने के बारहवें दिन को हम ने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपादृष्टि * हम पर रही; और उस ने हम को शत्रुओं और मार्ग पर घात लगानेवालों के हाथ से बचाया। ३२ निदान हम यरूशलेम को पहुँचे और वहाँ तीन दिन रहे। ३३ फिर चौथे दिन वह चान्दी-सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में ऊरीयाह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौलकर दिए गए। और उसके संग पीनहास का पुत्र एलीआज़र था, और उनके साथ येसू का पुत्र योजाबाद लेवीय और बिनतूई का पुत्र नोअद्याह लेवीय थे। ३४ वे सब वस्तुएँ गिनी और तौली गईं, और उनका तौल उसी समय लिखा गया ॥

३५ जो बन्धुआई से आए थे, उन्होंने ने इस्लाम के परमेश्वर के लिये होमबलि चढ़ाए; अर्थात् समस्त इस्लाम के निमित्त बारह बछड़े, छिन्नानवे भेड़ें और सतहत्तर भेड़ें और पापबलि के लिये बारह बकरे; यह सब यहोवा के लिये होमबलि था।

* मूल में—हाथ।

* मूल में—हाथ।

३६ तब उन्होंने ने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दीं; और उन्होंने ने इस्त्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की ॥

(बरूदा के पाष के कारण रखा की प्रार्थना)

६ जब ये काम हो चुके, तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्त्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से, अर्थात् कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से धिनीने काम करते हैं । २ क्योंकि उन्होंने ने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिये स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वश इस और के देशों के लोगो में मिल गया है । वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं । ३ यह बात सुनकर मैं ने अपने वस्त्र और बागों को फाड़ा, और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे, और विस्मित होकर बैठा रहा । ४ तब जितने लोग इस्त्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बन्धुआई से आए हुए लोगो के विश्वासघात के कारण धरधराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांभ की भेट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा । ५ परन्तु सांभ की भेट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका, और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, ६ हे मेरे परमेश्वर ! मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर !

मेरा मुंह काला है; क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है । ७ अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, बन्धुआई, लूटे जाने, और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़ें जैसे कि आज हमारी दशा है । ८ और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है, कि हम में से कोई कोई बच निकले, और हम को उसके पवित्र स्थान में एक खूटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हम को कुछ विश्रान्ति मिले । ९ हम दास तो हैं ही, परन्तु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हम को नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया, कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने, और इसके खंडहरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में झाड़ मिली ॥

१० और अब हे हमारे परमेश्वर इसके बाद हम क्या कहे, यही कि हम ने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है, ११ जो तू ने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी, कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगो की अशुद्धता के कारण और उनके धिनीने कामों के कारण अशुद्ध देश है, उन्हो ने उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता

से भर दिया है। १२ इसलिये अब तू न तो अपनी बेटियाँ उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिये कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ, कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। १३ और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जब कि हे हमारे परमेश्वर तू ने हमारे अधर्म के बराबर हमें दण्ड नहीं दिया, वरन हम मेंसे कितनों को बचा रखा है, १४ तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर में उल्लंघन करके इन धिनौने काम करनेवाले लोगों से समझियाना का सम्बन्ध करे ? क्या तू हम पर यहां तक कोप न करेगा जिस से हम मिट जाए और न तो कोई बचे और न कोई रह जाए ? १५ हे इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा ! तू तो धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे साम्हने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे साम्हने खड़ा नहीं रह सकता ॥

(शकदियों का अन्वयार्थ जिनको दूर करना)

१० जब एजा परमेश्वर के भवन के साम्हने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अगीकार कर रहा था, तब इस्त्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़केबालों की एक बहुत बड़ी मण्डली उसके पास इकट्ठी हुई; और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। २ तब यहीएल का पुत्र शकन्याह जो एलाम के वंश

में का था, एजा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्वयार्थ स्त्रियाँ ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परन्तु इस दशा-में भी इस्त्राएल के लिये आशा है। ३ अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बान्धे, कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथरानेवालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़केबालों को दूर करे, और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। ४ तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है, और हम तेरे साथ हैं; इसलिये हियाव बान्धकर इस काम में लग जा। ५ तब एजा उठा, और याजको, लेवियों और सब इस्त्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे; और उन्होंने ने वैसी ही शपथ खाई ॥

६ तब एजा परमेश्वर के भवन के साम्हने से उठा, और एत्याशीब के पुत्र योहानाम की कोठरी में गया, और वहां पहुचकर न तो रोटी खाई, न पानी पिया, क्योंकि वह बन्धुआई में से निकल आए हुआओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। ७ तब उन्होंने ने यहूदा और यरूशलेम में रहनेवाले बन्धुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया, कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो; ८ और जो कोई हाकियों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और तीन दिन के भीतर न आए तो उसकी समस्त धन-सम्पत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बन्धुआई से आए हुआओं की सभा से अलग किया जाएगा ॥

६ तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य तीन दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए; यह नीचे महीने के बीसवें दिन में हुआ; और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और झुंडी के मारे कापते हुए बैठे रहे। १० तब एजा याजक खड़ा होकर उन से कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्यजाति-स्त्रिया ब्याह ली, और इस से इस्राएल का दोष बढ़ गया है। ११ सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के साम्हने अपना पाप मान लो, और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्यजाति-स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। १२ तब पूरी मण्डली के लोगों ने ऊंचे शब्द में कहा, जैसा तू ने कहा है, वैसा ही हमें करना उचित है। १३ परन्तु लोग बहुत हैं, और झुंडी का समय है, और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह दो एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हम ने इस बात में बड़ा अपराध किया है। १४ समस्त मण्डली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं; और जब तक हमारे परमेश्वर का भडका हुआ कोप हम से दूर न हो, और यह काम निपट न जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्यजाति-स्त्रिया ब्याह ली हों, वे नियत समयों पर आया करें, और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी जाए। १५ इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहजयाह खड़े हुए, और मशुल्लाम और शब्बतै लेवियों ने उनकी सहायता की ॥

१६ परन्तु बन्धुभाई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजा याजक

और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर झलग किए गए, और दसवें महीने के पहिले दिन को इस बात की तहकीक़ात के लिये बेंठे। १७ और पहिले महीने के पहिले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की बात निपटा दी, जिन्होंने ने अन्यजाति-स्त्रियों को ब्याह लिया था ॥

१८ और याजकों की सन्तान में से; ये जन पाए गए जिन्हो ने अन्यजाति-स्त्रियों को ब्याह लिया था, अर्थात् येशू के पुत्र, योसादाक के पुत्र, और उसके भाई मासेयाह, एलीभाज्जर, यारीब और गदल्याह। १९ इन्होंने ने हाथ मारकर वचन दिया, कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने ने दोषी ठहरकर, अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। २० और इम्मेर की सन्तान में से; हुनानी और जबद्याह, २१ और हारीम की सन्तान में से, मासेयाह, एलीयाह, शमायाह, यहीएल और उज्जियाह। २२ और पशहूर की सन्तान में से; एल्योएनै, मासेयाह, इशमाएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा ॥

२३ फिर लेवियों में से, योजाबाद, शिमी, केलायाह जो कलीता कहलाता है, पतह्याह, यहूदा और एलीभाज्जर। २४ और गवंयों में से; यल्याशीब और द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम और ऊरी ॥

२५ और इस्राएल में से; परोश की सन्तान में रम्याह, यिज्जियाह, मल्कियाह, मिर्यामीन, एलीभाज्जर, मल्कियाह और बनायाह। २६ और एलाम की सन्तान में से; मत्तन्याह, जकर्याह, यहीएल अंब्दी, यरेमोत और एलियाह। २७ और

जत्सू की सन्तान में से; एल्योएनै, एल्याशीब, मत्तन्याह, यरेमोत, जाबाद और अज्जीजा । २८ और बेबै की सन्तान में से; यहोहानान, हनन्याह, जब्बै और अतलै । २९ और बानी की सन्तान में से; मशुल्लाम, मल्लूक, अदायाह, याशूब, शाल और यरामोत । ३० और पहतमोआब की सन्तान में से, अदना, कलाल, बनायाह, मासेयाह, मत्तन्याह, बसलेल, बिभ्रूई और मनश्शे । ३१ और हारीम की सन्तान में से; एलीआज्जर, यिशियाह, मल्लिक्याह, शमायाह, शिमोन; ३२ बिन्यामीन, मल्लूक और शमर्याह । ३३ और हाशूम की सन्तान में से; मत्तनै, मत्तता, जाबाद,

एलीपेलेत, यरेमै, मनश्शे और शिमी । ३४ और बानी की सन्तान में से; मादै, अत्राम, ऊएल; ३५ बनायाह, बेदयाह, कलूही; ३६ वन्याह, मरेमोत, एल्याशीब; ३७ मत्तन्याह, मत्तनै, यासू; ३८ बानी, बिभ्रूई, शिमी; ३९ शेलेम्याह, नातान, अदायाह; ४० मन्कदबै, शाशै, शारै; ४१ अजरेल, शेलेमाह, शेमर्याह; ४२ शल्लूम, अमर्याह और योसेफ । ४३ और नबो की सन्तान में से; यीएल, मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, इद्दो, योएल और बनायाह । ४४ इन सभी ने अन्न-जाति-स्त्रियां ब्याह ली थीं, और कितनों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे ।।

नहेमायाह

(नहेमायाह का राजा वै आजा पाकर
यरूशलेम की जाना)

१ हकल्याह के पुत्र नहेमायाह के बचन । बीसवें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, २ तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए; तब मैं ने उन से उन बच्चे हुए यहूदियों के विषय जो बन्धुआई से छूट गए थे, और यरूशलेम के विषय में पूछा । ३ उन्होंने ने मुझ से कहा, जो बच्चे हुए लोग बन्धुआई से छूटकर उस प्रान्त में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निन्दा होती है; क्योंकि

यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, और उसके फाटक जले हुए हैं ।।

४ ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता; और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा । ५ हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर ! तू जो अपने प्रेम रखनेवाले और आज्ञा माननेवाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है; ६ तू कान लगाए और आंखें खोले रह, कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिये दिन रात करता रहता हूँ, उसे

तू सुन ले। मैं इस्लामियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। ७ हम ने तेरे साम्हने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएँ, विधियाँ और नियम तू ने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हम ने नहीं माना। ८ उस वचन की सुधि ले, जो तू ने अपने दास मूसा से कहा था, कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो, तो मैं तुम को देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। ९ परन्तु यदि तुम मेरी और फिरो, और मेरी आज्ञाएँ मानो, और उन पर चलो, तो चाहे तुम मे से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तौभी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा, जिसे मैं ने अपने नाम के निवास के लिये चुन लिया है। १० अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तू ने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवन्त हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। ११ हे प्रभु बिनती यह है, कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, और अपने उन दासों की प्रार्थना पर, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा, और आज अपने दास का काम सुफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। (मैं तो राजा का पियाऊँ था ॥)

२ अर्तक्षत्र राजा के बीसवें वर्ष के नीसान नाम महीने में, जब उसके साम्हने दाखमधु था, तब मैं ने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इस से पहिले मैं उसके साम्हने कभी उदास न हुआ था। २ तब राजा ने मुझ से पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी।

३ तब मैं अत्यन्त डर गया। और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे! जब वह नगर जिस में मेरे पुरखानों की कबरे हैं, उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुह क्यों न उतरे? ४ राजा ने मुझ से पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैं ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके, राजा से कहा; ५ यदि राजा को भाए, और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखानों की कबरों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊँ। ६ तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझ से पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा? और कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ; और मैं ने उसके लिये एक समय नियुक्त किया। ७ फिर मैं ने राजा से कहा, यदि राजा को भाए, तो महानद के पार के अधिपतियों के लिये इस आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाएँ कि जब तक मैं यहूदा को न पहुँचूँ, तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। ८ और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिये भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाएँ ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिये, और शहरपनाह के, और उस घर के लिये, जिस में मैं जाकर रहूँगा, लकड़ी दें। मेरे परमेश्वर की कृपादृष्टि * मुझ पर थी, इसलिये राजा ने यह बिनती ग्रहण किया ॥

९ तब मैं ने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियाँ दीं। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। १० यह सुनकर

* मूल में—महा हाथ।

कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी सम्बल्लत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा ॥

११ जब मैं यरूशलेम पहुँच गया, तब वहाँ तीन दिन रहा। १२ तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा, मैं ने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिये मेरे मन में क्या उपजाया था। और अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे सग न था। १३ मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर, और कूडाफाटक के पास गया, और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। १४ तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुएँ के पास गया; परन्तु मेरी सवारी के पशु के लिये आगे जाने को स्थान न था। १५ तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया; फिर धूमकर तराई के फाटक से भीतर आया, और इस प्रकार लौट आया। १६ और हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था; वरन मैं ने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करनेवालों को ॥

१७ तब मैं ने उन से कहा, तुम तो प्राप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ, हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए, कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। १८ फिर मैं ने उनको बतलाया, कि मेरे

परमेश्वर की कृपादृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझ से क्या क्या बातें कही थीं। तब उन्होंने ने कहा, आओ हम कमर बान्धकर बनाने लगे। और उन्होंने ने इस भले काम को करने के लिये हियाव बान्ध लिया। १९ यह सुनकर होरोनी सम्बल्लत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था, और गेशेम नाम एक अरबी, हमें ठट्टों में उड़ाने लगे; और हमें तुच्छ जानकर कहन लगे, यह तुम क्या काम करते हो। २० क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैं ने उनको उत्तर देकर उन से कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सुफल करेगा, इसलिये हम उसके दास कमर बान्धकर बनाएंगे; परन्तु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक्क, न स्मारक है ॥

(यरूशलेम की शहरपनाह का फिर बनाया जाना)

३ तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बान्धकर भेड़फाटक को बनाया। उन्होंने ने उसकी प्रतिष्ठा की, और उसके पत्तों को भी लगाया, और हम्मेआ नाम गुम्मत तक वरन हननेल के गुम्मत के पास तक उन्होंने न शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। २ उस से आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया। और इन से आगे इन्नी के पुत्र जक्कूर ने बनाया ॥

३ फिर मछलीफाटक को हस्सना के बेटों ने बनाया, उन्होंने ने उसकी कड़ियाँ लगाई, और उसके पल्ले, ताले और बेंड़े लगाए। ४ और उन से आगे मरेमोत ने जो हक्कोस का पोता और ऊरियाह का पुत्र था, मरम्मत की। और इन से आगे मशुल्लाम ने जो मशेजबेल का पोता,

श्रीर बरेक्याह का पुत्र था, मरम्मत की । श्रीर इस से आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की । ५ श्रीर इन से आगे तकोइयों ने मरम्मत की; परन्तु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जूझा अपनी गर्दन पर न लिया ।।

६ फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा श्रीर बसोदयाह के पुत्र मशुल्लाम ने की; उन्हो ने उसकी कडिया लगाई, श्रीर उसके पल्ले, ताले श्रीर बेंडे लगाए । ७ श्रीर उन से आगे गिबोनी मलत्याह श्रीर मेरोनोती यादोन ने श्रीर गिबोन श्रीर मिस्या के मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के मिहासन की शोर से मरम्मत की । ८ उन से आगे हर्हयाह के पुत्र उजीएल ने श्रीर श्रीर सुनारों ने मरम्मत की । श्रीर इस से आगे हनन्याह ने, जो गन्धियो के समाज का था *, मरम्मत की, श्रीर उन्हीं ने चौडी शहरपनाह तक यरूशलेम को दूढ किया । ९ श्रीर उन से आगे हूर के पुत्र रपायाह ने, जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था, मरम्मत की । १० श्रीर उन से आगे हरुमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के साम्हने मरम्मत की, श्रीर इस से आगे हशब्नयाह के पुत्र हतूश ने मरम्मत की । ११ हारीम के पुत्र मलिकयाह श्रीर पहत्मोआब के पुत्र हश्शुब ने एक श्रीर भाग की, श्रीर भट्टो के गुम्मट की मरम्मत की । १२ इस से आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियो समेत मरम्मत की ।।

१३ तराई के फाटक की मरम्मत हानून श्रीर जानोह के निवासियों ने की; उन्हीं

ने उसको बनाया, श्रीर उसके ताले, बेंडे श्रीर पल्ले लगाए, श्रीर हजार हाथ की शहरपनाह को भी अर्थात् कूडाफाटक तक बनाया ।।

१४ श्रीर कूडाफाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मलिकयाह ने की, जो बेथक्केरेम के जिले का हाकिम था; उसी ने उसको बनाया, श्रीर उसके ताले, बेंडे श्रीर पल्ले लगाए ।।

१५ श्रीर सोताफाटक की मरम्मत कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्या के जिले का हाकिम था; उसी ने उसको बनाया श्रीर पाटा, श्रीर उसके ताले, बेंडे श्रीर पल्ले लगाए; श्रीर उसी ने राजा की वारी के पास के शेलह नाम कुगड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरनेवाली सीढ़ी तक बनाया ।

१६ उसके बाद अजबूक के पुत्र नहेमायाह ने जो बेतसूर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के साम्हने तक श्रीर बनाए हुए पोखरे तक, वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की । १७ इसके बाद बानी के पुत्र रहुम ने कितने लेबियों समेत मरम्मत की । इस से आगे कीला के आधे जिले के हाकिम हशब्नयाह ने अपने जिले की शोर से मरम्मत की ।

१८ उसके बाद उनके भाइयों समेत कीला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बब्ब ने मरम्मत की । १९ उस से आगे एक श्रीर भाग की मरम्मत जो शहरपनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के साम्हने है, येशु के पुत्र एषेर ने की, जो मिस्या का हाकिम था । २० फिर एक श्रीर भाग की अर्थात् उसी मोड़ से ले एल्याशीब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्ब के पुत्र बारूक ने तन

* मूल में—जो गन्धियों का बेटा था ।

मन मे की। २१ इसके बाद एक और भाग की अर्थात् एस्यासीब के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की मरम्मत, मरेमोत ने की, जो हक्कोस का पोता और ऊरियाह का पुत्र था। २२ उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। २३ उनके बाद बिन्यामीन और हृशूब ने अपने घर के साम्हने मरम्मत की; और इनके पीछे अजर्याह ने जो मासेयाह का पुत्र और अनन्याह का पोता था अपने घर के पास मरम्मत की। २४ तब एक और भाग की, अर्थात् अजर्याह के घर से लेकर शहरपनाह के मोड तक वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिभ्रूई ने की। २५ फिर उसी मोड के साम्हने जो ऊचा गुम्मत राजभवन से बाहर निकला हुमा बन्दीगूह के आगन के पास है, उसके साम्हने ऊजै के पुत्र पालाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह ने मरम्मत की। २६ नतीन लोग तो ओपेल मे पूरब की ओर जलफाटक के साम्हने तक और बाहर निकले हुए गुम्मत तक रहते थे। २७ पदायाह के बाद तकोइर्यों ने एक और भाग की मरम्मत की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मत के साम्हने और ओबेल की शहरपनाह तक है ॥

२८ फिर घोड़ाफाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के साम्हने मरम्मत की। २९ इनके बाद इस्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के साम्हने मरम्मत की; और तब पूरबी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। ३० इसके बाद शेलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाप के छठवें पुत्र हानून ने एक

और भाग की मरम्मत की। तब बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के साम्हने मरम्मत की। ३१ उसके बाद मल्कियाह ने जो सुनार था * नतियों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक † के साम्हने और कोने के कोठे तक मरम्मत की। ३२ और कोनेवाले कोठे से लेकर भेडफाटक तक सुनारों और व्यापारियों ने मरम्मत की ॥

(यज्ञदियों के अशुभों का विरोध करना)

४ जब सम्बल्लत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उस ने बुरा माना, और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठुठों में उड़ाने लगा। २ वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के साम्हने यों कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या किया चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेगे ‡? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरो को फिर नये सिरे से बनाएंगे §? ३ उसके पास तो अम्मोनी तोबियाह था, और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। ४ हे हमारे परमेश्वर सुन ले, कि हमारा अपमान हो रहा है; और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे, और उन्हें बन्धुभाई के देश में लुटवा दे। ५ और उनका अघर्म

* मूल में—जो सुनारों का बेटा था।

† वा इम्मिक्रकद नाम फाटक।

‡ मूल में—अपने सिरे कोड़ेंगे।

§ मूल में—विनाश करेंगे।

तू न टांप, और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए * ; क्योंकि उन्हीं ने तुझे शहरपनाह बनानेवालो के साम्हने क्रोध दिलाया है ॥

६ और हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया ; और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई । क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा ॥

७ जब सम्बल्लत और तोबियाह और अरबियो, अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना, कि यरूशलेम की शहरपनाह की भरम्मत होती जाती है †, और उस में के नाके बन्द होने लगे हैं, तब उन्हीं ने बहुत ही बुरा माना ; ८ और सभी ने एक मन से गोष्ठी की, कि जाकर यरूशलेम से लड़ें, और उस में गड़बड़ी डालें । ९ परन्तु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरेण ठहरा दिए ॥

१० और यहूदी कहने लगे, डोनेवालों का बल घट गया, और मिट्टी बहुत पडी है, इसलिये शहरपनाह हम से नहीं बन सकती । ११ और हमारे शत्रु कहने लगे, कि जब तक हम उनके बीच में न पहुँचे, और उन्हें घात करके वह काम बन्द न करें, तब तक उनको न कुछ मालूम होगा, और न कुछ दिखाई पड़ेगा । १२ फिर जो यहूदी उनके आस पास रहते थे, उन्हीं ने सब स्थानों से दस बार आ आकर, हम लोगों से कहा, तुम को हमारे पास लौट आना चाहिये । १३ इस कारण मैं ने लोगों को तलवारें, बछियाँ और घनुष देकर शहरपनाह के पीछे सब से नीचे के खूले स्थानों में घराने घराने के

अनुसार बैठा दिया । १४ तब मैं देखकर उठा, और रईसों और हाकिमों और और सब लोगों से कहा, उन से मत डरो ; प्रभु जो महान और भययोग्य है, उसी को स्मरण करके, अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिये युद्ध करना ॥

१५ जब हमारे शत्रुओं ने सुना, कि यह बात हम को मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए । १६ और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बछियों, तलवारों, घनुषों और भिलमों को धारण किए रहते थे ; और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे । १७ शहरपनाह के बनानेवाले और बोझ के डोनेवाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात् एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे । १८ और राज अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे । और नरसिगे का फूकनेवाला मेरे पास रहता था । १९ इसलिये मैं ने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बडा और फैला हुआ है, और हम लोग शहरपनाह पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं । २० इसलिये जिधर से नरसिगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास दकट्टे हो जाना । हमारा परमेश्वर हमारी और से लड़ेगा ॥

२१ यों हम काम में लगे रहे, और उन में आधे, पी फटने से तारों के निकलने तक बछियाँ लिये रहते थे । २२ फिर उसी समय मैं ने लोगों से यह भी कहा, कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे,

* मूल में—तेरे साम्हने से न मिटे ।

† मूल में—शहरपनाह पर पट्टी चढ़ी ।

कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें, और दिन को काम में लगे रहें। २३ और न तो मैं अपने कपड़े उतारना था, और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न वे पहरेदार जो मेरे अनुचर थे, अपने कपड़े उतारते थे; सब कोई पानी के पास हथियार लिये हुए जागते थे ॥

(यज्ञदियों में अन्धेरा पाया जाना)

५ तब लोग और उनकी स्त्रियों की और से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। २ कितने तो कहते थे, हम अपने बेटे-बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिये हमें अन्न मिलना चाहिये कि उसे खाकर जीवित रहे। ३ और कितने कहते थे, कि हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और घरों को मही के कारण बन्धक रखते हैं, कि हमें अन्न मिले। ४ फिर कितने यह कहते थे, कि हम ने राजा के कर के लिये अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया। ५ परन्तु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके लड़केबाले एक ही समान हैं, तीनों हम अपने बेटे-बेटियों को दास बनाते हैं; वरन हमारी कोई कोई बेटे दासी भी हो चुकी है; और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारिया औरों के हाथ पड़ी है ॥

६ यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। ७ तब अपने मन में सोच विचार करके मैं ने रईसों और हाकिमों को घुडककर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैं ने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की। ८ और मैं ने उन से कहा, हम लोगों ने तो अपनी

शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्यजातियों के हाथ बिक गए थे, दाम देकर छुड़ाया है, फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। ९ फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है; क्या तुम को इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिये कि हमारे शत्रु जो अन्यजाति हैं, वे हमारी नामधराई न करें? १० मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परन्तु हम इसका ब्याज छोड़ दे। ११ आज ही उनको उनके खेत, और दाख, और जलपाई की बारियां, और घर फेर दो; और जो रुपया, अन्न, नया दाखमधु, और टटका तेल तुम उन से ले लेते हो, उसका सीधा भाग फेर दो? १२ उन्होंने ने कहा, हम उन्हें फेर देंगे, और उन से कुछ न लेंगे; जैसा तू कहता है, वैसा ही हम करेंगे। तब मैं ने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई, कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। १३ फिर मैं ने अपने कपड़े की छोर झाड़कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको परमेश्वर भाडकर, उसका घर और कमाई उस से छुड़ाए, और इसी रीति से वह भाडा जाए, और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, अमेन ! और यहोवा की स्तुति की। और लांगों ने इस वचन के अनुसार काम किया ॥

१४ फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात् राजा अर्तक्षत्र के बीसवें वर्ष से ले उसके बत्तीसवें वर्ष तक, अर्थात् बारह वर्ष तक

में और मेरे भाई अधिपति के हक का भोजन खाते रहे। १५ परन्तु पहिले अधिपति जो मुझ से आगे थे, वह प्रजा पर भार डालते थे, और उन से रोटी, और दाखमधु, और इस से अधिक * चालीस शेकेल चान्दी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे; परन्तु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। १६ फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा, और हम लोगो ने कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिये वहा इकट्ठे रहते थे। १७ फिर मेरी मेज पर खानेवाले एक सौ पचास यहूदी और हाकिम और वे भी थे, जो चारों ओर की अन्यजातियो में से हमारे पास आए थे। १८ और जो प्रतिदिन के लिये तैयार किया जाता था वह एक बैल, छः अच्छी अच्छी भेड़ें व बकरिया थी, और मेरे लिये चिडिये भी तैयार की जाती थी, दस दस दिन के बाद भाति भांति का बहुत दाखमधु भी तैयार किया जाता था; परन्तु तौभी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, १९ क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर ! जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिये किया है, उसे तू मेरे हित के लिये स्मरण रख ।।

(शत्रुओं के विरोध करने पर भी शहरपनाह का बन चुकना)

६ जब सम्बल्लत, तोबियाह और अरबी गेशेम और हमारे और शत्रुओं को यह समाचार मिला, कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका; और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका

* मूल में—पीढ़ी।

था, तौभी शहरपनाह में कोई दरार न रह गया था। २ तब सम्बल्लत और गेशेम ने मेरे पास यो कहला भेजा, कि आ, हम ओनो के मैदान के किसी गाव में एक दूसरे में भेंट करें। परन्तु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। ३ परन्तु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, कि मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहा नहीं जा सकता; मेरे इमे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बन्द रहे? ४ फिर उन्होंने चार बार मेरे पास बैसी ही बात कहला भेजी, और मैंने उनको बैसा ही उत्तर दिया। ५ तब पांचवी बार सम्बल्लत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, ६ जिस में यो लिखा था, कि जाति जाति के लोगो में यह कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात कहता है, कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उम शहरपनाह को बनवाता है; और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। ७ और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे, कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा। इसलिये अब आ, हम एक साथ सम्मति करें। ८ तब मैंने उसके पास कहला भेजा कि जैसा तू कहता है, बैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन में गढ़ता है। ९ वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, कि उनके हाथ ढीले पड़े, और काम बन्द हो जाए। परन्तु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे ।।

१० और मैं शमायाह के घर में गया, जो दलायाह का पुत्र और महतबेल का

गेता था, वह तो बन्द घर में था; उस ने कहा, आ, हम परमेश्वर के भवन अर्थात् मन्दिर के भीतर आपस में भेंट करें, और मन्दिर के द्वार बन्द करें; क्योंकि वे लोग तुम्हें घात करने आएंगे, रात ही को वे तुम्हें घात करने आएंगे। ११ परन्तु मैं ने कहा, क्या मुझ ऐसा मनुष्य भागे? और तुम्हें ऐसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मन्दिर में घुसे *? मैं नहीं जाने का। १२ फिर मैं ने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है परन्तु उस ने हर बात ईश्वर का वचन कहकर † मेरी हानि के लिये कही, क्योंकि तोबियाह और सम्बल्लत ने उसे रुपया दे रखा था। १३ उन्होंने ने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊँ, और वैसे ही काम करके पापी ठहरू, और उनको अपवाद लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामघराई कर सकें। १४ हे मेरे परमेश्वर! तोबियाह, सम्बल्लत, और नोअधाह, नबिया और और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख ।।

१५ एलूल महीने के पच्चीसवें दिन को अर्थात् बाबन दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी। १६ जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहनेवाले सब अन्यजाति डर गए, और बहुत लज्जित हुए; क्योंकि उन्होंने ने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। १७ उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबियाह के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी। १८ क्योंकि वह आरह के पुत्र शकम्याह का दामाद था, और

उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम की बेटी को ब्याह लिया था; इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। १९ और वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते, और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। और तोबियाह मुझे डराने के लिये चिट्ठिया भेजा करता था ।।

(यरूशलेम का बनाया जाया)

७ जब शहरपनाह बन गई, और मैं ने उसके फाटक खड़े किए, और द्वारपाल, और गवैये, और लेवीय लोग ठहराये गए, २ तब मैं ने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय माननेवाला था। ३ और मैं ने उन से कहा, जब तक धाम कड़ा न हो, तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएँ और जब पहलू पहलू देते रहें, तब ही फाटक बन्द किए जाएँ और बेड़े लगाए जाएँ। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के साम्हने दिया करे। ४ नगर तो लम्बा चौड़ा था, परन्तु उस में लोग थोड़े थे, और घर नहीं बने थे ।।

५ तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिये इकट्ठे करूँ, कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएँ। और मुझे पहिले पहिल यरूशलेम को आएँ हुआ का वंशावलीपत्र मिला, और उस में मैं ने यों लिखा हुआ पाया: ६ जिनको बाबेल का राजा,

* वा जो मन्दिर में घुसकर जीता रहे।

† मूल में—नव्वत।

नबूकदनेस्सर बन्धुआ करके ले गया था, उन में से प्रान्त के जो लोग बन्धुआई से छूटकर, यहूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए। ७ वे जरूबाबेल, येशू, नहेमायाह, अजर्याह, राम्याह, नहमानी, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पेरैत, बिग्वै, नहम और बाना के सग आए ॥

८ इस्राएली प्रजा के लोगों की गिनती यह है : अर्थात् परोश की सन्तान दो हजार एक सौ बहत्तर, ९ सपत्याह की सन्तान तीन सौ बहत्तर, अरारह की सन्तान छः सौ बावन। १० पहलमोआब की सन्तान याने येशू और योआब की सन्तान, ११ दो हजार आठ सौ अठारह। १२ एलाम की सन्तान बारह सौ चौवन, १३ जत्तू की सन्तान आठ सौ पंतालीस। १४ जबकै की सन्तान सात सौ साठ। १५ बिन्नूई की सन्तान छः सौ अड़तालीस। १६ बेबै की सन्तान छः सौ अट्ठाईस। १७ अजगाद की सन्तान दो हजार तीन सौ बाईस। १८ अदोनीकाम की सन्तान छः सौ सड़सठ। १९ बिग्वै की सन्तान दो हजार सड़सठ। २० आदीन की सन्तान छः सौ पचपन। २१ हिचकिय्याह की सन्तान आतेर के वश में से अट्टानवे। २२ हाशूम की सन्तान तीन सौ अट्ठाईस। २३ बेसै की सन्तान तीन सौ चौबीस। २४ हारीप की सन्तान एक सौ बारह। २५ गिबोन के लोग पचानवे। २६ बेत-लेहेम और नतोपा के मनुष्य एक सौ अट्ठासी। २७ अनातोत के मनुष्य एक सौ अट्ठाईस। २८ बेतजभावत के मनुष्य बयालीस। २९ किर्यत्यारीम, कपीर, और बेरोत के मनुष्य सात सौ तंतालीस। ३० रामा और गेबा के मनुष्य छः सौ इक्कीस। ३१ मिक्पास के मनुष्य एक

सौ बाईस। ३२ बेतेल और ऐ के मनुष्य एक सौ तेईस। ३३ दूसरे नबो के मनुष्य बावन। ३४ दूसरे एलाम की सन्तान बारह सौ चौवन। ३५ हारीम की सन्तान तीन सौ बीस। ३६ यरीहो के लोग तीन सौ पंतालीस। ३७ लोद हादीद और मोनों के लोग सात सौ इक्कीस। ३८ सना के लोग तीन हजार नौ सौ तीस ॥

३९ फिर याजक अर्थात् येशू के घराने में से यदायाह की सन्तान नौ सौ तिहत्तर। ४० इम्मेर की सन्तान एक हजार बावन। ४१ पशहूर की सन्तान बारह सौ संतालीस। ४२ हारीम की सन्तान एक हजार सत्रह ॥

४३ फिर लेवीय ये थे : अर्थात् होदवा के वश में से कदमीएल की सन्तान येशू की सन्तान चौहत्तर। ४४ फिर गबैये ये थे : अर्थात् आसाप की सन्तान एक सौ अड़तालीस। ४५ फिर द्वारपाल ये थे : अर्थात् शल्लूम की सन्तान, आतेर की सन्तान, तल्मोन की सन्तान, अबकूब की सन्तान, हतीता की सन्तान, और शोबै की सन्तान, जो सब मिलकर एक सौ अड़तीस हुए ॥

४६ फिर नतीन अर्थात् सीहा की सन्तान, हसूपा की सन्तान, तब्बाओत की सन्तान, ४७ केरोस की सन्तान, सीआ की सन्तान, पादोन की सन्तान, ४८ लबाना की सन्तान, हुगाबा की सन्तान, शर्म की सन्तान। ४९ हानान की सन्तान, गिह्ल की सन्तान, गहर की सन्तान, ५० राया की सन्तान, रसीन की सन्तान, नकोदा की सन्तान, ५१ गज्जाम की सन्तान, उज्जा की सन्तान, पासेह की सन्तान, ५२ बेसै की सन्तान, मूनीम की सन्तान, नपूशस की सन्तान, ५३ बकबूक

की सन्तान, हकूपा की सन्तान, हर्हर की सन्तान, ५४ बसलीत की सन्तान, महीदा की सन्तान, हर्शा की सन्तान, ५५ बर्कोस की सन्तान, सीसरा की सन्तान, तेमेह की सन्तान, ५६ नमीह की सन्तान, और हतीपा की सन्तान ॥

५७ फिर सुलैमान के दासों की सन्तान, अर्थात् सोतै की सन्तान, सोपेरेत की सन्तान, परीदा की सन्तान, ५८ याला की सन्तान, दर्कोन की सन्तान, गिह्ल की सन्तान, ५९ शपत्याह की सन्तान, हत्तिल की सन्तान, पोकेरेत सवायीम की सन्तान, और आमोन की सन्तान । ६० नतीन और सुलैमान के दासों की सन्तान मिलकर तीन सौ बीनवे थे ॥

६१ और ये वे हैं, जो नेलमेलह, तेलहर्शा, करूब, अद्दोन, और इम्मेर से यरूशलेम को गए, परन्तु अपने अपने पितरों के घराने और बशावली न बता सके, कि इस्राएल के हैं, वा नहीं : ६२ अर्थात् दलायाह की सन्तान, तोविय्याह की सन्तान, और दकोदा की सन्तान, जो सब मिलकर छः सौ बयालीस थे । ६३ और याजकों में से होबायाह की सन्तान, हक्कोस की सन्तान, और बजिल्लै की सन्तान, जिस ने गिलादी बजिल्लै की बेटियों में से एक को व्याह लिया, और उन्हीं का नाम रख लिया था । ६४ इन्हीं ने अपना अपना बशावलीपत्र और और बशावलीपत्रों में बूढ़ा, परन्तु न पाया, इसलिये वे अशुद्ध ठहरकर याजकपद से निकाले गए । ६५ और अधिपति * ने उन से कहा, कि जब तक ऊरीम और तुम्मीम धारण करनेवाला कोई याजक न उठे, तब

तक तुम कोई परमपवित्र वस्तु खाने न पाओगे ॥

६६ पूरी मगडली के लोग मिलकर बयालीस हजार तीन सौ साठ ठहरे । ६७- इनको छोड़ उनके सात हजार तीन सौ सैंतीस दास-दासिया, और दो सौ पंतालीस गानेवाले और गानेवालियां थीं । ६८ उनके घोड़े सात सौ छत्तीस, सच्चर दो सौ पंतालीस, ६९ ऊट चार सौ पैंतीस और बदेहे छः हजार सात सौ बीस थे ॥

७० और पितरों के घरानों के कई एक मुख्य पुरुषों ने काम के लिये दिया । अधिपति * ने तो चन्दे में हजार दर्कमोन सोना, पचास कटोरे और पांच सौ तीस याजकों के भ्रगरखे दिए । ७१ और पितरों के घरानों के कई मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस काम के चन्दे में बीस हजार दर्कमोन सोना और दो हजार दो सौ माने चान्दी दी । ७२ और शेष प्रजा ने जो दिया, वह बीस हजार दर्कमोन सोना, दो हजार माने चान्दी और सडसठ याजकों के भ्रगरखे हुए । ७३ इस प्रकार याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैये, प्रजा के कुछ लोग और नतीन और सब इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए ॥

(यरूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना)

जब सातवा महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे । तब उन सब लोगों ने एक मन होकर, जलफाटक के साम्हने के चौक में इकट्ठे होकर, एजा शास्त्री से कहा, कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले

* मूल में—तिशार्ता ।

* मूल में—तिशार्ता ।

आ । २ तब एज्जा याजक सातवे महीने के पहिले दिन को क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सभी के साम्हने व्यवस्था को ले आया । ३ और वह उसकी बाते भोर से दो पहर तक उस चौक के साम्हने जो जलफाटक के साम्हने था, क्या स्त्री, क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा; और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे । ४ एज्जा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिये बना था, खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी अलग मत्तियाह, शेमा, अनायाह, ऊरिय्याह, हिल्किय्याह और मासेयाह; और बाई अलग, पदायाह, मीशाएल, मल्किय्याह, हाघूम, हशबदाना, जकर्याह और मशुल्लाम खड़े हुए । ५ तब एज्जा ने जो सब लोगो से ऊंचे पर था, सभी के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उस ने उसको खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए । ६ तब एज्जा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा; और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमेन, आमेन, कहा; और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दण्डवत किया । ७ और येशू, बानी, शेरेव्याह, यामीन, अक्कूब, शब्बत, होदिय्याह, मासेयाह, कलीता, अजर्याह, योजाबाद, हानान और पलायाह नाम लेवीय, लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे । ८ और उन्होंने ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया, और लोगो ने पाठ को समझ लिया ।।

९ तब नहेमायाह जो अधिपति था, और एज्जा जो याजक और शास्त्री था, और

जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने ने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिये पवित्र है, इसलिये विलाप न करो और न रोओ । क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे । १० फिर उस ने उन से कहा, कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिये कुछ तैयार नही हुआ उनके पास बैना भेजो; क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिये पवित्र है; और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनन्द तुम्हारा दूढ़ गढ़ है । ११ यों लेवियों ने सब लोगो को यह कहकर चुप करा दिया, कि चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है; और उदास मत रहो । १२ तब सब लोग खाने, पीने, बैना भेजने और बड़ा आनन्द मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे, उन्हें वे समझ गए थे ।।

१३ और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग, एज्जा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिये इकट्ठे हुए । १४ और उन्हें व्यवस्था मे यह लिखा हुआ मिला, कि यहोवा ने मूसा से यह आज्ञा दिलाई थी, कि इस्राएली सातवे महीने के पर्व के समय भोपड़ियों मे रहा करे, १५ और अपने सब नगरों और यरूशलेम मे यह सुनाया और प्रचार किया जाए, कि पहाड़ पर जाकर जलपाई, तैलवृक्ष, मेहदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर भोपड़िया बनाओ, जैसे कि लिखा है । १६ सो सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए, और अपने अपने घर की छत पर, और अपने आंगनों मे,

श्रीर परमेश्वर के भवन के आगनो में, श्रीर जलफाटक के चौक में, श्रीर एप्रम के फाटक के चौक में, भोंपडियां बना ली। १७ वरन सब मगडली के लोग जितने बन्धुआई से छूटकर लौट आए थे, भोंपडिया बनाकर उन में टिके। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था। श्रीर उस समय बहुत बड़ा आनन्द हुआ। १८ फिर पहिले दिन से पिछले दिन तक एज्रा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढकर सुनाया। यो वे सात दिन तक पर्व को मानते रहे, और आठवे दिन नियम के अनुसार महासभा हुई।।

(शाप का खोजीकार)

६ फिर उसी महीने के चौबीसवे दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहिने और सिर पर धूल डाले हुए, इकट्ठे हो गए। २ तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्यजाति लोगों से अलग हो गए, और खड़े होकर, अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। ३ तब उन्हो ने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते, और एक और पहर अपने पापों को मानते, और अपने परमेश्वर यहोवा को दगडवत करते रहे। ४ और येशू, बानी, कदमीएल, शबन्याह, बुशी, शोरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढी पर खड़े होकर ऊचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दोहाई दी। ५ फिर येशू, कदमीएल, बानी, हिसन्नयाह, शोरेब्याह, होदिय्याह, शबन्याह, और पतहाह नाम लेवियों ने कहा,

खड़े हो; अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनन्तकाल तक धन्य कहो। तेरा महिमायुक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। ६ तू ही अकेला यहांवा है; स्वर्ग वरन सब से ऊचे स्वर्ग और उसके सब गए, और पृथ्वी और जो कुछ उस में है, और समुद्र और जो कुछ उस में है, सभी को तू ही ने बनाया, और सभी की रक्षा तू ही करता है; और स्वर्ग की समस्त सेना तुम्ही को दगडवत करती है। ७ हे यहोवा! तू वही परमेश्वर है, जो अब्राहाम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया, और उसका नाम इस्राहीम रखा; ८ और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, उस से वाचा बान्धी, कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हितियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों, और गिर्गाशियों का देश दूंग; और तू ने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। ९ फिर तू ने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुःख पर दृष्टि की, और लाल समुद्र के तट पर उनकी दोहाई सुनी। १० और फिरीन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दगड देने के लिये चिन्ह और चमत्कार दिखाए; क्योंकि तू जानता था कि वे उन से अभिमान करते हैं; और तू ने अपना ऐसा बड़ा नाम किया, जैसा आज तक वर्तमान है। ११ और तू ने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया, कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए; और जो उनके पीछे पड़े थे, उनको तू ने गहिरें स्थानों में ऐसा डाल दिया, जैसा पत्थर महाजलराशि में डाला जाए। १२ फिर तू ने दिन को बादल के खम्भे में होकर और रात को आग के खम्भे में

होकर उनकी अगुआई की, कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था, उस में उनको उजियाला मिले। १३ फिर तू ने मीन पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बाने की, और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था, और अच्छी विधिया, और आज्ञाए दी। १४ और उन्हें अपने पवित्र विश्राम-दिन का ज्ञान दिया, और अपने दास मृमा के द्वारा आज्ञाए और विधियां और व्यवस्था दी। १५ और उनकी भूख मिटाने को आकाश में उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिये पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैं ने शपथ खाई है* उसके अधिकारी होने को तुम उस में जाओ। १६ परन्तु उन्होंने ने और हमारे पुरखाओ ने अभिमान किया, और हठीले बने और तेगी आज्ञाए न मानी, १७ और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्यकर्म तू ने उनके बीच किए थे, उनका स्मरण न किया, वरन हठ करके यहां तक बलवा करनेवाले बने, कि एक प्रधान ठहराया, कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परन्तु तू क्षमा करनेवाला अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करनेवाला, और अतिक्रामय ईश्वर है, तू ने उनको न त्यागा। १८ वरन जब उन्होंने ने बछड़ा ढालकर कहा, कि तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, १९ तब भी तू जो प्रति दयालु है, उनको जंगल में न त्यागा; न तो दिन को अगुआई करनेवाला बादल का खम्भा उन पर से

हटा, और न रात को उजियाला देनेवाला और उनका मार्ग दिखानेवाला आग का खम्भा। २० वरन तू ने उन्हें समझाने के लिये अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मान उन्हें खिलाना न छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। २१ चालीस वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा, कि उनको कुछ घटी न हुई; न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाव में मूजन हुई। २२ फिर तू ने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको बाट दिया, यों वे हेसबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा आग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। २३ फिर तू ने उनकी सन्तान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया, जिसके विषय तू ने उनके पूर्वजों में कहा था, कि वे उस में जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। २४ सो यह सन्तान जाकर उसकी अधिकारिन हो गई, और तू ने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया, और राजाओं और देश के लोगो समेत उनको, उनके हाथ में कर दिया, कि वे उन से जो चाहे सो करे। २५ और उन्हो ने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली, और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के, और खुदे हुए हौदों के, और दाख और जलपाई बारियों के, और खाने के फलवाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए; वे उसे खा खाकर तृप्त हुए, और हृष्ट-मुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे ॥

* मूल में—हाथ उठाया है।

२६ परन्तु वे तुझ से फिरकर बलवा करनेवाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिये उनको चिताते रहे उनको उन्होंने ने घात किया, और तेरा बहुत तिरस्कार किया । २७ इस कारण तू ने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया, और उन्होंने ने उनको सकट में डाल दिया; तौभी जब जब वे सकट में पडकर तेरी दोहाई देते रहे तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा; और तू जो अतिदयालु है, इसलिये उनके छुड़ानेवाले को भेजता रहा जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे । २८ परन्तु जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे साम्हने बुराई करते थे, इस कारण तू उनको शत्रुओं के हाथ में कर देता था, और वे उन पर प्रभुता करते थे; तौभी जब वे फिरकर तेरी दोहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है, इसलिये बार बार उनको छुड़ाता, २९ और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे । परन्तु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएँ नहीं मानते थे, और तेरे नियम, जिनको यदि मनुष्य माने, तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते, और हठ करके अपना कन्धा हटाते और न सुनते थे । ३० तू तो बहुत बर्ब तक उनकी सहता रहा, और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परन्तु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिये तू ने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया । ३१ तौभी तू ने जो अतिदयालु है, उनका भ्रन्त नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है ॥

३२ अब तो हे हमारे परमेश्वर ! हे महान पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर ! जो अपनी वाचा पालता और करणा करता रहा है, जो बड़ा कष्ट, अश्वर के राजाओं के दिनों से ले आज के दिन तक हमें और हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं, वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पडा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे । ३३ तौभी जो कुछ हम पर बीता है उसके विषय तू तो धर्मी है; तू ने तो मन्चाई से काम किया है, परन्तु हम ने दुष्टता की है । ३४ और हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने, न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चितीनियों की ओर ध्यान दिया है जिन से तू ने उनको चिताया था । ३५ उन्होंने ने अपने राज्य में, और उस बड़े कल्याण के समय जो तू ने उन्हें दिया था, और इस लम्बे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की; और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया । ३६ देख, हम आज कल दास हैं; जो देश तू ने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज ल्याए, इसी में हम दास हैं । ३७ इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तू ने हमारे पापो के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है; और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिये हम बड़े संकट में पडे हैं ॥

३८ इस सब के कारण, हम सन्चाई के साथ वाचा बान्धते, और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं ॥

(अवस्था के अनुसार चरने की भाषा का नामा जाना)

१० जिन्होंने छाप लगाई वे ये हैं, अर्थात् हकल्याह का पुत्र नहेमायाह जो अधिपति * था, और सिदकिय्याह, २ सरायाह, अजर्याह, यिर्मयाह; ३ पशहूर, अमर्याह, मल्कय्याह, ४ हतूश, शबन्याह, मल्लूक; ५ हारीम, मरेयोत, अबद्याह; ६ दानिय्येल, गिन्नतोन, बारूक, ७ मशुल्लाम, अबिय्याह, मिय्यामीन; ८ माज्याह, बिलगै और शमायाह; ये ही तो याजक थे। ९ और लेवी ये थे—आजन्याह का पुत्र येशू, हेनादाद की सन्तान में से विन्नई और कदमीएल, १० और उनके भाई शबन्याह, होदिय्याह, कलीता, पलायाह, हानान; ११ मीका, रहोब, हशब्याह; १२ जककूर, शेरेब्याह, शबन्याह। १३ होदिय्याह, बानी और बनीन; १४ फिर प्रजा के प्रधान ये थे : परोश, पहल्मोआब, एलाम, जतू, बानी, १५ बुनी, अजगाद, बेबै, १६ अदोनिय्याह, बिगवै, आदीन, १७ आतेर, हिजकिय्याह, अज्जूर; १८ होदिय्याह, हाशूम, बेसै, १९ हारीफ, अनातोत, नोबै; २० मग्पीआश, मशुल्लाम, हेजीर; २१ मशोजबेल, सादोक, यहू; २२ पलत्याह, हानान, अनायाह; २३ होशे, हनन्याह, हशूब; २४ हल्लोहेश, पिल्हा, शोबेक, २५ रहूम, हशब्ना, माशेयाह; २६ अहिय्याह, हानान, आनान, २७ मल्लूक, हारीम और बाना ॥

२८ शेष लोग अर्थात् याजक, लेवीय, द्वारपाल, गवैय और नतीन लोग, निदान

* मूल में—सिद्धाता।

जितने परमेश्वर की व्यवस्था मानने के लिये देश देश के लोगो से अलग हुए थे, उन सभी ने अपनी स्त्रियों और उन बेटों-बेटियों समेत जो समझनेवाले थे, २९ अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई *, कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएँ, नियम और विधियाँ मानने में चौकसी करेंगे। ३० और हम न तो अपनी बेटियाँ इस देश के लोगों को ब्याह देंगे, और न अपने बेटों के लिये उनकी बेटियाँ ब्याह लेंगे। ३१ और जब इस देश के लोग विश्रामदिन को अन्न वा और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आयेगे तब हम उन से न तो विश्रामदिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे; और सातवें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे, और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे ॥

३२ फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बान्ध लिया जिस से हम को अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिये एक एक तिहाई शेकेल देना पड़ेगा : ३३ अर्थात् भेट की रोटी और नित्य अन्नबलि और नित्य होमबलि के लिये, और विश्रामदिनों और नये चान्द और नियत पम्बों के बलिदानों और और पवित्र भेटों और इस्त्राएल के प्रायश्चित्त के निमित्त पापबलियों के लिये, निदान अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिये। ३४ फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सभी ने इस बात के ठहराने के लिये चिट्ठियाँ डाली, कि अपने पितरों के

* मूल में—छाप और किरिया में प्रवेश किया।

घरानों के अनुसार प्रति वर्ष में ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की बेदी पर जलाने के लिये अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे । ३५ और अपनी अपनी भूमि की पहिली उपज और सब भाति के वृक्षों के पहिले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे । ३६ और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार, अपने अपने पहिलौठे बेटों और पशुओं, अर्थात् पहिलौठे बछड़ों और भेड़ों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे, जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं । ३७ और अपना पहिला गूधा हुआ आटा, और उठाई हुई भेटे, और सब प्रकार के वृक्षों के फल, और नया दाखमधु, और टटका तेल, अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास, और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियो के पास लाया करेंगे; क्योंकि वे लेवीय हैं, जो हमारी खेती के सब नगरो में दशमांश लेते हैं । ३८ और जब जब लेवीय दशमांश ले, तब तब उनके सग हाऊन की सन्तान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दशमांशो का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात् भगडार में पहुँचाया करेंगे । ३९ क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करनेवाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उन में इस्राएली और लेवीय, अनाज, नये दाखमधु, और टटके तेल की उठाई हुई भेटे पहुँचाएंगे । निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे ॥

(यज्ञदौ कर्वा कर्वा वष नर)

११ प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे, और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिये चिट्ठियां डाली, कि दस में से एक मनुष्य यरूशलेम में, जो पवित्र नगर है, बस जाए; और नौ मनुष्य और और नगरों में बसे । २ और जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में बास करना चाहा उन सभी को लोगों ने आशिर्वाद दिया ॥

३ उस प्रान्त के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे, वे ये हैं; (परन्तु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था; अर्थात् इस्राएली, याजक, लेवीय, नतीन और सुलैमान के दासों के सन्तान) । ४ यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे । यहूदियों में से तो येरेस के वंश का अतायाह जो उज्जिय्याह का पुत्र था, यह जकर्याह का पुत्र, यह अमर्याह का पुत्र, यह शपत्याह का पुत्र, यह महललेल का पुत्र था । ५ और मासेयाह जो बारूक का पुत्र था, यह कोलहोजे का पुत्र, यह हजायाह का पुत्र, यह अदायाह का पुत्र, यह योयारीब का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र और यह शीलोई का पुत्र था । ६ येरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे, वह सब मिलाकर चार सौ अड़सठ शूरवीर थे ॥

७ और बिन्यामीनियों में से सल्लू जो मशुल्लाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, यह पदायाह का पुत्र, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासेयाह का पुत्र, यह इतीएह का पुत्र, यह यशायाह का पुत्र था । ८ और उसके बाद गब्बै सल्ले जिनके साथ नौ सौ अट्ठारस पुरुष थे । ९ इनका रखवाल जिक्की का पुत्र योएल था, और

हस्सनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था ॥

१० फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदायाह और याकीन । ११ और सरायाह जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था । १२ और इनके आठ सौ बाईस भाई जो उस भवन का काम करते थे, और अदायाह, जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलल्याह का पुत्र, यह अम्सी का पुत्र, यह जकर्याह का पुत्र, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्किय्याह का पुत्र था । १३ और इसके दो सौ बयालीस भाई जो पितरो के घरानों के प्रधान थे; और अमश जो अजरेल का पुत्र था, यह अहजै का पुत्र, यह मशिल्लेमोत का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था । १४ और इनके एक सौ अट्ठाईस शूरवीर भाई थे और इनका रखवाल हग्गदोलीम का पुत्र जब्दीएल था ॥

१५ फिर लेवियों में से शमायाह जो हश्शूब का पुत्र था, यह अञ्जीकाम का पुत्र, यह हुशब्याह का पुत्र, यह बुन्नी का पुत्र था । १६ और शब्बत और योजावाद मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे । १७ और मत्तन्याह जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता, और आसाप का परपोता था; वह प्रार्थना में धन्यवाद करनेवालों का मुखिया था, और बकबुक्याह अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था; और अब्दा जो शम्मू का पुत्र, और गालाल का पोता, और यदूतून का परपोता था । १८ जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलाकर दो सौ चौरासी थे ॥

१९ और अक्कूब और तल्मोन नाम द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे, एक सौ बहत्तर थे । २० और शेष इस्त्राएली याजक और लेवीय, यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे । २१ और नतीन लोग ओपेल में रहते; और नतिनों के ऊपर सीहा, और गिस्पा ठहराए गए थे ॥

२२ और जो लेवीय यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे, उनका मुखिया आसाप के बश के गवैयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था, यह हुशब्याह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र और यह हुशब्याह का पुत्र था । २३ क्योंकि उनके विषय राजा की आज्ञा थी, और गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबन्ध था । २४ और प्रजा के सब काम के लिये मशेजबेल का पुत्र पतह्याह जो यहूदा के पुत्र जेरह के बश में था, वह राजा के पास रहता था ॥

२५ बैच गए गांव और उनके खेत, सो कुछ यहूदी किर्यतर्बा, और उनके गांव में, कुछ दीबोन, और उसके गांवों में, कुछ यकब्सेल और उसके गांवों में रहते थे । २६ फिर येशू, मोलादा, बेत्पेलेत; २७ हसर्शुआल, और बेशैबा और और उसके गांवों में; २८ और सिकलग और मकोना और उनके गांवों में; २९ एन्नि-म्मोन, सोरा, यर्मूत, ३० जानोह और अदुल्लाम और उनके गांवों में, लाकीश, और उसके खेतों में अज्जेका, और उसके गांवों में वे बेशैबा से ले हिन्नोम की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे । ३१ और बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमश, अय्या और बेतेल और उसके गांवों में; ३२ अनातोत, नोब, अनन्याह, ३३ हासीर,

रामा, गित्सीम, ३४ हादीद, सबोईम, नबल्लत, ३५ लोद, ओनो और कारीगरो की तराई तक रहते थे। ३६ और कितने लेवियों के दल यहूदा और बिन्यामीन के प्रान्तों में बस गए ॥

(शाजकों और लेवियों का खोरा)

१२ जो याजक और लेवीय शाल-तीएल के पुत्र जरूबाबेल और येशू के संग यरूशलेम को गए * थे, वे थे थे : अर्थात् सरायाह, यिर्मयाह, एज्जा, २ अमर्याह, मल्लूक, हतूश, ३ शकन्याह, रहूम, मरेमोत, ४ इदो, गिन्नतोई, अबि-य्याह, ५ मीय्यामीन, माद्याह, बिलगा, ६ शनायाह, योआरीब, यदायाह, ७ सल्लू, आमोक, हिल्किय्याह और यदायाह। येशू के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष, ये ही थे ॥

८ फिर ये लेवीय गए : अर्थात् येशू, बिभ्रूई, कदमीएल, शेरैब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत घन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। ९ और उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके साम्हने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे ॥

१० और येशू से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एल्याशीब और एल्याशीब से योयादा, ११ और योयादा से योनातान और योनातान से यहू उत्पन्न हुआ। १२ और योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात् सरायाह का तो मरायाह; यिर्मयाह का हनन्याह। १३ एज्जा का मशुल्लाम; अमर्याह का

यहोहानान। १४ मल्लूकी का योना-तान, शबन्याह का योसेप। १५ हारीम का अदना; मरायोत का हेल्कै। १६ इदो का जकर्याह, गिन्नतोन का मशुल्लाम। १७ अबिय्याह का जिक्की; मिन्यामीन के मोअद्याह का पिलतै। १८ बिलगा का शम्भू; शामायह का यहोनातान। १९ योयारीब का मत्तनै, यदायाह का उज्जी। २० सल्लै का कल्लै; आमोक का एबेर। २१ हिल्किय्याह का हश-ब्याह; और यदायाह का नतनेल ॥

२२ एल्याशीब, योयादा, यहोहानान और यहू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे, और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। २३ जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, उनके नाम एल्याशीब के पुत्र यहोहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। २४ और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे : अर्थात् हसब्याह, शेरैब्याह और कदमीएल का पुत्र येशू, और उनके साम्हने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आम्हने-साम्हने स्तुति और घन्यवाद करने पर नियुक्त थे। २५ मत्तन्याह, बकबुक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तल्मोन और अबकूब फाटको के पास के भण्डारों का पहरा देनेवाले द्वारपाल थे। २६ योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और येशू का पुत्र था, और नहेमायाह अधिपति और एज्जा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे ॥

(यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा)

२७ और यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों

* मूल में—बद गए।

में दूढ़े गए, कि यरूशलेम को पहुंचाए जाए, जिस से आनन्द और धन्यवाद करके और भाऊ, सारंगी और वीणा बजाकर, और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करे। २८ तो गवँयो के सन्तान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियो के गावो से, २९ और बेतगिलगाल मे, और गेबा और अज्माबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवँयो ने यरूशलेम के आस-पास गाव बसा लिये थे। ३० तब याजकों और लेवियो ने अपने अपने को शुद्ध किया; और उन्हो ने प्रजा को, और फाटको और शहरपनाह को भी शुद्ध किया ॥

३१ तब मैं ने यहूदी हाकिमो को शहरपनाह पर चढाकर दो बड़े वल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमे से एक दल तो दक्खिन ओर, अर्थात् कूडाफाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर ऊपर से चला; ३२ और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात् होशयाह और यहूदा के आधे हाकिम, ३३ और अजर्याह, एज्जा, मशुल्लाम, ३४ यहूदा, बिन्यामीन, शमायाह, और यिरमयाह, ३५ और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिये हुए अर्थात् जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मीकायाह का पुत्र, यह जक्कूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। ३६ और उसके भाई शमायाह, अजरेल, मिललै, गिललै, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिये हुए थे; और उनके आगे आगे एज्जा शास्त्री चला। ३७ ये सोताफाटक से हो मीधे दाऊदपुर की सीढी पर चढ, शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर, दाऊद के भवन के ऊपर

से होकर, पूरब की ओर जलफाटक तक पहुंचे ॥

३८ और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलनेवालों का दूसरा दल, और उनके पीछे पीछे मैं, और आधे लोग उन से मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के गुम्मत के पास से चौडी शहरपनाह तक। ३९ और एग्रैम के फाटक और पुराने फाटक, और मछलीफाटक, और हननेल के गुम्मत, और हम्मेशा नाम गुम्मत के पास से होकर भेड फाटक तक चले, और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। ४० तब धन्यवाद करनेवालों के दोनो दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन मे खड़े हो गए। ४१ और एल्याकीम, मासेयाह, मिन्यामीन, मीकायाह, एल्योएनै, जकर्याह और हनन्याह नाम याजक तुरहिया लिये हुए थे। ४२ और मासेयाह, शमायाह, एलीआजर, उज्जी, यहोहानान, मल्किय्याह, एलाम, और एजेर (खड़े हुए थे) और गवँये जिनका मुखिया यिज्रह्याह था, वह ऊचे स्वर से गाते बजाते रहे। ४३ उसी दिन लोगो ने बड़े बड़े मेलबलि चढाए, और आनन्द किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनन्दित किया था, स्त्रियों ने और बालबच्चों ने भी आनन्द किया। और यरूशलेम के आनन्द की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई ॥

(अषाषना चादि का प्रथम)

४४ उसी दिन खजानों के, उठाई हुई भेटों के, पहिली पहिली उपज के, और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए, कि उन मे नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा

करें, जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी; क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनन्दित थे। ४५ इसलिये वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे; और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलैमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। ४६ प्राचीनकाल, अर्थात् दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयो के प्रधान थे, और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। ४७ और जरूबबेल और नहेमायाह के दिनों में सारे इस्राएली, गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भ्रंश देते रहे; और वे लेवियों के भ्रंश पवित्र करके देते थे; और लेवीय हारून की सन्तान के भ्रंश पवित्र करके देते थे ॥

(जुरीतियों का सुधार जाना)

१३ उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई; और उस में यह लिखा हुआ मिला, कि कोई अम्मोनी वा मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए; २ क्योंकि उन्होंने ने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन विलास को उन्हें शाप देने के लिये दक्षिणा देकर बलवाया था—तौभी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से बदल दिया। ३ यह व्यवस्था सुनकर, उन्होंने ने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया ॥

४ इस से पहिले एल्याशीब याजक जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिय्याह का सम्बन्धी था। ५ उस ने तोबिय्याह के लिये एक

बड़ी कोठरी तैयार की थी जिस में पहिले अन्नबलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नये दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हे लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी; और याजकों के लिये उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। ६ परन्तु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अर्तक्षत्र के बत्तीसवें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मागी, ७ और मैं यरूशलेम को आया, तब मैं ने जान लिया, कि एल्याशीब ने तोबिय्याह के लिये परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर, क्या ही बुराई की है। ८ इसे मैं ने बहुत बुरा माना, और तोबिय्याह का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। ९ तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गईं, और मैं ने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्नबलि का सामान और लोबान उन में फिर से रखवा दिया ॥

१० फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है; और इस कारण काम करनेवाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। ११ तब मैं ने हाकिमों को डांटकर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैं ने उनको इकट्ठा करके, एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। १२ तब से सब यहूदी अनाज, नये दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भगडारों में लाने लगे। १३ और मैं ने भगडारों के अधिकारी शोलेम्याह याजक और सादोक मुशी को, और लेवियों में से पदायाह को, और उनके नीचे हानान को, जो मत्तन्याह

का पोता और जक्कूर का पुत्र था, नियुक्त किया, वे तो विश्वासयोग्य गिने जाते थे, और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। १४ हे मेरे परमेश्वर ! मेरा यह काम मेरे हित के लिये स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैं ने अपने परमेश्वर के भवन और उस में की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा न डाल ॥

१५ उन्हीं दिनों में मैं ने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्रामदिन को हौदों में दाख रीदते, और पूलियों को ले आते, और गदहों पर लादते थे, वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अजीर और भांति भांति के बोझ विश्रामदिन को यरूशलेम में लाते थे; तब जिस दिन वे भोजनवस्तु बेचते थे, उसी दिन मैं ने उनको चिता दिया। १६ फिर उस में सोरी लोग रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर, यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्रामदिन को बेचा करते थे। १७ तब मैं ने यहूदा के रईसों को डांटकर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो, जो विश्रामदिन को अपवित्र करते हो? १८ क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली? तोभी तुम विश्रामदिन को अपवित्र करने में इस्त्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो ॥

१९ सो जब विश्रामवार के पहिले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आस-पास अन्धेरा होने लगा, तब मैं ने आज्ञा दी, कि उनके पल्ले बन्द किए जाए, और यह भी आज्ञा दी, कि वे विश्रामवार के पूरे होने तक खोले न जाए। तब मैं ने

अपने कितने सेवकों को फाटकों का अधि-कारी ठहरा दिया, कि विश्रामवार को कोई बोझ भीतर आने न पाए। २० इस-लिये व्योपारी और भांति भांति के सौदे के बेचनेवाले यरूशलेम के बाहर दो एक बेर टिके। २१ तब मैं ने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के नाम्हने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढाऊंगा। इसलिये उस समय में वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। २२ तब मैं ने लेवियों को आज्ञा दी, कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिये आया करो, ताकि विश्रामदिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर ! मेरे हित के लिये यह भी स्मरण रख और अपनी बडी कल्याण के अनुसार मुझ पर तरस खा ॥

२३ फिर उन्हीं दिनों में मुझ को ऐसे यहूदी दिखाई पडे, जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रिया ब्याह ली थी। २४ और उनके लड़केबालों की आधी बोली अशदोदी थी, और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। २५ तब मैं ने उनको डाटा और कोसा, और उन में से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए, और उनको परमेश्वर की यह शपथ खिलाई, कि हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न दोगे और न अपने लिये वा अपने बेटों के लिये उनकी बेटिया ब्याह में लेंगे। २६ क्या इस्त्राएल का राजा सुलैमान इसी प्रकार के पाप में न फसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इस्त्राएल के ऊपर राजा नियुक्त

किया; परन्तु उसको भी अन्यजाति स्त्रियों ने पाप में फसाया। २७ तो क्या हम तुम्हारी सुनकर, ऐसी बड़ी बुराई करे कि अन्यजाति की स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे ?

२८ और एल्याशीब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र, होरोनी सम्बल्लत का दामाद था, इसलिये मैं ने उसको अपने पास से भगा दिया। २९ हे मेरे परमेश्वर उनकी हानि के लिये याजकपद और

याजकों और लेवियों की वाचा का तोड़ा जाना स्मरण रख ॥

३० इस प्रकार मैं ने उनको सब अन्यजातियों से शुद्ध किया, और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया। ३१ फिर मैं ने लकड़ी की भेट ले प्राने के विशेष समय ठहरा दिए, और पहिली पहिली उपज के देने का प्रबन्ध भी किया। हे मेरे परमेश्वर ! मेरे हित के लिये मुझे स्मरण कर ॥

एस्तेर

(क्षयर्य की जेवनार के समय वरानो का पढरानो के पद से जन्मारा जाना)

१ क्षयर्य नाम राजा के दिनों में ये बाते हुईं : यह वही क्षयर्य है, जो एक सौ सताईस प्रान्तों पर, अर्थात् हिन्दुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। २ उन्हीं दिनों में जब क्षयर्य राजा अपनी उस राजगढ़ी पर विराजमान था जो शूशन नाम राजगढ़ में थी। ३ वहा उस ने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार की। फारस और मादें के सेनापति और प्रान्त-प्रान्त के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। ४ और वह उन्हें बहुत दिन वरन एक सौ अस्सी दिन तक अपने राजविभव का धन और अपने माहात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। ५ इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे

क्या बड़े उन सभी की भी जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में सात दिन तक जेवनार की। ६ वहा के पदें श्वेत और नीले सूत के थे, और सन और बंजनी रंग की डोरियों से चान्दी के छल्लों में, संगमर्मर के खम्भों से लगे हुए थे, और वहा की चौकिया सोने-चान्दी की थी, और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमर्मर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। ७ उस जेवनार में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। ८ पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भण्डारियों को आज्ञा दी थी, कि जो पाहुन जैसा चाहे उसके साथ

वैसा ही बर्ताव करना । ६ रानी वशती ने भी राजा क्षयर्य के भवन में स्त्रियों की जेवनार की ॥

१० सातवें दिन, जब राजा का मन दाखमधु में मग्न था, तब उस ने महमान, बिजता, हर्बोना, बिगता, अरबगता, जेतेर और कर्कस नाम सातों खोजों को जो क्षयर्य राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी, ११ कि रानी वशती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिस से कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुन्दरता प्रगट हो जाए; क्योंकि वह देखने में सुन्दर थी । १२ खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वशती ने आने से इनकार किया । इस पर राजा बड़े क्रोध में जलने लगा ॥

१३ तब राजा ने समय समय का भेद जाननेवाले परिदितो में पूछा (राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों में ऐसा ही किया करता था । १४ और उसके पास कर्शना, शेतार, अदमाता, तर्शाश, मेरेस, मर्सना, और ममूकान नाम फारस, और माद के सातों खोजे थे, जो राजा का दर्शन करते, और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे।) १५ राजा ने पूछा कि रानी वशती ने राजा क्षयर्य की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उलघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? १६ तब ममूकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वशती ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परन्तु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों में भी जो राजा क्षयर्य के सब प्रान्तों में रहते हैं । १७ क्योंकि रानी के इस

काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी और जब यह कहा जाएगा, कि राजा क्षयर्य ने रानी वशती को अपने साम्हने ले आने की आज्ञा दी परन्तु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी । १८ और आज्ञा के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है तो वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी; इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा । १९ यदि राजा को स्वीकार हो, तो यह आज्ञा निकाले, और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिस में कभी बदल न सके, कि रानी वशती राजा क्षयर्य के सम्मुख फिर कभी आने न पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उस से अच्छी हो । २० और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां द्रोटे, बेडे, अपने अपने पति का आदरमान करती रहेंगी । २१ यह बात राजा और हाकिमों को पसन्द आई और राजा ने ममूकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में, २२ अर्थात् प्रत्येक प्रान्त के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी, कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाए, और अपनी जाति की भाषा बोला करें ॥

(एस्तेर का पटरानी बन जाना)

इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्य की जलजलाहट ठंडी हो गई, तब उस ने रानी वशती की, और जो काम उस ने किया था, और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली । २ तब राजा के सेवकों को उसके

टहलुए थे, कहने लगे, राजा के लिये सुन्दर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। ३ और राजा ने अपने राज्य के सब प्रान्तों में लोगों को इसलिये नियुक्त किया कि वे सब सुन्दर युवती कुंवारियों को शूशन गढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे; और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। ४ तब उन में से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वशती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसन्द आई और उस ने ऐसा ही किया।।

५ शूशन गढ़ में मोर्दकै नाम एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक विन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता, और यार्डर का पुत्र था। ६ वह उन बन्धुओं के साथ यरूशलेम से बन्धुआई में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर, यहूदा के राजा यकोन्याह के सग बन्धुआ करके ले गया था। ७ उस ने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहिन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला-पोसा था; क्योंकि उसके माता-पिता कोई न थे, और वह लड़की सुन्दर और रूपवती थी, और जब उसके माता-पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। ८ जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए, और बहुत सी युवती स्त्रियां, शूशन गढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गईं। ९ और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी; और वह उस से प्रसन्न हुआ, तब उस ने बिना विलम्ब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं,

और उसका भोजन, और उसके लिये चुनी हुई सात सहेलियां भी दीं, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सब से अच्छा रहने का स्थान दिया। १० एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी, न अपना कुल; क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी, कि उसे न बताना। ११ मोर्दकै तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के साम्हने टहलता था ताकि जाने की एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा? १२ जब एक एक कन्या की बारी हुई, कि वह क्षयरथ राजा के पास जाए, (और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिये ठहराए हुए नियम के अनुसार बारह माह तक व्यवहार किया गया था; अर्थात् उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए, कि छः माह तक गन्धरस का तेल लगाया जाता था, और छः माह तक सुगन्धद्रव्य, और स्त्रियों के शुद्ध करने का और और सामान लगाया जाता था)। १३ इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। १४ सांरू को तो वह जाती थी और बिहान को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखलियों के रखवाले राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी, और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उस से प्रसन्न हो जाता था, तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी।।

१५ जब मोर्दकै के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले

राजा के खोजे हेगे ने उसके लिये ठहराया था, उस से अधिक उस ने और कुछ न मांगा। और जितनों ने एस्तेर को देखा, वे सब उस से प्रसन्न हुए। १६ यों एस्तेर राजभवन में राजा क्षयर्य के पास उसके राज्य के सातवें वर्ष के तेबेत नाम दसवें महीने में पहुंचाई गई। १७ और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और और सब कुवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई, इस कारण उस ने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर रानी बनाया। १८ तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके, उसे एस्तेर की जेवनार कहा; और प्रान्तों में छुट्टी दिलाई, और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे ॥

१९ जब कुवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गईं, तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था। २० और एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए; और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहा अपने पालन पोषण के समय मानती थी। २१ उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उन में से बिकतान और तेरेश नाम दो जनों ने राजा क्षयर्य से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। २२ यह बात मोर्दकै को मालूम हुई, और उस ने एस्तेर रानी को यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। २३ तब जांच पड़ताल होने पर यह बात

सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृत्तान्त राजा के साम्हने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया ॥

(बामाज के दोष के कारण यहूदियों की सत्यानाश करने की आज्ञा का दिशा जाना)

इन बातों के बाद राजा क्षयर्य ने अगामी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया, और उसको महत्व देकर उसके लिये उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। २ और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के साम्हने झुककर दण्डवत किया करते थे क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी; परन्तु मोर्दकै न तो झुकता था और न उसको दण्डवत करता था। ३ तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्हीं ने मोर्दकै से पूछा, ४ तू राजा की आज्ञा क्यों उलंघन करता है? जब वे उस से प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे, और उस ने उनकी एक न मानी, तब उन्हो ने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया; उस ने तो उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूं। ५ जब हामान ने देखा, कि मोर्दकै नहीं झुकता, और न मुझ को दण्डवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। ६ उस ने केवल मोर्दकै पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना। क्योंकि उन्हीं ने हामान को यह बता दिया था, कि मोर्दकै किस जाति का है, इसलिये हामान ने क्षयर्य के साम्राज्य में रहनेवाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै

की जाति जानकर, विनाश कर डालने की युक्ति निकाली ॥

७ राजा क्षयर्य के बारहवें वर्ष के नीसान नाम पहिले महीने में, हामान ने अदर नाम बारहवें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिये "पूर" अर्थात् चिट्ठी अपने माम्हने डलवाई । ८ और हामान ने राजा क्षयर्य से कहा, तेरे राज्य के सब प्रान्तों में रहनेवाले देश देश के लोगों के मध्य में नितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिये उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है । ९ यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और में राज के भण्डारियों के हाथ में राजभण्डार में पहुँचाने के लिये, दस हजार किककार चान्दी दूंगा । १० तब राजा ने अपनी अगूठी अपने हाथ से उतारकर अगामी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था दे दी । ११ और राजा ने हामान से कहा, वह चान्दी तुझे दी गई है, और वे लोग भी, ताकि तू उन से जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे ॥

१२ यों उसी पहिले महीने के तेरहवें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों, और सब प्रान्तों के प्रधानों, और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिये चिट्ठियाँ, एक एक प्रान्त के अक्षरो में, और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्य के नाम से लिखी गईं; और उन में राजा की अगूठी की छाप लगाई गई । १३ और राज्य के सब

प्रान्तों में इस आशय की चिट्ठियाँ हर डाकियों के द्वारा भेजी गईं कि एक ही दिन में, अर्थात् अदर नाम बारहवें महीने के तेरहवें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंसघात और नाश किए जाए; और उनकी धन सम्पत्ति लूट ली जाए । १४ उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रान्तों में खुली हुई भेजी गईं कि सब देशों के लोग उस दिन के लिये तैयार हो जाए । १५ यह आज्ञा शूशन गढ़ में दी गई, और डाकिए राजा की आज्ञा से तुरन्त निकल गए । और राजा और हामान तो जेबनार में बैठ गए, परन्तु शूशन नगर में घबरारहट फँस गई ॥

(मोर्दकै एस्तेर की विनयी करने के लिये उसकाला है)

४ जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहिन, राख डालकर, नगर के मध्य जाकर ऊँचे और दुखभरे शब्द से चिल्लाने लगा; २ और वह राजभवन के फाटक के साम्हने पहुँचा, परन्तु टाट पहिने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी । ३ और एक एक प्रान्त में, जहां जहा राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहा वहा यहूदी बडा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहिने और राख डाले हुए पड़े रहे ॥

४ और एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजों ने जाकर उसको बता दिया, तब रानी शोक से भर गई*; और मोर्दकै के

* मूल में—पीका से पेंट गई ।

पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतारकर इन्हे पहिन ले, परन्तु उस ने उन्हें न लिया। ५ तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी, कि मोर्दकै के पास जाकर मालूम कर ले, कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। ६ तब हताक नगर के उस चौक में, जो राजभवन के फाटक के साम्हने था, मोर्दकै के पास निकल गया। ७ मोर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिये राजभण्डार में कितनी चान्दी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। ८ फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उस ने हताक के हाथ में, एस्तेर को दिखाने के लिये दी, और उसे सब हाल बताने, और यह आज्ञा देने को कहा, कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिये गिडगिडाकर बिनती करे। ९ तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दकै की बातें कह सुनाई। १० तब एस्तेर ने हताक को मोर्दकै से यह कहने की आज्ञा दी, ११ कि राजा के सब कर्मचारियों, वरन राजा के प्रान्तों के सब लोगों को भी मालूम है, कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आगन में राजा के पास जाएगा उसके मार डालने ही की आज्ञा है; केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदण्ड बढ़ाए वही बचता है। परन्तु मैं अब तीस दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। १२ एस्तेर की ये बातें मोर्दकै को सुनाई

गई। १३ तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, कि तू मन ही मन यह विचार न कर, कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। १४ क्योंकि जो तू इस समय चपचाप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परन्तु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिये राजपद मिल गया हो? १५ तब एस्तेर ने मोर्दकै के पास यह कहला भेजा, १६ कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, तीन दिन रात न तो कुछ खाओ, और न कुछ पीओ। और मैं भी अपनी सहेलियों सहित उमी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। १७ तब मोर्दकै चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उस ने किया।

५ तीसरे दिन एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहिनकर राजभवन के भीतरी आगन में जाकर, राजभवन के साम्हने खड़ी हो गई। गजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के साम्हने विराजमान था, २ और जब राजा ने एस्तेर रानी को आगन में खड़ी हुई देखा, तब उस से प्रसन्न होकर सोने का राजदण्ड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदण्ड की नोक छुई। ३ तब राजा ने उस से पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिये? और

तू क्या मांगती है ? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। ४ एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो, तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में आए, जो मैं ने राजा के लिये तैयार की है। ५ तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरन्त ले आओ, कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। सो राजा और हामान एस्तेर की तैयार की हुई जेवनार में आए। ६ जेवनार के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है ? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मागती है ? माग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। ७ एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मागती हू वह यह है, ८ कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मागू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस जेवनार में आए जिसे मैं उनके लिये करूंगी, और कल में राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी ॥

६ उस दिन हामान आनन्दित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया। परन्तु जब उस ने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा, कि वह उसके साम्हने न तो खड़ा हुआ, और न हटा, तब वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। १० तौभी वह अपने को रोककर अपने घर गया, और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। ११ तब हामान ने, उन से अपने धन का विभव, और अपने लडके-बालो की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया, और और सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊचा

पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। १२ हामान ने यह भी कहा, कि एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग, अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया, और कल के लिये भी राजा के संग उस ने मुझी को नेवता दिया है। १३ तौभी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है*। १४ उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उस से कहा, पचास हाथ ऊचा फासी का एक खम्भा, बनाया जाए, और बिहान को राजा में कहना, कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनन्द से जेवनार में जाना। इस बात में प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फासी का एक खम्भा बनवाया ॥

६ उस रात राजा को नीद नहीं आई, इसलिये उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई, और पढ़कर राजा को सुनाई गई। २ और यह लिखा हुआ मिला, कि जब राजा क्षयर्य के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उन में से बिगताना और तेरेश नाम दो जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी उसे मोर्दकै ने प्रगट किया था। ३ तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई ? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्हो ने उसको उत्तर दिया, उसके लिये कुछ भी नहीं किया गया। ४ राजा ने पूछा, आंगन में कौन है ? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से

* मूल में—यह सब मेरे बराबर नहीं।

आया था, कि जो खम्भा उस ने मोर्दक के लिये तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। ५ तब राजा के सेवकों ने उस से कहा, आगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। ६ जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उस से पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिये क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर, कि मुझ से अधिक राजा किस की प्रतिष्ठा करना चाहता होगा? ७ राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, ८ तो उसके लिये राजकीय वस्त्र लाया जाए, जो राजा पहिनता है, और एक घोड़ा भी, जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। ९ फिर वह वस्त्र, और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहिनाया जाए, और उम घोड़े पर सवार करके, नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उमके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, कि जिमकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उमके साथ ऐसा ही किया जाएगा। १० राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर, उस यहूदी मोर्दक में जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर। जैसा तू ने कहा है उस में कुछ भी कमी होने न पाए। ११ तब हामान ने उस वस्त्र, और उस घोड़े को लेकर, मोर्दक को पहिनाया, और उसे घोड़े पर चढ़ाकर, नगर के चौक में इस

प्रकार पुकारता हुआ धुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा।

१२ तब मोर्दक तो राजभवन के फाटक में लौट गया परन्तु हामान शोक करता हुआ और सिर ढापे हुए भट अपने घर को गया। १३ और हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वगैरान किया। १४ तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उस से कहा, मोर्दक जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वश में का है, तो तू उस पर प्रबल न होने जाएगा उस से पूरी रीति नीचा ही खाएगा। १५ वे उस से बानं कर ही रहे थे, कि राजा के खोजे आकर, हामान को एस्तेर की की हुई जेवनार में फुर्ती में लिवा ले गए।

७ सो राजा और हामान एस्तेर रानी की जेवनार में आ गए। २ और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते-पीते एस्तेर से फिर पूछा, हे एस्तेर रानी! तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मागती है? माग, और आघा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। ३ एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा! यदि तू मुझ पर प्रसन्न है, और राजा को यह स्वीकार है तो मेरे निवेदन में मुझे, और मेरे मागने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले। ४ क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, और हम सब विध्वंस-घात और नाश किए जानेवाले हैं। यदि हम केवल दास-दासी हो जाने के लिये बेच डाले जाते, तो मैं चुप रहती; चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की

हानि भर न सकता। ५ तब राजा क्षयरथ ने एस्तेर रानी से पूछा, वह कौन है? और कहाँ है जिस ने ऐसा करने की मनसा की है? ६ एस्तेर ने उत्तर दिया है कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा-रानी के साम्हने भयभीत हो गया। ७ राजा तो जलजलाहट में आ, मधु पीन से उठकर, राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तेर रानी से प्रार्थना मागने को खड़ा हुआ। ८ जब राजा राजभवन की बारी से दाखमधु पीने के स्थान में लौट आया तब क्या देखा, कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है पड़ा है, और राजा ने कहा, क्या यह घर ही मे भेरे साम्हने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुह से यह बचन निकला ही था, कि सेवकों ने हामान का मुह ढाप दिया। ९ तब राजा के साम्हने उपस्थित रहनेवाले खोजो मे से हर्वोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहा पचास हाथ ऊचा फासी का एक खम्भा खड़ा है, जो उस ने मोर्दक के लिये बनवाया है, जिस ने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। १० तब हामान उसी खम्भे पर जो उस ने मोर्दक के लिये तैयार कराया था, लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी होगई।

(यहूदियों को अपने शत्रुओं के घात करने की अनुमति मिली)

उसी दिन राजा क्षयरथ ने यहूदियों के विरोधी हामान का घरबार एस्तेर रानी को दे दिया। और मोर्दक राजा के

साम्हने आया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था, कि उस से उसका क्या नाता था। २ तब राजा ने अपनी वह भ्रगूठी जो उस ने हामान से ले ली थी, उतार कर, मोर्दक को दे दी। और एस्तेर ने मोर्दक को हामान के घरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया।

३ फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली; और उसके पाव पर गिर, आंसू बहा बहाकर उस से गिडगिडाकर बिन्ती की, कि भ्रगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। ४ तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदण्ड बढ़ाया। ५ तब एस्तेर उठकर राजा के साम्हने खड़ी हुई, और कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझ से प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े, और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठिया हम्मदाता भ्रगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रान्तों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिये लिखा जाए। ६ क्योंकि मैं अपने जाति के लोगो पर पड़नेवाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी? और मैं अपने भाइयों के विनाश को क्योंकर देख सकूंगी? ७ तब राजा क्षयरथ ने एस्तेर रानी से और मोर्दक यहूदी से कहा, मैं हामान का घरबार तो एस्तेर को दे चुका हूँ, और वह फासी के खम्भे पर लटका दिया गया है, इसलिये कि उस ने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था। ८ सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो, और राजा की भ्रगूठी की छाप भी लगाओ; क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए, और उस पर

उसकी अगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता ॥

६ सो उसी समय अर्थात् सीवान नाम तीसरे महीने के तेईसवें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दक ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिन्दुस्तान से लेकर कूश तक, जो एक सौ सत्ताईस प्रान्त हैं, उन सभी के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रान्त के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में, और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। १० मोर्दक ने राजा क्षयर्ष के नाम से चिट्ठिया लिखाकर, और उन पर राजा की अगूठी की छाप लगाकर, वेग चलनेवाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों और साडनियों की डाक लगाकर, हरकारों के हाथ भेज दी। ११ इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई, कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिये तैयार होकर, जिस जानि वा प्रान्त से लोग अन्याय करके उनको वा उनकी स्त्रियों और बालबच्चों को दुःख देना चाहें, उनको विध्वंसघात और नाश करे, और उनकी धन सम्पत्ति लूट लें। १२ और यह राजा क्षयर्ष के सब प्रान्तों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात् अदार नाम बारहवें महीने के तेरहवें दिन को। १३ इस आज्ञा के लेख की नकले, समस्त प्रान्तों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई; ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहें। १४ सो हरकारे वेग चलनेवाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर, राजा की आज्ञा से

फुर्ती करके जल्दी चल गए, और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी ॥

१५ तब मोर्दक नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहिने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बेंजनी रंग का बागा पहिने हुए, राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनन्द के मारे ललकार उठे ॥

१६ और यहूदियों को आनन्द और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। १७ और जिस जिस प्रान्त, और जिस जिस नगर में, जहा कही राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहा वहां यहूदियों को आनन्द और हर्ष हुआ, और उन्हो ने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगो में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था ॥

(पूरुष नाम पर्व का चतुस्रथा जात्रा)

६ अदार नाम बारहवें महीने के तेरहवें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे, और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परन्तु इसके उलटे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन, २ यहूदी लोग राजा क्षयर्ष के सब प्रान्तों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए, कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे, उन पर हाथ चलाए। और कोई उनका साम्हना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगो के मन में समा गया था। ३ वरन प्रान्तों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की,

क्योंकि उनके मन में मोर्देकै का भय समा गया था। ४ मोर्देकै तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था, और उसकी कीर्ति सब प्रान्तों में फैल गई; वरन उस पुरुष मोर्देकै की महिमा बढ़ती चली गई। ५ और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला, और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। ६ और शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने पांच सौ मनुष्यों को घात करके नाश किया। ७ और उन्होंने ने पर्शान्दाता, दल्पोन, अस्पाता, ८ पोरता, अदल्या, अरीदाता, ९ पर्मुशता, अरीसै, अरीदै और बैजाता, १० अर्थात् हम्मदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के दसों पुत्रों को भी घात किया; परन्तु उनके धन को न लूटा।

११ उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुए शत्रुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। १२ तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में पांच सौ मनुष्य और हामान के दसों पुत्रों को भी घात करके नाश किया है; फिर राज्य के और और प्रान्तों में उन्होंने ने न जाने क्या क्या किया होगा! अब इस से अधिक तेरा निबंदन क्या है? वह भी पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? वह भी तुझे दिया जाएगा। १३ एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज की नाई कल भी करने की आज्ञा दी जाए, और हामान के दसों पुत्र फाँसी के खम्भों पर लटकाए जाएं। १४ राजा ने कहा, ऐसा किया जाए; यह आज्ञा शूशन में दी गई, और हामान के दसों पुत्र लटकाए गए। १५ और शूशन के यहूदियों ने

अदार महीने के चौदहवें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में तीन सौ पुरुषों को घात किया, परन्तु धन को न लूटा।

१६ राज्य के और और प्रान्तों के यहूदी इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिये खड़े हुए, और अपने बैरियों में से पचहत्तर हजार मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया; परन्तु धन को न लूटा। १७ यह अदार महीने के तेरहवें दिन को किया गया, और चौदहवें दिन को उन्होंने ने विश्राम करके जेवनार की और आनन्द का दिन ठहराया। १८ परन्तु शूशन के यहूदी अदार महीने के तेरहवें दिन को, और उसी महीने के चौदहवें दिन को इकट्ठे हुए, और उसी महीने के पन्द्रहवें दिन को उन्होंने ने विश्राम करके जेवनार का और आनन्द का दिन ठहराया। १९ इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहरपनाह की बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने के चौदहवें दिन को आनन्द और जेवनार और खुशी और आपस में बैना भोजन का दिन नियुक्त करके मानते हैं।

२० इन बातों का वृत्तान्त लिखकर, मोर्देकै ने राजा क्षयरथ के सब प्रान्तों में, क्या निकट क्या दूर रहनेवाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियाँ भेजीं, २१ और यह आज्ञा दी, कि अदार महीने के चौदहवें और उसी महीने से पन्द्रहवें दिन को प्रति वर्ष माना करें। २२ जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिस में शोक आनन्द से, और विलाप खुशी से बदला गया; (माना करें) और उनको जेवनार और आनन्द और एक दूसरे के पास बैना भोजन और कंगालों को दान देने के दिन मानें।

२३ और यहूदियों ने जैसा आरम्भ किया था, और जैसा मोर्देकै ने उन्हें लिखा, वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। २४ क्योंकि हम्मदाता अगागी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों को विरोधी था, उस ने यहूदियों के नाश करने की युक्ति की, और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिये पूर अर्थात् चिट्ठी डाली थी। २५ परन्तु जब राजा ने यह जान लिया, तब उस ने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए, तब वह और उसके पुत्र फांसी के खम्भों पर लटकाए गए। २६ इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पूरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण, और जो कुछ उन्होंने ने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था, उसके कारण भी २७ यहूदियों ने अपने अपने लिये और अपनी सन्तान के लिये, और उन सभी के लिये भी जो उन में मिल गए थे यह अटल प्रण किया, कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये दो दिन माने। २८ और पीढ़ी पीढ़ी, कुल कुल, प्रान्त प्रान्त, नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे। और पूरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके बंश से जाता न रहेगा ॥

२९ फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी, और मोर्देकै यहूदी ने, पूरीम के

विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। ३० इसकी नकले मोर्देकै ने क्षयर्य के राज्य के, एक सौ सत्ताईसों प्रान्तों के सब यहूदियों के पास शान्ति देनेवाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजीं, ३१ कि पूरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्देकै यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार, और जो यहूदियों ने अपने और अपनी सन्तान के लिये ठान लिया था, उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाए। ३२ और पूरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया, और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई ॥

(मोर्देकै का नाशवाक्य)

१० और राजा क्षयर्य ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया। २ और उसके माहात्म्य और पराक्रम के कामों, और मोर्देकै की उस बडाई का पूरा ब्योरा, जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मार्दे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ? ३ निदान यहूदी मोर्देकै, क्षयर्य राजा ही के नीचे था, और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उस से प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शान्ति की बातें कहा करता था ॥

अय्यूब

(अय्यूब का भारी परीक्षा में पड़ना)

१ ऊँज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था । २ उसके सात बेटे और तीन बेटियाँ उत्पन्न हुईं । ३ फिर उसके सात हजार भेड़-बकरियाँ, तीन हजार ऊँट, पाँच सौ जोड़ी बैल, और पाँच सौ गदहियाँ, और बहुत ही दास-दासियाँ थी; वरन उसके-इतनी सम्पत्ति थी, कि पूरबियों में वह सब से बड़ा था । ४ उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने-पीने को जाया करते थे, और अपनी तीनों बहिनों को अपने सग खाने-पीने के लिये बुलवा भेजते थे । ५ और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, और बडी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढाता था; क्योंकि अय्यूब सोचता था, कि कदाचित् मेरे लडकों ने पाप करके परमेश्वर को छोड दिया हो । इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था ॥

६ एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके साम्हने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया । ७ यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है ? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, कि पृथ्वी पर इधर-उधर घूमते-फिरते और डोलते-डालते आया हूँ । ८ यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है ? क्योंकि उसके तुल्य

खरा और सीधा और मेरा भय माननेवाला और बुराई से दूर रहनेवाला मनुष्य और कोई नहीं है । ९ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय* बिना लाभ के मानता है ? १० क्या तू ने उसकी, और उसके घर की, और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बान्धा ? तू ने तो उसके काम पर आशीष दी है, ११ और उसकी सम्पत्ति देश भर में फैल गई है । परन्तु अब अपना हाथ बढाकर जो कुछ उसका है, उसे छू; तब वह तेरे मुह पर तेरी निन्दा करेगा । १२ यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है, वह सब तेरे हाथ में है; केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना । तब शैतान यहोवा के साम्हने से चला गया ॥

१३ एक दिन अय्यूब के बेटे-बेटियाँ बडे भाई के घर में खाते और दाखमधु पी रहे थे; १४ तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, १५ और गदहियाँ उनके पास चर रही थी, कि शवा के लोग धावा करके उनको ले गए, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ । १६ वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और

* मूल में—तेरे मुख के साम्हने ।

उस में भेड-बकरिया और सेवक जलकर मरम् हो गए; और मैं ही अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने को आया हूँ। १७ वह अभी यह कह ही रहा था, कि एक और भी आकर कहने लगा, कि कसदी लोग तीन गोल बान्धकर ऊटो पर घावा काँके उन्हे ले गए, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला; और मैं ही अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने को आया हूँ। १८ वह अभी यह कह ही रहा था, कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे-बेटिया बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे, १९ कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचण्ड वायु चली, और घर के चारों कोनों को ऐसा भोंका मारा, कि वह जवानों पर गिर पडा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने को आया हूँ ॥

२० तब अय्यूब उठा, और बागा फाड, सिर मुडाकर भूमि पर गिरा और दगडवत् करके कहा, २१ मैं अपनी मा के पेट में नंगा निकला और वही नगा लौट जाऊंगा; यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया; यहोवा का नाम धन्य है ॥

२२ इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया, और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया ॥

२ फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके साम्हने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी उसके साम्हने उपस्थित हुआ। २ यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां में आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, कि इधर-उधर घूमते-फिरते और डोलते-डालते आया हूँ। ३ यहोवा ने शैतान से पूछा,

क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय माननेवाला और बुराई से दूर रहनेवाला मनुष्य और कोई नहीं है? और यद्यपि तू ने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तौभी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। ४ शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परन्तु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। ५ सो केवल अपना हाथ बढाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निन्दा करेगा। ६ यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड देना ॥

७ तब शैतान यहोवा के साम्हने से निकला, और अय्यूब को पांव के तलबे से ले सिर की चोटी तक बडे बडे फोडों से पीडित किया। ८ तब अय्यूब खुजलाने के लिये एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। ९ तब उसकी स्त्री उस से कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निन्दा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा ॥

१० उस ने उस से कहा, तू एक मूढ स्त्री की सी बाने करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ में सुख लेते हैं, दुःख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुह से कोई पाप नहीं किया ॥

११ जब तेमानी एलीपज, और शूही बिलदद, और नामाती सोपर, अय्यूब के इन तीन मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पडी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके सग विलाप करेंगे, और उसको शान्ति देंगे, अपने अपने यहा

से उसके पास चले । १२ जब उन्होंने ने दूर से आंख उठाकर अथ्यूब को देखा और उसे न चीन्ह सके, तब चिल्लाकर रो उठे; और अपना अपना बागा फाडा, और आकाश की ओर धूलि उडाकर अपने अपने सिर पर डाली । १३ तब वे सात दिन और सात रात उसके सग भूमि पर बैठे रहे, परन्तु उसका दुःख बहुत ही बडा जान कर किसी ने उस से एक भी बात न कही ।।

(अथ्यूब का अपने जन्मदिन को धिक्कारना)

इसके बाद अथ्यूब मुह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने २ और कहने लगा,

३ वह दिन जल जाए जिस में मैं उत्पन्न हुआ,

और वह रात भी जिस में कहा गया, कि बेटे का गर्भ रहा ।

४ वह दिन अन्धियारा हो जाए ।

ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले, और न उस में प्रकाश होए ।

५ अन्धियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे * ।

बादल उस पर छाए रहे, और दिन को अन्धेरा कर देनेवाली चीजें उसे डराएं ।।

६ घोर अन्धकार उस रात को पकडे; वर्ष के दिनों के बीच वह आनन्द न करने पाए,

और न महीनों में उसकी गिनती की जाए ।

७ सुनो, वह रात बांभ हो जाए; उस में गाने का शब्द न सुन पड़े ।

८ जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं, और लिब्यातान को छेड़ने में निपुण हैं, उसे धिक्कारे ।

९ उसकी सध्या के तारे प्रकाश न दे, वह उजियाले की बाट जोहे पर वह उसे न मिले, वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए,

१० क्योंकि उस ने मेरी माता की कोख को बन्द न किया * और कष्ट को मेरी दृष्टि में न छिपाया ।।

११ मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया ? पेट में निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा ?

१२ मैं घटनों पर क्यों लिया गया ? मैं छातियो को क्यों पीने पाया ?

१३ ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पडा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता,

१४ और मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मन्त्रियो के साथ होता जिन्हो ने अपने लिये सुनसान स्थान बनवा लिए,

१५ वा मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था जिन्हों ने अपने घरों को चान्दी से भर लिया था,

१६ वा मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता, वा ऐसे बच्चों के समान होता जिन्हों ने उजियाले को कभी देखा ही न हो ।

१७ उस दशा में दुष्ट लोग फिर दुःख नहीं देते,

* मूल में—उसका दाम देकर उसे अपना ले ।

* मूल में—उस ने मेरी कोख के किवाड बन्द न किए न मेरी आंखों से कष्ट छिपाया ।

- और थके मादे विश्राम पाते हैं ।
- १८ उस में बन्धुए एक सग मुख से रहते हैं ;
और परिश्रम करानेवाले का शब्द नहीं सुनते ।
- १९ उस में छोटे बड़े सब रहने हैं, और दास अपने स्वामी से स्वतन्त्र रहता है ॥
- २० दुःखियों को उजियाला,
और उदास मनवालो को जीवन क्यों दिया जाता है ?
- २१ वे मृत्यु की बाट जोहने हैं पर वह आती नहीं ;
और गड़े हुए धन में अधिक उमकी खोज करते हैं * ;
- २२ वे कन्न को पहुँचकर आनन्दित और अत्यन्त मगन होते हैं ॥
- २३ उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है,
जिसके चारो ओर ईश्वर ने घेरा बान्ध दिया है ?
- २४ मुझे तो रोटी खाने की मन्ती लम्बी लम्बी सासे आती है,
और मेरा विलाप धारा की नार्ई बहता रहता † है ।
- २५ क्योंकि जिस डरावनी बात में डरता हूँ, वही मुझ पर आ पडती है,
और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है ।
- २६ मुझे न तो कल, न शान्ति, न विश्राम मिलता है ; परन्तु दुःख ही आता है ॥

* मूल में—उसके लिये खोदते हैं ।

† मूल में—मेरे गर्जन जल की नार्ई उडेले जाते हैं ।

- ४ (रखीपज का बचन)
तब तेमानी एलीपज ने कहा,
२ यदि कोई तुझ से कुछ कहने लगे,
तो क्या तुझे बुरा लगेगा ?
परन्तु बोले बिना कौन रह सकता है ?
३ सुन, तू ने बहुतो को शिक्षा दी है,
और निर्बल लोगो * को बलवन्त किया है ।
४ गिरते हुआ को तू ने अपनी बातों से सम्भाल लिया,
और लडखड़ाते हुए लोगो † को तू ने बलवन्त किया ।
५ परन्तु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पडी, और तू निराश हुआ जाता है ;
उस ने तुझे छुआ और तू घबरा उठा ।
६ क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं ?
और क्या तेरी चालचलन जो खरी है तेरी आशा नहीं ?
७ क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश हुआ है ? या कही मज्जन भी काट डाले गए ?
८ मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुःख बोलने हैं, वही उसको काटते हैं ।
९ वे तो ईश्वर की द्वास से नाश होते, और उसके क्रोध के भोके से भस्म होने हैं ।
१० सिंह का गरजना और मनुष्य हिसक सिंह का दहाड़ना बन्द हो आता है ।
और जवान मिहों के दांत तोडे जाते हैं ॥

* मूल में—निर्बल हाथ ।

† मूल में—टिकते हुए ।

- ११ शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है,
और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं ॥
- १२ एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई,
और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी ।
- १३ रात के स्वप्नों की चिन्ताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं,
- १४ मुझे ऐसी धरधराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी ।
- १५ तब एक आत्मा * मेरे साम्हने से होकर चली;
और मेरी देह के रोएं खड़े हो गए ।
- १६ वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहिचान न सका ।
परन्तु मेरी आंखों के साम्हने कोई रूप था;
पहिले सभ्राटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुन पडा,
- १७ क्या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा ? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है ?
- १८ देख, वह अपने सेवको पर भरोसा नहीं रखता,
और अपने स्वर्गदूतो को मूर्ख ठहराता है,
- १९ फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं,
और जिनकी नेव मिट्टी में डाली गई है,
- और जो पतंगे की नाईं पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना ।
- २० वे भोर से साभ तक नाश किए जाते हैं,
वे सदा के लिये मिट जाते हैं,
और कोई उनका विचार भी नहीं करता ।
- २१ क्या उनके डेरे की डोरी उनके अन्दर ही अन्दर नहीं कट जाती ? वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं ।
- ५ पुकार कर देख; क्या कोई है जो तुझे उत्तम देगा ?
और पवित्रों में से तू किस की ओर फिरेगा ?
- २ क्योंकि मूढ़ तो खेद करने करते नाश हो जाता है,
और भोला जलते जलते मर मिटता है ।
- ३ मैं ने मूढ़ को जब पकडते देखा है;
परन्तु अचानक मैं ने उसके वासस्थान को धिक्कारा ।
- ४ उसके लडकेबाले उद्धार से दूर है,
और वे फाटक में पीसे जाते हैं,
और कोई नहीं है जो उन्हें छुडाए ॥
- ५ उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं,
वरन कटीली बाड में से भी निकाल लेते हैं;
और प्यासा उनके धन के लिये फन्दा लगाता है ।
- ६ क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न कष्ट भूमि में से उगता है;
- ७ परन्तु जैसे चिगारियां ऊपर ही ऊपर को उड जाती हैं,

* वा वायु ।

- बैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिये उत्पन्न हुआ है ।।
- ८ परन्तु मैं तो ईश्वर ही को खोजता रहूँगा और अपना मुकद्दमा परमेश्वर पर छोड़ दूँगा ।
- ९ वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगनी, और इतने आश्चर्यकर्म करता है, जो गिने नहीं जाते ।
- १० वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता, और खेतों पर जल बरसाता है ।
- ११ इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊँचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहिरावा पहिने हुए लोग ऊँचे पर पहुँचकर बचते हैं ।
- १२ वह तो घूर्त लोगों की कल्पनाएँ व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता ।
- १३ वह बुद्धिमानों को उनकी घूर्तता ही में फसाता है; और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है ।
- १४ उन पर दिन को अन्धेरा छा जाता है, और दिन दुपहरी में वे गत की नाई टटोलते फिरते हैं ।
- १५ परन्तु वह दरिद्रों को उनके वचनरूपी तलवार में * और बलवानों के हाथ से बचाता है ।
- १६ इसलिये कंगालों को आशा होनी है, और कुटिल मनुष्यों का मुह बन्द हो जाता है ।।
- १७ देख, क्या ही धन्य वह मनुष्य, जिसको ईश्वर ताड़ना देता है,
- इसलिये तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान ।
- १८ क्योंकि वही घायल करता, और वही पट्टी भी बान्धता है; वही मारता है, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है ।
- १९ वह तुझे छः विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन सात में भी नेरी कुछ हानि न होने पाएगी ।
- २० अकाल में वह तुझे मृत्यु से, और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेंगा ।।
- २१ तू वचनरूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए, तब भी तुझे भय न होगा ।
- २२ तू उजाड़ और अकाल के दिनों में हँसमुख रहेगा, और तुझे बनले जन्तुओं से डर न लगेगा ।
- २३ वरन मैदान के पत्थर भी तुझ से वाचा बान्धे रहेंगे, और वनपशु तुझ से मेल रखेंगे ।
- २४ और तुझे निश्चय होगा, कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी ।
- २५ तुझे यह भी निश्चित होगा, कि मेरे बहुत वश होंगे । और मेरे सन्तान पृथ्वी की घास में तुल्य बहुत होंगे ।
- २६ जैसे पुलियों का डेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी अवस्था का होकर कन्न को पहुँचेगा ।

* मूल में—तलवार से उनके मुह से ।

* मूल में—छिपाया जायगा ।

२७ देख, हम ने खोज खोजकर ऐसा ही पाया है;
इसे तू सुन, और अपने लाभ के लिये ध्यान में रख ॥

(अय्यूब का उत्तर)

फिर अय्यूब ने कहा,
२ भला होता कि मेरा खेद तौला जाता, और मेरी मांगी विपत्ति तुला में धरी जाती ।
३ क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती;
इसी कारण मेरी बाते उतावली से हुई हैं ।
४ क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अन्दर चुभे हैं;
और उनका विष मेरी आत्मा में पैठ गया है *;
ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पाति बान्धे हैं ।
५ जब बनने लगे गदहे को घास मिलती, तब क्या वह रेकता है ?
और बैल चारा पाकर क्या डकारता है ?
६ जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है ?
क्या अण्डे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है ?
७ जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिये घिनौना आहार ठहरी है ॥
८ भला होता कि मुझे मुंह मागा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह ईश्वर मुझे दे देता !

* मूल में—मेरी आत्मा को पी लेता है ।

९ कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता, और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता !

१० यही मेरी शान्ति का कारण; वरन भारी पीडा में * भी मैं इस कारण से उछल पड़ता;

क्योंकि मैं ने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया ।

११ मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूँ ? और मेरा अन्त ही क्या होगा, कि मैं धीरज धरूँ ?

१२ क्या मेरी दुइता पत्थरों की सी है ? क्या मेरा शरीर पीतल का है ?

१३ क्या मैं निराधार नहीं हूँ ? क्या काम करने की शक्ति मुझ से दूर नहीं हो गई ?

१४ जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है ।

१५ मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं,
वरन उन नालों के समान जिनकी धार सूख जाती है;

१६ और वे बरफ के कारण काले से हो जाते हैं,
और उन में हिम छिपा रहता है ।

१७ परन्तु जब गरमी होने लगती तब उनकी धाराएँ लोप हो जाती हैं,
और जब कडी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं †,

१८ वे धूमते धूमते सूख जाती, और सुनसान स्थान में बहकर नाश होती हैं ।

* मूल में—बिना छोड़ने की पीडा में ।

† मूल में—उनके मार्ग की डगर धूमती है ।

- १६ तेमा के बनजारे देखते रहे और शबा के काफिलेवालों ने उनका रास्ता देखा ।
- २० वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने ने भरोसा रखा था और वहा पहुचकर उनके मुह सूख गए ।
- २१ उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे, मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो ।
- २२ क्या मैं ने तुम से कहा था, कि मुझे कुछ दो ? वा अपनी सम्पत्ति में मेरे लिये घूस दो ?
- २३ वा मुझे सतानेवाले के हाथ से बचाओ ? वा उपद्रव करनेवालो के वश से छुड़ा लो ?
- २४ मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा, और मुझे समझाओ, कि मैं ने किस बात में चूक की है ॥
- २५ मच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परन्तु तुम्हारे विवाद में क्या लाभ होता है ?
- २६ क्या तुम बाते पकडने * की कल्पना करते हो ?
निराश जन की बाते तो वायु की सी है ॥
- २७ तुम अनाथों पर चिट्ठी डालते, और अपने मित्र को बेचकर लाभ उठानेवाले हो ॥
- २८ इसलिये अब कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हारे साम्हने कदापि भूठ न बोलूंगा ॥
- २९ फिर कुछ अन्याय न होने पाए; फिर इस मुकद्दमे में मेरा धर्म ज्यो का त्यों बना है, मैं सत्त पर हूँ ।
- ३० क्या मेरे वचनों में * कुछ कुटिलता है ?
क्या मैं † दुष्टता नहीं पहचान सकता ?
- क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन मेवा करनी नहीं पडती ?
क्या उसके दिन मजदूर के मे नहीं होते ?
- २ जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे, वा मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे,
- ३ वंसा ही में अनर्थ के महीनो का स्वामी बनाया गया हू, और मेरे लिये क्लेश से भरी राते ठहराई गई हैं ॥
- ४ जब मैं लेट जाता, तब कहता हू, मैं कब उठूंगा ? और रात कब बीतेगी ?
और पी फटने तक छटपटाते छटपटाते उकना जाता हू ॥
- ५ मेरी देह कीडो और मिट्टी के ढेलो में ढकी हुई है,
मेरा चमडा सिमट जाता, और फिर गल जाता है ।
- ६ मेरे दिन जुलाहे की धड़की से अधिक फूर्ती में चलनेवाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं ॥
- ७ याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है;
और मैं अपनी आंखो से कल्याण फिर न देखूंगा ॥
- ८ जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा;

* मूल में—मेरी जीभ पर ।

† मूल में—मेरा तालू ।

- तेरी आँखें मेरी ओर होंगी परन्तु मैं न मिलूंगा ॥
- ६ जैसे बादल छूटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरनेवाला फिर वहाँ से नहीं लौट सकता;
- १० वह अपने घर को फिर लौट न आएगा, और न अपने स्थान में फिर मिलेगा * ॥
- ११ इसलिये मैं अपना मुह बन्द न रखूंगा; अपने मन का खेद खोलकर कहूंगा; और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुडकुड़ाता रहूंगा ॥
- १२ क्या मैं समुद्र हूँ, वा मगरमच्छ हूँ, कि तू मुझ पर पहरा बँठाता है ?
- १३ जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शान्ति मिलेगी, और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हलका होगा;
- १४ तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता, और दर्शनों से भयभीत कर देता है;
- १५ यहाँ तक कि मेरा जी फाँसी को, और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है ॥
- १६ मुझे अपने जीवन से घृणा आती है; मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता । मेरा जीवनकाल सांस सा है, इसलिये मुझे छोड़ दे ॥
- १७ मनुष्य क्या है, कि तू उसे महत्व दे, और अपना मन उस पर लगाए,
- १८ और प्रति भोर को उसकी सुधि ले, और प्रति क्षण उसे जांचता रहे ?

* मूल में—उसका स्थान उसे फिर न चीन्हेगा ।

- १६ तू कब तक मेरी ओर आँख लगाए रहेगा, और इतनी देर के लिये भी मुझे न छोड़ेगा कि मैं अपना धूक निगल लू ?
- २० हे मनुष्यों के ताकनेवाले, मैं ने पाप तो किया होगा, तो मैं ने तेरा क्या बिगाडा ? तू ने क्यों मुझ को अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आपही बोझ हुआ हूँ ?
- २१ और तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता ? और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता ? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊँगा, और तू मुझे यत्न से ढूँढ़ेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा ।

८

(बिछड़द का बचन)

- तब शूही बिलदद ने कहा,
- २ तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा ? और तेरे मुँह की बातें कब तक प्रचण्ड वायु सी रहेगी ?
- ३ क्या ईश्वर अन्याय करता है ? और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उलटा करता है ?
- ४ यदि तेरे लड़केबालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है, तो उस ने उनको उनके अपराध का फल भुगतया है * ॥
- ५ तौभी यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढूँढ़ता, और सर्वशक्तिमान से गिडगिडाकर बिनती करता,

* मूल में— उनके अपराध के हाथ में भेजा है ।

- ६ और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिये जागता; और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता ॥
- ७ चाहे तेरा भाग पहिले छोटा ही रहा हो परन्तु अन्त में तेरी बहुत बढ़ती होती ॥
- ८ अगली पीढ़ी के लोगो से तो पूछ, और जो कुछ उनके पुरखाओ ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे ॥
- ९ क्योंकि हम तो कल ही के हैं, और कुछ नहीं जानते; और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीतते जाते हैं ॥
- १० क्या वे लोग तुझ से शिक्षा की बातें न कहेंगे ?
क्या वे अपने मन से बात न निकालेंगे ?
- ११ क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है ?
क्या सरकण्डा कीच बिना बढ़ता है ?
- १२ चाहे वह हरी हो, और काटी भी न गई हो,
तोभी वह और सब भाति की घास से पहिले ही सूख जाती है ॥
- १३ ईश्वर के सब बिसरानेवालों की गति ऐसी ही होती है
और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है ॥
- १४ उसकी आशा का मूल कट जाता है;
और जिसका वह भरोसा करता है,
वह मकड़ी का जाला ठहराता है ॥
- १५ चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए परन्तु वह न ठहरेगा;
वह उसे दृढ़ता से थांभेगा परन्तु वह स्थिर न रहेगा ॥
- १६ वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है,
और उसकी डालिया बगीचे में चारो ओर फैलती हैं ॥
- १७ उसकी जड़ कंकरो के ढेर में लिपटी हुई रहती है,
और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है ॥
- १८ परन्तु जब वह अपने स्थान पर से नाश किया जाए,
तब वह स्थान उस से यह कहकर मुह मोड़ लेगा कि मैं ने उसे कभी देखा ही नहीं ।
- १९ देख, उसकी आनन्द भरी चाल यही है;
फिर उसी मिट्टी में से दूसरे उगेगे ॥
- २० देख, ईश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है,
और न बुराई करनेवालों को सभालता * है ॥
- २१ वह तो तुम्हें हसमुख करेगा;
और तुझ से † जयजयकार कराएगा ॥
- २२ तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहिनेगे,
और दुष्टों का डेरा कही रहने न पाएगा ॥
- (अय्यूब बिलबुद को उबार देता)
तब अय्यूब ने कहा,
२ मैं निश्चय जानता हूँ, कि बात ऐसी ही है;
परन्तु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्योंकर धर्मी ठहर सकता है ?
३ चाहे वह उस से मुकद्दमा लड़ना भी चाहे
तोभी मनुष्य हजार बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा ॥

* मूल में—का हाथ धाम्भता है ।

† मूल में—तेरे ढोठों से ।

- ४ वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है :
उसके विरोध में हठ करके कौन
कभी प्रबल हुआ है ?
- ५ वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता
है और उन्हे पता भी नहीं लगता,
वह क्रोध में आकर उन्हे उलट पुलट
कर देता है ।
- ६ वह पृथ्वी को हिनाकर उसके स्थान
में अलग करता है,
और उसके खम्भे कापने लगते
हैं ॥
- ७ उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता
ही नहीं;
और वह तारों पर मुहर लगाता है,
८ वह आकाशमण्डल को अकेला ही
फैलाता है,
और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर
चलता है ;
- ९ वह मर्त्यपि, मृगशिरा और कचपचिया
और दक्खिन के नक्षत्रों * का बनाने-
वाला है ॥
- १० वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है,
जिनकी थाह नहीं लगती,
और इतने आश्चर्यकर्म करता है,
जो गिने नहीं जा सकते ।
- ११ देखो, वह मेरे साम्हने से होकर तो
चलता है परन्तु मुझको नहीं
दिखाई पड़ता,
और आगे को बढ़ जाता है, परन्तु
मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है ।
- १२ देखो, जब वह छीनने लगे, तब उसको
कौन रोकेगा ?
कौन उस से कह सकता है कि तू यह
क्या करता है ?
- १३ ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता ।
अभिमानियों * के सहायकों को उसके
पाव तले भुंकना पड़ता है ॥
- १४ फिर मैं क्या हूँ, जो उमे उत्तर दूँ,
और बाते छाट छाटकर उस से
विवाद करूँ ?
- १५ चाहे मैं निर्दोष भी होता परन्तु उसको
उत्तर न दे सकता,
मैं अपने मुद्दई से गिडगिडाकर बिनती
करता ॥
- १६ चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी
देता,
तौभी मैं इस बात की प्रतीति न
करता, कि वह मेरी बात मुनता
है ॥
- १७ वह तो आधी चलाकर मुझे तोड़
डालता है,
और बिना कारण मेरे चोट पर चोट
लगाता है ॥
- १८ वह मुझे सास भी लेने नहीं देता है,
और मुझे कडवाहट से भरता है ॥
- १९ जो सामर्थ्य की चर्चा हो, तो देखो,
वह बलवान है :
और यदि न्याय की चर्चा हो, तो
वह कहेगा मुझ से कौन मुकद्दमा
लड़ेगा † ?
- २० चाहे मैं निर्दोष ही क्यों न हूँ, परन्तु
अपने ही मुह से दोषी ठहरूँगा;
खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल
ठहराएगा ॥
- २१ मैं खरा तो हूँ, परन्तु अपना भेद
नहीं जानता;
अपने जीवन से मुझे घृणा आती है ॥

* मूल में—रहब ।

† मूल में—मेरे लिये कौन समय ठहराएगा ।

- २२ बात तो एक ही है, इस से मैं यह कहता हूँ
कि ईश्वर खरे और दुष्ट दोनों को नाश करता है ॥
- २३ जब लोग विपत्ति * से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जाचे जाने पर हसता है ॥
- २४ देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है । वह उसके न्यायियों की आँखों को मून्द् देता है † ;
इसका करनेवाला वही न हो तो कौन है ?
- २५ मेरे दिन हरकारे से भी अधिक वेग से चले जाते हैं,
वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता ॥
- २६ वे वेग चाल से नावों की नाई चले जाते हैं,
वा अहेर पर झपटते हुए उक्काब की नाई ॥
- २७ जो मैं कहूँ, कि विलाप करना भूल जाऊँगा,
और उदासी ‡ छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूँगा,
- २८ तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ ।
मैं तो जानता हूँ, कि तू मुझ निर्दोष न ठहराएगा ॥
- २९ मैं तो दोषी ठहरूँगा ;
फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ ?
- ३० चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूँ,
और अपने हाथ खार से निर्मल करूँ,
- ३१ तौभी तू मुझे गड़हे में डाल ही देगा,
और मेरे बस्त्र भी मुझ से घिनाएंगे ॥

* मूल में—कोड़े ।

† मूल में—के मुँह ढांपता है ।

‡ मूल में—मुँह ।

- ३२ क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उस से वादविवाद कर सकूँ,
और हम दोनों एक दूसरे में मुकद्दमा लड़ सके ॥
- ३३ हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है,
जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे ॥
वह अपना सोटा मुझ पर से दूर करे
- ३४ और उसकी भय देनेवाली बात मुझे न धँबराए ।
- ३५ तब मैं उम से निडर होकर कुछ कह सकूँगा,
क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ ॥

- १० मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है ;
मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊँगा * ;
और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बाते करूँगा ।
- २ मैं ईश्वर से कहूँगा, मुझे दोषी न ठहरा ;
मुझे बता दे, कि तू किस कारण मुझ से मुकद्दमा लड़ता है ?
- ३ क्या तुझे अन्धेर करना,
और दुष्टों की युक्ति को सुफल करके †
अपने हाथों के बनाए हुए ‡ को निकम्मा जानना भला लगता है ?
- ४ क्या तेरी देहधारियों की सी आँखें हैं ?

* मूल में—अपनी कुड़कुड़ाहट अपने ऊपर झोंकूँगा ।

† मूल में—युक्ति पर चमक के ।

‡ मूल में—हाथों के परिश्रम ।

- और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है ?
- ५ क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान हैं,
वा तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है,
- ६ कि तू मेरा अधर्म दूढ़ता,
और मेरा पाप पूछता है ?
- ७ तुझे तो मालूम ही है, कि मैं दुष्ट नहीं हूँ,
और तेरे हाथ से कोई छुड़ानेवाला नहीं !
- ८ तू ने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है;
तौमी मुझे नाश किए डालता है ॥
- ९ स्मरण कर, कि तू ने मुझे को गून्धी हुई मिट्टी की नाई बनाया,
क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा ?
- १० क्या तू ने मुझे दूध की नाई उडेलकर,
और दही के समान जमाकर नहीं बनाया ?
- ११ फिर तू ने मुझे पर चमड़ा और मास चढाया
और हड्डिया और नसे गूथकर मुझे बनाया है ।
- १२ तू ने मुझे जीवन दिया, और मुझे पर कसणा की है;
और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है ॥
- १३ तौमी तू ने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा;
मैं तो जान गया, कि तू ने ऐसा ही करने को ठाना था ॥
- १४ जो मैं पाप करूँ, तो तू उसका लेखा लेगा;
और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा ॥
- १५ जो मैं दुष्टता करूँ तो मुझे पर हाथ !
और जो मैं धर्मी बनू तौमी मैं सिर न उठाऊंगा,
क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूँ
और अपने दुःख पर ध्यान रखता हूँ ॥
- १६ और चाहे सिर उठाऊ तौमी तू सिंह की नाई मेरा अहरेर करता है,
और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्यकर्म करता है ॥
- १७ तू मेरे साम्हने अपने नये नये साक्षी ले आता है,
और मुझे पर अपना क्रोध बढ़ाता है;
और मुझे पर सेना पर सेना चढाई करती है ॥
- १८ तू ने मुझे गर्भ से वधों निकाला ?
नहीं तो मैं वही प्राण छोड़ता,
और कोई मुझे देखने भी न पाता ।
- १९ मेरा होना न होने के समान होता,
और पेट ही से कब्र को पहुचाया जाता ।
- २० क्या मेरे दिन थोड़े नहीं ? मुझे छोड़ दे,
और मेरी ओर से मुह फेर ले, कि मेरा मन थोड़ा शान्त हो जाए
- २१ इस से पहिले कि मैं वहा जाऊँ, जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात् अन्धियारे और ओर अन्धकार के देश में, जहां अन्धकार ही अन्धकार है;
- २२ और मृत्यु के अन्धकार का देश जिस में सब कुछ गड़बड़ है;
और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अन्धकार ॥

११

(सोपर का बचन)

- तब नामाती सोपर ने कहा :
- २ बहुत सी बातें जो कही गई हैं,
क्या उनका उत्तर देना न चाहिये ?
क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया
जाए ?
- ३ क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग
चुप रहे ?
और जब तू ठूठा करता है, तो क्या
कोई तुझे लज्जित न करे ?
- ४ तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धान्त
शुद्ध है
और मैं ईश्वर की * दृष्टि में पवित्र
हूँ ॥
- ५ परन्तु भला हो, कि ईश्वर स्वयं बातें
करे,
और तेरे विरुद्ध मुह खोले,
६ और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें
प्रगट करे,
कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर †
है ।
इसलिये जान ले, कि ईश्वर तेरे अधर्म
में से बहुत कुछ भूल जाता
है ।
- ७ क्या तू ईश्वर का गूढ भेद पा सकता
है ?
और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म
पूरी रीति से जांच सकता है ?
- ८ वह आकाश सा ऊंचा है; तू क्या
कर सकता है ?
वह अधोलोक से गहिरा है, तू क्या
समझ सकता है ?
- ९ उसकी माप पृथ्वी से भी लम्बी है
और समुद्र से चौड़ी है ॥

* मूल में—तेरी ।

† मूल में—दुगना ।

- १० जब ईश्वर बीच से गुजरकर बन्द
कर दे
और अदालत (कचहरी) में बुलाए,
तो कौन उसको रोक सकता है ॥
- ११ क्योंकि वह पाखण्डी मनुष्यो का
भेद जानता है,
और अनर्थ काम को बिना सोच
विचार किए भी जान लेता है ॥
- १२ परन्तु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि
होता है,
क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगनी
गदहे के बच्चे के समान होता है ॥
- १३ यदि तू अपना मन शुद्ध करे,
और ईश्वर की ओर अपने हाथ
फैलाए,
१४ और जो कोई अनर्थ काम तुझ से
होता हो उसे दूर करे,
और अपने डेरों में कोई कुटिलता
न रहने दे,
१५ तब तो तू निश्चय अपना मुह निष्कलक
दिखा * सकेगा;
और तू स्थिर होकर कभी न
डरेगा ॥
- १६ तब तू अपना दुःख भूल जाएगा, तू
उसे उस पानी के समान स्मरण
करेगा जो बह गया हो ।
- १७ और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक
प्रकाशमान होगा;
और चाहे अन्धेरा भी हो तभी वह
भोर सा हो जाएगा ॥
- १८ और तुझे आशा होगी, इस कारण
तू निर्भय रहेगा;
और अपने चारों ओर देख देखकर
तू निर्भय विश्राम कर सकेगा ॥

* मूल में—बिना कलंक उठा ।

- १६ और जब तू लेटेगा, तब कोई तुझे डराएगा नहीं;
और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे ॥
- २० परन्तु दुष्ट लोगो की आंखे रह जाएगी,
और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा
और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए ॥

१२ (अय्यूब सोपर को उत्तर देता है)

- तब अय्यूब ने कहा,
२ निःसन्देह मनुष्य तो तुम ही हो *
और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी ॥
- ३ परन्तु तुम्हारी नाई मुझ में भी समझ है,
मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूँ
कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो ?
- ४ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, और वह मेरी सुन लिया करता था;
परन्तु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं;
जो धर्मी और खरा मनुष्य है, वह हंसी का कारण हो गया है ।
- ५ दुःखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं;
और जिनके पाव फिसला चाहते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है ॥
- ६ डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं,
और जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं, वह बहुत ही निडर रहते हैं;

- और उनके हाथ में ईश्वर बहुत देता है ॥
- ७ पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे;
और आकाश के पक्षियों से, और वे तुझे बता देंगे ॥
- ८ पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उस से तुझे शिक्षा मिलेगी;
और समुद्र की मछलिया भी तुझ से वार्ता करेंगी ॥
- ९ कौन इन बातों को नहीं जानता,
कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है ॥
- १० उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है ॥
- ११ जैसे जीभ * से भोजन चखा जाता है, क्या बैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते ?
- १२ बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है,
और दिनी लोगों में समझ होती तो है ॥
- १३ ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं;
युक्ति और समझ उसी में है ॥
- १४ देखो, जिसको वह ढा दे, वह फिर बनाया नहीं जाता; जिस मनुष्य को वह बन्द करे, वह फिर खोला नहीं जाता ।
- १५ देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है,
फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है ॥

* मूल में—देश के लोग हों ।

* मूल में—तालू ।

- १६ उस में सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है;
धोखा देनेवाला और धोखा खानेवाला दोनों उसी के हैं ॥
- १७ वह मत्रियों को लूटकर बन्धुआई में ले जाता,
और न्यायियों को मूर्ख बना देता है ॥
- १८ वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है;
और उनकी कमर पर बन्धन बन्धवाता है ॥
- १९ वह याजकों को लूटकर बन्धुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है ॥
- २० वह विश्वासयोग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति * हर लेता है ॥
- २१ वह हाकिमों को अपने अपमान से लादता,
और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है † ॥
- २२ वह अन्धियारे की गहरी बातें प्रगट करता,
और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है ॥
- २३ वह जातियों को बढ़ाता, और उनको नाश करता है,
वह उनको फैलाता, और बन्धुआई में ले जाता है ॥
- २४ वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता,
और उनको निर्जन स्थानों में जहां रास्ता नहीं है, भटकता है ॥
- २५ वे बिन उजियाले के अन्धेरे में टटोलते फिरते हैं;
और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले की नाई डगमगाते हुए चलते हैं ॥
- १३ सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका,
और अपने कान से सुन चुका, और समझ भी चुका हूँ ॥
- २ जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ,
मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ ॥
- ३ मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा,
और मेरी अभिलाषा ईश्वर से वाद-विवाद करने की है ॥
- ४ परन्तु तुम लोग भूठी बात के गढ़ने-वाले हो;
तुम सबके सब निकम्मे बँध हो ॥
- ५ भला होता, कि तुम बिलकुल चुप रहते,
और इस से तुम बुद्धिमान ठहरते ॥
- ६ मेरा विवाद सुनो,
और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ ॥
- ७ क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे,
और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे ?
- ८ क्या तुम उसका पक्षपात करोगे ?
और ईश्वर के लिये मुकद्दमा चलाओगे ॥
- ९ क्या यह भला होगा, कि वह तुम को जांचे ?
क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे, वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे ?

* मूल में—होठ ।

† मूल में—फैटा ढीला करता है ।

- १० जो तुम छिपकर पक्षपात करो,
तो वह निश्चय तुम को डाटेगा ॥
- ११ क्या तुम उसके माहात्म्य से भय
न खाओगे ?
क्या उसका डर तुम्हारे मन में न
समाएगा ?
- १२ तुम्हारे स्मरणायोग्य नीतिवचन राख
के समान है,
तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे है :
- १३ मुझ से बात करना छोड़ो, कि मैं
भी कुछ कहने पाऊँ,
फिर मुझ पर जो चाहे वह आ
पडे ॥
- १४ मैं क्यों अपना मास अपने दातों से
चबाऊँ ?
और क्यों अपना प्राण हथेली पर
रखूँ ?
- १५ वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा
नहीं;
तौभी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष
लूंगा ।
- १६ और यह भी मेरे बचाव का कारण
होगा, कि
भक्तिहीन जन उसके साम्हने नहीं जा
सकता ॥
- १७ चित्त लगाकर मेरी बात सुनो,
और मेरी बिनती तुम्हारे कान में
पडे ॥
- १८ देखो, मैं ने अपने बहस की पूरी तैयारी
की है;
मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा ।
- १९ कौन है जो मुझ में मुकद्दमा लड
सकेगा ?
ऐसा कोई पाया जाए, तो मैं चुप
होकर प्राण छोडूंगा ॥
- २० दो ही काम मुझ से न कर,
तब मैं तुम्ह से नहीं छिपूंगा :
- २१ अपनी ताड़ना मुझ से दूर कर ले,
और अपने भय से मुझे भयभीत
न कर ।
- २२ तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा;
नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा, और तू मुझे
उत्तर दे ॥
- २३ मुझ में कितने अधर्म के काम और
पाप हुए हैं ?
मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे ॥
- २४ तू किस कारण अपना मुह फेर
लेता * है,
और मुझे अपना शत्रु गिनता है ?
- २५ क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी
कपाएगा ?
और सूखे डठल के पीछे पडेगा ?
- २६ तू मेरे लिये कठिन दुःखो † की आज्ञा
देता है,
और मेरी जवानी के अधर्म का फल
मुझे भुगता देता है ‡ ।
- २७ और मेरे पावों को काठ में ठोकता,
और मेरी सारी चाल चलन देखता
रहता है,
और मेरे पावों की चारो ओर सीमा
बान्ध लेता है ॥
- २८ और मैं सडी गली वस्तु के तुल्य हूँ
जो नाश हो जाती है, और कीडा
खाए कपडे के तुल्य हूँ ॥
- १४ मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न
होता है, वह थोडे दिनों का
और दुख से भरा रहता है ॥

* मूल में—छिपाता ।

† मूल में—कड़वी बातों ।

‡ मूल में—अधर्म के कर्मों का भागी मुझे
करता है ।

- २ वह फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता है;
वह छाया की रीति पर ढल * जाता, और कहीं ठहरता नहीं ॥
- ३ फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है ?
क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है ?
- ४ अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है ? कोई नहीं ।
- ५ मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है,
और तू ने उसके लिये ऐसा सिवाना बान्धा है
जिसे वह पार नहीं कर सकता,
- ६ इस कारण उस में अपना मुह फेर ले, कि वह आराम करे,
जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा न कर ले ॥
- ७ वृक्ष की तो आशा रहती है,
कि चाहे वह काट डाला भी जाए,
तोभी फिर पनपेगा
और उस से नर्म नर्म डालिया निकलती ही रहेंगी ॥
- ८ चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए,
और उसका ठूठ मिट्टी में सूख भी जाए,
- ९ तोभी वर्षा † की गन्ध पाकर वह फिर पनपेगा,
और पौधे की नाई उस में शाखाए फूटेगी ॥
- १० परन्तु पुरुष मर जाता, और पड़ा रहता है;
जब उसका प्राण छूट गया, तब वह कहां रहा ?
- ११ जैसे नील नदी * का जल घट जाता है,
और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है,
१२ वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता,
जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा,
और न उसकी नींद टूटेगी ॥
- १३ भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता,
और जब तक तेरा कोप ठठा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता,
और मेरे लिये समय नियुक्त करके फिर मेरी मुधि लेता ॥
- १४ यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा ?
जब तक मेरा छुटकारा न होता † तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता ॥
- १५ तू मुझे बुलाता, और मैं बोलता;
तुझे अपने हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती ॥
- १६ परन्तु अब तू मेरे पग पग को गिनता है,
क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता ?
- १७ मेरे अपराध छप लगी हुई धैली में है,

* मूल में—भाग ।

† मूल में—जल ।

* मूल में—जैसे सद्युद्ध ।

† मूल में—मेरा बदला न आता ।

- और तू ने मेरे अधर्म को सी रखा है ॥
- १८ और निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नाश हो जाता है,
और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है;
- १९ और पत्थर जल से घिस जाते हैं,
और भूमि की धूल उसकी बाढ़ से बहाई जाती है;
उसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है ॥
- २० तू सदा उस पर प्रबल होता, और वह जाता रहता है;
तू उसका चिह्न बिगाड़कर उसे निकाल देता है ॥
- २१ उसके पुत्रों की बड़ाई होती है, और यह उसे नहीं सूझता;
और उनकी घटी होती है, परन्तु वह उनका हाल नहीं जानता ॥
- २२ केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुःख होता है;
और अपने ही कारण उसका प्राण अन्दर ही अन्दर शोकित रहता है ॥
- १५ (रखौपल का वचन)
तब तेमानी एलीपज ने कहा,
क्या बुद्धिमान को उचित है कि
२ अज्ञानता * के साथ उत्तर दे,
वा अपने अन्तःकरण को पूरबी पवन से भरे ?
३ क्या वह निष्फल वचनों से,
वा व्यर्थ बातों से वादविवाद करे ?
४ वरन तू भय मानना छोड़ देता,
और ईश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है ॥
- ५ तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रगट करता है,
और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है * ।
६ मैं तो नहीं परन्तु तेरा मुह ही तुझे दोषी ठहराता है;
और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं ।
७ क्या पहिला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ ?
क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहिले हुई ?
८ क्या तू ईश्वर की सभा में बैठा सुनता था ?
क्या बुद्धि का ठीका तू ही ने ले रखा है ?
९ तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते ?
तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं ?
१० हम लोगों में तो पक्के बालवाले और अति पुरनिये मनुष्य हैं,
जो तेरे पिता से भी बहुत आयु के हैं ॥
११ ईश्वर की शान्तिदायक बातें,
और जो वचन तेरे लिये कोमल हैं, क्या ये तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं ?
१२ तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है ?
और तू आख से क्यों सैन करता है ?
१३ तू भी अपनी आत्मा ईश्वर के विरुद्ध करता है,
और अपने मुह से व्यर्थ बातें निकलने देता है ॥

* मूल में—वाशु ।

* मूल में—धूर्तों की जीभ चुनता है ।

- १४ मनुष्य है क्या कि वह निष्कलक हो ?
और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह
है क्या कि निर्दोष हो सके ?
- १५ देख, वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास
नहीं करता,
और स्वर्ग * भी उसकी दृष्टि में
निर्मल नहीं है ॥
- १६ फिर मनुष्य अधिक धिनौना और
मलीन है जो कुटिलता को पानी
की नाई पीता है ॥
- १७ मैं तुम्हें समझा दूंगा, इसलिये मेरी
सुन ले,
जो मैं ने देखा है, उसी का वर्णन
मैं करता हूँ ॥
- १८ (बे ही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने
पुरखाओं से सुनकर
बिना छिपाए बताया हैं ॥
- १९ केवल उन्हीं को देश दिया गया था,
और उनके मध्य में कोई विदेशी आता
जाता नहीं था ॥)
- २० दुष्ट जन जीवन भर पीडा से तडपता
है, और
बलात्कारी के वर्षों की गिनती
ठहराई हुई है ॥
- २१ उसके कान में डरावना शब्द गूजता
रहता है,
कुशल के समय भी नाशक उस पर
आ पड़ता है ॥
- २२ उसे अन्धियारे में मे फिर निकलने
की कुछ आशा नहीं होती,
और तलवार उसकी घात में रहती है ॥
- २३ वह रोटी के लिये मारा मारा फिरता
है, कि कहा मिलेगी ।
उसे निश्चय रहता है, कि अन्धकार
का दिन मेरे पास ही है ॥
- २४ संकट और दुर्घटना से उसको डर
लगना रहता है,
ऐसे राजा की नाई जो युद्ध के लिये
तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते
हैं ॥
- २५ उस ने तो ईश्वर के विरुद्ध हाथ
बढाया है,
और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध वह ताल
ठोंकता है,
- २६ और मिर उठाकर * और अपनी
मोटी मोटी ढाले दिखाता हुआ †,
घमण्ड से
उस पर धावा करता है :
- २७ इसलिये कि उसके मुह पर चिकनाई
छा गई है,
और उसकी कमर में चर्बी जमी है ॥
- २८ और वह उजाड़े हुए नगरों में बस
गया है,
और जो घर रहने योग्य नहीं,
और खण्डहर होने को छोड़े गए हैं,
उन में बस गया है ॥
- २९ वह धनी न रहेगा, और न उसकी
सम्पत्ति बनी रहेगी,
और ऐसे लोगों के खेत की उपज
भूमि की ओर न झुकने पाएगी ॥
- ३० वह अन्धियारे से कभी न निकलेगा,
और उसकी डालिया आग की लपट
से झुलस जाएंगी,
और ईश्वर के मुह की श्वास से
वह उड़ जाएगा ॥
- ३१ वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों
का भरोसा न करे,
क्योंकि उसका बदला धोखा ही
होगा ॥

* मूल में—गर्दन है ।

† मूल में—अपनी ढालों की मोटी पीठों ।

* वा आकाश ।

- ३२ वह उसके नियत दिन से पहिले पूरा हो जाएगा;
उसकी डालिया हरी न रहेंगी ॥
- ३३ दाख की नाई उसके कच्चे फल ऋड जाएंगे,
और उसके फूल जलपाई के वृक्ष के से गिरेंगे ॥
- ३४ क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बन न पड़ेगा *,
और जो घूस लेते हैं, उनके तम्बू आग से जल जाएंगे ॥
- ३५ उनके उपद्रव का पेट रहता, और अनर्थ उत्पन्न होता है :
और वे अपने अन्तःकरण में छल की बातें गढते हैं ॥

१६

(अय्यूब का वचन)

- तब अय्यूब ने कहा,
२ ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ,
तुम सब के सब निकम्मे शान्तिदाता हो ॥
क्या व्यर्थ बातों का अन्त कभी होगा ?
३ तू कौन सी बात से झिडककर उत्तर देता ॥
४ जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती,
तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता;
मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड सकता,
और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता ॥
५ वरन मैं अपने वचनों से तुम को हियाव दिलाता, और बातों † से शान्ति देकर तुम्हारा शोक घटा देता ॥

- ६ चाहे मैं बोलू तोभी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूँ, तोभी मेरा दुःख कुछ कम न होगा * ॥
- ७ परन्तु अब उस ने मुझे उकता दिया है;
उस ने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है ॥
- ८ और उस ने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है, वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है,
और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खडा होकर मेरे साम्हने साक्षी देता है ॥
- ९ उस ने क्रोध में आकर मुझ को फाडा और मेरे पीछे पड़ा है,
वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता,
और मेरा बैरी मुझ को आंखे दिखाता है ॥
- १० अब लोग मुझ पर मुह पसारते हैं,
और मेरी नामघराई करके मेरे गाल पर थपेडा मारते,
और मेरे विरुद्ध भीड लगाते हैं ॥
- ११ ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया,
और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है ॥
- १२ मैं सुख में रहता था, और उस ने मुझे चूर चूर कर डाला;
उस ने मेरी गर्दन पकडकर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया;
फिर उस ने मुझे अपना निशाना बनाकर खडा किया है ॥
- १३ उसके तीर मेरे चारों ओर उड रहे हैं,

* मूल में—परिवार बाध होगा।

† मूल में—होठों।

* मूल में—शुक्र से क्या किया जाएगा।

- वह निर्दय होकर मेरे गुदों को बेघता है,
और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है ॥
- १४ वह शूर की नाईं मुझ पर धावा
करके मुझे चोट पर चोट पहुँचाकर
घायल करता है ॥
- १५ मे ने अपनी खाल पर टाट को सी
लिया है, और
अपना सींग मिट्टी में मँला कर
दिया है ॥
- १६ रोते रोते मेरा मुह सूज गया है,
और मेरी आँखों पर घोर अन्धकार
छा गया है,
- १७ तौभी मुझ से कोई उपद्रव नहीं हुआ है,
और मेरी प्रार्थना पवित्र है ॥
- १८ हे पृथ्वी, तू मेरे लोह को न ढापना,
और मेरी दोहाई कहीं न रुके ॥
- १९ अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है,
और मेरा गवाह ऊपर है ॥
- २० मेरे मित्र मुझ से घृणा करते हैं,
परन्तु मैं ईश्वर के साम्हने आसू
बहाता हूँ,
- २१ कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन का,
और आदमी
का मुकद्दमा उसके पडोसी के विरुद्ध
लड़े ।
- २२ क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर
मैं उस मार्ग
से चला जाऊँगा, जिस से मैं
फिर वापिस न लौटूँगा ॥
- १७ मेरा प्राण नाश हुआ चाहता
है, मेरे दिन पूरे हो चुके * हैं;
मेरे लिये कन्न तैयार है ॥
- २ निश्चय जो मेरे संग हैं वह ठुट्टा करने-
वाले हैं,
- और उनका भगड़ा रगड़ा मुझे लगा-
तार दिखाई देता है ॥
- ३ जमानत दे, अपने और मेरे बीच में
तू ही जामिन हो;
कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे ?
- ४ तू ने इनका मन समझने से रोका
है,
इस कारण तू इनको प्रबल न करेगा ॥
- ५ जो अपने मित्रों को चुगली खाकर
लुटा देता,
उसके लडको की आँखें रह जाएंगी ॥
- ६ उस ने ऐसा किया कि सब लोग
मेरी उपमा देते हैं;
और लोग मेरे मुह पर धूकते हैं ।
- ७ खेद के मारे मेरी आँखों में धुधलापन
छा गया है,
और मेरे सब भ्रंग छाया की नाईं
हो गए हैं ॥
- ८ इसे देखकर सीधे लोग चकित होते
हैं,
और जो निर्दोष है, वह भक्तिहीन
के विरुद्ध उभरते हैं ॥
- ९ तौभी घर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े
रहेगें,
और शुद्ध काम करनेवाले * सामर्थ्य
पर सामर्थ्य पाते जाएंगे ॥
- १० तुम सब के सब मेरे पास आओ
तो आओ,
परन्तु मुझे तुम लोगों में एक भी
बुद्धिमान न मिलेगा ॥
- ११ मेरे दिन तो बीत चुके, और मेरी
मनसाए मिट गई,
और जो मेरे मन में था, वह नाश
हुआ है ॥

* मूल में—बुझ गया ।

* मूल में—शुद्ध हाथवाला ।

- १२ वे रात को दिन ठहराते;
वे कहते हैं, अन्धियारे के निकट
उजियाला है ॥
- १३ यदि मेरी आशा यह हो कि अघोलोक
मेरा घाम होगा,
यदि मैं ने अन्धियारे में अपना बिछीना
बिछा लिया है,
- १४ यदि मैं ने सडाहट से कहा कि तू
मेरा पिता है,
और कीड़े से, कि तू मेरी मां, और
मेरी बहिन है,
- १५ तो मेरी आशा कहां रही ?
और मेरी आशा किस के देखने में
आएगी ?
- १६ वह तो अघोलोक में * उतर जाएगी,
और उस
समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम
मिलेगा ॥

१८ (अज्ञेय विस्मय का वचन)

- तब शूही बिल्दद ने कहा,
२ तुम कब तक फन्दे लगा लगाकर
वचन पकड़ते रहोगे ?
चित्त लगाओ, तब हम बोलेंगे ॥
- ३ हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु
के तुल्य समझे जाते,
और अशुद्ध ठहरे हैं ॥
- ४ हे अपने को श्लेष में फाड़नेवाले
क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी,
और चट्टान अपने स्थान से हट
जाएगी?
- ५ तोभी दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा,
और उसकी आग की लौ न चमकेगी ॥
- ६ उसके डेरे में का उजियाला अन्धेरा
हो जाएगा,

और उसके ऊपर का दिया बुझ
जाएगा ॥

- ७ उसके बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे,
और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा
गिरेगा ॥
- ८ वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा,
वह फन्दों पर चलता है ॥
- ९ उसकी एडी फन्दे में फंस जाएगी,
और वह जाल में पकड़ा जाएगा ॥
- १० फन्दे की रस्सियां उसके लिये भूमि में,
और जाल रास्ते में छिपा दिया
गया है ।
- ११ चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे
डराएंगी
और उसके पीछे पडकर उसको
भगाएंगी ।
- १२ उसका बल दुःख से घट जाएगा,
और विपत्ति उसके पास ही तैयार
रहेगी ॥
- १३ वह उसके अंग को खा जाएगी,
वरन काल का पहिलौठा उसके अंगों
को * खा लेगा ॥
- १४ अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता
है, उस से वह छीन लिया जाएगा;
और वह भयंकरता के राजा के पास
पहुंचाया जाएगा ॥
- १५ जो उसके यहां का नहीं है वह उसके
डेरे में बास करेगा,
और उसके घर पर गन्धक छितराई
जाएगी ॥
- १६ उसकी जड़ तो सूख जाएगी,
और डालियां कट जाएंगी ॥
- १७ पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट
जाएगा,

* मूल में—अघोलोक के बँडों में ।

* मूल में—उसके चमड़े के बँडों को ।

- और बाज़ार * में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा ॥
- १८ वह उजियाले से अन्धियारे में ढकेल दिया जाएगा,
और जगत में से भी भगाया जाएगा ॥
- १९ उसके कुटुम्बियों में उसके कोई पुत्र-पौत्र न रहेगा,
और जहां वह रहता था, वहां कोई बचा न रहेगा ॥
- २० उसका दिन देखकर पूरबी लोग चकित होंगे,
और पश्चिम के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे ॥
- २१ निःसन्देह कुटिल लोगों के निवाम ऐसे हो जाते हैं,
और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है ॥
- १९ (अय्यूब का बचन)
तब अय्यूब ने कहा,
२ तुम कब तक मेरे प्राण को दुःख देते रहोगे,
और बातों से मुझे चूर चूर करोगे ?
३ इन दसों बार तुम लोग मेरी निन्दा ही करते रहे,
तुम्हें लज्जा नहीं आती, कि तुम मेरे साथ कठोरता का बरताव करते हो ?
४ मान लिया कि मुझ से भूल हुई,
तौभी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी ॥
५ यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो
- और प्रमाण देकर मेरी निन्दा करते हो,
६ तो यह जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है,
और मुझे अपने जाल में फसा लिया है ॥
७ देखो, मैं उपद्रव ! उपद्रव ! यों चिल्लाता रहता हूँ, परन्तु कोई नहीं सुनता ;
मैं सहायता के लिये दोहाई देता रहता हूँ, परन्तु कोई न्याय नहीं करता ॥
८ उस ने मेरे मार्ग को ऐसा रूधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता,
और मेरी डगरे अन्धेरी कर दी है ॥
९ मेरा विभव उस ने हर लिया है,
और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है ॥
१० उस ने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा,
और मेरा आसरा उस ने वृक्ष की नाई उखाड़ डाला है ॥
११ उस ने मुझ पर अपना क्रोध भडकाया है
और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है ॥
१२ उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बान्धते हैं,
और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं ॥
१३ उस ने मेरे भाइयों को मुझ से दूर किया है,
और जो मेरी जान पहचान के थे, वे बिलकुल अनजान हो गए हैं ॥

* अथवा जंगल ।

- १४ मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं,
और जो मुझे जानते थे वह मुझे
भूल गए हैं ॥
- १५ जो मेरे घर में रहा करते थे, वे,
वरन मेरी दासियाँ भी मुझे अनजाना
गिनने लगी हैं;
उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ ॥
- १६ जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ,
तब वह नहीं बोलता;
मुझे उस में गिडगिडाना पडना है ॥
- १७ मेरी साँस मेरी स्त्री को
और मेरी गन्ध मेरे भाइयों * की
दृष्टि में धिनीनी लगती है ॥
- १८ लडके भी मुझे तुच्छ जानते हैं,
और जब मैं उठने लगता, तब वे
मेरे विरुद्ध बोलते हैं ॥
- १९ मेरे सब परम मित्र † मुझ से द्वेष
रखते हैं,
और जिन से मैं ने प्रेम किया सो
पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं ।
- २० मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों
में सट गए हैं,
और मैं बाल बाल बच गया हूँ ॥
- २१ हे मेरे मित्रो ! मुझ पर दया करो,
दया,
क्योंकि ईश्वर ने मुझे मारा है ॥
- २२ तुम ईश्वर की नाई क्यों मेरे पीछे
पड़े हो ?
और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं
हुए ?
- २३ भला होता, कि मेरी बाते लिखी
जाती,
भला होता, कि वे पुस्तक में लिखी
जाती,

* मूल में—मेरे गर्म के लडकों ।

† मूल में—भेद के अनुष्य ।

- २४ और लोहे की टांकी और शीशे से
वे सदा के लिये चट्टान पर खोदी
जातीं ॥
- २५ मुझे तो निश्चय है, कि मेरा
छूड़ानेवाला जीवित है,
और वह अन्त में पृथ्वी पर खड़ा
होगा ॥
- २६ और अपनी खाल के इस प्रकार नाश
हो जाने के बाद भी,
मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन
पाऊँगा ॥
- २७ उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों
से अपने लिये करूँगा, और न कोई
दूसरा ।
यद्यपि मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर
चूर चूर भी हो जाए,
तोभी मुझ में तो धर्म * का मूल
पाया जाता है ।
- २८ और तुम जो कहते हो हम इसको
क्योंकर सताए ।
- २९ तो तुम तलवार से डरो,
क्योंकि जलजलाहट से तलवार का
दराड मिलता है,
जिस से तुम जान लो कि न्याय
होता है ॥

(सोपर का बचन)

- २० तब नामाती सोपर ने कहा,
२ मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूँ,
और इसलिये बोलने में फुर्ती करता
हूँ ॥
३ मैं ने ऐसी चितौनी सुनी जिस से
मेरी निन्दा हुई,
और मेरी आत्मा अपनी समझ के
अनुसार तुम्हें उत्तर देती है ॥

* मूल में—बात ।

- ४ क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है,
जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया,
- ५ कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बन्द हो जाता
और भक्तिहीनो का आनन्द पल भर का होता है ?
- ६ चाहे ऐसे मनुष्य का माहात्म्य आकाश तक पहुँच जाए,
और उसका सिर बादलो तक पहुँचे,
- ७ तीभी वह अपनी विष्टा की नाई सदा के लिये नाश हो जाएगी;
और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहा रहा ?
- ८ वह स्वप्न की नाई लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा,
रात में देखे हुए रूप की नाई वह रहने न पाएगा ॥
- ९ जिस ने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा,
और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा * ॥
- १० उसके लड़केबाले कगालो से भी बिनती करेगे,
और वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा ॥
- ११ उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है
परन्तु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल † जाएगा ॥
- १२ चाहे बुराई उसको मीठी लगे,
और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे,
- १३ और वह उसे बचा रखे और न छोड़े,
वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे,
- १४ तीभी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा,
वह उसके अन्दर नाग का सा विष बन जाएगा ॥
- १५ उस ने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा;
ईश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा ॥
- १६ वह नागो का विष चूस लेगा,
वह करंत के डसने से मर जाएगा ॥
- १७ वह नदियों अर्थात् मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा ॥
- १८ जिसके लिये उस ने परिश्रम किया,
उसको उसे लौटा देना पड़ेगा,
और वह उसे निगलने न पाएगा;
उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनन्द होना चाहिये, उतना तो उसे न मिलेगा ॥
- १९ क्योंकि उस ने कगालो को पीसकर छोड़ दिया,
उस ने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने * न पाएगा ॥
- २० लालसा † के मारे उसको कभी शान्ति नहीं मिलती ‡ थी,
इसलिये वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा ॥
- २१ कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए न बचती थी;

* मूल में—उसका स्थान उसे फिर न ताकेगा।

† मूल में—लेट।

* मूल में—बनाने।

† मूल में—पेट।

‡ मूल में—जान पड़ती।

- इसलिये उसका कुशल बना न रहेगा ॥
- २२ पूरी सम्पत्ति रहते भी वह सकेनी में पड़ेगा;
तब सब दुःस्त्रियों के हाथ उस पर उठेंगे ॥
- २३ ऐसा होगा, कि उसका पेट भरने के लिये ईश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा,
और रोटी खाने के समय * वह उस पर पड़ेगा † ॥
- २४ वह लोहे के हथियार से भागेगा,
और पीतल के धनुष से मारा जाएगा ॥
- २५ वह उस नीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा,
उसकी चमकीली नोक ‡ उसके पित्त से होकर निकलेगी,
भय उस में समाएगा ॥
- २६ उसके गड़े हुए घन पर घोर अन्धकार छा जाएगा §
वह ऐसी आग से भस्म होगा, जो मनुष्य की फूकी हुई न हो,
और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा ॥
- २७ आकाश उसका अधर्म प्रगट करेगा,
और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी ॥
- २८ उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी,
वह उसके क्रोध के दिन वह जाएगी ॥

* बा उनको रोटी ठहरा कर। बा उसके मांस में।

† मूल में—उस पर बरसाएगा।

‡ मूल में—बिजली।

§ मूल में—उसके द्विपे दुष्टों के लिये सब अन्धकार छिपा है।

- २९ परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का भ्रंश,
और उसके लिये ईश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है ॥

२१

(अय्यूब का वचन)

- तब अय्यूब ने कहा,
२ चित्त लगाकर मेरी बात सुनो;
और तुम्हारी शान्ति यही ठहरे ॥
३ मेरी कुछ तो सहो, कि मैं भी बाते करूँ,
और जब मैं बातें कर चुकूँ, तब पीछे ठट्टा करना ॥
४ क्या मैं किसी मनुष्य की दोहाई देता हूँ ?
फिर मैं अधीर क्यों न होऊँ ?
५ मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो,
और अपनी अपनी उगली * दात तले दबाओ ॥
६ जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ,
और मेरी देह में कंपकंपी लगती है ॥
७ क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं,
बरन बूढ़े भी हो जाते, और उनका धन बढ़ता जाता है ?
८ उनकी सन्तान उनके सग,
और उनके बालबच्चे उनकी आँखों के साम्हने बने रहते हैं ॥
९ उनके घर में भयरहित कुशल रहता है,
और ईश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती ॥
१० उनका साड गाभिन करता और चूकता नहीं,

* मूल में—हाथ मुह पर रक्खोगे।

- उनकी गायें बियाती हैं और बच्चा कभी नहीं गिराती ॥
- ११ वे अपने लडकों को भुण्ड के भुण्ड बाहर जाने देते हैं,
और उनके बच्चे नाचते हैं ॥
- १२ वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते,
और बांसुरी के शब्द से आनन्दित होते हैं ॥
- १३ वे अपने दिन मुख से बिताते, और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं ॥
- १४ तौभी वे ईश्वर से कहते थे, कि हम से दूर हो !
तेरी गति जानने की हम को इच्छा नहीं रहती ॥
- १५ सर्वशक्तिमान क्या है, कि हम उसकी सेवा करे ?
और जो हम उस से बिनती भी करे तो हमें क्या लाभ होगा ?
- १६ देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता,
दुष्ट लोगो का विचार मुझ से दूर रहे ॥
- १७ कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझ जाता है,
और उन पर विपत्ति आ पडती है,
और ईश्वर क्रोध करके उनके वाट में शोक देता है,
- १८ और वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की,
और बवण्डर में उड़ाई हुई भूमि की नाई होते हैं ॥
- १९ ईश्वर उसके अधर्म का दण्ड उमके लडकेबालों के लिये रख छोडता है,
वह उसका बदला उसी को दे,
ताकि वह जान ले ॥
- २० दुष्ट अपना नाश अपनी ही प्रांखों से देखें, और
सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में से आप पी ले ॥
- २१ क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी,
तो अपने बादबाले घराने से उसका क्या काम रहा ॥
- २२ क्या ईश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा ?
वह तो ऊंचे पद पर रहनेवालों का भी न्याय करता है ॥
- २३ कोई तो अपने पूरे बल में बडे चैन और सुख में रहता हुआ मर जाता है ॥
- २४ उसकी दोहानिया दूध में और उमकी हड्डिया गूदे में भरी रहती है ॥
- २५ और कोई अपने जीव में कुछ * कुड़कर बिना मुख भोगे मर जाता है ॥
- २६ वे दोनो बराबर मिट्टी में मिल † जाते हैं,
और कीडे उन्हें ढांक लेते हैं ॥
- २७ देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाए जानता हूँ,
और उन युक्तियों को भी, जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो ॥
- २८ तुम कहते तो हो कि रईम का घर कहा रहा ?
दुष्टों के निवाम के डेरे कहा रहे ?
- २९ परन्तु क्या तुम ने बटोहियों से कभी नहीं पूछा ?
क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणो से अनजान हो,

* मूल में—कबवाहट ।

† मूल में—लेट ।

- ३० कि विपत्ति के दिन के लिये दुर्जन रखा जाता है ;
 और महाप्रलय के समय के लिये ऐसे लोग बचाए जाते * हैं ?
- ३१ उसकी चाल उसके मुह पर कौन कहेगा ?
 और उस ने जो किया है, उसका पलटा कौन देगा ?
- ३२ तीभी वह कन्न को पट्टुचाया जाता है, और लोग उस कन्न की रखवाली करते रहते हैं † ॥
- ३३ नाले के डेले उसको सुखदायक लगते हैं ;
 और जैसे पूर्वकाल के लोग अनगिनत जा चुके,
 वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे ॥
- ३४ तुम्हारे उत्तरों मे तो भूठ ही पाया जाता है,
 इसलिये तुम क्यों मुझे व्यर्थ शान्ति देते हो ?

- २२ (एलीपज का बचन)
 तब तेमानी एलीपज ने कहा,
 २ क्या पुरुष से ईश्वर को लाभ पहुच सकता है ?
 जो बुद्धिमान है, वह अपने ही लाभ का कारण होता है ॥
- ३ क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है ?
 तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है ?
- ४ वह तो तुझे डाटता है, और तुभ से मुकद्दमा लड़ता है,

तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है ?

- ५ क्या तेरी बुराई बहुत नहीं ?
 तेरे अधर्म के कामों का कुछ अन्त नहीं ॥
- ६ तू ने तो अपने भाई का बन्धक अकारण रख लिया है,
 और नंगे के बस्त्र उतार लिये हैं ॥
- ७ थके हुए को तू ने पानी न पिलाया,
 और भूखे को रोटी देने से इनकार किया ॥
- ८ जो बलवान था उसी को भूमि मिली,
 और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी, वही उस मे बस गया ॥
- ९ तू ने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया ।
 और अनाथों की बाहे तोड डाली गई ॥
- १० इस कारण तेरे चारों ओर फन्दे लगे हैं,
 और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है ॥
- ११ क्या तू अन्धियारे को नहीं देखता और उस बाढ को जिस में तू डूब रहा है ?
- १२ क्या ईश्वर स्वर्ग के ऊचे स्थान म नहीं है ?
 ऊचे से ऊचे तारों को देख कि वं कितने ऊचे है ॥
- १३ फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता है ?
 क्या वह घोर अन्धकार की आड़ में होकर न्याय करेगा ?
- १४ काली घटाओं मे वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता,

* मूल में—पट्टुचाये जाते हैं ।

† वा और कबर पर पहरा देता रहता है ।

- वह तो आकाशमण्डल ही के ऊपर
चलता फिरता है ॥
- १५ क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े
रहेगा,
जिस पर वे अनर्थ करनेवाले चलते
हैं ?
- १६ वे अपने समय से पहले उठा लिए
गए
और उनके घर की नेव नदी बहा
ले गई ॥
- १७ उन्होंने ने ईश्वर से कहा था, हम से
दूर हो जा;
और यह कि सर्वशक्तिमान हमारा *
क्या कर सकता है ?
- १८ तौभी उस ने उनके घर अच्छे अच्छे
पदार्थों से भर दिए—
परन्तु दुष्ट लोगों का विचार मुझ से
दूर रहे ॥
- १९ धर्मी लोग देखकर आनन्दित होते हैं,
और निर्दोष लोग उनकी हसी
करते हैं, कि
- २० जो हमारे विरुद्ध उठे थे, निःसन्देह
मिट गए
और उनका बड़ा धन आग का कौर
हो गया है ॥
- २१ उस से मेलमिलाप कर तब तुझे
शान्ति मिलेगी;
और इस से तेरी भलाई होगी ॥
- २२ उसके मुह से शिक्षा सुन ले,
और उसके वचन अपने मन में रख ॥
- २३ यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरके
समीप जाए,
और अपने डेरे से कुटिल काम दूर
करे, तो तू बन जाएगा ॥
- २४ तू अपनी अनमोल वस्तुओं को* धूलि
पर, वरन
ओपीर का कुन्दन भी नालों के पत्थरो
में डाल दे,
२५ तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल
वस्तु †
और तेरे लिये चमकीली चान्दी
होगा ॥
- २६ तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा,
और ईश्वर की ओर अपना मुंह
बेखटके उठा सकेगा ॥
- २७ और तू उस से प्रार्थना करेगा,
और वह तेरी सुनेगा;
और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा ॥
- २८ जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी
पड़ेगी,
और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा ॥
- २९ चाहे दुर्भाग्य हो ‡ तौभी तू कहेगा
कि सुभाग्य होगा §,
क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता
है ॥
- ३० वरन जो निर्दोष न हो उसको भी
वह बचाता है;
तेरे शुद्ध कामों ॥ के कारण तू छुड़ाया
जाएगा ॥

२३

(अय्यूब का वचन)

तब अय्यूब ने कहा,

२ मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक
सकती ¶,

* मूल में—खान से निकला हुआ सोना
चांदी ।

† मूल में—तेरा भाग्य ।

‡ मूल में—वे नीचे हीरे ।

§ मूल में—ऊंचाई ।

॥ मूल में—बाधों ।

¶ मूल में—डिठार है ।

* मूल में—उनका ।

- मेरी मार * मेरे कराहने से भारी है ॥
- ३ भला होता, कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता ।
- ४ मैं उसके साम्हने अपना मुकद्मा पेश करता, और बहुत से † प्रमाण देता ॥
- ५ मैं जान लेता कि वह मुझ से उत्तर में क्या कह सकता है, और जो कुछ वह मुझ से कहता वह मैं समझ लेता ॥
- ६ क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझ से मुकद्मा लड़ता ? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता ॥
- ७ सज्जन उस से विवाद कर सकते, और इस रीति में अपने न्यायी के हाथ से सदा के लिये छूट जाता ॥
- ८ देखो, मैं आगे जाता हूँ परन्तु वह नहीं मिलता; मैं पीछे हटता हूँ, परन्तु वह दिखाई नहीं पड़ता;
- ९ जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता; वह तो दहिनी ओर ऐसा छिप जाता है, कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता ॥
- १० परन्तु वह जानता है, कि मैं कैसी चाल चला हूँ; और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा ॥
- ११ मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे;

* मूल में—हाथ ।

† मूल में—मुँह भर के ।

और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा ॥

- १२ उसकी * आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा,
- और मैं ने उसके † वचन अपनी इच्छा ‡ से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे ॥
- १३ परन्तु वह एक ही बात पर अडा रहता है, और कौन उसको उस से फिरा सकता है ? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करना है ॥
- १४ जो कुछ मेरे लिये उस ने ठाना है, उसी को वह पूरा करता है; और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं ॥
- १५ इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ; जब मैं सोचता हूँ तब उस से थरथरा उठता हूँ ॥
- १६ क्योंकि मेरा मन ईश्वर ही ने कच्चा कर दिया, और सर्वशक्तिमान ही ने मुझे को असमंजस में डाल दिया है ॥
- १७ इसलिये कि मैं इस अन्धकार से पहिने काट डाला न गया, और उस ने घोर अन्धकार को मेरे साम्हने से न छिपाया ।

२४

सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया,

और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते ?

* मूल में—उसके होठों की ।

† मूल में—उसके मुँह को ।

‡ मूल में—विधि ।

- २ कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते, और भेड़ बकरियां छीनकर चराते हैं ॥
- ३ वे भ्रनार्थों का गदहा हांक ले जाते, और विधवा का बेल बन्धक कर रखते हैं ॥
- ४ वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते, और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है ॥
- ५ देखो, वे जगली गदहों की नाई अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से * दूढ़ने को निकल जाते हैं, उनके लड़केबालों का भोजन उनको जगल से मिलता है ॥
- ६ उनको खेत में चारा काटना, और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है ॥
- ७ रात को उन्हें बिना वस्त्र नगें पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढे पड़े रहना पड़ता है ॥
- ८ वे पहाड़ों पर की ऋडियों से भीगे रहते, और शरण न पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं ॥
- ९ कुछ लोग अनाथ बालक को मा की छाती पर से छीन लेते हैं, और दीन लोगों से बन्धक लेते हैं ।
- १० जिस से वे बिना वस्त्र नगें फिरते हैं; और भूख के मारे, पुलिया डोते हैं ॥
- ११ वे उनकी भीतों के भीतर तेल पेरते और उनके कुण्डों में दाख रौदते हुए भी प्यासे रहते हैं ॥
- १२ वे बड़े नगर में कराहते हैं, और घायन किए हुओं का जी दोहाई देता है; परन्तु ईश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता ॥
- १३ फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते, और न उसके मार्गों में बने रहते हैं ॥
- १४ खूनी, पह फटते ही उठकर दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता, और रात को चौर बन जाता है ॥
- १५ व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझ को देखने न पाए, दिन डूबने की राह देखता रहता है, और वह अपना मुह छिपाए भी रखता है ॥
- १६ वे अन्धियारे के समय घरों में से ध मारते और दिन को छिपे रहते हैं; वे उजियाले को जानते भी नहीं ॥
- १७ इसलिये उन सभी को भोर का प्रकाश घोर * अन्धकार सा जान पड़ता है, क्योंकि घोर अन्धकार का भय वे जानते हैं ॥
- १८ वे जल के ऊपर हलकी वस्तु के सरीखे हैं, उनके भाग को पृथ्वी के रहनेवाले कोसते हैं, और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते ॥

* मूल में-- तबके उठकर ।

* मृत्यु की बाया ।

- १९ जैसे सूखे और घाम से हिम का जल सूख * जाता है
वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं ॥
- २० माता † भी उसको भूल जाती, और कीड़े उसे चूसते हैं,
भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा;
इस रीति टेढ़ा काम करनेवाला वृक्ष की नाई कट जाता है ॥
- २१ वह बांभू स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता,
और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है ॥
- २२ बलात्कारियों को भी ईश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है,
जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता, वह भी फिर उठ बैठता है ॥
- २३ उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है, कि वे सम्भले रहते हैं,
और उसकी कृपादृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है ॥
- २४ वे बढ़ते हैं, तब थोड़ी बेर में जाते रहते हैं,
वे दबाए जाते और सभों की नाई रख लिये जाते हैं,
और अनाज की बाल की नाई काटे जाते हैं ॥
- २५ क्या यह सब सच नहीं ! कौन मुझे झुठलाएगा ?
कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा ?

- २५ (शूची विषय का वचन)
तब शूही विल्दद ने कहा,
२ प्रभूता करना और डराना यह उसी का काम है ;

* मूल में—झीना।

† मूल में—गर्भ।

- वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शान्ति रखता है ॥
- ३ क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती ? और
कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता ?
- ४ फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्योंकर ठहर सकता है ?
और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्योंकर निर्मल हो सकता है ?
- ५ देख, उसकी दृष्टि में चन्द्रमा भी अन्धेरा ठहरता,
और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते ॥
- ६ फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और
आदमी कहां रहा जो केचुआ है !

२६

(अय्युब का वचन)

- तब अय्युब ने कहा,
२ निर्बल जन की तू ने क्या ही बड़ी सहायता की,
और जिसकी बांह में सामर्थ्य नहीं, उसको तू ने कैसे सम्भाला है ?
- ३ निर्बुद्धि मनुष्य को तू ने क्या ही अच्छी सम्मति दी,
और अपनी खरी बुद्धि कंसी भली भांति प्रगट की है ?
- ४ तू ने किसके हित के लिये बातें कही ?
और किसके मन की बातें तेरे मुह से निकली * ?
- ५ बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलनिधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं ॥
- ६ अधोलोक उसके साम्हने उघड़ा रहता है,

* मूल में—किसकी सांस तुझ से निकली ।

- श्रीर विनाश का स्थान ढंप नहीं
सकता ॥
- ७ वह उत्तर दिशा को निराधार फँलाए
रहता है,
श्रीर बिना टेक * पृथ्वी को लटकाए
रखता है ॥
- ८ वह जल को अपनी काली घटाओं
में बान्ध रखता,
श्रीर बादल उसके बोझ से नहीं
फटता ॥
- ९ वह अपने सिंहासन के साम्हने बादल
फँलाकर
उसको छिपाए रखता है ॥
- १० जजियाले श्रीर अन्धियारे के बीच
जहाँ सिवाना बधा है,
वहाँ तक उस ने जलनिधि का सिवाना
ठहरा रखा है ॥
- ११ उसकी घुडकी से
आकाश के खम्भे थरथराकर चकित
होते हैं ॥
- १२ वह अपने बल से समुद्र को
उछालता,
श्रीर अपनी बुद्धि से घमगड को
छेद देता है ॥
- १३ उसकी आत्मा से आकाशमगडल
स्वच्छ हो जाता है,
वह अपने हाथ से वेग भागनेवाले
नाग को मार देता है ॥
- १४ देखो, ये तो उसकी गति के किनारे
ही है;
श्रीर उसकी आहट फुसफुसाहट ही
सी तो सुन पडती है,
फिर उसके पराक्रम के गरजने का
भेद कौन समझ सकता है ?

* मूल में—नास्ति के ऊपर।

- २७ अय्यूब ने श्रीर भी अपनी
गूढ़ बात उठाई श्रीर कहा,
२ मैं ईश्वर के जीवन की शपथ स्नाता
हूँ जिस ने मेरा न्याय बिगाड़
दिया,
अर्थात् उस सर्वशक्तिमान के जीवन
की जिस ने मेरा प्राण कडुआ कर
दिया ॥
- ३ क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर
आती है,
श्रीर ईश्वर का आत्मा * मेरे नथुनों
में बना है ॥
- ४ मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुँह से
कोई कुटिल बात न निकलेगी,
श्रीर न मैं † कपट की बातें बोलूंगा ॥
- ५ ईश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को
सच्चा ठहराऊँ,
जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक
मैं अपनी खराई से न हटूंगा ‡ ॥
- ६ मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ श्रीर
उसको हाथ से जाने न दूंगा;
क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे
दोषी नहीं ठहराएगा ॥
- ७ मेरा शत्रु दुष्टों के समान,
श्रीर जो मेरे विरुद्ध उठता है वह
कुटिलों के तुल्य ठहरे ॥
- ८ जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का
प्राण ले ले,
तब यद्यपि उस ने धन भी प्राप्त
किया हो, तौभी उसकी क्या आशा
रहेगी ?
- ९ जब वह सकट में पड़े,
तब क्या ईश्वर उसकी दोहाई सुनेगा ?

* वा ईश्वर का दिया हुआ प्राण।

† मूल में—मेरी जीभ।

‡ मूल में—ढटाऊंगा।

- १० क्या वह सर्वशक्तिमान मे सुख पा सकेगा, और हर समय ईश्वर को पुकार मकेगा ?
- ११ मैं तुम्हें ईश्वर के काम * के विषय शिक्षा दूंगा, और सर्वशक्तिमान की बात † में न छिपाऊंगा ॥
- १२ देखो, तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो ?
- १३ दुष्ट मनुष्य का भाग ईश्वर की ओर से यह है, और बलात्कारियों का भ्रश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं, वह यह है, कि
- १४ चाहे उसके लड़केवाले गिनती में बढ भी जाएं, तौभी तलवार ही के लिये बढेगे, और उसकी सन्तान पेट भर रोटी न खाने पाएगी ॥
- १५ उसके जो लोग बच जाए वे मरकर कब्र को पहुचेंगे; और उसके यहां की विधवाए न रोएगी ॥
- १६ चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए,
- १७ वह उन्हें तैयार कराए तो सही, परन्तु धर्मी उन्हें पहिन लेगा, और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे ॥

* मूल में—ईश्वर के हाथ ।

† मूल में—जो सर्वशक्तिमान के संग है ।

- १८ उम ने अपना घर कीडे का सा बनाया, और खेत के रखवाले की भोपडी की नाई बनाया ॥
- १९- वह धनी होकर लेट जाए परन्तु वह गाडा न जाएगा; आख खोलने ही वह जाता रहेगा ॥
- २० भय की धाराए उमे बहा ले जाएगी *, रात को बवएडर उसको उडा ले जाएगा ॥
- २१ पुरवाई उमे ऐसा उडा ले जाएगी, और वह जाता रहेगा और उसको उमके स्थान मे उडा ले जाएगी ॥
- २२ क्योंकि ईश्वर उम पर विपत्तिया बिना तरस खाए डाल देगा, उसके हाथ मे वह भाग जाने चाहेगा ॥ लोग उस पर ताली बजाएगे,
- २३ और उम पर ऐमी सुसकारिया भरेगे कि वह अपने स्थान पर न रह सकेगा ॥

२८ चांदी की खानि तो होती है,

और सोने के लिये भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं ॥

२ लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है ॥

३ मनुष्य अन्धियारे को दूर कर, दूर दूर तक खोद खोद कर, अन्धियारे और घोर अन्धकार में पत्थर दूढते हैं ॥

* मूल में—जा लेगी ।

- ४ जहां लोग रहते हैं वहां मे दूर वे खानि खोदते हैं
वहां पृथ्वी पर चलनेवालों के भूले बिसरे * हुए वे
मनुष्यों से दूर लटके हुए भूलते रहते हैं ॥
- ५ यह भूमि जो है, इस से रोटी तो मिलती है, परन्तु
उसके नीचे के स्थान मानो आग मे उलट दिए जाते हैं ॥
- ६ उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है,
और उसी में सोने की धूलि भी है ॥
- ७ उसका मार्ग कोई मामाहारी पक्षी नहीं जानता,
और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी ॥
- ८ उस पर अभिमानी पशुओं ने पाव नहीं धरा,
और न उस से होकर कोई सिंह कभी गया है ॥
- ९ वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता,
और पहाड़ों को जड ही से उलट देता है ॥
- १० वह चट्टान खोदकर नालिया बनाता,
और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पडती है ॥
- ११ वह नदियों को ऐसा रोक देता है,
कि उन से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता †
और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले मे निकालता है ॥
- १२ परन्तु बुद्धि कहां मिल सकती है ?
और समझ का स्थान कहां है ?
- १३ उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं,
जीवनलोक मे वह कही नहीं मिलती !
- १४ अथाह सागर कहता है, वह मुझ मे नहीं है,
और समुद्र भी कहता है, वह मेरे पास नहीं है ॥
- १५ चोखे सोने मे वह मोल लिया नहीं जाता ।
और न उसके दाम के लिये चान्दी तौली जाती है ॥
- १६ न तो उसके साथ ओपीर के कुन्दन की बराबरी हो सकती है;
और न अनमोल सुलैमानी पत्थर वा नीलमणि की ॥
- १७ न सोना, न काच उसके बराबर ठहर सकता है,
कुन्दन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती ॥
- १८ मूंगे और स्फटिकमणि की उसके आगे क्या चर्चा !
बुद्धि का मोल मारिणक से भी अधिक है ॥
- १९ कूश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते;
और न उस से चोखे कुन्दन की बराबरी हो सकती है ॥
- २० फिर बुद्धि कहा मिल सकती है ?
और समझ का स्थान कहा ?
- २१ वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है,
और आकाश के पक्षियों के देखने मे नहीं आती ॥

* मूल में—पांव से ।

† मूल में—आंख बहाने से ।

२२. विनाश और मृत्यु कहती है,
कि हमने उसकी चर्चा सुनी है ॥

- २३ परन्तु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है,
और उसका स्थान उसको मालूम है ॥
- २४ वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है,
और सारे आकाशमण्डल के तल देखता भालता है ॥
- २५ जब उस ने वायु का तौल ठहराया,
और जल को नपुए में नापा,
२६ और मेह के लिये विधि
और गर्जन और बिजली के लिये मार्ग ठहराया,
२७ तब उस ने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया,
और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया ॥
- २८ तब उस ने मनुष्य से कहा,
देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है :
और बुराई से दूर रहना यही समझ है ॥

(अय्यूब का वचन)

- २९ अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा,
२ भला होता, कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती,
जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था,
३ जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था,
और उस से उजियाला पाकर मैं अन्धेरे में चलता था ॥
- ४ बे तो मेरी जवानी * के दिन थे,

* मूल में—फल पकने के समय ।

- जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रगट होती थी ॥
- ५ उम समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संघ रहता था,
और मेरे लडकेवाले मेरे चारों ओर रहते थे ॥
- ६ तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थीं ॥
- ७ जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था,
८ तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते,
और पुरनिये उठकर खंडे डो जाते थे ॥
- ९ हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते,
और हाथ से मुंह मूदे रहते थे ॥
- १० प्रधान लोग चुप रहते थे *
और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी ॥
- ११ क्योंकि जब कोई † मेरा समाचार सुनता, तब वह मुझे घन्य कहता था,
और जब कोई मुझे देखता, तब मेरे विषय साक्षी देता था ;
- १२ क्योंकि मैं दोहाई देनेवाले दीन जन को,
और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था ॥

* मूल में—प्रधानों की बाणी छिप जाती थी ।

† मूल में—काम ।

- १३ जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था,
और मेरे कारण विधवा आनन्द के मारे गाती थी ॥
- १४ मैं धर्म को पहिने रहा, और वह मुझे ढाँके रहा;
मेरा न्याय का काम मेरे लिये बागे और सुन्दर पगडी का काम देता था ॥
- १५ मैं अन्धों के लिये आखे,
और लंगडों के लिये पाँव ठहरता था ॥
- १६ दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था,
और जो मेरी पहिचान का न था उसके मुकद्दमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था ॥
- १७ मैं कुटिल मनुष्यों की डाढ़े तोड़ डालता, और
उनका शिकार उनके मुह से छीनकर बचा लेता था ॥
- १८ तब मैं सोचता था, कि मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे,
और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा ॥
- १९ मेरी जड़ जल की ओर फैली,*
और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी,
- २० मेरी महिमा ज्यों की त्यों† बनी रहेगी,
और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा ॥
- २१ लोग मेरी ही ओर कान लगाकर
ठहरे रहते थे

* मूल में—खुली ।

† मूल में—टटकी ।

और मेरी सम्मति मुनकर चुप रहते थे ॥

- २२ जब मैं बोल चुकता था, तब वे और कुछ न बोलते थे,
मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी ॥
- २३ जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे;
और जैसे बरसात के अन्त की वर्षा के लिये वैसे ही वे मुह पसारे रहते* थे ॥
- २४ जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था;
और कोई मेरे मुह को बिगाड न सकता था ॥
- २५ मैं उनका मार्ग चुन लेता, और उन में मुख्य ठहरकर बैठा करता था,
और जैसा सेना में राजा वा विलाप करनेवालों के बीच शान्तिदाता, वैसा ही मैं रहता था ॥

२०

परन्तु अब जिनकी अवस्था मुझ से कम है, वे मेरी हंसी करते हैं,

वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था † ॥

२ उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था ?

उनका पीरुष तो जाता रहा ॥

३ वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं,

* मूल में—मुँह खोलते ।

† मूल में—कुत्तों के साथ ठहरना नकारता था ।

- बे अन्धेरे और सुनसान स्थानों में
सूखी धूल फांकते हैं ॥
- ४ बे झाड़ी के आसपास का लोनिया
साग तोड़ लेते,
और झाड़ की जड़े खाते हैं ॥
- ५ बे मनुष्यों के बीच में से निकाले
जाते हैं,
उनके पीछे ऐसी पुकार होती है,
जैसी चोर के पीछे ॥
- ६ डरावने नालों में, भूमि के बिलों में,
और चट्टानों में, उन्हे रहना पड़ता
है ॥
- ७ बे झाड़ियों के बीच रिकते,
और बिच्छू पीधों के नीचे इकट्ठे
पड़े रहते हैं ॥
- ८ बे मूकों और नीच लोगो * के वश हैं
जो मार मार के इस देश से निकाले
गए थे ॥
- ९ ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगने
गीत गाते,
और मुझ पर ताना मारते हैं ॥
- १० बे मुझ से घिन खाकर दूर रहते,
वा मेरे मुह पर थूकने से भी नहीं
डरते † ॥
- ११ ईश्वर ने जो मेरी रस्ती खोलकर
मुझे दुःख दिया है,
इसलिये बे मेरे साम्हने मुह में लगाम
नहीं रखते ॥
- १२ मेरी दहिनी अलगा पर बजारू लोग
उठ खड़े होते हैं, बे मेरे पांव सरका
देते हैं,
और मेरे नाश के लिये अपने उपाय ‡
बान्धते हैं ॥
- १३ जिनके कोई सहायक नहीं,
बे भी मेरे रास्तों को बिगाडने,
और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं * ॥
- १४ मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ
पडते हैं,
और उजाड़ के बीच में होकर मुझ
पर धावा करते हैं ॥
- १५ मुझ में घबराहट छा गई है †,
और मेरा रईसपन मानो वायु से
उड़ाया गया है,
और मेरा कुशल बादल की नाई
जाता रहा ॥
- १६ और अब मैं शोकसागर में डूबा
जाता हू ‡,
दुःख के दिनों ने मुझे जकड लिया
है § ॥
- १७ रात को मेरी हड्डियां मेरे अन्दर
छिद जाती हैं ॥
और मेरी नसों में चैन नहीं
पडती ¶ ॥
- १८ मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे
वस्त्र का रूप बदल गया है;
वह मेरे कुत्तों के गले की नाई मुझ
से लिपटी हुई है ॥
- १९ उस ने मुझ को कीचड में फेंक
दिया है,
और मैं मिट्टी और राख के तुल्य
हो गया हू ॥

* मूल में—विपत्ति की सहायता करते हैं ।

† मूल में—मुझ पर घबराहट घुमाई गई ।

‡ मूल में—मेरा जीव मेरे ऊपर उखड़ेला
जाता है ।

§ मूल में—दुःख के दिनों ने मुझे पकड़ा
है ।

¶ मूल में—मुझ पर से छिदती हैं ।

¶ मूल में—मेरी नसों नहीं सोतीं ।

* मूल में—नामरहितों ।

† मूल में—मुंह से थूक नहीं रख छोड़ने ।

‡ मूल में—अपने रास्ते ।

- २० मैं तेरी दोहाई देता हूं, परन्तु तू नहीं सुनता;
मैं खड़ा होता हूं परन्तु तू मेरी ओर धूरने लगता है ॥
- २१ तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है;
और अपने बली हाथ से मुझे सताना है ॥
- २२ तू मुझे वायु पर सवार करके उडाना है,
और आंधी के पानी में मुझे गला देता है ॥
- २३ हां, मुझे निश्चय है, कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा,
और उस घर में पहुंचाएगा,
जो सब जीवित प्राणियों के लिये ठहराया गया है ।
- २४ तौभी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढाएगा ?
और क्या कोई विपत्ति के समय * दोहाई न देगा ?
- २५ क्या मैं उसके लिये रोता नहीं था,
जिसके दुर्दिन आते थे ?
और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुःखित न होता था ?
- २६ जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था,
तब विपत्ति आ पडी;
और जब मैं उजियाले का आसरा लगाए था, तब अन्धकार छा गया ॥
- २७ मेरी अन्तडियां निरन्तर उबलती रहती हैं † और आराम नहीं पातीं;
मेरे दुःख के दिन आ गए हैं ॥
- २८ मैं शोक का पहिरावा पहिने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ ।
और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिये दोहाई देता हूँ ॥
- २९ मैं गीदडों का भाई,
और शत्रुमुर्गों का संगी हो गया हूँ ॥
- ३० मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है,
और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई हैं ॥
- ३१ इस कारण मेरी बीणा से विलाप और मेरी बासुरी से रोने की ध्वनि निकलती है ॥
- ३१ मैं ने अपनी आंखों के विषय वाचा बान्धी है,
फिर मैं किसी कुंवारी पर क्योंकर आखे लगाऊ ?
२ क्योंकि ईश्वर स्वर्ग से कौन सा अश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी सम्पत्ति बाटता है ?
३ क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिये विपत्ति और अनर्थ काम करनेवालों के लिये सत्यानाश का कारण नहीं है ?
४ क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता ?
५ यदि मैं व्यर्थ चाल चालता हूँ,
वा कपट करने के लिये मेरे पैर दौड़े हों *;
६ (तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं,
ताकि ईश्वर मेरी खराई को जान ले) ॥

* मूल में—होते इस कारण ।

† मूल में—खौलती है और चुप नहीं होती ।

* मूल में—मेरा पांव दौड़ा हो ।

- ७ यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हों,
और मेरा मन मेरी आंखों की देखी
चाल चला हो,
वा मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो;
८ तो मैं बीज बोऊ, परन्तु दूसरा खाए;
वरन मेरे खेत की उपज उखाड़
डाली जाए ॥
- ९ यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित
हो गया है,
और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर
घात में बैठा हूँ,
१० तो मेरी स्त्री दूसरे के लिये पीसे,
और पराए पुरुष उसको भ्रष्ट करे ॥
- ११ क्योंकि वह तो महापाप होता;
और न्यायियों से दण्ड पाने के योग्य
अघर्म का काम होता,
१२ क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर
भस्म कर देती है,
और वह मेरी सारी उपज को जड़
से नाश कर देती है ।
- १३ जब मेरे दास वा दासी ने मुझ से
भगडा किया,
तब यदि मैं ने उनका हक मार दिया
हो;
१४ तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा, तब
मैं क्या करूंगा ?
और जब वह आएगा तब मैं क्या
उत्तर दूंगा ?
- १५ क्या वह उसका बनानेवाला नहीं
जिस ने मुझे गर्भ में बनाया ?
क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत
गर्भ में न रची थी ?
- १६ यदि मैं ने कगालो की इच्छा पूरी
न की हो,
वा मेरे कारण विधवा की आंखें कभी
रह गई हों,
- १७ वा मैं ने अपना टुकड़ा अकेला खाया
हो,
और उस में से अनाथ न खाने पाए
हों,
१८ (परन्तु वह मेरे लडकपन ही से मेरे
साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार
पिता के साथ,
और मैं जन्म ही से विधवा को
पालता आया हूँ) ;
- १९ यदि मैं ने किसी को वस्त्रहीन मरते
हुए देखा,
वा किसी दरिद्र को जिसके पास
ओढने को न था
२० और उसको अपनी भेड़ो की ऊन
के कपड़े न दिए हों,
और उस ने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद
न दिया हो * ;
- २१ वा यदि मैं ने फाटक में अपने सहायक
देखकर
अनाथों के मारने को अपना हाथ
उठाया हो,
२२ तो मेरी बांह पखौड़े से उखडकर
गिर पड़े,
और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए † ॥
- २३ क्योंकि ईश्वर के प्रताप के कारण
मैं ऐसा नहीं कर सकता था,
क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति
के कारण मैं भयभीत होकर
थरथराता था ॥
- २४ यदि मैं ने सोने का भरोसा किया
होता,
वा कुन्दन को अपना आसरा कहा
होता,

* मूल में—उसकी कमर ने मुझे आशीर्वाद
न दिया हो ।

† मूल में—मेरी भुजा नरट से टूट जाए ।

- २५ वा अपने बहुत से धन
वा अपनी बड़ी कमाई के कारण
आनन्द किया होता,
२६ वा सूर्य को चमकते
वा चन्द्रमा को महाशोभा से चलते
हुए देखकर
२७ मैं मन ही मन मोहित हो गया
होता,
और अपने मुह से अपना हाथ चूम
लिया होता * ;
२८ तो यह भी न्यायियों से दण्ड पाने
के योग्य अधर्म का काम होता ;
क्योंकि ऐसा करके मैं ने सर्वश्रेष्ठ
ईश्वर का इनकार किया होता ।।
२९ यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनन्दित
होता,
वा जब उस पर विपत्ति पड़ी तब
उस पर हंसा होता ;
३० (परन्तु मैं ने न तो उसको शाप देते
हुए, और न उसके प्राणदण्ड की
प्रार्थना करते हुए अपने मुह † से
पाप किया है) ;
३१ यदि मेरे डेरे के रहनेवालों ने यह न
कहा होता,
कि ऐसा कोई कहां मिलेगा, जो इसके
यहा का मांस खाकर तृप्त न हुआ
हो ?
३२ (परदेशी को सड़क पर टिकना न
पडता था ; मैं बटोही ‡ के लिये
अपना द्वार खुला रखता था) ;
३३ यदि मैं ने आदम की नाई अपना
अपराध छिपाकर
अपने अधर्म को ढांप लिया हो,

- ३४ इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से
भय खाता था,
वा कुलीनों * से तुच्छ किए जाने से
डर गया
यहां तक कि मैं द्वार से बाहर न
निकला—
३५ भला होता कि मेरा कोई सुननेवाला
होता !
(सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय
चुकाए ! देखो मेरा दस्तखत यही
है) ॥
भला होता कि जो शिकायतनामा
मेरे मुद्दे ने लिखा है वह मेरे
पास होता !
३६ निश्चय मैं उसको अपने कन्धे पर
उठाए फिरता ;
और सुन्दर पगड़ी जानकर अपने
सिर में बान्धे रहता ॥
३७ मैं उसको अपने पग पग का हिसाब
देता,
मैं उसके निकट प्रधान की नाई
निडर जाता ॥
३८ यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दोहाई
देती हो, और
उसकी रेघारियां मिलकर रोती हों ;
३९ यदि मैं ने अपनी भूमि की उपज
बिना मजूरी † दिए खाई,
वा उसके मालिक का प्राण लिया हो ;
४० तो गेहूं के बदले भड़बेड़ी,
और जब के बदले जगली घास
उगें ।
अय्यूब के वचन पूरे हुए हैं ॥

* मूल में—मेरा हाथ मेरे मुंह को चूमता ।

† मूल में—तालू ।

‡ मूल में—बाट ।

* मूल में—अपनी गोद में ।

† मूल में—कुली ।

‡ मूल में—रूपये ।

(एलौइज़ा का वचन)

- ३२ तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष हैं उसको उत्तर देना छोड़ दिया। २ और बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिये भड़क उठा, कि उस ने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। ३ फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का, कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तौभी उसको दोषी ठहराया। ४ एलीहू तो अपने को उन से छोटा जानकर अय्यूब की बातों के अन्त की बाट जोहता रहा। ५ परन्तु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा ॥
- ६ तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा, कि मैं तो जवान हूँ, और तुम बहुत बूढ़े हो; इस कारण मैं रुका रहा, और अपना विचार तुम को बताने से डरता था ॥
- ७ मैं सोचता था, कि जो आयु मे बड़े हैं वे ही बात करें, और जो बहुत वर्ष के हैं, वे ही बुद्धि सिखाए ॥
- ८ परन्तु मनुष्य मे आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी वी हुई सांस से उन्हे समझने की शक्ति देता है ॥
- ९ जो बुद्धिमान हैं वे बड़े बड़े लोग ही नहीं और न्याय के समझनेवाले बूढ़े ही नहीं होते ॥

- १० इसलिये मैं कहता हूँ, कि मेरी भी सुनो *, मैं भी अपना विचार बताऊंगा ॥
- ११ मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिये ठहरा रहा; जब कि तुम कहने के लिये शब्द ढूँढते रहे ॥
- १२ मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा। परन्तु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खण्डन नहीं किया, और न उसकी बातों का उत्तर दिया ॥
- १३ तुम लोग मत समझो कि हम को ऐसी बुद्धि मिली है, कि उसका खण्डन मनुष्य नहीं ईश्वर ही कर सकता है ॥
- १४ जो बातें उस ने कही वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कहीं, और न मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा ॥
- १५ वे विस्मित हुए, और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया; उन्हीं ने बातें करना छोड़ दिया † ॥
- १६ इसलिये कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं, क्या इस कारण मैं ठहरा रहूँ ?
- १७ परन्तु अब मैं भी कुछ कहूँगा ‡, मैं भी अपना विचार प्रगट करूँगा ॥

* मूल में—सुन।

† मूल में—बातों ने उन से कूच किया।

‡ मूल में—अपना अंश उत्तर दूँगा।

१८ क्योंकि मेरे मन मे बाते भरी है,
और मेरी आत्मा मुझे उभार रही
है ॥

१९ मेरा मन उस दाखमधु के समान है,
जो खोला न गया हो;
वह नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता
है ॥

२० शान्ति पाने के लियं मैं बोलूंगा,
मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा ॥

२१ न मैं किसी आदमी का पक्ष
करूंगा,
और न मैं किसी मनुष्य को चापलूसी
की पदवी दूंगा ॥
क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना
आता ही नहीं
नहीं तो मेरा सिरजनहार क्षण भर
में मुझे उठा लेता ॥

३३ तौभी हे अप्युब ! मेरी बाते
सुन ले, और मेरे सब वचनों
पर कान लगा ॥

२ मैं ने तो अपना मुंह खोला है,
और मेरी जीभ मुह में चुलबुला
रही है * ॥

३ मेरी बाते मेरे मन की सिधार्ह प्रगट
करेंगी;
जो ज्ञान में रखता हू उसे खराई के
साथ कहूंगा † ॥

४ मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है,
और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे
जीवन मिलता है ॥

५ यदि तू मुझे उत्तर दे सके, तो दे,
मेरे साम्हने अपनी बाते क्रम से रचकर
खडा हो जा ॥

६ देख मैं ईश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य
हू,
मैं भी मिट्टी का बना हुआ हू ॥

७ सुन, तुझे मेरे डर के मारे बबराना
न पडेगा, और
न तू मेरे बोझ से दबेगा ॥

८ निःसन्देह तेरी ऐसी बात मेरे कानों
में पड़ी है
और मैं ने तेरे वचन सुने हैं, कि

९ मैं तो पवित्र और निरपराध और
निष्कलक हू; और मुझे मे घबर्भ
नहीं है ॥

१० देख, वह मुझे से भगडने के दांब
ढूढता है, और मुझे अपना शत्रु
समझता है;

११ वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोक
देता है,
और मेरी सारी चाल की देखभाल
करता है ॥

१२ देख, मैं तुझे उत्तर देता हू, इस बात
में तू सच्चा नहीं है ।
क्योंकि ईश्वर मनुष्य से बड़ा
है ॥

१३ तू उस से क्यों भगडता है ?
क्योंकि वह अपनी किसी बात का
लेखा नहीं देता ॥

१४ क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन
दो बार बोलता है,
परन्तु लोग उस पर चित्त नहीं
लगाते ॥

१५ स्वप्न में, वा रात को दिए हुए
दर्शन में,
जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते
हैं,
वा बिछौने पर सोते समय,

* मूल में—बोली है ।

† मूल में—मेरे होंट कहेंगे ।

- १६ तब वह मनुष्यों के कान खोलता है,
और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता
है,
- १७ जिस से वह मनुष्य को उसके संकल्प
से रोके
और गर्व को मनुष्य में से दूर
करे * ॥
- १८ वह उसके प्राण को गढ़हे से बचाता
है,
और उसके जीवन को खड्ग की
मार से बचाता है ।
- १९ उसे ताड़ना भी होती है, कि
वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा
तड़पता है,
और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार
भगडा होता है
- २० यहा तक कि उसका प्राण रोटी से,
और उसका मन स्वादिष्ट भोजन
से घृणा करने लगता है ॥
- २१ उसका मास ऐसा सूख जाता है कि
दिखाई नहीं देता ;
और उसकी हड्डिया जो पहिले दिखाई
नहीं देती थी निकल आती है † ॥
- २२ निदान वह कबर के निकट पहुंचता
है,
और उसका जीवन नाश करनेवालों
के वश में हो जाता है ॥
- २३ यदि उसके लिये कोई बिचवई स्वर्ग-
दूत मिले, जो
हजार में से एक ही हो, जो भावी
कहे ।
और जो मनुष्य को बताए कि उसके
लिये क्या ठीक है ।
- २४ तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता
है,
कि उसे गढ़हे में जाने से बचा ले,
मुझे छुड़ौती मिली है ॥
- २५ तब उस मनुष्य की देह बालक की
देह से अधिक स्वस्थ और कोमल
हो जाएगी ;
उसकी जबानी के दिन फिर लौट
आएंगे ॥
- २६ वह ईश्वर से बिनती करेगा, और
वह उस से प्रसन्न होगा,
वह आनन्द से ईश्वर का दर्शन
करेगा,
और ईश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों
धर्मी कर देगा ॥
- २७ वह मनुष्यों के साम्हने गाने और
कहने लगता है, कि
मैं ने पाप किया, और सच्चाई को
उलट पुलट कर दिया,
परन्तु उसका बदला मुझे दिया नहीं
गया ॥
- २८ उस ने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से
बचाया है,
मेरा जीवन * उजियाले को देखेगा ॥
- २९ देख, ऐसे ऐसे सब काम
ईश्वर पुरुष के साथ दो बार क्या
वरन तीन बार भी करता है,
- ३० जिस से उसको कब्र से बचाए †,
और वह जीवनलोक के उजियाले
का प्रकाश पाए ॥
- ३१ हे अथ्यूब ! कान लगाकर मेरी सुन ;
चुप रह, मैं और बोलूंगा ॥
- ३२ यदि तुझे बात कहनी हो, तो मुझे
उत्तर दे ;

* मूल में—और पुरुष से गर्व छिपाए ।

† मूल में—वा उसके अंग सूखते सूखते
मानो अनदेखे हो जाते हैं ।

* मूल में—मेरा जीवन ।

† मूल में—कैर लाए ।

बोल, क्योंकि मैं तुम्हें निर्दोष ठहराना चाहता हूँ ॥

३३ यदि नहीं, तो तू मेरी सुन;
चुप रह, मैं तुम्हें बुद्धि की बात सिखाऊंगा ॥

- ३४ (एल्लोह का वचन)
- फिर एलीहू यों कहता गया;
२ हे बुद्धिमानो ! मेरी बातें सुनो,
और हे ज्ञानियो ! मेरी बातों पर कान लगाओ;
३ क्योंकि जैसे जीभ से * चखा जाता है,
वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं ॥
- ४ जो कुछ ठीक है, हम अपने लिये चुन लें; जो भला है, हम आपस में समझ बूझ लें ॥
- ५ क्योंकि अय्यूब ने कहा है, कि मैं निर्दोष हूँ,
और ईश्वर ने मेरा हक मार दिया है ॥
- ६ यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ, तौभी भूटा ठहरता हूँ,
मैं निरपराध हूँ, परन्तु मेरा घाव † असाध्य है ॥
- ७ अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है,
जो ईश्वर की निन्दा पानी की नाई पीता है,
८ जो अनर्थ करनेवालों का साथ देता,
और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है ?
९ उस ने तो कहा है, कि मनुष्य को इस से कुछ लाभ नहीं

कि वह आनन्द से परमेश्वर की संगति रखे ॥

- १० इसलिये हे समझवालो ! मेरी सुनो, यह सम्भव नहीं कि ईश्वर दुष्टता का काम करे,
और सर्वशक्तिमान बुराई करे ॥
- ११ वह मनुष्य की करनी का फल देता है,
और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है ॥
- १२ निःसन्देह ईश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है ॥
- १३ किस ने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया ?
वा किस ने सारे जगत का प्रबन्ध किया ?
- १४ यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाये और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले,
१५ तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे,
और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा ॥
- १६ इसलिये इसको सुनकर समझ रख,
और मेरी इन बातों पर कान लगा ॥
- १७ जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे ?
जो पूर्ण धर्मी है, क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा ?
- १८ वह राजा से कहता है कि तू नीच है;
और प्रधानो से, कि तुम दुष्ट हो ॥
- १९ ईश्वर तो हाकिमों का पक्ष नहीं करता और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उन में कुछ भेद नहीं करता ॥

* मूल में—तालू से ।

† मूल में—तेरी ।

- २० आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं,
और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं;
और प्रतापी लॉग बिना हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं ॥
- २१ क्योंकि ईश्वर की आँखें मनुष्य की चालचलन पर लगी रहती हैं,
और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है ॥
- २२ ऐसा अन्धियारा वा घोर अन्धकार कही नहीं है
जिस में अनर्थ करनेवाले छिप सकें ॥
- २३ क्योंकि उस ने मनुष्य का कुछ समय नहीं ठहराया
ताकि वह ईश्वर के सम्मुख अदालत में जाए ॥
- २४ वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछपाछ के चूर चूर करता है,
और उनके स्थान पर औरों को खड़ा कर देता है ॥
- २५ इसलिये कि वह उनके कामों को भली भाँति जानता है,
वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं ॥
- २६ वह उन्हें दुष्ट जानकर सभी के देखते मारता है,
२७ क्योंकि उन्होंने ने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है,
और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया,
२८ यहाँ तक कि उनके कारण कगालों की दोहाई उस तक पहुँची
और उस ने दीन लोगों की दोहाई सुनी ॥
- २९ जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है ?
और जब वह मुह फेर ले, तब कौन उसका दर्शन पा सकता है ?
जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य, दोनों के साथ उसका बराबर व्यवहार है
- ३० ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे,
और प्रजा फन्दे में फंसाई न जाए ॥
- ३१ क्या किसी ने कभी ईश्वर से कहा, कि मैं ने दण्ड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा,
३२ जो कुछ मुझे नहीं सूझ पड़ता, वह तू मुझे सिखा दे,
और यदि मैं ने टेढ़ा काम किया हो, तो भविष्य में वैसा न करूँगा ?
३३ क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए
क्योंकि तू उस से अप्रसन्न है ?
क्योंकि तुझे निर्णय करना है, न कि मुझे;
इस कारण जो कुछ तुझे समझ पड़ता है, वह कह दे ॥
- ३४ सब ज्ञानी पुरुष
वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझ से कहेंगे, कि
३५ अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं कहता,
और न उसके वचन समझ के साथ होते हैं ॥
- ३६ भला होता, कि अय्यूब अन्त तक परीक्षा में रहता,
क्योंकि उस ने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं ॥
- ३७ और वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता है;
और हमारे बीच ताली बजाता है,

और ईश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाता है ॥

(एलीह की बातें)

३५ फिर एलीह इस प्रकार और भी कहता गया,

२ कि क्या तू इसे अपना हक समझता है?

क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म ईश्वर के धर्म से अधिक है?

३ जो तू कहता है कि मुझे इस से क्या लाभ?

और मुझे पापी होने में और न होने में कौन सा अधिक अन्तर है?

४ मैं तुझे

और तेरे साथियों को भी एक सग उत्तर देता हूँ ॥

५ आकाश की ओर दृष्टि करके देख, और आकाशमण्डल को ताक, जो तुझ से ऊँचा है ॥

६ यदि तू ने पाप किया है तो ईश्वर का क्या बिगड़ता है?

यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ जाएं तोभी तू उसके साथ क्या करता है?

७ यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है;

वा उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है?

८ तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिये है,

और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिये है ॥

९ बहुत अन्धे होने के कारण वे चिल्लाते हैं;

और बलवान के बाहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं ॥

१० तोभी कोई यह नहीं कहता, कि मेरा सृजनेवाला ईश्वर कहाँ है,

जो रात में भी गीत गवाता है,

११ और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता,

और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है?

१२ वे दोहाई देते हैं परन्तु कोई उत्तर नहीं देता,

यह बुरे लोगों के घमण्ड के कारण होता है ॥

१३ निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता,

और न सर्वशक्तिमान उन पर चित्त लगाता है ॥

१४ तो तू क्यों कहता है, कि वह मुझे दर्शन नहीं देता,

कि यह मुकद्मा उसके साम्हने है, और तू उसकी बाट जोहता हुआ ठहरा है?

१५ परन्तु अभी तो उस ने क्रोध करके दण्ड नहीं दिया है,

और अभिमान पर चित्त बहुत नहीं लगाया;

१६ इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुँह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है ॥

३६ फिर एलीह ने यह भी कहा,

२ कुछ ठहरा रह, और मैं तुझ को समझाऊंगा,

क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है ॥

३ मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा,

- और अपने सिरजनहार को धर्मी
ठहराऊंगा ॥
- ४ निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी,
वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है ॥
- ५ देख, ईश्वर सामर्थी है, और किसी
को तुच्छ नहीं जानता;
वह समझने की शक्ति में समर्थ है ॥
- ६ वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता,
और दीनों को उनका हक देता है ॥
- ७ वह धर्मियों से अपनी आखे नहीं
फेरता,
वरन उनको राजाओं के सग सदा
के लिये सिंहासन पर बैठाता है,
और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं ॥
- ८ और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए
और दुःख की रस्सियों से बान्धे जाए,
९ तभी ईश्वर उन पर उनके काम,
और उनका यह अपराध प्रगट
करता है, कि उन्हीं ने गर्व किया है ॥
- १० वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिये
खोलता है,
और आज्ञा देता है कि वे बुराई से
परे रहे ॥
- ११ यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे,
तो वे अपने दिन कल्याण से,
और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं ॥
- १२ परन्तु यदि वे न सुनें, तो वे खड्ग
से नाश हो जाते हैं,
और अज्ञानता में भरते हैं ॥
- १३ परन्तु वे जो मन ही मन भक्तिहीन
होकर क्रोध बढ़ाते,
और जब वह उनको बान्धता है, तब
भी दोहाई नहीं देते,
१४ वे जवानी में मर जाते हैं
और उनका जीवन लुच्चों के बीच
में नाश होता है ॥
- १५ वह दुखियों को उनके दुःख से छुड़ाता
है,
और उपद्रव में उनका कान खोलता
है ॥
- १६ परन्तु वह तुभ को भी क्लेश के
मुह में से निकालकर
ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है,
पहुंचा देता है,
और चिकना चिकना भोजन तेरी
मेज पर परोसता * है ॥
- १७ परन्तु तू ने दुष्टों का सा निर्णय
किया है †
इसलिये निर्णय और न्याय तुभ से
लिपटे रहते हैं ॥
- १८ देख, तू जलजलाहट में उभर के ठट्ठा
मत कर, और
न प्रायश्चित्त को अधिक बढ़ा जानकर
मार्ग से मुड़ ॥
- १९ क्या तेरा रोना वा तेरा बल तुभ
दुःख से छुटकारा देगा ?
- २० उस रात की अभिलाषा न कर,
जिस में देश देश के लोग अपने अपने
स्थान से मिटाए जाते हैं ।
- २१ चौकस रह, अनर्थ काम की ओर
मत फिर,
तू ने तो दुःख ‡ से अधिक इसी को
चुन लिया है ॥
- २२ देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े
काम करता है,
उसके समान शिक्षक कौन है ?
- २३ किस ने उसके चलने का मार्ग ठहराया
है ?

* मूल में—और तेरी मेज की उतराई
चिकनाई से भरी ।

† मूल में—दुष्ट के निर्णय से भर गया ।

‡ वा दीनता ।

- और कौन उस से कह सकता है,
कि तू ने अनुचित काम किया है ?
- २४ उसके कामों की महिमा और प्रशंसा
करने को स्मरण रख,
जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते
चले आए है ॥
- २५ सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते
आए है,
और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता
है ॥
- २६ देख, ईश्वर महान और हमारे ज्ञान
से कहीं परे है,
और उसके वर्ष की गिनती अनन्त है ॥
- २७ क्योंकि वह तो जल की बूदे ऊपर को
खींच लेता है
वे कुहरे से मेंह होकर टपकती है,
वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते है
और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से
बरसाते है ॥
- २८ फिर क्या कोई बादलों का फँसना
और उसके मराडल में का गरजना
समझ सकता है ?
- ३० देख, वह अपने उजियाले को चहुँओर
फँलाता है,
और समुद्र की थाह को * ढापता है ॥
- ३१ क्योंकि वह देश देश के लोगों का
न्याय इन्ही से करता है,
और भोजनवस्तुएं बहुतायत से देता
है ॥
- ३२ वह बिजली को अपने हाथ में लेकर †
उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर
गिरे ‡ ॥

* मूल में—जड़ को ।

† मूल में—दोनों हाथ उजियाले से ढांप-
कर ।

‡ मूल में—निशाना मारनेहारे की नार्ह ।

- ३३ इसकी कड़क उसी का समाचार देती
है
पशु भी प्रगत करते है कि अन्धड़
चढा आता है ॥

- ३७ फिर इस बात पर भी मेरा
हृदय कांपता है,
और अपने स्थान से उछल पडता है ॥
- २ उसके बोलने का शब्द तो सुनो,
और उस शब्द को जो उसके मुह
से निकलता है सुनो ॥
- ३ वह उसको सारे आकाश के तले,
और अपनी बिजली * को पृथ्वी
की छोर तक भेजता है ॥
- ४ उसके पीछे गरजने का शब्द होता है;
वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता
है,
और जब उसका शब्द सुनाई देता
है तब बिजली लगातार चमकने
लगती है † ॥
- ५ ईश्वर गरजकर अपना शब्द अद्भुत
रीति से सुनाता है,
और बड़े बड़े काम करता है जिनको
हम नहीं समझते ॥
- ६ वह तो हिम से कहता है, पृथ्वी पर
गिर,
और इसी प्रकार मेंह को भी और
मूसलाधार वर्षा को भी
ऐसी ही आज्ञा देता है ॥
- ७ वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर ‡
कर देता है,
जिस से उसके बनाए हुए सब मनुष्य
उसको पहचाने ॥

* मूल में—अपने उजियाले ।

† मूल में—तब उन्हें नहीं रोकता ।

‡ मूल में—हाथ ।

- ८ तब वनपशु गुफाओं में घुस जाते,
और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं ॥
- ९ दक्खिन दिशा से * बबरण्डर
और उतरहिया से † जाडा आता है ॥
- १० ईश्वर की श्वास की फूक से बरफ
पड़ता है,
तब जलाशयों का पाट जम जाता है ॥
- ११ फिर वह घटाओं को भाफ से लादता,
और अपनी बिजली से भरे हुए
उजियाले का बादल दूर तक
फँलाता है ॥
- १२ वे उसकी बुद्धि की युक्ति से डघर
उधर फिराए जाते हैं,
इसलिये कि जो आज्ञा वह उनको दे,
उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर
पूरी करे ॥
- १३ चाहे ताड़ना देने के लिये, चाहे अपनी
पृथ्वी की भलाई के लिये
वा मनुष्यों पर करुणा करने के लिये
वह उसे भेजे ॥
- १४ हे अय्यूब ! इस पर कान लगा
और सुन ले ;
चुपचाप खड़ा रह, और ईश्वर के
आश्चर्यकर्मों का विचार कर ॥
- १५ क्या तू जानता है, कि ईश्वर क्योंकि
अपने बादलों को आज्ञा देता,
और अपने बादल की बिजली को
चमकाता है ? ॥
- १६ क्या तू घटाओं का तौलना,
वा सर्वज्ञानी के आश्चर्यकर्म जानता है ?
- १७ जब पृथ्वी पर दक्खिनी हवा ही के
कारण से सन्नाटा रहता है ‡,

* मूल में—कोठरी से ।

† मूल में—बिखेरनेहारों से ।

‡ मूल में—जब पृथ्वी दक्खिन ही से
चुपचाप होती है ।

- तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं ?
- १८ फिर क्या तू उसके साथ आकाश-
मण्डल को तान सकता है,
जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है ?
- १९ तू हमें यह सिखा कि उस से क्या
कहना चाहिये ?
क्योंकि हम अन्धियारे के कारण
अपना व्याख्यान ठीक नहीं रच
सकते ॥
- २० क्या उसको बताया जाए कि मैं
बोलना चाहता हूँ ?
क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता
है ?
- २१ अभी तो आकाशमण्डल में का
बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता
जब वायु चलकर उसका शुद्ध करती
है ॥
- २२ उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती
है
ईश्वर भययोग्य तेज से आभूषित
है ॥
- २३ सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है,
और जिसका भेद हम पा नहीं सकते,
वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़
अत्याचार * नहीं कर सकता ॥
- २४ इसी कारण सज्जन उसका भय
मानते हैं,
और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हैं,
उन पर वह दृष्टि नहीं करता ॥

(यहोवा और अय्यूब का वार्तालाप)

- ३८ तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी
में से यू उत्तर दिया,
२ यह कौन है जो अज्ञानता की बाते
कहकर

* मूल में—दबाने ।

- युक्ति को बिगाडना चाहता है * ?
- ३ पुरुष की नाई अपनी कमर बान्ध ले,
क्योंकि मैं तुम्ह से प्रश्न करता हूँ,
और तू मुझे उत्तर दे ॥
- ४ जब मैं ने पृथ्वी की नेव डाली, तब
तू कहां था ?
यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे ॥
- ५ उसकी नाप किस ने ठहराई, क्या तू
जानता है
उस पर किस ने सूत खींचा ?
- ६ उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी
गई †,
वा किस ने उसके कोने का पत्थर
बिठाया,
- ७ जब कि भोर के तारे एक सग आनन्द
से गाते थे
और परमेश्वर के सब पुत्र जयजयकार
करते थे ?
- ८ फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला
मानो वह गर्भ से फूट निकला,
तब किस ने द्वार मूदकर उसको
रोक दिया;
- ९ जब कि मैं ने उसको बादल पहिनाया
और घोर अन्धकार मे लपेट दिया,
- १० और उसके लिये सिवाना बान्धा ‡,
और यह कहकर बेडे और किवाडे
लगा दिए, कि
- ११ यही तक आ, और आगे न बढ,
और तेरी उमडनेवाली लहरे यही
थम जाए ?
- १२ क्या तू ने जीवन भर मे कभी भोर
को आज्ञा दी,
और पी को उसका स्थान जताया है,
- १३ ताकि वह पृथ्वी की छोरों को बषा
मे करे,
और दुष्ट लोग उस मे से झाड़ दिए
जाएं ?
- १४ वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के
नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है,
और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहिने
हुए दिखाई देती हैं * ॥
- १५ दुष्टों से उनका उजियाला † रोक
लिया जाता है,
और उनकी बड़ाई हुई बांह तोडी
जाती है ॥
- १६ क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक
पहुंचा है,
वा गहिरें सागर की थाह मे कभी
चला फिरा है ?
- १७ क्या मृत्यु के फाटक तुम्ह पर प्रगट
हुए,
क्या तू घोर अन्धकार के फाटकों
को कभी देखने पाया है ?
- १८ क्या तू ने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी
रीति से समझ लिया है ?
यदि तू यह सब जानता है, तो
बतला दे ॥
- १९ उजियाले के निवास का मार्ग कहां है,
और अन्धियारे का स्थान कहा है ?
- २० क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा
सकता है,
और उसके घर की डगर पहिचान
सकता है ?
- २१ निःसन्देह तू यह सब कुछ जानता
होगा !
क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न
हुआ था,

* मूल में—अन्धेरा कर देता है ।

† मूल में—बैठाई गई ।

‡ मूल में—तोड़ा ।

* मूल में—खड़ी हो जाती हैं ।

† अर्थात् अन्धियारा ।

- और तू बहुत आयु का है ॥
- २२ फिर क्या तू कभी हिम के भण्डार में पैठा,
वा कभी ओलों के भण्डार को तू ने देखा है,
- २३ जिसको मैं ने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिये रख छोड़ा है ?
- २४ किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है,
और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई* जाती है ?
- २५ महावृष्टि के लिये किस ने नाला काटा,
और कड़कनेवाली बिजली के लिये मार्ग बनाया है,
- २६ कि निर्जन देश में और जंगल में जहा कोई मनुष्य नहीं रहता मेह बरसाकर,
- २७ उजाड़ ही उजाड़ देश को सीचे,
और हरी घास उगाए ?
- २८ क्या मेह का कोई पिता है,
और ओस की बूदे किस ने उत्पन्न कीं ?
- २९ किस के गर्भ से बर्फ निकला है,
और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है ?
- ३० जल पत्थर के समान जम † जाता है,
और गहिरे पानी के ऊपर जमावट होती है ॥
- ३१ क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूथ सकता
वा भृगुशिरा के बन्धन खोल सकता है ?
- ३२ क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता*,
वा सप्तर्षि को साधियों समेत लिए चल सकता है ?
- ३३ क्या तू आकाशमण्डल की विधियां जानता
और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है ?
- ३४ क्या तू बादलों तक अपनी वारणी पहुंचा सकता है †
ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले ?
- ३५ क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है ‡, कि वह जाए,
और तुझ से कहे, मैं उपस्थित हूँ ?
- ३६ किस ने अन्तःकरण में § बुद्धि उपजाई,
और मन में ॥ समझने की शक्ति किस ने दी है ?
- ३७ कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है ?
और कौन आकाश के कुप्पों को ¶ उगडेल सकता है,
- ३८ जब धूलि जम जाती है,
और डेले एक दूसरे से सट जाते हैं ?
- ३९ क्या तू सिंहनी के लिये अहेर पकड सकता, और
जवान सिंहों का पेट भर सकता है,
- ४० जब वे मांद में बैठे हों

* मूल में—निकाल सकता ।

† मूल में—उठाए ।

‡ मूल में—भेज सकता है ।

§ मूल में—गुदों में ।

॥ वा कुक्कट में ।

¶ अर्थात् बादलों को ।

* मूल में—छितराई ।

† मूल में—छिप ।

- और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हों ?
- ४१ फिर जब कौबे के बच्चे ईश्वर की दोहाई देते हुए निराहार उडते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है ?
- ३६ क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरिया कब बच्चे देती है ? वा जब हरिरियाया बियाती है, तब क्या तू देखता रहता है ?
- २ क्या तू उनके महीने गिन सकता है, क्या तू उनके बियाने का समय जानता है
- ३ जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती, वे अपनी पीडों से छूट जाती हैं ?
- ४ उनके बच्चे हूष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं; वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते ॥
- ५ किस ने बनले गदहे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है ? किस ने उसके बन्धन खोले हैं ?
- ६ उसका घर मैं ने निर्जल देश को, और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है ॥
- ७ वह नगर के कोलाहल पर हंसता, और हाकनेवाले की हाक सुनता भी नहीं ॥
- ८ पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चरता वह सब भाति की हरियाली दूढ़ता फिरता है ॥
- ९ क्या जंगली सांड तेरा काम करने को प्रसन्न होगा ?

- क्या वह तेरी चरनी के पास रहेगा ?
- १० क्या तू जंगली सांड को रस्से से बान्धकर रेघारियों में चला सकता है ? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे होगा फेरेंगा ?
- ११ क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा ? वा जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उसे उस पर छोड़ेगा ?
- १२ क्या तू उसका विश्वास करेगा, कि वह तेरा भनाज घर ले आए, और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे ?
- १३ फिर शतुरमूर्गी अपने पंखों को आनन्द से फुलाती है, परन्तु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रगट करते हैं ?
- १४ क्योंकि वह तो अपने अगड़े भूमि पर छोड़ देती और धूल में उन्हें गर्म करती है; १५ और इसकी सुधि नहीं रखती, कि वे पांव से कुचले जाएंगे, वा कोई वनपशु उनको कुचल डालेगा ॥
- १६ वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं हैं; यद्यपि उसका कष्ट अकारण होता है, तौभी वह निश्चिन्त रहती है; १७ क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धिरहित बनाया *, और उसे समझने की शक्ति नहीं दी ॥
- १८ जिस समय वह सीधी होकर अपने पंख फैलाती है,

* मूल में—उस से बुद्धि मुलाई ।

- तब धोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है ॥
- १६ क्या तू ने धोड़े को उसका बल दिया है ?
क्या तू ने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है ?
- २० क्या उसको टिड्डी की सी उछलने की शक्ति तू देता है ?
उसके फुक्कारने का शब्द डरावना होता है ॥
- २१ वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है,
वह हथियारबन्दों का साम्हना करने को निकल पड़ता है ॥
- २२ वह डर की बात पर हंसता, और नहीं घबराता;
और तलवार से पीछे नहीं हटता ॥
- २३ तर्कश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है ॥
- २४ वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है;
जब नरसिगे का शब्द सुनाई देता है तब वह रुकता नहीं ॥
- २५ जब जब नरसिगा बजता तब तब वह हिन हिन करता है,
और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय-जयकार को दूर से सूँघ लेता है ॥
- २६ क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है,
और दक्खिन की ओर उड़ने को अपने पख फैलाता है ?
- २७ क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है,
और ऊँचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है ?
- २८ वह चट्टान पर रहता
और चट्टान की चोटी और दृढ़स्थान पर बसेरा करता है ॥
- २९ वह अपनी आँखों से दूर तक देखता है,
वहाँ से वह अपने अहेर को ताक लेता है ॥
- ३० उसके बच्चे भी लोह चूसते हैं,
और जहा घात किए हुए लोग होते वहा वह भी होता है ॥
- ४० फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा :
- २ क्या जो बकवाम करता है वह सर्वशक्तिमान में भगड़ा करे ?
जो ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे ॥
- ३ तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया :
- ४ देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ ?
मैं अपनी अगुली दांत तले दबाता हूँ* ॥
- ५ एक बार तो मैं कह चुका, परन्तु और कुछ न कहूँगा : हा दो बार भी मैं कह चुका, परन्तु अब कुछ और आगे न बढ़ूँगा ॥
- ६ तब यहोवा ने अय्यूब को आधी में से यह उत्तर दिया :
- ७ पुरुष की नाई अपनी कमर बान्ध ले,
मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ, और तू मुझे बता ॥
- ८ क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा ?

* मूल में—अपना हाथ अपने मुँह पर रखूँगा ।

- क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझ को दोषी ठहराएगा ?
- १० क्या तेरा बाहुबल ईश्वर के तुल्य है ? क्या तू उसके ममान शब्द से गरज सकता है ?
- १० अब अपने को महिमा और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य्य और तेज के वस्त्र पहिन ले ॥
- ११ अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे, और एक एक घमण्डी को देखते ही उसे नीचा कर ॥
- १२ हर एक घमण्डी को देखकर झुका दे, और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हों वहां से गिरा दे ॥
- १३ उनको एक संग मिट्टी में मिला * दे, और उस गुप्त स्थान † में उनके मुह बान्ध दे ॥
- १४ तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा, कि तेरा ही दहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है ॥
- १५ उस जलगज को देख, जिसको मैं ने तेरे साथ बनाया है, वह बैल की नाई घास खाता है ॥
- १६ देख उसकी कटि में बल है, और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य्य रहती है ॥
- १७ वह अपनी पूछ को देवदार की नाई हिलाता है ; उसकी जांघों की नसे एक दूसरे से मिली हुई है ।
- १८ उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं,
- उसकी पमुलियां मानो लोहे के बँडे हैं ॥
- १९ वह ईश्वर का मुख्य कार्य * है ; जो उसका सिरजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए !
- २० निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहा और सब वनपशु कलोल करते हैं ॥
- २१ वह छतनार वृक्षों के तले नरकटों की आड में और कीच पर लेटा करता है ॥
- २२ छतनार वृक्ष उस पर छाया करते हैं, वह नाले के बेत के वृक्षों से घिरा रहता है ॥
- २३ चाहे नदी की बाढ भी हो तौभी वह न घबराएगा, चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए परन्तु वह निर्भय रहेगा ॥
- २४ जब वह चौकस हो तब † क्या कोई उसको पकड सकेगा, वा फन्दे लगाकर उसको नाथ सकेगा ?
- ४१ फिर क्या तू लिब्यातान अथवा मगर को बसी के द्वारा खीच सकता है, वा डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है ?
- २ क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता वा उसका जबडा कील से बेध सकता है ?
- ३ क्या वह तुझ से बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा,

* मूल में—खिपा ।

† मूल में—गुप्त ।

* मूल में—मागों का पहिला है ।

† मूल में—उसकी आंखों में ।

- वा तुझ से भीठी बातें बोलेगा ?
- ४ क्या वह तुझ से वाचा बान्धेगा
कि वह सदा तेरा दास रहे ?
- ५ क्या तू उस से ऐसे खेलेगा जैसे
चिडिया से, वा
अपनी लडकियों का जी बहलाने को
उसे बान्ध रखेगा ?
- ६ क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल
समझेगे ?
क्या वह उसे व्योपारियों में बांट
देगे ?
- ७ क्या तू उसका चमडा भाले से,
वा उसका सिर मछुवे के निरशूलों
से भर सकता है ?
- ८ तू उस पर अपना हाथ ही धरे,
तो लडाई को कभी न भूलेगा *, और
भविष्य में कभी ऐसा न करेगा ॥
- ९ देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल
रहती है;
उसके देखने ही से मन कच्चा पड
जाता है ॥
- १० कोई ऐसा साहसी † नहीं, जो उसको
भड़काए;
फिर ऐसा कौन है जो मेरे साम्हने
ठहर सके ?
- ११ किस ने मुझे पहिले दिया है, जिसका
बदला मुझे देना पडे !
देख, जो कुछ सारी धरती पर ‡ है
सो मेरा है ॥
- १२ मैं उसके अगों के विषय,
और उसके बड़े बल और उसकी
बनावट की शोभा के विषय चुप न
रहूंगा ॥
- १३ उसके ऊपर के पहिरावे को कौन
उतार सकता है ?
उसके दातों की दोनों पातियों * के
अर्थात् जबड़ों के बीच कौन
आएगा ?
- १४ उसके मुख के दोनों किवाड कौन
खोल सकता है ?
उसके दात चारों ओर में डरावने
हैं ॥
- १५ उसके छिलकों † की रेखाएं घमण्ड
का कारण है,
वे मानो कडी छाप से बन्द किए हुए
हैं ॥
- १६ वे एक दूसरे से ऐसे जुडे हुए हैं,
कि उन में कुछ वायु भी नहीं पैठ
सकती ॥
- १७ वे आपस में मिले हुए
और ऐसे सटे हुए हैं, कि अलग अलग
नहीं हो सकते ॥
- १८ फिर उसके छीकने से उजियाला चमक
उठता है,
और उसकी आखे भोर की पलकों
के समान हैं ॥
- १९ उसके मुह से जलते हुए पलीते
निकलते हैं,
और आग की चिनगारियां छूटती हैं ॥
- २० उसके नथुनों से ऐसा धुआं निकलता
है,
जंसा खौलती हुई हांडी और जलते
हुए नरकटों से ॥
- २१ उसकी सांस से कोयले सुलगते,
और उसके मुंह से आग की लौ
निकलती है ॥

* मूल में—तू स्मरण रख ।

† मूल में—कूर ।

‡ मूल में—सारे आकारा के तले ।

* मूल में—दुहरे बाग ।

† मूल में—उसके ढालों के नाले ।

- २२ उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है,
और उसके साम्हने डर नाचता रहता है * ॥
- २३ उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है,
और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता ॥
- २४ उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है,
वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है ॥
- २५ जब वह उठने लगता है, तब सामर्थी भी डर जाते हैं,
और डर के मारे उनकी सुध, बुध लोप हो जाती है ॥
- २६ यदि कोई उस पर तलवार चलाए,
तो उस से कुछ न बन पड़ेगा †, और न भाले और न बर्छी और न तीर से ॥
- २७ वह लोहे को पुञ्जाल सा,
और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है ॥
- २८ वह तीर ‡ से भगाया नहीं जाता,
गोफन के पत्थर उसके लिये भूसे से ठहरते हैं ॥
- २९ लाठिया भी भूसे के समान गिनी जाती है;
वह बर्छी के चलने पर हसता है ॥
- ३० उसके निचले भाग पँने ठीकरे के समान है,
कीच पर मानो वह हेगा फेरता है ॥
- ३१ वह गहिरें जल को हडे की नाई मथता है :

- उसके कारण नील नदी * मरहम की हाडी के समान होती है ॥
- ३२ वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है ।
गहिरा जल मानो श्वेत दिसाई देने लगता है ।
- ३३ धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है,
जो ऐसा निर्भय बनाया गया है ॥
- ३४ जो कुछ ऊँचा है, उसे वह ताकता ही रहता है,
वह सब घमण्डियों के ऊपर राजा है ॥

(अय्यूब का वचन)

- ४२ तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया;
- २ मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है,
और तेरी युक्तियों में से कोई एक नहीं सकती ।
- ३ तू कौन है जो ज्ञानरहित होकर युक्ति पर परदा डालता है † ?
परन्तु मैं ने तो जो नहीं समझता था वही कहा,
अर्थात् जो बाते मेरे लिये अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी जिनको मैं जानता भी नहीं था ॥
- ४ मैं निवेदन करता हूँ सुन, मैं कुछ कहूँगा,
मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे ।
- ५ मैं ने कानों से तेरा समाचार सुना था,

* मूल में—नाचती है ।

† मूल में—खड़ी न होगी ।

‡ मूल में—धनु के पुत्र ।

* मूल में—समुद्र ।

† मूल में—अन्धेरा कर देता है ।

परन्तु अब मेरी आखें तुम्हें देखती हैं,
६ इसलिये मुझे अपने ऊपर घृणा आती
है,
और मैं धूल और राख में पश्चात्ताप
करता हूँ ॥

(अय्यूब का घोर परीचा से बूटना)

७ और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये
बातें अय्यूब से कह चुका, तब उस ने
तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे
और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि
जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे
विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने
नहीं कही। ८ इसलिये अब तुम सात
बैल और सात भेड़ें छाटकर मेरे दास
अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त
होमबलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब
तुम्हारे लिये प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी
की मैं ग्रहण करूंगा; और नहीं, तो मैं
तुम से तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव
करूंगा, क्योंकि तुम लोगो ने मेरे विषय
मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं
कही। ९ यह सुन तेमानी एलीपज, शूही
बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा
की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा
ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की ॥

१० जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिये
मार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा
दुःख दूर किया *, और जितना अय्यूब

* मूल में—उसको बन्धुआई से लौटा दिया।

का पहिले था, उसका दुगना यहोवा ने
उसे दे दिया। ११ तब उसके सब भाई,
और सब बहिन, और जितने पहिले उसको
जानते पहिचानते थे, उन सभी ने आकर
उसके यहा उसके संग भोजन किया;
और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर
डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने निलाप
किया, और उसे शान्ति दी; और उसे
एक एक सिक्का और सोने की एक एक
बाली दी। १२ और यहोवा ने अय्यूब के
पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से
अधिक आशीष दी; और उसके चौदह
हजार भेड़ बकरिया, छः हजार ऊट,
हजार जोड़ी बैल, और हजार गदहियां
हो गईं। १३ और उसके सात बेटे और
तीन बेटिया भी उत्पन्न हुईं। १४ इन
में से उस ने जेठी बेटे का नाम तो यमीमा,
दूसरी का कसीआ और तीसरी का
केरेन्हप्पूक रखा। १५ और उस सारे देश
में ऐसी स्त्रिया कहीं न थी, जो अय्यूब
की बेटियों के समान सुन्दर हो, और
उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के
संग ही सम्पत्ति दी। १६ इसके बाद
अय्यूब एक सौ चालीस वर्ष जीवित रहा,
और चार पीढ़ी तक अपना वश * देखने
पाया। १७ निदान अय्यूब वृद्धावस्था में
दीर्घायु † होकर मर गया।

* मूल में—बेटे पोते।

† मूल में—पुरनिया और दिनों से वृष्ट।

भजन संहिता

पहिला भाग

- १ क्या ही घन्य है वह पुरुष जो
दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता,
और न पापियों के मार्ग में खड़ा
होता;
और न ठट्टा करनेवालों की मण्डली
में बैठा है !
- २ परन्तु वह तो यहोवा की व्यवस्था से
प्रसन्न रहता;
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन
ध्यान करता रहता है ।
- ३ वह उस वृक्ष के समान है, जो बहती
नालियों के किनारे लगाया गया
है ।
और अपनी ऋतु में फलता है,
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते
नहीं ।
इसलिये जो कुछ वह पुरुष करे वह
सफल होता है ॥
- ४ दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते,
वे उस भूसी के समान होते हैं, जो
पवन से उड़ाई जाती है ।
- ५ इस कारण दुष्ट लोग अदालत में
स्थिर न रह सकेंगे,
और न पापी धर्मियों की मण्डली में
ठहरेगे;
- ६ क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता
है,
परन्तु दुष्टों का मार्ग नाश हो
जाएगा ॥
- २ जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़
मचाते हैं,
और देश देश के लोग व्यर्थ बाते
क्यों सोच रहे हैं ?
- २ यहोवा के और उसके अभिषिक्त
के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर,
और हाकिम आपस में सम्मति करके
कहते हैं, कि
- ३ आओ, हम उनके बन्धन तोड़
डालें,
और उनकी रस्सियों को अपने
ऊपर से उतार फेंके ॥
- ४ वह जो स्वर्ग में विराजमान है,
हंसेगा;
प्रभु उनको ठट्टे में उड़ाएगा ।
- ५ तब वह उन से क्रोध करके बाते
करेगा,
और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा
देगा, कि
- ६ मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को
अपने पवित्र पर्वत सिन्धोन की
राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ ।
- ७ मैं उस वचन का प्रचार करूँगा :
जो यहोवा ने मुझ से कहा, तू मेरा
पुत्र है,
आज तू मुझ से उत्पन्न हुआ ।
- ८ मुझ से माग, और मैं जाति जाति
के लोगों को तेरी सम्पत्ति होने
के लिये,

और दूर दूर के देशों को तेरी निज
भूमि बनने के लिये दे दूंगा ।

६ तू उन्हें लोहे के डग्डे से टुकड़े
टुकड़े करेगा,
तू कुम्हार के बर्तन की नाईं उन्हें
चकना चूर कर डालेगा ॥

१० इसलिये अब, हे राजाओं, बुद्धिमान
बनो;
हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश
ग्रहण करो ।

११ डरते हुए यहोवा की उपासना करो,
और कांपते हुए मगन हो ।

१२ पुत्र को चूमो ऐसा न हो कि वह क्रोध
करे,
और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ;
क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध
भडकने को है ॥
धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है ॥

(दाऊद का भजन। जब वह अपने
पुत्र अबशाओम के साथ होने से
भागा जाता था)

३ हे यहोवा मेरे सतानेवाले कितने
बढ़ गए हैं !

वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं ।

२ बहुत से मेरे प्राण के विषय में
कहते हैं,

कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर
से नहीं हो सकता * । (बेन्सा)

३ परन्तु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों
ओर मेरी ढाल है,

तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का
ऊंचा करनेवाला है ।

४ मैं ऊँचे शब्द से यहोवा को पुकारता
हूँ,

* मूल में—परमेश्वर में नहीं ।

और वह अपने पवित्र पर्वत पर से
मुझे उत्तर देता है । (बेन्सा)

५ मैं लेटकर सो गया;
फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे
सम्हालता है ।

६ मैं उन दस हजार मनुष्यों से नहीं
डरता,
जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति
बान्धे खड़े हैं ॥

७ उठ, हे यहोवा ! हे मेरे परमेश्वर
मुझे बचा ले !

क्योंकि तू ने मेरे सब शत्रुओं के
जबड़ों पर मारा है
और तू ने दुष्टों के दांत तोड़
डाले हैं ॥

८ उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है;
हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा
पर हो ॥ (बेन्सा)

(प्रधान बजानेवाले के लिये। तारवाले
बाजों के साथ। दाऊद का
भजन)

४ हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं
पुकारू तब तू मुझे उत्तर दे;
जब मैं सकेती में पड़ा तब तू ने मुझे
विस्तार दिया ।

मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी
प्रार्थना सुन ले ॥

२ हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी
महिमा के बदले अनादर होता
रहेगा ?

तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति
रखोगे और झूठी युक्ति की खोज
में रहोगे ? (बेन्सा)

३ यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त
को अपने लिये अलग कर रखा है;

- जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मुन लेगा ॥
- ४ कांपते रहो और पाप मत करो; अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। (सेला)
- ५ धर्म के बलिदान चढ़ाओ, और यहोवा पर भरोसा रखो ॥
- ६ बहुत से हैं जो कहते हैं, कि कौन हम को कुछ भलाई दिखाएगा ? हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका ।
- ७ तू ने मेरे मन में उस से कहीं अधिक आनन्द भर दिया है, जो उनको अन्न और दालमधु की बढ़ती से होती थी ।
- ८ मैं शान्ति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा; क्योंकि, हे यहोवा, केवल तू ही मुझ को एकान्त में निश्चिन्त रहने देता है ॥
- (प्रधान बजानेवालों के क्षिमे। बाँध-लियों के साथ, दाऊद का भजन)
- ५ हे यहोवा, मेरे बचनों पर कान लगा; मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा ।
- २ हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हू ।
- ३ हे यहोवा, भोर को मेरी वारणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात जोहूंगा ।
- ४ क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो; बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती ।
- ५ घमडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे; तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है ।
- ६ तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है ।
- ७ परन्तु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मन्दिर की ओर दण्डवत् करूंगा ।
- ८ हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुआई कर; मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा ।
- ९ क्योंकि उनके मुह में कोई सच्चाई नहीं; उनके मन में निरी दुष्टता है । उनका गला खुली हुई क्रब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं ।
- १० हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा; वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए; उनको उनके अपराधों की अधिकारी के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने ने तुझ से बलवा किया है ॥
- ११ परन्तु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनन्द करें, वे सर्वदा ऊँचे स्वर से गाते रहें; क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो ।

१२ क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा;
हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रहरूपी ढाल से घेरे रहेगा ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये। तारवाले बाजों के साथ। खजं में, दाऊद का भजन)

हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डाल,

और न झुंझलाहट में मुझे ताडना दे ।

२ हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ,
हे यहोवा, मुझे चगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है ।

३ मेरा प्राण भी बहुत खेदित है ।

और तू, हे यहोवा, कब तक ?

४ लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा
अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर ।

५ क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता,
अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा ?

६ मैं कराहते कराहते थक गया,
मैं अपनी खाट आसुओं से भिगोता हूँ;
प्रति रात मेरा बिछीना भीगता है ।

७ मेरी आँखें शोक से बँठी जाती हैं,
और मेरे सब सतानेवालों के कारण वे धुन्धला गई हैं ॥

८ हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो;
क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है ।

९ यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है;
यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा ।

१० मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे;
वे लौट जाएंगे, और एकाएक लज्जित होंगे ॥

(दाऊद का शिश्मायोन नाम भजन जो उस ने विन्यासीनी कूश की बातों के कारण यज्ञोवा के सान्धने गाया)

हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है,
सब पीछा करनेवालों से मुझे बचा और छुटकारा दे,

२ ऐसा न हो कि वे मुझ को सिंह की नाई फाडकर टुकड़े टुकड़े कर डाले,
और कोई मेरा छुड़ानेवाला न हो ॥

३ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैं ने यह किया हो,
यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो,

४ यदि मैं ने अपने मेल रखनेवालों से भलाई के बदले बुराई की हो,
(वरन मैं ने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है)

५ तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े,
वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे,
और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे ॥ (संज्ञा)

६ हे यहोवा क्रोध करके उठ;
मेरे क्रोधभरे सतानेवाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा;
मेरे लिये जाग ! तू ने न्याय की आज्ञा तो दे दी है ।

- ७ देश देश के लोगों की मण्डली तेरे चारों ओर हो;
और तू उनके ऊपर से होकर ऊचे स्थानों पर लीट जा ।
- ८ यहोवा समाज समाज का न्याय करता है;
यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे ॥
- ९ भला हो कि दुष्टों की बुराई का अन्त हो जाए, परन्तु धर्म को तू स्थिर कर;
क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है ।
- १० मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है,
वह सीधे मनवालों को बचाता है ॥
- ११ परमेश्वर धर्मी और न्यायी है,
वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रति दिन क्रोध करता है ॥
- १२ यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढाएगा;
वह अपना धनुष चढाकर तीर सन्धान चुका है ।
- १३ और उस मनुष्य के लिये उस ने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं :
वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है ।
- १४ देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीडाए हो रही है,
उसको उत्पात का गर्भ है, और उस से भूठ उत्पन्न हुआ ।
उस ने गड़हा खोदकर उसे गहिरा किया,
- १५ और जो खाई उस ने बनाई थी उस में वह आप ही गिरा ।
- १६ उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा;
और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा ॥
- १७ मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा,
और परमप्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा ॥
- (प्रधान बच्चानेवालों के लिये। गिन्नीत की राज पर दाऊद का भजन)
- ८ हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है !
तू ने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है ।
२ तू ने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिउवों के द्वारा * सामर्थ्य की नेव डाली है,
ताकि तू शत्रु और पलटा लेनेवालों को रोक रखे ।
३ जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों † का कार्य है,
और चद्रमा और तारागण को जो तू ने नियुक्त किए हैं, देखता हू;
४ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे,
और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले ?
५ क्योंकि तू ने उसको परमेश्वर ‡ से थोड़ा ही कम बनाया है,
और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है ।

* मूल में—सुँह से ।

† मूल में—अंगुलियों ।

‡ वा स्वर्गदूतों से ।

- ६ तू ने उसे अपने हाथों के कायों पर प्रभुता दी है;
तू ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है ।
- ७ सब भेड़-बकरी और गाय-बैल और जितने वनपशु हैं,
८ आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां,
और जितने जीव-जन्तु समुद्रों में चलते फिरते हैं ।
- ९ हे यहोवा, हे हमारे प्रभु,
तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है ॥
- १ प्रधान बजानेवाले के लिये सुतसबैधन की राज पर दाऊद का भजन)
- ६ हे यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा;
मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा ।
- २ मैं तेरे कारण आनन्दित और प्रफुल्लित होऊंगा,
हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा ॥
- ३ जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं,
तो वे तेरे साम्हने से ठोकर खाकर नाश होते हैं ।
- ४ क्योंकि तू ने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है;
तू ने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया ।
- ५ तू ने अन्यायियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है;
तू ने उसका नाम अनन्तकाल के लिये मिटा दिया है ।
- ६ शत्रु जो हैं, वह मर गए, वे अनन्तकाल के लिये उजड़ गए हैं;
और जिन नगरो को तू ने ढा दिया,
उनका नाम वा निशान भी मिट गया है ॥
- ७ परन्तु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है,
उस ने अपना सिंहासन न्याय के लिये सिद्ध किया है;
८ और वह आप ही जगत का न्याय धर्म में करेगा,
वह देश देश के लोगों का मुकद्दमा खराई के निपट्राएगा ॥
- ९ यहोवा पिसे हुश्रों के लिये ऊंचा गढ़ ठहरेगा,
वह संकट के समय के लिये भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा ।
- १० और तेरे नाम के जाननेवाले तुझ पर भरोसा रखेंगे,
क्योंकि हे यहोवा तू ने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया ॥
- ११ यहोवा जो सिंघ्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ !
जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो ।
- १२ क्योंकि खून का पलटा लेनेवाला उनको स्मरण करता है;
वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता ॥
- १३ हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर ।
तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है,
मेरे दुःख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं,

१४ ताकि मैं सिव्योन * के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूँ, और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊँ ॥

१५ अन्य जातिवालों ने जो गडहा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े; जो जाल उन्हो ने लगाया था, उस में उन्ही का पाव फस गया ।

१६ यहोवा ने अपने को प्रगट किया, उस ने न्याय किया है; दुष्ट अपने किए हुए कामो में फस जाता है ॥

(चिन्मायोन, बेन्सा)

१७ दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं ।

१८ क्योंकि दरिद्र लोग अनन्तकाल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिये नाश होगी ।

१९ उठ, हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए !

जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए ।

२० हे परमेश्वर, उनको भय दिला । जातियां अपने को मनुष्यमात्र ही जानें । (बेन्सा)

१० हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है ?

संकट के समय में क्यों छिपा रहता है ?

२ दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं;

वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं ॥

३ क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर धमण्ड करता है, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है ॥

४ दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं ॥

५ वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है;

तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं, कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती, जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है ।

६ वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं :

मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुःख से बचा रहूंगा ॥

७ उसका मुह शाप और छल और अन्धेर से भरा है;

उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं ।

८ वह गांवों के घातों में बैठा करता है, और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है, उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं ।

९ जैसा सिंह अपनी भाड़ी में बैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है; वह दीन को पकड़ने के लिये घात लगाए रहता है,

* मूल में—सिव्योन की पुत्री ।

- वह दीन को अपने जाल में फसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है ।
- १० वह भ्रुक जाता है और वह दबक कर बैठता है ;
और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं ।
- ११ वह अपने मन में सोचता है, कि ईश्वर भूल गया,
वह अपना मुह छिपाता * है ; वह कभी नहीं देखेगा ॥
- १२ उठ, हे यहोवा ; हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा ; और दीनों को न भूल ।
- १३ परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है, और अपने मन में कहता है कि तू लेखा न लेगा ?
- १४ तू ने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और कलपाने पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे † ;
लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है ;
अनाथों का तू ही सहायक रहा है ।
दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल,
- १५ और दुर्जन की दुष्टता को बूढ़ बूढ़ कर निकाल जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए ।
- १६ यहोवा अनन्तकाल के लिये महाराज है ;
उसके देश में से अन्यायजाति लोग नाश हो गए हैं ॥
- १७ हे यहोवा, तू ने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है ;

तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा

- १८ कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे,
ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये) हाजद का भजन)

- ११ मेरा भरोसा परमेश्वर पर है ;
तुम क्योंकि मेरे प्राण से कहते हो

कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा ?

- २ क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं,
और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं,
कि सीधे मनवालों पर अन्धियारे में तीर चलाए ।

- ३ 'यदि नेवें ढा दी जाए
तो धर्मी क्या कर सकता है ?

- ४ परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है ;
परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है ;

उसकी आंखें मनुष्य की सन्तान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं ।

- ५ यहोवा धर्मी को परखता है,
परन्तु वह उन से जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है ।

- ६ वह दुष्टों पर फन्दे बरसाएगा ;
भाग और गन्धक और प्रचण्ड लूह उनके कटोरों में बांट दी जाएगी ।

* मूल में—छिपाया ।

† मूल में—उसे अपने हाथ में रखे ।

७ क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है; धर्मीजन उसका दर्शन पाएंगे ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये चर्चों को राज में दाखल का भजन)

१२ हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वासयोग्य लोग मर मिटे हैं ।

२ उन में से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है; वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं ॥

३ प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिस से बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा ।

४ वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से * जीतेगे, हमारे ओठ हमारे ही वश में हैं; हमारा प्रभु कौन है ?

५ दीन लोगों के लुट जाने, और दरिद्रों के कराहने के कारण, परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा † ।

६ परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चान्दी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई, और सात बार निर्मल की गई हो ॥

७ तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिये बचाए रखेगा ।

* मूल में—अपनी जीभ के द्वारा ।

† या जिस पर लोग फुंकारते हैं उसको मैं अभय दान दूंगा ।

८ जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर प्रकड़ते फिरते हैं ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये दाखल का भजन)

१३ हे परमेश्वर तू कब तक ? क्या सदैव मुझे भूला रहेगा ?

तू कब तक अपना मुखड़ा मुझ से छिपाए रहेगा ?

२ मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूँ, और दिन भर अपने हृदय में दुःखित रहा करूँ, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा ?

३ हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी;

४ ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, कि मैं उस पर प्रबल हो गया; और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगू तो मेरे शत्रु मगन हों ॥

५ परन्तु मैं ने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है; मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा ।

६ मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उस ने मेरी भलाई की है ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये दाखल का भजन)

१४ मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं ।

वे बिगड़ गए, उन्होंने नें घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्म नहीं ।

- २ परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर
दृष्टि की है,
कि देखे कि कोई बुद्धिमान,
कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं ।
- ३ वे सब के सब भटक गए, वे सब
अष्ट हो गए;
कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं ।
- ४ क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी
ज्ञान नहीं रहता,
जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते
हैं जैसे रोटी,
और परमेश्वर का नाम नहीं लेते ?
- ५ वहां उन पर भय छा गया,
क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच
-में निरन्तर रहता है ।
- ६ तुम तो दीन की युक्ति की हंसी
उड़ाते हो
इसलिये कि यहोवा उसका शरणा-
स्थान है ।
- ७ भला हो कि इस्राएल का उद्धार
सिय्योन से प्रगत होता !
जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व
से लौटा ले आएगा,
तब याकूब मगन और इस्राएल
आनन्दित होगा ॥

(दाऊद का भजन)

- १५ हे परमेश्वर तेरे तम्बू में कौन
रहेगा ?
तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने
पाएगा ?
- २ वह जो खराई से चलता और धर्म के
काम करता है,
और हृदय से सच बोलता है;
३ जो अपनी जीभ से निन्दा नहीं करता,
और न अपने मित्र की बुराई करता,

- और न अपने पड़ोसी की निन्दा
सुनता है;
४ वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य
तुच्छ है,
और जो यहोवा के डरवैयो का
आदर करता है,
जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे
हानि उठाना पड़े,
५ जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता,
और निर्दोष की हानि करने के लिये
धूस नहीं लेता है ।
जो कोई ऐसी चाल चलता है वह
कभी न डंगमगाएगा ॥

(दाऊद का भिक्काम)

- १६ हे ईश्वर मेरी रक्षा कर,
क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत
हूँ ।
मैं ने परमेश्वर से कहा है, कि तू
ही मेरा प्रभु है;
तेरे सिवाए मेरी भलाई कही नहीं ।
- २ पृथ्वी पर जो पवित्र लोग है,
वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं
से मैं प्रसन्न रहता हूँ ।
- ३ जो पराए देवता के पीछे भागते हैं
उनका दुःख बढ़ जाएगा;
मैं उनके लोहवाले तपावन नहीं
तपाऊंगा
और उनका नाम अपने ओठों से
नहीं लूंगा * ॥
- ४ यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे
का हिस्सा है;
मेरे बांट को तू स्थिर रखता है ।
- ५ मेरे लिये माप की डोरी मनभावने
स्थान में पड़ी,

* मूल में—अपने ओठों पर नहीं लेने का ।

- और मेरा भाग मनभावना है ॥
 ६ मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि
 उस ने मुझे सम्मति दी है;
 वरन मेरा मन भी रात में मुझे
 शिक्षा देता है ।
 ७ मैं ने यहोवा को निरन्तर अपने
 सम्मुख रखा है * ·
 इसलिये कि वह मेरे दहिने हाथ
 रहता है मैं कभी न डगमगाऊंगा ॥
 ८ इस कारण मेरा हृदय आनन्दित
 और मेरी आत्मा † मगन हुई,
 मेरा शरीर भी चैन से रहेगा ।
 ९ क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक
 में न छोड़ेगा,
 न अपने पवित्र भक्त को सडने
 देगा ॥
 १० तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा,
 तेरे निकट आनन्द की भरपूरी है,
 तेरे दहिने हाथ में सुख सर्वदा बना
 रहता है ॥

(दाऊद औ प्रार्थना)

- १७ हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई
 के वचन सुन, मेरी पुकार
 की ओर ध्यान दे ।
 मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट
 मुह से निकलती है कान लगा ।
 २ मेरे मुकद्दमे का निराय तेरे सम्मुख
 हो ।
 तेरी आखे न्याय पर लगी रहें ।
 ३ तू ने मेरे हृदय को जांचा है, तू ने
 रात को मेरी देखभाल की,
 तू ने मुझे परखा परन्तु कुछ भी
 खोटापन नहीं पाया,

* मूल में—रखता ।

† मूल में—महिमा ।

- मैं ने ठान लिया है कि मेरे मुह से
 अपराध की बात नहीं निकलेगी ।
 ४ मानबी कामों में—मैं तेरे मुह के
 वचन के द्वारा
 क्रूरों की भी चाल से अपने को
 बचाए रहा ।
 ५ मेरे पाव तेरे पथों में स्थिर रहे,
 फिसले नहीं ॥
 ६ हे ईश्वर, मैं ने तुझ से प्रार्थना की
 है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा ।
 अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी
 बिनती सुन ले ।
 ७ तू जो अपने दहिने हाथ के द्वारा अपने
 शरणागतों को उनके विरोधियों से
 बचाता है,
 अपनी अद्भुत करुणा दिखा ।
 ८ अपने पक्षों की पुतली की नाई सुरक्षित
 रख,
 अपने पक्षों के तले मुझे छिपा रख,
 ९ उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार
 करते हैं,
 मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे
 घेरे हुए हैं ॥
 १० उन्होंने ने अपने हृदयों को कठोर
 किया है;
 उनके मुह से घमड की बातें निकलती
 हैं ।
 ११ उन्हो ने पग पग पर हमको घेरा है;
 वे हमको भूमि पर पटक देने के
 लिये घात लगाए हुए हैं ।
 १२ वह उस सिंह की नाई है जो अपने
 शिकार की लालसा करता है,
 और जवान सिंह की नाई घात लगाने
 के स्थानों में बैठा रहता है ॥
 १३ उठ, हे यहोवा !
 उसका सामना कर और उसे पटक दे !

- अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले ।
- १४ अपना हाथ बढाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा,
अर्थात् संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है,
और जिनका पेट तू अपने भण्डार से भरता है ।
वे बालबच्चों से सन्तुष्ट हैं;
और शेष सम्पत्ति अपने बच्चों के लिये छोड़ जाते हैं ॥
- १५ परन्तु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा
जब मैं जागूँगा तब तेरे स्वरूप में सन्तुष्ट हूँगा ॥
- (प्रधान बजानेवाले के लिये। यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके बचन उस ने यहोवा के लिये उस समय गायें जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से, और शत्रुओं के हाथ से बचाया था, उस ने कहाः)
- १८ हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझ से प्रेम करता हूँ ।
- २ यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ानेवाला है;
मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ,
वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग, और मेरा ऊँचा गढ़ है ।
- ३ मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूँगा;
इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊँगा ॥
- ४ मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ,

- और अधर्म की बाढ ने मुझ को भयभीत कर दिया,
- ५ पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी,
-और मृत्यु के फन्दे मुझ पर आए थे ।
- ६ अपने सकट में मैं ने यहोवा परमेश्वर को पुकारा,
मैं ने अपने परमेश्वर की दोहाई दी ।
और उस ने अपने मन्दिर में से मेरी बातें सुनी ।
और मेरी दोहाई उसके पास पहुँचकर उसके कानों में पड़ी ॥
- ७ तब पृथ्वी हिल गई, और कांप उठी और पहाड़ों की नेवें कंपित होकर हिल गई क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था ।
- ८ उसके नथनों से धुआँ निकला,
और उसके मुँह से आग निकलकर भस्म करने लगी,
जिस से कोएले दहक उठे ।
- ९ और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया,
और उसके पाँवों तले घोर अन्धकार था ।
- १० और वह कलब पर सवार होकर उडा,
वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उडा ।
- ११ उस ने अन्धियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के * अन्धकार और आकाश की काली घटाओं का मण्डप बनाया ।

* मूल में—जलो का ।

- १२ उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी
काली घटाएं फट गईं;
झोले और भंगारे ।
- १३ तब यहोवा आकाश में गरजा,
और परमप्रधान ने अपनी वाणी
सुनाई,
झोले और भंगारे ॥
- १४ उस ने अपने तीर चला चलाकर
उनको तितर बितर किया;
वरन बिजलियां गिरा गिराकर उनको
परास्त किया ।
- १५ तब जल के नाले देख पड़े,
और जगत की नेबे प्रगट हुईं,
यह तो हे यहोवा तेरी डांट से,
और तेरे नयनों की सांस की भोंक
से हुआ ॥
- १६ उस ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे
धांभ लिया,
और गहिरे जल में से खींच लिया ।
- १७ उस ने मेरे बलवन्त शत्रु से,
और उन से जो मुझ से घृणा करते थे
मुझे छुड़ाया; क्योंकि वे अधिक
सामर्थी थे ।
- १८ मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर
आ पड़े ।
परन्तु यहोवा मेरा आश्रय था ।
- १९ और उस ने मुझे निकालकर चौड़े
स्थान में पहुँचाया,
उस ने मुझ को छुड़ाया, क्योंकि वह
मुझ से प्रसन्न था ।
- २० यहोवा ने मुझ से मेरे धर्म के अनुसार
व्यवहार किया;
और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार
उस ने मुझे बदला दिया ।
- २१ क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता
रहा,
- और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर
से दूर न हुआ ।
- २२ क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख
बने रहे
और मैं ने उसकी विधियों को न
त्यागा ।
- २३ और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा,
और अधर्म से * अपने को बचाए
रहा ।
- २४ यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार
बदला दिया,
और मेरे हाथों की उस शुद्धता के
अनुसार जिसे वह देखता था ॥
- २५ दयावन्त के साथ तू अपने को दयावन्त
दिखाता;
और खरे पुरुष के साथ तू अपने को
खरा दिखाता है ।
- २६ शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध
दिखाता,
और टेढ़े के साथ तू तिर्छा बनता
है ।
- २७ क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता
है;
परन्तु घमण्ड भरी आंखों को नीची
करता है ।
- २८ हां, तू ही मेरे दीपक को जलाता है;
मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अन्धियारे
को उजियाला कर देता है ।
- २९ क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर
घावा करता हूँ;
और अपने परमेश्वर की सहायता
से शहरपनाह को लांच जाता हूँ ।
- ३० ईश्वर का मार्ग सच्चाई;
यहोवा का बचन ताया हुआ है;

* मूल में—अपने अधर्म से ।

- बहु अपने सब शरणागतों की ढाल है ॥
- ३१ यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है ?
हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है ?
- ३२ यह वही ईश्वर है, जो सामर्थ से
मेरा कटिबन्ध बान्धता है,
और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है ।
- ३३ वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों
के समान बनाता है,
और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा
करता है ।
- ३४ वह मेरे हाथों को युद्ध करना
सिखाता है,
इसलिये मेरी बाहों से पीतल का
घनुष झुक जाता है ।
- ३५ तू ने मुझे को अपने बचाव की
ढाल दी है,
तू अपने दहिने हाथ से मुझे सम्भाले
हुए है,
और तेरी नम्रता ने महत्व दिया
है ।
- ३६ तू ने मेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा
कर दिया,
और मेरे पैर नहीं फिसले ।
- ३७ मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके
उन्हें पकड़ लूंगा;
और जब तक उनका अन्त न करू
तब तक न लौटूंगा ।
- ३८ मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ न
सकेंगे;
वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे ।
- ३९ क्योंकि तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर
में शक्ति का पटुका बान्धा है;
और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख
नीचा कर दिया ।
- ४० तू ने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी और
फेर दी,
ताकि मैं उनको काट डालू जो मुझ
से द्वेष रखते हैं ।
- ४१ -उन्होंने ने दोहाई तो दी परन्तु उन्हें
कोई भी बचानेवाला न मिला,
उन्होंने ने यहोवा की भी दोहाई दी,
परन्तु उस ने भी उनको उत्तर न
दिया ।
- ४२ तब मैं ने उनको कूट कूटकर पवन
से उड़ाई हुई धूल के समान कर
दिया,
मैं ने उनको गली कूचों की कीचड़
के समान निकाल फेंका ॥
- ४३ तू ने मुझे प्रजा के भगडों से भी
छुड़ाया;
तू ने मुझे अग्र्यजातियों का प्रधान
बनाया है;
जिन लोगों को मैं जानता भी न था
वे मेरे अधीन हो गये ।
- ४४ मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा
का पालन-करेंगे;
परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे * ।
- ४५ परदेशी मुर्झा जाएंगे,
और अपने किलों में से थरथराते
हुए निकलेगे ॥
- ४६ यहोवा परमेश्वर जीवित है; मेरी
चट्टान धन्य है,
और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की
बड़ाई हो ।
- ४७ धन्य है मेरा पलटा लेनेवाला
ईश्वर !
जिस ने देश देश के लोगों को मेरे
वश में कर दिया है;

* मूल में—परदेशी के लड़के मुझ से भूठ
बोलेंगे ।

४८ और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है,
तू मुझ को मेरे विरोधियों से ऊंचा
करता,

और उपद्रवी पुरुष से बचाता है ॥

४९ इस कारण मैं जाति जाति के साम्हने
तेरा धन्यवाद करूंगा,

और तेरे नाम का भजन गाऊंगा ।

५० वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा
उद्धार करता है,

वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और
उसके वंश पर युगानुयुग करूणा
करता रहेगा ॥

(प्रधान बलानेबाबे के ज़िबे दाऊद
का भजन)

१६ आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन
कर रहा है;

और आकाशमण्डल उसकी हस्तकला
को प्रगट कर रहा है ।

२ दिन से दिन बाते करता है,

और रात को रात ज्ञान सिखाती है ।

३ न तो कोई बोली है और न कोई
भाषा जहां

उनका शब्द सुनाई नहीं देता है ।

४ उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज
गया है,

और उनके वचन जगत की छोर तक
पहुंच गए हैं ।

उन में उस ने सूर्य के लिये एक
मण्डप खड़ा किया है,

५ जो दुल्हे के समान अपने महल से
निकलता है ।

वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़
दौड़ने को हर्षित होता है ।

६ वह आकाश की एक छोर से निकलता
है,

और वह उसकी दूसरी छोर तक
चक्कर मारता है;

और उसकी गर्मी सबको पहुंचती
है ॥

७ यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण
को बहाल कर देती है;

यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हैं,
साधारण लोगों को बुद्धिमान बना
देते हैं,

८ यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को
आनन्दित कर देते हैं;
यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों
में ज्योति ले आती है;

९ यहोवा का भय पवित्र है, वह अनन्त-
काल तक स्थिर रहता है;
यहोवा के नियम सत्य और पूरी
रीति से धर्ममय हैं ।

१० वे तो सोने से और बहुत कुन्दन से
भी बढ़कर मनोहर हैं;

वे मधु से और टपकनेवाले छत्ते से
भी बढ़कर मधुर हैं ।

११ और उन्हीं से तेरा दास चिताया
जाता है;

उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल
मिलता है ।

१२ अपनी भूलचूक को कौन समझ सकता
है ?

मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र
कर ।

१३ तू अपने दास को ढिंढाई * के पापों से
भी बचाए रख;

वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए !
तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा,

और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा ॥

* वा ढीठों ।

१४ मेरे मुंह के बचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करनेवाले !

(प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद का भजन)

२० संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले !

याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे !

२ वह पवित्रस्थान से तेरी सहायता करे, और सियोन से तुझे सम्भाल ले !

३ वह तेरे सब अन्नबलियों को स्मरण करे,

और तेरे होमबलि को ग्रहण करे * ।
(बेछा)

४ वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, और तेरी सारी युक्ति को सुफल करे !

५ तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे, और अपने परमेश्वर के नाम से झण्डे खड़े करेंगे ।

यहोवा तुझे मुह मांगा वरदान दे !

६ अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है;

वह अपने दहिने हाथ के उद्धार करनेवाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा ।

७ किसी को रथों का, और किसी को घोड़ों का भरोसा है,

परन्तु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे ।

• ८ वे तो झुक गए और गिर पड़े :

* मूल में—चिकनाई जानकर ग्रहण करे ।

परन्तु हम उठे और सीधे खड़े हैं ॥

९ हे यहोवा, बचा ले;

जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद का भजन)

२१ हे यहोवा तेरी सामर्थ्य से राजा आनन्दित होगा;

और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा ।

२ तू ने उसके मनोरथ को पूरा किया है, और उसके मुह की बिनती को तू ने अस्वीकार नहीं किया । (बेछा)

३ क्योंकि तू उत्तम आशीषे देता हुआ उस से मिलता है

और तू उसके सिर पर कुन्दन का मुकुट पहिनाता है ।

४ उस ने तुझ से जीवन मांगा, और तू ने जीवनदान दिया;

तू ने उसको युगानयुग का जीवन दिया है ।

५ तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है;

तू उसको विभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है ।

६ क्योंकि तू ने उसको सर्वदा के लिये आशीषित किया है;

तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनन्द से भर देता है ।

७ क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है;

और परमप्रधान की कृपा से वह कभी नहीं टलने का ॥

८ तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को बूढ़ निकालेगा,

- तेरा दहिना हाथ तेरे सब बैरियों
का पता लगा लेगा ।
- ६ तू अपने मुख के सम्मुख उन्हे जलते
हुए भट्टे की नाई जलाएगा * ।
यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल
जाएगा,
और आग उनको भस्म कर डालेगी ।
- १० तू उनके फलों को पृथ्वी पर से,
और उनके वंश को मनुष्यों में से
नष्ट करेगा ।
- ११ क्योंकि उन्होंने ने तेरी हानि ठानी है,
उन्होंने ने ऐसी युक्ति निकाली है
जिसे वे पूरी न कर सकेंगे ।
- १२ क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध
चढ़ाएगा,
और वे पीठ दिखाकर भागेगे ॥
- १३ हे यहोवा, अपनी सामर्थ्य में महान्
हो !
और हम गा गाकर तेरे पराक्रम का
भजन सुनाएंगे ॥
- (प्रधान बजानेवाले के छिंदे
अग्नेयोरश्मर † में दाऊद का
भजन)
- २२ हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर,
तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया ?
तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता
करने से क्यों दूर रहता है ? मेरा
उद्धार कहा ‡ है ?
- २ हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता
हूँ परन्तु तू उत्तर नहीं देता,
और रात को भी मैं चुप नहीं रहता ।
- ३ परन्तु हे तू जो इस्त्राएल की स्तुति
के सिंहासन पर विराजमान है,
तू तो पवित्र है ।
- ४ हमारे पुरखा तुम्हीं पर भरोसा रखते
थे ;
वे भरोसा रखते थे, और तू उन्हें
छुड़ाता था ।
- ५ उन्होंने ने तेरी दोहाई दी और तू ने
उनको छुड़ाया
वे तुम्हीं पर भरोसा रखते थे और
कभी लज्जित न हुए ॥
- ६ परन्तु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं ;
मनुष्यों में मेरी नामधराई है, और
लोगों में मेरा अपमान होता है ।
- ७ वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा
ठट्टा करते हैं,
और ओठ बिचकाते और यह कहते
हुए सिर हिलाते हैं,
८ कि अपने को यहोवा के वंश में कर
दे वही उसको छुड़ाए,
वह उसको उबारे क्योंकि वह उस से
प्रसन्न है ।
- ९ परन्तु तू ही ने मुझे गर्भ में निकाला ;
जब मैं दूधपिउवा बच्चा था, तब
ही से तू ने मुझे भरोसा रखना
सिखलाया * ।
- १० मैं जन्मते ही तुम्हीं पर छोड़ दिया
गया,
माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है ।
- ११ मुझ से दूर न हो क्योंकि निकट
निकट है,
और कोई सहायक नहीं ।
- १२ बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया
है,

* मूल में—रक्खेगा ।

† अर्थात् भोरवाली इरिषी ।

‡ मूल में—मेरे गोहराने का वचन मेरे
उद्धार से दूर है ।

* मूल में—भरोसा दिया ।

- बाशान के बलवन्त सांड़ मेरे चारों
 ओर मुझे घेरे हुए हैं ।
- १३ वह फाड़ने और गरजनेवाले सिंह की
 नाईं
 मुझ पर अपना मुह पसारे हुए हैं ॥
- १४ मैं जल की नाईं बह गया,
 और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़
 गए :
 मेरा हृदय मोम हो गया,
 वह मेरी देह के भीतर पिघल गया ।
- १५ मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो
 गया;
 और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक
 गई;
 और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला
 देता है ।
- १६ क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है;
 कुकर्मियों की मण्डली मेरी चारों
 ओर मुझे घेरे हुए हैं;
 वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं ।
- १७ मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हू;
 वे मुझे देखते और निहारते हैं;
- १८ वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं,
 और मेरे पहिराबे पर चिट्ठी डालते
 हैं ॥
- १९ परन्तु हे यहोवा तू दूर न रह !
 हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के
 लिये फूर्ति कर !
- २० मेरे प्राण को तलवार से बचा,
 मेरे प्राण को * कुत्ते के पजे से बचा
 ले !
- २१ मुझे सिंह के मुह से बचा,
 हा, जंगली साडों के सीगों में से तू ने
 मुझे बचा लिया है ॥
- २२ मैं अपने भाइयों के साम्हने तेरे नाम
 का प्रचार करूंगा;
 सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा ।
- २३ हे यहोवा के डरवैयो उसकी स्तुति
 करो !
 हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी
 महिमा करो !
 और हे इस्राएल के वंश, तुम उसका
 भय मानो !
- २४ क्योंकि उस ने दुःखी को तुच्छ नहीं
 जाना और न उस से धृणा करता
 है,
 और न उस से अपना मुख छिपाता
 है;
 पर जब उस ने उसकी दोहाई दी,
 तब उसकी सुन ली ॥
- २५ बडी सभा में मेरा स्तुति करना
 तेरी ही ओर से होता है;
 मैं अपने प्राण को उस से भय
 रखनेवालों के साम्हने पूरा करूंगा
- २६ नअ लोग भोजन करके तृप्त होंगे;
 जो यहोवा के खोजी हैं, वे उसकी
 स्तुति करेंगे ।
 तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे !
- २७ पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग
 उसको स्मरण करेंगे और उसकी
 ओर फिरेंगे;
 और जाति जाति के सब कुल तेरे
 साम्हने दण्डवत् करेंगे ।
- २८ क्योंकि राज्य यहोवा ही का है,
 और सब जातियों पर वही प्रभुता
 करता है ॥
- २९ पृथ्वी के सब हूष्टपुष्ट लोग भोजन
 करके दण्डवत् करेंगे;
 वह सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं
 और अपना अपना प्राण नहीं बचा

* मूल में—मेरी एकली को ।

सकते, वे सब उसी के साम्हने
घुटने टेकेगे ।

- ३० एक बश उसकी सेवा करेगा;
दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया
जाएगा ।
- ३१ वह आएंगे और उसके धर्म के
कामों को एक बश पर जो उत्पन्न
होगा यह कहकर प्रगट करेगे कि
उस ने ऐसे ऐसे अद्भुत काम
किए ॥

(दाऊद का भजन)

- २३ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे
कुछ घटी न होगी ।
- २ वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता
है;
वह मुझे सुखदाई जल के भरने के
पास ले चलता है;
- ३ वह मेरे जी में जी ले आता है ।
धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के
निमित्त मेरी अगुवाई करता
है ।
- ४ चाहे मैं घोर अन्धकार से भरी हुई
तराई में होकर चलू,
तीभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि
तू मेरे साथ रहता है;
तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे
शान्ति मिलती है ॥
- ५ तू मेरे सतानेवालों के साम्हने मेरे
लिये मेज बिछाता है;
तू ने मेरे सिर पर तेल मला है,
मेरा कटोरा उमगड़ रहा है ।
- ६ निश्चय भलाई और करुणा जीवन
भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी;
और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा
बास करूंगा ॥

(दाऊद का भजन)

- २४ पृथ्वी और जो कुछ उस में है
यहोवा ही का है;
जगत और उस में निवास करनेवाले
भी ।
- २ क्योंकि उसी ने उसकी नीव समुद्रों
के ऊपर दृढ़ करके रखी,
और महानदों के ऊपर स्थिर किया
है ॥
- ३ यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता
है ?
और उसके पवित्रस्थान में कौन खड़ा
हो सकता है ?
- ४ जिसके काम * निर्दोष और हृदय
शुद्ध है,
जिस ने अपने मन को व्यर्थ बात की
और नहीं लगाया,
और न कपट से शपथ खाई है ।
- ५ वह यहोवा की ओर से आशीष
पाएगा,
और अपने उद्धार करनेवाले परमेश्वर
की ओर से धर्मी ठहरेगा ।
- ६ ऐसे ही लोग उसके खोजी है,
वे तेरे दर्शन के खोजी याकूबवंशी
हैं ॥ (बेञ्जा)
- ७ हे फाटकी, अपने सिर ऊंचे करो † !
हे सनातन के द्वारो, ऊंचे हो जाओ ‡ !
क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा ।
- ८ वह प्रतापी राजा कौन है ?
परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी
है,
परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है !
- ९ हे फाटकी, अपने सिर ऊंचे करो †

* मूल में—के हाथे ।

† मूल में—अपने सिर उठाओ ।

‡ मूल में—अपने को उठाओ ।

हे सनातन के द्वारो तुम भी खुल जाओ * !
 क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा !
 १० वह प्रतापी राजा कौन है ?
 सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है ॥ (बेखा)

(राजद का भजन)

२५ हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ ।
 २ हे मेरे परमेश्वर, मैं ने तुम्ही पर भरोसा रखा है,
 मुझे लज्जित होने न दे;
 मेरे शत्रु मुझ पर जयजयकार करने न पाएँ ।
 ३ धरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उन में से कोई लज्जित न होगा;
 परन्तु जो अकारण विस्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे ॥
 ४ हे यहोवा अपने मार्ग मुझ को दिखला;
 अपना पथ मुझे बता दे ।
 ५ मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे,
 क्योंकि तू मेरा उद्धार करनेवाला परमेश्वर है;
 मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ ।
 ६ हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर;
 क्योंकि वे तो अनन्तकाल से होते आए हैं ।
 ७ हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर;

* मूल में—अपने को उठाओ ।

अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर ॥

८ यहोवा भला और सीधा है;
 इसलिये वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा ।

९ वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा,

हां वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा ।

१० जो यहोवा की वाचा और चित्तीनियों को मानते हैं,
 उनके लिये उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं ॥

११ हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर ॥

१२ वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है ?

यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिस से वह प्रसन्न होता है चलाएगा ।

१३ वह कुशल से टिका रहेगा,
 और उसका वश पृथ्वी का अधिकारी होगा ।

१४ यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उस से डरते हैं,
 और वह अपनी वाचा उन पर प्रगट करेगा ।

१५ मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं,
 क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल में से छुड़ाएगा ॥

१६ हे यहोवा मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर;
 क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ ।

१७ मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है,
 तू मुझ को मेरे दुःखों से छुड़ा ले ।

- १८ तू मेरे दुःख और कष्ट पर दृष्टि
कर,
और मेरे सब पापों को क्षमा कर ॥
१९ मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़
गए हैं,
और मुझ से बड़ा बैर रखते हैं ।
२० मेरे प्राण की रक्षा कर, और मुझे
छुड़ा;
मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं
तेरा शरणागत हूँ ।
२१ खराई और सीघाई मुझे सुरक्षित रखे,
क्योंकि मुझे तेरे ही आशा है ॥
हे परमेश्वर इस्त्राएल को
उसके सारे सकटों से छुड़ा ले ॥

(दाऊद का भजन)

- २६ हे यहोवा, मेरा न्याय कर,
क्योंकि मैं खराई से चलता
रहा हूँ,
और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल
बना है ।
२ हे यहोवा, मुझ को जांच और परख;
मेरे मन और हृदय को परख ।
३ क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आसों
के साम्हने है,
और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता
रहा हूँ ॥
४ मैं निकम्मी चाल चलनेवालों के सग
नहीं बैठा,
और न मैं कपटियों के साथ कहीं
जाऊंगा;
५ मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा
रखता हूँ,
और दुष्टों के संग न बैठूंगा ॥
६ मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल
से धोऊंगा,

- तब हे यहोवा मैं तेरी बेदी की
प्रदक्षिणा करूंगा,
७ ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से
करूँ,
८ और तेरे सब आश्चर्यकर्मों का
वर्णन करूँ ॥
हे यहोवा, मैं तेरे धाम से
तेरी महिमा के निवासस्थान से
प्रीति रखता हूँ ।
९ मेरे प्राण को पापियों के साथ,
और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ
न मिला ।
१० वे तो ओछापन करने में लगे रहते
हैं,
और उनका दाहिना हाथ घूस से
भरा रहता है ॥
११ परन्तु मैं तो खराई से चलता रहूंगा ।
तू मुझे छुड़ा ले, और मुझ पर
अनुग्रह कर ।
१२ मेरे पाव चौरस स्थान में स्थिर हैं;
सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा
करूंगा ॥

(दाऊद का भजन)

- २७ यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति
और मेरा उद्धार है; मैं
किस से डरूँ ?
यहोवा मेरे जीवन का वृद्ध गढ़
ठहरा है, मैं किस का भय खाऊँ ?
२ जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते
और मुझी से बैर रखते थे,
मुझे खा डालने के लिये मुझ पर
चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर
गिर पड़े ॥
३ चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी
डाले,

- तौभी मैं न डरूंगा;
चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए,
उस दशा में भी मैं हियाव बान्धे
निश्चित रहूंगा ॥
- ४ एक वर मैं ने यहोवा से मांगा है,
उसी के यत्न में लगा रहूंगा;
कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में
रहने पाऊं,
जिस से यहोवा की मनोहरता पर
दृष्टि लगाए रहूँ,
और उसके मन्दिर में ध्यान किया
करूँ ॥
- ५ क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन
में अपने मण्डप में छिपा
रखेगा;
अपने तम्बू के गुप्तस्थान में वह
मुझे छिपा लेगा,
और चट्टान पर चढ़ाएगा ।
- ६ अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के
शत्रुओं से ऊंचा होगा;
और मैं यहोवा के तम्बू में जयजयकार
के साथ बलिदान चढ़ाऊँगा;
और उसका भजन गाऊँगा ॥
- ७ हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता
हूँ,
तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे
उत्तर दे ।
- ८ तू ने कहा है, कि मेरे दर्शन के खोजी
हो । इसलिये मेरा मन तुझ से
कहता है, कि
हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी
रहूँगा ।
- ९ अपना मुख मुझ से न छिपा ॥
अपने दास को क्रोध करके न
हटा,
तू मेरा सहायक बना है ।

हे मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर
मुझे त्याग न दे, और मुझे छोड़
न दे !

- १० मेरे माता-पिता ने तो मुझे छोड़
दिया है,
परन्तु यहोवा मुझे सम्भाल लेगा ॥
- ११ हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई
कर,
और मेरे द्रोहियों के कारण
मुझ को चौरस रास्ते पर ले चल ।
- १२ मुझ को मेरे सनानेवालों की इच्छा
पर न छोड़,
क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने
की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं ॥
- १३ यदि मुझे विश्वास न होता * कि
जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की
भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्च्छित
हो जाता ।
- १४ यहोवा की बाट जोहता रह;
हियाव बान्ध और तेरा हृदय दृढ़
रहे;
हां, यहोवा ही की बाट जोहता रह !

(बाइबल का भजन)

- २८ हे यहोवा, मैं तुम्ही को पुकारूँगा,
हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी-
अनसुनी न कर,
ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से
मैं क्रूर में पड़े हुआँ के समान हो
जाऊँ जो पाताल में चले जाते हैं ।
- २ जब मैं तेरी दोहाई दूँ,
और तेरे पवित्रस्थान की भीतरी
कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊँ,
तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन
ले ।

* मूल में—यदि मैं विश्वास न करता ।

- ३ उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग
मुझे न घसीट;
जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल
की बोलते हैं
परन्तु हृदय में बुराई रखते हैं ।
- ४ उनके कामों के और उनकी करनी
की बुराई के अनुसार उन से बर्ताव
कर,
उनके हाथों के काम के अनुसार
उन्हें बदला दे;
उनके कामों का पलटा उन्हें
दे ।
- ५ वे यहोवा के कामों पर
और उसके हाथ के कामों पर ध्यान
नहीं करते,
इसलिये वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर
न उठाएगा ॥
- ६ यहोवा धन्य है;
क्योंकि उस ने मेरी गिड़गिड़ाहट को
सुना है ।
- ७ यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल
है; उस पर भरोसा रखने से
मेरे मन को सहायता मिली
है;
इसलिये मेरा हृदय प्रफुल्लित है,
और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद
करूंगा ॥
- ८ यहोवा उनका बल है,
वह अपने अभिषिक्त के लिये उद्धार
का दृढ़ गढ़ है ।
- ९ हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार
कर, और अपने निज भाग के लोगों
को आशीष दे;
और उनकी चरवाही कर और सदैव
उन्हें सम्भाले रह ॥

(दाशद का भजन)

- २९ हे परमेश्वर के पुत्रो * यहोवा
का, हां यहोवा ही का गुणानु-
वाद करो,
यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को
सराहो ।
- २ यहोवा के नाम की महिमा करो;
पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा
को दण्डवत् करो ॥
- ३ यहोवा की वाणी मेघों † के ऊपर
सुन पड़ती है;
प्रतापी ईश्वर गरजता है,
यहोवा घने मेघों ‡ के ऊपर रहता है ।
- ४ यहोवा की वाणी शक्तिशाली है,
यहोवा की वाणी प्रतापमय है ।
- ५ यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़
डालती है;
यहोवा लबानोन के देवदारों को भी
तोड़ डालता है ।
- ६ वह उन्हें बछड़े की नाई और लबानोन
और शियॉन को जंगली बछड़े के
समान उछालता है ॥
- ७ यहोवा की वाणी आग की लपटों
को चीरती § है ।
- ८ यहोवा की वाणी वन को हिला
देती है,
यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता
है ॥
- ९ यहोवा की वाणी से हरिरणियों का
गर्भपात हो जाता है ।
और अरण्य में पतझड़ होती है;

* वा ईश्वर के पुत्रो ।

† मूल में—जल ।

‡ मूल में—बहुत जल ।

§ मूल में—आग के लौवों को चीरती है ।

और उसके मन्दिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है ॥

१० जलप्रलय के समय यहोवा विराजमान था;

और यहोवा सर्वदा के लिये राजा होकर विराजमान रहता है ।

११ यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शान्ति की आशीष देगा ॥

(भजन और प्रतिष्ठा के लिये
दाऊद का भजन)

३० हे यहोवा मैं तुम्हें सराहूँगा, क्योंकि तू ने मुझे खीचकर निकाला है,

और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनन्द करने नहीं दिया ।

२ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं ने तेरी दोहाई दी और तू ने मुझे चगा किया है ।

३ हे यहोवा, तू ने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है,

तू ने मुझे जीवित रखा और कन्न में पडने से बचाया है ॥

४ हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ,

और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो ।

५ क्योंकि उसका क्रोध, तो क्षण भर का होता है,

परन्तु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है ।

कदाचित् रात को रोना पड़े,

परन्तु सबेरे आनन्द पहुँचेगा ॥

६ मैं ने तो अपने चैन के समय कहा था, कि मैं कभी नहीं टलने का ।

७ हे यहोवा अपनी प्रसन्नता से तू ने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था;

जब तू ने अपना मुख फेर लिया * तब मैं घबरा गया ॥

८ हे यहोवा मैं ने तुम्हीं को पुकारा; और यहोवा से गिडगिड़ाकर यह बिनती की, कि

९ जब मैं कन्न में चला जाऊँगा तब मेरे लोहू से क्या लाभ होगा ?

क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है ? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है ?

१० हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर; हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो ॥

११ तू ने मेरे लिये विलाप को नृत्य में बदल डाला;

तू ने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनन्द का पटुका बान्धा है,

१२ ताकि मेरी आत्मा † तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो ।

हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा ॥

(प्रधान बजावैवाले के लिये दाऊद का भजन)

३१ हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है;

मुझे कभी लज्जित होना न पड़े;

तू अपने धर्मों होने के कारण मुझे छुड़ा ले !

२ अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरन्त मुझे छुड़ा ले !

* मूल में—झिपाया ।

† मूल में—महिमा ।

- ३ क्योंकि तू मेरे लिये चट्टान और मेरा गढ है;
इसलिये अपने नाम के निमित्त मेरी अगुआई कर, और मुझे आगे ले चल ।
- ४ जो जाल उन्हीं ने मेरे लिये बिछाया है उस से तू मुझ को छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दूढ़ गढ है ।
- ५ मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ;
हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तू ने मुझे भोल लेकर मुक्त किया है ॥
- ६ जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उन से मैं घृणा करता हूँ,
परन्तु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है ।
- ७ मैं तेरी करुणा से मगन और आनन्दित हूँ,
क्योंकि तू ने मेरे दुःख पर दृष्टि की है,
मेरे कष्ट के समय तू ने मेरी सुधि ली है,
- ८ और तू ने मुझे शत्रु के हाथ में पडने नहीं दिया,
तू ने मेरे पावों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है ॥
- ९ हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं सकट में हूँ,
मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं ।
- १० मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी अवस्था कराहते कराहते घट चली है;
मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा, और मेरी हड्डियां घुल गई ॥
- ११ अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है,
अपने जानपहिचानवालों के लिये डर का कारण हूँ;
जो मुझ को सड़क पर देखते हैं वह मुझ से दूर भाग जाते हैं ।
- १२ मैं मृतक की नाईं लोगों के मन से बिसर गया;
मैं टूटे बासन के समान हो गया हूँ ।
- १३ मैं ने बहुतों के मुह से अपना अपवाद सुना,
चारों ओर भय ही भय है !
जब उन्हो ने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की ॥
- १४ परन्तु हे यहोवा मैं ने तो तुझी पर भरोसा रखा है,
मैं ने कहा, तू मेरा परमेश्वर है ।
- १५ मेरे दिन * तेरे हाथ में हैं;
तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने-वालों के हाथ से छुड़ा ।
- १६ अपने दास पर अपने मुह का प्रकाश चमका,
अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर ॥
- १७ हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे क्योंकि मैं ने तुझ को पुकारा है;
दुष्ट लज्जित हों और वे पाताल में चुपचाप पडे रहें ।
- १८ जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निन्दा करते हैं,
उनके झूठ बोलनेवाले मुह बन्द किए जाएं ॥

* मूल में—समय ।

- १६ आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तू ने अपने डरबैयों के लिये रख छोड़ी है,
और अपने शरणागतों के लिये मनुष्यों के साम्हने प्रगट भी की है !
- २० तू उन्हें दर्शन देने के गुप्तस्थान में मनुष्यों की बुरी मोष्ठी से गुप्त रखेगा;
तू उनको अपने मण्डप में भगड़े-रगड़े से छिपा रखेगा ॥
- २१ यहोवा धन्य है,
क्योंकि उस ने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है ।
- २२ मैं ने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया ।
तौभी जब मैं ने तेरी दोहाई दी, तब तू ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया ॥
- २३ हे यहोवा के सब भक्तो उस से प्रेम रखो !
यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है,
परन्तु जो अहंकार करता है, उसको वह भली भांति बदला देता है ।
- २४ हे यहोवा पर आशा रखनेवालो हियाब बान्धो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें !
(दाण्ड का भजन । मद्रसीस)
- ३२ क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, और जिसका पाप ढांपा गया हो ।
२ क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले,
और जिसकी आत्मा में कपट न हो ॥
- ३ जब मैं चुप रहा
तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गईं ।
- ४ क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा;
और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई ॥ (बेखा)
- ५ जब मैं ने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म न छिपाया,
और कहा, मैं यहोवा के साम्हने अपने अपराधों को मान लूंगा;
तब तू ने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया ॥ (बेखा)
- ६ इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है ।
निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तौभी उस भक्त के पास न पहुंचेगी ।
- ७ तू मेरे छिपने का स्थान है; तू संकट से मेरी रक्षा करेगा;
तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा ॥ (बेखा)
- ८ मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस में तेरी अगुवाई करूंगा;
मैं तुझ पर कृपादृष्टि * रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा ।
- ९ तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते,
उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है,
नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के ॥

* मूल में—आंख लगाकर ।

- १० दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी;
परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता
है वह कष्टों से घिरा रहेगा ।
- ११ हे धर्मियो यहोवा के कारण आनन्दित
और मगन हो,
और हे सब सीधे मनवालो आनन्द
से जयजयकार करो !
- १२ हे धर्मियो यहोवा के कारण
जयजयकार करो !
क्योंकि धर्मों लोगों को स्तुति करनी
सोहती है ।
- २ वीणा बजा बजाकर यहोवा का
धन्यवाद करो,
दस तारवाली सारंगी बजा बजाकर
उसका भजन गाओ ।
- ३ उसके लिये नया गीत गाओ,
जयजयकार के साथ भली भाँति
बजाओ ॥
- ४ क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है;
और उसका सब काम सच्चाई से
होता है ।
- ५ वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता
है;
यहोवा की कृपा से पृथ्वी भरपूर
है ॥
- ६ आकाशमण्डल यहोवा के वचन से,
और उसके सारे गण उसके मुँह की
ध्वास से बने ।
- ७ वह समुद्र का जल ठेर की नाईं
इकट्ठा करता;
वह गहरे सागर को अपने भण्डार
में रखता है ॥
- ८ सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें,
जगत के सब निवासी उसका भय
मानें !
- ९ क्योंकि जब उस ने कहा, तब हो
गया;
जब उस ने आज्ञा दी, तब वास्तव में
बैसा ही हो गया ॥
- १० यहोवा अन्यजातियों की युक्ति को
व्यर्थ कर देता है;
वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं
को निष्फल करता है ।
- ११ यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी,
उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से
पीढ़ी तक बनी रहेंगी ।
- १२ क्या ही धन्य है वह जाति जिसका
परमेश्वर यहोवा है,
और वह समाज जिसे उस ने अपना
निज भाग होने के लिये चुन लिया
हो !
- १३ यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है,
वह सब मनुष्यों को निहारता है;
- १४ अपने निवास के स्थान से
वह पृथ्वी के सब रहनेवालों को
देखता है,
- १५ वही जो उन सबों के हृदयों को
गढ़ता,
और उनके सब कामों का विचार
करता है ।
- १६ कोई ऐसा राजा नहीं, जो सेना की
बहुतायत के कारण बच सके;
वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण
छूट नहीं जाता ।
- १७ बच निकलने के लिये घोड़ा व्यर्थ है,
वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी
को नहीं बचा सकता है ॥
- १८ देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों
पर
और उन पर जो उसकी कृपा की
आशा रखते हैं बनी रहती है,

- १६ कि वह उनके प्राण को मृत्यु से
बचाए,
और अकाल के समय उनको जीवित
रखे ॥
- २० हम यहोवा का आसरा देखते आए
हैं;
वह हमारा सहायक और हमारी
ढाल ठहरा है ।
- २१ हमारा हृदय उसके कारण आनन्दित
होगा,
क्योंकि हम ने उसके पवित्र नाम का
भरोसा रखा है ।
- २२ हे यहोवा जैसी तुझ पर हमारी आशा
है,
वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर
हो ॥

(दाऊद का भजन जब वह चबौमेलिक
के छात्रने बौरदा बना, और चबौमेलिक
ने उसे निहाक दिया, और वह
बला गया)

- ३४** मैं हर समय यहोवा को धन्य
कहा करूंगा;
उसकी स्तुति निरन्तर मेरे मुख से
होती रहेगी ।
- २ मैं यहोवा पर घमण्ड करूंगा;
नम्र लोग यह सुनकर आनन्दित
होंगे ।
- ३ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो,
और आभो हम मिलकर उसके नाम
की स्तुति करें !
- ४ मैं यहोवा के पास गया, तब उस ने
मेरी सुन ली,
और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया ।
- ५ जिन्होंने ने उसकी ओर दृष्टि की,
उन्होंने ने ज्योति पाई;

- और उनका मुह कभी काला न होने
पाया ।
- ६ इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा
ने सुन लिया,
और उसको उसके सब कष्टों से
छुड़ा लिया ॥
- ७ यहोवा के डरवैयों के चारों ओर
उसका दूत छावनी किए हुए उनको
बचाता है ।
- ८ परखकर * देखो कि यहोवा कैसा
भला है !
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी
शरण लेता है ।
- ९ हे यहोवा के पवित्र लोगो, उसका
भय मानो,
क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात
की घटी नहीं होती ।
- १० जवान सिंहों को तो घटी होती और
वे भूले भी रह जाते हैं;
परन्तु यहोवा के खोजियों को किसी
भली वस्तु की घटी न होवेगी ॥
- ११ हे लड़को, आभो, मेरी सुनो,
मैं तुम को यहोवा का भय मानना
सिखाऊंगा ।
- १२ वह कौन मनुष्य है जो जीवन की
इच्छा रखता,
और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई
देखे ?
- १३ अपनी जीभ को बुराई से रोक रख,
और अपने मुंह की चौकसी कर कि
उस से छल की बात न निकले ।
- १४ बुराई को छोड़ और भलाई कर;
मेल को बूढ़ और उसी का पीछा
कर ॥

* मूल में—बखबर ।

- १५ यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं,
और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं ।
- १६ यहोवा बुराई करनेवालों के विमुख रहता है,
ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले ।
- १७ धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है,
और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है ।
- १८ यहोवा टूटे मनवालों के समीप रहता है,
और पिसे हुआओं का उद्धार करता है ॥
- १९ धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पडती तो हैं,
परन्तु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है ।
- २० वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है;
और उन में से एक भी टूटने नहीं पाती ।
- २१ दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा;
और धर्मी के बेरी दोषी ठहरेंगे ।
- २२ यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है;
और जितने उसके शरणागत हैं उन में से कोई भी दोषी न ठहरेगा ॥
- (दाऊद का भजन)
- ३५ हे यहोवा जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं,
उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़;
जो मुझ से युद्ध करते हैं, उन से तू युद्ध कर ।
- २ ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को लड़ा हो ।
- ३ बर्छी को खींच और मेरा पीछा करनेवालों के साम्हने आकर उनको रोक;
और मुझ से कह, कि मैं तेरा उद्धार हूँ ॥
- ४ जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों !
जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, वह पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो !
- ५ वे वायु से उड़ जानेवाली भूसी के समान हों,
और यहोवा का दूत उन्हें हांकता जाए ।
- ६ उनका मार्ग अन्धियारा और फिसलाहा हो,
और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए ॥
- ७ क्योंकि अकारण उन्होंने ने मेरे लिये अपना जाल गड़हे में बिछाया;
अकारण ही उन्होंने ने मेरा प्राण लेने के लिये गड़हा खोदा है ।
- ८ अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े !
और जो जाल उन्होंने ने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे; और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़ें !
- ९ परन्तु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा,
मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा ।
- १० मेरी हड्डी हड्डी कहेंगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है,
जो दीन को बड़े बड़े बलबन्तों से बचाता है, और लुटेरों से दीन

- दरिद्र लोगों की रक्षा करता है ?
- ११ झूठे साक्षी खड़े होते हैं;
और जो बात मैं नहीं जानता, वही मुझ से पूछते हैं ।
- १२ वे मुझ से भलाई के बदले बुराई करते हैं; यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है ।
- १३ जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहिने रहा,
और उपवास कर करके दुःख उठाता रहा;
और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया ।
- १४ मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी वा भाई हैं;
जैसा कोई माता के लिये विलाप करता हो,
वैसा ही मैं ने शोक का पहिरावा पहिने हुए सिर झुकाकर शोक किया ॥
- १५ परन्तु जब मैं लगडाने लगा तब वे लोग आनन्दित होकर इकट्ठे हुए,
नीच लोग और जिन्हे मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए;
वे मुझे लगातार फाड़ते रहे;
- १६ उन पाखण्डी भांडों की नाई जो पेट के लिये उपहास करते हैं,
वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं ॥
- १७ हे प्रभु तू कब तक देखता रहेगा ?
इस विपत्ति से, जिस में उन्होंने ने मुझे डाला है मुझ को छोड़ा !
जबान सिंहों से मेरे प्राण * को बचा ले !
- १८ मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा;
बहुतेरे लोगों के बीच मैं तेरी स्तुति करूंगा ॥
- १९ मेरे झूठ बोलनेवाले शत्रु मेरे विरुद्ध - आनन्द न करने पाएं,
जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे आपस में नैन से नैन न करने पाएं ।
- २० क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते,
परन्तु देश में जो चुपचाप रहते हैं,
उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएँ करते हैं ।
- २१ और उन्हीं ने मेरे विरुद्ध मुंह पसारके कहा;
आहा, आहा, हम ने अपनी आंखों से देखा है !
- २२ हे यहोवा, तू ने तो देखा है; चुप न रह !
हे प्रभु, मुझ से दूर न रह !
- २३ उठ, मेरे न्याय के लिये जाग,
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकद्दमा निपटाने के लिये आ !
- २४ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपनी धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका;
और उन्हें मेरे विरुद्ध आनन्द करने न दे !
- २५ वे मन में न कहने पाएं, कि आहा !
हमारी तो इच्छा पूरी हुई !
वह यह न कहें कि हम उसे निगल गए हैं ॥
- २६ जो मेरी हानि से आनन्दित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों !
जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वह लज्जा और अनादर से ढंप जाएं !
- २७ जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वह जयजयकार और आनन्द करें,

* मूल में—मेरी एकली ।

- श्रीर निरन्तर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है !
- २८ तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी,
श्रीर दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी ॥
- (प्रधान बजानेवाले के छिबे यद्योवा के दास दाऊद का भजन)
- ३६** दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि * में नहीं है ।
- २ वह अपने अधर्म के प्रगट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपडी बातें विचारता है ।
- ३ उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं; उस ने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है ।
- ४ वह अपने बिछोने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है; वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है; बुराई से वह हाथ नहीं उठाता ॥
- ५ हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाशमण्डल तक पहुंची है ।
- ६ तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं, हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है ॥
- ७ हे परमेश्वर तेरी करुणा कैंसी अनमोल है ! मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते है ।

* मूल में—उसकी आंखों के साम्हने ।

- ८ वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे,
श्रीर तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा ।
- ९ क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है;
तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे ॥
- १० अपने जाननेवालों पर करुणा करता रह,
श्रीर अपने धर्म के काम सीधे मनवालों में करता रह !
- ११ अहकारी मुझ पर लात उठाने न पाए,
श्रीर न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए ।
- १२ वहा अनर्थकारी गिर पड़े हैं;
वे ढकेल दिए गए, और फिर उठ न सकेंगे ॥

(दाऊद का भजन)

- ३७** कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करनेवालों के विषय डाह न कर ।
- २ क्योंकि वे घास की नाईं झट कट जाएंगे,
श्रीर हरी घास की नाईं मुर्झा जाएंगे ।
- ३ यहोवा पर भरोसा रख, श्रीर भला कर;
देश में बसा रह, श्रीर सच्चाई में मन लगाए रह ।
- ४ यहोवा को अपने सुख का मूल जान, श्रीर वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा ॥
- ५ अपने मार्ग की चिन्ता यहोवा पर छोड़;

- और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा ।
- ६ और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई,
और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रगट करेगा ॥
- ७ यहोवा के साम्हने चुपचाप रह, और धीरज से उसका आसा रख,
उस मनुष्य के कारण न कुढ़, जिसके काम सुफल होते हैं,
और वह बुरी युक्तियों को निकालता है !
- ८ क्रोध से परे रह, और जलजलाहट को छोड़ दे !
मत कुढ़, उस से बुराई ही निकलेगी ।
- ९ क्योंकि कुकर्मों लोग काट डाले जाएंगे;
और जो यहोवा की बात जोहते हैं,
वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे ॥
- १० थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं;
और तू उसके स्थान को भली भाँति देखने पर भी उसको न पाएगा ।
- ११ परन्तु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे,
और बड़ी शान्ति के कारण आनन्द मनाएंगे ॥
- १२ दुष्ट धर्मों के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है,
और उस पर दाँत पीसता है ;
- १३ परन्तु प्रभु उस पर हंसेगा,
क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आनेवाला है ॥
- १४ दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं,
ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे,
- और सीधी चाल चलनेवालों को वध करें ।
- १५ उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेगे,
-और उनके धनुष तोड़े जाएंगे ॥
- १६ धर्मों का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है ।
- १७ क्योंकि दुष्टों की भुजाएँ तो तोड़ी जाएगी,
परन्तु यहोवा धर्मियों को सम्भालता है ॥
- १८ यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है,
और उनका भाग सदैव बना रहेगा ।
- १९ विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे,
और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे ॥
- २० दुष्ट लोग नाश हों जायेंगे,
और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे,
वे धूप की नाई बिलाय जाएंगे ॥
- २१ दुष्ट ऋण लेता है, और भरता नहीं,
परन्तु धर्मों अनुग्रह करके दान देता है ;
- २२ क्योंकि जो उस से आशीष पाते हैं
वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे,
परन्तु जो उस से शापित होते हैं,
वे नाश हो जाएंगे ॥
- २३ मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है,
और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है,
- २४ चाहे वह गिरे तभी पड़ा न रह जाएगा,
क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है ॥

- २५ मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक
देखता आया हूँ,
परन्तु न तो कभी धर्मी को त्यागा
हुआ,
और न उसके बश को टुकड़े मांगते
देखा है ।
- २६ वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके
ऋण देता है,
और उसके बश पर आशीष फलती
रहती है ॥
- २७ बुराई को छोड़ और भलाई कर,
और तू सर्वदा बना रहेगा ।
- २८ क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता,
और अपने भक्तों को न तजेगा ।
उनकी तो रक्षा सदा होती है,
परन्तु दुष्टों का बश काट डाला
जाएगा ।
- २९ धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे,
और उम में सदा बसे रहेंगे ॥
- ३० धर्मी अपने मुह से बुद्धि की बातें
करता,
और न्याय का वचन कहता है ।
- ३१ उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके
हृदय में बनी रहती है,
उसके पैर नहीं फिसलते ॥
- ३२ दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है ।
और उसके मार डालने का यत्न करता
है ।
- ३३ यहोवा उसको उसके हाथ में न
छोड़ेगा,
और जब उसका विचार किया जाए,
तब वह उसे दोषी न ठहराएगा ॥
- ३४ यहोवा की बात जोहता रह, और
उसके मार्ग पर बना रह,
और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का
अधिकारी कर देगा ;
- जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तू
देखेगा ॥
- ३५ मैं ने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और
ऐसा फँलता हुआ देखा,
जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि
में फँलता है ।
- ३६ परन्तु जब कोई उधर से गया तो देखा
कि वह वहा है ही नहीं ;
और मैं ने भी उसे ढूँढा, परन्तु कहीं
न पाया ॥
- ३७ खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी
को देख,
क्योंकि मेल से रहनेवाले पुरुष का
अन्तफल अच्छा है ।
- ३८ परन्तु अपराधी एक साथ सत्यानाश
किए जाएंगे,
दुष्टों का अन्तफल सर्वनाश है ॥
- ३९ धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर
से होती है,
सकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़
है ।
- ४० और यहोवा उनकी सहायता करके
उनको बचाता है,
वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका
उद्धार करता है,
इसलिये कि उन्होंने ने उस में अपनी
शरण ली है ॥
- (यादगार के लिये बाइबल का भजन)
- ३८ हे यहोवा क्रोध में आकर
मुझे झिड़क न दे,
और न जलजलाहट में आकर मेरी
ताडना कर !
- २ क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं,
और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा
हूँ ।

- ३ तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में
कुछ भी आरोग्यता नहीं;
और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों
में कुछ भी चैन नहीं ।
- ४ क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा
सिर डूब गया,
और वे भारी बोझ की नाईं मेरे
सहने से बाहर हो गए हैं ॥
- ५ मेरी मूर्खता के कारण से
मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं
और सड़ गए हैं ।
- ६ मैं बहुत दुर्बल हूँ और भुक्त गया हूँ,
दिन भर मैं शोक का पहिरावा पहिने
हुए चलता फिरता हूँ ।
- ७ क्योंकि मेरी कमर में जलन है,
और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं ।
- ८ मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो
गया हूँ,
मैं अपने मन की घबराहट से कराहता
हूँ ॥
- ९ हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे
सम्मुख है,
और मेरा कराहना तुझ से छिपा
नहीं ।
- १० मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल
घटता जाता है;
और मेरी आँखों की ज्योति भी मुझ
से जाती रही ।
- ११ मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति
में अलग हो गए,
और मेरे कुटुम्बी भी दूर जा खड़े
हुए ॥
- १२ मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिये जाल
बिछाते हैं,
और मेरी हानि के यत्न करनेवाले
दुष्टता की बातें बोलते,
- और दिन भर छल की युक्ति सोचते
हैं ।
- १३ परन्तु मैं बहिरे की नाईं सुनता ही
नहीं,
-और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं
खोलता ।
- १४ वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो
कुछ नहीं सुनता,
और जिसके मुह से विवाद की कोई
बात नहीं निकलती ॥
- १५ परन्तु हे यहोवा, मैं ने तुझ ही पर
अपनी आशा लगाई है;
हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर
देगा ।
- १६ क्योंकि मैं ने कहा, ऐसा न हो कि
वे मुझ पर आनन्द करें;
जो, जब मेरा पांव फिसल जाता है,
तब मुझ पर अपनी बड़ाईं मारते
हैं ॥
- १७ क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ;
और मेरा शोक निरन्तर मेरे साम्हने
है ।
- १८ इसलिये कि मैं तो अपने अधर्म को
प्रगट करूंगा,
और अपने पाप के कारण खेदित
रहूंगा ।
- १९ परन्तु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी
हैं,
और मेरे विरोधी बंदी बहुत हो
गए हैं ।
- २० जो भलाई के बदले में बुराई करते
हैं,
वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के
कारण मुझ से विरोध करते हैं ॥
- २१ हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे !
हे मेरे परमेश्वर, मुझ से दूर न हो !

२२ हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता,
मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर !

(यहूयूय प्रधाज बजानेवाले के छिडे
दाजद का भजान)

३६

मे ने कहा, मे अपनी चालचलन
मे चौकसी करूंगा,
ताकि मेरी जीभ से पाप न हो;
जब तक दुष्ट मेरे साम्हने है,
तब तक मे लगाम लगाए अपना मुह
बन्द किए रहूंगा ।

२ मे मौन धारण कर गुंगा बन गया,
और भलाई की ओर से भी चुप्पी
साधे रहा;

और मेरी पीडा बड़ गई,

३ मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर जल
रहा था ।

सोचते सोचते प्राग भडक उठी;

तब मे अपनी जीभ से बोल उठा :

४ हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अन्त मुझे
मालूम हो जाए,

और यह भी कि मेरी आयु के दिन
कितने है;

जिस से मे जान लू कि मे कैसा
अनित्य हूँ !

५ देख, तू ने मेरे आयु बालिशत भर की
रखी है,

और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ
है ही नहीं ।

सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर
क्यों न हों तौभी व्यर्थ ठहरे है ।

(बेछा)

६ सचमुच मनुष्य छाया सा चलता
फिरता है;

सचमुच बे व्यर्थ धबराते है,

वह धन का सचय तो करता है परन्तु
नही जानता कि उसे कौन लेगा !

७ और अब हे प्रभु, मे किस बात की
बाट जोहू ?

मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है ।

८ मुझे मेरे सब अपराधों के बन्धन
से छुड़ा ले ।

मूढ़ मेरी निन्दा न करने पाए ।

९ मे गुंगा बन गया और मुह न खोला;
क्योंकि यह काम तू ही ने किया है ।

१० तू ने जो विपत्ति मुझ पर डाली है
उसे मुझ से दूर कर दे,

क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से
भस्म हुआ जाता हू ।

११ जब तू मनुष्य को अधम के कारण
दपट दपटकर ताड़ना देता है;

तब तू उसकी सुन्दरता को पतिंगे की
नाई नाश करता है;

सचमुच सब मनुष्य बुधाभिमान करते
है ॥ (बेछा)

१२ हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, और
मेरी दोहाई पर कान लगा;

मेरा रोना सुनकर शांत न रह !

क्योंकि मे तेरे सग एक परदेशी यात्री
की नाई रहता हूँ,

और अपने सब पुरखाओं के समान
परदेशी हूँ ।

१३ आह ! इस से पहिले कि मे यहां
से चला जाऊं और न रह जाऊं,

मुझे बचा ले जिस से मे प्रदीप्त
जीवन प्राप्त करूँ !

(प्रधाज बजानेवाले के छिडे दाजद
का भजान)

४० मे धीरज से यहोवा की बाट
जोहता रूह;

और उस ने मेरी ओर झुककर मेरी
दोहाई सुनी ।

- २ उस ने मुझे सत्यानाश के गड़हे और दलदल की कीच में से उबारा, और मुझ को चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दूढ़ किया है ।
- ३ और उस ने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है ।
बहुतेरे यह देखकर डरेंगे,
और यहोवा पर भरोसा रखेंगे ॥
- ४ क्या ही धन्य है वह पुरुष, जो यहोवा पर भरोसा करता है,
और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़नेवालों की ओर मुह न फेरता ही ।
- ५ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ने बहुत से काम किए हैं !
जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिये करता है वह बहुत सी हैं;
तेरे तुल्य कोई नहीं !
मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं,
परन्तु उनकी गिनती नहीं हो सकती ॥
- ६ मेलबलि और अन्नबलि से तू प्रसन्न नहीं होता
तू ने मेरे कान खोदकर खोले हैं ।
होमबलि और पापबलि तू ने नहीं चाहा ।
- ७ तब मैं ने कहा, देख, मैं आया हूँ;
क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है ।
- ८ हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ;
और तेरी व्यवस्था मेरे अन्तःकरण में बनी है ॥
- ९ मैं ने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है;
देख, मैं ने अपना मुह बन्द नहीं किया, हे यहोवा, तू इसे जानता है ।
- १० मैं ने तेरा धर्म मन ही मे नहीं रखा;
मैं ने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उधार की चर्चा की है;
मैं ने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी ॥
- ११ हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले,
तेरी करुणा और सत्यता से निरन्तर मेरी रक्षा होती रहे !
- १२ क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ;
मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता;
वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं; इसलिये मेरा हृदय टूट गया ॥
- १३ हे यहोवा, ऋपा करके मुझे छुड़ा ले !
हे यहोवा, मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर !
- १४ जो मेरे प्राण की खोज में हैं,
वे सब लज्जित हों; और उनके मुह काले हों और वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं
जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं ।
- १५ जो मुझ से आहा, आहा, कहते हैं,
वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों ॥
- १६ परन्तु जितने तुझे बूढ़ते हैं, वह सब तेरे कारण हर्षित और आनन्दित हों;

- जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते
हैं, वे निरन्तर कहते रहे,
यहोवा की बड़ाई हो !
- १७ मैं तो दीन और दरिद्र हूँ,
तौमी प्रभु मेरी चिन्ता करता है ।
तू मेरा सहायक और छुड़ानेवाला है ;
हे मेरे परमेश्वर विलम्ब न कर ॥
- (प्रधान बखानेवाले के छिबे दाऊद का
भजन)
- ४१ क्या ही धन्य है वह, जो कंगाल
की सुधि रखता है !
विपत्ति के दिन यहोवा उसको
बचाएगा ।
- २ यहोवा उसकी रक्षा करके उसको
जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी
पर भाग्यवान होगा ।
तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न
छोड़ ।
- ३ जब वह व्याधि के मारे सेज पर
पड़ा हो, तब यहोवा उसे सम्भालेगा ;
तू रोग में उसके पूरे बिछीने को
उलटकर ठीक करेगा ॥
- ४ मैं ने कहा, हे यहोवा, मुझ पर
अनुग्रह कर ;
मुझ को चगा कर, क्योंकि मैं ने तो
तेरे विरुद्ध पाप किया है !
- ५ मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई
करते हैं :
वह कब मरेगा, और उसका नाम
कब मिटेगा ?
- ६ और जब वह मुझ से मिलने को
भाता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता
है,
जब कि उसका मन अपने अन्दर
अधर्म की बातें संचय करता है ;
और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता
है ।
- ७ मेरे सब बंदी मिलकर मेरे विरुद्ध
कानाफूसी करते हैं ;
वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि
की कल्पना करते हैं ॥
- ८ वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा
रोग लग गया है ;
अब जो यह पड़ा है, तो फिर कभी
उठने का नहीं ।
- ९ मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा
रखता था, जो मेरी रोटी खाता था,
उस ने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है ।
- १० परन्तु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह
करके मुझ को उठा ले,
कि मैं उनको बदला दूँ !
- ११ मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवन्त नहीं
हो पाता,
इस से मैं ने जान लिया है कि तू मुझ
से प्रसन्न है ।
- १२ और मुझे तो तू खराई में सम्भालता,
और सर्वदा के लिये अपने सम्मुख
स्थिर करता है ॥
- १३ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा
आदि से अनन्तकाल तक धन्य है
आमीन, फिर आमीन ॥

दूसरा भाग

(प्रधान बच्चानेवाले के लिये कोरब-
बंधियों का मन्त्रोक्त)

४२

जैसे हरिगंगी नदी के जल के
लिये हाफती है,

वैसे ही, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिये
हांफता हूँ ।

२ जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं *
प्यासा हूँ,

मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना
मुंह दिखाऊंगा ?

३ मेरे आसू दिन और रात मेरा आहार
हुए हैं;

और लोग दिन भर मुझ से कहते
रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है ?

४ मैं भीड़ के संग जाया करता था,
मैं जयजयकार और धन्यवाद के साथ
उत्सव करनेवाली भीड़ के बीच
में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे
जाया करता था;

यह स्मरण करके मेरा प्राण †
शोकित हो जाता है ।

५ हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता
है ?

और तू अन्दर ही अन्दर क्यों व्याकुल
है ?

परमेश्वर पर आशा लगाए रह;
क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार
पाकर

फिर उसका धन्यवाद करूंगा ॥

६ हे मेरे परमेश्वर; मेरा प्राण मेरे
भीतर गिरा जाता है,

इसलिये मैं यर्दन के पास के देश से
और हमोन के पहाड़ों और मिसगर
की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण
करता हूँ ।

७ तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर
जल, जल को पुकारता है;
तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं
डूब गया हूँ ।

८ तौभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति
और करूणा प्रगट करेगा;
और रात को भी मैं उसका गीत
गाऊंगा,
और अपने जीवनदाता ईश्वर से
प्रार्थना करूंगा ॥

९ मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान हूँ
कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया ?
मैं शत्रु के अन्धेर के मारे क्यों शोक
का पहिरावा पहिने हुए चलता
फिरता हूँ ?

१० मेरे सतानेवाले जो मेरी निन्दा करते
हैं मानो उस से मेरी हड्डिया चूर
चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी
जाती हैं,

क्योंकि वे दिन भर मुझ से कहते
रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है ?

११ हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है ?
तू अन्दर ही अन्दर क्यों व्याकुल
है ?

परमेश्वर पर भरोसा रख; क्योंकि
वह मेरे मुख की चमक * और
मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका
धन्यवाद करूंगा ॥

* मूल में—मैं अपना जीव अपने ऊपर
उपडेलता हूँ ।

† मूल में—मेरा जीव ।

* मूल में—का उद्धार ।

४३ हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका
और विधर्मी जाति से मेरा
मुकद्दमा लड; मुझ को छली और
कुटिल पुरुष से बचा ।

२ क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी
शरण है, तू ने क्यों मुझे त्याग
दिया है ?

मैं शत्रु के अश्वर के मारे शोक का
पहिरावा पहिने हुए क्यों फिरता
रहूँ ?

३ अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई
को भेज; वे मेरी अगुवाई करें,
वे ही मुझ को तेरे पवित्र पर्वत पर
और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए !

४ तब मैं परमेश्वर की बेदी के पास
जाऊंगा,
उस ईश्वर के पास जो मेरे अति
आनन्द का कुड है;
और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर,
मैं वीणा बजा बजाकर तेरा धन्यवाद
करूंगा ॥

५ हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है ?
तू अन्दर ही अन्दर क्यों व्याकुल
है ?

परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि
वह मेरे मुख की चमक और मेरा
परमेश्वर है;

मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये कोर-
बन्धियों का मञ्जरीज)

४४ हे परमेश्वर हम ने अपने
कानों से सुना, हमारे बापदादों
ने हम से वर्णन किया है,

कि तू ने उनके दिनों में और प्राचीन-
काल में क्या क्या काम किए हैं ।

२ तू ने अपने हाथ से जातियों को
निकाल दिया, और इनको बसाया;
तू ने देश देश के लोगों को दुःख दिया,
और इनको चारों ओर फैला दिया;

३ क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के
बल से इस देश के अधिकारी हुए,
और न अपने बाहुबल से;

परन्तु तेरे दहिने हाथ और तेरी
भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण
जयवन्त हुए;

क्योंकि तू उनको चाहता था ॥

४ हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा
है,

तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है ।

५ तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को
ढकेलकर गिरा देंगे;

तेरे नाम के प्रताप से हम अपने
विरोधियों को रौदेंगे ।

६ क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा
न रखूंगा,
और न अपनी तलवार के बल से
बचूंगा ।

७ परन्तु तू ही ने हम को द्रोहियों से
बचाया है,

और हमारे बैरियों को निराश और
लज्जित किया है ।

८ हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर
करते रहने हैं,

और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद
करते रहेंगे ॥ (श्लोका)

९ तौभी तू ने अब हम को त्याग दिया
और हमारा अनादर किया है,
और हमारे दिलों के साथ आगे नहीं
जाता ।

१० तू हम को शत्रु के साम्हने से हटा
देता है,

- और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं ।
- ११ तू ने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है,
और हम को अन्य जातियों में तितर-बितर किया है ।
- १२ तू अपनी प्रजा को सेतमेत बेच डालता है,
परन्तु उनके मोल से तू धनी नहीं होता ॥
- १३ तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नाम-धराई कराता है,
और हमारे चारों ओर के रहनेवाले हम से हसी ठट्टा करते हैं ।
- १४ तू हम को अन्यजातियों के बीच में उपमा ठहराता है,
और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं ।
दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है,
- १५ और कलंक लगाने और निन्दा करने-वाले के बोल से,
- १६ और शत्रु और बदला लेनेवालों के कारण,
बुरा-भला कहनेवालों और निन्दा करनेवालों के कारण ॥
- १७ यह सब कुछ हम पर बीता तौभी हम तुझे नहीं भूले,
न तेरी वाचा के विषय विदवासघात किया है ।
- १८ हमारे मन न बहके,
न हमारे पैर तेरी बाट से मुड़े;
- १९ तौभी तू ने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला,
और हम को घोर अन्धकार में छिपा दिया है ॥
- २० यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते,
वा किसी पराए देवता की ओर अपने हाथ फैलाते,
२१ तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता ?
क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है ।
- २२ परन्तु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं,
और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो बघ होने पर हैं ॥
- २३ हे प्रभु, जाग ! तू क्यों सोता है ?
उठ ! हम को सदा के लिये त्याग न दे !
- २४ तू क्यों अपना मुह छिपा लेता है ?
और हमारा दुःख और सताया जाना भूल जाता है ?
- २५ हमारा प्राण मिट्टी से लग गया ;
हमारा पेट भूमि से सट गया है ।
- २६ हमारी सहायता के लिये उठ खड़ा हो !
और अपनी करुणा के निमित्त हम को छुड़ा ले ॥
- (प्रधान राजानेवाले के लिये। श्रीशत्रुघ्न में कोरुण्यभ्रियों का सङ्कीर्ण। प्रेम प्रीति का जीत)
- ४५ मेरा हृदय एक सुन्दर विषय की उमग से उमरुड रहा है,
जो बात मैं ने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ ;
मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है ॥
- २ तू मनुष्य की सन्तानों में परम सुन्दर है ;

- तेरे झोठों में अनुग्रह भरा हुआ है;
इसलिये परमेश्वर ने तुझे सदा के
लिये आशीष दी है ।
- ३ हे बीर, तू अपनी तलवार को जो
तेरा विभव और प्रताप है अपनी
कटि पर बान्ध !
- ४ सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त
अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर
सफलता से सवार हो;
तेरा दहिना हाथ तुझे भयानक काम
सिखलाए !
- ५ तेरे तीर तो तेज हैं,
तेरे साम्हने देश देश के लोग गिरेगें;
राजा के शत्रुओं के हृदय उन से
छिदेगें ॥
- ६ हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन * सदा
सर्वदा बना रहेगा;
तेरा राजदण्ड न्याय का है ।
- ७ तू ने धर्म से प्रीति और दुष्टता से
बैर रखा है ।
इस कारण परमेश्वर ने हा तेरे
परमेश्वर ने
तुझ को तेरे साथियों से अधिक हर्ष
के तेल से अभिषेक किया है ।
- ८ तेरे सारे वस्त्र, गन्धरस, अंगर, और
तेज से सुगन्धित हैं,
तू हाथीदांत के मन्दिरों में तारवाले
बाजों के कारण आनन्दित हुआ है ।
- ९ तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राज-
कुमारियां भी हैं;
तेरी दहिनी ओर पटरानी, ओपीर
के कुन्दन से विभूषित खड़ी है ॥
- १० हे राजकुमारी सुन, और कान लगाकर
ध्यान दे;

* वा तेरा सिंहासन परमेश्वर का है ।

- अपने लोगों और अपने पिता के
घर को भूल जा;
११ और राजा तेरे रूप की चाह करेगा ।
क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे
दण्डवत् कर ।
- १२ सोर की राजकुमारी भी भेंट करने
के लिये उपस्थित होगी,
प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न
करने का यत्न करेंगे ॥
- १३ राजकुमारी महल में अति शोभायमान
है,
उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं;
१४ वह बूटेदार वस्त्र पहिने हुए राजा के
पास पहुंचाई जाएगी ।
जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं,
वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे
पास पहुंचाई जाएंगी ।
- १५ वे आनन्दित और मगन होकर पहुंचाई
जाएगी,
और वे राजा के महल में प्रवेश
करेंगी ॥
- १६ तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे;
जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम
ठहराएगा ।
- १७ मैं ऐसा करूंगा, कि तेरी नाम की
चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी;
इस कारण देश देश के लोग सदा
सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे ॥
- (प्रधान बजानेवाले के छिमे, कोरच-
बंशियों का, चमाओल की राम पर
रक जौत)
- ४६ परमेश्वर हमारा शरणस्थान
और बल है,
संकट में अति सहज से मिलनेवाला
सहायक ।

- २ इस कारण हम को कोई भय नहीं
चाहे पृथ्वी उलट जाए,
और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल
दिए जाएं;
- ३ चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए,
और पहाड़ उसकी बाढ से कांप
उठे ॥ (बेन्ना)
- ४ एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर
के नगर में
अर्थात् परमप्रधान के पवित्र निवास
भवन में आनन्द होता है ।
- ५ परमेश्वर उस नगर के बीच में है,
वह कभी टलने का नहीं;
पूी फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता
करता है ।
- ६ जाति जाति के लोग झल्ला उठे,
राज्य राज्य के लोग डगमगाने
लगे;
वह बोल उठा, और पृथ्वी पिघल
गई ।
- ७ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है;
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा
गढ़ है ॥ (बेन्ना)
- ८ आओ, यहोवा के महाकर्म देखो,
कि उस ने पृथ्वी पर कैसा कैसा
उजाड़ किया है ।
- ९ वह पृथ्वी की छोर तक लडाइयों को
मिटता है;
वह धनुष को तोड़ता, और भाले को
दो टुकड़े कर डालता है,
और रथों को आग में झोंक देता
है !
- १० चुप हो जाओ, और जान लो, कि
मैं ही परमेश्वर हूँ ।
मैं जातियों में महान् हूँ,
मैं पृथ्वी भर में महान् हूँ !

- ११ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है;
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा
गढ़ है ॥ (बेन्ना)

(प्रधान बन्नामेवाले के क्विबे कीरच-
बंधियों का भजन)

४७

हे देश देश के सब लोगो,
तालियां बजाओ !

ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिये
जयजयकार करो !

- २ क्योंकि यहोवा परमप्रधान और भय-
योग्य है,

वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है ।

- ३ वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख
नीचा करता,
और अन्यजातियों को हमारे पांवों के
नीचे कर देता है ।

- ४ वह हमारे लिये उत्तम भाग चुन
लेगा,

जो उसके प्रिय याकूब के घमराड
का कारण है ॥ (बेन्ना)

- ५ परमेश्वर जयजयकार सहित,
यहोवा नरसिंघे के शब्द के साथ
ऊपर गया है ।

- ६ परमेश्वर का भजन गाओ, भजन
गाओ !

हमारे महाराजा का भजन गाओ,
भजन गाओ !

- ७ क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का
महाराजा है;

समझ बूझकर बुद्धि से भजन
गाओ !

- ८ परमेश्वर जाति जाति पर राज्य
करता है;

परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर
विराजमान है ।

६ राज्य राज्य के रईस इब्राहीम के
परमेश्वर की प्रजा होने के लिये
इकट्टे हुए हैं।
क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के
बश में हैं,
वह तो शिरोमणि है !

(गीत। भजन। कोरच्चबन्धियों का)

४८ हमारे परमेश्वर के नगर में,
और अपने पवित्र पर्वत पर
यहोवा महान् और अति स्तुति के
योग्य है !

२ सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुन्दर और
सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है,
राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे
पर है।

३ उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़
माना गया है।

४ क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्टे हुए,
वे एक संग आगे बढ़ गए।

५ उन्होंने ने आप ही देखा और देखते
ही विस्मित हुए,
वे घबराकर भाग गए।

६ वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा,
और ज़च्चा की सी पीड़ाएं उन्हें
होने लगीं।

७ तू पूर्वी वायु से
तर्शाश के जहाजों को तोड़ डालता
है।

८ सेनाओं के यहोवा के नगर में,
अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा
हम ने सुना था, बैसा देखा भी है;
परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर
रखेगा ॥ (बेन्सा)

९ हे परमेश्वर हम ने तेरे मन्दिर के
भीतर

तेरी कससा पर ध्यान किया है।

१० हे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य
तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक
होती है।

तेरा दहिना हाथ धर्म से भरा है;

११ तेरे न्याय के कामों के कारण
सिय्योन पर्वत आनन्द करे,
और यहूदा के नगर की पुत्रियां *
मगन हों !

१२ सिय्योन के चारों ओर चलो, और
उसकी परिक्रमा करो,
उसके गुम्बदों को गिन लो,

१३ उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ,
उसके महलों को ध्यान से देखो;
जिस में कि तुम आनेवाली पीढ़ी के
लोगों से इस बात का वर्णन कर
सको।

१४ क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा
हमारा परमेश्वर है,
वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई
करेगा ॥

(प्रधान बजानेवालों के लिये कोरच्च-
बन्धियों का भजन)

४६ हे देश देश के सब लोगो,
यह सुनो !

हे संसार के सब निवासियों, कान
लगाओ !

२ क्या ऊंच, क्या नीच

क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ !

३ मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी;
और मेरे हृदय की बातें समझ की
होंगी।

४ मैं नीतिवचन की ओर अपना कान
लगाऊंगा,

* मूल में—बेटियां।

- में बीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा ॥
- ५ विपत्ति के दिनों में जब मैं अपने अड़ंगा मारनेवालों की बुराइयों से धिक्, तब मैं क्यों डरूँ ?
- ६ जो अपनी सम्पत्ति पर भरोसा रखते, और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं,
- ७ उन में से कोई अपने भाई को किसी भाति छुड़ा नहीं सकता है; और न परमेश्वर को उसकी सन्ती प्रायश्चित्त में कुछ दे सकता है,
- ८ (क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है
वैह अन्त तक कभी न चुका सकेंगे) ।
- ९ कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे, और कृत्र को न देखे ॥
- १० क्योंकि देखने में आता है, कि बुद्धिमान भी मरते हैं,
और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं,
और अपनी सम्पत्ति औरों के लिये छोड़ जाते हैं ।
- ११ वे मन ही मन यह सोचते हैं, कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा,
और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे;
इसलिये वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं ।
- १२ परन्तु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता,
वह पशुओं के समान होता है, जो मर मिटते हैं ॥
- १३ उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तौभी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं । (बेबा)
- १४ वे अधोलोक की मानो भेड़-बकरियां ठहराए गए हैं;
मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी;
और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे;
और उनका सुन्दर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आश्रय न रहेगा ।
- १५ परन्तु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा,
क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा ॥ (बेबा)
- १६ जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का विभव बढ़ जाए,
तब तू भय न खाना ।
- १७ क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा;
न उसका विभव उसके साथ कृत्र मे जाएगा ।
- १८ चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे,
(जब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं)
- १९ तौभी वह अपने पुरस्कारों के समाज में मिलाया जाएगा,
जो कभी उजियाला न देखेंगे ।
- २० मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों परन्तु यदि वे समझ नहीं रखते, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं ॥
- (चाचाप का भजन)
- ५० ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है,
और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है ।

- २ सिय्योन से, जो परम सुन्दर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है ।
- ३ हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आगे उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी; और उसके चारों ओर बड़ी आधी चलेगी ।
- ४ वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिये ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा :
- ५ मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझ से वाचा बान्धी है !
- ६ और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है ॥ (बेला)
- ७ हे मेरी प्रजा, मुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ । परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ ।
- ८ मैं तुझ पर तेरे मेलबलियों के विषय दोष नहीं लगाता, तेरे होमबलि तो नित्य मेरे लिये चढते हैं ।
- ९ मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशालों से बकरे ले लूँगा ।
- १० क्योंकि वन के सारे जीवजन्तु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं ।
- ११ पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरनेवाले जानवर मेरे ही हैं ॥
- १२ यदि मैं भूला होता तो तुझ से न कहता; क्योंकि जगत् और जो कुछ उस में है वह मेरा है ।
- १३ क्या मैं बैल का मांस खाऊँ, वा बकरों का लोह पीऊँ ?
- १४ परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परमप्रधान के लिये अपनी मन्नतें पूरी कर; और सकट के दिन मुझे पुकार; मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा ॥
- १६ परन्तु दुष्ट से परमेश्वर कहता है : तुम्हें मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम ? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है ?
- १७ तू तो शिक्षा से बैर करता, और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है ।
- १८ जब तू ने चोर को देखा, तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ; और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ ॥
- १९ तू ने अपना मुह बुराई करने के लिये खोला, और तेरी जीभ छल की बातें गढती है ।
- २० तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता; और अपने सगे भाई की चुगली खाता है ।
- २१ यह काम तू ने किया, और मैं चुप रहा;

इसलिये तू ने समझ लिया कि पर-
मेश्वर बिलकुल मेरे समान है ।

परन्तु मैं तुम्हें समझाऊंगा, और तेरी
भ्रात्यों के साम्हने सब कुछ अलग
अलग दिखाऊंगा ॥

२२ हे ईश्वर को भूलनेवालो यह बात

भली भांति समझ लो,
कही ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़
डालूँ, और कोई छुड़ानेवाला न
हो !

२३ धन्यवाद के बलिदान का चढ़ानेवाला
मेरी महिमा करता है;

और जो अपना चरित्र उत्तम रखता
है

उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ
उद्धार दिखाऊंगा !

(प्रधान बजानेवाले के छिये दाऊद का
भजन जब माताम जबी उसके पास
इसछिये आया कि बच बलबेबा के पास
गया था)

५१ हे परमेश्वर, अपनी करुणा
के अनुसार मुझ पर अनुग्रह
कर;

अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे
अपराधों को मिटा दे ।

२ मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म
दूर कर,

और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध
कर !

३ मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ,
और मेरा पाप निरन्तर मेरी दृष्टि
में रहता है ।

४ मैं ने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया,
और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही
किया है,

ताकि तू बोलने में धर्मी

और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे ।

५ देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ,
और पाप के साथ अपनी माता के
- गर्भ में पड़ा ॥

६ देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न
होता है;

और मेरे मन * ही में ज्ञान सिखाएगा ।

७ क्रुपा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र
हो जाऊंगा;

मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक
श्वेत बनूंगा ।

८ मुझे हर्ष और आनन्द की बातें सुना,
जिस से जो हठियाँ तू ने तोड़ डाली
हे वह मगन हो जाएं ।

९ अपना मुख मेरे पापों की ओर से
फेर ले,

और मेरे सारे अधर्म के कामों को
मिट्टा डाल ॥

१० हे परमेश्वर, मेरे अन्दर शुद्ध मन
उत्पन्न कर,

और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नये
सिरे से उत्पन्न कर ।

११ मुझे अपने साम्हने से निकाल न
दे,

और अपने पवित्र आत्मा को मुझ से
अलग न कर ।

१२ अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे
फिर से दे,

और उदार आत्मा देकर मुझे
सम्भाल ॥

१३ तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग
सिखाऊंगा,

और पापी तेरी ओर फिरेंगे ।

* मूल में—गुप्त स्थान ।

१४ हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता पर-
श्वर, मुझे हत्या के अपराध से
छुड़ा ले,
तब मैं तेरे धर्म का जयजयकार
करने पाऊंगा ॥

१५ हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे
तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा ।

१६ क्योंकि तू मेलबलि में प्रसन्न नहीं
होता, नहीं तो मैं देता;
होमबलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता ।

१७ टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान
है;

हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए
मन को तुच्छ नहीं जानता ॥

१८ प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर,
यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना,

१९ तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात्
सर्वांग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न
होगा;

तब लोग तेरी बेदी पर बेल चढ़ाएंगे ॥

(प्रधान बजानेवाले के छिये, मशकोज
पर दाजद का भजन जब दोस्र बदीमो
ने आज्ञा की बनाया कि दाजद
बनौमेलेक के घर गया है)

५२ हे वीर, तू बुराई करने पर
क्यों घमण्ड करता है ?

ईश्वर की करुणा तो अनन्त है ।

२ तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है;
सान धरे हुए अस्तुरे की नाई वह
छल का काम करती है ।

३ तू भलाई से बढ़कर बुराई में,
और अधर्म की बात से बढ़कर भूठ
से प्रीति रखता है । (बेष्ठा)

४ हे छली जीभ
तू सब विनाश करनेवाली बातों से
प्रसन्न रहती है ॥

५ निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिये
नाश कर देगा;

वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल
देगा;

और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़
डालेगा । (बेष्ठा)

६ तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर
डर जाएंगे,

और यह कहकर उस पर हंसेंगे, कि

७ देखो, यह वही पुरुष है जिस ने
परमेश्वर को अपनी शरण नहीं
माना,

परन्तु अपने धन की बहुतायत पर
भरोसा रखता था,

और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता
रहा !

८ परन्तु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे
जलपाई के वृक्ष के समान हूँ ।

मैं ने परमेश्वर की करुणा पर सदा
सर्वदा के लिये भरोसा रखा है ।

९ मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा,
क्योंकि तू ही ने यह काम किया है ।
मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा,
क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के
साम्हने उत्तम है ॥

(प्रधान बजानेवाले के छिये मशकोज की
राज पर दाजद का मशकोज)

५३ मूढ़ ने अपने मन में कहा है,
कि कोई परमेश्वर है ही
नहीं ।

वे बिगड़ गए, उन्होंने ने कुटिलता के
घिनौने काम किए हैं;

कोई सुकर्मी नहीं ॥

२ परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के
ऊपर दृष्टि की

- ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने-
वाला
वा परमेश्वर को पूछनेवाला है कि
नहीं ॥
३ वे सब के सब हट गए; सब एक साथ
बिगड़ गए;
कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं ॥
क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ
भी ज्ञान नहीं
४ जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे
रोटी
और परमेश्वर का नाम नहीं लेते ?
५ वहां उन पर भय छा गया जहा भय
का कोई कारण न था ।
क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को,
जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े
थे, तितर बितर कर दिया;
तू ने तो उन्हें लज्जित कर दिया
इसलिये कि परमेश्वर ने उनको
निकम्मा ठहराया है ॥
६ भला होता कि इस्त्राएल का पूरा
उद्धार सिय्योन से निकलता ।
जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बन्धुघ्राई
से लौटा ले आएगा
तब याकूब भगन और इस्त्राएल
आनन्दित होगा ॥

(प्रधान बजानेवाले के शिबे, दाऊद का
मशकौस तारवाले बाजों के साथ, जब
जौपियों ने चाकर श्राऊस से कषा कषा
दाऊद हमारे बाँच में शिषा नचीं
रचता ?)

- ५४ हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा
मेरा उद्धार कर,
और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर ।
२ हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन
ले;

- मेरे मुंह के वचनों की ओर कान
लगा ॥
३ क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं,
और बलात्कारी मेरे प्राण के ग्राहक
हुए हैं;
उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख
नहीं जाना ॥ (वेखा)
४ देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है;
प्रभु मेरे प्राण के सम्भालनेवालो के
सग है ।
५ वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं
पर लौटा देगा;
हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण
उन्हें विनाश कर ॥
६ मैं तुम्हें स्वेच्छाबलि चढाऊंगा;
हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद
करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है ।
७ क्योंकि तू ने मुझे सब दुखों से छुड़ाया
है,
और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके
सन्तुष्ट हुआ हूँ ॥

(प्रधान बजानेवाले के शिबे, तारवाले
बाजों के साथ दाऊद का मशकौस)

- ५५ हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की
ओर कान लगा,
और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुह न
मोड़ * !
२ मेरी ओर ध्यान देकर, मुझे उत्तर दे;
मैं चिन्ता के मारे छटपटाता हूँ और
व्याकुल रहता हूँ ।
३ क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट
उपद्रव कर रहे हैं;
वे मुझ पर बोषारोपण करते हैं,
और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं ॥

* मूल में—क्षिप न जा ।

- ४ मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है,
और मृत्यु का भय मुझ में समा गया
है ।
- ५ भय और कंपकपी ने मुझे पकड
लिया है,
और भय के कारण मेरे रोए रोए
खड़े हो गए हैं ।
- ६ और मैं ने कहा, भला होता कि मेरे
कबूतर के से पंख होने तो मैं उड़
जाता और विश्राम पाता !
- ७ देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर
निकल जाता और जगल में बसेरा
लेता, (बेछा)
- ८ मैं प्रचण्ड बयार और ग्रान्धी के
भोंके से बचकर किसी शरण स्थान
में भाग जाता ॥
- ९ हे प्रभु, उनको सत्यानाश कर, और
उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे;
क्योंकि मैं ने नगर में उपद्रव और
भगडा देखा है ।
- १० रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर
चढ़कर चारों ओर घूमते हैं;
और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात
होता है ।
- ११ उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला
है;
और अन्धेर, अत्याचार और छल
उसके चौक से दूर नहीं होते ॥
- १२ जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु
नही था,
नही तो मैं उसको सह लेता;
जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह
मेरा बैरी नहीं है,
नहीं तो मैं उस से छिप जाता ।
- १३ परन्तु वह तो तू ही था जो मेरी
बराबरी का मनुष्य
- मेरा परममित्र और मेरी जान पहचान
का था ।
- १४ हम दोनों आपस में कैंसी मीठी मीठी
बातें करते थे;
हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन
को जाते थे ।
- १५ उनको मृत्यु अचानक आ दबाए;
वे जीवित ही अघोलोक में उतर जाएं;
क्योंकि उनके घर और मन दोनों में
बुराईयां और उत्पात भरा है ॥
- १६ परन्तु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा;
और यहोवा मुझे बचा लेगा ।
- १७ साझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों
पहर में दोहाई दूंगा और कराहता
रहूंगा ।
और वह मेरा शब्द सुन लेगा ।
- १८ जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उस
से उस ने मुझे कुशल के साथ बचा
लिया है ।
उन्होंने ने तो बहुतों को संग लेकर मेरा
साम्हना किया था ।
- १९ ईश्वर जो आदि से विराजमान है यह
सुनकर उनको उत्तर देगा ।
(बेछा)
ये वे हैं जिन में कोई परिवर्तन नहीं,
और उन में परमेश्वर का भय है ही
नहीं ॥
- २० उस ने अपनी मेल रखनेवालों पर भी
हाथ छोड़ा है,
उस ने अपनी वाचा को तोड़ दिया है ।
- २१ उसके मुह की बातें तो मक्खन सी
चिकनी थी
परन्तु उसके मन में लड़ाई की बातें
थीं;
उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे
परन्तु नंगी तलवारों थीं ॥

- २२ अपना बोझ यहीवा पर डाल दे वह तुम्हें सम्भालेगा;
वह धर्मी को कभी टलने न देगा ॥
- २३ परन्तु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड़हे में गिरा देगा;
हृत्कारे श्रीर छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे ।
परन्तु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये। योन्ते-लेखकोकीम * में दाऊद का भिक्षास। जब पश्चिमत्यों ने उसको मत नगर में पकड़ा था।)

- ५६** हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं;
वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं ।
२ मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं,
क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझ से लड़ते हैं वे बहुत हैं ।
३ जिस समय मुझे डर लगेगा,
मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा ।
४ परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा,
परमेश्वर पर मैं ने भरोसा रखा है,
मैं नहीं डरूंगा ।
कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है ?
५ वे दिन भर मेरे वचनों को, उलटा अर्थ लगा लगाकर मरोड़ते रहते हैं;
उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं ।

* अर्थात् दूर देशवालों की मौनी कबूतरी ।

- ६ वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं;
वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक-लगाए बैठे हों ।
७ क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे ?
हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे !
८ तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है;
तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले !
क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है ?
९ तब जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उलटे फिरेंगे ।
यह मैं जानता हूँ, कि परमेश्वर मेरी ओर है ।
१० परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा,
यहीवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा ।
११ मैं ने परमेश्वर पर भरोसा रखा है,
मैं न डरूंगा ।
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ?
१२ हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है;
मैं तुझ को धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा ।
१३ क्योंकि तू ने मुझ को मृत्यु से बचाया है;
तू ने मेरे पैरों को भी फिसलने से न बचाया,
ताकि मैं ईश्वर के साम्हने जीवतों के उजियाले में चलूँ फिहूँ ॥

(प्रधान बजानेवाले के छिन्ने चख-
तश्चेत * में दाखद का भिन्नाम, जब
बद भाजख से भाजकर मुफा में छिप
बथा था)

- ५७ हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह
कर, मुझ पर अनुग्रह कर,
क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ;
और जब तक ये आपत्तियाँ निकल
न जाएँ,
तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरणा
लिए रहूँगा ।
- २ मैं परम प्रधान परमेश्वर को
पुकारूँगा,
ईश्वर को जो मेरे लिये सब कुछ
सिद्ध करता है ।
- ३ ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा
लेगा,
जब मेरा निगलनेवाला निन्दा कर
रहा हो । (बेष्ठा)
परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई
प्रगट करेगा ॥
- ४ मेरा प्राण सिंहीं के बीच में है,
मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना
पडता है, अर्थात्
ऐसे मनुष्यों के बीच में जिन के दांत
बर्छीं और तीर हैं,
और जिनकी जीभ तेज तलवार
है ॥
- ५ हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति
महान और तेजोमय है,
तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर
फैल जाए !
- ६ उन्हीं ने मेरे पैरों के लिये जाल
लगाया है;
मेरा प्राण ढला जाता है ।

* अर्थात् नाश न कर ।

उन्हीं ने मेरे प्राण गड़हा खोदा,
परन्तु आप ही उस में गिर पड़े ॥
(बेष्ठा)

- ७ हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है,
मेरा मन स्थिर है;
मैं गाऊँगा वरन भजन कीर्तन
करूँगा ।
- ८ हे मेरी आत्मा * जाग जा ! हे सारंगी
और बीणा जाग जाओ !
मैं भी पी फटते ही जाग उठूँगा ।
- ९ हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा
घन्यवाद करूँगा;
मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच
में तेरा भजन गाऊँगा ।
- १० क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी
है,
और तेरी सच्चाई आकाशमण्डल
तक पहुँचती है ॥
- ११ हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति
महान है !
तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर
फैल जाए !

(प्रधान बजानेवाले के छिन्ने चख-
तश्चेत † में दाखद का भिन्नाम)

- ५८ हे मनुष्यो, क्या तुम सचमुच
धर्म की बात बोलते हो ?
और हे मनुष्यवंशियो क्या तुम
सीषाई से न्याय करते हो ?
- २ नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम
करते हो;
तुम देश भर में उपद्रव करते जाते
हो ‡ ॥

* मूल में—हे मेरी महिमा ।

† अर्थात् नाश न कर ।

‡ मूल में—तुम अपने हाथों का उपद्रव देश
में तौल देते हो ।

- ३ दुष्ट लोग जन्मते ही पराए हो जाते हैं,
 वे पेट से निकलते ही भूठ बोलते हुए भटक जाते हैं ।
- ४ उन में सर्प का सा विष है;
 वे उस नाग के समान हैं, जो सुनना नहीं चाहता;
- ५ और सपेरा कंसी ही निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े,
 तीभी उसकी नहीं सुनता ॥
- ६ हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे;
 हे यहोवा उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल !
- ७ वे धुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाएं;
 जब वे अपने तीर चढ़ाएं, तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाएं ।
- ८ वे घोंघे के समान हो जाएं जो धुलकर नाश हो जाता है,
 और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिस ने सूरज को देखा ही नहीं ।
- ९ उस से पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की झाँच लगे,
 हरे व जले, दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा ॥
- १० धर्मी-ऐसा पलटा देखकर भ्रान्दित होगा;
 वह अपने पांव दुष्ट के लोहू में घोएगा ॥
- ११ तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मों के लिये फल है;
 निश्चय परमेश्वर है, जो पृथ्वी पर न्याय करता है ॥

(प्रधान बचानेवाली के खिचे चख-तखचैन* वाक्य का मिश्रण, जब वाक्य के भेजे हुए लोभों ने घर का पहरा दिया कि उसको भार डालें)

- ५९ हे मेरे परमेश्वर, मुझ को शत्रुओं से बचा,
 मुझे ऊँचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा,
 २ मुझ को बुराई करनेवालों के हाथ से बचा,
 और हत्यारों से मेरा उद्धार कर ॥
 ३ क्योंकि देख, वे मेरी घात में लगे हैं;
 हे यहोवा, मेरा कोई दोष वा पाप नहीं है, तीभी बलवन्त लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं ।
 ४ वह मुझ निर्दोष पर दौड़े दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं ॥
 मुझ से मिलने के लिये जाग उठ, और यह देख !
 ५ हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्त्राएल के परमेश्वर सब अन्य-जातिवालों को दण्ड देने के लिये जाग;
 किसी विश्वासघाती भ्रत्याचारी पर अनुग्रह न कर ॥ (बेष्ठा)
 ६ वे लोग सांभ को लौटकर कुत्ते की नाईं गुराते हैं,
 और नगर के चारों ओर घूमते हैं ।
 देख वे डकारते हैं,
 ७ उनके मुंह के भीतर तलवारे हैं,
 क्योंकि वे कहते हैं, कौन सुनता है ?
 ८ परन्तु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा;
 तू सब अन्य जातियों को ठट्टों में उड़ाएगा ।

* अर्थात् नाश न कर ।

- ६ हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी ;
क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है ॥
- १० परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझ
से मिलेगा ;
परमेश्वर मेरे दाहियों के विषय मेरी
इच्छा पूरी कर देगा * ॥
- ११ उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी
प्रजा भूल जाए ;
हे प्रभु, हे हमारी ढाल !
अपनी शक्ति के उन्हें तितर बितर
कर, उन्हें दबा दे ।
- १२ वह अपने मुह के पाप, और ओठों
के वचन,
और शाप देने, और भूठ बोलने के
कारण,
अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए ।
- १३ जलजलाहट में आकर उनका अन्त
कर, उनका अन्त कर दे ताकि वे
नष्ट हो जाएं
तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब
पर,
वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता
करता है ॥ (बेझा)
- १४ वे सांभ को लौटकर कुत्ते की नाई
गुरीएं,
और नगर के चारों ओर घूमे ।
- १५ वे टुकड़े के लिये मारे मारे फिरे,
और तृप्त न होने पर रात भर वही
ठहरे रहें ॥
- १६ परन्तु मैं तेरी सामर्थ्य का यश
गाऊंगा,
और भोर को तेरी करुणा का जय-
जयकार करूंगा ।
क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है,

और संकट के समय मेरा शरणस्थान
ठहरा है ।

- १७ हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा,
क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा
गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर
है ॥

(प्रधान बजानेवाले के लिये) राजद का
भिन्नात प्रभुनेक * में। शिवादायक।
जब वह चरचरैत और चरनलीवा से
खड़ना था, और घोषाव ने लौटकर
छोप की तराई में बहूमियों में से
बारच बजार पुष्य मार लिये)

- ६० हे परमेश्वर तू ने हम को
त्याग दिया,
और हम को तोड़ डाला है ;
तू क्रोधित हुआ; फिर हम को ज्यों
का त्यों कर दे ।
- २ तू ने भूमि को कंपाया और फाड़
डाला है ;
उसके दरारों को भर दे †, क्योंकि
वह डगमगा रही है ।
- ३ तू ने अपनी प्रजा को कठिन दुःख
भुगताया ;
तू ने हमें लड़खड़ा देनेवाला दाखमधु
पिलाया है ॥
- ४ तू ने अपने डरवैयों को भ्रष्टा दिया
है,
कि वह सच्चाई के कारण फहराया
जाए । (बेझा)
- ५ तू अपने दहिने हाथ से बचा, और
हमारी सुन ले
कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए ॥
- ६ परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है,
मैं प्रफुल्लित हूंगा ;

* अर्थात् साक्षी के सोसन ।

† मूल में—चंगा कर ।

* मूल में—मेरे द्रोहियों को मुझे दिखायगा ।

- में शक्रेम को बांट लूंगा, और सुक्कोत
की तराई को नपवाऊंगा ।
- ७ गिलाद मेरा है; मनश्शे भी मेरा
है;
और एप्रैम मेरे सिर का टोप,
यहूदा मेरा राजदरह है ।
- ८ मोआब मेरे धोने का पात्र है;
मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा;
हे पल्लिस्तीन मेरे ही कारण जय-
जयकार कर ॥
- ९ मुझे गढ़वाले नगर में कौन
पहुँचाएगा ?
एदोम तक मेरी अगुवाई किस ने
की है ?
- १० हे परमेश्वर, क्या तू ने हम को त्याग
नहीं दिया ?
हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ
नहीं जाता ।
- ११ द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर,
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा
व्यर्थ होता है ।
- १२ परमेश्वर की सहायता से हम वीरता
दिखाएंगे,
क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही
रोड़ेगा ॥
- (प्रधान बजानेवाले के लिये तारवाले
बाजे के साथ दाऊद का भजन)
- ६९ हैं परमेश्वर, मेरा चिल्लाना
सुन,
मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे ।
- २ मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की छोर से
भी तुझे पुकारूंगा,
जो चट्टान मेरे लिये ऊंची है, उस पर
मुझ को ले चला;
३ क्योंकि तू मेरा शरणस्थान है,
- और शत्रु से बचने के लिये ऊंचा
गढ़ है ॥
- ४ मैं तेरे तम्बू में युगानुयुग बना
रहूंगा ।
मैं तेरे पंखों की झोट में शरण लिए
रहूंगा । (बैठा)
- ५ क्योंकि हे परमेश्वर, तू ने मेरी मन्त्रों
सुनीं,
जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा
भाग तू ने मुझे दिया है ॥
- ६ तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा;
उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर
होंगे ।
- ७ वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना
रहेगा;
तू अपनी करुणा और सच्चाई को
उसकी रक्षा के लिये ठहरा रख ।
- ८ और मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन
गा गाकर
अपनी मन्त्रते हर दिन पूरी किया
करूंगा ॥
- (प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद का
भजन । बच्चुलन की राज घर)
- ६२ सचमुच में चुपचाप होकर
परमेश्वर की ओर मन लगाए
हूँ;
मेरा उद्धार उसी से होता है ।
- २ सचमुच वही, मेरी चट्टान और मेरा
उद्धार है,
वह मेरा गढ़ है; मैं बहुत न डिगूंगा ॥
- ३ तुम कब तक एक पुरुष पर धावा
करते रहोगे,
कि सब मिलकर उसका घात करो ?
वह तो झुकी हुई भीत वा गिरते
हुए बाड़े के समान है ।

- ४ सचमुच वे उसको, उसके ऊंचे पद से
गिराने की सम्मति करते हैं;
वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं ।
मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन
में कोसते हैं ॥ (बेव्या)
- ५ हे मेरे मन, परमेश्वर के साम्हने
चुपचाप रह,
क्योंकि मेरी आशा उसी से है ।
- ६ सचमुच वही मेरी चट्टान, और मेरा
उद्धार है,
वह मेरा गढ़ है; इसलिये मैं न
डिगूंगा ।
- ७ मेरा उद्धार और मेरी महिमा का
आधार परमेश्वर है,
मेरी दृढ़ चट्टान, और मेरा शरण-
स्थान परमेश्वर है ॥
- ८ हे लोगो, हर समय उस पर भरोसा
रखो;
उस से * अपने अपने मन की बातें
खोलकर कहो †,
परमेश्वर हमारा शरणस्थान है ।
(बेव्या)
- ९ सचमुच नीच लोग तो अस्थाई, और
बड़े लोग मिथ्या ही हैं;
तौल में वे हलके निकलते हैं;
वे सब के सब सांस से भी हलके हैं ।
- १० अन्धेर करने पर भरोसा मत रखो,
और लूट पाट करने पर मत फूलो;
चाहे धन सम्पत्ति बढ़े, तीभी उस
पर मन न लगाना ॥
- ११ परमेश्वर ने एक बार कहा है;
और दो बार मैं ने यह सुना है :
कि सामर्थ्य परमेश्वर का है ।
- १२ और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है ।

* मूल में—उसके साम्हने ।

† मूल में—उबडेल दो ।

क्योंकि तू एक एक जन को उसके
काम के अनुसार फल देता है ॥

(दाजद का भजन । जब वह बज्जरा
के जंगल में था)

६३

हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है,
मैं तुझे यत्न से ढूँढूंगा;

सूखी और निर्जल ऊसर * भूमि
पर,

मेरा मन तेरा व्यासा है, मेरा शरीर
तेरा अति अभिलाषी है ।

२ इस प्रकार से मैं ने पवित्रस्थान में
तुझ पर दृष्टि की,
कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को
देखू ।

३ क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी
उत्तम है,
मैं तेरी प्रशंसा करूंगा ।

४ इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य
कहता रहूंगा;
और तेरा नाम लेकर अपने हाथ
उठाऊंगा ॥

५ मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने
भोजन से तृप्त होगा,
और मैं जयजयकार करके तेरी स्तुति
करूंगा ।

६ जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण
करूंगा,
तब रात के एक एक पहर में तुझ
पर ध्यान करूंगा;

७ क्योंकि तू मेरा सहायक बना है,
इसलिये मैं तेरे पंखों की छाया में
जयजयकार करूंगा ।

८ मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता
है;

* मूल में—धकी ।

- और मुझे तो तू अपने दहिने हाथ के धाम रखता है ॥
- ६ परन्तु जो मेरे प्राण के लोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे;
- १० वे तलवार से मारे जाएंगे, और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे ।
- ११ परन्तु राजा परमेश्वर के कारण आनन्दित होगा; जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, वह बड़ाई करने पाएगा; परन्तु भूठ बोलनेवालों का मुह बन्द किया जाएगा ॥
- (प्रधान बजानेवाले के छिये दाऊद का भजन)
- ६४ हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दू, तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर ।
- २ कुकर्मियों की गोष्ठी से, और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी भाड़ हो ।
- ३ उन्हीं ने अपनी जीम को तलवार की नाई तेज किया है, और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है;
- ४ ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारें; वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं ।
- ५ वे बुरे काम करने को हियाव बान्धते हैं; वे फन्दे लगने के विषय बातचीत करते हैं, और कहते हैं, कि हम को कौन देखेगा ?
- ६ वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं; और कहते हैं, कि हम ने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है । क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय भयाह है !
- ७ परन्तु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा; वे अचानक घायल हो जाएंगे ।
- ८ वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे; जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे ।
- ९ तब सारे लोग डर जाएंगे; और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे, और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे ॥
- १० धर्मी तो यहोवा के कारण आनन्दित होकर उसका शरणागत होगा, और सब सीधे मनवाले बड़ाई करेंगे ॥
- (प्रधान बजानेवाले के छिये दाऊद का भजन, नीत)
- ६५ हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोहती है; और तेरे लिये मन्नते पूरी की जाएगी ।
- २ हे प्रार्थना के सुननेवाले ! सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे ।
- ३ अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं; हमारे अपराधों को तू ढांप देगा ।
- ४ क्या ही घन्य है वह; जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में बास करे ! हम तेरे भवन के, अर्थात् तेरे पवित्र मन्दिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे ॥

- ५ हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर,
हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के
और दूर के समुद्र पर के रहनेवालों के
आधार,
तू धर्म से किए हुए भयानक कामों
के द्वारा हमारा मुह मांगा वर
देगा;
- ६ तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए,
अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर
करता है;
- ७ तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी
तरंगों का महाशब्द,
और देश देश के लोगों का कोलाहल
शान्त करता है;
- ८ इसलिये दूर दूर देशों के रहनेवाले
तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं;
तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों
से जयजयकार कराता है ॥
- ९ तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता
है,
तू उसको बहुत फलदायक करता
है;
परमेश्वर की नहर जल से भरी
रहती है;
तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के
लिये अन्न को तैयार करता है ।
- १० तू रेघारियों को भली भांति सींचता
है,
और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता
है,
तू भूमि को मँह से नरम करता
है,
और उसकी उपज पर आशीष देता
है ।
- ११ अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर
तू ने मानो मुकुट धर दिया है;

- तेरे मागों में उत्तम उत्तम पदार्थ
पाए जाते हैं * ।
- १२ वे जंगल की चराइयों में पाए जाते
हैं;
और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बान्धे
हुए हैं ॥
- १३ चराइयां भेड़-बकरियों से भरी हुई
हैं,
और तराइया अन्न से ढंपी हुई हैं,
वे जयजयकार करती और गाती भी
हैं ॥

(प्रथम ब्रह्मबाले के छिबे गीत,
भजन)

- हे सारी पृथ्वी के लोगों,
परमेश्वर के लिये जयजयकार
करो;
- २ उसके नाम की महिमा का भजन
गाओ;
- उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा
करो ।
- ३ परमेश्वर से कहो, कि तेरे काम क्या
ही भयानक है !
तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु
तेरी चापलूसी करेंगे ।
- ४ सारी पृथ्वी के लोग तुझे दरदबव
करेंगे,
और तेरा भजन गाएंगे;
वे तेरे नाम का भजन गाएंगे ॥
(श्लोका)
- ५ आओ परमेश्वर के कामों को देखो;
वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों
को भययोग्य देख पड़ता है ।
- ६ उस ने समुद्र को सूखी भूमि कर
डाला;

* मूल में—चिकनाई टपकती है ।

- बे महानद में से पांव पांव पार उतरे ।
 वहां हम उसके कारण भ्रानन्दित हुए,
 ७ जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है,
 और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है ।
 हठीले अपने सिर न उठाएं ॥
 (बेला)
- ८ हे देश देश के लोगो, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो,
 और उसकी स्तुति में राग उठाओ,
 ९ जो हम को जीवित रखता है;
 और हमारे पांव को टलने नहीं देता ।
 १० क्योंकि हे परमेश्वर तू ने हम को जांचा;
 तू ने हमें चान्दी की नाईं तयाया था ।
 ११ तू ने हम को जाल में फंसाया;
 और हमारी कटि पर भारी बोझ बांधा था;
 १२ तू ने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया,
 हम भ्राग और जल से होकर गए;
 परन्तु तू ने हम को उबार के मुख से भर दिया है ॥
 १३ मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा;
 मैं उन मन्त्रों को तेरे लिये पूरी करूंगा,
 १४ जो मैं ने मुंह * खोलकर मानी,
 और संकट के समय कही थी ।
 १५ मैं तुझे मोटे पशुओं के होमबलि, मेढ़ों की चर्बी के घूप समेत चढाऊंगा;
 मैं बकरों समेत बैल चढाऊंगा ॥
 (बेला)
- १६ हे परमेश्वर के सब डरवैयो आकर सुनो,
 मैं बताऊंगा कि उस ने मेरे लिये क्या क्या किया है ।
 १७ मैं ने उसको पुकारा,
 और उसी का गुणानुवाद मुझ से हुआ ।
 १८ यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता ।
 १९ परन्तु परमेश्वर ने तो सुना है;
 उस ने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है ॥
 २० धन्य है परमेश्वर,
 जिस ने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, और न मुझ से अपनी करुणा दूर कर दी है !
- (प्रधान बजानेवाले के छिये तारवाले बाजों के छाच भजन, जीत)
- ६७ परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे,
 और हम को आशीष दे;
 वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए * । (बेला)
- २ जिस से तेरी गति पृथ्वी पर,
 और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए ।
 ३ हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे;
 देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे ॥
 ४ राज्य राज्य के लोग भ्रानन्द करें,
 और जयजयकार करे,

* मूल में—हमारे साथ अपना मुख चमकाए ।

* मूल में—होठ ।

- क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय
धर्म से करेगा,
और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों
की अगुवाई करेगा ॥ (बेष्ठा)
- ५ हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा
घन्यवाद करें;
देश देश के सब लोग तेरा घन्यवाद
करें ॥
- ६ भूमि ने अपनी उपज दी है,
परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है,
उस ने हमें आशीष दी है ।
- ७ परमेश्वर हम को आशीष देगा;
और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब
लोग उसका भय मानेंगे ॥

(प्रधान बजानेवाले के छिबे दाण्ड का
भजन)

- ६८ परमेश्वर उठे, उसके शत्रु
तितर बितर हों;
और उसके बैरी उसके साम्हने मे
भाग जाएं ।
- २ जैसे घुआं उड जाता है, वैसे ही तू
उनको उड़ा दे;
जैसे मोम आग की आंच से पिघल
जाता है,
वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की
उपस्थिति से नाश हों ।
- ३ परन्तु धर्मी आनन्दित हों; वे परमेश्वर
के साम्हने प्रफुल्लित हों;
वे आनन्द मे मगन हों ।
- ४ परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम
का भजन गाओ;
जो निर्जल देशों मे सवार होकर
चलता है, उसके लिये सडक बनाओ;
उसका नाम याह है, इसलिये तुम
उसके साम्हने प्रफुल्लित हो !

- ५ परमेश्वर अपने पवित्र घाम में,
अनाथों का पिता और विधवाओं
का न्यायी है ।
- ६ परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है;
और बन्धुओं को छुड़ाकर भाग्यवान्
करता है;
परन्तु हठोलों को सूखी भूमि पर
रहना पड़ता है ॥
- ७ हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा
के आगे आगे चलता था,
जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत
चला, (बेष्ठा)
- ८ तब पृथ्वी कांप उठी,
और आकाश भी परमेश्वर के साम्हने
टपकने लगा,
उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हां
इलाएल के परमेश्वर के साम्हने
कांप उठा ।
- ९ हे परमेश्वर, तू ने बहुत से वरदान
बरसाए *;
तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था,
परन्तु तू ने उसको हरा भरा †
किया है;
- १० तेरा भ्रूण उस में बसने लगा;
हे परमेश्वर तू ने अपनी भलाई से
दीन जन के लिये तैयारी की है ।
- ११ प्रभु आज्ञा देता है,
तब शुभ समाचार सुनानेवालियों की
बडी सेना हो जाती है ।
- १२ अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे
चले जाते है,
और गृहस्थिन लूट को बांट लेती
है ।

* मूल में—स्वेच्छादानों की वृष्टि हिलाई ।

† मूल में—स्थिर ।

- १३ क्या तुम भेड़शालों के बीच लेट जाओगे ?
और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चान्दी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों ?
- १४ जब सर्वशक्तिमान ने उस में राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सल्मोन पर्वत पर हिम पड़ा ॥
- १५ बाशाण का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है;
बाशाण का पहाड़ बहुत शिखरवाला पहाड़ है ।
- १६ परन्तु हे शिखरवाने पहाड़ो, तुम क्यों उस पर्वत को धूरते हो, जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिये चाहा है,
और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा ?
- १७ परमेश्वर के रथ बीस हजार, वरन हजारों हजार हैं;
प्रभु उनके बीच में है,
जैसे वह सीनें पवित्रस्थान में है ।
- १८ तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बन्धुभाई मे ले गया;
तू ने मनुष्यों से, वरन हठीले मनुष्यों से भी भेटें लीं,
जिस से याह परमेश्वर उन में वास करे ॥
- १९ धन्य है प्रभु, जो प्रति दिन हमारा बोझ उठाता है;
वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है ।
(सेन्हा)
- २० वही हमारे लिये बचानेवाला ईश्वर ठहरा;
- यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है * ॥
- २१ निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर,
- और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है,
उसके बाल भरे चोंडे पर मार मार के उसे चूर करेगा ।
- २२ प्रभु ने कहा है, कि मैं उन्हें बाशाण से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहिरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा,
- २३ कि तू अपने पांव को लोह में डुबोए, और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरें ॥
- २४ हे परमेश्वर तेरी गति देखी गई, मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्रस्थान में दिखाई दी है;
- २५ गानेवाले आगे आगे और तारवाले बाजों के बजानेवाले पीछे पीछे गए, चारों ओर कुमारियां डफ बजाती थी ।
- २६ सभाओं में परमेश्वर का, हे इस्राएल के सोते से निकले हुए लोगो, प्रभु का धन्यवाद करो ।
- २७ वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा विन्यामीन है,
वहाँ यहूदा के हाकिम अपने अनुचरों समेत है,
वहाँ जबूलून और नप्ताली के भी हाकिम हैं ॥
- २८ तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी, कि तुम्हें सामर्थ्य मिले;
हे परमेश्वर जो कुछ तू ने हमारे लिये किया है, उसे दृढ़ कर ।

* मूल में—यहोवा प्रभु के पास मृत्यु से निकास है ।

२६ तेरे मन्दिर के कारण जो यरूशलेम में हैं,

राजा तेरे लिये भेंट ले आएंगे ।

३० नरकटों में रहनेवाले बनैले पशुओं को,
सांडों के झुण्ड को और देश देश के बछड़ों को भिड़क दे ।

वे चान्दी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे;

जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं, उनको उस ने तितर बितर किया है ।

३१ मिस्र से रईस आएंगे;
कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे ॥

३२ हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगो परमेश्वर का गीत गाओ;
प्रभु का भजन गाओ, (बेला)

३३ जो सब से ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है;
देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गम्भीर वाणी शक्तिशाली है ।

३४ परमेश्वर की सामर्थ्य की स्तुति करो,
उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है,
और उसकी सामर्थ्य आकाशमण्डल में है ।

३५ हे परमेश्वर, तू अपने पवित्रस्थानों में भययोग्य है,
इस्राएल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देनेवाला है ।

परमेश्वर धन्य है ॥

(प्रथाय बखानेवाको के छिमे शोमशौन * में दाऊद का गीत)

६६ हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मे जल में डूबा जाता हूँ ।

२ मैं बड़े दलदल में धसा जाता हूँ, और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते; मैं गहिरे जल में आ गया, और धारा में डूबा जाता हूँ ।

३ मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है; अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते, मेरी आंखें रह गई है ॥

४ जो अकारण मेरे डूरी है, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं;

मेरे विनाश करनेवाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं, इसलिये जो मैं ने लूटा नहीं वह भी मुझ को देना पडा ।

५ हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढता को जानता है,
और मेरे दोष तुझ से छिपे नहीं हैं ॥

६ हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे;

हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे दूँढते हैं, उनका मुँह मेरे कारण काला न हो ।

७ तेरे ही कारण मेरी निन्दा हुई है,
और मेरा मुँह लज्जा से ढंपा है ।

८ मैं अपने भाइयों के साम्हने अजनबी हुआ,
और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ ॥

* अर्थात् पुष्य विरोध ।

- ६ क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते
जलते भस्म हुआ,
और जो निन्दा वे तेरी करते हैं,
वही निन्दा मुझ को सहनी पड़ी
है ।
- १० जब मैं रोकर और उपवास करके दुःख
उठाता था,
तब उस से भी मेरी नामधराई ही
हुई ।
- ११ और जब मैं टाट का वस्त्र पहिने था,
तब मेरा दृष्टान्त उन में चलता था ।
- १२ फाटक के पास बैठनेवाले मेरे विषय
बातचीत करते हैं,
और मदिरा पीनेवाले मुझ पर लगता
हुआ गीत गाते हैं ॥
- १३ परन्तु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो
तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है;
हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहु-
तायत से,
और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा
के अनुसार * मेरी सुन ले ।
- १४ मुझ को दलदल में से उबार, कि
मैं धंस न जाऊं;
मैं अपने बैरियों से, और गहिरे जल
में से बच जाऊं ।
- १५ मैं धारा में डूब न जाऊं,
और न मैं गहिरे जल में डूब मरूं,
और न पाताल का मुह मेरे ऊपर
बन्द हो ॥
- १६ हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी
करुणा उत्तम है;
अपनी दया की बहुतायत के अनुसार
मेरी और ध्यान दे ।
- १७ अपने दास से अपना मुह न मोड़;
- क्योंकि मैं संकट में हूँ, फुर्ती से
मेरी सुन ले ।
- १८ मेरे निकट आकर मुझे छोड़ा ले,
मेरे शत्रुओं से मुझ को छुटकारा दे ॥
- १९ मेरी नामधराई और लज्जा और
अनादर को तू जानता है :
मेरे सब द्रोही तेरे साम्हने हैं ।
- २० मेरा हृदय नामधराई के कारण फट
गया, और मैं बहुत उदास हूँ ।
मैं ने किसी तरस खानेवाले की आशा
तो की, परन्तु किसी को न
पाया,
और शान्ति देनेवाले बूढता तो रहा,
परन्तु कोई न मिला ।
- २१ और लोगों ने मेरे खाने के लिये
इन्द्रायन दिया,
और मेरी व्यास बुझाने के लिये मुझे
सिरका पिलाया ॥
- २२ उनका भोजन * उनके लिये फन्दा हो
जाए;
और उनके सुख के समय जाल बन
जाए ।
- २३ उनकी आंखों पर अन्धेरा छा जाए,
ताकि वे देख न सके;
और तू उनकी कटि को निरन्तर
कंपाता रह ।
- २४ उनके ऊपर अपना रोष भड़का,
और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे ।
- २५ उनकी छावनी उजड़ जाए,
उनके डेरों में कोई न रहे ।
- २६ क्योंकि जिसको तू ने मारा, वे उसके
पीछे पड़े हैं,
और जिनको तू ने धायल किया, वे
उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं ।

* मूल में—अपने उद्धार की सच्चाई से ।

* मूल में—उनकी मेज ।

- २७ उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा;
और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करे ।
- २८ उनका नाम जीवन की पुस्तक में से
काटा जाए,
और धर्मियों के संग लिखा न जाए ॥
- २९ परन्तु मैं तो दुःखी और पीड़ित हूँ,
इसलिये हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार
करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा ।
- ३० मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति
करूंगा,
और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई
करूंगा ।
- ३१ यह यहोवा को बैल से अधिक,
वरन सींग और खुरवाले बैल से भी
अधिक भाएगा ।
- ३२ नम्र लोग इसे देखकर आनन्दित
होंगे,
हे परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन
हरा हो जाए ।
- ३३ क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान
लगाता,
और अपने लोगों को जो बन्धुए हैं
तुच्छ नहीं जानता ॥
- ३४ स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति
करे,
और समुद्र अपने सब जीव जन्तुओं
समेत उसकी स्तुति करे ।
- ३५ क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार
करेगा, और यहूदा के नगरों को
फिर बसाएगा;
और लोग फिर वहाँ बसकर उसके
अधिकारी हो जाएंगे ।
- ३६ उसके दासों का वंश उसको अपने
भाग में पाएगा,
और उसके नाम के प्रेमी उस में
बास करेंगे ॥

(प्रधान बच्चानेवाली के छिबे दाऊद का
अरब कराने के छिबे)

- ७० हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के
लिये, हे यहोवा मेरी सहायता
करने के लिये फुर्ती कर !
- २ जो मेरे प्राण के खोजी हैं,
उनकी आशा टूटे, और मुँह काला
हो जाए ।
जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं,
वे पीछे हटाए और निरादर किए
जाए ।
- ३ जो कहते हैं आहा, आहा,
वे अपनी लज्जा के भारे उलटे फेरे
जाए ॥
- ४ जितने तुझे दूढ़ते हैं, वे सब तेरे
कारण हर्षित और आनन्दित हों !
और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे
निरन्तर कहते रहें, कि परमेश्वर
की बड़ाई हो ।
- ५ मैं तो दीन और दरिद्र हूँ;
हे परमेश्वर मेरे लिये फुर्ती कर !
तू मेरा सहायक और छुड़ानेवाला है;
हे यहोवा विलम्ब न कर !
- ७१ हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ;
मेरी आशा कभी टूटने न
पाए !
- २ तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा
उद्धार कर.
मेरी ओर कान लगा, और मेरा
उद्धार कर !
- ३ मेरे लिये सनातन काल की चट्टान का
धाम बन, जिस में मैं नित्य जा
सकू;
तू ने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी
है,

- क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़
ठहरा है ॥
- ४ हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के,
और कुटिल और क्रूर मनुष्य के
हाथ से मेरी रक्षा कर ।
- ५ क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही
बाट जोहता आया हूँ,
बचपन-से मेरा आधार तू है ।
- ६ मैं गर्भ से निकलते ही, तुझ से
सम्भाला गया;
मुझे मां की कोख से तू ही ने
निकाला;
इसलिये मैं नित्य तेरी स्तुति करता
रहूंगा ॥
- ७ मैं बहुतों के लिये चमत्कार बना हूँ;
परन्तु तू मेरा दृढ शरणस्थान है ।
- ८ मेरे मुह से तेरे गुणानुवाद,
और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन
बहुत हुआ करे ।
- ९ बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर;
जब मेरा बल घटे तब मुझ को
छोड़ न दे ।
- १० क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें
करते हैं,
और जो मेरे प्राण की ताक में हैं,
बे आपस मे यह सम्मति करते हैं, कि
- ११ परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है;
उसका पीछा करके उसे पकड़ लो,
क्योंकि उसका कोई छुड़ानेवाला
नहीं ॥
- १२ हे परमेश्वर, मुझ से दूर न रह;
हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के
लिये फूर्ति कर !
- १३ जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी
आशा टूटे और उनका अन्त हो
जाए;
- जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, बे
नामधराई और अनादर मे गढ़
जाएं ।
- १४ मैं तो निरन्तर आशा लगाए रहूंगा,
और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता
जाऊंगा ।
- १५ मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का,
और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन
बिन भर करता रहूंगा,
परन्तु उनका पूरा व्योरा जाना भी
नहीं जाता ।
- १६ मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों
का वर्णन करता हुआ आऊंगा,
मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया
करूंगा ॥
- १७ हे परमेश्वर, तू तो मुझ को बचपन
ही से सिखाता आया है,
और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों
का प्रचार करता आया हूँ ।
- १८ इसलिये हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा
हो जाऊँ,
और मेरे बाल पक जाएँ, तब भी
तू मुझे न छोड़,
जब तक मैं आनेवाली पीढ़ी के लोगों
को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न
होनेवालों को तेरा पराक्रम सुनाऊँ ।
- १९ और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति
महान है ॥
तू जिस ने महाकार्य किए हैं,
हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है ?
- २० तू ने तो हम को बहुत से कठिन कष्ट
दिखाए हैं
परन्तु अब तू फिर से हम को
जिलाएगा;
और पृथ्वी के गहरे गड़हे में से उबार
लेगा ।

२१ तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा,
और फिरकर मुझे शान्ति देगा ॥

२२ हे मेरे परमेश्वर,
मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद
सारंगी बजाकर गाऊंगा;
हे इस्त्राएल के पवित्र मैं बीणा बजाकर
तेरा भजन गाऊंगा ।

२३ जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने
मुंह से
और अपने प्राण से भी जो तू ने बचा
लिया है, जयजयकार करूंगा ।

२४ और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर
करता रहूंगा;
क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी
थे, उनकी आशा टूट गई और मुंह
काले हो गए हैं ॥

(सुलैमान का गीत)

७२ हे परमेश्वर, राजा को अपना
नियम बता,

राजपुत्र को अपना धर्म सिखला !

२ वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से,
और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक
ठीक चुकाएगा ।

३ पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के
लिये,
धर्म के द्वारा शान्ति मिला करेगी ।

४ वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय
करेगा,
और दरिद्र लोगो को बचाएगा,
और अन्धे करनेवालों को चूर
करेगा ॥

५ जब तक सूर्य और चन्द्रमा बने
रहेंगे
तब तक लोग पीढ़ी-पीढ़ी तेरा भय
मानते रहेंगे ।

६ वह धास की खूटी पर बरसनेवाले
मेंह,

और भूमि सींचनेवाली ऋतियों के
समान होगा ।

७ उसके दिनों में धर्मी फूल फलेंगे,
और जब तक चन्द्रमा बना रहेगा,
तब तक शान्ति बहुत रहेगी ॥

८ वह समुद्र से समुद्र तक
और महानद से पृथ्वी की छोर
तक प्रभूता करेगा ।

९ उसके साम्हने जंगल के रहनेवाले
घुटने टेकेगे,
और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे ।

१० तर्षाश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट
ले आएंगे,
शेबा और सब दोनों के राजा द्रव्य
पहुंचाएंगे ।

११ सब राजा उसको दरिद्र बत् करेगे,
जाति जाति के लोग उसके अधीन
हो जाएंगे ॥

१२ क्योंकि वह दोहाई देनेवाले दरिद्र को,
और दुःखी और असहाय मनुष्य का
उद्धार करेगा ।

१३ वह कंगाल और दरिद्र पर तरस
खाएगा,
और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा ।

१४ वह उनके प्राणों को अन्धे और
उपद्रव से छुड़ा लेगा;
और उनका लोह उसकी दृष्टि में
अनमोल ठहरेगा ॥

१५ वह तो जीवित रहेगा और शेबा
के सोने में से उसको दिया जाएगा ।
लोग उसके लिये नित्य प्रार्थना
करेंगे;
और दिन भर उसको धन्य कहते
रहेंगे ।

- १६ देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा भ्रम होगा;
जिसकी बालें सबानोन के देवदारुओं की नाईं भूमेंगी;
और नगर के लोग घास की नाईं लहलहाएंगे ।
१७. उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा;
जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा,
और लोग अपने को उसके कारण धन्य मानेंगे,
- सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेंगी ॥
- १८ धन्य है, यहोवा परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है;
आश्चर्य कर्म केवल वही करता है ।
- १९ उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा;
और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी ।
आमीन फिर आमीन ॥
- २० बिबे के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएँ समाप्त हैं ।

तीसरा भाग

(आशाप का भजन)

- ७३ सचमुच इस्राएल के लिये अर्थात् शुद्ध मनवालों के लिये परमेश्वर भला है ।
- २ मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे ।
- ३ क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था,
तब उन घमस्त्रियों के विषय डाह करता था ॥
- ४ क्योंकि उनकी मृत्यु में बेधनाएँ नहीं होती,
परन्तु उनका बल झट्ट रहता है ।
- ५ उनको दूसरे मनुष्यों की नाईं कष्ट नहीं होता;
और और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती ।
- ६ इस कारण अहकार उनके गले का हार बना है;
- उनका ओढना उपद्रव है ।
- ७ उनकी आंखें चर्बी से भलकती हैं,
उनके मन की भावनाएँ उमरझती हैं ।
- ८ वे ठट्ठा मारते हैं, और दुष्टता से अन्धेर की बात बोलते हैं;
- ९ वे डींग मारते हैं * ।
वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं †,
और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं † ॥
- १० तीभी उसकी प्रजा इधर लौट आएगी,
और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा ।
- ११ फिर वे कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है ?
क्या परमप्रधान को कुछ ज्ञान है ?
- १२ देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं;
तीभी सदा सुभागी रहकर, धन सम्पत्ति बटोरते रहते हैं ।

* मूल में—वे कंचे पर से बोलते हैं ।

† मूल में—उनकी जीभ पृथ्वी में चलती ।

- १३ निश्चय, मैं ने अपने हृदय को व्यर्थ
शुद्ध किया
और अपने हाथों को निर्दोषता में
धोया है ;
- १४ क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया
हूँ
और प्रति भोर को मेरी ताडना होती
आई है ॥
- १५ यदि मैं ने कहा होता कि मैं ऐसा
ही कहूँगा,
तो देख मैं तेरे लडकों की सन्तान के
साथ क्रूरता का व्यवहार करता,
१६ जब मैं सोचने लगा कि इमे मैं कैसे
समझूँ,
तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन
समस्या थी,
- १७ जब तक कि मैं ने ईश्वर के पवित्र-
स्थान में जाकर
उन लोगों के परिणाम को न सोचा ।
- १८ निश्चय तू उन्हें फिसलनेवाले स्थानों
में रखता है ;
और गिराकर सत्यानाश कर देता
है ।
- १९ अहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़
गए है !
वे मिट गए, वे घबराते घबराते
नाश हो गए है ।
- २० जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ
जानता है,
वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा, तब
उनको छाया सा समझकर तुच्छ
जानेगा ॥
- २१ मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया,
मेरा अन्तःकरण छिद्र गया था,
२२ मैं तो पशु सरीखा था, और समझता
न था,
- मैं तेरे संग रहकर भी, पशु बन गया
था ।
- २३ तीभी मैं निरन्तर तेरे संग ही था ;
तू ने मेरे दहिने हाथ को पकड़ रखा ।
- २४ तू सम्मति देता हुआ, मेरी भगुवाई
करेगा,
और तब मेरी महिमा करके मुझ को
अपने पास रखेगा ।
- २५ स्वर्ग में मेरा और कौन है ?
तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और
कुछ नहीं चाहता ।
- २६ मेरे हृदय और मन दोनों तो हार
गए हैं,
परन्तु परमेश्वर सर्वदा के लिये मेरा
भाग और मेरे हृदय की चट्टान
बना है ॥
- २७ जो तुझ से दूर रहते हैं वे तो नाश
होंगे ;
जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता
है, उसको तू विनाश करता है ।
- २८ परन्तु परमेश्वर के समीप रहना,
यही मेरे लिये भला है ;
मैं ने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान
माना है,
जिस से मैं तेरे सब कामों का वर्णन
करूँ ॥

(आवाप का सुझाव)

७४

हे परमेश्वर, तू ने हमें क्यों
सदा के लिये छोड़ दिया है ?

तेरी कोपाग्नि का धुआ तेरी चराई
की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है ?

२ अपनी मण्डली को जिसे तू ने प्राचीन-
काल में मोल लिया था,

और अपने निज भाग का गोत्र होने
के लिये छुड़ा लिया था,

- और इस सिंघ्योन पर्वत को भी, जिस पर तू ने वास किया था, स्मरण कर !
- ३ अपने ङग सनातन की खंडहर की ओर बढ़ा;
अर्थात् उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्रस्थान में किए हैं ॥
- ४ तेरे द्रोही तेरे सभास्थान के बीच गरजते रहे हैं;
उन्होंने ने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है ।
वे उन मनुष्यों के समान थे
- ५ जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं ।
- ६ और अब वे उस भवन की नक्काशी को,
कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिलकुल तोड़े डालते हैं ।
- ७ उन्होंने ने तेरे पवित्रस्थान को आग में भोंक दिया है,
और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है ।
- ८ उन्होंने ने मन में कहा है कि हम इनको एकदम दबा दें;
उन्होंने ने इस देश में ईश्वर के सब सभास्थानों को फूट दिया है ॥
- ९ हम को हमारे निशान नहीं देख पड़ते;
अब कोई नबी नहीं रहा,
न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी ।
- १० हे परमेश्वर द्रोही कब तक नामधरई करता रहेगा ?
क्या शत्रु, तेरे नाम की निन्दा सदा करता रहेगा ?
- ११ तू अपना दहिना हाथ क्यों रोके रहता है ?
उसे अपने पांजर से निकाल कर उनका अन्त कर दे ॥
- १२- परमेश्वर तो प्राचीनकाल से मेरा राजा है,
वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है ।
- १३ तू ने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया;
तू ने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया ।
- १४ तू ने तो लिब्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जन्तुओं को खिला दिए ।
- १५ तू ने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई,
तू ने तो बारहमासी नदियों को सुखा डाला ।
- १६ दिन तेरा है रात भी तेरी है;
सूर्य और चन्द्रमा को तू ने स्थिर किया है ।
- १७ तू ने तो पृथ्वी के सब सिवानों को ठहराया;
धूपकाल और जाड़ा दोनों तू ने ठहराए हैं ॥
- १८ हे यहोवा स्मरण कर, कि शत्रु ने नामधराई की है,
और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निन्दा की है ।
- १९ अपनी पिण्डुकी के प्राण को वनपशु के वश में न कर;
अपने दीन जनों को सदा के लिये न भूल ॥
- २० अपनी वाचा की सुधि ले;

- क्योंकि देश के अन्वेषे स्थान अत्याचार
के धरों से भरपूर है ।
२१ पिसे हुए जन को निरादर होकर
लौटना न पड़े;
दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की
स्तुति करने पाएँ ॥
२२ हे परमेश्वर उठ, अपना मुकद्दमा
आप ही लड़;
तेरी जो नामधराई मूढ़ से दिन भर
होती रहती है, उसे स्मरण कर ।
२३ अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल,
तेरे विरोधियों का कोलाहल तो
निरन्तर उठता रहता है ॥

(प्रधान बखानेवाले के छिंदे, चञ्च-
तअज्ञेय * चाचाप का भजन। जौत)

७५

- हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद
करते,
हम तेरा नाम धन्यवाद करते हैं;
क्योंकि तेरा नाम प्रगट † हुआ है,
तेरे आश्चर्यकर्मों का वर्णन हो रहा
है ॥
२ जब ठीक समय आएगा
तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय
करूंगा ।
३ पृथ्वी अपने सब रहनेवालों समेत
गल रही है,
मैं ने उसके खम्भों को स्थिर कर
दिया है । (बेष्ठा)
४ मैं ने घमडियों से कहा, घमड
मत करो,
और दुष्टों से, कि सीग ऊंचा मत
करो;
५ अपना सीग बहुत ऊंचा मत करो,

न सिर उठाकर * ठिठाई की बात
बोलो ॥

६ क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न
पच्छिम से,
और न जंगल की ओर से आती
है;

७ परन्तु परमेश्वर ही न्यायी है,
वह एक को घटाता और दूसरे को
बढ़ाता है ।

८ यहोवा के हाथ में एक कटोरा है,
जिस में का दाखमधु भागवाला है;
उस में मसाला मिला है, और वह
उस में से उंडेलता है,

निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी
के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे † ॥

९ परन्तु मैं तो सदा प्रचार करता
रहूंगा,
मैं याम्बूब के परमेश्वर का भजन
गाऊंगा ।

१० दुष्टों के सब सीगों को मैं काट
डालूंगा,
परन्तु धर्मों के सीग ऊंचे किए
जाएंगे ॥

(प्रधान बखानेवाले के छिंदे, तारवाले
बाजों के चाच, चाचाप का भजन,
जौत)

७६

- परमेश्वर यहूदा में जाना गया
है,
उसका नाम इस्राएल में महान हुआ
है ।
२ और उसका मराडप शालेम में,
और उसका घाम सिय्योन में है ।
३ वहां उस ने चमत्चमाते तीरों को,

* अर्थात् नाश न कर ।

† मूल में—निकट ।

* मूल में—गर्दन से ।

† मूल में—निचोड़ निचोड़कर पीयेंगे ।

श्रीर ढाल श्रीर तलवार को तोड़कर,
निदान लड़ाई ही को तोड़ डाला
है ॥ (बेछा)

- ४ हे परमेश्वर तू तो ज्योतिमय है;
तू अहरे से भरे हुए पहाडो से अधिक
उत्तम श्रीर महान है ।
- ५ दृढ़ मनवाले लुट गए, श्रीर भारी
नींद में पड़े हैं;
- ६ श्रीर शूरवीरों में से किसी का हाथ
न चला * ।
हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से,
रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं ॥
- ७ केवल तू ही भययोग्य है;
श्रीर जब तू क्रोध करने लगे, तब
“ तेरे साम्हने कौन खड़ा रह सकेगा ? ”
- ८ तू ने स्वर्ग से निर्गम्य सुनाया है;
पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई,
श्रीर चुप रही,
- ९ जब परमेश्वर न्याय करने को,
श्रीर पृथ्वी के सब नम्र लोगों का
उद्धार करने को उठा ॥ (बेछा)
- १० निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी
स्तुति का कारण हो जाएगी,
श्रीर जो जलजलाहट रह जाए, उसको
तू रोकेगा ।
- ११ अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत
मानो, श्रीर पूरी भी करो;
वह जो भय के योग्य है, उसके आस
पास के सब उसके लिये भेट ले
आएं ।
- १२ वह तो प्रधानों का अभिमान † मिटा
देगा;
वह पृथ्वी के राजाओं को भययोग्य
जान पड़ता है ॥

(प्रधान बलानेवाले के लिये यमूद्रज की
राज पर आघात का भजन)

७७

- मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला
चिल्लाकर दूंगा,
मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा, श्रीर
वह मेरी श्रीर कान लगाएगा ।
- २ सकट के दिन मैं प्रभु की खोज में
लगा रहा;
रात को मेरा हाथ फैला रहा, श्रीर
ढीला न हुआ,
मुझ में शान्ति आई ही नहीं ।
- ३ मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके
कहता हूँ,
मैं चिन्ता करते करते मूर्च्छित हो
चला हूँ । (बेछा)
- ४ तू मुझे भपकी लगने नहीं देता;
मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुह से
बात नहीं निकलती ॥
- ५ मैं ने प्राचीनकाल के दिनों को,
श्रीर युग युग के वर्षों को सोचा
है ।
- ६ मैं रात के समय अपने गीत को
स्मरण करता;
श्रीर मन में ध्यान करता हूँ,
श्रीर मन में भली भांति विचार
करता हूँ :
- ७ क्या प्रभु युग युग के लिये छोड़
देगा;
श्रीर फिर कभी प्रसन्न न होगा ?
- ८ क्या उसकी करुणा सदा के लिये
जाती रही ?
क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के
लिये निष्फल हो गया है ?
- ९ क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया ?
क्या उस ने क्रोध करके अपनी सब
दया को रोक रखा है ? (बेछा)

* मूल में—मिला ।

† मूल में—आत्मा ।

- १० मैं ने कहा, यह तो मेरी दुर्बलता ही है,
परन्तु मैं परमप्रधान के दहिने हाथ
के वर्षों को विचारता हूँ ॥
- ११ मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा,
निश्चय मैं तेरे प्राचीनकालवाले अद्भुत
कामों को स्मरण करूंगा ।
- १२ मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा,
और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा ।
- १३ हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है ।
कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य
बड़ा है ?
- १४ अद्भुत काम करनेवाला ईश्वर तू
ही है,
तू ने देश देश के लोगों पर अपनी
शक्ति प्रगट की है ।
- १५ तू ने अपने भुजबल से अपनी प्रजा,
याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा
लिया है ॥ (बेछा)
- १६ हे परमेश्वर समुद्र ने तुझे देखा,
समुद्र तुझे देखकर डर गया,
गहिरा सागर भी कांप उठा ।
- १७ मेघों से बड़ी वर्षा हुई;
आकाश से शब्द हुआ;
फिर तेरे तीर इधर उधर चले ।
- १८ बवराडर मे तेरे गरजने का शब्द सुन
पड़ा था;
जगत बिजली से प्रकाशित हुआ,
पृथ्वी कांपी और हिल गई ।
- १९ तेरा मार्ग समुद्र में है,
और तेरा रास्ता गहिरें जल में
हुआ;
और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं
होते ।
तू ने मूसा और हारून के द्वारा,
अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की
सी की ॥

(बाबाप का मन्त्रोक्त)

७८

- हे मेरे लोग, मेरी शिक्षा
सुनो;
मेरे वचनों की ओर कान लगाओ !
- २ मैं अपना मुह नीतिवचन कहने के
लिये खोलूंगा;
मैं प्राचीनकाल की गुप्त बातें कहूंगा,
३ जिन बातों को हम ने सुना, और
जान लिया,
और हमारे बाप दादों ने हम से
वर्णन किया है ।
- ४ उन्हें हम उनकी सन्तान से गुप्त न
रखेंगे,
परन्तु होनहार पीढी के लोगों से,
यहोवा का गुणानुवाद और उसकी
सामर्थ्य और आश्चर्यकर्मों का
वर्णन करेंगे ॥
- ५ उस ने तो याकूब में एक चितौनी
ठहराई,
और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई,
जिसके विषय उस ने हमारे पितरों
को आज्ञा दी,
कि तुम इन्हें अपने अपने लड़केबालों
को बताना;
६ कि आनेवाली पीढी के लोग, अर्थात्
जो लड़केबाले उत्पन्न होनेवाले है,
वे इन्हें जानें;
और अपने अपने लड़केबालों से इनका
बखान करने में उद्यत हों,
जिस से वे परमेश्वर का आसा रखें,
७ और ईश्वर के बड़े कामों को भूल
न जाएं,
परन्तु उसकी आज्ञाओं का पालन
करते रहे;
८ और अपने पितरों के समान न
हों,

- क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले
 और भगड़ालू थे,
 और उन्होंने ने अपना मन स्थिर न
 किया था,
 और न उनकी आत्मा ईश्वर की
 ओर सच्ची रही ॥
- ९ एंप्रैमियों ने तो शस्त्रधारी और
 धनुर्धारी होने पर भी,
 युद्ध के समय पीठ दिखा दी ।
- १० उन्होंने ने परमेश्वर की वाचा पूरी
 नहीं की,
 और उसकी व्यवस्था पर चलने से
 इनकार किया ।
- ११ उन्होंने ने उसके बड़े कामों को और
 जो आश्चर्यकर्म उस ने उनके
 साम्हने किए थे,
 उनको भुला दिया ।
- १२ उस ने तो उनके बापदादों के सम्मुख
 मित्र देश के सोमन के मैदान में
 अद्भुत कर्म किए थे ।
- १३ उस ने समुद्र को दो भाग करके
 उन्हें पार कर दिया,
 और जल को ढेर की नाईं खड़ा कर
 दिया ।
- १४ और उस ने दिन को तो बादल के
 खम्भों से
 और रात भर अग्नि के प्रकाश के
 द्वारा उनकी अगुवाई की ।
- १५ वह जंगल में चट्टानें फाड़कर,
 उनको मानो गहिरे जलाशयों से
 मनमाने पिलाता था ।
- १६ उस ने चट्टान से भी धाराएं निकालीं
 और नदियों का सा जल बहाया ॥
- १७ तौभी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक
 पाप करते गए,
- और निर्जल देश में परमप्रधान के
 विरुद्ध उठते रहे ।
- १८ और अपनी चाह के अनुसार * भोजन
 मांगकर
 - मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की ।
- १९ वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले,
 और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल
 में भेज लगा सकता है ?
- २० उस ने चट्टान पर मारके जल बहा
 तो दिया,
 और धाराएं उमरुड चली,
 परन्तु क्या वह रोटी भी दे सकता है ?
 क्या वह अपनी प्रजा के लिये मांस
 भी तैयार कर सकता ?
- २१ यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया,
 तब याकूब के बीच आग लगी,
 और इलाएल के विरुद्ध क्रोध भड़का ;
- २२ इसलिये कि उन्होंने ने परमेश्वर पर
 विश्वास नहीं रखा था,
 न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर
 भरोसा किया ।
- २३ तौभी उस ने आकाश को आज्ञा दी,
 और स्वर्ग के द्वारों को खोला ;
- २४ और उनके लिये खाने को मान
 बरसाया,
 और उन्हें स्वर्ग का भ्रम दिया ।
- २५ उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली ;
 उस ने उनको मनमाना भोजन दिया ।
- २६ उस ने आकाश में पुरवाई को चलाया,
 और अपनी शक्ति से दक्खिनी बहाई ;
- २७ और उनके लिये मांस धूलि की
 नाईं बहुत बरसाया,
 और समुद्र के बालू के समान
 अनगिनत पक्षी भेजे ;

* मूल में—जीव ।

- २८ और उनकी छावनी के बीच में,
उनके निवासों के चारों ओर गिराए ।
- २९ और वे स्नाकर भ्रति तृप्त हुए,
और उस ने उनकी कामना पूरी की ।
- ३० उनकी कामना बनी ही रही *,
उनका भोजन उनके मुह ही में था,
- ३१ कि परमेश्वर का क्रोध उन पर
भड़का,
और उस ने उनके हृष्टपुष्टों को
घात किया,
और इस्राएल के जवानों को गिरा
दिया ॥
- ३२ इतने पर भी वे और अधिक पाप
करते गए;
और परमेश्वर के आश्चर्यकर्मों की
प्रतीति न की ।
- ३३ तब उस ने उनके दिनों को व्यर्थ
श्रम में,
और उनके वर्षों को घबराहट में
कटवाया ।
- ३४ जब जब वह उन्हें घात करने लगता,
तब तब वे उसको पूछते थे,
और फिरकर ईश्वर को यत्न से
खोजते थे ।
- ३५ और उनको स्मरण होता था कि
परमेश्वर हमारी चट्टान है,
और परमप्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने-
वाला है ।
- ३६ तोभी उन्होंने ने उस से चापलूसी की;
वे उस से झूठ बोले ।
- ३७ क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़
न था;
न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे ।
- ३८ परन्तु वह जो दयालु है, वह अशर्म
को ठापता, और नाश नहीं करता;
वह बारबार अपने क्रोध को ठण्डा
करता है,
और अपनी जलजलाहट को पूरी
रीति से भड़कने नहीं देता ।
- ३९ उसको स्मरण हुआ कि ये नाशमान *
हैं,
ये वायु के समान हैं जो चली जाती
और लौट नहीं आती ।
- ४० उन्होंने ने कितनी ही बार जंगल में
उस से बलवा किया,
और निर्जल देश में उसको उदास
किया !
- ४१ वे बारबार ईश्वर की परीक्षा करते
थे,
और इस्राएल के पवित्र को खेदित
करते थे ।
- ४२ उन्होंने ने न तो उसका भुजबल स्मरण
किया,
न वह दिन जब उस ने उनको द्रोही
के वश से छुड़ाया था;
- ४३ कि उस ने क्योंकर अपने चिन्ह मिस्र
में,
और अपने चमत्कार सोमन के मंदान
में किए थे ।
- ४४ उस ने तो मिस्रियों † की नहरो को
लोह बना डाला,
और वे अपनी नदियों का जल पी
न सके ।
- ४५ उस ने उनके बीच में डांस भेजे
जिन्होंने ने उन्हें काट खाया,
और मँढक भी भेजे, जिन्होंने ने उनका
बिगाड़ किया ।

* मूल में—वे अपनी तृष्या से विराने न
हुए थे ।

* मूल में—मांस ।

† मूल में—उन ।

- ४६ उस ने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को,
और उनकी खेतीबारी टिट्टियों को
खिला दी थी ।
- ४७ उस ने उनकी दाखलताओं को झोलों से,
और उनके गूलर के पेड़ों को बड़े
बड़े पत्थर बरसाकर नाश किया ।
- ४८ उस ने उनके पशुओं को झोलों से,
और उनके डोरों को बिजलियों से
मिटा दिया ।
- ४९ उस ने उनके ऊपर अपना प्रचण्ड
क्रोध और रोष भड़काया,
और उन्हें संकट में डाला,
और दुखदाई दूतों का दल भेजा ।
- ५० उस ने अपने क्रोध का मार्ग खोला *,
और उनके प्राणों को मृत्यु से न
बचाया,
परन्तु उनको मरी के वश में कर
दिया ।
- ५१ उस ने मिल् के सब पहिलौठों को
मारा,
जो हाम के डेरों में पौरुष के पहिले
फल थे;
- ५२ परन्तु अपनी प्रजा को भेड़-बकरियों
की नाई पयान कराया,
और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं
के भुण्ड की सी की ।
- ५३ तब वे उसके चलाने से बेखटके चले,
और उनको कुछ भय न हुआ,
परन्तु उनके शत्रु समुद्र में डूब
गए ।
- ५४ और उस ने उनको अपने पवित्र
देश के सिबाने तक,
- हसी पहाड़ी देश में पहुंचाया, जो
उस ने अपने दहिने हाथ से प्राप्त
किया था ।
- ५५ उस ने उनके साम्हने से अन्यजातियों
को भगा दिया;
और उनकी भूमि को डोरी से माप
मापकर बांट दिया;
और इस्राएल के गोत्रों को उनके
डेरों में बसाया ॥
- ५६ तीभी उन्होंने ने परमप्रधान परमेश्वर
की परीक्षा की और उस से बलवा
किया,
और उसकी चितीनियों को न
माना,
- ५७ और मुडकर अपने पुरखाओं की नाई
विश्वासघात किया;
उन्होंने ने निकम्मे * धनुष की नाई
धोखा दिया † ।
- ५८ क्योंकि उन्होंने ने ऊंचे स्थान बनाकर
उसको रिस दिलाई,
और खुदी हुई मूर्तियों के द्वारा उस मे
जलन उपजाई ।
- ५९ परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया,
और उस ने इस्राएल को बिलकुल
तज दिया ।
- ६० उस ने शीलो के निवास,
अर्थात् उस तम्बू को जो उस ने
मनुष्यों के बीच खडा किया था,
त्याग दिया,
- ६१ और अपनी सामर्थ्य को बन्धुआई में
जाने दिया,
और अपनी शोभा को द्रोही के वश
मे कर दिया ।

* मूल में—धोखा देनेवाले ।

† मूल में—मुड गए ।

- ६२ उस ने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया,
और अपने निज भाग के लोगों पर रोष से भर गया ।
- ६३ उन से जवान आग से भस्म हुए,
और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत न गाए गए ।
- ६४ उनके याजक तलवार से मारे गए,
और उनकी विधवाएँ रोने न पाईं ॥
- ६५ तब प्रभु मानो नींद से चौक उठा,
और ऐसे वीर के समान उठा जो दाखमधु पीकर ललकारता हो ।
- ६६ और उस ने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया;
और उनकी सदा की नामधराई कराई ॥
- ६७ फिर उस ने यूसुफ के तम्बू को तज दिया;
और एप्रैम के गोत्र को न चुना;
- ६८ परन्तु यहूदा ही के गोत्र को,
और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया ।
- ६९ उस ने अपने पवित्रस्थान को बहुत ऊंचा बना दिया,
और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया,
जिसकी नेव उस ने सदा के लिये डाली है ।
- ७० फिर उस ने अपने दास दाऊद को चुनकर
भेड़शालाओं में से ले लिया;
- ७१ वह उसको बच्चेवाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया
कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात् उसके निज भाग इस्त्राएल की चरवाही करे ।

- ७२ तब उस ने सारे मन से उनकी चरवाही की,
और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अग्रुवाई की ॥

(चाचाप का भजन)

- ७६ हे परमेश्वर अन्यजातियाँ तेरे निज भाग में घुस आईं;
उन्होंने तेरे पवित्र मन्दिर को अशुद्ध किया;
और यरूशलेम को खंडहर कर दिया है ।
- २ उन्होंने ने तेरे दासों की लोथों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया,
और तेरे भक्तों का मांस वनपशुओं को खिला दिया है ।
- ३ उन्होंने ने उनका लोहू यरूशलेम के चारों ओर जल की नाईं बहाया,
और उनको मिट्टी देनेवाला कोई न था ।
- ४ पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई,
चारों ओर के रहनेवाले हम पर हसते,
और ठट्ठा करते हैं ॥
- ५ हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा ?
तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी ?
- ६ जो जातियाँ तुझ को नहीं जानती,
और जिन राज्यों के लोग तुझ से प्रार्थना नहीं करते,
उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का * !
- ७ क्योंकि उन्होंने ने याकूब को निगल लिया,

* मूल में—अपनी जलजलाहट उडेल ।

- और उसके वासस्थान को उजाड़ दिया है ॥
- ८ हमारी हानि के लिये हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर;
- तेरी दया हम पर शीघ्र हो,
क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं ।
- ९ हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर;
- और अपने नाम के निमित्त हम को छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे ।
- १० अन्यजातियों क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा ?
अन्यजातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए ॥
- ११ बन्धुओं का कराहना तेरे कान तक पहुंचे;
घात होनेवालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा ।
- १२ और हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निन्दा की है,
उसका सातगुणा बदला उनको दे !
- १३ तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं,
तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे;
और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे ॥
- (प्रधान बसानेवाले के लिये श्रीब्रह्मी-मैथिल * में आस्थापना का भजन)
- ८० हे इस्राएल के चरवाहे,
तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा !
- तू जो कस्बों पर विराजमान है,
अपना तेज दिखा !
- २ एश्रम, बिन्यामीन, और मनश्शे के साम्हने अपना पराक्रम दिखाकर,
हमारा उद्धार करने को आ !
- ३ हे परमेश्वर, हम को ज्यों के त्यों कर दे;
- और अपने मुख का प्रकाश चमका,
तब हमारा उद्धार हो जाएगा !
- ४ हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा,
तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा * ?
- ५ तू ने आंसुओं को उनका आहार कर दिया,
और मटके भर भरके उन्हें आंसू पिलाए हैं ।
- ६ तू हमे हमारे पड़ोसियों के भगड़ने का कारण कर देता है,
और हमारे शत्रु मनमाने ठुठ्ठा करते हैं ॥
- ७ हे सेनाओं के परमेश्वर, हम को ज्यों के त्यों कर दे;
- और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा ॥
- ८ तू मिस्र से एक दाखलता ले आया;
और अन्यजातियों को निकालकर उसे लगा दिया ।
- ९ तू ने उसके लिये स्थान तैयार किया है;
और उस ने जड़ पकड़ी और फँसकर देश को भर दिया ।
- १० उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई,
और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुईं;

* अर्थात् सोसन साक्षी ।

* मूल में—पुष्पां उठाता रहेगा ।

११ उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गईं,

और उसके अंकुर महानद तक फैल गए ।

१२ फिर तू ने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया,

कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं ?

१३ वनसूअर उसको नाश किए डालता है,

और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं ॥

१४ हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ !

स्वर्ग से ध्यान देकर देख, और इस दाखलता की सुधि ले,

१५ ये पीघा तू ने अपने दहिने हाथ से लगाया,

और जो लता की शाखा * तू ने अपने लिये दृढ़ की है ।

१६ वह जल गई, वह कट गई है;

तेरी घुडकी से वे नाश होते हैं ।

१७ तेरे दहिने हाथ के सम्भाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे,

उस आदमी पर, जिसे तू ने अपने लिये दृढ़ किया है ।

१८ तब हम लोग तुझ मे न मुड़ेगे;

तू हम को जिला, और हम तुझ से प्रार्थना कर सकेंगे ।

१९ हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हम को ज्यों का त्यों कर दे ।

और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा ।

(प्रधान बजानेवाले के छिंदे विनोच में चासाप का भजन)

८१ परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनन्द से गाओ;

याकूब के परमेश्वर का जयजयकार करो !

२ भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने-वाली बीणा

और सारंगी को ले आओ ।

३ नये चाँद के दिन,

और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको ।

४ क्योंकि यह इस्राएल के लिये विधि, और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है ।

५ इसको उस ने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया, जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला ॥ वहां में ने एक अनजानी भाषा सुनी;

६ मैं ने उनके कन्धों पर से बोझ को उतार दिया;

उनका टोकरी ढोना छूट गया ।

७ तू ने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैं ने तुझे छुड़ाया;

बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैं ने तेरी सुनी,

और भरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की । (बेष्ठा)

८ हे मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हू !

हे इस्राएल भला हो कि तू मेरी सुने !

९ तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो; और न तू किसी पराए देवता को दण्डवत् करना ।

* मूल में—बेटा ।

- १० तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ,
जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया
है ।
तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर
दूंगा ॥
- ११ परन्तु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी;
इस्राएल ने मुझ को न चाहा ।
- १२ इसलिये मैं ने उसको उसके मन के
हठ पर छोड़ दिया,
कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार
चले ।
- १३ यदि मेरी प्रजा मेरी सुने,
यदि इस्राएल मेरे भागों पर चले,
१४ तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को
दबाऊँ,
और अपना हाथ उनके द्रोहियों के
विरुद्ध चलाऊँ ।
- १५ यहोवा के बैरी तो उस * के वश में हो
जाते,
और वे सदाकाल बने रहते हैं ।
- १६ और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ
खिलाता,
और मैं चट्टान में के मधु से उनको
तृप्त करूँ ॥

(बाशाप का भजन)

- ८२ परमेश्वर की सभा में परमेश्वर
ही खड़ा है;
वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता
है ।
- २ तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते
और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे ?
(बेबा)
- ३ कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ,
दीन-दरिद्र का विचार धर्म से करो ।

* मूल में—उस ।

- ४ कंगाल और निर्धन को बचा लो;
दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ ॥
- ५ बं न तो कुछ समझते और न कुछ
बूझते हैं,
- परन्तु अन्धेरे में चलते फिरते रहते
हैं;
पृथ्वी की पूरी नीच हिल जाती है ॥
- ६ मैं ने कहा था कि तुम ईश्वर हो,
और सब के सब परमप्रधान के पुत्र
हो;
- ७ तीभी तुम मनुष्यों की नाईं मरोगे,
और किसी प्रधान के समान गिर
जाओगे ॥
- ८ हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर;
क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने
भाग में लेगा !

(जीत । बाशाप का भजन)

- ८३ हे परमेश्वर मौन न रह;
हे ईश्वर चुप न रह, और
न शान्त रह !
- २ क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे
हैं;
और तेरे बैरियों ने सिर उठाया
है ।
- ३ वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की
सम्मति करते,
और तेरे रक्षित * लोगों के विरुद्ध
युक्तियाँ निकालते हैं ।
- ४ उन्होंने ने कहा, आओ, हम उनको
ऐसा नाश करें कि राज्य † भी मिट
जाए;
और इस्राएल का नाम आगे को
स्मरण न रहे ।

* मूल में—क्षिपाप ।

† मूल में—जाति ।

- ५ उन्होंने ने एक मन होकर युक्ति निकाली है,
और तेरे ही विरुद्ध वाचा बान्धी है ।
- ६ ये तो एदोम के तम्बूवाले
और इश्माइली, मोआबी और हुथी,
७ गबाली, अम्मोनी, अमालेकी,
और सोर समेत पलिस्ती है ।
- ८ इनके संग अशबूरी भी मिल गए हैं;
उन से भी लोतवशियों को सहारा
मिला है । (बेष्ठा)
- ९ इन से ऐसा कर जैसा मिद्यानियो से,
और कीशोन नाले में सीसरा और
याबीन से किया था,
जो एन्दोर में नाश हुए,
- १० और भूमि के लिये खाद बन गए ।
- ११ इनके रईसों को अरोब और जाएब
सरीखे,
और इनके सब प्रधानों को जेबह और
सल्मुन्ना के समान कर दे,
- १२ जिन्होंने कहा था,
कि हम परमेश्वर की चराइयों के
अधिकारी आप ही हो जाए ॥
- १३ हे मेरे परमेश्वर इनको बवन्डर की
धूलि,
वा पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान
कर दे ।
- १४ उस आग की नाई जो वन को भस्म
करती है,
और उस ली की नाई जो पहाड़ों
को जला देती है,
- १५ तू इन्हे अपनी आधी से भाग दे,
और अपने बवन्डर में घबरा दे ।
- १६ इनके मुंह को अग्नि लज्जित कर,
कि हे यहोवा ये तेरे नाम को बूढ़े ।
- १७ ये सदा के लिये लज्जित और घबराए
रहें

- इनके मुंह काले हों, और इनका नाश
हो जाए,
१८ जिस से यह जाने कि केवल तू जिसका
नाम यहोवा है,
सारी पृथ्वी के ऊपर परमप्रधान
है ॥

(प्रधान बचानेवाले के द्विजे जिनोब में
और अशबूरीयों का भजन)

८४

हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास
क्या ही प्रिय है !

- २ मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की
अभिलाषा करते करते मूर्च्छित हो
चला;
मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर
को पुकार रहे ॥
- ३ हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा,
और मेरे परमेश्वर, तेरी बेदियों में
गौरैया ने अपना बसेरा
और शूपाबेनी ने घोंसला बना लिया
है
जिस में वह अपने बच्चे रखे ।
- ४ क्या ही धन्य है वे, जो तेरे भवन
में रहते हैं;
वे तेरी स्तुति निरन्तर करते रहेंगे ॥
(बेष्ठा)
- ५ क्या ही धन्य है, वह मनुष्य जो तुझ
से शक्ति पाता * है,
और वे जिनकां सिड्योन की सड़क
की सुधि रहती है ।
- ६ वे रोने की तराई में जाते हुए
उसको सोतों का स्थान बनाते हैं;
फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें
आशीष ही आशीष उपजाती है ।
- ७ वे बल पर बल पाने जाते हैं;

* मूल में—जिसकी शक्ति तुझ में है ।

- उन में से हर एक जन सिद्धों
में परमेश्वर को अपना मुंह
दिखाएगा ॥
- ८ हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी
प्रार्थना सुन,
हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा !
(बे०)
- ९ हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि
कर;
और अपने अभिषिक्त का मुख देख !
- १० क्योंकि तेरे आगनों में का एक दिन
और कही के हजार दिन से उत्तम हैं।
दुष्टों के डेरों में वास करने से
अपने परमेश्वर के भवन की डेवडी
पर खड़ा रहना ही मुझे अभिन्न
भावता है ।
- ११ क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और
ढाल है;
यहोवा अनुग्रह करेगा, और महिमा
देगा;
और जो लोग खरी चाल चलते हैं,
उन से वह कोई अन्ध पदार्थ रख
न छोड़ेगा ।
- १२ हे सेनाओं के यहोवा,
क्या ही धन्य वह मनुष्य है, जो तुझ
पर भरोसा रखता है !
(प्रधान बचानेवालों के लिये और
बन्धुओं का भजन)
- ८५ हे यहोवा तू अपने देश पर
प्रसन्न हुआ,
याकूब को बन्धुआई से लौटा ले आया
है ।
- २ तू ने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा
किया है;
और उसके सब पापों को ढाप दिया
है । (बे०)
- ३ तू ने अपने रोष को शान्त किया है;
और अपने भड़के हुए कोप को दूर
किया है ॥
- ४ हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हम को
- फेर,
और अपना क्रोध हम पर से दूर कर !
- ५ क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा ?
क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप
करता रहेगा ?
- ६ क्या तू हम को फिर न जिलाएगा,
कि तेरी प्रजा तुझ में आनन्द करे ?
- ७ हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा,
और तू हमारा उद्धार कर * ॥
- ८ मैं कान लगाए रहूँगा, कि ईश्वर
यहोवा क्या कहता है,
वह तो अपनी प्रजा से जो उसके
भक्त है, शान्ति की बातें कहेगा;
परन्तु वे फिरके मूर्खता न करने
लगे ।
- ९ निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का
समय निकट है,
तब हमारे देश में महिमा का निवास
होगा ॥
- १० करुणा और सच्चाई आपस में मिल
गई है;
धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन
किया है ।
- ११ पृथ्वी में से सच्चाई उगती
और स्वर्ग से धर्म भुकता है ।
- १२ फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा,
और हमारी भूमि अपनी उपज देगी ।
- १३ धर्म उसके आगे आगे चलेगा,
और उसके पांवों के चिन्हों को हमारे
लिये मार्ग बनाएगा ॥

* मूल में—अपना उद्धार हमें दे ।

(दास की प्रार्थना)

८६

- हे यहोवा कान लगाकर मेरी
सुन ले,
क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हू ।
२ मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं
भक्त * हू;
तू मेरा परमेश्वर है, इसलिये अपने
दास का,
जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार
कर ।
३ हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर,
क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता
रहता हू ।
४ अपने दास के मन को आनन्दित कर,
क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी
ही ओर लगाता हू ।
५ क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा
करनेवाला है,
और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी
के लिये तू अति करुणामय है ।
६ हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान
लगा,
और मेरे गिडगिडाने को ध्यान से
सुन ।
७ सकट के दिन मैं तुझ को पुकारूंगा,
क्योंकि तू मेरी सुन लेगा ॥
८ हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे
तुल्य नहीं,
और न किसी के काम तेरे कामों के
बराबर है ।
९ हे प्रभु जितनी जातियों को तू ने
बनाया है, सब आकर तेरे साम्हने
दण्डवत् करेंगी,
और तेरे नाम की महिमा करेगी ।

* अर्थात् पवित्र वा जिस को तू चाहता है ।

- १० क्योंकि तू महान् और आश्चर्यकर्म
करनेवाला है,
केवल तू ही परमेश्वर है ।
११ हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा,
तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा,
मुझ को एक चित्त कर कि मैं तेरे
नाम का भय मानू ।
१२ हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर मैं अपने
सम्पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद
करूंगा,
और तेरे नाम की महिमा सदा करता
रहूंगा ।
१३ क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी
है;
और तू ने मुझ को अधोलोक की तह
में जाने से बचा लिया है ॥
१४ हे परमेश्वर अभिमानी लोग तो मेरे
विरुद्ध उठे हैं,
और बलात्कारियों का समाज मेरे
प्राण का खोजी हुआ है,
और वे तेरा कुछ विचार नहीं
रखते ।
१५ परन्तु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी
ईश्वर है,
तू विलम्ब से कोप करनेवाला और
अति करुणामय है ।
१६ मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह
कर;
अपने दास को तू शक्ति दे,
और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार
कर ॥
१७ मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा,
जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो,
क्योंकि हे यहोवा तू ने आप मेरी
सहायता की और मुझे शान्ति दी
है ॥

(कीरवर्षिचौ का भजन । जीम)

८७

उसकी नेव पवित्र पर्वतों में है;

२ और यहोवा सिय्योन के फाटकों को याकूब के सारे निवासों से बढकर प्रीति रखता है ।

३ हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं * । (बेन्सा)

४ मैं अपने जान-पहचानवालो से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा; पलिश्त, सोर और कूश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था ।

५ और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा, कि अमुक अमुक मनुष्य उस में उत्पन्न हुआ था;

और परमप्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा ।

६ यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा, कि यह वहां उत्पन्न हुआ था ॥ (बेन्सा)

७ गवैये और नूतक दोनों कहेगे कि हमारे सब सोते तुम्ही में पाए जाते हैं ॥

(जीम कीरवर्षिचौ का भजन । प्रधान बजानेवाले के लिये सच्चरतस्यप्रोम में ।
एसायवर्षी केभान का सत्रकीछ)

८८

हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा,

मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ ।

२ मेरी प्रार्थना तुम्ह तक पहुँचे,

मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा !

* वा तेरी मंगनी महिमा के साथ हुई ।

३ क्योंकि मेरा प्राण क्लेश में भरा हुआ है,
और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है ।

४ मैं कबर में पड़नेवालों में गिना गया हूँ;
मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ ।

५ मैं मुदों के बीच छोड़ा गया * हूँ,
और जो घात होकर कबर में पड़े हैं,
जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता
और वे तेरी सहायता रहित हैं †,
उनके समान मैं हो गया हूँ ।

६ तू ने मुझे गडहे के तल ही में,
अन्धेरे और गहरे स्थान में रखा है ।

७ तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है,
और तू ने अपने सब तरगों से मुझे दुःख दिया है । (बेन्सा)

८ तू ने मेरे पहिचानवालों को मुझ से दूर किया है;
और मुझ को उनकी दृष्टि में धिनौना किया है ।

मैं बन्दी हूँ और निकल नहीं सकता;

९ दुःख भोगते भोगते मेरी आँखें धुन्धला गईं ।

हे यहोवा मैं लगातार तुम्हें पुकारता
और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ ।

१० क्या तू मुदों के लिये अद्भुत काम करेगा ?

क्या मेरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे ? (बेन्सा)

११ क्या कबर में तेरी करुणा का,
और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा ?

* मूल में—स्वाधीन ।

† मूल में—तेरे हाथ से कटे हुए ।

१२ क्या तेरे अद्भुत काम अन्धकार में,
वा तेरा धर्म विश्वासघात की दशा *
में जाना जाएगा ?

१३ परन्तु हे यहोवा, मैं ने तेरी दोहाई
दी है;
और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ
तक पहुंचेगी ।

१४ हे यहोवा, तू मुझ को क्यों छोड़ता
है ?

तू अपना मुख मुझ से क्यों छिपाए
रहता है ?

१५ मैं बचपन ही से दुःखी वरन अशुभ
हूँ,
तुझ से भय खाते मैं अति व्याकुल
हो गया हूँ ।

१६ तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है;
उस भय से मैं मिट गया हूँ ।

१७ वह दिन भर जल की नाईं मुझे घेरे
रहता है;
वह मेरे चारों ओर दिखाई देता
है ।

१८ तू ने मित्र और भाईबन्धु दोनों को
मुझ से दूर किया है;
और मेरे जान-पहिचानवालों को
अन्धकार में डाल दिया है ॥

(यत्नाज रत्नाचवशी का मन्त्रोक्त)

८६ मैं यहोवा की सारी करुणा
के विषय सदा गाता रहूंगा;
मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक
जताता रहूंगा ।

२ क्योंकि मैं ने कहा है, तेरी करुणा
सदा बनी रहेगी,
तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर
रखेगा ।

३ मैं ने अपने चुने हुए से वाचा बान्धी
है,

मैं ने अपने दास दाऊद से शपथ
खाई है,

४ कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर
रखूंगा;

और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी
तक बनाए रखूंगा । (बेष्ठा)

५ हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम
की,

और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई
की प्रशंसा होगी ।

६ क्योंकि आकाशमण्डल में यहोवा के
तुल्य कौन ठहरेगा ?

बलवन्तों * के पुत्रों में से कौन है
जिसके साथ यहोवा की उपमा दी
जाएगी ?

७ ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यन्त
प्रतिष्ठा के योग्य,

और अपने चारों ओर सब रहनेवालों
से अधिक भययोग्य है ।

८ हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा,
हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है ?
तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है !

९ समुद्र के गर्ब को तू ही तोड़ता है;
जब उसके तरंग उठते हैं, तब तू
उनको शान्त कर देता है ।

१० तू ने रहब को घात किए हुए के समान
कुचल डाला,

और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल
से तितर बितर किया है ।

११ आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है;
जगत और जो कुछ उस में है, उसे
तू ही ने स्थिर किया है ।

* मूल में—देश ।

* वा ईश्वरों ।

- १२ उत्तर और दक्खिन को तू ही ने
सिरजा;
ताबोर और हेमोन तेरे नाम का
जयजयकार करते हैं ।
- १३ तेरी भुजा बलवन्त है;
तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दहिना
हाथ प्रबल है ।
- १४ तेरे सिंहासन का मूल, धर्म और
न्याय है;
करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे
चलती है ।
- १५ क्या ही धन्य है वह समाज जो
आनन्द के ललकार को पहिचानता
है;
हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश
में चलते हैं,
- १६ वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन
रहते हैं,
और तेरे धर्म के कारण महान हो
जाते हैं ।
- १७ क्योंकि तू उनके बल की शोभा है,
और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग
को ऊंचा करेगा ।
- १८ क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर
से है,
हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की
ओर से है ॥
- १९ एक समय तू ने अपने भक्त को दर्शन
देकर बातें की,
और कहा, मैं ने सहायता करने का
भार एक वीर पर रखा है,
और प्रजा में से एक को चुनकर बढाया
है ।
- २० मैं ने अपने दास दाऊद को लेकर,
अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक
किया है ।
- २१ मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा,
और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी ।
- २२ शत्रु उसको तंग करने न पाएगा,
और न कुटिल जन उसको दुःख देने
पाएगा ।
- २३ मैं उसके द्रोहियों को उसके साम्हने
से नाश करूंगा,
और उसके बैरियों पर विपत्ति
ढालूंगा ।
- २४ परन्तु मेरी सच्चाई और करुणा उस
पर बनी रहेगी,
और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग
ऊंचा हो जाएगा ।
- २५ मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे
और महानदों को उसके दहिने हाथ
के नीचे कर दूंगा ।
- २६ वह मुझे पुकारके कहेगा, कि तू
मेरा पिता है,
मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान
है ।
- २७ फिर मैं उसको अपना पहिलीठा,
और पृथ्वी के राजाओं पर प्रघान
ठहराऊंगा ।
- २८ मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए
रहूंगा,
और मेरी वाचा उसके लिये भटल
रहेगी ।
- २९ मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा,
और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान
सर्वदा बनी रहेगी ।
- ३० यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था
को छोड़ें
और मेरे नियमों के अनुसार न चलें,
३१ यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन
करें,
और मेरी आज्ञाओं को न मानें,

- ३२ तो मैं उनके अपराध का दण्ड सोंटे
से,
और उनके अधर्म का दण्ड कोडो से
दूंगा ।
- ३३ परन्तु मैं अपनी करुणा उस पर से
न हटाऊंगा,
और न सच्चाई त्यागकर भूठा
ठहरेगा ।
- ३४ मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा,
और जो मेरे मुह से निकल चुका
है, उसे न बदलूंगा ।
- ३५ एक बार मैं अपनी पवित्रता की
शपथ खा चुका हूँ;
मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा ।
- ३६ उसका वंश सर्वदा रहेगा,
और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई
मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी ।
- ३७ वह चन्द्रमा की नाई,
और आकाशमण्डल के विश्वासयोग्य
साक्षी की नाई सदा बना रहेगा ॥
(बेछा)
- ३८ तीभी तू ने अपने अभिषिक्त को
छोड़ा और उसे तज दिया,
और उस पर अति क्रोध किया
है ।
- ३९ तू अपने दास के साथ की वाचा से
घिनाया,
और उसके मुकुट को भूमि पर
गिराकर अशुद्ध किया है ।
- ४० तू ने उसके सब बाइँ को तोड़
डाला है,
और उसके गदों को उजाड़ दिया
है ।
- ४१ सब बटोही उसको लूट लेते हैं,
और उसके पड़ोसियों से उसकी नाम-
धराई होती है ।
- ४२ तू ने उसके द्रोहियों को प्रबल *
किया;
और उसके सब शत्रुओं को भ्रानन्वित
किया है ।
- ४३ फिर तू उसकी तलवार की धार को
मोड़ देता है,
और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं
देता ।
- ४४ तू ने उसका तेज हर लिया † है,
और उसके सिंहासन को भूमि पर
पटक दिया है ।
- ४५ तू ने उसकी जवानी को घटाया,
और उसको लज्जा से ढांप दिया
है ॥ (बेछा)
- ४६ हे यहोवा तू कब तक लगातार मुंह
फेरे ‡ रहेगा,
तेरी जलजलाहट कब तक भाग की
नाई भड़की रहेगी ॥
- ४७ मेरा स्मरण कर, कि मैं कैसा अनित्य
हूँ,
तू ने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ
सिरजा है ?
- ४८ कौन पुरुष सदा अमर रहेगा § ?
क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक
से बचा सकता है ? (बेछा)
- ४९ हे प्रभु तेरी प्राचीनकाल की करुणा
कहां रही,
जिसके विषय में तू ने अपनी सच्चाई
की शपथ दाऊद से खाई थी ?
- ५० हे प्रभु अपने दासों की नामधराई की
सुधि कर;

* मूल में—द्रोहियों का दहिना हाथ ऊंचा ।

† मूल में—बन्द किया ।

‡ मूल में—अपने को छिपाए ।

§ मूल में—जीता रहेगा मृत्यु न देखेगा ।

मे तो सब सामर्थी जातियों का बोझ
लिए * रहता हूँ ।
५१ तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा,
तेरे अभिषिक्त के पीछे पडकर

* मूल में—अपनी गोद में लिए ।

उसकी * नामधराई की है ॥
५२ यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा !
शामीन फिर शामीन ॥

* मूल में—तेरे अभिषिक्त के पदचिन्हों की ।

चौथा भाग

(परनेश्वर के जग ब्रह्मा की प्रार्थना)
६० हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक
हमारे लिये धाम बना है ।
२ इस से पहिले कि पहाड़ उत्पन्न हुए,
वा तू ने पृथ्वी और जगत की रचना
की,
वरन अनादिकाल से अनन्तकाल तक
तू ही ईश्वर है ॥
३ तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है,
और कहता है, कि हे आदमियो,
लौट आओ !
४ क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे
हैं
जैसा कल का दिन जो बीत गया,
वा रात का एक पहर ॥
५ तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है ;
वे स्वप्न से ठहरते हैं,
वे भोर को बढ़नेवाली घास के समान
होते हैं ।
६ वह भोर को फूलती और बढ़ती है,
और सांभ तक कटककर मुर्झा जाती
है ॥
७ क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं ;
और तेरी जलजलाहट से धबरा गए
हैं ।
८ तू ने हमारे अधर्म के कामों को
अपने सम्मुख,

और हमारे छिपे हुए पापों को अपने
मुख की ज्योति में रखा है ॥
९ क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में
बीत जाते हैं,
हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते
हैं ।
१० हमारी आयु के वर्ष सत्तर तो होते
हैं,
और चाहे बल के कारण अस्सी वर्ष
भी हो जाएं,
तौभी उनका घमण्ड केवल कष्ट
और शोक ही शोक है ;
क्योंकि वह जल्दी कट * जाती है,
और हम जाते रहते हैं ॥
११ तेरे क्रोध की शक्ति को
और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को
कौन समझता है ?
१२ हम को अपने दिन गिनने की समझ दे
कि हम बुद्धिमान हो जाएं † ॥
१३ हे यहोवा लौट आ ! कब तक ?
और अपने दासों पर तरस ला !
१४ भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त
कर,
कि हम जीवन भर जयजयकार और
आनन्द करते रहें ।

* मूल में—उठ ।

† मूल में—बुद्धिवाला मन ले आए ।

- १५ जितने दिन तू हमें दुःख देता आया,
और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते
आए हैं
उतने ही वर्ष हम को आनन्द दे ।
- १६ तेरा काम तेरे दासों को,
और तेरा प्रताप उनकी सन्तान पर
प्रगट हो ।
- १७ और हमारे परमेश्वर यहोवा की
मनोहरता हम पर प्रगट हो,
तू हमारे हाथों का काम हमारे लिये
दृढ़ कर,
हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर ॥
- ६१ जो परमप्रधान के छाए हुए
स्थान में बैठा रहे,
वह सर्वशक्तिमान की छाया में
ठिकाना पाएगा ।
- २ मैं यहोवा के विषय कहूंगा, कि वह
मेरा शरणस्थान और गढ़ है;
वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर
भरोसा रखूंगा ।
- ३ वह तो मुझे बहेलिये के जाल से,
और महामारी से बचाएगा;
- ४ वह तुझे अपने पंखों की आड में
ले लेगा,
और तू उसके पैरों के नीचे शरण
पाएगा;
उसकी सच्चाई तेरे लिये ढाल और
फिलिम ठहरेगी ।
- ५ तू न रात के भय से डरेगा,
और न उस तीर से जो दिन को
उड़ता है,
- ६ न उस मरी से जो अन्धेरे में फैलती
है,
और न उस महारोग से जो दिन-
दुपहरी में उजाड़ता है ॥
- ७ तेरे निकट हजार,
और तेरी दहिनी ओर दस हजार
गिरंगे;
परन्तु वह तेरे पास न आएगा ।
- ८ परन्तु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा
और दुष्टों के अन्त को देखेगा ॥
- ९ हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा
है ।
तू ने जो परमप्रधान को अपना धाम
मान लिया है,
- १० इसलिये कोई विपत्ति तुझ पर न
पड़ेगी,
न कोई दुःख तेरे डेरे के निकट
आएगा ॥
- ११ क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त
आज्ञा देगा,
कि जहां कही तू जाए * वे तेरी
रक्षा करें ।
- १२ वे तुझ को हाथों हाथ उठा लेंगे,
ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर
से ठेस लगे ।
- १३ तू सिंह और नाग को कुचलेगा,
तू जवान सिंह और अजगर को
लताड़ेगा ॥
- १४ उस ने जो मुझ से स्नेह किया है,
इसलिये मैं उसको छुड़ाऊंगा;
मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा,
क्योंकि उस ने मेरे नाम को जान
लिया है ।
- १५ जब वह मुझ को पुकारे, तब मैं
उसकी सुनूंगा;
सकट में मैं उसके संग रहूंगा,
मैं उसको बचाकर उसकी महिमा
बढ़ाऊंगा ।

* मूल में—तेरे सब मार्गों में ।

१६ में उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा,
और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन
दिखाऊंगा ॥

(भजन । विनाम के दिन के
लिये जीत)

६२ यहोवा का धन्यवाद करना
भला है,

हे परमप्रधान, तेरे नाम का भजन
गाना;

२ प्रातःकाल को तेरी कसूणा,
और प्रति रात तेरी सच्चाई का
प्रचार करना,

३ दस तारवाले बाजे और सारंगी पर,
और बीणा पर गम्भीर स्वर से गाना
भला है ।

४ क्योंकि, हे यहोवा, तू ने मुझ को
अपने काम से आनन्दित किया है;
और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण
जयजयकार करूंगा ॥

५ हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े
हैं !

तेरी कल्पनाएँ बहुत गम्भीर हैं !

६ पशु समान मनुष्य इसको नहीं
समझता;

और मूर्ख इसका विचार नहीं करता :

७ कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते-
फलते हैं,

और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित
होते हैं,

यह इसलिये होता है, कि वे सर्वदा के
लिये नाश हो जाएं,

८ परन्तु हे यहोवा, तू सदा विराजमान
रहेगा ।

९ क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हां
तेरे शत्रु नाश होंगे;

सब अनर्थकारी तितर बितर
होंगे ॥

१० परन्तु मेरा सींग तू ने जगली सांड
का सा ऊंचा किया है;

मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ ।

११ और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके,
और उन कुकर्मियों का हाल जो
मेरे विरुद्ध उठे थे, सुनकर सन्तुष्ट
हुआ हूँ ॥

१२ धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेगे,
और लबानोन के देवदार की नाई
बढ़ते रहेंगे ।

१३ वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर,
हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले
फलेंगे ।

१४ वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे,
और रस भरे और लहलहाते रहेंगे,

१५ जिस से यह प्रगट हो, कि यहोवा
सीधा है;

वह मेरी चट्टान है, और उस में
कुटिलता कुछ भी नहीं ॥

६३ यहोवा राजा है; उस ने
माहात्म्य का पहिरावा पहिना
है;

यहोवा पहिरावा पहिने हुए, और
सामर्थ्य का फेटा बांधे है ।

इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं
टलने का ।

२ हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल
से स्थिर है,
तू सर्वदा से है ॥

३ हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो
रहा है,

महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है,
महानद गरजते हैं ।

४ महासागर के शब्द से,
और समुद्र की महातरंगों से,
विराजमान यहोवा अधिक महान है ॥
५ तेरी चिंतनीयों अति विश्वासयोग्य
हैं;
हे यहोवा तेरे भवन को युग युग
पवित्रता ही शोभा देती है ॥

६४ हे यहोवा, हे पलटा लेनेवाले
ईश्वर,
हे पलटा लेनेवाले ईश्वर, अपना तेज
दिखा !

२ हे पृथ्वी के न्यायी उठ;
और घमण्डियों को बदला दे ।
३ हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक,
दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे ?
४ वे बकते और ठिठाई की बातें बोलते
हैं,
सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं ।
५ हे यहोवा, वे तेरी प्रजा कौं पीस
डालते हैं,
वे तेरे निज भाग को दुःख देते हैं ।
६ वे विधवा और परदेशी का घात
करते,
और बपमूर्खों को मार डालते हैं;
७ और कहते हैं, कि याह न देखेगा,
याकूब का परमेश्वर विचार न
करेगा ॥
८ तुम जो प्रजा मे पशु सरीखे हो, विचार
करो;
और हे मूर्खों तुम कब बुद्धिमान हो
जाओगे ?
९ जिस ने कान दिया, क्या वह आप
नहीं सुनता ?
जिस ने भ्रांख रची, क्या वह आप
नहीं देखता ?

१० जो जाति जाति को ताड़ना देता, और
मनुष्य को ज्ञान सिखाता है,
क्या वह न समझाएगा ?
११ यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को
तो जानता है कि वे मिथ्या हैं ॥
१२ हे याह, क्या ही घन्य है वह पुरुष
जिसको तू ताड़ना देता है,
और अपनी व्यवस्था सिखाता है,
१३ क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में
उस समय तक चैन देता रहता है,
जब तक दुष्टों के लिये गड़हा नहीं
खोदा जाता ।
१४ क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न
तजेगा,
वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा;
१५ परन्तु न्याय फिर धर्म के अनुसार
किया जाएगा,
और सारे सीधे मनवाले उसके पीछे
पीछे हो लगे ॥
१६ कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन
खड़ा होगा ?
मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन
साम्हना करेगा ?
१७ यदि यहोवा मेरा सहायक न होता,
तो क्षण भर मे मुझे चुपचाप होकर
रहना पड़ता ।
१८ जब मे ने कहा, कि मेरा पांव फिसलने
लगा है,
तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे
थाम लिया ।
१९ जब मेरे मन में बहुत सी चिन्ताएं
होती हैं,
तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शान्ति
से मुझ को सुख होता है ।
२० क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के
बीच सन्धि होगी,

- जो कानून की झाड़ में उत्पात मचाते हैं ?
 २१ वे बर्मा का प्राण लेने को दल बान्धते हैं,
 और निर्दोष को प्राणदण्ड देते हैं ।
 २२ परन्तु यहोवा मेरा गढ़,
 और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है ।
 २३ और उस ने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लीटाया है,
 और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश करेगा;
 हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा ॥

- ६५ आओ हम यहोवा के लिये ऊँचे स्वर से गाएं,
 अपने उद्धार की चट्टान का जयजयकार करें !
 २ हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ,
 और भजन गाते हुए उसका जयजयकार करें !
 ३ क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है,
 और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है ।
 ४ पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं;
 और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं ।
 ५ समुद्र उसका है, और उसी ने उसको बनाया,
 और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है ॥
 ६ आओ हम झुककर दण्डवत् करें,

- और अपने कर्त्ता यहोवा के साम्हने घुटने टेकें !
 ७ क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है,
 और हम उसकी चराई की प्रजा,
 और उसके हाथ की भेड़े हैं ॥
 भला होता, कि आज तुम उसकी बात सुनते !
 ८ अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, जैसा मरीबा में,
 वा मस्सा के दिन जंगल में हुआ था,
 ९ जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा,
 उन्हीं ने मुझ को जांचा और मेरे काम को भी देखा ।
 १० चालीस वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों में रूठा रहा,
 और मैं ने कहा, ये तो भरमनेवाले मन के हैं,
 और इन्हो ने मेरे मार्गों को नहीं पहिचाना ।
 ११ इस कारण मैं ने क्रोध में आकर शपथ खाई कि
 ये मेरे विश्रामस्थान में कभी प्रवेश न करने पाएँगे ॥
 ६६ यहोवा के लिये एक नया गीत गाओ,
 हे सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा के लिये गाओ !
 २ यहोवा के लिये गाओ, उसके नाम को धन्य कहो;
 दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभसमाचार सुनाते रहो ।
 ३ अन्य जातियों में उसकी महिमा का,
 और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्यकर्मों का बर्णन करो ।

- ४ क्योंकि यहोवा महान और प्रति स्तुति के योग्य है;
वह तो सब देवताओं से अधिक भययोग्य है ।
- ५ क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तों ही हैं;
परन्तु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है ।
- ६ उसके चारों ओर विभव और ऐश्वर्य है;
उसके पवित्रस्थान में सामर्थ्य और शोभा है ॥
- ७ हे देश देश के कुलो, यहोवा का गुणानुवाद करो,
यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो !
- ८ यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है;
भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ !
- ९ पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दण्डवत् करो;
हे सारी पृथ्वी के लोगो उसके साम्हने कांपते रहो !
- १० जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है !
और जगत ऐसा स्थिर है, कि वह टलने का नहीं;
वह देश देश के लोगों का न्याय सीधार्थ से करेगा ॥
- ११ आकाश आनन्द करे, और पृथ्वी मगन हो;
समुद्र और उस में की सब वस्तुएं गरज उठें;
- १२ मैदान और जो कुछ उस में है, वह प्रफुल्लित हो;
- उसी समय वन के सारे वृक्ष जय-जयकार करेंगे ।
- १३ यह यहोवा के साम्हने हो, क्योंकि वह आनेवाला है ।
वह पृथ्वी का न्याय करने को आने-वाला है,
वह धर्म से जगत का,
और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा ॥
- ६७ यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो;
और द्वीप जो बहुतेरे हैं, वह भी आनन्द करें !
- २ बादल और अन्धकार उसके चारों ओर है;
उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है ।
- ३ उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके द्रोहियों को चारों ओर भस्म करती है ।
- ४ उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ,
पृथ्वी देखकर धरधरा गई है ।
- ५ पहाड़ यहोवा के साम्हने,
मोम की नाई पिघल गए, अर्थात् सारी पृथ्वी के परमेस्वर के साम्हने ॥
- ६ आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी;
और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है ।
- ७ जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते
और मूर्तों पर फूलते हैं, वे लज्जित हों;

- हे सब देवताओं तुम उसी को ढरङ्कवत् करो ।
- ८ सिंध्योन सुनकर आनन्दित हुई,
और यहूदा की बेटियां मगन हुईं;
हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ ।
- ९ क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परमप्रधान है;
तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है ॥
- १० हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो;
वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता,
और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है ।
- ११ धर्मों के लिये ज्योति,
और सीधे मनवालों के लिये आनन्द बोया गया है ।
- १२ हे धर्मियों यहोवा के कारण आनन्दित हो;
और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसका धन्यवाद करो !
- (भजन)
- ६८ यहोवा के लिये एक नया गीत गाओ,
क्योंकि उस ने आश्चर्यकर्म किए हैं !
उसके दहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिये उद्धार किया है !
- २ यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया,
उस ने अन्यायियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रगट किया है ।
- ३ उस ने इस्राएल के घराने पर की अपनी कृपा और सच्चाई की सुधि ली,
और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है ॥
- ४ हे सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा का जयजयकार करो;
उत्साहपूर्वक जयजयकार करो, और भजन गाओ !
- ५ बीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ,
बीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ ।
- ६ तुरहियां और नरसिंगे फूक फूककर यहोवा राजा का जयजयकार करो ॥
- ७ समृद्ध और उस में की सब वस्तुएं गरज उठें;
जगत और उसके निवासी महाशब्द करे !
- ८ नदिया तालियां बजाए;
पहाड़ मिलकर जयजयकार करें ।
- ९ यह यहोवा के साम्हने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आनेवाला है ।
वह धर्म से जगत का,
और सीधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा ॥
- ६६ यहोवा राजा हुआ है; देश देश के लोग कांप उठें !
वह कर्बुओं पर विराजमान है; पृथ्वी डोल उठे !
- २ यहोवा सिंध्योन में महान है;
और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है ।

- ३ वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें !
वह तो पवित्र है !
- ४ राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है,
तू ही ने सीघाई को स्थापित किया;
न्याय और धर्म को याकूब मे तू ही ने चालू किया है ।
- ५ हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो;
और उसके चरणों की चौकी के साम्हने दण्डवत् करो !
वह पवित्र है !
- ६ उसके याजकों में मूसा और हारून,
और उसके प्रार्थना करनेवालों में से शमूएल
यहोवा को पुकारते थे, और वह उनकी सुन लेता था ।
- ७ वह बादल के खम्भे में होकर उन से बातें करता था;
और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे ॥
- ८ हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू उनकी सुन लेता था;
तू उनके कामों का पलटा तो लेता था
तोभी उनके लिये क्षमा करनेवाला ईश्वर था ।
- ९ हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो,
और उसके पवित्र पर्वत पर दण्डवत् करो;
क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है !

(धन्यवाद का भजन)

- १०० हे सारी पृथ्वी के लोगो यहोवा का जयजयकार करो !
- २ ध्यानन्द से यहोवा की भाराधना करो !

जयजयकार के साथ उसके सम्मुख आओ !

- ३ निश्चय जानो, कि यहोवा ही परमेश्वर है !
उसी ने हम को बनाया, और हम उमी के है *;
हम उसकी प्रजा, और उसकी चराई की भेडे है ॥
- ४ उसके फाटको से धन्यवाद,
और उसके प्रांगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो,
उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो !
- ५ क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिये,
और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है ॥

१०१

में करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा;

- हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा ।
- २ मैं बुद्धिमानी मे खरे मार्ग में चलूंगा ।
तू मेरे पास कब आएगा !
मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा;
- ३ मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा ॥
मैं कुमार्ग पर चलनेवालों के काम से घिन रखता हू;
ऐसे काम में मैं न लगूंगा ।
- ४ टेढ़ा स्वभाव मुझ से दूर रहेगा;
मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं ॥
- ५ जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा;

* वा, न कि हम अपने को ।

- जिसकी आँखें चढ़ी हों और जिसका मन घमण्डी है, उसकी मैं न सहूँगा ॥
- ६ मेरी आँखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें;
जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा ॥
- ७ जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा;
जो भूठ बोलता है वह मेरे साम्हने बना न रहेगा ॥
- ८ भोर ही भोर को मैं देश के सब डुष्टों को सत्यानाश किया करूँगा,
इसलिये कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूँ ॥
- दोम जन जो उस समय जो प्रार्थना जब वह दुःख का मारा अपने शोक को बाँधे यहोवा के साम्हने बोलकर कहेता जो *)
- १०२ हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन;
मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे !
- २ मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझ से न छिपा ले;
अपना कान मेरी ओर लगा;
जिस समय मैं पुकारूँ, उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले !
- ३ क्योंकि मेरे दिन धुएँ की नाईं † उडे जाते हैं,
और मेरी हड्डियाँ लुकटी के समान जल गई हैं ।
- ४ मेरा मन भुलसी हुई घास की नाईं सूख गया है;
- और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ ।
- ५ कहरते कहरते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है ।
- ६ घें जंगल के घनेघ के समान हो गया हूँ,
मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ ।
- ७ मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गीरे के समान हो गया हूँ
जो छत के ऊपर झकेला बैठता है ।
- ८ मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं,
जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं ।
- ९ क्योंकि मैं ने रोटी की नाईं राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ ।
- १० यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है,
क्योंकि तू ने मुझे उठाया, और फिर फेंक दिया है ।
- ११ मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है;
और मैं आप घास की नाईं सूख चला हूँ ॥
- १२ परन्तु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा;
और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है, वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा ।
- १३ तू उठकर सिय्योन पर बसा करेगा;
क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय था पहुँचा है ।

* मूल में—उखड़ेलता हो ।

† मूल में—धुएँ में ।

- १४ क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं,
और उसकी धूल पर तरस खाते हैं ।
- १५ इसलिये अन्त्यजातियां यहोवा के नाम का भय मानेंगी,
और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे ।
- १६ क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है,
और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है ;
- १७ वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुह करता है,
और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता ॥
- १८ यह बात आनेवाली पीढ़ी के लिये लिखी जाएगी,
और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी ।
- १९ क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है,
२० ताकि बन्धुओं का कराहना सुने,
और घात होनेवालों के बन्धन खोले,
२१ और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए,
और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए ;
- २२ यह उस समय होगा जब देश देश,
और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे ॥
- २३ उस ने मुझे जीवन यात्रा में दुःख देकर,
मेरे बल और आयु को घटाया ।
- २४ मैं ने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले,
- तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे !
- २५ आदि में तू ने पृथ्वी की नेब डाली,
और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है ।
- २६ वह तो नाश होगा, परन्तु तू बना रहेगा ;
और वह सब कपडे के समान पुराना हो जाएगा ।
तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा,
और वह तो बदल जाएगा ;
- २७ परन्तु तू वही है,
और तेरे वर्षों का अन्त नहीं होने का ।
- २८ तेरे दासों की सन्तान बनी रहेगी ;
और उनका वंश तेरे साम्हने स्थिर रहेगा ॥

(दाऊद का भजन)

१०३

हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह ;

और जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे !

२ हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह,
और उसके किसी उपकार को न भूलना ।३ वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता,
और तेरे सब रोगों को चगा करता है,४ वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है,
और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है,

५ वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है,

- जिस से तेरी जवानी उकाब की नाई
नई हो जाती है ॥
- ६ यहोवा सब पिसे हुओं के लिये
धर्म और न्याय के कर्म करता है ।
- ७ उस ने मूसा को अपनी गति,
और इस्राएलियों पर अपने काम प्रगट
. किए ।
- ८ यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी,
विलम्ब से कोप करनेवाला और अति
करुणामय है ।
- ९ वह सर्वदा वादविवाद करता न रहेगा,
न उसका क्रोध सदा के लिये भडका
रहेगा ।
- १० उस ने हमारे पापों के अनुसार हम से
व्यवहार नहीं किया,
और न हमारे अधर्म के कामों के
अनुसार हम को बदला दिया है ।
- ११ जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है,
वैसे ही उसकी करुणा उसके डरबंदों
के ऊपर प्रबल है ।
- १२ उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर
है,
उस ने हमारे अपराधों को हम से
उतनी ही दूर कर दिया है ।
- १३ जैसे पिता अपने बालकों पर दया
करता है,
वैसे ही यहोवा अपने डरबंदों पर
दया करता है ।
- १४ क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है;
और उसको स्मरण रहता है कि
मनुष्य मिट्टी ही हैं * ॥
- १५ मनुष्य की आयु घास के समान होती
है,
वह मैदान के फूल की नाई फूलता है,
- १६ जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता,
और न वह अपने स्थान में फिर
मिलता है * ।
- १७ परन्तु यहोवा की करुणा उसके डरबंदों
पर युग युग,
और उसका धर्म उनके नाती-पोतों
पर भी प्रगट होता रहता है,
- १८ अर्थात् उन पर जो उसकी वाचा का
पालन करते
और उनके उपदेशों को स्मरण करके
उन पर चलते हैं ॥
- १९ यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग
में स्थिर किया है,
और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है ।
- २० हे यहोवा के दूतो, तुम जो बड़े वीर
हो,
और उसके वचन के मानने से उसको
पूरा करते हो
उसको धन्य कहो !
- २१ हे यहोवा की सारी सेनाओ, हे उसके
टहलुओ,
तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो,
उसको धन्य कहो !
- २२ हे यहोवा की सारी सृष्टि,
उसके राज्य के सब स्थानों में उसको
धन्य कहो ।
हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह !
- १०४ हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य
कह !
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यन्त
महान है !
तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र
पहिन हुए है,

* मूल में—न उसका स्थान उसे फिर
चीन्हेगा ।

- २ जो उजियाले को चादर की नाई
भोड़े रहता है,
और आकाश को तम्बू के समान
ताने रहता है,
- ३ जो अपनी अटारियों की रुड़िया जल
में धरता है,
और मेघों को अपना रथ बनाता
है,
और पवन के पक्षों पर चलता है,
- ४ जो पवनों को अपने दूत,
और धधकती आग को अपने टहलुए
बनाता है ॥
- ५ तू ने पृथ्वी को उसकी नीच पर स्थिर
किया है,
ताकि वह कभी न डगमगाए ।
- ६ तू ने उसको गहिरें सागर स ढांप
दिया है जैसे वस्त्र से;
जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया ।
- ७ तेरी धुड़की से वह भाग गया;
तेरे गरजने का शब्द सुनते ही, वह
उतावनी करके बह गया ।
- ८ वह पहाड़ों पर चढ़ गया, और
तराइयों के मार्ग से उस स्थान में
उतर गया
जिसे तू ने उसके लिये तैयार किया
था ।
- ९ तू ने एक सिवाना ठहराया जिसको
वह नहीं लांघ सकता है,
और न फिरकर स्थल को ढांप सकता
है ॥
- १० तू नालो में सोतों को बहाता है;
वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं,
- ११ उन से मैदान के सब जीव-जन्तु जल
पीते हैं;
जगली गदहे भी अपनी प्यास बुझा
लेते हैं ।
- १२ उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा
करते, और डालियों के बीच में से
बोलते हैं ।
- १३ तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को
सींचता है
तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त
रहती है ॥
- १४ तू पशुओं के लिये घास,
और मनुष्यों के काम के लिये अन्न
उपजाता है,
और इस रीति भूमि से वह भोजन-
वस्तु उत्पन्न करता है,
- १५ और दास्यमधु जिस से मनुष्य का मन
आनन्दित होता है,
और तेल जिस से उसका मुख चमकता
है,
और अन्न जिस से वह सम्भल जाता
है ।
- १६ यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं,
अर्थात् लवानोन के देवदार जो उसी
के लगाए हुए हैं ।
- १७ उन में चिडियां अपने घोंसले बनाती
हैं;
लगलग का बसेरा सनीवर के वृक्षों
में होता है ।
- १८ ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिये हैं;
और चट्टानें शापानों के शरणस्थान
हैं ।
- १९ उस ने नियत ममयों के लिये चन्द्रमा
को बनाया है;
सूर्य अपने अस्त होने का समय
जानता है ।
- २० तू अन्धकार करता है,
तब रात हो जाती है;
जिस में वन के सब जीव-जन्तु डूमते
फिरते हैं ।

- २१ जवान सिंह अहेर के लिये गरजते हैं,
और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं ।
- २२ सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं
और अपनी मांदों में जा बैठते हैं ।
- २३ तब मनुष्य अपने काम के लिये
और सन्ध्या तक परिश्रम करने के लिये निकलता है ॥
- २४ हे यहोवा तेरे काम अनगिनित हैं !
इन सब वस्तुओं को तू ने बुद्धि से बनाया है ;
पृथ्वी तेरी सम्पत्ति से परिपूर्णा है ।
- २५ इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है,
और उस में अनगिनित जलचरी *
जीव-जन्तु, क्या छोटे, क्या बड़े भरे पड़े हैं ।
- २६ उस में जहाज भी आते जाते हैं,
और लिब्यातान भी जिसे तू ने वहां खेलने के लिये बनाया है ॥
- २७ इन सब को तेरा ही आसरा है,
कि तू उनका आहार समय पर दिया करे ।
- २८ तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं ;
तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं ।
- २९ तू मुख फेर लेता † है, और वे घबरा जाते हैं ;
तू उनकी सांस ले लेता है, और उनके प्राण छूट जाते हैं
और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं ।
- ३० फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, और वे सिरजे जाते हैं ;

* मूल में—रेंगेनेवाले ।

† मूल में—झिपाता ।

- और तू धरती को नया कर देता है ॥
- ३१ यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे,
यहोवा अपने कामों से आनन्दित होवे !
- ३२ उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है, और उसके छूते ही पहाड़ों से धुंआं निकलता है ।
- ३३ मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा ;
जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा ।
- ३४ मेरा ध्यान करना, उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनन्दित रहूंगा ।
- ३५ पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए, और दुष्ट लोग आगे को न रहें !
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह !
याह की स्तुति करो * !

- १०५ यहोवा का धन्यवाद करो,
उस से प्रार्थना करो,
देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो !
- २ उसके लिये गीत गाओ, उसके लिये भजन गाओ,
उसके सब आश्चर्यकर्मों पर ध्यान करो !
- ३ उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो ;
यहोवा के खोजियों का हृदय आनन्दित हो !

* मूल में—हलिलुवाह ।

- ४ यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो !
- ५ उसके किए हुए आश्चर्यकर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्राय स्मरण करो !
- ६ हे उसके दास इब्राहीम के वंश, हे याकूब की सन्तान, तुम तो उसके चुने हुए हो !
- ७ वही हमारा परमेश्वर यहोवा है; पृथ्वी भर में उसके निर्राय होते हैं ।
- ८ वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, यह वही वचन है जो उस ने हजार पीढियों के लिये ठहराया है;
- ९ वही वाचा जो उस ने इब्राहीम के साथ बान्धी, और उसके विषय मे उस ने इसहाक से शपथ खाई,
- १० और उसी को उस ने याकूब के लिये विधि करके, और इस्राएल के लिये यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया,
- ११ कि मैं कनान देश को तुम्ही को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा ॥
- १२ उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश मे परदेशी थे ।
- १३ वे एक जाति से दूसरी जाति में, और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे;
- १४ परन्तु उस ने किसी मनुष्य को उन पर अन्धेर करने न दिया; और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था,
- १५ कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और न मेरे नबियों की हाजि करो !
- १६ फिर उस ने उस देश में अफाल भेजा, और अन्न के सब आघार को दूर कर दिया * ।
- १७ उस ने यूसुफ नाम एक पुरुष को उन से पहिले भेजा था, जो दास होने के लिये बेचा गया था ।
- १८ लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुःख दिया; वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया †;
- १९ जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा ।
- २० तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बन्धन खुलवाए;
- २१ उस ने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी सम्पत्ति का अधिकारी ठहराया,
- २२ कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए ॥
- २३ फिर इस्राएल मिस्र में आया; और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा ।
- २४ तब उस ने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया, और उसके द्रोहियों से अधिक बलवन्त किया ।

* मूल में—सारी छड़ी को तोड़ दिया ।

† मूल में—उसका जीव लोह में समाया ।

- २५ उस ने मिलियों के मन को ऐसा फेर दिया, कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने,
और उसके दासों से छल करने लगे ॥
- २६ उस ने अपने दास मूसा को,
और अपने चुने हुए हारून को भेजा ।
- २७ उन्होंने ने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह,
और हाम के देश में चमत्कार दिखाए ।
- २८ उस ने अन्धकार कर दिया, और अन्धियारा हो गया ;
और उन्होंने ने उसकी बातों को न टाला ।
- २९ उस ने मिलियों के जल को लोहू कर डाला, और मछलियों को मार डाला ।
- ३० मेंढक उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए ।
- ३१ उस ने आज्ञा दी, तब डांस आ गए,
और उनके सारे देश में कुटकियां आ गईं ।
- ३२ उस ने उनके लिये जलवृष्टि की सन्ती ओले,
और उनके देश में धधकती आग बरसाई ।
- ३३ और उस ने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला ।
- ३४ उस ने आज्ञा दी तब अनगिनत टिड्डियां,
और कीड़े आए,
- ३५ और उन्होंने ने उनके देश के सब अन्नादि को खा डाला ;
और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए ।
- ३६ उस ने उनके देश के सब पहिलौठों को,
उनके पौष के सब पहिले फल को नाश किया ॥
- ३७ तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया,
और उन में से कोई निर्बल न था ।
- ३८ उनके जाने से मिस्री आनन्दित हुए,
क्योंकि उनका डर उन में समा गया था ।
- ३९ उस ने छाया के लिये बादल फैलाया,
और रात को प्रकाश देने के लिये आग प्रगट की ।
- ४० उन्हो ने मांगा तब उस ने बटेरे पहुँचाई,
और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया ।
- ४१ उस ने चट्टान फाडी तब पानी बह निकला ;
और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी ।
- ४२ क्योंकि उस ने अपने पवित्र वचन और अपने दास इब्राहीम को स्मरण किया ॥
- ४३ वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जयजयकार कराके निकाल लाया ।
- ४४ और उनको अन्त्यजातियों के देश दिए ;
और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए,
- ४५ कि वे उसकी विधियों को मानें,
और उसकी व्यवस्था को पूरी करें ।
याह की स्तुति करो * !

* मूल में—इल्लियाह ।

- १०६ याह की स्तुति करो * !
 यहोवा का धन्यवाद करो,
 क्योंकि वह भला है;
 और उसकी करुणा सदा की है !
- २ यहोवा के पराक्रम के कामों का
 वर्णन कौन कर सकता है,
 न उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना
 सकता ?
- ३ क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर
 चलते,
 और हर समय धर्म के काम करते हैं !
- ४ हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता
 के अनुसार मुझे स्मरण कर,
 मेरे उद्धार के लिये † मेरी सुधि ले,
 ५ कि मैं तेरे चुने हुएों का कल्याण
 देखूं,
 और तेरी प्रजा के आनन्द में आनन्दित
 हो जाऊं;
 और तेरे निज भाग के सग बड़ाई
 करने पाऊं ॥
- ६ हम ने तो अपने पुरखाओं की नाई ‡
 पाप किया है;
 हम ने कुटिलता की, हम ने दुष्टता
 की है !
- ७ मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे
 आश्चर्यकर्मों पर मन नहीं लगाया,
 न तेरी अपार करुणा को स्मरण
 रखा,
 उन्होंने ने समुद्र के तीर पर, अर्थात्
 लाल समुद्र के तीर पर बलवा
 किया ।
- ८ तीभी उस ने अपने नाम के निमित्त
 उनका उद्धार किया,

* मूल में—इल्लिलूयाह ।

† मूल में—अपना उद्धार लिए हुए ।

‡ मूल में—पितरों के साथ ।

- जिस से वह अपने पराक्रम को प्रगट
 करे ।
- ९ तब उस ने लाल समुद्र को घुड़का और
 वह सूख गया;
 और वह उन्हें गहिरे जल के बीच से
 मानो जंगल में से निकाल ले गया ।
- १० उस ने उन्हें बैरी के हाथ के उबार,ा,
 और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया ।
- ११ और उनके द्रोही जल में डूब गए;
 उन में से एक भी न बचा ।
- १२ तब उन्होंने ने उसके बचनों का विश्वास
 किया;
 और उसकी स्तुति गाने लगे ॥
- १३ परन्तु वे भट उसके कामों को भूल
 गए;
 और उसकी युक्ति के लिये न ठहरे ।
- १४ उन्होंने ने जंगल में अति लालसा की,
 और निर्जल स्थान में ईश्वर की
 परीक्षा की ।
- १५ तब उस ने उन्हें मुंह मांगा वर तो
 दिया,
 परन्तु उनके प्राण को सुखा दिया ॥
- १६ उन्होंने ने छावनी में मूसा के,
 और यहोवा के पवित्र जन हारून
 के विषय में डाह की,
- १७ भूमि फट कर दातान को निगल गई,
 और अबीराम के भ्रूण को ग्रस
 लिया *
- १८ और उनके भ्रूण में आग भड़क उठी;
 और दुष्ट लोग ली से भस्म हो गए ॥
- १९ उन्होंने ने होरब में बछड़ा बनाया,
 और ठली हुई मूर्ति को दण्डवत् की ।
- २० यों उन्होंने ने अपनी महिमा अर्थात्
 ईश्वर को

* मूल में—छिपा लिया ।

- घास खानेवाले बँल की प्रतिमा से बदल डाला ।
- २१ वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए,
जिस ने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे ।
- २२ उस ने तो हाम के देश में आश्चर्यकर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयकर काम किए थे ।
- २३ इसलिये उस ने कहा, कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता
यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में * उनके लिये खड़ा न होता
ताकि मेरी जलजलाहट को ठण्डा करे †
कहीं ऐसा न हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूँ ॥
- २४ उन्होंने ने मनभावने देश को निकम्मा जाना,
और उसके वचन की प्रतीति न की ।
- २५ वे अपने तम्बुओं में कुड़कुड़ाए,
और यहोवा का कहा न माना ।
- २६ तब उस ने उनके विषय में शपथ खाई ‡
कि मैं इनको जंगल में नाश करूँगा,
२७ और इनके वंश को अन्यजातियों के सम्मुख गिरा दूँगा,
और देश देश में तितर बितर करूँगा ॥
- २८ वे पोरवाले बाल देवता को पूजने लगे
और मुदों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे ।
- २९ यों उन्होंने ने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया,
और मरी उन में फूट पड़ी ।
- ३० तब पीनहास ने उठकर न्यायदण्ड दिया,
जिस से मरी धम गई ।
- ३१ और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिये धर्म गिना गया ॥
- ३२ उन्होंने ने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया,
और उनके कारण मूसा की हानि हुई ;
- ३३ क्योंकि उन्होंने ने उसकी आत्मा से बलवा किया,
तब मूसा * बिन सोचे बोल उठा ॥
- ३४ जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी,
उनको उन्होंने ने सत्यानाश न किया,
३५ वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए
और उनके व्यवहारों को सीख लिया ;
- ३६ और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे,
और वे उनके लिये फन्दा बन गई ।
- ३७ वरन उन्होंने ने अपने बेटे-बेटियों को पिशाचों के लिये बलिदान किया ;
- ३८ और अपने निर्दोष बेटे-बेटियों का लोहू बहाया
जिन्हें उन्होंने ने कनान की मूर्तियों पर बलि किया,
इसलिये देश खून से अपवित्र हो गया ।
- ३९ और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए,
और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए ॥

* मूल में—मूसा भीत के नाके में ।

† मूल में—फेर दे ।

‡ मूल में—हाथ उठाया ।

* मूल में—बह ।

- ४० तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर
भड़का,
और उसको अपने निज भाग से
घृणा आई;
- ४१ तब उस ने उनको अन्यजातियों के
वश में कर दिया,
और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता
की ।
- ४२ उनके शत्रुओं ने उन पर अन्धेर किया,
और वे उनके हाथ तले दब गए ।
- ४३ बारम्बार उस ने उन्हें छुड़ाया,
परन्तु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए,
और अपने अधर्म के कारण दबते
गए ।
- ४४ तौमी जब जब उनका चिल्लाना उसके
कान में पड़ा,
तब तब उस ने उनके संकट पर
दृष्टि की !
- ४५ और उनके हित अपनी वाचा को
स्मरण करके
- अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस
खाया,
और जो उन्हें बन्धुए करके ले गए थे
उन सब से उन पर दया
कराई ॥
- ४७ हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा
उद्धार कर,
और हमें अन्यजातियों में से इकट्ठा
कर ले,
कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद
करे,
और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय
में बढ़ाई करें ॥
- ४८ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा
अनादिकाल से अनन्तकाल तक धन्य
है ।
और सारी प्रजा कहे भ्रामीन !
याह की स्तुति करो * ॥

* मूल में—इल्लिलूयाह ।

पाँचवाँ भाग

- १०७ यहोवा का धन्यवाद करो,
क्योंकि वह भला है;
और उसकी करुणा सदा की है !
- २ यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें,
जिन्हें उस ने द्रोही के हाथ से दाम
देकर छुड़ा लिया है,
- ३ और उन्हें देश देश से
पूरब-पश्चिम, उत्तर और दक्खिन
से * इकट्ठा किया है ॥
- ४ वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर
भटकते फिरे,
- और कोई बसा हुआ नगर न पाया;
५ भूख और प्यास के मारे,
वे विकल हो गए ।
- ६ तब उन्होंने ने संकट में यहोवा की
दोहाई दी,
और उस ने उनको सकेली से
छुड़ाया;
- ७ और उनको ठीक मार्ग पर चलाया,
ताकि वे बसने के लिये किसी नगर
को जा पहुँचे ।
- ८ लोग यहोवा की करुणा के कारण,
और उन आश्चर्यकर्मों के कारण,

* मूल में—सयुद्ध से ।

- जो वह मनुष्यों के लिये करता है,
उसका धन्यवाद करें !
- ६ क्योंकि वह अभिलाषी जीव को
सन्तुष्ट करता है,
और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त
करता है ॥
- १० जो अन्धियारे और मृत्यु की छाया
में बैठे,
और दुःख में पड़े और बेड़ियों से
जकड़े हुए थे,
११ इसलिये कि वे ईश्वर के वचनों के
विरुद्ध चले,
और परमप्रधान की सम्मति को तुच्छ
जाना ।
- १२ तब उस ने उनको कष्ट के द्वारा
दबाया,
वे ठोकर खाकर गिर पड़े, और उनको
कोई सहायक न मिला ।
- १३ तब उन्होंने ने सकट में यहोवा की
दोहाई दी,
और उस ने सकेती से उनका उद्धार
किया ;
- १४ उस ने उनको अन्धियारे और मृत्यु
की छाया में से निकाल लिया ;
और उनके बन्धनों को तोड़ डाला ।
- १५ लोग यहोवा की करुणा के कारण,
और उन आश्चर्यकर्मों के कारण
जो वह मनुष्यों के लिये करता
है,
उसका धन्यवाद करे !
- १६ क्योंकि उस ने पीतल के फाटको
को तोड़ा,
और लोहे के बेण्डों को टुकड़े टुकड़े
किया ॥
- १७ मूढ़ अपनी कुचाल,
- और अधर्म के कामों के कारण अति
दुःखित होते हैं ।
- १८ उनका जी सब भांति के भोजन से
मिचलाता है,
और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते
हैं ।
- १९ तब वे सकट में यहोवा की दोहाई
देते हैं,
और वह सकेती से उनका उद्धार
करता है ;
- २० वह अपने वचन के द्वारा * उनको
चगा करता
और जिस गडहे में वे पड़े हैं, उस से
निकालता है ।
- २१ लोग यहोवा की करुणा के कारण,
और उन आश्चर्यकर्मों के कारण
जो वह मनुष्यों के लिये करता है,
उसका धन्यवाद करे !
- २२ और वे धन्यवादबलि चढ़ाए,
और जयजयकार करते हुए, उसके
कामो का वरान करे ॥
- २३ जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते
हैं,
और महासागर पर होकर व्योपार
करते हैं,
२४ वे यहोवा के कामों को,
और उन आश्चर्यकर्मों को जो वह
गहिरें समुद्र में करता है, देखते हैं ।
- २५ क्योंकि वह आज्ञा देता है, तब प्रचण्ड
बयार उठकर तरंगों को उठाती है ।
- २६ वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर
गहराई में उतर आते हैं ;
और क्लेश के मारे उनके जी में जी
नहीं रहता ;

* मूल में—अपना वचन मेजकर ।

- २७ वे चक्कर खाते, और मतवाले की नाई लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी * जाती है ।
- २८ तब वे सकट में यहोवा की दोहाई देते हैं,
और वह उनको सकेती से निकालता है ।
- २९ वह घ्रांघी को धाम देता है और तरगे बैठ जाती है ।
- ३० तब वे उनके बैठने से आनन्दित होते हैं,
और वह उनको मन चाहे बन्दर स्थान में पहुँचा देता है ।
- ३१ लोग यहोवा की करुणा के कारण, और उन आश्चर्यकर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिये करता है, उसका धन्यवाद करे ।
- ३२ और सभा में उसको सराहे,
और पुरनियों के बैठक में उसकी स्तुति करे ।
- ३३ वह नदियों को जंगल बना डालता है,
और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है ।
- ३४ वह फलवन्त भूमि को नोनी करता है,
यह वहाँ के रहनेवालों की दुष्टता के कारण होता है ।
- ३५ वह जंगल को जल का ताल,
और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है ।
- ३६ और वहाँ वह भूखो को बसाता है,
कि वे बसने के लिये नगर तैयार करे ;
- ३७ और खेती करे, और दाख की बारिया लगाएँ,
और भाँति भाँति के फल उपजा ले ।

* मूल में—निगली ।

- ३८ और वह उनको ऐसी प्राणीय देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं,
और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता ॥
- ३९ फिर अन्धेर, विपत्ति और शोक के कारण,
वे घटते और दब जाते हैं ।
- ४० और वह हाकिमों को अपमान से लादकर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है,
४१ वह दरिद्रों को दुःख से छूड़ाकर ऊँचे पर रखता है,
और उनको भेड़ों के भुङ्ग सा परिवार देता है ।
- ४२ सीधे लोग देखकर आनन्दित होते हैं;
और सब कुटिल लोग अपने मुह बन्द करते हैं ।
- ४३ जो कोई बुद्धिमान हो, वह इन बातों पर ध्यान करेगा;
और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा ॥

(जीत । दाखद का भजन)

- १०८ हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है,
मे गाऊंगा, मे अपनी आत्मा * से भी भजन गाऊंगा ।
- २ हे सारंगी और बीणा जागो !
मे आप पी फटते जाग उठोगा !
- ३ हे यहोवा, मे देश देश के लोगों के मध्य मे तेरा धन्यवाद करूंगा,
और राज्य राज्य के लोगों के मध्य मे तेरा भजन गाऊंगा ।
- ४ क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊँची है,

* मूल में—महिमा ।

श्रीर तेरी सच्चाई आकाशमण्डल तक
है ॥

५ हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो !
श्रीर तेरी महिमा सारी पृथ्वी के
ऊपर हो !

६ इसलिये कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए,
तू अपने दहिने हाथ से बचा ले श्रीर
हमारी बिनती सुन ले !

७ परमेश्वर ने अपनी पवित्रता मे होकर
कहा है,
मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट
लूंगा,
श्रीर सुक्कोत की तराई को
नृपवाऊगा ।

८ गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है;
श्रीर एप्रैम मेरे सिर का टोप है,
यहूदा मेरा राजदण्ड है ।

९ मोआब मेरे धोने का पात्र है,
मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा,
पलिश्त पर मैं जयजयकार करूंगा ॥

१० मुझे गढ़वाले नगर मे कौन
पहुंचाएगा ?
एदोम तक मेरी अगुवाई किस ने की
है ?

११ हे परमेश्वर, क्या तू ने हम को नहीं
त्याग दिया,
श्रीर हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के
साथ पयान नहीं करता ।

१२ द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता
कर,
क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा
व्यर्थ है !

१३ परमेश्वर की सहायता से हम धीरता
दिलाएंगे;
हमारे द्रोहियों को बही रौवेगा ॥

(प्रधान बजानेवाले के छिबे हाजद का
भजन)

१०९ हे परमेश्वर तू जिसकी मैं
स्तुति करता हूँ, चुप न रह !

२ क्योंकि दुष्ट श्रीर कपटी मनुष्यों ने
मेरे विरुद्ध मुंह खोला है,
वे मेरे विषय मे भूठ बोलते हैं ।

३ श्रीर उन्हीं ने बैर के वचनों से मुझे
चारों ओर घेर लिया है,
श्रीर व्यर्थ मुझ से लडते हैं ।

४ मेरे प्रेम के बदले मैं वे मुझ से विरोध
करते हैं,
परन्तु मैं तो प्रार्थना मे लवलीन
रहता हूँ ।

५ उन्हीं ने भलाई के पलटे मे मुझ से
बुराई की
श्रीर मेरे प्रेम के बदले मुझ से बैर
किया है ॥

६ तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार
में रख,
श्रीर कोई विरोधी उसकी दहिनी ओर
खड़ा रहे ।

७ जब उसका न्याय किया जाए, तब
वह दोषी निकले,
श्रीर उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए ।

८ उसके दिन थोड़े हों,
श्रीर उसके पद को दूसरा ले !

९ उसके लडकेबाले अनाथ हो जाएं,
श्रीर उसकी स्त्री विधवा हो जाए !

१० श्रीर उसके लडके मारे मारे फिरें,
श्रीर भीख मांगा करें;
उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर
जाकर टुकड़े मांगना पड़े !

११ महाजन फन्दा लगाकर, उसका सर्वस्व
ले ले;

- श्रीर परदेसी उसकी कमाई को लूट लें !
- १२ कोई न हो जो उस पर करुणा करता रहे,
श्रीर उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह न करे !
- १३ उसका बंश नाश हो जाए,
दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए !
- १४ उसके पितरों का अघर्म यहोवा को स्मरण रहे,
श्रीर उसकी माता का पाप न मिटे !
- १५ वह निरन्तर यहोवा के सम्मुख रहे,
कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले !
- १६ क्योंकि वह दुष्ट, कृपा करना भूल गया
वरन दीन श्रीर दरिद्र को सताता था
श्रीर मार डालने की इच्छा से खेदित मनवालों के पीछे पड़ा रहता था ॥
- १७ वह शाप देने में प्रीति रखता था,
श्रीर शाप उस पर आ पड़ा;
वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, सो आशीर्वाद उस से दूर रहा ।
- १८ वह शाप देना वस्त्र की नाई पहिनता था,
श्रीर वह उसके पेट में जल की नाई,
श्रीर उसकी हड्डियों में तेल की नाई समा गया ।
- १९ वह उसके लिये ओढ़ने का काम दे,
श्रीर फेंटे की नाई उसकी कटि में नित्य कसा रहे ॥
- २० यहोवा की श्रीर से मेरे विरोधियों को,
श्रीर मेरे विरुद्ध बुरा कहनेवालों को यही बदला मिले !
- २१ परन्तु मुझ से हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर;
तेरी करुणा तो बड़ी * है, सो तू मुझे छुटकारा दे !
- २२ क्योंकि मैं दीन श्रीर दरिद्र हूँ,
श्रीर मेरा हृदय घायल हुआ है ।
- २३ मैं ठलती हुई छाया की नाई जाता रहा हूँ;
मैं टिड्डी के समान उडा दिया गया हूँ ।
- २४ उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए;
श्रीर मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ ।
- २५ मेरी तो उन लोगों से नामधराई होती है;
जब वे मुझे देखते, तब सिर हिलाते हैं ॥
- २६ हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर !
अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर !
- २७ जिस से वे जाने कि यह तेरा काम है,
श्रीर हे यहोवा, तू ही ने यह किया है !
- २८ वे कोसते तो रहें, परन्तु तू आशीष दे !
वे तो उठते ही लज्जित हों, परन्तु तेरा दास आनन्दित हो !
- २९ मेरे विरोधियों को अनादररूपी वस्त्र पहिनाया जाए,
श्रीर वे अपनी लज्जा को कम्बल की नाई ओढ़ें !
- ३० मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा,
श्रीर बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा ।

* मूल में—भली ।

३१ क्योंकि वह दरिद्र की दहिनी ओर
खड़ा रहेगा,
कि उसको घात करनेवाले न्यायियों
से बचाए ॥

(शाजद का भजन)

११० मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी
यह है, कि तू मेरे दहिने
हाथ बैठ,

जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों
की चौकी न कर दू ॥

२ तेरे पराक्रम का राजदण्ड यहोवा
सिध्यों से बढ़ाएगा ।

तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन
कर ।

३ तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के
दिन स्वेच्छाबलि बनते हैं;

तेरे जबान लोग पवित्रता से
शीमायमान,

और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के
समान तेरे पास है ।

४ यहोवा ने शपथ खाई और न
पछताएगा,

कि तू मेलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा
का याजक है ॥

५ प्रभु तेरी दहिनी ओर होकर
अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर
कर देगा ।

६ वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा,
रणभूमि लोथों से भर जाएगी;
वह लम्बे चौड़े देश के प्रधान को
चूर चूर कर देगा ।

७ वह मार्ग में चलता हुआ नदी का
जल पीएगा

इस कारण वह सिर को ऊचा
करेगा ॥

१११ याह की स्तुति करो * ।
मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में
और मण्डली में भी सम्पूर्ण मन से
यहोवा का धन्यवाद करूंगा ।

२-यहोवा के काम बड़े हैं,
जितने उन से प्रसन्न रहते हैं, वे उन
पर ध्यान लगाते हैं ।

३ उसके काम विभवमय और ऐश्वर्यमय
होते हैं,
और उसका धर्म सदा तक बना
रहेगा ।

४ उस ने अपने आश्चर्यकर्मों का स्मरण
कराया है;

यहोवा अनुग्रहकारी और दयावन्त है ।

५ उस ने अपने डरवैयों को आहार
दिया है;

वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण
रखेगा ।

६ उस ने अपनी प्रजा को अन्यायियों
का भाग देने के लिये,

अपने कामो का प्रताप दिखाया है ।

७ सच्चाई और न्याय उसके हाथों के
काम हैं;

उसके सब उपदेश विश्वासयोग्य हैं,

८ वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे,
वे सच्चाई और सिधाई से किए
हुए हैं ।

९ उस ने अपनी प्रजा का उद्धार किया
है;

उस ने अपनी वाचा को सदा के लिये
ठहराया है ।

उसका नाम पवित्र और भययोग्य है ।

१० बुद्धि का मूल यहोवा का भय
है;

* मूल में—इत्लिनुयाह ।

जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं,
उनकी बुद्धि अच्छी होती है।
उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी ॥

११२ याह की स्तुति करो * ।
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो
यहोवा का भय मानता है,
और उसकी आज्ञाओं से अति प्रमत्त
रहता है ।

२ उसका वश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा,
सीधे लोगों की सन्तान आशीष
पाएगी ।

३ उसके घर में धन सम्पत्ति रहती है;
और उसका धर्म सदा बना रहेगा ।

४ सीधे लोगों के लिये अन्धकार के बीच
मे ज्योति उदय होती है;
वह अनुग्रहकारी, दयावन्त और धर्मी
होता है ।

५ जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार
देता है, उसका कल्याण होता है,
वह न्याय में अपने मुकद्दमे को
जीतेगा ।

६ वह तो सदा तक अटल रहेगा;
धर्मी का स्मरण सदा तक बना
रहेगा ।

७ वह बुरे समाचार से नहीं डरता:
उसका हृदय यहोवा पर भरोसा
रखने से स्थिर रहता है ।

८ उसका हृदय सम्भला हुआ है, इसलिये
वह न डरेगा,
वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके
सन्तुष्ट होगा ।

९ उस ने उदारता से दरिद्रों को दान
दिया,
उसका धर्म सदा बना रहेगा;

* मूल में—हल्लिलूयाह ।

और उसका सींग महिमा के साथ
ऊंचा किया जाएगा ।

१० दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा,
वह दांत पीस-पीसकर गल जाएगा;
दुष्टों की लालसा पूरी न होगी * ॥

११३ याह की स्तुति करो † ।
हे यहोवा के दासो स्तुति
करो,

यहोवा के नाम की स्तुति करो ।

२ यहोवा का नाम
अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा
जाय !

३ उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक,
यहोवा का नाम स्तुति के योग्य
है ।

४ यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान
है,
और उसकी महिमा आकाश से भी
ऊंची है ॥

५ हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य
कौन है ?

वह तो ऊंचे पर विराजमान है,

६ और आकाश और पृथ्वी पर भी,
दृष्टि करने के लिये झुकता है ।

७ वह कंगाल को मिट्टी पर से,
और दरिद्र को धूरे पर से उठाकर
ऊंचा करता है,

८ कि उसको प्रधानों के सग,
अर्थात् अपनी प्रजा के प्रधानों के सग
बंठाए ।

९ वह बांभ को घर में लड़कों की
आनन्द करनेवाली माता बनाता है ।
याह की स्तुति करो † !

* मूल में—नारा होगी ।

† मूल में—हल्लिलूयाह ।

११४ जब इस्राएल ने मिस्र से,
अर्थात् याकूब के घराने ने
अन्य भाषावालों के बीच में कूच
किया,

२ तब यहूदा यहोवा * का पवित्रस्थान
और इस्राएल उसके राज्य के लोग
हो गए ॥

३ समुद्र देखकर भागा,
यर्दन नदी उलटी बही ।

४ पहाड़ मेंडों की नाई उछलने लगे,
और पहाड़ियां भेड़-बकरियों के बच्चों
की नाई उछलने लगीं ॥

५ हे समुद्र, तुझे क्या हुआ, कि तू
भागा ?

और हे यर्दन तुझे क्या हुआ, कि तू
उलटी बही ?

६ हे पहाड़ो तुम्हे क्या हुआ, कि तुम
मेंडों की नाई,

और हे पहाड़ियो तुम्हे क्या हुआ, कि
तुम भेड़-बकरियों के बच्चों की
नाई उछली ?

७ हे पृथ्वी प्रभु के साम्हने,
हां याकूब के परमेश्वर के साम्हने
थरथरा ।

८ वह चट्टान को जल का ताल,
चकमक के पत्थर को जल का सोता
बना डालता है ॥

११५ हे यहोवा, हमारी नहीं,
हमारी नहीं, बरन अपने
ही नाम की महिमा,
अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त
कर ।

२ जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए,
कि उनका परमेश्वर कहां रहा ?

३ हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है;
उस ने जो चाहा वही किया है ।

४ उन लोगों की मूर्तों सोने चान्दी ही
की तो हैं,

वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं ।

५ उनके मुंह तो रहता है परन्तु वे बोल
नहीं सकती;

उनके आंखें तो रहती हैं परन्तु वे
देख नहीं सकती ।

६ उनके कान तो रहते हैं, परन्तु वे सुन
नहीं सकती;

उनके नाक तो रहती हैं, परन्तु वे
सूघ नहीं सकती ।

७ उनके हाथ तो रहते हैं, परन्तु वे स्पर्श
नहीं कर सकती;

उनके पांव तो रहते हैं, परन्तु वे चल
नहीं सकती;

और अपने कण्ठ से कुछ भी शब्द
नहीं निकाल सकती ।

८ जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनानेवाले
हैं;

और उन पर सब भरोसा रखनेवाले
भी वैसे ही हो जाएंगे ॥

९ हे इस्राएल यहोवा पर भरोसा रख ।
तेरा * सहायक और ढाल वही है ।

१० हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा
रख !

तेरा * सहायक और ढाल वही है ।

११ हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर
भरोसा रखो !

तुम्हारा * सहायक और ढाल वही
है ॥

१२ यहोवा ने हम को स्मरण किया है;
वह आशीष देगा;

* मूल में—उस ।

* मूल में—उनका ।

- वह इस्लाम के धराने को आशीष देगा;
वह हारून के धराने को आशीष देगा ।
- १३ क्या छोटे क्या बड़े
जितने यहोवा के डरवैये हे, वह उन्हें आशीष देगा ॥
- १४ यहोवा तुम को और तुम्हारे लडकों को भी अधिक बढ़ाता जाए !
- १५ यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है,
उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो ॥
- १६ स्वर्ग तो यहोवा का है,
परन्तु पृथ्वी उस ने मनुष्यों को दी है ।
- १७ मृतक जितने चुपचाप पड़े हे,
वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते,
१८ परन्तु हम लोग याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेगे ।
याह की स्तुति करो * !
- ११६** मैं प्रेम रखता हूं, इसलिये कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है ।
- २ उस ने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिये मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा ।
- ३ मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं;
मैं अधोलोक की सकेती मे पड़ा था;
मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा ।
- ४ तब मैं ने यहोवा से प्रार्थना की,
कि हे यहोवा बिनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले !
- ५ यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है;
- और हमारा परमेश्वर दया करनेवाला है ।
- ६ यहोवा भोलों की रक्षा करता है,
जब मैं बलहीन हो गया था, उस ने मेरा उद्धार किया ।
- ७ हे मेरे प्राण तू अपने विश्रामस्थान मे लौट आ;
क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है ॥
- ८ तू ने तो मेरे प्राण को मृत्यु से,
मेरी आंख को आसू बहाने से,
और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है ।
- ९ मैं जीवित रहते हुए,
अपने को यहोवा के साम्हने जानकर * नित चलता रहूंगा ।
- १० मैं ने जो ऐसा कहा है, इसे विस्वास की कसौटी पर कस कर कहा है, कि मैं तो बहुत ही दुःखित हुआ;
११ मैं ने उतावली से कहा,
कि सब मनुष्य भूठे हैं ॥
- १२ यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं,
उनका बदला मैं उसको क्या दू ?
- १३ मैं उद्धार का कटोरा उठाकर,
यहोवा से प्रार्थना करूंगा,
१४ मैं यहोवा के लिये अपनी मज्जतें सबों की दृष्टि मे प्रगट रूप में उसकी सारी प्रजा के साम्हने पूरी करूंगा ।
- १५ यहोवा के भक्तों की मृत्यु,
उसकी दृष्टि मे अनमोल है ।
- १६ हे यहोवा, सुन, मैं तो तेरा दास हूं;

* मूल में—हल्लिलयूयाह ।

* मूल में—यहोवा के साम्हने ।

- में तेरा दास, और तेरी दासी का पुत्र हूँ ।
तू ने मेरे बन्धन खोल दिए हैं ।
- १७ मैं तुझ को धन्यवादबलि चढ़ाऊंगा, और यहोवा से प्रार्थना करूंगा ।
- १८ मैं यहोवा के लिये अपनी मन्त्रते, प्रगट मे उसकी सारी प्रजा के साम्हने
- १९ यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा । यह की स्तुति करो * ।
- ११७** हे जाति जाति के सब लोगो, यहोवा की स्तुति करो । हे राज्य राज्य के सब लोगो, उसकी प्रशंसा करो !
- २ क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, और यहोवा की सच्चाई सदा की है । यह की स्तुति करो * !
- ११८** यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है; और उसकी करुणा सदा की है !
- २ इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा की है ।
- ३ हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है ।
- ४ यहोवा के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है ॥
- ५ मैं ने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर, मुझे चौड़े स्थान में पहुँचाया ।
- ६ यहोवा मेरी और है, मैं न डरूंगा । मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ?
- ७ यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है;
- मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर सन्तुष्ट हूंगा ।
- ८ यहोवा की शरण लेनी, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है ।
- ९ यहोवा की शरण लेनी, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है ॥
- १० सब जातियों ने मुझ को घेर लिया है; परन्तु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा ।
- ११ उन्होंने ने मुझ को घेर लिया है, निःसन्देह घेर लिया है, परन्तु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा ।
- १२ उन्होंने ने मुझे मधुमक्खियों की नाई घेर लिया है, परन्तु कांटों की आग की नाई वे बुझ गए; यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा !
- १३ तू ने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था, कि मैं गिर पड़ परन्तु यहोवा ने मेरी सहायता की ।
- १४ परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है; वह मेरा उद्धार ठहरा है ॥
- १५ धर्मियों के तम्बुओं में जयजयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है,
- १६ यहोवा का दहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है !

* मूल में—इल्लिलूयाह ।

- १७ में न मरुंगा बरन जीवित रहूंगा,
और परमेश्वर के कामों का बर्णन
करता रहूंगा ।
- १८ परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताडना तो
की है,
परन्तु मुझे मृत्यु के वश में नहीं
किया ॥
- १९ मेरे लिये धर्म के द्वार खोलो,
में उन से प्रवेश करके याह का
धन्यवाद करूंगा ॥
- २० यहोवा का द्वार यही है,
इस से धर्मी प्रवेश करने पाएंगे ॥
- २१ हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा,
क्योंकि तू ने मेरी सुन ली है,
और मेरा उद्धार ठहर गया है ।
- २२ राजभिस्त्रियों ने जिस पत्थर को
निकम्मा ठहराया था
वही कोने का सिरा हो गया है ।
- २३ यह तो यहोवा की ओर से हुआ है,
यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है ।
- २४ आज वह दिन है जो यहोवा ने
बनाया है;
हम इस में मगन और आनन्दित
हों ।
- २५ हे यहोवा, बिनती सुन, उद्धार कर ।
हे यहोवा, बिनती सुन, सफलता दे ।
- २६ धन्य है वह जो यहोवा के नाम से
आता है ।
हम ने तुम को यहोवा के घर से
आशीर्वाद दिया है ।
- २७ यहोवा ईश्वर है, और उस ने हम को
प्रकाश दिया है ।
यज्ञपशु को बेदी के सींगो से रस्सियो
से बान्धो !
- २८ हे यहोवा, तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरा
धन्यवाद करूंगा ;

तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ को
सराहूंगा ॥

- २९ यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि
वह भला है ;
और उसकी कहरणा सदा बनी रहेगी !

(आलेफ)

११९

क्या ही धन्य है वे जो चाल
के खरे हैं,

और यहोवा की व्यवस्था पर चलते
हैं ।

- २ क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चित्तौ-
नियों को मानते हैं,
और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं !
- ३ फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते,
वे उसके मार्गों में चलते हैं ।
- ४ तू ने अपने उपदेश इसलिये दिए हैं,
कि वे यत्न से माने जाए ।
- ५ भला होता कि
तेरी विधियों के मानने के लिये मेरी
चालचलन दृढ़ हो जाए !
- ६ तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर
चित्त लगाए रहूंगा,
और मेरी आज्ञा न टूटेगी ।
- ७ जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को
सीखूंगा,
तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से
करूंगा ।
- ८ मैं तेरी विधियों को मानूंगा :
मुझे पूरी रीति से न तज !
- (बेथ)
- ९ जबान अपनी चाल को किस उपाय
से शुद्ध रखे ?
तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने
से ।

- १० मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ,
मुझ् तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने
न दे।
- ११ मैं ने तेरे वचन को अपने हृदय में
रख छोड़ा है,
कि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ।
- १२ हेँ यहोवा, तू धन्य है;
मुझे अपनी विधियाँ सिखा !
- १३ तेरे सब कहे हुए * नियमों का वर्णन,
मैं ने अपने मुह से किया है।
- १४ मैं तेरी चित्तौनियों के मार्ग से,
मानो सब प्रकार के धन से हर्षित
हुआ हूँ।
- १५ मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा,
और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि
रखूँगा।
- १६ मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा;
और तेरे वचन को न भूलूँगा ॥
- (गिमेल)
- १७ अपने दास का उपकार कर, कि मैं
जीवित रहूँ,
और तेरे वचन पर चलता रहूँ।
- १८ मेरी आँखें खोल दे, कि मैं तेरी
व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूँ।
- १९ मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ;
अपनी आज्ञाओं को मुझ् से छिपाए
न रख !
- २० मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा
के कारण हर समय खेदित रहता
है।
- २१ तू ने अभिमानियों को, जो शापित
हैं, घुड़का है,
वे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके
हुए हैं।
- २२ मेरी नामधराई और अपमान दूर
कर,
क्योंकि मैं तेरी चित्तौनियों को पकड़े
हूँ।
- २३ हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे
विरुद्ध बातें करते थे,
परन्तु तेरा दास तेरी विधियों पर
ध्यान करता रहा।
- २४ तेरी चित्तौनिया मेरा सुखमूल
और मेरे मन्त्री हैं ॥
- (बाल्थ)
- २५ मैं * धूल में पड़ा हूँ,
तू अपने वचन के अनुसार मुझ् को
जिला !
- २६ मैं ने अपनी चालचलन का तुझ् से
वर्णन किया है और तू ने मेरी बात
मान ली है;
तू मुझ् को अपनी विधियाँ सिखा !
- २७ अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता,
तब मैं तेरे आश्चर्यकर्मों पर ध्यान
करूँगा।
- २८ मेरा जीव उदासी के मारे गल चला
है;
तू अपने वचन के अनुसार मुझे
सम्भाल !
- २९ मुझ् को भूठ के मार्ग से दूर कर;
और कष्टा करके अपनी व्यवस्था
मुझे दे।
- ३० मैं ने सच्चाई का मार्ग चुन लिया
है,
तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए
रहता हूँ।
- ३१ मैं तेरी चित्तौनियों में लवलीन हूँ,
हे यहोवा, मेरी आज्ञा न तोड़ !

* मूल में—तेरे सुख के।

* मूल में—मेरा जीव।

३२ जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा,
तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में
दौड़ूंगा ॥

(हे)

३३ हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का
मार्ग दिखा दे;

तब मैं उसे अन्त तक पकड़े रहूंगा ।

३४ मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था
को पकड़े रहूंगा

और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा ।

३५ अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझ को
चला,

क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हू ।

३६ मेरे मन को लोभ की ओर नहीं,
अपनी चित्तानियों ही की ओर फेर
दे ।

३७ मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की
ओर से फेर दे;

तू अपने मार्ग में मुझे जिला ।

३८ तेरा वचन जो तेरे भय माननेवालों
के लिये है,

उसको अपने दास के निमित्त भी
पूरा कर ।

३९ जिस नामधराई से मैं डरता हू, उसे
दूर कर;

क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं ।

४० देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी
हूँ;

अपने धर्म के कारण मुझ को जिला ॥

(बाब)

४१ हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा क्रिया
हुआ उद्धार,

तेरे वचन के अनुसार, मुझ को भी
मिले;

४२ तब मैं अपनी नामधराई करनेवालों
को कुछ उत्तर दे सकूंगा,
क्योंकि मेरा भरोसा, तेरे वचन पर
है ।

४३ मुझे अपने सत्य वचन कहने से न
रोक *

क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है ।

४४ तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार,
सदा सर्वदा चलता रहूंगा;

४५ और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा
करूंगा,

क्योंकि मैं ने तेरे उपदेशों की सुधि
रखी है ।

४६ और मैं तेरी चित्तानियों की चर्चा
राजाओं के साम्हने भी करूंगा,

और सकोच न करूंगा;

४७ क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण
सुखी हूँ,

और मैं उन में प्रीति रखता हूँ ।

४८ मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिन में
मैं प्रीति रखता हूँ, हाथ फैलाऊंगा,

और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा ॥

(जैन)

४९ जो वचन तू ने अपने दास को दिया
है, उसे स्मरण कर,

क्योंकि तू ने मुझे आशा दी है ।

५० मेरे दुःख में मुझे शान्ति उसी से
हुई है,

क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैं ने
जीवन पाया है ।

५१ अभिमानियों ने मुझे अत्यन्त ठट्टे में
उड़ाया है,

तौमी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा ।

* मूल में—मेरे मुँह में से बिल्कुल न जैन ।

५२ हे यहोवा, मैं ने तेरे प्राचीन नियमों

को स्मरण करके

शान्ति पाई है ।

५३ जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं,
उनके कारण मैं सन्ताप से जलता हूँ ।

५४ जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ
तेरी विधियाँ,
मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं ।

५५ हे यहोवा, मैं ने रात को तेरा नाम
स्मरण किया,
और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ ।

५६ यह मुझ से इस कारण हुआ,
कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था ॥

(श्लेष)

५७ यहोवा मेरा भाग है;
मैं ने तेरे वचनों के अनुसार चलने
का निश्चय किया है ।

५८ मैं ने पूरे मन से तुझे बनाया है,
इसलिये अपने वचन के अनुसार
मुझ पर अनुग्रह कर ।

५९ मैं ने अपनी चालचलन को सोचा,
और तेरी चित्तानियों का मार्ग लिया ।

६० मैं ने तेरी आज्ञाओं के मानने में
विलम्ब नहीं, फूर्ती की है ।

६१ मैं दुष्टों की रस्सियों से बन्ध गया हूँ,
तौभी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला ।

६२ तेरे धर्ममय नियमों के कारण
मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने
को उठूँगा ।

६३ जितने तेरा भय मानते और तेरे
उपदेशों पर चलते हैं,
उनका मैं सगी हूँ ।

६४ हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में
भरी हुई है,

तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा !

(देष)

६५ हे यहोवा, तू ने अपने वचन के अनुसार
अपने दास के सग भलाई की है ।

६६ मुझे भली विवेक-शक्ति और ज्ञान दे,
क्योंकि मैं ने तेरी आज्ञाओं का विश्वास
किया है ।

६७ उस से पहले कि मैं दुःखित हुआ,
मैं भटकता था,
परन्तु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ ।

६८ तू भला है, और भला करता भी है;
मुझे अपनी विधियाँ सिखा ।

६९ अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध भूठ
बात गयी है,
परन्तु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से
पकड़े रहूँगा ।

७० उनका मन मोटा * हो गया है,
परन्तु मैं तेरी व्यवस्था के कारण
सुखी हूँ ।

७१ मुझे जो दुःख हुआ वह मेरे लिये
भला ही हुआ है,
जिस से मैं तेरी विधियों को सीख
सकूँ ।

७२ तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिये
हजारों रुपयों और मुहरों से भी
उत्तम है ॥

(घोष)

७३ तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा
गया हूँ;
मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं
को सीखूँ ।

७४ तेरे डरवैये मुझे देखकर आनन्दित
होंगे,
क्योंकि मैं ने तेरे वचन पर आशा
लगाई है ।

* मूल में—चर्बी के समान मोटा ।

- ७५ हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम
घर्ममय हैं,
और तू ने अपने सच्चाई के अनुसार
मुझे दुःख दिया है ।
- ७६ मुझे अपनी करुणा से शान्ति दे,
क्योंकि तू ने अपने दास को ऐसा ही
वचन दिया है ।
- ७७ तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित
रहूंगा,
क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से मुखी हू ।
- ७८ अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि
उन्होंने ने मुझे भूठ के द्वारा गिरा
दिया है,
परन्तु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान
करूंगा ।
- ७९ जो तेरा भय मानते हैं, वह मेरी
ओर फिरे,
तब वे तेरी चितौनियों को समझ
लेगे ।
- ८० मेरा मन तेरी विधियों के मानने
में सिद्ध हो,
ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना
पड़े ॥
- (काफ)
- ८१ मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिये बेचैन
है;
परन्तु मुझे तेरे वचन पर आशा
रहती है ।
- ८२ मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की
बाट जोहते जोहते रह गई हैं,
और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब
शान्ति देगा ?
- ८३ क्योंकि मैं धूल में की कुप्पी के समान
हो गया हूँ,
तौभी तेरी विधियों को नहीं भूला ।
- ८४ तेरे दास के कितने दिन रह गए
हैं ?
तू मेरे पीछे पड़े हुआँ को दराड कब
देगा ?
- ८५ अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के
अनुसार नहीं चलते,
उन्होंने ने मेरे लिये गडहे खोदे हैं ।
- ८६ तेरी सब आज्ञाएँ विश्वासयोग्य हैं;
वे लोग भूठ बोलते हुए मेरे पीछे
पड़े हैं; तू मेरी सहायता कर !
- ८७ वे मुझ को पृथ्वी पर से मिटा डालने
ही पर थे,
परन्तु मैं ने तेरे उपदेशों को नहीं
छोड़ा ।
- ८८ अपनी करुणा के अनुसार मुझ को
जिला,
तब मैं तेरी दी हुई * चितौनी को
मानूँगा ॥
- (लामेथ)
- ८९ हे यहोवा, तेरा वचन,
आकाश में सदा तक स्थिर रहता है ।
- ९० तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी
रहती है;
तू ने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिये
वह बनी है ।
- ९१ वे आज के दिन तक तेरे नियमों के
अनुसार ठहरे हैं;
क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है ।
- ९२ यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न
होता,
तो मैं दुःख के समय नाश हो जाता ।
- ९३ मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूँगा;
क्योंकि उन्होंने के द्वारा तू ने मुझे
जिलाया है ।

* मूल में—तेरे मुख की ।

- ६४ मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर;
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि
रखता हूँ ।
- ६५ दुष्ट मेरा नाश करने के लिये मेरी
घात में लगे हैं;
परन्तु मैं तेरी चित्तानियों पर ध्यान
करता हूँ ।
- ६६ जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं,
उन सब को तो मैं ने अधूरी पाया
है *,
परन्तु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा
है ॥

(भीम)

- ६७-अहा ! मैं तेरी व्यवस्था में कंसी
प्रीति रखता हूँ ।
दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा
रहता है ।
- ६८ तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे
अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान
करता है,
क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती
हैं ।
- ६९ मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक
समझ रखता हूँ,
क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चित्तानियों
पर लगा है ।
- १०० मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ,
क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े
हुए हूँ ।
- १०१ मैं ने अपने पावों को हर एक बुरे
रास्ते से रोक रखा है,
जिस से मैं तेरे वचन के अनुसार
चलूँ ।
- १०२ मैं तेरे नियमों से नहीं हटा,
क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है ।
- १०३ तेरे वचन मुझ को * कैसे मीठे
लगते हैं,
- वे मेरे मुह में मधु से भी मीठे हैं !
- १०४ तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार
हो जाता हूँ,
इसलिये मैं सब मिथ्या मार्गों से
बैर रखता हूँ ॥

(मून)

- १०५ तेरा वचन मेरे पांव के लिये दीपक,
और मेरे भाग के लिये उजियाला
है ।
- १०६ मैं ने शपथ खाई, और ठाना भी है,
कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार
चलूंगा ।
- १०७ मैं अत्यन्त दुःख में पड़ा हूँ;
हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार
मुझे जिला ।
- १०८ हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छाबलि
जानकर ग्रहण कर,
और अपने नियमों को मुझे सिखा ।
- १०९ मेरा प्राण निरन्तर मेरी हथेली पर
रहता है,
तीभी मैं तेरी व्यवस्था को भूल
नहीं गया ।
- ११० दुष्टों ने मेरे लिये फन्दा लगाया है,
परन्तु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से
नहीं भटका ।
- १११ मैं ने तेरी चित्तानियों को सदा के
लिये अपना निज भाग कर लिया
है,
क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का
कारण हैं ।

* मूल में—सारी पूर्णता का मैं ने अत
देखा है ।

* मूल में—मेरे तालू को ।

- ११२ मैं ने अपने मन को इस बात पर लगाया है,
कि अन्त तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूँ ॥
- (सामेल)
- ११३ मैं दुचित्तो मे तो बैर रखता हूँ,
परन्तु तेरी व्यवस्था मे प्रीति रखता हूँ ।
- ११४ तू मेरी आड और ढाल है;
मेरी आशा तेरे वचन पर है ।
- ११५ हे कुकर्मियो, मुझ से दूर हो जाओ,
कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूँ ।
- ११६ हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे सम्भाल, कि मैं जीवित रहूँ,
और मेरी आशा को न तोड़ ।
- ११७ मुझे थाभ रख, तब मैं बचा रहूँगा,
और निरन्तर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूँगा ।
- ११८ जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सब को तू तुच्छ जानता है,
क्योंकि उनकी चतुराई भूठ है ।
- ११९ तू ने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मूल के समान दूर किया है,
इस कारण मैं तेरी चित्तीनियों में प्रीति रखता हूँ ।
- १२० तेरे भय मे मेरा शरीर कांप उठता है,
और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ ॥
- (ऐन)
- १२१ मैं ने तो न्याय और धर्म का काम किया है,
तू मुझे अन्धेर करनेवालों के हाथ मे न छोड़ ।
- १२२ अपने दास की भलाई के लिये जायिन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अन्धेर न करने पाए ।
- १२३ मेरी आखे तुझ मे उद्धार पाने, और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते रह गई है ।
- १२४ अपने दास के सग अपनी कष्टा के अनुसार बर्ताव कर,
और अपनी विधियां मुझे सिखा ।
- १२५ मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चित्तीनियों को समझूँ ।
- १२६ वह समय आया है, कि यहोवा काम करे,
क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है ।
- १२७ इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुन्दन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ ।
- १२८ इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ;
और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ ॥
- (वे)
- १२९ तेरी चित्तीनियां अनूप हैं,
इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूँ ।
- १३० तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है;
उस से भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं ।
- १३१ मैं मुह खोलकर हाफने लगा,
क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था ।

- १३२ जैसी तेरी रीति अपने नाम की
प्रीति रखनेवालों से है,
वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ
पर अनुग्रह कर ।
- १३३ मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग
पर स्थिर कर,
और किसी अनर्थ बात को मुझ पर
प्रभुता न करजें दे ।
- १३४ मुझे मनुष्यों के अन्धेर से छुडा
ले,
तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा ।
- १३५ अपने दास पर अपने मुँव का
प्रकाश चमका दे,
और अपनी विधिया मुझे सिखा ।
- १३६ मेरी आँखों से जल की धारा बहनी
रहनी है,
क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं
मानते ॥

(सादे)

- १३७ हे यहोवा तू धर्मी है,
और तेरे नियम सीधे हैं ।
- १३८ तू ने अपनी चितौनियों को
धर्म और पूरी सत्यता से कहा है ।
- १३९ मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ,
क्योंकि मेरे सतानेवाले तेरे वचनों
को भूल गए हैं ।
- १४० तेरा वचन पूरी रीति से ताया
हुआ है,
इसलिये तेरा दास उस में प्रीति
रखता है ।
- १४१ मैं छोटा और तुच्छ हूँ,
तौभी मैं तेरे उपदेशों को नहीं
भूलता ।
- १४२ तेरा धर्म सदा का धर्म है,
और तेरी व्यवस्था सत्य है ।

- १४३ मैं संकट और सकती में फसा हूँ,
परन्तु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ ।
- १४४ तेरी चितौनियां सदा धर्ममय हैं;
तू मुझ को समझ दे कि मैं जीवित
- रहूँ ॥

(क्राक)

- १४५ मैं ने सारे मन से प्रार्थना की है,
हे यहोवा मेरी सुन लेना !
मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा ।
- १४६ मैं ने तुझ से प्रार्थना की है, तू मेरा
उद्धार कर,
और मैं तेरी चितौनियों को माना
करूंगा ।
- १४७ मैं ने पी फटने से पहिले दोहाई दी;
मेरी आशा तेरे वचनों पर थी ।
- १४८ मेरी आँखें रात के एक एक पहर से
पहिले खुल गईं,
कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूँ ।
- १४९ अपनी करुणा के अनुसार मेरी
सुन ले,
हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार
मुझे जीवित कर ।
- १५० जो दुष्टता में धुन लगाते हैं, वे
निकट आ गए हैं,
वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं ।
- १५१ हे यहोवा, तू निकट है,
और तेरी सब आज्ञाएँ सत्य हैं ।
- १५२ बहुत काल से मैं तेरी चितौनियों
को जानता हूँ,
कि तू ने उनकी नेव सदा के लिये
डाली हैं ॥

(रेश)

- १५३ मेरे दुःख को देखकर मुझे छुडा ले,
क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल
नहीं गया ।

- १५४ मेरा मुकद्दमा लड, और मुझे छुड़ा ले;
अपने वचन के अनुसार मुझे जो जिला ।
- १५५ दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है *,
क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते ।
- १५६ हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है;
इसलिये अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला ।
- १५७ मेरा पीछा करनेवाले और मेरे सतानेवाले बहुत हैं,
परन्तु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता ।
- १५८ मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ,
क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते ।
- १५९ देख, मैं तेरे नियमों से कौसी प्रीति रखता हूँ ।
हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझे जो जिला ।
- १६० तेरा सारा वचन † सत्य ही है;
और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है ॥

(शील)

- १६१ हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पडे हैं,
परन्तु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है ।
- १६२ जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है,
वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ ।

* मूल में—उद्धार दुष्टों से दूर है ।

† मूल में—तेरे वचन का जोड़ ।

- १६३ भूठ से तो मैं बँर और घृणा रखता हूँ,
परन्तु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ ।
- १६४ तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन सात बँर तेरी स्तुति करता हूँ ।
- १६५ तेरी व्यवस्था से प्रीति रखनेवालों को बड़ी शान्ति होती है;
और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती ।
- १६६ हे यहोवा, मैं तुझ से उद्धार पाने की आशा रखता हूँ;
और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ ।
- १६७ मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ,
और उन से बहुत प्रीति रखता आया हूँ ।
- १६८ मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ,
क्योंकि मेरी सारी चालचलन तेरे सम्मुख प्रगत है ॥

(ताब)

- १६९ हे यहोवा, मेरी दोहाई तुझ तक पहुँचे;
तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे ।
- १७० मेरा गिडगिडाना तुझ तक पहुँचे;
तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले ।
- १७१ मेरे मुह से स्तुति निकला करे*,
क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है ।

* मूल में—मेरे होंठ स्तुति बहाय ।

- १७२ मैं तेरे बचन का गीत गाऊंगा,
क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं ।
- १७३ तेरा हाथ मेरी सहायता करने को
तैयार रहता है,
क्योंकि मैं ने तेरे उपदेशों को
ग्रपनाया है ।
- १७४ हे यहोवा, मैं तुझ से उद्धार पाने
की अभिलाषा करता हूँ,
मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ ।
- १७५ मुझे जिला, और मैं तेरी स्तुति
करूंगा,
तेरे नियमों से मेरी सहायता हो ।
- १७६ मैं खोई हुई भेड़ की नाईं भटका
हूँ; तू अपने दास को ढूँढ ले,
क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल
नहीं गया ॥

(याबा का गीत)

- १२० संकट के समय मैं ने यहोवा
को पुकारा,
और उस ने मेरी सुन ली ।
- २ हे यहोवा, भूठ बोलनेवाले मुह से
और छली जीभ से मेरी रक्षा
कर ॥
- ३ हे छली जीभ,
तुझ को क्या मिले ? और तेरे साथ
और क्या अधिक किया जाए ?
- ४ वीर के नोकीले तीर
और झाड़ के अगारे !
- ५ हाय, हाय, क्योंकि मुझे मेशोक में
परदेशी होकर रहना पड़ा
और केदार के तम्बुओं में बसना
पड़ा है !
- ६ बहुत काल से मुझ को
मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा
है ।

- ७ मैं तो मेल चाहता हूँ;
परन्तु मेरे बोलते ही, वे लडना
चाहते हैं !

(याबा का गीत)

- १२१ मैं अपनी आंखें पर्वतों की
और लगाऊंगा * ।
- मुझे सहायता कहां से मिलेगी ?
- २ मुझे सहायता यहोवा की ओर से
मिलती है,
जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है ॥
- ३ वह तेरे पांव को टलने न देगा,
तेरा रक्षक कंबी न ऊंचे ।
- ४ सुन, इस्वाएल का रक्षक,
न ऊंचेगा और न सोएगा ॥
- ५ यहोवा तेरा रक्षक है;
यहोवा तेरी दहिनी ओर तेरी आड़
है ।
- ६ न तो दिन को घूप से,
और न रात को चांदनी से तेरी कुछ
हानि होगी ॥
- ७ यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा
करेगा;
यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा ।
- ८ यहोवा तेरे आने जाने में
तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक
करता रहेगा ॥

(याबा का गीत । दाऊद का)

- १२२ जब लोगों ने मुझ से कहा,
कि हम यहोवा के भवन
को चलो,
तब मैं आनन्दित हुआ ।
- २ हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर,
हम खड़े हो गए हैं !

* मूल में—बढाऊंगा ।

- ३ हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है,
जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं ।
४ वहां याहू के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं ;
यह इस्त्राएल के लिये साक्षी है ।
५ वहां तो न्याय के सिंहासन, दाऊद के घराने के लिये धरे हुए हैं ॥
६ यरूशलेम की शान्ति का वरदान मांगो,
तेरे प्रेमी कुशल से रहें ।
७ तेरी शहरपनाह के भीतर शान्ति, और तेरे महलों में कुशल होवे ।
८ अपने भाइयों और सगियों के निमित्त, मैं कहूंगा कि तुझ में शान्ति होवे ।
९ अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त,
मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा ॥

(याबा का गीत)

- १२३ हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता * हूँ !
२ देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं,
वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी,
जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे ॥
३ हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर,

* मूल में—उठाता ।

क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं ।

- ४ हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से, और ग्रहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है ॥

(याबा का गीत । दाऊद का)

१२४

इस्त्राएल यह कहे,
कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता,

- २ यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता
जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की,
३ तो वे हम को उसी समय जीवित निगल जाते,
जब उनका क्रोध हम पर भड़का था,
४ हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते.* ;
५ उमड़ते † जल में हम उसी समय ही बह जाते ॥

- ६ धन्य है यहोवा,
जिस ने हम को उनके दांतों तले जाने न दिया ।
७ हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ीमार के जाल से छूट गया ;
जाल फट गया, हम बच निकले !
८ यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्त्ता है,
हमारी सहायता उसी के नाम से होती है ।

(याबा का गीत)

१२५

जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं,
वे सिंघ्योन पर्वत के समान हैं,

* मूल में—नदी हमारे प्राण के ऊपर से जाती ।

† मूल में—अभिमानी ।

- जो टलता नहीं, वरन सदा बना रहता है ।
- २ जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है,
उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा ।
- ३ क्योंकि दुष्टों का राजदरद घर्मियों के भाग पर बना न रहेगा,
ऐसा न हो कि घर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए ॥
- ४ हे यहोवा, भलों का,
और सीधे मनवालो का भला कर !
- ५ पुरन्तु जो मुडकर टेढ़े मार्गों में चलते हैं,
उनको यहोवा अनर्थकारियों के सग निकाल देगा !
इस्त्राएल की शान्ति मिले ।

(याबा का गीत)

१२६

- जब यहोवा सिय्योन से लौटनेवालों को लौटा ले आया,
तब हम स्वप्न देखनेवाले से हो गए ।
- २ तब हम आनन्द से हंसने और जयजयकार करने लगे * ;
तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था,
कि यहोवा ने, इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं ।
- ३ यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं ;
और इस से हम आनन्दित हैं ॥
- ४ हे यहोवा, दक्खिन देश के नालों की नाईं,

* मूल में—हमारा मुँह हंसी से और हमारी जीभ ऊँचे स्वर के गीत से भर गईं ।

- हमारे बन्धुओं* को लौटा ले आ !
- ५ जो आंसू बहाते हुए बोते हैं,
वे जयजयकार करते हुए लवने पाएंगे ।
- ६ चाहे बोनवाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए,
परन्तु वह फिर पूलिया लिए जयजयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा ॥

(याबा का गीत । दुलैमान का)

१२७

- यदि घर को यहोवा न बनाए,
तो उसके बनानेवालों का परिश्रम व्यर्थ होगा ।
यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे,
तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा ।
- २ तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते
और दुःख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिये व्यर्थ ही है ;
क्योंकि वह अपने प्रियों को योही नीद दान करता है ॥
- ३ देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है ।
- ४ जैसे वीर के हाथ में तीर,
वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं ।
- ५ क्या ही धन्य है वह पुरुष जिस ने अपने तर्कश को उन से भर लिया हो !
वह फाटक के पास शत्रुओं से बाते करते संकोच न करेगा ॥

* मूल में—हमारी बंधुभाई ।

(याचा का मौन)

- १२८ क्या ही धन्य है हर एक जो
' यहोवा का भय मानता है,
और उसके मार्गों पर चलता है ।
२ तू अपनी कमाई को निश्चय खाने
पाएगा ;
तू धन्य होगा, और तेरा भला ही
होगा ॥
३ नेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन्त
दाखलता सी होगी,
तेरी मेज के चारो ओर तेरे बालक
जलपाई के पीधे से होंगे ।
४ सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता
हो,
वह ऐसी ही आशीष पाएगा ॥
५ यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे,
और तू जीवन भर यरूशलेम का
कुशल देखता रहे ।
६ वरन तू अपने नाती-पोतो को भी
देखने पाए ।
इस्त्राएल को शान्ति मिले ।

(याचा का मौन)

- १२९ इस्त्राएल अब यह कहें,
कि मेरे बचपन से लोग मुझे
बार बार क्लेश देते आए हैं,
२ मेरे बचपन से वे मुझ को बार बार
क्लेश देते तो आए हैं,
परन्तु मुझ पर प्रबल नहीं हुए ।
३ हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल
चलाया,
और लम्बी लम्बी रेखाएँ की ।
४ यहोवा धर्मी हैं ;
उस ने दुष्टों के फन्दों को काट डाला
है ।
५ जितने सिय्योन से बैर रखते हैं,

उन सबों की आशा टूटे, और उनको
पीछे हटना पड़े ।

- ६ वे छत पर की घास के समान हों,
जो बढने से पहिले सूख जाती है ;
७ जिम मे कोई लवैया अपनी मुट्टी नहीं
भरता,
न पूलियो का कोई बान्धनेवाला
अपनी अकवार भर पाता है,
८ और न आने जानेवाले यह कहते हैं,
कि यहोवा की आशीष तुम पर
होवे ।
हम तुम को यहोवा का नाम से
आशीर्वाद देते हैं !

(याचा का मौन)

- १३० हे यहोवा, मैं ने गहरे स्थानों
मे से तुझ को पुकारा है !
२ हे प्रभु, मेरी सुन !
तेरे कान मेरे गिडगिडाने की ओर
ध्यान से लगे रहे ।
३ हे याह, यदि तू अघम के कामो का
लेखा ले,
तो हे प्रभु कौन खडा रह सकेगा ?
४ परन्तु तू क्षमा करनेवाला है *,
जिस से तेरा भय माना जाए ॥
५ मे यहोवा की बात जोहता हूँ, मे जी
से उसकी बात जोहता हूँ,
और मेरी आशा उसके वचन पर
है ;
६ पहरए जितना भोर को चाहते हैं, हा,
पहरए जितना भोर को चाहते हैं,
उस से भी अधिक मैं यहोवा को अपने
प्राणो से चाहता हूँ ॥
७ इस्त्राएल यहोवा पर आशा लगाए
रहे !

* मूल में—तेरे पास क्षमा है ।

क्योंकि यहोवा करुणा करनेवाला
और पूरा छुटकारा देनेवाला है * ।

८ इस्त्राएल को उसके सारे अधर्म के
कामों से
वही छुटकारा देगा ॥

(बाबा का जीत । दाऊद का)

१३१

हे यहोवा, न तो मेरा मन
गर्व से और न मेरी दृष्टि
घमण्ड से भरी है,
और जो बाते बड़ी और मेरे लिये
अधिक कठिन हैं,
उन से मैं काम नहीं रखता ।
२ निश्चय मैं ने अपने मन को † शान्त
और चुप कर दिया है,
जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड्डका अपनी
मां की गोद में ‡ रहता है,
वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड्डके के समान
मेरा मन भी रहता है § ॥
३ हे इस्त्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा
यहोवा ही पर आशा लगाए रह ।

(बाबा का जीत)

१३२

हे यहोवा, दाऊद के लिये
उसकी सारी दुर्दशा को
स्मरण कर ;
२ उस ने यहोवा से शपथ खाई,
और याकूब के सर्वशक्तिमान की
मन्नत मानी है,
३ कि निश्चय मैं उस समय तक अपने
घर में ॥ प्रवेश न करूंगा, और
न अपने पलग पर चढ़ूंगा ;

* मूल में—यहोवा के पास करुणा और
उसी के पास बहुत छुटकारा है ।

† मूल में—जीव को ।

‡ मूल में—मां पर ।

§ मूल में—मेरे ऊपर रहता ।

॥ मूल में—अपने घर के डेरे में ।

४ न अपनी आंखों में नीद, और
न अपनी पलकों में भ्रुपकी आने
दूंगा,

५ जब तक मैं यहोवा के लिये एक
स्थान,
अर्थात् याकूब के सर्वशक्तिमान के
लिये निवास स्थान न पाऊं ॥

६ देखो, हम ने एप्राता में इसकी चर्चा
सुनी है,
हम ने इसको बन के खेतों में पाया
है ।

७ आओ, हम उसके निवास में प्रवेश
करे,
हम उसके चरणों की चौकी के आगे
दण्डवत् करें ।

८ हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम-
स्थान में
अपनी सामर्थ्य के सन्दूक समेत आ ।
९ तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहिने रहें,
और तेरे भक्त लोग जयजयकार करें ।

१० अपने दास दाऊद के लिये,
अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की
अनसुनी न कर * ॥

११ यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ
खाई है
और वह उस से न मुकरेगा :
कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज
पुत्र को बैठाऊंगा ।

१२ यदि तेरे वंश के लोग मेरी बाबा का
पालन करे

और जो चितौनी मैं उन्हें सिलाऊंगा,
उस पर चलें,
तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी
पर युग युग बैठते चले जाएंगे ।

* मूल में—अभिषिक्त का मुख न फेर दे ।

१३ क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को
अपनाया है,
और उसे अपने निवास के लिये
चाहा है ॥

१४ यह तो युग युग के लिये मेरा विश्राम-
स्थान है;
यही मैं रहूँगा, क्योंकि मैं ने इसको
चाहा है ।

१५ मैं इस में की भोजनवस्तुओं पर अति
आशीष दूँगा;
और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त
करूँगा ।

१६ इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र
पहिनाऊँगा,
और इसके भक्त लोग ऊँचे स्वर से
जयजयकार करेंगे ।

१७ वहाँ मैं दाऊद के एक सींग उगाऊँगा,
मैं ने अपने अभिषिक्त के लिये एक
दीपक तैयार कर रखा है ।

१८ मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का
वस्त्र पहिनाऊँगा,
परन्तु उसी के सिर पर उसका मुकुट
शोभायमान रहेगा ॥

(शाबा का जीत । दाऊद का)

१३३ देखो, यह क्या है! भली
और मनोहर बात है

कि भाई लोग आपस में मिले रहे ।

२ यह तो उस उत्तम तेल के समान है,
जो हारून के सिर पर डाला गया था,
और उसकी दाढ़ी पर बहकर,
उसके वस्त्र की छोर तक पहुँच गया ।

३ वा हेमॉन् की उस ओस के समान है,
जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है !
यहोवा ने तो वही
सदा के जीवन की आशीष ठहराई है ॥

(शाबा का जीत)

१३४ हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो,
तुम जो रात रात को यहोवा
के भवन में खड़े रहते हो,
यहोवा को धन्य कहो !

२ अपने हाथ पवित्रस्थान में उठाकर,
यहोवा को धन्य कहो ।

३ यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का
कर्त्ता है,
वह सिय्योन में से तुम्हें आशीष देवे ॥

१३५ याह की स्तुति करो *,
यहोवा के नाम की स्तुति
करो,

हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो,
२ तुम जो यहोवा के भवन में,

अर्थात् हमारे परमेश्वर के भवन के
भागनों में खड़े रहते हो ।

३ याह की स्तुति करो *, क्योंकि यहोवा
भला है;
उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि
यह मनभाऊ है ।

४ याह ने तो याकूब को अपने लिये
चुना है,

अर्थात् इस्राएल को अपना निज धन
होने के लिये चुन लिया है ॥

५ मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु
यहोवा सब देवताओं से महान है ।

६ जो कुछ यहोवा ने चाहा
उसे उस ने आकाश और पृथ्वी और
समुद्र और सब गहिरें स्थानों में
किया है ।

७ वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है,
और वर्षा के लिये बिजली बनाता
है,

* मूल में—बल्लिस्साह ।

- श्रीर पवन को अपने भरडार मे से निकालता है ॥
- ८ उस ने मिस्र मे क्या मनुष्य क्या पशु, सब के पहिलीठों को मार डाला !
- ९ हे मिस्र, उस ने तेरे बीच मे फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए * ।
- १० उस ने बहुत सी जातिया नाश की, श्रीर सामर्थी राजाओं को,
- ११ अर्थात् एभोरियों के राजा मीहोन को, श्रीर बाशान के राजा भोग को, श्रीर कनान के सब राजाओं को घात किया ;
- १२ श्रीर उनके देश को बाटकर, अपनी प्रजा इस्राएल के भाग होने के लिये दे दिया ॥
- १३ हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है, हे यहोवा जिस नाम मे तेरा स्मरण होता है, वह पीढी-पीढी बना रहेगा ।
- १४ यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा,
श्रीर अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा ॥
- १५ अन्यजातियों की मूरते मोना-चान्दी ही हैं,
वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं ।
- १६ उनके मुह तो रहता है, परन्तु वे बोल नहीं सकती,
उनके आँखे तो रहती हैं, परन्तु वे देख नहीं सकती,
- १७ उनके कान तो रहते हैं, परन्तु वे सुन नहीं सकती,
- ८ न उनके कुछ भी सांस चलती है ।
- १८ जैसी वे है वैसे ही उनके बनानेवाले भी हैं;
श्रीर उन पर सब भरोसा रखनेवाले भी वैसे ही हो जाएंगे !
- १९ हे इस्राएल के घराने यहोवा को धन्य कह ।
हे हारून के घराने यहोवा को धन्य कह ।
- २० हे लेवी के घराने यहोवा को धन्य कह ।
हे यहोवा के डरवैयो यहोवा को धन्य कहो ।
- २१ यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है,
उसे सिय्योन में धन्य कहा जावे !
याह की स्तुति करो * ।
- १३६** यहोवा का धन्यवाद करो,
क्योंकि वह भला है,
श्रीर उसकी करुणा सदा की है ।
- २ जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो,
उसकी करुणा सदा की है ।
- ३ जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो,
उसकी करुणा सदा की है ॥
- ४ उसको छोडकर कोई बडे बडे आश्चर्य-कर्म नहीं करता,
उसकी करुणा सदा की है ।
- ५ उस ने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया,
उसकी करुणा सदा की है ।
- ६ उम ने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है,
उसकी करुणा सदा की है ।

* मूल में—भेजे ।

* मूल में—हलिलुयाह ।

- ७ उस ने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई,
उसकी करुणा सदा की है ।
- ८ दिन पर प्रभुता करने के लिये सूर्य
को बनाया,
उसकी करुणा सदा की है ।
- ९ और रात पर प्रभुता करने के लिये
चन्द्रमा और तारागण को बनाया,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १० उस ने भिक्षियों के पहिलीठों को मारा,
उसकी करुणा सदा की है ।
- ११ और उनके बीच में इस्त्राएलियों को
निकाला,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १२ बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से
निकाल लाया,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १३ उस ने लाल समुद्र को खरड खरड
कर दिया,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १४ और इस्त्राएल को उसके बीच से पार
कर दिया,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १५ और फिरौन को सेना समेत लाल
समुद्र में डाल दिया,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १६ वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १७ उस ने बड़े बड़े राजा मारे,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १८ उस ने प्रतापी राजाओं को भी मारा,
उसकी करुणा सदा की है ।
- १९ एमोरियों के राजा सीहोन को,
उसकी करुणा सदा की है ।
- २० और बाशान के राजा ओग को घात
किया,
उसकी करुणा सदा की है ।
- २१ और उनके देश को भाग होने के
लिये,
उसकी करुणा सदा की है ;
- २२ अपने दास इस्त्राएलियों के भाग होने
के लिये दे दिया,
उसकी करुणा सदा की है ॥
- २३ उस ने हमारी दुर्दशा में हमारी मुधि
ली,
उसकी करुणा सदा की है ;
- २४ और हम को द्रोहियों से छुड़ाया है,
उसकी करुणा सदा की है ।
- २५ वह सब प्राणियों को आहार देता है,
उसकी करुणा सदा की है ॥
- २६ स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो,
उसकी करुणा सदा की है ॥
- १३७** बाबुल की नहरो के किनारे
हम लोग बैठ गए,
और सिथ्योन को स्मरण करके रो
पड़े ।
- २ उसके बीच के मजदूर बूझों पर
हम ने अपनी वीगाओं को टांग दिया ;
- ३ क्योंकि जो हम को बन्धुए करके ले
गए थे, उन्होंने वहा हम से गीत *
गवाना चाहा,
और हमारे हलानेवालों ने हम से
आनन्द चाहकर कहा,
सिथ्योन के गोत्रों में से हमारे लिये
कोई गीत गाओ !
- ४ हम यहोवा के गीत को,
पराए देश में क्योंकर गाए ?
- ५ हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं,
तो मेरा दहिना हाथ भूठा हो
जाए † !

* भूल में—गीत के वचन ।

† भूल में—भूल जाए ।

- ६ यदि मैं तुम्हें स्मरण न रखू,
यदि मैं यरूशलेम को,
अपने सब आनन्द से श्रेष्ठ न जानू,
तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए !
७ हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदो-
मियों के विरुद्ध स्मरण कर,
कि वे क्योंकर कहते थे, ढाओ !
उसको नेव से ढा दो !
८ हे बाबुल * तू जो उजड़नेवाली है,
क्या ही धन्य वह होगा, जो तुझ से
ऐसा ही बर्ताव करेगा
जैसा तू ने हम से किया है !
९ क्या ही धन्य वह होगा, जो तेरे बच्चों
को पकड़कर,
चट्टान पर पटक देगा !

(दाऊद का भजन)

१३८

- मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद
करूंगा;
देवताओं के साम्हने भी मैं तेरा भजन
गाऊंगा ।
२ मैं तेरे पवित्र मन्दिर की ओर दण्डवत्
करूंगा,
और तेरी कृपा और सच्चाई के
कारण तेरे नाम का धन्यवाद
करूंगा,
क्योंकि तू ने अपने वचन को अपने
बड़े नाम से अधिक महत्व दिया
है ।
३ जिस दिन मैं ने पुकारा, उसी दिन तू ने
मेरी सुन ली, और मुझ में बल देकर
हियाव बन्धाया ।।
४ हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा
धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे
वचन सुने हैं;

- ५ और वे यहोवा की गति के विषय में
गाएंगे,
क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है ।
६ यद्यपि यहोवा महान है, तौभी वह
नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता
है;
परन्तु अहंकारी को दूर ही से पहि-
चानता है ।।
७ चाहे मैं संकट के बीच में रहू * तौभी
तू मुझे जिलाएगा,
तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ
बढ़ाएगा,
और अपने दहिने हाथ से मेरा उद्धार
करेगा ।

- ८ यहोवा मेरे लिये मब कुछ पूरा
करेगा,
हे यहोवा, तेरी कृपा सदा की है ।
तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग
न दे ।।

(प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद का
भजन)

१३९

- हे यहोवा, तू ने मुझे जाच-
कर जान लिया है ।।
२ तू मेरा उठना बैठना जानता है;
और मेरे विचारों को दूर ही से समझ
लेता है ।
३ मेरे चलने और लेटने की तू भली-
भाँति छानबीन करता है,
और मेरी पूरी चालचलन का भेद
जानता है ।
४ हे यहोवा, मेरे मुह में ऐसी कोई बात
नहीं
जिसे तू पूरी रीति से न जानता
हो ।

* मूल में—हे बाबुल की बेटी ।

* मूल में—चलू ।

- ५ तू ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है,
और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है।
- ६ यह ज्ञान मेरे लिये बहुत कठिन है;
यह गम्भीर * और मेरी समझ से बाहर है ॥
- ७ मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊँ ?
वा तेरे साम्हने से किधर भागूँ ?
- ८ यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ, तो तू वहा है।
यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो वहा भी तू है।
- ९ यदि मैं भोर की किरणों पर चढकर † समुद्र के पार जा बसूँ ‡,
१० तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा,
और अपने दहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा।
- ११ यदि मैं कहूँ कि अन्धकार में तो मैं छिप जाऊँगा,
और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अन्धेरा हो जाएगा,
- १२ तौभी अन्धकार तुझ से न छिपाएगा,
रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी;
क्योंकि तेरे लिये अन्धियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं ॥
- १३ मेरे मन का स्वामी तो तू है;
तू ने मुझे माता के गर्भ में रचा।
- १४ मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिये कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ।
- तेरे काम तो आश्चर्य के हैं,
और मैं इसे भली भाँति जानता हूँ।
- १५ जब मैं गुप्त में बनाया जाता,
और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था,
तब मेरी हड्डियाँ तुझ से छिपी न थी।
- १६ तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा,
और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे
वे रचे जाने में पहिले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे।
- १७ और मेरे लिये तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं।
उनकी सख्या का जोड़ कैसा बड़ा है।
- १८ यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनको से भी अधिक ठहरते।
जब मैं जाग उठता हूँ, तब भी तेरे सग रहता हूँ ॥
- १९ हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा।
हे हत्यारो, मुझ से दूर हो जाओ!
- २० क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं;
तेरे द्रोही तेरा नाम भूठी बात पर लेते हैं।
- २१ हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियो से बैर न रखूँ,
और तेरे विरोधियो से रूठ न जाऊँ ?
- २२ हाँ, मैं उन से पूर्ण बैर रखता हूँ;
मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ।
- २३ हे ईश्वर, मुझे जाचकर जान ले!
मुझे परखकर मेरी चिन्ताओं को जान ले!

* मूल में—ऊँचे पर।

† मूल में—के पंख उठाकर।

‡ मूल में—पिछले भाग में बसूँ।

२४ और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल
है कि नहीं,
और अनन्त के मार्ग में मेरी अगुवाई
कर !

(प्रधान बजानेवाले के लिये दाऊद का
भजन)

१४० हे यहोवा, मुझ को बुरे मनुष्य
से बचा ले;

उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर,

२ क्योंकि उन्हो ने मन में बुरी कल्पनाए
की हैं;

वे लगातार लडाइया मचाते हैं ।

३ उनका बोलना साप का काटना सा
-है *,

उनके मुह में † नाग का सा विष
रहता है ॥ (बेन्ना)

४ हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से
बचा ले;

उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर,

क्योंकि उन्होंने मेरे परो के उखाड़ने
की युक्ति की है ।

५ घमण्डियों ने मेरे लिये फन्दा और
पासे लगाए,

और पथ के किनारे जाल बिछाया है;

उन्होंने मेरे लिये फन्दे लगा रखे हैं ॥

(बेन्ना)

६ हे यहोवा, मैं ने तुझ से कहा है कि तू
मेरा ईश्वर है,

हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर
कान लगा ।

७ हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार-
कर्ता ‡,

तू ने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा
की है ।

८ हे यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी न
होने दे,

उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर,
नहीं तो वह घमण्ड करेगा ॥

(बेन्ना)

९ मेरे घेरनेवालो के सिर पर

उन्ही का बिचारा हुआ उत्पात *
पडे ।

१० उन पर अगारे डाले जाए ।

वे आग में गिरा दिए जाए !

और ऐसे गडहों में गिरे, कि वे फिर
उठ न सके !

११ बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं
होने का,

उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिये
बुराई उसका पीछा करेगी ॥

१२ हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन
जन का

और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा ।

१३ निःसन्देह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद
करने पाएंगे;

सीधे लोग तेरे सम्मुख बास करेगे ॥

(दाऊद का भजन)

१४१ हे यहोवा, मैं ने तुझे पुकारा
है, मेरे लिये फुर्ती कर ।

जब मैं तुझ को पुकारू, तब मेरी ओर
कान लगा !

२ मेरी प्रार्थना तेरे साम्हने सुगन्ध धूप,
और मेरा हाथ फैलाना, सध्याकाल
का अन्नबलि ठहरे !

३ हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा,
मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर ।

* मूल में—उन्हीं के होठों का उत्पात ।

* मूल में—उन्होंने ने सापों की नाई अपनी
जीभ को तेष किया है ।

† मूल में—होठों के नीचे ।

‡ मूल में—हे मेरे उद्धार के बल ।

- ४ मेरा मन किसी बुरी बात की ओर
फिरने न दे;
मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग,
दुष्ट कामों में न लगू,
और मैं उनके स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं
में से कुछ न खाऊँ !
- ५ धर्मी मुझ को मारे तो यह कृपा
मानी जाएगी,
और वह मुझे ताड़ना दे, तो यह मेरे
सिर पर का तेल ठहरेगा;
मेरा सिर उस से इन्कार न करेगा ।
लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं
प्रार्थना में लवलीन रहूँगा ।
- ६ जब उनके न्यायी चट्टान के पास
गिराए गए,
तब उन्होंने ने मेरे वचन सुन लिए;
क्योंकि वे मधुर हैं ।
- ७ जैसे भूमि में हल चलने में डेलें फूटते हैं,
वैसे ही हमारी हड्डियाँ अधोलोक के
सुह पर छितराई हुई हैं ॥
- ८ परन्तु हे यहोवा प्रभु, मेरी आखे तेरी
ही ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत
हूँ; तू मेरे प्राण जाने न दे !
- ९ मुझे उस फन्दे से, जो उन्होंने ने मेरे
लिये लगाया है,
और अनर्थकारियों के जाल से मेरी
रक्षा कर !
- १० दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फसे,
और मैं बच निकलूँ ॥

(दाऊद का मन्कीस, जब बच गुफा में
था । प्रार्थना)

१४२ मैं यहोवा की दाँहाई देता,
मैं यहोवा से गिडगिडाता हूँ,
२ मैं अपने शोक की बात उस से
खोलकर कहता * ,

* मूल में—उसके सम्बन्धने उपडेलूँगा ।

- मैं अपना सकट उसके आगे प्रगट
करता हूँ ।
- ३ जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल
हो रही थी, तब तू मेरी दशा * को
जानता था !
जिस रास्ते से मैं जानेवाला था, उसी
में उन्होंने ने मेरे लिये फन्दा लगाया ।
- ४ मैं ने दहिनी ओर देखा, परन्तु कोई
मुझे नहीं देखता है ।
मेरे लिये शरण कही नहीं रही, न
मुझ को कोई पूछता है ॥
- ५ हे यहोवा, मैं ने तेरी दोहाई दी है;
मैं ने कहा, तू मेरा शरणस्थान है,
मेरे जीते जी तू मेरा भाग है ।
- ६ मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन,
क्योंकि मेरी बडी दुर्दशा हो गई है !
जो मेरे पीछे पडे है, उन से मुझे बचा
ले, क्योंकि वे मुझ से अधिक
सामर्थी हैं ।
- ७ मुझ को बन्दीगृह से निकाल कि मैं
तेरे नाम का धन्यवाद करूँ !
धर्मी लोग मेरे चारो ओर आएँ;
क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा ॥

(दाऊद का भजन)

१४३ हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन;
मेरे गिडगिडाने की ओर
कान लगा !

तू जो सच्चा और धर्मी है, सो †
मेरी सुन ले,

- २ और अपने दास से मुकद्दमा न चला !
क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में
निर्दोष नहीं ठहर सकता ॥

* मूल में—मेरा पथ ।

† मूल में—अपनी सच्चाई और धार्मिकता
से ।

३ शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है;

उस ने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है,

और मुझे ढेर दिन के मरे हुआओं के समान अन्धेरे स्थान में डाल दिया है।

४ मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है

मेरा मन विकल है ॥

५ मुझे प्राचीनकाल के दिन स्मरण आते हैं,

मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ,

और तेरे काम को सोचता हूँ।

६ मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ;

सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ ॥

(बेष्ठा)

७ हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले;

क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है *।

मुझ से अपना मुह न छिपा,

ऐसा न हो कि मैं कबर में पड़े हुआओं के समान हो जाऊँ।

८ अपनी कहरणा की बात मुझे शीघ्र सुना,

क्योंकि मैं ने तुम्ही पर भरोसा रखा है।

जिस मार्ग से मुझे चलना है, वह मुझ को बता दे,

क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ ॥

९ हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले; मैं तेरी ही आड में आ छिपा हूँ!

१० मुझ को यह सिखा, कि मैं तेरी इच्छा क्योंकर पूरी करूँ, क्योंकि मेरा - परमेश्वर तू ही है!

तेरा भला आत्मा मुझ को धर्म के मार्ग में ले चले!

११ हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला!

तू जो धर्मी है *, मुझ को सकट से छुड़ा ले!

१२ और कहरणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर,

और मेरे सब सतानेवालों का नाश कर डाल,

क्योंकि मैं तेरा दास हूँ ॥

(बाजद का भजन)

१४४ धन्य है यहोवा, जो मेरी चट्टान है,

वह मेरे हाथों को लड़ने,

और † युद्ध करने के लिये तैयार करता है।

२ वह मेरे लिये कहरणानिधान और गढ़,

ऊँचा स्थान और छुड़ानेवाला है,

वह मेरी ढाल और शरणस्थान है,

जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है ॥

३ हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है,

या, आदमी क्या है, कि तू उसकी कुछ चिन्ता करता है?

४ मनुष्य तो सास के समान है;

* मूल में—मेरी आत्मा मिट गई।

† मूल में—उठाता।

* मूल में—अपनी धार्मिकता से।

† मूल में—अंगुलियों से।

- उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है ॥
- ५ हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ ।
पहाड़ों को छू, तब उन में धुआ उठेगा ।
- ६ बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे,
अपने तीर चलाकर उनको धबरा दे ।
- ७ अपने हाथ ऊपर से बढाकर
मुझे महासागर से उबार,
अर्थात् परदेशियों के वश से छुडा ।
- ८ उनके मुंह से तो व्यर्थ बाते निकलती है,
और उनके दहिने हाथ से धोखे के काम होते है * ॥
- ९ हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा;
मैं दस तारवाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा ।
- १० तू राजाओं का उद्धार करता है,
और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है ।
- ११ तू मुझ को उबार और परदेशियों के वश से छुडा ले, जिन के मुह से व्यर्थ बाते निकलती है,
और जिनका दहिना हाथ झूठ का दहिना हाथ है ॥
- १२ जब हमारे बेटे जबानी के समय पौधों की नाई बढे हुए हों,
और हमारी बेटियां उन कोनेवाले पत्थरों के समान हों, जो मन्दिर के पत्थरों की नाई बनाए जाए;
- १३ जब हमारे खत्ते भरे रहें, और उन में भाति भाति का भन्न धरा जाए,
और हमारी भेड-बकरिया हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने,
- १४ जब हमारे बँल खूब लदे हुए हो;
जब हमे न विघ्न हो और न हमारा कही जाना हो,
और न हमारे चौकों में रोना-पीटना हो,
- १५ तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा ! जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है, वह क्या ही धन्य है !

(शक्ति । राजा का भजन)

१४५

- हे मेरे परमेश्वर, हे राजा,
मैं तुझे सराहूंगा,
और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा ।
- २ प्रति दिन मैं तुझ को धन्य कहा करूंगा,
और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा ।
- ३ यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है,
और उसकी बड़ाई अगम है ॥
- ४ तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन,
पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा ।
- ५ मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर
और तेरे भांति भांति के आश्चर्य-कर्मों पर ध्यान करूंगा ।
- ६ लोग तेरे अयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे,

* मूल में—उनका दहिना हाथ झूठ का दहिना हाथ है ।

- और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वरुण
करूंगा ।
- ७ लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण
करके उसकी चर्चा करेंगे,
और तेरे धर्म का जयजयकार
करेंगे ॥
- ८ यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु,
विलम्ब से क्रोध करनेवाला और अति
करुणामय है ।
- ९ यहोवा सभी के लिये भला है,
और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि
पर है ॥
- १० हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्य-
वाद करेगी,
और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा
करेंगे ।
- ११ वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा
करेंगे,
और तेरे पराक्रम के विषय में बातें
करेंगे ;
- १२ कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के
काम
और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा
प्रगट करें ।
- १३ तेरा राज्य युग युग का
और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी
रहेगी ॥
- १४ यहोवा सब गिरते हुएों को सभालता
है,
और सब झुके हुएों को सीधा खड़ा
करता है ।
- १५ सभी की आँखें तेरी ओर लगी रहती
हैं,
और तू उनको आहार समय पर देता
है ।
- १६ तू अपनी मुट्ठी खोलकर,
सब प्राणियों को आहार से तृप्त
करता है ।
- १७ यहोवा अपनी सब गति में धर्मी
और अपने सब कामों में करुणामय
है ।
- १८ जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात्
जितने उसको सच्चाई से पुकारते
हैं,
उन सभी के वह निकट रहता है ।
- १९ वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी
करता है,
और उनकी दोहाई सुनकर उनका
उद्धार करता है ;
- २० यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा
करता,
परन्तु सब दुष्टों को सत्यानाश करता
है ॥
- २१ मैं यहोवा की स्तुति करूंगा,
और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम
को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें ॥

१४६ याह की स्तुति करो * !
हे मेरे मन यहोवा की स्तुति
कर !

- २ मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता
रहूंगा ;
जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं
अपने परमेश्वर का भजन गाता
रहूंगा ॥
- ३ तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना,
न किसी आदमी पर, क्योंकि उस में
उद्धार करने की भी शक्ति नहीं ।
- ४ उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी
मिट्टी में मिल जाएगा ;

* मूल में—हलिलुयाह ।

- उसी दिन उमकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी ॥
- ५ क्या ही धन्य वह है, जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है,
और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है ।
- ६ वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उन में जो कुछ है, सब का कर्ता है;
और वह अपना वचन सदा के लिये पूरा करता रहेगा ।
- ७ वह पिसे दुआओं का न्याय चुकाता है,
और भूखों को रोटी देता है ॥
यहोवा बन्धुओं को छुड़ाता है,
८ यहोवा भन्धों को आखें देता है ।
यहोवा भुके दुआओं को सीधा खड़ा करता है;
यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है ।
- ९ यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है,
और भनाथों और विधवा को तो सम्भालता है;
परन्तु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है ॥
- १० हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिये,
तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा ।
याह की स्तुति करो * !
- १४७** याह की स्तुति करो * !
क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है; क्योंकि वह मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है ।
- २ यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है;
वह निकाले हुए इस्त्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है ।
- ३ वह खेदित मनवालों को चंगा करता है,
और उनके शोक पर मरहम-पट्टी बान्धता है ।
- ४ वह तारों को गिनता,
और उन में से एक एक का नाम रखता है ।
- ५ हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है;
उसकी बुद्धि अपरम्पार है ।
- ६ यहोवा नम्र लोगों को सम्भालता है,
और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है ॥
- ७ धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ;
वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ ।
- ८ वह आकाश को मेघों से छा देता है,
और पृथ्वी के लिये मेह की तैयारी करता है,
और पहाड़ों पर घास उगाता है ।
- ९ वह पशुओं को और कौबे के बच्चों को जो पुकारते हैं,
आहार देता है ।
- १० न तो वह घोड़े के बल को चाहता है,
और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है;
- ११ यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है,
अर्थात् उन से जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं ॥
- १२ हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर !
हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर ।

* मूल में—हल्लिलयूयाह ।

- १३ क्योंकि उस ने तेरे फाटकों के खम्भों को दृढ़ किया है;
और तेरे लडके बालों को * आशीष दी है।
- १४ वह नेरे सिवानों में शान्ति देता है,
और तुझ को उत्तम से उत्तम गेहूँ से तृप्त करता है।
- १५ वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है,
उसका वचन अति वेग से दौड़ता है।
- १६ वह ऊन के समान हिम को गिराता है,
और राख की नाई पाला बिखेरता है।
- १७ वह बर्फ के टुकड़े गिराता है,
उसकी की हुई ठण्ड को कौन सह सकता है ?
- १८ वह आज्ञा देकर उन्हे गलाता है,
वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है।
- १९ वह याकूब को अपना वचन, और
इस्राएल को अपनी विधियाँ और नियम बताता है।
- २० किसी और जाति से उस ने ऐसा
बर्ताव नहीं किया;
और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना ॥
याह की स्तुति करो † !

१४८ याह की स्तुति करो † !
यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो,

उसकी स्तुति ऊँचे स्थानों में करो !

२ हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो :

हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति कर !

* मूल में—तेरे भीतर तेरे लडकों को।

† मूल में—इल्लिय्याह।

- ३ हे सूर्य और चन्द्रमा उसकी स्तुति करो,
हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो !
- ४ हे सब से ऊँचे आकाश,
और हे आकाश के ऊपरवाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो !
- ५ वे यहोवा के नाम की स्तुति करे,
क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरजे गए।
- ६ और उस ने उनको सदा सर्वदा के लिये स्थिर किया है,
और ऐसी विधि ठहराई है, जो टलने की नहीं ॥
- ७ पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो,
हे मगरमच्छों और गहिरें सागर,
८ हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे,
हे उसका वचन माननेवाली प्रचण्ड बयार !
- ९ हे पहाड़ों और सब टीलो,
हे फलदाई वृक्षों और सब देवदारों !
- १० हे वन-पशुओं और सब घरेलू पशुओं,
हे रेंगनेवाले जन्तुओं और हे पक्षियों !
- ११ हे पृथ्वी के राजाओं, और राज्य राज्य के सब लोगों,
हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों !
- १२ हे जवानों और कुमारियों,
हे पुरनियों और बालकों !
- १३ यहोवा के नाम की स्तुति करो *,
क्योंकि केवल उसी का नाम महान है;
उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है।
- १४ और उस ने अपनी प्रजा के लिये एक सींग ऊँचा किया है;

* मूल में—इल्लिय्याह।

यह उसके सब भक्तों के लिये
अर्थात् इस्त्राएलियों के * लिये और
उसके समीप रहनेवाली प्रजा के
लिये स्तुति करने का विषय है।
याह की स्तुति करो † ।

१४६ याह की स्तुति करो † !
यहोवा के लिये नया गीत

- गाओ,
भक्तों की सभा में उसकी स्तुति
गाओ ।
- २ इस्त्राएल अपने कर्ता के कारण
आनन्दित हो,
सिय्योन के निवासी अपने राजा के
कारण मगन हों ।
- ३ वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति
करे,
और डफ और वीणा बजाते हुए
उसका भजन गाए !
- ४ क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न
रहता है,
वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें
शोभायमान करेगा ।
- ५ भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित
हों;
और अपने विछोनी पर भी पड़े पड़े
जयजयकार करे ।
- ६ उनके कण्ठ से ईश्वर की प्रशंसा हो,
और उनके हाथों में दोधारी तलवारे
रहे,
- ७ कि वे अन्यजातियों से पलटा ले सकें,
और राज्य राज्य के लोगों को
ताडना दें,

* मूल में—करें ।

† मूल में—हल्लिलूयाह ।

- ८ और उनके राजाओं को सांकलों से,
और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे
की बेडियों से जकड़ रखे,
९ और उनको ठहराया हुआ * दण्ड दें।
उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा
होगी ।

याह की स्तुति करो † !

१५० याह की स्तुति करो † !
ईश्वर के पवित्रस्थान में उसकी
स्तुति करो;

- उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश-
मण्डल में उसी की स्तुति करो ।
- २ उसके पराक्रम के कामों के कारण
उसकी स्तुति करो,
उसकी अत्यन्त बड़ाई के अनुसार
उसकी स्तुति करो !
- ३ नरसिगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो;
सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी
स्तुति करो !
- ४ डफ बजाते और नाचते हुए उसकी
स्तुति करो;
तारवाले बाजे और बांसुली बजाते
हुए उसकी स्तुति करो ।
- ५ ऊंचे शब्दवाली भांभ बजाते हुए
उसकी स्तुति करो;
आनन्द के महाशब्दवाली भांभ बजाते
हुए उसकी स्तुति करो !
- ६ जितने प्राणी हैं
सब के सब याह की स्तुति करे !
याह की स्तुति करो † !

* मूल में—लिखा हुआ ।

† मूल में—हल्लिलूयाह ।

नीतिवचन

- १ दाऊद के पुत्र इस्त्राएल के राजा मुलैमान के नीतिवचन .
- २ इनके द्वारा पढनेवाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे,
और समझ की बातें समझे,
- ३ और काम करने में प्रवीणता,
और धर्म, न्याय और सीघाई की शिक्षा पाए;
- ४ कि भोलों को चतुराई,
और जवान को ज्ञान और विवेक मिले;
- ५ कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए,
और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए,
- ६ जिस से वे नीतिवचन और दृष्टान्त को,
और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे ॥
- ७ यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है;
बुद्धि और शिक्षा को मूढ ही लोग तुच्छ जानते हैं ॥ -
- ८ हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा,
और अपनी माता की शिक्षा को न तज,
- ९ क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिये शोभायमान मुकुट,
और तेरे गले के लिये कण्ठ माला होगी ।
- १० हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुमलाए,
तो उनकी बात न मानना ।
- ११ यदि वे कहे, हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिये घात लगाएं,
हम निर्दोषों की ताक * में रहे,
- १२ हम अधोलोक की नाई उनको जीवना,
कबर में पड़े, हुआओं के समान समूचा निगल जाए;
- १३ हम को सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे,
हम अपने घरों को लूट में भर लेंगे;
- १४ तू हमारा साथी हो जा,
हम सबों का एक ही बटुआ हो,
- १५ तो, हे मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में न चलना,
वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना;
- १६ क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं,
और हत्या करने को फुर्ती करते हैं ।
- १७ क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है;
- १८ और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिये घात लगाते हैं,
और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं ।
- १९ सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है;

* मूल में—अकारण डूका लगाना ।

- उनका प्राण लालच ही के कारण
नाश हो जाता है ॥
- २० बुद्धि * सड़क में ऊँचे स्वर से बोलती
है,
और चौको में प्रचार करती है;
- २१ वह बाजारों की भीड़ में पुकारती
है;
वह फाटकों के बीच में
और नगर के भीतर भी ये बातें
बोलती है .
- २२ हे भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन
से प्रीति रखोगे ?
और हे ठट्टा करनेवालो, तुम कब तक
ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे ?
और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से
बँर रखोगे ?
- २३ तुम मेरी डाट मुनकर मन फिराओ,
सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिये
उण्डेल दूगी,
मैं तुम को अपने वचन बताऊंगी ।
- २४ मैं ने तो पुकारा परन्तु तुम ने इनकार
किया,
और मैं ने हाथ फैलाया, परन्तु किमी
ने ध्यान न दिया,
- २५ वरन तुम ने मेरी सागी सम्मति को
अनसुनी किया,
और मेरी ताडना का मूल्य न जाना,
- २६ इसलिये मैं भी तुम्हारी विपत्ति के
समय हँसूंगी;
और जब तुम पर भय आ पड़ेगा,
- २७ वरन आँधी की नाई तुम पर भय आ
पड़ेगा,
और विपत्ति बवण्डर के समान आ
पड़ेगी,
- और तुम संकट और सकेती में फँसोगे,
तब मैं ठट्टा करूंगी ।
- २८ उस समय वे मुझे पुकारेंगे, और मैं
न सुनूंगी;
वे मुझे यत्न से तो दूढेंगे, परन्तु न
पाएंगे ।
- २९ क्योंकि उन्होंने ने ज्ञान से बँर
किया,
और यहोवा का भय मानना उनको
न भाया ।
- ३० उन्होंने ने मेरी सम्मति न चाही,
वरन मेरी सब ताडनाओ को तुच्छ
जाना ।
- ३१ इसलिये वे अपनी करनी का फल आप
भोगेंगे,
और अपनी युक्तियों के फल से अघा
जाएंगे ।
- ३२ क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना,
उनके घात किए जाने का कारण
होगा,
और निश्चिन्त रहने के कारण मूढ
लोग नाश होंगे,
- ३३ परन्तु जो मेरी सुनेगा, वह निडर
बसा रहेगा, और बेखटके सुख से
रहेगा ॥
- ३
हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन
ग्रहण करे,
और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय
में रख छोड़े,
- २ और बुद्धि की बात ध्यान से सुने,
और समझ की बात मन लगाकर
मोचे;
- ३ और प्रवीणता और समझ के लिये
प्रति यत्न से पुकारे,
- ४ और उसको चान्दी की नाई दूढे,

* मूल में—बुद्धियाँ ।

- और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे;
- ५ तो तू यहोवा के भय को समझेगा, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा।
- ६ क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है; ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुह में निकलती हैं।
- ७ वह सीधे लोगों के लिये खरी बुद्धि रख छोड़ता है; जो खराई से चलते हैं, उनके लिये वह ढाल ठहरता है।
- ८ वह न्याय के पथों की देख भाल करता, और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है।
- ९ तब तू धर्म और न्याय, और सीधार्ई को, निदान सब भली-भली चाल समझ सकेगा,
- १० क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, और ज्ञान तुझे मनभाऊ लगेगा,
- ११ विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, और समझ तेरी रक्षक होगी,
- १२ ताकि तुझे बुराई के मार्ग से, और उलट फेर की बातों के कहने-वालों में बचाए,
- १३ जो सीधार्ई के मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अन्धेरे मार्ग में चले,
- १४ जो बुराई करने से आनन्दित होते हैं, और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं;
- १५ जिनकी चालचलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं ॥
- १६ तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है,
- १७ और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है।
- १८ उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, और उसकी डगरे मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं;
- १९ जो उसके पास जाते हैं, उन में से कोई भी लौटकर नहीं आता; और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं ॥
- २० तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल, और धर्मियों की बात को पकड़े रह।
- २१ क्योंकि धर्मों लोग देश में बसे रहेंगे, और खरे लोग ही उस में बने रहेंगे।
- २२ दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे, और विश्वासघाती उस में से उखाड़े जाएंगे ॥
- २३ हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना; अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख रहना;
- २४ क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु * बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहेगा।
- २५ कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाएं; वरन उनको अपने गले का हार बनाना, और अपनी हृदयरूपी पटिया पर लिखना।
- २६ और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा ॥

* मूल में—द्विनो की लंबाई और जीवन के बरस।

- ५ तू अपनी समझ का सहारा न लेना,
वरन सम्पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा
रखना ।
- ६ उसी को स्मरण करके सब काम
करना,
तब वह तेरे लिये सीधा मार्ग
निकालेगा ।
- ७ अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना,
यहोवा का भय मानना, और बुराई
से अलग रहना ।
- ८ ऐसा करने से तेरा शरीर * भला
चगा,
और तेरी हड्डिया पुष्ट रहेंगी ॥
- ९ अपनी संपत्ति के द्वारा,
और अपनी भूमि की सारी पहिली
उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा
करना,
- १० इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे
रहेगे,
और तेरे रसकुण्डों में नया दाखमधु
उमरूडता रहेगा ॥
- ११ हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुह
न मोडना,
और जब वह तुझे डाटे, तब तू बुरा
न मानना,
- १२ क्योंकि यहोवा जिस में प्रेम रखता है
उसको डाटता है,
जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह
अधिक चाहता है ॥
- १३ क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि
पाए,
और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे,
- १४ क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चान्दी की
प्राप्ति में बड़ी,
- और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ
से भी उत्तम है ।
- १५ वह मूगे से अधिक अनमोल है,
और जितनी वस्तुओं की तू लालसा
करता है, उन में से कोई भी उसके
तुल्य न ठहरेगी ।
- १६ उसके दहिने हाथ में दीर्घायु,
और उसके बाएँ हाथ में धन और
महिमा है ।
- १७ उसके मार्ग मनभाऊ है,
और उसके सब मार्ग कुशल के हैं ।
- १८ जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके
लिये वह जीवन का वृक्ष बनती है;
और जो उसको पकड़े रहते हैं, वह
धन्य हैं ॥
- १९ यहोवा ने पृथ्वी की नेब बुद्धि ही से
डाली,
और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर
किया ।
- २० उसी के ज्ञान के द्वारा गहिरें सागर फूट
निकले,
और आकाशमण्डल से ओस टपकती
है ॥
- २१ हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की
ओट न होने पाए;
खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर,
२२ तब इन से तुझे जीवन मिलेगा,
और ये तेरे गले का हार बनेंगे ।
- २३ और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा,
और तेरे पाव में ठेस न लगेगी ।
- २४ जब तू लेटेगा, तब भय न खाएगा,
जब तू लेटेगा, तब सुख की नींद
आएगी ।
- २५ अचानक आनेवाले भय से न डरना,
और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े,
तब न घबराना;

* मूल में—तेरी नाभि ।

- २६ क्योंकि यहोवा तुम्हें सहारा दिया
करेगा,
और तेरे पाव को फन्दे में फसने न
देगा ।
- २७ जिनका भला करना चाहिये, यदि
तुम्हें शक्ति रहे, तो उनका भला
करने से न रुकना ॥
- २८ यदि तेरे पास देने को कुछ हो,
तो अपने पड़ोसी से न कहना कि
जा कल फिर आना, कल मैं तुम्हें दूंगा ।
- २९ जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके
रहता है,
तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न
बान्धना ।
- ३० जिस मनुष्य ने तुम्हें से बुरा व्यवहार
न किया हो,
उस से अकारण मुकद्दमा खडा न
करना ।
- ३१ उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न
करना,
न उसकी सी चाल चलना ;
- ३२ क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता
है,
परन्तु वह अपना भेद सीधे लोगों पर
खोलता है * ॥
- ३३ दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप
और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी
आशीष होती है ।
- ३४ ठट्ठा करनेवालों से वह निश्चय ठट्ठा
करता है
और दीनो पर अनुग्रह करता है ।
- ३५ बुद्धिमान महिमा को पाएंगे,
और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की
होगी ॥

* मूल में—उसका भेद सीधे लोगों के पास
है ।

- ४ हे मेरे पुत्रो, पिता की शिक्षा सुनो,
और समझ प्राप्त करने में मन
लगाओ ।
- २ क्योंकि मैं ने तुम को उत्तम शिक्षा दी
है ;
मेरी शिक्षा को न छोड़ो ।
- ३ देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था,
और माता का अकेला दुलारा था,
४ और मेरा पिता मुझे यह कहकर
सिखाता था, कि
तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे,
तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब
जीवित रहेगा ।
- ५ बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी
प्राप्त कर,
उनको भूल न जाना, न मेरी बातों
को छोड़ना ।
- ६ बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा
करेगी,
उस से प्रीति रख, वह तेरा पहरा
देगी ।
- ७ बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिये उसकी प्राप्ति
के लिये यत्न कर ;
जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर
परन्तु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने
न पाए ।
- ८ उसकी बड़ाई कर, वह तुम्हें को
बढ़ाएगी ;
जब तू उस से लिपट जाए, तब वह
तेरी महिमा करेगी ।
- ९ वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण
बान्धेगी,
और तुम्हें सुन्दर मुकुट देगी ॥
- १० हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण
कर,
तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा ।

- ११ मैं ने तुम्हें बुद्धि का मार्ग बताया है;
और सीघाई के पथ पर चलाया है।
- १२ चलने में तुम्हें रोक टोक न होगी,
और चाहे तू दौड़े, तौभी ठोकर न
खाएगा।
- १३ शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे,
उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा
जीवन है।
- १४ दुष्टों की बात में पाव न धरना,
और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना।
- १५ उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न
चल,
उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़
जा।
- १६ क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें,
तो उनको नीद नहीं आती;
और जब तक वे किसी को ठोकर न
खिलाए, तब तक उन्हें नीद नहीं
मिलती।
- १७ वे तो दुष्टता से कमाई हुई गोटी खाते,
और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख-
मघु पीते हैं।
- १८ परन्तु धर्मियों की चाल उस चमकती
हुई ज्योति के समान है,
जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक
अधिक बढ़ता रहता है।
- १९ दुष्टों का मार्ग घोर अन्धकारमय है;
वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर
खाते हैं।
- २० हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरके
सुन,
और अपना कान मेरी बातों पर
लगा।
- २१ इनको अपनी आँखों की ओट न
होने दे;
वरन अपने मन में धारण कर।
- २२ क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं,
वे उनके जीवित रहने का,
और उनके सारे शरीर के चंगे रहने
का कारण होती हैं।
- २३ सब से अधिक अपने मन की रक्षा
कर;
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है।
- २४ टेढ़ी बात अपने मुँह से मत बोल,
और चालबाज़ी की बाने कहना तुझ
से दूर रहे।
- २५ तेरी आँखें साम्हने ही की ओर लगी
रहे,
और तेरी पलकें आगे की ओर खुली
रहे।
- २६ अपने पाव धरने के लिये मार्ग को
समथर कर,
और तेरे सब मार्ग ठीक रहे।
- २७ न तो दहिनी ओर मुड़ना, और न
बाई ओर;
अपने पाव को बुराई के मार्ग पर
चलने से हटा ले।
- ५ हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों
पर ध्यान दे,
मेरी समझ की ओर कान लगा,
२ जिस से तेरा विवेक सुरक्षित बना
रहे,
और तू ज्ञान के वचनों को धामे रहे।
- ३ क्योंकि पराई ग्नी के ओठों से मधु
टपकता है,
और उसकी बातें तेल से भी अधिक
चिकनी होती हैं,
४ परन्तु इसका परिणाम नागदौना सा
कड़वा
और दोधारी तलवार सा पैना होता
है।

- ५ उसके पांव मृत्यु की ओर बढते है,
और उसके पग अधोलोक तक
पहुंचते है ॥
- ६ इसलिये उसे जीवन का समथर पथ
नही मिल पाता;
उसके चालचलन में चंचलता है,
परन्तु उसे वह आप नही जानती ॥
- ७ इसलिये अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो,
और मेरी बातो से मुह न मोडो ।
- ८ ऐसी स्त्री से दूर ही रह,
और उसकी डेबडी के पास भी न
जाना;
- ९ कही ऐसा न हो कि तू अपना यश
औरो के हाथ,
और अपना जीवन क्रूर जन के वश
मे कर दे;
- १० या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे,
और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का
फल अपने घर मे रखे;
- ११ और तू अपने अन्तिम समय मे
जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाए
तब यह कहकर हाथ मारने लगे, कि
- १२ मे ने शिक्षा से कैसा बेर किया,
और डाटनेवाले का कैसा तिरस्कार
किया ।
- १३ मे ने अपने गुरुओं की बाते न मानी
और अपने सिखानेवालों की ओर
ध्यान न लगाया ।
- १४ मे सभा और मण्डली के बीच मे प्राय
सब बुराइयो मे जा पडा ॥
- १५ तू अपने ही कुण्ड से पानी,
और अपने ही कूप के सोते का जल
पिया करना ।
- १६ क्या तेरे सोतो का पानी सड़क मे,
और तेरे जल की धारा चौको मे बह
जाने पाए ?
- १७ यह केवल तेरे ही लिये रहे,
और तेरे संग औरों के लिये न हो ।
- १८ तेरा सोता धन्य रहे;
और अपनी जवानी की पत्नी के साथ
आनन्दित रह,
- १९ प्रिय हरिराणी वा सुन्दर साभरनी के
समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट
रखे,
और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित
करता रहे ।
- २० हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर
क्यों मोहित हो,
और पराई को क्यों छाती से लगाए ?
- २१ क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की
दृष्टि मे छिपे नही है,
और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान
करता है ।
- २२ दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से
फसेगा,
और अपने ही पाप के बन्धनों में बन्धा
रहेगा ।
- २३ वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर
जाएगा,
और अपनी ही मूर्खता के कारण
भटकता रहेगा ॥
- २४ हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी
का उत्तरदायी हुआ हो,
अथवा परदेशी के लिये हाथ पर हाथ
मार कर उत्तरदायी हुआ हो,
२ तो तू अपने ही मुह के बचनों से
फंसा,
और अपने ही मुह की बातों से पकडा
गया ।
- ३ इसलिये हे मेरे पुत्र, एक काम कर,
अर्थात्

- तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है,
तो जा, उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले ।
- ४ तू न तो अपनी आंखों में नींद,
और न अपनी पलकों में भपकी आने दे ;
- ५ और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से,
और चिड़िया के समान चिड़मार के हाथ से छुड़ा ॥
- ६ हे आलसी, च्यूटियों के पास जा ;
उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो ।
- ७ उनके न तो कोई न्यायी होता है,
न प्रधान, और न प्रभुता करनेवाला,
८ तौभी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं,
और कटनी के समय अपनी भोजन-वस्तु बटोरती हैं ।
- ९ हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा ?
तेरी नींद कब टूटेगी ?
- १० कुछ और सो लेना,
थोड़ी सी नींद, एक और भपकी,
थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना,
- ११ तब तेरा कगालपन बटमार की नाई
और तेरी घटी हथियारबन्द के समान आ पड़ेगी ॥
- १२ ओछे और अनर्थकारी को देखो,
वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है,
१३ वह नैन से सैन और पाव से इशारा,
और अपनी अगुलियों से संकेत करता है,
१४ उसके मन में उलट फेर की बातें रहती,
- वह लगातार बुराई गढ़ता है
और भगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है ।
- १५ इस कारण उस पर विपत्ति भ्रान्तक आ पड़ेगी ;
वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा,
कि बचने का कोई उपाय न रहेगा ॥
- १६ छः वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है,
वरन सात हैं जिन से उसको घृणा है :
- १७ अर्थात् घमण्ड से चढ़ी हुई * आंखें,
भूठ बोलनेवाली जीभ,
और निर्दोष का लोहू बहानेवाले हाथ,
१८ अनर्थ कल्पना गढ़नेवाला मन,
बुराई करने को बेग दौड़नेवाले पांव,
१९ भूठ बोलनेवाला साक्षी
और भाइयों के बीच में भगड़ा उत्पन्न करनेवाला मनुष्य ।
- २० हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान,
और अपनी माता की शिक्षा को न तज ।
- २१ इन को अपने हृदय में सदा गांठ बान्धे रख ;
और अपने गले का हार बना ले ।
- २२ वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई,
और सोते समय तेरी रक्षा,
और जागते समय तुझ से बातें करेगी ।
- २३ आज्ञा तो दीर्घक है और शिक्षा ज्योति,
और सिखानेवाने की डाट जीवन का मार्ग है,
- २४ ताकि तुझ को बुरी स्त्री से बचाए
और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए ।
- २५ उसकी सुन्दरता देखकर अपने मन में
उसकी अभिलाषा न कर ;

* मूल में—ऊंची ।

- वह तुझे अपने कटाक्ष * से फंसाने न पाए;
- २६ क्योंकि बेव्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है,
परन्तु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का ग्रहेर कर लेती है।
- २७ क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले;
और उसके कपड़े न जलें ?
- २८ क्या हो सकता है कि कोई अगारे पर चले,
और उसके पांव न भूलसे ?
- २९ जो पराई स्त्री के पास जाता है, उसकी दशा ऐसी है;
वरन जो कोई उसको छूएगा वह दरद से न बचेगा।
- ३० जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिये चोरी करे,
उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते,
- ३१ तौभी यदि वह पकड़ा जाए, तो उसको सातगुराा भर देना पड़ेगा;
वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा।
- ३२ परन्तु जो परस्त्रीगमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है;
जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है, वही ऐसा करता है।
- ३३ उसको धायल और अपमानित होना पड़ेगा,
और उसकी नामधराई कभी न मिटेगी।
- ३४ क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है,

* भूल में—पलकों।

- और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता।
- ३५ वह घूस पर दृष्टि न करेगा,
और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे,
तौभी वह न मानेगा ॥
- ७ हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर,
और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड।
- २ मेरी आज्ञाओं को मान, इस से तू जीवित रहेगा,
और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान;
- ३ उनको अपनी उगलियों में बान्ध,
और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले।
- ४ बुद्धि से कह कि, तू मेरी बहिन है,
और समझ को अपनी साथिन बना;
- ५ तब तू पराई स्त्री से बचेगा,
जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है ॥
- ६ मैं ने एक दिन अपने घर की खिड़की से, अर्थात् अपने झरोखे से झाँका,
- ७ तब मैं ने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा;
- ८ वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था,
और उस ने उसके घर का मार्ग लिया।
- ९ उस समय दिन ढल गया, और सध्या-काल आ गया था,
वरन रात का घोर अन्धकार छा गया था ॥

- १० और उस से एक स्त्री मिली,
जिस का भेष वेष्ट्या का सा था, और
वह बड़ी धूर्त थी ।
- ११ वह शान्तिरहित और चंचल थी,
और अपने घर में न ठहरती थी ;
- १२ कभी वह सड़क में, कभी चौक में
पाई जाती थी,
और एक एक कानों पर वह बाट
जोहती थी ।
- १३ तब उस ने उस जवान को पकड़कर
चूमा,
और निर्लज्जता की चेष्टा करके उस
से कहा,
- १४ मुझे मेलबलि चढ़ाने थे,
और मैं ने अपनी मन्नतें आज ही पूरी
की हैं ;
- १५ इसी कारण मैं तुझ से भेंट करने को
निकली,
मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी
पाया है ।
- १६ मैं ने अपने पलग के बिछौने पर
मिस्र के बेलबूटेवाले कपड़े बिछाए हैं ;
- १७ मैं ने अपने बिछौने पर
गन्धरस, अंगूर और दालचीनी छिड़की
है ।
- १८ इसलिये अब चल हम प्रेम से भोर
तक जी बहलाते रहें ;
हम परस्पर की प्रीति से आनन्दित
रहें ।
- १९ क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है ;
वह दूर देश को चला गया है ;
- २० वह चान्दी की थैली ले गया है ;
और पूर्णमासी को लौट आएगा ॥
- २१ ऐसी ही बातें कह कहकर, उस ने
उसको अपनी प्रबल माया में फंसा
लिया ;
- और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से
उसको अपने वश में कर लिया ।
- २२ वह तुरन्त उसके पीछे हो लिया,
जैसे बेल कसाई-खाने को,
वा जैसे बेड़ी पहिने हुए कोई मूढ़
ताड़ना पाने को जाता है ।
- २३ अन्त में उस जवान का कलेजा तीर
से बेधा जाएगा ;
वह उस चिड़िया के समान है जो फन्दे
की ओर बेग से उड़े
और न जानती हो कि उस में मेरे
प्राण जाएंगे ॥
- २४ अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो,
और मेरी बातों पर मन लगाओ ।
- २५ तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर
न फिरे,
और उसकी डगरों में भूल कर न
जाना ;
- २६ क्योंकि बहुत लोग उस से मारे पड़े हैं ;
उसके घात किए हुआ की एक बड़ी
संख्या होगी ।
- २७ उसका घर अघोलोक का मार्ग है,
वह मृत्यु के घर में पहुँचाता है ॥
- ८** क्या बुद्धि नहीं पुकारती है,
क्या समझ ऊँचे शब्द से नहीं
बोलती है ?
- २ वह तो ऊँचे स्थानों पर मार्ग की एक
ओर
और तिरुम्हानियों में खड़ी होती है ;
- ३ फाटकों के पास नगर के पैठाब में,
और द्वारों ही में वह ऊँचे स्वर से
कहती है,
- ४ हे मनुष्यो, मैं तुम को पुकारती हूँ,
और मेरी बात सब आदमियों के
लिये है ।

- ५ हे भोलो, चतुराई सीखो,
और हे मूर्खों, अपने मन में समझ
लो ।
- ६ सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी,
और जब मुंह खोलूंगी, तब उस से
सीधी बातें निकलेंगी ;
- ७ क्योंकि मुझ से सच्चाई की बातों का
बराबर्न होगा ;
दुष्टता की बातों से मुझ को घृणा
आती है ॥
- ८ मेरे मुह की सब बातें धर्म की होती
हैं,
उन में से कोई टेढ़ी वा उलट फेर की
बात नहीं निकलती है ।
- ९ सद्गुरुवाले के लिये वे सब सहज,
और ज्ञान के प्राप्त करनेवालो के
लिये अति सीधी है ।
- १० चान्दी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो,
और उत्तम कुन्दन से बढकर ज्ञान
को ग्रहण करो ।
- ११ क्योंकि बुद्धि, मूग से भी अच्छी है,
और सारी मनभावनी वस्तुओं में
कोई भी उसके तुल्य नहीं है ।
- १२ मैं जो बुद्धि हूँ, सो चतुराई में बास
करती हूँ,
और ज्ञान और विवेक को प्राप्त
करती हूँ ।
- १३ यहोवा का भय मानना बुराई से बँर
रखना है ।
घमराड, अहंकार और बुरी चाल से,
और उलट फेर की बात से भी मैं
बँर रखती हूँ ।
- १४ उत्तम युक्ति, और खरी बुद्धि मेरी
ही है,
मैं तो समझ हूँ, और पराक्रम भी
मेरा है ।
- १५ मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं,
और अधिकारी धर्म से विचार करते
हैं ;
- १६ मेरे ही द्वारा राजा हाकिम और
रईस,
और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते
हैं ।
- १७ जो मुझ से प्रेम रखते हैं, उन से मैं
भी प्रेम रखती हूँ,
और जो मुझ को यत्न से तडके उठकर
खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं ।
- १८ धन और प्रतिष्ठा मेरे पास हैं,
वरन ठहरनेवाला धन और धर्म भी
हैं ।
- १९ मेरा फल चोखे सोने से, वरन कुन्दन
से भी उत्तम है,
और मेरी उपज उत्तम चान्दी से
अच्छी है ।
- २० मैं धर्म की बाट में,
और न्याय की डगरों के बीच में
चलती हूँ,
- २१ जिस से मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ
के भागी करूँ, और उनके भण्डारों
को भर दूँ ॥
- २२ यहोवा ने मुझे काम करने के आरम्भ
में,
वरन अपने प्राचीनकाल के कामों से
भी पहिले उत्पन्न किया ।
- २३ मैं सदा से वरन आदि ही से
पृथ्वी की सृष्टि के पहिले ही से
ठहराई गई हूँ ।
- २४ जब न तो गहिरा सागर था,
और न जल के सोते थे तब ही से
मैं उत्पन्न हुई ।
- २५ जब पहाड़ वा पहाड़ियाँ स्थिर न की
गई थी,

- २६ जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न
मैदान,
न जगत की धूलि के परमाणु बनाए
थे,
इन में पहिले में उत्पन्न हुई ।
- २७ जब उस ने आकाश को स्थिर किया,
तब में वहा थी,
जब उस ने गहिरे सागर के ऊपर
आकाशमण्डल ठहराया,
- २८ जब उस ने आकाशमण्डल को ऊपर
से स्थिर किया,
और गहिरे सागर के सोते फूटने
लगे,
- २९ जब उस ने समुद्र का सिवाना ठहराया,
कि जल उसकी आज्ञा का उल्लघन
न कर सके,
और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी
लगाता था,
- ३० तब में कारीगर सी उसके पास थी ;
और प्रति दिन में उसकी प्रसन्नता थी,
और हर समय उसके साम्हने आनन्दित
रहती थी ।
- ३१ मैं उसकी बमाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न
थी
और मेरा मुख मनुष्यों की सगति में
होता था ॥
- ३२ इसलिये अब हे मेरे पुत्रो, मेरी सुनो ;
क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को
पकडे रहते हैं ।
- ३३ शिक्षा को सुनो, और बुद्धिमान हो
जाओ,
उसके विषय में अनसुनी न करो ।
- ३४ क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी
सुनता,
वरन मेरी डेवढी पर प्रति दिन खडा
रहता,
- और मेरे द्वारो के खभों के पास दृष्टि
लगाए रहता है ।
- ३५ क्योंकि जो मुझे पाता है, वह जीवन
को पाता है,
और यहोवा उस से प्रसन्न होता है ।
- ३६ परन्तु जो मेरा अपराध करता * है,
वह अपने ही पर उपद्रव करता
है ;
जितने मूक से बैर रखते वे मृत्यु
में प्रीति रखते हैं ॥
- ६ बुद्धि ने † अपना घर बनाया,
और उसके सातो खंभे गढे हुए हैं ।
- २ उस ने अपने पशु बध करके, अपने
दाखमधु में मसाला मिलाया है,
और अपनी मेज लगाई है ।
- ३ उस ने अपनी सहेलिया, सब को बुलाने
के लिये भेजी है ; वह नगर के ऊंचे
स्थानो की चोटी पर पुकारती है,
- ४ जो कोई भोला है वह मुडकर यही
आए !
और जो निर्बुद्धि है, उस से वह कहती
है,
- ५ आओ, मेरी रोटी खाओ,
और मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमधु
को पीओ ।
- ६ भोलो का सग छोडो, और जीवित
रहो,
समझ के मार्ग में सीधे चलो ॥
- ७ जो ठट्टा करनेवाले को शिक्षा देता है,
सो अपमानित होता है, और जो
दुष्ट जन को डाटता है वह कलकित
होता है ॥

* वा जिस की मुक से भूल के कारण भेद
नहीं होती ।

† मूल में—बुद्धियो ने ।

- ८ ठट्टा करनेवाली को न डांट ऐसा न हो कि वह तुझ से बैर रखे, बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझ से प्रेम रखेगा ।
- ९ बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा; धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा ।
- १० यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरम्भ है, और परम्पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है ।
- ११ मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे ।
- १२ यदि तू बुद्धिमान हो, तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा; और यदि तू ठट्टा करे, तो दण्ड केवल तू ही भोगेगा ॥
- १३ मूर्खतारूपी स्त्री हीरा मचानेवाली है; वह तो भोली है, और कुछ नहीं जानती ।
- १४ वह अपने घर के द्वार में, और नगर के ऊँचे स्थानों में मचिया पर बैठी हुई
- १५ जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कहकर पुकारती है,
- १६ जो कोई भोला है, वह मुड़कर यही आए :
- जो निर्बुद्धि है, उस से वह कहनी है,
- १७ चोरी का पानी मीठा होता है, और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है ।
- १८ और वह नहीं जानता है, कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं,
- और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पड़ते हैं ॥
- १० सुलैमान के नीतिवचन ॥
बुद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित होता है,
परन्तु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है ।
- २ दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता,
परन्तु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है ।
- ३ धर्मी को यहाँवा मूर्खों मरने नहीं देता,
परन्तु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता ।
- ४ जो काम में ढिलाई करता है, वह निर्धन हो जाता है,
परन्तु कामकाज लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं ।
- ५ जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करनेवाला है,
परन्तु जो बेटा कटनी के समय भारी नीद में पड़ा रहता है, वह लज्जा का कारण होता है ।
- ६ धर्मी * पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं,
परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुह छा लेता है ।
- ७ धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं,
परन्तु दुष्टों का नाम मिट जाता है ।
- ८ जो बुद्धिमान है, वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है,
परन्तु जो बकवादी और मूढ़ है, वह पछाड़ खाता है ।

* मूल में—धर्मी के सिर ।

- ६ जो खराई से चलता है वह निडर चलता है,
परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है ।
- १० जो नैन से सैन करता है उस से श्रौंों को दुख मिलता है,
श्रौर जो बकवादी श्रौर मूढ है, वह पछाड खाता है ।
- ११ धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है,
परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है ।
- १२ बैर से तो भगडे उत्पन्न होते है,
परन्तु प्रेम से सब अपराध ढप जाते है ।
- १३ समझवालों के बचनों मे बुद्धि पाई जाती है,
परन्तु निर्बुद्धि की पीठ के लिये कोड़ा है ।
- १४ बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोडते है,
परन्तु मूढ के बोलने से विनाश निकट आता है ।
- १५ धनी का धन उसका दृढ नगर है,
परन्तु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते है ।
- १६ धर्मी का परिश्रम जीवन के लिये होता है,
परन्तु दुष्ट के लाभ से पाप होता है ।
- १७ जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है,
परन्तु जो डांट से मुह मोडता, वह भटकता है ।
- १८ जो बैर को छिपा रखता है, वह भूठ बोलता है,
श्रौर जो अपवाद फैलाता है, वह मूर्ख है ।
- १९ जहाँ बहुत बातें होती है, वहाँ अपराध भी होता है,
परन्तु जो अपने मुंह को बन्द रखता वह बुद्धि से काम करता है ।
- २० धर्मी के वचन तो उत्तम चान्दी है;
परन्तु दुष्टों का मन बहुत हलका होता है ।
- २१ धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन-पोषण होता है,
परन्तु मूढ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते है ।
- २२ धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है,
श्रौर वह उसके साथ दुःख नही मिलाता ।
- २३ मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पडती है,
परन्तु समझवाले पुरुष मे बुद्धि रहती है ।
- २४ दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है,
वह उस पर आ पडती है,
परन्तु धर्मियों की लालसा पूरी होती है ।
- २५ बवण्डर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है,
परन्तु धर्मी सदा लो स्थिर है ।
- २६ जैसे दांत को सिरका, श्रौर आख को धूआं,
वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कही भेजते है ।
- २७ यहोवा के भय मानने से आयु बढती है,
परन्तु दुष्टों का जीवन थोडे ही दिनों का होता है ।
- २८ धर्मियों को आशा रखने मे आनन्द मिलता है,

- परन्तु दुष्टों की आशा टूट जाती है ।
- २६ यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है,
परन्तु अनर्थकारियों का विनाश होता है ।
- ३० धर्मी सदा अटल रहेगा,
परन्तु दृष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे ।
- ३१ धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है,
पर उलट फेर की बात कहनेवाले की
जीभ काटी जायेगी ।
- ३२ धर्मी ग्रहणयोग्य बात समझ कर
बोलता है,
परन्तु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की
बाते निकलती है ॥
- ११ छल के तराजू से यहोवा को
घृणा आती है,
परन्तु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता
है ।
- २ जब अभिमान होता, तब अपमान भी
होता है,
परन्तु नम्र लोगो में बुद्धि होती है ।
- ३ सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई
पाते हैं,
परन्तु विश्वासघाती अपने कपट से
विनाश होते हैं ।
- ४ कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ
नहीं होता,
परन्तु धर्म मृत्यु से भी बचाता है ।
- ५ खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण
सीधा होता है,
परन्तु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण
गिर जाता है ।
- ६ सीधे लोगो का बचाव उनके धर्म के
कारण होता है,
परन्तु विश्वासघाती लोग अपनी ही
दुष्टता में फंसते हैं ।
- ७ जब दुष्ट मरता, तब उसकी आशा
टूट जाती है,
और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है ।
- ८ धर्मी विपत्ति से छूट जाता है,
परन्तु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता
है * ।
- ९ भक्तिहीन जन अपने पडोसी को अपने
मुंह की बात से बिगाड़ता है,
परन्तु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते
हैं ।
- १० जब धर्मियों का कल्याण होता है, तब
नगर के लोग प्रसन्न होते हैं,
परन्तु जब दुष्ट नाश होते, तब जय-
जयकार होता है ।
- ११ सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की
बढ़ती होती है,
परन्तु दुष्टों के मुंह की बात से वह
ढाया जाता है ।
- १२ जो अपने पडोसी को तुच्छ जानता है,
वह निर्बुद्धि है,
परन्तु समझदार पुरुष चुपचाप रहता
है ।
- १३ जो लुतराई करता फिरता वह भेद
प्रगट करता है,
परन्तु विश्वासयोग्य मनुष्य बात को
छिपा रखता है ।
- १४ जहा बुद्धि की युक्ति नहीं, वहा प्रजा
विपत्ति में पड़ती है;
परन्तु सम्मति देनेवालों की बहुतायत
के कारण बचाव होता है ।
- १५ जो परदेशी का उत्तरदायी होता है,
वह बड़ा दुःख उठाता है,
परन्तु जो उत्तरदायित्व से घृणा
करता, वह निडर रहता है ।

* मूल में—दुष्ट उसके स्थान पर आता है ।

- १६ अनुग्रह करनेवाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है,
श्रीर बलात्कारी लोग धन को नहीं खोते ।
- १७ कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है,
परन्तु जो क्रूर है, वह अपनी ही देह को दुःख देता है ।
- १८ दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है,
परन्तु जो धर्म का बीज बोता, उसको निश्चय फल मिलता है ।
- १९ जो धर्म में दृढ़ रहता, वह जीवन पाता है,
परन्तु जो बुराई का पीछा करता, वह मृत्यु का कीर हो जाता है ।
- २० जो मन के ठेके हैं, उन में यहोवा को घृणा आती है,
परन्तु वह खरी चालवालों से प्रसन्न रहता है ।
- २१ मैं दृढ़ता * के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा,
परन्तु धर्मी का वश बचाया जाएगा ।
- २२ जो सुन्दर स्त्री विवेक नहीं रखती,
वह धूधुन में सोने की नत्थ पहिने हुए सूअर के समान है ।
- २३ धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है;
परन्तु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है ।
- २४ ऐसे हैं, जो छितरा देते हैं, तौभी उनकी बढती ही होती है;
श्रीर ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, श्रीर इस से उनकी घटती ही होती है ।
- २५ उदार प्रारणी हृष्ट पृष्ट हो जाता है,
श्रीर जो श्रीरों की खेती सीचता है,
उसकी भी सींची जाएगी ।
- २६ जो अपना अनाज रख छोड़ता है,
उसको लोग शाप देते हैं,
परन्तु जो उसे बेच देता है, उसको भाषीर्वाद दिया जाता है ।
- २७ जो यत्न से भलाई करता है वह श्रीरों की प्रसन्नता खोजता है,
परन्तु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, उसी पर बुराई आ पडती है ।
- २८ जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है,
परन्तु धर्मी लोग नये पत्ते की नाई लहलहाते हैं ।
- २९ जो अपने घराने को दुःख देता, उसका भाग वायु ही होगा,
श्रीर मूढ बुद्धिमान का दास हो जाता है ।
- ३० धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है,
श्रीर बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है ।
- ३१ देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा,
तो निश्चय है कि दुष्ट श्रीर पापी को भी मिलेगा ॥

१२

जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान में प्रीति रखता है,
परन्तु जो डाट से बैर रखता, वह पशु सरीखा है ।

२ भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है,
परन्तु बुरी युक्ति करनेवाले को वह दोषी ठहराता है ।

* मूल में—हाथ पर हाथ ।

- ३ कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता,
परन्तु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं ।
- ४ भली स्त्री अपने पति का मुकुट है,
परन्तु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है ।
- ५ धर्मियों की कल्पनाएँ न्याय ही की होती हैं,
परन्तु दुष्टों की युक्तियाँ छल की हैं ।
- ६ दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिये घात लगाने के विषय में होती है,
परन्तु सीधे लोग अपने मुँह की बात के द्वारा छुड़ानेवाले होते हैं ।
- ७ जब दुष्ट लोग उलटे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं,
परन्तु धर्मियों का घर स्थिर रहता है ।
- ८ मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है,
परन्तु कुटिल तुच्छ जाना जाता है ।
- ९ जो रोटी की आस लगाएँ रहता है,
और बड़ाई मारता है,
उस से दास रखनेवाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है ।
- १० धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है,
परन्तु दुष्टों की दया भी निर्दयता है ।
- ११ जो अपनी भूमि को जोतता, वह पेट भर खाता है,
परन्तु जो निकम्मों की संगति करता,
वह निर्बुद्धि ठहरता है ।
- १२ दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं,
परन्तु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है ।
- १३ बुरा मनुष्य अपने दुर्बचनों के कारण फन्दे में फँसता है,
परन्तु धर्मी संकट से निकास पाता है ।
- १४ सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है,
और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी * होती है ।
- १५ मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है,
परन्तु जो सम्मति मानता, वह बुद्धिमान है ।
- १६ मूढ़ की रिस उसी दिन प्रगट हो जाती है,
परन्तु चतुर अपमान को छिपा रखता है ।
- १७ जो सच बोलता है, वह धर्म प्रगट करता है,
परन्तु जो झूठी साक्षी देता, वह छल प्रगट करता है ।
- १८ ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच-विचार का बोलना तलवार की नाईं चुभता है,
परन्तु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं ।
- १९ सच्चाई † सदा बनी रहेगी,
परन्तु झूठ ‡ पल ही भर का होता है ।
- २० बुरी युक्ति करनेवालों के मन में छल रहता है,
परन्तु मेल की युक्ति करनेवालों को आनन्द होता है ।

* मूल में—मनुष्य के हाथों का फल उसको लौट आता है ।

† मूल में—सच्चाई का होठ ।

‡ मूल में—झूठी जीभ ।

- २१ धर्मी को हानि नहीं होती है,
परन्तु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब
जाते हैं* ।
- २२ भूठों से यहोवा को घृणा आती है,
परन्तु जो विश्वास से काम करते हैं,
उन से वह प्रसन्न होता है ।
- २३ चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रगट नहीं
करता है,
परन्तु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊचे
शब्द से प्रचार करता है ।
- २४ कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं,
परन्तु भालसी बगारी में पकड़े जाते
हैं ।
- २५ उदास मन दब जाता है,
परन्तु भली बात से वह आनन्दित
होता है ।
- २६ धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता
है,
परन्तु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के
कारण भटक जाते हैं ।
- २७ भालसी अहेर का पीछा नहीं करता,
परन्तु कामकाजी को अनमोल वस्तु
मिलती है ।
- २८ धर्म की बाट में जीवन मिलता है,
और उसके पथ में मृत्यु का पता भी
नहीं ॥
- १३ बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा
सुनता है,
परन्तु ठट्ठा करनेवाला घुड़की को भी
नहीं सुनता ।
- २ सज्जन अपनी बातों के कारण
उत्तम वस्तु खाने पाता है,
परन्तु विश्वासघाती लोगों का पेट †
उपद्रव से भरता है ।
- ३ जो अपने मुंह की चौकसी करता है,
वह अपने प्राण की रक्षा करता है,
परन्तु जो गाल बजाता उसका विनाश
हो जाता है ।
- ४ भालसी का प्राण लालसा तो करता
है, और उसको कुछ नहीं मिलता,
परन्तु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते
हैं ।
- ५ धर्मी भूटे वचन से बँर रखता है,
परन्तु दुष्ट लज्जा का कारण और
लज्जित हो जाता है ।
- ६ धर्म खरी चाल चलनेवाली की रक्षा
करता है,
परन्तु पापी अपनी दुष्टता के कारण
उलट जाता है ।
- ७ कोई तो धन बटोरता, परन्तु उसके
पास कुछ नहीं रहता,
और कोई धन उड़ा देता, तौभी उसके
पास बहुत रहता है ।
- ८ प्राण की छुड़ीती मनुष्य का धन है,
परन्तु निर्धन घुड़की को सुनता भी
नहीं ।
- ९ धर्मियों की ज्योति आनन्द के साथ
रहती है,
परन्तु दुष्टों का दिया बुझ जाता है ।
- १० भगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से
होते हैं,
परन्तु जो लोग सम्मति मानते हैं,
उनके पास बुद्धि रहती है ।
- ११ निर्धन के* पास माल नहीं रहता,
परन्तु जो अपने परिश्रम से बटोरता,
उसकी बढ़ती होती है ।
- १२ जब आशा पूरी होने में विलम्ब होता
है, तो मन शिथिल होता है,

* मूल में—विपत्ति से भर जाते हैं ।

† मूल में—आश ।

* मूल में—अपने को निर्धन करता ।

- परन्तु जब लालसा पूरी होती है, तब जीवन का वृक्ष लगता है ।
- १३ जो वचन को तुच्छ जानता, वह नाश हो जाता है,
परन्तु भ्राजा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है ।
- १४ बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है,
और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फन्दों से बच सकते हैं ।
- १५ सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है,
परन्तु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है ।
- १६ सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं,
परन्तु मूर्ख अपनी मूढता फँसाता है ।
- १७ दुष्ट दूत बुराई में फँसता है,
परन्तु विश्वासयोग्य दूत में कुशलक्षेम होता है ।
- १८ जो शिक्षा को सुनी-अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है,
परन्तु जो डांट को मानता, उसकी महिमा होती है ।
- १९ लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है,
परन्तु बुराई से हटना, मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है ।
- २० बुद्धिमानों की सगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा,
परन्तु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा ।
- २१ बुराई पापियों के पीछे पडती है,
परन्तु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है ।
- २२ भला मनुष्य अपने नाती-पोतो के लिये भाग छोड़ जाता है,
- परन्तु पापी की सम्पत्ति धर्मों के लिये रखी जाती है ।
- २३ निर्बल लोगों को खेती बारी से बहुत भोजनवस्तु मिलती है,
परन्तु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं ।
- २४ जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है,
परन्तु जो उस से प्रेम रखता, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है ।
- २५ धर्मों पेट भर खाने पाता है,
परन्तु दुष्ट भूखे ही रहते हैं ॥
- २४ हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है,
पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है ।
- २ जो मीधार्ई से चलता वह यहोवा का भय माननेवाला है,
परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जाननेवाला ठहरता है ।
- ३ मूढ़ के मुह में गर्व का अक्रुर है,
परन्तु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं ।
- ४ जहा बैल नहीं, वहां गौशाला निर्मल तो रहती है,
परन्तु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है ।
- ५ सच्चा साक्षी भूठ नहीं बोलता,
परन्तु भूठा साक्षी भूठी बातें उडाता है ।
- ६ ठट्ठा करनेवाला बुद्धि को दूँडता, परन्तु नहीं पाता,
परन्तु समझवाले को ज्ञान सहज से मिलता है ।

- ७ मूर्ख से अलग हो जा,
तू उस से ज्ञान की बात न पाएगा * ।
- ८ चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है,
परन्तु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है ।
- ९ मूढ़ लोग दोषी होने को ठट्ठा जानते हैं,
परन्तु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है ।
- १० मन अपना ही दुःख जानता है,
और परदेशी उसके आनन्द में हाथ नहीं डाल सकता ।
- ११ दुष्टों का घर विनाश हो जाता है,
परन्तु सीधे लोगों के तम्बू में आबादी होती है ।
- १२ ऐसा मार्ग है, जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है,
परन्तु उसके अन्त में मृत्यु ही मिलती है ।
- १३ हंसी के समय भी मन उदास होता है,
और आनन्द के अन्त में शोक होता है ।
- १४ जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है,
वह अपनी चालचलन का फल भोगता है,
परन्तु भला मनुष्य आप ही आप सन्तुष्ट होता है ।
- १५ भोला तो हर एक बात को सच मानता है,
परन्तु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है ।
- १६ बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है,
परन्तु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है ।
- १७ जो भट क्रोध करे, वह मूढ़ता का काम भी करेगा,
और जो बुरी युक्तियाँ निकालता है,
उस से लोग बैर रखते हैं ।
- १८ भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है,
परन्तु चतुरों को ज्ञानरूपी मुकुट बान्धा जाता है ।
- १९ बुरे लोग भलो के सम्मुख,
और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दण्डवत् करते हैं ।
- २० निर्धन का पड़ोसी भी उस से घृणा करता है,
परन्तु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं ।
- २१ जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता, वह पाप करता है,
परन्तु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता, वह धन्य होता है ।
- २२ जो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते ?
परन्तु भली युक्ति निकालनेवालो से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है ।
- २३ परिश्रम में सदा लाभ होता है,
परन्तु बकवाद करने से केवल घटती होती है ।
- २४ बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है,
परन्तु मूर्खों की मूढ़ता निगी मूढ़ता है ।
- २५ सच्चा सार्ध. बहुतों के प्राण बचाता है,
परन्तु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उस से धोखा ही होता है ।
- २६ यहोवा के भय मानने में दृढ़ भरोसा होता है,
और उसके पुत्रों को शरणस्थान मिलता है ।

* मूल में—न जानेगा ।

- २७ यहोवा का भय मानना, जीवन का सोता है,
और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फन्दों से बच जाते हैं।
- २८ राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है,
परन्तु जहाँ प्रजा नहीं, वहाँ हाकिम नाश हो जाता है।
- २९ जो विलम्ब से क्रोध करनेवाला है वह बड़ा समझवाला है,
परन्तु जो अधीर है, वह मूढ़ता की बढ़ती करता है।
- ३० शान्त मन, तन का जीवन है,
परन्तु मन के जलने से हड्डिया भी जल * जाती है।
- ३१ जो कगाल पर अधेर करता, वह उसके कर्ता की निन्दा करता है,
परन्तु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता, वह उसकी महिमा करता है।
- ३२ दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है,
परन्तु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है।
- ३३ समझवाले के मन में बुद्धि बास किए रहती है,
परन्तु मूर्खों के अन्तःकाल में जो कुछ है वह प्रगट हो जाता है।
- ३४ जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है,
परन्तु पाप से देश के लोगों † का अपमान होता है।
- ३५ जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है,
परन्तु जो लज्जा के काम करता, उस पर वह रोष करता है।

१५

- कोमल उत्तर सुनने से जल-जलाहट ठरडी होती है,
परन्तु कटुवचन से क्रोध घषक उठता है।
- २ बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते है,
परन्तु मूर्खों के मुह से मूढ़ता उबल आती है।
- ३ यहोवा की आंखे सब स्थानों में लगी रहती है,
वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं।
- ४ शान्ति देनेवाली बात जीवन-वृक्ष है,
परन्तु उलट फेर की बात से आत्मा दुःखित होती है।
- ५ मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है,
परन्तु जो डांट को मानता, वह चतुर हो जाता है।
- ६ धर्मी के घर में बहुत धन रहता है,
परन्तु दुष्ट के उपाजर्न में दुःख रहता है।
- ७ बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते है,
परन्तु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता।
- ८ दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है,
परन्तु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है।
- ९ दुष्ट के चालचलन से यहोवा को घृणा आती है,
परन्तु जो धर्म का पीछा करता उस से वह प्रेम रखता है।
- १० जो मार्ग को छोड़ देता, उसको बड़ी ताड़ना मिलती है,

* मूल में—सङ्ग।

† मूल में—समुदाय समुदाय के लोगों।

- और जो डांट से बैर रखता, वह अवश्य मर जाता है।
- ११ जब कि अघोलोक और विनाशलोक यहोवा के साम्हने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी।
- १२ ठट्टा करनेवाला डाटे जाने में प्रसन्न नहीं होता,
और न वह बुद्धिमानों के पाम जाता है।
- १३ मन आनन्दित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है,
परन्तु मन के दुःख से आत्मा निराश होती है।
- १४ समझनेवाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है,
परन्तु मूर्ख लोग मूढता में पेट भरते हैं।
- १५ दुखिया के सब दिन दुःख भरे रहते हैं,
परन्तु जिसका मन प्रसन्न रहता है,
वह मानो नित्य भोज में जाता है।
- १६ घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से,
यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है,
- १७ प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन,
बैर वाले घर में पले हुए बैल का मास खाने से उत्तम है।
- १८ क्रोधी पुरुष झगडा मचाता है,
परन्तु जो विलम्ब से क्रोध करनेवाला है,
वह मुकद्दमों को दबा देता है।
- १९ आलसी का मार्ग काटों से रुन्धा हुआ होता है,
परन्तु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है।
- २० बुद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित होता है,
- परन्तु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जामता है।
- २१ निर्बुद्धि को मूढता से आनन्द होता है,
परन्तु समझवाला मनुष्य सीधी चाल चलता है।
- २२ बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं,
परन्तु बहुत में मन्त्रियों की सम्मति से बात ठहरती है।
- २३ सज्जन उत्तर देने से आनन्दित होता है,
और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है।
- २४ बुद्धिमान के लिये जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है,
इस रीति से वह अघोलोक में पड़ने से बच जाता है।
- २५ यहोवा अहकारियों के घर को ढा देता है,
परन्तु विधवा के सिवाने को अटल रखता है।
- २६ बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं,
परन्तु शुद्ध जन के वचन मनभावने हैं।
- २७ लालची अपने घराने को दुःख देता है,
परन्तु घूस से घृणा करनेवाला जीवित रहता है।
- २८ धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दू,
परन्तु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं।
- २९ यहोवा दुष्टों से दूर रहता है,
परन्तु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है।
- ३० आखों की चमक से मन को आनन्द होता है,
और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं।

- ३१ जो जीवनदायी डाट कान लगाकर
मुनता है,
वह बुद्धिमानों के सग ठिकाना
पाता है ।
- ३२ जो शिक्षा को मुनी-अनमुनी करता,
वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है,
परन्तु जो डाट को मुनता, वह बुद्धि
प्राप्त करता है ।
- ३३ यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त
होती है,
और महिमा मे पहिले नम्रता होती
है ।।
- १६ मन की युक्ति मनुष्य के वश
में रहती है,
परन्तु मुह से कहना यहोवा की ओर
से होता है ।
- २ मनुष्य का मारा चालचलन अपनी
दृष्टि मे पवित्र ठहरता है,
परन्तु यहोवा मन को तौलता है ।
- ३ अपने कामो को यहोवा पर डाल दे,
इस से तेरी कल्पनाएँ सिद्ध होंगी ।
- ४ यहोवा ने सब वस्तुएँ विशेष उद्देश्य
के लिये बनाई है, वरन दुष्ट को
भी विपत्ति भोगने के लिये बनाया
है ।
- ५ सब मन के घमण्डियो मे यहोवा घृणा
करता है,
मे दृढता से कहता हूँ *, ऐसे लोग
निर्दोष न ठहरेगे ।
- ६ अधर्म का प्रायश्चित्त कृपा, और
सच्चाई से होता है,
और यहोवा के भय मानने के द्वारा
मनुष्य बुराई करने से बच जाते
हैं ।
- ७ जब किसी का चालचलन यहोवा को
भावता है,
तब वह उसके शत्रुओ का भी उस से
मेल कराता है ।
- ८ अन्याय के बडे लाभ से,
न्याय से थोडा ही प्राप्त करना
उत्तम है ।
- ९ मनुष्य मन मे अपने मार्ग पर विचार
करता है,
परन्तु यहोवा ही उसके पैरों को
स्थिर करता है ।
- १० राजा के मुद से दैवीवाणी निकलती है,
न्याय करने में उस से चूक नही
होती ।
- ११ मच्चा तराजू और पलडे यहोवा की
ओर मे टोते है,
थैली मे जितने बटखरे है, सब उसी के
बनवाए हुए है ।
- १२ दुष्टता करना राजाओ के लिये घृणित
काम है,
क्योकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर
रहती है ।
- १३ धर्म की बात बोलनेवालो से राजा
प्रमन्न होता है,
और जो सीधी वाने बांनता है, उस
से वह प्रेम रखता है ।
- १४ राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान
है,
परन्तु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठराडा
करता है ।
- १५ राजा के मुख की चमक मे जीवन
रहता है,
और उसकी प्रसन्नता बरसात के
अन्न की घटा के समान होती है ।
- १६ बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या
ही उत्तम है !

* मूल में—हाथ पर हाथ ।

- और समझ की प्राप्ति चान्दी से अति योग्य है ।
- १७ बुराई से हटना सीधे लोगों के लिये राजमार्ग है,
जो अपने चालचलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है ।
- १८ विनाश से पहिले गर्व,
और ठोकर खाने से पहिले घमराह होता है ।
- १९ घमण्डियों के सग लूट बाट लेने से,
दीन लोगों के सग नम्र भाव से रहना उत्तम है ।
- २० जो वचन पर मन लगाता, वह कल्याण पाता है,
और जो यहोवा पर भरोसा रखता, वह धन्य होता है ।
- २१ जिसके हृदय में बुद्धि है, वह समझ-वाला कहलाता है,
और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है ।
- २२ जिसके बुद्धि है, उसके लिये वह जीवन का सोता है,
परन्तु मूढो को शिक्षा देना मूढता ही होती है ।
- २३ बुद्धिमान का मन उसके मुह पर भी बुद्धिमानी प्रगट करता * है,
और उसके वचन में विद्या रहती है ।
- २४ मनभावने वचन मधुभरे छत्ते की नाईं प्राणो को मीठे लगते,
और हड्डियों को हरी-भरी करते हैं ।
- २५ ऐसा भी मार्ग है, जो मनुष्य को सीधा देख पडता है, परन्तु उसके अन्त में मृत्यु ही मिलती है ।
- २६ परिश्रमी की लालसा उसके लिये परिश्रम करती है,
उसकी भूख * तो उसको उभारती रहती है ।
- २७ अघर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है,
और उसके वचनों से प्राण लग जाती है ।
- २८ टेढा मनुष्य बहुत भगडे को उठाता है,
और कानाफूमी करनेवाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है ।
- २९ उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है ।
- ३० आंख मूदनेवाला छल की कल्पनाए करता है,
और झोंठ दबानेवाला बुराई करता है ।
- ३१ पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं;
वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं ।
- ३२ विलम्ब से क्रोध करना वीरता से,
और अपने मन को बश में रखना, नगर के जीत लेने से उत्तम है ।
- ३३ चिट्ठी डाली जाती तो है,
परन्तु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है ॥

१७

चैन के साथ सूखा टुकड़ा, उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबलि-पशुओं से भरा हो, परन्तु उस में भगडे रगडे हों ।

* मूल में—उसके मुह को बुद्धिमान करता है ।

* मूल में—उसका मुंह ।

- २ बुद्धि से चलनेवाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा ।
- ३ चान्दी के लिये कुठाली, और सोने के लिये भट्टी होती है, परन्तु मनो को यहोवा जांचता है ।
- ४ कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, और भूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है ।
- ५ जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है, वह उसके कर्त्ता की निन्दा करता है; और जो किसी की विपत्ति पर हंसता, वह निर्दोष नहीं ठहरेगा ।
- ६ बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते है; और बाल-बच्चों की शोभा उनके माता-पिता है ।
- ७ मूढ़ को उत्तम बात फबती नहीं, और अधिक करके प्रधान को भूठी बात नहीं फबती ।
- ८ देनेवाले के हाथ में घूस मोह लेनेवाले मरिण का काम देता है; जिधर ऐसा पुरुष फिरता, उधर ही उसका काम सुफल होता है ।
- ९ जो दूसरे के अपराध को ढांप देता, वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परन्तु जो बात की चर्चा बार बार करता है, वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है ।
- १० एक घुड़की समझनेवाले के मन में जितनी गड़ जाती है, उतना सौ बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता ।
- ११ बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है,
- इसलिये उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा ।
- १२ बच्चा-छीनी-दुई-रीछनी से मिलना तो भला है, परन्तु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं ।
- १३ जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर न होगी ।
- १४ भगडे का आरम्भ बान्ध के छेद के समान है, भगड़ा बढ़ने से पहिले उसको छोड़ देना उचित है ।
- १५ जो दोषी को निर्दोष, और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है ।
- १६ बुद्धि मोल लेने के लिये मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? वह उसे चाहता ही नहीं !
- १७ मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है ।
- १८ निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है, और अपने पडोसी के सामने उत्तर-दायी होता है ।
- १९ जो भगड़े-रगडे में प्रीति रखता, वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता, वह अपने विनाश के लिये यत्न करता है ।
- २० जो मन का टेढ़ा है, उसका कल्याण नहीं होता, और उलट-फेर की बात करनेवाला विपत्ति में पड़ता है ।

२१ जो मूर्ख को जन्माता है वह उस से दुःख ही पाता है;

और मूढ़ के पिता को आनन्द नहीं होता ।

२२ मन का आनन्द अच्छी औषधि है, परन्तु मन के टूटने से हड्डिया सूख जाती हैं ।

२३ दुष्ट जन न्याय बिगाडने के लिये, अपनी गाठ से * घूस निकालता है ।

२४ बुद्धि समझनेवाले के साम्हने ही रहती है,

परन्तु मूर्ख की आंखे पृथ्वी के दूर दूर देशो मे लगी रहती हैं ।

२५ मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है, और जननी को शोक होता है ।

२६ फिर धर्मी से दण्ड लेना, और प्रधानो को सिधार्ई के कारण पिटवाना, दोनो काम अच्छे नहीं हैं ।

२७ जो सभलकर बोलता है, वही ज्ञानी ठहरता है;

और जिसकी आत्मा शान्त रहती है, सोई समझवाला पुरुष ठहरता है ।

२८ मूढ़ भी जब चुप रहता है, तब बुद्धिमान गिना जाता है; और जो अपना मुह बन्द रखता वह समझवाला गिना जाता है ॥

१८ जो औरो से अलग हो जाता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिये ऐसा करता है,

२ और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर † करता है ।

मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता,
वह केवल अपने मन की बात प्रगट करना चाहता है ।

३ जहा दुष्ट आता, वहा अपमान भी आता है;
और निन्दित काम के साथ नामधराई होती है ।

४ मनुष्य के मुंह के वचन गहिरा जल, वा उमण्डनेवाली नदी वा बुद्धि के सोते है ।

५ दुष्ट का पक्ष करना,
और धर्मी का हक मारना, अच्छा नहीं है ।

६ बात बढ़ाने से मूर्ख मुकद्दमा खडा करता है,
और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है * ।

७ मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है,
और उसके वचन उसके प्राण के लिये फन्दे होते है ।

८ कानाफूसी करनेवाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते है;
वे पेट मे पच जाते है ।

९ जो काम मे आलस करता है,
वह खोनेवाले का भाई ठहरता है ।

१० यहोवा का नाम दूढ़ कोट है;
धर्मी उस मे भागकर सब दुर्घटनाओ से बचता है ।

११ धनी का धन उसकी दृष्टि मे गढ़वाला नगर,
और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है ।

* मूल में—गोद ।

† मूल में—लड़ाई ।

* मूल में—उसका मुंह मार को बुलाता है ।

- १२ नाश होने से पहिले मनुष्य के मन में घमण्ड,
और महिमा पाने से पहिले नम्रता होती है ।
- १३ जो बिना बात सुने उत्तर देता है,
वह मूढ़ ठहरता, और उसका अनादर होता है ।
- १४ रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से सम्भलता है,
परन्तु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है ?
- १५ समझवाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है;
और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं ।
- १६ भेंट मनुष्य के लिये मार्ग खोल देती है,
और उसे बड़े लोगो के साम्हने पहुचाती है ।
- १७ मुकुटमें में जो पहिले बोलता, वही धर्मी जान पड़ता है,
परन्तु पीछे दूसरा पक्षवाला * आकर उसे खोज लेता है ।
- १८ चिट्ठी डालने से भगड़े बन्द होते हैं,
और बलवन्तों की लड़ाई का अन्त होता है ।
- १९ चिढ़े हुए भाई को मनाना दूढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है,
और भगड़े राजभवन के बेरों के समान है ।
- २० मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है;
और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उस से वह तृप्त होता है ।
- २१ जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं,
- और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा ।
- २२ जिस ने स्त्री व्याह ली, उस ने उत्तम पदार्थ पाया,
और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है ।
- २३ निर्धन गिडगिडाकर बोलता है,
परन्तु धनी कडा उत्तर देता है ।
- २४ मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है,
परन्तु ऐसा मित्र होता है, जो भाई से भी अधिक मिला रहता है ।
- १६ जो निर्धन खराई से चलता है,
वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बाते बोलता है ।
- २ मनुष्य का ज्ञानरहित रहना अच्छा नहीं,
और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है ।
- ३ मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है,
और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है ।
- ४ धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं,
परन्तु कगाल के मित्र उस से अलग हो जाते हैं ।
- ५ भूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता,
और जो भूठ बोला करता है, वह न बचेगा ।
- ६ उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं,
और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है ।
- ७ जब निर्धन के सब भाई उस से बंद रखते हैं,

* मूल में—उसका बन्धु ।

- तो निश्चय है कि उसके मित्र उस से दूर हो जाएं।
वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परन्तु उनको नहीं पाता।
- ८ जो बुद्धि प्राप्त करता, वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है,
और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है।
- ९ झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता,
और जो झूठ बोला करता है, वह नाश होता है।
- १० जब मुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता,
तो हाकिमो पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे !
- ११ जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है,
और अपराध को भुलाना उसको सोहता है।
- १२ राजा का क्रोध सिंह की गरजन के समान है,
परन्तु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है।
- १३ मूर्ख पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठहरता है,
और पत्नी के झगड़े-रगड़े सदा टपकने के समान है।
- १४ घर और धन पुरस्कारों के भाग में,
परन्तु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है।
- १५ आलस से भारी नींद आ जाती है,
और जो प्राणी ढिलाई से काम करता, वह भूखा ही रहता है।
- १६ जो आज्ञा को मानता, वह अपने प्राण की रक्षा करता है,
- परन्तु जो अपने चालचलन के विषय में निश्चिन्त रहता है, वह मर जाता है।
- १७ जो कगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उधार देता है,
और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा।
- १८ जबतक आशा है तो अपने पुत्र की ताडना कर,
जान बूझकर उसको मार न डाल।
- १९ जो बड़ा क्रोधी है, उसे दगड उठाने दे;
क्योंकि यदि तू उसे बचाए, तो बारम्बार बचाना पडेगा।
- २० सम्मति को सुन ले, और शिक्षा को ग्रहण कर,
कि तू अन्तकाल में बुद्धिमान ठहरे।
- २१ मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएँ होती हैं,
परन्तु जो युक्ति यहोवा करता है, वही स्थिर रहती है।
- २२ मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है,
और निर्धन जन झूठ बोलनेवाले से उत्तम है।
- २३ यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है;
और उसका भय माननेवाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है;
उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की।
- २४ आलसी अपना हाथ थाली में डालता है,
परन्तु अपने मुँह तक कौर नहीं उठाता।
- २५ ठट्टा करनेवाले को मार, इस से भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा;

- श्रीर समझवाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा ।
- २६ जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता, श्रीर अपनी मा को भगा देता है, वह अपमान श्रीर लज्जा का कारण होगा ।
- २७ हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है, तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे ।
- २८ अघम साक्षी न्याय को ठट्टों में उड़ाता है, श्रीर दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं ।
- २९ ठट्टा करनेवालों के लिये दरिद्र ठहराया जाता है, श्रीर मूर्खों की पीठ के लिये कोड़े हैं ।
- २० दास्यमधु ठट्टा करनेवाला श्रीर मदिरा हल्ला मचानेवाली है; जो कोई उसके कारण चूक करता है, वह बुद्धिमान नहीं ।
- २ राजा का भय दिखाना, सिंह का गरजना है; जो उस पर रोष करता, वह अपने प्राण का अपराधी होता है ।
- ३ मुकुटमे से हाथ उठाना, पुरुष की महिमा ठहरती है, परन्तु सब मूढ़ भगड़ने को तैयार होते हैं ।
- ४ झालसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिये कटनी के समय वह भीख मांगता, श्रीर कुछ नहीं पाता ।
- ५ मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तीभी समझवाला मनुष्य उसको निकाल लेता है ।
- ६ बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परन्तु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है ?
- ७ धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लडकेवाले घन्य होते हैं ।
- ८ राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उडा देता है ।
- ९ कौन कह सकता है कि मैं ने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ ?
- १० घटती-बढ़ती बटखरे और घटते-बढते नपुण * इन दोनों से यहोवा घृणा करता है ।
- ११ लडका भी अपने कामों से पहिचाना जाता है, कि उसका काम पवित्र श्रीर सीधा है, वा नहीं ।
- १२ सुनने के लिये कान श्रीर देखने के लिये जो आंखे हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है ।
- १३ नीद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, आंखे खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा ।
- १४ मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है, परन्तु चले जाने पर बढ़ाई करता है ।
- १५ सोना श्रीर बहुत से भूगे तो हैं; परन्तु ज्ञान की बातें अनमोल मरिण ठहरी है ।

* मूल में—धपा ।

- १६ जो अनजाने * का उत्तरदायी हुआ
उसका कपड़ा,
और जो पराए का उत्तरदायी हुआ
उस से बंधक की वस्तु ले रख ।
- १७ चोरी-छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी
तो लगती है,
परन्तु पीछे उसका मुह ककड से
भर जाता है ।
- १८ सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर
होती है,
और युक्ति के साथ युद्ध करना
चाहिये ।
- १९ जो लुतराई करता फिरता है वह
भेद प्रगट करता है,
इसलिये बकवादी से मेल जोल न
रखना ।
- २० जो अपने माता-पिता को कोसता,
उसका दिया बुझ जाता, और घोर
अन्धकार हो जाता है ।
- २१ जो भाग पहिले उतावली से मिलता
है,
अन्त में उस पर आशीष नहीं
होती ।
- २२ मत कह, कि मैं बुराई का पलटा
लूगा,
वरन यहोवा की बाट जोहता रह,
वह तुझ को छुड़ाएगा ।
- २३ घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा
करता है,
और छल का तराजू अच्छा नहीं ।
- २४ मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से
ठहराया जाता है;
आदमी क्योंकि अपना चलना समझ
सके ?
- २५ जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु
को पवित्र ठहराए *,
और जो मन्त्र मानकर पूछपाछ करने
लगे, वह फन्दे में फंसेगा ।
- २६ बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता
है,
और उन पर दावने का पहिया
चलवाता है ।
- २७ मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक
है;
वह मन की सब बातों की खोज
करता है ।
- २८ राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई
के कारण होती है,
और कृपा करने से उसकी गद्दी
संभलती है ।
- २९ जवानों का गौरव उनका बल है,
परन्तु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के
बाल हैं ।
- ३० चोट लगने से जो घाव होते हैं, वह
बुराई दूर करते हैं;
और मार खाने से हृदय निर्मल हो
जाता है ॥
- २१ राजा का मन नालियों के जल
की नाई यहोवा के हाथ में
रहता है,
जिधर वह चाहता उधर उसको
फेर देता है ।
- २ मनुष्य का सारा चालचलन अपनी
दृष्टि में तो ठीक होता है,
परन्तु यहोवा मन को जांचता है ।
- ३ धर्म और न्याय करना,
यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा
लगता है ।

* मूल में—पराये ।

* मूल में—कहे कि पवित्र वस्तु ।

- ४ चढी आंखे, घमण्डी मन,
और दुष्टों की खेनी, तीनों पापमय
है।
- ५ कामकाजी की कल्पनाओं से केवल
लाभ होता है,
परन्तु उतावली करनेवाले को केवल
घटती होती है।
- ६ जो धन भूठ के द्वारा प्राप्त हो,
वह वायु से उड़ जानेवाला कुहरा है,
उसके ढूँढनेवाले मृत्यु ही को ढूँढते
है।
- ७ जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उस
से उन्ही का नाश होता है,
क्योंकि वे न्याय का काम करने में
इनकार करते हैं।
- ८ पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग
बहुत ही टेढ़ा होता है,
परन्तु जो पवित्र है, उसका कर्म
सीधा होता है।
- ९ लम्बे-चीड़े घर में भगडालू पत्नी के
संग रहने से
छत के कोने पर रहना उत्तम
है।
- १० दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से
करता है,
वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की
दृष्टि नहीं करता।
- ११ जब ठट्टा करनेवाले को दण्ड दिया
जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो
जाता है;
और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया
जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त
करता है।
- १२ धर्मी जन दुष्टों के धराने पर बुद्धिमानी
से विचार करता है; ईश्वर दुष्टों
को बुराइयों में उलट देता है।
- १३ जो कंगाल की दोहाई पर कान
न दे,
वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी-
न जाएगी।
- १४ गुप्त में दी हुई भेट से क्रोध ठण्डा
होता है,
और चुपके से दी हुई धूस से बड़ी
जलजलाहट भी धमती है।
- १५ न्याय का काम करना धर्मी को तो
आनन्द,
परन्तु अनर्थकारियों को विनाश ही
का कारण जान पड़ता है।
- १६ जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक
जाए,
उसका ठिकाना मरे हुएों के बीच
में होगा।
- १७ जो रागरग * से प्रीति रखता है, वह
कंगाल होता है;
और जो दाखमधु पीने और तेल
लगाने से प्रीति रखता है, वह धनी
नहीं होता।
- १८ दुष्ट जन धर्मी की छुडीती ठहरता है,
और विश्वासघाती सीधे लोगों की
सन्ती दण्ड भोगते हैं।
- १९ भगडालू और चिढ़नेवाली पत्नी के
संग रहने से जगल में रहना उत्तम
है।
- २० बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और
तेल पाए जाते हैं,
परन्तु मूर्ख उनको उड़ा डालता है।
- २१ जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता
है,
वह जीवन, धर्म और महिमा भी
पाता है।

* मूल में—आनन्द।

- २२ बुद्धिमान धूरवीरों के नगर पर चढ़कर,
उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं, नाश करता है ।
- २३ जो अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है ।
- २४ जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है,
उसका नाम अभिमानी, और अहकारी ठट्टा करनेवाला पड़ता है ।
- २५ झालसी अपनी लालसा ही में मर जाता है,
क्योंकि उसके हाथ काम करने से इन्कार करते हैं ।
- २६ कोई ऐसा है, जो दिन भर लालमा ही किया करता है,
परन्तु धर्मी लगातार दान करता रहता है ।
- २७ दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है;
विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है ।
- २८ भूठा साक्षी नाश होता है,
जिस ने जो सुना है, वही कहता हुआ स्थिर रहेगा ।
- २९ दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है, वह अपनी चाल सीधी करता है ।
- ३० यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि, और न कुछ समझ,
न कोई युक्ति चलती है ।
- ३१ युद्ध के दिन के लिये घोड़ा तैयार तो होता है,
परन्तु जय यहोवा ही से मिलती है ॥
- २२ बड़े धन से अछ्छा नाम अधिक चाहने योग्य है,
और सोने चान्दी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है ।
- २ धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं;
यहोवा उन दोनों का कर्त्ता है ।
- ३ चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है,
परन्तु भोले लोग आगे बढ़कर दण्ड भोगते हैं ।
- ४ नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है ।
- ५ टेढ़े मनुष्य के मार्ग में काटे और फन्दे रहते हैं;
परन्तु जो अपने प्राणों की रक्षा करता, वह उन से दूर रहता है ।
- ६ लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस में उसको चलना चाहिये,
और वह बुढ़ापे में भी उस से न हटेगा ।
- ७ धनी, निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है,
और उधार लेनेवाला उधार देनेवाले का दास होता है ।
- ८ जो कुटिलता का बीज बोता है, वह अनर्थ ही काटेगा,
और उसके राष का सोटा टूटेगा ।
- ९ दया करनेवाले पर आशीष फलती है,
क्योंकि वह कगाल को अपनी रोटी में से देता है ।
- १० ठट्टा करनेवाले को निकाल दे, तब भगडा मिट जाएगा,
और वाद-विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे ।

- ११ जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है,
और जिसके वचन मनोहर होते हैं,
राजा उसका मित्र होता है ।
- १२ यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके, उसकी
रक्षा करता है,
परन्तु विश्वासघाती की बातें उलट
देता है ।
- १३ झालसी कहता है, बाहर तो मिह
होगा !
में चौक के बीच घात किया जाऊगा ।
- १४ पराई स्त्रियों का मुह गहिरा गडहा
है;
जिस से यहोवा क्रोधित होता, सोई
उस में गिरता है ।
- १५ लड़के के मन में मूढ़ता बन्धी रहती है,
परन्तु छडी की ताडना के द्वारा
वह उस से दूर की जाती है ।
- १६ जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल
पर अन्धेर करता है,
और जो धनी को भेट देता, वे दोनों
केवल हानि ही उठाते हैं ॥
- १७ कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन,
और मेरी ज्ञान की बातों की ओर
मन लगा;
- १८ यदि तू उसको अपने मन में रखे,
और वे सब तेरे मुह में निकला भी
करें, तो यह मनभावनी बात होगी ।
- १९ मैं आज इसलिये ये बातें तुम्हें को
जता देता हूँ,
कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो ।
- २० मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश
और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ,
२१ कि मैं तुम्हें सत्य वचनों का निश्चय
करा दूँ,
जिस से जो तुम्हें काम में लगाए,
उनको सच्चा उत्तर दे सके ॥
- २२ कंगाल पर इस कारण अन्धेर न
करना कि वह कंगाल है,
और न दीन जन को कचहरी * में
पीसना;
- २३ क्योंकि यहोवा उनका मुकद्दमा लड़ेगा,
और जो लोग उनका धन हर लेते
हैं, उनका प्राण भी वह हर लेगा ।
- २४ क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना,
और भट क्रोध करनेवाले के संग
न चलना,
- २५ कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल
सीखे,
और तेरा प्राण फन्दे में फस जाए ।
- २६ जो लोग हाथ पर हाथ मारते,
और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं,
उन में तू न होना ।
- २७ यदि भर देने के लिये तेरे पास कुछ
न हो,
तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच
ले जाए ?
- २८ जो सिवाना तेरे पुरखाओं ने बान्धा
हो,
उस पुराने सिवाने को न बढ़ाना ।
- २९ यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज
में निपुण हो,
तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा
होगा, छोटे लोगों के सम्मुख
नहीं ॥
- २३ जब तू किसी हाकिम के सग
भोजन करने को बैठे,
तब इस बात को मन लगाकर सोचना
कि मेरे साम्हने कौन है ?
- २ और यदि तू खाऊ हो,
तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना ।

* मूल में—फाटक ।

- ३ उसकी स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है ।
- ४ धनी होने के लिये परिश्रम न करना ; अपनी समझ का भरोसा छोड़ना ।
- ५ क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा, जो है ही नहीं ? वह उकाब पक्षी की नाईं पख लगाकर, निःसन्देह आकाश की ओर उड़ जाता है ।
- ६ जो डाह से देखता है, उसकी रोटी न खाना, और न उसकी स्वादिष्ट भोजनवस्तुओं की लालसा करना,
- ७ क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है । वह तुझ से कहता तो है, खा पी, परन्तु उसका मन तुझ से लगा नहीं ।
- ८ जो कौर तू ने खायी हो, उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा ।
- ९ मूर्ख के साम्हने न बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा ।
- १० पुराने सिवानो को न बढ़ाना, और न अनाथों के खेत में घुसना,
- ११ क्योंकि उनका छुड़ानेवाला सामर्थ्य है ; उनका मुकद्दमा तेरे संग वही लड़ेगा ।
- १२ अपना हृदय शिक्षा की ओर, और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना ।
- १३ लडके की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, तो वह न मरेगा ।
- १४ तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा ।
- १५ हे मेरे पुत्र, यदि तू * बुद्धिमान हो, तो विशेष करके मेरा ही मन आनन्दित होगा ।
- १६ और जब तू सीधी बातें बोले, तब मेरा मन प्रसन्न होगा ।
- १७ तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना ।
- १८ क्योंकि अन्त में फल होगा, और तेरी आशा न टूटेगी ॥
- १९ हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो, और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला ।
- २० दाखमधु के पीनेवालों में न होना, न मांस के अधिक खानेवालों की सगति करना,
- २१ क्योंकि पियक्कड और खाऊ अपना भाग खोते हैं, और पीनकवाले को चिचडे पहिने पड़ते हैं ॥
- २२ अपने जन्मानेवाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए, तब भी उसे तुच्छ न जानना ।
- २३ सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं ; और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना ।
- २४ धर्मी का पिता बहुत मगन होता है ; और बुद्धिमान का जन्मानेवाला उसके कारण आनन्दित होता है ।
- २५ तेरे कारण माता-पिता आनन्दित, और तेरी जननी मगन होए ॥

* मूल में—तेरा मन ।

- २६ हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा,
और तेरी दृष्टि मेरे चालचलन पर लगी रहे ।
- २७ बेइया गहिरा गडहा ठहरती है ;
और पराई स्त्री सकेत कुएं के समान है ।
- २८ वह डाकू की नाईं घात लगाती है,
और बहुत से मनुष्यों को विस्वासघाती कर देती है ॥
- २९ कौन कहता है, हाय ? कौन कहता है,
हाय हाय ? कौन भगड़े रगड़े में फंसता है ?
कौन बक बक करता है ? किसके अकारण घाव होते हैं ?
किसकी आंखें लाल हो जाती हैं ?
- ३० उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं,
और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु बूढ़ने को जाते हैं ।
- ३१ जब दाखमधु लाल दिखाई देता है,
और कटोरे में उसका सुन्दर रंग होता है,
और जब वह धार के साथ उरडेला जाता है, तब उसको न देखना ।
- ३२ क्योंकि अन्त में वह सर्प की नाईं डसता है,
और करैत के समान काटता है ।
- ३३ तू विचित्र वस्तुएं देखेगा,
और उल्टी-सीधी बातें बकता रहेगा ।
- ३४ और तू समुद्र के बीच लेटनेवाले वा मस्तूल के सिरे पर सोनेवाले के समान रहेगा ।
- ३५ तू कहेगा कि मैं ने मार तो खाई,
परन्तु दुःखित न हुआ,
मैं पिट तो गया, परन्तु मुझे कुछ सुधि न थी ।

मैं होश में कब आऊं ? मैं तो फिर मदिरा बूढ़गा ॥

- २४ बुरे लोगों के विषय में डाह न करना,
और न उनकी संगति की चाह रखना ;
२ क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं,
और उनके मुंह से बुष्टता की बात निकलती है ।
३ घर बुद्धि से बनता है,
और समझ के द्वारा स्थिर होता है ।
४ ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती हैं ।
५ बुद्धिमान पुरुष बलवान् भी होता है,
और जानी जन अधिक शक्तिमान् होता है ।
६ इसलिये जब तू युद्ध करे, तब युक्ति के साथ करना,
विजय बहुत से मन्त्रियों के द्वारा प्राप्त होती है ।
७ बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता ;
वह सभा * में अपना मुंह खोल नहीं सकता ॥
८ जो सोच विचार के बुराई करता है,
उसको लोग बुष्ट कहते हैं ।
९ मूर्खता का विचार भी पाप है,
और ठट्ठा करनेवाले से मनुष्य घृणा करते हैं ॥
१० यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे,
तो तेरी शक्ति बहुत कम है ।

* मूल में—फाटक ।

- ११ जो मार डाले जाने के लिये घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा,
और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकडा ।
- १२ यदि तू कहे, कि देख मैं इसको जानता न था,
तो क्या मन का जाचनेवाला इसे नहीं समझता ?
और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता ?
और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा ?
- १३ हे मेरे पुत्र तू मधु खा, क्योंकि वह अच्छा है,
और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुह में मीठा लगेगा ।
- १४ इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी,
यदि तू उसे पा जाए तो अन्त में उसका फल भी मिलेगा,
और तेरी आशा न टूटेगी ॥
- १५ हे दुष्ट, तू धर्म के निवास को नाश करने के लिये घात को न बैठ,
और उसके विश्रामस्थान को मत उजाड;
- १६ क्योंकि धर्म चाहे सात बार गिरे तोभी उठ खड़ा होता है,
परन्तु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं ॥
- १७ जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनन्दित न हो,
और जब वह ठोकर खाए, तब तेरा मन मगन न हो ।
- १८ कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अग्रसन्न हो
और अपना क्रोध उस पर से हटा ले ॥
- १९ कुकर्मियों के कारण मत कुढ़,
दुष्ट लोगो के कारण डाह न कर;
- २० क्योंकि बुरे मनुष्य को अन्त में कुछ फल न मिलेगा,
दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा ॥
- २१ हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना;
और बलवा करनेवालों के साथ न मिलना,
- २२ क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी,
और दोनों की ओर से आनेवाली आपत्ति को कौन जानता है ?
- २३ बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं ॥
न्याय में पक्षपात करना, किसी रीति भी अच्छा नहीं ।
- २४ जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है,
उसको तो हर समाज के लोग शाप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं;
- २५ परन्तु जो लोग दुष्ट को डाटते हैं उनका भला होता है,
और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है ।
- २६ जो सीधा उत्तर देता है,
वह होठों को चूमता है ॥
- २७ अपना बाहर का कामकाज ठीक करना,
और खेत में उसे तैयार कर लेना;
उसके बाद अपना घर बनाना ॥
- २८ व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना,
और न उसको फुसलाना ।
- २९ मत कह, कि जैसा उस ने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा;

- और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा ॥
- ३० में झालसी के खेत के पास से और निर्वुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था,
- ३१ तो क्या देखा, कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड भर गए हैं;
और वह बिच्छू पेड़ों से ढप गई है,
और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है ।
- ३२ तब मैं ने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया;
हां मैं ने देखकर शिक्षा प्राप्त की ।
- ३३ छोटी सी नीद,
एक और भपकी,
थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के *
और लेटे रहना,
- ३४ तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई,
और तेरी घटी हथियारबन्द के समान आ पडेगी ॥
- २५** सुलैमान के नीतिवचन ये भी हैं;
जिन्हे यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी ॥
- २ परमेश्वर की महिमा, गुप्त रखने में है
परन्तु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है ।
- ३ स्वर्ग की ऊचाई और पृथ्वी की गहराई
और राजाओं का मन, इन तीनों का अन्त नहीं मिलता ।
- ४ चान्दी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिये एक पात्र हो जाता है ।
- ५ राजा के साम्हने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी ।
- ६ राजा के साम्हने अपनी बडाई न करना
और बडे लोगो के स्थान में खडा न होना,
- ७ क्योंकि जिस प्रधान का तू ने दर्शन किया हो
उसके साम्हने तेरा अपमान न हो, वरन तुझ से यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज * ॥
- ८ भगडा करने में जल्दी न करना
नहीं तो अन्त में जब तेरा पडोसी तेरा मुह काला करे
तब तू क्या कर सकेगा ?
- ९ अपने पडोसी के साथ वादविवाद एकान्त में करना,
और पराये का भेद न खोलना,
- १० ऐसा न हो कि सुननेवाला तेरी भी निन्दा करे,
और तेरा अपवाद बना रहे ॥
- ११ जैसे चान्दी की टोकरियो में सोनहले सेब हों
वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है ।
- १२ जैसे सोने का नत्थ और कुन्दन का जेवर अच्छा लगता है,
वैसे ही माननेवाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है ।
- १३ जैसे कटनी के समय बर्फ की ठण्ड से,

* मूल में—दोनों हाथ मिलाए ।

* मूल में—द्वार चढ़ आ ।

- वैसे ही विश्वासयोग्य दूत से भी,
भेजनेवालों का जी ठण्डा होता है ।
- १४ जैसे बादल और पवन बिना वृष्टि
निर्लाभ होते हैं,
वैसे ही झूठ-मूठ दान देनेवाले का
बडाई मारना होता है ॥
- १५ धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता
है,
और कोमल वचन हठों को भी
तोड़ डालता है ।
- १६ क्या तू ने मधु पाया ? तो जितना
तेरे लिये ठीक हो * उतना ही
खाना,
ऐसा न हो कि अधिक खाकर † उमे
उगल दे ।
- १७ अपने पड़ोसी के घर में बारम्बार
जाने से अपने पांव को रोक ‡,
ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर
घृणा करने लगे ।
- १८ जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता
है,
वह मानो हथौडा और तलवार और
पैना तीर है ।
- १९ विपत्ति के समय विश्वासघाती का
भरोसा
टूटे हुए दात वा उखड़े पाव के
समान है ।
- २० जैसा जाड़े के दिनों में किसी का
वस्त्र उतारना वा सज्जी पर मिरका
डालना होता है,
वैसा ही उदास मनवाले के साम्हने
गीत गाना होता है ।
- २१ यदि तेरा बंदी भूखा हो तो उसको
रोटी खिलाना;
और यदि वह प्यासा हो तो उसे
पानी पिलाना;
२२ क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर
अंगारे डालेगा,
और यहोवा तुझे इसका फल देगा ।
२३ जैसे उत्तरीय वायु वर्षा को लाती है,
वैसे ही चुगली करने * से मुख पर
क्रोध छा जाता है ।
२४ लम्बे चौड़े घर में भगड़ालू पत्नी के
सग रहने से
छत के कोने पर रहना उत्तम है ।
२५ जैसा थके मान्दे के प्राणों के लिये
ठण्डा पानी होता है,
वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ
ममाचार भी होता है ।
२६ जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है,
वह गंदले सोते और बिगड़े हुए
कुण्ड के समान है ।
२७ बहुत मधु खाना अच्छा नहीं,
परन्तु कठिन बातों की पूछपाछ
महिमा का कारण होता है ।
२८ जिसकी आत्मा वश में नहीं
वह ऐसे नगर के समान है जिसकी
शहरपनाह नाका करके तोड़ दी
गई हो ॥
- २६ जैसा धूपकाल में हिम का,
और कटनी के समय जल का
पडना,
वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक
नहीं होती ।
२ जैसे गौरिया घूमते-घूमते और सूपा-
बेनी उड़ते-उड़ते नहीं बैठती,

* मूल में—जितनी चाहिये ।

† मूल में—अघाकर ।

‡ मूल में—घर से अपना पांव बहुमूल्य
करना ।

* मूल में—छिपी जीभ ।

- वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता ।
- ३ घाडे के लिये कोड़ा, गद्दे के लिये बाग,
और मूखों की पीठ के लिये छडी है ।
- ४ मूख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना
ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे ।
- ५ मूख को उसकी मूढता के अनुसार उत्तर देना,
ऐसा न हो कि वह अपने लेखें बुद्धिमान ठहरे ।
- ६ जो मूख के हाथ से सदेशा भेजता है,
वह मानो अपने पाव में कुल्हाड़ा मारता और विष * पीता है ।
- ७ जैसे लगडे के पांव लडखड़ाते हैं,
वैसे ही मूखों के मुह में नीतिवचन होता है ।
- ८ जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली,
वैसे ही मूख को महिमा देनी होती है ।
- ९ जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गडता है,
वैसे ही मूखों का कहा हुआ नीतिवचन भी दुःखदाई होता है ।
- १० जैसा कोई तीरन्दाज जो अकारण सब को मारता हो,
वैसा ही मूखों वा बटोहियों का मजदूरी में लगानेवाला भी होता है ।
- ११ जैसे कुत्ता अपनी छाँट को चाटता †
है,
वैसे ही मूख अपनी मूर्खता को दुहराता है ।
- १२ यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो,
तो उस से अधिक आशा मूख ही से है ।
- १३ आलसी कहता है, कि मार्ग में सिह है,
चौक में सिह है ।
- १४ जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है,
वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है ।
- १५ आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है,
परन्तु आलस्य के कारण कौर मुह तक नहीं उठाता ।
- १६ आलसी अपने को ठीक उत्तर देनेवाले सात मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है ।
- १७ जो मार्ग पर चलते हुए पराये भगड़े में विघ्न डालता है,
सो वह उसके समान है, जो कुत्ते को कानो से पकड़ता है ।
- १८ जैसा एक पागल जो जलती लकड़िया और मृत्यु के तीर फेंकता है,
१९ वैसा ही वह भी होता है जो अपने पडोसी को धोखा देकर कहता है, कि मैं तो ठट्ठा कर रहा था ।
- २० जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है,
उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करनेवाला नहीं वहाँ भगड़ा मिट जाता है ।
- २१ जैसा अगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है,
वैसा ही भगड़े के बढ़ाने के लिये भगड़ानू होता है ।

* मूल में—उपद्रव ।

† मूल में—छाँट की ओर फिरता ।

- २२ कानाफूसी करनेवाले के वचन,
स्वादिविष्ट भोजन के समान भीतर
उतर जाते हैं ।
- २३ जैसा कोई चान्दी का पानी चढ़ाया
हुआ मिट्टी का बर्तन हो,
वैसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे
वचन * होते हैं ।
- २४ जो बैरी बात से तो अपने को भोला
बनाता है,
परन्तु अपने भीतर छल रखता है,
२५ उसकी मीठी-मीठी बात प्रतीति न
करना,
क्योंकि उसके मन में सात घिनौनी
वस्तुएँ रहती हैं ;
२६ चाहे उसका बैर छल के कारण
छिप भी जाए,
तौभी उसकी बुराई सभा के बीच
प्रगट हो जाएगी ।
- २७ जो गडहा खोदे, वही उसी में गिरेगा,
और जो पत्थर लुढ़काए, वह उलट-
कर उसी पर लुढ़क आएगा ।
- २८ जिस ने किसी को भूठी बातों से
घायल किया हो वह उस से बैर
रखता है,
और चिकनी चुपड़ी बात बोलनेवाला
विनाश का कारण होता है ॥
- २७ कल के दिन के विषय में मत
फूल,
क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन
भर में क्या होगा ।
- २ तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे,
परन्तु तू आप न करना ;
दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परन्तु
तू अपनी सराहना न करना ।
- ३ पत्थर तो भारी है और बालू में
बोझ है,
परन्तु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी
भारी है ।
- ४ क्रोध तो क्रूर, और प्रकोप धारा के
समान होता है,
परन्तु जब कोई जल उठता है, तब
कौन ठहर सकता है ?
- ५ खुली हुई डांट
गुप्त प्रेम से उत्तम है ।
- ६ जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह
विश्वास योग्य है
परन्तु बैरी अधिक चुम्बन करता है ।
- ७ सन्तुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी
फोका लगता है * ,
परन्तु भूखे को सब कडवी वस्तुएँ भी
मीठी जान पड़ती हैं ।
- ८ स्थान छोड़कर घूमनेवाला मनुष्य
उस चिडिया के समान है,
जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती
है ।
- ९ जैसे तेल और सुगन्ध से,
वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर
सम्मति से मन आनन्दित होता है ।
- १० जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र
हो उसे न छोड़ना ;
और अपनी विपत्ति के दिन अपने
भाई के घर न जाना ।
प्रेम करनेवाला पड़ोसी, दूर रहनेवाले
भाई से कही उत्तम है ।
- ११ हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा
मन आनन्दित कर,
तब मैं अपने निन्दा करनेवाले को
उत्तर दे सकूँगा ।

* मूल में—जले हुए होंठ ।

* मूल में—तुम जीव छत्ता रौंदाता है ।

- १२ बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है;
परन्तु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं।
- १३ जो पराए का उत्तरदायी हो उसका कपडा,
और जो अनजान का उत्तरदायी हो उस से बन्धक की वस्तु ले ले।
- १४ जो भोर को उठकर अपने पडोसी को ऊचे शब्द से आशीर्वाद देता है,
उसके लिये यह शाप गिना जाता है।
- १५ झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना,
और भगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं;
- १६ जो उसको रोक रखे, वह वायु को भी रोक रखेगा
और दहिने हाथ से वह तेल पकडेगा।
- १७ जैसे लोहा लोहे को चमका देता है,
वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है।
- १८ जो अजीर के पेड की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है,
इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है।
- १९ जैसे जल में मुख की परछाईं मुख से मिलती है,
वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है।
- २० जैसे अधोलोक और विनाशलोक,
वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती।
- २१ जैसे चान्दी के लिये कुठई और सोने के लिये भट्टी हैं,
वैसे ही मनुष्य के लिये उसकी प्रशंसा है।
- २२ चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे,
तोभी उसकी मूर्खता नहीं जाने की।
- २३ अपनी भेड-बकरियों की दशा भली-भांति मन लगाकर जान ले,
और अपने सब पशुओं के भुएडों की देखभाल उचित रीति से कर,
- २४ क्योंकि सम्पत्ति सदा नहीं ठहरती,
और क्या राजमुकुट पीढी-पीढी चला जाता है ?
- २५ कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है,
पहाडों की हरियाली काटकर इकट्ठी की गई है;
- २६ भेडों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिये है,
और बकरो के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा;
- २७ और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भरके पिया करेगा,
और तेरी लौंगिडियों का भी जीवन-निर्वाह होता रहेगा ॥
- २८ दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं,
परन्तु धर्मी लोग जवान सिहों के समान निडर रहते हैं।
- २ देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं;
परन्तु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबन्ध बहुत दिन के लिये बना रहेगा।
- ३ जो निर्धन पुरुष कगालों पर अन्धेर करता है,

- वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजनवस्तु नहीं छोड़ती ।
- ४ जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं, वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परन्तु व्यवस्था पर चलनेवाले उन से लड़ते हैं ।
- ५ बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परन्तु यहोवा को दूढ़नेवाले सब कुछ समझते हैं ।
- ६ टेढ़ी चाल चलनेवाले धनी मनुष्य से खराई से चलनेवाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है ।
- ७ जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपूत होता है, परन्तु उड़ाऊ का सगी अपने पिता का मुह काला करता है ।
- ८ जो अपना धन ब्याज आदि बढती से बढ़ाता है, वह उसके लिये बटोरता है जो कगालों पर अनुग्रह करता है ।
- ९ जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है ।
- १० जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग में ले जाता है वह अपने खोदे हुए गडह में आप ही गिरता है; परन्तु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं ।
- ११ धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परन्तु समझदार कगाल उसका मर्म बूझ लेता है ।
- १२ जब धर्मी लोग जयवन्त होते हैं, तब बड़ी शोभा होती है, परन्तु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं,
- तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है* ।
- १३ जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सुफल नहीं होता, परन्तु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जायेगी ।
- १४ जो मनुष्य निरन्तर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है; परन्तु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पडता है ।
- १५ कंगाल प्रजा पर प्रभुता करनेवाला दुष्ट गरजनेवाले सिंह और घूमनेवाले रीछ के समान है ।
- १६ जो प्रधान मन्दबुद्धि का होता है, वही बहुत अन्धेर करता है; और जो लालच का बेरी होता है वह दीर्घायु होता है ।
- १७ जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो, वह भागकर गड़हे में गिरेगा; कोई उसको न रोकेगा ।
- १८ जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परन्तु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पडता है ।
- १९ जो अपनी भूमि को जोता-बोया करता है, उसका तो पेट भरता है, परन्तु जो निकम्मे लोगों की सगति करता है वह कगालपन से घिरा रहता है† ।
- २० सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं,

* मूल में—मनुष्य दूंदे जाते ।

† मूल में—आघाता ।

- परन्तु जो धनी होने में उतावली करता है, वह निर्दोष नहीं ठहरता ।
- २१ पक्षपात करना अच्छा नहीं;
और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिये अपराध करे ।
- २२ लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है,
और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा ।
- २३ जो किसी मनुष्य को डांटता है वह भ्रन्त में
चापलूसी करनेवाले से अधिक प्यारा हो जाता है ।
- २४ जो अपने मां-बाप को लूटकर कहता है कि कुछ अपराध नहीं,
वह नाश करनेवाले का संगी ठहरता है ।
- २५ लालची मनुष्य भगड़ा मचाता है,
और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्टपुष्ट हो जाता है ।
- २६ जो अपने ऊपर भरोसा रखता है,
वह मूर्ख है,
और जो बुद्धि से चलता है, वह बचता है ।
- २७ जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती,
परन्तु जो उस से दुष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता * है ।
- २८ जब दुष्ट लोग प्रबल † होते हैं तब तो मनुष्य बूढ़े नहीं मिलते,
परन्तु जब वे नाश हो जाते हैं, तब धर्मी उन्नति करते हैं ॥
- २९ जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है,
वह भ्रवानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा ।
- ३० जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं, तब प्रजा आनन्दित होती है;
परन्तु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय मारती है ।
- ३१ जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, अपने पिता को आनन्दित करता है,
परन्तु वेश्याओं की संगति करनेवाला धन को उड़ा देता है ।
- ३२ राजा न्याय से देश को स्थिर करता है,
परन्तु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है ।
- ३३ जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है,
वह उसके पैरों के लिये जाल लगाता है ।
- ३४ बुरे मनुष्य का अपराध फन्दा होता है,
परन्तु धर्मी आनन्दित होकर जय-जयकार करता है ।
- ३५ धर्मी पुरुष कंगालों के मुकद्दमे में मन लगाता है;
परन्तु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता ।
- ३६ ठट्ठा करनेवाले लोग नगर को फूक देते हैं,
परन्तु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठरड़ा करते हैं ।
- ३७ जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वादविवाद करता है,

* मूल में—छिपाता ।

† मूल में—खड़े ।

- तब वह मूढ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है, और वहा शान्ति नहीं रहती ।
- १० हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं,
और मीधे लोगो के प्राण की खोज करते हैं ॥
- ११ मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है,
परन्तु बुद्धिमान अपने मन को रोकता,
और शान्त कर देता है ।
- १२ जब हाकिम भूठी बात की ओर कान लगाता है,
तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं ।
- १३ निर्धन और अन्धेर करनेवाला पुरुष एक समान है;
और यहोवा दोनो की आखो में ज्योति देता है ।
- १४ जो राजा कगालो का न्याय सच्चाई से चुकाता है,
उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है ।
- १५ छडी और डाट से बुद्धि प्राप्त होनी है,
परन्तु जो लड़का योंही छोडा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है ।
- १६ दुष्टो के बढने से अपराध भी बढता है;
परन्तु अन्त में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते है ।
- १७ अपने बेटे की ताडना कर, तब उस से तुझे चैन मिलेगा;
और तेरा मन सुखी हो जाएगा ।
- १८ जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहा लोग निरंकुश हो जाते है,
- और जो व्यवस्था को मानता है,
वह धन्य होता है ।
- १९ दास बानों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता,
क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता ।
- २० क्या तू बाते करने में उतावली करनेवाले मनुष्य को देखता है ?
उस से अधिक तो मूर्ख ही से आशा है ।
- २१ जो अपने दास को उसके लड़कपन में सुकुमारपन में पालता है,
वह दास अन्त में उसका बेटा बन बैठता है ।
- २२ क्रोध करनेवाला मनुष्य भगड़ा मचाता है
और अत्यन्त क्रोध करनेवाला अपराधी भी होता है ।
- २३ मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है,
परन्तु नम्र आत्मावाला महिमा का अधिकारी होता है ।
- २४ जो चोर की सगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है;
शपथ खाने पर भी वह बात को प्रगट नहीं करता ।
- २५ मनुष्य का भय खाना फन्दा हो जाता * है,
परन्तु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढाया जाता है ।
- २६ हाकिम से भेट करना बहुत लोग चाहते हैं,
परन्तु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है ।

* मूल में—बेता ।

- २७ धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं,
और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलनेवाले से घृणा करता है ॥
- २० याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन ॥
उस पुरुष ने ईतीएल और उक्काल से यह कहा,
२ निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं; और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है ।
३ न मैं ने बुद्धि प्राप्त की है, और न परमपवित्र का ज्ञान मुझे मिला है ।
४ कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया ?
किस ने वायु को अपनी मुट्टी में बटोर रखा है ?
किस ने महासागर को अपने वस्त्र में बान्ध लिया है ?
किस ने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है ?
उसका नाम क्या है ? और उसके पुत्र का नाम क्या है ? यदि तू जानता हो तो बता ।
५ ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है,
वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है ।
६ उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा,
ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू भूठा ठहरे ॥
७ मैं ने तुझ से दो वर मागे हैं,
इसलिये मेरे मरने से पहिले उन्हें मुझे देने से मुह न मोड़ ।
- ८ अर्थात् व्यर्थ और भूठी बात मुझ से दूर रख;
मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना;
प्रति दिन की * रोटी मुझे खिलाया कर ।
९ ऐसा न हो, कि जब मेरा पेट भर जाए, तब मैं इन्कार करके कहूँ कि यहोवा कौन है ?
वा अपना भाग खोकर चोरी कलं, और अपने परमेस्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ ॥
१० किसी दास की, उसके स्वामी से चुगली न करना,
ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे, और तू दोषी ठहराया जाए ॥
११ ऐसे लोग हैं, जो अपने पिता को शाप देते
और अपनी माता को धन्य नहीं कहते ।
१२ ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं,
तौभी उनका मेल धोया नहीं गया ।
१३ एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं—उनकी दृष्टि क्या ही घमण्ड से भरी रहती है,
और उनकी आंखें कैंसी चड़ी हुई रहती हैं ।
१४ एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़े छुरिया हैं,
जिन से वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से, और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले ॥

* मूल में—मेरे भाग की ।

- १५ जैसे जोंक की दो बेटिया होती हैं,
जो कहती हैं दे, दे,
वैसे ही तीन वस्तुएँ हैं, जो तृप्त
नहीं होतीं;
वरन चार हैं, जो कभी नहीं कहती,
बस ।
- १६ अघोलोक और बांभ की कोख,
भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नहीं
होती,
और आग जो कभी नहीं कहती,
बस ॥
- १७ जिस आख से कोई अपने पिता पर
अनादर की दृष्टि करे,
और अपमान के साथ अपनी माता
की आज्ञा न माने,
उस आख को तराई के कौबे खोद
खोदकर निकालेंगे,
और उकाब के बच्चे खा डालेंगे ॥
- १८ तीन बातें मेरे लिये अधिक कठिन हैं,
वरन चार हैं, जो मेरी समझ से
परे हैं :
- १९ आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग,
चट्टान पर सर्प की चाल,
समुद्र में जहाज की चाल,
और कन्या के सग पुरुष की चाल ॥
- २० व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी
ही है;
वह भोजन करके मुंह पोंछती,
और कहती है, मैं ने कोई अनर्थ
काम नहीं किया ॥
- २१ तीन बातों के कारण पृथ्वी कापती
है,
वरन चार हैं, जो उस से सही नहीं
जाती :
- २२ दास का राजा हो जाना,
मूढ़ का पेट भरना,
- २३ धिनौनी स्त्री का व्याहा जाना,
और दासी का अपनी स्वामिन की
वारिस होना ॥
- २४ पृथ्वी पर चार छोटे जन्तु हैं,
जो अत्यन्त बुद्धिमान हैं :
- २५ च्यूटिया निबल जाति तो है,
परन्तु धूपकाल में अपनी भोजनवस्तु
बटोरती हैं,
- २६ शापान बली जाति नहीं,
तौभी उनकी मान्दे पहाड़ों पर होती
है;
- २७ टिट्टियों के राजा तो नहीं होता,
तौभी वे सब की सब दल बान्ध
बान्धकर पयान करती हैं ;
- २८ और छिपकली हाथ से पकड़ी तो
जाती है,
तौभी राजभवनों में रहती है ॥
- २९ तीन सुन्दर चलनेवाले प्राणी हैं ;
वरन चार हैं, जिन की चाल सुन्दर है :
- ३० सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है,
और किसी के डर से नहीं हटता ;
- ३१ शिकारी कुत्ता और बकरा,
और अपनी सेना समेत राजा ॥
- ३२ यदि तू ने अपनी बड़ाई करने की
मूढती की,
वा कोई बुरी युक्ति बान्धी हो,
तो अपने मुह पर हाथ धर ।
- ३३ क्योंकि तैम दूध के मधने से मक्खन,
और नाक के मरोडने से लोह
निकलता है,
वैसे ही क्रोध के भडकाने से भगडा
उत्पन्न होता है ॥
- ३१ लमूएल राजा के प्रभावशाली
वचन,
जो उसकी माता ने उसे सिखाए ॥

- २ हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र !
हे मेरी मन्त्रों के पुत्र !
- ३ अपना बल स्त्रियों को न देना,
न अपना जीवन उनके वश कर देना
जो राजाओं का पौरुष खो देती है ।
- ४ हे लमूएल, राजाओं का दाखमघु
पीना उनको शोभा नहीं देता,
और मदिरा चाहना, रईसों को नहीं
फबता ;
- ५ ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था
को भूल जाए
और किसी दुःखी के हक को मारे ।
- ६ मदिरा उसको पिलाओ जो मरने
वर है,
और दाखमघु उदास मनवालों को
ही देना ;
- ७ जिस से वे पीकर अपनी दरिद्रता
को भूल जाएं
और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण
न करे ।
- ८ गूगे के लिये अपना मुंह खोल,
और सब अनार्थों का न्याय उचित
रीति से किया कर ।
- ९ अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय
कर,
और दीन दरिद्रों का न्याय कर ॥
- १० भली पत्नी कौन पा सकता है ?
क्योंकि उसका मूल्य मूर्खों से भी
बहुत अधिक है ।
उसके पति के मन में उसके प्रति
विश्वास है,
- ११ और उसे लाभ की घटी नहीं होती ।
- १२ वह अपने जीवन के सारे दिनों में
उस से बुरा नहीं, वरन भला ही
व्यवहार करती है ।
- १३ वह ऊन और सन डूँड डूँडकर,
अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम
करती है ।
- १४ वह व्योपार के जहाजों की नाई,
अपनी भोजनवस्तुएं दूर से मंगवाती
है ।
- १५ वह रात ही को उठ बैठती है,
और अपने घराने को भोजन खिलाती
है
और अपनी लौरिडियों को अलग
अलग काम देती है ।
- १६ वह किसी खेत के विषय में सोच
विचार करती है और उसे मोल
ले लेती है ;
और अपने परिश्रम के फल से दाख
की बारी लगाती है ।
- १७ वह अपनी कटि को बल के फटे से
कसती है,
और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती
है ।
- १८ वह परख लेती है कि मेरा व्योपार
लाभदायक है ।
रात को उसका दिया नहीं बुझता ।
- १९ वह अटेरन में हाथ लगाती है,
और चरखा पकड़ती है ।
- २० वह दीन के लिये मुट्टी खोलती
है,
और दरिद्र के संभालने को हाथ
बढ़ाती है ।
- २१ वह अपने घराने के लिये हिम से
नहीं डरती,
क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल
कपड़े पहिनते हैं ।
- २२ वह तकिये बना लेती है ;
उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बेजनी
रंग के होते हैं ।

- २३ जब उसका पति सभा * में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सन्मान होता है ।
- २४ वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है; और व्योपारी को कमरबन्द देती है ।
- २५ वह बल और प्रताप का पहिरावा पहिने रहती है, और आनेवाले काल के विषय पर हंसती है ।
- २६ वह बुद्धि की बात बोलती है, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं ।
- २७ वह अपने घराने के चालचलन को ध्यान से देखती है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती ।
- २८ उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं; उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है :
- २९ बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परन्तु तू उन सबों में श्रेष्ठ है ।
- ३० शोभा तो भूठी और सुन्दरता व्यर्थ * है, परन्तु जो स्त्री यहीवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी ।
- ३१ उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी † ॥

* मूल में—सांस ।

† मूल में—उसके काम फाटकों में उसकी खुति करें ।

* मूल में—फाटकों ।

सभोपदेशक

१ यरूशलेम के राजा, दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन । २ उपदेशक का यह वचन है, कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ ! सब कुछ व्यर्थ है । ३ उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर * करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है ? ४ एक पीढ़ी जाती है,

* मूल में—सूरज के नीचे ।

और दूसरी पीढ़ी आती है, परन्तु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है । ५ सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है, और अपने उदय की दिशा को बेग से चला जाता है । ६ वायु दक्खिन की ओर बहती है, और उत्तर की ओर घूमती जाती है; वह घूमती और बहती रहती है, और अपने चक्करों में लौट आती है । ७ सब नदियां

समुद्र में जा मिलती है, तभी समुद्र भर नहीं जाता; जिस स्थान से नदियां निकलती हैं, उधर ही को वे फिर जाती हैं। ८ सब बातें परिश्रम से भरी हैं; मनुष्य इसका बर्णन नहीं कर सकता, न तो आँखें देखने से तृप्त होती हैं, और न कान सुनने से भरते हैं। ९ जो कुछ हुआ था, वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। १० क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। ११ प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होनेवाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होनेवालों को न रहेगा ॥

१२ मैं उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था। १३ और मैं ने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है, उसका भेद बुद्धि से सोच सोचकर मालूम करूँ, यह बड़े दुःख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिये ठहराया है कि वे उस में लगे। १४ मैं ने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं; देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। १५ जो टेढ़ा है, वह सीधा नहीं हो सकता, और जितनी वस्तुओं में घटी है, वे गिनी नहीं जाती ॥

१६ मैं ने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझ से पहिले थे, उन सभों से मैं ने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है; और मुझ को बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। १७ और मैं ने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूँ और बाबलेपन और मूर्खता को भी जान लूँ। मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है ॥

१८ क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है,
और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह
अपना दुःख भी बढ़ाता है ॥

२ मैं ने अपने मन से कहा, चल, मैं तुझ को आनन्द के द्वारा जाँचूँगा; इसलिये आनन्दित और मगन हो। परन्तु देखो, यह भी व्यर्थ है। २ मैं ने हँसी के विषय में कहा, यह तो बाबलापन है, और आनन्द के विषय में, उस से क्या प्राप्त होता है? ३ मैं ने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने से क्योंकि बहलाऊँ और क्योंकि मूर्खता को धामे रहूँ, जब तक मालूम न करूँ कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। ४ मैं ने बड़े बड़े काम किए, मैं ने अपने लिये घर बनवा लिए और अपने लिये दाख की बारिया लगवाई, ५ मैं ने अपने लिये बारियाँ और बाग लगवा लिए, और उन में भाति भाति के फलदाई वृक्ष लगाए। ६ मैं ने अपने लिये कुएँ खुदवा लिए कि उन से वह बन सीचा जाए जिस में पौधे लगाए जाते थे। ७ मैं ने दास और दासिया मोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए; और जितने मुझ से पहिले यरूशलेम में थे उन से कहीं अधिक गाय-बैल और भेड़-बकरियों का मैं स्वामी था। ८ मैं ने चान्दी और सोना और राजाओं और प्रान्तों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया; मैं ने अपने लिये गवैयों और गानेवालों को रखा, और बहुत सी कामिनिया भी, जिन से मनुष्य सुख पाते हैं, अपनी कर लीं ॥

६ इस प्रकार मैं अपने से पहिले के सब यरूशलेमवासियों से अधिक महान और घनाढ्य हो गया; तीभी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। १० और जितनी वस्तुओं के देखने की मैं ने लालसा की, उन सभी को देखने से मैं न रुका, मैं ने अपना मन किसी प्रकार का आनन्द भोगने से न रोका क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनन्दित हुआ; और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। ११ तब मैं ने फिर से अपने हाथों के सब कामों को, और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और ससार में * कोई लाभ नहीं।

१२ फिर मैं ने अपने मन को फेरा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखू; क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा, वह क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है। १३ तब मैं ने देखा कि उजियाला अधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। १४ जो बुद्धिमान है, उसके सिर में आखे रहती है, परन्तु मूर्ख अधियारे में चलता है; तीभी मैं ने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। १५ तब मैं ने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी, वैसी ही मेरी भी होगी; फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ? और मैं ने मन में कहा, यह भी व्यर्थ ही है। १६ क्योंकि न तो बुद्धिमान का और न मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परन्तु भविष्य में सब कुछ बिसर जाएगा। १७ बुद्धिमान क्योंकर मूर्ख के समान मरता है! इसलिये

* मूल में—सूरज के नीचे।

मैं ने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है।

१८ मैं ने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैं ने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि भ्रवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिये छोड़ जाऊँ जो मेरे बाद आएगा। १९ यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा वा मूर्ख? तीभी धरती पर जितना परिश्रम मैं ने किया, और उसके लिये युद्ध प्रयोग की उस सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। २० तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैं ने धरती पर * किया था निराश हुआ, २१ क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है, जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तीभी उसको ऐसे मनुष्य के लिये छोड़ जाना पड़ता है, जिस ने उस में कुछ भी परिश्रम न किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। २२ मनुष्य जो धरती पर * मन लगा लगाकर परिश्रम करता है उस से उसको क्या लाभ होता है? २३ उसके सब दिन तो दुःखों से भरे रहते हैं, और उसका काम खेद के साथ होता है; रात को भी उसका मन अैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है।

२४ मनुष्य के लिये खाने-पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैं ने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है; २५ क्योंकि खाने-पीने

* मूल में—सूरज के नीचे।

और सुख भोगने में मुझ से अधिक समर्थ कौन है ? २६ जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनन्द देता है; परन्तु पापी को वह दुःखभरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिये सच्य करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है ॥

३ हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का, जो आकाश के नीचे * होता है, एक समय है। २ जन्म का समय, और मरन का भी समय; बोनो का समय, और बोन हुए को उखाड़ने का भी समय है; ३ घात करने का समय, और चगा करने का भी समय; ढा देने का समय, और बनाने का भी समय है; ४ रोनो का समय, और हंसने का भी समय; छाती पीटने का समय, और नाचने का भी समय है; ५ पत्थर फेकने का समय, और पत्थर बटोरने का भी समय; गले लगाने का समय, और गले लगाने से रकने का भी समय है; ६ दूँड़ने का समय, और खो देने का भी समय; बचा रखने का समय, और फेक देने का भी समय है; ७ फाड़ने का समय, और सीने का भी समय; चुप रहने का समय, और बोलने का भी समय है; ८ प्रेम करने का समय, और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय, और मेल का भी समय है। ९ काम करनेवाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है ?

१० मैं ने उस दुःखभरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिये

ठहराया है कि वे उस में लगे रहे। ११ उस ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुन्दर होते हैं; फिर उस ने मनुष्यों के मन में अनादि-अनन्त काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तीसरी जो काम परमेश्वर ने किया है, वह आदि से अन्त तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। १२ मैं ने जान लिया है कि मनुष्यों के लिये आनन्द करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय, और कुछ भी अच्छा नहीं; १३ और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए-पीए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। १४ मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उस में कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है; परमेश्वर ऐसा इसलिये करता है कि लोग उसका भय मानें। १५ जो कुछ हुआ वह इस से पहिले भी हो चुका; जो होनेवाला है, वह ही भी चुका है; और परमेश्वर बीती * हुई बात को फिर पूछता है ॥

१६ फिर मैं ने संसार में † क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है, और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। १७ मैं ने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहां एक एक विषय और एक एक काम का समय है। १८ मैं ने मन में कहा कि यह इसलिये होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे और कि वे देख सके कि वे पशु-समान हैं। १९ क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी

* मूल में—हांक दी।

† मूल में—सरज के नीचे।

दशा होती है; दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सभीों की स्वांस एक सी है, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं; सब कुछ व्यर्थ ही है। २० सब एक स्थान में जाते हैं; सब मिट्टी से बने हैं, और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। २१ क्या मनुष्यो का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? २२ सो मैं ने यह देखा कि इस से अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनन्दित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे होनेवाली बातों को देखने के लिये उसको लौटा लाएगा?

४ तब मैं ने वह सब अन्धेर देखा जो ससार में * होता है। और क्या देखा, कि अन्धेर महनेवालो के आसू बह रहे हैं, और उनको कोई शान्ति देनेवाला नहीं! अन्धेर करनेवालो के हाथ में शक्ति थी, परन्तु उनको कोई शान्ति देनेवाला नहीं था। २ इसलिये मैं ने मरे हुआओं को जो मर चुके हैं, उन जीवतो से जो अब तक जीवित हैं अधिक सराहा; ३ वरत उन दोनों से अधिक सुभागी वह है जो अब तक हुआ ही नहीं, न ये बुरे काम देखे जो ससार में * होते हैं ॥

४ तब मैं ने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है ॥

५ मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता *, और अपना मास खाता है ॥

६ चैन के साथ एक मृट्टी उन दो मृट्टियों से अच्छा है, जिनके साथ परिश्रम और मन का कुढ़ना हो ॥

७ फिर मैं ने धरती पर † यह भी व्यर्थ बात देखी। ८ कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है; न उसके बेटा है, न भाई है। तीभी उसके परिश्रम का अन्त नहीं होता; न उसकी आखे धन से मन्तुष्ट होती हैं, और न वह कहता है, मैं किस के लिये परिश्रम करता और अपने जीवन को सुखरहित रखता हूँ? यह भी व्यर्थ और निरा दुःखभरा काम है ॥

९ एक में दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। १० क्योंकि यदि उन में से एक गिरे, तो दूसरा उमको उठाएगा, परन्तु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठानेवाला न हो। ११ फिर यदि दो जन एक सग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परन्तु कोई अकेला क्योंकि गर्म हो सकता है? १२ यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परन्तु दो उमका साम्हना कर सकेंगे। जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती ॥

१३ बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे, १४ चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बन्दीगृह से निकलकर राजा हुआ हो। १५ मैं ने सब जीवतों को जो धरती पर † चलते फिरते हैं देखा

* मूल में—दोनों हाथ मिलाना।

† मूल में—सुरज के नीचे।

* मूल में—सुरज के नीचे।

कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिये हैं जो उनका स्थान लेने के लिये खड़ा हुआ। १६ वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था। तौभी भविष्य में होनेवाले लोग उसके कारण आनन्दित न होंगे। नि सन्देह यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है ॥

५ जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना * ; मुनने के लिये समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। २ बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के साम्हने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिये तेरे वचन थोड़े ही हों ॥

३ क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलनेवाला मूर्ख ठहरता है ॥

४ जब तू परमेश्वर के लिये मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तू ने मानी हो उसे पूरी करना। ५ मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। ६ कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फँसाना, और न ईश्वर के दूत के साम्हने कहना कि यह भूल से हुआ, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो, और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे ?

७ क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है : परन्तु तू परमेश्वर का भय मानना ॥

८ यदि तू किसी प्रान्त में निर्धनों पर अन्धेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे, तो इस से चकित न होना ; क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की मुधि रहती है, और उन से भी और अधिक बड़े रहते हैं।

९ भूमि की उपज सब के लिये है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है ॥

१० जो रुपये में प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है, लाभ से यह भी व्यर्थ है ॥

११ जब सम्पत्ति बढ़ती है, तो उसके खानेवाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस सम्पत्ति को अपनी आँखों से देखे ?

१२ परिश्रम करनेवाला चाहे थोड़ा खाए, या बहुत, तौभी उसकी नीद सुखदाई होती है, परन्तु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नीद नहीं आती ॥

१३ मैं ने धरती पर * एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात् वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिये रखा हो, १४ और वह किसी बुरे काम में उड जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परन्तु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। १५ जैसा वह मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा; नगा ही, जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। १६ यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया, ठीक वैसा ही वह जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है ?

* मूल में—अपने पैर की रक्षा करना।

* मूल में—सूरज के नीचे।

१७ केवल इसके कि उस ने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया, और बहुत ही दुःखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा ?

१८ सुन, जो अली बात में ने देखी है, वरन जो उचित है, वह यह कि मनुष्य खाए और पीए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। १९ वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन सम्पत्ति दी हो, और उन से आनन्द भोगने और उस में से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनन्द करने की शक्ति भी दी हो—यह परमेश्वर का वरदान है। २० इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनन्दमय रखता है ॥

एक बुराई जो मैं ने धरती पर * देखी है, वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है. २ किसी मनुष्य को परमेश्वर धन सम्पत्ति और प्रतिष्ठा यहा तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तौभी परमेश्वर उसको उस में से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है, यह व्यर्थ और भयानक दुःख है। ३ यदि किसी पुरुष के सी पुत्र हो, और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ जाए, परन्तु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अन्तिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हू कि ऐसे मनुष्य से अग्रूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है।

* मूल में—सूरज के नीचे।

४ क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अन्धेरे में चला गया, और उसका नाम भी अन्धेरे में छिप गया, ५ और न सूर्य को देखा, न किसी चीज को जानने पाया; तौभी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। ६ हा चाहे वह दो हजार वर्ष जीवित रहे, और कुछ सुख भोगने न पाए, तो उसे क्या? क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते ?

७ मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिये होता है तौभी उसका मन नहीं भरता। ८ जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढकर है? और कगाल जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिये, वह भी उस से किस बात में बढकर है? ९ आखों से देख लेना मन की चचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कुठना है ॥

१० जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरम्भ से रखा गया है, और यह प्रगट है कि वह आदमी * है, कि वह उस से जो उस से अधिक शक्तिमान है भगड़ा नहीं कर सकता है। ११ बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? १२ क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई की नाई बिताता है कौन जानता है कि उसके लिये अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा ?

अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। २ जेवनार के घर जाने से शोक

* अर्थात् मिट्टी का बना हुआ।

ही के घर जाना उत्तम है; क्योंकि सब मनुष्यों का अन्त यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। ३ हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुह पर के शोक से मन सुधरता है। ४ बुद्धिमानों का मन शोक करनेवालों के घर की ओर लगा रहता है परन्तु मूर्खों का मन आनन्द करनेवालों के घर लगा रहता है। ५ मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुडकी सुनना उत्तम है। ६ क्योंकि मूर्ख की हंसी हाडी के नीचे जलते हुए काटों की चरचराहट के समान होती है; यह भी व्यर्थ है। ७ निश्चय अन्धेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है, और घूस से बुद्धि नाश होती है। ८ किसी काम के आरम्भ से उसका अन्त उत्तम है; और धीरजवन्त पुरुष गर्वी से उत्तम है। ९ अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। १० यह न कहना, बीते दिन इन से क्यों उत्तम थे? क्योंकि यह तू बुद्धिमानों से नहीं पूछता। ११ बुद्धि बपीती के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित * रहनेवालों के लिये लाभकारी है। १२ क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देता है; परन्तु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखनेवालों के प्राण की रक्षा होती है। १३ परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उस ने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है?

१४ सुख के दिन सुख मान, और दुःख के दिन सोच; क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही सग रखा है, जिस से

* मूल में—सर्व के देखनेहारों।

मनुष्य अपने बाद होनेवाली किसी बात को न भूझ सके ॥

१५ अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा है; कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। १६ अपने को बहुत धर्मी न बना, और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? १७ अत्यन्त दुष्ट भी न बन, और न मूर्ख हो; तू क्यों अपने समय से पहले मरे? १८ यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे, और उस बात पर से भी हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा ॥

१९ बुद्धि ही से नगर के दस हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। २० निःसन्देह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिस से पाप न हुआ हो ॥

२१ जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुम्ही को शाप देता है।

२२ क्योंकि तू आप जानता है कि तू ने भी बहुत बेर औरों को शाप दिया है ॥

२३ यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है; मैंने कहा, मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा; परन्तु यह मुझ से दूर रहा। २४ वह जो दूर और अत्यन्त गहिरा है, उसका भेद कौन पा सकता है? २५ मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लू; कि खोज निकालू और उसका भेद जानू, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो निरा बावलापन है जानू।

२६ और मैं ने मृत्यु से भी अधिक दुःखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात् वह स्त्री जिसका मन फन्दा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं; (जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उस से बचेगा, परन्तु पापी उसका शिकार होगा) । २७ देख, उपदेशक कहता है, मैं ने ज्ञान के लिये भ्रमण भ्रमण बाते मिलाकर जाची, और यह बात निकाली, २८ जिसे मेरा मन अब तक बूढ़ रहा है, परन्तु नहीं पाया । हजार में से मैं ने एक पुरुष को पाया, परन्तु उन में एक भी स्त्री नहीं पाई । २९ देखो, मैं ने केवल यह बात पाई है, कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परन्तु उन्हों ने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं ॥

८ बुद्धिमान के तुल्य कौन है ? और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है ? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता, और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है ।

२ मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान । ३ राजा के साम्हने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हठ करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है । ४ क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उस से कह सकता है कि तू क्या करता है ? ५ जो आज्ञा को मानता है, वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है । ६ क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुःख उसके लिये * बहुत भारी होता है । ७ वह नहीं

जानता कि क्या होनेवाला है, और कब होगा ? यह उसको कौन बता सकता है ? ८ ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है; और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं । ९ जितने काम धरती पर * किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैं ने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है ॥

१० तब मैं ने दुष्टों को गाड़े जाते देखा; अर्थात् उनकी तो कन्न बनी, परन्तु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्रस्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा; यह भी व्यर्थ ही है । ११ बुरे काम के दरद की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती; इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है । १२ चाहे पापी सौ बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तीर्थी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने तईं उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा; १३ परन्तु दुष्ट का भला नहीं होने का, और न उसकी जीवनरूपी छाया लम्बी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता ॥

१४ एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात् ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिये, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है

* मूल में—ऊपर ।

* मूल में—सुरज के नीचे ।

जो धर्मियों की होनी चाहिये। मैं ने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। १५ तब मैं ने भ्रानन्द को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिये खाने-पीने और भ्रानन्द करने को छोड़ और कुछ भी प्रच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिये धरती पर * ठहराए, उसके परिश्रम में उसके सग बना रहेगा ॥

१६ जब मैं ने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिये जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया, कि कैसे मनुष्य रात-दिन जागते रहते हैं; १७ तब मैं ने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी चाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी सौज में कितना भी परिश्रम करे, तीभी उसको न जान पाएगा; और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तीभी वह उसे न पा सकेगा ॥

६ यह सब कुछ मैं ने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं, कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में हैं; मनुष्य के प्रागे सब प्रकार की बातें हैं परन्तु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है व बेर। २ सब बातें सभी को एक समान होती हैं, धर्मी हो या दुष्ट, भले, दुष्ट या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करनेवाले, सभी की दशा एक ही सी होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा, वैसी ही पापी की दशा; जैसी शपथ खानेवाले की दशा, वैसी ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। ३ जो कुछ

सूर्य के नीचे किया जाता है उस में यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है; और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुए में जा मिलते हैं। ४ उसको परन्तु जो सब जीवितों में है, उसे आशा है, क्योंकि जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। ५ क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परन्तु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण भिट गया है। ६ उनका प्रेम और उनका बेर और उनकी आश नाश हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उस में सदा के लिये उनका और कोई भाग न होगा ॥

७ अपने मांग पर चला जा, अपनी रोटी भ्रानन्द से खाया कर, और मन में सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर; क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है ॥

८ तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो ॥

९ अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उस ने सूर्य के नीचे तेरे लिये ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। १० जो काम तुझे * मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जानेवाला है, न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है ॥

* मूल में—सूरज के नीचे।

* मूल में—तेरे हाथ को करने के लिये।

११ फिर मैं ने धरती पर * देखा कि न तो दौड़ में बेग दौड़नेवाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते; न बुद्धिमान लोग रोटी पाते न समझवाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है; वे सब समय और संयोग के वश में हैं। १२ क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलिया दुखदाई जाल में बन्ती और चिड़ियों फन्दे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है, फंस जाते हैं।

१३ मैं ने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। १४ एक छोटा सा नगर था, जिस में थोड़े ही लोग थे; और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, और उसके विरुद्ध बड़े बड़े धुस बनवाए। १५ परन्तु उस में एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उस ने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तौभी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। १६ तब मैं ने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता तौभी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है।

१७ बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वे मूर्खों के बीच प्रभुता करनेवाले के चिल्ला चिल्लाकर कहने से अधिक सुने जाते हैं। १८ लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परन्तु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है।

१० मरी हुई मक्खियों के कारण गन्धी का तेल सड़ने और बसाने लगता है; और थोड़ी सी मूर्खता

* मूर्ख मैं—मरज के नीचे।

बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। २ बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है परन्तु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। ३ वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वह सब से कहता है, मैं मूर्ख हूँ।

४ यदि हाकिम का क्रोध तुम्ह पर भड़के, तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रूकते हैं।

५ एक बुराई है जो मैं ने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है : ६ अर्थात् मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं, और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। ७ मैं ने दासों को घोड़ों पर चढ़े, और रईसों को दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है।

८ जो गडहा खोदे वह उस में गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। ९ जो पत्थर फोड़े, वह उन से घायल होगा, और जो लकड़ी काटे, उसे उसी से डर होगा। १० यदि कुल्हाड़ा धोषा हो और मनुष्य उसकी धार को पानी न करे, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा; परन्तु सफल होने के लिये बुद्धि से लाभ होता है। ११ यदि मंत्र से पहिले सर्प डसे, तो मंत्र पढ़नेवाले को कुछ भी लाभ नहीं।

१२ बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परन्तु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। १३ उसकी बात का आरम्भ मूर्खता का, और उनका अन्त दुखदाई बाबलापन होता है। १४ मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है, तौभी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा, और कौन बता सकता है कि उसके बाद क्या होनेवाला है? १५ मूर्ख को

परिश्रम से थकावट ही होती है, यहां तक कि वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए।

१६ हे देश, तुझ पर हाथ जब तेरा राजा लडका है और तेरे हाकिम प्रातःकाल भोज करते हैं! १७ हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन है; और तेरे हाकिम समय पर भोज करते हैं, और वह भी मतवाले होने को नहीं बरन बल बढ़ाने के लिये! १८ आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती हैं, और हाथों की सुस्ती से घर चूता है। १९ भोज हंसी खुशी के लिये किया जाता है, और दास्यमधु से जीवन को आनन्द मिलता है; और रूपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। २० राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा, और कोई उड़ानेवाला जन्तु उस बात को प्रगट कर देगा।

११ अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। २ सात वरन आठ जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। ३ यदि बादल जल भरे हैं, तब उसको भूमि पर उरडेल देते हैं; और वृक्ष चाहे दक्खिन की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तौभी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा, वही पड़ा रहेगा। ४ जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा; और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। ५ जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से

गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है।

६ भोर को अपना बीज बो, और सांभ को भी अपना हाथ न रोक; क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सुफल होगा, यह या वह, वा दोनों के दोनों अच्छे निकलेगे।

७ उजियाला मनभावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है।

८ यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे, तो उन सभों में आनन्दित रहे, परन्तु यह स्मरण रख कि अग्निधारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है।

९ हे जवान, अपनी जवानी में आनन्द कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परन्तु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।

१० अपने मन से खेद और अपनी देह से दुःख दूर कर, क्योंकि लडकपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। १ अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इस से पहिले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएँ, जिन में तू कहे कि मेरा मन इन में नहीं लगता। २ इस से पहिले कि सूर्य और प्रकाश और चन्द्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएँ, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएँ, ३ उस समय घर के पहलव्ये कापेंगे, और बलवन्त भुक् जायेंगे, और पिसनहारिया थोड़ी रहने के कारण काम छोड देगी, और भरोखों में से देखनेवालियां अन्धी हो जाएगी, ४ और सडक की ओर के किवाड़ बन्द होंगे, और चक्की पीसने

का शब्द धीमा होगा, और तडके चिडिया बोलते ही एक उठ जाएगा *, और सब गानेवालों का शब्द धीमा हो जाएगा † ।
 ५ फिर जो ऊँचा हो उस से भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएँ मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिट्ठी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ानेवाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जायेगा, और रोने पीटनेवाले सड़क-सड़क फिरेंगे ।
 ६ उस समय चान्दी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घडा फूटेगा, और कुण्ड के पास रहट टूट जाएगा, ७ तब मिट्टी ज्यों की त्यो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिस ने उसे दिया लौट जाएगी ।
 ८ उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ; सब कुछ व्यर्थ है ॥

* मूल में—नीद से बठ जायेगा ।

† मूल में—गाने बजाने की सब बेटियाँ नीची की जायँगी ।

९ उपदेशक जो बुद्धिमान था, वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और ध्यान लगाकर और पूछपाछ करके बहुत से नीतिवचन क्रम से रखता था ।
 १० उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सीधार्ई से ये सच्ची बातें लिख दी ॥

११ बुद्धिमानों के वचन पैने के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों के वचन गाडी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं ।
 १२ हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख । बहुत पुस्तकों की रचना का अन्त नहीं होता, और बहुत पढना देह को थका देता है ॥

१३ सब कुछ सुना गया; अन्त की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर; क्योंकि मनुष्य का सम्पूर्ण कर्तव्य यही है ।
 १४ क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा ॥

श्रेष्ठगीत

१

श्रेष्ठगीत जो सुलैमान का है ॥

२ वह अपने मुह के चुम्बनों से मुझे चूमे !

क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है,

३ तेरे भाँति भाँति के इत्रों का सुगन्ध उत्तम है,

तेरा नाम उडले हुए इत्र के तुल्य है ;
 इसीलिये कुमारियाँ तुझ से प्रेम रखती हैं ।

४ मुझे खीच ले ; हम तेरे पीछे दौड़ेंगे ।
 राजा मुझे अपने महल में ले आया है ।

- हम तुझ मे मगन और आनन्दित होंगे;
हम दाखमघु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे;
वे ठीक ही तुझ से प्रेम रखती है ॥
- ५ हे यरूशलेम की पुत्रियों,
में काली तो हूँ परन्तु सुन्दर हूँ,
केदार के तम्बुओं के
और सुलैमान के पदों के तुल्य हूँ ।
- ६ मुझे इसलिये न घूर कि मैं साँवली हूँ,
क्योंकि मैं धूप से झुलस गई * ।
मेरी माता के पुत्र मुझ से अप्रसन्न थे,
उन्होंने ने मुझ को दाख की बारियों की रखवालिन बनाया;
परन्तु मैं ने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की !
- ७ हे मेरे प्राणप्रिय मुझे बता,
तू अपनी भेड़-बकरियाँ कहा चराता है,
दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठता है;
मैं क्यों तेरे सगियों की भेड़-बकरियों के पास घूँघट काढ़े हुए भटकती फिरूँ ?
- ८ हे स्त्रियों में सुन्दरी, यदि तू यह न जानती हो
तो भेड़-बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल,
और चरवाहों के तम्बुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा ॥
- ९ हे मेरी प्रिय मैं ने तेरी तुलना फिरोन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है ।
- १० तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुन्दर है, और
तेरा कण्ठ हीरों की लड़ों के बीच ।
- ११ हम तेरे लिये चान्दी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे ॥
- १२ जब राजा अपनी भेड़ के पास ब्रंठा था
मेरी जटामासी की सुगन्ध फैल रही थी ।
- १३ मेरा प्रेमी मेरे लिये लोबान की थैली के समान है
जो मेरी 'खातियों के बीच में पड़ी रहती है ॥
- १४ मेरा प्रेमी मेरे लिये मेहदी के फूलों के गुच्छे के समान है,
जो एनगदी की दाख की बारियों में होता है ॥
- १५ तू सुन्दरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुन्दरी है;
तेरी आखें कबूतरी की सी हैं ।
- १६ हे मेरी प्रिय तू सुन्दर और मनभावनी है ।
और हमारा बिछौना भी हरा है;
- १७ हमारे घर के बरगे देवदार हैं
और हमारी छत की कड़ियाँ सनौवर हैं ॥
- २ मैं शारोन देश का गुलाब
और तराइयों में का सोसन फूल हूँ ॥
- २ जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच
बैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है ॥
- ३ जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में,

* मूल में—सूर्य ने मुझे जलाया ।

- बैसे ही मेरा प्रेमी जवानो के बीच
मे है ।
मं उसकी छाया मे हर्षित होकर बैठ
गई,
और उसका फल मुझे खाने मे मीठा
लगा ।
- ४ वह मुझे भोज के घर मे ले आया,
और उसका जो झन्डा मेरे ऊपर
फहराता था वह प्रेम था ।
- ५ मुझे सूखी दाखों से सभालो, मेव
खिलाकर बल दो,
क्योंकि मैं प्रेम मे रोगी हू ।
- ६ काश, उसका बायां हाथ मेरे सिर
के नीचे होता,
और अपने दहिने हाथ से वह मेरा
आलिंगन करता ।
- ७ हे यरूशलेम की पुत्रियो, मैं तुम से
चिकारियों और मैदान की हरिरणियों
की शपथ धराकर कहती हू,
कि जब तक प्रेम आप से न उठे,
तब तक उसको न उसकाओ न
जगाओ ॥
- ८ मेरे प्रेमी का शब्द सुन पडता है !
देखो, वह पहाड़ों पर कूदता और
पहाड़ियों को फान्दता हुआ आता
है ।
- ९ मेरा प्रेमी चिकारे वा जवान हरिण
के समान है ।
देखो, वह हमारी भीत के पीछे
खडा है,
और खिडकियों की ओर ताक रहा है,
और झंझरी मे से देख रहा है ।
- १० मेरा प्रेमी मुझ से कह रहा है,
हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुन्दरी, उठकर
चली आ,
११ क्योंकि देख, जाडा जाता रहा,
- वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है ।
१२ पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं,
चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है,
और हमारे देश मे पिन्डुक का शब्द
सुनाई देता है ।
१३ अजीर पकने लगे हैं,
और दाखलताए फूल रही हैं;
वे सुगन्ध दे रही हैं ।
हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुन्दरी, उठकर
चली आ ।
- १४ हे मेरी कबूतरी, पहाड की दरारों मे
और टीलों के कुञ्ज मे
तेरा मुख मुझे देखने दे,
तेरा बोल मुझे सुनने दे,
क्योंकि तेरा बोल मीठा, और तेरा
मुख अति सुन्दर है ।
- १५ जो छोटी लोमडिया* दाख की बारियों
को बिगाडती है, उन्हें पकड़ ले,
क्योंकि हमारी दाख की बारियो
मे फूल लगे है ॥
- १६ मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ,
वह अपनी भेड-बकरियां सोसन फूलों
के बीच मे चराता है ।
- १७ जब तक दिन ठण्डा न हो और
छाया लम्बी होते होते मिट न जाए,
तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे
वा जवान हरिण के समान बन
जो बेतेर † के पहाड़ों पर फिरता है ॥
- रात के समय मे अपने पलंग पर
अपने प्राणप्रिय को ढूँढती रही;
मैं उसे ढूँढती तो रही, परन्तु उसे न
पाया;
मैं ने कहा, मैं अब उठकर नगर में,
* मूल में—लोमडियां, छोटी लोमडियां ।
† अर्थात् भलगाईं ।

- २ और सड़कों और चौकों में घूमकर
अपने प्राणप्रिय को ढूँढ़गी ।
मैं उसे ढूँढ़ती तो रही, परन्तु उसे
न पाया ।
- ३ जो पहलूए नगर में घूमते थे, वे
मुझे मिले,
मैंने उन से पूछा, क्या तुम ने मेरे
प्राणप्रिय को देखा है ?
- ४ मुझ को उनके पास से आगे बढ़े
थोड़े ही देर हुई थी
कि मेरा प्राणप्रिय मुझे मिल गया ।
मैंने उसको पकड़ लिया, और उसको
जाने न दिया
जब तक उसे अपनी माता के घर,
अर्थात् अपनी जननी की कोठरी में
न ले आई ॥
- ५ हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम से
चिकारियों और मैदान की हरिणियों
की शपथ धराकर कहती हूँ,
कि जब तक प्रेम आप से न उठे,
तब तक उसको न उसकाओ और
न जगाओ ॥
- ६ यह क्या है जो धूप के खम्भे के
समान,
गन्धरस और लोबान से सुगन्धित,
और व्योपारी की सब भाँति की
बुकनी लगाए हुए
जंगल से निकला आता है ?
- ७ देखो, यह सुलैमान की पालकी है !
उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीरों
में के साठ वीर चल रहे हैं ॥
- ८ वे सब के सब तलवार बान्धनेवाले
और युद्ध विद्या में निपुण हैं ।
प्रत्येक पुरुष रात के डर से
जाँच पर तलवार लटकाए रहता
है ।
- ९ सुलैमान राजा ने अपने लिये लबानोन
के काठ की एक बड़ी पालकी
बनवा ली ।
- १० उस ने उसके खम्भे चान्दी के,
उसका सिरहाना सोने का, और गद्दी
अर्गवानी रंग की बनवाई है,
और उसके बीच का स्थान
यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से
बड़े प्रेम से जडा गया है ।
- ११ हे सिय्योन की पुत्रियो निकलकर
सुलैमान राजा पर दृष्टि डालो,
देखो, वह वही मुकुट पहिने हुए है
जिसे उसकी माता ने उसके विवाह
के दिन
और उसके मन के आनन्द के दिन,
उसके सिर पर रखा था ॥
- ४ हे मेरी प्रिय तू सुन्दर है, तू सुन्दर
है !
तेरी आँखें तेरी लटों के बीच में
कबूतरों की सी दिखाई देती हैं ।
तेरे बाल उन बकरियों के भ्रूण्ड के
समान हैं
जो गिलाद पहाड के ढाल पर लेटी
हुई हों ।
- २ तेरे दान्त उन ऊन कतरी हुई भेड़ों
के भ्रूण्ड के समान हैं,
जो नहाकर ऊपर आई हों, उन में हर
एक के दो दो जुडवा बच्चे होते हैं ।
और उन में से किसी का साथी
नहीं मरा ।
- ३ तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान
हैं,
और तेरा मुँह मनोहर है,
तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे
अनार की फाँक से देख पड़ते हैं ।

- ४ तेरा गला दाऊद के गुम्मत के समान
है, जो अस्त्र-शस्त्र के लिये बना हो,
और जिस पर हजार ढालें टंगी हुई
हैं,
वे सब ढाले शूरवीरों की हैं ।
- ५ तेरी दोनों छातियां मृग के दो जुड़वे
बच्चों के तुल्य हैं,
जो सोसन फूलों के बीच में चरते हैं ।
- ६ जब तक दिन ठण्डा न हो, और
छाया लम्बी होते होते मिट न
जाए,
तब तक मैं शीघ्रता से गन्धरम के
पहाड़
और लोबान की पहाड़ी पर चला
जाऊंगा ।
- ७ हे मेरी प्रिय तू सर्वाङ्ग सुन्दरी है;
तुझ में कोई दोष नहीं ।
- ८ हे मेरी दुल्हन, तू मेरे सग लवानोन
से,
मेरे सग लवानोन से चली आ ।
तू अमाना की चोटी पर से,
शनीर और हेमोन की चोटी पर से,
सिंहों की गुफाओं से,
चित्तों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर ।
- ९ हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हन, तू ने
मेरा मन मोह लिया है,
तू ने अपनी आंखों की एक ही
चितवन से,
और अपने गले के एक ही हीरे से
मेरा हृदय मोह लिया है,
- १० हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हन, तेरा
प्रेम क्या ही मनोहर है !
तेरा प्रेम दाखमधु से क्या ही उत्तम
है,
और तेरे इत्रों का सुगन्ध सब प्रकार
के मसालों के सुगन्ध से !
- ११ हे मेरी दुल्हन, तेरे होंठों से मधु
टपकता है;
तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध
रहता है;
तेरे वस्त्रों का सुगन्ध लवानोन का
सा है ।
- १२ मेरी बहिन, मेरी दुल्हन, किवाड़
लगाई हुई बारी के समान,
किवाड़ बन्द किया हुआ सोता, और
छाप लगाया हुआ भरना है ।
- १३ तेरे अकुर उत्तम फलवाली अनार
की बारी के तुल्य है,
जिस में मेंहदी और सुम्बुल,
१४ जटामासी और केसर,
लोबान के सब भाँति के पेड़, मुश्क
और दालचीनी,
गन्धरस, अगर, आदि सब मुख्य
मुख्य सुगन्धद्रव्य होते हैं ।
- १५ तू बारियों का सोता है,
फूटते हुए जल का कुआँ,
और लवानोन से बहती हुई धाराए
हैं ॥
- १६ हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्खिनी
वायु चली आ !
मेरी बारी पर बह, जिस से उसका
सुगन्ध फैले ।
मेरा प्रेमी अपनी बारी में आये,
और उसके उत्तम उत्तम फल खाए ॥
- ५ हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हन,
मैं अपनी बारी में आया हूँ,
मैं ने अपना गन्धरस और बलसान
चुन लिया;
मैं ने मधु समेत छत्ता खा लिया,
मैं ने दूध और दाखमधु पी
लिया ॥

- हे मित्रो, तुम भी लाओ,
हे प्यारो, पियो, मनमाना पियो !
- २ मैं सोनी थी, परन्तु मेरा मन जागता था ।
सुन ! मेरा प्रेमी खटखटाता है, श्रीर कहता है,
हे मेरी बहिन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिये द्वार खोल;
क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है,
श्रीर मेरी लटें रात में गिरी हुई बून्दों से भीगी हैं ।
- ३ मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी मैं उसे फिर कैसे पहिनुं ?
मैं तो अपने पाव धो चुकी थी अब उनको कैसे मैला करू ?
- ४ मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया,
तब मेरा हृदय उसके लिये उभर उठा ।
- ५ मैं अपने प्रेमी के लिये द्वार खोलने को उठी,
श्रीर मेरे हाथों से गन्धरस टपका,
श्रीर मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गन्धरस बेरंडे की मूठों पर पडा ।
- ६ मैं ने अपने प्रेमी के लिये द्वार तो खोला,
परन्तु मेरा प्रेमी मुडकर चला गया था ।
जब वह बोल रहा था, तब मेरा प्राण धबरा गया था ।
मैं ने उसको ढूँढा, परन्तु न पाया ;
मैं ने उसको पुकारा, परन्तु उस ने कुछ उत्तर न दिया ।
- ७ पहरेवाले जो नगर में घूमते थे, मुझे मिले,
उन्होंने मुझे मारा श्रीर धायल किया ;
शहरपनाह के पहरेवालों ने मेरी चद्दर मुझ से छीन ली ।
- ८ हे यरूशलेम की पुत्रियो, मैं तुम को शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए,
तो उस से कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ ॥
- ९ हे स्त्रियों मे परम सुन्दरी तेरा प्रेमी श्रीर प्रेमियों से किस बात में उत्तम है ?
तू क्यों हम को ऐसी शपथ धराती है ?
- १० मेरा प्रेमी गोरा श्रीर लाल सा है, वह दस हजार में उत्तम है ।
- ११ उसका सिर चोखा कुन्दन है,
उसकी लटकती हुई लटे कौवों की नाई काली है ।
- १२ उसकी आंखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने भ्रुण्ड में एक कतार से बंटे हुए हों ।
- १३ उसके गाल फूलों की फुलवारी श्रीर बलसान की उभरी हुई क्यारिया है ।
उसके होंठ सोसन फूल है जिन से पिघला हुआ गन्धरस टपकता है ॥
- १४ उसके हाथ फीरोजा जडे हुए सोने के किवाड़ हैं ।
उसका शरीर नीलम के फूलों से जडे हुए हाथीदांत का काम है ।
- १५ उसके पाव कुन्दन पर बैठाये हुए सगमर्मर के लम्बे हैं ।

वह देखने में लबानोन और सुन्दरता
में देवदार के वृक्षों के समान
मनोहर है ।

- १६ उसकी वारणी * अति मधुर है, हां
वह परम सुन्दर है ।
हे यरूशलेम की पुत्रियो,
यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र
है ॥

॥

हे स्त्रियों में परम सुन्दरी,
तेरा प्रेमी कहा गया ?
तेरा प्रेमी कहा चला गया
कि हम तेरे सग उसको ढूढ़ने निकले ?
२ मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात्
बलसान की क्यारियों की ओर गया
है,
कि बारी में अपनी भेड़-बकरिया
चराए और सोसन फूल बटोरे ।
३ में अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी
मेरा है,
वह अपनी भेड़-बकरिया सोसन फूलों
के बीच चराता है ॥

- ४ हे मेरी प्रिय, तू तिसा की नाई
सुन्दरी है
तू यरूशलेम के समान रूपवान है,
और पताका फहराती हुई सेना के
तुल्य भयकर है ॥
५ अपनी आखे मेरी ओर से फेर ले,
क्योंकि मैं उन से घबराता हूँ,
तेरे बाल ऐसी बकरियों के भ्रूण्ड
के समान हैं,
जो गिलाद की ढलान पर लेंटी हुई
देख पड़ती हों ।
६ तेरे दात ऐसी भेड़ों के भ्रूण्ड के
समान हैं

जिन्हें स्नान कराया गया हो,
उन में प्रत्येक दो दो जुड़वा बच्चे
देती है,

जिन में से किसी का साथी नहीं मरा ।
७ तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे
अनार की फाँक से देख पड़ते हैं ।

८ वहाँ साठ रानियां और अस्सी
रखेलिया,
और असंख्य कुमारियां भी हैं ।

९ परन्तु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल,
अद्वैत है,

अपनी माता की एकलौती,
अपनी जननी की दुलारी है ।
पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा,
रानियों और रखेलियों ने देखकर
उसकी प्रशंसा की ।

१० यह कौन है जिसकी शोभा भोर के
तुल्य है,

जो सुन्दरता में चन्द्रमा,
और निर्मलता में सूर्य,
और पताका फहराती हुई सेना के
तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है ?

११ मैं अखरोट की बारी में उतर गई,
कि तराई के फूल देखू,
और देखू कि दाखलता में कलिये
लगी,

और अनारों के फूल खिले कि नहीं ।

१२ मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना
ने
मुझे अपने राजकुमार के रथ पर
चढा दिया ॥

१३ लौट आ, लौट आ, हे शूलैमिन *,
लौट आ, लौट आ, कि हम तुझ
पर दृष्टि करें ॥

* मूल में—ताशू ।

* अर्थात् शान्तिवाली ।

- क्या तुम शूलेम्बिन * को इस प्रकार देखोगे जैसा महनैम के नृत्य को देखते है ?
- ७ हे कुलीन की पुत्री, तेरे पांव जूतियों में क्या ही सुन्दर है !
तेरी जांघों की गोलाई ऐसे गहनों के समान है,
जिसको किसी निपुण कारीगर ने रचा हो ।
- ८ तेरी नाभि गोल कटोरा है,
जो मसाला मिले हुए दाखमधु से पूर्ण हो ।
तेरा पेट गेहू के ढेर के समान है
जिसके चट्टे और सोसन फूल हों ।
- ९ तेरी दोनों छातियां
भृगुनी के दो जुड़वे बच्चों के समान है ।
- १० तेरा गला हाथीदात का गुम्मत है ।
तेरी आंखें हेराबोन के उन कुन्डों के समान है,
जो बत्रब्बीम के फाटक के पास है ।
तेरी नाक लबानोन के गुम्मत के तुल्य है,
जिसका मुख दमिश्क की ओर है ।
- ११ तेरा सिर तुफ़ पर कर्मल के समान शोभायमान है,
और तेरे सर के लट्टे अर्गवानी रङ्ग के वस्त्र के तुल्य है,
राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया है ॥
- १२ हे प्रिय † और मनभावनी कुमारी,
तू कैसी सुन्दरी और कैसी मनोहर है !
- ७ तेरा डील डील खजूर के समान शानदार है
और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है ॥
- ८ मैं ने कहा, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ंगा ।
तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हों,
और तेरी स्वास का सुगन्ध सेबों के समान हो,
- ९ और तेरे चुम्बन * उत्तम दाखमधु के समान हैं
जो सरलता से ओठों पर से धीरे धीरे बह जाती हैं † ॥
- १० मैं अपने प्रेमी की हू ।
और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है ।
- ११ हे मेरे प्रेमी, आ, हम खेतों में निकल जाएं,
और गांवों में रहे;
- १२ फिर सबरे उठकर दाख की बारियों में चले,
और देखें कि दाखलता में कलिये लगी है कि नहीं, कि दाख के फूल खिले है या नहीं,
और अनार फूले है वा नहीं ।
वहां मैं तुफ़ को अपना प्रेम दिखाऊंगी ‡ ।
- १३ दोदाफलों § से सुगन्ध आ रही है,
और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल है, नये और पुराने भी,
जो, हे मेरे प्रेमी, मैं ने तेरे लिये इकट्ठे कर रखे है ॥

* अर्थात् शान्तिवाली ।

† मूल में—हे प्रेम ।

* मूल में—ताखू ।

† मूल में—चले ।

‡ मूल में—दूगी ।

§ जहरीला पीषा ।

८ भला होता कि तू मेरे भाई के
 समान होता, जिस ने मेरी माता
 की छातियों से दूध पिया !
 तब मैं तुझे बाहर पाकर तेरा चुम्बन
 लेती,
 और कोई मेरी निन्दा न करता ।
२ मैं तुझ को अपनी माता के घर
 ले चलती,
 और वह मुझ को सिखाती,
 और मैं तुझे मसाला मिला हुआ
 दाखमधु,
 और अपने अनारों का रस पिलाती ।
३ काश, उसका बायां हाथ मेरे सिर
 के नीचे होता,
 और अपने दहिने हाथ से वह मेरा
 आलिंगन करता !
४ हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम को
 शपथ धरती हूँ,
 कि तुम मेरे प्रेमी को न जगाना
 जब तक वह स्वयं न उठना
 चाहे ॥
५ यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक
 लगाये हुए
 जगल से चली आती है ?
 सेब के पेड़ के नीचे मैं ने तुझे
 जगाया ।
 वहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया
 वहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी ॥
६ मुझे नगीने की नाई अपने हृदय
 पर लगा रख,
 और ताबीज की नाई अपनी बांह
 पर रख;
 क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी
 है,
 और ईर्ष्या क्रूर के समान निर्दयी
 है ।

उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है
 वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है ।
७ पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ
 सकता,
 और न महानदों से डूब सकता है ।
 यदि कोई अपने घर की सारी सम्पत्ति
 प्रेम की सन्ती दे दे
 तौभी वह अत्यन्त तुच्छ ठहरेगी ॥
८ हमारी एक छोटी बहिन है,
 जिसकी छातियां अभी नहीं उभरी ।
 जिस दिन हमारी बहिन के ब्याह
 की बात लगे,
 उस दिन हम उसके लिये क्या करे ?
९ यदि वह शहरपनाह हो
 तो हम उस पर चान्दी का कंगूरा
 बनाएंगे;
 और यदि वह फाटक का किवाड़ हो,
 तो हम उस पर देवदार की लकड़ी
 के पटरे लगाएंगे ॥
१० मैं शहरपनाह थी और मेरी छातियां
 उसके गुम्मत;
 तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में
 शान्ति लानेवाले के नाई थी ॥
११ बाल्हामोन में सुलैमान की एक दाख
 की बारी थी;
 उस ने वह दाख की बारी रखवालों
 को सौंप दी;
 हर एक रखवाले को उसके फलों
 के लिये
 चान्दी के हजार हजार टुकड़े देने
 थे ।
१२ मेरी निज दाख की बारी मेरे ही
 लिये है;
 हे सुलैमान, हजार तुझी को
 और फल के रखवालों को दो सौ
 मिलें ॥

१३ तू जो बारियों में रहती है,
मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते
हैं;
उसे मुझे भी सुनने दे ॥

१४ हे मेरे प्रेमी, क्षीघ्रता कर,
और सुगन्धद्रव्यों के पहाड़ों पर
चिकारे वा जवान हरिण के नाई
बन जा ॥

यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक

१ अमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन,
जिसको उस ने यहूदा और यरूशलेम
के विषय में उज्जिय्याह, योताम, आहाज,
और हिजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं
के दिनों में पाया ॥

२ हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान
लगा; क्योंकि यहोवा कहता है: मैं ने
बालबच्चों का पालन पोषण किया, और
उनको बढ़ाया भी, परन्तु उन्होंने ने मुझ से
बलवा किया। ३ बेल तो अपने मालिक
को और गदहा अपने स्वामी की चरनी
को पहिचानता है, परन्तु इस्राएल मुझे
नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं
करती ॥

४ हाय, यह जाति पाप से कौसी भरी
है! यह समाज अधर्म से कौसा
लदा हुआ है! इस वश के लोग कैसे
कुकर्मी हैं, ये लडकेबाले कैसे बिगड़े हुए
हैं? उन्होंने ने यहोवा को छोड़ दिया,
उन्होंने ने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ
जाना है! वे पराए बनकर दूर हो गए
हैं ॥

५ तुम बलवा कर करके क्यों अधिक
मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर

घावों से भर गया, और तुम्हारा हृदय
दुःख से भरा है। ६ नख से सिर तक
कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट
और कोड़े की मार के बिन्हु और सड़े
हुए घाव हैं जो न दबाये गए, न बान्धे
गए, न तेल लगाकर नरमाये गए हैं ॥

७ तुम्हारा देश उजडा पडा है, तुम्हारे
नगर भस्म हो गए हैं; तुम्हारे खेतों को
परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे
हैं; वह परदेशियों से नाश किए हुए देश
के समान उजाड है। ८ और सिय्योन
की बेटे दाख की बारी में की भोपड़ी
की नाई छोड दी गई है, वा ककडी के
खेत में की छपरिया गा घिरे हुए नगर के
समान झकेली खडी है ॥

९ यदि सेनाओं का यहोवा हमारे
थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम
सदोम के समान हो जाते, और अमोरा
के समान ठहरते ॥

१० हे सदोम के न्याइयो, यहोवा का
वचन सुनो! हे अमोरा की प्रजा, हमारे
परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा!

११ यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत
से मेलबलि मेरे किस काम के हैं? मैं

तो भेड़ों के होमबलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से भ्रषा गया हू; १२ मे बछड़ों वा भेड़ के बच्चों वा बकरो के लोहू से प्रसन्न नहीं होता ॥

तुम जब अपने मुह मुझे दिखाने के लिये आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे भ्रान्गनों को पाव से रोदो ? १३ व्यर्थ भ्रन्नबलि फिर मत लाओ; धूप से मुझे घृणा है। नये चांद और विश्रामदिन का मानना, और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझ से महा नहीं जाता। १४ तुम्हारे नये चादों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी मे बैर रखता हू, वे सब मुझे बोझ जान पडते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हू। १५ जब तुम मेरी और हाथ फँलाओ, तब मैं तुम से मूल फेर * लूगा; तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो, तौभी मैं तुम्हारी न सुनूगा; क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। १६ अपने को धोकर पवित्र करो; मेरी आखों के साम्हने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य मे बुराई करना छोड़ दो, १७ भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो †, उपद्रवी को सुधारो; भ्रनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो ॥

१८ यहोवा कहता है, आओ, हम आपस में वादविवाद करे : तुम्हारे पाप चाहे लाल रङ्ग के हों, तौभी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे; और चाहे भ्रग्वानी रङ्ग के हों, तौभी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। १९ यदि तुम आज्ञाकारी

होकर मेरी मानो, २० तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे; और यदि तुम न मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे; यहोवा का यही वचन है ॥

२१ जो नगरी सती थी सो क्योंकर व्यभिचारिन हो गई ! वह न्याय से भरी थी और उस मे धर्म पाया जाता था, परन्तु अब उस मे हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चान्दी धातु का मेल हो गई, २२ तेरे दाखमधु मे पानी मिल गया है। २३ तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं। वे सब के सब घूस खानेवाले और भेंट के लालची हैं। वे भ्रनाथ का न्याय नहीं करते, और न विधवा का मुकद्दमा अपने पास आने देते हैं ॥

२४ इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा, इस्त्राएल के शक्तिमान की यह वाणी है : सुनो, मे अपने शत्रुओं को दूर करके शान्ति पाऊंगा, और अपने बैरियों से पलटा लूगा। २५ और मैं तुम पर हाथ बढाकर तुम्हारा धातु का मेल पूरी रीति से * भस्म करूंगा, और तुम्हारा राग पूरी रीति से दूर करूंगा। २६ और मैं तुम मे पहिले की नाई न्यायी और आदि काल के समान मन्त्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और सती नगरी कहलाएंगी ॥

२७ सिय्योन न्याय के द्वारा, और जो उस मे फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। २८ परन्तु बलवाइयों और पापियों का एक सग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है, उनका भ्रन्त हो जाएगा। २९ क्योंकि जिन बाँज-बूक्षों से तुम प्रीति रखते थे, उन से वे

* मूल में—छिपा।

† मूल में—न्याय पूछो।

* मूल में—मानो खार डालकर।

लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे, उनके कारण तुम्हारे मुह काले होंगे। ३० क्योंकि तुम पत्ते मुर्झाए हुए बाजवृक्ष के, और बिना जल की बारी के ममान हो जाओगे। ३१ और बलवान तो सन और उसका काम चिगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेगे, और कोई बुझानेवाला न होगा।।

२ आमोस के पुत्र यशायाह का वचन, जो उस ने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया।।

२ अन्त के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। ३ और बहुत देशों के लोग आएंगे, और आपस में कहेंगे: आओ, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं; तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। ४ वह जाति जाति का न्याय करेगा, और देश देश के लोगों के भगड़ों को मिटाएगा; और वे अपनी तलवारों पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे; तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे।।

५ हे याकूब के घराने, आ, हम यहोवा के प्रकाश में चलें।।

६ तू ने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्वियों के

व्यवहार पर तन मन से चलते * और पलिशियों की नाई टोना करते हैं, और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। ७ उनका देश चान्दी और सोने से भरपूर है, और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं; उनका देश घोंड़ों से भरपूर है, और उनके रथ अनगिनित हैं। ८ उनका देश मूरतों से भरा है; वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्होंने ने अपनी उगलियों से संवारा है, दगडवत् करते हैं। ९ इस से मनुष्य भुक्तते, और बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं, इस कारण उनको क्षमा न कर! १० यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा, और मिट्टी में छिप जा। ११ क्योंकि आदमियों की घमण्ड-भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्यों का घमण्ड दूर किया जाएगा; और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा।।

१२ क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमण्डियों और ऊंची गर्दन-वालों पर और उन्नति से फूलनेवालों पर आएगा; और वे भुकाए जाएंगे; १३ और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, १४ बासान के सब बाजवृक्षों पर; और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर; १५ सब ऊंचे गुम्मतों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर; १६ तर्शाश के सब जहाजों और सब सुन्दर चित्रकारी पर वह दिन आता है। १७ और मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा, और मनुष्यों का घमण्ड नीचा किया जाएगा; और उस दिन केवल यहोवा

* मूल में—पूरब से भर गए।

ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा । १८ श्रीर मूरते सब की सब नष्ट हो जाएगी । १९ श्रीर जब यहोवा पृथ्वी के कम्पित करने के लिये उठेगा, तब उसके भय के कारण श्रीर उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेगे ॥

२० उस दिन लोग अपनी चान्दी-सोने की मूरतों को जिन्हे उन्होंने ने दण्डवत् करने के लिये बनाया था, छछून्दरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेगे, २१ श्रीर जब यहोवा पृथ्वी को कम्पित करने के लिये उठेगा तब वे उसके भय के कारण श्रीर उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेगे । २२ सो तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वासा उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या ?

३ सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना * अर्थात् अन्न का सारा आधार, और जल का सारा आधार दूर कर देगा; २ और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, पचास सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, ३ मन्त्री और चतुर कारीगर को, और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा । ४ और मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा, और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे । ५ और प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर, और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेगे; और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असम्भ्यता का व्यवहार करेंगे ॥

* मूल में—लाठा और लाठी ।

६ उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने माई को पकड़कर कहेगा कि तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा न्यायी हो जा श्रीर इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले; ७ तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चगा करनेहारा न हूंगा; क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े; इसलिये तुम मुझे प्रजा का न्यायी नहीं नियुक्त कर सकोगे । ८ यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है; क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है, जो उसकी तेजीमय आंखों के साम्हने बलवा करनेवाले ठहरे हैं ॥

९ उनका चिह्न भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है; वे सदोमियों की नाई अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं । उन * पर हाय ! क्योंकि उन्होंने ने अपनी हानि आप ही की है । १० धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे । ११ दुष्ट पर हाय ! उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा । १२ मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं । हे मेरी प्रजा, तेरे अगुबे तुम्हें भटकाते हैं, और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं † ॥

१३ यहोवा देश देश के लोगों से मुकद्दमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिये खड़ा है । १४ यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है, और दीन लोगों का

* मूल में—उनके प्राण ।

† मूल में—निगल लेते हैं ।

घन लूटकर तुम ने अपने घरों में रखा है ।
१५ सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वारणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते, और दीन लोगों को * पीस डालते हो !

१६ यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रिया घमण्ड करती और सिर ऊंचे किये आखें मटकाती और घुघुरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती हैं, १७ इसलिये प्रभु यहोवा उनके सिर को गजा करेगा, और उनके तन को उधरवाएगा ॥

१८ उस समय प्रभु घुघुरुओं, जालियो, १९ चद्रहारो, भुमकों, कड़ों, घूघटो, २० पगड़ियो, पंकरियो, पटुको, सुगन्ध-पात्रों, गण्डों, २१ अंगूठियो, नत्थो, २२ सुन्दर वस्त्रों, कुर्तियो, चदरों, बटुओं, २३ दर्पणो, मलमल के वस्त्रों, बुन्दियों, दुपट्टो इन सबों की शोभा को दूर करेगा । २४ और सुगन्ध की सन्ती सड़ाहट, सुन्दर कर्धनी की सन्ती बन्धन की रस्सी, गुथे हुए बालो की सन्ती गंजापन, सुन्दर पटुके की सन्ती टाट की पेटी, और सुन्दरता की सन्ती दाग होंगे । २५ तेरे पुरुष तलवार से, और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे । २६ और उसके फाटकों में सास भरना और विलाप करना होगा †; और वह भूमि पर अकेली बँठी रहेगी ‡ । उस समय सात स्त्रियाँ एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी, और वस्त्र अपने ही पहिनेंगी, केवल हम तेरी कहलाए; हमारी नामधराई दूर कर ॥

* मूल में—दीन लोगों के मुँह को ।

† मूल में—उसके फाटक ठण्डी सांस भरेंगे और विलाप करेंगे ।

‡ मूल में—यह शून्य होकर भूमि पर बैठेगी ।

२ उसी समय इस्राएल के बच्चे हुभों के लिये यहोवा का पल्लव, भूषण और महिमा ठहरेगा, और भूमि की उपज, बढ़ाई और शोभा ठहरेगी । ३ और जो कोई सिय्योन में बचा रहे, और यरूशलेम में रहे, अर्थात् यरूशलेम में जितनों के नाम जीवनपत्र में * लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे । ४ यह तब होगा, जब प्रभु न्याय करनेवाली और भस्म करनेवाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा । ५ तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, और उसके सभास्थानों के ऊपर, दिन को तो धूप का बादल, और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त विभव के ऊपर एक मण्डप छाया रहेगा । ६ वह दिन को घाम से बचाने के लिये और आंधी-पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा ॥

५ अब मैं अपने प्रिय के लिये और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा : एक अति उपजाऊ टीले पर † मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी । २ उस ने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उस में उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई; उसके बीच में उस ने एक गुम्मत बनाया, और दाखरस के लिये एक कुण्ड भी खोदा ; तब उस ने दाख की प्राशा की, परन्तु उस में निकम्मी दाखें ही लगी ॥

३ अब हे यरूशलेम के निवासियो और हे यहूदा के मनुष्यो, मेरे और मेरी दाख

* मूल में—जीवन के लिये ।

† मूल में—एक तेल के बेटे सींग पर ।

की बारी के बीच न्याय करो। ४ मेरी दाख की बारी के लिये और क्या करना रह गया जो मैं ने उसके लिये न किया हो ? फिर क्या कारण है कि जब मैं ने दाख की आशा की तब उस मे निकम्मी दाखे लगी ?

५ अब मे तुम को जताता हू कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके काटेवाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौदी जाए। ६ मैं उसे उजाड़ दूंगा; वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी और उस मे भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे; मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए ॥

७ क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्त्राएल का घराना, और उसका मनभाऊ पीधा यहूदा के लोग हैं; और उस ने उन मे न्याय की आशा की परन्तु अन्याय देख पड़ा; उस ने धर्म की आशा की, परन्तु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी !

८ हाय उन पर जो घर से घर, और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। ९ सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है: निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे, और बड़े बड़े और सुन्दर घर निर्जन हो जाएंगे। १० क्योंकि दस बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाखमधु मिलेगा, और होमेर भर के बीज से एक ही एषा अन्न उत्पन्न होगा ॥

११ हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए ! १२ उनकी

जेवनारों में बीणा, सारंगी, डफ, बांसली और दाखमधु, ये सब पाये जाते हैं; परन्तु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते, और उसके हाथों के काम को नहीं देखते ॥

१३ इसलिये अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई मे जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं।

१४ इसलिये अधोलोक ने अत्यन्त लालसा करके अपना मुह बेपरिमाण पसारा है, और उनका विभव और भीड़-भाड़ और आनन्द करनेवाले सब के सब उसके मुह मे जा पड़ते हैं। १५ साधारण मनुष्य दवाए जाते और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की ग्राहें नीची की जाती है। १६ परन्तु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता, और पवित्र परमेश्वर धर्मों होने के कारण पवित्र ठहरता है ! १७ तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परन्तु हृष्टपुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिये मिलेंगे ॥

१८ हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, १९ जो कहते हैं, वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें; और इस्त्राएल के पवित्र की युक्ति प्रगट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझे !

२० हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अधियारे को उजियाला और उजियाले को अधियारा ठहराते, और कड़ुवे को मीठा और मीठे को कड़ुवा करके मानते हैं !

२१ हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में शानी और अपने लेखे बुद्धिमान है !

२२ हाय उन पर जो दासमधु पीने में बीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, २३ जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष, और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं !

२४ इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे; क्योंकि उन्होंने ने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना, और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। २५ इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है, और उस ने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे; और लोगों की लोथें सड़कों के बीच कूड़ा सी पड़ी है। इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है ॥

२६ वह दूर दूर की जातियों के लिये झगड़ा खड़ा करेगा, और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा; देखो, वे फुर्ली करके बेग से आएंगे ! २७ उन में कोई थका नहीं न कोई ठोकर खाता है; कोई ऊंघने वा सोनेवाला नहीं, किसी का फेंटा नहीं खुला, और किसी के जूतों का बन्धन नहीं टूटा; २८ उनके तीर चोखे और धनुष चढाए हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर बज्र के से और रथों के पहिये बवराडर सरीखे हैं। २९ वे सिंह वा जवान सिंह की नाईं गरजते हैं; वे गुरीकर अहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं, और कोई उसे उन से

नहीं छुड़ा सकता। ३० उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन की नाईं गर्जेंगे और यदि कोई देश की ओर देखे, तो उसे अन्धकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी ॥

इस जिस वर्ष उज्जिय्याह राजा मरा, मैं ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा; और उसके वस्त्र के घेर से मन्दिर भर गया। २ उस से ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके छः छः पख थे, दो पखों से वे अपने मुह को ढांपे थे और दो से अपने पांवों को, और दो से उड़ रहे थे। ३ और वे एक दूसरे से पुकार पुकारकर कह रहे थे : सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र, पवित्र है; सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ४ और पुकारनेवाले के शब्द से डेवढियो की नेवें डोल उठी, और भवन धूए से भर गया। ५ तब मैं ने कहा, हाय ! हाय ! मैं नाश हुआ; क्योंकि मैं अशुद्ध होंठवाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठवाले मनुष्यों के बीच में रहता हू; क्योंकि मैं ने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है !

६ तब एक साराप हाथ में अगारा लिए हुए, जिसे उस ने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। ७ और उस ने उस से मेरे मुह को छूकर कहा, देख, इस ने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिये तेरा अघर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। ८ तब मैं ने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किस को भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा ? तब मैं ने कहा, मैं यहां हूं ! मुझे भेज।

६ उस ने कहा, जा, और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो, परन्तु न समझो; देखते ही रहो, परन्तु न बूझो। १० तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर, और उनकी आंखों को बन्द कर; ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, और कानों से सुनें, और मन से बूझें, और मन फिरावें और चगे हो जाएं। ११ तब मैं ने पूछा, हे प्रभु कब तक ? उस ने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उन में कोई रह न जाए, और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए, और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, १२ और यहोवा मनुष्यों को उस में से दूर कर दे, और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं। १३ चाहे उसके निवासियों * का दसवां अंश भी रह जाए, तौभी वह नाश किया जाएगा †, परन्तु जैसे छोटे वा बड़े बाजवृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूठ ठहरेगा ॥

७ यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उज्जिय्याह का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिये चढ़ाई की, परन्तु युद्ध करके उन से कुछ बन न पडा। २ जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैमियों से सन्धि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा काप उठा जैसे बन के वृक्ष वायु चलने से काप जाते हैं। ३ तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने

पुत्र शार्याशूब * को लेकर घोबियों के खेत की सड़क से ऊपरली पोखरे की नाली के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिये जा, ४ और उस से कह, सावधान और शान्त हो; और उन दोनों धूम्रां निकलती लुकटियों से † अर्थात् रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से, और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो। ५ क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ, ६ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे, और उसको अपने वश में लाकर ‡ ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दें। ७ इसलिये प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी। ८ क्योंकि आराम का सिर दमिश्क, और दमिश्क का सिर रसीन है। फिर एप्रैम का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। ९ पैसठ वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो; तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे ॥

१० फिर यहोवा ने आहाज से कहा, ११ अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह माग; चाहे वह गहिरे स्थान का हो, वा ऊपर आसमान का हो। १२ आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। १३ तब उस ने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो ! क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात

* अर्थात् बच्चा हुआ भाग फिरेगा।

† मूल में—लुकटियों के पुच्छों से।

‡ मूल में—अपने निमित्त फाड़कर।

* मूल में—उस में।

† मूल में—फिर खा डाला जाएगा।

समझकर अब मेरे परमेस्वर को भी उकता दोगे ? १४ इस कारण प्रभु आप ही तुम को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनैगी, और उसका नाम इम्मानूएल * रखेगी। १५ और जब † तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। १६ क्योंकि उस से पहिले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। १७ यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से भ्रलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए—अर्थात् अशूर के राजा के दिन।।

१८ उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती हैं, और उन मधुमक्खियों को जो अशूर देश में रहती हैं, सीटी बजाकर बुलाएगा। १९ और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में, और चट्टानों की दरारों में, और सब भटकटियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी।।

२० उसी समय प्रभु महानद के पारवाले अशूर के राजारूपी भाड़े के छुरे से सिर और पावों के रोंएं मूडेगा, उस से दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी।।

२१ उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और दो भेड़ों को पालेगा; २२ और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि

* अर्थात् ईश्वर हमारे संग है।

† वा इसलिये कि।

जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे।।

२३ उस समय जिन जिन स्थानों में हजार टुकड़े चान्दी की हजार दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। २४ तीर और घनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे; और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं, उन सभी पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा, वे गाये बलों के चरने के, और भेड़-बकरियों के रौंदने के लिये होंगे।।

फिर यहोवा ने मुझ से कहा, एक बडी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से * यह लिख : महेशालाल्हाशबज † के लिये। २ और मैं विस्वासयोग्य पुरुषों को अर्थात् ऊरिय्याह याजक और जेबरेक्याह के पुत्र जकर्याह को इस बात की साक्षी करूंगा। ३ और मैं अपनी पत्नी ‡ के पास गया, और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझ से कहा, उसका नाम महेशालाल्हाशबज † रख; ४ क्योंकि इस से पहिले कि वह लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क और शोमरोन दोनों की घन-सम्पत्ति लूटकर अशूर का राजा अपने देश को भेजेगा।।

५ यहोवा ने फिर मुझ से दूसरी बार कहा, ६ इसलिये कि लोग शीलोह के धीरे धीरे बहनेवाले सोते को निकम्मा

* मूल में—मनुष्य के कलम से।

† अर्थात् लूट शीघ्र आती, छिन जाना फुर्ती करता है।

‡ मूल में—नबियैन।

जानते हैं, और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनन्द करते हैं, ७ इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को, अर्थात् अश्वरू के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा; और वह उनके सब नालों को भर देगा, और सारे कड़ाड़ों से छलककर बहेगा; ८ और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा, और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा; और हे इम्मानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढँप जाएगा ।।

६ हे लोगो, हल्ला करो तो करो, परन्तु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा । हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगो कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परन्तु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे; अपनी कमर कसो तो कसो, परन्तु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा । १० तुम युक्ति करो तो करो, परन्तु वह निष्फल हो जाएगी, तुम कुछ भी कहो, परन्तु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है ।।

११ क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझ से बोला और इन लोगो की सी चाल चलने को मुझे मना किया, १२ और कहा, जिस बात को यह लोग राजद्रोह कहें, उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उस से तुम न डरना और न भय खाना । १३ सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना; उसी का डर मानना, और उसी का भय रखना । १४ और वह शरणस्थान होगा, परन्तु इस्राएल के दोनों घरानों के लिये ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिये फन्दा

और जाल होगा । १५ और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे; वे फन्दे में फसेंगे और पकड़े जाएंगे ।।

१६ चितौनी का पत्र बन्द कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो । १७ मैं उस यहोवा की बात जोहूता रहूँगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाये है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूँगा । १८ देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे है, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है इस्राएलियों के लिये चिन्ह और चमत्कार है । १९ जब लोग तुम से कहें कि ओम्फाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिये ? क्या जीवतों के लिये मुदों से पूछना चाहिये ? २० व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो ! यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिये पी न फटेगी । २१ वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे; और जब वे भूखे होंगे, तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे, और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे; २२ तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे परन्तु उन्हें सकेती और अन्धियारा अर्थात् सकट भरा अन्धकार ही देख पड़ेगा; और वे घोर अन्धकार में ढकेल दिए जाएंगे ।।

६ तौभी सकट-भरा अन्धकार जाता रहेगा । पहिले तो उस ने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परन्तु अन्तिम दिनों में ताल की ओर

यरदन के पार की अन्यजातियों के गालील को महिमा देगा ॥

२ जो लोग अन्धियारे में चल रहे थे उन्होंने ने बड़ा उजियाला देखा; और जो लोग घोर अन्धकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी ।

३. तू ने जाति को बढ़ाया, तू ने उसको बहुत आनन्द दिया; वे तेरे साम्हने कटनी के समय का सा आनन्द करते हैं, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बाटने के समय मगन रहते हैं । ४ क्योंकि तू ने उसकी गर्दन पर के भारी जूए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करनेवाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था ।

५ क्योंकि युद्ध में लड़नेवाले सिपाहियों के जूते और लोहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे । ६ क्योंकि हमारे लिये एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है; और प्रभुता उसके काधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करनेवाला पराक्रमी परमेश्वर, अनन्तकाल का पिता, और शान्ति का राजकुमार रखा जाएगा । ७ उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शान्ति का अन्त न होगा *, इसलिये वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिये न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा । सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा ॥

८ प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, और वह इस्राएल पर प्रगट हुआ है; ९ और सारी प्रजा को, एप्रैमियों

* मूल में—प्रभुता की बढ़ती और शान्ति का अन्त नहीं ।

और शोमरोनवासियों को मालूम हो जाएगा जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं: इतें तो गिर गई हैं, १० परन्तु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे; गूलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परन्तु हम उनकी सन्ती देवदारों से काम लेंगे । ११ इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा, १२ और उनके शत्रुओं को अर्थात् पहिले आराम को और तब पलिशतियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे । इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बड़ा हुआ है ॥

१३ तौभी ये लोग अपने मारनेवाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं । १४ इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को, एक ही दिन में काट डालेगा । १५ पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, और झूठी बातें सिखानेवाला नबी पूछ है; १६ क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं । १७ इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा, और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा; क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं । इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बड़ा हुआ है ॥

१८ क्योंकि दुष्टता आग की नाई घषकती है, वह ऊंटकटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की

झाड़ियों में भ्राग लगाती है और वह घुमा में चकरा चकराकर ऊपर की ओर उठती है। १६ सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है, और ये लोग भ्राग की ईधन के समान हैं; वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। २० वे दहिनी ओर से भोजनवस्तु छीनकर भी भूखे रहते, और बायें ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते; उन में से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है, २१ मनश्शे एप्रम को और एप्रम मनश्शे को खाता है, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बड़ा हुआ है ॥

१० हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते, और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, २ कि वे कगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारें, कि वे विधवाओं को लूटें और अनाथों का माल अपना लें! ३ तुम दरुड के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिये किसके पास भाग कर जाओगे? ४ और तुम अपने विभव को कहां रख छोडोगे? वे केवल बंधुओं के पैरों के पास * गिर पड़ेंगे और मरे हुएओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बड़ा हुआ है ॥

५ अशूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है! वह मेरा क्रोध है। ६ मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और

जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनको सडकों की कीच के समान लताड़े। ७ परन्तु उसकी ऐसी मनसा न होगी, न उसके मन में ऐसा विचार है; क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अन्त कर डालू। ८ क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? ९ क्या कलनो कर्कमीश के समान नहीं है? क्या हमाम अर्पद के और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं? १० जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुँचा जिनकी मूरते यरूशलेम और शोमरोन की मूरतों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैं ने शोमरोन और उसकी मूरतों से किया, ११ क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूरतों से भी न करू?

१२ इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अशूर के राजा के गर्ब की बातों का, और उसकी घमण्ड भरी आँखों का पलटा दूंगा। १३ उस ने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैं ने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ; मैं ने देश देश के सिवानों को हटा दिया, और उनके रखे हुए धन को लूट लिया; मैं ने बीर की नाई गद्दी पर विराजनेहारों को उतार दिया है। १४ देश देश के लोगों की धनसम्पत्ति, चिड़ियों के घोंसलों की नाई, मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अण्डों को बटोर ले वैसे ही मैं ने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है; और कोई पंख फड़फड़ाने वा चोंच खोलने वा चीं चीं करनेवाला न था ॥

* मूल में—बंधुओं के नीचे।

१५ क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उस से काटता हो डींग मारे, वा धारी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे ? क्या सोंटा अपने चलानेवाले को बलाए वा छड़ी उसे उठाए जो काठ नहीं है ! १६ इस कारण प्रभु अर्थात् सेनाओं का प्रभु उस राजा के हूटपुट्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे भाग की सी जलन होगी। १७ इस्राएल की ज्योति तो भाग ठहरेगी, और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा; और वह उसके भाड़ भंखार को एक ही दिन में भस्म करेगा। १८ और जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है वैसी ही वह उसके वन और फलदाई बारी की शोभा पूरी रीति से * नाश करेगा। १९ उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिन कर लिख लेगा ॥

२० उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए, अपने मारनेवाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परन्तु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। २१ याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। २२ क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनारों के समान भी बहुत हों, तीभी निश्चय है कि उन में से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ † ठाना गया है। २३ क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देना ठाना है ॥

२४ इसलिये प्रभु सेनाओं का यहोवा यों कहता है, हे सिय्योन में रहनेवाली मेरी प्रजा, अशूर से मत डर; चाहे वह सोंटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई तेरे ऊपर छड़ी उठाए। २५ क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शान्त होगा*। २६ और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उस ने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था; और जैसा उस ने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। २७ उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जूआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जूआ तोड़ डाला जाएगा ॥

२८ वह अय्यात् में आया है, और मिश्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है; मिकमाश में उस ने अपना सामान रखा है। २९ वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने ने गेबा में रात काटी; रामा थरथरा उठा है, शाऊल का गिबा भाग निकला है। ३० हे गल्लीम की बेटी चिल्ला ! हे लैशा के लोगो कान लगाओ ! हाथ बेचारा अनातौत ! ३१ मदमेना मारा मारा फिरता है, गेबीम के निवासी भागने के लिये अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ३२ आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा; तब वह सिय्योन † पहाड़ पर, और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा ॥

* मूल में—जीव से सांस तक।

† मूल में—धर्म से उमरुद्धता।

* मूल में—करने से चुनैगा।

† मूल में—सिय्योन की बेटी।

३३ देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा; ऊँचे ऊँचे वृक्ष काटे जाएंगे, और जो ऊँचे हैं सो नीचे किए जाएंगे। ३४ वह घने वन को लोहे से काट डालेगा, और लवानोन एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा।।

११ तब यिशी के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवन्त होगी। २ और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। ३ और उसको यहोवा का भय सुगन्ध सा जाएगा।।

वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा; ४ परन्तु वह कंगालों का न्याय घर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा; और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा, और अपने फूंक के भोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ५ उसकी कटि का फंटा घर्म और उसकी कमर का फंटा सच्चाई होगी।।

६ तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लडका उनकी भगुवाई करेगा। ७ गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे; और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। ८ दूधपिउवा बच्चा करंत के विल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लडका नाग के विल में हाथ डालेगा।

६ भेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुःख देगा और न हानि करेगा; क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है *।।

१० उस समय यिशी की जड़ देश देश के लोगों के लिये एक भरपूर होगी; सब राज्यों के लोग उसे बूढ़ेंगे, और उसका विश्रामस्थान तेजोमय होगा।।

११ उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बच्चे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अशूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूष से, एलाम से, शिनार से, हमात से, और समुद्र के द्वीपों से भोल लेकर छुड़ाएगा। १२ वह अन्यजातियों के लिये भरपूर खडा करके इस्त्राएल के सब निकाले हुओं को, और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। १३ एप्रैम फिर डह न करेगा और यहूदा के तंग करनेवाले काट डाले जाएंगे; न तो एप्रैम यहूदा से डह करेगा और न यहूदा एप्रैम को तंग करेगा। १४ परन्तु वे पश्चिम की ओर पलिशतियों के कंधे पर भरपूर मारेंगे, और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे, और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। १५ और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा, और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचण्ड लू से ऐसा सुखाएगा कि वह सात धार हो जाएगा, और लोग जूता पहिने हुए भी पार हो जाएंगे। और उसकी प्रजा के बच्चे हुओं के लिये अशूर से एक ऐसा राज-भाग होगा जैसा

* मूल में—जैसा जल समुद्र को डंपता है।

मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिये हुआ था ॥

१२ उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परन्तु अब तेरा क्रोध शान्त हुआ *, और तू ने मुझे शान्ति दी है ॥

२ परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा; क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है ॥

३ तुम आनन्दपूर्वक उद्धार के स्रोतों से जलु भरोगे । ४ और उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उस से प्रार्थना करो; सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है ॥

५ यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उस ने प्रतापमय काम किए हैं; इसे सारी पृथ्वी पर प्रगट करो । ६ हे सिय्योन में बसनेवाली तू जयजयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है ॥

१३ बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशयाह ने दर्शन में पाया । २ मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो और उन से ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करे । ३ मैं ने स्वयं अपने पवित्र किए हुएों को आशा दी है, मैं ने अपने क्रोध के लिये अपने वीरों को बुलाया है जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न हैं ॥

* मूल में—फिर गया ।

४ पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो । राज्य राज्य की इकट्टी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं । सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिये अपनी सेना इकट्टी कर रहा है । ५ वे दूर देश से, आकाश की छोर से आए हैं, हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत मारे देश को नाश करने के लिये आया है ॥

६ हाथ-हाथ करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान् की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिये आता है । ७ इस कारण सब के हाथ ढीले पडेंगे, और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा *, ८ और वे घबरा जाएंगे । उनको पीड़ा और शोक होगा; उनको ज़च्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी । वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुह जल जायेंगे † ॥

९ देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उस में से नाश करे । १० क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अन्धेरा हो जाएगा, और चन्द्रमा अपना प्रकाश न देगा । ११ मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, और दुष्टों को उनके अधर्म का दण्ड दूंगा; मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा, और उपद्रव करनेवालों के घमण्ड को तोड़ूंगा ।

* मूल में—मनुष्य का सारा हृदय गल जाएगा ।

† मूल में—उनके लौवाले मुंह होंगे ।

१२ में मनुष्य को कुन्दन से, और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। १३ इसलिये मैं आकाश को कपाऊंगा, और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी; यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। १४ और वे खदेड़े हुए हरिण, वा बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे, और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। १५ जो कोई मिले सो बेधा जाएगा, और जो कोई पकड़ा जाए, वह तलवार से मार डाला जाएगा। १६ उनके बाल-बच्चे उनके साम्हने पटक दिए जाएंगे; और उनके घर लूटे जाएंगे, और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी ॥

१७ देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो न तो चान्दी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। १८ वे तीरों से जवानों को मारेंगे, और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे, वे लडको पर कुछ तरस न खाएंगे। १९ और बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है, और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा, जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। २० वह फिर कभी न बसेगा और युग युग उस में कोई वास न करेगा; अरबी लोग भी उस में डेरा खड़ा न करेंगे, और न चरवाहे उस में अपने पशु बैठाएंगे। २१ वहां जंगली जन्तु बैठेंगे, और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे; वहां शूतुमुर्ग बसेंगे, और छगलमानस वहां नाचेंगे। उस नगर के राज-भवनों में हुंकार, २२ और उसके सुख-विलास के मन्दिरों में गीदड़ बोला

करेंगे; उसके नाश होने का समय निकट आ गया है, और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे ॥

१४ यहोवा याकूब पर दया करेगा, और इस्राएल को फिर अपनाकर, उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उन से मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे *। २ और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुँचाएंगे, और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा; क्योंकि वे अपने बंधुभाई में ले जानेवालों को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे ॥

३ और जिस दिन यहोवा तुम्हें तेरे सन्ताप और घबराहट से, और उस कठिन श्रम से जो तुम्हें से लिया गया विश्राम देगा, ४ उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करानेवाला कैसा नाश हो गया है, सुनहले मन्दिरों से भरी नगरी † कैसी नाश हो गई है ! ५ यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करनेवालों के लठ को तोड़ दिया है, ६ जिस से वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे, और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। ७ अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है; लोग ऊँचे स्वर से गा उठे हैं। ८ सनीवर और लबानोन के देवदार भी तुम्हें पर आनन्द करके

* मूल में—यह कहावत उठाएगी कि।

† मूल में—सोने का ढेर।

कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। ६ पाताल के नीचे अधोलोक में तुझ से मिलने के लिये हलचल हो रही है; वह तेरे लिये मुदों को अर्थात् पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। १० वे सब तुझ से कहेंगे, क्या तू भी हमारा नाईं निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? ११ तेरा विभव और तेरी सारगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है; कीड़े तेरा बिछीना और केचुएँ तेरा भोड़ना हैं।

१२ हे भोर के चमकनेवाले तारे * तू क्योंकर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? १३ तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा; मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा; और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा; १४ मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परमप्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। १५ परन्तु तू अधोलोक में उस गड़हे की तह तक उतारा जाएगा। १६ जो तुझे देखेंगे तुझ को ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोचकर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था; १७ जो जगत को जगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था, और अपने बधुओं को घर जाने नहीं देता था?

* मूल में—बेटे।

१८ जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं; १९ परन्तु तू निकम्मी शास्त्र की नाईं अपनी कबर में से फेंका गया; तू उन मारे हुआओं की लोथों से घिरा है * जो तलवार से बिधकर गड़हे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। २० तू उनके साथ क्रम में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तू ने अपने देश को उजाड़ दिया, और अपनी प्रजा का घात किया है।

कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। २१ उनके पूर्वजों के अघर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं, और जगत में बहुत से नगर बसाएँ।

२२ सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा, और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा, और बेटों-पोतों को काट डालूंगा †, यहोवा की यही वाणी है। २३ मैं उसको साही की मान्द और जल की भीले कर दूंगा, और मैं उसे सत्यानाश के भाड़ू से भाड़ू डालूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।

२४ सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निःसन्देह जैसा मैं ने ठाना है, वंसा ही हो जाएगा, और जैसी मैं ने युक्ति की है, वैसी ही पूरी होगी, २५ कि मैं अशूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा, और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा; तब उसका जूआ उनकी गर्दनों पर से

* मूल में—लोथें पहिने हैं।

† मूल में—बाबुल का नाम और बस्ती और बेटे-पोते को काट डालूंगा।

और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। २६ यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिये ठहराई गई है; और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है। २७ क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है?

२८ जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया उसी वर्ष यह भारी-भविष्यद्वाराणी हुई :

२९ हे सारे पलिशतीन तू इसलिये आनन्द न कर, कि तेरे मारनेवाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका फल एक उड़नेवाला और तेज विषवाला अग्निसर्प होगा। ३० तब कगालो के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परन्तु मैं तेरे बश को भूख से मार डालूंगा, और तेरे बच्चे हुए लोग घात किए जाएंगे। ३१ हे फाटक, तू हाथ हाथ कर; हे नगर, तू चिल्ला; हे पलिशतीन तू सब का सब पिघल जा ! क्योंकि उत्तर से एक धूआ उठेगा और उसकी सेना मे से कोई पीछे न रहेगा ॥

३२ तब अन्यजातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नेव डाली है, और उसकी प्रजा के दीन लोग उस में शरण लेंगे ॥

१५ मोआब के विषय भारी भविष्यद्वाराणी। निश्चय मोआब का धार नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है; निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। २ बँत और दीबोन ऊँचे स्थानों पर रौने के लिये

चढ़ गए हैं; नबो और मेदबा के ऊपर मोआब हाथ हाथ करता है। उन सबों के सिर मुड़े हुए, और सबों की दाढ़ियाँ मुँबी हुई हैं; ३ सड़कों में लोग टाट पहिने हैं; छतों पर और चौकों में सब कोई आसू बहाते हुए हाथ हाथ करते हैं। ४ हे शबोन और एलाले चिल्ला रहे हैं, उनका शब्द यहस तक सुनाई पड़ता है; इस कारण मोआब के हथियारबन्द चिल्ला रहे हैं; उसका जी अति उदास है। ५ मेरा मन मोआब के लिये दोहाई देता है; उसके रईस सोमर और एगलतशलीशिय्या तक भागे जाते हैं। देखो, लूहीत की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं; सुनो, होरोनैम के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। ६ निअमीम का जल सूख गया; घास कुम्हला गई और हरियाली मुर्झा गई, और नमी कुछ भी नहीं रही। ७ इसलिये जो धन उन्होंने ने बचा रखा, और जो कुछ उन्होंने ने इकट्ठा किया है, उस सब को वे उस नाले के पार लिये जा रहे हैं जिस में मजनुवृक्ष हैं। ८ इस कारण मोआब के चारों ओर के सिवाने में चिल्लाहट हो रही है, उस में का हाहाकार एगलैम और बेरेलीम में भी सुन पड़ता है। ९ क्योंकि दीमोन का सोता लोहू से भरा हुआ है। तौभी में दीमोन पर और दुःख डालूंगा, मैं बच्चे हुए मोआबियों और उनके देश से भागे हुएों के विरुद्ध सिंह भेजूंगा ॥

१६ जगल की ओर के सेला नगर से सिय्योन * की बेंटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिये भेड़ों के बच्चों

* मूल में—सिय्योन की बेंटी।

को भेजो । २ मोआब की बेटियाँ अनॉन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान हैं । ३ सम्मत करो, न्याय चुकाओ; दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो; घर से निकाले हुए लोगों को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ । ४ भेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे; नाश करनेवाले से मोआब को बचाओ । पीसनेवाला नहीं रहा, लूट पाट फिर न होगी; क्योंकि देश में से अन्धे करनेवाले नाश हो गए हैं । ५ तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तम्बू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा * और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा ॥

६ हम ने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यन्त अभिमानी था; उसके अभिमान और गर्व और रोष के सम्बन्ध में भी सुना है—परन्तु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है । ७ क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा; सब के सब मोआब के लिये हाहाकार करेंगे । कीरहरासत की दाख की टिकियों के लिये वे अति निराश होकर लम्बी लम्बी सांस लिया करेंगे ॥

८ क्योंकि हेसबोन के खेत और सिबमा की दाख लताएं मुर्झा गईं, अन्यजातियों के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काटकर गिरा दिया है, वे याजेर तक पहुँचीं और जंगल में भी फैलती गईं; और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गईं थीं । ९ मैं याजेर

* मूल में—जो न्याय करेगा और न्याय पूरेगा ।

के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिये भी रोज़गा; हे हेसबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा; क्योंकि तुम्हारे धूपकाल के फलों के और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है । १० और फलदाईं बारियों में से आनन्द और मगनता जाती रही; दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा; और दाखरस के कुण्डों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बन्द करूँगा । ११ इसलिये मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय कीरहरेस के कारण वीरणा का सा क्रन्दन करता है ॥

१२ और जब मोआब ऊँचे स्थान पर मुँह दिखाते दिखाते थक जाए, और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ न होगा । १३ यही वह बात है जो यहोवा ने इस से पहिले मोआब के विषय में कही थी । १४ परन्तु अब यहोवा ने यों कहा है कि मजदूरों के वर्षों के समान तीन वर्ष के भीतर मोआब का विभव और उसकी भीड़-भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी; और थोड़े जो बचेगे उनका कोई बल न होगा ॥

१७ दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी । देखो, दमिश्क नगर न रहेगा, वह खडहर ही खडहर हो जाएगा । २ अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के भुण्डों की चराई बनेंगे; पशु उन में बैठेंगे और उनका कोई भगानेवाला न होगा । ३ एग्रैम के गढ़वाले नगर, और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी, तीनों भविष्य में

न रहेंगे; और जो दशा इस्राएलियों के विभव की हुई बही उनकी होगी; सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥

४ और उस समय याकूब का विभव घट जाएगा, और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी। ५ और ऐसा होगा जैसा लवनेवाला भनाज काटकर बालों को अपनी भ्रुकवार में समेटे वा रपाईम नाम तराई में कोई सिला बीनता हो। ६ तौभी जैसे जलपाई वृक्ष के भाडते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात् फुनगी पर दो-तीन फल, और फलवन्त डालियों में कहीं कहीं चार-पाच फल रह जाते हैं, वैसे ही उन में सिला बिनाई होगी, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

७ उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा, और उसकी आँखें इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी; ८ वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा, और न अपनी बनाई हुई अशेरा नाम मूर्तों वा सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। ९ उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन, और उनके निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे ॥

१० क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा; इस कारण चाहे तू मनभावने पीछे लगाये और विदेशी कलम जमाये, ११ चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बान्धे, और बिहान ही को उन में फूल खिलने लगे, तौभी सन्ताप और असाध्य दुःख के दिन उसका फल नाश हो जायेगा ॥

१२ हाय, हाय ! देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, वे समुद्र की लहरों की नाईं गरजते हैं ! राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है, वे प्रचण्ड धारा के समान नाद करते हैं ! १३ राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल की नाईं नाद करते हैं, परन्तु वह उनको घुड़केगा, और वे दूर भाग जाएंगे, और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूरी वायु से, और घूलि बवण्डर से धुमाकर उड़ाई जाती है। १४ सांभ को, देखो, घबराहट है ! और भोर से पहिले, वे लोप हो गये हैं ! हमारे नाश करनेवालों का भाग और हमारे लूटनेवाले की यही दशा होगी ॥

१८ हाय, पक्षों की फडफडाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों के परे है; २ और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कहके भेजता है, हे फूर्तिले दूतो, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुन्दर हैं, जो आदि से अब तक डरावने हैं, जो मापने और रौदनेवाला भी हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है ॥

३ हे जगत के सब रहनेवालो, और पृथ्वी के सब निवासियो, जब झडा पहाडों पर खडा किया जाए, उसे देखो ! जब नरसिगा फूका जाए, तब सुनो ! ४ क्योंकि यहोवा ने मुझ से यों कहा है, घूप की तेज गर्मी वा कटनी के समय के घोसवाले बादल की नाईं में शान्त होकर निहाळंगा। ५ क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहिले जब फूल फूल चुकें, और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं

से काट डालेगा, और फेंकी हुई डालियों को तोड़ तोड़कर अलग फेंक देगा । ६ वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन-पशुओं के लिये इकट्ठे पड़े रहेंगे । और मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते * धूपकाल बिताएंगे, और सब भाति के † वनपशु उनको खाते खाते * जाड़ा काटेंगे ॥

७ उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुन्दर हैं, और जो आदि ही से डरावने होते आए हैं, और मापने और रौंदनेवाले हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेट पहुँचाई जाएगी ॥

१६ मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी । देखो, यहोवा शीघ्र उड़नेवाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है; २ और मिस्र की मूर्ते उसके आने से धरधरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय पानी-पानी हो जाएगा । और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभाऊंगा, और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा, नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा, ३ और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी † और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा; और वे अपनी मूर्तों के पास और ओम्हों और फुसफुसानेवाले टोनहों § के पास जा जाकर उन से पूछेंगे;

* मूल में—उन पर ।

† मूल में—और भूमि के सब ।

‡ मूल में—मिस्र की आत्मा उसके भीतर झुँकी होगी ।

§ मूल में—और फुसफुसानेवालों और ओम्हों और टोनहों ।

४ परन्तु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा; और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा, प्रभु, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥

५ और समुद्र का जल सूख जाएगा, और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी; ६ और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र * की नहरें भी सूख जाएगी, और नरकट और हूगले कुम्हला जाएंगे । ७ नील नदी के तीर पर के कछार की घास, और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूखकर नष्ट हो जाएगा †, और उसका पता तक न लगेगा । ८ सब मछुवे जितने नील नदी में बसी डालते हैं विलाप करेंगे और लम्बी लम्बी सासे लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे ‡ । ९ फिर जो लोग धुने हुए सन में काम करते हैं और जो सूत से बुनने हैं उनकी आशा टूट जाएगी । १० मिस्र के रईस तो निराश § और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे ॥

११ निश्चय सोमन के सब हाकिम मूर्ख हैं; और फिरौन के बुद्धिमान मन्त्रियों को युक्ति पशु की सी ठहरी । फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की सन्तान हूँ ? १२ अब तैरे बुद्धिमान कहा है ? सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है, उसको यदि वे जानते हों तो तुम्हें बताएँ । १३ सोमन के हाकिम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हाकिमों ने धोखा खाया है; और जिन पर मिस्र के

* मूल में—मासोर ।

† मूल में—सूखकर भगाया जाएगा ।

‡ मूल में—सो कुम्हलाएंगे ।

§ मूल में—उसके खम्भे तो टूट पड़ेंगे ।

गोत्रों के प्रधान लोगों * का भरसा था उन्होंने ने मिस्र को भरसा दिया है। १४ यहोवा ने उस में भ्रमता उत्पन्न की है; उन्हो ने मिस्र को उसके सारे कामों में बमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है। १५ और मिस्र के लिये कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर वा पूछ से श्रथवा प्रधान वा साधारण से हो सके ॥

१६ उस समय मिस्री, स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे धरथराएंगे और कांप उठेंगे। १७ और यहूदा का देश मिस्र के लिये यहां तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह धरथरा उठेगा; सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है ॥

१८ उस समय मिस्र देश में पांच नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ ल्यायेंगे। उन में से एक का नाम नाशनगर † रखा जाएगा ॥

१९ उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिये एक बेदी होगी, और उसके सिवाने के पास यहोवा के लिये एक खभा खड़ा होगा। २० वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिये चिन्ह और साक्षी ठहरेगा; और जब वे श्रथेर करनेवाले के कारण यहोवा की दोहाई देंगे, तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा, और उन्हें मुक्त करेगा। २१ तब यहोवा अपने आप को मिस्रियो

पर प्रगट करेगा; और मिस्री उस समय यहोवा को पहिचानेंगे और मेलबलि और श्रथबलि बढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे, और यहोवा के लिये मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। २२ और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी बिनती सुनकर उनकी चंगा करेगा ॥

२३ उस समय मिस्र से श्रथूर जाने का एक राजमार्ग होगा, और श्रथूरी मिस्र में आएंगे, और मिस्री लोग श्रथूर को जाएंगे, और मिस्री श्रथूरियों के संग मिलकर श्राश्रयना करेंगे ॥

२४ उस समय इस्राएल, मिस्र और श्रथूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिये श्राशीष का कारण होंगे। २५ क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर श्राशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र, और मेरा रचा हुआ श्रथूर, और मेरा निज भाग इस्राएल ॥

२० जिस वर्ष में श्रथूर के राजा सर्गोन की आज्ञा से तर्तान ने श्रथदोद आकर उस से युद्ध किया और उसको ले भी लिया, २ उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार; सो उस ने वैसा ही किया, और वह नगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। ३ और यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह तीन वर्ष से उधाड़ा और नंगे पांव चलता आया है, कि मिस्र और कूश के लिये चिन्ह और चमत्कार हो, ४ उसी प्रकार श्रथूर का राजा मिस्री और कूश के

* मूल में—गोत्रों के कोने।

† अर्थात् दह जानेवाला नगर।

लोगों को बंधुघात करके देश-निकाल करेगा, क्या लड़के क्या बूढ़े, सबों को बंधुए करके उधाड़े और नंगे पांव और नितम्ब खुले ले जाएगा, जिस से मिस्र लज्जित हो। ५ तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी, और मिस्र के हेतु-जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। ६ और समुद्र के इस पार के बसनेवाले उस समय यह कहेंगे, देखो, जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम भ्रशूर के राजा से बचने के लिये भागने को थे उनकी ऐसी दशा हो गई है ! तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे ?

२१ समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन। जैसे दक्खिनी प्रचण्ड बबराडर चला आता है, वह जंगल से अर्थात् डरावने देश से निकट आ रहा है। २ कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है; विश्वासघाती विश्वासघात करता है, और नाशक नाश करता है। हे एलाम, चढ़ाई कर, हे मार्द, घेर ले; उसका सब कराहना मैं बन्द करता हूँ। ३ इस कारण मेरी कटि में कठिन पीडा है; मुझ को मानो जच्चा पीड़ें हो रही है; मैं ऐसे सकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता, मैं ऐसा खबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। ४ मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यन्त भयभीत हूँ; जिस सांभ की मैं बाट जोहता था उसे उस ने मेरी धरधराहट का कारण कर दिया है। ५ भोजन * की तैयारी हो रही है, पहण्ड बँटाए जा रहे हैं, खाना-पीना हो रहा है।

* मूल में—ब्रेक।

हे हाकिमो, उठो, ढाल में तेल मलो ! ६ क्योंकि प्रभु ने मुझ से यों कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे, और वह जो कुछ देखे उसे बताए। ७ जब वह सवार देखे जो दो-दो करके आते हों, और गदहों और ऊंटों के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। ८ और उस ने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैं ने पूरी रातें पहले पर काटा। ९ और क्या देखता हूँ कि मनुष्यों का दल और दो-दो करके सवार चले आ रहे हैं ! और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बाबुल गिर पड़ा; और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूरते भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। १० हे मेरे दाएँ हुए, और मेरे खलिहान के अन्न, जो बाते में ने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैं ने तुम्हें जता दिया है ॥

११ दूमा के विषय भारी वचन। सेईर मे से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरण, रात का क्या समाचार है ? हे पहरण, रात की क्या खबर है ? १२ पहरण ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो; फिर लौटकर आना ॥

१३ अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे ददानी बटोहियो, तुम को अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। १४ वे प्यासे के पास जल लाए, तेमा देश के रहनेवाले रोटी लेकर भागनेवाले से मिलने के लिये निकले आ रहे हैं। १५ क्योंकि वे तलवारों के साम्हने से वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। १६ क्योंकि प्रभु ने मुझ से यों कहा है, मजदूर के वर्षों

के अनुसार एक वर्ष में केदार का सारा विभव मिटाया जाएगा; १७ और केदार के धनुर्धारी शूरवीरों में से थोड़े ही रह जायेंगे; क्योंकि इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है ॥

२२ दर्शन की तराई के विषय भारी वचन। तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छतों पर चढ़ गए हो, २ हे कोलाहल और ऊधम से भरी प्रसन्न नगरी? तुम मे जो मारे गए हैं वे न तो तलवार से और न लड़ाई में मारे गए हैं। ३ तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और धनुर्धारियों से बान्धे गए हैं। और तेरे जितने शेष पाए गए वे एक संग बान्धे गए, वे दूर भागे थे। ४ इस कारण मैं ने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलककर रोज़; मेरे नगर* के सत्यानाश होने के शोक में मुझे शान्ति देने का यत्न मत करो ॥

५ क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कोलाहल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी; शहरपनाह में सुरंग लगाई जाएगी और दोहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुंचेगा। ६ और एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तर्कश बान्धे हुए हैं, और कीर ढाल खोले हुए हैं। ७ तेरी उत्तम उत्तम तराइयां रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के साम्हने पाति बान्धेंगे। उस ने यहूदा का घूँघट खोल दिया है ॥

८ उस दिन तू ने वन नाम भवन के अस्त्र-शस्त्र का स्मरण किया, ९ और

तू ने दाऊदपुर की शहरपनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तू ने निष्पले पोखरे के जल को इकट्ठा किया १० और यरूशलेम के घरों को गिनकर शहरपनाह के दूढ़ करने के लिये घरों को ढा दिया। ११ तू ने दोनों भीतों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिये एक कुंड खोदा। परन्तु तू ने उसके कर्त्ता को स्मरण नहीं किया, जिस ने प्राचीनकाल से उसको ठहरा रखा* था, और न उसकी ओर तू ने दृष्टि की ॥

१२ उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने-पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहिनने के लिये कहा था; १३ परन्तु क्या देखा कि हर्ष और आनन्द मनाया जा रहा है, गाय-बैल का घात और भेड़-बकरी का बध किया जा रहा है, मांस खाया और दाखमधु पीया जा रहा है। और कहते हैं, आओ खायें-पीयें, क्योंकि कल तो हमें मरना है। १४ सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रगट की, निश्चय तुम लोगों के इस अघर्म का कुछ भी प्रायश्चित्त तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा, सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है ॥

१५ सेनाओं का प्रभु यहोवा यों कहता है, शोबना नाम उस भएडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है जाकर कह, यहां तू क्या करता है? १६ और यहां तेरा कौन है कि तू ने अपनी कबर यहां खुदवाई है? तू अपनी कबर ऊँचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है? १७ देख, यहोवा तुम को बड़ी शक्ति से

* मूल में—बेटी।

* मूल में—इसे रचा।

पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। १८ वह तुम्हें मरोड़कर गेन्द की नाई लम्बे चौड़े देश में फेंक देगा; हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करनेवाले वहां तू मरेगा और तेरे विभव के रथ वही रह जाएंगे। १९ मैं तुम्हें को तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा, और तू अपने पद से उतार दिया जायेगा। २० उस समय मैं हिलिकयाह के पुत्र अपने दास एल्याकीम को बुलाकर, उसे तेरा भ्रंगरखा पहनाऊंगा, २१ और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बान्धूंगा, और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा। और वह यरूशलेम के रहनेवालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। २२ और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेंगा और कोई बन्द न कर सकेगा; वह बन्द करेगा और कोई खोल न सकेगा। २३ और मैं उसको दृढ़ स्थान में खूटी की नाई गाड़ूंगा, और वह अपने पिता के घराने के लिये विभव का कारण * होगा। २४ और उसके पिता से घराने का सारा विभव, वंश और सन्तान, सब छोटे-छोटे पात्र, क्या कटोरे क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। २५ सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय वह खूटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी, वह ढीली हो जाएगी, और काटकर गिराई जाएगी; और उस पर का बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है ॥

२३ सोर के विषय भारी वचन। हे तर्शीश के जहाजो हाय, हाय, करो; क्योंकि वह उजड़ गया; वहां न तो कोई घर और न कोई शरण का

* मूल में—महिमायुक्त सिंहासन।

स्थान है! यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रगट की गई है। २ हे समुद्र के तीर के रहनेवालो, जिनको समुद्र के पार जानेवाले सीदोनी ब्योपारियों ने घन से भर दिया है, चुप रहो! ३ शीहोर * का अन्न, और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह और जातियों के लिये ब्योपार का स्थान था। ४ हे सीदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात् समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैं ने न तो कभी जन्माने की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया, और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। ५ जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे, तब वे सुनकर सकट में पड़ेगे। ६ हे समुद्र के तीर के रहनेवालो हाय, हाय, करो! पार होकर तर्शीश को जाओ। ७ क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है जो प्राचीनकाल से बसी थी, जिसके पाव उमें बसने को दूर ले जाते थे? ८ सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी †, जिनके ब्योपारी हाकिम थे, और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध किस ने ऐसी युक्ति की है? ९ सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के धमण्ड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। १० हे तर्शीश के निवासियो ‡ नील नदी की नाई अपने देश में फैल जाओ; अब कुछ बन्धन § नहीं रहा। ११ उस ने अपना हाथ

* अर्थात् मिस्र का उत्तरवाला भाग।

† मूल में—युद्ध। रखनेवाली सोर।

‡ मूल में—तर्शीश की बेटी।

§ मूल में—कैटा।

समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है; यहोवा ने कनान के दूढ़ किलों के नाश करने की आज्ञा दी है। १२ और उस ने कहा है, हे सीदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं; उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परन्तु वहां भी तुझे चैन न मिलेगा ॥

१३ कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही; अशूर ने उस देश को जगली जन्तुओं का स्थान बनाया। उन्होंने ने अपने गुम्मत उठाए और राजभवनों को ढा दिया, और उसको खण्डहर कर दिया। १४ हे तर्शाश के जहाजो, हाय, हाय, करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़स्थान उजड़ गया है। १५ उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार सत्तर वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। सत्तर वर्ष के बीतने पर सोर बेर्या की नाई गीत गाने लगेगा। १६ हे बिसरी हुई बेर्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भाँति बजा, बहुत गीत गा, जिस से लोग फिर तुझे याद करे। १७ सत्तर वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा, और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के सग छिनाला करेगी। १८ उसके ब्योपार की प्राप्ति, और उसके छिनाले की कमाई, यहोवा के लिये पवित्र की जाएगी, वह न भण्डार में रखी जाएगी न सचय की जाएगी, क्योंकि उसके ब्योपार की प्राप्ति उन्ही के काम में आएगी जो यहोवा के साम्हने रहा करेगे, कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले ॥

२४ सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने के पर है, वह उसको उलटकर उसके रहनेवालों को

तितर बितर करेगा। २ और जैसी यजमान की बैसी याजक की; जैसी दास की वैसा स्वामी की; जैसी दासी की बैसी स्वामिनी की; जैसी लेनेवाले की बैसी बेचनेवाले की; जैसी उधार देनेवाले की बैसी उधार लेनेवाले की; जैसी ब्याज लेनेवाले की बैसी ब्याज देनेवाले की; सभों की एक ही दशा होगी। ३ पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी; क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है ॥

४ पृथ्वी विलाप करेगी और मुर्झाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुर्झा जाएगा; पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। ५ पृथ्वी अपने रहनेवालों के कारण * अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने ने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला, और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। ६ इस कारण पृथ्वी को शाप प्रसेगा और उस में रहनेवाले दोषी ठहरेगे; और इसी कारण पृथ्वी के निवासी अस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ७ नया दाखमधु जाता रहेगा †, दाखलता मुर्झा जाएगी, और जितने मन में आनन्द करते हैं सब लम्बी लम्बी सांस लेगे। ८ डफ का सुखदाई शब्द बन्द हो जाएगा, प्रसन्न होनेवालो का कोलाहल जाता रहेगा, वीणा का सुखदाई शब्द शान्त हो जाएगा। ९ बे गाकर फिर दाखमधु न पीएंगे; पीनेवाले को मदिरा कड़वी लगेगी। १० गड़बड़ी मचानेवाली नगरी नाश होगी, उसका हर एक घर ऐसा बन्द किया जाएगा कि कोई पैठ न सकेगा। ११ सड़कों में लोग दाखमधु के लिये बिल्लाएंगे; आनन्द

* मूल में—नीचे।

† मूल में—विलाप करेगा।

मिट जाएगा * : देश का सारा हर्ष जाता रहेगा । १२ नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा, और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे । १३ क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जलपाइयों के भाड़ने के समय, वा दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं ॥

१४ वे लोग गला खोलकर जयजयकार करेंगे, और यहोवा के माहात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे । १५ इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो, और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणानुवाद करो । १६ पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है, कि धर्मी की महिमा और बढ़ाई हो । परन्तु मैं ने कहा, हाय, हाय ! मैं नाश हो गया, नाश † ! क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं ॥

१७ हे पृथ्वी के रहनेवालो तुम्हारे लिये भय और गड़हा और फन्दा है ! १८ जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड़हे में गिरेगा, और जो कोई गड़हे में से निकले वह फन्दे में फसेगा । क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, और पृथ्वी की नेव डोल उठेगी । पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यन्त कम्पायमान होगी । १९ वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी २० और मचान की नाई डोलेंगी; वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी ॥

२१ उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी

के राजाओं को पृथ्वी ही पर दण्ड देगा । २२ वे बंधुओं की नाई गड़हे में इकट्ठे किए जाएंगे और बन्दीगृह में बन्द किए जाएंगे; और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी । २३ तब चन्द्रमा सकुचित * हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा; क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के साम्हने प्रताप के साथ राज्य करेगा ॥

२५ हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है; मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा; क्योंकि तू ने आश्चर्य कर्म किए हैं, तू ने प्राचीनकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियों की है । २ तू ने नगर को डीह, और उस गढ़वाले नगर को खण्डहर कर डाला है; तू ने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा; वह फिर कभी बसाया न जाएगा । ३ इस कारण बलवन्त राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे; भयंकर अन्त्यजातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा । ४ क्योंकि तू संकट में दीनों के लिये गढ़, और जब भयानक लोगों का भोंका भीत पर बौखार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिये उनकी शरण, और तपन में छाया का स्थान हुआ । ५ जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठण्डी होती है वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जयजयकार बन्द करता † हैं ॥

६ सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिये ऐसी

* मूल में—अन्वेषण होगा ।

† मूल में—क्षीण हो गया क्षीण ।

* मूल में—चन्द्रमा का मुह काला ।

† मूल में—सुका देता ।

जेबनार करेगा जिस में भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा; उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा । ७ और जो पर्दा * सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूँघट सब अन्यजातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा । ८ वह मृत्यु को सदा के लिये नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सभों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा; क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है ॥

६ और उस समय यह कहा जाएगा, देखो, हमारा परमेश्वर यही है; हम इसी की बात जोहते आए हैं, कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है; हम उसकी बात जोहते आए हैं। हम उस से उद्धार पाकर मगन और आनन्दित होंगे ॥

१० क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा धूरे में पुआल लताड़ा जाता है । ११ और वह उस में अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा, जैसे कोई तैरते हुए फैलाए; परन्तु वह उसके गर्ब को तोड़ेगा; और उसकी चतुराई † को निष्फल कर देगा ‡ । १२ और उसकी ऊँची ऊँची और दृढ़ शहरपनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा ॥

* मूल में—परदे का जो घुंघ ।

† मूल में—उसके हाथों की चतुर युक्तियों ।

‡ मूल में—नीचा कर देगा ।

२६ उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है; उद्धार का काम देने के लिये वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है । २ फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करनेवाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे । ३ जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शान्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है । ४ यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है । ५ वह ऊँचे पदवाले को झुका देता, जो नगर ऊँचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता । वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है । ६ वह पांवों से, वरन दरिद्रों के पैरों से रोदा जाएगा * ॥

७ धर्मी का मार्ग सच्चाई है; तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है । ८ हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बात जोहते आए हैं; तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्रारणों में लालसा बनी रहती है । ९ रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा सम्पूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे ढूँढता है । क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रगट होते हैं, तब जगत के रहनेवाले धर्म को सीखते हैं । १० दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तीभी वह धर्म को न सीखेगा; धर्मराज्य † में भी वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का माहात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा ॥

* मूल में—उसको पांव से रौंदेगा, दीन के पांव कंगालों के कदम ।

† मूल में—धर्म के देश ।

११ हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते। परन्तु वे जानेंगे कि तुम्हें प्रजा के लिये कंसी जलन है, और लजाएंगे। १२ तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिये शान्ति ठहराएगा, हम ने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिये किया है। १३ हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परन्तु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। १४ वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे; उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के; तू ने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। १५ परन्तु तू ने जाति को बढ़ाया; हे यहोवा, तू ने जाति को बढ़ाया है; तू ने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सिवानों को तू ने बढ़ाया है।

१६ हे यहोवा, दुःख में वे तुम्हें स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुम्हें पर प्रगट करते थे*। १७ जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐठती और पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी, हे यहोवा, तेरे साम्हने वैसे ही हो गए हैं। १८ हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हम ने मानो वायु ही को जन्म दिया। हम ने देश के लिये कोई उद्धार का काम नहीं किया, और न जगत के रहनेवाले उत्पन्न † हुए। १९ तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मूर्दे उठ खड़े होंगे। हे भिट्टी में बसनेवालो, जागकर

* मूल में—उचडेल दी। † वा पड़े।

जयजयकार करो! क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है, और पृथ्वी मुदों को लौटा देगी।

२० हे मेरे लोगो, आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किबाड़ों को बन्द करो; थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शान्त न हो* तब तक अपने को छिपा रखो। २१ क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दण्ड देने के लिये अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रगट करेगी और घात किए हुएों को और अधिक न छिपा रखेगी।

२७ उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी, और पोड तलवार से लिब्यातान नाम बेग और टेडे चलनेवाले सपें को दण्ड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा।

२ उस समय एक सुन्दर दास की बारी होगी, तुम उसका यश गाना ! ३ में यहोवा उसकी रक्षा करता हूं; में क्षण क्षण उसको सीचता रहूंगा। मैं रात-दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। ४ मेरे मन में जलजलाहट नहीं है। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझ से लड़ने को खड़े करता, तो मैं उन पर पांव बढ़ाकर उनको पूरी रीति से भस्म कर देता। ५ वा मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण लें, वे मेरे साथ मेल कर लें।

६ भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, और इस्राएल फूले-फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा।

* मूल में—निकल न जाय।

७ क्या उस ने उसे मारा जैसा उस ने उसके मारनेवालों को मारा था ? क्या वह घात किया गया जैसे उसके घात किए हुए घात हुए ? ८ जब तू ने उसे निकाला, तब सोच-विचार कर उसको दुःख दिया * : उस ने पुरवाई के दिन उसको प्रचण्ड वायु से उड़ा दिया है । ९ इस से याकूब के अघर्म का प्रायश्चित्त किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे बेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे, और अशोरा और सूर्य की प्रतिमाएँ फिर खड़ी न रहेंगी । १० क्योंकि गढवाला नगर निर्जन हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जगल हो गया है; वहाँ बछड़े चरेंगे और वही बैठेंगे, और पेड़ों की डालियों की फुन्गी को खा लेंगे । ११ जब उसकी शाखाएँ सूख जाएँ तब तोड़ी जाएगी, और स्त्रियाँ आकर उनको तोड़कर जला देगी । क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं; इसलिये उनका कर्त्ता उन पर दया न करेगा, और उनका रचनेवाला उन पर अनुग्रह न करेगा ॥

१२ उस समय यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा, और हे इस्त्राएलियो तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे । १३ उस समय बडा नरसिगा फूका जाएगा, और जो अमशूर देश में नाश हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दण्डवत् करेंगे ॥

* मूल में—उसके साथ भगवा करता है ।

१८ घमण्ड के मुकुट पर हाथ ! जो एग्रैम के मतवालों का है, और उनकी भड़कीली सुन्दरता पर जो मुर्झानेवाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाखमधु से मतवालों की है । २ देखो, प्रभु के पास एक बलवन्त और सामर्थी है जो ओले की वर्षा वा उजाड़नेवाली आंधी या बाढ की प्रचण्ड धार की नाई है वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा । ३ एग्रैमी मतवालों के घमण्ड का मुकुट पाव से लताड़ा जाएगा ; ४ और उनकी भड़कीली सुन्दरता का मुर्झानेवाला फूल जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर है, वह ग्रीष्मकाल से पहिले पके अजीर के समान होगा, जिसे देखनेवाला देखते ही हाथ में ले और निगल जाए ॥

५ उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बच्चे हुआँ के लिये सुन्दर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा ; ६ और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिये न्याय करनेवाली आत्मा और जो चढाई करते हुए शत्रुओं को * नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिये वह बल ठहरेगा ॥

७ ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते और मदिरा से लड़खड़ाते हैं; याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं, दाखमधु ने उनको भुला दिया है, वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भटक जाते, और न्याय में भूल करते हैं । ८ क्योंकि सब भोजन-आसन वमन और मल से भरे हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा ॥

* मूल में—लड़ाई को ।

६ वह किसको ज्ञान सिखाएगा, और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा ? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलग हुए हैं ? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, १० नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां, थोड़ा वहां ॥

११ वह तो इन लोगों से परदेशी होंओं और विदेशी भाषावालों के द्वारा बाते करेगा, १२ जिन से उस ने कहा, विश्राम इसी से मिलेगा; इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो; परन्तु उन्हीं ने सुनना न चाहा। १३ इसलिये यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोडा यहा, थोडा वहा, जिस से वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाएं, और फदे में फसकर पकड़े जाए ॥

१४ इस कारण हे ठुठ्टा करनेवालो, यरूशलेमवासी प्रजा के हाकिमो, यहोवा का वचन सुनो ! १५ तुम ने कहा है कि हम ने मृत्यु से वाचा बान्धी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है; इस कारण विपत्ति जब बाढ की नाई बढ आए तब हमारे पास न आएगी; क्योंकि हम ने भूठ की शरण ली और मिथ्या की आड में छिपे हुए हैं। १६ इसलिये प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो, मैं ने सिय्योन में नेव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ नेव के योग्य पत्थर : और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। १७ और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा; और तुम्हारा भूठ का शरणस्थान भोलों से बह जाएगा,

और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। १८ तब जो वाचा तुम ने मृत्यु से बान्धी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुम ने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी; जब विपत्ति बाढ की नाई बढ आए, तब तुम उस में डूब * ही जाओगे। १९ जब जब वह बढ आए, तब तब वह तुम को ले जाएगी; वह प्रति दिन वरन रात दिन बढ़ा करेगी; और इस समाचार का सुनना ही व्याकुल होने का कारण होगा। २० क्योंकि बिछौना टांग फँलाने के लिये छोटा, और ओढना ओढने के लिये सकरा है ॥

२१ क्योंकि यहोवा ऐसा उठ खड़ा होगा जैसा वह पराजीम नाम पर्वत पर खड़ा हुआ और जैसा गिबोन की तराई में उस ने क्रोध दिखाया था, वह अब फिर क्रोध दिखाएगा, जिस से वह अपना काम करे, जो अचम्भित काम है, और वह कार्य करे जो अनोखा है। २२ इसलिये अब तुम ठुठ्टा मत करो, नही तो तुम्हारे बन्धन कसे जाएगे; क्योंकि मैं ने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है ॥

२३ कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। २४ क्या हल जोतनेवाला बीज बोने के लिये लगातार जोतता रहता है ? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेगाता रहता है ? २५ क्या वह उसको चौरस करके सीफ को नही छितराता, जीरे को नही बखेरता और गेहूं को पाति पाति करके और जब को उसके निज स्थान पर, और कठिये गेहूँ को खेत की छोर पर नही बोता ?

* मूल में—सताने।

२६ क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है ॥

२७ दांवने की गाड़ी से तो सौफ दाई नहीं जाती, और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता; परन्तु सौफ छड़ी से, और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। २८ रोटी के अन्न पर दायें की जाती हैं, परन्तु कोई उसको सदा दांवता नहीं रहता; और न गाड़ी के पहिये न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। २९ यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्तिवाला और महाबुद्धिमान है ॥

२९ हाय, अरीएल*, अरीएल, हाय उस नगर पर जिस में दाऊद छावनी किए हुए रहा! वर्ष पर वर्ष जोड़ते जाओ, उत्सव के पर्व अपने अपने समय पर मनाते जाओ। २ तौभी मैं तो अरीएल को सकेती में डालूंगा, वहां रोना पीटना रहेगा, और वह मेरी दृष्टि में सचमुच अरीएल सा ठहरेगा। ३ और मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुम्हें कोटों से घेर लूंगा, और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा। ४ तब तू गिराकर भूमि में डाला जाएगा, और धूल पर से बोलेगा, और तेरी बात भूमि से धीमी धीमी सुनाई देगी; तेरा बोल भूमि पर से प्रेत का सा होगा, और तू धूल से गुनगुनाकर बोलेगा ॥

५ तब तेरे परदेशी बैरियों की भीड़ सूखम धूलि की नाई, और उन भयानक

* अर्थात् ईश्वर का अग्निकुण्ड वा ईश्वर का सिंह।

लोगों की भीड़ भूसे की नाई उड़ाई जाएगी। ६ और सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कम्पाता, और महाध्वनि करता, बवण्डर और आधी चलाता, और नाश करनेवाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। ७ और जातियों की सारी भीड़ जो अरीएल से युद्ध करेगी, और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको सकेती में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेगे। ८ और जैसा कोई भूखा स्वप्न में तो देखता है कि वह खा रहा है, परन्तु जागकर देखता है कि उसका पेट भूखा ही है, वा कोई प्यासा स्वप्न में देखे कि वह पी रहा है, परन्तु जागकर देखता है कि उसका गला सूखा जाता * है और वह प्यासा मर रहा है †; वैसी ही उन सब जातियों की भीड़ की दशा होगी जो सिय्योन पर्वत से युद्ध करेगी ॥

९ ठहर जाओ और चकित होओ, भोगविलास करो और अन्ध हो जाओ! वे मतवाले तो हैं, परन्तु दाखमधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं, परन्तु मदिरा पीने से नहीं! १० यहोवा ने तुम को भारी नीद में डाल दिया ‡ है और उस ने तुम्हारी नबीरूपी आंखों को बन्द कर दिया है और तुम्हारे दर्शरूपी सिरों पर पर्दा डाला है। ११ इसलिये सारे दर्शन तुम्हारे लिये एक लपेटी और मुहर की हुई पुस्तक की बातों के समान हैं, जिसे कोई पढ़े-लिखे मनुष्य को यह कहकर दे,

* मूल में—कि मैं थका।

† मूल में—मेरा जीव लालसा करता है।

‡ मूल में—तुम पर भारी नीद की आत्मा उयडेली।

इसे पढ़, और वह कहे, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मुहर की हुई है। १२ तब वही पुस्तक अनपढ़े को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे, मैं तो अनपढ़ हूँ ॥

१३ और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह* से मेरा आदर करते हुए समीप आते परन्तु अपना मन मुझ से दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं †; १४ इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचम्भे का काम करूंगा; तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी ‡ ॥

१५ हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते §, और अपने काम अन्धेरे में करके कहते हैं, हम को कौन देखता है? हम को कौन जानता है? १६ तुम्हारी कंसी उलटी समझ है! क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्त्ता के विषय कहे कि उस ने मुझे नहीं बनाया, वा रची हुई वस्तु अपने रचनेवाले के विषय कहे, कि वह कुछ समझ नहीं रखता?

१७ क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबानोन फिर फलदाई बारी न बन जाएगा, और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी? १८ उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अन्धे

* मूल में—मुंह और डोंडों।

† मूल में—तो मनुष्यों की सिखाई हुई आज्ञा है।

‡ मूल में—झिप जाएगा।

§ मूल में—नीचे जाते हैं।

जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता, वे देखने लगेंगे *। १९ नन्न लोग यहोवा के कारण फिर आनन्दित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण भगन होंगे। २० क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेंगे और ठट्टा करनेवालों का अन्त होगा, और जो अनर्थ करने के लिये जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को वचन में फंसाते हैं, २१ और जो सभा † में उलहना देते उनके लिये फंदा लगाते, और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड देते हैं, वे सब मिट जाएंगे ॥

२२ इस कारण इस्राहीम का छुड़ाने-वाला यहोवा, याकूब के घराने के विषय यों कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ‡ न होगा। २३ क्योंकि जब उसके सन्तान मेरा काम देखेंगे, जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे; वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे, और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। २४ उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे, और जो कुडकुड़ाते हैं वह शिक्षा ग्रहण करेंगे ॥

३० यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करनेवाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परन्तु मेरी ओर से नहीं; बाचा तो बाधते परन्तु मेरे आत्मा के सिखाये नहीं; और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। २ वे मुझ से बिन पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिगोन

* मूल में—अन्धों की आंखें तिमिर और अन्धकार में से देखेंगी।

† मूल में—फाटक।

‡ मूल में—कीका वा पीला।

की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। ३ इसलिये फिरौन का शरण-स्थान तुम्हारी लज्जा का, और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निन्दा का कारण होगा। ४ उसके हाकिम सोभन में आए तो हैं और उसके दूत अब हानेस में पहुँचे हैं। ५ वे सब एक ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिस से उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी ॥

६ दक्खिन देश के पशुओं के विषय भारी वचन। वे अपनी धन सम्पत्ति को जवान गदहों की पीठ पर, और अपने खजानों को ऊटों के कूबड़ों पर लादे हुए, सकट और सकेती के देश में होकर, जहाँ * सिंह और सिंहनी, नाग और उड़नेवाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन से उनको लाभ न होगा। ७ क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैं ने उसको बैठी रहनेवाली रहब † कहा है ॥

८ अब जाकर इसको उनके साम्हने पत्थर पर खोद, और पुस्तक में लिख, कि वह भविष्य के लिये वरन सदा के लिये साक्षी बनी रहे। ९ क्योंकि वे बलवा करनेवाले लोग और झूठ बोलनेवाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। १० वे दर्शियों से कहते हैं, दर्शी मत बनो; और नबियों से कहते हैं, हमारे लिये ठीक नबूवत मत करो; हम से चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देनेवाली नबूवत करो। ११ मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, और इस्राएल के पवित्र को हमारे

* मूल में—जिन से।

† अर्थात् अभिमान।

साम्हने से दूर * करो। १२ इस कारण इस्राएल का पवित्र यों कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अन्धेरे और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो; १३ इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिये ऊँची भीत का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा, १४ और कुम्हार के बर्तन की नाई फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी न मिलेगा जिस से अग्रेठी में से आग ली जाए वा हीद में से जल निकाला जाए ॥

१५ प्रभु यहोवा, इस्राएल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शान्त रहने में तुम्हारा उद्धार है; शान्त रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परन्तु तुम ने ऐसा नहीं किया, १६ तुम ने कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिये तुम भागोगे; और यह भी कहा कि हम तेज सवारी पर चलेंगे, सो तुम्हारा पीछा करनेवाले उस से भी तेज होंगे। १७ एक ही की धमकी से एक हजार भागेंगे, और पाँच की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अन्त में तुम पहाड़ की चोटी के डराड़े वा टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे जो चिन्ह के लिये गाड़े जाते हैं ॥

१८ तीसरी यहोवा इसलिये विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिये ऊँचे उठेगा कि तुम पर दया करे। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है; क्या ही घन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं ॥

* मूल में—बन्द।

१६ हे सिय्योन के लोगो तुम यरूशलेम में बसे रहो; तुम फिर कभी न रोओगे, वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा : वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा । २० और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुःख का जल भी दे, तौभी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपें, और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे । २१ और जब कभी तुम दहिनी वा बाई ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो । २२ तब तुम वह चान्दी जिस से तुम्हारी खुदी हुई मूर्तिमा मढ़ी है, और वह सोना जिस से तुम्हारी ढली हुई मूर्तियाँ आभूषित हैं, अशुद्ध करोगे । तुम उनको मँले कुचले वस्त्र की नाई फेंक दोगे और कहोगे, दूर हो । २३ और वह तुम्हारे लिये जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी । उस समय तुम्हारे जानवरों को लम्बी-चौड़ी चराई मिलेगी २४ और बैल और गदहे जो तुम्हारी खेती के काम में आएँगे, वे सूप और डलिया में फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएँगे । २५ और उस महासहार के समय जब गुम्मत गिर पड़ेगे, सब ऊँचे ऊँचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियाँ और सोते पाए जाएँगे । २६ उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का धाव बान्धेगा और उनकी चोट चढ़ा करेगा ; तब चन्द्रमा का प्रकाश सूर्य का सा, और सूर्य का प्रकाश सातगुना होगा, अर्थात् अठवारे भर का प्रकाश एक दिन में होगा ।।

२७ देखो, यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है, और

धूप का बादल उठ रहा है; उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ भस्म करनेवाली भाग के समान है । २८ उसकी सांस ऐसी उमरड़नेवाली नदी के समान है जो गले तक पहुँचती है; वह सब जातियों को नाश के सूप से फटकेगा, और देश देश के लोगों को भटकाने के लिये उनके जभड़ों में लगा म लगाएगा ।।

२९ तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे, और जैसा लोग यहोवा के पर्वत की ओर उस से मिलने को, जो इस्राएल की चट्टान है, बांसुली बजाते हुए जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे मन में भी आनन्द होगा । ३० और यहोवा अपनी प्रतापीवागी सुनाएगा, और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ, और प्रचण्ड आन्वी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल * दिखाएगा । ३१ अशूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नाश हो जाएगा, वह उसे सोंटे से मारेगा । ३२ और जब जब यहोवा उसको दण्ड देगा †, तब तब साथ ही डफ और वीणा बजेगी; और वह हाथ बढ़ाकर उसको लगातार मारता रहेगा । ३३ बहुत काल में तोपेत ‡ तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिये ठहराया गया है, वह लम्बा-चौड़ा और गहिरा भी बनाया गया है, वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है; यहोवा की सांस जलती हुई गन्धक की धारा की नाई उसको सुलगाएगी ।।

* मूल में—अपनी युवा का उत्तरना ।

† मूल में—उस पर नेबबाला दण्ड रखेगा ।

‡ अर्थात् फूकने का स्थान ।

३१ हाथ उन पर जो सहायता पाने के लिये मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं; जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर, क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। २ परन्तु वह भी बुद्धिमान है और दुःख देगा, वह अपने वचन न टालेगा, परन्तु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। ३ मिन्नी लोग ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है; और उनके घोड़े आत्मा नहीं, मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढाएगा, तब सहायता करने-वाले और सहायता चाहनेवाले दोनों ठोकर खाकर गिरेगें, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे।

४ फिर यहोवा ने मुझ से यों कहा, जिस प्रकार सिंह वा जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो, और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तभी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा, सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर, युद्ध करने को उतरेगा। ५ पख फँलाई हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा; वह उसकी रक्षा करके बचाएगा, और उसको बिन छूए ही * उद्धार करेगा।

६ हे इस्राएलियों, जिसके विरुद्ध तुम ने भारी † बलवा किया है, उसी की ओर फिरो। ७ उस समय तुम लोग सोने

चान्दी की अपनी अपनी मूर्तियों से जिन्हें तुम * बनाकर पापी हो गए हो घृणा करोगे। ८ तब अश्रू उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं; वह उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं; और वह तलवार के साम्हने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। ९ वह भय के मारे अपने सुन्दर भवन से जाता रहेगा, और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे, यहोवा जिस की अग्नि सिय्योन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की यह वारणी है।।

३२ देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा, और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। २ हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान, और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के भरने, व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। ३ उस समय देखनेवालों की आँखें धुधली न होंगी, और सुननेवालों के कान लगे रहेंगे। ४ उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे, और तुतलानेवालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेंगी। ५ मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कजूस दानी कहा जाएगा। ६ क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढता रहता है कि वह बिन भक्ति के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूलें को भूला ही रहने दें और प्यासे का जल रोक रखे। ७ छली की चालें बुरी होती हैं, वह दुष्ट युक्तिया निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे जब कि वे ठीक और नम्रता

* मूल में—और लांघकर।

† मूल में—गड़बड़ करके।

* मूल में—जिन्हें तुम्हारे हाथ।

से भी बोलते हों। ८ परन्तु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियाँ निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा ॥

९ हे सुखी स्त्रियो, उठकर मेरी सुनो; हे निश्चिन्त पुत्रियो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। १० हे निश्चिन्त स्त्रियो, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखें न होंगी और न किसी भाँति के फल हाथ लगेंगे। ११ हे सुखी स्त्रियो, धरधराओ, हे निश्चिन्त स्त्रियो, विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतारकर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। १२ बे मनभाऊ खेतों और फलवन्त दाखलताओं के लिये छाती पीटोगी। १३ मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भाँति भाँति के कटीले पेंड उपजेंगे। १४ क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर मुनसान हो जाएगा; और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिये मादे और जगली गदहों का विहारस्थान और धरैलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे १५ जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उएडेला न जाए, और जंगल फलदायक बारी न बने, और फलदायक बारी फिर बन न गिनी जाए। १६ तब उस जंगल में न्याय बसेगा, और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। १७ और धर्म का फल शान्ति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिन्त रहना होगा। १८ मेरे लोग शान्ति के स्थानों में निश्चिन्त रहेंगे, और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। १९ और बन के विनाश के समय धोले गिरेंगे, और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। २० क्या ही

धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते, और बँलों और गदहों को स्वतन्त्रता से चराते * हो ॥

३३

हाय तुम नाश करनेवाले पर जो नाश नहीं गया था; हाय तुम विश्वासघाती पर, जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाग कर चुके, तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके, तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा ॥

२ हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धारकर्ता ठहर। ३ हुल्लड़ मुनते ही देश देश के लोग भाग गए, तेरे उठने पर अन्यजातियाँ तितर-बितर हुईं। ४ और जैसे टिड्डियाँ चट करती हैं वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे टिड्डियाँ टूट पडती हैं, वैसे ही वे उस पर टूट पडेंगे ॥

५ यहोवा महान हुआ है, वह ऊँचे पर रहता है, उस ने सिव्यों को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है; ६ और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा ॥

७ देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं; सधि के दूत बिलक बिलककर रो रहे हैं। ८ राजमार्ग मुनसान पड़े हैं, उन पर बटोही अब नहीं चलते। उस ने बाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, उस ने मनुष्य को कुछ न समझा। ९ पृथ्वी विलाप करती और मुर्झा गई है; लबानोन कुम्हला गया और

* मूल में—गदहों के पैर भेजते।

उस पर सियाही छा गई है; शारोन मरुभूमि के समान हो गया; बासान और कर्मेल में पतझड़ हो रहा है ॥

१० यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा *; अब मैं महान ठहरेगा । ११ तुम में सूखी घास का गर्भ रहेगा, तुम से भूसी उत्पन्न होगी; तुम्हारी साम आग है जो तुम्हें भस्म करेगी । १२ देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे, और कटे हुए कटीले पेड़ों की नाई आग में जलाए जाएंगे ॥

१३ हे दूर दूर के लोगो, सुनो कि मैं ने क्या किया है? और तुम भी जो निकट हो, मेरा पराक्रम जान लो । १४ मिय्योन के पापी थरथरा गए हैं : भक्तिहीनो को कपकपी लगी है . हम में से कौन प्रचण्ड आग में रह सकता ? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी ? १५ जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता; जो अन्धेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता †; जो खून की बात सुनने से कान बन्द करता, और बुराई देखने से आख मूद लेता है । वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा । १६ वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा; उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी ‡ ॥

१७ तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा; और लम्बे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा । १८ तू भय के दिनों को स्मरण करेगा : लेखा

* मूल में—अपने को ऊंचा करेगा ।

† मूल में—घूस धामने से अपने हाथ झटक देता ।

‡ मूल में—उसका पानी अटल है ।

लेनेवाला और कर तौल कर लेनेवाला कहा रहा ? गुम्मतों का गिनेवाला कहा रहा ? १६ जिनकी कठिन भाषा * तू नहीं समझता, और जिनकी लड़बड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता उन निर्दय लोगों को तू फिर न देखेगा । २० हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर ! तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा, वह विश्राम का स्थान, और ऐसा तम्बू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूटा कभी उखाड़ा न जाएगा, और न कोई रस्सी कभी टूटेगी । २१ वहा महाप्रतापी यहोवा हमारे लिये रहेगा, वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरो का स्थान होगा, जिस में डांडवाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उस में होकर जाएगा । २२ क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है; वही हमारा उद्धार करेगा ॥

२३ तेरी रस्सियां ढीली हो गईं, बे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकीं, और न पाल को तान सकी ॥

तब बड़ी लूट छीनकर बांटी गई, लगड़े लोग भी लूट के भागी हुए । २४ कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ; और जो लोग उस में बसेगे, उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा ॥

२४ हे जाति जाति के लोगो, सुनने के लिये निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगो, ध्यान से सुनो ! पृथ्वी भी, और जो कुछ उस में है, जगत और जो कुछ उस में उत्पन्न होता है, सब सुनो । २ यहोवा सब

* मूल में—गहिरें होठवाले लोग ।

जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी मारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है, उस ने उनको सत्यानाश होने, और सहार होने को छोड़ दिया है। ३ उनके मारे हुए फेंक दिये जाएंगे, और उनकी लोथो की दुर्गन्ध उठेगी; उनके लोह से पहाड़ गल जाएंगे। ४ आकाश के सारे गण जाने रहेंगे और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा। और जैसे दाखलता वा अजीर के वृक्ष के पत्ते मुर्भाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण घुघने होकर जाते रहेंगे ॥

५ क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है, देखो, वह न्याय करने को एदोम पर, और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। ६ यहोवा की तलवार लोह से भर गई है, वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लोह से, और भेड़ों के गुदों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोस्त्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा सहार हुआ है। ७ उनके सग जंगली साढ़ और बछड़े और बैल बध होंगे, और उनकी भूमि लोह से भीग जाएगी और वहां की मिट्टी चर्बी से भ्रषा जाएगी ॥

८ क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सिय्योन का मुकद्दमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। ९ और एदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गन्धक से बदल जाएगी; उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। १० वह रात-दिन न बुझेगी; उसका धूंधा सदैव उठता रहेगा। युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा; कोई उस में से होकर कभी न चलेगा। ११ उस में धनेशपक्षी

और साही पाए जाएंगे और वह उल्लू और कौबे का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहूल * तानेगा। १२ वहां न तो रईस होंगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया † जाए; उसके सब हाकिमों का अन्त होगा ॥

१३ उसके महलों में कटीले पेड़, गडों में बिच्छू पीधे और भाड़ उगेंगे। वह गीदडों का वासस्थान और शुकुर्भुगों का आगन हो जाएगी। १४ वहा निर्जल देश के जन्तु सियारों के संग मिलकर बसेंगे और रोआर जन्तु एक दूसरे को बुलाएंगे, वहां लीलीत नाम जन्तु वास-स्थान पाकर चैन से रहेगा ॥

१५ वहा उडनेवाली सांपिन का बिल होगा, वे अरडे देकर उन्हे सेवेगी और अपनी छाया में बटोर लेंगी; वहां गिद्ध अपनी साधिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। १६ यहोवा की पुस्तक से ढूँढकर पढ़ो : इन में से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी; कोई बिना जोडा न रहेगा। क्योंकि मैं ने अपने मुह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हे इकट्ठा किया है। १७ उसी ने उनके लिये चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिये बांट दिया है; वह सबदा उनका ही बना रहेगा और बे पीढी से पीढी तक उस में बसे रहेंगे ॥

३५ जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी; २ वह अत्यन्त प्रफुल्लित होगी और आनन्द के साथ जयजयकार करेगी। उसकी शोभा

* मूल में—पत्थर। † मूल में—बुलाया।

लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी । वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे ॥

३ ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो । ४ धरारानेवालों से कहो, हियाव बान्धो, मत डरो ! देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को भ्रा रहा है । हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा ॥

५ तब अन्धों की आंखें खोली जाएगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे; ६ तब लंगडा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूगे अपनी जीभ से जयजयकार करेंगे । क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदिया बहने लगेंगी; ७ मृगतृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे; और जिस स्थान में सियार बंठा करते हैं उस में घास और नरकट और सरकरण्डे होंगे ॥

८ और वहां एक सड़क अर्थात् राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा; कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा; वह तो उन्हीं के लिये रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हों तभी कभी न भटकेंगे । ९ वहां सिंह न होगा और कोई हिंसक जन्तु उस पर न चढ़ेगा न वहां पाया जाएगा; परन्तु छुड़ाए हुए उस में नित चलेंगे । १० और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जयजयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे; और उनके सिर पर सदा का आनन्द होगा; वे हर्ष और आनन्द पाएंगे और शोक और लम्बी सांस का लेना जाता रहेगा ॥

३६ हिजकिय्याह राजा के चौदहवें वर्ष में, अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया । २ और अशूर के राजा ने रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया । और वह उत्तरी पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़ा हुआ । ३ तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेब्ना जो मन्त्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, ये तीनों उस से मिलने को बाहर निकल गए ॥

४ रबशाके ने उन से कहा, हिजकिय्याह से कहो, महाराजाधिराज अशूर का राजा यों कहता है कि तू किसका भरोसा किए बैठा है ? ५ मेरा कहना है कि क्या मुंह से बातें बनाना ही युद्ध के लिये पराक्रम और युक्ति है ? तू किस पर भरोसा रखता है कि तू ने मुझ से बलवा किया है ? ६ सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात् मिस्र पर भरोसा रखता है, उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेद कर देगा । मिस्र का राजा फिरान उन सब के साथ ऐसा ही करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं । ७ फिर यदि तू मुझ से कहे, हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वहीं नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को ढा कर हिजकिय्याह ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से कहा कि तुम इस वेदी के साम्हने दण्डवत् किया करो ? ८ इसलिये अब मेरे स्वामी अशूर के

राजा के साथ वाष्पा बान्ध तब मैं तुम्हें दो हजार घोड़े दूंगा यदि तू उन पर सवार चढ़ा सके। ६ फिर तू रथों और सवारों के लिये भिन्न पर भरोसा रखकर मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी * को भी कैसे हरा सकेगा? १० क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस देश को उजाड़ने के लिये चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझ से कहा है, उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे।

११ तब एल्याकीम, शेब्ना और योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बात कर क्योंकि हम उसे समझते हैं; हम से यहूदी भाषा में शहरपनाह पर बैठें हुए लोगों के मुनते बाते न कर। १२ रबशाके ने कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तेरे स्वामी ही के वा तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उस ने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपनाह पर बैठे हैं जिन्हें तुम्हारे संग अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़ेगा?

१३ तब रबशाके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अशूर के राजा की बातें सुनी! १४ राजा यों कहता है, हिजकिय्याह तुम को धोखा न दे, क्योंकि वह तुम्हें बचा न सकेगा। १५ ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुम से यह कहकर भुलवा दे कि यहोवा निश्चय हम को बचाएगा कि यह नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। १६ हिजकिय्याह की मत सुनी; अशूर का राजा कहता है, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो †

* मूल में—कर्मचारियों में से एक अधिपति की भी मुंह फेरके।

† मूल में—मेरे साथ आशीर्वाद करो।

और मेरे पास निकल आओ; तब तुम अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खा पाओगे, और अपने अपने कुएँ का पानी पिया करोगे; १७ जब तक मैं आकर तुम को ऐसे देश में न ले जाऊँ जो तुम्हारे देग के समान अनाज और नये दाखमधु का देश और रोटी और दाख की बारियों का देश है। १८ ऐसा न हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुम को बहकाए कि यहोवा हम को बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ में बचाया है? १९ हमारा और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपर्वे के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया? २० देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिस ने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा?

२१ परन्तु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। २२ तब हिजकिय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेब्ना जो मन्त्री था और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशाके की बातें कह सुनाईं।

३७ जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। २ और उस ने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था

श्रीर शोभा मन्त्री को श्रीर याजकों के पुरनियों को जो सब टाट भोड़े हुए थे, आभोस के पुत्र यशयाह नबी के पास भेज दिया । ३ उन्होंने ने उस से कहा, हिजकिय्याह यों कहता है कि आज का दिन संकट श्रीर उलहने श्रीर निन्दा का दिन है, बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल न रहा । ४ सम्भव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बाते सुनी जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निन्दा करने को भेजा है, श्रीर जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें दपटे; सो तू इन बचे हुएओं के लिये जो रह गए है, प्रार्थना कर * ॥

५ जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशयाह के पास आए । ६ तब यशयाह ने उन से कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यों कहता है कि जो वचन तू ने सुने है जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निन्दा की है, उनके कारण मत डर । ७ सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा जिस से वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, श्रीर मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा ॥

८ तब रबशाके ने लौटकर अशूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया; क्योंकि उस ने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है । ९ उस ने कूश के राजा तिर्हाका के विषय यह सुना कि वह उस से लडने को निकला है । तब उस ने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा १० कि तुम

यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यों कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अशूर के राजा के बश में न पडेगा । ११ देख, तू ने सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उन्हें सत्यानाश ही कर दिया । १२ फिर क्या तू बच जाएगा ? गोजान श्रीर हारान श्रीर रेसेप में रहनेवाली जिन जातियों को श्रीर तलस्सार में रहनेवाले एदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया ? १३ हमत का राजा, अर्पाद का राजा, सपर्वम नगर का राजा, श्रीर हेना श्रीर इब्बा के राजा, ये सब कहा गए ?

१४ इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा; तब उस ने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के साम्हने फँला दिया । १५ श्रीर यहोवा से यह प्रार्थना की, १६ हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्त्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है; आकाश श्रीर पृथ्वी को तू ही ने बनाया है । १७ हे यहोवा, कान लगाकर सुन; हे यहोवा आत्व खोलकर देख; श्रीर सन्देरीब के सब वचनों को सुन ले, जिस ने जीवते परमेश्वर की निन्दा करने को लिख भेजा है । १८ हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को * उजाड़ा है १९ श्रीर उनके देवताओं को आग में भोंका है; क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्यों की

* मूल में—प्रार्थना उठा ।

* मूल में—सब देशों श्रीर उनकी भूमि को ।

कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे; इस कारण वे उनको नाश कर सके। २० अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा जिस से पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है ॥

२१ तब आमोम के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू ने जो अशूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझ से प्रार्थना की है, २२ उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्टों में उडाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है ॥

२३ तू ने किस की नामधराई और निन्दा की है? और तू जो बड़ा बोल बोला और धमराइ किया है, * वह किस के विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध! २४ अपने कर्मचारियों के द्वारा तू ने प्रभु की निन्दा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर बरन लवानोन के बीच तक चढ़ आया हू; मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारो और अच्छे अच्छे सनीबरो को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा १ २५ मैं ने खुदवाकर पानी पिया और मिला की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा दिया। २६ क्या तू ने नहीं सुना कि प्राचीनकाल से मैं ने यही ठाना और पूर्वकाल से इसकी तैयारी की थी? इसलिये अब मैं ने यह पूरा भी

* मूल में—अपनी आँखें ऊपर की ओर उठाईं।

किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खण्डहर ही खण्डहर कर दे। २७ इसी कारण उनके रहनेवालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए : वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज * के समान हो गए जो बढ़ने से पहिले ही सूख जाता है ॥

२८ मैं तो तेरा बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूँ; और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। २९ इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुँह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा ॥

३० और तेरे लिये यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उस से उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। ३१ और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ † पकड़ेंगे और फूलें-फलेगे ‡, ३२ क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा § ॥

३३ इसलिये यहोवा अशूर के राजा के विषय यों कहता है कि वह इस नगर

* मूल में—खेत।

† मूल में—नीचे की ओर जड़।

‡ मूल में—ऊपर की ओर फलेगे।

§ मूल में—सेनाओं के यहोवा की जलन यह करेगी।

में प्रवेश करने, वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा; और न वह ढाल लेकर इसके साम्हने आने वा इसके विरुद्ध दमदमा बान्धने पाएगा। ३४ जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा, यहोवा की यही वाणी है। ३५ क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त, इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा ॥

३६ तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में एक लाख पचासी हजार पुरुषों को मारा; और भोर को जब लोग सबेरे उठे तब क्या देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। ३७ तब अशूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। ३८ वहाँ वह अपने देवता निस्त्रोक के मन्दिर में दण्डवत् कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रम्मेलक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। और उसका पुत्र एसहँदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा ॥

३८ उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। और अमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा मर ही जाएगा। २ तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुँह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा; ३ हे यहोवा, मैं बिनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे

सम्मुख जानकर * चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक-कर रोने लगा। ४ तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, ५ जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूलपुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं ने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं; सुन, मैं तेरी आयु पन्द्रह वर्ष और बढ़ा दूंगा। ६ अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा ॥

७ यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, ८ और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिये यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूपघडी में ढल गई है, मैं दस अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वह छाया जो दस अंश ढल चुकी थी लौट गई ॥

९ यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उस ने लिखा जब वह रोगी होकर चगा हो गया था, वह यह है :

१० मैं ने कहा, अपनी आयु के बीच † ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूँगा;

क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है।

११ मैं ने कहा, मैं याह को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊँगा; इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूँगा।

१२ मेरा घर ‡ चरबाहे के तम्बू की नाई उठा लिया गया है;

* मूल में—तेरे साम्हने।

† मूल में—मौन में।

‡ वा मेरी आड़।

- में ने जोलाहे की नाई अपने जीवन को लपेट दिया है; वह मुझे तांत से काट लेगा;
 एक ही दिन में * तू मेरा अन्त कर डालेगा ।
१३. मैं भोर तक अपने मन को शान्त करता रहा;
 वह सिंह की नाई मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है;
 एक ही दिन में तू मेरा अन्त कर डालता है ॥
- १४ मैं सूपाबेने वा सारस की नाई च्यू च्यू करता,
 * मैं पिएडुक की नाई विलाप करता हूँ । मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पत्थरा गई हैं ।
 हे यहोवा, मुझ पर अन्धे हो रहा है; तू मेरा सहारा हो ।
- १५ मैं क्या कहूँ ? उसी ने मुझ से प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है ।
 मैं जीवन भर कडुआहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा ॥
- १६ हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं, और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है ।
 तू मुझे चगा कर और मुझे जीवित रख !
- १७ देख, शान्ति ही के लिये मुझे बड़ी कडुआहट मिली;
 परन्तु तू ने स्नेह करके मुझे विनाश के गड़हे से निकाला है,
 क्योंकि मेरे सब पापों को तू ने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है ।

* मूल में—दिन से रात लो ।

- १८ क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है;
 जो कबर में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते
- १९ जीवित*, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ;
 पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है ॥
- २० यहोवा मेरा उद्धार करेगा,
 इसलिये हम जीवन भर यहोवा के भवन में तारवाले बाजों पर अपने † रचे हुए गीत गाते रहेंगे ॥
- २१ यशाय्याह ने कहा था, अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बान्धी जाए, तब वह बचेगा ।
 २२ और हिजकिय्याह ने पूछा था कि इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊँगा ?

३६ उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बाबुल का राजा था, उस ने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेट भेजी ।
 २ इन से हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भण्डार और चान्दी, सोना, सुगन्ध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भण्डारों में जो जो वस्तुएँ थी, वे सब उनको दिखलाई । हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी

* मूल में—जीवता जीवता ।

† मूल में—मेरे ।

वस्तु नहीं रह गई जो उस ने उन्हें न दिखाई हो। ३ तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए? और वे कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात् बाबुल से मेरे पास आए थे। ४ फिर उस ने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने ने देखा है; मेरे भण्डारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं ने उन्हे न दिखाई हो।।

५ तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले: ६ ऐसे दिन आनेवाले हैं, जिन में जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखानों का रखा हुआ तेरे भण्डारों में है, वह सब बाबुल को उठ जाएगा; यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। ७ और जो पुत्र तेरे वश में उत्पन्न हो, उन में से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। ८ हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तू ने कहा है वह भला ही है। फिर उस ने कहा, मेरे दिनों में तो शान्ति और सच्चाई बनी रहेगी।।

४० तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शान्ति दो, शान्ति! २ यरूशलेम से शान्ति की बातें कहो; और उस से पुकारकर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अघम का दण्ड अंगीकार किया गया है: यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दण्ड पा चुका है।।

३ किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिये अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। ४ हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए; जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा-नीचा है वह चौरस किया जाए। ५ तब यहोवा का तेज प्रगट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे; क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है।।

६ बोलनेवाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर! मैं ने कहा, मैं क्या प्रचार करू? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। ७ जब यहोवा की सास उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है, और फूल मुर्झा जाता है, नि सन्देह प्रजा घास है। ८ घास तो सूख जाती, और फूल मुर्झा जाता है; परन्तु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा।।

९ हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनानेवाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा; हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनानेवाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो! १० देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा*; देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। ११ वह चरवाहे की नाई अपने भूगड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए

* मूल में—उसकी भुजा उसके लिये प्रभुता करेगी।

रहेगा और दूध पिलानेवालियों को धीरे-धीरे ले चलेगा ॥

१२ किस ने महासागर को चुल्लू से मापा और किस के बित्ते से आकाश का नाप हुआ, किस ने पृथ्वी की मिट्टी को नपवे में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को काटे में तोला है ?
१३ किस ने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया वा उसका मन्त्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है ? १४ उस ने किस से सम्मति ली और किस ने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है ?
१५ देखो, जातियां तो डोल की एक बून्द वा पलडों पर की घूल के तुल्य ठहरी; देखो, वह द्वीपों को घूल के किनको सरीखे उठाता है। १६ लबानोन भी ईधन के लिये थोड़ा होगा और उस में के जीव-जन्तु होमबलि के लिये बस न होंगे। १७ सारी जातियां उसके साम्हने कुछ नहीं हैं, वे उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी घट ठहरीं है ॥

१८ तुम ईश्वर को किस के समान बताओगे और उसकी उपमा किस से दोगे ? १९ मूरत ! कारीगर ढालता है, सोनार उसकी सोने से मढ़ता और उसके लिये चान्दी की सांकले ढालकर बनाता है। २० जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने; तब एक निपुण कारीगर बूँदकर मूरत खुदवाता और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल न सके ॥

२१ क्या तुम नहीं जानते ? क्या तुम ने नहीं सुना ? क्या तुम को आरम्भ ही से नहीं बताया गया ? क्या तुम ने पृथ्वी की नेव पड़ने के समय ही से विचार

नहीं किया ? २२ यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाशमण्डल पर विराजमान है, और पृथ्वी के रहनेवाले टिड्डी के तुल्य है; जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिये तम्बू ताना जाता है; २३ जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है ॥

२४ वे रोपे ही जाते, वे बोए ही जाते, उनके ठूठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर पवन बहाता और वे सूख जाते, और आंधी उन्हें भूसे की नाई उडा ले जाती है ॥

२५ सो तुम मुझे किस के समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरू ? उस पवित्र का यही वचन है। २६ अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किस ने इनको सिरजा ? वह इन गणों को गिन गिनकर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है ? वह ऐसा सामर्थी और अत्यन्त बली है कि उन में के कोई बिना आए नहीं रहता ॥

२७ हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा के छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिन्ता नहीं करता * ?
२८ क्या तुम नहीं जानते ? क्या तुम ने नहीं सुना ? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता, न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। २९ वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ३० तर्क तो थकते और

* मूल में—मेरा न्याय मेरे परमेश्वर के पास होकर निकल गया।

श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं; ३१ परन्तु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे *, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे ॥

४१ हे द्वीपो, मेरे साम्हने चुप रहो; देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें; वे समीप आकर बोले; हम आपस में न्याय के लिये एक दूसरे के समीप आएँ ॥

२ किस ने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है? वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है; उसकी तलवार वह उन्हें धूल के समान, और उसके धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। ३ वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से, जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। ४ किस ने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सब से पहिला, और अन्त के समय रहूंगा; मैं वही हूँ ॥

५ द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। ६ वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उन में से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बान्ध! ७ बढ़ई सोनार को और हथोड़े से बराबर करनेवाला निहाई पर मारनेवाले को यह कहकर हियाव बन्धा रहा है, जोड़ तो अच्छी है, सो वह कील ठोंक ठोंककर उसको ऐसा दूढ़ करता है कि वह स्थिर रहे ॥

* मूल में—चढ़ेंगे।

८ हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इस्राहीम के बंधा; ९ तू जिसे मैं ने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैं ने तुझे चुना है और तजा नहीं; १० मत डर, क्योंकि मैं तेरे सग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ; मैं तुझे दूढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दहिने हाथ से मैं तुझे सम्हाले रहूंगा ॥

११ देख, जो तुझ से क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे; जो तुझ से भगडते हैं उनके मुह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। १२ जो तुझ से लडते हैं उन्हें दूढ़ने पर भी तू न पाएगा, जो तुझ से युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। १३ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दहिना हाथ पकडकर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा ॥

१४ हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यो, मत डरो! यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुडानेवाला हूँ। १५ देख, मैं ने तुझे छूरीवाले दावने का एक नया और चोखा यन्त्र ठहराया है; तू पहाड़ों को दांय दांयकर सूक्ष्म धूलि कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। १६ तू उनको फटकेगा, और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, और आंधी उन्हें तितर-बितर कर देगी। परन्तु तू यहोवा के कारण मगन होगा; और इस्राएल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा ॥

१७ जब दीन और दरिद्र लोग जल दूढ़ने पर भी न पाये और उनका तालू

प्यास के मारे सूख जाये; मैं यहोवा उनकी बिनती सुनूँगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूँगा। १८ मैं मुण्डे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में सोते बहाऊँगा *; मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूँगा। १९ मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेंहदी, और जलपाई उगाऊँगा †; मैं अराबा में सनीबर, तिषार वृक्ष, और सीषा सनीबर इकट्ठे लगाऊँगा; २० जिस से लोग देखकर जान ले, और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है ॥

२१ यहोवा कहता है, अपना मुकद्दमा लडो; याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। २२ वे उन्हें देकर हम को बताए कि भविष्य में क्या होगा? पूर्वकाल की घटनाएँ बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिस में हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा; वा होनेवाली घटनाएँ हम को सुना दो। २३ भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो; भला वा बुरा, कुछ तो करो कि हम देखकर एक चकित हो जाएँ। २४ देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुम से कुछ नहीं बनता; जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है ॥

२५ मैं ने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया है; वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है; जैसा कुम्हार गिली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीच के

समान लताड़ देगा *। २६ किस ने इस बात को पहिले से बताया था, जिस से हम यह जानते? किस ने पूर्वकाल से यह प्रगट किया जिस से हम कहे कि वह सच्चा है? कोई भी बतानेवाला नहीं, कोई भी सुनानेवाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुननेवाला नहीं है। २७ मैं ही ने पहिले सिय्योन से कहा, देख, उन्हें देख, और मैं ने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देनेवाला भेजा। २८ मैं ने देखने पर भी किसी को न पाया; उन में कोई मन्त्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। २९ मुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं; उनके काम तुच्छ हैं, और उनकी ढली हुई मूर्तियाँ वायु और मिथ्या हैं ॥

४२ . मेरे दास को देखो जिसे मैं सभाले हूँ, मेरे चुने हुए को, जिस से मेरा जी प्रसन्न है; मैं ने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्यजातियों के लिये न्याय प्रगट करेगा। २ न वह चिल्लाएगा और न ऊँचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वारणी सुनायेगा। ३ कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा; वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ४ वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात जोहेँगे ॥

५ ईश्वर जो आकाश का सृजने और ताननेवाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलानेवाला और उस पर के लोगों को सास और उस पर के चलनेवालों

* मूल में—खोलूँगा। † मूल में—दूँगा।

* मूल में—को आयागा।

को आत्मा देनेवाला यहोवा है, वह यों कहता है. ६ मुझ यहोवा ने तुझ को धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ धाम कर तेरी रक्षा करूंगा; मैं तुझे प्रजा के लिये वाचा और जातियों के लिये प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अन्धों की आंखें खोले, ७ बंधुओं को बन्दीगृह से निकाले और जो अन्धियारे में बठे हैं उनको कालकोठरी से निकाले। ८ मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूरतों को न दूंगा। ९ देखो, पहिली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ; उनके होने से पहिले मैं तुम को सुनाता हूँ ॥

१० हे समुद्र पर चलनेवालो*, हे समुद्र के सब रहनेवालो, हे द्वीपो, तुम सब अपने रहनेवालो समेत यहोवा के लिये नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। ११ जगल और उस में की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जयजयकार करे; सेला के रहनेवाले जयजयकार करे, वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। १२ वे यहोवा की महिमा प्रगट करे और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करे। १३ यहोवा वीर की नाई निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भडकाएगा, वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवन्त होगा ॥

१४ बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा; परन्तु अब ज़रूरी की नाई चिल्लाऊंगा, मैं हाफ हाफकर सांस भरूंगा। १५ पहाड़ों

और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा; मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। १६ मैं अन्धों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अन्धियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े भागों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। १७ जो लोग खुदी हुई मूरतों पर भरोसा रखते और ठली हुई मूरतों से कहते हैं कि तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यन्त लज्जित होना पड़ेगा ॥

१८ हे बहिरों, सुनो; हे अन्धो, आंख खोलो कि तुम देख सको! १९ मेरे दांस के सिवाय कौन अन्धा है? और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अन्धा या यहोवा के दांस के तुल्य अन्धा कौन है? २० तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परन्तु उन्हें देखता नहीं है; कान तो खुले हैं परन्तु सुनता नहीं है ॥

२१ यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। २२ परन्तु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गड़हियों में फंसे हुए और कालकोठरियों में बन्द किए हुए हैं; ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता; ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि फेर दो। २३ तुम में से कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान धरके होनहार के लिये सुनेगा? २४ किस ने याकूब को लुटवाया और इस्राएल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हम ने

* मूल में—उतरनेवालो।

पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने ने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना ? २५ इस कारण उस पर उस ने अपने क्रोध की आग भडकाई * और युद्ध का बल चलाया; और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई, तौभी वह न समझा; वह जल भी गया, तौभी न चेता ॥

४३ हे इस्राएल तेरा रचनेवाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैं ने तुम्हें छोड़ा लिया है; मैं ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। २ जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे सग सग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुम्हें न डुबा सकेंगी; जब तू आग में चले तब तुम्हें आच न लगेगी, और उसकी ली तुम्हें न जला सकेंगी। ३ क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धारकर्ता हूँ। तेरी छुड़ीती में मैं मिस्र को और तेरी सन्ती कृश और सबा को देता हूँ। ४ मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुम्हें से प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी सन्ती मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मे राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। ५ मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ; मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, और पच्छिम से भी इकट्ठा करूंगा। ६ मैं उत्तर से कहूंगा, दे दे, और दक्खिन से कि रोक मत रख; मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ; ७ हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैं ने अपनी महिमा

के लिये सजा, जिसको मैं ने रचा और बनाया है ॥

८ आश्व रखते हुए अन्धों को और कान रखते हुए बहिरो को निकाल ले आओ ! ९ जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाएं और राज्य राज्य के लोग एकत्रित हों। उन में से कौन यह बात बता सकता वा बीती हुई बातें हमें सुना सकता है ? वे अपने साक्षी ले आएँ जिस से वे सच्चे ठहरें, वे सुन लें और कहें, यह सत्य है। १० यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हे मैं ने इसलिये चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ ! मुझ से पहिले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। ११ मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। १२ मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था; इसलिये तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यह वाणी है। १३ मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य मे भी मैं ही हूँ; मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा; जब मैं काम करना चाहू तब कौन मुझे रोक * सकेगा ॥

१४ तुम्हारा छुड़ानेवाला और इस्राएल का पवित्र यहोवा यों कहता है, तुम्हारे निमित्त मैं ने बाबुल को भेजा है, और उसके सब रहनेवालों को भगोड़ों की दशा में और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले आऊंगा † जिन के विषय वे बड़ा डोल बोलते हैं ‡ ।

* मूल में—करे।

† मूल में—भगोड़े करके उतारूंगा।

‡ मूल में—ऊंचे शब्द से बोलते हैं † ।

* मूल में—उचखेली।

१५ मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। १६ यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचण्ड धारा में पथ बनाता है, १७ जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, (वे तो एक सग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं।) वह यों कहता हूँ, १८ अब बीती हुई घटनाओं का समरण मत करो, न प्राचीनकाल की बातों पर मन लगाओ। १९ देखो, मैं एक नई बात करता हूँ; वह अभी प्रगट होगी, क्या तुम उस से अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। २० गीदड और शतमूर्ग आदि जंगली जन्तु मेरी महिमा करेंगे; क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिये जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। २१ इस प्रजा को मैं ने अपने लिये बनाया हूँ कि वे मेरा गुणानुवाद करें ॥

२२ तौभी हे याकूब, तू ने मुझ से प्रार्थना नहीं की; वरन हे इस्राएल तू मुझ से उकता गया है! २३ मेरे लिये होमबलि करने को तू मेम्ने नहीं लाया और न मेलबलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैं ने अन्नबलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझ से नहीं कराई, न तुझ से घूप लेकर तुझे थका दिया है। २४ तू मेरे लिये सुगन्धित नरकट रूप से मोल नहीं लाया और न मेलबलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया। परन्तु तू ने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है, और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है ॥

२५ मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। २६ मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करे; तू अपनी बात का वर्णन कर जिस से तू निर्दोष ठहरे। २७ तेरा मूलपुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवाई हुए, वे मुझ से बलवा करते चले आए हैं। २८ इस कारण मैं ने पवित्रस्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया, मैं ने याकूब को सत्यानाश और इस्राएल को निन्दित होने दिया है ॥

४४ परन्तु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले! २ तेरा कर्ता यहोवा, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यों कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून*, मत डर! ३ क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएँ बहाऊंगा; मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी सन्तान पर अपनी आशीष उरडेलूंगा। ४ वे उन मजनुओं की नाई बढेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। ५ कोई कहेगा, मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा, मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुलनाम इस्राएली बताएगा ॥

६ यहोवा, जो इस्राएल का राजा है, अर्थात् सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ानेवाला है, वह यों कहता है, मैं सब से पहिला हूँ, और मैं ही अन्त तक रहूंगा; मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही

* मूल में—सीषा।

नहीं। ७ और जब से मैं ने प्राचीनकाल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरी नाई उसको प्रचार करे, वा बताए वा मेरे लिये रचे भ्रथवा होनहार बाते पहिले ही से प्रगट करे? ८ मत डरो और न भयमान हो; क्या मैं ने प्राचीनकाल ही से ये बातें तुम्हे नहीं सुनाई और तुम पर प्रगट नहीं कीं? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता ॥

९ जो मूरत खोदकर बनाते हैं, वे सब के सब व्यर्थ हैं * और जिन वस्तुओं में वे-आनन्द दूढ़ते उन से कुछ लाभ न होगा; उनके साक्षी, न तो आप कुछ देखते और न कुछ जानते हैं, इसलिये उनको लज्जित होना पड़ेगा। १० किस ने देवता वा निष्फल मूरत ढाली है? ११ देख, उसके सब सगियो को तो लज्जित होना पड़ेगा, कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों; वे डर जाएंगे; वे सब के सब लज्जित होंगे। १२ लोहार एक बसूला भ्रगारो मे बनाता और हथौड़े से गढ़कर तैयार करता है, अपने भुजबल से वह उसको बनाता है; फिर वह भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है, वह पानी नहीं पीता और थक जाता है। १३ बढई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रन्दनी से काम करता और परकार से रेखा खींचता है, वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुन्दरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें †। १४ वह देवदार को काटता वा वन के वृक्षों मे से जाति जाति

के बाजवृक्ष चुनकर सेवता है, वह एक तूस का वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। १५ तब वह मनुष्य के ईंधन के काम में आता है; वह उस में से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है; उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दण्डवत् करता है; वह मूरत खुदवाकर उसके साम्हने प्रणाम करता है। १६ उसका एक भाग तो वह आग मे जलाता और दूसरे भाग से मास पकाकर खाता है, वह मास भूनकर तृप्त होता, फिर तापकर कहता है, अहा, मैं गर्म हो गया, मैं ने आग देखी है। १७ और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात् एक मूरत खोदकर बनाता है; तब वह उसके साम्हने प्रणाम और दण्डवत् करता और उस से प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है!

वे कुछ नहीं जानते, न कुछ समझ रखते हैं, १८ क्योंकि उनकी आखे ऐसी मून्दी * गई है कि वे देख नहीं सकते; और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। १९ कोई इस पर ध्यान नहीं करता, और न किसी को इतना ज्ञान वा समझ रहती है कि कह सके, उसका एक भाग तो मैं ने जला दिया और उसके कोयलों पर रोटी बनाई, और मास भूनकर खाया है; फिर क्या मैं उसके बचे हुए भाग को धिनीनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ † को प्रणाम करूं? २० वह राख खाता है; भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता

* मूल में—सो सब शून्यता है।

† मूल में—जिस से घर में रहे।

* मूल में—लेस दी।

† मूल में—पेठ के टूंड को।

है, क्या मेरे दहिने हाथ में मिथ्या नहीं ?

२१ हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैं ने तुझे रचा है; हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझे को न बिसराऊंगा। २२ मैं ने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है; मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैं ने तुझे छुड़ा लिया है ॥

२३ हे आकाश, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है; हे पृथ्वी के गहिरे स्थानों, जयजयकार करो; हे पहाड़ों, हे वन, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ ! क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा ॥

२४ यहोवा, तेरा उद्धारकर्ता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनानेवाला हूँ जिस ने भ्रकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। २५ मैं भूटे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहनेवालों को बावला कर देता हूँ, जो बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी परिडताई को मूर्खता बनाता हूँ, २६ और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को मुफल करता हूँ, जो यरूशलेम के विषय कहता है, वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय, वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खण्डहरों को सुधाऊंगा; २७ जो गहिरे जल से कहता है, तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा; २८ जो कुसू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया

हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा; यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मन्दिर के विषय कि तेरी नेव डाली जाएगी ॥

४५ यहोवा अपने अभिषिक्त कुसू के विषय में कहता है, मैं ने उस * के दहिने हाथ को इसलिये धाम लिया है कि उसके साम्हने जातियों को दबा दूँ और राजाओं की कमर ढीली करूँ, उसके साम्हने फाटकों को ऐसा खोल दूँ कि वे फाटक बन्द न किए जाएँ। २ मैं तेरे भागे भागे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। ३ मैं तुझे को अन्धकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा, जिस से तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। ४ अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैं ने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तौभी मैं ने तुझे पदवी दी है। ५ मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं; यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तौभी मैं तेरी कमर कसूँगा, ६ जिम मे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझे बिना कोई है ही नहीं; मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। ७ मैं उजियाले का बनानेवाला और अन्धियारे का सृजनहार हूँ, मैं शान्ति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का कर्ता हूँ। ८ हे आकाश, ऊपर से धर्म

* मूल में—जिस।

बरसा, आकाशमण्डल से धर्म की वर्षा हो *; पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो; और धर्म भी उसके संग उगाए; मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है ॥

६ हाय उस पर जो अपने रचनेवाले से भगड़ता है ! वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है ! क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है ? क्या कारीगर का † बनाया हुआ कार्य उमके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है ? १० हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है ? और माँ से कहे, तू किस की माता है ‡ ?

११ यहोवा जो इस्त्राएल का पवित्र और उसका बनानेवाला है, वह यों कहता है, क्या तुम आनेवाली घटनाएँ मुझे से पूछोगे ? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे ? १२ मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सजा है; मैं ने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। १३ मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा; वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम या बदला लिए छोड़ा देगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

१४ यहोवा यों कहता है, मिलियों की कमाई और कृशियों के ब्योपार का लाभ और सर्बाई लोग जो डील-डौलवाले हैं, तेरे पास चले आएंगे, और तेरे ही हो जाएंगे, वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे; वे साँकलों में बन्धे हुए चले आएंगे और तेरे साम्हने दण्डवत् कर तुझ से बिनती करके

* मूल में—धर्म बहे। † मूल में—तेरा।

‡ मूल में—मुझे किस से पीछे उठी।

कहेगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं; उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं ॥

१५ हे इस्त्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता ! निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। १६ मूर्तियों के गठनेवाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे। १७ परन्तु इस्त्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा; तुम युग युग वरन अनन्तकाल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे ॥

१८ क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है; उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया; उस ने उसे सुनसान रहने के लिये नहीं परन्तु बसने के लिये उसे रचा है। वही यों कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। १९ मैं ने न किसी गुप्त स्थान में, न अन्धकार देश के किसी स्थान में बाते की, मैं ने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में डूबो *। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ ॥

२० हे अन्यजातियों में से बचे हुए लोगो, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ ! वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूरते लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिस से उद्धार नहीं हो सकता, प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। २१ तुम प्रचार करो और उनको लाओ; हाँ, वे आपस में सम्मति करें, किस ने प्राचीनकाल से यह प्रगट किया ?

* मूल में—सुनसान स्थान में डूबो।

किस ने प्राचीनकाल में इसकी सूचना पहिले ही से दी? क्या मैं यहीवा ही ने यह नहीं किया? इसलिये मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उदारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है ॥

२२ हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहनेवालो, तुम मेरी ओर फिरो और उदार पाओ! क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। २३ मैं ने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं * टलेगा, प्रत्येक घटना मेरे सम्मुख भुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी ॥

२४ लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहीवा ही मैं धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे। और जो उस से रूठे रहेंगे, उन्हें लज्जित होना पडेगा। २५ इस्राएल के सारे वंश के लोग यहीवा ही के कारण धर्मी ठहरेगे, और उसकी महिमा करेगे ॥

४६ बेल देवता भुक्त गया, नबो देवता नब गया है, उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन धरेंलू पशुओं पर लदी है; जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे, वे अब भारी बोझ हो गई और थकित पशुओं पर लदी है। २ वे नब गए, वे एक संग भुक्त गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके, और आप भी बंधुआई में चले गए हैं ॥

३ हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बच्चे हुए लोगो, मेरी ओर कान लगाकर सुनो; तुम को मैं

तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। ४ तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं बैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैं ने तुम्हें बनाया और तुम्हे लिए फिरता रहूंगा; ५ मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा ॥

तुम किस से मेरी उपमा दोगे और मुझे किस के समान बताओगे, किस से मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? ६ जो थैली से सोना उरडेलते वा कांटे में चान्दी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उस से देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दण्डवत् भी करते हैं! ७ वे उसको कन्धे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वह वही खड़ा रहता है; वह अपने स्थान से हट नहीं सकता; यदि कोई उसकी दोहाई भी दे, तौभी न वह सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उदार कर सकता है ॥

८ हे अपराधियो, इस बात को स्मरण करो और ध्यान * दो, इस पर फिर मन लगाओ। ९ प्राचीनकाल की बातें स्मरण करो जो आरम्भ ही से हैं; क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं; मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। १० मैं तो अन्त की बात आदि से और प्राचीनकाल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। ११ मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात् दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करनेवाले पुरुष

* मुख में—न लौटेगा।

* या स्थिर रहो।

को बुलाता हूँ। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूँगा; मैं ने यह विचार बान्धा है और उसे सुफल भी करूँगा। १२ हे कठोर मनवालो तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। १३ मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ * वह दूर नहीं है †, और मेरे उद्धार करने में विलम्ब न होगा; मैं सिव्योन का उद्धार करूँगा और इस्त्राएल को महिमा दूँगा ‡ ॥

४७ हे बाबुल की कुमारी बेटी, उतर आ और धूल पर बैठ; हे कसदियो की बेटि तू बिना सिहासन भूमि पर बैठ। क्योंकि तू अब फिर कोमल और मुकुमार न कहलाएगी। २ चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूँघट हटा और घाघरा समेट ले और उधारी टाँगों से नदियों को पार कर। ३ तेरी नग्नता उधाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रगट होगी। मैं बदला लूँगा और किसी मनुष्य को ग्रहण न करूँगा § ॥

४ हमारा छुटकारा देनेवाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्त्राएल का पवित्र है ॥

५ हे कसदियों की बेटि, चुपचाप बंठी रह और अन्धियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य राज्य की स्वामिन न कहलाएगी।

६ मैं ने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे बश में कर दिया; तू ने उन पर कुछ दया न की, बूढ़ों पर तू ने अपना

अत्यन्त भारी जूआ रख दिया। ७ तू ने कहा, मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूँगी, सो तू ने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा ॥

८ इसलिये सुन, तू जो राग-रग में उलझी हुई निडर बंठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ, और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं; मैं विधवा की नाई न बँठूँगी और न मेरे लड़केवाले मिटेंगे। ९ सुन, ये दोनों दुःख अर्थात् लडकों का जाता रहना और विधवा हो जाना, अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेगे। तेरे बहुत से टाँगों और तेरे भारी भारी तन्त्र-मन्त्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेगे ॥

१० तू ने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तू ने कहा, मुझे कोई नहीं देखता; तेरी बुद्धि और ज्ञान ने मुझे बहकाया और तू ने अपने मन में कहा, मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। ११ परन्तु तेरी ऐसी दुर्गती होगी जिसका मन्त्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित्त करके उसका निवारण न कर सकेगी; अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं ॥

१२ अपने तन्त्र-मन्त्र और बहुत से टोनहों को, जिनका तू ने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला, सम्भव है तू उन से लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। १३ तू तो युक्ति करते करते थक गई है; अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नये नये चान्द को देखकर होनहार बताते हैं, वे सड़े होकर तुझे

* मूल में—निकट से आने।

† मूल में—दूर।

‡ मूल में—मैं सिव्योन में उद्धार के द्वारा इस्त्राएल के लिये अपनी शोभा दूँगा।

§ मूल में—मनुष्य से न मिलूँगा।

उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी ॥

१४ देख, वे भूसे के समान होकर भ्रम से भस्म हो जाएंगे, वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह भ्रम तापने के लिये नहीं, न ऐसी होगी जिसके साम्हने कोई बैठ सके। १५ जिनके लिये तू परिश्रम करती आई है वे सब तेरे लिये बैसे ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्योपार करते आए हैं, उन में से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे, तेरा बचानेवाला कोई न रहेगा ॥

४८ हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इस्लामी कहलाते और यहूदा के स्रोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इस्लाम के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परन्तु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। २ क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं, और इस्लाम के परमेश्वर पर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है भरोसा करते हैं ॥

३ होनेवाली बातों को तो मैं ने प्राचीन-काल ही से बताया है, और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली, मैं ने अचानक उन्हें प्रगट किया और वे बातें सचमुच हुईं। ४ मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। ५ इस कारण मैं ने इन बातों को प्राचीनकाल ही से तुम्हें बताया उनके होने से पहिले ही मैं ने तुम्हें बता दिया, ऐसा न हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है,

मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ ॥

६ तू ने सुना है, सो अब इन सब बातों पर ध्यान कर; और देखो, क्या तुम उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुम्हें नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। ७ वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीनकाल से नहीं; परन्तु आज से पहिले तू ने उन्हें सुना भी न था, ऐसा न हो कि तू कहे कि देख मैं तो इन्हें जानता था। ८ हा निश्चय तू ने उन्हें न तो सुना, न जाना, न इस से पहिले तेरे कान ही खुले थे। क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा, और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है ॥

९ अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलम्ब करता हूँ, और अपनी महिमा के निमित्त अपने तईं रोक रखता हूँ, ऐसा न हो कि मैं तुम्हें काट डालूँ। १० देख, मैं ने तुम्हें निर्मल तो किया, परन्तु, चान्दी की नाईं नहीं, मैं ने दुःख की भट्टी में परखकर तुम्हें चुन लिया है। ११ अपने निमित्त, हा अपने ही निमित्त मैं ने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा ॥

१२ हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्लाम, मेरी और कान लगाकर सुन ! मैं वही हूँ, मैं ही आदि * और मैं ही अन्त हूँ †। १३ निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नेव डाली, और मेरे ही दहिने हाथ ने आकाश फैलाया; जब मैं उनको बुलाता हूँ, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं ॥

* मूल में—पश्चिम।

† मूल में—पिछला।

१४ तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो ! उन में से किस ने कभी इन बातों का समाचार दिया ? यहोवा उस से प्रेम रखता है : वह बाबुल पर अपनी इच्छा पूरी करेगा, और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा । १५ मैं ने, हां में ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूँ, और, उसका काम सुफल होगा । १६ मेरे निकट आकर इस बात को सुनो : आदि से लेकर अब तक मैं ने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही; जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ । और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है * ॥

१७ यहोवा जो तेरा छुड़ानेवाला और इस्त्राएल का पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिये शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ । १८ भला होता कि तू ने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता ! तब तेरी शान्ति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरो के नाई होता; १९ तेरा बश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरी निज सन्तान उसके कणों के समान होती; उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता ॥

२० बाबुल में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ; जयजयकार करते हुए इस बात को प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ; कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है !

* वा प्रभु यहोवा ने मुझे और अपने आत्मा को भेज दिया है ।

२१ जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे न हुए; उस ने उनके लिये चट्टान में से पानी निकाला; उस ने चट्टान को चीरा और जल बह निकला । २२ दुष्टों के लिये कुछ शान्ति नहीं, यहोवा का यही वचन है ॥

४९ हे द्वीपो, मेरी और कान लगाकर सुनो; हे दूर दूर के राज्यों के लोगो, ध्यान लगाकर मेरी सुनो । यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था, तब ही उस ने मेरा नाम बताया । २ उस ने मेरे मुह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड में मुझे छिपा रखा; उस ने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तर्कश में गुप्त रखा । ३ और मुझ से कहा, तू मेरा दास इस्त्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रगट करूंगा । ४ तब मैं ने कहा, मैं ने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैं ने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है; तौभी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है ॥

५ और अब यहोवा जिस ने मुझे जन्म ही से इसलिये रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी और फेर ले आऊँ अर्थात् इस्त्राएल को उसके पास इकट्ठा करूँ, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदरयोग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है, ६ उसी ने मुझ से यह भी कहा है, यह तो हलकी सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्त्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिये मेरा सेवक ठहरे; मैं तुझे अन्यायियों

के लिये ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए ।।

७ जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिस से जातियों को घृणा है, और, जो अपराधियों का दास है, इस्राएल का छुड़ाने-वाला और उसका पवित्र अर्थात् यहोवा यों कहता है, कि राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दण्डवत् करेगे; यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिस ने तुम्हें चुन लिया है ।।

८ यहोवा यों कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैं ने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैं ने तेरी सहायता की है; मैं तेरी रक्षा करके तुम्हें लोगों के लिये एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर * करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और, बंधुओं से कहे, बन्दीगृह से निकल आओ; ९ और जो अन्धियारे में हैं उन से कहे, अपने आप को दिखलाओ † । वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुराडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी । १० वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि, वह जो उन पर दया करता है, वही उनका अगुवा होगा, और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा । ११ और, मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा, और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे । १२ देखो, ये दूर से आएंगे, और, ये उत्तर और पच्छिम से और सीनियों के देश से आएंगे । १३ हे आकाश, जयजयकार कर, हे

* मूल में—बहाल ।

† मूल में—अपने को प्रगट करो ।

पृथ्वी, मगन हो; हे पहाड़ों, गला खोलकर जयजयकार करो! क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शान्ति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है ।।

१४ परन्तु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है । १५ क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूधपिउबे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हां, वह तो भूल सकती है, परन्तु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता । १६ देख, मैं ने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है; तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के साम्हने बनी रहती है । १७ तेरे लडके फूर्ती से आ रहे हैं और खण्डहर बनानेवाले और उजाड़नेवाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं । १८ अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं । यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सभी को गहने के समान पहिन लेगी, तू दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सब को बान्ध लेगी ।।

१९ तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं, और तेरे जो देश खण्डहर ही खण्डहर है, उन * में अब निवासी न समाएंगे, और तुम्हें नष्ट करनेवाले दूर हो जाएंगे । २० तेरे पुत्र जो तुम्हें से ले लिए गए † वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिये सकेत है, हमें और स्थान दे कि उस में रहें । २१ तब तू मन में कहेगी, किस ने इनको

* मूल में—तुम्हें ।

† मूल में—तेरे लडकों के जाते रहने के बेटे ।

मेरे लिये जन्माया ? मैं तो पुत्रहीन और बाँझ हो गई थी, दासत्व में और यहां वहां में घूमती रही, इनको किस ने पाला ? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहा थे ?

२२ प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगो की ओर उठाऊंगा, और देश देश के लोगो के साम्हने अपना भएडा खडा करूंगा; तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद मे लिए आएंगे, और तेरी पुत्रियों को अपने कन्धे पर चढाकर तेरे पास पहुँचाएंगे। २३ राजा तेरे बच्चो के निज-सेवक और उनकी रानिया दूध पिलाने के लिये तेरी धाइया होगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगडकर तुम्हें दण्डवत् करेगे और तेरे पाँवों की धूलि चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, मेरी बाट जोहनेवाले कभी लज्जित न होंगे ॥

२४ क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है ? क्या दुष्ट के बधुए छुड़ाए जा सकते हैं ? २५ तौमी यहोवा यों कहता है, हा, वीर के बधुए उस से छीन लिए जाएंगे, और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुडा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुम्ह से लडते हैं उन से मैं आप मुकद्दमा लडंगा, और तेरे लडकेबालो का मैं उद्धार करूंगा। २६ जो तुम्ह पर अन्धेरे करते हैं उनको मैं उन्ही का मांस खिलाऊंगा, और, वे अपना लोह पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नये दाखमधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ानेवाला, याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ ॥

५० तुम्हारी माता का त्यागपत्र कहां है, जिसे मैं ने उसे त्यागते समय दिया था ? या मैं ने किस ब्योपारी के हाथ तुम्हें बेचा ? यहोवा यो कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामो के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड दी गई। २ इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला ? और जब मैं ने पुकारा, तब कोई न बोला ? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा ही गया है कि छुडा नही सकता ? क्या मुझ मे उद्धार करने की शक्ति नही ? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदो को रेगिस्तान बना देता हूँ; उनकी मछलिया जल बिना मर जाती और बसानी हैं। ३ मैं आकाश को मानो शोक का काला कपडा पहिनाता, और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ ॥

४ प्रभु यहोवा ने मुझे सीखनेवालो की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा सभालना जानूँ। और को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूँ। ५ प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, और मैं ने विरोध न किया, न पीछे हटा। ६ मैं ने मारनेवालो को अपनी पीठ और गलमोछ नोचनेवालों की ओर अपने गाल किए; अपमानित होने और उनके धूकने से मैं ने मुह न छिपाया ॥

७ क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैं ने सकोच नही किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कडा किया क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पडेगा। ८ जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकद्दमा करेगा ? हम

धामने-साम्न्हे खड़े हों। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। ६ सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है; मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे; उनको कीड़े खा जाएंगे ॥

१० तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो धन्धियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो? वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे, और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। ११ देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्निबालों को कमर में बान्धते हो! तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबालों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही और से होगी, तुम सन्ताप में पड़े रहोगे ॥

५१ हे धर्म पर चलनेवालो, हे यहोवा के दूढ़नेवालो, कान लगाकर मेरी सुनो; जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खानि में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। २ अपने मूलपुरुष इब्राहीम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो, जब वह झकेला था, तब ही से मैं ने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। ३ यहोवा ने सिय्योन को शान्ति दी है, उस ने उसके सब खरबहरों को शान्ति दी है; वह उसके जंगल को भदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की बाटिका के समान बनाएगा; उस में हर्ष और धानन्द और धन्यवाद और अजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा ॥

४ हे मेरी प्रजा के लोगो, मेरी और ध्यान धरो; हे मेरे लोगो, कान लगाकर मेरी सुनो; क्योंकि मेरी और से व्यवस्था दी जाएगी*, और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिये स्थिर करूंगा। ५ मेरा छुटकारा निकट है; मेरा उद्धार प्रगट हुआ है †; मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगो का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। ६ आकाश की और अपनी आंखें उठाओ, और पृथ्वी को निहारो; क्योंकि आकाश धूएँ की नाई लोप हो जाएगी, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, और उसके रहनेवाले यों ही जाते रहेंगे, परन्तु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा, और मेरे धर्म का अन्त न होगा ॥

७ हे धर्म के जाननेवालो, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों की नामधराई से मत डरो, और उनके निन्दा करने से विस्मित न हो। ८ क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें उन की नाई खाएगा; परन्तु मेरा धर्म अनन्तकाल तक, और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा ॥

९ हे यहोवा की भुजा, जाग! जाग और बल धारण कर; जैसे प्राचीनकाल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिस ने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और मगरमच्छ को छेदा? १० क्या तू वही नहीं जिस ने समुद्र को अर्थात् गहिरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुए के पार जाने के लिये

* मूल में—निकलेगी।

† मूल में—मेरा उद्धार निकला है।

मार्ग निकाला था ? ११ सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जयजयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिरों पर भ्रान्त भ्रानन्द गूँजता रहेगा *; वे हर्ष और भ्रानन्द प्राप्त करेंगे, और शोक और सिसकियों का भ्रन्त हो जाएगा ॥

१२ मैं, मैं ही तेरा शान्तिदाता हूँ; तू कौन है जो मरनेवाले मनुष्य से, और घास के समान मुर्झनेवाले † आदमी से डरता है, १३ और आकाश के ताननेवाले और पृथ्वी की नेब डालनेवाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है, और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार धरधराता है ? परन्तु द्रोही की जलजलाहट कहां रही ? १४ बंधुभ्राणी ही स्वतन्त्र किया जाएगा; वह गड़हे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी । १५ जो समुद्र को उथल-पुथल करता जिस से उसकी लहरों में गरजन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है । और मैं ने तेरे मुंह मे अपने वचन डाले, १६ और तुझे अपने हाथ की आड में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानू ‡ और पृथ्वी की नेब डालू, और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो ॥

१७ हे यरूशलेम जाग ! जाग उठ ! खड़ी हो जा, तू ने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है, तू ने कटोरे का लडखड़ा देनेवाला मद पूरा

* मूल में—उसके सिर पर सदा का भ्रानन्द होगा ।

† मूल में—सरीखे बननेहारे ।

‡ मूल में—आकाश को पौधे की नाई लगाऊँ ।

पूरा ही पी लिया है । १८ जितने लड़को ने उस से जन्म लिया उन में से कोई न रहा जो उसकी भ्रगुवाई करके ले चले; और जितने लड़के उस ने पाले-पोसे उन में से कोई न रहा जो उसके हाथ को धाम ले । १९ ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है, कौन तेरे संग विलाप करेगा ? उजाड और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है; कौन तुझे शान्ति देगा ? २० तेरे लड़के मूर्च्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर, महाजाल में फसे हुए हरिण की नाई पड़े हैं; यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं * ॥

२१ इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है, परन्तु दाखमधु पीकर नहीं, २२ तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकद्दमा लड़नेवाला तेरा परमेश्वर है, वह यों कहता है, सुन, मैं लडखड़ा देनेवाले मद के कटोरे को अर्थात् अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हू, तुझे उस में से फिर कभी पीना न पड़ेगा । २३ और मैं उसे तेरे उन दुःख देनेवालों के हाथ में दूंगा, जिन्हों ने तुझ से कहा, लेट जा, कि हम तुझ पर पाव धरकर आगे चले †; और तू ने अँधे मुह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलनेवालों के लिये सड़क बना दिया ‡ ॥

५२ हे सिय्योन, जाग, जाग ! अपना बल धारण कर; हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान

* मूल में—घड़की से भरे हैं ।

† मूल में—कि हम आगे चलें ।

‡ मूल में—तू ने आगे चलनेहारे के लिये अपनी पीठ भूमि और सड़क के समान रखी ।

वस्त्र पहिन ले; क्योंकि तेरे बीच खतना-रहित श्रीर अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। २ अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम, उठ; हे सिय्योन की बन्दी बेंटी अपने गले के बन्धन को खोल दे ॥

३ क्योंकि यहोवा यों कहता है, तुम जो संतमेत बिक गए थे, इसलिये अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। ४ प्रभु यहोवा यों भी कहता है, मेरी प्रजा पहिले तो मित्र मे परदेशी होकर रहने को गई थी, और अशूरियो ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। ५ इसलिये यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहां क्या करूं जब कि मेरी प्रजा संतमेत हर ली गई है? यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और, मेरे नाम की निन्दा लगातार दिन भर होती रहती है। ६ इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी; वह उस समय जान लेगी कि जो बाते करता है वह यहोवा ही है; देखो, मैं ही हू ॥

७ पहाड़ों पर उसके पाव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शान्ति की बाते सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का सन्देश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। ८ सुन, तेरे पहलूए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जयजय-कार कर रहे हैं; क्योंकि वे साक्षात् देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। ९ हे यरूशलेम के खरडहरों, एक संग उमंग में आकर जयजयकार करो; क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शान्ति दी है, उस ने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। १० यहोवा ने सारी जातियों के साम्हने

अपनी पवित्र भुजा प्रगट की है; और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे ॥

११ दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ; उसके बीच से निकल जाओ; हे यहोवा के पात्रों के ढोनेवालो, अपने को शुद्ध करो। १२ क्योंकि तुम को उतावली से निकलना नहीं, और न भागते हुए चलना पड़ेगा; क्योंकि यहोवा तुम्हारे भागे भागे भगुवाई करता हुआ चलेगा, और, इस्त्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा ॥

१३ देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। १४ जैसे बहुत से लोग उसे * देखकर चकित हुए (क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुन्दरता भी आदमियों की सी न रह गई थी), १५ वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शान्त रहेंगे †; क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका बरगन उनके सुनने में भी नहीं आया, और, ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी ॥

५३

जो समाचार हमें दिया गया, उसका किस ने विश्वास किया? और यहोवा का मुजबल किस पर प्रगट हुआ? २ क्योंकि वह उसके साम्हने अंकुर की नाईं, और ऐसी जड के समान

* मूल में—तुम्हें।

† मूल में—राजा अपने मुंघ बन्द करेंगे।

उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले; उसकी न तो कुछ सुन्दरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पडा कि हम उसको चाहते। ३ वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था, वह दुःखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहिचान थी, और लोग उस से मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और, हम ने उसका मृत्यु न जाना ॥

४ निश्चय उस ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुःखों को उठा लिया; तौमी हम ने उसे परमेश्वर का भारा-कूटा और दुर्दशा में पडा हुआ समझा। ५ परन्तु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया; हमारी ही शान्ति के लिये उस पर ताड़ना पडी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग बंगे हो जाएं *। ६ हम तो सब के सब भेड़ों की नाईं भटक गए थे; हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया; और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया ॥

७ वह सताया गया, तौमी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला; जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वा भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शान्त रहती है, वैसे ही उस ने भी अपना मुंह न खोला। ८ अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए; उस समय के लोगों में से किस ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण

उस पर मार पडी। ९ और उसकी क्रूर भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और, मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि * उस ने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुह से कभी छल की बात नहीं निकली थी ॥

१० तौमी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले; उसी ने उसको रोगी कर दिया; जब तू उसका प्राण दोषबलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा; उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ११ वह अपने प्राणों का दुःख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा; अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा; और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। १२ इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और, वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा; क्योंकि उस ने अपना प्राण मृत्यु के लिये उगडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया; तौमी उस ने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और, अपराधियों के लिये बिनती करता है ॥

५४ हे बांभ, तू जो पुत्रहीन है जयजयकार कर; तू जिसे जन्माने की पीड़ें नहीं हुईं, गला खोलकर जयजयकार कर और पुकार! क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा का यही वचन है। २ अपने लम्बू का स्थान चौड़ा कर, और तेरे डेरे के पट लम्बे किए जाएं; हाथ मत रोक, रस्सियों को लम्बी और झूटों को दृढ़ कर। ३ क्योंकि तू दहिने-बाएँ फैलेगी,

* मूल में—हमारे लिये चगापन है।

* वा, क्योंकि।

और तेरा बंश जाति-जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा ॥

४ मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी; मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, और, अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। ५ क्योंकि तेरा कर्त्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है; और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने-वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। ६ क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तेरे परमेश्वर का यही वचन है। ७ क्षण भर ही के लिये मैं ने तुझे छोड़ दिया था, परन्तु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। ८ क्रोध के झकोरे में आकर मैं ने पल भर के लिये तुझ से मुह छिपाया था, परन्तु अब अनन्त करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ानेवाले यहोवा का यही वचन है। ९ यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जलप्रलय के समान है; क्योंकि जैसे मैं ने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जलप्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैं ने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझ को धमकी दूंगा। १० चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तभी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, और मेरी शान्तिदायक वाचा न टलेगी, यहोवा, जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है ॥

११ हे दुःखियारी, तू जो आंभी की सताई है और जिस को शान्ति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बंठाऊंगा, और तेरी नेब नीलमणि से डालूंगा। १२ तेरे कलश में मारिणकों से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। १३ तेरे सब लडके यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, और उनको बड़ी शान्ति मिलेगी। १४ तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी; तू अन्धेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। १५ सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परन्तु मेरी ओर से नहीं; जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। १६ सुन, एक लोहार कोएले की आग धोंककर इसके लिये हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिये भी मेरी ओर से एक नाश करनेवाला सृजा गया है। १७ जितने हथियार तेरी हानि के लिये बनाए जाएं, उन में से कोई सफल न होगा, और, जितने लोग मुद्ई होकर तुझ पर नालिश करें * उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है ॥

५५ अहो सब व्यासे लोगों, पानी के पास आओ; और जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ! दास्यमधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। २ जो भोजनवस्तु नहीं है, उसके लिये तुम क्यों रुपया लगाते हो, और,

* मूल में—जितनी जीमें तेरे साथ उठें।

जिस से पेट नहीं भरता उसके लिये क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उसम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर सन्तुष्ट हो जाओगे। ३ कान लगाओ, और मेरे पास आओ; सुनो, तब तुम जीवित रहोगे *; और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बान्धूगा अर्थात् दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। ४ सुनो, मैं ने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिये साक्षी और प्रधान और आज्ञा देनेवाला ठहराया है। ५ सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातिया जो तुम्हें नहीं जानतीं तेरे पास दीड़ी आएंगी, वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इब्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उस ने तुम्हें शोभायमान किया है ॥

६ जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज मे रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो; ७ दुष्ट अपनी चालचलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा।

८ क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक ही है। ९ क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति मैं और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में, आकाश और पृथ्वी का अन्तर है † ॥

* मूल में—तुम्हारे प्राण बने रहेंगे।

† मूल में—आकाश पृथ्वी से ऊंचा है जैसे ही मेरी गति तुम्हारी गति से और मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचारों से ऊंचे हैं।

१० जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लीट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर * उपज उपजाते हैं जिस से बनेवाले को बीज और खानेवाले को रोटी मिलती है, ११ उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है; वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परन्तु, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिये मैं ने उसको भेजा है उसे वह मुफल करेगा † ॥

१२ क्योंकि तुम आनन्द के साथ निकलोगे, और शान्ति के साथ पहुंचाए जाओगे; तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जयजयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनन्द के मारे ताली बजाएंगे। १३ तब भटकटैयों की सन्ती सनीवर उगेगी; और बिच्छू पेड़ों की सन्ती मेहदी उगेगी; और इस से यहोवा का नाम होगा, जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा।

५६ यहोवा यों कहता है, न्याय का पालन करो, और, धर्म के काम करो; क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा ‡, और मेरा धर्म होना प्रगट होगा। २ क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्रामदिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। ३ जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं,

* मूल में—भूमि को सींचकर।

† मूल में—उस में मुफल होगा।

‡ मूल में—मेरा उद्धार आने को निकट है।

वे न कहे कि यहोवा हमे अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा; और खोजे भी न कहें कि हम तो सूखे वृक्ष हैं। ४ क्योंकि जो खोजे मेरे विश्रामदिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा को पालते हैं, उनके विषय यहोवा यों कहता है ५ कि मैं अपने भवन और अपनी शहर-पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र-पुत्रियों से कही उत्तम होगा; मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा * और वह कभी न मिटाया जाएगा ॥

६ परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाए, जितने विश्रामदिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, ७ उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनन्दित करूंगा; उनके होमबलि और मेलबलि मेरी बेदी पर ग्रहण किए जाएंगे; क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिये प्रार्थना का घर कहलाएगा। ८ प्रभु यहोवा, जो निकाले हुए इस्त्राएलियों को इकट्ठे करनेवाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठे करके मिला दूंगा ॥

९ हे मैदान के सब जन्तुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिये आओ। १० उसके पहरेण अन्धे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भूक नहीं सकते; वे स्वप्न देखनेवाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं।

* मूल में—उनको सदा का नाम दूंगा।

११ वे मरभूखे कुत्ते हैं जो कभी तुप्त नहीं होते *। वे चरवाहे हैं जिन में समझ ही नहीं; उन सभी ने अपने अपने लाभ के लिये अपना अपना मार्ग लिया है। १२ वे कहते हैं कि आओ, हम दाखमधु ले आए, आओ मदिरा पीकर छक जाएं; कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यन्त सुहावना होगा ॥

५७ धर्मी जन नाश होता है, और कोई इस बात की चिन्ता नहीं करता; भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परन्तु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिये उठा लिया गया कि आनेवाली आपत्ति से बच जाए, २ वह शान्ति को पहुंचता है; जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है ॥

३ परन्तु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रो, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की सन्तान, यहा निकट आओ। ४ तुम किस पर हसी करते हो? तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो †? क्या तुम पाखण्डी और भूठे ‡ के वश नहीं हो, ५ तुम, जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच § बाल-बच्चों को बध करते हो? ६ नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और भ्रष्ट ठहरे ||; तू ने उनके लिये तपावन दिया और अश्रबलि चढ़ाया है। क्या मैं इन बातों

* मूल में—फिर कुत्ते मरभूखे हैं, वे वृत्ति नहीं जानते।

† मूल में—मुंह खोलकर जीभ बढ़ाते हो।

‡ मूल में—तुम अपराध की सन्तान, भूठ का वंश।

§ मूल में—के नीचे।

|| मूल में—वे ही तेरी चिट्ठी।

से शान्त हो जाऊं? ७ एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तू ने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई। ८ तू ने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की झाड़ ही में रखी; मुझे छोड़कर तू औरों को अपने तई दिलाने के लिये चढ़ी, तू ने अपनी खाट चौड़ी की और उन से वाचा बान्ध ली, तू ने उनकी खाट को जहां देखा, पसन्द किया। ९ तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगन्धित तेल अपने काम में लाई; अपने दूत तू ने दूर तक भेजे और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। १० तू अपनी यात्रा की लम्बाई के कारण थक गई, तौभी तू ने न कहा कि यह व्यर्थ है; तेरा बल कुछ अधिक हो गया*, इसी कारण तू नहीं थकी ॥

११ तू ने किस के डर से भूठ कहा, और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझ को स्मरण नहीं रखा न मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। १२ मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूंगा, परन्तु, उन से तुझे कुछ लाभ न होगा। १३ जब तू दोहाई दे, तब जिन मूर्तियों को तू ने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाएं! वे तो सब की सब वायु से बरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी। परन्तु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा, और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा ॥

१४ और यह कहा जाएगा, पांति बान्ध बान्धकर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के

* मूल में—तू ने अपने हाथ का जीवन पाया।

मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो। १५ क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करू*। १६ मैं सदा मुकुटमा न लड़ता रहूंगा, न सर्वदा क्रोधित रहूंगा; क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है और जीव मेरे साम्हने मूर्च्छित हो जाते हैं। १७ उसके लोभ के पाप के कारण मैं ने क्रोधित होकर उसको दुःख दिया था, और क्रोध के मारे उस से मुह छिपाया था; परन्तु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। १८ मैं उसकी चाल देखता आया हूं, तौभी अब उसको चंगा करूंगा; मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करनेवालों को शान्ति दूंगा। १९ मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं; यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शान्ति मिले; और मैं उसको चंगा करूंगा। २० परन्तु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान हैं जो स्थिर नहीं रह सकता; और उसका जल मेल और कीच उछालता है। २१ दुष्टों के लिये शान्ति नहीं है, मेरे परमेस्वर का यही वचन है ॥

५८ गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंहे का सा ऊंचा शब्द कर; मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात् याकूब के घराने को उसका पाप

* मूल में—नम्रों की आत्मा और चूर मन जिलाने को।

जता दे। २ वे प्रति दिन मेरे पास आते और मेरी गति बूझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने मेरे अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला; वे मुझ से धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। ३ वे कहते हैं, क्या कारण है कि हम ने तो उपवास रखा, परन्तु तू ने इसकी सुधि नहीं ली? हम ने दुःख उठाया, परन्तु तू ने कुछ ध्यान नहीं दिया? सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। ४ सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और भगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उस से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ५ जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात् जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को भाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो?

६ जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं, कि, अन्याय से बनाए हुए दासों, और अन्धेर सहनेवालों का जूआ तोड़कर * उनको छोड़ा लेना, और, सब जूआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना?

७ क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे-मारे फिरते हुआओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहिनाना,

* मूल में—कि दुष्टता के बन्धन खोलेंगा और छूप की रस्सियां खोजना।

और अपने जातिभाव्यों से अपने को न छिपाना? ८ तब तेरा प्रकाश पी फटने की नाई चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा; तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ९ तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा; तू दोहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ*। यदि तू अन्धेर करना † और उंगली मटकाना, और, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, १० उदारता से भूखे की सहायता करे ‡ और दीन दुःखियों को सन्तुष्ट करे, तब अन्धियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, और तेरा घोर अन्धकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। ११ और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा; और तू सीची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। १२ और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे; तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा; तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों § का ठीक करनेवाला पड़ेगा ॥

१३ यदि तू विश्रामदिन को अशुद्ध न करे ॥ अर्थात् मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्रामदिन को आनन्द का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन

* मूल में—मुझे देख।

† मूल में—जूआ।

‡ मूल में—और भूखे के लिये अपना जीव खींच निकाले।

§ मूल में—रहने के लिये पथों।

॥ मूल में—यदि विश्राम दिन से अपना पांव मोड़े।

समझकर माने; यदि तू उसका सन्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे, और अपनी ही बातें न बोले, १४ तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊँचे स्थानों पर चलने दूंगा; मैं तेरे मूलपुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है ॥

५९ सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा * हो गया है कि सुन न सके; २ परन्तु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम को तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुँह तुम से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता । ३ क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं; तुम्हारे मुँह से तो भूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं । ४ कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकद्दमा लड़ता है; वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और भूठ बातें बकते हैं; उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता, और वे अनर्थ को जन्म देते हैं । ५ वे सापिन के अण्डे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं; जो कोई उनके अण्डे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उस में से सपोला निकलता है † । ६ उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने

* मूल में—उसका कान ऐसा भारी ।

† मूल में—और कुचला हुआ सपोला फूटता है ।

को ढांप सकेंगे । क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं, और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है । ७ वे बुराई * करने को दौड़ते हैं, और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं; उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में हैं । ८ शान्ति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार में न्याय है; उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शान्ति न पाएगा ॥

९ इस कारण न्याय हम से दूर है, और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता; हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, परन्तु, देखो अन्धियारा ही बना रहता है, हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परन्तु, घोर अन्धकार ही में चलते हैं । १० हम अन्धों के समान भीत टटोलते हैं, हाँ, हम बिना आँसू के लोगों की नाई टटोलते हैं; हम दिन-दोपहर रात की नाई ठोकर खाते हैं, हृष्टपुष्टी के बीच हम मुदों के समान हैं । ११ हम सब के सब रोहों की नाई चिल्लाते हैं और पराङ्गों के समान च्यू च्यू करते हैं; हम न्याय की बाट तो जोहते हैं, पर वह कहीं नहीं; और उद्धार की बाट जोहते हैं पर वह हम से दूर ही रहता है । १२ क्योंकि हमारे अपराध तेरे साम्हने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं; हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं; १३ हम ने यहोवा का अपराध किया है, हम उस से मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, हम अन्धेर करने लगे और उलट

* मूल में—उनके पांव बुराई ।

फेर की बातें कही, हम ने भूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। १४ न्याय तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया; सच्चाई बाजार में गिर पड़ी *, और सिघाई प्रवेश नहीं करने पाती। १५ हां, सच्चाई खो गई, और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है ॥

यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा, १६ उस ने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इस से अचम्भा किया कि कोई बिनती करनेवाला नहीं; तब उस ने अपने ही भुजबल से उद्धार किया †, और अपने धर्मी होने के कारण वह सम्भल गया। १७ उस ने धर्म को फिलम की नाई पहिन लिया, और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया; उस ने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया, और जलजलाहट को बागे की नाई पहिन लिया है। १८ उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा, अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा; वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। १९ तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे; क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध भ्रष्टा खड़ा करेगा ॥

२० और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिये सिय्योन में एक

* मूल में—सच्चाई ने चौक में ठोकर खाई।

† मूल में—उसी की भुजा ने उसके लिये उद्धार किया।

छुड़ानेवाला प्राणा, यहोवा की यही वाणी है। २१ और यहोवा यह कहता है, जो वाचा में ने उन से बान्बी है वह यह है, कि मेरा आत्मा तुम्ह पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैं ने तेरे मुह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुह से, और, तेरे पुत्रों और पोतों के मुह से भी कभी न हटेंगे ॥

६० उठ, प्रकाशमान हो; क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। २ देख, पृथ्वी पर तो अन्धियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अन्धकार छाया हुआ है; परन्तु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुम्ह पर प्रगट होगा। ३ और अन्यजातियां तेरे पास प्रकाश के लिये और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे ॥

४ अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख; वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं; तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रिया हाथों-हाथ पहुंचाई जा रही हैं। ५ तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय धरधराएगा और आनन्द से भर जाएगा *; क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्यजातियों की धन-सम्पत्ति तुम्ह को मिलेगी। ६ तेरे देश † में ऊंटों के भुगड और मिद्यान और एपादेशों की साडनियां इकट्ठी होंगी; शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनन्द से सुनाएंगे। ७ केदार की सब भेड-बकरियां इकट्ठी होकर तेरी ही

* मूल में—और बढ़ेगा।

† मूल में—तुम्ह में।

जाएंगी, नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे; मेरी बेदी पर बे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा ॥

८ ये कौन हैं जो बादल की नाई और दर्बाओं की और उड़ते हुए कबूतरों की नाई चले आते हैं? ९ निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे, पहिले तो तर्शाश के जहाज आएंगे, कि, तेरे पुत्रों को सोने-चान्दी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात् इस्राएल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उस ने तुम्हें शोभायमान किया है ॥

१० परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे, और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे; क्योंकि मैं ने क्रोध में आकर तुम्हें दुःख दिया था, परन्तु अब तुम्हें प्रसन्न होकर तुम्हें पर दया की है। ११ तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे; दिन और रात बे बन्द न किए जाएंगे जिस से अन्य-जातियों की घन-सम्पत्ति और उनके राजा बंधुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। १२ क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे; ह्रां ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएंगी। १३ लबानोन का विभव अर्थात् सनीबर और देवदार और सीधे सनीबर के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्रस्थान को सुशोभित करें; और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। १४ तेरे दुःख देनेवालों की सन्तान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगे; और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर* गिरकर दण्डवत् करेंगे; वे

* मूल में—तेरे पांवों के तल्लुप पर।

तेरा नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सिव्योन रखेंगे ॥

१५ तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहां तक कि कोई तुम्हें मे से होकर नहीं जाता था, इसकी सन्ती मैं तुम्हें सदा के घमण्ड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। १६ तू अन्यजातियों का दूष पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूमेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धारकर्ता और तेरा छुड़ानेवाला, याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ ॥

१७ मैं पीतल की सन्ती सोना, लोहे की सन्ती चान्दी, लकड़ी की सन्ती पीतल और पत्थर की सन्ती लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल-मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। १८ तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात वा अन्धेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परन्तु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। १९ फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चान्दनी के लिये चन्द्रमा परन्तु यहोवा तेरे लिये सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। २० तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चन्द्रमा की ज्योति मलिन होगी*; क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे बिलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। २१ और तेरे लोग सब के सब धर्मों होंगे; वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पीधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिस से मेरी महिमा प्रगट हो। २२ छोटे से

* मूल में—और तेरा चन्द्रमा न सिमटेगा।

छोटा एक हजार हो जाएगा और सब से दुबल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ; ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा ॥

६१ प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है; क्योंकि यहोवा ने सुममाचार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिये भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शान्ति दूँ; कि बंधुओं के लिये स्वतन्त्रता का और कँदियों के लिये छुटकारे का प्रचार करूँ; २ कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूँ; कि सब विलाप करनेवालों को शान्ति दूँ ३ और सिय्योन के विलाप करनेवालों के सिर पर की राख दूर करके सुन्दर पगडी बान्ध दूँ, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊँ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊँ; जिस से वे धर्म के बांजवृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिस से उसकी महिमा प्रगट हो। ४ तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्वकाल से पड़े हुए खरबहरों में वे फिर घर बनाएंगे; उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हो वे फिर नये सिरे से बसाएंगे ॥

५ परदेशी भा खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़-बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे; ६ पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुम को हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे; और तुम अन्यजातियों की धन-सम्पत्ति को लूओगे, उनके विभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई

करोगे। ७ तुम्हारी नामधराई की सन्ती दूना भाग मिलेगा, भनादर की सन्ती तुम * अपने भाग के कारण जयजयकार करोगे; तुम * अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे; और सदा आनन्दित बने रहोगे ॥

८ क्योंकि, मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ; इसलिये मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूँगा, और, उनके साथ सदा की वाचा बान्धूँगा। ९ उनका वंश अन्यजातियों में और उनकी सन्तान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी; जितने उनको देखेंगे, पहिचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है ॥

१० मैं यहोवा के कारण अति आनन्दित होऊँगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा; क्योंकि उस ने मुझे उद्धार के वस्त्र पहिनाए, और धर्म की चदर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आपको सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना सिंगार करती है। ११ क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती, और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के साम्हने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा ॥

६२ सिय्योन के निमित्त मैं चुप न रहूँगा, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूँगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश की नाई और उसका उद्धार जलते हुए पलीते के समान दिखाई न दे। २ तब अन्यजातियां तेरा धर्म

* मूल में—वे।

और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे; और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। ३ तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज-मुकुट ठहरेगी। ४ तू फिर त्यागी हुई न कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी; परन्तु तू हेप्तीबा* और तेरी भूमि ब्यूला† कहलाएगी: क्योंकि यहोवा तुझ से प्रसन्न है, और तेरी भूमि सुहागिन होगी। ५ क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे; और, जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा।

६ हे यरूशलेम, मैं ने तेरी शहरपनाह पर पहण बैठाए हैं; वे दिन-रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करनेवालो, चुप न रहो, ७ और, जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशांसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। ८ यहोवा ने अपने दहिने हाथ की और अपनी बलवन्त भुजा की शपथ खाई है: निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिये न दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दास्यमधु जिसके लिये तू ने परिश्रम किया है, नहीं पीने पाएंगे; ९ केवल वे ही, जिन्होंने ने उसे खत्ते में रखा हो, उस से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने ने दास्यमधु भण्डारों में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्रस्थान के आंगनों में पीने पाएंगे ॥

* अर्थात् जिस से मैं प्रसन्न हूँ।

† अर्थात् सुहागिन।

१० जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिये मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधारकर ऊंचा करो, उस में के पत्थर बिन बिनकर फेक दो, देश देश के लोगों के लिये भण्डा खड़ा करो। ११ देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है: सिध्दों की बेटी से कहो, देख, तेरा उद्धारकर्त्ता आता है; देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। १२ और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे; और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात् न-त्यागी हुई नगरी पड़ेगा ॥

६३ यह कौन है जो एदोम देश के बोत्सा नगर से बंजनी वस्त्र पहिने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भडकीला पहिरावा पहिने हुए भूमता चला आता है ?

यह मैं ही हूँ, जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ* ।

२ तेरा पहिरावा क्यों लाल है? और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हीद में दाख रौदनेवाले के समान है ?

३ मैं ने तो अकेले ही हीद में दाख रौदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया; हा, मैं ने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौदा और जलकर उन्हें लताडा; उनके लोहू के छीटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं, इस से मेरा सारा पहिरावा धब्बदार हो गया है। ४ क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुचा है। ५ मैं ने खोजा, पर कोई सहायक न

* मूल में—उद्धार करने को बड़ा।

दिखाई पड़ा; मैं ने इस से अचम्भा भी किया कि कोई सम्भालनेवाला नहीं था; तब मैं ने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे सम्हाला। ६ हां, मैं ने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा, अपनी जलजलाहट से मैं ने उन्हें मतवाला कर दिया, और उनके लोहू को भूमि पर बहा दिया ॥

७ जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया अर्थात् इस्त्राएल के घराने पर दया और अत्यन्त करुणा करके उस ने हम से जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का बर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। ८ क्योंकि उस ने कहा, निःसन्देह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो घोखा न देगे; और वह उनका उद्धारकर्त्ता हो गया। ९ उनके सारे सकट में उस ने भी कष्ट उठाया*, और उसके सम्मुख रहनेवाले दूत ने उनका उद्धार किया; प्रेम और कोमलता से उस ने आप ही उनको छुड़ाया; उस ने उन्हें उठाया और प्राचीनकाल से सदा उन्हें लिए फिरा ॥

१० तोभी उन्होंने ने बलबा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया; इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया, और स्वयं उन से लड़ने लगा। ११ तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात् मूसा के दिन स्मरण आए, वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहाँ है? जिस ने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है?

* या वह संकट देनेवाला न था।

१२ जिस ने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दहिने हाथ के साथ कर दिया*, जिस ने उनके साम्हने जल को दो भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, १३ जो उनको गहिरें समुद्र में से ले चला; जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वह कहाँ है? १४ जैसे घरैलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तू ने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमायुक्त बनाए ॥

१५ स्वर्ग से, जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है, दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। १६ निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि इब्राहीम हमें नहीं पहिचानता, और इस्त्राएल हमें ग्रहण नहीं करता; तोभी, हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ानेवाला है; प्राचीनकाल से यही तेरा नाम है। १७ हे यहोवा, तू क्यों हम को अपने मार्गों से भटका देता, और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दास, अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौट आ। १८ तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही काल तक तेरे पवित्रस्थान की अधिकारी रही; हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। १९ हम लोग तो ऐसे हो गए हैं, मानो तू ने हम † पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए ॥

* मूल में—जो अपनी शोभावमान भुजा को मूसा के दहिने हाथ पर चलाता था।

† मूल में—रक।

‡ मूल में—उन।

६४ भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे साम्हने कांप उठे। २ जैसे आग भाड़-भांसाड़ को जला देती वा जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रगट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें ! ३ जब तू ने ऐंमे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढकर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। ४ क्योंकि प्राचीनकाल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेस्वर न तो कभी देखा * गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बात जोहनेवालों के लिये काम करे। ५ तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते, और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था, क्योंकि हम ने पाप किया; हमारी यह दशा तो बहुत काल से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है ? ६ हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाईं मुर्झा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाईं उडा दिया है। ७ कोई भी तुझ से प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझ से सहायता लेने के लिये चौकसी करता है कि तुझ से लिपटा रहे †; क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तू ने हम से अपना मुह छिपा लिया है, और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है ॥

* मूल में—भांख से देखा।

† मूल में—छिपा।

८ तीभी, हे यहोवा, तू हमारा पिता है; देख, हम तो मिट्टी है, और तू हमारा कुम्हार है; हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। ९ इसलिये हे यहोवा, अत्यन्त क्रोधित न हो, और अनन्तकाल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। विचार करके देख, हम तेरी बिनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। १० देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सिय्योन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। ११ हमारा पवित्र और शोभायमान मन्दिर, जिस में हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया, और हमारी मनभावनी वस्तुएँ सब नष्ट हो गई हैं। १२ हे यहोवा, क्या इन बातों के होते भी तू अपने को रोके रहेगा ? क्या तू हम लोगों को इस अत्यन्त दुर्दशा में रहने देगा ?

६५ जो मुझे को पूछते भी न थे वे मेरे खोजी हैं; जो मुझे ढूँढते भी न थे उन्हीं ने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, उस से भी मैं कहता हूँ, देख, मैं उपस्थित हूँ *। २ मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ३ ऐसे लोग, जो मेरे साम्हने ही बारियों में बलि चढा चढाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर, मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ४ ये क्रूर के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सूअर का मांस खाते, और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते; ५ जो कहते हैं, हट जा, मेरे

* मूल में—कि मुझे देख मुझे देख।

निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझ से पवित्र हूँ। ये मेरी नाक में घूँए व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। ६ देखो, यह बात मेरे साम्हने लिखी हुई है : मैं चुप न रहूँगा, मैं निश्चय बदला दूँगा वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूँगा। ७ क्योंकि उन्हो ने पहाड़ों पर घूष जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निन्दा की है, इसलिये मैं यहोवा कहता हूँ, कि, उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तीलकर दूँगा ॥

८ यहोवा यों कहता है, जिस भाति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाखमधु भर आता है, तब लोग कहते हैं, उसे नाश मत कर, क्योंकि उस में आशीष है; उसी भाति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूँगा कि सबों को नाश न करूँगा। ९ मैं याकूब मे से एक वश, और यहूदा में से अपने पर्वतो का एक वारिस उत्पन्न करूँगा; मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे, और मेरे दास वहाँ निवास करेंगे। १० मेरी प्रजा जो मुझे बूढती है, उसकी भेड-बकरिया तो शारोन में चरेगी, और उसके गाय-बैल आकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। ११ परन्तु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिये मेज पर भोजन की वस्तुएँ सजाते और भावी देवी के लिये मसाला मिला हुआ दाखमधु भर देते हो; १२ मैं तुम्हें गिन गिनकर तलवार का कौर बनाऊँगा, और तुम सब घात होने के लिये झुकोगे; क्योंकि, जब मैं ने तुम्हें बुलाया तुम ने उत्तर न दिया, जब मैं बोला, तब तुम ने

मेरी न सुनी; वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुम ने नित किया, और जिस से मैं अप्रसन्न होता हूँ, उसी को तुम ने अपनाया ॥

१३ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो, मेरे दास तौ खाएँगे, पर तुम भूखे रहोगे; मेरे दास पीएँगे, पर तुम प्यासे रहोगे; मेरे दास आनन्द करेंगे, पर तुम लज्जित होगे; १४ देखो, मेरे दास हर्ष के मारे जयजयकार करेंगे, परन्तु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय, करोगे। १५ मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देगे*, और प्रभु यहोवा तुझ को नाश करेगा; परन्तु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। १६ तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर † का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा, और जो कोई देश में शपथ खाए वह सच्चे परमेश्वर † के नाम से शपथ खाएगा; क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है ॥

१७ क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ; और पहिली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। १८ इसलिये जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो; क्योंकि देखो, मैं यहूजलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनन्दित बनाऊँगा ‡।

* मूल में—तुम अपना नाम मेरे चुने हुएों की किरिया के लिये छोड़ोगे।

† मूल में—आमेन [अर्थात् सत्य वचन] के परमेश्वर।

‡ मूल में—सिरजूंगा।

१६ में आप यरूशलेम के कारण मगन, और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूंगा; उस में फिर रोने वा चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। २० उस में फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा, और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो; क्योंकि जो लडकपन में मरनेवाला है वह सौ वर्ष का होकर मरेगा, परन्तु पापी सौ वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। २१ वे घर बनाकर उन में बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। २२ ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे; वा वे लगाएं, और दूसरा खाए; क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। २३ उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिये उत्पन्न होंगे; क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेगे, और उनके बालबच्चे उन से भ्रमल न होंगे। २४ उनके पुकारने से पहिले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मागते ही मैं उनकी सुन लूंगा। २५ भेडिया और मेम्ना एक सग चरा करेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुःख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा, यहोवा का यही वचन है ॥

६६ यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है; तुम मेरे लिये कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? २ यहोवा की

यह बाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं। परन्तु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो ॥

३ बैल का बलि करनेवाला मनुष्य के मार डालनेवाले के समान है; जो भेड का चढ़ानेवाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है; जो अन्नबलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लोहू चढ़ानेवाले के समान है; और, जो लोबान जलाता है*, वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, और धिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। ४ इसलिये मैं भी उनके लिये दुःख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा; क्योंकि जब मैं ने उन्हें बुलाया, तब कोई न बोला, और जब मैं ने उन से बातें की, तब उन्होंने ने मेरी न सुनी; परन्तु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिस से मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने ने अपनाया ॥

तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो यहोवा का वचन सुनो : ५ तुम्हारे भाई जो तुम से बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुम को भ्रमल कर देते हैं उन्हीं ने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े, जिस से हम तुम्हारा आनन्द देखने पाए; परन्तु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा ॥

६ सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मन्दिर से एक शब्द, सुनाई देता है!

* मूल में—सरथ करनेवाला।

वह यहोवा का शब्द है, वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है !

७ उसकी पीड़ाएँ उठने से पहले ही उस ने जन्मा दिया; उसको पीड़ाएँ होने से पहिले ही उस से बेटा जन्मा । ८ ऐसी बात किस ने कभी सुनी ? किस ने कभी ऐसी बातें देखी ? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है ? क्या एक जाति क्षणमात्र में ही उत्पन्न हो सकती है ? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएँ उठी ही थी कि उस से सन्तान उत्पन्न हो गए । ९ यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुँचाकर न जन्माऊँ ? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूँ क्या मैं कोख बन्द करूँ ?

१० हे यरूशलेम से सब प्रेम रखनेवालो, उसके साथ आनन्द करो और उसके कारण मगन हो; हे उसके विषय सब विलाप करनेवालो उसके साथ हर्षित हो !

११ जिस से तुम उसके शान्तिरूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो; और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यन्त सुखी हो ॥

१२ क्योंकि यहोवा यों कहता है, देखो, मैं उसकी ओर शान्ति को नदी की नाई, और अन्यजातियों के धन को नदी की बाढ़ समान बहा दूँगा; और तुम उस से पीओगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे ।

१३ जिस प्रकार माता अपने पुत्र को * शान्ति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शान्ति दूँगा; तुम को यरूशलेम ही में शान्ति मिलेगी । १४ तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे; तुम्हारी हड्डियाँ घास की नाई

हरी भरी होंगी; और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिये प्रगट होगा, और, उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा ॥

१५ क्योंकि देखो, यहोवा भाग के साथ आएगा, और उसके रथ बवएडर के समान होंगे, जिस से वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करनेवाली भाग की लपट से प्रगट करे । १६ क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय भाग से और अपनी तलवार से करेगा; और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे ॥

१७ जो लोग अपने को इसलिये पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सूझर वा चूहे का मांस और और घृणित वस्तुएँ खाते हैं, वे एक ही सग नाश हो जाएंगे, यहोवा की यही वाणी है ॥

१८ क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएँ, दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ । और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलनेवालो को इकट्ठा करूँगा; और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे । १९ और मैं उन में एक चिन्ह प्रगट करूँगा; और उनके बच्चे हुओ को मैं उन अन्यजातियों के पास भेजूँगा जिन्हो ने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात्, तर्शाशियों और धनुर्धारी पुलियों और लूदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूँगा और वे अन्यजातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे । २० और जैसे इस्त्राएली लोग अन्नबलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले

* मूल में—पुरुष को ।

आते हैं, जैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को षोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडनियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेट के लिये ले आएंगे, यहोवा का यही वचन है। २१ और उन में से मैं कितने लोगो को याजक और लेवीय पद के लिये भी चुन लूंगा ॥

२२ क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी, जो मैं बनाने पर हूँ, मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा;

यहोवा की यही वाणी है। २३ फिर ऐसा होगा कि एक नये चांद से दूसरे नये चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे साम्हने दण्डवत् करने को आया करेगे; यहोवा का यही वचन है ॥

२४ तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझ से बलवा किया दृष्टि डालेगे; क्योंकि उन में पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी, और सारे मनुष्यो को उन से अत्यन्त घृणा होगी ॥

यिर्मयाह नामक पुस्तक

१ हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहनेवाले याजको में से था, उसी के ये वचन हैं। २ यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के तेरहवें वर्ष में पहुंचा। ३ इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में, और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के ग्यारहवें वर्ष के अन्त तक भी प्रगट होता रहा जब तक उसी वर्ष के पांचवें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुभाई में न चले गए ॥

४ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ५ गर्भ में रहने से पहिले

ही मैं ने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहिले ही मैं ने तुझे अभिषेक किया; मैं ने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ६ तब मैं ने कहा, हाय, प्रभु यहोवा! देख, मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। ७ परन्तु यहोवा ने मुझ से कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ; क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दू वही तू कहेगा। ८ तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिये मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। ९ तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छुआ; और यहोवा ने मुझ से कहा, देख, मैं ने अपने वचन तेरे मुँह में डाल

दिये है। १० सुन, मैं ने आज के दिन तुम्हें जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है; उन्हें गिराने और ढा देने के लिये, नाश करने और काट डालने के लिये, या उन्हें बनाने और रोपने के लिये ॥

११ और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे यिर्मयाह, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? मैं ने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। १२ तब यहोवा ने मुझ से कहा, तुम्हें ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिये जागृत हूँ ॥

१३ फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुँचा, और उस ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है? मैं ने कहा, मुझे अबलता हुआ एक हण्डा दिखाई पड़ता है जिसका मुह उत्तर दिशा की ओर से है। १४ तब यहोवा ने मुझ से कहा, इस देश के सब रहनेवालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। १५ यहोवा की यह वाणी है, मैं उत्तर दिशा के राज्यों और कुलों को बुलाऊँगा; और वे आकर यरूशलेम के फाटको मे और उसके चारों ओर की शहरपनाह, और यहूदा के और सब नगरों के साम्हने अपना अपना सिंहासन लगाएंगे। १६ और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दण्ड की आज्ञा दूँगा; क्योंकि उन्होंने ने मुझे त्यागकर दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दण्डवत् किया है। १७ इसलिये तू अपनी कमर कसकर उठ; और जो कुछ कहने की मैं तुम्हें आज्ञा दूँ वही उन से कह। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न

हो कि मैं तुम्हें उनके साम्हने घबरा दूँ। १८ क्योंकि सुन, मैं ने आज तुम्हें इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों, और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर, और लोहे का खम्भा, और पीतल की शहरपनाह बनाया है। १९ वे तुम्ह से लड़ेंगे तो सही, परन्तु तुम्ह पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिये मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है ॥

२ यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुँचा, २ और यरूशलेम में पुकारकर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहा भूमि जोती-बोई न गई थी। ३ इस्राएल, यहोवा के लिये पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खानेवाले सब दोषी ठहरेगे और विपत्ति में पड़ेगे, यहोवा की यही वाणी है ॥

४ हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के कुलों के लोगो, यहोवा का वचन सुनो! ५ यहोवा यों कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी कुटिलता पाई कि मुझ से दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए? ६ उन्होंने ने इतना भी न कहा कि जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया वह यहोवा कहां है? जो हमें जंगल में से और रेत और गडहों से भरे हुए निर्जल और घोर अन्धकार के देश से जिस में होकर कोई नहीं चलता, और जिस में कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। ७ और मैं तुम

को इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ; परन्तु मेरे इस देश में आकर तुम ने इसे प्रशुद्ध किया, और मेरे इस निज भाग को धृष्टित कर दिया है। ८ याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहां है, जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझ को न जानते थे; चरवाहों ने भी मुझ से बलवा किया; भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यदाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले ॥

९ इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुम से विवाद, और तुम्हारे बेटे और पोतो से भी प्रश्न करूंगा। १० कित्तियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूत भेजकर भली भांति विचार करो और देखो; देखो, कि ऐसा काम कही और भी हुआ है? क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? ११ परन्तु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। १२ हे आकाश, चकित हो, बहुत ही धरधरा और सुनसान हो जा *, यहोवा की यह वाणी है। १३ क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयों की हैं : उन्होंने ने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और, उन्होंने ने हीद बना लिए, वरन ऐसे हीद जो टूट गए हैं, और जिन में जल नहीं रह सकता ॥

१४ क्या इस्त्राएल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है † ? फिर वह क्यों शिकार बना ? १५ जबान सिंहों

ने उसके विरुद्ध गरजकर नाद किया। उन्होंने ने उसके देश को उजाड़ दिया; उन्होंने ने उसके नगरों को ऐसा उजाड़ दिया कि उन में कोई बसनेवाला ही न रहा। १६ और नोप और तहपन्हेस के निवासी भी तेरे देश की उपज * चट कर गए हैं। १७ क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं, जो तू ने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया जो तुम्हें मार्ग में लिए चला ? १८ और अब तुम्हें मिस्र के मार्ग से क्या लाभ है कि तू सीहोर † का जल पीए ? अथवा अस्सूर के मार्ग से भी तुम्हें क्या लाभ कि तू महानद का जल पीए ? १९ तेरी बुराई ही तेरी ताडना करेगी, और तेरा भटक जाना तुम्हें उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना, यह बुरी और कडवी बात है; तुम्हें मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥

२० क्योंकि बहुत समय पहिले में ने तेरा जूआ तोड डाला और तेरे बन्धन खोल दिए, परन्तु तू ने कहा, मैं सेवा न करूंगी। और सब ऊचे-ऊचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिण का सा काम करती रही। २१ मैं ने तो तुम्हें उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था ‡, फिर तू क्यों मेरे लिये जंगली दाखलता बन गई ? २२ चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तौभी तेरे अघर्म का

* मूल में—इस कारण हे आकाश चकित हो, रोमांचित हो, और बहुत सख्त जा।

† वा क्या इस्त्राएल दास है ? क्या वह घर में उत्पन्न हुआ ?

* मूल में—तेरा चोन्डा।

† अर्थात् नील नदी।

‡ मूल में—मैं ने तुम्हें उत्तम जाति की दाखलता का बिल्कुल सच्चा बीज लगाया।

घब्रा मेरे साम्हने बना रहेगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। २३ तू क्योंकर कह सकती है कि मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली? तराई में की अपनी चाल देख और जान ले कि तू ने क्या किया है? तू बेग से चलनेवाली और इधर उधर फिरनेवाली सांडनी है, २४ जंगल में पत्नी हुई जगली गदही जो कामातुर होकर वायु सूघती फिरती है तब कौन उसे बश में कर सकता है? जितने उसको ढूँढते हैं वे व्यर्थ परिश्रम न करें; क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में * पाएंगे। २५ अपने पांव नगे और गला सुखाए न रह। परन्तु तू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी ॥

२६ जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसे ही इस्राएल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत लज्जित होगा। २७ वे काठ से कहते हैं, तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं, तू ने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने ने मेरी ओर मुह नहीं पीठ ही फेरी है; परन्तु विपत्ति के समय वे कहते हैं, उठकर हमें बचा! २८ परन्तु जो देवता तू ने बना लिए हैं, वे कहां रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे; क्योंकि हे यहूदा, तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत हैं ॥

२९ तुम क्यों मुझ से वादविवाद करते हो? तुम सभी ने मुझ से बलवा किया है, यहोवा की यही वाणी है।

* मूल में—अपने महीने में।

३० मैं ने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, उन्होंने ने कुछ भी नहीं माना; तुम ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह फाड़ता * है। ३१ हे लोगो, यहोवा के वचन पर ध्यान दो! क्या मैं इस्राएल के लिये जंगल वा घोर अन्धकार का देश बना? तब मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम तो आजाद हो गए हैं सो तेरे पास फिर न आएंगे? ३२ क्या कुमारी अपने सिङ्गार वा दुल्हिन अपनी सजावट भूल सकती है? तीभी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बिसरा दिया है ॥

३३ प्रेम लगाने के लिये तू कैसी सुन्दर चाल चलती है! बुरी स्त्रियों को भी तू ने अपनी सी चाल सिखाई है। ३४ तेरे घांघरे मे निर्दोष और दरिद्र लोगों के लोहू का चिन्ह पाया जाता है; तू ने उन्हें सेंध लगते नहीं पकड़ा। परन्तु इन सब के होते हुए भी तू कहती है, मैं निर्दोष हूँ; ३५ निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है कि मैं ने पाप नहीं किया, इसलिये मैं तेरा न्याय कराऊंगा। ३६ तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिये इतनी डांवाडोल फिरती है? जैसे अशूरियों से तू लज्जित हुई वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। ३७ वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यों ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तू ने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है, और उनके कारण तू सफल न होगी ॥

* मूल में—तुम्हारी तलवार ने नाशक की नाईं।

३ बे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे, और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहिला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश प्रति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू ने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? २ मुण्डे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख! ऐसा कौन सा स्थान है जहां तू ने कुकर्म न किया हो? मागों में तू ऐसी बंठी जैसे एक भरबी जंगल में। तू ने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। ३ इसी कारण भडियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती; तीभी तेरा माथा बेध्या का सा है, तू लज्जित होना ही नहीं * जानती। ४ क्या तू अब मुझे पुकारकर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? ५ क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तू ने ऐसा कहा तो है, परन्तु तू ने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं।

६ फिर योशियाह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझ से यह भी कहा, क्या तू ने देखा कि भटकनेवाली इस्राएल ने क्या किया है? उस ने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के तले जा जाकर व्यभिचार किया है। ७ तब मैं ने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी; परन्तु वह न फिरी, और उसकी विश्वासघाती बहिन यहूदा ने यह देखा। ८ फिर मैं ने देखा, जब मैं ने भटकनेवाली इस्राएल को उसके

* मूल में—लजाने को नकारा।

व्यभिचार करने के कारण त्यागकर उसे त्यागपत्र दे दिया; तीभी उसकी विश्वासघाती बहिन यहूदा न डरी, बरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। ९ उसके निर्लज्ज-व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया, उस ने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। १० इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहिन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परन्तु कपट से, यहोवा की यही वाणी है। ११ और यहोवा ने मुझ से कहा, भटकनेवाली इस्राएल, विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है। १२ तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकनेवाली इस्राएल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा; क्योंकि यहांवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हू; मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। १३ केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूमरों के पास गई, और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यह वाणी है।

१४ हे भटकनेवाले लडको लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हू; यहोवा की यह वाणी है। तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक, और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। १५ और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। १६ उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो, और फूलो-फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, 'यहोवा की वाचा का सन्दूक'; यहोवा की यह भी वाणी है। उसका विचार भी उनके मन में न आएगा,

न लोग उसके न रहने से विन्ता करेगे; और न उसकी मरम्मत होगी। १७ उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी, और, वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेगी। १८ उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैं ने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। १९ मैं ने सोचा था, मैं कैसे तुम्हें लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश दू जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। और मैं ने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी, और मुझ से फिर न भटकेगी। २० इस में तो सन्देह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझ से फिर गया है, यहोवा की यही वारणी है ॥

२१ मुगड़े टीलों पर से इस्राएलियों के रोने और गिडगिडाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। २२ हे भटकनेवाले लड़को, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं; क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। २३ निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। २४ परन्तु हमारी जबानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात् उनकी भेड़-बकरी और गाय-बैल और उनके

बेटे-बेटियों को निगल लिया है। २५ हम लज्जित होकर लौट जाएं, और हमारा संकोच हमारी भोड़नी बन जाए; क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं; और हम ने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है ॥

४ यहोवा की यह वारणी है, हे इस्राएल यदि तू लौट आये, तो मेरे पास लौट आ। यदि तू धिनौनी वस्तुओं को मेरे साम्हने से दूर करे, तो तुम्हें आबारा फिरना न पड़ेगा, २ और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो अन्यजातियां उसके कारण अपने आपको धन्य कहेगी, और उसी पर धमक करेगी ॥

३ क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यों कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, और कटीले भाड़ों में बीज मत बोओ। ४ हे यहूदा के लोगो और यरूशलेम के निवासियो, यहोवा के लिये अपना खतना करो; हां, अपने मन का खतना करो; नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाईं भड़केगा, और ऐसा होगा कि कोई उमे बुझा न सकेगा ॥

५ यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ; पूरे देश में नरसिगा फूँको; गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ, हम इकट्ठे हों और गढ़वाले नगरों में जाएं ! ६ सिय्योन के मार्ग में भरड़ा खड़ा करो, अपना सामान बटोरके भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया चाहता

हूँ। ७ एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करनेवाला चढ़ाई करके आ रहा है; वह कूच करके अपने स्थान से इसलिये निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उन में कोई बसनेवाला न रहने पाए। ८ इसलिये कमर में टाट बान्धो, विलाप और हाय हाय करो; क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है॥

९ उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा काप उठेगा; याजक चकित होंगे और नबी अचम्भित हो जाएंगे, यहोवा की यह वारणी है। १० तब मैं ने कहा, हाय, प्रभु यहोवा, तू ने तो यह कहकर कि तुम को शान्ति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है; क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है॥

११ उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मूण्डे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर * लू बह रही है, वह ऐसी वायु नहीं जिस से भोसाना वा फरखाना हो, १२ परन्तु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिये अधिक प्रचण्ड वायु बहेगी। अब मैं उनको दण्ड की भाशा दूंगा। १३ देखो, वह बादलों की नाई चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवण्डर के समान और उसके छोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नाश हुए! १४ हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो, कि, तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ

* मूल में—मेरी प्रजा की बेटी की ओर।

कल्पनाएं करते रहोगे * ? १५ क्योंकि दान से शब्द सुन पड़ रहा है और एशम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। १६ अन्यजातियों में सुना दो, यरूशलेम को भी इसका समाचार दो, पहरेदार देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। १७ वे खेत के रखवालों की नाई उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उस ने मुझ से बलवा किया है, यहोवा की यही वारणी है। १८ यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है! यह तेरी दुष्टता है और अति दुःखदाई है; इस से तेरा हृदय छिद जाता है॥

१९ हाय ! हाय † ! मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है ! और मेरा मन घबराता है ! मैं चुप नहीं रह सकता; क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंघे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। २० नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तन्मू एकाएक लूटे गए हैं। २१ और कितने दिन तक मुझे उनका भण्डा देखना और नरसिंघे का शब्द सुनना पड़ेगा ? २२ क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते; वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिन में कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परन्तु भलाई करना वे नहीं जानते॥

२३ मैं ने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी; और आकाश को, और उस में कोई ज्योति नहीं थी। २४ मैं ने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे

* मूल में—कब तक तुझ में बनी रहेगी।

† मूल में—मेरी अन्तर्धियां बेरी।

ये, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थीं। २५ फिर मैं ने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। २६ फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भडके हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल, और उसके सारे नगर खरडहर हो गए थे। २७ क्योंकि यहोवा ने यह बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा; तौभी मैं उसका भन्त न कर डालूंगा। २८ इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी, और आकाश शोक का काला वस्त्र पहिनेगा; क्योंकि मैं ने ऐसा ही करने को ठाना और कहा भी है; मैं इस से नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ंगा ॥

२९ नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं; वे भाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़े जाते हैं; सब नगर निर्जन हो गए, और उन में कोई बाकी न रहा। ३० और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रङ्ग के वस्त्र पहिने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परन्तु व्यर्थ ही तू अपना शृंगार करेगी। क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं; वे तेरे प्राणों के खोजी हैं। ३१ क्योंकि मैं ने जच्चा का शब्द, पहिलीठा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है, यह सिय्योन की बेंटी का शब्द है, जो हांफती और हाथ फँलाए हुए यों कहती है, हाथ मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्च्छित हो चली हूँ ॥

५ यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो! उसके चौकों में दूँदो यदि कोई ऐसा मिल सके जो

न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो; तो मैं उमका पाप क्षमा करूंगा। २ यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तौभी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। ३ हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तू ने उनको दुःख दिया, परन्तु वे शोकित नहीं हुए; तू ने उनको नाश किया, परन्तु उन्होंने ने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने ने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है; उन्होंने ने पश्चात्ताप करने से इनकार किया है ॥

४ फिर मैं ने सोचा, ये लोग तो कङ्काल और भ्रबोध ही हैं; क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। ५ इसलिये मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा; क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परन्तु उन सभों ने मिलकर जूए को तोड़ दिया है और बन्धनों को खोल डाला है ॥

६ इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हे मार डालेगा, निर्जल देश का एक भेड़िया उनको नाश करेगा। और एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उन में से निकले वह फाडा जाएगा; क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझ से बहुत ही दूर हट गए हैं ॥

७ मैं क्योंकि तेरा पाप क्षमा करूँ? तेरे लड़कों ने * मुझ को छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैं ने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने ने व्यभिचार किया और बेव्याओं के घरों

* मुझ में—तेरे लड़के।

में भीड़ की भीड़ जाते थे। ८ वे खिलाए-पिलाए बे-सगाम घोड़ों के समान हो गए, वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। ९ क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दण्ड न दूँ? यहोवा की यह वारणी है; क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूँ ?

१० शहरपनाह पर चढ़के उसका नाश तो करो, तीभी उसका अन्त मत कर डालो; उसकी जड़ रहने दो परन्तु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं हैं। ११ यहोवा की यह वारणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझ से बड़ा विश्वासघात किया है। १२ उन्होंने ने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है; विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगी को देखेंगे। १३ भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे; उन में ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा !

१४ इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिये देख, मैं अपना वचन तेरे मुह में भ्राग, और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगी। १५ यहोवा की यह वारणी है, हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थ्य और प्राचीन है, उसकी भाषा तुम न समझोगे, और न यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। १६ उनका तर्कश खुली क्रूर है और वे सब के सब शूरवीर हैं। १७ तुम्हारे पक्के खेत और भोजनवस्तुएं जो तुम्हारे बेटे-बेटियों के खाने के लिये हैं, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़-

बकरियों और गाय-बैलों को खा डालेंगे; वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे; और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के बल से नाश कर देंगे ॥

१८ तीभी, यहोवा की यह वारणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अन्त न कर डालूंगा। १९ और जब तुम पूछोगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हम से ये सब काम किस लिये किए हैं, तब तुम उन से कहना, जिस प्रकार से तुम ने मुझ को त्यागकर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की है, उसी प्रकार से तुम को पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी ॥

२० याकूब के घराने में यह प्रचार करो, और यहूदा में यह सुनाओ : २१ हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगो, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। २२ यहोवा की यह वारणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं धरधराते? मैं ने बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बान्ध ठहराया कि वह उसे लांघ न सके; और चाहे उसकी लहरें भी उठें, तीभी वे प्रबल न हो सकें, या जब वे गरजे तीभी उसको न लांघ सके। २३ पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करनेवाला मन है; इन्होंने ने बलवा किया और दूर हो गए हैं। २४ वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरम्भ और अन्त दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिये रखता है, इसलिये हम उसका भय मानें। २५ परन्तु तुम्हारे अघर्म के कामों ही के

कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती * । २६ मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं; जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं । वे फन्दा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं । २७ जैसा पिजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं; इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं । २८ वे मोटे और चिकने हो गए हैं । बुरे कामों में वे सीमा को लांघ गए हैं; वे न्याय, विशेष करके अन्यायों का न्याय नहीं चुकाते, इस से उनका काम सफल नहीं होता : वे कंगालो का हक भी नहीं दिलाते । २९ इसलिये, यहोवा की यह बाणी है, क्या मैं इन बातों का दण्ड न दूँ ? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूँ ?

३० देश में ऐसा काम होता है जिस से चकित और रोमांचित होना चाहिये । ३१ भविष्यद्वक्ता भूठमूठ भविष्यद्वाणी करते हैं, और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं; मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परन्तु अन्त के समय तुम क्या करोगे ?

हे विन्यामीनियो, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो ! तेकोआ में नरसिगा फूको, और बेथक्केरेम पर झण्डा ऊंचा करो; क्योंकि उत्तर की दिशा से आनेवाली विपत्ति बड़ी और विनाश लानेवाली है । २ सिय्योन की सुन्दर और सुकुमार बेटों को मैं नाश करने पर हूँ । ३ चरवाहे अपनी अपनी

* मूल में—तुम्हारे अधर्मों ने इन्हें मोड़ा और तुम्हारे पापों ने भलाई तुम से रोकी ।

भेड़-बकरियाँ संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तम्बू खड़े करेंगे, वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे । ४ आघो, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो; उठो, हम दो पहर को चढ़ाई करें ! हाय, हाय, दिन ढलता जाता है, और सांभ की परछाई लम्बी हो चली है ! ५ उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करे और उसके महलों को ढा दें ॥

६ सेनाओं का यहोवा तुम से कहता है, वृक्ष काट काटकर यरूशलेम के विरुद्ध दमदमा बान्धो ! यह वही नगर है जो दण्ड के योग्य है; इस में अन्धेर ही अन्धेर भरा हुआ है । ७ जैसा कूप में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसे ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है; इस में उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है; चोट और मारपीट मेरे देखने में निरन्तर आती है । ८ हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी; और, मैं तुझ को उजाड़कर निर्जन कर डालूंगा ॥

९ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, इस्त्राएल के सब बच्चे हुए दासलता की नाई ढूँढकर तोड़े जाएंगे; दास के तोड़ने-वाले की नाई उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा ॥

१० मैं किस से बोलूँ और किसको चिताकर कहूँ कि वे मानें ? देख, ये ऊंचा सुनते हैं*, वे ध्यान भी नहीं दे सकते; देख, यहोवा के वचन की वे निन्दा करते और उसे नहीं चाहते हैं । ११ इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है; मैं उसे रोकते रोकते

* मूल में—उनका कान खतनारहित है ।

उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सन्ना में भी उसे उंडेल दे; क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और भ्रष्टेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। १२ उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियाँ सब औरों की हो जाएंगी; क्योंकि मैं इस देश के रहनेवालों पर हाथ बढ़ाऊँगा, यहोवा की यही वाणी है। १३ क्योंकि उन में छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं; और क्या भविष्यद्भक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। १४ वे, "शान्ति है, शान्ति," ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा * के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परन्तु शान्ति कुछ भी नहीं। १५ क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए; वे लज्जित होना जानते ही नहीं; इस कारण जब और लोग नीचे गिरें, तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दण्ड देने लगूँगा, तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे, यहोवा का यही वचन है ॥

१६ यहोवा यों भी कहता है, सडकों पर खड़े होकर देखो, और पूछो कि प्राचीन-काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो, और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने ने कहा, हम उस पर न चलेंगे। १७ मैं ने तुम्हारे लिये पहरेण बैठाकर कहा, नरसिंघे का शब्द ध्यान से सुनना! पर उन्होंने ने कहा, हम न सुनेंगे। १८ इसलिये, हे जातियो, सुनो, और हे मरडली, देख, कि इन लोगों में क्या हो रहा है। १९ हे पृथ्वी, सुन; देख, कि मैं इस जाति पर

* मूल में—मेरी प्रजा की पुत्री।

वह विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने ने मेरे बच्चों पर ध्यान नहीं लगाया, और मेरी शिक्षा को इन्होंने ने निकम्मी जाना है। २० मेरे लिये जो लोवान शबा से, और सुगन्धित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होमबलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे मेलबलि मुझे मीठे लगते हैं। २१ इस कारण यहोवा ने यों कहा है, देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर खाऊँगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र, सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे ॥

२२ यहोवा यों कहता है, देखो, उत्तर से बरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। २३ वे घनुष और बछ्छीं धारण किए हुए आएंगे, वे क्रूर और निर्दय हैं, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है; वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे, हे सिय्योन *, वे वीर की नाई सशस्त्र होकर † तुम्ह पर चढ़ाई करेंगे। २४ इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं; हम संकट में पड़े हैं; जच्चा की सी पीडा हम को उठी है। २५ मैदान में मत निकलो, मार्ग में भी न चलो; क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय देख पड़ता है। २६ हे मेरी प्रजा ‡ कमर में टाट बान्ध, और राख में लोट; जैसा एकलौते पुत्र के लिये विलाप होता है वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर; क्योंकि नाश करनेवाला हम पर अचानक आ पड़ेगा ॥

* मूल में—हे सिय्योन की बेटी।

† मूल में—जैसा युद्ध के लिये पुरुष।

‡ मूल में—प्रजा की पुत्री।

२७ में ने इसलिये तुम्हें अपनी प्रजा के बीच गुम्मत वा गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। २८ वे सब बहुत ही हठी हैं, वे लुतराई करते फिरते हैं; उन सभी की चाल बिगड़ी है, वे निरा ताम्बा और लोहा ही हैं। २९ घौंकनी जल गई, शीशा भाग में जल गया; ढालनेवाले ने व्यर्थ ही ढाला है; क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। ३० उनका नाम खोटी चान्दी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है ॥

७ जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है : २ यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो, और यह वचन प्रचार कर, और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दण्डवत् करने के लिये इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। ३ सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, यों कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुम को इस स्थान में बसे रहने दूंगा। ४ तुम लोग यह कहकर भूठी बातों पर भरोसा मत रखो, कि यही यहोवा का मन्दिर है; यही यहोवा का मन्दिर, यहोवा का मन्दिर ॥

५ यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, और सचमुच मनुष्य-मनुष्य के बीच न्याय करो, ६ परदेशी और अनाथ और विधवा पर अन्धेर न करो; इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो, और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिस से तुम्हारी हानि होती है, ७ तो मैं तुम को इस नगर में, और इस देश में जो मैं ने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिये रहने दूंगा ॥

८ देखो, तुम भूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिन से कुछ लाभ नहीं हो सकता। ९ तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, भूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिये धूप जलाते, और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहिले नहीं जानते थे चलते हो, १० तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, और मेरे साम्हने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिये छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे? ११ क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है, तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैं ने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। १२ मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैं ने पहिले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैं ने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है? १३ अब यहोवा की यह वाणी है, कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुम से बड़े यत्न से * बाते करता रहा हूँ, तौभी तुम ने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परन्तु तुम नहीं बोले, १४ इसलिये यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैं ने तुम को और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। १५ और जैसा मैं ने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात् सारे एश्रैमियों को अपने साम्हने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुम को भी दूर कर दूंगा ॥

१६ इस प्रजा के लिये तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिये ऊंचे स्वर से

* मूल में—तबके उठकर।

पुकार न मुझ से बिनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूँगा। १७ क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़को में क्या कर रहे हैं? १८ देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते, बाप भाग सुलगाते और स्त्रिया आटा गूंधती हैं, कि स्वर्ग की रानी के लिये रोटियां चढ़ाए; और मुझे क्रोधित करने के लिये दूसरे देवताओं के लिये तपावन दे। १९ यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं जिस से उनके मुंह पर सियाही छाए? २० सो प्रभु यहोवा ने यों कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मर्दान के बृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में हैं, मेरे कोप की भाग भडकने पर है; वह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी ॥

२१ सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, यों कहता है, अपने मेलबलियों के साथ अपने होमबलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ। २२ क्योंकि जिस समय मैं ने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैं ने उन्हें होमबलि और मेलबलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी। २३ परन्तु मैं ने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे; और जिस मार्ग की मैं तुम्हे आज्ञा दूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। २४ पर उन्होंने ने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया; वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए पर भागे न बड़े। २५ जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस

दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों, भविष्यद्वक्ताओं को, तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा; २६ परन्तु उन्होंने ने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया; उन्होंने ने हठ किया, और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयों की हैं ॥

२७ तू सब बातें उन से कहेगा पर वे तेरी न सुनेंगे; तू उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। २८ तब तू उन से कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती, और ताड़ना से भी नहीं मानती; सच्चाई नाश हो गई, और उनके मुह से दूर हो गई है ॥

२९ अपने बाल मुड़ाकर फेंक दे; मुण्डे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें * निकम्मा जानकर त्याग दिया है। ३० यहोवा की यह वाणी है, इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है, जो मेरी दृष्टि में बुरा है, उन्होंने ने उस भवन में जो मेरा कहलाता है, अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है। ३१ और उन्होंने ने हिन्नोम-वंशियों की तराई में तोपेत नाम ऊंचे स्थान बनाकर, अपने बेटे-बेटियों को भाग में जलाया है; जिसकी आज्ञा मैं ने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। ३२ यहोवा की यह वाणी है, इसलिये ऐसे दिन आते हैं कि वह तराई फिर न तो तोपेत की और न हिन्नोमवंशियों की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी; और तोपेत में इतनी क्रब्रे

* मूल में—यहोवा ने अपनी जलजलाइट की पीका को।

होंगी कि श्रीर स्थान न रहेगा । ३३ इसलिये इन लोगो की लोथें आकाश के पक्षियों श्रीर पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगी, श्रीर उनको भगानेवाला कोई न रहेगा । ३४ उस समय में ऐसा करूंगा कि यहूदा के नगरों श्रीर यरूशलेम की सड़कों में न तो हर्ष और आनन्द का शब्द सुन पडेगा, श्रीर न दुल्हे वा दुल्हन का; क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा ॥

यहोवा की यह वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं श्रीर यरूशलेम के रहनेवालों की हड्डियां क्रबों में से निकालकर, २ सूर्य, चन्द्रमा और आकाश के सारे गणों के साम्हने फैलाई जाएगी; क्योंकि वे उन्ही से प्रेम रखते, उन्ही की सेवा करते, उन्ही के पीछे चलते, श्रीर उन्ही के पास जाया करते श्रीर उन्ही को दण्डवत् करते थे; श्रीर न वे इकट्ठी की जाएंगी न क्रब में रखी जाएगी; वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी । ३ तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिस में मैं ने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से मृत्यु ही को अधिक चाहेंगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥

४ तू उन से यह भी कह, यहोवा यों कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते ? ५ जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता ? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं ? ये छल नहीं छोड़ते, श्रीर फिर लौटने से इनकार करते हैं । ६ मैं ने ध्यान देकर सुना, परन्तु ये ठीक नहीं बोलते; इन में से

किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय ! मैं ने यह क्या किया है ? जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इन में से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है । ७ आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, श्रीर परडुकी, सूपाबेनी, श्रीर सारस भी अपने अपने का समय रखते हैं; परन्तु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती ॥

८ तुम क्योंकि कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं, श्रीर यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है ? परन्तु उनके शास्त्रियों ने उसका भूठा विवरण लिखकर उसको * भूठ बना दिया है । ९ बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए श्रीर पकड़े गए; देखो, उन्हीं ने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उन में बुद्धि कहाँ रही ? १० इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को श्रीर उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं; क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक, वे सब के छल से काम करते हैं । ११ उन्हीं ने, 'शान्ति है, शान्ति' ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा † के घाव को ऊपर ही ऊपर चगा किया, परन्तु शान्ति कुछ भी नहीं है । १२ क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए ? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं । इस कारण जब श्रीर लोग नीचे गिरें, तब वे भी गिरेंगे; जब उनके दण्ड का समय आएगा, तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे, यहोवा का यही

* मूल में—शास्त्रियों के भूठे कलम ने उसको ।

† मूल में—प्रजा की बेटी ।

वचन है। १३ यहोवा की यह भी बाणी है, मैं उन सभी का अन्त कर दूंगा। न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएंगी, और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर बरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैं ने उन्हें दिया है वह उनके पाम से जाता रहेगा ॥

१४ हम क्यों चुप-चाप बैठे हैं? आओ, हम चलकर गड़वाले नगरों में इकट्ठे नाश हो जाए; क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हम को नाश करना चाहता है, और हमें विष पीने को दिया है; क्योंकि हम ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। १५ हम शान्ति की बात जोहते थे, परन्तु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परन्तु षबराना ही पडा है ॥

१६ उनके घोड़ों का फुराना दान से सुन पड़ता है, और बलवन्त घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने ने आकर हमारे देश को और जो कुछ उस में है, और हमारे नगर को निवासियों समेत नाश किया है। १७ क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुम को डसेगे, यहोवा की यही बाणी है ॥

१८ हाय! हाय! इस शोक की दशा में मुझे शान्ति कहां से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है! १९ मुझे अपने लोगों* की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है: क्या यहोवा सिय्योन मे नहीं है? क्या उसका राजा उस मे नहीं? उन्होंने ने क्यों मुझ को

* मूल में—अपने लोगों की बेटी।

अपनी खोदी हुई मूरतों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है? २० कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। २१ अपने लोगों के* दुःख से मैं भी दुःखित हुआ, मैं शोक का पहिरावा पहिने अति अचम्भे में डूबा हू ॥

२२ क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उस में कोई वैद्य नहीं? यदि है, तो मेरे लोगों† के घाव क्यों चंगे नहीं हुए?

६ भला होता, कि मेरा सिर जल ही जल, और मेरी आंखें आंशुओं का सोता होतीं, कि मे रात दिन अपने मारे हुए लोगों‡ के लिये रोता रहता। २ भला होता कि मुझे जंगल मे बटोहियों का कोई टिकाव मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता! क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज हैं। ३ अपनी अपनी जीभ को वे धनुष की नाई भूठ बोलने के लिये तैयार करते हैं, और देश में बलवन्त तो हो गए, परन्तु सच्चाई के लिये नहीं; वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझ को जानते ही नहीं, यहोवा की यही वारणी है ॥

४ अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो; क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेगे, और हर एक पडोसी लुतराई करते फिरेंगे।

* मूल में—अपने लोगों की बेटी के।

† मूल में—मेरे लोगों की बेटी के।

‡ मूल में—मेरे लोगों की बेटी के मारे हुएों के।

५ वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे; उन्होंने ने झूठ ही बोलना सीखा है *; और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। ६ तेरा निवास छल के बीच है; छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की यही वाणी है ॥

७ इसलिये सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा † के कारण मैं उन से और क्या कर सकता हूँ? ८ उनकी जीभ काल के तीर के समान बेघनेवाली है, उस से छल की बातें निकलती हैं; वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। ९ क्या मैं ऐसी बातों का दण्ड न दूँ? यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूँ?

१० में पहाड़ों के लिये रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिये विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उन में से होकर नहीं चलता, और उन में डोर का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता; पशु-पक्षी सब भाग गए हैं। ११ मैं यरूशलेम को डीह ही डीह करके गीदों का स्थान बनाऊंगा; और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उन में कोई न बसेगा ॥

१२ जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिस ने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह

* मूल में—उन्होंने अपनी जीभ को झूठ बोलना सिखाया है।

† मूल में—प्रजा की बेटी।

जंगल की नाईं ऐसा जल गया कि उस में से होकर कोई नहीं चलता? १३ और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने ने मेरी व्यवस्था को जो मैं ने उनके प्रागे रखी थी छोड़ दिया; और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं, १४ वरन वे अपने हठ पर बाल नाम देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। १५ इस कारण, सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यों कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। १६ और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे; और जब तक उनका अन्त न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी ॥

१७ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, सोचो, और विलाप करनेवालों को बुलाओ; बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो; १८ वे फुर्ती करके हम लोगों के लिये शोक का गीत गाएं कि हमारी आशों से आसू बह चलें और हमारी पलकें जल बहाए। १९ सिय्योन से शोक का यह गीत सुन पड़ता है, हम कैसे नाश हो गए! हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हम को अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं ॥

२० इसलिये, हे स्त्रियो, यहोवा का यह वचन सुनो, और उसकी यह आज्ञा मानो; तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत, और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ। २१ क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि, हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों

मे जवानों को मिटा दे। २२ तू कह, यहोवा यों कहता है, मनुष्यों की लोथें ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद खेत के ऊपर, और पूलियां काटनेवाले के पीछे पड़ी रहती हैं, और उनका कोई उठानेवाला न होगा ॥

२३ यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमण्ड न करे, न बीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमण्ड करे, २४ परन्तु जो घमण्ड करे वह इसी बात पर घमण्ड करे, कि वह मुझे जानता और समझता है, कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है; क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ ॥

२५ देखो, यहोवा की यह वारणी है कि ऐसे दिन आनेवाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो, उनको खतनारहितों के समान दण्ड दूंगा, २६ अर्थात् मिलियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों को, और उन रेगिस्तान के निवासियों के समान जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं; क्योंकि ये सब जातियाँ तो खतनारहित हैं, और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतनारहित है ॥

१० यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल के घराने जो वचन यहोवा तुम से कहता है उसे सुनो। २ अन्यजातियों की चाल मत सीखो, न उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिये कि अन्यजाति लोग उन से विस्मित होते हैं। ३ क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। ४ लोग उसको

सोने-चान्दी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोककर दूड़ करते हैं कि वह हिल-डुल न सके। ५ वे खरादकर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती हैं, पर बोल नहीं सकती; उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उन से मत डरो, क्योंकि, न तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और न कुछ भला ॥

६ हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है; तू महान है, और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। ७ हे सब जातियों के राजा, तुझ से कौन न डरेगा? क्योंकि यह तेरे योग्य है; अन्यजातियों के सारे बुद्धिमानों में, और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। ८ परन्तु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख हैं; मूर्तियों से क्या शिक्षा? वे तो काठ ही हैं। ९ पत्तर बनाई हुई चान्दी तर्षीश से लाई जाती है, और उफाड़ से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है, उनके पहिरावे नीले और बंजनी रंग के वस्त्र हैं; उन में जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। १० परन्तु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है; जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते ॥

११ तुम उन से यह कहना, ये देवता जिन्होंने ने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे ॥

१२ उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उस ने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। १३ जब वह

बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, और पृथ्वी की छोर से वह कुहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिये बिजली चमकाता, और अपने भण्डार में से पवन चलाता है। १४ सब मनुष्य पशु सरीखे जानरहित हैं; अपनी खोदी हुई मूरतों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है; क्योंकि उनकी ढाली हुई मूरते भूठी हैं, और उन में सांस ही नहीं है। १५ वे व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य हैं; जब उनके दण्ड का समय आएगा * तब वे नाश हो जाएंगी। १६ परन्तु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सब का सृजनहार है, और इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है; सेनाओं का यहोवा उसका नाम है ॥

१७ हे घेरे हुए नगर की रहनेवाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा! १८ क्योंकि यहोवा यों कहता है, मैं अब की बेर इस देश के रहनेवालों को मानो गोफन में धरके फेंक दूंगा, और उन्हें ऐसे ऐसे सकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा ॥

१९ मुझ पर हाय! मेरा घाव चगा होने का नहीं। फिर मैं ने सोचा, यह तो रोग ही है, इसलिये मुझ को इसे सहना चाहिये। २० मेरा तम्बू लूटा गया, और सब रस्सियां टूट गई हैं; मेरे लडकेबाले मेरे पास से चले गए, और नहीं हैं; अब कोई नहीं रहा जो मेरे तम्बू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे। २१ क्योंकि चरबाहे पशु सरीखे हैं, और वे यहोवा को नहीं पुकारते; इसी कारण वे बुद्धि

से नहीं चलते, और उनकी सब भेड़ें तितर-बितर हो गई हैं ॥

२२ सुन, एक शब्द सुनाई देता है! देख, वह आ रहा है! उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़कर गीदडों का स्थान बना दे ॥

२३ हे यहोवा, मैं जान गया हूँ, कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, मनुष्य चलता तो है, परन्तु उसके डग उसके अधीन नहीं है। २४ हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से; क्रोध में आकर नहीं, कही ऐसा न हो कि मैं नाश हो जाऊँ * ॥

२५ जो जाति तुझे नहीं जानती, और जो तुझ से प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उरडेल; क्योंकि उन्हीं ने याकूब को निगल लिया, बरन, उसे खाकर अन्त कर दिया है, और उसके निवासस्थान को उजाड़ दिया है ॥

११ यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा: २ इस वाचा के वचन सुनो, और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहनेवालों से कहो। ३ उन से कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, स्थापित है वह मनुष्य, जो इस वाचा के वचन न माने ४ जिसे मैं ने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात् मिल्ल देश में से निकालने के समय, यह कहके बान्ची थी, मेरी सुनो, और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इस से तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा; ५ और जो शपथ मैं ने तुम्हारे

* मूल में—उनके दण्ड होने के समय।

* मूल में—तुम्हें घटाया।

पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसे मैं तुम को दूंगा, उसे पूरी करूंगा; और देखो, वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैं ने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो * ॥

६ तब यहोवा ने मुझ से कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। ७ क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। ८ परन्तु उन्होंने ने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किन्तु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। इसलिये मैं ने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है जिसके मानने की मैं ने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ने न मानी ॥

९ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। १० जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं; इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैं ने उनके पूर्वजों के बान्धी थी, तोड़ दिया है। ११ इसलिये यहोवा यों कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिस से ये बच न सकेंगे; और चाहे ये मेरी दोहाई दें तौभी मैं इनकी न सुनूंगा। १२ उस समय यरूशलेम और

यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दोहाई देगे जिनके लिये वे धूप जलाते हैं, परन्तु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। १३ हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं; और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की बेदियां बना बनाकर उसके लिये धूप जलाया है। १४ इसलिये तू मेरी इस प्रजा के लिये प्रार्थना न करना, न कोई इन लोगों के लिये ऊंचे स्वर से बिनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देगे, तब मैं उनकी न सुनूंगा ॥

१५ मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उस ने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया, और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है *। जब तू बुराई करती है, तब प्रसन्न होती है। १६ यहोवा ने तुझ को हरी, मनोहर, सुन्दर फलवाली जलपाई तो कहा था, परन्तु उस ने बड़े हुल्लड के शब्द होते ही उस में आग लगाई गई, और उसकी डालियां तोड़ डाली गईं। १७ सेनाओं का यहोवा, जिस ने तुझे लगाया, उस ने तुझ पर विपत्ति डालने के लिये कहा है †; इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने ने मुझे रिस दिलाने के लिये बाल के निमित्त धूप जलाया ॥

१८ यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई; क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रगट कीं।

* मूल में—पवित्र मांस तुझ पर से चला गया।

† मूल में—उस ने तेरे विषय बुराई कही।

* मूल में—हे यहोवा, आमीन।

१६ में तो बघ होनेवाले * भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ, हम फल † समेत इस वृक्ष को उखाड़ दे, और जीवितों के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। २० परन्तु, अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे भ्रन्तःकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैं ने अपना मुकद्दमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है ‡। २१ इसलिये यहोवा ने मुझ से कहा, भ्रनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यद्वाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। २२ इसलिये सेनाओं का यहोवा उनके विषय यों कहता है, मैं उनको दण्ड दूंगा; उनके जबान तलवार से, और उनके लड़के-लड़कियां भूलों मरेंगे; २३ और उन में से कोई भी न बचेगा। मैं भ्रनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दण्ड का दिन § आनेवाला है ॥

१२ हे यहोवा, यदि मैं तुझ से मुकद्दमा लड़ूँ, तोभी तू धर्मी है; मुझे अपने साथ इस विषय पर वादविवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? २ तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते; वे बढ़ते और फलते भी हैं; तू उनके मुंह के निकट

* मूल में—बघ के लिये पड़चाप जानेवाले।

† मूल में—भोजनबलु।

‡ मूल में—तुम्ही को प्रगट किया है।

§ मूल में—बरस।

है परन्तु उनके मनों से दूर है। ३ हे यहोवा तू मुझे जानता है; तू मुझे देखता है, और तू ने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़-बकरियां घात होने के लिये भुण्ड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और बघ के दिन के लिये तैयार * कर। ४ कब तक देश विलाप करता रहेगा, और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु-पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वह हमारे भ्रन्त को न देखेगा ॥

५ तू जो प्यादों ही के सग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के सग क्योंकर बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शान्ति के इस देश में निडर है, परन्तु यरदन के आसपास के घने जंगल में † तू क्या करेगा? ६ क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगो ने भी तेरा विश्वासघात किया है; वे तेरे पीछे ललकारते हैं, यदि वे तुझ से मीठी बातें भी कहे, तोभी उनकी प्रतीति न करना ॥

७ मैं ने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैं ने त्याग दिया है; मैं ने अपनी प्राणप्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है। ८ क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया और मेरे विरुद्ध गरजा है; इस कारण मैं ने उस से बँर किया है। ९ क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्तीवाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे बेदे हुए है? जाओ सब जंगली पशुओं को

* मूल में—पवित्र।

† मूल में—यरदन की वाद में।

झकट्टा करो; उनको लाभो कि खा जाए। १० बहुत से चरवाहो ने मेरी दाख की बारी को बिगाड कर दिया, उन्हीं ने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। ११ उन्हीं ने उसको उजाड दिया; वह उजड़कर मेरे साम्हने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है, तीभी कोई नहीं सोचता। १२ जंगल के सब मुडे टीलों पर नाशक चढ आए है; क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती है, किसी मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती। १३ उन्हीं ने गेहू तो बोया, परन्तु कटीले पेड काटे, उन्हीं ने कष्ट तो उठाया, परन्तु उस से कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय मे लज्जित हो ॥

१४ मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते है, जिसका भागी मैं ने अपनी प्रजा इस्राएल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यों कहता है कि मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा, और यहूदा के घराने को भी उनके बीच मे से उखाड़ूंगा। १५ उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा, और उन मे से हर एक को उसके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। १६ और यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगन्ध, यहोवा के जीवन की सौगन्ध, खाने लगे, जिस प्रकार से उन्हीं ने मेरी प्रजा को बाल की सौगन्ध खाना सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वश बढ़ेगा*। १७ परन्तु यदि

* मूल में—वे बस जायेंगे।

वे न मानें, तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी, यहोवा की यही वारणी है ॥

१३ यहोवा ने मुझ से यों कहा, जाकर सनी की एक पेटी मोल ले, उसे कमर मे बान्ध और जल मे मत भीगने दे। २ तब मैं ने एक पेटी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बान्ध ली। ३ तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि ४ जो पेटी तू ने मोल लेकर कटि में कस ली है, उसे परात के तीर पर ले जा और वहाँ उसे कडाडे पर की एक दरार मे छिपा दे। ५ यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैं ने उसको परात के तीर पर ले जाकर छिपा दिया। ६ बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझ से कहा, उठ, फिर परात के पास जा, और जिस पेटी को मैं ने तुझे वहा छिपाने की आज्ञा दी उसे वहा से ले ले। ७ तब मैं परात के पास गया और खोदकर जिस स्थान मे मैं ने पेटी को छिपाया था, वहा से उसको निकाल लिया। और देखो, पेटी बिगड गई थी; वह किसी काम की न रही ॥

८ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा, यहोवा यों कहता है, ९ इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व, और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। १० इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते है जो अपने मन के हठ पर चलते, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दरइवत् करते है, वे इस पेटी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। ११ यहोवा की यह वारणी है कि जिस

प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैं ने इस्लाम के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटि में बान्ध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हों, परन्तु उन्होंने ने न माना । १२ इसलिये तू उन से यह वचन कह, इस्लाम का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएंगे । तब वे तुझ से कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएंगे ? १३ तब तू उन से कहना, यहोवा यों कहता है, देखो, मैं इस देश के सब रहनेवालों को, विशेष करके दाऊदवश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यद्वक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोपरूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा * । १४ तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा ; अर्थात् बाप को बेटे से, और बेटे को बाप से, यहोवा की यह वाणी है । मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा ॥

१५ देखो, और कान लगाओ, गर्ब मत करो, क्योंकि यहोवा ने यों कहा है । १६ अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इस से पहिले कि वह अन्धकार लाए और तुम्हारे पांव अन्धेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया से बदल और उसे घोर अन्धकार बना दे । १७ और यदि तुम इसे न सुनो, तो मैं

* मूल में—निवासियों को मतबालेपन से भरूंगा ।

अकेले में तुम्हारे गर्ब के कारण रोजंगा, और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है ॥

१८ राजा और राजमाता से कह, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं । १९ दक्खिन देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा * न सकेगा ; सम्पूर्ण यहूदी जाति बन्दी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है ॥

२० अपनी आंखे उठाकर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं । वह सुन्दर झुर्रुड जो तुम्हें सौंपा गया था कहाँ है ? २१ जब वह तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा जिन्हें तू ने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी ? क्या उस समय तुम्हें जञ्चा की सी पीड़ाए न उठेगी ? २२ और यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी हैं, तो तेरे बड़े अशर्म के कारण तेरा आचल उठाया गया है और तेरी एड़ियां बरियाई से नगी की गई हैं । २३ क्या हबशी अपना चमड़ा, वा चीता अपने धब्बे बदल सकता है ? यदि वे ऐसा कर सके, तो तू भी, जो बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी । २४ इस कारण मैं उनको ऐसा तितर-बितर करूंगा, जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर-बितर किया जाता है । २५ यहोवा की यह वाणी है, तेरा हिस्सा और मुझ से ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तू ने मुझे भूलकर भूट पर भरोसा रखा है । २६ इसलिये मैं भी तेरा आचल

* मूल में—खोल ।

तेरे मुह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज जानी जाएगी। २७ व्यभिचार और चोचला * और छिनालपन आदि तेरे धिनीने काम जो तू ने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैं ने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय ! तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी ? और कितने दिन तक तू बनी रहेगी ?

१४

यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास सूखे वर्ष के विषय में पहुंचा : २ यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहिरावा पहिने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं; और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। ३ और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिये भेजते हैं; वे गडहों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिये छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं; वे लज्जित और निराश होकर सिर ढाप लेते हैं। ४ देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गए हैं, इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढाप लेते हैं। ५ हरिणी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। ६ जंगली गदहे भी मुंडे टीलों पर लड़े हुए गीदड़ों की नाईं हांफते हैं; उनकी आंखें धुंधला जाती हैं क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है।

७ हे यहोवा, हमारे अघर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है;

* मूल में—धिनधिनाना।

† मूल में—चिल्लाहट चढ़ गई है।

तोभी, तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। ८ हे इस्त्राएल के आघार, संकट के समय उसका बचानेवाला तू ही है, तू क्यों इस देश में परदेशी की नाईं है ? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिये कहीं टिकता हो ? ९ तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके ? तोभी हे यहोवा तू हमारे बीच में है, और हम तेरे कहलाते हैं; इसलिये हमको न तज।

१० यहोवा ने इन लोगों के विषय यो कहा : इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है; ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके; इसलिये यहोवा इन से प्रसन्न नहीं है, वह इनका अघर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दण्ड देगा।

११ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, इस प्रजा की भलाई के लिये प्रार्थना मत कर। १२ चाहे वे उपवास भी करें, तोभी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होमबलि और अन्नबलि चढ़ाए, तोभी मैं उन से प्रसन्न न होऊंगा; मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अन्त कर डालूंगा।

१३ तब मैं ने कहा, हाय, प्रभु यहोवा, देख, भविष्यद्वक्ता इन से कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी, यहोवा तुम को इस स्थान में सदा की शान्ति * देगा। १४ और यहोवा ने मुझ से कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यद्वक्ता करते हैं, मैं ने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उन से कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा

* मूल में—सच्चाई की शान्ति।

दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ घोर बोले की भविष्यद्वाराणी करते हैं। १५ इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यद्वाराणी करते हैं कि: इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महगी होगी, उनके विषय यहोवा यों कहता है, कि, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। १६ और जिन लोगों से वे भविष्यद्वाराणी कहते हैं, वे महगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे, कि न तो उनका, न उनकी स्त्रियों का और न उनके बेटे-बेटियों का कोई मिट्टी देनेवाला रहेगा। क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उरडेल्गा * ॥

१७ तू उन से यह बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आसू लगातार बहते रहे, वे न रुके क्योंकि मेरे लोगों की फुवारी बेंटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। १८ यदि मैं मैदान में जाऊ, तो देखो, तलवार के मारे हुए पड़े हैं! और यदि मैं नगर के भीतर आऊ, तो देखो, भूख से अघमूए पड़े हैं † ! क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं ॥

१९ क्या तू ने यहूदा से बिलकुल हाथ उठा लिया? क्या तू सिय्योन से घिन करता है? नहीं, तू ने क्यों हम को ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम शान्ति की बाट जोहते रहे, तीभी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे, तीभी घबराना ही पडा है ।

* मूल में—उन्हीं पर उरडेल्गा ।

† मूल में—भूख के रोगी हैं ।

२० हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। २१ अपने नाम के निमित्त हमें न ठुकरा; अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर; जो वाचा तू ने हमारे साथ बान्धी, उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। २२ क्या अन्यजातियों की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करनेवाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है ॥

१५ फिर यहोवा ने भुक् से कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे साम्हने खड़े होते, तीभी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे साम्हने से निकाल दो कि वे निकल जाए ! २ और यदि वे तुझ से पूछे कि हम कहा निकल जाए? तो कहना कि यहोवा यों कहता है, जो मरनेवाले हैं, वे मरने को चले जाए, जो तलवार से मरनेवाले हैं, वे तलवार से मरने को; जो आकाल से मरनेवाले हैं, वे आकाल से मरने को, और जो बंधुए होनेवाले हैं, वे बहुआई में चले जाए। ३ मैं उनके विरुद्ध चार प्रकार के बिनाश * ठहराऊंगा: मार डालने के लिये तलवार, फाड़ डालने के लिये कुत्ते, नोच डालने के लिये आकाश के पक्षी, और फाड़कर खाने के लिये मैदान के हिंसक जन्तु, यहोवा की यह वाणी है। ४ यह हिजकिय्याह के पुत्र, यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामो के कारण

* मूल में—चार कुल ।

होगा जो उस ने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेगे ॥

५ हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस जाएगा, और कौन तेरे लिये शोक करेगा ? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी और सुड़ेगा ? ६ यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझ को त्यागकर पीछे हट गई है, इसलिये मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा; क्योंकि, मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। ७ मैं ने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है; उन्होंने ने कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैं ने अपनी प्रजा को निर्बंश कर दिया, और नाश भी किया है। ८ उनकी विधवाएँ मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई हैं, उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दुपहरी ही को मैं ने लुटेरों को ठहराया है, मैं ने उनको अचानक सकट में डाल दिया और घबरा दिया है। ९ सात लडकों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया; उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया; उसकी आशा टूट गई और उसका मुँह काला हो गया। और जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है ॥

१० हे मेरी माता, मुझ पर हाथ, कि तू ने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया जो संसार भर से भ्रमण और वादविवाद करनेवाला ठहरा है। न तो मैं ने व्याज के लिये रुपये दिए, और न किसी से उधार लिए हैं, तोभी लोग मुझे कोसते हैं। ११ यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिये तुझे दृढ़ करूंगा;

विपत्ति और कष्ट के समय में शत्रु से भी तेरी बिनती कराऊंगा। १२ क्या कोई पीतल वा लोहा, उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है ? १३ तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं मैं तेरी धन-सम्पत्ति और खजाने, बिना दाम दिए लुट जाने दूंगा। १४ मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती है, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है, और वह तुम को जलाएगी ॥

१५ हे यहोवा, तू तो जानता है; मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सतानेवालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करनेवाला है, इसलिये मुझे न उठा ले; तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। १६ जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, तब मैं ने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनन्द का कारण हुए; क्योंकि, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। १७ तेरी छाया मुझ पर हुई; मैं मन बहलानेवालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ; तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तू ने मुझे क्रोध से भर दिया था। १८ मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है ? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है ? क्या तू सचमुच मेरे लिये घोला देनेवाली नदी और सूखनेवाले जल के समान होगा ?

१९ यह सुनकर यहोवा ने यों कहा, यदि तू फिरे, तो मैं फिरसे तुझे अपने साम्हने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी और फिरेगे, परन्तु तू उनकी और न फिरना।

२० और मैं तुम्ह को उन लोगों के साम्हने पीतल की दूध शहरपनाह बनाऊंगा; वे तुम्ह से लड़ेंगे, परन्तु तुम्ह पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने और तेरा उद्धार करने के लिये तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। मैं तुम्हें दुष्ट लोगो के हाथ से बचाऊंगा, २१ और उपद्रवी लोगो के पंज से छुड़ा लूंगा ॥

१६ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ इस स्थान में विवाह करके बेटे-बेटियां मत जन्मा। ३ क्योंकि जो बेटे-बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हों और जो माताएं उन्हें जने और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, ४ उनके विषय यहोवा यों कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियो से मरेंगे। उनके लिये कोई छाती न पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियो और मंदान के पशुओं का आहार होंगी। ५ यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना-पीटना हो उस में न जाना, न छाती पीटने के लिये कही जाना और न इन लोगो के लिये शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं ने अपनी शान्ति और करुणा और दया इन लोगो पर से उठा ली है। ६ इस कारण इस देश के छोटे-बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, और न सिर मुड़ाएंगे। इनके लिये कोई शोक करनेवालों को रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शान्ति द; ७ और न लोग पिता वा माता के मरने पर किसी को शान्ति के लिये कटोरे

में दाखमधु पिलाएंगे। ८ तू जेबनार के घर में इनके साथ खाने-पीने के लिये न जाना। ९ क्योंकि सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यों कहता है, देख, तुम लोगो के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनन्द का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दुल्हे और न दुल्हिन का शब्द। १० और जब तू इन लोगो से ये सब बातें कहे, और वे तुम्ह से पूछें कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिये क्यों कहा है? हमारा अघम क्या है और हम ने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? ११ तो तू इन लोगो से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्यागकर दूसरे देवताओं के पीछे चले, और उनकी उपासना करके उनको दण्डवत् की, और मुझ को त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, १२ और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी, उस से भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते; १३ इस कारण मैं तुम को इस देश से उखाडकर ऐसे देश में फेंक दूंगा, जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे; और वहां तुम रात-दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूंगा ॥

१४ फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो, ऐसे दिन आनेवाले हैं जिन में फिर यह न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगन्ध, १५ वरन यह कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों

को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उस ने उनको बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सीगन्ध । क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैं ने उनके पूर्वजों को दिया था, लौटा ले आऊंगा ॥

१६ देखो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें, और, फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकालें । १७ क्योंकि उनका पूरा चाल-चलन मेरी आंखों के साम्हने प्रगट है; वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अघर्म मेरी आंखों से गुप्त है । सो मैं उनके अघर्म और पाप का दूना दण्ड दूंगा, १८ क्योंकि उन्होंने ने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया, और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है ॥

१९ हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ गढ़, संकट के समय मेरे शरणस्थान, जाति-जाति के लोग पृथ्वी की चहुंभोर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा भूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं । २० क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए ? नहीं, वे ईश्वर नहीं हो सकते !

२१ इस कारण, एक इस बार, मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा, और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है ॥

१७ यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है; वह उनके हृदयरूपी पटिया और

उनकी बेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है । २ उनकी बेदियां और अशेरा नाम देविया जो हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर हैं, वे उनके लड़कों को भी स्मरण रहती हैं । ३ हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी घन-सम्पत्ति और भण्डार में तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा, और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं । ४ तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी न रहने पाएगा जो मैं ने तुम्हें दिया है, और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तू ने मेरे क्रोध को आग ऐसी भड़काई है जो सर्वदा जलती रहेगी ॥

५ यहोवा यों कहता है, आपित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, और उसका * सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है । ६ वह निर्जल देश के अघमूए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा । वह निर्जल और निर्जन तथा लीनछाई भूमि पर बसेगा ॥

७ धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिस ने परमेश्वर को अपना आशर माना हो । ८ वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो; जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिन्ता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा ॥

* मूल में—मांस का ।

६ मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देनेवाला होता है, उस में भ्रमाध्य रोग लगा है; उसका भेद कौन समझ सकता है? १० में यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता है ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल-चलन के अनुसार अर्थात् उसके कामों का फल दू ॥

११ जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के * दिए हुए भ्रडों को सेती है, उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है, और अन्त में वह मूढ ही ठहरता है ॥

१२ हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। १३ हे यहोवा, हे इस्लाम के आघार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे; जो तुझ † से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है ॥

१४ हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा; मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ ‡। १५ सुन, वे मुझ से कहते हैं, यहोवा का वचन कहां रहा? वह अभी पूरा हो जाए! १६ परन्तु तू मेरा हाल जानता है, मैं ने तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरबाहे का काम नहीं छोड़ा; न मैं ने उस आनेवाली विपत्ति के दिन की लालसा की है; जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रगट था। १७ मुझे न घबरा; संकट के दिन तू ही

* मूल में—अपने। † मूल में—मुझ।

‡ मूल में—तू ही मेरी सुधि है।

मेरा शरणस्थान है। १८ हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे, मेरे सतानेवालों ही की आशा टूटे; उन्हीं को विस्मित कर; परन्तु मुझे निराशा से बचा; उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे।

१९ यहोवा ने मुझ से यों कहा, जाकर सदर फाटक में खड़ा हो जिस से यहूदा के राजा वरन यरूशलेम के सब रहनेवाले भीतर-बाहर भागा जाया करते हैं; २० और उन से कह, हे यहूदा के राजाओ और सब यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों, और सब लोगो जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। २१ यहोवा यों कहता है, सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ; और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। २२ विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत लेओ और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैं ने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। २३ परन्तु उन्हीं ने न सुना और न कान लगाया, परन्तु इसके विपरीत हठ किया कि न सुनें और ताड़ना से भी न मानें ॥

२४ परन्तु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ और विश्रामदिन को पवित्र मानो, और उस में किसी रीति का काम काज न करो, २५ तब तो दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा, रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए हाकिम और यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी

इस नगर के फाटकों से होकर प्रवेश किया करेंगे और यह नगर सर्वदा बसा रहेगा । २६ और लोग होमबलि, मेलबलि अन्नबलि, लोबान और धन्यवादबलि लिए हुए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के भ्रासपाम से, बिन्यामीन के देश और नीचे के देश से, पहाड़ी देश और दक्खिन देश से, यहोवा के भवन में आया करेंगे । २७ परन्तु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानो, और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा; और उस से यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वह आग फिर न बुझेगी ॥

१८ यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा, २ और वहां मैं तुम्हें अपने वचन सुनवाऊंगा । ३ सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है । ४ और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उस ने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया ॥

५ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, ६ यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो । ७ जब मैं किसी जाति वा राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा वा ढा दूंगा अथवा नाश करूंगा, ८ तब यदि

उस जाति के लोग जिसके विषय मैं ने कह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैं ने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा । ९ और जब मैं किसी जाति वा राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा; १० तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न मानें, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैं ने उनके लिये करने को कहा हो, पछताऊंगा । ११ इसलिये अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यों कहता है, देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबन्ध कर रहा हूँ । इसलिये तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चालचलन और काम सुधारो । १२ परन्तु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे ॥

१३ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, अन्यजातियों से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई हैं? इस्राएल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं । १४ क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बन्द हो सकता है? क्या वह ठण्डा जल जो दूर से * बहता है कभी सूख † सकता है? १५ परन्तु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है; वे निकम्मी वस्तुओं के लिये धूप जलाते हैं, उन्होंने ने अपने प्राचीनकाल के मार्गों में ठोकर खाई है, और पगडरिडियों और बेहड़ ‡

* मूल में—जो परदेश ।

† मूल में—उसका ।

‡ मूल में—अनबने ।

मार्गों में भटक गए हैं। १६ इस से उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा ताली बजाते रहेंगे; और जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा। १७ मैं उनको पुरवाई से उडाकर शत्रु के साम्हने से तितर-बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन मैं उनको मुह नहीं परन्तु पीठ दिखाऊंगा ॥

१८ तब वे कहने लगे, चलो, यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करे, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ, हम उसकी कोई बात पकडकर उसको नाश कराएं* और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें ॥

१९ हे यहोवा, मेरी और ध्यान दे, और जो लोग मेरे साथ भगडते हैं उनकी बातें सुन। २० क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिये तेरे साम्हने प्रार्थना करने को खडा हुआ जिस से तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए, और अब उन्हीं ने मेरे प्राण लेने के लिये गडहा खोदा है। २१ इसलिये उनके लडकेबालो को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे †, और उनकी स्त्रियां निर्वश और विधवा हो जाए। उनके पुरुष मरी से मरे, और उनके जवान लडाई में तलवार से मारे जाए। २२ जब तू उन पर अचानक शत्रुदल चढ़ाए, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे। क्योंकि उन्हीं ने मेरे लिये गडहा खोदा और मेरे फंसाने को फन्दे

* मूल में—उनकी जीभ मारे।

† मूल में—उन्हें तलवार के हाथ में सौंप दे।

लगाए हैं। २३ हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिये करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को न ढांप, न उनके पाप को अपने साम्हने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए, अपने क्रोध में आकर उन से इसी प्रकार का व्यवहार कर ॥

१९ यहोवा ने यों कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले, और प्रजा के कुछ पुरनियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर, २ हिश्रोमियो की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहा ठीकरे फेंक दिए जाते हैं; और जो वचन मैं कहूँ, उसे वहा प्रचार कर। ३ तू यह कहना, हे यहूदा के राजाओ और यरूशलेम के सब निवासियो, यहोवा का वचन सुनो। इस्त्राएल का परमेश्वर सेनाओ का यहोवा यो कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने, उस पर मन्नाटा छा जाएगा*। ४ क्योंकि यहां के लोगो ने मुझे त्याग दिया, और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिये जिनको न तो वे जानते हैं, और न उनके पुरखा वा यहूदा के पुराने राजा जानते थे धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है; और उन्हीं ने इस स्थान को निर्दोषों के लोहू से भर दिया, ५ और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानो को बनाकर अपने लडकेबालों को बाल के लिये होम कर दिया, यद्यपि मैं ने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, न उसकी चर्चा की और न वह

* मूल में—उनके कान संसनायेंगे।

कभी मेरे मन में आया। ६ इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपेत वा हिभ्रोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात ही की तराई कहलाएगा। ७ और मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा; और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलवाकर गिरा दूंगा। उनकी लोथों को मैं आकाश के पक्षियों और भूमि के जीवजन्तुओं का आहर कर दूंगा। ८ और मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखकर डरेंगे; जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और घबराएगा। ९ और घिर जाने और उस सकेती के समय जिस में उनके प्राण के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे-बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा।

१० तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के साम्हने तोड़ देना जो तेरे सग जाएंगे, ११ और उन से कहना, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बासन जो टूट गया कि फिर बनाया न जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। और तोपेत नाम तराई में इतनी ऋब्रें होंगी कि ऋब्र के लिये और स्थान न रहेगा। १२ यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहनेवालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा, मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा। १३ और यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिये धूप जलाया गया,

और अन्य देवताओं के लिये तपावन दिया गया है, वे सब तोपेत के समान भ्रष्ट हो जाएंगे।

१४ तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर, जहां यहोवा ने उसे भविष्यदवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ, और सब लोगों से कहने लगा; १५ इस्लाम का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, सब गांवों समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूं जो मैं ने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने ने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना है।

२० जब यिर्मयाह यह भविष्यदवाणी कर रहा था, तब इम्मेर का पुत्र पशहूर ने जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। २ सो पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यदवाणी को मारा और उसे उस काठ में डाल दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। ३ बिहान को जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उस से कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं मागोमिस्साबीब * रखा है। ४ क्योंकि यहोवा ने यों कहा है, देख, मैं तुझे तेरे लिये और तेरे सब मित्रों के लिये भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। और मैं सब यहूदियों को बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा; वह उनको बंधुआ करके बाबुल में ले जाएगा, और तलवार से मार डालेगा। ५ फिर मैं इस नगर के सारे घन को और इस में की कमाई और

* अर्थात् चारों ओर भय ही भय।

सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रत्ना हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा; और वे उसको लूटकर अपना कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। ६ और, हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा; अपने उन मित्रों समेत जिन से तू ने झूठी भविष्यद्वारा की, तू बाबुल में जाएगा और वही मरेगा, और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी ॥

७ हे यहोवा, तू ने मुझे धोखा दिया, और मैं ने धोखा खाया; तू मुझ से बलवन्त है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हसी होती है; सब कोई मुझ से ठट्टा करते हैं। ८ क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ, तब मैं जोर से पुकार पुकारकर ललकारता हूँ कि उपद्रव और उत्पात हुआ, हा उत्पात ! क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिये निन्दा और ठट्टा का कारण होता रहता है। ९ यदि मैं कहूँ, मैं उसकी चर्चा न करूँगा न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में घघकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझ से रहा नहीं जाता। १० मैं ने बहुतों के मुह से अपना अपवाद सुना है। चारों ओर भय ही भय है ! मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते हैं, वे कहते हैं, उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित्त वह धोखा खाए, तो हम उस पर प्रबल होकर, उस से बदला लेंगे। ११ परन्तु यहोवा मेरे साथ है, वह भयकर वीर के समान है; इस कारण मेरे सतानेवाले प्रबल न होंगे,

वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिये उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। १२ हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखनेवाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उन से लेगा, उसे मैं देखूँ, क्योंकि मैं ने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है ॥

१३ यहोवा के लिये गाओ; यहोवा की स्तुति करो ! क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है ॥

१४ स्थापित हो वह दिन जिस में मैं उत्पन्न हुआ। जिस दिन मेरी माता ने मुझ को जन्म दिया वह धन्य न हो ! १५ स्थापित हो वह जन जिस ने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनन्दित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। १६ उस जन की दशा उन नगरो की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया; उसे सबेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे, १७ क्योंकि उस ने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती, और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। १८ मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिये जन्मा और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुःख देखूँ, और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूँ ?

२१ यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुँचा जब सिदकियाह राजा ने उसके पास मल्कियाह के पुत्र पशहूर और

मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि, २ हमारे लिये यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है; कदाचित्त यहोवा हम से अपने सब आश्चर्यकर्मों के अनुसार ऐमा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए ॥

३ तब यिर्मयाह ने उन से कहा, तुम सिदकिय्याह से यों कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, ४ देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिन से तुम बाबुल के राजा और शहरपनाह के बाहर घेरनेवाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा; ५ और मैं स्वयं हाथ बढाकर और बलवन्त भुजा से, और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। ६ और मैं इस नगर के रहनेवालों को क्या मनुष्य, क्या पशु सब को मार डालूंगा; वे बड़ी मरी से मरेगे। ७ और उसके बाद, यहोवा की यह वाणी है, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुम्हें, तेरे कर्मचारियों और लोगों को बरन जो लोग इस नगर में मरी, तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। वह उनको तलवार से मार डालेगा; उन पर न तो वह तरस लाएगा, न कुछ कोमलता दिखाएगा और न कुछ दया करेगा ॥

८ और इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यों कहता है, देखो, मैं तुम्हारे साम्हने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। ९ जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और

मरी से मरेगा; परन्तु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुम को घेर रहे हैं भाग जाए वह जीवित रहेगा, और उसका प्राण बचेगा। १० क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं ने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिये नहीं, बरन बुराई ही के लिये किया है; यह बाबुल के राजा के वश में पड़ जाएगा, और वह इसको फुंकवा देगा ॥

११ और यहूदा के राजकुल के लोगों से कह, यहोवा का वचन सुनो, १२ हे दाऊद के घराने! यहोवा यों कहता है, ओर को न्याय चुकाओ, और लुटे हुए को अघेर करनेवाले के हाथ से छुडाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भडकेगी, और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा न सकेगा ॥

१३ हे तराई में रहनेवाली और समथर देश की चट्टान; तुम जो कहते हो कि हम पर कौन चढाई कर सकेगा, और हमारे वासस्थान में कौन प्रवेश कर सकेगा? यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। १४ और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दण्ड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। मैं उसके वन में आग लगाऊंगा, और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा ॥

२२ यहोवा ने यों कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह, २ हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से भाया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। ३ यहोवा यों कहता है, न्याय और धर्म के काम करो; और

लुटे हुए को अन्धेर करनेवाले के हाथ से छड़ाओ। और परदेशी, अनाथ और विधवा पर अन्धेर व उपद्रव मत करो, न इस स्थान में निर्दोषों का लोहू बहाओ। ४ देखो, यदि तुम ऐसा करोगे, तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करोगे। ५ परन्तु, यदि तुम इन बातों को न मानो तो, मैं अपनी ही सौगन्ध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है, कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। ६ क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यों कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परन्तु निश्चय मैं तुम्हें मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊँगा। ७ मैं नाश करनेवालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूँगा; वे तेरे सुन्दर देवदारों को काटकर भाग में भोंक देगे। ८ और जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? ९ तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने ने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दण्डवत् की और उनकी उपासना भी की।

१० मेरे हुओं के लिये मत रोओ, उसके लिये विलाप मत करो। उसी के लिये फूट फूटकर रोओ जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। ११ क्योंकि यहूदा के राजा योशियाह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशियाह

के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यों कहता है कि वह फिर यहाँ लौटकर न आने पाएगा। १२ वह जिस स्थान में बधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा, और इस देश को फिर कभी देखने न पाएगा।

१३ उस पर हाथ जो अपने घर को भ्रमं से और अपनी उपरोठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है; जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। १४ वह कहता है, मैं अपने लिये लम्बा-चौड़ा घर और हवादार कोठा बना लूँगा, और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है, और सिन्दूर से रंग देता है। १५ तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा। देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था! १६ वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। १७ परन्तु तू केवल अपना ही लाभ देखता है, और निर्दोषों की हत्या करने और अन्धेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। १८ इसलिये योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, कि जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाथ मेरे भाई, हाथ मेरी बहिन! इस प्रकार कोई हाथ मेरे प्रभु वा हाथ तेरा विभव कहकर उसके लिये विलाप न करेगा। १९ बरन उसको गदहे की

नाई मिट्टी दी जाएगी, वह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा ॥

२० लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊँचे स्वर से चिल्ला; फिर अंबारीम पहाड़ पर जाकर हाय-हाय कर, क्योंकि तेरे मब मित्र नाश हो गए हैं। २१ तेरे सुख के समय में ने तुझ को चिताया था, परन्तु तू ने कहा, मैं तेरी न सुनूंगी। युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। २२ तेरे सब चरवाहे वायु से उडाए जाएंगे, और तेरे मित्र बंधुभाई मे चले जाएंगे; निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुह काला हो जाएगा। २३ हे लबानोन की रहनेवाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनानेवाली, जब तुझ को जच्चा की सी पीडाएं उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी !

२४ यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, चाहे यहोवाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह, मेरे दहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तौभी मे उसे उतार फेकता। २५ मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ, और जिन से तू डरता है उनके अर्थात् बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। २६ मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराए देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा, और तुम वही मर जाओगे। २७ परन्तु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं, वहां कभी लौटने न पाएंगे ॥

२८ क्या, यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह

निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा? २९ हे पृथ्वी, पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन! ३० यहोवा यों कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवनकाल कुशल से न बीतेगा, और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर बिराजमान वा यहूदियों पर प्रभुता करनेवाला होगा ॥

२३ उन चरवाहो पर हाय जो मेरी चराई की भेड़-बकरियों को तितर-बितर करते और नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। २ इसलिये इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहो से यों कहता है, तुम ने मेरी भेड़-बकरियों की सुधि नहीं ली, बरन उनको तितर-बितर किया और बरबस निकाल दिया है, इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दण्ड दूंगा। ३ तब मेरी भेड़-बकरिया जो बची है, उनको मैं उन सब देशों में से जिन में मैं ने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा, और वे फिर फूले-फलेंगी। ४ मैं उनके लिये ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे; और तब वे न तो फिर डरेगी, न विस्मित होंगी और न उन में से कोई खो जाएगी, यहोवा की यह वाणी है ॥

५ यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, और

अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। ६ उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, और इस्त्राएली लोग निडर बसे रहेंगे। और यहोवा उसका नाम "हमारी धार्मिकता" रखेगा ॥

७ सो देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिन में लोग फिर न कहेंगे, कि "यहोवा जो हम इस्त्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगन्ध," ८ परन्तु वे यह कहेंगे, "यहोवा जो इस्त्राएल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उस ने हमें बरबस निकाल दिया, छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगन्ध।" ९ तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे ॥

९ भविष्यद्वक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां धरधराती हैं; यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं, उन्हें सुनकर, मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाखमघु के नशे में चूर हो गया हो, १० क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है; इस पर ऐसा शाप पडा है कि यह विलाप कर रहा है; वन की चराइयां भी सूख गई। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं, परन्तु बुराई ही की ओर; और वीरता तो करते हैं, परन्तु अन्याय ही के साथ *। ११ क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं; अपने भवन में भी मैं ने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। १२ इस कारण उनका मार्ग अन्धेरा और फिसलाहा होगा जिस में वे ढकेलकर गिरा दिए जाएंगे; क्योंकि, यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दण्ड के वर्ष

* मूल में—और उनकी दौड़ डुरी और उनकी वीरता नाष्टक है।

में उन पर विपत्ति डालूंगा। १३ शोमरोन के भविष्यद्वक्ताओं में मैं ने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यद्वक्ता करने और मेरी प्रजा इस्त्राएल को भटका देते थे। १४ परन्तु यरूशलेम के नवियों में मैं ने ऐसे काम देखे हैं, जिन से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात् व्यभिचार और पाखण्ड; वे कुकर्मियों को ऐसा हियाब बन्धाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चात्ताप भी नहीं करते; सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। १५ इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यों कहता है, देख, मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है ॥

१६ सेनाओं के यहोवा ने तुम से यों कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुम से भविष्यद्वक्ता करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुम को व्यर्थ बातें सिखाते हैं; ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। १७ जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उन से ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा; और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उन से ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी ॥

१८ भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खडा होकर उसका वचन सुनने और समझने* पाया है? १९ वा किस ने ध्यान

* मूल में—देखने और सुनने।

देकर मेरा वचन सुना है ? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचण्ड बवण्डर और आधी चलने लगी है; और उसका भोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। २० जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शान्त न होगा। अन्त के दिनों में तुम इस बात को भली भाँति समझ सकोगे ॥

२१ ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यद्वक्ता करने लगते हैं। २२ यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते; और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते ॥

२३ यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेस्वर हूँ, जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ ? २४ फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है, कि मैं उसे न देख सकूँ ? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ से परिपूर्ण नहीं हैं ? २५ मैं ने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से यह कहकर भूठी भविष्यद्वक्ता करते हैं कि मैं ने स्वप्न देखा है, स्वप्न ! २६ जो भविष्यद्वक्ता भूठमूठ भविष्यद्वक्ता करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी ? २७ जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यद्वक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। २८ यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो, तो वह उसे बताए, परन्तु जिस किसी ने मेरा

वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूँ ? २९ यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन भाग सा नहीं है ? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले ? ३० यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुराकर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। ३१ फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यद्वक्ता "उसकी यह वाणी है", ऐसी भूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। ३२ यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे वा बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का भूठा दावा करके भविष्यद्वक्ता करते हैं, और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को भूठे घमण्ड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ; और उन से मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ न होगा ॥

३३ यदि साधारण लोगों में से कोई जन वा कोई भविष्यद्वक्ता वा याजक तुम से पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उस से कहना, क्या प्रभावशाली वचन ? यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम को त्याग दूंगा। ३४ और जो भविष्यद्वक्ता वा याजक वा साधारण मनुष्य "यहोवा का कहा हुआ भारी वचन" ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दरुड दूंगा। ३५ तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यों पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया ? ३६ वा, यहोवा ने क्या कहा है ? "यहोवा का कहा हुआ भारी वचन", इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना नहीं

तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दरद का कारण हो जाएगा; क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन बिगाड़ दिए हैं। ३७ तू भविष्यद्वक्ता से यों पूछ कि यहोवा ने तुम्हें क्या उत्तर दिया? ३८ वा, यहोवा ने क्या कहा है? यदि तुम “यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन” : इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैं ने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है, भविष्य में ऐसा न कहना कि “यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन।” परन्तु तुम यह कहते ही रहते हो, कि “यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन।” ३९ इस कारण देखो, मैं तुम को बिलकुल भूल जाऊंगा और तुम को और इस नगर को जिसे मैं ने तुम्हारे पुरखाओं को, और तुम को भी दिया है, ४० त्यागकर अपने साम्हने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा; और कभी भूला न जाएगा ॥

२४ जब बाबुल का राजा नबूकद-नेस्सर, यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को, और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझ को अपने मन्दिर के साम्हने रखे हुए अजीरों के दो टोकरे दिखाए। २ एक टोकरे में तो पहिले से पके अच्छे अच्छे अजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। ३ फिर यहोवा ने मुझ

से पूछा, हे यिर्मयाह, तुम्हें क्या देख पड़ता है? मैं ने कहा, अजीर; जो अजीर अच्छे हैं सो तो बहुत ही अच्छे हैं, परन्तु जो निकम्मे हैं, सो बहुत ही निकम्मे हैं; वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं हैं ॥

४ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, ५ कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जैसे अच्छे अजीरों को, वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को जिन्हें मैं ने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न हूंगा। ६ मैं उन पर कृपादृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नाश न करूंगा परन्तु बनाऊंगा; उन्हें उखाड़ न डालूंगा, परन्तु लगाए रखूंगा। ७ मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ; और वे मेरी प्रजा ठहरेगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे ॥

८ परन्तु जैसे निकम्मे अजीर, निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो इस देश में वा मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। ९ इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुःख भोगते रहेंगे; और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस निकाल दूंगा, उन सभी में वे नामधराई और दुष्टांत और त्राप का विषय होंगे। १० और मैं उन में तलवार चलाऊंगा, और मंहंगी और मरी फैलाऊंगा, और अन्त में इस देश में से जिसे मैं ने उनके पुरखाओं को और उनको दिया, वे मिट जाएंगे ॥

२५ योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में जो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, २ यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, और जिसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा, वह यह है: ३ आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशियाह के राज्य के तेरहवें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात् तेईस वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है; और मैं उसे बड़े यत्न के साथ * तुम से कहता आया हूँ; परन्तु तुम ने उसे नहीं सुना। ४ और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिये बड़े यत्न से भेजता आया है ५ कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो: तब जो देश यहोवा ने प्राचीनकाल में तुम्हारे पितरों को और तुम को भी सदा के लिये दिया है उस पर बसे रहने पाओगे; परन्तु तुम ने न तो सुना और न कान लगाया है। ६ और दूसरे देवताओं के पीछे होकर जनकी उपासना और उनको दण्डवत् मत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ; तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। ७ यह सुनने पर भी तुम ने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो जिस से तुम्हारी हानि ही हो सकती है, यहोवा की यही वाणी है ॥

८ इसलिये सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि तुम ने जो मेरे वचन नहीं माने,

* मूल में—तबके उठकर।

९ इसलिये सुनो, मैं उत्तर में रहनेवाले सब कुलों को बुलाऊंगा, और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सभों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आस पास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा; और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे; वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे, यहोवा की यही वाणी है। १० और मैं ऐसा करूंगा कि इन में न तो हर्ष और न आनन्द का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दुल्हे वा दुल्हिन का, और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा और न इन में दिया जलेगा। ११ सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातिया सत्तर वर्ष तक बाबुल के राजा के आधीन रहेगी। १२ जब सत्तर वर्ष बीत चुके, तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अश्रम का दण्ड दूंगा, यहोवा की यह वाणी है; और उस देश को सदा के लिये उजाड़ दूंगा। १३ मैं उस देश में अपने बे सब वचन पूरे करूंगा जो मैं ने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यद्वणी करके पुस्तक में लिखे हैं। १४ क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उन से अपनी सेवा कराएंगे; और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा ॥

१५ इस्त्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझ से यों कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दासमधु का कटोरा लेकर उन सब

जातियों को पिला दे जिनके पास में तुम्हें भेजता हूँ । १६ वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लडखडाएंगे और बावले हो जाएंगे ॥

१७ सो मैं ने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा, पिला दिया । १८ अर्थात् यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को, और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड हो जाए और लोग ताली बजाए, और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें; जैसा आजकल होता है । १९ और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों, और सारी प्रजा को; २० और सब दोगले मनुष्यों की जातियों को और उस देश के सब राजाओं को; और पलिस्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन अज्जा और एक्नोन के और अशदोद के बचे हुए लोगों को; २१ और एदोनियों, मोआबियों और अम्मोनियों को और सारे राजाओं को; २२ और सीदोन के सब राजाओं को, और समुद्र पार के देशों के राजाओं को; २३ फिर ददानियों, तेमाइयों और बूजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुँडा डालते हैं, उन सबों को भी; २४ और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रहनेवाले दोगले मनुष्यों के सब राजाओं को; २५ और जिब्री, एलाम और मादके के सब राजाओं को; २६ और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया, निदान धरती भर में रहनेवाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैं ने पिलाया । और

इन सब के पीछे शेषक * के राजा को भी पीना पडेगा ॥

२७ तब तू उन से यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, यों कहता है, पीओ, और मतवाले हो और छाँट करो, गिर पड़ो और फिर कभी न उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा ॥

२८ और यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो उन से कहना, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि तुम को निश्चय पीना पडेगा । २९ देखो, जो नगर मेरा कहलाता है, मैं पहिले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा, फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहरके बचोगे? तुम निर्दोष ठहरके न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहनेवालों पर तलवार चलाने पर हूँ, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है । ३० इतनी बातें भविष्यद्वाणी की रीति पर उन से कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा, और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा; वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा; वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताडनेवालों की नाई ललकारेगा । ३१ पृथ्वी की छोर लों भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकद्दमा है; वह सब मनुष्यों से वादविवाद करेगा, और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा ॥

३२ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति

* अनुमान है कि यह बाबुल का एक नाम है ।

में फैलेगी, और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी ! ३३ उस समय यहोवा के मारे हुओं की लोथें पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेंगी । उनके लिये कोई रोने-पीटनेवाला न रहेगा, और उनकी लोथें न तो बटोरी जाएंगी और न कबरों में रखी जाएगी; वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेंगी । ३४ हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवन्त मेढो और बकरो, राख में लोटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं, और मैं मनभाऊ बरतन की नाई तुम्हारा सत्यानाश करूँगा । ३५ उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिये कोई स्थान रहेगा, और न बलवन्त मेढे और बकरे भागने पाएँगे । ३६ चरवाहों की चिल्लाहट और बलवन्त मेढों और बकरो के मिमियाने का शब्द मुनाई पड़ता है ! क्योंकि यहोवा उनकी चराई को नाश करेगा, ३७ और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शान्ति के स्थान नष्ट हो जाएँगे, जिन वासस्थानों में अब शान्ति है, वे नष्ट हो जाएँगे । ३८ युवा सिंह की नाई वह अपने ठीर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि भ्रंशेरे करनेहारी तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है ॥

२६ योशियाह के पुत्र यहूदा के आरम्भ में, यहोवा की ओर से यह वचन पहुँचा, यहोवा यों कहता है, २ यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर, यहूदा के सब नगरों के लोगों के साम्हने जो यहोवा के भवन में दडगवत् करने को आए, ये वचन जिनके विषय उन से कहने

की आज्ञा में तुम्हें देता हूँ कह दे; उन में से कोई वचन मत रख छोड़ । ३ सम्भव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनकी हानि करने से पछताऊँ जो उनके बुरे कामों के कारण मैं ने ठाना था । ४ इसलिये तू उन से कह, यहोवा यों कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैं ने तुम को सुनवा दी है* न चलो, ५ और न मेरे दास भविष्यद्भक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, (जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके † भेजता आया हूँ, परन्तु तुम ने उनकी नहीं सुनी), ६ तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूँगा, और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूँगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे ॥

७ जब यिर्मयाह ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यद्भक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे । ८ और जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद्भक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुम्हें प्राणदण्ड होगा । ९ तू ने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यद्वाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा, और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उस में कोई न रह जाएगा ? इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई ॥

* मूल में—तुम्हारे साम्हने रखी है ।

† मूल में—तुम्हें उठके ।

१० यहूदा के हाकिम ये बाते सुनकर, राजा के भवन से यहोवा के भवन मे चढ़ आए और उसके नये फाटक में बैठ गए। ११ तब याजकों और भविष्य-द्वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदण्ड के योग्य है, क्योंकि इस ने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यद्वाराणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। १२ तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुम ने सुने है, उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यद्वाराणी की रीति पर कहने के लिये भेज दिया है। १३ इसलिये अब अपना चालचलन और अपने काम सुधारो, और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो; तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उस ने तुम से की है, पछताएगा। १४ देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ; जो कुछ तुम्हारी दृष्टि मे भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। १५ पर यह निश्चय जानो, कि, यदि तुम मुझे मार डालोगे, तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे; क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिये भेजा है।

१६ तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नवियों से कहा, यह मनुष्य प्राणदण्ड के योग्य नहीं है क्योंकि उस ने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हम से कहा है। १७ और देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मण्डली से कहा, १८ यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर सेती भीकायाह भविष्यद्वाराणी कहता था, उस ने यहूदा

के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खण्डहर हो जाएगा, और भवनबाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा *। १९ क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने वा किसी यहूदी ने उसको कही मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उस से बिनती न की? और तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिये कहा था, उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे।

२० फिर शमायाह का पुत्र ऊरिय्याह नाम किर्यत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यद्वाराणी कहता था उस ने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यद्वाराणी की जैसी यिर्मयाह ने अभी की है। २१ और जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया, और ऊरिय्याह यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। २२ तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र को लोग भेजे अर्थात् अकबोर के पुत्र एलनातान को कितने और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। २३ और वे ऊरिय्याह को मिस्र से निकालकर यहोयाकीम राजा के पास ले आए; और उस ने उसे तलवार से मरवाकर उसकी लोथ को साधारण लोगों की कबरों में फिंकावा दिया। २४ परन्तु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के

* मूल में—और भवन का पर्वत, अरख्य के ऊंचे स्थान।

वश में बंध होने के लिये नहीं दिया गया ॥

२७ योशिय्याह के पुत्र, यहूदा के राजा यहोयाकीम * के राज्य के आरम्भ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा । २ यहोवा ने मुझ से यह कहा, बन्धन और जूए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख । ३ तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास, उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं । ४ और उनको उनके स्वामियों के लिये यह कहकर आज्ञा देना, कि, इस्त्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ५ अपने अपने स्वामी से यों कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैं ने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हू उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ । ६ अब मैं ने ये सब देश, अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं; और मैदान के जीवजन्तुओं को भी मैं ने उसे दिया है कि वे उसके आधीन रहें । ७ ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के आधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए; तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उस से भी अपनी सेवा करवाएंगे ॥

८ सो जो जाति वा राज्य बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के आधीन न हो और

* जान पड़ता है कि यहोयाकीम की सन्ती सिदकिय्याह समझना चाहिये ।

उसका जूआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दण्ड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दू यहोवा की यही वारणी है । ९ इसलिये तुम लोग अपने भविष्यद्वक्ताओं और भाबी कहनेवालों और टोनहों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ जो तुम से कहते हैं कि तुम को बाबुल के राजा के आधीन नहीं होना पड़ेगा । १० क्योंकि वे तुम से भूठी भविष्यद्वारणी करते हैं, जिस से तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुम को दूर करके नष्ट कर दू । ११ परन्तु जो जाति बाबुल के राजा का जूआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके आधीन रहेगी उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा, और वह उस में खेती करती हुई बसी रहेगी, यहोवा की यही वारणी है ॥

१२ और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैं ने ये बातें कहीं, अपनी प्रजा समेत तू बाबुल के राजा का जूआ अपनी गर्दन पर ले, और उसके और उसकी प्रजा के आधीन रहकर जीवित रह । १३ जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बाबुल के राजा के आधीन न हो, यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नाश होगी; तो फिर तू क्यों अपनी प्रजा समेत मरना चाहता है ?

१४ जो भविष्यद्वक्ता तुझ से कहते हैं कि तुझ को बाबुल के राजा के आधीन न होना पड़ेगा, उनकी मत सुन; क्योंकि वे तुझ से भूठी भविष्यद्वारणी करते हैं । १५ यहोवा की यह वारणी है कि मैं ने उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से भूठी भविष्यद्वारणी करते हैं; और इसका फल

यही होगा कि मैं तुम्ह को देश से निकाल दूंगा, और तू उन नवियों समेत जो तुम्ह से भविष्यद्वाराणी करते हैं नष्ट हो जाएगी ॥

१६ तब याजकों और साधारण लोगों से भी मैं ने कहा, यहोवा यों कहता है, तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुम से यह भविष्यद्वाराणी करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबुल से लौटा दिए जाएंगे, उनके वचनों की और कान मत धरो, क्योंकि वे तुम से झूठी भविष्यद्वाराणी करते हैं। १७ उनकी मत सुनो; बाबुल के राजा के आधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। १८ यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? यदि वे भविष्यद्वक्ता भी हों, और यदि यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से बिनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वे बाबुल न जाने पाए। १९ क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जो खम्भे और पीतल की नान्द, गगाल और कुर्सियाँ और और पात्र इस नगर में रह गए हैं, २० जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया था, २१ जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि वे भी बाबुल में पहुँचाए जाएंगे; २२ और जब तक मैं उनकी सुधि न लू तब तक वहीं रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस

स्थान में फिर रख दूंगा, यहोवा की यही वारणी है ॥

२८ फिर उसी वर्ष, अर्थात् यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के पांचवें महीने में, अज्जूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता था, उस ने मुझ से यहोवा के भवन में, याजकों और सब लोगों के साम्हने कहा, २ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं ने बाबुल के राजा के जूए को तोड़ डाला है। ३ यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं दो वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। ४ और मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल को गए हैं, उनको भी इस स्थान में लौटा ले आऊंगा; क्योंकि मैं ने बाबुल के राजा के जूए को तोड़ दिया है, यहोवा की यही वारणी है ॥

५ तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से, याजकों और उन सब लोगों के साम्हने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, ६ आमीन ! यहोवा ऐसा ही करे; जो बातें तू ने भविष्यद्वाराणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। ७ तौमी मेरा यह वचन सुन, जो मैं तुम्हें और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। ८ जो भविष्यद्वक्ता प्राचीनकाल से मेरे और तेरे पहिले होते आए थे, उन्होंने ने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यद्वाराणी की

धी । ६ परन्तु जो भविष्यद्वक्ता कुशल के विषय भविष्यद्वाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यद्वक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है ॥

१० तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जूए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था, उतारकर तोड़ दिया । ११ और हनन्याह ने सब लोगों के साम्हने कहा, यहोवा यों कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे दो वर्ष के भीतर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के जूए को सब जातियों की गर्दन पर से उतारकर तोड़ दूंगा । तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया ॥

१२ जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जूआ उतारकर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा : १३ जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यों कहता है कि तू ने काठ का जूआ तो तोड़ दिया, परन्तु ऐसा करके तू ने उसकी सन्ती लोहे का जूआ बना लिया है । १४ क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जूआ रखता हूँ और वे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के आधीन रहेंगे, और इनको उसके आधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीवजन्तु भी मैं उसके बश में कर देता हूँ । १५ और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तू ने इन लोगों को भूठी आशा दिलाई है । १६ इसलिये यहोवा तुझ से यों कहता है, कि देख, मैं तुझ को पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू

मरेगा; क्योंकि तू ने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं । १७ इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के सातवें महीने में मर गया ॥

२९ उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री, उन पुरनियों और भविष्यद्वक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंधुओं में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था । २ यह पत्री उस समय भेजी गई, जब यकोन्याह राजा और राजमाता, खोजे, यहूदा और यरूशलेम के हाकिम, लोहार और अन्य कारीगर यरूशलेम से चले गए थे । ३ यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमर्याह के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को भेजा । ४ उस में लिखा था कि जितने लोगों को मैं ने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल में पहुंचवा दिया है, उन सभी से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है : ५ घर बनाकर उन में बस जाओ; बारियां लगाकर उनके फल खाओ । ६ ब्याह करके बेटे-बेटियां जन्माओ; और अपने बेटों के लिये स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे-बेटियां जन्माएं; और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ । ७ परन्तु जिस नगर में मैं ने तुम को बंधुआ कराके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो, और उसके हित के लिये यहोवा से प्रार्थना किया करो । क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे । ८ क्योंकि

इस्लाम का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहनेवाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुम को बहकाने न पाएं, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, ६ क्योंकि वे मेरे नाम से तुम को भूठी भविष्यद्वक्ता सुनाते हैं; मैं ने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है ॥

१० यहोवा यों कहता है कि बाबुल के सत्तर वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना यह मनभावना बचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। ११ क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अन्त में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा *। १२ तब उस समय तुम मुझ को पुकारोगे और आकर मुझ से प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। १३ तुम मुझे ढूँढोगे और पाओगे भी; क्योंकि तुम अपने सम्पूर्ण मन से मेरे पास आओगे। १४ मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा; और तुम को उन सब जातियों और स्थानों में से जिन में मैं ने तुम को बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैं ने तुम्हें बंधुआ करवाके निकाल दिया था, यहोवा की यही वाणी है ॥

१५ तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिये बाबुल में भविष्यद्वक्ता प्रगट

* मूल में—तुम्हें अन्त कल और आशा देने को।

किए है। १६ परन्तु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है, और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात् तुम्हारे जो भाई तुम्हारे सग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है, १७ सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा, और मरी फैलाऊंगा; और उन्हें ऐसे घिनौने अजीबों के समान करूंगा जो निकम्मे होने के कारणे खाए नहीं जाते। १८ मैं तलवार, महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे, और उन सब जातियों में जिन के बीच मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे, और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। १९ क्योंकि जो बचन मैं ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके * कहला भेजे है, उनको उन्होंने ने नहीं सुना, यहोवा की यही वाणी है ॥

२० इसलिये हे सारे बंधुओ, जिन्हें मैं ने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका यह बचन सुनो : २१ कोलायाह का पुत्र अहाब आर मासेयाह का पुत्र सिदकिय्याह जो मेरे नाम से तुम को भूठी भविष्यद्वक्ता सुनाते हैं, उनके विषय इस्लाम का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि सुनो, मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा, और वह उनको तुम्हारे साम्हने मार डालेगा। २२ और सब यहूदी बंधुए

* मूल में—सबके उठके।

जो बाबुल में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे : यहोवा तुम्हें सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भून डाला, २३ क्योंकि उन्होंने ने इस्राएलियों में मूढ़ता के काम किए, अर्थात् अपने पड़ोसियों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे वाम से झूठे वचन कहे। इसका जानने-वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की यही वारणी है ॥

२४ और नेहेलामी शमायाह से तू यह कह, कि, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यों कहा है, २५ इसलिये कि तू ने यरूशलेम के सब रहनेवालों और सब याजकों को और यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी, २६ कि, यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर तुम्हें याजक ठहरा दिया ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाल होकर जितने वहाँ पागलपन करते और भविष्यद्वक्ता बन बैठे हैं उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। २७ सो यिर्मयाह अनातोती जो तुम्हारा भविष्यद्वक्ता बन बैठा है, उसको तू ने क्यों नहीं घुड़का? २८ उस ने तो हम लोगों के पास बाबुल में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, सो घर बनाकर उन में रहो, और बारियां लगाकर उनके फल खाओ। २९ यह पत्री सपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पढ़ सुनाई। ३० तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा कि सब बंधुओं के पास यह कहला भेज, ३१ यहोवा नेहेलामी शमायाह के विषय यों कहता है कि शमायाह ने मेरे बिना भेजे तुम

से जो भविष्यद्वाणी की और तुम को झूठ पर भरोसा दिलाया है, ३२ इसलिये यहोवा यों कहता है, कि सुनो, मैं उस नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को दण्ड दिया चाहता हूँ; उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। ३३ और जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करनेवाला हूँ, उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उस ने यहोवा से फिर जाने की बातें कही हैं, यहोवा की यही वारणी है ॥

३० यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा वह यह है : २ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुम्ह से यों कहता है, जो वचन में ने तुम्ह से कहे हैं उन सभी को पुस्तक में लिख ले। ३ क्योंकि यहोवा की यह वारणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा; और जो देश में ने उनके पितरों को दिया था उस में उन्हें फेर ले आऊंगा, और वे फिर उसके अधिकारी होंगे, यहोवा का यही वचन है ॥

४ जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय कहे थे, वे ये हैं : ५ यहोवा यों कहता है : थरथरा देनेवाला शब्द सुनाई दे रहा है, शान्ति नहीं, भय ही का है। ६ पूछो तो भला, और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीडा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं? क्यों सब के मुख फीके रंग के हो गए हैं? ७ हाय, हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा! उसके

समान और कोई दिन नहीं; वह याकूब के सकट का समय होगा; परन्तु वह उस से भी छुड़ाया जाएगा। ८ और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, कि उस दिन में उसका रखा हुआ जूआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा, और तुम्हारे बन्धनों को टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा; और परदेशी फिर उन से अपनी सेवा न कराने पाएंगे। ९ परन्तु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिये ठहराऊंगा ॥

१० इसलिये हे मेरे दास याकूब, तेरे लिये यहोवा की यह वाणी है, मत डर, हे इस्राएल, विस्मित न हो; क्योंकि मैं दूर देश से तुम्हें और तेरे बश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर, चैन और सुख से रहेगा, और कोई उमको डराने न पाएगा। ११ क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारा उद्धार करने के लिये मैं तुम्हारे सग हू, इसलिये मैं उन सब जातियों का अन्त कर डालूंगा, जिन में मैं ने उन्हें तितर-बितर किया है, परन्तु तुम्हारा अन्त न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा, और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा ॥

१२ यहोवा यो कहता है तेरे दुःख की कोई औषध नहीं, और तेरी चोट गहिरी और दुःखप्रद है। १३ तेरा मुकद्दमा लडने के लिये कोई नहीं, तेरा धाव बान्धने के लिये न पट्टी, न मलहम है। १४ तेरे सब मित्र तुम्हें भूल गए; वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते; क्योंकि तेरे बड़े अघर्म और भारी पापों के कारण, मैं ने शत्रु बनकर तुम्हें मारा है; मैं ने क्रूर बनकर

ताड़ना दी है। १५ तू अपने धाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अघर्म और भारी पापों के कारण मैं ने तुम्हें से ऐसा व्यवहार किया है। १६ परन्तु जितने तुम्हें अब खाए लेते हैं, वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे; और तेरे लूटनेवाले आप लुटेरे और जितने तेरा धन छीनते हैं, उनका धन मैं छिनवाऊंगा। १७ मैं तेरा इलाज करके तेरे धावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पडा है: वह तो सिथ्योन है, उसकी चिन्ता कौन करता है?

१८ यहोवा कहता है: मैं याकूब के तम्बू को बंधुआई से लौटाता हू और उसके धरो पर दया करूंगा; और नगर अपने ही खण्डहर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहिले के अनुसार फिर बन जाएगा। १९ तब उन में से धन्य कहने, और आनन्द करने का शब्द सुनाई पडेगा। २० मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा, और वे थोड़े न होंगे। उनके लड़केवाले प्राचीन-काल के समान होंगे, और उनकी मण्डली मेरे साम्हने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अन्धेर करते हैं उनको मैं दण्ड दूंगा। २१ उनका महापुरुष उन्ही में से होगा, और जो उन पर प्रभुता करेगा, वह उन्ही में से उत्पन्न होगा, मैं उसे अपने निकट बुलाऊंगा, और वह मेरे समीप आ भी जाएगा, क्योंकि कौन है जो अपने आप मेरे समीप आ सकता है? यहोवा की यही वाणी है। २२ उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा ॥

२३ देखो, यहोवा की जलजलाहट की आँधी चल रही है! वह अति प्रचण्ड आँधी है; दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी। २४ जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शान्त न होगा*। अन्त के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे ॥

३१ उन दिनों में मे सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। २ यहोवा यो कहता है: जैसे प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जगल में अनुग्रह हुआ, मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिये तैयार हुआ † ॥

३ यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है। मैं तुम्हें सदा प्रेम रखता आया हूँ; इस कारण मैं ने तुम्हें पर अपनी करुणा बनाए रखी है। ४ हे इस्राएली कुमारी कन्या! मैं तुम्हें फिर बसाऊंगा; बहा तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी, और आनन्द करनेवालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। ५ तू शोमरोन के पहाड़ों पर अगूर की बारियाँ फिर लगाएगी; और जो उन्हें लगाएंगे, वे उनके फल भी खाने पाएंगे ‡। ६ क्योंकि ऐसा दिन आएगा, जिस में एप्रैम के पहाड़ी देश के पहलूए पुकारेंगे: उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चले ॥

७ क्योंकि यहोवा यों कहता है: याकूब के कारण आनन्द से जयजयकार

* मूल में—न फिरेंगा।

† मूल में—चलूंगा।

‡ मूल में—साधारण भी ठहराये।

करो: जातियों में जो श्रेष्ठ हैं उसके लिये ऊँचे शब्द से स्तुति करो, और कहो, हे यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बच्चे हुए लोगों का भी उद्धार कर। ८ देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा, और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठे करूंगा; और उनके बीच अन्धे, लंगड़े, गर्भवती, और अज्ञा स्त्रियाँ भी आएंगी; एक बड़ी मण्डली यहां लौट आएगी। ९ वे आसू बहाते हुए आएंगे और गिडगिडाते हुए मेरे द्वारा पट्टुचाए जाएंगे, मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा, जिस से वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ, और एप्रैम मेरा जेठा है ॥

१० हे जाति जाति के लोगो, यहोवा का वचन सुनो, और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो; कहो, कि जिस ने इस्राएलियों को तितर-बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा, और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने भ्रुण्ड की करता है। ११ क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया, और उस शत्रु के पंजे से जो उस से अधिक बलवन्त है, उसे छुटकारा दिया है। १२ इसलिये वे सिय्योन की चोटी पर आकर जयजयकार करेंगे, और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़-बकरियाँ और गाय-बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिये ताता बान्धकर* चलेंगे; और उनका प्राण सीची हुई बारी के समान होगा, और वे फिर कभी उदास न होंगे। १३ उस समय उनकी कुमारियाँ नाचती

* मूल में—महानद की नाई बहेंगे।

हुई हर्ष करेगी, और जवान और बूढ़े एक संग आनन्द करेगे । क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनन्दित करूंगा, मैं उन्हें शान्ति दूंगा, और दुःख के बदले आनन्द दूंगा । १४ मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानो से सन्तुष्ट होगी, यहोवा की यही वाणी है ॥

१५ यहोवा यह भी कहता है : मुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक-कर रोने का शब्द सुनने में आता है । राहल अपने लड़कों के लिये रो रही है; और अपने लड़कों के कारण शान्त नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे ॥

१६ यहोवा यो कहता है : रोने-पीटने और आसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलनेवाला है, और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे । १७ अन्त में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यह वाणी है, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे । १८ निश्चय मैं ने एग्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है कि तू ने मेरी ताड़ना की, और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो, परन्तु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है । १९ भटक जाने के बाद मैं पछताया; और मिलाए जाने के बाद मैं ने छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुह काला हो गया । २० क्या एग्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा डुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है । इसलिये मेरा मन उसके कारण भर आता है; और मैं

निश्चय उस पर दया करूंगा, यहोवा की यही वाणी है ॥

२१ हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी, उमी में खम्भे और झण्डे खड़े कर, और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा । २२ हे भटकनेवाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रगट होगी, अर्थात् नारी पुरुष की सहायता करेगी ॥

२३ इन्नाएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है : जब मैं यहूदी बंधुओं को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब उन में यह आशीर्वाद * फिर दिया जाएगा : हे धर्मभरे वासस्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे ! २४ और यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे † भी उस में इकट्ठे बसेंगे । २५ क्योंकि मैं ने धके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया, और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है ॥

२६ इस पर मैं जाग उठा, और देखा, और मेरी नीन्द मुझे मीठी लगी ॥

२७ देख, यहोवा की यह वाणी है, कि ऐसे दिन आनेवाले हैं जिन में मैं इन्नाएल और यहूदा के घरानों के लड़के-बाले और पशु दानों को बहुत बढ़ाऊंगा ‡ । २८ और जिस प्रकार से मैं सोच सोचकर § उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाश ही करता

* मूल में—वचन ।

† मूल में—धूम धूमकर झुण्ड के चरानेवाले ।

‡ मूल में—घरानों में अनुष्य का बीज और पशु का बीज बोऊंगा ।

§ मूल में—जाग जागकर ।

था, उमी प्रकार से मैं अब सोच सोचकर उनको रोपूंगा और बढाऊंगा, यहोवा की यही वारणी है। २६ उन दिनों में वे फिर न कहेंगे कि पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परन्तु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। ३० क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा ॥

३१ फिर यहोवा की यह भी वारणी है, सुन, ऐसे दिन आनेवाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बान्धूंगा। ३२ वह उस वाचा के समान न होगी जो मैं ने उनके पुरखाओं से उस समय बान्धी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तौभी उन्हों ने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। ३३ परन्तु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बान्धूंगा, वह यह है : मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा; और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेगे, यहोवा की यह वारणी है। ३४ और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि, यहोवा की यह वारणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक, सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे; क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा ॥

३५ जिसने दिन को प्रकाश देने के लिये सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिये चन्द्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम

सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यों कहता है : ३६ यदि ये नियम मेरे साम्हने से टल जाएं तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिये एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा ॥

३७ यहोवा यों भी कहता है, यदि ऊपर से आकाश मापा जाए और नीचे से पृथ्वी की नेव खोद खोदकर पता लगाया जाए, तब ही मैं इस्राएल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण उन से हाथ उठाऊंगा ॥

३८ देख, यहोवा की यह वारणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिन में यह नगर हननेल के गुम्बट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिये बनाया जाएगा। ३९ और मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारेब पहाड़ी तक, और वहा से घूमकर गोआ को पहुँचेगी। ४० और लोथों और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत है, धोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा के लिये पवित्र ठहरेगी। सदा तक वह नगर फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा ॥

३२ यहूदा के राजा सिदकियाह के राज्य के दसवें वर्ष में जो नबूकद-नेस्सर के राज्य का अठारहवां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा। २ उस समय बाबुल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था। ३ क्योंकि यहूदा के

राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया था, कि, तू ऐसी भविष्यद्वाणी क्यों करता है कि यहोवा यों कहता है : देखो, मैं यह नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा; ४ और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा परन्तु वह बाबुल के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा, और वह और बाबुल का राजा आपस में आम्हने-साम्हने बातें करेंगे, और अपनी अपनी आँखों से एक दूसरे को देखेंगे। ५ और वह सिदकिय्याह को बाबुल में ले जाएगा, और जब तक मैं उसकी सुधि न लूँ, तब तक वह वहीं रहेगा, यहोवा की यह वाणी है। चाहे तुम लोग कसदियों से लडो भी, तभी तुम्हारे लडने से कुछ बन न पड़ेगा ॥

६ यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुँचा, ७ देख, शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, सो तेरे पास यह कहने को आने पर है कि मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। ८ सो यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहले के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है; इसलिये तू उसे मोल ले। तब मैं ने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था ॥

९ इसलिये मैं ने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया, और उसका दाम चान्दी के सत्तरह शकेल तौलकर दे दिए।

१० और मैं ने दस्तावेज में दस्ताखत और मुहर हो जाने पर, गवाहों के साम्हने वह चान्दी काटे में तौलकर उसे दे दी। ११ तब मैं ने मोल लेने की दोनो दस्तावेजों जिन में सब शर्तें लिखी हुई थी, और जिन में से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, १२ उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के साम्हने जिन्हो ने दस्तावेज में दस्ताखत किए थे, और उन सब यहूदियों के साम्हने भी जो पहले के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को जो महसेयाह का पोता था, सौंप दिया। १३ तब मैं ने उनके साम्हने बारूक को यह आज्ञा दी १४ कि इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा यों कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहें। १५ क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियाँ फिर बेची और मोल ली जाएगी ॥

१६ जब मैं ने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैं ने यहोवा से यह प्रार्थना की, १७ हे प्रभु यहोवा, तू ने बडे सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है! तेरे लिये कोई काम कठिन नहीं है। १८ तू हजारों पर करुणा करता रहता परन्तु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वश के लोगों को भी देता है, हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, १९ तू बड़ी युक्ति करनेवाला और सामर्थ्य के काम करनेवाला

है; तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चालचलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चालचलन और कर्म का फल भुगताता है। २० तू ने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए, और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच बैसा करता आया है, और इस प्रकार तू ने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। २१ तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा, और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। २२ फिर तू ने यह देश उन्हें दिया जिसके देरने की शपथ तू ने उनके पूर्वजों से खाई थी; जिसमें दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। २३ तौभी उन्होंने तेरी नहीं मानी, और न तेरी व्यवस्था पर चले; वरन जो कुछ तू ने उनको करने की आज्ञा दी थी, उस में से उन्होंने ने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तू ने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। २४ अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिये आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। जो तू ने कहा था वह अब पूरा हुआ है, और तू इसे देखता भी है। २५ तौभी, हे प्रभु यहोवा, तू ने मुझ से कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि कि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है।।

२६ तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ; २७ क्या मेरे लिये

कोई भी काम कठिन है? २८ सो यहोवा यों कहता है, देख, मैं यह नगर कसदियों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ, और वह इसको ले लेगा। २९ जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं, वे आकर इस में आग लगाकर फूँक देगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने ने बाल के लिये धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। ३० क्योंकि इस्राएल और यहूदा, जो काम मुझे बुरा लगता है, वही लड़कपन से करते आए हैं; इस्राएली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझ को रिस ही रिस दिलाते आए हैं, यहोवा की यह वारणी है। ३१ यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भडकने का कारण हुआ है, इसलिये अब मैं इसको अपने साम्हने से इस कारण दूर करूँगा ३२ क्योंकि इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी, सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझ को रिस दिलाते आए हैं। ३३ उन्होंने ने मेरी ओर मुह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है; यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से * सिखाता आया हूँ, तौभी उन्होंने ने मेरी शिक्षा को नहीं माना। ३४ वरन जो भवन मेरा कहलाता है, उस में भी उन्होंने ने अपनी घृणित वस्तुएँ स्थापन करके उसे अशुद्ध किया है। ३५ उन्होंने ने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊँचे ऊँचे स्थान बनाकर अपने बेटे-बेटियों को

* मूल में—तबके उठकर।

मोलक के लिये होम किया, जिसकी आज्ञा में ने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए और जिस से यहूदी लोग पाप में फसे ॥

३६ परन्तु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिसके लिये तुम लोग कहते हो कि वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बाबुल के राजा के वश में पड़ा हुआ है यों कहता है : ३७ देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिन में मैं ने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें बरबस निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा, और निडर करके बसा दूंगा । ३८ और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा । ३९ मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिस से उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो । ४० मैं उन से यह वाचा बान्धूंगा, कि मैं कभी उनका सग* छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा; और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझ से अलग होना न चाहेंगे । ४१ मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा ॥

४२ देख, यहोवा यो कहता है कि जैसे मैं ने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इन से वह सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैं ने दिया है । सो यह

देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो ४३ कि यह उजाड़ हो गया है, इस में न तो मनुष्य रह गए हैं और न पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है, इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे, ४४ और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आस पास, और यहूदा देश के अर्थात् पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्खिन देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे, और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके दिनों को लौटा ले आऊंगा, यहोवा की यही वाणी है ॥

३३

जिस समय यिर्मयाह पहले के आगन में बन्द था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुँचा, २ यहोवा जो पृथ्वी का रचनेवाला है, जो उसको स्थिर करता है*, उसका नाम यहोवा है; वह यह कहता है, ३ मुझ से प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन † बातें बताऊंगा जिन्हे तू अभी नहीं समझता ॥

४ क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिये गिराए जाते हैं कि दमदमो और तलवार के साथ सुभीते से लड़ सके, यो कहता है, ५ कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परन्तु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनकी लोभ उसी स्थान में भर दूंगा; क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैं ने इस नगर से मुख फेर लिया है । ६ देख, मैं इस

* मूल में—गढ़ता ।

† मूल में—कोठों से घिरी ।

* मूल में—पीछा ।

नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा; और उन पर पूरी शान्ति और सच्चाई प्रगट करूंगा। ७ मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा, और उन्हें पहिले की नाई बसाऊंगा। ८ मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं; और उन्हो ने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उन सब को मैं क्षमा करूंगा। ९ क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेगे जो मैं उनके लिये करूंगा और वे सब कल्याण और शान्ति की चर्चा सुनकर जो मैं उन से करूंगा, डरेगे और धरथराएंगे; वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिये हर्षनिवाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे।।

१० यहोवा यों कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड हो गया है, इस में न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात् यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उन में न तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु, ११ इन्ही में हर्ष और आनन्द का शब्द, दुल्हे-दुल्हिन का शब्द, और इस बात के कहनेवालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है, और उसकी करुणा सदा की है! और यहोवा के भवन में धन्यवादबलि लानेवालों का भी शब्द सुनाई देगा; क्योंकि मैं इस देश की दशा पहिले की नाई ज्यों की त्यों कर दूंगा *, यहोवा का यही वचन है।

* मूल में—क्योंकि मैं देश की बंधुआई को लौटा लाऊंगा।

१२ सेनाओं का यहोवा कहता है: सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड है कि इस में न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, इसी में भेड-बकरिया बँटाने-वाले चरवाहे फिर बसेंगे। १३ पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्खिन देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में, और यरूशलेम के आस पास, निदान यहूदा देश के सब नगरों में भेड-बकरिया फिर गिन-गिनकर चराई * जाएगी, यहोवा का यही वचन है।।

१४ यहोवा की यह भी वाणी है, देख, ऐसे दिन आनेवाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैं ने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है, उसे पूरा करूंगा। १५ उन दिनों में और उन समयों में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा; और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। १६ उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा; और उसका नाम यह रखा जाएगा अर्थात् यहोवा हमारी धार्मिकता।।

१७ यहोवा यों कहता है, दाऊद के कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर विराजनेवाले सदैव बने रहेंगे, १८ और लेवीय याजकों के कुलो में प्रतिदिन मेरे लिये होमबलि चढ़ानेवाले और अन्नबलि जलानेवाले और मेलबलि चढ़ानेवाले सदैव बने रहेंगे।।

१९ फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, यहोवा यों कहता है, २० मैं ने दिन और रात के विषय में जो वाचा बान्धी है, जब तुम उसको ऐसा

* मूल में—आगे चलाई।

तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हों, २१ तब ही जो बाचा में ने अपने दास दाऊद के सग बान्धी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजनेवाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी बाचा मेरी सेवा टहल करनेवाले लेवीय याजकों के सग बन्धी रहेगी । २२ जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा ॥

२३ यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, क्या तू ने नहीं देखा २४ कि ये लोग क्या कहते हैं, कि, जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों से उस ने अब हाथ उठाया है ? यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं और कि यह जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है । २५ यहोवा यों कहता है, यदि दिन और रात के विषय मेरी बाचा अटल न रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह जाए, २६ तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा, और इब्राहीम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिये अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न ठहराऊंगा । परन्तु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुभाई से लौटा लाऊंगा ॥

२४ जब बाबुल का राजा नबूकद-नेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वंश में थे, उन सभी के लोगों समेत यरूशलेम और उसके सब गांवों से लड़ रहा था,

तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, २ इस्त्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह, यहोवा यों कहता है, कि देख, मैं इस नगर को बाबुल के राजा के वंश में कर देने पर हूँ, और वह इसे फुकवा देगा । ३ और तू उसके हाथ से न बचेगा, निश्चय पकड़ा जाएगा और उसके वंश में कर दिया जाएगा; और तेरी भ्रांखे बाबुल के राजा को देखेगी, और तुम आम्हने-आम्हने बाते करोगे; और तू बाबुल को जाएगा । ४ तीभी हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा का यह भी वचन मुन जिसे यहोवा तेरे विषय में कहता है, कि तू तलवार से मारा न जाएगा । ५ तू शान्ति के साथ मरेगा । और जैसा तेरे पितरों के लिये अर्थात् जो तुझ से पहिले राजा थे, उनके लिये सुगन्ध द्रव्य जलाया गया, वैसा ही तेरे लिये भी जलाया जाएगा; और लोग यह कहकर, हाय मेरे प्रभु ! तेरे लिये छाती पीटेंगे, यहोवा की यही वाणी है ॥

६ ये सब वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यरूशलेम में उस समय कहे, ७ जब बाबुल के राजा की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच गए थे, उन से अर्थात् लाकीश और अजेका से लड़ रही थी; क्योंकि यहूदा के जो गढ़वाले नगर थे उन में से केवल वे ही रह गए थे ॥

८ यहोवा का वह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह बाचा बन्धाई कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए, ९ कि सब लोग अपने अपने दास-दासी को जो इसी

या इत्तिन हों स्वाधीन करके जाने दें, पीर कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा न कराए। १० तब सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास-दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उन से अपनी सेवा न कराएंगे; सो उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया। ११ परन्तु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास-दासियों को उन्होंने ने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। १२ तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, १३ इलाएल का परमेश्वर यहोवा तुम से यों कहता है, जिस समय में तुम्हारे पितरों को दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल ले आया, उस समय मैं ने आप उन से यह कहकर वाचा बान्धी १४ कि तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उसको तुम सातवें बरस में छोड़ देना; छः बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे परन्तु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना। परन्तु तुम्हारे पितरों ने मेरी न सुनी, न मेरी ओर कान लगाया। १५ तुम अभी फिर तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार कराके जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुम ने किया भी था, और जो भवन मेरा कहलाता है उस में मेरे साम्हने वाचा भी बान्धी थी; १६ पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से प्रशुद्ध किया कि जिन दास-दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुम ने फिर अपने वश में कर लिया है, और वे फिर तुम्हारे दास-

दासियां बन गए हैं। १७ इस कारण यहोवा यों कहता है कि तुम ने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, सो यहोवा का यह वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे; और मैं ऐसा करूँगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। १८ और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे साम्हने और बछड़े को दो भाग करके उसके दोनों भागों के बीच होकर किया परन्तु उसे पूरा न किया, १९ अर्थात् यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच होकर गए थे, २० उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात् उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूँगा और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगी। २१ और मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों अर्थात् बाबुल के राजा की सेना के वश में कर दूँगा जो तुम्हारे साम्हने से चली गई है। २२ यहोवा का यह वचन है कि देखो, मैं उनको आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले आऊँगा और वे लड़कर इसे ले लेंगे और फूट देंगे; और यहूदा के नगरों को मैं ऐसा उजाड़ दूँगा कि कोई उन में न रहेगा ॥

३५ योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के

पास पहुंचा : २ रेकाबियों के घराने के पास जाकर उन से बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाखमधु पिला । ३ तब मैं ने याजन्याह को जो हबस्सिन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था, और उसके भाइयों और सब पुत्रों को, निदान रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया । ४ और मैं उनको परमेश्वर के भवन में, यिग्दल्याह के पुत्र हानान, जो परमेश्वर का एक जन था, उसकी कोठरी में ले आया जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाने भासेयाह की कोठरी के ऊपर थी । ५ तब मैं ने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पीओ । ६ उन्होंने ने कहा, हम दाखमधु न पीएंगे क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था हम को यह आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाखमधु न पीना; न तुम, न तुम्हारे पुत्र । ७ न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना; परन्तु जीवन भर तम्बुओं ही में रहना जिस से जिस देश में तुम परदेशी हो, उस में बहुत दिन तक जीते रहो । ८ इसलिये हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर, उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, न हम और न हमारी स्त्रियां वा पुत्र-पुत्रियां कभी दाखमधु पीती हैं, ९ और न हम घर बनाकर उन में रहते हैं । हम न दाख की बारी, न खेत, और न बीज रखते हैं; १० हम तम्बुओं ही में रहा करते हैं, और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के

अनुसार काम करते हैं । ११ परन्तु जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हम ने कहा, चलो, कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाएं । इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं ॥

१२ तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा । १३ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे ? १४ देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु न पीना सो तो मानी गई है यहां तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं; पर यद्यपि मैं तुम से बड़े यत्न से कहता आया हूं, तौमी तुम ने मेरी नहीं सुनी । १५ मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके * यह कहने को भेजता आया हूं कि अपनी बुरी चाल से फिरो, और अपने काम सुधारो, और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो तब तुम इस देश में जो मैं ने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम को भी दिया है, बसने पाओगे । पर तुम ने मेरी और कान नहीं लगाया न मेरी सुनी है । १६ देखो रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया पर तुम ने मेरी नहीं सुनी । १७ इसलिये सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इस्राएल

* मूल में—तबके उठकर ।

का परमेश्वर है, यों कहता है कि देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैं ने चर्चा की है वह उन पर भ्रब डालता हूँ; क्योंकि मैं ने उनको सुनाया पर उन्होंने ने नहीं सुना, मैं ने उनको बुलाया पर उन्होंने ने उत्तर न दिया ॥

१८ और रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इस्त्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता है, इसलिये कि तुम ने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उस ने कहा उसके अनुसार काम किया है, १९ इसलिये इस्त्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वश मे सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे ॥

३६ फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, २ एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैं ने तुम्ह से योशिय्याह के दिनों से लेकर अर्थात् जब मैं तुम्ह से बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्त्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सब को उस मे लिख । ३ क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूँ । ४ सो यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया, और बारूक

ने यहोवा के सब वचन जो उस ने यिर्मयाह से कहे थे, उसके मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए । ५ फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बन्धा हुआ हूँ, मैं यहोवा के भवन मे नहीं जा सकता । ६ सो तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तू ने मुझ से सुनकर लिखे हैं, पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे, उनको भी पढ़कर सुनाना । ७ क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे; क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भडकाने को कहा है, वह बडी है । ८ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने, यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए ॥

९ और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के पाँचवें बरस के नौवें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे, और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने ने यहोवा के साम्हने उपवास करने का प्रचार किया । १० तब बारूक ने यहोवा के भवन मे सब लोगों को शापान के पुत्र गमर्याह जो प्रधान था, उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नये फाटक के पास थी, यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए ॥

११ तब शापान के पुत्र गमर्याह के बेटे मीकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने । १२ और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया, और क्या देखा कि वहाँ एलीशामा प्रधान और

शामायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह और सब हाकिम बैठे हुए हैं। १३ और मीकायाह ने जितने वचन उस समय सुने, जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ सुनाए थे, वे सब वर्णन किए। १४ उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को जो नतन्याह का पुत्र और शोलेम्याह का पोता और कूशी का परपोता था, बारूक के पास यह कहने को भेजा, कि जिस पुस्तक में से तू ने सब लोगों को पढ़ सुनाया है, उसे अपने हाथ में लेता आ। सो नेरिव्याह का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए हुए उनके पास आया। १५ तब उन्होंने ने उस से कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। १६ जब वे उन सब वचनों को सुन चुके, तब धरधराते हुए एक दूसरे को देखने लगे; और उन्होंने ने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। १७ फिर उन्होंने ने बारूक से कहा, हम से कह, क्या तू ने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? १८ बारूक ने उन से कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। १९ तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा, तू अपने आपको और यिर्मयाह को छिपा, और कोई न जानने पाए कि तुम कहां हो। २० तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए; और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। २१ तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिये भेजा, उस ने उसे एलीशामा

प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आस पास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। २२ राजा शीतकाल के भवन में बंठा हुआ था, क्योंकि नौवा महीना था और उसके साम्हने अंगीठी जल रही थी। २३ जब यहूदी तीन चार पृष्ठ पढ़ चुका, तब उस ने उसे चाकू से काटा और जो भाग अंगीठी में थी उस में फेंक दिया; सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। २४ परन्तु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात् न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया, जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। २५ एलनातान, और दलायाह, और गमर्याह ने तो राजा से बिनती भी की थी कि पुस्तक को न जलाए, परन्तु उस ने उनकी एक न सुनी। २६ और राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अञ्जीएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शोलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पकड़ लें, परन्तु यहोवा ने उनको छिपा रखा ॥

२७ जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर लिखी थी, जला दिया, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि २८ फिर एक और पुस्तक लेकर उस में यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहिली पुस्तक के सब वचन लिख दे। २९ और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कह कि यहोवा यों कहता है, तू ने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तू ने उस में यह क्यों लिखा है कि बाबुल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा,

और उस में न तो मनुष्य को छोड़ेगा और न पशु को। ३० इसलिये यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यों कहता है, कि उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा; और उसकी लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। ३१ और मैं उसको और उसके बंश और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दण्ड दूंगा; और जितनी विपत्ति मैं ने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है, और जिसको उन्होंने ने सच नही माना, उन सब को मैं उन पर डालूंगा। ३२ तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने भ्राग में जला दी थी, उस में के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर उस में लिख दिए; और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गईं।।

३७ और यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। २ परन्तु न तो उस ने, न उसके कर्मचारियों ने, और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उस ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था।।

३ सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास यह कहला भेजा, कि, हमारे निमित्त

हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। ४ उस समय यिर्मयाह बन्दीगृह में न डाला गया था, और लोगों के बीच आया जाया करता था। ५ उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिये मिस्र से निकली; तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। ६ तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, ७ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुम को प्रार्थना करने के लिये मेरे पास भेजा है, उस से यों कहो, कि देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिये निकली है वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। ८ और कसदी फिर वापिस आकर इस नगर से लडेंगे; वे इसको ले लेंगे और फूंक देगे। ९ यहोवा यो कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खानो कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं; क्योंकि वे नहीं चले गए। १० क्योंकि यदि तुम ने कसदियों की सारी सेना को जो तुम से लड़ती है, ऐसा मार भी लिया होता कि उन में से केवल घायल लोग रह जाते, तोभी वे अपने अपने तम्बू में से उठकर इस नगर को फूंक देते।।

११ जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास से कूच कर गई, १२ तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिये जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना भ्रंश ले। १३ जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब यिरिय्याह नामक पहरेवा का एक सरदार वहां था जो शेलेम्याह का

पुत्र और हनन्याह का पोता था, और उस ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास भागा जाता है। १४ तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है; मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परन्तु यिरिव्याह ने उसकी एक न मानी, सो वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। १५ तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया, और योनातान प्रधान के घर में बन्दी बनाकर डलवा दिया; क्योंकि उन्होंने ने उसको साधारण बन्दीगृह बना दिया था।।

१६ यिर्मयाह उस तलघर में जिस में कई एक कोठरियाँ थीं, रहने लगा। १७ उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा, और अपने भवन में उस से छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुँचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ, पहुँचा है। वह यह है, कि तू बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। १८ फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैं ने तेरा, तेरे कर्मचारियों का, व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है, कि तुम लोगों ने मुझ को बन्दीगृह में डलवाया है? १९ तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुम से भविष्यदाणी करके कहा करते थे कि बाबुल का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ हैं? २० अब, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहाँ मर जाऊँगा। २१ तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहले के आंगन में रखा गया, और जब

तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब तक उसको रोटीवालों की दूकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। और यिर्मयाह पहले के आंगन में रहने लगा।।

३८

फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मत्तान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, शेलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्किय्याह के पुत्र पशहूर ने सुना, २ कि, यहोवा यों कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा; परन्तु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। ३ यहोवा यों कहता है, यह नगर बाबुल के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। ४ इसलिये उन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिस से उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। ५ सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है; क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। ६ तब उन्होंने ने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड़हे में जो पहले के आंगन में था, रस्सियों से उतारकर डाल दिया। और उस गड़हे में पानी नहीं केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में घंस गया।।

७ उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था सो जब एबेदमेलेक कूशी ने जो राजभवन में एक खोजा था,

सुना, कि उन्होंने ने यिर्मयाह को गड़हे में डाल दिया है—८ तब एबेदमेलोक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, ९ हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने ने उसको गड़हे में डाल दिया है; वहा वह भूख से मर जाएगा क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। १० तब राजा ने एबेदमेलोक कूशी को यह आज्ञा दी कि यहां से तीस पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहिले गड़हे में से निकाल। ११ सो एबेदमेलोक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भण्डार के तैलघर में गया, और वहा से फटे-पुराने कपडे और चिथडे लेकर यिर्मयाह के पास उस गड़हे में रस्सियों से उतार दिए। १२ और एबेदमेलोक कूशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपडे और चिथडे अपनी कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। सो यिर्मयाह ने वैसा ही किया। १३ तब उन्होंने ने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर, गड़हे में से निकाला। और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा ॥

१४ सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा। और राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुम्ह से एक बात पूछता हू; मुझ से कुछ न छिपा। १५ यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुम्हें बताऊ, तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा? और चाहे मैं तुम्हें सम्मति भी दू, तौभी तू मेरी न मानेगा। १६ तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिस ने हमारा यह जीव रचा है, उसके जीवन

की सीगन्ध न मैं तो तुम्हें मरवा डालूंगा, और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी हैं ॥

१७ यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्लाम का परमेश्वर है, वह यो कहता है, यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण बचेगा, और यह नगर फूका न जाएगा, और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। १८ परन्तु, यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए, तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा, और वे इसे फूक देगे, और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। १९ सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उन से डरता हू, ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊ और वे मुझ से ठट्टा करे। २० यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा; जो कुछ मैं तुम्ह से कहता हू उसे यहोवा की बात समझकर मान ले तब तेरा भला होगा, और तेरा प्राण बचेगा। २१ और यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है, वह यह है : २२ देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं, वे बाबुल के राजा के हाकिमों के पास निकाल कर पहुंचाई जाएंगी, और वे तुम्ह से कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुम्हें बहकाया, और उनकी इच्छा पूरी हो गई; और जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वे पीछे फिर गए हैं ॥

२३ तेरी सब स्त्रियां और लड़केवाले कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए

जाएंगे; और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, वरन तू पकड़कर बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फूके जाने का कारण तू ही होगा ॥

२४ तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए, तो तू मारा न जाएगा। २५ यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैं ने तुझ से बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगें, हमें बता कि तू ने राजा से क्या कहा, हम से कोई बात न छिपा, और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता, कि राजा ने तुझ से क्या कहा, २६ तो तू उन से कहना, कि मैं ने राजा से गिडगिडाकर बिनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापिस न भेज नही तो वहां मर जाऊंगा। २७ फिर सब हाकिमों ने यिर्मयाह के पास आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी, ठीक वैसा ही उस ने उनको उत्तर दिया। सो वे उस से और कुछ न बोले और न वह भेद खुला। २८ इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आगन ही में रहा ॥

३६ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के नौवें वर्ष के दसवें महीने में, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढाई करके उसे घेर लिया। २ और सिदकिय्याह के राज्य के ग्यारहवें वर्ष के चौथे महीने के नौवें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। ३ सो जब यरूशलेम ले लिया गया, तब नेगलसरेसेर, और समगनबो, और खोजों

का प्रधान सर्सकीम, और मगों का प्रधान नेगलसरेसेर आदि, बाबुल के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। ४ जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखा तब रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों भीतों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकलकर भाग चले और अराबा का मार्ग लिया। ५ परन्तु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गए, और उस ने वहां उसके दरगह की आज्ञा दी। ६ तब बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के साम्हने रिबला में घात किया, और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। ७ उस ने सिदकिय्याह की आंखों को फुडवा डाला और उसको बाबुल ले जाने के लिये बेडियों से जकड़वा रखा। ८ कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूक दिया, और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया। ९ तब जल्लादों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुएओं को जो नगर में रह गए थे, और जो लोग उसके पास भाग आए थे उनका अर्थात् प्रजा में से जितने रह गए उन सब को बंधुआ करके बाबुल को ले गया। १० परन्तु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था, उनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया, और जाते समय उनको दाख की बारिया और खेत दे दिए ॥

११ बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मयाह

के विषय में यह आज्ञा दी, १२ कि उसको लेकर उस पर कृपादृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना; जैसा वह तुम्ह से कहे वैसे ही उस से व्यवहार करना । १३ सो जल्लादों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूसजबान और मगों के प्रधान नेगंसरेमेर ज्योतिषियों के सरदार, १४ और बाबुल के राजा के सब प्रधानों ने, लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के भ्रांगन में से बुलवा लिया और गदल्याह को जो भ्रहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया कि वह उसे घर पहुंचाए । तब से वह लोगों के साथ रहने लगा ॥

१५ जब यिर्मयाह पहरे के भ्रांगन में कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, १६ कि, जाकर एबेदमेलेक कूशी से कह कि इलाएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुम्ह से यो कहता है, देख, मैं अपने वे वचन जो मैं ने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुम्हें दिखाई पड़ेगा । १७ परन्तु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय में तुम्हें बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है, तू उनके बश में नहीं किया जाएगा । १८ क्योंकि मैं तुम्हें निश्चय बचाऊंगा, और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा, यहोवा की यह वाणी है । यह इस कारण होगा, कि तू ने मुझ पर भरोसा रखा है ॥

४० जब जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंधुओं के बीच हथकड़ियों से बन्धा हुआ पाकर

जो बाबुल जाने को थे छोड़ा लिया, उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा । २ जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया, और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी । ३ और जैसा यहोवा ने कहा था वैसे ही उस ने पूरा भी किया है । तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह वशा हुई है । ४ अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूँ, और यदि मेरे संग बाबुल में जाना तुम्हें अच्छा लगे तो चल, वहां मैं तुम्हें कृपादृष्टि रखूंगा; और यदि मेरे संग बाबुल जाना तुम्हें न आए, तो यहीं रह जा । देख, सारा देश तेरे साम्हने पड़ा है, जिधर जाना तुम्हें अच्छा और ठीक जंचे उधर ही चला जा । ५ वह वहीं था कि नबूजरदान ने फिर उस से कहा, गदल्याह जो भ्रहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है, जिसको बाबुल के राजा ने यहूदा के नगरों पर अधिकारी ठहराया है, उसके पास लौट जा और उसके संग लोगों के बीच रह, वा जहां कही तुम्हें जाना ठीक जान पड़े वहीं चला जा । सो जल्लादों के प्रधान ने उसको सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर बिदा किया । ६ तब यिर्मयाह भ्रहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास मिस्रा को गया, और वहां उन लोगों के बीच जो देश में रह गए थे, रहने लगा ॥

७ योद्धाओं के जो दल दिहात में थे, जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बाबुल के राजा ने भ्रहीकाम के पुत्र गदल्याह को देश का अधिकारी

ठहराया है, और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बाबुल को नहीं ले गया, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालबच्चे, उन सभी को उसे सौंप दिया है, ८ तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल, कारेह के पुत्र योहानान, योनातान और तन्हूसेत का पुत्र सरायाह, एष नतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजव्याह अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्र में आए। ९ और गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, उस ने उन से और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के आधीन रहने से मत डरो। इसी देश में रहते हुए बाबुल के राजा के आधीन रहो तब तुम्हारा भला होगा। १० मैं तो इसीलिये मिस्र में रहता हूँ कि जो कसदी लोग हमारे यहां आए, उनके साम्हने हाजिर हुआ करू; परन्तु तुम दाखमधु और धूपकाल के फल और तेल को बटोरके अपने बरतनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो। ११ फिर जब मोआबियों, अम्मोनियों, एदोमियों और अन्य सब जातियों के बीच रहनेवाले सब यहूदियों ने सुना कि बाबुल के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है अधिकारी नियुक्त किया है, १२ तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तितर-बितर हो गए थे, वहां से लौटकर यहूदा देश के मिस्र नगर में गदल्याह के पास आए, और बहुत दाखमधु और धूपकाल के फल बटोरने लगे ॥

१३ तब कारेह का पुत्र योहानान और मैदान में रहनेवाले योद्धानों के सब दलों के प्रधान मिस्र में गदल्याह के पास आकर

कहने लगे, क्या तू जानता है १४ कि अम्मोनियों के राजा बालीस ने नतन्याह के पुत्र इश्माएल को तुम्हें जान से मारने के लिये भेजा है? परन्तु अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति न की। १५ फिर कारेह के पुत्र योहानान ने गदल्याह से मिस्र में छिपकर कहा, मुझे जाकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल को मार डालने दे और कोई इसे न जानेगा। वह क्यों तुम्हें मार डाले, और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठे हुए हैं वे क्यों तितर-बितर हो जाएं और बचे हुए यहूदी क्यों नाश हों? १६ अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने कारेह के पुत्र योहानान से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्माएल के विषय में भूठ बोलता है ॥

४१ और सातवें महीने में ऐसा हुआ कि इश्माएल जो नतन्याह का पुत्र और एलीशामा का पोता और राजवश का और राजा के प्रधान पुरुषों में से था, सो दस जन संग लेकर मिस्र में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया। वहां मिस्र में उन्होंने ने एक सग भोजन किया। २ तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल और उसके सग के दस जनों ने उठकर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, और जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। ३ और इश्माएल ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्र में थे, और जो कसदी योद्धा वहां मिले, उन सभी को मार डाला ॥

४ गदल्याह के मार डालने के दूसरे दिन जब कोई इसे न जानता था, ५ तब

शकेम और शीलो और शोमरोन से अस्सी पुरुष डाढ़ी मुड़ाए, वस्त्र फाड़े, शरीर चीरे हुए और हाथ में अन्नबलि और लोबान लिए हुए, यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। ६ तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल उन से मिलने को मिस्रा से निकला, और रोता हुआ चला। जब वह उन से मिला, तब कहा, अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। ७ जब वे उस नगर में आए तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने अपने सगी जनों समेत उनको घात करके गडहे में फेंक दिया। ८ परन्तु उन में से दस मनुष्य इश्माएल से कहने लगे, हम को न मार, क्योंकि हमारे पाम मैदान में रखा हुआ गेहूँ, जव, तेल और मधु है। सो उस ने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाइयों के साथ नहीं मारा ॥

९ जिम गडहे में इश्माएल ने उन लोगो की सब लोथे जिन्हे उस ने मारा था, गदल्याह की लोथ के पास फेंक दी थी, (यह वही गडहा है जिसे आसा राजा ने इस्राएल के राजा बाशा के डर के मारे खुदवाया था), उसको नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मारे हुआ से भर दिया। १० तब जो लोग मिस्रा में बचे हुए थे, अर्थात् राजकुमारियां और जितने और लोग मिस्रा में रह गए थे जिन्हे जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को सौंप दिया था, उन सभी को नतन्याह का पुत्र इश्माएल बंधुआ करके अम्मोनियो के पास ले जाने को चला ॥

११ जब कारेह के पुत्र योहानान ने और योद्धाओं के दलों के उन सब प्रधानों ने जो उसके संग थे, सुना, कि नतन्याह

के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की है, १२ तब वे सब जनों को लेकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल से लडने को निकले और उसको उस बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। १३ कारेह के पुत्र योहानान को, और दलों के सब प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे, इश्माएल के साथ जो लोग थे, वे सब आनन्दित हुए। १४ और जितने लोगों को इश्माएल मिस्रा से बंधुआ करके लिए जाता था, वे पलटकर कारेह के पुत्र योहानान के पास चले आए। १५ परन्तु नतन्याह का पुत्र इश्माएल आठ पुरुष समेत योहानान के हाथ से बचकर अम्मोनियो के पास चला गया। १६ तब प्रजा में से जितने बच गए थे, अर्थात् जिन योद्धाओं, स्त्रियो, बालबच्चों और खोजों को कारेह का पुत्र योहानान, अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्रा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माएल के पास से छुड़ाकर गिबोन से फेर ले आया था, उनको वह अपने सब सगी दलो के प्रधानो समेत लेकर चल दिया। १७ और बेतलेहेम के निकट जो किम्हाम की सराय है, उस में वे इसलिये टिक गए कि मिस्र में जाए। १८ क्योंकि वे कसदियों से डरते थे; इसका कारण यह था कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मार डाला था ॥

४२ तब कारेह का पुत्र योहानान, होशायाह का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक, सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट

आकर कहने लगे, २ हमारी बिनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बच्चे हुआँ के लिये प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी झाँखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे, अब थोड़े ही बच गए हैं । ३ इसलिये प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हम को बताए कि हम किस भाग से चलें, और कौन सा काम करें ? ४ सो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उन से कहा, मैं ने तुम्हारी सुनी है; देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूँगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिये देगा मैं तुम को बताऊँगा; मैं तुम से कोई बात न छिपाऊँगा । ५ तब उन्होंने ने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुँचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास-योग्य साक्षी ठहरे । ६ चाहे वह भली बात हो, चाहे बुरी, तौभी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा, जिसके पास हम तुम्हें भेजते हैं, मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानें, तब हमारा भला हो ।।

७ दस दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा । ८ तब उस ने कारेह के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को, और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे, उन सबों को बुलाकर उन से कहा, ९ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पास तुम ने मुझे इसलिये भेजा कि मैं तुम्हारी बिनती उसके आगे कह सुनाऊँ, वह यों कहता है, १० यदि तुम इसी देश में रह जाओ, तब तो मैं तुम को

नाश नहीं करूँगा बरन बनाए रखूँगा; और तुम्हें न उखाड़ूँगा, बरन रोपे रखूँगा; क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैं ने की है उस से मैं पछताता हूँ । ११ तुम बाबुल के राजा से डरते हो, सो उस से मत डरो; यहोवा की यह वाणी है, उस से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुम को उसके हाथ से बचाने के लिये तुम्हारे साथ हूँ । १२ मैं तुम पर दया करूँगा, कि वह भी तुम पर दया करके तुम को तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा । १३ परन्तु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो, और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वही रहेंगे, १४ क्योंकि वहाँ न हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंघे का शब्द सुनेंगे और न हम को भोजन की घटी होगी, तो, हे बच्चे हुए यहूदियों. यहोवा का यह वचन सुनो : १५ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुह करो, और वहाँ रहने के लिये जाओ, १६ तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो, वही वहाँ मिस्र देश में तुम को जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो, वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी; और वहीं तुम मरोगे । १७ जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिये उसकी ओर मुँह करें, वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूँगा, उस से कोई बचा न रहेगा ।।

१८ इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी

प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ, तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे, और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निन्दा किया करेंगे। तुम इस स्थान को फिर न देखने पाओगे। १६ हे बच्चे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैं ने आज तुम को चिताकर यह बात बता दी है। २० क्योंकि जब तुम ने मुझ को यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करु और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हम को बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जान बूझके अपने ही को धोखा देते थे। २१ देखो, मैं आज तुम को बताएँ देता हूँ, परन्तु, और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम से कहने के लिये मुझ को भेजा है, उस में से तुम कोई बात नहीं मानते। २२ अब तुम निश्चय जानो, कि जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने की इच्छा करते हो, उस में तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे ॥

४३ जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका, जिनके कहने के लिये उस ने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, २ तब होशया के पुत्र अजय्याह और कारेह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू भूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह कहने के लिये नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिये मत जाओ; ३ परन्तु नेरिव्याह का

पुत्र बारूक तुम को हमारे विरुद्ध उसकाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हम को मार डालें वा बंधुआ करके बाबुल को ले जाए। ४ सो कारेह का पुत्र योहानान और दलो के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। ५ और कारेह का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्यजातियों के बीच तितर-बितर हो गए थे, और उन में से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए—६ पुरुष, स्त्री, बालबच्चे, राज-कुमारियाँ, और जितने प्राणियों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और नेरिव्याह के पुत्र बारूक को वे ले गए; ७ और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्हेस नगर तक आ गए ॥

८ तब यहोवा का यह वचन तहपन्हेस में यिर्मयाह के पास पहुँचा : ९ अपने हाथ में बड़े पत्थर ले, और यहूदी पुरुषों के साम्हने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के छिपा दे, १० और उन पुरुषों से कह, कि इस्त्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, यो कहता है, देखो, मैं बाबुल के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूँगा, और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैं ने छिपा रखे हैं, रखेगा; और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। ११ वह आके मिस्र देश को मारेगा, तब जो मरनेवाले हों वे मृत्यु के वश में, जो बंधुए होनेवाले हों वे

बंधुभाई में, और जो तलवार के लिये है वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। १२ में मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा; और वह उन्हें फुंकवा देगा और बंधुभाई में ले जाएगा; और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा, और तब बेखटके चला जाएगा। १३ वह मिस्र देश के सूर्यगृह के खम्भों को तुड़वा डालेगा; और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर फुंकवा देगा ॥

४४

जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्हेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा, २ इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जो विपत्ति में यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, ३ क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिस से उन्होंने ने मुझे रिस दिलाई थी वे जाकर दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। ४ तीभी में अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न से* यह कहने के लिये तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो, जिस से मैं घृणा रखता हूँ। ५ पर उन्होंने ने मेरी न सुनी और न मेरी और कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिये धूप न जलाएं।

* मूल में—तड़के बैठकर।

६ इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क* गई; और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। ७ अब यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यों कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो, कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूधपिउवा बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए जाओ, और कोई न रहे? ८ क्योंकि इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर रहने के लिये आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा, अर्थात् दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो जिस से तुम नाश हो जाओगे और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। ९ जो जी बुराईया तुम्हारे पुरखा, यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां, और तुम्हारी स्त्रियां, वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? १० आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और न वे डरते हैं; और न मेरी उस ब्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैं ने तुम्हारे पूर्वजो को और तुम को भी सुनवाई है। ११ इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, यों कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अन्त कर दूं। १२ और बचे हुए यहूदी जो हठ करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं,

* मूल में—उपडेली।

बे सब मिट जाएंगे* ; इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा भरके मिट जाएंगे; और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे; और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेगे और निन्दा भी करेगे। १३ मो जैसा मैं ने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दण्ड दिया है, वैसा ही मिस्र देश में रहनेवालों को भी दण्ड दूंगा, १४ कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिये आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिये लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तौभी उन में से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा; केवल कुछ ही भागे हुए लोगों को छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा ॥

१५ तब मिस्र देश के पत्रोस में रहनेवाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिये धूप जलाती हैं, और जितनी स्त्रियां बड़ी मण्डली में पास खड़ी थी, उन सभी ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, १६ जो वचन तू ने हम को यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की। १७ जो जो मन्त्रे हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी, हम स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और और हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे; क्योंकि उस समय हम पेट भरके खाते और भले चगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। १८ परन्तु जब से हम ने स्वर्ग की रानी

* मूल में—मैं उन्हें लूंगा और वे सब मिट जावेंगे।

के लिये धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हम को सब वस्तुओं की घटी है; और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। १९ और स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलातीं और चन्द्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थीं ॥

२० तब यिर्मयाह ने, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सब से कहा, २१ तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? २२ क्या उस ने उसको स्मरण न किया? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहा तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है। २३ क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नही सुनते थे, और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नही चले, इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है ॥

२४ फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहनेवाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो: २५ इस्राएल का पर-मेश्वर, सेनाओं का यहोवा, यों कहता है, कि तुम ने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्त्रें मानी* और यह कहकर उन्हें पूरी करते

* मूल में—अपने अपने मुंड से कहा।

हो कि हम ने स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मन्त्रते मानी हैं उन्हें हम भ्रवश्य ही पूरी करेंगे; और तुम ने अपने हाथों से ऐसा ही किया। सो अब तुम अपनी अपनी मन्त्रतों को मानकर पूरी करो! २६ परन्तु हे मिस्र देश में रहनेवाले सारे यहूदियो यहोवा का वचन सुनो : सुनो, मैं ने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा कि "प्रभु यहोवा के जीवन की सौगन्ध"। २७ सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं, हानि ही की चिन्ता* करूंगा; सो मिस्र देश में रहनेवाले सब यहूदी, तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए। २८ और जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे, वे थोड़े ही होंगे; और मिस्र देश में रहने के लिये आए हुए सब यहूदियों में से जो बच पाएंगे, वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा वा उनका। २९ इस बात का मैं यह चिन्ह देता हूं, यहोवा की यह वाणी है, कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दण्ड दूंगा, जिस से तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। ३० यहोवा यों कहता है, देखो, जैसा मैं ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात् उसके प्राण के खोजी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होप्रा को भी उसके शत्रुओं के, अर्थात् उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा ॥

* मूल में—जागता हुआ।

४५ योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से भविष्यद्वाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, २ तब उस ने उस से यह वचन कहा, कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, तुम्ह से यों कहता है, ३ हे बारूक, तू ने कहा, हाय मुझ पर! क्योंकि यहोवा ने मुझे दुःख पर दुःख दिया है* ; मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। ४ तू यों कह, यहोवा यों कहता है, कि देख, इस सारे देश को जिसे मैं ने बनाया था, उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिन को मैं ने रोपा था, उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। ५ इसलिये सुन, क्या तू अपने लिये बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज; क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा; परन्तु जहां कही तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुम्हें जीवित रखूंगा † ॥

४६ अन्यजातियों के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, वह यह है ॥

२ मिस्र के विषय। मिस्र के राजा फिरौन निको की सेना जो परात महानद के तीर पर कर्कमीश में थी, और जिसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में जीत लिया था, ३ उस सेना के विषय :—ढालें और फिरायें

* मेरी पीड़ा पर खेद बढ़ाया है।

† मूल में—तेरे प्राण को छूट समझकर मुझे दूंगा।

तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ ।
 ४ षोड़ों को जुतवाओ; और हे सवारो,
 षोड़ों पर चढ़कर टोप पहिने हुए खड़े
 हो जाओ; भालों को पैना करो, झिलमों
 को पहिन लो ! ५ में क्यों उनको व्याकुल
 देखता हूँ ? वे विस्मित होकर पीछे हट
 गए । उनके शूरवीर गिराए गए और
 उतावली करके भाग गए; वे पीछे देखते
 भी नहीं; क्योंकि यहोवा की यह वाणी
 है, कि चारों ओर भय ही भय है !
 ६ न वेग चलनेवाला भागने पाएगा और
 न वीर बचने पाएगा; क्योंकि उत्तर
 दिशा में परात महानद के तीर पर वे
 सब ठोकर खाकर गिर पड़े ॥

७ यह कौन है, जो नील नदी की
 नाई, जिसका जल महानदों का सा उछलता
 है, बढ़ा चला आता है ? ८ मिस्र नील
 नदी की नाई बढ़ता है, उसका जल
 महानदों का सा उछलता है । वह कहता
 है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं
 नगरों को उनके निवासियों समेत नाश कर
 दूंगा । ९ हे मिस्री सवारो आगे बढ़ो,
 हे रथियो बहुत ही वेग से चलाओ !
 हे ढाल पकड़नेवाले कूशी और पूती वीरो,
 हे धनुर्धारी लूदियो चले आओ ।
 १० क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा
 प्रभु के बदला लेने का दिन होगा जिस
 में वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा ।
 सो तलवार खाकर तृप्त होगी, और
 उनका लोह पीकर छक जाएगी । क्योंकि,
 उत्तर के देश में परात महानद के तीर
 पर, सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है ।
 ११ हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद
 को जाकर बलसान औषधि ले; तू व्यर्थ
 ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं
 होगी ! १२ क्योंकि सब जाति के लोगों

ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी
 तेरी चिल्लाहट से भर गई है; वीर से
 वीर ठोकर खाकर गिर पड़े; वे दोनों
 एक संग गिर गए हैं ॥

१३ यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता
 से यह वचन भी कहा कि बाबुल का राजा
 नबूकदनेस्सर क्योंकि आकर मिस्र देश
 को मार लेगा : १४ मिस्र में बर्गन करो,
 और मिंगदोल में सुनाओ; हा, और नोप
 और तहपन्हेस में सुनाकर यह कहो कि
 खड़े होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि
 तुम्हारे चारों ओर सब कुछ तलवार खा
 गई है । १५ तेरे बलवन्त जन क्यों
 बिलाय गए हैं ? वे इस कारण
 खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा ने उन्हें
 ढकेल दिया । १६ उस ने बहुतों को
 ठोकर खिलाई, वे एक दूसरे पर गिर
 पड़ें, और वे कहने लगे, उठो, चलो,
 हम अन्धे करनेवाले की तलवार के
 डर के मारे अपने अपने लोगो और अपनी
 अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाएं ।
 १७ वहा वे पुकार के कहते हैं, मिस्र का
 राजा फिरौन सत्यानाश हुआ; क्योंकि
 उस ने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया ॥

१८ वह राजाधिराज जिसका नाम
 सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी
 है कि मेरे जीवन की सौगन्ध, जैसा ताबोर
 अन्य पहाड़ों में, और जैसा कर्मल समुद्र
 के किनारे है, वैसा ही वह आएगा ।
 १९ हे मिस्र की रहनेवाली पुत्री ! बंधु-
 आई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि
 नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो
 जाएगा कि उस में कोई भी न रहेगा ॥

२० मिस्र बहुत ही सुन्दर बछिया तो
 है, परन्तु उत्तर दिशा से नाश चला आता
 है, वह आ ही गया है । २१ उसके जो

सिपाही किराये पर आए हैं वह पोसे हुए बछड़ों के समान हैं; उन्हीं ने मुंह मोड़ा, और एक संग भाग गए, वे सडे नहीं रहे; क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दण्ड पाने का समय आ गया ॥

२२ उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटनेवालों की सेना और कुल्हाडिया लिए हुए उसके विरुद्ध चढ आएंगे। २३ यहोवा की यह वारणी है, कि चाहे उसका वन बहुत ही घना हो, परन्तु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिट्टियों से भी अधिक अनगिनत हैं। २४ मिली कन्या लज्जित होगी, वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी ॥

२५ इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा कहता है, देखो, मैं नगरवासी आमोन और फिरौन राजा और मिस्र को उसके सब देवताओं और राजाओं समेत और फिरौन को उन समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दण्ड देने पर हूँ। २६ मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा जो उनके प्राण के खोजी हैं। उसके बाद वह प्राचीनकाल की नाई फिर बसाया जाएगा, यहोवा की यह वारणी है ॥

२७ परन्तु हे मेरे दास याकूब, तू मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो; क्योंकि मैं तुम्हें और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश में छोड़ा ले आऊंगा। याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा, और कोई उसे डराने न पाएगा। २८ हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वारणी है, कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अन्त कर डालूंगा जिन में मैं ने तुम्हें बरबस

निकाल दिया है, तभी तेरा अन्त न करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, परन्तु तुम्हें किसी प्रकार से निर्बोध न ठहराऊंगा ॥

४७ फिरौन के गज्जा नगर को जीत लेने से पहिले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पलिशतियों के विषय यहोवा का यह वचन पढुचा : २ यहोवा यों कहता है कि देखो, उत्तर दिशा में उमएडनेवाली नदी देश को उस सब समेत जो उस में है, और निवासियों समेत नगर को डूबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहनेवाले हाय-हाय करेंगे। ३ शत्रुओं के बलवन्त घोड़ों की टाप, रथों के वेग चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ-पाव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे, कि वह मुह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा। ४ क्योंकि सब पलिशतियों के नाश होने का दिन आता है; और सोर और सिदोन के सब बच्चे हुए सहायक मिट जाएंगे। क्योंकि यहोवा पलिशतियों को जो कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहनेवाले हैं, उनको भी नाश करने पर है। ५ गज्जा के लोग सिर मूड़ाए हैं, अशकलोन जो पलिशतियों के नञ्चान में अकेला रह गया है, वह भी मिटाया गया है; तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा ?

६ हे यहोवा की तलवार ! तू कब तक शान्त न होगी ? तू अपनी मियान में घुस जा, शान्त हो, और थमी रह ! ७ तू क्योंकिर थम सकती है ? क्योंकि यहोवा ने तुम्हें को आज्ञा देकर अशकलोन और समुद्रतीर के विरुद्ध ठहराया है ॥

४८ मोआब के विषय इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है : नबू पर हाय, क्योंकि वह नाश हो गया ! किर्यातम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है; ऊंचा गढ निराश और विस्मित हो गया है । २ मोआब की प्रशंसा जाती रही । हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है : आओ, हम उसको ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रह जाए । हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जाएगा; तलवार तेरे पीछे पड़ेगी ॥

३ होरोनैम से चिल्लाहट का शब्द सुनो ! नाश और बड़े दुःख का शब्द सुनाई देता है ! ४ मोआब का सत्यानाश हो रहा है; उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी । ५ क्योंकि लूहीत की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे; और होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ * है । ६ भागो ! अपना अपना प्राण बचाओ ! उस अधमूए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है ! ७ क्योंकि तू जो अपने कामों और सम्पत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा; और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा । ८ यहोवा के वचन के अनुसार नाश करनेवाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे, और कोई नगर न बचेगा; नीचानवाले और पहाड़ पर की चौरस भूमिवाले दोनों नाश किए जाएंगे ॥

९ मोआब के पंख लगा दो ताकि वह उड़कर दूर हो जाए; क्योंकि उसके नगर

ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उन में कोई भी न बसने पाएगा ॥

१० शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है; और वह भी जो अपनी तलवार लोहू बहाने से रोक रखता है ॥

११ मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बरतन से दूसरे बरतन में उरडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया; इसलिये उसका स्वाद उस में स्थिर है, और उसकी गन्ध ज्यों की त्यों बनी रहती है । १२ इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे, कि मैं लोगों को उसके उरडेलने के लिये भेजूंगा, और वे उसको उरडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है, उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे । १३ तब जैसे इस्राएल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोआबी लोग कमोश से लज्जित होंगे ॥

१४ तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा हैं ? १५ मोआब तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए, राजाधिराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है । १६ मोआब की विपत्ति निकट आ गई, और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है । १७ उसके आस पास के सब रहनेवालो, और उसकी कीर्त्ति के सब जाननेवालो, उसके लिये बिलाप करो; कहो हाय ! वह मजबूत सोंटा और सुन्दर छड़ी कैसे टूट गई है ?

* मूल में—सुना गया ।

१८ हे दीबोन की रहनेवाली * तू अपना विभव छोड़कर प्यासी बंठी रह ! क्योंकि मोआब के नाश करनेवाले ने तुझ पर चढाई करके तेरे दूढ़ गधों को नाश किया है । १९ हे अरोएर की रहनेवाली * तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह ! जो भागता है उस से, और जो बच निकलती है उस से पूछ, कि, क्या हुआ है ? २० मोआब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया; तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ; अर्नों में भी यह बताओ कि मोआब नाश हुआ है ॥

२१ चौरस भूमि के देश में होलोन, २२ यहसा, मेपात, दीबोन, नबो, बेतदिबलातेम, २३ और किर्यातेम, बेतगामूल, बेतमोन, २४ और करिव्योत, बोसा, और क्या दूर क्या निकट, मोआब देश के सारे नगरों में दण्ड की आज्ञा पूरी हुई है । २५ यहोवा की यह वाणी है, मोआब का सींग कट गया, और भुजा टूट गई है ॥

२६ उसको मतवाला करो, क्योंकि उस ने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है; इसलिये मोआब अपनी छांट में लोटगा, और ठट्टों में उड़ाया जाएगा । २७ क्या तू ने भी इस्राएल को ठट्टों में नहीं उड़ाया ? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था ?

२८ हे मोआब के रहनेवाले अपने अपने नगर को छोड़कर ढांग की दरार में बसो ! उस पण्डुकी के समान हो जो गुफा के मुँह की एक ओर घोंसला बनाती हो । २९ हम ने मोआब के गर्ब के

विषय में सुना है कि वह अत्यन्त अभिमानी है; उसका गर्ब, अभिमान और अहंकार, और उसका मन फूलना प्रतिष्ठ है । ३० यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोष को भी जानता हूँ कि वह व्यर्थ ही है, उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा । ३१ इस कारण मैं मोआबियों के लिये हाय-हाय करूँगा; हाँ मैं सारे मोआबियों के लिये चिल्लाऊँगा; कीर्हेस के लोगों के लिये विलाप किया जाएगा । ३२ हे सिबमा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिये याजेर से भी अधिक विलाप करूँगा ! तेरी डालियाँ तो ताल के पार बढ गईं, वरन याजेर के ताल तक भी पहुंची थी; पर नाश करनेवाला तेरे घूपकाल के फलों पर, और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है । ३३ फलवाली बारियों से और मोआब के देश से आनन्द और मगन होना उठ गया है; मैं ने ऐसा किया कि दाखरस के कुण्डों में कुछ दाखमधु न रहा; लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदेंगे; जो ललकार होनेवाली है, वह अब नहीं होगी ॥

३४ हेसबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक, और सोआर से होरोनेम और एग्लतशलीशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं । क्योंकि निन्नोम का जल भी सूख गया है । ३५ और यहोवा की यह वाणी है, कि मैं ऊँचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना, और देवताओं के लिये घूप जलाना, दोनों को मोआब में बन्द कर दूँगा । ३६ इस कारण मेरा मन मोआब और कीर्हेस के लोगों के लिये बांसुली सा रो रोककर आलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने ने कमाकर बचाया है, वह नाश हो गया है ।

* मूल में—दीबोन की रहनेवाली बेदी ।

३७ क्योंकि सब के सिर मुंडे गए और सब की दाढ़ियां तोची गईं; सब के हाथ चिरे हुए, और सब की कमरों में टाट बन्धा हुआ है। ३८ मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है; क्योंकि मैं ने मोआब को तुच्छ बरतन की नाई तोड़ डाला है यहोवा की यह वाणी है। ३९ मोआब कैसे विस्मित हो गया! हाय, हाय, करो! क्योंकि उस ने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है! इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहनेवाले उसका ठट्टा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे। ४० क्योंकि यहोवा यों कहता है, देखो, वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। ४१ करिय्योत ले लिया गया, और गढ़वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा स्त्री के से हो जाएंगे; ४२ और मोआब ऐसा तितर-बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उस ने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। ४३ यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहनेवाले, तेरे लिये भय और गड़हा और फन्दे ठहराए गए हैं। ४४ जो कोई भय से भागे वह गड़हे में गिरेगा, और जो कोई गड़हे में से निकले, वह फन्दे में फंसेगा। क्योंकि मैं मोआब के दगड़ का दिन उस पर ले आऊंगा, यहोवा की यही वाणी है ॥

४५ जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए हैं; परन्तु हेशबोन से आग और सीहोन के बीच से लौ निकली, जिस से मोआब देश के कोने और बलबयों के चोखे भस्म हो गए हैं। ४६ हे मोआब तुझ पर हाय! कर्मोश

की प्रजा नाश हो गई; क्योंकि तेरे स्त्री-पुरुष दोनों बंधुभाई में गए हैं। ४७ तौभी यहोवा की यह वाणी है, कि अन्त के दिनों में मैं मोआब को बंधुभाई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दगड़ का वचन यही तक हुआ ॥

४९ अम्मोनियों के विषय यहोवा यों कहता है, क्या इस्त्राएल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई बारिस नहीं रहा? फिर मल्काम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ? और उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? २ यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आनेवाले हैं, कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊंगा, और वह उजड़कर खरडहू हो जाएगा, और उसकी बस्तियां * फूक दी जाएंगी; तब जिन लोगों ने इस्त्राएलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इस्त्राएली अपना लेगे, यहोवा का यही वचन है ॥

३ हे हेशबोन हाय-हाय कर, क्योंकि ये नगर नाश हो गया। हे रब्बा की बेटियों चिल्लाओ! और कमर में टाट बान्धो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो! क्योंकि मल्काम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुभाई में जाएगा। ४ हे भटकनेवाली बेंटी! तू अपने देश की तराइयों पर, विशेष कर अपने बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? ५ प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहनेवालों की ओर से

* मूल में—बेटियां।

तेरे मन में भय उपजाने पर हूं, और तेरे लोग अपने अपने साम्हने की और ढकेल दिए जाएंगे; और जब वे मारे मारे फिरेंगे, तब कोई उन्हें झकट्टा न करेगा। ६ परन्तु उसके बाद मैं अम्मोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा; यहोवा की यही वाणी है ॥

७ एदोम के विषय, मेनामों का यहोवा यों कहता है, क्या तेमान मे अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहां के जानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? ८ हे ददान के रहनेवालो भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो! क्योंकि जब मैं एसाव को दण्ड देने लगूंगा, तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। ९ यदि दाख के तोड़नेवाले तेरे पास आते, तो क्या वे कही कही दाख न छोड़ जाते? और यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूटकर न ले जाते? १० क्योंकि मैं ने एसाव को उधारा है, मैं ने उसके छिपने के स्थानों को प्रगट किया है; यहां तक कि वह छिप न सका। उसके वंश और भाई और पडोसी सब नाश हो गए हैं और उसका अन्त हो गया। ११ अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा; और तुम्हारी विषवाएं मुझ पर भरोसा रखें। १२ क्योंकि यहोवा यों कहता है, देखो, जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पीएं, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा, फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा। १३ क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं ने अपनी सौगन्ध खाई है, कि बोसा

ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे, और उसकी उपमा देकर निन्दा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे; और उसके सारे गांव सदा के लिये उजाड़ हो जाएंगे ॥

१४ मैं ने यहोवा की और से समाचार सुना है, बरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, झकट्टे होकर एदोम पर चढ़ाई करो; और उस से लड़ने के लिये उठो। १५ क्योंकि मैं ने तुम्हें जातियों में छोटा, और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। १६ हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनानेवाले*! तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुम्हें धोखा दिया है। चाहे तू उकाब की नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए; तौमी में वहां से तुम्हें उतार लाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। १७ एदोम यहां तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा, और उसके सारे दुःखों पर ताली बजाएगा। १८ यहोवा का यह वचन है, कि जैसी सदोम और अमोरा और उनके आस पास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उसकी दशा होगी, वहां न कोई मनुष्य रहेगा, और न कोई आदमी उस में टिकेगा। १९ देखो, वह सिंह की नाई यरदन के आस पास के घने जंगलों से† सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उसके साम्हने से भट भगा दूंगा; तब जिसको मैं चुन लूं, उसको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है?

* मूल में—चोटी को पकड़नेवाली।

† मूल में—यरदन की चराई है।

और कौन मूक पर मुकद्दमा चलाएगा * ? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा साम्हना कर सकेगा ? २० देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है; और तेमान के रहनेवालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है ? निश्चय वह भेड़-बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा; वह चराई को भेड़-बकरियों से निश्चय खाली कर देगा । २१ उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी काप उठेगी, और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी । २२ देखो, वह उकाब की नाई निकलकर उड़ आएगा, और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी धूरवीरों का मन जञ्चा स्त्री का सा हो जाएगा ॥

२३ दमिश्क के विषय, हमात और अर्पद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्हीं ने बुरा समाचार सुना है, वे गल गए हैं; समुद्र पर चिन्ता है, वह शान्त नहीं हो सकता । २४ दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परन्तु कंपकंपी ने उसे पकड़ा है, जञ्चा की सी पीडे उसे उठी है । २५ हाय, वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पुरी, जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा ! २६ सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे, और सब योद्धाओं का बोलना बन्द हो जाएगा । २७ और मैं दमिश्क की शहरपनाह में आग लगाऊंगा जिस से बेन्हद के राजभवन भस्म हो जाएंगे ॥

२८ केदार और हासोर के राज्यों के विषय जिन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया । यहोवा यों कहता है,

* मूल में—कौन मेरे लिये समय ठहराएगा ।

उठकर केदार पर चढ़ाई करो ! पूरबियों को नाश करो ! २९ वे उनके डेरे और भेड़-बकरियां ले जाएंगे, उनके तम्बू और सब बरतन उठाकर ऊंटों को भी हांक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकारके कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है । ३० यहोवा की यह वाणी है, हे हासोर के रहनेवालो भागो ! दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो । क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है ॥

३१ यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहनेवाली जाति के लोगों पर चढ़ाई करो, जो निडर रहते हैं, और बिना किवाड़ और बेरडे के यों ही बसे हुए हैं । ३२ उनके ऊट और अनगिनित गाय-बैल और भेड़-बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुडानेवालों को उडाकर सब दिशाओं * में तितर-बितर करूंगा; और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा, यहोवा की यह वाणी है । ३३ हासोर गीदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिये उजाड़ हो जाएगा, वहां न कोई मनुष्य रहेगा, और न कोई आदमी उस में टिकेगा ॥

३४ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरम्भ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा । ३५ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, कि मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा; ३६ और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं * की ओर यहां तक तितर-बितर करूंगा,

* मूल में—वायुओं ।

कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिस में एलामी भागते हुए न आएँ। ३७ में एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के साम्हने विस्मित करूंगा, और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। और यहोवा की यह वाणी है, कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते में उनका अन्त कर डालूंगा; ३८ और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। ३९ परन्तु यहोवा की यह भी वाणी है, कि अन्त के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा ॥

५० बाबुल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने विर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह वचन कहा : २ जातियों में बताओ, सुनाओ और झुंका खड़ा करो; सुनाओ, मत छिपाओ कि बाबुल ले लिया गया, बेल का मुह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया। बाबुल की प्रतिमाएँ लज्जित हुईं और उसकी बेडोल मूरते विस्मित हो गईं। ३ क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ कर देगी, कि क्या मनुष्य, क्या पशु, उस में कोई भी न रहेगा; सब भाग जाएंगे। ४ यहोवा की यह वाणी है, कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूँढ़ने के लिये चले आएंगे। ५ वे सिथ्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, कि आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बान्धे

जो कभी भूली न जाए, परन्तु सदा स्थिर रहे ॥

६ मेरी प्रजा खोई हुई मेड़े हैं; उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है; वे पहाड़-पहाड़ और पहाड़ी-पहाड़ी घूमते-घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। ७ जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए; और उनके सतानेवालों ने कहा, इस में हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है, और उनके पूर्वजों का आश्रय था ॥

८ बाबुल के बीच में से भागे, कसदियों के देश से जैसे बकरे अपने झुंका के भगुवे होते हैं, वैसे ही निकल आओ। ९ क्योंकि देखो, मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभारकर उनकी मण्डली बाबुल पर चढ़ा ले आऊंगा, और वे उसके विरुद्ध पाति बान्धेंगे; और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा। उनके तीर चतुर वीर के से होंगे; उन में से कोई अकारण न जाएगा। १० और कसदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटनेवालों का पेट भर जाएगा, यहोवा की यह वाणी है ॥

११ हे मेरे भाग के लूटनेवालो, तुम जो मेरी प्रजा पर आनन्द करते और हलसते हो, और घास चरनेवाली बछिया की नाई उछलते और बलवन्त घोड़ों के समान हिनहिनाते हो, १२ तुम्हारी माता अत्यन्त लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा। क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी, वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी। १३ यहोवा के क्रोध के कारण, वह देश निर्जन रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़ होगा; जो कोई बाबुल के पास से चलेगा

वह चकित होगा, और उसके सब दुःख देखकर ताली बजाएगा। १४ हे सब धनुर्धारियों, बाबुल के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बान्धो; उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उस ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। १५ चारों ओर से उस पर ललकारो, उस ने हार मानी; उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई। क्योंकि यहोवा उस से अपना बदला लेने पर है; सो तुम भी उस से अपना अपना बदला लो, जैसा उस ने किया है, वैसा ही तुम भी उस से करो। १६ बाबुल में से बोलनेवाले और काटनेवाले दोनों को नाश करो, वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरें, और अपने अपने देश को भाग जाएं ॥

१७ इस्त्राएल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उसको भगा दिया है। पहिले तो अशूर के राजा ने उसको खा डाला, और तब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। १८ इस कारण इस्त्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, जैसे मैं ने अशूर के राजा को दण्ड दिया था, वैसे ही अब देश समेत बाबुल के राजा को दण्ड दूंगा। १९ मैं इस्त्राएल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा, और वह कर्मल और बाशान में फिर चरेगा, और एग्रैम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भर पेट खाने पाएगा। २० यहोवा की यह वाणी है, कि उन दिनों में * इस्त्राएल का अधर्म दूढ़ने पर भी नहीं मिलेगा, और यहूदा के पाप खोजने पर

* मूल में—उन दिनों और उस समय में।

भी नहीं मिलेंगे; क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं, उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा ॥

२१ तू मरातैम * देश और पकोद † नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर। मनुष्यों को तो मार डाल, और धन का सत्यानाश कर; यहोवा की यह वाणी है, और जो जो आज्ञा में तुम्हें देता हूँ, उन सबों के अनुसार कर। २२ सुनो, उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द हो रहा है। २३ जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था, वह कैसा काट डाला गया है! बाबुल सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है! २४ हे बाबुल, मैं ने तेरे लिये फन्दा लगाया, और तू अनजाने उस में फँस भी गया; तू दूढ़कर पकड़ा गया है, क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। २५ प्रभु, सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का धर खोलकर, अपने क्रोध प्रगट करने का सामान निकाला है; क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। २६ पृथ्वी की छोर से आओ, और उसकी बखरियों को खोलो; उसको ढेर ही ढेर बना दो; ऐसा सत्यानाश करो कि उस में कुछ भी न बचा रहे। २७ उसके सब बैलों को नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाएं। उन पर हाय! क्योंकि उनके दण्ड पाने का दिन आ पहुँचा है ॥

२८ सुनो, बाबुल के देश में से भागने-वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है जो सिय्योन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं, कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मन्दिर का बदला ले रहा है ॥

* अर्थात् अत्यन्त बलवैय।

† अर्थात् दखलयोग्य।

२६ सब धनुषारियों को बाबुल के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो; कोई जन भागकर निकलने न पाए। उसके काम का बदला उसे देओ, जैसा उस ने किया है, ठीक वैसा ही उसके साथ करो; क्योंकि उस ने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। ३० इस कारण उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे, और सब योद्धाओं का बोल बन्द हो जाएगा, यहोवा की यही वारणी है ॥

३१ प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वारणी है, हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूँ; तेरे दरुह पाने का दिन आ गया है। ३२ अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा; और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिस से उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा ॥

३३ सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं; और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं, और जाने नहीं देते। ३४ उनका छुड़ानेवाला सामर्थी है; सेनाओ का यहोवा, यही उसका नाम है। वह उनका मुकद्दमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे परन्तु बाबुल के निवासियों को व्याकुल करे ॥

३५ यहोवा की यह वारणी है, कसदियों और बाबुल के हाकिम, परिद्वत आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी! ३६ बड़ा बोल बोलनेवालों पर तलवार चलेगी, और वे मूर्ख बनेंगे! उसके सूरवीरों पर भी तलवार चलेगी, और वे विस्मित हो जाएंगे! ३७ उसके सभारों

और रथियों* पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी, और वे स्त्रियों बन जाएंगे! उसके भएडारों पर तलवार चलेगी, और वे लुट जाएंगे! ३८ उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा, और वे सूख जाएंगे! क्योंकि वह खुदी हुई मूरतों से भरा हुआ देश है, और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं ॥

३९ इसलिये निर्जल देश के जन्तु सियारों के सग मिलकर वहाँ बसेंगे, और शुतुर्मुर्ग उस में वास करेगे, और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उस में कोई वास कर सकेगा। ४० यहोवा की यह वारणी है, कि सदोम और अमोरा और उनके आस पास के नगरो की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, वैसी ही दशा बाबुल की भी होगी, यहां तक कि कोई मनुष्य उस में न रह सकेगा, और न कोई आदमी उस में टिकेगा ॥

४१ सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं, और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेगे। ४२ वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं; वे क्रूर और निर्दय हैं; वे समुद्र की नाई गरजेगे; और घोड़ों पर चढ़े हुए तुम्ह बाबुल की बेटों के विरुद्ध पांति बान्धे हुए युद्ध करनेवालों की नाई आएंगे। ४३ उनका समाचार सुनते ही बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए, और उसको जच्चा की सी पीड़े उठी ॥

४४ सुनो, वह सिंह की नाई आएगा जो यरदन † के आस पास के घने जंगल से

* मूल में—बोहों और रथों।

† मूल में—यरदन की बर्छाई से।

निकलकर दृढ़ भेड़शाले पर चढ़े, परन्तु मैं उनको उसके साम्हने से भट भगा दूंगा; तब जिसको मैं चुन लूँ, उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकद्दमा चलाएगा *? वह चरवाहा कहां है जो मेरा साम्हना कर सकेगा? ४५ सो सुनो कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है: निश्चय वह भेड़-बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़-बकरियों से खाली कर देगा। ४६ बाबुल के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी काप उठी है, और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है ॥

५१ यहोवा यों कहता है, मैं बाबुल के और लेबकामै† के रहनेवालों के विरुद्ध एक नाश करनेवाली वायु चलाऊंगा; २ और मैं बाबुल के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक-फटककर उड़ा देंगे, और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे; और विपत्ति के दिन चारो ओर से उसके विरुद्ध होंगे। ३ धनुर्धारी के विरुद्ध और जो अपना फ़िलम पहिने हैं धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे; उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना; उसकी सारी सेना को सत्यानाश करो। ४ कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेगे। ५ क्योंकि, यद्यपि इस्राएल

* मूल में—कौन मेरे लिए समय ठहराएगा।

† अर्थात् मेरे विरोधियों का हृदय। यह कसदियों के देश का एक नाम जान पड़ता है।

और यहूदा के देश, इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तीभी उनके परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया ॥

६ बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ! उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मित जाओ; क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। ७ बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिस से सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे; जाति जाति के लोगों ने उसके दाखमधु में से पिपा, इस कारण वे भी बावले हो गए। ८ बाबुल अचानक ले ली गई और नाश की गई है। उसके लिये हाय-हाय करो! उसके घावों के लिये बलसान औषधि लाओ; सम्भव है वह चंगी हो सके। ९ हम बाबुल का इलाज करते तो थे, परन्तु वह चंगी नहीं हुई। सो आओ, हम उसको तजकर अपने अपने देश को चले जाए; क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निराण्य आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुँच गया है। १० यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रगट किए हैं; सो आओ, हम सिय्योन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें ॥

११ तीरों को पैना करो! ढाले धामे रहो! क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है, उस ने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात् उसके मन्दिर का यही बदला है। १२ बाबुल की शहरपनाह के विरुद्ध झण्डा खड़ा करो; बहुत पहरूप बैठाओ; घात लगानेवालों को बैठाओ; क्योंकि यहोवा ने बाबुल के रहनेवालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था, वह अब करने

पर है वरन किया भी है। १३ हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भण्डार रखनेवाली, तेरा अन्त भ्रा गया, तेरे लोभ की सीमा पहुच गई है। १४ सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है, कि निश्चय मैं तुझ को टिड्डियों के समान अनगिनित मनुष्यों से भर दूगा, और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे ॥

१५ उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया; और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। १६ जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, वह पृथ्वी की छोर से कुहरा उठाता है। वह वर्षा के लिये बिजली बनाता, और अपने भण्डार में से पवन निकाल ले आता है। १७ सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञानरहित हैं, सब सोनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देनेवाली हैं, और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। १८ वे तो व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य हैं; जब उनके नाश किए जाने का समय आएगा, तब * वे नाश ही होंगी। १९ परन्तु जो याकूब का निज भाग है, वह उनके समान नहीं, वह तो सब का बनानेवाला है, और इस्राएल उसका निज भाग है; उसका नाम सेनाओं का यहोवा है ॥

२० तू मेरा क्ररसा और युद्ध के लिये हथियार ठहराया गया है, तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर-बितर करूंगा; और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नाश

* मूल में—उनके दण्ड पाने के समय।

करूंगा। २१ तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा; २२ तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा; तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा; तेरे ही द्वारा मैं बड़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा; २३ तेरे ही द्वारा मैं भेड़-बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा; अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा ॥

२४ मैं बाबुल को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा, जो उन्होंने ने तुम लोगों के साम्हने सिय्योन में की है, यहोवा की यही वाणी है ॥

२५ हे नाश करनेवाले पहाड़ जिसके द्वारा मारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढागों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। २६ लोग तुझ से न तो घर के कोने के लिये पत्थर लेंगे, और न नेब के लिये, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा, यहोवा की यही वाणी है ॥

२७ देश में झण्डा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिगा फूको; उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो; अरारात, मिन्नी और अश्कनज नाम राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ, घोड़ों को शिखरवाली टिड्डियों के समान अनगिनित चढ़ा ले आओ। २८ उसके विरुद्ध जातियों को

तैयार करो; मादी राजाओं को उनके अधिपतियों सब हाकिमों सहित और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। २६ यहोवा ने विचारा है कि वह बाबुल के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उस में कोई भी न रहे; इसलिये पृथ्वी कापती है और दुःखित होती है। ३० बाबुल के शूरवीर गदों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं, उनकी बीरता जाती रही है; और यह देखकर कि उनके वासस्थानों में भ्रमण लग गई वे स्त्री बन गए हैं, उसके फाटकों के बेरुडे तोड़े गए हैं। ३१ एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देनेवाला दूसरे समाचार देनेवाले से मिलने और बाबुल के राजा को यह समाचार देने के लिये दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है, ३२ और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं*, ताल भी सुखाये † गए, और योद्धा शबरा उठे हैं। ३३ क्योंकि इस्त्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यों कहता है: बाबुल की बेटी दांवते समय के खलिहान के समान है, थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा।

३४ बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझ को खा लिया, मुझ को पीस डाला; उस ने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया, उस ने मगरमच्छ की नाईं मुझ को निगल लिया है; और मुझ को स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझ से भर लिया है, उस ने मुझ को बरबस निकाल दिया है। ३५ सिध्योन की रहनेवाली कहेगी, कि जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर

* मूल में—घाट पकड़े गए।

† मूल में—नरकटों का खान भ्रमण से जलाया गया।

हुआ है, वह बाबुल पर पलट जाए। और यरूशलेम कहेगी कि मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहनेवालों पर लगे। ३६ इसलिये यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकुटमा लडूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके स्रोतों को सुखा दूंगा; ३७ और बाबुल खरडहर, और गीदडों का वासस्थान होगा; और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे, और उस में कोई न रहेगा।

३८ लोग एक सग ऐसे गरजेगे और गुर्राएंगे, जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे आहेर पर करते हैं। ३९ परन्तु जब जब वे उत्तेजित हों, तब मैं जेवनार तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा, कि वे हुलसकर सदा की नीद में पड़ेगे और कभी न जागेगे, यहोवा की यही वाणी है। ४० मैं उनको, भेड़ों के बच्चों, और भेड़ों और बकरों की नाईं घात करा दूंगा।

४१ शोशक, जिसकी प्रशंसा सारे पृथ्वी पर होती थी कैसे ले लिया गया? वह कैसे पकडा गया? बाबुल जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है? ४२ बाबुल के ऊपर समुद्र चढ़ आया है, वह उसकी बहुत सी लहरों में डूब गया है। ४३ उसके नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जंत और निर्जल हो गया है, उस में कोई मनुष्य नहीं रहता, और उस से होकर कोई आदमी नहीं चलता। ४४ मैं बाबुल में बेल को दगड़ दूंगा, और उस ने जो कुछ निगल लिया है, वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर तांता बान्धे हुए न चलेंगे; बाबुल की शहरपवाह गिराई जाएगी।

४५ हे मेरी प्रजा, उस में से निकल आओ! अपने अपने प्राण को यहोवा के भडके हुए कोप से बचाओ! ४६ जब उडती हुई बात उस देश में सुनी जाए, तब तुम्हारा मन न घबराए; और जो उडती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उस से न डरना: उसके एक वर्ष बाद एक और बात उडती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उडती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा, और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा ॥

४७ इसलिये देख, वे दिन आते हैं जब मैं बाबुल की खुदी हुई मूरतों पर दण्ड की आज्ञा करूंगा; उस सारे देश के लोगो का मुह काला हो जाएगा, और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। ४८ तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बाबुल पर जयजयकार करेंगे; क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करनेवाले उस पर चढ़ाई करेंगे, यहोवा की यही वाणी है। ४९ जैसे बाबुल ने इस्राएल के लोगो को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे ॥

५० हे तलवार से बचे हुए, भागो, लड़ें मत रहो! यहोवा को दूर से स्मरण करो, और यरूशलेम की भी सुधि लो ५१ हम व्याकुल हैं, क्योंकि हम ने अपनी नामधराई सुनी है; यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं ॥

५२ सो देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आनेवाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूरतों पर दण्ड भेजूंगा, और उसके सारे देश में लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। ५३ चाहे बाबुल ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके

ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाएं, तभी मैं उसे नाश करने के लिये, लोगो को भेजूंगा, यहोवा की यह वाणी है ॥

५४ बाबुल से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पडता है! कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है। ५५ क्योंकि यहोवा बाबुल को नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बन्द कर रहा है। इस से उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। ५६ बाबुल पर भी नाश करनेवाले चढ़ आए हैं, और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए; क्योंकि यहोवा बदला देनेवाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। ५७ मैं उसके हाकिमो, परिणतो, अधिपतियो, रईसों, और शूरवीरो को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पडेंगे और फिर न जागेंगे, सेनाओं के यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है ॥

५८ सेनाओं का यहोवा यों भी कहता है, बाबुल की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी, और उसके ऊंचे फाटक भाग लगाकर जलाए जाएंगे। और उस में राज्य राज्य के लोगो का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा, और जातियो का परिश्रम भाग का कीर हो जाएगा और वे थक जाएंगे ॥

५९ यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष में जब उसके साथ मरयाह भी बाबुल को गया था, जो नेरिय्याह का पुत्र और महसेयाह का पोता और राजभवन का अधिकाारी भी था, ६० तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उसको ये बातें बताईं अर्थात् वे सब बातें जो बाबुल पर पडनेवाली विपत्ति के विषय

लिखी हुई है, उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। ६१ और यिर्मयाह ने सराय्याह से कहा, जब तू बाबुल में पहुँचे, तब अवश्य ही * ये सब वचन पढ़ना, ६२ और यह कहना, हे यहोवा तू ने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इस में क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। ६३ और जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके, तब इसे एक पत्थर के संग बान्धकर परात महानद के बीच में फेंक देना, ६४ और यह कहना, यों ही बाबुल डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यों उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे धके रहेंगे ॥

यहां तक यिर्मयाह के वचन हैं ॥

५२ जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह इक्कीस वर्ष का था; और यरूशलेम में ग्यारह वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। २ और उस ने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ३ निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अन्त में उस ने उनको अपने साम्हने से दूर कर दिया ॥

और सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा से बलवा किया। ४ और उसके राज्य के नौवें वर्ष के दसवें महीने के दसवें दिन को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढाई की,

और उस ने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर क़िला बनाया। ५ यों नगर घेरा गया, और सिदकिय्याह राजा के ग्यारहवें वर्ष तक घिरा रहा। ६ चौथे महीने के नौवें दिन से नगर में महंगी यहा तक बढ़ गई, कि लोगों के लिये कुछ रोटी न रही। ७ तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई, और दोनों भीतों के बीच जां फाटक राजा की बारी के निकट था, उस से सब थोड़ा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए, और अराबा का मार्ग लिया! (उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे)। ८ परन्तु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया, और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा; तब उमकी सारी सेना उसके पास से तितर-बितर हो गई। ९ सो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए, और वहा उस ने उसके दरुड की आज्ञा दी। १० बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके साम्हने घात किया, और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। ११ फिर बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की भ्राणियों को फुडवा डाला, और उसको बेडियो से जकड़कर बाबुल तक ले गया, और उसको बन्दीगृह में डाल दिया। सो वह मृत्यु के दिन तक वही रहा ॥

१२ फिर उसी वर्ष अर्थात् बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पांचवें महीने के दसवें दिन को जत्लादों का प्रधान नबूजरदान जो बाबुल के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था यरूशलेम में आया। १३ और उस ने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर

* मूल में—तब देख और।

फुकवा दिया। १४ और कसदियों की सारी सेना ने जो जल्लादों के प्रधान के सग थी, यूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को ढा दिया। १५ और जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कगाल लोगो में से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे, और जो लोग बाबुल के राजा के पाम भाग गए थे, और जो कारीगर रह गए थे, उन सब को बंधुआ करके ले गया। १६ परन्तु, दिहात के कगाल लोगों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया।

१७ और यहोवा के भवन में जो पीतल के खम्भे थे, और कुर्सियों और पीतल के हीज जो यहोवा के भवन में थे, उन सभी को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बाबुल को ले गए। १८ और हाडियों, फाबडियों, कैचियों, कटोरो, धूप-दानो, निदान पीतल के और सब पात्रो को, जिन से लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। १९ और तसलो, करछों, कटोरियों, हाडियों, दीबटो, धूपदानो, और कटोरो में से जो कुछ सोने का था, उनके सोने को, और जो कुछ चान्दी का था उनका चान्दी को भी जल्लादों का प्रधान ले गया। २० दोनों खम्भे, एक हीज और पीतल के बारहों बैल जो पायों के नीचे थे, इन सब को तो मुलैमान राजा ने यहोवा के भवन के लिये बनवाया था, और इन सब का पीतल ताल से बाहर था। २१ जो खम्भे थे, उन में से एक एक की ऊंचाई अठारह हाथ, और घेरा बारह हाथ, और मोटाई चार अंगुल की थी, और वे खोलले थे। २२ एक एक की कंगनी पीतल की थी, और एक एक कंगनी

की ऊंचाई पांच हाथ की थी; और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। २३ कगनियों के चारों अलंगो पर छियानबे अनार बने थे, और जाली के ऊपर चारों ओर एक सौ अनार थे।

२४ और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक, और तीनों डेबडीदारों को पकड़ लिया, २५ और नगर में से उस ने एक खोजा पकड़ लिया, जो योदाओ के ऊपर ठहरा था; और जो पुष राजा के सम्मुख रहा करते थे, उन में से मात जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुन्शी जो साधारण लोगो को सेना में भरती करता था; और साधारण लोगो में से माठ पुरुष जो नगर में मिले, २६ इन सब को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गया। २७ तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। २८ सो यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए।

जिन लोगो को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया, सो ये हैं, अर्थात् उसके राज्य के सातबे वर्ष में तीन हजार तेईस यहूदी, २९ फिर अपने राज्य के अठारहबे वर्ष में नबूकदनेस्सर यूशलेम से आठ सौ बत्तीस प्राणियों को बंधुआ करके ले गया, ३० फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के तेईसवें वर्ष में जल्लादों का प्रधान नबूजरदान सात सौ पेंतालीस यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया; सब प्राणी मिलकर चार हजार छ सौ हुए।

३१ फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के सैंतीसबे वर्ष में अर्थात्

जिस वर्ष बाबुल का राजा एबीलमरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के बारहवें महीने के पच्चीसवें दिन को उस ने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बन्दीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया; ३२ और उस से मधुर मधुर वचन कहकर, जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को

अधिक ऊंचा किया। ३३ और उसके बन्दीगृह के वस्त्र बदल दिए; और वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा; ३४ और प्रति दिन के खर्च के लिये बाबुल के राजा के यहां से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबन्ध हुआ। यह प्रबन्ध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा ॥

विलापगीत

१ जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है ! वह क्यों एक विधवा के समान बन गई ?

वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रान्तों में रानी थी, अब क्यों कर देनेवाली हो गई है ।

२ रात को वह फूट फूटकर रोती है, उसके भ्रातृ गालों पर ढलकते हैं; उसके सब यारों में से अब कोई उसे शान्ति नहीं देता; उसके सब मित्रों ने उस से विश्वासघात किया, और उसके शत्रु बन गए हैं ॥

३ यहूदा दुःख और कठिन वासत्व से बचने के लिये परदेश चली गई; परन्तु अन्यजातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती; उसके सब खदेड़नेवालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है ॥

४ सिय्योन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पथों में कोई नहीं आता है;

उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं, उसके याजक कराहते हैं;

उसकी कुमारियां शोकित हैं, और वह आप कठिन दुःख भोग रही है ॥

५ उसके द्रोही प्रधान हो गए, उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं,

क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुःख दिया है;

उसके बालबच्चों को शत्रु हांक हांक कर बंधुभाई में ले गए ॥

६ सिय्योन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है ।

उसके हाकिम ऐसे हरियों के समान हो गए हैं जो कुछ चराई नहीं पाते; वे खदेड़नेवालों के साम्हने से बलहीन होकर भागते हैं ॥

- ७ यक्षालेम ने, इन दुःख भरे घोर संकट के दिनों में,
जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में पड़े घोर उसका कोई सहायक न रहा,
तब अपनी सब मनभावनी वस्तुओं को जो प्राचीनकाल से उसकी थी, स्मरण किया है ।
उसके द्रोहियों ने उसको उजड़ा देखकर ठट्टों में उड़ाया है ॥
- ८ यक्षालेम ने बड़ा पाप किया, इसलिये वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है ;
जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ने उसकी नगाई देखी है ;
हां, वह कराहती हुई मुह फेर लेती है ॥
- ९ उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है ;
उस ने अपने अन्त का स्मरण न रखा ;
इसलिये वह भयंकर रीति से गिराई गई, और कोई उसे शान्ति नहीं देता है ।
हे यहोवा, मेरे दुःख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है !
- १० द्रोहियों ने उसकी सब मनभावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है ;
हां, अन्यजातियों को, जिनके विषय में तू ने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएंगी, उनको उस ने तेरे पवित्रस्थान में घुसा हुआ देखा है ॥
- ११ उसके सब निवासी कराहते हुए भोजनवस्तु दूढ़ रहे हैं ;
उन्होंने ने अपना प्राण बचाने के लिये अपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है ।
हे यहोवा, दृष्टि कर, और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ ॥
- १२ हे सब बटोहियो, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिन्ता नहीं ?
दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुःख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है ?
- १३ उस ने ऊपर से मेरी हड्डियों में धाग लगाई है, और वे उस से भस्म हो गईं ;
उस ने मेरे पैरों के लिये जाल लगाया, और मुझ को उलटा फेर दिया है ;
उस ने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निबल रही हूँ ॥
- १४ उस ने जूए की रस्सियों की नाईं मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है ;
उस ने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया, और मेरा बल घटा दिया है ;
जिनका मैं साम्हना भी नहीं कर सकती, उन्हीं के बश मैं यहोवा ने मुझे कर दिया है ॥
- १५ यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना ;
उस ने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डालें ;
यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानी कोल्हू में पेरा है ॥

- १६ इन बातों के कारण मैं रोती हूँ; मेरी आँखों से आँसू की धारा बहती रहती है; क्योंकि जिस शान्तिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था, वह मुझ से दूर हो गया; मेरे लड़केवाले अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है ॥
- १७ सिय्योन हाथ फँलाए हुए है, उसे कोई शान्ति नहीं देता, यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाए, यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है ॥
- १८ यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैं ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है; हे सब लोगो, सुनो, और मेरी पीडा को देखो ! मेरे कुमार और कुमारिया बधुआई में चली गई हैं ॥
- १९ मैं ने अपने मित्रों को पुकारा परन्तु उन्हो ने भी मुझे धोखा दिया, जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिये भोजनवस्तु बढ़ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर ही में उनके प्राण छूट गए ॥
- २० हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं सकट में हूँ, मेरी अन्तडियां ऐंठी जाती हैं, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैं ने बहुत बलवा किया है । बाहर तो मैं तलवार से निर्बंध होती हूँ; और घर में मृत्यु विराज रही है ॥
- २१ उन्हीं ने सुना है कि मैं कराहती हूँ, परन्तु कोई मुझे शान्ति नहीं देता । मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है, वे इस से हर्षित हो गए कि तू ही ने यह किया है । परन्तु जिस दिन की चर्चा तू ने प्रचार करके सुनाई है उसको तू दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे ॥
- २२ उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर; और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तू ने मुझे दण्ड दिया, वैसा ही उनको भी दण्ड दे; क्योंकि मैं बहुत ही कराहती हूँ, और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है ॥
- २ यहोवा ने सिय्योन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है ! उस ने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया; और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया ॥
- २ यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निठुरता से नष्ट किया है; उस ने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दूढ़ गर्दों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है, उस ने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है ॥
- ३ उस ने क्रोध में आकर इस्राएल के सींग को जड़ से * काट डाला है;

* मूल में—सारे सींग को ।

- उस ने शत्रु के साम्हने उनकी सहायता करने से अपना दहिना हाथ खींच लिया है;
- उस ने चारों ओर भस्म करती हुई लौ की नाईं याकूब को जला दिया है ॥
- ४ उस ने शत्रु बनकर धनुष चढाया, और बैरी बनकर दहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मनभावने थे, उन सब को उस ने घात किया, सिव्योन की पुत्री के तम्बू पर उस ने आग की नाईं अपनी जलजलाहट भड़का दी है ॥
- ५ यहोवा शत्रु बन गया, उस ने इस्राएल को निगल लिया; उसके सारे भवनों को उस ने मिटा दिया, और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है; और यहूदा की पुत्री का रोना-पीटना बहुत बढ़ाया है ॥
- ६ उस ने अपना मरुद्वप बारी के मचान की नाईं अचानक गिरा दिया, अपने मिलापस्थान को उस ने नाश किया है, यहोवा ने सिव्योन में नियत पर्व और विश्रामदिन दोनों को भुला दिया है, और अपने भडके हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है ॥
- ७ यहोवा ने अपनी बेदी मन से उतार दी, और अपना पवित्रस्थान अपमान के साथ तज दिया है; उसके भवनों की भीतों को उस ने शत्रुओं के वश में कर दिया,
- यहोवा के भवन में उन्होंने ने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो ॥
- ८ यहोवा ने सिव्योन की कुमारी की शहरपनाह तोड़ डालने को ठाना था
- उस ने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नाश करने से नहीं खींचा, उस ने किले और शहरपनाह दोनों से बिलाप करवाया, वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं ॥
- ९ उसके फाटक भूमि में घस गए हैं, उनके बेड़ों को उस ने तोड़कर नाश किया ॥
- उसके राजा और हाकिम अन्य-जातियों में रहने के कारण व्यवस्थारहित हो गए हैं, और उसके भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं ॥
- १० सिव्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं; उन्होंने ने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेटा बांधा है; यरूशलेम की कुमारियों ने अपना सिर भूमि तक झुकाया है ॥
- ११ मेरी आंखें आसू बहाते बहाते रह गई हैं, मेरी अन्तड़ियां ऐंठी जाती हैं; मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलंजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूधपिउवे बच्चे भी नगर के चौको में मूर्च्छित होते हैं ॥
- १२ वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाखमधु कहा है ? वे नगर के चौको में घायल किए हुए मनुष्य की नाईं मूर्च्छित होकर

- अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं ॥
- १३ हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझ से क्या कहूँ ? मैं तेरी उपमा किस से दू ?
हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहराकर तुझे शान्ति दू ?
क्योंकि तेरा दुःख समुद्र सा अपार है ; तुझे कौन चंगा कर सकता है ?
- १४ तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझ से व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं ;
उन्होंने तेरा अधर्म प्रगट नहीं किया, नहीं तो तेरी बधुआई न होने पाती, परन्तु उन्होंने ने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए ।
जो तेरे लिये देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए ॥
- १५ सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं, वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगरी है जिसे परम-सुन्दरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे ?
- १६ तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुह पसारा है,
वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं, वे कहते हैं, हम उसे निगल गए हैं ।
जिस दिन की बाट हम जोहते थे, वह यही है,
वह हम को मिल गया, हम उसको देख चुके हैं ।
- १७ यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है,
- जो वचन वह प्राचीनकाल से कहता आया है वही उस ने पूरा भी किया है ;
उस ने निठुरता से तुझे ढा दिया है, उस ने शत्रुओं को तुझ पर आनन्दित किया,
और तेरे द्रोहियों के सींग को ऊंचा किया है ॥
- १८ वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं !
हे सिय्योन की कुमारी (की शहर-पनाह), अपने आसू रात दिन नदी की नाई बहानी रह ।
तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आख की पुतली चैन ले ।
- १९ रात के हर पहर के आरम्भ में उठकर चिल्लाया कर ।
प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उरडेल * !
तेरे बालबच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्च्छित हो रहे हैं,
उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला ॥
- २० हे यहोवा दृष्टि कर, और ध्यान से देख कि तू ने यह सब दुःख किस को दिया है ?
क्या स्त्रिया अपना फल अर्थात् अपनी गोद † के बच्चों को खा डाले ?
हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता तेरे पवित्रस्थान में घात किए जाएं ?
- २१ सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं,

* मूल में—अपना हृदय जल की नाई उरडेल ।

† मूल में—हथेली ।

- मेरी कुमारियां और जवान लोग
तलवार से गिर गए हैं;
तू ने कोप करने के दिन उन्हें घात
किया; तू ने निठुरता के साथ
उनका बध किया है ॥
- २२ तू ने मेरे भय के कारणों को नियत
पर्व की भीड़ के समान चारों
ओर से बुलाया है;
और यहीवा के कोप के दिन न तो
कोई भाग निकला और न कोई
बच रहा है;
जिन को मैं ने गोद * मे लिया
और पाल-पोसकर बढ़ाया था, मेरे
शत्रु ने उनका अन्त कर डाला
है ॥
- उसके रोष की छड़ी से दुःख
भोगनेवाला पुरुष मैं ही हूँ;
२ वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं,
अग्निघारे ही में चलाता है;
३ उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध
उठता † रहता है ॥
- ४ उस ने मेरा मास और चमड़ा गला
दिया है, और मेरी हड्डियों को
तोड़ दिया है;
- ५ उस ने मुझे रोकने के लिये किला
बनाया, और मुझ को कठिन दुःख ‡
और श्रम से घेरा है,
- ६ उस ने मुझे बहुत दिन के मरे हुए
लोगों के समान अन्धेरे स्थानों में
बसा दिया है ॥
- ७ मेरे चारों ओर उस ने बाड़ा बान्धा
है कि मैं निकल नहीं सकता;

* मूल में—हथेली ।

† मूल में—उलटता ।

‡ मूल में—विष ।

- उस ने मुझे भारी सांकल से जकड़ा
है *;
- ८ मैं चिल्ला चिल्लाके दोहाई देता हूँ,
तौभी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता;
- ९ मेरे मार्गों को उस ने गढ़े हुए पत्थरों
से रोक रखा है, मेरी डगरों को
उस ने टेढ़ी कर दिया है ।
- १० वह मेरे लिये घात में बैठे हुए रीछ
और घात लगाए हुए सिंह के
समान है;
- ११ उस ने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया,
और मुझे फाड़ डाला, उस ने
मुझ को उजाड़ दिया है ।
- १२ उस ने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने
तीर का निशाना बनाया है ॥
- १३ उस ने अपनी तीरों से मेरे हृदय को
बेध दिया है;
- १४ सब लोग मुझ पर हसते हैं और दिन
भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं,
- १५ उस ने मुझे कठिन दुःख से † भर
दिया, और नागदौना पिलाकर तृप्त
किया है ॥
- १६ उम ने मेरे दातों को ककरी से तोड़
डाला, और मुझे राख से ढाप
दिया है;
- १७ और मुझ को मन से उतारकर कुशल
से रहित किया है; मैं कल्याण
भूल गया हूँ,
- १८ इसलिये मैं ने कहा, मेरा बल नाश
हुआ, और मेरी आशा जो यहीवा
पर थी, वह टूट गई है ॥
- १९ मेरा दुःख और मारा मारा फिरना,
मेरा नागदौने और-और विष का
पीना स्मरण कर ।

* मूल में—मेरी सांकल भारी की ।

† मूल में—कबवाहटों से ।

- २० मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इस से मेरा प्राण डला जाता है ।
- २१ परन्तु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसीलिये मुझे आशा है :
- २२ हम मिट नहीं गए; यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है ।
- २३ प्रति भोर वह नई होती रहती है; तेरी सच्चाई महान है ।
- २४ मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उस में आशा रखूंगा ॥
- २५ जो यहोवा की बात जोहते और * उमके पास जाते है, उनके लिये यहोवा भला है ।
- २६ यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है ।
- २७ पुरुष के लिये जबानी में जूआ उठाना भला है ।
- २८ वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे, कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है,
- २९ वह अपना मुह धूल में रखे †, क्या जाने इस में कुछ आशा हो;
- ३० वह अपना गाल अपने मारनेवाले की ओर फेरे, और नामधराई सहता रहे ॥
- ३१ क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता,
- ३२ चाहे वह दुःख भी दे, तीभी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है,
- ३३ क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुःख देता है ॥
- ३४ पृथ्वी भर के बहुओं को पांव के तले दलित करना,
- ३५ किसी पुरुष का हक परमप्रधान के साम्हने मारना,
- ३६ और किसी मनुष्य का मुकद्दमा बिगाड़ना, इन तीन कामों को यहोवा देख नहीं सकता ॥
- ३७ यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए ?
- ३८ विपत्ति और कल्याण, क्या दोनों परमप्रधान की आज्ञा से नहीं होते ?
- ३९ सो जीवित मनुष्य क्यों कुडकुडाए ? और पुरुष अपने पाप के दराड को क्यों बुरा माने ?
- ४० हम अपने चालचलन को ध्यान से परखे, और यहोवा की ओर फिरे ।
- ४१ हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे
- ४२ हम ने तो अपराध और बलवा किया है, और तू ने क्षमा नहीं किया ॥
- ४३ तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पडा है, तू ने बिना तरस खाए घात किया है ॥
- ४४ तू ने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना न पहुच सके ।
- ४५ तू ने हम को जाति जाति के लोगों के बीच में कूडा-ककट सा ठहराया है ।
- ४६ हमारे सब शत्रुओं ने हम पर अपना अपना मुह फैलाया है;
- ४७ भय और गडहा, उजाड और विनाश, हम पर आ पडे है;

* मूल में—और जो जीव ।

† मूल में—वह अपना मुंह मिट्टी में दे ।

- ४८ मेरी आँखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएँ बह रही हैं ॥
- ४९ मेरी आँख से लगातार आसूँ बहते रहेंगे,
- ५० जब तक यहोवा स्वर्ग से मेरी ओर न देखे;
- ५१ अपनी नगरी की सब स्त्रियों का हाल देखने पर मेरा दुःख बढ़ता है * ॥
- ५२ जो व्यर्थ मेरे शत्रु बने हैं, उन्हीं ने निर्दयता से चिड़िया के समान मेरा आहरे किया है;
- ५३ उन्हीं ने मुझे गडहे में डालकर मेरे जीवन का अन्त करने के लिये मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काए हैं,
- ५४ मेरे सिर पर से जल बह गया, मैं ने कहा, मैं अब नाश हो गया ॥
- ५५ हे यहोवा, गहिरें गडहे में से मैं ने तुझ से प्रार्थना की;
- ५६ तू ने मेरी सुनी कि जो दोहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उस से कान न फेर † ले !
- ५७ जब मैं ने तुझे पुकारा, तब तू ने मुझ से कहा, मत डर !
- ५८ हे यहोवा, तू ने मेरा मुकद्दमा लडकर मेरा प्राण बचा लिया है ।
- ५९ हे यहोवा, जो अन्याय मुझ पर हुआ है उसे तू ने देखा है; तू मेरा न्याय चुका ।
- ६० जो बदला उन्हीं ने मुझ से लिया, और जो कल्पनाएँ मेरे विरुद्ध की, उन्हें भी तू ने देखा है ॥
- ६१ हे यहोवा, जो कल्पनाएँ और निन्दा वे मेरे विरुद्ध करते हैं, वे भी तू ने सुनी हैं ।
- ६२ मेरे विरोधियों के वचन *, और जो कुछ भी वे मेरे विरुद्ध लगातार सोचते हैं, उन्हें तू जानता है ।
- ६३ उनका उठना-बैठना ध्यान से देख; वे मुझ पर लगते हुए गीत गाते हैं ।
- ६४ हे यहोवा, तू उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा ।
- ६५ तू उनका मन मुन्न कर देगा; तेरा शाप उन पर होगा ।
- ६६ हे यहोवा, तू अपने कोप से उनको खदेड़-खदेड़कर धरती पर से † नाश कर देगा ॥
- ४ सोना कैसे खोटा † हो गया, अत्यन्त खरा सोना कैसे बदल गया है ? पवित्रस्थान के पत्थर तो हर एक सडक के सिरे पर फेंक दिए गए हैं ॥
- २ मिय्योन के उत्तम पुत्र ‡ जो कुन्दन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं !
- ३ गीदडिन भी अपने बच्चों को धन से लगाकर पिलाती है, परन्तु मेरे लोगों की बेंटी बन के शत्रुमूर्तियों के तुल्य निर्दयी हो गई हैं ॥
- ४ दूधपीउवे बच्चों की जीभ प्याम के मारे तालू में चिपट गई हैं ;

* मूल में—होंठ ।

† मूल में—आकाश के तले से ।

‡ मूल में—फीके रंग का ।

§ मूल में—बेटे ।

* मूल में—मेरी आँख मेरे मन को दुःख देती हैं ।

† मूल में—झिपा ।

- बालबच्चे रोटी मांगते हैं, परन्तु कोई उनको नहीं देता ॥
- ५ जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं; जो मस्जिदों के दरवाजों में पले थे अब घूरों पर लोटते हैं * ॥
- ६ मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था ॥
- ७ उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्वल थे; उनकी देह मूंगों से अधिक लाल, और उनकी सुन्दरता नीलमणि की सी थी ॥
- ८ परन्तु अब उनका रूप अन्धकार से भी अधिक काला है, वे सड़कों में चीन्हे नहीं जाते, उनका चमड़ा हड्डियों में सट गया, और लकड़ी के समान सूख गया है ॥
- ९ तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुआ से अधिक अच्छे थे जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है ॥
- १० दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है; मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए ॥
- ११ यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रगट की, उस ने अपना कोप बहुत ही भड़काया †; और सियोन में ऐसी आग लगाई जिस से उसकी नेब तक भस्म हो गई है ॥
- १२ पृथ्वी का कोई राजा वा जगत का कोई बासी इसकी कमी प्रतीति न कर सकता था, कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे ॥
- १३ यह उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है; क्योंकि वे उसके बीच घर्मियों की हत्या करते आए हैं ॥
- १४ वे अब सड़कों में अन्धे सरीखे मारे मारे फिरते हैं, और मानो लोह की छींटों से यहां तक अशुद्ध है कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता ॥
- १५ लोग उनको पुकारकर कहते हैं, और अशुद्ध लोगो, हट जाओ! हट जाओ! हम को मत छूओ! जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे, तब अन्यजाति लोगों ने कहा, भविष्य में वे यहां टिकने नहीं पाएंगे ॥
- १६ यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर-बितर किया, वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा; न तो याजकों का सन्मान हुआ, और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया ॥
- १७ हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बात जोहते जोहते रह गई हैं, हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी ॥
- १८ लोग हमारे पीछे ऐसे पडे कि हम अपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सके; हमारा अन्त निकट आया; हमारी आयु पूरी हुई; क्योंकि हमारा अन्त आ गया था ॥

* मूल में—घूटों को गले लगाते हैं ।

† मूल में—उपडाला ।

- १६ हमारे खदेड़नेवाले आकाश के उकावों से भी अधिक वेग से चलते थे; वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिये घात लगाकर बैठ गए ॥
- २० यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण * था, और जिसके विषय हम ने सोचा था कि अन्यजातियों के बीच हम उसकी शरण में † जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गडहों में पकड़ा गया ॥
- २१ हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊँच देश में रहती है, हर्षित और आनन्दित रह; परन्तु यह कटोरा तुझ तक भी पहुँचेगा, और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी ॥
- २२ हे सिय्योन की पुत्री, तेरे अधर्म का दण्ड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा; परन्तु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दण्ड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रगट कर देगा ॥
- ५ हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है, हमारी और दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख ।
- २ हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं ।
- ३ हम अनाथ और पिताहीन हो गए; हमारी माताएं विधवा सी हो गई हैं ।
- ४ हम भोल लेकर पानी पीते हैं, हम को लकड़ी भी दाम से मिलती है ।
- ५ खदेड़नेवाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं; हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता ।
- ६ हम स्वयं म्ल के अधीन हो गए, और अशूर के भी, ताकि पेट भर सकें ।
- ७ हमारे पुरखाओं ने पाप किया, और भर मिटे हैं; परन्तु उनके अधर्म के कामों का भार हम को उठाना पड़ा है ॥
- ८ हमारे ऊपर दास * अधिकार रखते हैं; उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता ॥
- ९ जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजनवस्तु ले आते हैं ।
- १० भूख की झुलसाने वाली आग के कारण, हमारा चमड़ा तंदूर की नाई कान्ना हो गया है ।
- ११ सिय्योन में स्त्रियां, और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई हैं ।
- १२ हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं; और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया ।
- १३ जवानों को चक्की चलानी पड़ती है; और लडकेवाले लकड़ी का बोझ उठाते हुए लडखड़ाते हैं ।

* मूल में—हमारे नथनों का प्राण ।

† मूल में—की छाया में ।

* वा गुलाम ।

- १४ अब फाटक पर पुरनिये नही बैठते,
न जवानों का गीत सुनाई पडता
है ।
- १५ हमारे मन का हृषं जाता रहा,
हमारा नाचना विलाप में बदल गया
है ।
- १६ हमारे मिर पर का मुकुट गिर पड़ा
है,
हम पर हाथ, क्योंकि हम ने पाप
किया है ।
- १७ इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो
गया है,
इन्ही बातों मे हमारी आखे धुंधली
पड गई है,
- १८-क्योंकि सिन्धोन पर्वत उजाड पडा है ;
- उस में सियार घूमते है ॥
- १९ परन्तु हे यहोवा, तू तो सदा तक
विराजमान रहेगा ;
तेरा राज्य पीढ़ी-पीढ़ी बना रहेगा ।
- २० तू ने क्यों हम को सदा के लिये भुला
दिया है,
और क्यों बहुत काल के लिये हमे
छोड दिया है ?
- २१ हे यहोवा, हम को अपनी ओर फेर,
तब हम फिर सुधर जाएंगे ।
प्राचीनकाल की नाई हमारे दिन
बदलकर ज्यो के त्यों कर दे !
- २२ क्या तू ने हमें बिल्कुल त्याग दिया
है ?
क्या तू हम से अत्यन्त क्रोधित है ?

यहेजकेल नामक पुस्तक

१ तीसरे वर्ष के चौथे महीने के
पांचवे दिन, मैं बधुओं के बीच
कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग
खुल गया, और मैं ने परमेश्वर के दर्शन
पाए । २ यहोयाकीम राजा की बधुआई
के पांचवें वर्ष के चौथे महीने के पांचवे
दिन को, कसदियों के देश में कबार नदी
के तीर पर, ३ यहोवा का वचन बूजी के
पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और
यहोवा की शक्ति * उस पर वही प्रगट
हुई ॥

* मूल में—का हाथ ।

४ जब मैं देखने लगा, तो क्या देखता
हू कि उत्तर दिशा से बडी घटा, और
लहराती हुई भाग सहित बडी आधी
आ रही है ; और घटा के चारों ओर प्रकाश
और भाग के बीचों-बीच से झलकाया
हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है ।
५ फिर उसके बीच से चार जीवधारियों
के समान कुछ निकले । और उनका रूप
मनुष्य के समान था, ६ परन्तु उन में
से हर एक के चार चार मुख और चार
चार पंख थे । ७ उनके पांव सीधे थे,
और उनके पावों के तलुए बछड़ों के लुरों

के से थे; और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। ८ उनकी चारों अलग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे: ९ उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे, वे अपने अपने साम्हने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। १० उनके साम्हने के मुखो का रूप मनुष्य का सा था; और उन चारों के दहिनी और के मुख मिह के से, बाई और के मुख बल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाव पक्षी के से थे। ११ उनके चेहरे ऐसे थे। और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे; हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे, जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और दो दो पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। १२ और वे सीधे अपने अपने साम्हने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था, वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। १३ और जीवधारियों के रूप अगारो और जलने हुए पलीतों के समान दिखाई देने थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बडा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। १४ और जीवधारियों का चलना-फिरना बिजली का सा था ॥

१५ जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था, तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार, एक एक पहिया था। १६ पहियों का रूप और बनावट फीरोजे की सी थी, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो।

१७ चलते समय वे अपनी चारों अलंगों की ओर चल सकते थे, और चलने में मुड़ते नहीं थे। १८ और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बडे और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। १९ और जब जीवधारी चलते थे, तब पहिये भी उनके साथ चलते थे; और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे, तब पहिये भी उठते थे। २० जिधर आत्मा जाना चाहती थी, उधर ही वे जाते, और और पहिये जीवधारियों के साथ उठते थे; क्योंकि उनकी आत्मा पहियो में थी। २१ जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे; और जब जब वे खडे होते थे तब ये भी खडे होते थे; और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिये भी उनके साथ उठते थे; क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियो में थी ॥

२२ जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाशमण्डल सा कुछ था जो बर्फ की नाई भयानक रीति से चमकता था, और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। २३ और आकाशमण्डल के नीचे, उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फेले हुए थे; और हर एक जीवधारी के दो दो और पंख थे जिन से उनके शरीर ढपे हुए थे। २४ और उनके चलते समय उनके पंखों की फडफडाहट की आहट मुझे बहुत से जल, वा सर्वशक्तिमान की वाणी, वा सेना के हलचल की सी सुनाई पडती थी; और जब वे खडे होते थे, तब अपने पंख लटका लेते थे। २५ फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमण्डल था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पडता था; और जब वे खडे होते थे, तब अपने पंख लटका लेते थे ॥

२६ और जो आकाशमण्डल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था; इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। २७ और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे भलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी; फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी; और उसके चारों ओर प्रकाश था। २८ जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था ॥

यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। और उसे देखकर, मैं मुह के बल गिरा, तब मैं ने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है ॥

२ और उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, अपने पावों के बल खड़ा हो, और मैं तुझ से बातें करूंगा। २ जैसे ही उस ने मुझ से यह कहा, त्योही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पावों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझ से बातें करता था मैं ने उसकी सुनी। ३ और उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास अर्थात् बलवा करनेवाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है; उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। ४ इस पीढ़ी के लोग * जिनके पास मैं तुम्हें भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और

हठीले * हैं; ५ और तू उन से कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, इस से वे, जो बलवा करनेवाले घराने के हैं, चाहे वे सुनें व न सुनें, तीभी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रगट हुआ है। ६ और हे मनुष्य के सन्तान, तू उन से न डरना; चाहे तुम्हें कांटों, ऊटकटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तीभी उनके वचनों से न डरना; यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तीभी न तो उनके वचनों से डरना, और न उनके मुँह देखकर तंरा मन कच्चा हो। ७ सो चाहे वे सुनें या न सुनें; तीभी तू मेरे वचन उन से कहना, वे तो बड़े बलवाई हैं। ८ परन्तु हे मनुष्य के सन्तान, जो मैं तुम्ह से कहता हूँ, उसे तू सुन ले, उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई न बनना, जो मैं तुम्हें देता हूँ, उसे मुह खोलकर खा ले। ९ तब मैं ने दृष्टि की और क्या देखा, कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उस में एक पुस्तक † है। १० उसको उस ने मेरे साम्हने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी; और जो उस में लिखा था, वे विलाप और शोक और दुःखभरे वचन थे।

३ तब उस ने मुझ से कहा हे मनुष्य के सन्तान, जो तुम्हें मिला है उसे खा ले; अर्थात् इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। २ सो मैं ने मुँह खोला और उस ने वह पुस्तक मुझे खिला दी। ३ तब उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, यह पुस्तक जो मैं तुम्हें देता हूँ उसे पचा ले,

* मूल में—कठोर मुखवाले। और बलवन्त हृदयवाले।

† वा लपेटा हुआ त्मार।

* मूल में—फिर लड़के।

श्रीर अपनी अन्तड़ियां इस से भर ले । सो मैं ने उसे खा लिया; और मेरे मुह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी ॥

४ फिर उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना । ५ क्योंकि तू किसी अनोखी बोली वा कठिन भाषा-वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परन्तु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है । ६ अनोखी बोली वा कठिन भाषावाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके, तू नहीं भेजा जाता । निःसन्देह यदि मैं तुम्हें ऐसेो के पास भेजता तो वे तेरी सुनते । ७ परन्तु इस्राएल के घरानेवाले तेरी सुनने से इनकार करेगे; वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं; क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ * और कठोर मन का है । ८ देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के साम्हने, और तेरे माथे को उनके माथे के साम्हने, ढीठ कर देता हूं । ९ मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है; सो तू उन से न डरना, और न उनके मुह देखकर तेरा मन कच्चा हो; क्योंकि वे बलवई घराने के हैं । १० फिर उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, जितने वचन मैं तुम्हें से कहूँ, वे सब हृदय मे रख और कानों से सुन । ११ और उन बंधुओं के पास जाकर, जो तेरे जाति भाई हैं, उन से बातें करना और कहना, कि प्रभु यहोवा यों कहता है; चाहे वे सुने, व न सुने ॥

१२ तब आत्मा ने मुझे उठाया, और मैं ने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ

* मूल में—बलवन्त माथे का ।

एक शब्द सुना, कि यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है । १३ और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पक्षों का शब्द, जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके सग के पहियों का शब्द और एक बड़ी ही घड़घड़ाहट सुन पड़ी । १४ सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई, और मैं कठिन दुःख से भरा * हुआ, और मन मे जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी †; १५ और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे । और वहा मैं सात दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा ॥

१६ सात दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १७ हे मनुष्य के सन्तान मैं ने तुम्हें इस्राएल के घराने के लिये पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुह की बात सुनकर, उन्हें मेरी ओर से चिताना । १८ जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए, और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिस से कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परन्तु उसके खून का लेखा मैं तुम्ही से लूंगा । १९ पर यदि तू दुष्ट को चिताए, और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा; परन्तु तू अपने प्राणों को बचाएगा । २० फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, और मैं उसके

* मूल में—मैं कबुवा ।

† मूल में—यहोवा का हाथ मुझ पर प्रबल था ।

साम्हने ठोकर रखूँ, तो वह भर जाएगा, क्योंकि तू ने जो उसको नहीं चिताया, इसलिये वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा; और जो धर्म के कर्म उस ने किए हों, उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुम्हीं से लूँगा। २१ परन्तु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए, कि वह पाप न करे, और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा, और तू अपने प्राण को बचाएगा ॥

२२ फिर यहोवा की शक्ति * वही मुझ पर प्रगट हुई, और उस ने मुझ से कहा, उठकर मैदान में जा; और वहाँ मैं तुझ से बातें करूँगा। २३ तब मैं उठकर मैदान में गया, और वहाँ क्या देखा, कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर, बैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है; और मैं मुँह के बल गिर पड़ा। २४ तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, फिर वह मुझ से कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बन्द करके बैठ रह। २५ और हे मनुष्य के सन्तान, देख; वे लोग तुम्हें रस्सियों से जकड़कर बान्ध रखेंगे, और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। २६ और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊँगा; जिस से तू मौन रहकर उनका डाँटनेवाला न हो, क्योंकि वे बलवई घराने के हैं। २७ परन्तु जब जब मैं तुझ से बातें करूँ, तब तब तेरे मुँह को खोलूँगा, और तू उन से ऐसा कहना, कि प्रभु यहोवा यों कहता है, जो सुनता है

वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने, वे तो बलवई घराने के हैं ही ॥

४ और हे मनुष्य के सन्तान, तू एक ईट ले और उसे अपने साम्हने रखकर उस पर एक नगर, अर्थात् यरूशलेम का चित्र खींच; २ तब उसे घेर अर्थात् उसके विरुद्ध क़िना बना और उसके साम्हने दमदमा बान्ध; और छावनी डाल, और उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा। ३ तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपनाह मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर; तब अपना मुँह उसके साम्हने करके उसे घेरवा, इस रीति से तू उसे घेर रखना। यह इस्राएल के घराने के लिये चिन्ह ठहरेगा ॥

४ फिर तू अपने बायें पांजर के बल लेटकर इस्राएल के घराने का अघर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस पांजर के बल लेटा रहेगा, उतने दिन तक उन लोगों के अघर्म का भार सहता रह। ५ मैं ने उनके अघर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिये दिन ठहराए हैं, अर्थात् तीन सौ नब्बे दिन; उतने दिन तक तू इस्राएल के घराने के अघर्म का भार सहता रह। ६ और जब इतने दिन पूरे हो जाए, तब अपने दहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अघर्म का भार सह लेना; मैं ने उसके लिये भी और तेरे लिये एक वर्ष की सन्ती एक दिन अर्थात् चावीस दिन ठहराए हैं। ७ और तू यरूशलेम के घेरने के लिये बांह उधाड़े हुए अपना मुँह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी करना। ८ और देख, मैं तुम्हें रस्सियों से जकड़ूँगा, और जब तक उसके घेरने के

* मूल में—का हाथ।

दिन पूरे न हों, तब तक तू करवट न ले सकेगा ॥

६ और तू गेहूँ, जव, सेम, मसूर, बाजरा, और कठिया गेहूँ लेकर, एक बासन में रखकर उन से रोटी बनाया करना । जितने दिन तू अपने पाजर के बल लेटा रहेगा, उतने अर्थात् तीन सौ नब्बे दिन तक उसे खाया करना । १० और जो भोजन तू खाए, उसे तौल तौलकर खाना, अर्थात् प्रति दिन बीस बीस शकैल भर खाया करना, और उसे समय समय पर खाना । ११ पानी भी तू मापकर पिया करना, अर्थात् प्रति दिन हीन का छठवां अंश पीना; और उसको समय समय पर पीना । १२ और अपना भोजन जव की रोटियों की नाई बनाकर खाया करना, और उसको मनुष्य की विष्टा से उनके देखते बनाया करना । १३ फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इस्राएल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे, जहां में उन्हें बरबस पहुँचाऊंगा । १४ तब मैं ने कहा, हाय, यहोवा परमेश्वर देख, मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ, और न मैं ने बचपन से लेकर अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए वा फाड़े हुए पशु का मांस खाया, और न किसी प्रकार का धिनीना मांस मेरे मुह में कभी गया है । १५ तब उस ने मुझ से कहा, देख, मैं ने तेरे लिये मनुष्य की विष्टा की सन्ती गोबर ठहराया है, और उसी से तू अपनी रोटी बनाना । १६ फिर उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, देख, मैं यरूशलेम में अन्नरूपी आधार को दूर करूँगा; सो वहाँ के लोग तौल तौलकर और चिन्ता कर करके रोटी खाया करेंगे; और माप

मापकर और विस्मित हो होकर पानी पिया करेंगे । १७ और इस से उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी; और वे सब के सब घबराएंगे, और अपने अधर्म में फसे हुए मूल जागेंगे * ॥

५ और हे मनुष्य के सन्तान, एक पानी तलवार ले, और उसे नाऊ के छुरे के काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मूँड डाल; तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर । २ जब नगर के घिरने के दिन पूरे हों, तब नगर के भीतर एक तिहाई अंश में डालकर जलाना, और एक तिहाई लेकर चारों ओर तलवार से मारना, और एक तिहाई को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊँगा । ३ तब इन में से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बान्धना । ४ फिर इन में से भी थोड़े से लेकर अंश के बीच डालना कि वे अंश में जल जाए; तब उसी में से एक लौ भडककर इस्राएल के सारे घराने में फल जाएगी ॥

५ प्रभु यहोवा यो कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है; मैं ने उसको अन्नजातियों के बीच में ठहराया, और वह चारों ओर देशों से घिरी है । ६ उस ने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्नजातियों से अधिक दुष्टता की, और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है; क्योंकि उन्होंने ने मेरे नियम तुच्छ जाने, और वे मेरी विधियों पर नहीं चले । ७ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक

* मूल में—गल जाएंगे ।

हुल्लड मचाते, और न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया, ८ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ; और अन्यजातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूँगा। ९ और तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूँगा, जैसा न अब तक किया है, और न भविष्य में फिर करूँगा। १० सो तेरे बीच लड़केवाले अपने अपने बाप का, और बाप अपने अपने लड़केवालों का मांस खाएंगे; और मैं तुझ को दण्ड दूँगा, ११ और तेरे सब बच्चे हुआओं को चारों ओर तितर-बितर करूँगा। इसलिये प्रभु यहोवा की यह वाणी है, कि मेरे जीवन की सौगन्ध, इसलिये कि तू ने मेरे पवित्र-स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूरतों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊँगा, और तुझ पर दया की दृष्टि न करूँगा, और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूँगा। १२ तेरी एक तिहाई तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी; एक तिहाई तेरे आस पास तलवार से मारी जाएगी; और एक तिहाई को मैं चारों ओर तितर-बितर करूँगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊँगा। १३ इस प्रकार से मेरा कोप शान्त होगा, और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर * मैं शान्ति पाऊँगा, और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूँ, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है। १४ और

मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच, सब बटोहियों के देखते हुए उजाड़ूँगा, और तेरी नामधराई कराऊँगा। १५ सो जब मैं तुझ को कोप और जल-जलाहट और रिसवाली घुड़कियों के साथ दण्ड दूँगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के साम्हने नामधराई, टट्टा, धासा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है। १६ यह उस समय होगा, जब मैं उन लोगों को नाश करने के लिये तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर, तुम्हारे बीच महंगी बढाऊँगा, और तुम्हारे अन्नरूपी आधार को दूर करूँगा। १७ और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जन्तु भेजूँगा जो तुम्हें निःसन्तान करेंगे; और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे; और मैं तुम पर तलवार चलवाऊँगा, मुझ यहोवा ने यह कहा है ॥

६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। २ हे मनुष्य के सन्तान अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, ३ और कह, हे इस्राएल के पहाड़ो, प्रभु यहोवा का वचन सुनो! प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से, और नालों और तराइयों से यों कहता है, देखो, मैं तुम पर तलवार चलवाऊँगा, और तुम्हारे पूजा के ऊँचे स्थानों को नाश करूँगा। ४ तुम्हारी बेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी; और मैं तुम में से मारे हुआओं को तुम्हारी मूरतों के आगे फेंक दूँगा। ५ मैं इस्राएलियों की लोपों को उनकी मूरतों के साम्हने रखूँगा, और उनकी * हड्डियों

* जलजलाहट को शिराम देकर।

* मूल में—गुम्हारी।

को तुम्हारी बेदियों के आस पास छितरा दूंगा। ६ तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे, कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे, तुम्हारी बेदियां उजड़ेंगी और ढाई जाएंगी, तुम्हारी मूर्तें जाती रहेगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी; और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। ७ और तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

८ तौभी मैं कितनों को बचा रखूंगा। सो जब तुम देश देश में तितर-बितर होगे, तब अन्यजातियों के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। ९ और वे बचे हुए लोग, उन जातियों के बीच, जिन में वे बंधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे; और-यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसे लगी है जिस से यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण, जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेगे। १० तब वे जान लगे कि मैं यहोवा हूँ, और उनकी सारी हानि करने को मैं ने जो यह कहा है, उसे व्यर्थ नहीं कहा ॥

११ प्रभु यहोवा यों कहता है, कि अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटककर कह, इस्राएल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय, हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख, और मरी से नाश हो जाएंगे। १२ जो दूर हो वह मरी से मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा; और जो बचकर नगर में रहते हुए बेरा जाए, वह भूख

से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा। १३ और जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर, और हर एक हरे पेड़ के नीचे, और हर एक घने बांजबृक्ष की छाया में, जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगन्ध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी बेदियों के आस पास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे; तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। १४ मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले दिबला की ओर तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

७ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यों कहता है, कि अन्त हुआ; चारों कोनों समेत देश का अन्त आ गया है। ३ तेरा अन्त भी आ गया, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चालचलन के अनुसार तुझे दण्ड दूंगा; और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। ४ मेरी दयादृष्टि तुझ पर न होगी, और न मैं कोमलता करूंगा; और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चालचलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ ॥

५ प्रभु यहोवा यों कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है! देखो, वह आती है। ६ अन्त आ गया है, सब का अन्त आया है; वह तेरे विरुद्ध जागा है। देखो, वह आता है। ७ हे देश के निवासी, तेरे लिये चक्र घूम चुका, समय आ गया,

दिन निकट है; पहाड़ों पर आनन्द के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड ही का होगा। ८ अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुम्ह पर भड़काऊंगा *, और तुम्ह पर पूरा कोप उगड़ेलूंगा और तेरे चालचलन के अनुसार तुम्हें दण्ड दूंगा। और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। ९ मेरी दयादृष्टि तुम्ह पर न होगी और न मैं तुम्ह पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चालचलन का फल तुम्हें भुगताऊंगा, और तेरे घिनौने पाप तुम्ह में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यही दण्ड देनेवाला हूँ।

१० देखो, उस दिन को देखो, वह आता है! चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है। ११ उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दण्ड बन गया, उन में से कोई न बचेगा, और न उनकी भीड़-भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा; और न उन में से किसी के लिये विलाप सुन पड़ेगा। १२ समय आ गया, दिन निकट आ गया है; न तो मोल लेनेवाला आनन्द करे और न बेचनेवाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। १३ चाहे वे जीवित रहे, तीभी बेचनेवाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा; क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी; कोई न लौटेगा, कोई भी मनुष्य, जो अधर्म में जीवित रहता है, बल न पकड़ सकेगा।

१४ उन्होंने ने नरसिगा फूका और सब कुछ तैयार कर दिया; परन्तु युद्ध में कोई नहीं जाता क्योंकि देश की सारी

* मूल में—उगड़ेलूंगा।

भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। १५ बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी हैं; जो मैदान में ही वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में ही वह भूख और मरी से मारा जाएगा। १६ और उन में से जो बच निकलेगे वे बचेगे तो सही परन्तु अपने अपने अधर्म में फसे रहकर तराइयों में रहनेवाले कबूतरों की नाईं पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। १७ सब के हाथ ढीले और सब के घुटने अति निर्बल हो जाएंगे *। १८ और वे कमर में टाट कसेगे, और उनके रोए खड़े होंगे; सब के मुंह सूख जाएंगे और सब के सिर मूंडे जाएंगे। १९ वे अपनी चान्दी सडकों में फँक देंगे, और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा; यहीवा की जलन के दिन उनका सोना चान्दी उनको बचा न सकेगी, न उस से उनका जी सन्तुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे। क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। २० उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने ने गर्व ही गर्व करके उस में अपनी घृणित वस्तुओं की मूरतें, और घृणित वस्तुएं बना रखी; इस कारण मैं ने उसे उनके लिये अशुद्ध वस्तु ठहराया है। २१ और मैं उसे लूटने के लिये परदेशियों के हाथ, और धन छीनने के लिये पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा; और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। २२ मैं उन से मुंह फेर लूंगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे; डाकू उस में घुसकर उसे अपवित्र करेंगे।

* मूल में—जल ही [बनकर बह] जायेंगे।

२३ एक सांकल बना दे, क्योंकि देश
अन्याय की हत्या से, और नगर उपद्रव
से भरा हुआ है। २४ मैं अन्यजातियों
के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके
घरों के स्वामी हो जाएंगे; और मैं
सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके
पवित्रस्थान अपवित्र किए जाएंगे।
२५ सत्यानाश होने पर है तब दूढ़ने पर भी
उन्हे शान्ति न मिलेगी। २६ विपत्ति
पर विपत्ति आएगी और उडती हुई चर्चा
पर चर्चा सुनाई पड़ेगी; और लोग
भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परन्तु
याजक के पास से व्यवस्था, और पुरनिये
के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती
रहेगी। २७ राजा तो शोक करेगा, और
रईस उदासीरूपी वस्त्र पहिनेंगे, और
देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं
उनके चलन के अनुसार उन से बर्ताव
करूंगा, और उनकी कमाई के समान
उनको दण्ड दूंगा; तब वे जान लेंगे कि
मैं यहोवा हूँ ॥

८ फिर छठवे वर्ष के छठवे महीने
के पांचवे दिन को जब मैं अपने
घर में बैठा था, और यहूदियों के पुरनिये
मेरे साम्हने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की
शक्ति * वही मुझ पर प्रगट हुई। २ और
मैं ने देखा कि आग का सा एक रूप
दिखाई देता है; उसकी कमर से नीचे की
ओर आग है, और उसकी कमर से ऊपर की
ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी
कुछ है। ३ उस ने हाथ सा कुछ बढ़ाकर
मेरे सिर के बाल पकड़े, तब आत्मा ने
मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर
परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम

* मूल में—का हाथ।

के मन्दिर के भीतर, आगन के उस फाटक
के पास पहुँचा दिया जिसका मुह उत्तर
की ओर है, और जिस में उस जलन
उपजानेवाली प्रतिमा का स्थान था जिसके
कारण द्वेष उपजता है। ४ फिर वहाँ
इस्त्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही
था जैसा मैं ने मंदान में देखा था ॥

५ उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य
के सन्तान, अपनी आँखें उत्तर की ओर
उठाकर देख। सो मैं ने अपनी आँखें
उत्तर की ओर उठाकर देखा कि बेदी
के फाटक की उत्तर की ओर उसके प्रवेश-
स्थान ही में वह डह उपजानेवाली प्रतिमा
है। ६ तब उस ने मुझ से कहा, हे
मनुष्य के सन्तान, क्या तू देखता है कि ये
लोग क्या कर रहे हैं? इस्त्राएल का
घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहा
करता है, ताकि मैं अपने पवित्रस्थान
से दूर हो जाऊँ; परन्तु तू इन से भी
अधिक घृणित काम देखेगा ॥

७ तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले
गया, और मैं ने देखा, कि भीत में एक
छेद है। ८ तब उस ने मुझ से कहा,
हे मनुष्य के सन्तान, भीत को फोड़;
सो मैं ने भीत को फोड़कर क्या देखा कि
एक द्वार है। ९ उस ने मुझ से कहा,
भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे
कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं।
१० सो मैं ने भीतर जाकर देखा कि
चारों ओर की भीत पर जाति जाति
के रंगनेवाले जन्तुओं और घृणित पशुओं
और इस्त्राएल के घराने की सब मूर्तों
के चित्र खिचे हुए हैं। ११ और इस्त्राएल
के घराने के पुरनियों में से सत्तर पुरुष
जिन के बीच में शापान का पुत्र याजन्याह
भी है, वे उन चित्रों के साम्हने खड़े हैं,

श्रीर हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए है; श्रीर धूप के धूप के बादल की सुगन्ध उठ रही है। १२ तब उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, क्या तू ने देखा है कि इस्राएल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशीवाली क्लोठरियों के भीतर अर्थात् अग्निधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हम को नहीं देखता; यहोवा ने देश को त्याग दिया है। १३ फिर उस ने मुझ से कहा, तू इन से श्रीर भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं।

१४ तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था और वहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई तम्मूज के लिये रो रही थी। १५ तब उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, क्या तू ने यह देखा है? फिर इन से भी बड़े घृणित काम तू देखेगा।

१६ तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया; और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और बेदी के बीच कोई पच्चीस पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे; और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दगडवत् कर रहे थे। १७ तब उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, क्या तू ने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिये घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्हीं ने अपने देश को उपद्रव से भर दिया, और फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं। वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। १८ इसलिये मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूँगा, न

मैं दया करूँगा और न मैं कोमलता करूँगा; और चाहे वे मेरे कानों में ऊँचे शब्द से पुकारें, तौमी मैं उनकी बात न सुनूँगा।

९ फिर उस ने मेरे कानों में ऊँचे शब्द से पुकारकर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। २ इस पर छः पुरुष, उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए; और उनके बीच सन का वस्त्र पहिने, कमर में लिखने की दवात बान्धे हुए एक और पुरुष था; और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए।

३ और इस्राएल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की डेवड़ी पर उठ आया था; और उस ने उस सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बान्धे हुए था, पुकारा। ४ और यहोवा ने उस से कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उस में किए जाते हैं, सांसे भरते और दुःख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे। ५ तब उस ने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ; किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। ६ बूढ़े, युवा, कुंवारी, बालबन्धे, स्त्रियाँ, सब को मारकर नाश करो, परन्तु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। और मेरे पवित्रस्थान

ही से आरम्भ करो। और उन्होंने ने उन पुरनियों से आरम्भ किया जो भवन के साम्हने थे। ७ फिर उस ने उन से कहा, भवन को अशुद्ध करो, और आंगनों को लोथों से भर दो। चलो, बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। ८ जब वे मार रहे थे, और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा ! क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भडकाकर * इस्राएल के सब बच्चे हुआओं को भी नाश करेगा ?

९ तब उस ने मुझ से कहा, इस्राएल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यन्त ही अधिक है, यहा तक कि देश हत्या में और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहने हैं कि यहोवा ने पृथ्वी † को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता। १० इसलिये उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूंगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा।

११ तब मैं ने क्या देखा, कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए और कमर में दवात बान्धे था, उस ने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तू ने आज्ञा दी, मैं ने वैसे ही किया है।

१० इसके बाद मैं ने देखा कि कर्बो के सिरों के ऊपर जो आकाशमण्डल है, उस में नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। २ तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष से कहा, घूमनेवाले पहियों के बीच कर्बो के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्टियों को कर्बो

* मूल में—उखेलेते उखेलेते।

† वा इस देश।

के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर छितरा दे।।

सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। ३ जब वह पुरुष भीतर गया, तब वे करुब भवन की दक्खिन ओर खड़े थे; और बादल भीतरवाले आंगन में भरा हुआ था। ४ तब यहोवा का तेज करूबो के ऊपर से उठकर भवन की डेवढी पर आ गया, और बादल भवन में भर गया, और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। ५ और कर्बों के पखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था, वह सर्वशक्तिमान् परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था।।

६ जब उस ने सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष को घूमनेवाले पहियों के भीतर कर्बों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिये के पास खड़ा हुआ। ७ तब कर्बों के बीच से एक करुब ने अपना हाथ बढ़ाकर, उस आग में से जो कर्बों के बीच में थी, कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहिने हुए पुरुष की मुट्टी में दे दी, और वह उसे लेकर बाहर चला गया। ८ कर्बो के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था।।

९ तब मैं ने देखा, कि कर्बों के पास चार पहिये हैं, अर्थात् एक एक करुब के पास एक एक पहिया है, और पहियों का रूप फीरोजा का सा है। १० और उनका ऐमा रूप है, कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया हो। ११ चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं, और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही

उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। १२ और पीठ हाथ और पंखों समेत कर्बुबों का सारा शरीर और जो पहिये उनके हैं, वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। १३ मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात् घूमनेवाले पहिये। १४ और एक एक के चार चार मुख थे; एक मुख तो कर्बुब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा, और चौथा उकाव पक्षी का सा ॥

१५ और कर्बुब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी हैं, जो मैं ने कबार नदी के पास देखे थे। १६ और जब जब मैं कर्बुब चलते थे तब तब वे पहिये उनके पास पास चलते थे; और जब जब कर्बुब पृथ्वी पर से उठने के लिये अपने पंख उठाते तब तब पहिये उनके पास से नहीं मुड़ते थे। १७ जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे; और जब वे उठते तब ये भी उनके सग उठते थे; क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इन में भी रहती थी ॥

१८ यहोवा का तेज भवन की डेवडी पर से उठकर कर्बुबों के ऊपर ठहर गया। १९ और कर्बुब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए; और पहिये भी उनके सग सग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए; और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा ॥

२० ये वे ही जीवधारी हैं जो मैं ने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे; और मैं ने जान लिया कि वे भी कर्बुब हैं। २१ हर एक के चार मुख और चार पंख और पंखों के नीचे

मनुष्य के से हाथ भी थे। २२ और उनके मुखों का रूप वही है जो मैं ने कबार नदी के तीर पर देखा था। और उनके मुख ही क्या वरन उनकी सारी देह भी वैसी ही थी। वे सीधे अपने अपने साम्हने ही चलते थे ॥

११ तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुँचा दिया; और वहाँ मैं ने क्या देखा, कि फाटक ही में पच्चीस पुरुष हैं। और मैं ने उनके बीच अज्जूर के पुत्र याज्न्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। २ तब उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं वे ये ही हैं। ३ ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उस में का मांस हैं। ४ इसलिये हे मनुष्य के सन्तान, इनके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, भविष्यद्वाणी ॥

५ तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा, और मुझ से कहा, ऐसा कह, यहोवा यो कहता है, कि हे इस्राएल के घराने तुम ने ऐसा ही कहा है; जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, उसे मैं जानता हूँ। ६ तुम ने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला वरन उसकी सड़को को लोथों से भर दिया है। ७ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, कि जो मनुष्य तुम ने इस में मार डाले हैं, उनकी लोथे ही इस नगररूपी हंडे में का मांस हैं; और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे। ८ तुम तलवार से डरते हो, और मैं

तुम पर तलवार चलाऊंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ६ में तुम को इस में से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा, और तुम को दरुद दिलाऊंगा। १० तुम तलवार से मरकर गिरोगे, और मैं तुम्हारा मुकद्दमा इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा; तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ११ यह नगर तुम्हारे लिये हंडा न बनेगा, और न तुम इस में का मास होगे; मैं तुम्हारा मुकद्दमा इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। १२ तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ; तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले, और मेरे नियमों को तुम ने नहीं माना; परन्तु अपने चारों ओर की अन्यजातियों की रीतियों पर चले हो।

१३ मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था, कि बनायाह का पुत्र पलत्याह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इस्राएल के बच्चे हुआओं को सत्यानाश कर डालेगा ?

१४ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १५ हे मनुष्य के सन्तान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से * वरत इस्राएल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ; यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है। १६ परन्तु तू उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है कि मैं ने तुम को दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर-बितर कर दिया तो है, तौभी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उन में मैं स्वयं तुम्हारे लिये थोड़े

* मूल में—तेरे भाइयों वा तेरे समीपी-जनों से।

दिन तक पवित्रस्थान ठहरूंगा। १७ इसलिये, उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, कि मैं तुम को जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में तुम तितर-बितर किए गए हो, उन में से तुम को इकट्ठा करूंगा, और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा। १८ और वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूरतें और सब घृणित काम भी उस में से दूर करेंगे। १९ और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा; और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, २० जिस से वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को मानें; और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। २१ परन्तु वे लोग जो अपनी घृणित मूरतों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है।

२२ इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए, और पहिये उनके सग संग चले; और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। २३ तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूर्व ओर है। २४ फिर आत्मा ने मुझे उठाया, और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बधुओं के पास पहुंचा दिया। और जो दर्शन मैं ने पाया था वह लोप हो गया *। २५ तब जितनी बातें यहोवा ने मुझे दिखाई थी, वे मैं ने बधुओं को बता दीं।

* मूल में—मुझ पर से उठ गया।

१२ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, तू बलवा करनेवाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिये आँखें तो हैं, परन्तु नहीं देखते; और सुनने के लिये कान तो हैं परन्तु नहीं सुनते; क्योंकि वे बलवा करनेवाले घराने के हैं। ३ इसलिये हे मनुष्य के सन्तान दिन को बंधुआई का सामान तैयार करके उनके देखते हुए उठ जाना, उनके देखते हुए अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाना। यद्यपि वे बलवा करनेवाले घराने के हैं, तभी सम्भव है कि वे ध्यान दे। ४ सो तू दिन को उनके देखते हुए बंधुआई के सामान की नाई अपना सामान निकालना, और तब तू सांभ को बंधुआई में जानेवाले के समान उनके देखते हुए उठ जाना। ५ उनके देखते हुए भीत को फोड़कर उसी से अपना सामान निकालना। ६ उनके देखते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर अन्धेरे में निकालना, और अपना मुह ढाँपे रहना कि भूमि तुझे न देख पड़े, क्योंकि मैं ने तुझे इस्राएल के घराने के लिये एक चिन्ह ठहराया है ॥

७ उस आज्ञा के अनुसार मैं ने बैसा ही किया। दिन को मैं ने अपना सामान बंधुआई के सामान की नाई निकाला, और सांभ को अपने हाथ से भीत को फोड़ा; फिर अन्धेरे में सामान को निकालकर, उनके देखते हुए अपने कंधे पर उठाए हुए चला गया ॥

८ बिहान को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ९ हे मनुष्य के सन्तान, क्या इस्राएल के घराने ने अर्थात् उस बलवा करनेवाले घराने ने तुझ से यह नहीं

पूछा, कि यह तू क्या करता है? १० तू उन से कह कि प्रभु यहोवा यों कहता है, यह प्रभावशाली वचन यरूशलेम के प्रधान पुरुष और इस्राएल के सारे घराने के विषय में है जिसके बीच में वे रहते हैं। ११ तू उन से कह, मैं तुम्हारे लिये चिन्ह हूँ; जैसा मैं ने किया है, वैसा ही इस्राएली लोगों से भी किया जाएगा; उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। १२ उनके बीच में जो प्रधान है, सो अन्धेरे में अपने कंधे पर बोझ उठाए हुए निकलेगा; वह अपना सामान निकालने के लिये भीत को फोड़ेगा, और अपना मुह ढाँपे रहेगा कि उसको भूमि न देख पड़े। १३ और मैं उस पर अपना जाल फैलाऊँगा, और वह मेरे फदे में फंसेगा, और मैं उसे कसदियों के देश के बाबूल में पहुंचा दूँगा; यद्यपि वह उस नगर में मर जाएगा, तभी उसको न देखेगा। १४ और जितने उसके सहायक उसके आस पास होंगे, उनको और उसकी सारी टोलियों को मैं सब दिशाओं में तितर-बितर कर दूँगा; और तलवार खींचकर उनके पीछे चलवाऊँगा। १५ और जब मैं उन्हें जाति जाति में तितर-बितर कर दूँगा, और देश देश में छिन्न भिन्न कर दूँगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। १६ परन्तु मैं उन में से थोड़े से लोगों को तलवार, भूख और मरी से बचा रखूँगा; और वे अपने घृणित काम उन जातियों में बखान करेंगे जिनके बीच में वे पहुंचेंगे; तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

१७ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १८ हे मनुष्य के सन्तान, कापते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराने और चिन्ता करते हुए अपना पानी पीना;

१६ और इस देश के लोगों से यों कहना, कि प्रभु यहोवा यरूशलेम और इस्राएल के देश के निवासियों के विषय में यों कहता है, वे अपनी रोटी चिन्ता के साथ खाएंगे, और अपना पानी विस्मय के साथ पीएंगे, क्योंकि देश अपने सब रहनेवालों के उपद्रव के कारण अपनी सारी भरपूरी से रहित हो जाएगा। २० और बसे हुए नगर उजड़ जाएंगे, और देश भी उजाड़ हो जाएगा; तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ।

२१ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २२ हे मनुष्य के सन्तान यह क्या कहावत है जो तुम लोग इस्राएल के देश में कहा करते हो, कि दिन अधिक हो गए हैं, और दर्शन की कोई बात पूरी नहीं हुई * ? २३ इसलिये उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं इस कहावत को बन्द करूँगा, और यह कहावत इस्राएल पर फिर न चलेगी। और तू उन से कह कि वह दिन निकट आ गया है, और दर्शन की सब बातें पूरी होने पर हैं। २४ क्योंकि इस्राएल के घराने में न तो और अधिक भूठे दर्शन की कोई बात और न कोई चिकनी-चुपडी बात फिर कही जाएगी। २५ क्योंकि मैं यहोवा हूँ; जब मैं बोलू, तब जो वचन मैं कहूँ, वह पूरा हो जाएगा। उस में विलम्ब न होगा, परन्तु, हे बलवा करनेवाले घराने तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा, और वह पूरा हो जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है।

२६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २७ हे मनुष्य के सन्तान,

* मूल में—सब दर्शन नाश हुए।

देख, इस्राएल के घराने के लोग यह कह रहे हैं कि जो दर्शन वह देखता है, वह बहुत दिन के बाद पूरा होनेवाला है; और कि वह दूर के समय के विषय में भविष्यद्वारणी करता है। २८ इसलिये तू उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलम्ब न होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ, सो वह निश्चय पूरा होगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है।

१३ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, इस्राएल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। ३ प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय, उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं, और कुछ दर्शन नहीं पाया ! ४ हे इस्राएल, तेरे भविष्यद्वक्ता खरगडहूरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। ५ तुम ने नाकों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिये भीत नहीं सुधारी, जिस से वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। ६ वे लोग जो कहते हैं, यहोवा की यह वाणी है, उन्हों ने भावी का व्यर्थ और भूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तीभी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। ७ क्या तुम्हारा दर्शन भूठा नहीं है, और क्या तुम भूठभूठ भावी नहीं कहते ? तुम कहते हो, कि यहोवा की यह वाणी है; परन्तु मैं ने कुछ नहीं कहा है।

८ इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता है, तुम ने जो व्यर्थ बात कही

और भूठे दर्शन देखे हैं, इसलिये मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, प्रभु यहोवा की यही वारणी है ॥

६ जो भविष्यद्वक्ता भूठे दर्शन देखते और भूठमूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे, न उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे, और न वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे; इस से तुम लोग जान लो कि मैं प्रभु यहोवा हूँ।

१० क्योंकि, हाँ, क्योंकि उन्होंने ने "शान्ति है", ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है जब कि शान्ति नहीं है; और इसलिये कि जब कोई भीत बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। ११ उन कच्ची लेसाई करनेवालो से कह कि वह गिर जाएगी। क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी, और बड़े बड़े झोले भी गिरेंगे, और प्रचण्ड आंधी उसे गिराएगी।

१२ सो जब भीत गिर जाएगी, तब क्या लोग तुम से यह न कहेंगे कि जो लेसाई तुम ने की वह कहाँ रही? १३ इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता है, मैं जलकर उसको प्रचण्ड आंधी के द्वारा गिराऊँगा; और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े झोले गिरेंगे कि भीत को नाश करे।

१४ इस रीति जिस भीत पर तुम ने कच्ची लेसाई की है, उसे मैं ढा दूँगा, वरन मिट्टी में मिलाऊँगा, और उसकी नेब खुल जाएगी; और जब वह गिरेगी, तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश होगे; और तुम जान लो कि मैं यहोवा हूँ। १५ इस रीति मैं भीत और उसकी कच्ची लेसाई करनेवाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊँगा;

फिर तुम से कहूँगा, न तो भीत रही, और न उसके लेसनेवाले रहे, १६ अर्थात् इस्राएल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यदाणी करते और उनकी शान्ति का दर्शन बताते थे, परन्तु प्रभु यहोवा की यह वारणी है, कि शान्ति है ही नहीं ॥

१७ फिर हे मनुष्य के सन्तान, तू अपने लोगों की स्त्रियों * से विमुख होकर, जो अपने ही मन से भविष्यदाणी करती है; उनके विरुद्ध भविष्यदाणी करके कह, १८ प्रभु यहोवा यों कहता है, जो स्त्रियाँ हाथ के सब जोड़ों के लिये तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिये कपड़े बनाती हैं, उन पर हाथ। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा रखोगी? १९ तुम ने तो मुट्टी मुट्टी भर जब और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर, और अपनी उन भूठी बातों के द्वारा, जो मेरी प्रजा के लोग तुम से सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला; और जो बचने के योग्य न थे उन प्राणों को बचा रखा है ॥

२० इस कारण प्रभु यहोवा तुम से यों कहता है, देखो, मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ, जिनके द्वारा तुम प्राणों का अहेर करती हो, इसलिये जिन्हें तुम अहेर कर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बांह पर से छीनकर उनको छुड़ा दूँगा। २१ मैं तुम्हारे सिर के बुर्के को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ

* मूल में—बेटियों।

से छुड़ाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका ग्रहेर कर सको; तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। २२ तुम ने जो भूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैं ने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुम ने दुष्ट जन को हियाव बन्धाया है, ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। २३ इस कारण तुम फिर न तो भूठा दर्शन देखोगी, और न भावी कहोगी; क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ।

१४ फिर इस्राएल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे साम्हने बंठ गए। २ तब यहोवा क्वा यह वचन मेरे पास पहुंचा, ३ हे मनुष्य के सन्तान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ते अपने मन में स्थापित की, और अपने अधर्म की ठोकर अपने साम्हने रखी है, फिर क्या वे मुझ से कुछ भी पूछने पाएंगे? ४ सो तू उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, कि इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ते अपने मन में स्थापित करके, और अपने अधर्म की ठोकर अपने साम्हने रखकर भविष्यद्वक्ता के पास आए, उसको, मैं यहोवा, उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, ५ जिस से इस्राएल का घराना, जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्यागकर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा।

६ सो इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो; और अपने सब घृणित कामों में मुंह

मोडो। ७ क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उमके बीच रहनेवाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो, जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्ते अपने मन में स्थापित करे, और अपने अधर्म की ठोकर अपने साम्हने रखे, और तब मुझ से अपनी कोई बात पूछने के लिये भविष्यद्वक्ता के पास आए, तो उसको, मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। ८ और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा, और चिन्ह ठहराऊंगा, और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा; तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ९ और यदि भविष्यद्वक्ता ने घोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यद्वक्ता को घोखा दिया है; और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नाश करूंगा। १० वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात् जैसा भविष्यद्वक्ता से पूछनेवाले का अधर्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यद्वक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। ११ ताकि इस्राएल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और न अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने; वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरे, प्रभु यहोवा की यही वाणी है।

१२ और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १३ हे मनुष्य के सन्तान, जब किसी देश के लोग मुझ से विश्वासघात करके पापी हो जाए, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अग्ररूपी आधार दूर करूँ, और उस में अकाल डालकर उस में से मनुष्य और पशु दोनों

को नाश करूँ, १४ तब चाहे उस में नूह, दानिय्येल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तौमी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे; प्रभु यहोवा की यही वारणी है। १५ यदि मैं किसी देश में दुष्ट जन्तु भेजू जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डालें, और जन्तुओं के कारण कोई उस में होकर न जाएँ, १६ तो चाहे उस में वे तीन पुरुष हों, तौमी प्रभु यहोवा की यह वारणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे; वे ही अकेले बचेंगे, परन्तु देश उजाड़ हो जाएगा।

१७ और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूँ, हे तलवार उस देश में चल; और इस रीति मैं उस में से मनुष्य और पशु नाश करूँ, १८ तब चाहे उस में वे तीन पुरुष भी हों, तौमी प्रभु यहोवा की यह वारणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। १९ यदि मैं उस देश में मरी फँलाऊँ और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर * उसका लोहूँ ऐसा बहाऊँ कि वहाँ के मनुष्य और पशु दोनों नाश हों, २० तो चाहे नूह, दानिय्येल और अय्यूब भी उस में हों, तौमी, प्रभु यहोवा की यह वारणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे ॥

२१ क्योंकि प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दण्ड पहुँचाऊँगा, अर्थात् तलवार, अकाल, दुष्ट जन्तु और मरी, जिन से मनुष्य और पशु

सब उस में से नाश हों। २२ तौमी उस में थोड़े से पुत्र-पुत्रियाँ बचेंगी जो वहाँ से निकालकर तुम्हारे पास पहुँचाई जाएँगी, और तुम उनके चालचलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूँगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूँगा, उस सब के विषय में शान्ति पाओगे। २३ जब तुम उनका चालचलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शान्ति के कारण होंगे; और तुम जान लोगे कि मैं ने यरूशलेम में जो कुछ किया, वह बिना कारण नहीं किया, प्रभु यहोवा की यही वारणी है ॥

१५ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है, उस में क्या गुण है? ३ क्या कोई वस्तु बनाने के लिये उस में से लकड़ी ली जाती, वा कोई बर्तन टांगने के लिये उस में से खूटी बन सकती है? ४ वह तो ईन्धन बनाकर आग में भोंकी जाती है; उसके दोनों सिरे आग से जल जाते, और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है, क्या वह किसी भी काम की है? ५ देख, जब वह बनी थी, तब भी वह किसी काम की न थी, फिर जब वह आग का ईन्धन होकर भस्म हो गई है, तब किस काम की हो सकती है? ६ सो प्रभु यहोवा यों कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईन्धन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को नाश कर दूँगा। ७ मैं उन से विरुद्ध हूँगा, और वे एक आग में से

* मूल में—उपदेखकर।

निकलकर फिर दूसरी भाग का इन्धन हो जाएंगे; और जब मैं उन से विमुख हूंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ । ८ और मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने ने मुझ से विश्वासघात किया है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

१६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे । ३ और उस से कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझ से यों कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई; तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हिस्तिन थी । ४ और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी, उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिये धोई गई, न तेरे कुछ लौन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपटी गई । ५ किसी की दयादृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिये एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी ॥

६ और जब मैं तेरे पास से होकर निकला, और तुझे लोहू में लोटते हुए देखा, तब मैं ने तुझ से कहा, हे लोहू में लोटती हुई जीवित रह; हा, तुझ ही से मैं ने कहा, हे लोहू में लोटती हुई, जीवित रह । ७ फिर मैं ने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया, और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुन्दर हो गई; तेरी छातियां सुठील हुईं, और तेरे बाल बढ़े; तभी तू नंगी थी ॥

८ मैं ने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो

गई थी; सो मैं ने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया; और सौगन्ध लाकर तुझ से वाचा बान्धी, और तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की यही वाणी है । ९ तब मैं ने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लोहू धो दिया, और तेरी देह पर तेल मला ।

१० फिर मैं ने तुझे बूटेदार वस्त्र और सूइसों के चमड़े की जूतियां पहिनाई; और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बान्धा, और तुझे रेसमी कपड़ा ओढ़ाया । ११ तब मैं ने तेरा शृंगार किया, और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोडा पहिनाया । १२ फिर मैं ने तेरी नाक में नख और तेरे कानों में बालियां पहिनाई, और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा । १३ तेरे धाभूषण सोने चान्दी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन, रेसम और बूटेदार कपड़े के बने; फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ; और तू अत्यन्त सुन्दर, वरन रानी होने के योग्य हो गई । १४ और तेरी सुन्दरता की कीर्ति अन्त्यजातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण, जो मैं ने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यन्त सुन्दर थी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

१५ परन्तु तू अपनी सुन्दरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी, और सब यात्रियों के सग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी । १६ तू ने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंग के ऊंचे स्थान बना लिए, और उन पर व्यभिचार किया, ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे । १७ और तू ने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए मोने-चान्दी के थे, उन से पुरुषों की मूरतें बना ली, और उन से भी व्यभिचार

करने लगी; १८ और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहिनाए, और मेरा तेल और मेरा धूप उनके साम्हने चढ़ाया। १९ और जो भोजन में ने तुम्हें दिया था, अर्थात् जो मंदा, तेल और मधु में तुम्हें खिलाता था, वह सब तू ने उनके साम्हने सुखदायक सुगन्ध करके रखा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यो ही हुआ। २० फिर तू ने अपने पुत्र-पुत्रिया लेकर जिन्हें तू ने मेरे लिये जन्म दिया, उन मूरतों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी; २१ कि तू ने मेरे लड़केबाल उन मूरतों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं? २२ और तू ने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए, अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जब कि तू नंगी अपने लोहू में लोटती थी ॥

२३ और तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? २४ प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय, तुझ पर हाय! कि तू ने एक गुम्मत बनवा लिया, और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया; २५ और एक एक सड़क के सिरे पर भी तू ने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुन्दरता घृणित करा दी, और हर एक यात्री को कुकर्म के लिये बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। २६ तू ने अपने पड़ोसी मित्रों से भी, जो मोटे-ताजे हैं, व्यभिचार किया और मुझे क्रोध दिलाने के लिये अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। २७ इस कारण मैं ने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर, तेरा प्रति दिन का खाना घटा दिया, और तेरी बैरिन पलिशती स्त्रियां जो तेरे महापाप की चाल से लजाती हैं, उनकी इच्छा पर

मैं ने तुम्हें छोड़ दिया है। २८ फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिये तू ने अशशूरी लोगों से भी व्यभिचार किया; और उन से व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। २९ फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुँची, और वहाँ भी तेरी तृष्णा न बुझी ॥

३० प्रभु यहोवा की यह वाणी है, कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है, जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम हैं? ३१ तू ने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मत, और हर चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है। ३२ तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तू पराये पुरुषों को अपने पति की सन्ती ग्रहण करती है। ३३ सब वेश्याओं को तो रूपया मिलता है, परन्तु तू ने अपने सब मित्रों को स्वयं रूपए देकर, और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुम्हें से व्यभिचार करे। ३४ इस प्रकार तेरा व्यभिचार और व्यभिचारियों से उलटा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता, और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है, इसी कारण तू उलटी ठहरी ॥

३५ इस कारण, हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन, ३६ प्रभु यहोवा यों कहता है, कि तू ने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर, अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई, और अपनी मूरतों से घृणित काम किए, और अपने लड़केबालों का लोहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, ३७ इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों

को जो तेरे प्रेमी हं और जितनों से तू ने प्रीति लगाई, और जितनों से तू ने बंर रखा, उन सभी को चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा, और वे तेरा तन देखेंगे । ३८ तब मैं तुम्ह को ऐसा दण्ड दूंगा, जैसा व्यभिचारिणियों और लोहू बहानेवाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लोहू बहाऊंगा । ३९ इस रीति में तुम्हें उनके वश में कर दूंगा; और वे तेरे गुम्मतों को ढा देगे, और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देगे; वे तेरे वस्त्र बरबस उतारेंगे, और तेरे सुन्दर गहने छीन लेंगे, और तुम्हें नंगा करके छोड़ देगे । ४० तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुम्ह को पत्थरवाह करेंगे, और अपनी कटांगे से वारपार छेदेंगे । ४१ तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देगे, और तुम्हें बहुत सी स्त्रियों के देखते दण्ड देगे; और मैं तेरा व्यभिचार बन्द कलूंगा, और तू फिर छिनाले के लिये दाम न देगी । ४२ और जब मैं तुम्ह पर पूरी जलजलाहट प्रगट कर चुकूंगा, तब तुम्ह पर और न जलूंगा वरन शान्त हो जाऊंगा, और फिर न रिसियाऊंगा । ४३ तू ने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुम्हें चिढाया, इस कारण मैं तेरा चालचलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

४४ देख, सब कहावत कहनेवाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे, कि जैसी मां बैसी पुत्री । ४५ तेरी मां जो अपने पति

और लडकेवालों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी; और तेरी बहिन जो अपने अपने पति और लडकेवालों से घृणा करती थीं, तू भी ठीक उनकी बहिन निकली । तेरी माता हित्तिन और पिता एमोरी था । ४६ तेरी बड़ी बहिन शोमरोन है, जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाईं ओर रहती है, और तेरी छोटी बहिन, जो तेरी दहिनी ओर रहती है वह पुत्रियों समेत सदोम है । ४७ तू उनकी सी चाल नहीं चली, और न उनके से घृणित कामों ही से सन्तुष्ट हुई; यह तो बहुत छोटी बात ठहरती, परन्तु तेरा सारा चालचलन उन से भी अधिक बिगड़ गया । ४८ प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, तेरी बहिन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए । ४९ देख, तेरी बहिन सदोम का अधर्म यह था, कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमण्ड करती, पेट भर भरके खाती, और सुख चैन से रहती थी; और दीन दरिद्र को न सभालती थी । ५० सो वह गर्ब करके मेरे साम्हने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैं ने उन्हें दूर कर दिया । ५१ फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आघे भी पाप नहीं किए, तू ने तो उस से बढ़कर घृणित काम किए, और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहिनो को जीत लिया * । ५२ सो तू ने जो अपनी बहिनों का न्याय किया, इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तू ने उन से बढ़कर घृणित पाप किए हैं; इस कारण वे तुम्ह से कम दोषी ठहरी हैं । सो तू इस बात से लज्जा

* मूल में—निर्दोष ठहराया ।

कर और लजाती रह, क्योंकि तू ने अपनी बहिनों को कम दोषी ठहराया है ॥

५३ जब मैं उनको अर्थात् पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से फेर लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंधुओं को भी फेर लाऊंगा, ५४ जिस से तू लजाती रहे, और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शान्ति ही का कारण हुई है। ५५ और तेरी बहिनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहिली दशा को फिर पहुंचेगी, और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहिली दशा को फिर पहुंचेगी। ५६ जब तक तेरी बुराई प्रगट न हुई थी, अर्थात् जिस समय तक तू आस पास के लोगों समेत अरामी और पलिस्ती स्त्रियों की जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती है, नामघराई करती थी, ५७ उन अपने घमण्ड के दिनों में तो तू अपनी बहिन सदोम का नाम भी न लेती थी। ५८ परन्तु अब तुझ को अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ा है, यहोवा की यही कसपी है ॥

५९ प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा, जैसा तू ने किया है, क्योंकि तू ने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है, ६० तीसरी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा, और तेरे साथ सदा की वाचा बान्धूंगा। ६१ और जब तू अपनी बहिनों को अर्थात् अपनी बड़ी और छोटी बहिनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल-चलन स्मरण करके लज्जित होगी; और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा; परन्तु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा।

६२ मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, ६३ जिस से तू स्मरण करके लज्जित हो, और लज्जा के मारे फिर कभी मुह न खोले। यह उस समय होगा, जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

१७ यहोवा का यह वचन मेरे पाम पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, इस्राएल के घराने से यह पहेली और दृष्टान्त कह; प्रभु यहोवा यों कहता है, ३ एक लम्बे पंखवाले, परों से भरे और रङ्ग बिरङ्गे बड़े उकाब पक्षी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। ४ तब उस ने उस फुनगी की सब से ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया, और उसे लेन देन करनेवालों के देश में ले जाकर ब्योपारियों के एक नगर में लगाया। ५ तब उस ने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया, और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनु की नाई लगाया। ६ और वह उगकर छोटी फलनेवाली अंगूर की लता हो गई जिसकी डालिया उसकी ओर झुकीं, और उसकी सोर उसके नीचे फैली; इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी ॥

७ फिर और एक लम्बे पंखवाला और परो से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था; और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी, उस दूसरे उकाब की ओर अपनी सोर फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। ८ परन्तु वह तो इसलिये अच्छी

भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी, कि कनखाए फोड़े, और फले, और उत्तम अंगूर की लता बने। ६ सो तू यह कह, कि प्रभु यहोवा यों पूछता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा, और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिये अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। १० चाहे, वह लगी भी रहे, तभी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे, तब क्या वह बिलकुल सूख न जाएगी? वह तो जहां उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी ॥

११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, उस बलवा करनेवाले घराने से कह, १२ क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उन से कह, बाबुल के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और और प्रधानों को लेकर अपने यहां बाबुल में पहुंचाया। १३ तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उस से वाचा बान्धी, और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई, और देश के सामर्थी पुरुषों को ले गया १४ कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने से स्थिर रहे। १५ तभी इस ने घोड़े और बड़ी सेना भागने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उस से बलवा किया। क्या वह फूले फलेगी? क्या ऐसे कामों का करनेवाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगी? १६ प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की सौगन्ध, जिस राजा की खिलाई हुई शपथ उस ने तुच्छ जानी, और जिसकी वाचा उस ने

तोड़ी, उसके यहां जिस ने उसे राजा बनाया था, अर्थात् बाबुल में ही वह उसके पास ही मर जाएगा। १७ और जब वे बहुत से प्राणियों को नाश करने के लिये दमदमा बान्धे, और गढ़ बनाएं, तब फिरौन अपनी बड़ी सेना और बहुतों की मराडली रहते भी युद्ध में उसकी सहायता न करेगा। १८ क्योंकि उस ने शपथ को तुच्छ जाना, और वाचा को तोड़ा; देखो, उस ने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, सो वह बचने न पाएगा। १९ प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की सौगन्ध, उस ने मेरी शपथ तुच्छ जानी, और मेरी वाचा तोड़ी है; यह पाप में उसी के सिर पर डालूंगा। २० और मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा और वह मेरे फन्दे में फसेगा; और मैं उसको बाबुल में पहुंचाकर उस विश्वासघात का मुकद्दमा उस से लड़ूंगा, जो उस ने मुझ से किया है। २१ और उसके सब दलों में से जितने भागों वे सब तलवार से मारे जाएंगे, और जो रह जाएं सो चारों दिशाओं में तितर-बितर हो जाएंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है ॥

२२ फिर प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं भी देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा, और उसकी सब से ऊपरवाली कनखाओं में से एक कोमल कनखा तोड़कर एक अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा। २३ अर्थात् इस्त्राएल के ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा; सो वह डालियां फोड़कर बलवन्त और उत्तम देवदार बन जाएगा, और उसके नीचे अर्थात् उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब पक्षी बसेरा करेंगे। २४ तब मैदान के

सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया, और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया है। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वंसा ही कर भी दिया है ॥

१८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ तुम लोग जो इस्राएल के देश के विषय में यह कहावत कहते हो, कि जंगली भंगूर तो पुरखा लोग खाते, परन्तु दांत खट्टे होते हैं लड़केबालों के। इसका क्या अर्थ है? ३ प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुम को इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। ४ देखो, सभी के प्राण तो मेरे हैं; जैसा पिता का प्राण, वैसा ही पुत्र का भी प्राण है; दोनों मेरे ही हैं। इसलिये जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा ॥

५ जो कोई धर्मी हो, और न्याय और धर्म के काम करे, ६ और न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूरतों की ओर आंखें उठाई हों; न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, और न ऋतुमती के पास गया हो, ७ और न किसी पर अन्धेर किया हो वरन ऋणी को उसकी बन्धक फेर दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, ८ न व्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, ९ और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा

मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

१० परन्तु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा, वा ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करनेवाला हो, ११ और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करनेवाला न हो, और पहाड़ों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, १२ दीन दरिद्र पर अन्धेर किया हो, औरों को लूटा हो, बन्धक न फेर दी हो, मूरतों की ओर आंखें उठाई हो, घृणित काम किया हो, १३ व्याज पर रुपया दिया हो, और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा; इसलिये कि उस ने ये सब घिनौने काम किए हैं वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा ॥

१४ फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हों और वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो। १५ अर्थात् न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूरतों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, १६ न किसी पर अन्धेर किया हो, न कुछ बन्धक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, १७ दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, व्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो, और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। १८ उसका पिता, जिस ने अन्धेर किया और लूटा, और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म

के कारण मर जाएगा। १६ तौभी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों, और मेरी सब विधियों का पालनकर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। २० जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का, धर्मों को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। २१ परन्तु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा; वरन जीवित ही रहेगा। २२ उस ने जितने अपराध किए हों, उन में से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा; जो धर्म का काम उस ने किया हो, उसके कारण वह जीवित रहेगा। २३ प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इस से प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? २४ परन्तु जब धर्मों अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम, वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्मों के काम उस ने किए हों, उन में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उस ने किया हो, उसके कारण वह मर जाएगा।

२५ तौभी तुम लोग कहते हो, कि प्रभु की गति एकसी नहीं। हे इस्राएल के घराने, देख, क्या मेरी गति एकसी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? २६ जब धर्मों अपने धर्म से

फिरकर, टेढ़े काम करने लगे, तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात् वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। २७ फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर, न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। २८ वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। २९ तौभी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एकसी नहीं। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एकसी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं?

३० प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चालचलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चात्ताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। ३१ अपने सब अपराधों को जो तुम ने किए हैं, दूर करो; अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो! हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? ३२ क्योंकि, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे, उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिये पश्चात्ताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे ॥

१६ और इस्राएल के प्रधानों के विषय तू यह विलापगीत सुना, २ तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी! वह सिंहों के बीच बैठ करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। ३ अपने बच्चों में से उस ने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया, और अहेर पकड़ना सीख गया; उस ने

मनुष्यों को भी फाड़ खाय। ४ और जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्बा सुनी, और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया; और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। ५ जब उसकी मां ने देखा कि वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई, तब अपने एक और बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर दिया। ६ तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा, और वह भी अहेर पकड़ना सीख गया; और मनुष्यों को भी फाड़ खाय। ७ और उस ने उनके भवनों को बिगाड़ा, और उनके नगरों को उजाड़ा वरन उसके गर्जन के डर के मारे देश और जो कुछ उस में था सब उजड़ गया। ८ तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रान्त से उसके विरुद्ध निकल आए, और उसके लिये जाल लगाया; और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। ९ तब वे उसके नकेल डालकर और कठघरे में बन्द करके बाबुल के राजा के पास ले गए, और गढ़ में बन्द किया, कि उसका बोल इस्राएल के पहाड़ी देश में फिर सुनाई न दे ॥

१० तेरी माता जिस से तू उत्पन्न हुआ *, वह तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी, और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। ११ और प्रभुता करनेवालों के राजदण्डों के लिये उस में मोटी मोटी टहनियां थीं; और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची; और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लम्बी

दिखाई पड़ी। १२ तो भी वह जलजलाहट के साथ उखाड़कर भूमि पर गिराई गई, और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गए; और उसकी मोटी टहनियां टूटकर सूख गईं; और वे आग से भस्म हो गईं। १३ अब वह जंगल में, वरन निर्जल देश में लगाई गई है। १४ और उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली, जिस से उसके फल भस्म हो गए, और प्रभुता करने के योग्य राजदण्ड के लिये उस में अब कोई मोटी टहनी न रही ॥

यही विलापगीत है, और यह विलापगीत बना रहेगा ॥

२० सातवें वर्ष के गांचवें महीने के दसवें दिन को इस्राएल के कितने पुरनिये यहोवा से प्रश्न करने को आए, और मेरे साम्हने बंठ गए। २ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ३ हे मनुष्य के सन्तान, इस्राएली पुरनियों से यह कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, क्या तुम मुझ से प्रश्न करने को आए हो? प्रभु यहोवा की यह वारणी है कि मेरे जीवन की सौगन्ध, तुम मुझ से प्रश्न करने न पाओगे। ४ हे मनुष्य के सन्तान, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय न करेगा? उनके पुरखाओं के धिनीने काम उन्हें जता दे, ५ और उन से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, जिस दिन मैं ने इस्राएल को चुन लिया, और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई, और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रगट किया, और उन से शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, ६ उसी दिन मैं ने उन से यह भी शपथ खाई, कि

* मूल में—तेरे लोहू में।

में तुम को मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा, जिसे मैं ने तुम्हारे लिये चुन लिया है; वह सब देशों का शिरोमणि है, और उस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ७ फिर मैं ने उन से कहा, जिन घिनीनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो; और मिस्र की मूरतों से अपने को प्रशुद्ध न करो; मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ८ परन्तु वे मुझ से बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही, जिन घिनीनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थीं, उनको किसी ने फेंका नहीं, और न मिस्र की मूरतों को छोड़ा।

तब मैं ने कहा, मैं यही, मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भडकाऊंगा * और पूरा कोप दिखाऊंगा। ९ तीसरी मैं ने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच वे थे, और जिनके देखते हुए मैं ने उनको मिस्र देश से निकलने के लिये अपने को उन पर प्रगट किया था उन जातियों के साम्हने वे अपवित्र न ठहरे। १० मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। ११ वहां उनको मैं ने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने, वह उनके कारण जीवित रहेगा। १२ फिर मैं ने उनके लिये अपने विश्रामदिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे; कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करनेवाला हूँ। १३ तीसरी इस्राएल के घराने ने जंगल में मुझ से बलवा किया; वे मेरी विधियों पर न चले, और मेरे नियमों को

तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा; और उन्होंने मेरे विश्रामदिनों को अति अपवित्र किया।

तब मैं ने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भडकाकर * इनका अन्त कर डालूंगा। १४ परन्तु मैं ने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के साम्हने, जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था, अपवित्र न ठहरे। १५ फिर मैं ने जंगल में उन से शपथ खाई कि जो देश मैं ने उनको दे दिया, और जो सब देशों का शिरोमणि है, जिस में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस में उन्हें न पहुंचाऊंगा, १६ क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले, और मेरे विश्रामदिन अपवित्र किए थे; इसलिये कि उनका मन उनकी मूरतों की ओर लगा रहा। १७ तीसरी मैं ने उन पर कृपा की दृष्टि की, और उन्हें नाश न किया, और न जंगल में पूरी रीति से उनका अन्त कर डाला।

१८ फिर मैं ने जंगल में उनकी सन्तान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो और न उनकी मूरतें पूजकर अपने को प्रशुद्ध करो। १९ मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो, और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो, २० और मेरे विश्रामदिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिस से तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। २१ परन्तु

* मूल में—उयडेलूंगा।

* मूल में—उयडेलकर।

उनकी सन्तान ने भी मुझ से बलवा किया; वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की; जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा; मेरे विश्रामदिनों को उन्होंने ने अपवित्र किया ॥

तब मैं ने कहा, मैं जगल में उन पर अपनी जलजलाहट भडकाकर* अपना कीप दिखलाऊंगा। २२ तौभी मैं ने हाथ खींच लिया, और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया, कि उन जातियों के साम्हने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था, वे अपवित्र न ठहरे। २३ फिर मैं ने जगल में उन से शपथ खाई, कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर-बितर करूंगा, और देश देश में छितरा दूंगा, २४ क्योंकि उन्होंने ने मेरे नियम न माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्रामदिनों को अपवित्र किया, और अपने पुरखाओं की मूरतों की ओर उनकी आंखें लगी रहीं। २५ फिर मैं ने उनके लिये ऐसी ऐसी विधियां ठहराईं जो अच्छी न थीं और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सकें; २६ अर्थात् वे अपने सब पहिलौठों को आग में होम करने लगे; इस रीति मैं ने उन्हें उन्ही की भेटों के द्वारा अशुद्ध किया जिस से उन्हें निर्वश कर डालूं; और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूं ॥

२७ हे मनुष्य के सन्तान, तू इस्त्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इस में भी मेरी निन्दा की कि उन्होंने ने मेरा विश्वासघात किया। २८ क्योंकि जब मैं ने उनको

* मूल में—उपदेसकर।

उस देश में पहुंचाया, जिसके उन्हें देने की शपथ मैं ने उन से खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वही अपने मेलबलि करने लगे और वही रिस दिलानेवाली अपनी भेटें चढ़ाने लगे और वही अपना सुखदायक सुगन्धद्रव्य जलाने लगे, और वही अपने तपावन देने लगे। २९ तब मैं ने उन से पूछा, जिम ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो, उस से क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा* कहलाता है। ३० इसलिये इस्त्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुम से यह पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर, और उनके धिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारिणी की नाई काम करते हो? ३१ आज तक जब जब तुम अपनी भेटें चढ़ाते और अपने लड़केबालो को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूरतों के निमित्त अशुद्ध ठहरते हो। हे इस्त्राएल के घराने, क्या तुम मुझ से पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ तुम मुझ से पूछने न पाओगे ॥

३२ जो बात तुम्हारे मन में आती है कि हम काठ और पत्थर के उपासक होकर अन्यजातियों और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी नहीं होने की ॥

३३ प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की शपथ में निश्चय बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से, और भडकाई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। ३४ मैं बली हाथ और

* मूल में—ऊंचा स्थान।

† अर्थात् उपदेसी।

बढ़ाई हुई भुजा से, और भड़काई * हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से भ्रमण करूंगा, और उन देशों से जिन में तुम तितर-बितर हो गए थे, इकट्ठा करूंगा; ३५ और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर, वहाँ आम्हने-साम्हने तुम से मुकद्दमा लडंगा। ३६ जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देशरूपी जंगल में मुकद्दमा लडता था, उसी प्रकार तुम से मुकद्दमा लडंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ३७ मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा, और तुम्हें बाचा के बन्धन में डालूंगा। ३८ मैं तुम से सब बलवाइयों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं, तुम्हें शुद्ध करूंगा; और जिस देश में वे टिकते हैं उस में से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परन्तु इस्राएल के देश में घुसने न दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

३९ और हे इस्राएल के घराने तुम से तो प्रभु यहोवा यों कहता है कि जाकर अपनी अपनी मूरतों की उपासना करो; और यदि तुम मेरी न सुनोगे, तो प्रागे को भी यही किया करो; परन्तु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेटों और मूरतों के द्वारा फिर अपवित्र न करना ॥

४० क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊँचे पर्वत पर, सब का सब मेरी उपासना करेगा; वही मैं उन से प्रसन्न हूँगा, और वही मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएँ, और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएँ तुम से

लिया करूंगा। ४१ जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से भ्रमण करूँ और उन देशों से जिन में तुम तितर-बितर हुए हो, इकट्ठा करूँ, तब तुम को सुखदायक सुगन्ध जानकर प्रहण करूँगा, और अन्य जातियों के साम्हने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊँगा। ४२ और जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुँचाऊँ, जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ४३ और वहाँ तुम अपनी चालचलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो स्मरण करोगे, और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। ४४ और हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चालचलन और बिगड़े हुए कामों के अनुमार नहीं, परन्तु अपने ही नाम के निमित्त बताव करूँ, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

४५ और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, ४६ हे मनुष्य के सन्तान, अपना मुख दक्खिन की ओर कर, दक्खिन की ओर वचन सुना, और दक्खिन देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर; ४७ और दक्खिन देश के वन से कह, यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं तुम्हें प्राग लगाऊँगा, और तुम्हें क्या हरे, क्या सूखे, जितने पेड़ हैं, सब को वह भस्म करेगी; उसकी घघकती ज्वाला न बुझेगी, और उसके कारण दक्खिन से उत्तर तक सब के मुख झुलस जाएंगे। ४८ तब सब प्राणियों को सूख पड़ेगा कि यह प्राग यहोवा की लगाई हुई है; और वह कभी न

* अर्थात् डयडेसी।

बुझेगी। ४६ तब मैं ने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा ! लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टान्त ही का कहनेवाला नहीं है ?

२१ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्रस्थानों की ओर वचन सुना *; इस्राएल देश के विषय में भविष्यद्वाणी कर और उस से कह, ३ प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और अपनी तलवार मियान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करूँगा। ४ इसलिये कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सब को नाश करनेवाला हूँ, इस कारण मेरी तलवार मियान से निकलकर दक्खिन से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी; ५ तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने मियान में से अपनी तलवार खींची है; और वह उस में फिर रखी न जाएगी। ६ सो हे मनुष्य के सन्तान, तू आह मार, भारी खेद कर, और टूटी कमर लेकर लोगों के साम्हने आह मार। ७ और जब वे तुझ से पूछें कि तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण। क्योंकि ऐसी बात आनेवाली है कि सब के मन टूट जाएंगे और सब के हाथ ढीले पड़ेंगे, सब की आत्मा बेबस और सब के घुटने निर्बल † हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आनेवाली है, और वह अवश्य पूरी होगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

* मूल में—फिरकर टपका।

† मूल में—जल की नाईं निर्बल।

८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के सन्तान, भविष्यद्वाणी करके कह, ९ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख, सान चढ़ाई हुई तलवार, और भलकाई हुई तलवार ! १० वह इसलिये सान चढ़ाई गई कि उस से घात किया जाए, और इसलिये भलकाई गई कि बिजली की नाईं चमके ! तो क्या हम हर्षित हो ? वह तो यहोवा के * पुत्र का राजदण्ड है और सब पेड़ों को तुच्छ जाननेवाला है। ११ और वह भलकाने को इसलिये दी गई कि हाथ में ली जाए, वह इसलिये सान चढ़ाई और भलकाई गई कि घात करनेवालों के हाथ में दी जाए। १२ हे मनुष्य के सन्तान चिल्ला, और हाय, हाय, कर ! क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वह इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है; मेरी प्रजा के सग वे भी तलवार के वश में आ गए। इस कारण तू अपनी छाती † पीट। १३ क्योंकि सचमुच उसकी जाच हुई है, और यदि उसे तुच्छ जाननेवाला राजदण्ड भी न रहे, तो क्या ? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

१४ सो हे मनुष्य के सन्तान, भविष्यद्वाणी कर, और हाथ पर हाथ दे मार, और तीन बार तलवार का बल दुगुना किया जाए; वह तो घात करने की तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, जिस से कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता ‡। १५ मैं ने घात करनेवाली तलवार को उनके सब फाटकों

* मूल में—मेरे। † मूल में—जाँघ।

‡ मूल में—जो उनकी कोठरियों में बैठती

है।

के विरुद्ध इसलिये चलाया है कि लोगों के मन टूट जाएं, और बे बहुत ठोकर खाए। हाय, हाय ! वह तो बिजली के समान बनाई गई, और घात करने को सान चढ़ाई गई है। १६ सिकुड़कर दहिनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाई ओर मुड़, जिधर भी तेरा मुख हो। १७ मे भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा, मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है ॥

१८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १९ हे मनुष्य के सन्तान, दो मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए; दोनो मार्ग एक ही देश से निकलें। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात् नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर, २० एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनियों के रब्बा नगर पर, और यहूदा देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी चले। २१ क्योंकि बाबुल का राजा तिर्मुहाने अर्थात् दोनों मार्गों के निकलने के स्थान भर भावी बूझने को खडा हुआ है, उस ने तीरों को हिला दिया, और गृहदेवताओं से प्रश्न किया, और कलेजे को भी देखा। २२ उसके दहिने हाथ में यरूशलेम का नाम * है कि वह उसकी ओर युद्ध के यन्त्र लगाए, और गला फाड़कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे, फाटकों की ओर युद्ध के यन्त्र लगाए और दमदमा बान्धे और कोट बनाए। २३ परन्तु लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे; उन्होंने ने जो उनकी शपथ खाई है; इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा ॥

* मूल में—भावी।

२४ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, इसलिये कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है, और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है, और तुम स्मरण में आए हो, इसलिये तुम उन्ही से पकड़े जाओगे। २५ और हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अन्त का समय पहुंच गया है। २६ तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यों कहता है, पगडी उतार, और मुकुट भी उतार दे; वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। २७ में इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हा उलट दूंगा और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उलटा हुआ रहेगा; तब में उसे दे दूंगा ॥

२८ फिर हे मनुष्य के सन्तान, भविष्यद्वारागी करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उनकी की हुई नामधराई के विषय में यों कहता है; तू यों कह, खींची हुई तलवार है, वह तलवार घात के लिये भलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो—२९ जब तक कि बे तेरे विषय में भूटे दर्शन पाते, और भूटे भावी तुझ को बताते हैं—कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनो पर पड़े जिनका दिन आ गया, और जिनके अधर्म के अन्त का समय आ पहुंचा है। ३० उसको मियान में फिर रख। जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा। ३१ और मैं तुझ पर अपना

क्रोध भड़काऊंगा * और तुम्ह पर अपनी जलजलाहट की आग फूक दूंगा; और तुम्हें पशु सरीसृप मनुष्य के हाथ कर दूंगा जो नाश करने में निपुण हैं। ३२ तू आग का कौर होगी; तेरा खून देश में बना रहेगा; तू स्मरण में न रहेगी; क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है ॥

२२ और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब धिनीने काम जता दे, ३ और कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे नगर तू अपने बीच में हत्या करता है जिस से तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिये मूरते बनाता है। ४ जो हत्या तू ने की है, उस से तू दोषी ठहरी, और जो मूरते तू ने बनाई है, उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है, तू ने अपने अन्त के दिन को समीप कर लिया, और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैं ने तुम्हें जाति जाति के लोगों की ओर से नामधरार्ई का, और सब देशों के ठट्टे का कारण कर दिया है। ५ हे बदनाम, हे हुल्लड से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर हैं, वे सब तुम्हें ठट्टों में उडाएंगे ॥

६ देख, इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुम्ह में हत्या करनेवाले हुए हैं। ७ तुम्ह में माता-पिता तुच्छ जाने गए हैं; तेरे बीच परदेशी पर अन्धेर किया गया; और अनाथ और विधवा तुम्ह में पीसी गई हैं। ८ तू

* मूल में—उयडेलूंगा।

ने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना, और मेरे विश्रामदिनों को अपवित्र किया है। ९ तुम्ह में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है; तेरे बीच महापाप किया गया है। १० तुम्ह में पिता की देह उघारी गई; तुम्ह में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। ११ किसी ने तुम्ह में पड़ोसी की स्त्री के साथ धिनीना काम किया; और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है; और किसी ने अपनी बहिन अर्थात् अपने पिता की बेटी को भ्रष्ट किया है। १२ तुम्ह में हत्या करने के लिये उन्हो ने घूस ली है, तू ने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीसकर अन्याय में लाभ उठाया; और मुझ को तू ने भुला दिया है, प्रभु यहोवा की यही वारणी है ॥

१३ सो देख, जो लाभ तू ने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उस से मैं ने हाथ पर हाथ दे मारा है। १४ सो जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उन में तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है, और ऐसा ही करूंगा। १५ मे तेरे लोगों को जाति जाति में तितर-बितर करूंगा, और देश देश में छितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता को तुम्ह में से नाश करूंगा। १६ और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी; तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ ॥

१७ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १८ हे मनुष्य के सन्तान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मूल हो गया है; वे सब के सब भट्टी के बीच

के पीतल और रागे और लोहे और शीशे के समान बन गए; वे चान्दी के मेल के समान हो गए हैं। १६ इस कारण प्रभु यहोवा उन से यों कहता है, इसलिये कि तुम सब के सब धातु के मेल के समान बन गए हो, सो देखो, मैं तुम को यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। २० जैसे लोम चान्दी, पीतल, लोहा, शीशा, और रांगा इसलिये भट्टी के भीतर बटोरकर रखते हैं कि उन्हें आग फूककर पिघलाएं, वैसे ही मैं तुम को अपने कोप और जल-जलाहट से इकट्ठा करके वही रखकर पिघला दूंगा। २१ मैं तुम को वहां बटोरकर अपने रोष की आग से फूकूंगा, और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। २२ जैसे चान्दी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे; तब तुम जान लोगे कि जिस ने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई* है, वह यहोवा है ॥

२३ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २४ हे मनुष्य के सन्तान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ, और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। २५ तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गेरजनेवाले सिंह की नाई अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है; वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं, और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। २६ उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच-खांचकर लगाया है, और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है; उन्होंने ने

पवित्र-अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना, और न अशुद्ध-अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्रामदिनों के विषय में निश्चिन्त रहते हैं*, जिस से मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। २७ उसके प्रधान हुडारों की नाई अहेर पकड़ते, और अन्याय से लाभ उठाने के लिये हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। २८ और उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिये कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है, यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भाबी बताते हैं कि "प्रभु यहोवा यों कहता है"। २९ देश के साधारण लोग भी अन्धे करते और पराया धन छीनते हैं, वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिन्ता छोड़कर परदेशी पर अन्धे करते हैं। ३० और मैं ने उन में ऐसा मनुष्य ढूँढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे साम्हने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परन्तु ऐसा कोई न मिला। ३१ इस कारण मैं ने उन पर अपना रोष भड़काया† और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है; मैं ने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है, परमेश्वर यहोवा की यही वारणी है ॥

२३ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, दो स्त्रिया थी, जो एक ही मां की बेटी थी। ३ वे अपने बचपन ही में बेश्या का काम मिल में करने लगी; उनकी

* मूल में—अपनी आंखें छिपाते हैं।

† मूल में—उचड़ेला।

* मूल में—उचड़ेली।

छातियां कुंवारपन में पहिले वही मीजी गई और उनका मरदन भी हुआ। ४ उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहिन का नाम ओहोलीबा था। वे मेरी हो गईं, और उनके पुत्र पुत्रिया उत्पन्न हुईं। उनके नामों में से ओहोला तो शोमरोन, और ओहोलीबा यरूशलेम हैं ॥

५ ओहोला जब मेरी थी, तब ही व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी अशूरी थे। ६ वे तो सब के सब नीले वस्त्र पहिननेवाले मनभावने जवान, अधिपति और प्रधान थे, और घोड़ों पर सवार थे। ७ सो उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया जो सब के सब सर्वोत्तम अशूरी थे; और जिस किसी पर वह मोहित हुई, उसी की मूरतों से वह अशुद्ध हुई। ८ जो व्यभिचार उसने मिल्म में सीखा था, उसको भी उसने न छोड़ा, क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया, और उसकी छातियां मीजी, और तन-मन से उसके साथ व्यभिचार किया गया था। ९ इस कारण मैंने उसको उन्हीं अशूरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी। १० उन्हीं ने उसको नंगी किया; उसके पुत्र-पुत्रियां छीनकर उसको तलवार से घात किया; इस प्रकार उनके हाथ से दण्ड पाकर वह स्त्रियों में प्रसिद्ध हो गई ॥

११ उसकी बहिन ओहोलीबा ने यह देखा, तीभी वह मोहित होकर व्यभिचार करने में अपनी बहिन से भी अधिक बढ गई। १२ वह अपने अशूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी, जो सब के सब अति सुन्दर वस्त्र पहिननेवाले और घोड़ों

के सवार मनभावने, जवान अधिपति और और प्रकार के प्रधान थे। १३ तब मैंने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई; उन दोनों बहिनों की एक ही चाल थी। १४ परन्तु ओहोलीबा अधिक व्यभिचार करती गई; सो जब उसने भीत पर सेदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के चित्र देखे १५ जो कटि में फटे बान्धे हुए, सिर में छोर लटकती हुई रंगीली पगड़िया पहिने हुए, और सब के सब अपनी कसदी जन्मभूमि अर्थात् बाबुल के लोगों* की रीति पर प्रधानों का रूप धरे हुए थे, १६ तब उनको देखते ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कसदियों के देश में दूत भेजे। १७ सो बाबुली लोग उसके पास पलंग पर आए, और उसके साथ व्यभिचार करके उसे अशुद्ध किया; और जब वह उनसे अशुद्ध हो गई, तब उसका मन उनसे फिर गया। १८ तीभी जब वह तन उछाड़ती और व्यभिचार करती गई, तब मेरा मन जैसे उसकी बहिन से फिर गया था, वैसे ही उससे भी फिर गया। १९ इस पर भी वह मिल्म देश के अपने बचपन के दिन स्मरण करके जब वह बेव्या का काम करती थी, और अधिक व्यभिचार करती गई; २० और ऐसे मित्रों पर मोहित हुई, जिनका मांस गदहों का सा, और बीर्य घोड़ों का सा था। २१ तू इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप का स्मरण कराती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मीजते थे ॥

२२ इस कारण हे ओहोलीबा, पर-मेखर यहोवा तुझसे यों कहता है, देख,

* मूल में—बेटों।

मे तेरे मित्रों को उभारकर जिन से तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा। २३ अर्थात् बाबुलियो और सब कसदियों को, और पकोद, शो और कोआ के लोगों को; और उनके साथ सब अशूरियों को लाऊंगा जो सब के सब घोड़ों के सवार मनभावने जवान अधिपति, और कई प्रकार के प्रतिनिधि, प्रधान और नामी पुरुष हैं। २४ वे लोग हथियार, रथ, छकडे और देश देश के लोगों का दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेगे, और ढाल और फरी और टोप धारण किए हुए तेरे विरुद्ध चारों ओर पाति बान्धेंगे; और मे उन्ही के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा, और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेगे। २५ और मे तुझ पर जलूंगा, जिस से वे जलजलाहट के साथ तुझ से बर्ताव करेगे। वे तेरी नाक और कान काट लेंगे, और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र-पुत्रियों को छीन ले जाएंगे, और तेरा जो भी बचा रहेगा, वह आग से भस्म हो जाएगा। २६ वे तेरे वस्त्र भी उतारकर तेरे सुन्दर-सुन्दर गहने छीन ले जाएंगे। २७ इस रीति से मे तेरा महापाप और जो वेश्या का काम तू ने मिस्र देश में सीखा था, उसे भी तुझ से छुड़ाऊंगा, यहा तक कि तू फिर अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी। २८ क्योंकि प्रभु यहोवा तुझ से यों कहता है, देख, मे तुझे उनके हाथ सौंपूंगा जिन से तू बैर रखती है और जिन से तेरा मन फिर गया है; २९ और वे तुझ से बैर के साथ बर्ताव करेगे, और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे, और तुझे नंगा करके

छोड देंगे, और तेरे तन के उघाड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रगट हो जाएगा। ३० ये काम तुझ से इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्यजातियों के पीछे व्यभिचारिणी की नाई हो गई, और उनकी मूरते पूजकर अशुद्ध हो गई है। ३१ तू अपनी बहिन की लीक पर चली है, इस कारण मे तेरे हाथ मे उसका सा कटोरा दूंगा। ३२ प्रभु यहोवा यो कहता है, अपनी बहिन के कटोरे से तुझे पीना पडेगा जो गहिरा और चौडा है; तू हसी और ठट्टो मे उडाई जाएगी, क्योंकि उस कटोरे मे बहुत कुछ समाता है। ३३ तू मतवालेपन और दुःख से छक जाएगी। तू अपनी बहिन शोमरोन के कटोरे को, अर्थात् विस्मय और उजाड को पीकर छक जाएगी। ३४ उस मे से तू गार गारकर पीएगी, और उसके ठिकरों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी, क्योंकि मे ही ने ऐसा कहा है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ३५ तू ने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुह मुझ से फेर लिया है, इसलिये तू आप ही अपने महापाप और व्यभिचार का भार उठा, परमेश्वर यहोवा का यही वचन है ॥

३६ यहोवा ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, क्या तू ओहोला और ओहोलीबा का न्याय करेगा? तो फिर उनके धिनाने काम उन्हे जता दे। ३७ क्योंकि उन्हों ने व्यभिचार किया है, और उनके हाथों मे खून लगा है; उन्हों ने अपनी मूरतों के साथ व्यभिचार किया, और अपने लडकेबाले जो मुझ से उत्पन्न हुए थे, उन मूरतों के आगे भस्म होने के लिये चढाए है। ३८ फिर उन्हों ने मुझ से

ऐसा बताव भी किया कि उसी के साथ मेरे पवित्रस्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्रामदिनों को अपवित्र किया है। ३६ वे अपने लडकेबाले अपनी मूर्तों के साम्हने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्रस्थान अपवित्र करने को उस मे घुसी। देख, उन्होंने ने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया है। ४० और उन्होंने ने दूर से पुरुषों को बुलवा भेजा, और वे चले भी आए। उनके लिये तू नहा धो, आंखों में अजन लगा, गहने पहिनकर; ४१ सुन्दर पलंग पर बैठी रही, और तेरे साम्हने एक मेज बिछी हुई थी, जिस पर तू ने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। ४२ तब उसके साथ निश्चिन्त लोगों की भीड़ का कोलाहल सुन पडा, और उन साधारण लोगों के पास जंगल मे बुलाए हुए पियक्कड लोग भी थे; उन्होंने ने उन दोनों बहिनों के हाथों मे चूडियां पहिनाई, और उनके सिरों पर शोभायमान मुकुट रखे ॥

४३ तब जो व्यभिचार करते करते बुडिया हो गई थी, उसके विषय मे बोल उठा, अब तो वे उसी के साथ व्यभिचार करेंगे। ४४ क्योंकि वे उसके पास ऐसे गए जैसे लोग वेश्या के पास जाते हैं। वैसे ही वे ओहोला और ओहोलीबा नाम महापापिनी स्त्रियों के पास गए। ४५ सो धर्मी लोग व्यभिचारिणियों और हत्यारों के योग्य उसका न्याय करे; क्योंकि वे व्यभिचारिणी हैं, और उनके हाथों मे खून लगा है ॥

४६ इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मे एक भीड़ से उन पर चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरंगी और लूटी जाएंगी। ४७ और

उस भीड़ के लोग उनको पत्थरबाह करके उन्हें अपनी तलवारों से काट डालेंगे; तब वे उनके पुत्र-पुत्रियों को घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूक देगे। ४८ इस प्रकार मे महापाप को देश मे से दूर करूंगा, और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेगी। ४९ तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही मिर पडेगा; और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापो का भार उठाओगे; और तब तुम जान लगे कि मे परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

२४ नवे वर्ष के दसवे महीने के दसवे दिन को, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। ३ और इस बलबई घराने से यह दृष्टान्त कह, प्रभु यहोवा कहता है, हएडे को आग पर धर दो; उसे धरकर उस मे पानी डाल दो, ४ तब उस मे जांध, कन्धा और सब अच्छे अच्छे टुकडे बटोरकर रखो; और उसे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। ५ भुड मे से सब से अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हएडे के नीचे ढेर करो; और उनको भली-भांति पकाओ ताकि भीतर ही हड्डिया भी पक जाए ॥

६ इसलिये प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय, उस हत्यारी नगरी पर! हाय उस हएडे पर! जिसका मोर्चा उस मे बना है और छूटा नहीं; उस मे से टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो, उस पर चिट्ठी न डाली जाए। ७ क्योंकि उस नगरी मे किया हुआ खून उस मे है; उस ने

उसे भूमि पर डालकर धूलि से नहीं ढांपा, परन्तु गंगी चट्टान पर रख दिया ।
८ इसलिये मैं ने भी उसका खून नगी चट्टान पर रखा है कि वह ढप न सके और कि बदला लेने को जलजलाहट भडके ।

९ प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय, उस खूनी नगरी पर ! मैं भी ढेर को बडा करूंगा । १० और अधिक लकडी डाल, भाग को बहुत तेज कर, मांस को भली भांति पका और मसाला मिला, और हड्डियां भी जला दो । ११ तब हगडे को छुछा करके अगारों पर रख जिस मे वह गर्म हो और उसका पीतल जले और उस मे का मेल गले, और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए । १२ मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परन्तु उसका भारी मोर्चा उस से छूटता नहीं, उसका मोर्चा भाग के द्वारा भी नहीं छूटता । १३ हे नगरी तेरी अशुद्धता महापाप की है । मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परन्तु तू शुद्ध नहीं हुई, इस कारण जब तक मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर शान्त न कर लूं, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी । १४ मुझ यहोवा ही ने यह कहा है; और वह हो जाएगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा न पछताऊंगा; तेरे चालचलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है ॥

१५ यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, १६ हे मनुष्य के सन्तान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को * मारकर तेरे पास से ले लेने पर हूं; परन्तु न तू रोना-पीटना और न आंसू बहाना । १७ लम्बी

सांसें ले तो ले, परन्तु बे सुनाई न पड़ें; मरे दुष्टों के लिये भी विलाप न करना । सिर पर पगड़ी बान्धे और पांवों में जूती पहने रहना; और न तो धपने होंठ को ढांपना न शोक के योग्य रोटी खाना । १८ तब मैं सबेरे लोगों से बोला, और सांभ को मेरी स्त्री मर गई । और बिहान को मैं ने भाजा के अनुसार किया ॥

१९ तब लोग मुझ से कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है, इसका हम लोगों के लिये क्या अर्थ है ? २० मैं ने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २१ तू इस्त्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, देखो, मैं अपने पवित्र-स्थान को जिसके गढ होने पर तुम फूलते हो, और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है, और जिसको तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ, और अपने जिन बेटे-बेटियों को तुम बहा छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे । २२ और जैसा मैं ने किया है वैसा ही तुम लोग करोगे, तुम भी अपने होंठ न ढापोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे । २३ तुम सिर पर पगड़ी बान्धे और पांवों में जूती पहिने रहोगे, न तुम रोओगे, न छाती पीटोगे वरन अपने अधर्म के कामों में फसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराहते रहोगे । २४ इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिये त्रिन्ह ठहरेगा; जैसा उस ने किया, ठीक वैसा ही तुम भी करोगे । और जब यह हो जाए, तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

२५ और हे मनुष्य के सन्तान, क्या यह सच नहीं, कि जिस दिन मैं उनका

* मूल में—तेरी आंख के चाहे हुए को ।

दूढ़ गढ़, उनकी शोभा, और हर्ष का कारण, और उनके बेटे-बेटिया जो उनकी शोभा, उनकी आँखों का आनन्द, और मन की चाह है, उनको मैं उन से ले लूँगा, २६ उसी दिन जो भागकर बचेगा, वह तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। २७ उसी दिन तेरा मुह खुलेगा, और तू फिर चुप न रहेगा परन्तु उस बचे हुए के साथ बातें करेगा। सो तू इन लोगों के लिये चिन्ह ठहरेगा, और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

२५ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, अम्प्रेनियों की ओर मुह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। ३ उन से कह, हे अम्प्रेनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि तुम ने जो मेरे पवित्रस्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया, और इस्राएल के देश के विषय जब वह उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, अहा, अहा! कहा। ४ इस कारण देखो, मैं तुम्हें को पूरबियों के अधिकार में करने पर हूँ; और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे; वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पीएंगे। ५ और मैं रब्बा नगर को ऊंटों के रहने और अम्प्रेनियों के देश को भेड़-बकरियों के बैठने का स्थान कर दूँगा; तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ६ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तुम ने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे, और अपने सारे मन के अभिमान से आनन्द किया, ७ इस कारण देख, मैं ने अपना हाथ तेरे ऊपर

बढाया है, और तुम्हें को जाति जाति की लूट कर दूँगा, और देश देश के लोगों में से तुम्हें मिटाऊँगा; और देश देश में से नाश करूँगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूँगा; तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ ॥

८ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मोआब और सेईर जो कहते हैं, देखो, यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। ९ इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरों को बेत्यशीमोत, बलमोन, और किर्यातम, जो उस देश के शिरोमणि हैं, मैं उनका मार्ग* खोलकर १० उन्हें पूरबियों के वश में ऐसा कर दूँगा कि वे अम्प्रेनियों पर चढ़ाई करें, और मैं अम्प्रेनियों को यहां तक उनके अधिकार में कर दूँगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न रहेगा। ११ और मैं मोआब को भी दण्ड दूँगा। और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

१२ परमेश्वर यहोवा यों भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया, और उन से बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, १३ इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं एदोम के देश के विशद अपना हाथ बढाकर उस में से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊँगा; और तेमान से लेकर ददान तक उसको उजाड़ कर दूँगा; और वे तलवार से मारे जाएंगे। १४ और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूँगा; और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे। तब

* मूल में—कन्धा।

वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वारणी है ॥

१५ परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्योंकि पलिशती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे, १६ इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं पलिशतियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ, और करेतियों को मिटा डालूंगा; और समुद्रतीर के बचे हुए रहनेवालों को नाश करूंगा। १७ और मैं जलजलाहट के साथ मुकद्दमा लडकर, उन से कड़ाई के साथ पलटा लूंगा। और जब मैं उन से बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

२६ ग्यारहवें वर्ष के पहिले महीने के पहिले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, सौर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, अहा, अहा! जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई। ३ उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सौर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ; और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र की लहरे उठती हैं। ४ और वे सौर की शहरपनाह को गिराएंगी, और उसके गुम्बटों को तोड़ डालेंगी; और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरचकर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। ५ वह समुद्र के बीच का जाल फँलाने ही का स्थान हो जाएगा; क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वारणी है; और वह जाति जाति से लुट जाएगा; ६ और उसकी जो बेटियां

मंदान में हैं, वे तलवार से मारी जाएंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

७ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख, मैं सौर के विरुद्ध राजाधिराज बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को ढोड़ों, रथों, सवारों, बड़ी भीड़, और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। ८ और तेरी जो बेटियां मंदान में हों, उनको वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बान्धेगा, और ढाल उठाएगा। ९ और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यन्त्र चलाएगा और तेरे गुम्बटों को फरसों से ढा देगा। १० उसके ढोड़े इतने होंगे, कि तू उनकी धूल से ढप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाकेवाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकडों, और रथों के शब्द से काप उठेगी। ११ वह अपने ढोड़ों की टापों में तेरी सब मड़कों को रौन्द डालेगा, और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे। १२ और लोग तेरा घन लूटेंगे और तेरे न्योपार की वस्तुएं छीन लेंगे, वे तेरी शहरपनाह ढा देंगे और तेरे मनभाऊ घर तोड़ डालेंगे; तेरे पत्थर और काठ, और तेरी धूलि वे जल में फेंक देंगे। १३ और मैं तेरे गीतों का सुरताल बन्द करूंगा, और तेरी वीसाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। १४ मैं तुम्हें नंगी चट्टान कर दूंगा; तू जाल फँलाने ही का स्थान हो जाएगा; और फिर बसाया न जाएगा; क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वारणी है ॥

१५ परमेश्वर यहोवा सोर से यों कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कपड़ोंगे और तुझ में घात ही घात होगा, तब क्या टापू न कांप उठेंगे ? १६ तब समुद्रतीर के सब प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे, और अपने बाग़े और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहिनेगे और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कापेंगे; और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। १७ और वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनाकर तुझ से कहेंगे, हाय ! मल्लाहों की * बसाई हुई हाय ! सराही हुई नगरी जो समुद्र के बीच निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकनेवालों की डरानेवाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई है ? १८ तेरे गिरने के दिन टापू कांप उठेंगे, और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र से सब टापू घबरा जाएंगे। १९ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं तुम्हें निर्जन नगरी के समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा, और तू गहिरे जल में डूब जाएगा, २० तब गड़हे में और गिरनेवालों के संग मैं तुम्हें भी प्राचीन लोगों में उतार दूंगा; और गड़हे में और गिरनेवालों के संग तुम्हें भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीनकाल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा; यहां तक कि तू फिर न बसेगा और न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। २१ मैं तुम्हें घबराने का कारण करूंगा, और तू भविष्य में फिर न रहेगा, बरन दूढ़ने पर भी तेरा पता न लगेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

* मूल में—समुद्रों से।

† मूल में—निचले स्थानों के देश में।

२७ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उस से यों कह, ३ हे समुद्र के पंटाव पर रहनेवाली, हे बहुत से द्वीपों के लिये देश देश के लोगों के साथ ब्योपार करनेवाली, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे सोर तू ने कहा है कि मैं सर्वांग सुन्दर हूँ। ४ तेरे सिवाने समुद्र के बीच है; तेरे बनानेवाले ने तुम्हें सर्वांग सुन्दर बनाया। ५ तेरी मब पटरिया सनीर पर्वत के सनीवर की लकड़ी की बनी है; तेरे मस्तूल के लिये लबानोन के देवदार लिए गए हैं। ६ तेरे डांड बाशान के बांजवृक्षों के बने; तेरे जहाजों का पटाव कित्तियो के द्वीपों से लाए हुए सांघे सनीवर की हाथीदात जड़ी हुई लकड़ी का बना। ७ तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े के बने कि तेरे लिये भ्रण्डे का काम दे, तेरी चादनी एलीशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और बंजनी रंग के कपड़ों की बनी। ८ तेरे खेनेवाले सीदोन और अर्बंद के रहनेवाले थे; हे सोर, तेरे ही बीच के बुद्धिमान लोग तेरे मांभी थे। ९ तेरे कारीगर जोडाई करनेवाले गबल नगर के पुरनिये और बुद्धिमान लोग थे, तुझ में ब्योपार करने के लिये मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब जहाज तुझ में आ गए थे। १० तेरी सेना में फारसी, लूवी, और पूती लोग भरती हुए थे; उन्होंने ने तुझ में ढाल, और टोपी टांगी; और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा था। ११ तेरी शहरपनाह पर तेरी सेना के साथ अर्बंद के लोग चारो ओर थे, और तेरे गुम्मतों में शूरवीर लड़े थे; उन्हीं ने अपनी ढालें तेरी चारों ओर

की शहरपनाह पर टांगी थी; तेरी सुन्दरता उनके द्वारा पूरी हुई थी ॥

१२ अपनी सब प्रकार की सम्पत्ति की बहुतायत के कारण तर्षीशी लोग तेरे ब्योपारी थे; उन्होंने ने चान्दी, लोहा, रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल लिया। १३ यावान, तूबल, और मेशोक के लोग तेरे माल के बदले दास-दासी और पीतल के पात्र तुझ से ब्योपार करते थे। १४ तोगर्मा के घराने के लोगो ने तेरी सम्पत्ति लेकर घोड़े, सवारी के घोड़े और खच्चर दिए। १५ ददानी तेरे ब्योपारी थे; बहुत से द्वीप तेरे हाट बने थे; वे तेरे पास हाथीदांत की सींग और आबनूस की लकड़ी ब्योपार मे लाते थे। १६ तेरी बहुत कारीगरी के कारण आराम तेरा ब्योपारी था; मरकत, बंजनी रग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूगा, और लालडी देकर वे तेरा माल लेते थे। १७ यहूदा और इस्त्राएल भी तेरे ब्योपारी थे; उन्होंने ने मित्रीत का गेहूँ, पन्नग, और मधु, तेल, और बलसान देकर तेरा माल लिया। १८ तुझ मे बहुत कारीगरी हुई और सब प्रकार का घन इकट्ठा हुआ, इस से दमिश्क तेरा ब्योपारी हुआ; तेरे पास हेलबोन का दाखमधु और उजला उन पहुंचाया गया। १९ वदान और यावान ने तेरे माल के बदले मे सूत दिया; और उनके कारण फौलाद, तज और अगार में भी तेरा ब्योपार हुआ। २० सवारी के चार-जामे के लिये वदान तेरा ब्योपारी हुआ। २१ अरब और केदार के सब प्रधान तेरे ब्योपारी ठहरे; उन्होंने ने मेन्ने, मेड़े, और बकरे लाकर तेरे साथ लेन-देन किया। २२ शबा और रामा के ब्योपारी तेरे ब्योपारी

ठहरे; उन्हो ने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सब भांति के मणि, और सोना देकर तेरा माल लिया। २३ हारान, कन्ने, एदेन, शबा के ब्योपारी, और अशूर और कलमद, ये सब तेरे ब्योपारी ठहरे। २४ इन्होंने ने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात् ओठने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बन्धी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पेटियां लाकर तेरे साथ लेन-देन किया। २५ तर्षीश के जहाज तेरे ब्योपार के माल के ढोनेवाले हुए ॥

उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान् और प्रतापी हो गई थी। २६ तेरे खिबयों ने तुझे गहिरें जल में पहुंचा दिया है, और पुरवाई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। २७ जिस दिन तू डूबेगी, उसी दिन तेरा धन-सम्पत्ति, ब्योपार का माल, मल्लाह, मांभी, जुडाई का काम करनेवाले, ब्योपारी लोग, और तुझ मे जितने सिपाही हैं, और तेरी सारी भीड़-भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। २८ तेरे मांभियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे घास पास के स्थान कांप उठेंगे। २९ और सब खेनेवाले और मल्लाह, और समुद्र में जितने मांभी रहते हैं, वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे, ३० और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूल उड़ाकर राख मे लोटेंगे; ३१ और तेरे शोक में अपने सिर मुडवा देंगे, और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुःख* के साथ तेरे विषय मे रोएंगे और

* मूल में—मन की कड़वाहट।

छाती पीटेंगे । ३२ वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे, सोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पडी है, उसके तुल्य कौन नगरी है ? ३३ जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था, तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे; तेरे धन और व्योपार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे । ३४ जिस समय तू अथाह जल में लहरों से टूटी, उस समय तेरे व्योपार का माल, और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाश हो गए । ३५ टापुओं के सब रहने-वाले तेरे कारण विस्मित हुए, और उनके सज़ राजाओं के रोएँ खड़े हो गए, और उनके मुह उदास देख पडे है । ३६ देश देश के व्योपारी तेरे विरुद्ध हथौड़ी बजा रहे हैं; तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी ॥

२८ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि तू ने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परन्तु, यद्यपि तू अपने आपको परमेश्वर सा दिखाता है, तौभी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है । ३ तू दानिय्येल से अधिक बुद्धिमान तो है; कोई भेद तुझ से छिपा न होगा; ४ तू ने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया, और अपने भण्डारों में सोना-चान्दी रखा है; ५ तू ने बड़ी बुद्धि से लेन-देन किया जिस से तेरा धन बढ़ा, और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है । ६ इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू जो अपना

मन परमेश्वर सा दिखाता है, ७ इसलिये देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊँगा, जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं; वे अपनी तलवारे तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक-दमक को बिगाड़ेंगे । ८ वे तुझे कबर में उतारेंगे, और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा । ९ तब, क्या तू अपने घात करनेवाले के साम्हने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है ? तू अपने घायल करनेवाले के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा । १० तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है ॥

११ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, १२ हे मनुष्य के सन्तान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उस से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है *; तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुन्दर है । १३ तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था; तेरे पास आभूषण, मणिक, पत्थराग, हीरा, फीरोजा, सुलैमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद, और लाल सब भाति के मणि और सोने के पहिरावे थे; तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी, जिस दिन तू सिरजा गया था; उस दिन वे भी तैयार की गई थी । १४ तू छानेवाला अभिषिक्त करूब था, मैं ने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था; तू भाग सरीखे चमकनेवाले मणियों के बीच

* मूल में—तू पूर्णता पर ज्ञाप देता है ।

चलता फिरता था। १५ जिस दिन से तू सिरजा गया, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चालचलन में निर्दोष रहा। १६ परन्तु लेन-देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया; इसी से मैं ने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छानेवाले करुब मैं ने तुझे आग सरीखे चमकनेवाले मणियों के बीच से नाश किया है। १७ सुन्दरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैं ने तुझे भूमि पर पटक दिया; और राजाओं के साम्हने तुझे रखा कि वे तुझ को देखे। १८ तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन-देन की कुटिलता से तेरे पवित्रस्थान अपवित्र हो गए; सो मैं ने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिस से तू भस्म हुआ, और मैं ने तुझे सब देखनेवालों के साम्हने भूमि पर भस्म कर डाला है। १९ देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए; तू भय का कारण हुआ है और फिर कभी पाया न जाएगा ॥

२० यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २१ हे मनुष्य के सन्तान, अपना मुख सीदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यद्व्याणी कर, २२ और कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ; मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दण्ड दूंगा और उस में अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। २३ मैं उस में मरी फलाऊंगा, और उसकी सड़कों में लोह बहाऊंगा; और उसके

चारों ओर तलवार चलेगी; तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

२४ और इस्राएल के घराने के चारों ओर की जितनी जातिया उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उन में से कोई उनका चुभनेवाला काँटा वा बेघनेवाला शूल फिर न ठहरेगी; तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

२५ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं इस्राएल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा, जिनके बीच वे तितर-बितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के साम्हने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैं ने अपने दास याकूब को दिया था। २६ वे उस में निडर बसे रहेंगे; वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे; तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दण्ड दूंगा जो उन से अभिमान का बर्ताव करते हैं, तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है ॥

२६ दसवें वर्ष के दसवे महीने के बारहवें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरोन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यद्व्याणी कर; ३ यह कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे मिस्र के राजा फिरोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, हे बडे नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिस ने कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है, और मैं ही ने उसको अपने लिये बनाया है। ४ मैं

तेरे जबड़ों में झीकड़े डालूंगा, और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझ को तेरी नदियों में से निकालूंगा । ५ तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा, और तू मैदान में पड़ा रहेगा; किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी * । मैं ने तुझे वनपशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है ॥

६ तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ । वे तो इस्राएल के घराने के लिये नरकट की टेक ठहरे थे । ७ जब उन्होंने ने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया और उनके पत्नीडे उखड़ ही गए; और जब उन्हो ने तुझ पर टेक लगाई, तब तू टूट गया, और उनकी कमर की सारी नसे चढ गईं । ८ इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर, तेरे मनुष्य और पशु, सबों को नाश करूंगा । ९ तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा; और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

उस ने कहा है कि मेरी नदी मेरी अपनी ही है, और मैं ही ने उसे बनाया । १० इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ, और मिस्र देश को मिग्दोल से लेकर सबेने तक बरन कृश देश के सिवाने तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा । ११ चालीस वर्ष तक उस में मनुष्य वा पशु का पांव तक न पड़ेगा; और न उस में कोई बसेगा । १२ चालीस

* मूल में—तू न तो इकट्ठा किया जाएगा और न बटोरा जाएगा ।

वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा; और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खण्डहर ही रहेंगे । मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न-भिन्न कर दूंगा, और देश देश में तितर-बितर कर दूंगा ॥

१३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि चालीस वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा, जिन में वे तितर-बितर हुए; १४ और मैं मिस्रियों को बंधुभाई से छुड़ाकर पत्रास देश में, जो उनकी जन्मभूमि है, फिर पहुंचाऊंगा; और वहा उनका छोटा सा राज्य ही जाएगा । १५ वह सब राज्यों में से छोटा होगा, और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा; क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे अन्यजातियों पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे । १६ और वह फिर इस्राएल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे, तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेगे । और तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ ॥

१७ फिर सत्ताइसवें वर्ष के पहलें महीने के पहिले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १८ हे मनुष्य के संन्तान, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर के घेरने में * अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया; हर एक का सिर चन्दला हो गया, और हर एक के कन्धों का चमड़ा उड गया; तौभी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को । १९ इस कारण

* मूल में—सोर के विरुद्ध ।

परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा; और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा, और उसकी धन सम्पत्ति को लूटकर अपना कर लेगा, सो यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। २० मैं ने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिये काम किया था, परमेश्वर यहोवा की यही वारणी है ॥

२१ उसी समय मैं इत्रापल के घराने का एक सींग उगाऊंगा, और उनके बीच तेरा मुह खोलूंगा। और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

३० फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, भविष्यद्वाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाय, हाय करो, हाय उस दिन पर। ३ क्योंकि वह दिन अर्थात् यहोवा का दिन निकट है; वह बादलों का दिन, और जातियों के दण्ड का समय होगा। ४ मिस्र में तलवार चलेगी, और जब मिस्र में लोग मारे जाकर गिरेगें, तब कूश में भी सकट पड़ेगा, लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे, और उसकी नैवे उलट दी जाएगी। ५ कूश, पूत, लूद और सब दोगले, और कूब लोग, और वाचा बान्धे हुए देश के निवासी, मिस्रियों के सग तलवार से मारे जाएंगे ॥

६ यहोवा यों कहता है, मिस्र के संभालनेवाले भी गिर जाएंगे, और अपनी जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं, वह टूटेंगी*, मिग्दोल से लेकर सबेने तक

* मूल में—उतरेगा।

उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वारणी है। ७ और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेगें, और उनके नगर खण्डहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। ८ जब मैं मिस्र में भ्रमण लगाऊंगा और उसके सब सहायक नाश होंगें, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

९ उस समय मेरे साम्हने से दूत जहाजों पर चढ़कर निडर निकलेगें और कूशियों को डराएंगे, और उन पर ऐसा सकट पड़ेगा जैसा कि मिस्र के दण्ड के समय, क्योंकि देख, वह दिन आता है!

१० परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से मिस्र की भीड़-भाड़ को नाश करा दूंगा। ११ वह अपनी प्रजा समेत, जो सब जातियों में भयानक है, उस देश के नाश करने को पहुंचाया जाएगा; और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओ से भर देंगे। १२ और मैं नदियों का सुखा डालूंगा, और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा; और मैं परदेशियों के द्वारा देश को, और जो कुछ उस में है, उजाड़ करा दूंगा; मुझ यहोवा ही ने यह कहा है ॥

१३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं नोप में से मूरतों को नाश करूंगा और उम में की मूरतों को रहने न दूंगा; फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा; और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। १४ मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा, और सोधन में भ्रमण लगाऊंगा, और नो को दण्ड दूंगा। १५ और सीन जो मिस्र का दूध स्थान है, उस पर मैं अपनी जलजलाहट

भड़काऊगा *, और नो की भीड़-भाड़ का अन्न कर डालूगा। १६ और मैं मिस्र में भाग लगाऊंगा; सीन बहुत थरथराएगा; और नो फाड़ा जाएगा और नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। १७ आवेन और पीवेसेल के जवान तलवार से गिरेगे, और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। १८ जब मैं मिस्रियों के जुआँ को तहपन्हेस में तोड़ूंगा, तब उस में दिन को अन्धेरा होगा, और उसकी सामर्थ जिस पर वह फूलता है, वह नाश हो जाएगी; उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियाँ बंधुआई में चली जाएगी। १९ इस प्रकार मैं मिस्रियों को दण्ड दूंगा। और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।।

२० फिर ग्यारहवें वर्ष के पहिले महीने के सातवें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २१ हे मनुष्य के सन्तान, मैं ने मिस्र के राजा फिरोन की भुजा तोड़ दी है; और देख, न तो वह जोड़ी गई, न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बान्धने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। २२ सो प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरोन के विरुद्ध हूँ, और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा; और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। २३ मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर-बितर करूंगा, और देश देश में छितराऊंगा। २४ और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बली करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा; परन्तु फिरोन की भुजाओं को तोड़ूंगा, और वह उसके साम्हने ऐसा कराहेगा जैसा मरनहार

घायल कराहता है। २५ मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को सम्मालूंगा, और फिरोन की भुजाएँ ढीली पड़ेंगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा; २६ और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर-बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।।

३१ ग्यारहवें वर्ष के तीसरे महीने के पहिले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, मिस्र के राजा फिरोन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बडाई में तू किस के समान है। ३ देख, अशूर तो नवानोन का एक देवदार था जिसकी सुन्दर सुन्दर शाखें, घनी छाया देती और बड़ी ऊँची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। ४ जल ने उसे बढ़ाया, उस गहिले जल के कारण वह ऊँचा हुआ, जिस से नदिया उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियाँ निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थीं। ५ इस कारण उसकी ऊँचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई; उसकी टहनियाँ बहुत हुई, और उसकी शाखाएँ लम्बी हो गई, क्योंकि जब वे निकलीं, तब उनको बहुत जल मिला। ६ उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भाँति के जीवजन्तु जन्मते थे; और उसकी छाया में सब बड़ी जातियाँ रहती थीं। ७ वह अपनी बडाई और अपनी डालियों की लम्बाई

* मूल में—उखड़ेलूगा।

के कारण सुन्दर हुआ; क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। ८ परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे, सनौबर उसकी टहनियों के समान भी न थे, और न अमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे; परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुन्दरता में उसके बराबर न था। ९ में ने उसे डालियों की बहुतायत से सुन्दर बनाया था, यहां तक कि एदेन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे, उस से डाल करते थे ॥

१० इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यों कहा है, उसकी * ऊंचाई जो बढ़ गई, और उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, ११ इसलिये जातियों में जो सामर्थी हैं, मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उस से बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैं ने उसको निकाल दिया है। १२ परदेशी, जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काटकर छोड़ देंगे, उसकी डालिया पहाड़ों पर, और सब तराइयों में गिराई जाएगी, और उसकी शाखाए देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेंगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। १३ उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीवजन्तु चढ़ने पाते हैं। १४ यह इसलिये हुआ है कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक

पहुंचाए, और उन में से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाए; क्योंकि वे भी सब के सब कबर में गड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे ॥

१५ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैं ने विलाप कराया और गहिरें समुद्र को ढाप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया; और उसके कारण मैं ने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्च्छित हुए। १६ जब मैं ने उसको कबर में गड़े हुएों के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति धरधरा गई, और एदेन के सब वृक्ष अर्थात् लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने, जितने उस से जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शान्ति पाई। १७ वे भी उसके संग तलवार से मारे हुएों के पास अधोलोक में उतर गए; अर्थात् वे जो उसकी भुजा थे, और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे ॥

१८ सो महिमा और बड़ाई के विषय में एदेन के वृक्षों में से तू किस के समान है? तू तो एदेन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा, और खतनाहीन लोगों के बीच तलवार से मारे हुएों के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़-माड़ समेत यों ही होगा, परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है ॥

३२ बारहवें वर्ष के बारहवें महीने के पहिले दिन को यहोवा का यह बचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य

* मूल में—सेरी।

के सन्तान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना : जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परन्तु तू समुद्र के मगर के समान है, तू अपनी नदियों में टूट पड़ा, और उनके जल को पांखों से मथकर गदला * कर दिया । ३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे । ४ तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा, और मैदान में फेंककर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बंठाऊंगा ; और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीवजन्तुओं को तृप्त करूंगा । ५ मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा, और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा । ६ और जिस देश में तू नैरता है, उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लोह से खींचूंगा ; और उसके नाले तुझ से भर जाएंगे । ७ जिस समय मैं तुझे मिटाने लूँ, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुन्धला कर दूंगा ; मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा, और चन्द्रमा अपना प्रकाश न देगा । ८ आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतिया हैं, उन सब को मैं तेरे कारण धुन्धला कर दूंगा, और तेरे देश में अन्धकार कर दूंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

९ जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देशों के लोगों के मन में रिस उपजाऊंगा । १० मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित

कर दूंगा, और जब मैं उनके राजाओं के साम्हने अपनी तलवार भेजूंगा, तब तेरे कारण उनके रोएं खड़े हो जाएंगे, और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिये कांपते रहेंगे । ११ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, बाबुल के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी । १२ मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक हैं ॥

वे मिस्र के धमण्ड को तोड़ेंगे, और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा । १३ मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तीर पर से नाश करूंगा ; और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पाव से और न पशुओं के खुरों से गदले किए जाएंगे । १४ तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा, और उनकी नदियां तेल की नाई बहेगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है । १५ जब मैं मिस्र देश को उजाड़ कर दूंगा और जिस से वह भरपूर है, उस से छूछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहनेवालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

१६ लोगों के विलाप करने के लिये विलाप का गीत यही है, जाति-जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी ; मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय वे यही विलापगीत गाएंगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

१७ फिर बारहवें वर्ष के पहिले महीने के पन्द्रहवें दिन को यहोवा का यह बचन मेरे पास पहुंचा, १८ हे मनुष्य के सन्तान, मिस्र की भीड़ के लिये हाय-हाय कर, और उसको प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कबर में गड़े ढुभों के पास अथोलोक

* मूल में—उनको नदियों की मैली ।

मे उतार । १६ तू किस से मनोहर है ?
तू उतरकर खतनाहीनों के सग पड़ा रह ॥

२० वे तलवार से मरे हुआँ के बीच गिरेगे, उन * के लिये तलवार ही ठहराई गई है; सो मिल्न को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले जाओ । २१ सामर्थी शूरवीर उस से और उसके सहायकों से अधोलोक मे बाते करेगे, वे खतनाहीन लोग वहा तलवार से मरे पड़े है ॥

२२ अपनी सारी सभा समेत अशूर भी वहा है, उसकी कबरे उसके चारों ओर है; सब के सब तलवार से मारे गए है । २३ उसकी कबरें गड़े के कोनों मे बनी हुई है, और उसकी कबर के चारों ओर उसकी सभा है; वे सब के सब जो जीवनलोक मे भय उपजाते थे, अब तलवार से मरे पड़े है ॥

२४ वहां एलाम है, और उसकी कबर की चारो ओर उसकी सारी भीड़ है, वे सब के सब तलवार से मारे गए है, वे खतनाहीन अधोलोक में उतर गए है, वे जीवनलोक में भय उपजाते थे, परन्तु अब कबर में और गड़े हुआँ के सग उनके मुह पर भी सियाही छाई हुई है । २५ उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुआँ के बीच सेज मिला, उसकी कबरे उसी के चारों ओर है, वे सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए, उन्होंने ने जीवनलोक में भय उपजाया था, परन्तु अब कबर में और गड़े हुआँ के सग उनके मुह पर सियाही छाई हुई है; और वे मरे हुआँ के बीच रखे गए है ॥

२६ वहां सारी भीड़ समेत मेशोक और तूबल है, उनके चारों ओर कबरें

है; वे सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए, क्योंकि जीवनलोक में वे भय उपजाते थे । २७ और उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के सग वे पड़े न रहेंगे जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक मे उतर गए है, वहां उनकी तलवारे उनके सिरों के नीचे रखी हुई है, और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों मे व्यापे है; क्योंकि जीवनलोक में उन से शूरवीरों को भी भय उपजता था । २८ इसलिये तू भी खतनाहीनी के सग अग-भग होकर तलवार से मरे हुआँ के संग पड़ा रहेगा ॥

२९ वहा एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान है, जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुआँ के संग रखे है, गड़े में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के सग वे भी पड़े रहेगे ॥

३० वहा उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सीदोनी भी है जो मरे हुआँ के सग उतर गए; उन्होंने ने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परन्तु अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हुआँ के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं, और कबर मे अन्य गड़े हुआँ के संग उनके मुंह पर भी सियाही छाई हुई है ॥

३१ इन्हें देखकर फिरोन भी अपनी सारी भीड़ के विषय मे शान्ति पाएगा, हा फिरोन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मारी गई है, परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है । ३२ क्योंकि मैं ने उसके कारण जीवनलोक मे भय उपजाया था; इसलिये वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुआँ के सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा, परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है ॥

* मूल में—उस ।

३३ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लूँ, और उस देश के लोग किसी को अपना पहरेदार करके ठहराए, ३ तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिगा फूककर लोगों को चिता दे, ४ तो जो कोई नरसिगे का शब्द सुनने पर न चेतें और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। ५ उस ने नरसिगे का शब्द सुना, परन्तु न चेतता; सो उसका खून उसी को लगेगा। परन्तु, यदि वह चेत जाँता, तो अपना प्राण बचा लेता। ६ परन्तु यदि पहरेदार यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है नरसिगा फूककर लोगों को न चिताए, और तलवार के चलने से उन में से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परन्तु उसके खून का लेखा मैं पहरेदार ही से लूँगा ॥

७ इसलिये, हे मनुष्य के सन्तान, मैं ने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार ठहरा दिया है; तू मेरे मुँह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। ८ यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परन्तु उसके खून का लेखा मैं तुम्हीं से लूँगा। ९ परन्तु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परन्तु तू अपना प्राण बचा लेगा ॥

१० फिर हे मनुष्य के सन्तान, इस्राएल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं; हम कैसे जीवित रहें ?

११ सो तू ने उन से यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परन्तु इस से कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे; हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ; तुम क्यों मरो ?

१२ और हे मनुष्य के सन्तान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्म जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा; और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उस से फिर जाए, तो उसके कारण वह न गिरेगा; और धर्म जन जब वह पाप करे, तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा।

१३ यदि मैं धर्म से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा; जो कुटिल काम उस ने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। १४ फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ, तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, १५ अर्थात् यदि दुष्ट जन बन्धक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। १६ जितने पाप उस ने किए हों, उन में से किसी का स्मरण न किया जाएगा; उस ने न्याय

और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा ॥

१७ तौभी तुम्हारे लोग कहते हैं, प्रभु की चाल ठीक नहीं; परन्तु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। १८ जब धर्म अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उन में फंसा हुआ मर जाएगा। १९ और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। २० तौभी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं? हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूँगा ॥

२१ फिर हमारी बंधुआई के ग्यारहवें वर्ष के दसवें महीने के पांचवें दिन को, एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। २२ उस भागे हुए के आने से पहिले साभू को यहोवा की शक्ति * मुझ पर हुई थी; और भोर तक अर्थात् उस मनुष्य के आने तक उस ने मेरा मुह खोल दिया. सो मेरा मुह खुला ही रहा, और मैं फिर गूगा न रहा। २३ तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २४ हे मनुष्य के सन्तान, इस्राएल की भूमि के उन खरडहरों के रहनेवाले यह कहते हैं, इस्राहीम एक ही मनुष्य था, तौभी देश का अधिकारी हुआ; परन्तु हम लोग बहुत से हैं, इसलिये देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। २५ इस कारण तू उन से कह, परमेश्वर यहोवा

यो कहता है, तुम लोग तो मांस लोहू समेत खाते और अपनी मूरतो की ओर दृष्टि करते, और हत्या करते हो; फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? २६ तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते, और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को प्रशुद्ध करते हो : फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? २७ तू उन से यह कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की साँगन्ध, निःसन्देह जो लोग खरडहरों में रहते हैं, वे तलवार से गिरेगे, और जो खुले मैदान में रहता है, उसे मैं जीवजन्तुओं का आहार कर दूँगा, और जो गढ़ों और गुफाओं में रहते हैं, वे मरी से मरेंगे। २८ और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूँगा; और उसके बल का घमण्ड जाता रहेगा; और इस्राएल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई न चलेगा। २९ सो जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूँगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

३० और हे मनुष्य के सन्तान, तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ, सुनो, कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। ३१ वे प्रजा की नाईं तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे साम्हने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परन्तु वे उन पर चलते नहीं; मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परन्तु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। ३२ और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गानेवाले और अच्छे

* मूल में—बाथ।

बजानेवाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परन्तु उन पर चलते नहीं। ३३ सो जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी ! तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था ॥

३४ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यद्वाराणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं ! क्या चरवाहों को भेड़-बकरियों का पेट न भरना चाहिए ? ३ तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहिनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो; परन्तु भेड़-बकरियों को तुम नहीं चराते। ४ तुम ने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बान्धा, न निकाली हुई को फेर लाए, न खोई हुई को खोजा, परन्तु तुम ने बल और जबरदस्ती से अधिकांश चलाया है। ५ वे चरवाहे के न होने के कारण तितर-बितर हुईं; और सब वनपशुओं का प्राहार हो गई। ६ मेरी भेड़-बकरियां तितर-बितर हुई हैं; वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थीं; मेरी भेड़-बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर-बितर हुईं; और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था ॥

७ इस कारण, हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। ८ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, मेरी भेड़-बकरियां जो लुट गईं, और मेरी भेड़-बकरियां जो चरवाहे के न

होने के कारण सब वनपशुओं का प्राहार हो गई; और इसलिये कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़-बकरियों की सुधि नहीं ली, और मेरी भेड़-बकरियों का पेट नहीं, अपना ही अपना पेट भरा; ९ इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो, १० परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ; और मैं उन से अपनी भेड़-बकरियों का लेखा लूंगा, और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा; वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़-बकरियां उनके मुह से छुड़ाऊंगा कि भागे को वे उनका प्राहार न हों ॥

११ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, मैं आप ही अपनी भेड़-बकरियों की सुधि लूंगा, और उन्हें ढूंढूंगा। १२ जैसे चरवाहा अपनी भेड़-बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुण्ड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़-बकरियों को बटोरूंगा; मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा, जहां जहां वे बादल और घोर अन्धकार के दिन तितर-बितर हो गई हैं। १३ और मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा, और देश देश से इकट्ठा करूंगा, और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा; और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। १४ मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी; वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी, और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। १५ मैं आप ही अपनी भेड़-बकरियों का चरवाहा हूंगा,

श्रीर में आप ही उन्हें बैठऊंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। १६ में खोई हुई को दूबूंगा, और निकाली हुई को फेर लाऊंगा, और घायल के घाव बान्धूंगा, और बीमार को बलवान् करूंगा, और जो मोटी और बलवन्त है उन्हें मैं नाश करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा ॥

१७ और हे मेरे भ्रूण्ड, तुम से परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, मैं भेड़-भेड़ के बीच और भेड़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। १८ क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम झच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पावों से रौंदो, और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पावों से गदला करो? १९ और क्या मेरी भेड़-बकरियों को तुम्हारे पावों से रौंदे हुए को चरना, और तुम्हारे पावों से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा?

२० इस कारण परमेश्वर यहोवा उन से यों कहता है, देखो, मैं आप मोटी और दुबली भेड़-बकरियों के बीच न्याय करूंगा। २१ तुम जो सब बीमारों को पांजर और कन्धे से यहा तक ढकेलते और सींग से यहां तक मारते हो कि वे तितर-बितर हो जाती है, २२ इस कारण मैं अपनी भेड़-बकरियों को छुड़ाऊंगा, और वे फिर न लुटेंगी, और मैं भेड़-भेड़ के और बकरी-बकरी के बीच न्याय करूंगा। २३ और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा, और वही उनका चरवाहा होगा। २४ और मैं, यहोवा, उनका परमेश्वर ठहरूंगा,

और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा, मुझ यहोवा ही ने यह कहा है ॥

२५ मैं उनके साथ शान्ति की बाबा बान्धूंगा, और वुष्ट जन्तुओं को देश में न रहने दूंगा; सो वे जंगल में निडर रहेंगे, और वन में सोएंगे। २६ और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आस पास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा; और मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा; और वे आशीषों की वर्षा होंगी। २७ और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे, जब मैं उनके जूए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा, जो उन से सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। २८ वे फिर जाति-जाति से लूटे न जाएंगे, और न वनपशु उन्हें फाड़ खाएंगे; वे निडर रहेंगे, और उनको कोई न डराएगा। २९ और मैं उनके लिये महान बारिये उपजाऊंगा, और वे देश में फिर भूलो न मरेगे, और न जाति-जाति के लोग फिर उनकी निन्दा करेगे। ३० और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा, उनके सग हूँ, और वे जो इस्लाम का घराना है, वे मेरी प्रजा है, मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ३१ तुम तो मेरी भेड़-बकरियां, मेरी चराई की भेड़-बकरिया हो, तुम तो मनुष्य हो, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

३५ यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, अपना मुह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, ३ और उस से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है,

हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ; और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। ४ मैं तेरे नगरों को खण्डहर कर दूंगा, और तू उजाड़ हो जाएगा; तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। ५ क्योंकि तू इस्राएलियों से युग-युग की शत्रुता रखता था, और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दण्ड का समय पहुँचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया *। ६ इसलिये परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिये तैयार करूँगा और खून तेरा पीछा करेगा; तू तो खून से न घिनाता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। ७ इस रीति में सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, और जो उस में प्राता-जाता हो, मैं उसको नाश करूँगा। ८ और मैं उसके पहाड़ों को मारे हुए लोगों से भर दूंगा; तेरे टीलों, तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेगें। ९ मैं तुझे युग युग के लिये उजाड़ कर दूंगा, और तेरे नगर फिर न बसेगें। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

१० क्योंकि तू ने कहा है, कि ये दोनों जातियाँ और ये दोनों देश मेरे होंगे; और हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे, यद्यपि यहोवा वहाँ था। ११ इस कारण, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगन्ध, तेरे कोप के अनुसार, और जो जलजलाहट तू ने उन पर अपने बैर के कारण की है, उसी के अनुसार मैं तुझ से बर्ताव करूँगा, और जब मैं तेरा न्याय करूँ, तब तुम में अपने को प्रगट

* मूल में—तलवार के दायों पर सौप दिया।

करूँगा। १२ और तू जानेगा, कि मुझ यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी हैं, जो तू ने इस्राएल के पहाड़ों के विषय में कहीं, कि, वे तो उजड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डाले। १३ तुम ने अपने मुँह से मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारी, और मेरे विरुद्ध बहुत वाते कही हैं; इसे मैं ने सुना है। १४ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब पृथ्वी भर में आनन्द होगा, तब मैं तुझे उजाड़ करूँगा। १५ तू इस्राएल के घराने के निज भाग के उजड़ जाने के कारण आनन्दित हुआ, सो मैं भी तुझ से वैसा ही करूँगा; हे सेईर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

३६

फिर हे मनुष्य के सन्तान, तू इस्राएल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। २ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा! प्राचीनकाल के ऊँचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। ३ इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निन्दा करते हैं; ४ इस कारण, हे इस्राएल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा तुम से यों कहता है, अर्थात् पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से, और उजड़े हुए खण्डहरों और निर्जन

नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने के कारण हो गए हैं; ५ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, निश्चय मैं ने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने ने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनन्द और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। ६ इस कारण इस्राएल के देश के विषय में भविष्यद्वाणी करके पहाड़ों, पहाड़ियों, नालों, और तराइयों से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, तुम ने जातियों की निन्दा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ। ७ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं ने यह शपथ खाई है * कि निःसन्देह तुम्हारे चारों ओर जो जातियाँ हैं, उनको अपनी निन्दा आप ही सहनी पड़ेगी ॥

८ परन्तु, हे इस्राएल के पहाड़ो, तुम पर डालियाँ पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिये लगेंगे; क्योंकि उसका लौट आना निकट है। ९ और देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, और तुम्हारी ओर कृपादृष्टि करूँगा, और तुम जोते-बोए जाओगे; १० और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात् इस्राएल के सारे घराने को बसाऊँगा; और नगर फिर बसाए और खण्डहर फिर बनाए जाएँगे। ११ और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढाऊँगा, और वे बढ़ेंगे और फूले-फलेंगे; और मैं तुम को प्राचीनकाल की नाई बसाऊँगा, और पहिले से अधिक तुम्हारी भलाई करूँगा। तब तुम जान

लोगे कि मैं यहोवा हूँ। १२ और मैं ऐसा करूँगा कि मनुष्य अर्थात् मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चले-फिरेगी; और वे तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम उनका निज भाग होंगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश न हो जाएँगे। १३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जो लोग तुम से कहा करते हैं, कि तू मनुष्यों का खानेवाला है, और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, १४ सो फिर तू मनुष्यों को न खाएगा, और न अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। १५ और मैं फिर जाति-जाति के लोगों से तेरी निन्दा न सुनवाऊँगा, और तुम्हें जाति-जाति की ओर से फिर नाम-धराई न सहनी पड़ेगी, और तुम्हें पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

१६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, १७ हे मनुष्य के सन्तान, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चालचलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे; उनकी चालचलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। १८ सो जो हत्या उन्होंने ने देश में की, और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैं ने उन पर अपनी जलजलाहट भ्रडकाई *। १९ और मैं ने उन्हें जाति-जाति में तितर-बितर किया, और वे देश देश में छितर गए; उनके चालचलन और कामों के अनुसार मैं ने उनको दण्ड दिया। २० परन्तु जब वे उन जातियों

* मूल में—मैं ने हाथ उठाया है।

* मूल में—उंढेली।

में पहुंचे जिन में वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने ने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परन्तु उसके देश से निकाले गए हैं। २१ परन्तु मैं ने अपने पवित्र नाम की सुधि * ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था, जहां वे गए थे ॥

२२ इस कारण तू इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं इस को तुम्हारे निमित्त नहीं, परन्तु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ जिसे तुम ने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। २३ और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुम ने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वारणी है। २४ मैं तुम को जातियों में से ले लूंगा, और देशों में से इकट्ठा करूंगा, और तुम को तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। २५ मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, और तुम शुद्ध हो जाओगे; और मैं तुम को तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। २६ मैं तुम को नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम को मांस का हृदय दूंगा। २७ और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों

पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। २८ तुम उस देश में बसोगे जो मैं ने तुम्हारे पितरों को दिया था; और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। २९ और मैं तुम को तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा, और अन्न उपजने की आज्ञा देकर, उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। ३० मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा, कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। ३१ तब तुम अपने बुरे चालचलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे, स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। ३२ परमेश्वर यहोवा की यह वारणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इस्राएल के घराने अपने चालचलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए ॥

३३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं तुम को तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा, और तुम्हारे खण्डहर फिर बनाए जाएंगे। ३४ और तुम्हारा देश जो सब आने जानेवालों के साम्हने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की सन्ती जोता बोया जाएगा। ३५ और लोग कहा करेगे, यह देश जो उजाड़ था, सो एदेन की बारी सा हो गया, और जो नगर खण्डहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे, सो गढ़वाले हुए, और बसाए गए हैं। ३६ तब जो जातियां तुम्हारे आस पास बची रहेंगी, सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया, और उजाड़ में पैड़

* मूल में—उस पर मैं ने दया की है।

रोपे है, मुझ यहोवा ने यह कहा, और ऐसा ही करूंगा ॥

३७ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझ से बिनती की जाएगी कि मैं उनके लिये यह करूँ; अर्थात् मैं उन में मनुष्यों की गिनती भेद-बकरियों की नाई बढाऊँ। ३८ जैसे पवित्र समर्थों की भेद-बकरियाँ, अर्थात् नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेद-बकरियाँ अनगिनत होती हैं वैसे ही जो नगर अब स्याडहर है वे अनगिनत मनुष्यों के भूखंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ ॥

३७ यहोवा की शक्ति * मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया; वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। २ तब उस ने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियाँ थी; और वे बहुत सूखी थी। ३ तब उस ने मुझ से पूछा, हे मनुष्य के सन्तान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? मैं ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। ४ तब उस ने मुझ से कहा, इन हड्डियों से भविष्यदाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ५ परमेश्वर यहोवा तुम † हड्डियों से यों कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समवाऊँगा, और तुम जी उठोगी। ६ और मैं तुम्हारी नसे उपजाकर मांस चढाऊँगा, और तुम को चमड़े से ढांपूँगा, और तुम में सांस समवाऊँगा और तुम जी

जाओगी; और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ ॥

७ इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यदाणी करने लगा, और मैं भविष्यदाणी कर ही रहा था, कि एक आहट आई, और भुईंड़ोल हुआ, और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं। ८ और मैं देखता रहा, कि उन में नसे उत्पन्न हुई और मांस चढा, और वे ऊपर चमड़े से ढांप गईं; परन्तु उन में मांस कुछ न थी। ९ तब उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान सांस से भविष्यदाणी कर, और सांस से भविष्यदाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुआओं में समा जा कि ये जी उठें। १० उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैं ने भविष्यदाणी की, तब सांस उन में आ गई, और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए; और एक बहुत बड़ी सेना हो गई ॥

११ फिर उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, ये हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गईं, और हमारी आशा जाती रही; हम पूरी रीति से कट चुके हैं। १२ इस कारण भविष्यदाणी करके उन से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगो, देखो, मैं तुम्हारी कबरे खोलकर तुम को उन से निकालूँगा, और इस्राएल के देश में पहुँचा दूँगा। १३ सो जब मैं तुम्हारी कबरे खोलूँ, और तुम को उन से निकालूँ, तब हे मेरी प्रजा के लोगो, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। १४ और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊँगा, और

* मूल में—यहोवा का हाथ।

† मूल में—इन।

तुम जीओगे, और तुम को तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा; तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा, और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है ॥

१५ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १६ हे मनुष्य के सन्तान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इस्त्राएलियों की; तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात् एप्रैम की, और उसके संगी इस्त्राएलियों की लकड़ी। १७ फिर उन लकड़ियों को एक दूसरी से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाएं। १८ और जब तेरे लोग तुझ से पूछें, क्या तू हमें न बताएगा कि इन से तेरा क्या अभिप्राय है?

१९ तब उन से कहना, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रैम के हाथ में है, और इस्त्राएल के जो गोत्र उसके संगी हैं, उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा, और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। २० और जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा, वे उनके साम्हने तेरे हाथ में रहे। २१ और तू उन लोगों से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देखो, मैं इस्त्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिन में वे चले गए हैं, चारों ओर से इकट्ठा करूंगा; और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। २२ और मैं उनको उस देश अर्थात् इस्त्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा; और उन सबों का एक ही राजा होगा; और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्यों में कभी बटेंगे। २३ वे फिर अपनी मूर्तों, और चिनीने कामों वा अपने

किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को प्रशुद्ध न करेंगे; परन्तु मैं उनको उन सब बस्तियों से, जहां वे पाप करते थे, निकालकर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा ॥

२४ मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा; सो उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। २५ वे उस देश में रहेंगे जिसे मैं ने अपने दास याकूब को दिया था; और जिस में तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे-पौते मदा बसे रहेंगे; और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। २६ मैं उनके साथ शान्ति की वाचा बान्धूंगा; वह सदा की वाचा ठहरेगी; और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढाऊंगा, और उनके बीच अपना पवित्रस्थान सदा बनाए रखूंगा। २७ मेरे निवास का तम्बू उनके ऊपर तना रहेगा; और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे। २८ और जब मेरा पवित्रस्थान उनके बीच सदा के लिये रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्त्राएल का पवित्र करनेवाला हूँ ॥

३८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, २ हे मनुष्य के सन्तान, अपना मुह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। ३ और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक, और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। ४ मैं तुझे चुना

ले झाऊंगा, और तेरे जबड़ों में आकड़े डालकर तुझे निकालूंगा; और तेरी सारी सेना को भी अर्थात् घोड़ों और सवारों को जो सब के सब कवच पहिने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और डाल लिए हुए सब के सब तलवार चलानेवाले होंगे; ५ और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब डाल लिए और टोप लगाए होंगे; ६ और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने, और उसके सारे दलों को निकालूंगा; तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे ॥

७ इसलिये तू तैयार हो जा; तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हों, तैयार रहना, और तू उनका भगुवा बनना ।

८ बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी; और अन्त के वर्षों में तू उस देश में आएगा, जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी * बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे; अर्थात् तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरन्तर उजाड रहे हैं; परन्तु वे † देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे । ९ तू चढ़ाई करेगा, और आंधी की नाईं आएगा, और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा ॥

१० परमेश्वर यहोवा यों कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा; ११ और तू कहेगा कि मैं बिन शहरपनाह के गांवों के देश पर

चढ़ाई करूंगा; मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं; जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं; १२ ताकि छीनकर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन झण्डहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे और पृथ्वी की नाभी पर बसे हुए और और और सम्पत्ति रखते हैं । १३ शबा और ददान के लोग और तर्शाश के ब्योपारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझ से कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है ? क्या तू ने धन छीनने, सोना-चांदी उठाने, और और और सम्पत्ति ले जाने, और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है ?

१४ इस कारण, हे मनुष्य के सन्तान, भविष्यद्वाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार न मिलेगा ?

१५ और तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा; तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, जो सब के सब घोड़ों पर चढे हुए होंगे, अर्थात् एक बड़ी भीड़ और बलवन्त सेना ।

१६ और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा । इसलिये हे गोग, अन्त के दिनों में ऐसा ही होगा, कि मैं तुझ से अपने देश पर इसलिये चढ़ाई कराऊंगा, कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहिचान लेंगे ॥

१७ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैं ने

* मूल में—जो ।

† मूल में—बह ।

प्राचीनकाल में अपने दासों के, अर्थात् इस्राएल के उन भविष्यद्वक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक यह भविष्यदाणी करते गए, कि यहोवा गोग * से इस्राएलियों पर चढ़ाई कराएगा ? १८ और जिस दिन इस्राएल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जल-जलाहट मेरे मुख से प्रगट होगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। १९ और मैं ने जलजलाहट और क्रोध की भाग में कहा कि निःसन्देह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूईडोल होगा। २० और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीवजन्तु रेंगते हैं, और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब काप उठेंगे; और पहाड़ गिराए जाएंगे; और चढ़ाइयां नाश होंगी †, और सब भीते गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। २१ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिये अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। २२ और मैं मरी और खून के द्वारा उस से मुकद्दमा लड़ूंगा, और उस पर और उसके दलों पर, और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी, मैं बड़ी झुंझी लगाऊंगा, और झोले और भाग और गन्धक बरसाऊंगा। २३ इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के साम्हने अपने को प्रगट करूंगा। तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ।

* मूल में—तुम्हें।

† मूल में—गिर जाएंगी।

३९ फिर हे मनुष्य के सन्तान, गोग के विरुद्ध भविष्यदाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। २ मैं तुम्हें घुमा ले आऊंगा, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढा ले आऊंगा, और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुँचाऊंगा। ३ वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा, और तेरे तीरों को तेरे दहिने हाथ से गिरा दूंगा। ४ तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा, मैं तुम्हें भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वनपशुओं का आहार कर दूंगा। ५ तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ६ मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहनेवालों के बीच भाग लगाऊंगा; और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।

७ और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रगट करूंगा; और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा, तब जाति-जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा, इस्राएल का पवित्र हूँ। ८ यह घटना हुआ चाहती है और वह हो जाएगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैं ने की है।

९ तब इस्राएल के नगरों के रहनेवाले निकलेगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे, डाल, और फरी, धनुष, और तीर, लाठी, बछें, सब को वे सात वर्ष तक जलाते रहेंगे। १० और इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे, न जंगल में

काटेगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे; वे अपने लूटनेवाले को लूटेंगे, और अपने छीननेवालों से छीनेंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

११ उस समय मैं गोग को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा, वह ताल की पूर्व और होगा; वह अपने जानेवालों की तराई कहलाएगी, और अपने जानेवालों को वहा रुकना पड़ेगा; वहा सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। १२ इस्राएल का घराना उनको सात महीने तक मिट्टी देता रहेगा ताकि अपने देश को शुद्ध करे। १३ देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे, और जिस समय मेरी महिमा होगी, उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। १४ तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे, जो निरन्तर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात् देश में घूम-घामकर अपने जानेवालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिये उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हों, मिट्टी देंगे, और सात महीने के बीतने तक वे दूढ़ दूढ़कर यह काम करते रहेंगे। १५ और देश में अपने जानेवालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे, तब उसके पास एक चिन्ह खडा करेगा, यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देनेवाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। १६ वहां के नगर का नाम भी "हमोता है"। यों देश शुद्ध किया जाएगा ॥

१७ फिर हे मनुष्य के सन्तान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, भाति भाति के सब पक्षियों और सब वनपशुओं को प्राज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ, मेरे इस

बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिये इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूं, हर एक विशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लोह पीओ। १८ तुम शूरवीरों का मांस खाओगे, और पृथ्वी के प्रधानों का लोह पीओगे और मेढ़ों, मेम्नों, बकरों और बैलो का भी जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। १९ और मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिये करता हूँ, तुम खाते-खाते भ्रष्ट जाओगे, और उसका लोह पीते-पीते छूक जाओगे। २० तुम मेरी मेज़ पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों, और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

२१ और मैं जाति-जाति के बीच अपनी महिमा प्रगट करूंगा, और जाति-जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा, और मेरा हाथ जो उन पर पड़ेगा, देख लेंगे। २२ उस दिन से आगे इस्राएल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। २३ और जाति-जाति के लोग भी जान लेंगे कि इस्राएल का घराना अपने भ्रष्टों के कारण बंधुघाई में गया था, क्योंकि उन्होंने ने मुझ से ऐसा विश्वासघात किया कि मैं ने अपना मुह उन से फेर * लिया और उनको उनके बैरियों के बश कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। २४ मैं ने उनकी अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उन से बर्ताव करके उन से अपना मुह फेर * लिया था ॥

२५ इसलिये परमेश्वर यहोवा यों कहता है, अब मैं याकूब को बंधुघाई से

* मूक में—झिपा।

फेर लाऊंगा, और इस्राएल के सारे घराने पर दया करूंगा, और अपने पवित्र नाम के लिये मुझे जलन होगी। २६ तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने ने मेरे विरुद्ध किया वे लज्जित होंगे; और अपने देश में निडर रहेंगे; और कोई उनको न डराएगा। २७ और जब मैं उनको जाति-जाति के बीच से फेर लाऊंगा, और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। २८ और तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैं ने उनको जाति-जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उन में से किसी को फिर परदेश में * न छोड़ूंगा, २९ और उन से अपना मुंह फिर कभी न फेर † लूंगा, क्योंकि मैं ने इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उरडेला है, परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है ॥

४० हमारी बंधुआई के पन्चीसवें वर्ष अर्थात् यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद चौदहवें वर्ष के पहिले महीने के दसवें दिन को, यहोवा की शक्ति ‡ मुझ पर हुई, और उस ने मुझे वहाँ पहुंचाया। २ अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहाँ एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्खिन और मानो किसी नगर का आकार था। ३ जब वह मुझे वहाँ ले गया, तो मैं ने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए और हाथ में सन का फीता और मापने

का बास लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। ४ उस पुरुष ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, अपनी आंखों से देख, और अपने कानों से सुन; और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिये यहाँ पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं; और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए ॥

५ और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक भीत थी, और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लम्बाई ऐसे छः हाथ की थी जो साधारण हाथों से चौवा भर अधिक है; सो उस ने भीत * की मोटाई मापकर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई। ६ तब वह उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था, और उसकी सीढ़ी पर चढ़कर फाटक की दोनों डेवड़ियों की चौड़ाई मापकर एक एक बांस भर की पाई। ७ और पहरेवाली कोठरिया बास भर लम्बी और बास भर चौड़ी थी, और दो दो कोठरियों का अन्तर पांच हाथ का था; और फाटक की डेवड़ी जो फाटक के ओसारे के पास भवन की ओर थी, वह भी बांस भर की थी। ८ तब उस ने फाटक का वह ओसारा जो भवन के साम्हने था, मापकर बास भर का पाया। ९ और उस ने फाटक का ओसारा मापकर आठ हाथ का पाया, और उसके खम्भे दो दो हाथ के पाए, और फाटक का ओसारा भवन के साम्हने था। १० और पूर्वी फाटक की दोनों ओर तीन तीन पहरेवाली कोठरियां

* मूल में—बहा। † मूल में—छिपा।

‡ मूल में—यहोवा का हाथ।

* मूल में—बनाई हुई वस्तु।

धी जो सब एक ही माप की थी, और दोनों ओर के खम्भे भी एक ही माप के थे। ११ फिर उस ने फाटक के द्वार की चौड़ाई मापकर दस हाथ की पाई; और फाटक की लम्बाई मापकर तेरह हाथ की पाई। १२ और दोनों ओर की पहरेवाली कोठरियों के आगे हाथ भर का स्थान था और दोनों ओर कोठरियां छः छः हाथ की थी। १३ फिर उस ने फाटक को एक ओर की पहरेवाली कोठरी की छत से लेकर दूसरी ओर की पहरेवाली कोठरी की छत तक मापकर पच्चीस हाथ की दूरी पाई, और द्वार आम्हने-साम्हने थे। १४ फिर उस ने साठ हाथ के खम्भे मापे*, और आंगन, फाटक के आस पास, खम्भों तक था। १५ और फाटक के बाहरी द्वार के आगे से लेकर उसके भीतरी ओसारे के आगे तक पचास हाथ का अन्तर था। १६ और पहरेवाली कोठरियों में, और फाटक के भीतर चारों ओर कोठरियों के बीच के खम्भे के बीच बीच में फिलमिलीदार खिड़कियां थीं, और खम्भों के ओसारे में भी बैसी ही थी; और फाटक के भीतर के चारों ओर खिड़किया थी; और हर एक खम्भे पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे।

१७ तब वह मुझे बाहरी आंगन में ले गया; और उस आंगन के चारों ओर कोठरियां थीं; और एक फर्श बना हुआ था; जिस पर तीस कोठरियां बनी थी। १८ और यह फर्श अर्थात् निचला फर्श फाटकों से लगा हुआ था और उनकी लम्बाई के अनुसार था। १९ फिर उस ने निचले फाटक के आगे से लेकर भीतरी

आगन के बाहर के आगे तक मापकर सौ हाथ पाए; वह पूर्व और उत्तर दोनों ओर ऐसा ही था।

२० तब बाहरी आगन के उत्तरमुखी फाटक की लम्बाई और चौड़ाई उस ने मापी। २१ और उसकी दोनों ओर तीन तीन पहरेवाली कोठरिया थी, और इसके भी खम्भों के ओसारे की माप पहिले फाटक के अनुसार थी, इसकी लम्बाई पचास और चौड़ाई पच्चीस हाथ की थी। २२ और इसकी भी खिड़कियों और खम्भों के ओसारे और खजूरो की माप पूर्वमुखी फाटक की सी थी; और इस पर चढ़ने को सात सीढ़ियां थी, और उनके साम्हने इसका ओसारा था। २३ और भीतरी आगन की उत्तर और पूर्व ओर दूसरे फाटकों के साम्हने फाटक थे और उस ने फाटकों की दूरी मापकर सौ हाथ की पाई।

२४ फिर वह मुझे दक्खिन ओर ले गया, और दक्खिन ओर एक फाटक था; और उस ने इसके खम्भे और खम्भों का ओसारा मापकर इनकी बैसी ही माप पाई। २५ और उन खिड़कियों की नाई इसके और इसके खम्भों के ओसारों के चारों ओर भी खिड़कियां थी, इसकी भी लम्बाई पचास और चौड़ाई पच्चीस हाथ की थी। २६ और इस में भी चढ़ने के लिये सात सीढ़ियां थीं और उनके साम्हने खम्भों का ओसारा था; और उसके दोनों ओर के खम्भो पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। २७ और दक्खिन ओर भी भीतरी आगन का एक फाटक था, और उस ने दक्खिन ओर के दोनों फाटकों की दूरी मापकर सौ हाथ की पाई।

* मूल में—बनाए।

२४ तब वह दक्खिनी फाटक से होकर मुझे भीतरी प्रांगन में ले गया, और उस ने दक्खिनी फाटक को मापकर बैसा ही पाया। २६ अर्थात् इसकी भी पहरेवाली कोठरियां, और खम्भे, और खम्भों का ओसारा, सब वैसे ही थे; और इसके और इसके खम्भों के ओसारे के भी चारों ओर भी खिड़कियां थी; और इसकी लम्बाई पचास और चौड़ाई पच्चीस हाथ की थी। ३० और इसके चारों ओर के खम्भों का ओसारा भी पच्चीस हाथ लम्बा, और पचास हाथ चौड़ा था। ३१ और इसका खम्भों का ओसारा बाहरी प्रांगन की ओर था, और इसके खम्भो पर भी खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, और इस पर चढ़ने को ग्राठ सीढ़ियां थी।

३२ फिर वह पुरुष मुझे पूर्व की ओर भीतरी प्रांगन में ले गया, और उस ओर के फाटक को मापकर बैसा ही पाया। ३३ और इसकी भी पहरेवाली कोठरियां और खम्भे और खम्भों का ओसारा, सब वैसे ही थे, और इसके और इसके खम्भों के ओसारे के चारों ओर भी खिड़कियां थी, इसकी लम्बाई पचास और चौड़ाई पच्चीस हाथ की थी। ३४ इसका ओसारा भी बाहरी प्रांगन की ओर था, और उसके दोनों ओर के खम्भों पर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, और इस पर भी चढ़ने को ग्राठ सीढ़ियां थी।

३५ फिर उस पुरुष ने मुझे उत्तरी फाटक के पास ले जाकर उसे मापा, और उसकी भी माप वैसे ही पाई। ३६ उसके भी पहरेवाली कोठरियां और खम्भे और उनका ओसारा था; और उसके भी चारों ओर खिड़कियां थी; उसकी लम्बाई पचास और चौड़ाई पच्चीस

हाथ की थी। ३७ उसके खम्भे बाहरी प्रांगन की ओर थे, और उन पर भी दोनों ओर खजूर के पेड़ खुदे हुए थे; और उस में चढ़ने को ग्राठ सीढ़ियां थी।

३८ फिर फाटक के पास के खम्भों के निकट द्वार समेत कोठरी थी, जहां होमबलि धोया जाता था। ३९ और होमबलि, पापबलि, और दोषबलि के पशुओं के बध करने के लिये फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर दो दो मेजे थी। ४० और फाटक की एक बाहरी भ्रलग पर अर्थात् उत्तरी फाटक के द्वार की चढ़ाई पर दो मेजे थी, और उसकी दूसरी बाहरी भ्रलग पर भी, जो फाटक के ओसारे के पास थी, दो मेजे थी। ४१ फाटक की दोनों भ्रलगों पर चार चार मेजे थी, तो सब मिलकर ग्राठ मेजे थी, जो बलिपशु बध करने के लिये थी। ४२ फिर होमबलि के लिये तराशे हुए पत्थर की चार मेजे थी, जो डेढ़ हाथ लम्बी, डेढ़ हाथ चौड़ी, और हाथ भर ऊंची थी, उन पर होमबलि और मेलबलि के पशुओं को बध करने के हथियार रखे जाते थे। ४३ भीतर चारों ओर चौबे भर की अकडियां लगी थी, और मेजों पर चढ़ावे का मास रखा हुआ था। ४४ और भीतरी प्रांगन की उत्तरी फाटक की भ्रलग के बाहर गानेवालों की कोठरियां थी जिनके द्वार दक्खिन ओर थे, और पूर्वी फाटक की भ्रलग पर एक कोठरी थी, जिसका द्वार उत्तर ओर था। ४५ उस ने मुझ से कहा, यह कोठरी, जिसका द्वार दक्खिन की ओर है, उन याजकों के लिये है जो भवन की चौकसी करते हैं, ४६ और जिस कोठरी का द्वार उत्तर ओर है, वह उन याजकों के लिये है जो

वेदी की चौकसी करते हैं; ये सादोक की सन्तान हैं; और लेवियों में से यहोवा की सेवा टहल करने को केवल ये ही उसके समीप जाते हैं। ४७ फिर उस ने आंगन को मापकर उसे चौकोना अर्थात् सौ हाथ लम्बा और सौ हाथ चौड़ा पाया; और भवन के साम्हने वेदी थी ॥

४८ फिर वह मुझे भवन के आसारे मे ले गया, और आसारे के दोनों ओर के खम्भों को मापकर पांच पांच हाथ का पाया; और दोनों ओर फाटक की चौड़ाई तीन तीन हाथ की थी। ४९ आसारे की लम्बाई बीस हाथ और चौड़ाई ग्यारह हाथ की थी; और उस पर चढ़ने को सीढ़ियां थी; और दोनों ओर के खम्भों के पास लाटें थी ॥

४१ फिर वह मुझे मन्दिर के पास ले गया, और उसके दोनों ओर के खम्भों को मापकर छ' छ हाथ चौड़े पाया; यह तो तम्बू की चौड़ाई थी। २ और द्वार की चौड़ाई दस हाथ की थी, और द्वार की दोनों अलगे पाच पाच हाथ की थी; और उस ने मन्दिर की लम्बाई मापकर चालीस हाथ की, और उसकी चौड़ाई बीस हाथ की पाई। ३ तब उस ने भीतर जाकर द्वार के खम्भों को मापा, और दो दो हाथ का पाया; और द्वार छः हाथ का था; और द्वार की चौड़ाई सात हाथ की थी। ४ तब उस ने भीतर के भवन की लम्बाई और चौड़ाई मन्दिर के साम्हने मापकर बीस बीस हाथ की पाई, और उस ने मुझ से कहा, यह तो परमपवित्र स्थान है ॥

५ फिर उस ने भवन की भीत को मापकर छः हाथ की पाया, और भवन के

आस पास चार चार हाथ चौड़ी बाहरी कोठरिया थी। ६ और ये बाहरी कोठरिया तिमहली थी; और एक एक महल में तीस तीस कोठरियां थी। भवन के आस पास की भीत इसलिये थी कि बाहरी कोठरिया उसके महारे में हो; और उसी में कोठरियों की कडियां पैठाई हुई थी और भवन की भीत के सहारे में न थी।

७ और भवन के आस पास जो कोठरियां बाहर थी, उन में से जो ऊपर थी, वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात् भवन के आस पास जो कुछ बना था, वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढता गया, वैसे वैसे चौड़ा होता गया, इस रीति, इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढी हुई थी, और लोग नीचले महल के बीच से उपरले महल को चढ़ सकते थे। ८ फिर मैं ने भवन के आस पास ऊंची भूमि देखी, और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक छः हाथ के बास की थी। ९ बाहरी कोठरियों के लिये जो भीत थी, वह पाच हाथ मोटी थी, और जो स्थान खाली रह गया था, वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। १० बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आस पास बीस हाथ का अन्तर था। ११ और बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे, जो खाली था, अर्थात् एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्खिन की ओर था; और जो स्थान रह गया, उसकी चौड़ाई चारों ओर पाच पांच हाथ की थी ॥

१२ फिर जो भवन मन्दिर के पश्चिमी आंगन के साम्हने था, वह सत्तर हाथ चौड़ा था, और भवन के आस पास की भीत पाच हाथ मोटी थी, और उसकी लम्बाई नब्बे हाथ की थी ॥

१३ तब उस ने भवन की लम्बाई मापकर सौ हाथ की पाई; और भीतों समेत आंगन की भी लम्बाई मापकर सौ हाथ की पाई। १४ और भवन का पूर्वी साम्हना और उसका आंगन सौ हाथ चौड़ा था ॥

१५ फिर उस ने पीछे के आंगन के साम्हने की भीत की लम्बाई जिसके दोनों ओर छज्जे थे, मापकर सौ हाथ की पाई, और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। १६ तब उस ने डेवढ़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों, और आस पास के तीनों महलों के छज्जों को मापा जो डेवढ़ी के साम्हने थे, और चारों ओर उनकी तख्ताबन्दी हुई थी; और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों के आस पास सब कहीं तख्ताबन्दी हुई थी। १७ फिर उस ने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आस पास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी मापा। १८ और उस में कर्बूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो कर्बूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ था; और कर्बूबों के दो दो मुख थे। १९ इस प्रकार से एक एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था, और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना था। २० भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक कर्बूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, मन्दिर की भीत इसी भांति बनी हुई थी ॥

२१ भवन के द्वारों के खम्भे चौपहल थे, और पवित्रस्थान के साम्हने का रूप मन्दिर का सा था। २२ बेदी काठ की

बनी थी, और उसकी ऊंचाई तीन हाथ, और लम्बाई दो हाथ की थी; और उसके कोने और उसका सारा पाट और झल्लों भी काठ की थी। और उस ने मुफ़ से कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज़ है। २३ और मन्दिर और पवित्रस्थान के द्वारों के दो दो किवाड़ थे। २४ और हर एक किवाड़ में दो दो मुडनेवाले पल्ले थे, हर एक किवाड़ के लिये दो दो पल्ले। २५ और जैसे मन्दिर की भीतों में कर्बूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ों में भी थे, और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी घरने थीं। २६ और ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थीं और खजूर के पेड़ खुदे थे, और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी घरने भी थी ॥

४२ फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया, और मुझे उन दो कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के साम्हने और उसकी उत्तर ओर थीं। २ सौ हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था, और चौड़ाई पचास हाथ की थी। ३ भीतरी आंगन के बीस हाथ साम्हने और बाहरी आंगन के फर्श के साम्हने तीनों महलों में छज्जे थे। ४ और कोठरियों के साम्हने भीतर की ओर जानेवाला दस हाथ चौड़ा एक मार्ग था; और हाथ भर का एक और मार्ग था; और कोठरियों के द्वार उत्तर ओर थे। ५ और उपरली कोठरियां छोटी थीं, अर्थात् छज्जों के कारण वे निचली और बिचली कोठरियों से छोटी थीं। ६ क्योंकि वे तिमहली थीं, और आंगनों के समान उनके

सम्भ्रमे न थे; इस कारण उपरली कोठरियां निचली और बिचली कोठरियों से छोटी थी। ७ और जो भीत कोठरियों के बाहर उनके पास पास थी अर्थात् कोठरियों के साम्हने बाहरी आंगन की ओर थी, उसकी लम्बाई पचास हाथ की थी। ८ क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरिया पचास हाथ लम्बी थी, और मन्दिर के साम्हने की अलग सौ हाथ की थी। ९ और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहा लोग बाहरी आंगन से इन में जाते थे ॥

१० आंगन की भीत की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के साम्हने कोठरियां थी। ११ और उनके साम्हने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था; उनकी लम्बाई-चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढग उनके द्वार के से थे। १२ और दक्खिनी कोठरियों-के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात् पूर्व की ओर की भीत के साम्हने, जहा से लोग उन में प्रवेश करते थे ॥

१३ फिर उस ने मुझ से कहा, ये उत्तरी और दक्खिनी कोठरिया जो आंगन के साम्हने हैं, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिन में यहोवा के समीप जानेवाले याजक परमपवित्र वस्तुएं खायी करेगे, वे परम-पवित्र वस्तुएं, और अन्नबलि, और पापबलि, और दोषबलि, वही रखेगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। १४ जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के समय वे पवित्रस्थान से बाहरी आंगन में यों ही न निकलेगे, अर्थात् वे पहिले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्रस्थान में रख देंगे; क्योंकि ये कोठरियां पवित्र हैं।

तब वे और वस्त्र पहिनकर साधारण लोगो के स्थान में जाएंगे ॥

१५ जब वह भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। १६ उस ने पूर्वी अलग को मापने के बास से मापकर पाच सौ बास का पाया। १७ तब उस ने उत्तरी अलग को मापने के बांस से मापकर पाच सौ बास का पाया। १८ तब उस ने दक्खिनी अलग को मापने के बांस से मापकर पांच सौ बास का पाया। १९ और पच्छिमी अलग को मुडकर उस ने मापने के बास से मापकर उसे पाच सौ बांस का पाया। २० उस ने उस स्थान की चारों अलगे मापी, और उसकी चारों ओर एक भीत थी, वह पांच सौ बांस लम्बी और पाच सौ बास चौड़ी थी, और इसलिये बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे ॥

४३

फिर वह मुझ को उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। २ तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया; और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई; और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। ३ और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था, जो मैं ने उसे नगर के नाश करने को आते-समय देखा था; और उस दर्शन के समान, जो मैं ने कबार नदी के तीर पर देखा था; और मैं मुह के बल गिर पड़ा। ४ तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था, भवन में आ गया। ५ तब आत्मा ने मुझे उठाकर

भीतरी प्रांगण में पहुंचाया; और यहोवा का तेज भवन में भरा था ॥

६ तब मैं ने एक जन का शब्द सुना, जो भवन में से मुझ से बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था । ७ उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूंगा । और न तो इस्राएल का घराना, और न उसके राजा अपने व्यभिचार से, वा अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर प्रशुद्ध ठहराएंगे । ८ वे अपनी डेवढी मेरी डेवढी के पाम, और अपने द्वार के खम्भे मेरे द्वार के खम्भे के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल भीत ही थी, और उन्होंने ने अपने धिनीने कामों से मेरा पवित्र नाम प्रशुद्ध ठहराया था; इसलिये मैं ने कोप करके उन्हें नाश किया । ९ अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं की लोथें मेरे सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूंगा ॥

१० हे मनुष्य के सन्तान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे । ११ और यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हों, तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप, और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग, और इसके सब आकार और विधियां, और नियम बतलाना, और उनके साम्हने लिख रखना; जिस से वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार करे । १२ भवन

का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का सम्पूर्ण भाग परमपवित्र है । देख, भवन का नियम यही है ॥

१३ और ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ में चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप यह है, अर्थात् उसका आधार * एक हाथ का, और उसकी चौड़ाई एक हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी एक चौवे की । और वेदी की ऊंचाई यह है : १४ भूमि पर घरे हुए आधार * से लेकर निचली कुर्सी तक दो हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो; और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक चार हाथ हों और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो; १५ और उपरला भाग चार हाथ ऊंचा हो; और वेदी पर जलाने के स्थान के चार सींग ऊपर की ओर निकले हों । १६ और वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात् बारह हाथ लम्बा और बारह हाथ चौड़ा हो । १७ और निचली कुर्सी चौदह हाथ लम्बी और चौदह चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो । उसकी सीढ़ी उसकी पूर्व ओर हो ॥

१८ फिर उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस दिन होमबलि बढ़ाने और लोह छिड़कने के लिये वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे : १९ अर्थात् लेवीय याजक लोग, जो सादोक की सन्तान हैं, और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें

* मूल में—गोद ।

तू पापबलि के लिये एक बछड़ा देना, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। २० तब तू उसके लोहू में से कुछ लेकर बेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना; इस प्रकार से उसके लिये प्रायश्चित्त करने के द्वारा उसको पवित्र करना। २१ तब पापबलि के बछड़े को लेकर, भवन के पवित्रस्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। २२ और दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पापबलि करके चढाना; और जैसे बछड़े के द्वारा बेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। २३ जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढा चढाना। २४ तू उन्हें यहोवा के साम्हने ले आना, और याजक लोग उन पर लोन डालकर उन्हें यहोवा को होमबलि करके चढाएं। २५ सात दिन तक तू प्रति दिन पापबलि के लिये एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढा भी तैयार किया जाए। २६ सात दिन तक याजक लोग बेदी के लिये प्रायश्चित्त करके उसे शुद्ध करते रहें; इसी भाँति उसका सस्कार हो। २७ और जब वे दिन समाप्त हो, तब आठवें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होमबलि और मेलबलि बेदी पर चढाया करें; तब मैं तुम से प्रसन्न हूँगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

४४ फिर वह मुझे पवित्रस्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया, जो पूर्वमुखी है; और वह बन्द बा। २ तब यहोवा ने मुझ से कहा,

यह फाटक बन्द रहे और खोला न जाए; कोई इम से होकर भीतर जाने न जाए; क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस से होकर भीतर आया है; इस कारण यह बन्द रहे। ३ केवल प्रधान ही, प्रधान होने के कारण, मेरे साम्हने भोजन करने को बहा बँटेगा; वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए, और इसी से होकर निकले ॥

४ फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के साम्हने ले गया; तब मैं ने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज में भर गया है; और मैं मुह के बल गिर पडा। ५ तब यहोवा ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, ध्यान देकर अपनी आत्मा से देख, और जो कुछ मैं तुझ से अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानो से सुन; और भवन के पंठाव और पवित्रस्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। ६ और उन बलवाइयों अर्थात् इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। ७ जब तुम मेरा भोजन अर्थात् चर्बी और लोहू चढाते थे, तब तुम बिराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्रस्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करे; और उन्होंने ने मेरी वाचा को तोड़ दिया जिस से तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। ८ और तुम ने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परन्तु तुम ने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्रस्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करनेवाले ठहराया ॥

६ इसलिये परमेश्वर यहोवा यों कहता है, कि इस्राएलियों के बीच जितने ग्रन्थ लोग हों, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन है, उन में से कोई मेरे पवित्रस्थान में न आने पाए। १० परन्तु लेवीय लोग जो उस समय मुझ से दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। ११ परन्तु वे मेरे पवित्रस्थान में टहलए होकर भवन के फाटकों का पहरा देनेवाले और भवन के टहलए रहें; वे होमबलि और मेलबलि के पशु लोगों के लिये बघ करे, और उनकी सेवा टहल करने को उनके साम्हने खड़े हुआ करे। १२ क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के साम्हने करते थे, और उनके ठीकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे, इस कारण मैं ने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। १३ वे मेरे समीप न आए, और न मेरे लिये याजक का काम करें; और न मेरी किसी पवित्र वस्तु, वा किसी परमपवित्र वस्तु को छुने पाएं; वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने ने किए, उनका भी भार उठाएं। तौमी में उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा; १४ उस में सेवा का जितना काम हो, और जो कुछ उस में करना हो, उसके करनेवाले वे ही हों ॥

१५ फिर लेवीय याजक जो सादोक की सन्तान हैं, और जिन्होंने ने उस समय मेरे पवित्रस्थान की रक्षा की जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा

टहल करने को मेरे समीप आया करें, और मुझे चर्बी और लोह चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। १६ वे मेरे पवित्रस्थान में आया करें, और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आएँ और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। १७ और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहिने हुए जाएँ, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में वा उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के वस्त्र न पहिनें। १८ वे सिर पर सन की सुन्दर टोपियां पहिनें और कमर में सन की जाघिया बान्धें हों; किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधें जिस से पसीना होता है। १९ और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकलें, तब जो वस्त्र पहिने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहिने, जिस से लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरें। २० और न तो वे सिर मुएडाएं, और न बाल लम्बे होने दें; वे केवल अपने बाल कटाएं। २१ और भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाखमधु न पीए। २२ वे विधवा वा छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न लें, केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी वा ऐसी विधवा ब्याह लें जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। २३ वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें, और शुद्ध अशुद्ध का अन्तर बताया करें। २४ और जब कोई मुकद्मा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठें *

* मूल में—बैठें हों।

श्रीर मेरे नियमों के अनुसार न्याय करे । मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था श्रीर विधियां पालन करें, श्रीर मेरे विश्रामदिनों को पवित्र माने । २५ वे किसी मनुष्य की लोथ के पास न जाएं कि अशुद्ध हो जाए; केवल माता-पिता, बेटे-बेटियाँ; भाई, श्रीर ऐसी बहिन की लोथ के कारण जिसका विवाह न हुआ हो वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं । २६ श्रीर जब वे अशुद्ध हो जाए, तब उनके लिये सात दिन गिने जाए श्रीर तब वे शुद्ध ठहरे, २७ श्रीर जिस दिन वे पवित्रस्थान अर्थात् भीतरी आगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करें, उस दिन अपने लिये पापबलि चढाएं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

२८ श्रीर उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात् उनका भाग में ही है; तुम उन्हें इस्त्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो; उनकी निज भूमि में ही हूँ । २९ वे अन्नबलि, पापबलि और दोषबलि खायी करें, श्रीर इस्त्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए, वह उनको मिला करे । ३० श्रीर सब प्रकार की सब से पहिली उपज श्रीर सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर षडाम्रो, याजकों को मिला करे; श्रीर नये अन्न का पहिला गूधा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिस से तुम लोगों के घर में आशीष हो । ३१ जो कुछ अपने आप मरे वा फाडा गया हो, चाहे पक्षी हो वा पशु उसका मांस याजक न ल्याए ॥

४५

जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बाटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण

करना, उसकी लम्बाई पच्चीस हजार बास की श्रीर चौडाई दस हजार बास की हो; वह भाग अपने चारों ओर के सिवाने तक पवित्र ठहरे । २ उस में से पवित्र-स्थान के लिये पांच सौ बास लम्बी श्रीर पांच सौ बास चौडी चौकोनी भूमि हो, श्रीर उसकी चारों ओर पचास पचास हाथ चौडी भूमि छूटी पडी रहे । ३ उस पवित्र भाग में तुम पच्चीस हजार बास लम्बी श्रीर दस हजार बास चौडी भूमि को मापना, श्रीर उमी में पवित्रस्थान बनाना, जो परमपवित्र ठहरे । ४ जो याजक पवित्रस्थान की सेवा टहल करे श्रीर यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आएँ, वह उन्ही के लिये हो; वहा उनके घरों के लिये स्थान हो श्रीर पवित्रस्थान के लिये पवित्र ठहरे । ५ फिर पच्चीस हजार बास लम्बा, श्रीर दस हजार बास चौडा एक भाग, भवन की सेवा टहल करनेवाले लेवियों की बीस कोठरियों के लिये हो ॥

६ फिर नगर के लिये, अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास, तुम पांच हजार बास चौडी श्रीर पच्चीस हजार बास लम्बी, विशेष भूमि ठहराना; वह इस्त्राएल के सारे घराने के लिये हो ॥

७ श्रीर प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग श्रीर नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर अर्थात् दोनों की पश्चिम श्रीर पूर्व दिशाओं में दोनों भागों के साम्हने हों; श्रीर उसकी लम्बाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो । ८ इस्त्राएल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो । श्रीर मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अन्वेष न करें;

परन्तु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले ॥

६ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल के प्रधानो ! बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो, और न्याय और धर्म के काम किया करो; मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

१० तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा, और सच्चा बत रहे। ११ एपा और बत दोनों एक ही नाप के हों, अर्थात् दोनों में होमेर का दसवां अंश समाए; दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। १२ और शेकेल बीस गेरा का हो; और तुम्हारा माना बीस, पच्चीस, या पन्द्रह शेकेल का हो ॥

१३ तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात् गेहू के होमेर से एपा का छठवां अंश, और जब के होमेर में से एपा का छठवां अंश देना। १४ और तेल का नियत अंश कोर में से बत का दसवां अंश हो; कोर तो दस बत अर्थात् एक होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर दस बत का होता है। १५ और इस्राएल की उत्तम उत्तम बराइयों से दो दो सौ भेड़-बकरियों में से एक भेड़ वा बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्नबलि, होमबलि और मेलबलि के लिये दी जाएं जिस से उनके लिये प्रायश्चित्त किया जाए, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। १६ इस्राएल के प्रधान के लिये देश के सब लोग यह भेंट दें। १७ पर्वों, नये चांद के दिनों, विश्रामदिनों और इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होमबलि, अन्नबलि, और अर्घ्य देना प्रधान ही का काम हो। इस्राएल के घराने के लिये प्रायश्चित्त

करने को वह पापबलि, अन्नबलि, होमबलि, और मेलबलि तैयार करे ॥

१८ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, पहिले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्रस्थान को पवित्र करना। १९ इस पापबलि के लोह में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खम्भों, और बेदी की कुर्सी के चारों कोनों, और भीतरी आंगन के फाटक के खम्भों पर लगाए। २० फिर महीने के सातवें दिन को सब भूल में पड़े हुए और भोलों के लिये भी यों ही करना; इसी प्रकार से भवन के लिये प्रायश्चित्त करना ॥

२१ पहिले महीने के चौदहवें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे, वह सात दिन का पर्व हो और उस में अन्नमीरी रोटी खाई जाए। २२ उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पापबलि के लिये तैयार करे। २३ और पर्व के सातों दिन वह यहोवा के लिये होमबलि तैयार करे, अर्थात् हर एक दिन सात सात निर्दोष बछड़े और सात सात निर्दोष भेड़ें और प्रति दिन एक एक बकरा पापबलि के लिये तैयार करे। २४ और हर एक बछड़े और भेड़ें के साथ वह एपा भर अन्नबलि, और एपा पीछे हीन भर तेल तैयार करे। २५ सातवें महीने के पन्द्रहवें दिन से लेकर सात दिन तक अर्थात् पर्व के दिनों में वह पापबलि, होमबलि, अन्नबलि, और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे ॥

४६ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक काम काज के छत्रों दिन बन्द रहे, परन्तु

विश्रामदिन को खुला रहे। और नये चांद के दिन भी खुला रहे। २ प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खम्भे के पास खड़ा हो जाए, और याजक उसका होमबलि और मेलबलि तैयार करे; और वह फाटक की डेवढी पर दण्डवत् करे; तब वह बाहर जाए, और फाटक साभ से पहिले बन्द न किया जाए। ३ और लोग विश्राम और नये चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के साम्हने दण्डवत् करें। ४ और विश्रामदिन में जो होमबलि प्रधान यहोवा के लिये चढ़ाए, वह भेड के छः निर्दोष बच्चे और एक निर्दोष भेड़े का हो। ५ और अन्नबलि यह हो, अर्थात् भेड़े के साथ एपा भर अन्न और भेड़े के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। ६ और नये चांद के दिन वह एक निर्दोष बछड़ा और भेड के छः बच्चे और एक भेडा चढ़ाए; ये सब निर्दोष हों। ७ और बछड़े और भेड़े दोनों के साथ वह एक एक एपा अन्नबलि तैयार करे, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न, और एपा पीछे हीन भर तेल। ८ और जब प्रधान भीतर जाए तब वह फाटक के ओसारे से होकर जाए, और उसी मार्ग से निकल जाए ॥

९ जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के साम्हने दण्डवत् करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दण्डवत् करने को भीतर आए, वह दक्खिनी फाटक से होकर निकले, और जो दक्खिनी फाटक से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फाटक से होकर निकले, अर्थात् जो जिस फाटक से भीतर आया हो, वह उसी फाटक से

न लौटे, अपने साम्हने ही निकल जाए। १० और जब वे भीतर आए तब प्रधान उनके बीच होकर आए, और जब वे निकले, तब वे एक साथ निकले ॥

११ और पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्नबलि बछड़े पीछे एपा भर, और भेड़े पीछे एपा भर का हो, और भेड के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। १२ फिर जब प्रधान होमबलि वा मेलबलि को स्वेच्छा-बलि करके यहोवा के लिये तैयार करे, तब पूर्वमुखी फाटक उनके लिये खोला जाए, और वह अपना होमबलि वा मेलबलि वैसे ही तैयार करे जैसे वह विश्रामदिन को करता है, तब वह निकले, और उसके निकलने के पीछे फाटक बन्द किया जाए ॥

१३ और प्रति दिन तू वर्ष भर का एक निर्दोष भेड का बच्चा यहोवा के होमबलि के लिये तैयार करना, यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। १४ और प्रति भोर को उसके साथ एक अन्नबलि तैयार करना, अर्थात् एपा का छठवा अंश और मंदा में मिलाने के लिये हीन भर तेल की तिहाई यहोवा के लिये सदा का अन्नबलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। १५ भेड़ का बच्चा, अन्नबलि और तेल, प्रति भोर को नित्य होमबलि करके चढ़ाया जाए ॥

१६ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे, तो वह उसका भाग होकर उसके पीतों को भी मिले; भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे। १७ परन्तु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे, तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परन्तु उसके बाद

प्रधान को लौटा दिया जाए; और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। १८ और प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले, जो अन्धेर से उनकी निज भूमि से छीना हो; अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि में से भाग दे; ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर-बितर हो जाए ॥

१९ फिर वह मुझे फाटक की एक अलंग में द्वार से होकर याजकी की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया; वहां पश्चिम ओर के कोने में एक स्थान था। २० तब उस ने मुझ से कहा, यह वह स्थान है जिस में याजक लोग दोषबलि और पापबलि के मांस को पकाएं और अन्नबलि को पकाएं, ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरें ॥

२१ तब उस ने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारों कोनों में फिराया, और आंगन के हर एक कोने में एक एक झोट बना था, २२ अर्थात् आंगन के चारों कोनों में चालीस हाथ लम्बे और तीस हाथ चौड़े झोट थे; चारों कोनों के झोटों की एक ही माप थी। २३ और भीतर चारों ओर भीत * थी, और भीतों † के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। २४ तब उस ने मुझ से कहा, पकाने के घर, जहां भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाएं, वे ये ही हैं ॥

४७ फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया; और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व ओर बह रहा था। भवन का द्वार

तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन के पूर्व ओर वेदी के दक्खिन, नीचे से निकलता था। २ तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात् पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया; और दक्खिनी अलंग से जल पसीजकर बह रहा था।

३ जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उस ने भवन से लेकर, हजार हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। ४ उस ने फिर हजार हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था, फिर और हजार हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। ५ तब फिर उस ने एक हजार हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था; अर्थात् ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। ६ तब उस ने मुझ से पूछा, हे मनुष्य के सन्तान, क्या तू ने यह देखा है ?

फिर उस ने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। ७ लौटकर मैं ने क्या देखा, कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। ८ तब उस ने मुझ से कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा; और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा; और उसका जल मीठा हो जाएगा। ९ और जहां जहां यह नदी * बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अण्डे देनेवाले जीवजन्तु जीएंगे

* मूल में—पश्चि। † मूल में—पश्चिमी।

* मूल में—दो नदियां।

और मछलियां भी बहुत हो जाएगी; क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल भीठा हो जाएगा; और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जन्तु जीएंगे। १० ताल के तीर पर मछवें खड़े रहेंगे, और एनगदी से लेकर एनेग्लैम तक वे जाल फंसाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। ११ परन्तु ताल के पास जो दलदल और गडहे हैं, उनका जल भीठा न होगा; वे खारे ही रहेंगे। १२ और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदाई वृक्ष उपजेगे, जिनके पत्ते न मुर्झाएंगे और उनका फलना भी कभी बन्द न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उन में महीने महीने, नये नये फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के, और पत्ते औषधि के काम आएंगे ॥

१३ परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस सिवाने के भीतर तुम को यह देश अपने बारहों गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा, वह यह है: यूसुफ को दो भाग मिले। १४ और उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैं ने शपथ खाई* कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा, सो यह देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा ॥

१५ देश का सिवाना यह हो, अर्थात् उत्तर और का सिवाना महासागर से लेकर हेतलोन के पास से सदाद की घाटी तक पहुंचे, १६ और उस सिवाने के पास हमात बेरोता, और सिब्रैम जो दक्षिण और हमात के सिवानों के बीच में है,

* मूल में—मैं ने हाथ उठाया था।

और हसहंस्तीफोन तक, जो हीरान के सिवाने पर है। १७ और यह सिवाना समुद्र से लेकर दक्षिण के सिवाने के पास के हसरेनोन तक पहुंचे, और उसकी उत्तर और हमात हो। उत्तर का सिवाना यही हो। १८ और पूर्वी सिवाना जिसकी एक ओर हीरान दक्षिण; और यरदन की ओर गिलाद और इस्त्राएल का देश हो; उत्तरी सिवाने से लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना। पूर्वी सिवाना तो यही हो। १९ और दक्षिणी सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक अर्थात् मिस्र के नाले तक, और महासागर तक पहुंचे। दक्षिणी सिवाना यही हो। २० और पश्चिमी सिवाना दक्षिणी सिवाने से लेकर हमात की घाटी के साम्हने तक का महासागर हो। पच्छिमी सिवाना यही हो ॥

२१ इस प्रकार देश को इस्त्राएल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना। २२ और इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना, जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माए। वे तुम्हारी दृष्टि में देशी इस्त्राएलियों की नाईं ठहरें, और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाएं। २३ जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो, उसको वही भाग देना, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

४८ गोत्रों के भाग * ये हों : उत्तर सिवाने से लगा हुभा हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक, और दक्षिण के सिवाने के पास के हसरेनान से उत्तर और हमात के पास तक एक भाग दान का हो; और उसके पूर्वी और

* मूल में—नाम।

पश्चिमी सिवाने श्री हों। २ दान के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। ३ आशेर के सिवाने से लगा हुआ, पूर्व से पश्चिम तक नप्ताली का एक भाग हो। ४ नप्ताली के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनश्शे का एक भाग। ५ मनश्शे के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक एग्रैम का एक भाग हो। ६ एग्रैम के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक रूबेन का एक भाग हो। ७ और रूबेन के सिवाने से लगा हुआ, पूर्व से पच्छिम तक यहूदा का एक भाग हो।

८ यहूदा के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो, जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा, वह पच्चीस हजार बांस चौड़ा और पूर्व से पच्छिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लम्बा हो, और उसके बीच में पवित्रस्थान हो। ९ जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा, उसकी लम्बाई पच्चीस हजार बांस और चौड़ाई दस हजार बांस की हो। १० यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले; वह उत्तर और पच्चीस हजार बांस लम्बा, पच्छिम और दस हजार बांस चौड़ा, पूर्व और दस हजार बांस चौड़ा और दक्खिन और पच्चीस हजार बांस लम्बा हो; और उसके बीचोबीच यहोवा का पवित्रस्थान हो। ११ यह विशेष पवित्र भाग सादोक की सन्तान के उन याजकों का हो जो मेरी आज्ञाओं को पालते रहे, और इस्त्राएलियों के भटक जाने के समय लैवियों की नाईं न भटके थे। १२ सो देश के अर्पण किए हुए भाग में से यह उनके लिये अर्पण किया हुआ भाग, अर्थात्

परमपवित्र देश ठहरे; और लैवियों के सिवाने से लगा रहे। १३ और याजकों के सिवाने से लगा हुआ लैवियों का भाग हो, वह पच्चीस हजार बांस लम्बा और दस हजार बांस चौड़ा हो। सारी लम्बाई पच्चीस हजार बांस की और चौड़ाई दस हजार बांस की हो। १४ वे उस में से न तो कुछ बचें, न दूसरी भूमि से बदले; और न भूमि की पहिली उपज और किसी को दी जाए। क्योंकि वह यहोवा के लिये पवित्र है।

१५ और चौड़ाई के पच्चीस हजार बांस के साम्हने जो पाच हजार बचा रहेगा, वह नगर और बस्ती और चराई के लिये साधारण भाग हो; और नगर उसके बीच में हो। १६ और नगर की यह माप हो, अर्थात् उत्तर, दक्खिन, पूर्व और पच्छिम और साढ़े चार चार हजार हाथ। १७ और नगर के पास उत्तर, दक्खिन, पूर्व, पच्छिम, चराइयां हों जो अढ़ाई अढ़ाई सौ बांस चौडी हों। १८ और अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लम्बाई में से जो कुछ बचे, अर्थात् पूर्व और पच्छिम दोनों ओर दस दस बांस जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम करनेवालों के खाने के लिये हो। १९ और इस्त्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करें, वे उसकी खेती किया करें। २० सारा अर्पण किया हुआ भाग पच्चीस हजार बांस लम्बा और पच्चीस हजार बांस चौड़ा हो; तुम्हें चौकोना पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिस में नगर की विशेष भूमि हो।

२१ और जो भाग रह जाए, वह प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए

भाग की, और नगर की विशेष भूमि की दोनों और अर्थात् उनकी पूर्व और पच्छिम अलंगों के पच्चीस पच्चीस हजार बांस की चौड़ाई के पास, जो और गोत्रों के भागों के पास रहे, वह प्रधान को मिले। और अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्रस्थान उनके बीच में हो। २२ जो प्रधान का भाग होगा, वह लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामीन के सिवाने के बीच में हो ॥

२३ अन्य गोत्रों के भाग इस प्रकार हों : पूर्व से पच्छिम तक बिन्यामीन का एक भाग हो। २४ बिन्यामीन के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक शिमोन का एक भाग। २५ शिमोन के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक इस्साकार का एक भाग। २६ इस्साकार के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक जबूलून का एक भाग। २७ जबूलून के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पच्छिम तक गाद का एक भाग। २८ और गाद के सिवाने के पास दक्खिन और का सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक, और मिस्र के नाले और महासागर तक पहुँचे। २९ जो देश तुम्हें इस्राएल के गोत्रों को बाटना होगा वह यही है, और उनके भाग भी ये ही

हैं, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

३० नगर के निकास ये हों, अर्थात् उत्तर की अलग जिसकी लम्बाई साढ़े चार हजार बांस की हो। ३१ उस में तीन फाटक हों, अर्थात् एक स्वैन का फाटक, एक यहूदा का फाटक, और एक नेबी का फाटक हो; क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के नामों पर रखने होंगे। ३२ और पूरब की अलंग साढ़े चार हजार बांस लम्बी हो, और उस में तीन फाटक हों; अर्थात् एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन का फाटक, और एक दान का फाटक हो। ३३ और दक्खिन की अलग साढ़े चार हजार बांस लम्बी हो, और उस में तीन फाटक हों; अर्थात् एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक, और एक जबूलून का फाटक हो। ३४ और पश्चिम की अलंग साढ़े चार हजार बांस लम्बी हो, और उस में तीन फाटक हों; अर्थात् एक गाद का फाटक, एक आशोर का फाटक और तप्ताली का फाटक हो। ३५ नगर की चारों अलंगों का घेरा अठारह हजार बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम " यहोवा शाम्मा * " रहेगा ॥

* अर्थात् यहोवा वहां है।

दानिय्येल नामक पुस्तक

१ यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। २ तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया; और उस ने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मन्दिर में ले जाकर, अपने देवता के भण्डार में रख दिया। ३ तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इस्त्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, ४ जो निर्दोष, सुन्दर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, और ज्ञान में निपुण और विद्वान् और राजमन्दिर में हाज़िर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ५ और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने-पीने को दिया जाए। इस प्रकार तीन वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे; तब उसके बाद वे राजा के साम्हने हाज़िर किए गए। ६ उन में यहूदा की सन्तान से चुने हुए, दानिय्येल, हनन्याह, मीशाएल, और अजर्याह नाम यहूदी थे। ७ और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात् दानिय्येल का नाम उस ने बेलतशास्सर, हनन्याह का शद्रक, मीशाएल

का मेशक, और अजर्याह का नाम अवेदनगो रखा।।

८ परन्तु दानिय्येल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिये उस ने खोजों के प्रधान से बिनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। ९ परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानिय्येल के प्रति कृपा और दया भर दी। १० और खोजों के प्रधान ने दानिय्येल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना-पीना उसी ने ठहराया है, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुह तेरे मगी के जवानों से उतरा हुआ और उदाम देखे और तुम मेरा सिर राजा के साम्हने जोखिम में डालो। ११ तब दानिय्येल ने उस मुखिये से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानिय्येल, हनन्याह, मीशाएल, और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिये नियुक्त किया था, कहा, १२ मैं तेरी बिनती करता हूँ, अपने दासों को दस दिन तक जांच, हमारे खाने के लिये सागपात और पीने के लिये पानी ही दिया जाए। १३ फिर दस दिन के बाद हमारे मुह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख; और जैसा तुम्हें देख पड़े, उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। १४ उनकी यह बिनती उस ने मान ली, और दस दिन तक उनको जाचता रहा। १५ दस दिन के बाद

उनके मुंह राजा के भोजन के खानेवाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। १६ तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिये ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर, उनको मागपात देने लगा ॥

१७ और परमेश्वर ने उन चारो जवानों को सब शास्त्रों, और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी; और दानिव्येल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। १८ तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। १९ और राजा उन से बातचीत करने लगा, और दानिव्येल, हनन्याह, मीशाएल, और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिये वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। २० और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उन में पूछता था उस में वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तन्त्रियों से दसगुणो निपुण ठहरते थे। २१ और दानिव्येल कुसू राजा के पहिले वर्ष तक बना रहा ॥

२ अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिस से उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नीद न आई। २ तब राजा ने आज्ञा दी, कि ज्योतिषी, तन्त्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बनाए; सो वे आए और राजा के साम्हने हाजिर हुए। ३ तब राजा ने उन से कहा, मैं ने एक

स्वप्न देखा है, और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझू। ४ कसदियों ने, राजा से अराभी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरजीव रहे! अपने दासों को स्वप्न बता, और हम उसका फल बताएंगे। ५ राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हू कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। ६ और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझ में भाति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। ७ इसलिये तुम मुझे फल समेत स्वप्न को बताओ। उन्होंने ने दूसरी बार कहा, हे राजा स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए, और हम उसका फल समझा देंगे। ८ राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हू कि तुम यह देखकर, कि राजा के मुह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। ९ इसलिये यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिये एक ही आज्ञा है। क्योंकि तुम ने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले, तब तक हम राजा के साम्हने भूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिये तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। १० कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके; और न कोई ऐसा राजा, वा प्रधान, वा हाकिम कभी हुआ है जिस ने किसी ज्योतिषी वा तन्त्री, वा कमदी से ऐसी बात पूछी हो। ११ जो बात राजा पूछता है, वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के सग नहीं है,

और कोई दूसरा नहीं, जो राजा को यह बता सके ॥

१२ इस पर राजा ने झुंझलाकर, और बहुत ही क्रोधित होकर, बाबुल के सब परिदृश्यों के नाश करने की आज्ञा दे दी। १३ सो यह आज्ञा निकली, और परिदृश्यों लोगों का घात होने पर था; और लोग दानिय्येल और उसके सगियों को ढूँढ़ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। १४ तब दानिय्येल ने, जल्लादों के प्रधान अय्योक से, जो बाबुल के परिदृश्यों को घात करने के लिये निकला था, सोच विचारकर और बुद्धिमानों के साथ कहा, १५ और राजा के हाकिम अय्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की और मे ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अय्योक ने दानिय्येल को इसका भेद बता दिया। १६ और दानिय्येल ने भीतर जाकर राजा से बिनती की, कि उसके लिये कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा ॥

१७ तब दानिय्येल ने अपने घर जाकर, अपने सगी हनन्याह, मीशाएल, और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, १८ इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिये यह कहकर प्रार्थना करो, कि बाबुल के और सब परिदृश्यों के सग, दानिय्येल और उसके सगी भी नाश न किए जाएं। १९ तब वह भेद दानिय्येल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रगट किया गया। सो दानिय्येल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, २० परमेश्वर का नाम युगानयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। २१ समयों और ऋतुओं को वही

पलटता है; राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझवालों को समझ भी वही देता है, २२ वही गूढ और गुप्त बातों को प्रगट करता है, वह जानता है कि अन्धियारे में क्या है, और उमके संग सदा प्रकाश बना रहता है। २३ हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू ने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझ से मागा था, उसे तू ने मुझ पर प्रगट किया है, तू ने हम को राजा की बात बताई है ॥

२४ तब दानिय्येल ने अय्योक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के परिदृश्यों के नाश करने के लिये ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के परिदृश्यों का नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा ॥

२५ तब अय्योक ने दानिय्येल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उम से कहा, यहूदी बधुओं में से एक पुरुष मुझ को मिला है, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। २६ राजा ने दानिय्येल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैं ने देखा है, उसे फल समेत मुझे बताए? २७ दानिय्येल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, वह न तो परिदृश्यों न तन्त्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बतानेवाले राजा को बता सकते हैं, २८ परन्तु भेदों का प्रगटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अन्त के दिनों में क्या क्या होनेवाला है। तेरा स्वप्न और

जो कुछ तू ने पलंग पर पड़े हुए देखा, वह यह है : २६ हे राजा, जब तुझ को पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होनेवाला है, तब भेदों को खोलनेवाले ने तुझ को बताया, कि क्या क्या होनेवाला है। ३० मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परन्तु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए, और तू अपने मन के विचार समझ सके ॥

३१ हे राजा, जब तू देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे साम्हने खड़ी थी, सो लम्बी चौड़ी थी; उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। ३२ उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएँ चान्दी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, ३३ उसकी टाँगें लोहे की और उसके पाव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। ३४ फिर देखते देखते, तू ने क्या देखा, कि एक पत्थर ने, बिना किसी के खोदे, आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। ३५ तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चान्दी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा; और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फँल गया ॥

३६ स्वप्न तो यों ही हुआ; और अब हम उसका फल राजा को समझा

देते हैं। ३७ हे राजा, तू तो महाराजा-धिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझ को राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, ३८ और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उस ने उन सभी को, और मैदान के जीवजन्तु, और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं; और तुझ को उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। ३९ तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझ से छोटा होगा; फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिस में सारी पृथ्वी भा जाएगी। ४० और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे से तो सब वस्तुएँ चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं; इसलिये जिस भाति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भाति, उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। ४१ और तू ने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इस से वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा; तौभी उस में लोहे का सा कडापन रहेगा, जैसे कि तू ने कुम्हार की मिट्टी के सग लोहा भी मिला हुआ देखा था। ४२ और जैसे पावों की उंगलियाँ कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है, कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल * होगा। ४३ और तू ने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के सग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है, कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से † मिले जुले तो रहेंगे, परन्तु जैसे लोहा मिट्टी के साथ

* मूल में—अरुअरा।

† मूल में—बिनाशी मनुष्यों के वंश से।

मेल नहीं खाता, बैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। ४४ और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनन्तकाल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। बरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, और उनका अन्त कर डालेगा; और वह सदा स्थिर रहेगा; ४५ जैसा तू ने देखा कि एक पत्थर किमी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उस ने लोहे, पीतल, मिट्टी, चान्दी, और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान् परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होनेवाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ सन्देह है ॥

४६ इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानिव्येल को दण्डवत् की, और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढाओ, और उसके साम्हने सुगन्ध वस्तु जलाओ। ४७ फिर राजा ने दानिव्येल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलनेवाला है, इसीलिये तू यह भेद प्रगट कर पाया। ४८ तब राजा ने दानिव्येल का पद बड़ा किया, और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए; और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रान्त पर हाकिम और बाबुल के सब परिदंतों पर मुख्य प्रधान बने। ४९ तब दानिव्येल के बिनती करने से राजा ने शदक, मेशक, और अर्बेदनगो को बाबुल के प्रान्त के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया; परन्तु दानिव्येल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था ॥

नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई साठ हाथ, और चौड़ाई छः हाथ की थी। और उस ने उसको बाबुल के प्रान्त के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। २ तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजानचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रान्त-प्रान्त के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएँ जो उस ने खड़ी कराई थी। ३ तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजानची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रान्त-प्रान्त के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिये इकट्ठे हुए, और उस मूरत के साम्हने खड़े हुए। ४ तब दिठोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, हे देश-देश और जाति-जाति के लोगो, और भिन्न-भिन्न भाषा के बोलनेवालो, तुम को यह आज्ञा सुनाई जाती है कि, ५ जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, बीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दण्डवत् करो। ६ और जो कोई गिरकर दण्डवत् न करेगा वह उसी घड़ी धक्के हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। ७ इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुली, बीणा, सारंगी, सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश-देश और जाति-जाति के लोगों और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवालों ने गिरकर उस सोने की

मूरत को, जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, दण्डवत् की ॥

८ उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए, और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। ९ वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरजीव रहे। १० हे राजा, तू ने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बासुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दण्डवत् करे; ११ और जो कोई गिरकर दण्डवत् न करे वह धक्कते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। १२ देख, शद्रक, मेशक, और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तू ने बाबुल के प्रान्त के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिन्ता नहीं की; वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तू ने खड़ी कराई है, उसको दण्डवत् नहीं करते ॥

१३ तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के साम्हने हाज़िर किए गए। १४ नबूकदनेस्सर ने उन से पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते, और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दण्डवत् नहीं करते, सो क्या तुम जान बूझकर ऐसा करते हो? १५ यदि तुम अभी तैयार हो, कि जब नरसिंगे, बासुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दण्डवत् करो, तो बचोगे;

और यदि तुम दण्डवत् न करो तो इसी घड़ी धक्कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे, फिर ऐसा कौन देवता है, जो तुम को मेरे हाथ से छुड़ा सके ?

१६ शद्रक, मेशक, और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुम्हें उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। १७ हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं वह हम को उस धक्कते हुए भट्टे की भाग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ में भी छुड़ा सकता है। १८ परन्तु, यदि नहीं, तो हे राजा तुम्हें मालूम हो, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दण्डवत् करेंगे ॥

१९ तब नबूकदनेस्सर भुङ्गला उठा, और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया। और उस ने आज्ञा दी कि भट्टे को सातगुणा अधिक धक्का दो। २० फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान् पुरुषों को उस ने आज्ञा दी, कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बान्धकर उन्हें धक्कते हुए भट्टे में डाल दो। २१ तब वे पुरुष अपने मोजों, अगरलों, बागों और और बस्त्रों सहित बान्धकर, उस धक्कते हुए भट्टे में डाल दिए गए। २२ वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यन्त धक्काया गया था, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही भाग की प्रांच से जल मरे। २३ और उसी धक्कते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, बन्धे हुए फेंक दिए गए ॥

२४ तब नबूकदनेस्सर राजा अचम्भित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ। और अपने मन्त्रियों से पूछने लगा, क्या हम ने उस भाग के बीच तीन ही पुरुष बन्धे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने ने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात तो है। २५ फिर उस ने कहा, अब मैं देखता हू कि चार पुरुष भाग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची; और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है ॥

२६ फिर नबूकदनेस्सर उस घघकते हुए भँट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परमप्रधान परमेश्वर के दासो, निकलकर यहां आओ! यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो भाग के बीच से निकल आए। २७ जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मन्त्रियों ने, जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में भाग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया; और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोड़े कुछ बिगड़े, न उन में जलने की कुछ गन्ध पाई गई। २८ नबूकदनेस्सर कहने लगा, घन्य है शद्रक, मेशक, और अबेदनगो का परमेश्वर, जिस ने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिये बचाया, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर, उसी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, कि हम अपने परमेश्वर को छोड़, किसी देवता की उपासना वा दण्डवत् न करेंगे। २९ इसलिये अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश-देश और जाति-जाति के लोगों,

और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निन्दा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, और उसका घर घूरा बनाया जाएगा; क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ३० तब राजा ने बाबुल के प्रान्त में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया ॥

४ नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश-देश और जाति-जाति के लोगों, और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढे! २ मुझे यह अच्छा लगा, कि परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, उनको प्रगट करू। ३ उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े, और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रगट होती है! उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है ॥

४ मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। ५ मैं ने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैं ने देखीं, उनके कारण मैं घबरा गया था। ६ तब मैं ने आज्ञा दी कि बाबुल के सब परिश्रित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिये मेरे साम्हने हाथिर किए जाएं। ७ तब ज्योतिषी, तन्त्री, कसदी और होनहार बतानेवाले भीतर आए, और मैं ने उनको अपना स्वप्न बताया, परन्तु वे उसका फल न बता सके।

८ निदान दानियेल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था, और जिस में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है; और मैं ने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, ९ कि, हे बेलतशस्सर तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता; इसलिये जो स्वप्न मैं ने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। १० जो दर्शन मैं ने पलंग पर पाया वह यह है : मैं ने देखा, कि पृथ्वी के बीचोबीच एक वृक्ष लगा है; उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। ११ वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुँची, और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। १२ उसके पत्ते सुन्दर, और उस में बहुत फल थे, यहां तक कि उस में सभी के लिये भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियाँ बसेरा करती थीं, और सब प्राणी उस से आहार पाते थे।

१३ मैं ने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा, कि एक पवित्र पहलूया स्वर्ग से उतर आया। १४ उस ने ऊँचे शब्द से पुकारकर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो; पशु उसके नीचे से हट जाएँ, और चिड़ियाँ उसकी डालियों पर से उड़ जाए। १५ तभी उसके टूँठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बन्धन से बान्धकर मैदान की

हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। १६ उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परन्तु पशु का सा बन जाए; और उस पर सात काल बीते। १७ यह आज्ञा पहलूयो के निर्णय से, और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली, कि जो जीवित हैं वे जान लें कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उमें दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। १८ मुझ नबूकदनस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई परिश्रित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परन्तु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है।

१९ तब दानियेल जिसका नाम बेल-तशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा, और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर इस स्वप्न से, वा इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न मेरे बैरियों पर, और इसका अर्थ मेरे द्रोहियों पर फले ! २० जिस वृक्ष को तू ने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया, और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुँची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था; २१ जिसके पत्ते सुन्दर और फल बहुत थे, और जिस में सभी के लिये भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियाँ बसेरा

करती थी, २२ हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुँच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। २३ और हे राजा, तू ने जो एक पवित्र पहलू को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तीभी उसके टूट को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बन्धन से बाणधकर मंदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह आकाश की ओस से भीगा करे, और उसको मंदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक सात युग उन पर बीत न चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। २४ हे राजा, इसका फल जो परमप्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है, २५ कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मंदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बँलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा; और सात युग तुझ पर बीतेगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उमे दे देता है। २६ और उस वृक्ष के टूट को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिये बना रहेगा; और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही मे है*, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। २७ इस कारण, हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर, कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, और अधर्म छोड़कर दीन-हीनों पर दया

* मूल में—कि स्वर्ग प्रभुता करता है।

करने लगे, तो सम्भव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे ॥

२८ यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। २९ बारह महीने के बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, ३० क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिये बसाया है? ३१ यह वचन राजा के मुँह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, ३२ और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, और मंदान के पशुओं के संग रहेगा; और बँलों की नाई घास चरेगा; और सात काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि परमप्रधान, मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उमे दे देता है। ३३ उमी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया, और बँलों की नाई घास चरने लगा। और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहा तक कि उसके बाल उक्राब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चगुलों के समान बढ़ गए ॥

३४ उन दिनों के बीतने पर, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आँखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई; तब मैं ने परमप्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा: उसकी प्रभुता सदा की है,

और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहनेवाला है। ३५ पृथ्वी के सब रहनेवाले उसके साम्हने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहनेवालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है; और कोई उसको रोककर * उस से नहीं कह सकता है, तू ने यह क्या किया है ?

३६ उसी समय, मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई; और मेरे राज्य की महिमा के लिये मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। और मेरे मन्त्री और प्रधान लोग मुझ से भेंट करने के लिये आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया; और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। ३७ अब मैं नबूकद-नेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ क्योंकि उसके सब काम सच्चे, और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमण्ड से चलते हैं, उन्हें वह नीचा कर सकता है ॥

५ बेलशस्सर नाम राजा ने अपने हजार प्रधानों के लिये बड़ी जेबनार की, और उन हजार लोगों के साम्हने दाखमधु पिया ॥

२ दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी, कि सोने-चान्दी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मन्दिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों, और रानियों और रखैलियों समेत उन में से पीए। ३ तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मन्दिर में से निकाले

गए थे, वे लाए गए; और राजा अपने प्रधानों, और रानियों, और रखैलियों समेत उन में से पीने लगा ॥

४ वे दाखमधु पी पीकर सोने, चान्दी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे, ५ कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के साम्हने राजमन्दिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी; और हाथ का जो भाग लिख रहा था, वह राजा को दिखाई पड़ा। ६ उसे देखकर राजा भयभीन हो गया, और वह अपने सोच में घबरा गया, और उसकी कटि के जोड़ ढीने हो गए, और कापते कापते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। ७ तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तन्त्रियों, कसदियों और और होतहार बतानेवालों को हाज़िर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के परिदृशत पास आए, तब राजा उन से कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बेजनी रंग का वस्त्र, और उसके गले में सोने की कण्ठमाला पहिनाई जाएगी; और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। ८ तब राजा के सब परिदृशत लोग भीतर आए, परन्तु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। ९ इस पर बेलशस्सर राजा निपट घबरा गया और भयानुर हो गया; और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए ॥

१० राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर, रानी जेबनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युगयुग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। ११ तेरे राज्य में दानिव्येल

* मूल में—उसका हाथ मार के।

एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, उस में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उस में प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उस ने उसको सब ज्योतिषियों, तन्त्रियों, कसदियों और और होनहार बतानेवालों का प्रधान ठहराया था, १२ क्योंकि उस में उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता, और स्वप्नों का फल बताने और पहेलिया खोलने, और सन्देह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिये अब दानिव्येल बुलाया जाए, और वह इसका अर्थ बताएगा ॥

१३ तब दानिव्येल राजा के साम्हने भीतर बुलाया गया। राजा दानिव्येल से पूछने लगा, क्या तू वही दानिव्येल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? १४ मैं ने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। १५ देख, अभी परिशुत और तन्त्री लोग मेरे साम्हने इसलिये लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परन्तु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। १६ परन्तु मैं ने तेरे विषय में सुना है कि दानिव्येल भेद खोल सकता और सन्देह दूर कर सकता है। इसलिये अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बंजनी रंग का वस्त्र, और तेरे गले में सोने की कण्ठमाला पहिनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा ॥

१७ दानिव्येल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख; और जो बदला तू देना चाहता है, वह दूसरे को दे; वह लिखी हुई बात में राजा को पढ़ सुनाऊंगा, और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। १८ हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, १९ और उस बड़ाई के कारण जो उस ने उसको दी थी, देश-देश और जाति-जाति के सब लोग, और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले उसके साम्हने कांपते और थरथराते थे; जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था, जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिमको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। २० परन्तु, जब उसका मन फूल उठा, और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहा तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राजसिंहासन पर से उतारा गया, और उसकी प्रतिष्ठा भग की गई; २१ वह मनुष्यों में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का सा, और उसका निवास जंगली गदहों के बीच हो गया; वह बंलों की नाई घास चरता, और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उस ने जान न लिया कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। २२ तीभी, हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है, और यह सब कुछ जानता था, तीभी तेरा मन नम्र न हुआ। २३ वरन तू ने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने

साम्हने धरवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तू ने उन में दाखमघु पिया; और चान्दी-सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परन्तु परमेश्वर, जिसके हाथ में तेरा प्राण है, और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सन्मान तू ने नहीं किया ॥

२४ तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रगट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। २५ और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने *, मने, तकेल †, और ऊपर्सिन ‡। २६ इस वाक्य का अर्थ यह है, मने, अर्थात् परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अन्त कर दिया है। २७ तकेल, तू मानो तराजू में तौला गया और हलका पाया गया है। २८ परेस §, अर्थात् तेरा राज्य बाटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है ॥

२६ तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, और दानिव्येल को बेजनी रग का वस्त्र और उसके गले में सोने की करणमाला पहनाई गई; और डिडोरिये ने उसके विषय में पुकारा, कि राज्य में तीसरा दानिव्येल ही प्रभुता करेगा ॥

३० उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। ३१ और दारा मादी जो कोई बासठ वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ ॥

* अर्थात् मना। † अर्थात् तौला।

‡ अर्थात् और बांटते हैं।

§ अर्थात् बांट दिया।

दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर एक सी बीस ऐसे अधिपति ठहराए, जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। २ और उनके ऊपर उस ने तीन अध्यक्ष, जिन में से दानिव्येल एक था, इसलिये ठहराए, कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। ३ जब यह देखा गया कि दानिव्येल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली; वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। ४ तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानिव्येल के विरुद्ध दोष बूढ़ने लगे, परन्तु वह विश्वासयोग्य था, और उसके काम में कोई भूल वा दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध वा दोष न पा सके। ५ तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानिव्येल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे ॥

६ तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए, और उस से कहा, हे राजा दारा, तू युगयुग जीवित रहे। ७ राज्य के सारे अध्यक्षों ने, और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है, कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले, कि तीस दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य वा देवता से बिनती करे, वह सिंहीं की मान्द में डाल दिया जाए। ८ इसलिये अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे, और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिस से यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था

के अनुसार बदल-बदल न हो सके। ६ तब दारा राजा ने उस आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिया।।

१० जब दानिय्येल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरीठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के साम्हने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ११ तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानिय्येल को अपने परमेश्वर के सामने बिनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। १२ सो वे राजा के पास जाकर, उसकी आज्ञा के विषय में उस से कहने लगे, हे राजा, क्या तू ने ऐसे आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि तीस दिन तक जो कोई तुझे छोड़, किसी मनुष्य वा देवता से बिनती करेगा, वह सिंहीं की मान्द में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हां, मादियों और फ़ारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। १३ तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानिय्येल है, उस ने, हे राजा, न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया, और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञापत्र की ओर; वह दिन में तीन बार बिनती किया करता है।।

१४ यह बचन सुनकर, राजा बहुत उदास हुआ, और दानिय्येल के बचाने के उपाय सोचने लगा; और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। १५ तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख,

कि मादियों और फ़ारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही वा आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती।।

१६ तब राजा ने आज्ञा दी, और दानिय्येल लाकर सिंहीं की मान्द में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानिय्येल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए! १७ तब एक पत्थर लाकर उस गड़हे के मुह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से, और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर-लगा दी कि दानिय्येल के विषय में कुछ बदलने न पाए। १८ तब राजा अपने महल में चला गया, और उम रात को बिना भोजन पडा रहा; और उसके पाम सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई।।

१९ और जो पी फटते ही राजा उठा, और सिंहो के गड़हे की ओर फुर्ती से चला गया। २० जब राजा गड़हे के निकट आया, तब शोकभरी बाणी से चिल्लाने लगा और दानिय्येल से कहा, हे दानिय्येल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहीं से बचा सका है? २१ तब दानिय्येल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगयुग जीवित रहे! २२ मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहीं के मुह को ऐसा बन्द कर रखा कि उन्होंने ने मेरी कुछ भी हानि नहीं की; इसका कारण यह है, कि मैं उसके साम्हने निर्दोष पाया गया; और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैं ने कोई भूल नहीं की। २३ तब राजा ने बहुत आनन्दित होकर, दानिय्येल को गड़हे में से निकालने की आज्ञा दी।

सो दानिय्येल गड़हे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। २४ और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानिय्येल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लडकेबालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड़हे में डाल दिए जाए; और वे गड़हे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला ॥

२५ तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहनेवाले देश-देश और जाति-जाति के सब लोगों, और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। २६ में यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानिय्येल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और धरधराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानयुग तक रहनेवाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। २७ जिस ने दानिय्येल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ानेवाला है; और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रगट करनेवाला है। २८ और दानिय्येल, दारा और कुलू फारसी, दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान् रहा ॥

७ बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहिले वर्ष में, दानिय्येल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उस ने वह स्वप्न लिखा, और बातों का सारांश भी बर्णन किया। २ दानिय्येल ने यह कहा, मैं ने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर

पर चौमुखी घांभी चलने लगी। ३ तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जन्तु, जो एक दूसरे से भिन्न थे, निकल आए। ४ पहिला जन्तु सिंह के समान था और उसके पख उकाब के से थे। और मेरे देखते देखते उसके पखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर, मनुष्य की नाई पावों के बल खड़ा किया गया; और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। ५ फिर मैं ने एक और जन्तु देखा जो रोख के समान था, और एक पाजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दातो के बीच तीन पसुली थी, और लोग उस से कह रहे थे, उठकर बहुत भांस खा। ६ इसके बाद मैं ने दृष्टि की और देखा, कि चीते के समान एक और जन्तु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से चार पख हैं; और उस जन्तु के चार सिर थे; और उसको अधिकार दिया गया। ७ फिर इसके बाद मैं ने स्वप्न में दृष्टि की और देखा, कि एक चौथा जन्तु है जो भयकर और डरावना और बहुत सामर्थी है; और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं; वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है, उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहिले जन्तुओं से भिन्न है; और उसके दस सींग हैं। ८ मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहिले सींगों में से तीन उखाड़े गए, फिर मैं ने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें, और बड़ा बोल बोलनेवाला मुंह भी है। ९ मैं ने देखते देखते अन्त में क्या देखा, कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान

हुआ; उसका वस्त्र हिम सा उजला, और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे; उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिये घबकती हुई आग के से देख पड़ते थे। १० उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी; फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके साम्हने हाज़िर थे; फिर न्यायी बंठ गए, और पुस्तकें लौली गईं। ११ उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अन्त में देखा कि वह जन्तु घात किया गया, और उसका शरीर घबकती हुई आग से भस्म किया गया। १२ और रहे हुए जन्तुओं का अधिकार ले लिया गया, परन्तु उनका प्राण कुछ समय के लिये * बचाया गया। १३ मैं ने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के सन्तान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुँचा, और उसको वे उसके समीप लाए। १४ तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया, कि देश-देश और जाति-जाति के लोग और भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले सब उसके अधीन हों; उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा।।

१५ और मुझ दानिय्येल का मन विकल हो गया †, और जो कुछ मैं ने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया ‡। १६ तब जो लोग पास खड़े थे, उन में से

* मूल में—समय और काल के लिये।

† मूल में—आत्मा बेह के बीच घबरा गई।

‡ मूल में—मेरे सिर के दर्शनो ने मुझे घबरा दिया।

एक के पास जाकर मैं ने उन सारी बातों का भेद पूछा, उस ने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया, १७ उन चार बड़े बड़े जन्तुओं का अर्थ चार राज्य * है, जो पृथ्वी पर उदय होंगे। १८ परन्तु परमप्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे, और युगानयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे।।

१९ तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जन्तु का भेद भी जान लूँ जो और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दाँत लोहे के और नख पीतल के थे; वह सब कुछ खा डालता, और चूर चूर करता, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। २० फिर उसके सिर में के दस सींगों का भेद, और जिस नये सींग के निकलने से तीन सींग गिर गए, अर्थात् जिस सींग की आँखें और बड़ा बोल बोलनेवाला मुँह और सब और सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। २१ और मैं ने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, २२ जब तक वह अति प्राचीन न आया, और परमप्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुँचा।।

२३ उस ने कहा, उस चौथे जन्तु का अर्थ, एक चौथा राज्य है, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा, और सारी पृथ्वी को नाश करेगा, और दाँवकर चूर-चूर करेगा। २४ और उन दस सींगों का अर्थ यह है, कि उस राज्य

* मूल में—राजा।

में से दस राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहिलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो तीन राजाओं को गिरा देगा । २५ और वह परमप्रधान के विरुद्ध बाते कहेगा, और परमप्रधान के पवित्र लोगो को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आज्ञा करेगा, वरन साढ़े तीन काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे । २६ परन्तु, तब न्यायी बैठेंगे *, और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नाश की जाएगी; यहां तक कि उसका अन्त ही हो जाएगा । २७ तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य † की महिमा, परमप्रधान ही की प्रजा अर्थात् उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी, उसका राज्य सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करनेवाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे । २८ इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परन्तु मुझ दानिव्येल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही, और मैं भयभीत हो गया; और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा ॥

बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहिले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानिव्येल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई । २ जब मैं एलाम नाम प्रान्त में, शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैं ने दर्शन में देखा कि मैं ऊलै नदी के किनारे पर हूँ । ३ फिर मैं ने आज्ञा उठाकर देखा, कि उस नदी के साम्हने दो सींगवाला एक मेढा खड़ा है, उसके दोनों सींग बड़े हैं, परन्तु उन

* मूल में—न्याय बैठेगा ।

† मूल में—आकाश भर के नीचे के राज्य ।

में से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है, वह दूसरे के बाद निकला । ४ मैं ने उस मेढे को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्खिन की ओर सींग भारता है, और कोई जन्तु उसके साम्हने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किमी को बचा सकता है; और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था ॥

५ मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाव न छुआया और उस बकरे की आँखों के बीच एक देखने योग्य सींग था । ६ वह उस दो सींगवाले मेढे के पास जाकर, जिसको मैं ने नदी के साम्हने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका । ७ मैं ने देखा कि वह मेढे के निकट आकर उस पर झुकलाया; और मेढे को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया; और उसका साम्हना करने को मेढे का कुछ भी वश न चला; तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला; और मेढे को उसके हाथ से छुड़ानेवाला कोई न मिला । ८ तब बकरा अत्यन्त बड़ाई मारने लगा, और जब बसवन्त हुआ, तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी सन्ती देखने योग्य चार सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे ॥

९ फिर इन में से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्खिन, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया । १० वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया; और उस में से और तारों में से

भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। ११ बरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बड़ गया, और उसका नित्य होमबलि बन्द कर दिया गया; और उसका पवित्र बामस्थान गिरा दिया गया। १२ और लोगों के अपराध के कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सीग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वह काम करते करते सफल हो गया। १३ तब मैं ने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहिले बोलनेवाले से पूछा, नित्य होमबलि और उजड़वानेवाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात् पवित्रस्थान और सेना दोनों का रोदा जाना कब तक होता रहेगा? १४ और उस ने मुझ से कहा, जब तक साभ और मबेरा दो हजार तीन सौ बार न हों, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्रस्थान शुद्ध किया जाएगा ॥

१५ यह बात दर्शन में देखकर, मैं, दानिय्येल, इसके समझने का यत्न करने लगा; इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। १६ तब मुझे ऊर्ल नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकारकर कहता था, हे जिब्राएल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। १७ तब जहां मैं खड़ा था, वहां वह मेरे निकट आया; और उसके आते ही मैं घबरा गया, और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उस ने मुझ से कहा, हे मनुष्य के सन्तान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अन्त ही के समय में फलेगा ॥

१८ जब वह मुझ से बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परन्तु उस ने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। १९ तब उस ने कहा, क्रोध भडकने के अन्त के दिनों में जो कुछ होगा, वह मैं तुम्हें जताता हूँ, क्योंकि अन्त के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। २० जो दो सीगवाला मेठा तू ने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य* से है। २१ और वह रोंआर बकरा यूनान का राज्य† है; और उसकी आखी के बीच जो बड़ा सीग निकला, वह पहिला राजा ठहरा। २२ और वह सीग जो टूट गया और उसकी सन्ती जो चार सीग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति में चार राज्य उदय होंगे, परन्तु उनका बल उस पहिले का सा न होगा। २३ और उन राज्यों के अन्त समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेगे, तब क्रूर दृष्टिवाला और पहिली बूझनेवाला एक राजा उठेगा। २४ उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परन्तु उस पहिले राजा का सा नहीं; और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा, और सफल होकर काम करता जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। २५ उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा; परन्तु अन्त को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। २६ साभ और सबेरे के

* मूल में—के राजा।

† मूल में—का राजा।

विषय में जो कुछ तू ने देखा और सुना है वह सच है; परन्तु जो कुछ तू ने दर्शन में देखा है उसे बन्द रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा ॥

२७ तब मुझ दानिव्येल का बल जाता रहा, और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा; तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा; परन्तु जो कुछ मैं ने देखा था उस से मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझानेवाला न था ॥

६ मादी क्षयर्य का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, २ उसके राज्य के पहिले वर्ष में, मुझ दानिव्येल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार, जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात् सत्तर वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ३ तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिडगिडाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर, टाट पहिन, राख में बैठकर वरदान मागने लगा। ४ मैं ने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान् और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा माननेवालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है, ५ हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। ६ और तेरे जो दास नबी लोग, हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हम ने

नहीं सुनी। ७ हे प्रभु, तू धर्मी है, परन्तु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात् यरूशलेम के निवासी चादि सब यहूदी, क्या समीप, क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तू ने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने ने तेरा किया था, देश देश में बरबस कर दिया है, उन सभी को लज्जित होना पड़ता है। ८ हे यहोवा हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हम को लज्जित होना पड़ता है। ९ परन्तु, यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दयासागर और क्षमा की खानि है। १० हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उस ने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। ११ वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया, और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा * परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट † गया, क्योंकि हम ने उसके विरुद्ध पाप किया है। १२ सो उस ने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है; यहां तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी घरती पर ‡ और कहीं नहीं पड़ी। १३ जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसी ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिये न तो अपने अधर्म के

* मूल में—जिस शाप और किरिया।

† मूल में—उपडेला।

‡ मूल में—सारे आकाश के तले।

कामों से फिरे, और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। १४ इस कारण यहोवा ने सोच विचारकर * हम पर विपत्ति डाली है; क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सभी में धर्मी ठहरता है; परन्तु हम ने उमकी नहीं सुनी। १५ और अब, हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तू ने अपनी प्रजा को मिस्र देश से, बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया, जो आज तक प्रसिद्ध है, परन्तु हम ने पाप किया है और दुष्टता ही की है। १६ हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, और हमारे आस पास के सब लोगों की ओर से नामघराई हो रही है; तौभी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। १७ हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिडगिडाहट सुनकर, अपने उजड़े हुए पवित्रस्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका; हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। १८ हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंस खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है; क्योंकि हम जो तेरे साम्हने गिडगिडाकर प्रार्थना करते हैं, सो अपने धर्म के कामों पर नहीं, बरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। १९ हे प्रभु, सुन ले; हे प्रभु, पाप क्षमा कर; हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब

* मूल में—जाग जागकर।

न कर; हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है; इसलिये अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर ॥

२० इस प्रकार में प्रार्थना करता, और अपने और अपने इस्त्राएली जाति-भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिये गिडगिडाकर बिनती करता ही था, २१ तब वह पुरुष जिब्राएल जिसे मैं ने उस समय देखा जब मुझे पहिले दर्शन हुआ था, उस ने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर, सांभ के अन्नबलि के समय मुझ को छू लिया; और मुझे समझाकर मेरे साथ बाते करने लगा। २२ उस ने मुझ से कहा, हे दानिव्येल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। २३ जब तू गिडगिडाकर बिनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिये मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है; इसलिये उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले ॥

२४ तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिये सत्तर सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अन्त तक अपराध का होना बन्द हो, और पापों का अन्त और अधर्म का प्रायश्चित्त किया जाए, और युगयुग की धार्मिकता प्रगट होए *; और दर्शन की बात पर और भविष्यद्वारी पर छाप दी जाए, और परमपवित्र का अभिषेक किया जाए। २५ सो यह जान और समझ ले, कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त† प्रघान के समय तक सात सप्ताह बीतेगे।

* मूल में—लाया जाए।

† अभवा मसीह।

फिर बासठ सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। २६ और उन बासठ सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त * पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा; और आनेवाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्रस्थान को नाश तो करेगी। परन्तु उस प्रधान का अन्त ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है; तीभी उसके अन्त तक लड़ाई होती रहेगी; क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। २७ और वह प्रधान एक सप्ताह के लिये बहुतों के सग दूढ़ वाचा बान्धेगा, परन्तु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेलबलि और अन्नबलि को बन्द करेगा, और कंगूरे पर उजाड़नेवाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़नेवाले पर पड़ा रहेगा † ॥

१० फारस देश के राजा कुलू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानिय्येल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रगट की गई। और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उस ने इस बात को बूझ लिया, और उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई ॥

२ उन दिनों में, दानिय्येल, तीन सप्ताह तक शोक करता रहा। ३ उन तीन सप्ताहों के पूरे होने तक, मैं ने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस वा दास्यमधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। ४ फिर पहले महीने के चौबीसवें दिन को जब मैं

हिद्देकेल नाम नदी के तीर पर था, ५ तब मैं ने आखें उठाकर देखा, कि सन का वस्त्र पहिने हुए, और ऊफाब देश के कुन्दन से कमर बान्धे हुए एक पुरुष खड़ा है। ६ उसका शरीर फीरोबा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। ७ उसको केवल मुझ दानिय्येल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ; परन्तु वे बहुत ही धरधराने लगे, और छिपने के लिये भाग गए। ८ तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत * दर्शन देखता रहा, इस से मेरा बल जाता रहा; मैं भयातुर हो गया, और मुझ में कुछ भी बल न रहा। ९ तीभी मैं ने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुन पड़ा, तब मैं मुह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर आँधे मुह पड़ा रहा ॥

१० फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ, और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल धरधराते हुए बैठा दिया। ११ तब उस ने मुझ से कहा, हे दानिय्येल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझ से कहता हूँ उसे समझ ले, और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उस ने मुझ से यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया परन्तु धरधराता रहा। १२ फिर उस ने मुझ से कहा, हे दानिय्येल, मत डर, क्योंकि पहिले ही दिन को जब तू ने

* अथवा मसीह।

† मूल में—उबड़ेला जाएगा।

* मूल में—बधा।

समझने-बुझने के लिये मन लगाया और अपने परमेश्वर के साम्हने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। १३ फारस के राज्य का प्रधान इक्कीस दिन तक मेरा साम्हना किए रहा; परन्तु मीकाएल जो मुख्य प्रधानों में से हैं, वह मेरी सहायता के लिये आया, इसलिये मैं फारस के राजाओं के पास रहा, १४ और अब मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, कि अन्त के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। क्योंकि जो दर्शन तू ने देखा है, वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा।

१५ जब वह पुरुष मुझ से ऐसी बातें कह चुका, तब मैं ने भूमि की ओर मुह किया और चुपका रह गया। १६ तब मनुष्य के सन्तान के समान किसी ने मेरे घाँट छूए, और मैं मुँह खोलकर बोलने लगा। और जो मेरे साम्हने खड़ा था, उस से मैं ने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझ को पीड़ा सी उठी, और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। १७ सो प्रभु का दास, अपने प्रभु के साथ क्योंकि बातें कर सके? क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा, और न कुछ साँस ही रह गई।

१८ तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बन्धाया। १९ और उस ने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुम्हें शान्ति मिले; तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बन्धा रहे। जब उस ने यह कहा, तब मैं ने हियाव बान्धकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कहीं, क्योंकि तू ने मेरा हियाव बन्धाया है। २० तब उस ने कहा, क्या तू जानता है

कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूँगा; और जब मैं निकलूँगा, तब यूनान का प्रधान आएगा। २१ और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ; उन प्रधानों के विरुद्ध, तुम्हारे प्रधान मीकाएल को छोड़, मेरे सग स्थिर रहने-वाला और कोई भी नहीं है।

११ और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहिले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिये मैं ही खड़ा हो गया।

२ और अब मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब तीन और राजा उठेंगे; और चौथा राजा उन सबों में अधिक धनी होगा; और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। ३ उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा, और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। ४ और जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और न उसके वश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर, उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा।

५ तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परन्तु उसका एक हाकिम उस से अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा; यहां तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। ६ कई बयों के बीतने पर, ये

दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्खिन देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शान्ति की वाचा बान्धने को आएगी, परन्तु उसका बाहुबल बना न रहेगा, और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परन्तु वह स्त्री अपने पहचानेवालों और अपने पिता और अपने सम्भालनेवालों समेत अलग कर दी जाएगी ॥

७ फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर * उसके स्थान में बढ़ेगी, वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा, और उन से युद्ध करके प्रबल होगा। ८ तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों, और मोने-चान्दी के मनभाऊ पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा, इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। ९ तब वह राजा दक्खिन देश के राजा के देश में आएगा, परन्तु फिर अपने देश में लौट जाएगा ॥

१० उसके पुत्र भगडा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेगा, और उमरडने-वाली नदी की नाईं आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक भगडा मचाते जाएंगे। ११ तब दक्खिन देश का राजा चिड़ेगा, और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लडने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परन्तु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। १२ उस भीड़ को जीत करके उसका मन फूल उठेगा, और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परन्तु वह प्रबल न होगा। १३ क्योंकि

* मूल में—उस की शाख में से।

उत्तर देश का राजा लौटकर पहिली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा; और कई दिनों बरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और सम्पत्ति लिए हुए आएगा ॥

१४ उन दिनों में बहुत से लोग दक्खिन देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे; बरन तैरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे, जिस से इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी; परन्तु वे ठोकर खाकर गिरेंगे।

१५ तब उत्तर देश का राजा आकर किला बान्धेगा और दृढ़ नगर ले लेगा। और दक्खिन देश के न तो प्रधान * खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल न रहेगा। १६ तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा, वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका साम्हना करनेवाला कोई न रहेगा। १७ तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत, कई सीधे लोगों को सग लिए हुए अपने लगेगा, और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। और वह उसको एक स्त्री † इसलिये देगा कि उसका राज्य बिगाडा जाए; परन्तु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। १८ तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा; परन्तु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा ‡; बरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। १९ तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा, और वह ठोकर खाकर गिरेगा, और कहीं उसका पता न रहेगा।

* मूल में—बाहें।

† मूल में—स्त्रियों की बेटी।

‡ मूल में—बन्द करेगा।

२० तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा, जो शिरोमणि राज्य में अन्धेर करनेवाले को धुमाएगा; परन्तु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध वा युद्ध किए बिना ही नाश हो जाएगा। २१ उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज-प्रतिष्ठा पहिले तो न होगी, तौभी वह चैन के समय आकर चिकनी-चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। २२ तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग, बरन वाचा का प्रधान भी उसके साम्हने से बहकर नाश होंगे। २३ क्योंकि वह उसके संग वाचा बान्धने पर भी छल करेगा, और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। २४ चैन के समय वह प्रान्त के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा; और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे, उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन-सम्पत्ति उन में बहुत बाटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। २५ तब वह दक्खिन देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्खिन देश का राजा अत्यन्त बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परन्तु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। २६ उसके भोजन के खानेवाले भी उसको हरवाएंगे; और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी, तौभी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। २७ तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहा तक कि वे एक ही मेख पर बंठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परन्तु इस से कुछ बन न पड़ेगा; क्योंकि इन सब बातों का

अन्त नियत ही समय में होनेवाला है। २८ तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा ॥

२९ नियत समय पर वह फिर दक्खिन देश की ओर जाएगा, परन्तु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा। ३० क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे, और वह उदास होकर लौटेगा, और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़नेवालों की सुधि लेगा। ३१ तब उसके सहायक * खड़े होकर, दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, और नित्य होमबलि को बन्द करेंगे। और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड करा देती है। ३२ और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी-चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा; परन्तु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बान्धकर बड़े काम करेंगे। ३३ और लोगों के सिखानेवाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तौभी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर, और बंधुए होकर और लुटकर, बड़े दुःख में पड़े रहेंगे। ३४ जब वे दुःख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत सम्भलेगे, परन्तु बहुत से लोग चिकनी-चुपड़ी बातें कह कहकर उन से मिल जाएंगे; ३५ और सिखानेवालों में से कितने गिरेंगे, और इसलिये गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं,

* मूल में—बाहें।

और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा भ्रन्त के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का भ्रन्त नियत समय में होनेवाला है ॥

३६ तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा; वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा; क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह भ्रवश्य ही पूरा होनेवाला है। ३७ वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिन्ता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिन्ता करेगा और न किसी देवता की; क्योंकि वह अपने आप ही को सभों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। ३८ वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे, वह सोना, चान्दी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढाकर उसका सम्मान करेगा। ३९ उस विराने देवता के सहारे से वह भ्रति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा ॥

४० भ्रन्त के समय दक्खिन देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परन्तु उत्तर देश का राजा उस पर बबरण्डर की नाई बहुत से रथ-सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा; इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा, और उन में से निकल जाएगा। ४१ वह शिरोमणि

देश में भी आएगा। और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परन्तु एदोमी, मोघाबी और मुख्य मुख्य भ्रम्भोनी प्रादि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। ४२ वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिल् देश भी न बचेगा। ४३ वह मिल् के सोने चान्दी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा; और लूबी और कूशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। ४४ उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार मुनकर घबराएगा, और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। ४५ और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास भ्रपना राजकीय तम्बू खड़ा कराएगा; इतना करने पर भी उसका भ्रन्त आ जाएगा, और कोई उसका सहायक न रहेगा ॥

१२ उसी समय मीकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति-भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा; परन्तु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। २ और जो भूमि के नीचे * सोए रहेंगे उन में से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिये, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक भ्रत्यन्त धिनीने ठहरने के लिये। ३ तब सिखानेवालों की चमक आकाशमण्डल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे

* मूल में—भूमि की भूमि में।

सबदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे । ४ परन्तु हे दानिव्येल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अन्त समय तक के लिए बन्द रख । और बहुत लोग पूछ-पाछ और दूढ़-ढाँढ करेगे, और इस से ज्ञान बढ भी जाएगा ॥

५ यह सब सुन, मुझ दानिव्येल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े है, एक तो नदी के इस तीर पर, और दूसरा नदी के उस तीर पर है । ६ तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के जल के ऊपर था, उस से उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अन्त कब तक होगा ? ७ तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने हुए नदी के जल के ऊपर था, उस ने मेरे सुनते दहिना और बाया अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, सदा जीवित रहनेवाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा साढ़े तीन काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी,

तब ये सब बातें पूरी होंगी । ८ यह बात मैं सुनता तो था परन्तु कुछ न समझा । तब मैं ने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अन्तफल क्या होगा ? ९ उस ने कहा, हे दानिव्येल चला जा, क्योंकि ये बातें अन्नसमय के लिये बन्द है और इन पर मुहर दी हुई है । १० बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेगे, और स्वच्छ हो जाएगे, परन्तु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे; और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा; परन्तु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेगे । ११ और जब से नित्य होमबलि उठाई जाएगी, और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड करा देती है, स्थापित की जाएगी, तब से बारह सौ नब्बे दिन बीतेगे । १२ क्या ही घन्य है वह, जो धीरज धरकर तेरह सौ पैंतीस दिन के अन्त तक भी पहुचे । १३ अब तू जाकर अन्न तक ठहरा रह, और तू विश्राम करता रहेगा; और उन दिनों के अन्त में तू अपने निज भाग पर खडा होगा ॥

होशे

१ यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज, और हिजकियाह के दिनों में और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में, यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुँचा ॥

२ जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहिले पहिल बातें की, तब उस ने होशे से यह

कहा, जाकर एक बेरया को अपनी पत्नी बना ले, और उसके कुकर्म के लड़केबालों को अपने लड़केबाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर बेरया का सा बहुत काम करता है । ३ सो उस ने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उस से

गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ४ तब यहोवा ने उस से कहा, उसका नाम यिञ्जेल * रख, क्योंकि षोडे ही काल में मैं यहू के घराने को यिञ्जेल की हत्या का दण्ड दूंगा, और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अन्त कर दूंगा। ५ और उस समय मैं यिञ्जेल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा ॥

६ और वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लोरहामा † रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार में क्षमा न करूंगा। ७ परन्तु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा, और उनका उद्धार करूंगा, उनका उद्धार मैं धनुष वा तलवार वा युद्ध वा घोड़ों वा सवारों के द्वारा नहीं, परन्तु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा ॥

८ जब उस स्त्री ने लोरहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उस से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ९ तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी ‡ रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो, और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा ॥

१० तौभी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना-गिनना अन्नहोना है, और जिस स्थान में उन से यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ११ तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे

* अर्थात् ईश्वर बोधगा वा तितर-बितर करेगा। यिञ्जेल एक नगर का भी नाम है।

† अर्थात् जिस पर दया नहीं हुई।

‡ अर्थात् मेरी प्रजा नहीं।

हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे; क्योंकि यिञ्जेल का दिन प्रसिद्ध * होगा ॥

२ इसलिये तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी † और अपनी बहिनों से र्हामा ‡ कहो ॥

२ अपनी माता से विवाद करो, विवाद—क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं, और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुँह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, ३ नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतारकर उसको जन्म के दिन के समान नगी कर दूंगा, और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा, और उसे प्यास में मार डालूंगा। ४ उसके लडकेवालों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लडके हैं। ५ उनकी माता ने छिनाला किया है; जिसके गर्भ में वे पड़े, उस ने लज्जा के योग्य काम किया है। उस ने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी-पानी, ऊन, सन, तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चनूगी। ६ इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा, और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। ७ वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी, और उन्हें बूढ़ने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहिले पति के पास फिर जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहिली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। ८ वह यह नहीं जानती थी, कि अन्न, नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता था,

* मूल में—बषा। † अर्थात् मेरी प्रजा।

‡ अर्थात् जिस पर दया हुई है।

और उसके लिए वह चान्दी सोना जिसको बे बाल देवता के काम में ले आते हैं, मैं ही बढ़ाता था। ९ इस कारण मैं भ्रम की ऋतु में अपने भ्रम को, और नये दाखमधु के होने के समय में अपने नये दाखमधु को हर लूंगा; और अपना ऊन और सन भी जिन से वह अपना तन ढांपती है, मैं छीन लूंगा। १० अब मैं उसके यारों के साम्हने उसके तन को उचाड़ूंगा, और मेरे हाथ से कोई उसे छुडा न सकेगा। ११ और मैं उसके पर्व, नये चांद और विश्रामदिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अन्त कर दूंगा। १२ और मैं उसकी दाखलताओ और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे, और बन-पशु उन्हें चर डालेंगे। १३ और वे दिन जिन में वह बाल देवताओं के लिये धूप जलाती, और नस्थ और हार पहिने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दण्ड मैं उसे दूंगा, यहोवा की यही वाणी है ॥

१४ इसलिये देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, और वहां उस से शान्ति की बातें कहूंगा। १५ और वहीं * मैं उसको दाख की बारियां दूंगा, और आकोर † की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझ से ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात् मिन्न देश से चले आने के समय कहती थी। १६ और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईश्री ‡

* मूल में—वहीं से। † अर्थात् कष्ट।

‡ अर्थात् मेरे पक्षि।

कहेगी और फिर बाली न कहेगी। १७ क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा; और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। १८ और उस समय मैं उनके लिये बन-पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रंगनेवाले जन्तुओं के साथ वाचा बान्धूगा, और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा; और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। १९ और मैं सदा के लिये तुम्हें अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म, और न्याय, और करुणा, और दया के साथ करूंगा। २० और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी ॥

२१ और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा; २२ और पृथ्वी भ्रम, नये दाखमधु, और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे यिज्जेल को उत्तर देंगे। २३ और मैं अपने लिये उसे देश में बोऊंगा, और लोहहामा पर दया करूंगा, और लोभम्मी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, "हे मेरे परमेश्वर" ॥

२ फिर यहोवा ने मुझ से कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर, जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो; क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्त्राएली पराए देवताओं की ओर फिरे, और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तौभी यहोवा उन से प्रीति रखता है ॥

२ तब मैं ने एक स्त्री को चान्दी के पन्द्रह टुकड़े धीरे डेढ़ होमेर जब देकर मोल लिया। ३ धीरे मैं ने उस से कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिये बैठी रहना; धीरे न तो छिनाला करना, धीरे न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, धीरे मैं भी तेरे लिये ऐसा ही रहूंगा। ४ क्योंकि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ, धीरे बिना एपोद वा गृहदेवताओं के बैठे रहेंगे। ५ उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा धीरे अपने राजा दाऊद को फिर बूढ़ने लगेंगे, धीरे अन्त के दिनों में यहोवा के पास, धीरे उसकी उत्तम वस्तुओं के लिये धरधराते हुए आएंगे ॥

४ हे इस्राएलियो, यहोवा का वचन सुनो; इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकद्दमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा धीरे न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। २ यहां शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, धीरे व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता; वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं धीरे खून ही खून होता रहता है*। ३ इस कारण यह देश विलाप करेगा, धीरे मैदान के जीव-जन्तुओं, धीरे आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे; धीरे समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी ॥

४ देखो, कोई वाद-विवाद न करे, न कोई उलहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद-विवाद करनेवालों के समान हैं। ५ तू दिनदुपहरी ठोकर खाएगा, धीरे रात को भविष्यद्वक्ता भी

तेरे साथ ठोकर खाएगा; धीरे मैं तेरी माता को नाश करूंगा। ६ मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई; तू ने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिये मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। धीरे इसलिये कि तू ने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़केबालो को छोड़ दूंगा ॥

७ जैसे वे बढ़ते गए, वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए; मैं उनके विभव के बदले उनका अनादर करूंगा। ८ वे मेरी प्रजा के पापबलियों को खाते हैं, धीरे प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। ९ इसलिये जो प्रजा की दशा होगी, वही याजक की भी होगी; मैं उनके चालचलन का दण्ड दूंगा, धीरे उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। १० वे खाएंगे तो सही, परन्तु तृप्त न होंगे, धीरे बेश्यागमन तो करेंगे, परन्तु न बढ़ेंगे; क्योंकि उन्होंने ने यहोवा की धीरे मन लगाना छोड़ दिया है ॥

११ बेश्यागमन धीरे दाखमधु धीरे ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि* को भ्रष्ट करते हैं। १२ मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं, धीरे उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है। क्योंकि छिनाला करानेवाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है, धीरे वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। १३ बांज, चिनार धीरे छोटे बांज वृक्षों की छाया भ्रष्टी होती है, इसलिये वे उनके नीचे धीरे पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते, धीरे टीलों पर घूप जलाते हैं ॥

* मूल में—लोह को पहुँचाता है।

* मूल में—हृदय।

इस कारण तुम्हारी बेटियाँ छिनाल और तुम्हारी बहूएँ व्यभिचारिणी हो गई हैं। १४ जब तुम्हारी बेटियाँ छिनाला और तुम्हारी बहूएँ व्यभिचार करे, तब मैं उनको दण्ड न दूँगा; क्योंकि मनुष्य आप ही वेद्योंओं के साथ एकान्त में जाते, और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं; और जो लोग ममम् नही रखते, वे नाश हो जाएंगे ॥

१५ हे इस्त्राएल, यद्यपि तू छिनाला करता है, तीभी यहूदा दोषी न बने। गिलगाल को न आओ; और न बेतावेन को चब आओ; और यहोवा के जीवन की सौगन्ध कहकर शपथ न खाओ। १६ क्योंकि इस्त्राएल ने हठीली कलोर की नाई हठ किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भेड के बच्चे की नाई लम्बे चौड़े मैदान में चराएगा ?

१७ एप्रैम मूरतों का सगी हो गया है; इसलिये उसको रहने दे। १८ वे जब दाखमधु पी चुकते हैं तब बेरयागमन करने में लग जाते हैं; उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। १९ आधी उनको अपने पक्षों में बान्धकर उड़ा ले जाएगी, और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी ॥

५ हे याजको, यह बात सुनी ! हे इस्त्राएल के सारे घराने, ध्यान देकर सुनी ! हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ ! क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा; क्योंकि तुम मिसपा में फन्दा, और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। २ उन बिगड़े हुएों ने घोर हत्या की है * , इसलिये मैं उन सभी को ताडना दूँगा ॥

* मूल में—हत्या में गश्दिराई की।

३ मैं एप्रैम का भेद जानता हूँ, और इस्त्राएल की दशा मुझ से छिपी नहीं है; हे एप्रैम, तू ने छिनाला किया, और इस्त्राएल भ्रष्ट हुआ है। ४ उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करनेवाली आत्मा उन में रहती है, और वे यहोवा को नहीं जानते हैं ॥

५ इस्त्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इस्त्राएल और एप्रैम अपने भ्रमों के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। ६ वे अपनी भेड-बकरियाँ और गाय-बैल लेकर यहोवा को दूबने चलेंगे, परन्तु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उन से दूर हो गया है। ७ वे व्यभिचार के लडके जने हैं, इस में उन्होंने ने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चाद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा ॥

८ गिबा में नरसिगा, और रामा में तुरही फूको। बेतावेन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन, अपने पीछे देख। ९ न्याय के दिन में एप्रैम उजाड हो जाएगा; जिस बात का होना निश्चय है, मैं ने उसी का सन्देश इस्त्राएल के सब गोत्रों को दिया है। १० यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं जो मिवाना बढ़ा लेते हैं; मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल की नाई उरडेलूँगा। ११ एप्रैम पर अन्धेर किया गया है, वह मुकद्दमा हार गया है; क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। १२ इसलिये मैं एप्रैम के लिये कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिये सड़ाहट के समान दूँगा ॥

१३ जब एप्रैम ने अपना रोग, और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम

अश्वर के पास गया, और यारेब * राजा को कहला भेजा। परन्तु न वह तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारा धाव भ्रच्छा कर सकता है। १४ क्योंकि मैं एप्रैम के लिये सिंह, और यहूदा के घराने के लिये जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़कर ले जाऊंगा; जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पजे से कोई न छुड़ा सकेगा ॥

१५ जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे दूढ़ने लगेगे ॥

ह चलो, हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा, और वही चंगा भी करेगा; उसी ने मारा, और वही हमारे धावों पर पट्टी बान्धेगा। २ दो दिन के बाद वह हम को जिलाएगा; और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा; तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। ३ आओ, हम ज्ञान दूढ़े, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये यत्न भी करे; क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोर का सा निश्चित है; वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अन्त की वर्षा के समान जिस से भूमि सिंचती है ॥

४ हे एप्रैम, मैं तुझ से क्या कहूँ ? हे यहूदा, मैं तुझ से क्या कहूँ ? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान, और सबेरे उड़ जानेवाली ओस के समान है। ५ इस कारण मैं ने भविष्यद्वक्ताओं के

द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला, और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है *। ६ क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होमबलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे ॥

७ परन्तु उन लोगों ने आदम की नाई वाचा को तोड़ दिया, उन्हो ने वहा मुझ से विश्वासघात किया है। ८ गिलाद नाम गढी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। ९ जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शकेम के मार्ग में बध करना है, वरन उन्होंने ने महापाप भी किया है। १० इस्राएल के घराने में मैं ने रोए खड़े होने का कारण देखा है, उस में एप्रैम का छिनाला और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है ॥

११ और हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिये तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है ॥

७ जब मैं इस्राएल को चंगा करता हूँ तब एप्रैम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयां प्रगट हो जाती हैं; वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता, और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। २ तीसरी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिये अब वे अपने कामों के जाल में फसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। ३ वे राजा को बुराई करने से,

* अर्थात् अगड़नेवाले।

† मूल में—पीछा भी करे।

* मूल में—निकलनेवाले हैं।

श्रीर हाकिमों को झूठ बोलने से धानन्दित करते हैं। ४ वे सब के सब व्यभिचारी हैं; वे उस तन्दूर के समान हैं जिसको पकानेवाला गर्म करता है, पर जब तक घाटा गूषा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उसकाता। ५ हमारे राजा के जन्म दिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए; उस ने ठट्टा करनेवालों से अपना हाथ मिलाया। ६ जब तक वे घात लगाए रहने हैं, तब तक वे अपना मन तन्दूर की नाई नयाँर किए रहते हैं, उनका पकानेवाला रात भर सोता रहता है, वह श्मेर को तन्दूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। ७ वे सब के सब तन्दूर की नाई धधकते, और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं; और उन में से कोई मेरी दोहाई नहीं देता है।

८ एप्रम देश देश के लोगों से मिला-जुला रहता है; एप्रम ऐसी चपाती ठहरा है जो उलटी न गई हो। ९ परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला *, परन्तु वह इसे नहीं जानता; उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं, परन्तु वह इसे भी नहीं जानता। १० इस्राएल का गर्ब उसी के विरुद्ध साक्षी देता है; इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे, और न उसको बूढ़ा हैं।

११ एप्रम एक भोली पराङ्गी के समान हो गया है जिस के कुछ बुद्धि नहीं; वे मिलियों की दोहाई देते, और अश्वर को चले जाते हैं। १२ जब वे जाएं,

* मूल में—झा लिया।

तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा; मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं; मैं उनको ऐसी ताडना दूंगा, जैसी उनकी मगडली मुन चुकी है। १३ उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पाम से भटक गए! उनका सत्यानाश होए, क्योंकि उन्होंने ने मुझ से बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परन्तु वे मुझ से झूठ बोलते आए हैं।

१४ वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते, परन्तु अपने विछोने पर पड़े हुए हाय, हाय, करते हैं; वे अन्न और नये दाखमधु पाने के लिये भीड़ लगाते, और मुझ से बलवा करते हैं। १५ मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवन्त करता आया हूँ, तभी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। १६ वे फिरते तो हैं, परन्तु परमप्रधान की ओर नहीं; वे धोखा देनेवाले घनुष के समान हैं, इसलिये उनके हाकिम अपनी क्रोधभरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा।

८ अपने मुँह में नरसिगा लगा। वह उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी, और मेरी व्यवस्था का उल्लघन किया है। २ वे मुझ से पुकारकर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुम्हें जानते हैं। ३ परन्तु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है; शत्रु उसके पीछे पड़ेगा।

४ वे राजाओं को ठहराते रहे, परन्तु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परन्तु मेरे अनजाने

में। उन्होंने ने अपना सोना-चान्दी लेकर मूर्तें बना ली जिस से वे ही नाश हो जाएं। ५ हे शोमरोन, उस ने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भडका है। वे निर्दोष होने मे कब तक विलम्ब करेगे? ६ यह इस्राएल से हुआ है ॥

एक कारीगर ने उसे बनाया; वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकडे टुकडे हो जाएगा ॥

७ वे वायु बोते हैं, और वे बवएडर लवेंगे। उनके लिये कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। ८ इस्राएल निगला गया, अब वे अन्यजातियों मे ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बरतन ठहरता है। ९ क्योंकि वे अशूर को ऐसे चले गए, जैसा जगली गदहा भुएड से बिछुड़ के रहता है; एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है। १० यद्यपि वे अन्यजातियों मे से मजदूर बनाकर रखें, तीभी मे उनको इकट्ठा करूंगा। और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेगे ॥

११ एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी बेदियां बनाई है, वे ही बेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। १२ मे तो उनके लिये अपनी व्यवस्था की लाखों बाते लिखता आया हूं, परन्तु वे उन्हें पराया समझते है। १३ वे मेरे लिये बलिदान तो करते है, और पशु बलि भी करते है, परन्तु उसका फल मांस ही है; वे आप ही उसे खाते है; परन्तु यहोवा उन से प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दण्ड देगा; वे मिस्र में लौट जाएगे।

१४ क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसरा कर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है; परन्तु मे उनके नगरों में आग लगाऊंगा, और उस से उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे ॥

६ हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों की नाई आनन्द में मगन मत हो! क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेसा बनी। तू ने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनन्द से ली है। २ वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे, और न कुएड के दाखमघु से; और नये दाखमघु के घटने से वे धोखा खाएंगे। ३ वे यहोवा के देश मे रहने न पाएंगे; परन्तु एप्रैम मिस्र मे लौट जाएगा, और वे अशूर मे अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे ॥

४ वे यहोवा के लिये दाखमघु का अर्घं न देगे, और न उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करनेवालों का सा भोजन ठहरेगी; जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे; क्योंकि उनकी भोजनवस्तु उनकी भूल बुझाने ही के लिये होगी; वह यहोवा के भवन मे न आ सकेगी ॥

५ नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? ६ देखो, वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए; परन्तु वहां मर जाएंगे और मिस्री उनकी लोथे इकट्ठी करेगे; और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चान्दी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच मे * पड़ेंगी, और उनके तम्बूधों में ऊडबेरी उगेगी ॥

* मूल में—के अधिकार में।

७ दण्ड के दिन आए हैं; बदला लेने के दिन आए हैं; और इस्लाम यह जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है, वह बावला ठहरेगा।

८ एप्रम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरा है, भविष्यद्वक्ता सब मार्गों में बहेलिये का फन्दा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। ९ वे गिबा के दिनों की भाँति अत्यन्त बिगड़े * हैं; सो वह उनके अधर्म की मुधि लेकर उनके पाप का दण्ड देगा।

१० मैं ने इस्लाम को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए; और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसे दृष्टि की जैसे अजीर के पहिले फलों पर दृष्टि की जाती है। परन्तु उन्होंने ने पोर के बाल के पास जाकर अपने तई को लज्जा का कारण होने के लिये अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे, वे उसी के समान धिनीने हो गए। ११ एप्रम का विभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा; न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी! १२ चाहे वे अपने लड़केबालो का पालन-पोषण कर बड़े भी करे, तीभी मैं उन्हें यहां तक निर्बंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उन से दूर हो जाऊंगा, तब उन पर हाय! १३ जैसा मैं ने सोर को देखा, वैसा एप्रम को भी मनभाऊ स्थान में बसा हुआ देखा; तीभी उसे अपने लड़केबालों को घातक के साम्हने ले जाना पड़ेगा। १४ हे यहोबा, उनको

दण्ड दे! तू क्या देगा? यह, कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाएं, और स्तन सूखे रहे।

१५ उनकी सारी बुराई गिलाल में है; वहीं मैं ने उन से धूरा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा। और उन से फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करनेवाले हैं।

१६ एप्रम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उन में फल न लगेगा। और चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने तीभी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा।

१७ मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने ने उसकी नहीं सुनी। वे अन्यजातियों के बीच मारे मारे फिरेंगे।

१० इस्लाम एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिस में बहुत से फल भी लगे, परन्तु ज्यों ज्यों उसके फल बड़े, त्यों त्यों उस ने अधिक बेदियां बनाईं; जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुन्दर लाटे बनाते गये। २ उनका मन बटा हुआ है; अब वे दोषी ठहरेगे। वह उनकी बेदियों को तोड़ डालेगा, और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। ३ अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हम ने यहोबा का भय नहीं माना; सो राजा हमारा क्या कर सकता है? ४ वे बातें बनाते और भूठी शपथ खाकर वाचा बान्धते हैं; इस कारण खेत की रेधारियों में धतूरे की नाई दण्ड फूले फलेगा। ५ सामरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े * के लिये डरते रहेंगे,

* मूल में—गधिराई करके बिगड़े।

* मूल में—बच्चियों के कारण।

और उसके लोग उसके लिये विलाप करेंगे; और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिये इस कारण विलाप करेंगे क्योंकि वह उन में से उठ गया है। ६ वह यारेब * राजा की भेट ठहरने के लिये अशूर देश में पहुँचाया जाएगा। एप्रैम लज्जित होगा, और इस्राएल भी अपनी युक्ति से लजाएगा ॥

७ सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा। ८ और आवेन के ऊँचे स्थान जो इस्राएल का पाप है, वे नाश होंगे। उनकी बेदियों पर भडबेरी, पेड़ और ऊँटकटारे उगेंगे, और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम को छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो ॥

९ हे इस्राएल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है; वे उसी में बने रहें; क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के सग लड़ाई में न फसें? १० जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूँगा, और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे; क्योंकि वे अपने दोनों अधमों में फसे हुए हैं ॥

११ एप्रैम सीखी हुई बछिया है, जो अन्न दाँवने से प्रसन्न होती है। परन्तु मैं ने उसकी सुन्दर गर्दन पर जुआ रखा है; मैं एप्रैम पर सवार चढ़ाऊँगा, यहूदा हल, और याकूब हँगा खींचेगा। १२ अपने लिये धर्म का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए ॥

* अर्थात् ऋग्वेदकेवाले।

१३ तुम ने दुष्टता के लिये हल जोता और अन्धाय का खेत काटा है; और तुम ने घोखे का फल खाया है। और यह इसलिये हुआ क्योंकि तुम ने अपने कुव्यवहार पर, और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। १४ इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा, और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेटबेल नगर युद्ध के समय शतमन के द्वारा नाश किया गया, उस समय माताएँ अपने बच्चों समेत पटक दी गई थीं। १५ तुम्हारी अत्यन्त बुराई के कारण बेटेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जायेगा। और होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा ॥

११ जब इस्राएल बालक था, तब मैं ने उस से प्रेम किया, और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। २ परन्तु जितना वे उनको बुलाते थे, उतना ही वे भागे जाते थे; वे बाल देवताओं के लिये बलिदान करते, और खुदी हुई मूर्तों के लिये धूप जलाते गए ॥

३ मैं ही एप्रैम को पाव-पाव चलाता था, और उनको गोद में लिए फिरता था; परन्तु वे न जानते थे कि उनका चगा करनेवाला मैं हूँ। ४ मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बल के गले की जोत खोलकर उसके साम्हने आहार रख दे, वैसा ही मैं ने उन से किया ॥

५ वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा; अशूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उस ने मेरी और फिरने से इनकार कर दिया है। ६ तलवार उनके नगरों में चलेगी, और उनके बेटों को पूरा नाश

करेगी; और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। ७ मेरी प्रजा मुझ से फिर जाने में लगी रहती है; यद्यपि वे उनको परमप्रधान की ओर बुलाते हैं, तभी उन में से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता ॥

८ हे एप्रैम, मैं तुम्हें क्योंकर छोड़ दूँ ? हे इस्राएल, मैं क्योंकर तुम्हें शत्रु के वश में कर दूँ ? मैं क्योंकर तुम्हें अदमा की नाई छोड़ दूँ, और सबोयिम के समान कर दूँ ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हाँ गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है* । ९ मैं अपने क्रोध को भड़काने न दूँगा, और न तुम फिर एप्रैम को नाश करूँगा; क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ, मैं तेरे बीच में रहनेवाला पवित्र हूँ; मैं क्रोध करके न आऊँगा ॥

१० वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे; वह तो सिंह की नाई गरजेगा; और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएँगे। ११ वे मिस्र से चिड़ियों की नाई और अशूर के देश से परगुकी की भाँति थरथराते हुए आएँगे; और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूँगा, यहोवा की यही वाणी है ॥

१२ एप्रैम ने मिथ्या से, और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है; और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वासयोग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है ॥

१२ एप्रैम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है; वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है; वे अशूर के साथ

* मूल में—मेरे पञ्चवने धक संग उबले हैं ।

वाचा बान्धते और मिस्र में तेल भेजते हैं ॥

२ यहूदा के साथ भी यहोवा का मुक़द्दमा है, और वह याकूब को उसके चालचलन के अनुसार दण्ड देगा; उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा ।

३ अपनी माता की कोख ही में उस ने अपने भाई को अडगा मारा, और बढ़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा ।

४ वह दूत से लड़ा, और जीत भी गया, वह रोया और उस से गिड़गिड़ाकर बिनती की । बेंतेल में वह उसको मिला, और

वही उस ने हम से बाते की । ५ यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है । ६ इसलिये तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रह, और अपने परमेश्वर की बात निरन्तर जोहता रह ॥

७ वह ब्योपारी है, और उसके हाथ में छल का तराजू है; अन्धेर करना ही उसको भाता है । ८ एप्रैम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने सम्पत्ति प्राप्त की है; मेरे किसी काम में ऐसा अघम नहीं पाया गया जिस से पाप लगे । ९ मैं यहोवा, मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ; मैं फिर तुम्हें तम्बुओं में ऐसा बसाऊँगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है ॥

१० मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कीं, और बार बार दर्शन देता रहा; और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टान्त कहता आया हूँ । ११ क्या गिलाद कुकर्मि नहीं ? वे पूरे छली हो गए हैं । गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, बरन उनकी बेदियाँ उन ढेरों के समान हैं जो खेत की रेघारियों के पास हों । १२ याकूब अराम के मैदान में भाग गया था; वहा इस्राएल ने एक

पत्नी के लिये सेवा की, और पत्नी के लिये वह चरवाही करता था। १३ एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया, और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। १४ एप्रैम ने अत्यन्त रिस दिलाई है; इसलिये उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा, और उस ने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है, वह उसी को लौटाया जाएगा ॥

१३ जब एप्रैम बोलता था, तब लोग कापते थे; और वह इस्राएल में बड़ा था; परन्तु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया, तब वह मर गया। २ और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं, और अपनी बुद्धि से चान्दी ढालकर ऐसी मूर्ते बनाईं हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेघ करे, वे बछड़ों को चूमे। ३ इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जानेवाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़नेवाली भूसी, या चिमनी से निकलते हुए धूप के समान होंगे ॥

४ मिस्र देश ही से मैं यहोवा, तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना; क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धारकर्त्ता नहीं है। ५ मैं ने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में बरन अत्यन्त सूखे देश में था। ६ परन्तु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमण्ड से भर गया; इस कारण वे मुझ को भूल गए। ७ सो मैं उनके लिये सिंह सा बना हूँ; मैं चीते की नाई उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा।

८ मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलाऊँगा, और उनके हृदय की भित्ती को फाड़ूँगा, और सिंह की नाई उनको वहीं खा डालूँगा, जैसे बन-पशु उनको फाड़ डाले ॥

९ हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है, कि तू मेरा अर्थात् अपने सहायक का विरोधी है। १० अब तेरा राजा कहा रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? और तेरे न्यायी कहा रहे, जिनके विषय में तू ने कहा था कि मेरे लिये राजा और हाकिम ठहरा दे? ११ मैं ने क्रोध में आकर तेरे लिये राजा बनाये, और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। १२ एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप सचय किया हुआ है। १३ उसको जञ्चा की सी पीड़ाए उठेगी, परन्तु वह निबुद्धि लड़का है जो जन्म के समय * ठीक से नहीं आता ॥

१४ मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूँगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति † कहा रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहा रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊँगा ॥

१५ चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले-फले, तीभी पुरवाई उस पर चलेगी, और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी, और उसका कुण्ड सूखेगा; और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। १६ सामरिया दोषी

* मूल में—सबकों के दूट पकने के स्थान में।

† मूल में—तेरी मरिचां।

ठहरेगा, क्योंकि उस ने अपने परमेश्वर से बलवा किया है; वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे, और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी ॥

१४ हे इस्त्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तू ने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। २ बाने सीखकर * और यहोवा की ओर फिरकर, उस मे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हम को ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे †। ३ अशूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो; क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है ॥

४ मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंटमेत उन से प्रेम करूंगा,

* मूल में—अपने साथ बाते लो।

† मूल में—हम बैल अपने होंठ फेर देंगे।

क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। ५ मैं इस्त्राएल के लिये भोस के समान हूंगा; वह सोमन की नाई फूले-फलेगा, और लबानोन की नाई जड़ फैलाएगा। ६ उसकी जड़ से पौधे फूटकर निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी, और उसकी मुगन्ध लबानोन की सी होगी। ७ जो उसकी छाया मे बैठेंगे, वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई फूले-फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाखमधु की सी होगी ॥

८ एप्रैम कहेगा, मूरतों से अब मेरा और क्या काम? मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे मनोवर मा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा ॥

९ जो बुद्धिमान हो, वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो, वही इन्हे बूझ सकेगा; क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, और धर्मी उन मे चलते रहेंगे, परन्तु अपराधी उन मे ठोकर खाकर गिरेंगे ॥

योएल

१ यहोवा का वचन जो योएल के पुत्र योएल के पास पहुँचा, वह यह है: २ हे पुरनियो, सुनो, हे देश के सब रहनेवालो, कान लगाकर सुनो! क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों मे, वा तुम्हारे पुरखाओं के दिनों मे कभी हुई है? ३ अपने लड़केबालों से इसका वर्णन करो,

और वे अपने लड़केबालों से, और फिर उनके लड़केबाले आनेवाली पीढ़ी के लोगों से ॥

४ जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा; उसे अब नाम टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ अब नाम टिड्डी से बचा, उसे येलक नाम टिड्डी ने खा लिया, और

जो कुछ मेलक नाम टिड्डी से बचा, उसे हासील नाम टिड्डी ने खा लिया है। ५ हे मतवाली, जाग उठो, और रोओ; और हे सब दाखमधु पीनेवाली, नये दाखमधु के कारण हाय, हाय, करो; क्योंकि वह तुम को अब न मिलेगा * ॥

६ देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढाई की है, वह मामर्थी है, और उसके लोग अनगिनत है, उसके दात सिंह के से, और डाढे सिंहनी की सी है। ७ उस ने मेरी दाखलता को उजाड दिया, और मेरे अजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है; उस ने उसकी सब छाल छीलकर उमे गिरा दिया है, और उसकी डालिया छिलने मे मफेद हो गई है ॥

८ जैसे युवती अपने पति के लिये कटि मे टाट बान्धे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। ९ यहोवा के भवन मे न तो अन्नबलि और न अर्घ आता है। उमके टहलुए जो याजक है, वे विलाप कर रहे है। १० खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया, नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है ॥

११ हे किसानो, लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियो, गेहू और जब के लिये हाय, हाय, करो; क्योंकि खेती मारी गई है। १२ दाखलता सूख गई, और अजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड, सेव, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए है; और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है † ॥

१३ हे याजको, कटि मे टाट बान्धकर छाती पीट-पीट के रोओ! हे बेदी के

* मूल में—वह तुम्हारे मुँह से कट गया।

† मूल में—लजा गया है।

टहलुओ, हाय, हाय, करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ, आओ, टाट छोड़े हुए रात बिताओ! क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन मे अन्नबलि और अर्घ अब नहीं आते ॥

१४ उपवास का दिन ठहराओ*, महा-सभा का प्रचार करो। पुरनियों को, वरन देश के सब रहनेवालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन मे इकट्ठे करके उसकी दोहाई दो ॥

१५ उस दिन के कारण हाय! क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह संबंधकित-मान की ओर मे सत्यानाश का दिन होकर आएगा। १६ क्या भोजनवस्तुए हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनन्द और मगन जाता नहीं रहा?

१७ बीज डेलो के नीचे भुलस गए, भण्डार सूने पडे है, खत्ते गिर पडे है, क्योंकि खेती मारी गई। १८ पशु कैसे कराहते है? भुण्ड के भुण्ड गाय-बैल विकल है, क्योंकि उनके लिये चराई नहीं रही, और भुण्ड के भुण्ड भेड़-बकरियां पाप का फल भोग रही है ॥

१९ हे यहोवा, मे तेरी दोहाई देता हू, क्योंकि जगल की चराइयां आग का कौर हो गई, और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। २० बन-पशु भी तेरे लिये हांफते है, क्योंकि जल के सोते सूख गए, और जगल की चराइया आग का कौर हो गई ॥

२ सिय्योन मे नरसिगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर मास बान्धकर फूको! देश के सब रहनेवाले काप उठे, क्योंकि

* मूल में—उपवास पवित्र करो।

यहोवा का दिन आता है, बरन वह निकट ही है। २ वह अन्धकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अन्धियारे का सा फैलता है। जैसे मोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी; प्राचीनकाल में वैसी कभी न हुई, और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में * होगी ॥

३ उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी, और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान होगी, परन्तु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी, और उस से कुछ न बचेगा ॥

४ उनका रूप घोड़ों का सा है, और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। ५ उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, वा खूटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पांति बान्धे हुए बली योद्धाओं † का शब्द होता है ॥

६ उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सब के मुख मलीन होते हैं। ७ वे शूरवीरों की नाई दौड़ते, और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, और कोई अपनी पांति से अलग न चलेगा। ८ वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं, शस्त्रों का साम्हना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। ९ वे नगर में इधर-उधर दौड़ते, और शहरपनाह पर चढ़ते हैं; वे घरों में

ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं ॥

१० उनके आगे पृथ्वी काप उठती है, और आकाश थरथराता है। सूर्य और चन्द्रमा काले हो जाते हैं, और तारे नहीं झलकते *। ११ यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करनेवाला है, वह सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है; उसको कौन सह सकेगा ?

१२ तीभी यहोवा की यह वारणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते-पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। १३ अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो; क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करनेवाला, करुणानिधान और दुःख देकर पछतानेहारा है। १४ क्या जाने वह फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिस से तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और अर्घ्य दिया जाए ॥

१५ सिय्योन में नरसिगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ †, महासभा का प्रचार करो; १६ लोगों को इकट्ठा करो। सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूधपीउवों को भी इकट्ठा करो। दुल्हा अपनी कोठरी से, और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए ॥

१७ याजक जो यहोवा के टहलुए है, वे आंगन और बेदी के बीच में रो रोकर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस

* मूल में—पीढ़ी पीढ़ी के बरनों तक।

† मूल में—बली लोगों।

* मूल में—तारे अपनी झलक समेटेंगे।

† मूल में—उपवास पवित्र करो।

खा; और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे; न अन्यजातिया उसकी उपमा देने पाएं। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाएं, कि उनका परमेश्वर कहां रहा ?

१८ तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई, और उस ने अपनी प्रजा पर तरस स्थाया। १९ यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं भ्रम और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे; और मैं भविष्य में अन्यजातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा ॥

२० मैं उत्तर की ओर से आई हुई मैना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा, और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा, उसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम के समुद्र की ओर होगा; उस से दुर्गन्ध उठेगी, और उसकी सड़ी गन्ध फैलेगी, क्योंकि उस ने बहुत बुरे काम किए हैं ॥

२१ हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनन्द कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। २२ हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी, और वृक्ष फलने लगेंगे; अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी ॥

२३ हे सियोनियो*, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, और आनन्द करो; क्योंकि तुम्हारे लिये वह वर्षा, अर्थात् बरसात की पहिली वर्षा बहुतायत से † देगा, और पहिले के

समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा ॥

२४ तब खलिहान भ्रम से भर जाएंगे, और रसकुराड़ नये दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। २५ और जिन वर्षों की उपज भ्रबें नाम टिड्डियों, और येलेक, और हासील ने, और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात् मेरे बड़े दल ने जिसको मैं ने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुम को भर दूंगा ॥

२६ तुम पेट भरकर खाओगे, और तृप्त होगे, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिस ने तुम्हारे लिये आश्चर्य के काम किए हैं। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। २७ तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ, और मैं, यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी ॥

२८ उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उगड़ेलूंगा; तुम्हारे बेटे-बेटियां भविष्यद्वाणी करेगीं, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। २९ तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उगड़ेलूंगा ॥

३० और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, अर्थात् लोह और आग और धूएं के खम्भे दिखाऊंगा। ३१ यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहिले सूर्य अन्धियारा होगा और चन्द्रमा रक्त सा हो जाएगा। ३२ उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, वह छुटकारा पाएगा; और यहोवा के वचन

* मूल में—सियोन के लड़को।

† मूल में—धर्म के लिये।

के अनुसार सिय्योन पर्वत पर, और यरूशलेम में जिन बचे हुएों को यहोवा बुलाएगा, वे उठार पाएंगे ॥

३ क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेमवासियों को बंधुघाई से लौटा ले जाऊंगा, २ उस समय में सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा, और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात् अपने निज भाग इस्त्राएल के विषय में जिसे उन्होंने ने अन्यजातियों में तितर-बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उन से मुकद्दमा लड़ूंगा। ३ उन्होंने ने तो मेरी प्रजा फूट्टी डाली, और एक लडका बेध्या के बदले में दे दिया, और एक लडकी बेचकर दासमधु पीया है ॥

४ हे सौर, और सीदोन और पलिश्तीन के सब प्रदेशों, तुम को मुझ से क्या काम ? क्या तुम मुझ को बदला दोगे ? यदि तुम मुझे बदला भी दो, तो मैं भीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला, तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। ५ क्योंकि तुम ने मेरी चान्दी-सीना ले लिया, और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मन्दिरों में ले जाकर रखी है, ६ और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ इसलिये बेच डाला है कि वे अपने देश से दूर किए जाएं। ७ इसलिये सुनो, मैं उनको उस स्थान से, जहां के जानेवालों के हाथ तुम ने उनको बेच दिया, बुलाने * पर हूँ, और तुम्हारा दिया हुआ बदला, तुम्हारे ही सिर पर डाल दूंगा। ८ मैं तुम्हारे बेटे-बेटियों को यहूदियों के हाथ बिकवा दूंगा, और वे उनको शबाइयों

के हाथ बेच देंगे जो दूर देश के रहनेवाले हैं; क्योंकि यहोवा ने यह कहा है ॥

९ जाति जाति में यह प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो *, अपने शूरवीरों को उभारो। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढे। १० अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार, और अपनी अपनी हसिया को पीटकर बर्छी बनाओ; जो बलहीन हो वह भी कहे, मैं वीर हूँ ॥

११ हे चारों ओर के जाति जाति के लोगो, फूर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। १२ जाति जाति के लोग उभरकर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां में चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंग ॥

१३ हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ, दाख रौंदो, क्योंकि हीज भर गया है। रसकुएड उमएडने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है ॥

१४ निबटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है ! क्योंकि निबटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। १५ सूर्य और चन्द्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे, और न तारे चमकेगे ॥

१६ और यहोवा सिय्योन से गरजेगा, और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा; और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। परन्तु यहोवा अपनी प्रजा के लिये शरण-स्थान और इस्त्राएलियों के लिये गढ़ ठहरेगा ॥

१७ इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर बास

* मूल में—जाऊंगा।

* मूल में—युद्ध पवित्र करो।

किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है।
श्रीर यरूशलेम पवित्र ठहरेगा, श्रीर परदेशी
उस में होकर फिर न जाने पाएंगे ॥

१८ श्रीर उस समय पहाड़ों से नया
दाखमधु टपकने लगेगा, श्रीर टीलों में
दूध बहने लगेगा, श्रीर यहूदा देश के
सब नाले जल से भर जाएंगे, श्रीर यहोवा
के भवन में मे एक सोता फूट निकलेगा,
जिस से शिलीम का नाम नाला सीचा
जाएगा ॥

१९ यहूदियों पर उपद्रव करने के
कारण, मिस्र उजाड़ श्रीर एदोम उजड़ा
हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ने
उनके देश में निर्दोष की हत्या की थी।
२० परन्तु यहूदा सर्वदा श्रीर यरूशलेम
पीढी पीढी तक बना रहेगा। २१ क्योंकि
उनका खून, जो अब तक मैं ने पवित्र
नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र
ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में बास
किए रहता है ॥

आमोस

१ आमोस तकोई जो भंड-बकरियो
के चरानेवालो में से था, उसके ये
वचन है जो उस ने यहूदा के राजा
उज्जिय्याह के, श्रीर योआश के पुत्र
इस्त्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में,
भुईंडोल से दो वर्ष पहिले, इस्त्राएल के
विषय में दर्शन देखकर कहे ॥

२ यहोवा सिय्योन से गरजेगा, श्रीर
यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा, तब
चरबाहों की चराइयां विलाप करेगी,
श्रीर कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी ॥

३ यहोवा यों कहता है, दमिश्क के
तीन क्या, वरन चार अपराधों के कारण
मैं उसका दरइ न छोड़ूंगा* ; क्योंकि
उन्होंने गिलाद को लोहे के दावनेवाले
यन्त्रों से रौंद डाला है। ४ इसलिये मैं

हजाएल के राजभवन में प्राग लगाऊंगा,
श्रीर उस से बेन्हद के राजभवन भी
भस्म हो जाएंगे। ५ मैं दमिश्क के बेएडों
को तोड़ डालूंगा, श्रीर आबेन नाम तराई
के रहनेवालो को श्रीर एदेन के घर में
रहनेवाले राजदरइधारी को नाश करूंगा,
श्रीर अराम के लोग बंधुए होकर कीर
को जाएंगे, यहोवा का यही वचन है ॥

६ यहोवा यों कहता है, भ्रज्जा के तीन
क्या, वरन चार अपराधों के कारण मैं
उसका दरइ न छोड़ूंगा* ; क्योंकि वे सब
लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें
एदोम के वश में कर दे। ७ इसलिये मैं
भ्रज्जा की शहरपनाह में प्राग लगाऊंगा,
श्रीर उस से उसके भवन भस्म हो जाएंगे।
८ मैं अशदोद के रहनेवालों को श्रीर

* मूल में—मैं उसको न करूंगा।

* मूल में—मैं उसको न करूंगा।

अस्कलोन के राजदण्डधारी को भी नाश करूंगा; मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा, और शेष पलिशती लोग नाश होंगे, परमेश्वर यहोवा का यही वचन है ॥

६ यहोवा यों कहता है, सोर के तीन ब्या, वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दण्ड न छोड़ूंगा; क्योंकि उन्होने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। १० इसलिये मैं सोर की शहरपनाह पर आग लगाऊंगा, और उस से उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे ॥

११ यहोवा यों कहता है, एदोम के तीन ब्या, वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दण्ड न छोड़ूंगा*, क्योंकि उस ने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेडा और कुछ भी दया न की †, परन्तु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा, और अपने रोष को अनन्त काल के लिये बनाए रहा। १२ इसलिये मैं तेमान में आग लगाऊंगा, और उस से बोस्त्रा के भवन भस्म हो जाएंगे ॥

१३ यहोवा यों कहता है, अम्मोन के तीन ब्या, वरन चार अपराधों के कारण मैं उसका दण्ड न छोड़ूंगा ‡, क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को बढा लेने के लिये गिलाद की गर्भिरणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। १४ इसलिये मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा, और उस से उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन मैं ललकार होगी, वह आंधी वरन बवण्डर का दिन होगा; और उनका राजा अपने

हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा, यहोवा का यही वचन है ॥

२ यहोवा यों कहता है, मोआब के तीन ब्या, वरन चार अपराधों के कारण, मैं उसका दण्ड न छोड़ूंगा*; क्योंकि उम ने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। २ इसलिये मैं मोआब में आग लगाऊंगा, और उस में करिय्योत के भवन भस्म हो जाएंगे; और मोआब हुल्लड और ललकार, और नरसिगे के शब्द होने-होते मर जाएगा। ३ मैं उसके बीच में मे न्यायी को नाश करूंगा, और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा, यहोवा का यही वचन है ॥

४ यहोवा यों कहता है, यहूदा के तीन ब्या, वरन चार अपराधों के कारण, मैं उसका दण्ड न छोड़ूंगा; क्योंकि उन्होंने ने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना, और मेरी विधियों को नहीं माना; और अपने भूटे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलने थे, वे भी भटक गए हैं। ५ इसलिये मैं यहूदा में आग लगाऊंगा, और उस से यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे ॥

६ यहोवा यों कहता है, इस्राएल के तीन ब्या, वरन चार अपराधों के कारण, मैं उसका दण्ड न छोड़ूंगा*; क्योंकि उन्होंने ने निर्दोष को हर्ष के लिये और दरिद्र को एक जोड़ी जूतियों के लिये बेच डाला है। ७ वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते, और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं; और बाप-बेटा दोनों एक ही कुमारी के पास

* मूल में—मैं उसको न करूंगा।

† मूल में—अपनी दया को बिगाडा।

‡ मूल में—मैं उसको न फेरूंगा।

* मूल में—मैं उसको न फेरूंगा।

जाते हैं, जिस से मेरे पवित्र नाम को अपवित्र उहराएं। ८ वे हर एक बेदी के पास बन्धक के बस्त्रों पर सोते हैं, और दण्ड के रूपये मे मोल लिया हुआ दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं ॥

६ मैं ने उनके साम्हने से एमोरियों को नाश किया था, जिनकी लम्बाई देवदारों की सी, और जिनका बल बाज वृक्षों का सा था, तीभी मैं ने ऊपर से उसके फल, और नीचे से उसकी जड़ नाश की। १० और मैं तुम को मिस्र देश से निकाल लाया, और जगल में चालीस वर्ष तक लिए फिरता रहा, कि तुम एमोरियों के देश के अधिकारी हो जाओ। ११ और मैं ने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिये और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिये ठहराया। हे इस्त्राएलियो, क्या यह सब सच नहीं है ? यहोवा की यह वाणी है। १२ परन्तु तुम ने नाज़ीरों को दाखमधु पिलाया, और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यद्वाणी न करे ॥

१३ देखो, मैं तुम को ऐसा दबाऊंगा, जैसी पूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है*। १४ इसलिये वेग दौड़नेवाले को भाग जाने का स्थान न मिलेगा, और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम न देगा, और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा; १५ धनुर्धारी खड़ा न रह सकेगा, और फुर्ती से दौड़नेवाला न बचेगा; सवार भी अपना प्राण न बचा सकेगा; १६ और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो, वह भी उस दिन नगा होकर भाग जाएगा, यहोवा की यही वाणी है ॥

* वा तुम्हारे नीचे ऐसा दबा हूँ जैसे गाड़ी जो पूलों से भरी हो दबी रहती है।

हे इस्त्राएलियो, यह बचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात् उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ २ पृथ्वी के सारे कुलों में मैं ने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दण्ड दूंगा ॥

३ यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हों, तो क्या वे एक सग चल सकेंगे ? ४ क्या सिंह बिना आहारे पाए वन में गरजेंगे ? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी माँद में से गुर्राएगा ? ५ क्या चिड़िया बिना फन्दा लगाए फसेगी ? क्या बिना कुछ फसे फन्दा भूमि पर से उचकेगा ? ६ क्या किसी नगर में नरमिगा फूकने पर लोग न धरधराएंगे ? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी ? ७ इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्बक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रगट किए कुछ भी न करेगा। ८ सिंह गरजा; कौन न डरेगा ? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यद्वाणी न करेगा ?

९ अशदोद के भवन और मिस्र देश के राजभवन पर प्रचार करके कहो, सामरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उस में क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अन्धेर के काम हो रहे हैं ! १० यहोवा की यह वाणी है, कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का धन बटोर रखते हैं, वे सीघाई से काम करना जानते ही नहीं। ११ इस कारण परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देश का घेरने-वाला एक शत्रु होगा, और वह तेरा बल तोड़ेगा, और तेरे भवन लूटे जाएंगे ॥

१२ यहोवा यों कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे वा कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इस्त्राएली लोग, जो सामरिया में बिल्लीने के एक कोने वा रेशमी गद्दी पर बँठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे ॥

१३ सेनाओं के परमेश्वर, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, देखो, और याकूब के घराने से यह बात चिताकर कहो, १४ जिस समय मैं इस्त्राएल को उसके अपराधों का दण्ड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दण्ड दूंगा, और बेदी के सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे। १५ और मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन, दोनों को गिराऊंगा; और हाथीदांत के बने भवन भी नाश होंगे, और बड़े बड़े घर नाश हो जाएंगे, यहोवा की यही वाणी है ॥

४ हे बाशान की गायो, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अन्धेर करती, और दरिद्रों को कुचल डालती हो, और अपने अपने पति से कहती हो कि ला, दे हम पीए ! २ परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो, तुम पर ऐसे दिन आनेवाले हैं, कि तुम कटियाओं से, और तुम्हारी सन्तान मछली की बन्तियों से खींच लिए जाएंगे। ३ और तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हम्मोन में डाली जाओगी, यहोवा की यही वाणी है ॥

४ बेतेल में आकर अपराध करो, और गिलाल में आकर बहुत से अपराध करो; अपने चढ़ावे भोर को, और अपने दशमांश हरि तीसरे दिन ले आया करो; ५ घन्य-वादबलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ, और

अपने स्वेच्छाबलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो; क्योंकि हे इस्त्राएलियो, ऐसा करना तुमको भावता है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है ॥

६ मैं ने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी, और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की षटी की है, तौभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है ॥

७ और जब कटनी के तीन महीने रह गए, तब मैं ने तुम्हारे लिये वर्षा न की, मैं ने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया; एक खेत में जल बरसा, और दूसरा खेत जिस में न बरसा, वह सूख गया। ८ इसलिये दो तीन नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परन्तु तृप्त न हुए; तौभी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है ॥

९ मैं ने तुमको लूह और गेरुई से मारा है; और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां, और अजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गईं; तौभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है ॥

१० मैं ने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई; मैं ने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया; और तुम्हारी छावनी की दुर्गन्ध तुम्हारे पास पहुंचाई; तौभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है ॥

११ मैं ने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया, जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम प्राग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे;

तौभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए, यहोवा की यही वाणी है ॥

१२ इस कारण, हे इस्राएल, मैं तुझ से ऐसा ही करूँगा, और इसलिये कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के साम्हने आने के लिये तैयार हो जा ॥

१३ देख, पहाड़ों का बनानेवाला और पवन का सिरजनेवाला, और मनुष्य को उसके मन का विचार बतानेवाला और भोर को अन्धकार करनेवाला, और जो पृथ्वी के ऊँचे स्थानों पर चलनेवाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है ॥

५ हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ : २ इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई, और फिर उठ न सकेगी; वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है, और उसका उठानेवाला कोई नहीं ॥

३ क्योंकि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस नगर से हज़ार निकलते थे, उस में इस्राएल के घराने के सौ ही बचे रहेंगे, और जिस से सौ निकलते थे, उस में दस बचे रहेंगे ॥

४ यहोवा, इस्राएल के घराने से यों कहता है, मेरी खोज में लगे, तब जीवित रहोगे। ५ बेंतेल की खोज में न लगे, न गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेशेवा को जाओ; क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधु-घ्राई में जाएगा, और बेंतेल सूना पड़ेगा ॥

६ यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाईं भड़केगा, और वह उसे भस्म करेगी, और बेंतेल में कोई उसका बुझानेवाला

न होगा। ७ हे न्याय के बिगाड़नेवालो * और धर्म को मिट्टी में मिलानेवालो !

८ जो कचपचिया और मृगशिरा का बनानेवाला है, जो घोर अन्धकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अन्धकार करके रात बना देता है, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। ९ वह तुरन्त ही बलवन्त को विनाश कर देता, और गढ़ का भी सत्यानाश करता है ॥

१० जो सभा में † उलाहना देता है उस से बे बैर रखते हैं, और खरी बात बोलनेवाले से घृणा करते हैं। ११ तुम जो कगालो को लताडा करते, और भेट कहकर उन से अन्न हर लेते हो, इसलिये जो घर तुम ने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं, उन में रहने न पाओगे, और जो मन-भावनी दाख की बारियां तुम ने लगाई हैं, उनका दाखमधु न पीने पाओगे। १२ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते, और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। १३ इस कारण जो बुद्धिमान् हो, वह ऐसे समय चुपका रहे, क्योंकि समय बुरा है ॥

१४ हे लोगो, बुराई को नहीं, भलाई को बढ़ो, ताकि तुम जीवित रहो; और तुम्हारा यह कहना मच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। १५ बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो; क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुआँ पर अनुग्रह करे ॥

* मूल में—न्याय को नागदौना बनाने।

† मूल में—फाटक।

१६ इस कारण सेनाओं का परमेश्वर, प्रभु यहोवा यों कहता है, सब चौकों में रोना-पीटना होगा; और सब सडकों में लोग हाय, हाय, करेंगे! वे किसानों को शोक करने के लिये, और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं, उन्हें रोने-पीटने को बुलाएंगे।

१७ और सब दाख की बारियों में रोना-पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यों कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा।

१८ हाय तुम पर, जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो! यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अन्धियारे का दिन होगा। १९ जैसा कोई सिंह मे भागे और उसे भालू मिले, वा घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। २० क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं, बरन अन्धियारे ही का होगा? हा, ऐंसे घोर अन्धकार का जिस में कुछ भी चमक न हो।

२१ मैं तुम्हारे पर्वों से बंद रखता, और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महा-सभाओं से मैं प्रसन्न नहीं *। २२ चाहे तुम मेरे लिये होमबलि और अन्नबलि चढाओ, तीर्थों में प्रसन्न न हूँगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेलबलियों की ओर न ताकूँगा। २३ अपने गीतों का कोलाहल मुझ से दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूँगा। २४ परन्तु न्याय को नदी की नाई, और धर्म महानद की नाई बहने दो।

२५ हे इस्राएल के घराने, तुम जगल में चालीस वर्ष तक पशुबलि और अन्नबलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? २६ नहीं, तुम

तो अपने राजा का तम्बू, और अपनी मूर्तियों की चरणपीठ, और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। २७ इस कारण मैं तुम को दमिस्क के उस पार बधुआई में कर दूँगा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।

हाय उन पर जो सिय्योन में मुझ से रहते, और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिन्त रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिन के पास इस्राएल का घराना आता है! २ कलने नगर को जाकर देखो, और वहाँ से हमारा नाम बड़े नगर को जाओ, फिर पलिशतियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम हैं? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? ३ तुम बुरे दिन को दूर कर देते, और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो।

४ तुम हाथी दात के पलंगों पर लेटते, और अपने अपने बिछौने पर पाव फँलाए सोते हो, और भेड़-बकरियों में से मेम्ने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। ५ तुम सारंगी के साथ गीत गाते, और दाऊद की नाई भाँति भाँति के बाजे बूढ़ि से निकालते हो, ६ और कटोरी में से दाखमधु पीते, और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परन्तु यूसुफ पर आनेवाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते! ७ इस कारण वे अब बधुआई में पहिले जाएंगे, और जो पांव फँलाए सोते थे, उनकी धूम जाती रहेगी।

८ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वारणी है, (परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ साकर कहा है): जिस पर याकूब धमण्ड करता है, उस से मैं घृणा, और

* मूल में—मैं न संघुँगा।

उसके राजभवनों से बंद रखता हूँ; और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उस में है, शत्रु के वश में कर दूंगा ॥

६ और यदि किसी घर में दस पुरुष बचे रहे, तोभी वे मर जाएंगे। १० और जब किसी का चचा, जो उसका जलानेवाला हो, उसकी हड्डियों को घर के निकालने के लिये उठाएगा, और जो घर के कोने में हो उस में कहेगा, क्या तेरे पाम कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं, तब वह कहेगा, चुप रह! हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए ॥

११ क्योंकि यहोवा की आज्ञा में बड़े घर में छेद, और छोटे घर में दरार होगी।

१२ क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहाँ तुम लोगो ने न्याय को विष से, और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है?

१३ तुम ऐसी वस्तु के कारण आनन्द करते हो जो व्यर्थ है; और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न में सामर्थी नहीं हो गए?

१४ इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूँगा, जो हमारा की घाटी से लेकर अराराबा की नदी तक तुमको सकट में डालेगी ॥

७ परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ कि उस ने पिछली घास के उगने के आरम्भ में टिड्डियाँ उत्पन्न की; और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। २ जब वे घास खा चुकी, तब मैं ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर! नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कितना

निबंल * है! ३ इसके विषय में यहोवा पछताया, और उस ने कहा, ऐसी बात अब न होगी ॥

४ परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया: और क्या देखता हूँ कि परमेश्वर यहोवा ने प्राग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और उस प्राग से महासागर सूख गया, और देश भी भस्म हुआ चाहता था।

५ तब मैं ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा! नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह कैसे निबंल * है। ६ इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात फिर न होगी ॥

७ उस ने मुझे यह भी दिखाया. मैं ने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किमी भीत पर खड़ा है, और उसके हाथ में साहुल है। ८ और यहोवा ने मुझ से कहा, हे ग्रामोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैं ने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊँगा। ९ मैं अब उनको न छोड़ूँगा। इसहाक के ऊँचे स्थान उजाड़, और इस्राएल के पवित्रस्थान मुनसान हो जाएँगे, और मैं यारोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूँगा ॥

१० तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यारोबाम के पास कहला भेजा, कि, ग्रामोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझ से राजद्रोह की गोष्ठी की है; उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। ११ क्योंकि ग्रामोस यो कहता है, कि, यारोबाम तलवार से मारा जाएगा, और

* मूल में—झोटा।

इस्त्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधु-
धार्ई में जाएगा ॥

१२ और अमस्याहने आमोस से कहा, हे
दर्शी, यहा से निकलकर यहूदा देश मे भाग
जा, और वही रोटी खाया कर, और वही
भविष्यद्वाणी किया कर; १३ परन्तु बेतेल
में फिर कभी भविष्यद्वाणी न करना,
क्योंकि यह राजा का पवित्रस्थान और
राज-नगर है। १४ आमोस ने उत्तर देकर
अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यद्बक्ता
था, और न भविष्यद्बक्ता का बेटा; मैं तो
गाय-बैल का चरवाहा, और गूलर के वृक्षों
का छांटनेहारा था, १५ और यहोवा ने
मुझे भुड़-बकरियों के पीछे पीछे फिरने से
बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्त्राएल से
भविष्यद्वाणी कर। १६ इसलिये अब तू
यहोवा का वचन सुन, तू कहता है कि
इस्त्राएल के विरुद्ध भविष्यद्वाणी मत कर;
और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार
वचन मत सुना*। १७ इस कारण
यहोवा यों कहता है, तेरी स्त्री नगर मे
बेरया हो जाएगी, और तेरे बेटे-बेटिया
तलवार से मारी जाएंगी, और तेरी भूमि
डोरी डालकर बांट ली जाएगी; और तू
आप अशुद्ध देश मे मरेगा, और
इस्त्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय
बंधुधार्ई में जाएगा ॥

८ परमेश्वर यहोवा ने मुझ को यों
दिसाया : कि, धूपकाल के फलों से
भरी हुई एक टोकरी है। २ और उस ने
कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है ?
मैं ने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक
टोकरी। तब यहोवा ने मुझ से कहा, मेरी
प्रजा इस्त्राएल का अन्त प्रा गया है; मैं अब

* मूल में—हाहाकार करेंगे।

उसको और न छोडगा। ३ परमेश्वर
यहोवा की वाणी है, कि उस दिन राज-
मन्दिर के गीत हाहाकार* में बदल
जाएंगे, और लोचों का बड़ा डेर लगेगा;
और सब स्थानो में वे चुपचाप फेक दी
जाएंगी ॥

४ यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना
और देश के नम्र लोगों को नाश करना
चाहते हो, ५ जो कहते हों नया चाद कब
बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें? और
विश्रामदिन कब बीतेगा, कि हम अन्न के
खत्ते खोलकर एषा को छोटा और शेकेल
को भारी कर दे, और छल से दरडी मारे,
६ कि हम कगालों को रुपया देकर, और
दरिद्रो को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल
ले, और निकम्मा अन्न बेचे ?

७ यहोवा, जिस पर याकूब को धमण्ड
करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर
कहता है, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी
न भूलूंगा। ८ क्या इस कारण भूमि न
कापेगी ? और क्या उन पर के सब रहने-
वाले विलाप न करेगे ? यह देश सब का
सब भिन्न की नील नदी के समान होगा,
जो बढती है, फिर लहरें मारती, और घट
जाती है ॥

९ परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है,
उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त
करूंगा, और इस देश को दिन दुपहरी
अन्धियारा कर दूंगा। १० मैं तुम्हारे पबों
के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा,
और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप
के गीत गवाऊंगा; मैं तुम सब की कटि में
टाट बघाऊंगा, और तुम सब के सिरों को
मुड़ाऊंगा, और ऐसा विलाप कराऊंगा

* मूल में—हाहाकार करेंगे।

जैसा एकलौते के लिये होता है, और उसका अन्त कठिन दुःख के दिन का सा होगा * ॥

११ परमेश्वर यहोवा की यह वारणी है, देखो, ऐसे दिन आते हैं, जब मैं इस देश में महंगी करूँगा; उस में न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परन्तु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी ।

१२ और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परन्तु उसको न पाएँगे ॥

१३ उस समय सुन्दर कुमारिया और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएँगे । १४ जो लोग सामरिया के पाप-मूल देवता की शपथ खाते हैं, और जो कहते हैं कि दान के † देवता के जीवन की शपथ, और बेशोबा के पन्थ की शपथ, वे सब गिर पडेँगे, और फिर न उठेंगे ॥

६ मैं ने प्रभु को बेदी के ऊपर खड़ा देखा, और उस ने कहा, स्वप्न के की कगनियों पर मार जिस से डेवडिया हिले, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर; और जो नाश होने से बचें, उन्हें मैं तलवार से घात करूँगा; उन में से एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाएँ, वह बचने न पाएँगा ॥

२ क्योंकि चाहे वे खोदकर अघोलोक में उतर जाएँ, तो वहा से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊँगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएँ, तो वहा से मैं उन्हें उतार लाऊँगा ।

३ चाहे वे कर्मल में छिप जाएँ, परन्तु वहाँ भी मैं उन्हें दूढ़-दूढ़कर पकड़ लूँगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से छोट हों, वहाँ भी मैं सर्प को उन्हें डसने की

प्राज्ञा दूँगा । ४ और चाहे शत्रु उन्हें हाँक-कर बंधुभाई में ले जाएँ, वहा भी मैं प्राज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊँगा; और मैं उन पर भलाई करने के लिये नहीं, बुराई ही करने के लिये दृष्टि करूँगा ॥

५ सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है, और उसके सारे रहनेवाले विलाप करते हैं; और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती, और घट जाती है । ६ जो आकाश में अपनी कोठरियाँ बनाता, और अपने आकाशमण्डल की नेब पृथ्वी पर डालता, और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उमी का नाम यहोवा है ॥

७ हे इस्राएलियो, यहोवा की यह वारणी है, क्या तुम मेरे लेखे कूशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश में और पलिशियों को कप्तोर में नहीं निकाल लाया? और अरामियों को कीर से नहीं लाया? ८ देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पाप-मय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नाश करूँगा; तौमी मैं पूरी रीति में याकूब के घराने को नाश न करूँगा, यहोवा की यही वारणी है ।

९ मेरी प्राज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाना है, परन्तु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा ।

१० मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पडेगी, और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएँगे ॥

११ उस समय में दाऊद की गिरी हुई भोंपड़ी को खड़ा करूँगा, और उसके बाडे के नाकों को सुघारूँगा, और उसके

* मूल में—कडुवा दिन ।

† मूल में—दे दान घेरे ।

खण्डहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीनकाल में था, उसको वैसे ही बना दूंगा; १२ जिस में वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्यजातियों को जो मेरी कहलाती हैं, अपने अधिकार में ले, यहोवा जो यह काम पूरा करता है, उसको यही बाणी है ॥

१३ यहोवा की यह भी बाणी है, देखो, ऐसे दिन आते हैं, कि हल जोतनेवाला लवनेवाले को और दाख रौदनेवाला बीज बोनेवाले को जा लेगा; और पहाड़ों में नया

दाखमधु टपकने लगेगा, और सब पहाड़ियों में वह निकलेगा। १४ में अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधारकर उन में बसेंगे, वे दाख की बारिया लगाकर दाखमधु पीएंगे, और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। १५ में उन्हें, उन्हीं की भूमि में बोजूंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैं ने उन्हें दी है, फिर कभी उखाड़े न जाएंगे, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है ॥

श्रीबद्याह

१ श्रीबद्याह का दर्शन ॥

हम लोगों ने यहोवा की ओर में समाचार सुना है, और एक दूत अन्यजातियों में यह कहने को भेजा गया है : २ उठो ! हम उस से लड़ने को उठे ! मैं तुम्हें जातियों में छोटा कर दूंगा, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। ३ हे पहाड़ों की दरारों में बसनेवाले, हे ऊंचे स्थान में रहनेवाले, तेरे अभिमान ने तुम्हें धोखा दिया है; तू मन में कहता है, ४ कौन मुझे भूमि पर उतार देगा ? परन्तु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तौभी मैं तुम्हें वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही बाणी है ॥

५ यदि चोर-डाकू रात को तेरे पास आते, (हाय, तू कैसे मिटा दिया गया है !) तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले

न जाते ? और यदि दाख के तोड़नेवाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते ? ६ परन्तु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगा लगाकर निकाला गया है ! ७ जितनों ने तुम्हें से वाचा बान्धी थी, उन सभी ने तुम्हें सिवाने तक ढकेल दिया है, जो लोग तुम्हें से मेल रखते थे, वे तुम्हें को धोका देकर तुम्हें पर प्रबल हुए हैं; और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिये फन्दा लगाते हैं—उस में कुछ समझ नहीं है। ८ यहोवा की यह बाणी है, क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को, और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नाश न करूंगा ? ९ और हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यों एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नाश हो

जाएगा। १० हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तू ने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढंपेगा; और सदा के लिये नाश हो जाएगा। ११ जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन सम्पत्ति छीनकर ले गए, और बिराने लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उन में से एक था। १२ परन्तु तुझे उचित न था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात् उसकी विपत्ति के दिन में उसकी और देखता रहता, और यहूदियों के नाश होने के दिन उनके ऊपर आनन्द करता, और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। १३ तुझे उचित न था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक से घुसता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता, और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन सम्पत्ति पर हाथ लगाता। १४ तुझे उचित न था कि तिरमुहाने पर उसके भागनेवालों को मार डालने के लिये खड़ा होता, और सकट के दिन उसके बच्चे हुआ को पकड़ाता।

१५ क्योंकि सारी अन्यजातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तू ने किया है, वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। १६ जिस प्रकार तू ने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी

अन्यजातियां लगातार पीती रहेंगी, बरन वे सुडक-सुडककर पीएंगी, और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई ही नहीं। १७ परन्तु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे, और वह पवित्रस्थान टहरेगा; और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। १८ तब याकूब का घराना भाग, और यूसुफ का घराना लौ, और एसाव का घराना खूटी बनेगा; और वे उन में भाग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न बचेगा; क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है।

१९ दक्खिन देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे; और यहूदी, एप्रैम और सामरिया के दिहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। २० इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बधुआई में जाकर कनानियों के बीच मारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्खिन देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। २१ और उद्धार करनेवाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिये सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा।

योना

१ यहोवा का यह वचन अमिर्त्त के पुत्र योना के पास पहुंचा, २ उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और उसके विरुद्ध प्रचार कर; क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है * । ३ परन्तु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शाश को भाग जाने के लिये उठा, और यापो नगर को जाकर तर्शाश जानेवाला एक जहाज पाया; और भाड़ा देकर उस पर चढ़ † गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शाश को चला जाए ॥

४ तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचण्ड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था । ५ तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे, और जहाज में जो ब्योपार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए । परन्तु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था, और गहरी नींद में पड़ा हुआ था । ६ तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है ? उठ, अपने देवता की दोहाई दे । सम्भव है कि परमेश्वर हमारी चिन्ता करे, और हमारा नाश न हो ॥

७ तब उन्होंने ने आपस में कहा, आओ, हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस के कारण पड़ी है । तब उन्होंने ने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली । ८ तब उन्होंने ने उस से कहा, हमें

बता कि किस के कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है ? तेरा उद्यम क्या है ? और तू कहां से आया है ? तू किस देश और किस जाति का है ? ९ उस ने उन से कहा, मैं इब्री हू; और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिस ने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हू । १० तब वे निपट डर गए, और उम से कहने लगे, तू ने यह क्या किया है ? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है; क्योंकि उस ने आप ही उनको बता दिया था ॥

११ तब उन्होंने ने उस से पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिस से समुद्र शान्त हो जाए ? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी । १२ उस ने उन से कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो; तब समुद्र शान्त पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है । १३ तीभी वे बड़े यत्न से खेत रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परन्तु पहुच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरे उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी । १४ तब उन्होंने ने यहोवा को पुकारकर कहा, हे यहोवा हम बिनती करते हैं, कि इस पुरुष के प्राण की सन्ती हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा; क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तू ने किया है । १५ तब उन्होंने ने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया; और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं । १६ तब उन मनुष्यों ने

* मूल में—चढ़ आई है ।

† मूल में—उस में उतरा ।

यहोवा का बहुत ही भय माना, और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानीं ॥

१७ यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले; और योना उस मगरमच्छ के पेट में तीन दिन और तीन रात पड़ा रहा ॥

२ तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा,

२ मैं ने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी,
और उस ने मेरी सुन ली है;
अघोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा,
और तू ने मेरी सुन ली ।

३ तू ने मुझे गहिरें सागर में समुद्र की याह तक डाल दिया;
और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था,
तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरों मेरे ऊपर से बह गईं ।

४ तब मैं ने कहा, मैं तेरे साम्हने से निकाल दिया गया हूँ;
तीभी तेरे पवित्र मन्दिर की ओर फिर ताकूंगा ।

५ मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे;
गहिरा सागर मेरे चारों ओर था,
और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था ।

६ मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था;
मैं सदा के लिये भूमि में बन्द हो गया था;
तीभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ने मेरे प्राणों को गड़हे में से उठाया है ।

७ जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैं ने यहोवा को स्मरण किया;

और मेरी प्रार्थना तेरे पास बरन तेरे पवित्र मन्दिर में पहुँच गई ।

८ जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं,
वे अपने करुणानिधान को छोड़ देते हैं ।

९ परन्तु मैं ऊँचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा,
जो मन्नत मैं ने मानी, उसको पूरी करूंगा ।

उद्धार यहोवा ही से होता है !

१० और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी,
और उस ने योना को स्थल पर उगल दिया ॥

२ तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा, २ उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझ से कहूँगा, उसका उस में प्रचार कर ।
३ तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया । नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह तीन दिन की यात्रा का था ।
४ और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब मैं चालीस दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा । ५ तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की; और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट झोढ़ा ॥

६ तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुँचा; और उस ने सिंहासन पर से उठ, अपना राजकीय झोढ़ना उतारकर

टाट ओढ़ लिया, और राख पर बैठ गया। ७ और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, कि क्या मनुष्य, क्या गाय-बैल, क्या भेड़-बकरी, या और पशु, कोई कुछ भी न खाएं; वे न खाएं और न पानी पीवें। ८ और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला-चिल्ला कर दें; और अपने कुमार्ग से फिरें; और उस उपद्रव से, जो वे करते हैं, पश्चात्ताप करें। ९ सम्भव है, परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भडका हुआ कोप शान्त हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं।।

१० जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको न किया।।

४ यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी, और उसका क्रोध भड़का। २ और उस ने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा जब मैं अपने देश में था, तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैं ने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्षीश को भाग जाने के लिये फुर्ती की; क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलम्ब से कोप करने-वाला कष्टानिधान है, और दुःख देने से प्रसन्न नहीं होता। ३ सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले; क्योंकि मेरे लिये जीवित रहने से मरना ही भला है। ४ यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह

उचित है? ५ इस पर योना उस नगर से निकलकर, उसकी पूरब ओर बैठ गया; और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा?

६ तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिस से उसका दुःख दूर हो। योना उम रेंड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनन्दित हुआ। ७ बिहान को जब पौ फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिस ने रेंड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। ८ जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्च्छा खाने लगा; और उस ने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिये जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। ९ परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध, जो रेंड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उस ने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। १० तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड़ के पेड़ के लिये तू ने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ, और एक ही रात में नाश भी हुआ; उस पर तू ने तरस खाई है। ११ फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिस में एक लाख बीस हजार से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहिचानते, और बहुत घरें लू पशु भी उस में रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं?

मीका

१ यहोवा का वचन, जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिज-किय्याह के दिनों में मीका मोरेशेती को पहुंचा, जिस को उस ने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया ॥

२ हे जाति-जाति के सब लोगो, मुनो ! हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुफ मे हैं, ध्यान दे ! और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध, वरन परमेश्वर अपने पवित्र मन्दिर मे से तुम पर साक्षी दे । ३ क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्रस्थान से बाहर निकल रहा है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊचे स्थानों पर चलेगा । ४ और पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे, और तराई ऐसे फटेंगी, जैसे मोम भाग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है । ५ यह सब याकूब के अपराध, और इस्राएल के घराने के पाप के कारण से होता है । याकूब का अपराध क्या है ? क्या सामरिया नही ? और यहूदा के ऊचे स्थान क्या है ? क्या यरूशलेम नही ? ६ इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा, और दाख का बगीचा बनाऊंगा ; और मे उसके पत्थरों को खड्ड मे लुढ़का दूंगा, और उसकी नेव उखाड़ दूंगा । ७ उसकी सब खुदी हुई मूरते टुकड़े टुकड़े की जाएगी ; और जो कुछ उस ने छिनाला करके कमाया है वह भाग से भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा ; क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उस ने उनको संचय किया है, और

वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी ॥

८ इस कारण मैं छाती पीटकर हाय, हाय, करूंगा ; मैं लुटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा ; मैं गीदड़ों की नाई चिल्लाऊंगा, और शतुर्मुर्गों की नाई रोऊंगा । ९ क्योंकि उसका घाव असाध्य है ; और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जातिभाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है ॥

१० गात नगर में इसकी चर्चा मत करो, और मत रोओ ; बेतआत्रा * मे धूलि में लोटपोट करो । ११ हे शापीर की रहनेवाली नंगी होकर निर्लज चली जा ; सानान † की रहनेवाली नहीं निकल सकती ; बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरणस्थान तुम से ले लिया जाएगा । १२ क्योंकि मारोत की रहनेवाली तो कुशल की बाट जोहते-जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है । १३ हे लाकीश की रहनेवाली अपने रथों मे बेग चलनेवाले घोड़े जोत ; तुभी से सिय्योन की प्रजा के ‡ पाप का आरम्भ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध तुभी में पाए गए । १४ इस कारण तू गात के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा ; अकजीब § के घर

* अर्थात् धूलि के घर ।

† अर्थात् निकलना ।

‡ मूल में—सिय्योन की बेटी का ।

§ अर्थात् थोखे ।

से इस्लाम के राजा बोला ही लाएंगे । १५ हे मारेशा की रहनेवाली में फिर तुम पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इस्लाम के प्रतिष्ठित लोगों को * अब्दुल्लाम में आना पड़ेगा । १६ अपने दुलारे लड़कों के लिये अपना केश कटवाकर सिर मुड़ा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंधुए होकर तेरे पास से चले गए हैं ॥

२ हाय उन पर, जो बिछीनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवन्त होने के कारण और को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं । २ वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं; और उसके घराने समेत पुरुष पर, और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अन्धेर और अत्याचार करते हैं । ३ इस कारण, यहोवा यों कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ, जिस के नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे; क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा । ४ उस समय यह अत्यन्त शोक का गीत वृष्टान्त की रीति पर गाया जाएगा : हम तो सर्वनाश हो गए; वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है; हाय, वह उसे मुझ से कितनी दूर कर देता है ! वह हमारे खेत बलवा करनेवाले को दे देता है । ५ इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा, जो यहोवा की मण्डली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले ॥

६ बकवासी कहा करते हैं, कि बकवास न करो । इन बातों के लिये न कहा करो ;

* मूल में—इस्लाम की महिमा को ।

ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा । ७ हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अंधीर हो गया है * ? क्या ये काम उसी के किए हुए हैं ? क्या मेरे बच्चों से उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है ? ८ परन्तु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है; तुम शान्त और भोले-भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो जो लड़ाई का विचार न करके निघड़क चले जाते हैं । ९ मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुखघामों से निकाल देते हो; और उनके नन्हें बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएँ † सर्वदा के लिये छीन लेते हो । १० उठो, चले जाओ ! क्योंकि यह तुम्हारा विश्रामस्थान नहीं है; इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुःख के साथ तुम्हारा नाश करेगी । ११ यदि कोई भूठी आत्मा में चलता हुआ भूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख-मघु और मदिरा के लिये प्रचार सुनाता रहूँगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा ॥

१२ हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूँगा; मैं इस्लाम के बचे हुए लोगों को निश्चय इकट्ठा करूँगा; और बोला की भेड़-बकरियों की नाई एक संग रखूँगा । उस भुएड की नाई जो अच्छी चराई में हो, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे । १३ उनके आगे आगे बाड़े का तोड़नेवाला गया है, इसलिये वे भी उसे तोड़ रहे हैं, और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं; उनका राजा उनके आगे आगे

* वा हे याकूब का घराना कहानेवाले, क्या यहोवा का आत्मा अंधीर हो गया है ?

† मूल में—मेरा प्रताप ।

गया अर्थात् यहोवा उनका सरदार और भ्रगुवा है ॥

२ और मैं ने कहा, हे याकूब के प्रधानो, हे इस्राएल के घराने के न्यायियो, सुनो ! क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं ? २ तुम तो भलाई से बैर, और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो, तुम, लोगों पर से उनकी खाल, और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस उधेड़ लेते हो; ३ वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते, और उनकी खाल उधेड़ते हो; तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिये तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिये टुकड़े टुकड़े करते हो। ४ वे उस समय यहोवा की दोहाई देंगे, परन्तु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उन से मुंह फेर लेगा ॥

५ यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शान्ति, शान्ति, पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे, तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं*। ६ इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी, कि तुम को दर्शन न मिलेगा, और तुम ऐसे अन्धकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिये सूर्य अस्त होगा, और दिन रहते उन पर अन्धियारा † छा जाएगा। ७ दर्शी लज्जित होंगे, और भावी कहनेवालों के मुंह काले होंगे; और वे सब के सब अपने ओठों को इसलिये ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। ८ परन्तु

* मूल में—युद्ध पवित्र करते हो।

† मूल में—काला।

मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूँ ॥

९ हे याकूब के घराने के प्रधानो, हे इस्राएल के घराने के न्यायियो, हे न्याय से घृणा करनेवालो और सब सीधी बातों को टेढ़ी-मेढ़ी करनेवालो, यह बात सुनो। १० तुम सिय्योन को हस्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। ११ उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते, और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यद्वक्ता रुपये के लिये भावी कहते हैं; तामी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिये कोई विपत्ति हम पर न आएगी। १२ इसलिये तुम्हारे कारण सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा, और यरूशलेम डीह ही डीह हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है, वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा ॥

३ अन्त के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा; और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। २ और बहुत जातियों के लोग जाएंगे, और आपस में कहेंगे, आओ, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं; तब वह हम को अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेंगा। ३ वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा, और दूर दूर तक की सामर्थी

जातियों के भगड़ों को मिटाएगा; सो वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल, और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे; तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी; ४ और लोग आगे को युद्ध-विद्या न सीखेंगे। परन्तु वे अपनी अपनी दाखलता और अजीर के वृक्ष तले बैठ करेगे, और कोई उनको न डराएगा; सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है ॥

५ सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परन्तु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेगे ॥

६ यहोवा की यह वाणी है, उस समय में प्रजा के लंगडों* को, और बरबस निकाले हुआ † को, और जिन को मैं ने दुःख दिया है उन सब को इकट्ठे करूंगा। ७ और लंगडों* को मैं बचा रखूंगा, और दूर किए हुए ‡ को एक सामर्थी जाति कर दूंगा; और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा ॥

८ और हे एदेर के गुम्मत, हे सिय्योन § की पहाड़ी, पहिली प्रभुता अर्थात् यरूशलेम ॥ का राज्य तुम्हें मिलेगा ॥

९ अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करनेवाला नाश हो गया, जिस से जच्चा स्त्री की नाईं तुम्हें पीडा उठती है?

१० हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाईं पीडा उठाकर उत्पन्न कर; क्योंकि

* मूल में—लंगडानेवाली।

† मूल में—निकाली हुई।

‡ मूल में—की हुई।

§ मूल में—सिय्योन की बेटी।

॥ मूल में—यरूशलेम की बेटी।

अब तू गढी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी; वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात् वही यहोवा तुम्हें तेरे शत्रुओं के वश में से छुड़ा लेगा ॥

११ और अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए, और हम अपनी आंखों से उसको निहारें। १२ परन्तु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं, कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पूले बटोरे जाते हैं।

१३ हे सिय्योन*, उठ और दांव कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के, और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा; और तू बहुत सी जातियों को चूरचूर करेगी, और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन-सम्पत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिये अर्पण करेगी ॥

५ अब हे बहुत दलों की स्वामिनी †, दल बान्ध-बान्धकर इकट्ठी हो, क्योंकि उस ने हम लोगों को घेर लिया है; वे इस्राएल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेगे ॥

२ हे बेतलेहेम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, ‡ तौभी तुझ में से मेरे लिये एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करनेवाला होगा; और उसका निकलना प्राचीनकाल से, वरन अनादि काल से होता आया है। ३ इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा, जब तक जच्चा उत्पन्न न करे;

* मूल में—सिय्योन की बेटी।

† मूल में—बेटी।

‡ मूल में—तू यहूदा के हजारों में से छोटा है।

तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उन से मिल जाएंगे । ४ और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से, उनकी चरवाही करेगा । और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान् ठहरेगा ॥

५ और वह शान्ति का मूल होगा, जब अशूरी हमारे देश पर चढ़ाई करे, और हमारे राजभवनों * में पांव धरें, तब हम उनके विरुद्ध सात चरवाहे वरन आठ प्रधान मनुष्य सज्ज करेगे । ६ और वे अशूर के देश को वरन पंठाव के स्थानों तक निम्नोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे; और जब अशूरी लोग हमारे देश में आएँ, और उसके सिवाने के भीतर पांव धरें, तब वही पुरुष हम को उन से बचाएगा । ७ और याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे, जैसा यहोवा की ओर से पड़नेवाली ओस, और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिये नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोहती । ८ और याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वनपशुओं में सिंह, वा भेड़-बकरियों के भुएडों में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वह उनके बीच में से जाए, तो लताड़ना और फाड़ता जाएगा, और कोई बचा न सकेगा । ९ तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े, और तेरे सब शत्रु नाश हो जाएँ ॥

१० यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तेरे षोडों को तेरे बीच में से नाश करूँगा; और तेरे रथों का विनाश करूँगा ।

* मूल में—फाटकों ।

११ और मैं तेरे देश के नगरों को भी नाश करूँगा, और तेरे किलों को ढा दूँगा । १२ और मैं तेरे तन्त्र-मन्त्र नाश करूँगा, और तुझ में टोनहे आगे को न रहेंगे । १३ और मैं तेरी खुदी हुई मूरते, और तेरी लाठे, तेरे बीच में से नाश करूँगा; और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दण्डवत् न करेगा । १४ और मैं तेरी अशोरा नाम मूरतों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूँगा, और तेरे नगरों का विनाश करूँगा । १५ और मैं अन्यजातियों से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जल-जलाहट के साथ पलटा लूँगा ॥

६ जो बात यहोवा कहता है, उसे सुनो: उठकर, पहाड़ों के साम्हने वादविवाद कर, और टीले भी तेरी सुनने पाएँ । २ हे पहाड़ो, और हे पृथ्वी की अटल नेव, यहोवा का वादविवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकद्दमा है, और वह इस्राएल से वादविवाद करता है ॥

३ हे मेरी प्रजा, मैं ने तेरा क्या किया, और क्या करके मैं ने तुम्हें उकता दिया है? ४ मेरे विरुद्ध साक्षी दे! मैं तो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, और दासत्व के घर में से तुम्हें छुड़ा लाया; और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया । ५ हे मेरी प्रजा, स्मरण कर, कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की? और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी? और शित्तीम से गिल्गाल तक की बातों का स्मरण कर, जिस से तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके ॥

६ में क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊँ, और ऊपर रहनेवाले परमेश्वर के साम्हने झुकूँ? क्या मैं होमबलि के लिये एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊँ? ७ क्या यहोवा हजारों मेंदों से, वा तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित्त में अपने पहिलीठे को वा अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूँ? ८ हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है; और यहोवा तुझ से इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले?

९ यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, और सम्पूर्ण ज्ञान, तेरे नाम का भय मानना है : राजदण्ड की, और जो उसे देनेवाला है उसकी बात सुनो ! १० क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा धूमिल नहीं है? ११ क्या मैं कपट का तराजू और घटबढ़ के बटखरों की धैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? १२ यहाँ के धनवान् लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं; और यहाँ के सब रहनेवाले झूठ बोलते हैं और उनके मुँह से छल की बातें निकलती हैं * । १३ इस कारण मैं तुम्हें मारते मारते बहुत ही धायल करता हूँ, और तेरे पापों के कारण तुम्हें जो उजाड़ डालता हूँ। १४ तू खाएगा, परन्तु तृप्त न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा; और तू अपनी सम्पत्ति लेकर चलेगा, परन्तु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले, उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। १५ तू बोएगा, परन्तु लवेगा नहीं; तू

* मूल में—उसके मुँह में उनकी जीभ धोखा देनेवाली है।

जलपाई का तेल निकालेगा, परन्तु लगाने न पाएगा; और दाख रोदेगा, परन्तु दाखमधु पीने न पाएगा। १६ क्योंकि वे ओझी की विधियों पर, और ग्रहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं; और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो; इसलिये मैं तुम्हें उजाड़ दूंगा, और इस नगर के रहनेवालों पर ताली बजवाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे ॥

७ हाय मुझ पर! क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूपकाल के फल तोड़ने पर, वा रही हुई दाख बीनने के समय के अन्त में आ जाए, मुझे तो पक्की अजीरों की लालसा थी, परन्तु खाने के लिये कोई गुच्छा नहीं रहा। २ भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा; वे सब के सब हत्या के लिये घात लगाते, और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहर करते हैं। ३ वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं; हाकिम घूस मांगता, और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है; इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। ४ उन में से जो सब से उत्तम है, वह कटीली भाडी के समान दुःखदाई है, जो सब से सीधा है, वह काँटेवाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरेओं का कहा हुआ दिन, अर्थात् तेरे दण्ड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंघिया जाएंगे। ५ मित्र पर विश्वास मत करो, परममित्र पर भी भरोसा मत रखो; वरन अपनी अर्द्धांगिन * से भी संभलकर बोलना। ६ क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता, और बेटा माता

* मूल में—अपनी गोद में सोनेवासी।

के, और पतोह सास के विरुद्ध उठती हैं; मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। ७ परन्तु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोहता रहूंगा; मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा ॥

८ हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनन्द मत कर; क्योंकि ज्योंही मैं गिरूंगा त्योंही उठूंगा; और ज्योंही मैं अन्धकार में पड़ूंगा त्योंही यहोवा मेरे लिये ज्योति का काम देगा। ९ मैं ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकद्दमा लडकर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा, और मैं उसका धर्म देखूंगा। १० तब मेरी बैरिन जो मुझ से यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहां रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा; तब वह सड़कों की कीच की नाई लताडी जाएगी ॥

११ तेरे बाड़ों के बान्धने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। १२ उस दिन अशूर से, और मिस्र के नगरों से, और मिस्र और महानद के बीच के, और समुद्र-समुद्र और पहाड़-पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। १३ तौमी यह देश अपने रहनेवालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा ॥

१४ तू लाठी लिये हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात् अपने निज भाग की

भेड़-बकरियों की, जो कम्मेल * के बन में भ्रमण बँटती हैं; वे पूर्वकाल की नाई बाशान और गिलाद में चरा करें ॥

१५ जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, बैसी ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। १६ अन्य-जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी; वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगी, और उनके कान बहिरे हो जाएंगे। १७ वे सर्प की नाई मिट्टी चाटेंगी, और भूमि पर रेंगनेवाले जन्तुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेंगी; वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी, और वे तुझ से डरेंगी ॥

१८ तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अघर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुएों के अपराध को ढांप दे? वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। १९ वह फिर हम पर दया करेगा, और हमारे अघर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहिरें समुद्र में डाल देगा। २० तू याकूब के विषय में वह सच्चाई, और इब्राहीम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिस की शपथ तू प्राचीनकाल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है ॥

* मूल में—कम्मेल के बीच।

नहम

१ नीनवे के विषय में भारी वचन ।
एल्कोशी नहम के दर्शन की पुस्तक ॥

२ यहोवा जल उठनेवाला और बदला लेनेवाला ईश्वर है; यहोवा बदला लेनेवाला और जलजलाहट करनेवाला है; यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है, और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता * । ३ यहोवा विलम्ब से क्रोध करनेवाला और बड़ा शक्तिमान है; वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा ॥

यहोवा बबडर और आंधी में होकर चलता है, और बादल उसके पांवों की धूल है । ४ उसके घुडकने से महानद सूख जाते हैं, और समुद्र भी निर्जल हो जाता है; बाशान और कर्मल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है । ५ उसके स्पर्श से पहाड़ काँप उठते हैं और पहाड़ियाँ गल जाती हैं; उसके प्रताप से पृथ्वी बरन सारा संसार अपने सब रहने-वालों समेत धरधरा उठता है ॥

६ उसके क्रोध का साम्हना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भडकता है, तब कौन ठहर सकता है? उसकी जल-जलाहट आग की नाईं भडक जाती है, और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फटकर गिरती हैं । ७ यहोवा भला है; संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है, और अपने शरणागतों की सुधी रखता है । ८ परन्तु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अन्त

* मूल में—अपने शत्रुओं के लिये रख जोड़ता है ।

कर देगा, और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अन्धकार में भगा देगा । ९ तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अन्त कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी । १० क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों, और मदिरा के नशे में चूर भी हों *, तौभी वे सूखी खूटी की नाईं भस्म किए जाएंगे । ११ तुम में से एक निकला है, जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बान्धता है ॥

१२ यहोवा यों कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो, और बहुत भी हों, तौभी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे । मैं न तुम्हें दुःख दिया है, परन्तु फिर न दूंगा । १३ क्योंकि अब मैं उसका जूआ तेरी गर्दन पर से उतारकर तोड़ डालूंगा, और तेरा बन्धन फाड़ डालूंगा ॥

१४ यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है कि आगे को तेरा बंश न चले; मैं तेरे देवालियों में से ढली और गढ़ी हुई मूरतों को काट डालूंगा, मैं तेरे लिये कबर खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है ॥

१५ देखो, पहाड़ों पर शुभसमाचार का सुनानेवाला और शान्ति का प्रचार करनेवाला आ रहा है ! अब हे यहूदा, अपने पर्व मान, और अपनी मन्त्रों पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा, वह पूरी रीति से नाश हुआ है ॥

* मूल में—अपने पीने में खूब मस्त हों ।

२ सत्यानाश करनेवाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गड़ को दूढ़ कर; मार्ग देखता हुआ चौकस रह; अपनी कमर कस; अपना बल बढ़ा दे ॥

२ यहोवा याकूब की बड़ाई इलाएल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़नेवालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों को नाश किया है ॥

३ उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गईं, और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहिने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा भाग की नाई चमकता है, और भाले* हिलाए जाते हैं। ४ रथ सड़कों में बहुत बेग से हांके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं; वे पलीतों के समान दिखाई देते हैं, और उनका बेग बिजली का सा है। ५ वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है; वे चलते चलते ठोकर खाते हैं, वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं, और काठ का गुम्मत तैयार किया जाता है। ६ नहरों के द्वार खुल जाते हैं, और राजभवन गलकर बंटा जाता है। ७ हुसेब नगी करके बंधु-भ्राई में ले ली जाएगी, और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिराडुकों की नाई विलाप करेंगी। ८ नीनवे जब से बनी है, तब से तालाब के समान है, तभी वे भागे जाते हैं, और "खड़े हो; खड़े हो", ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं फेरता। ९ चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत, और विभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं ॥

* मूल में—सनौवर।

१० वह खाली, खूँची और सूनी हो गई है! मन कच्चा हो गया, और पांव कांपते हैं; और उन सभी की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी, और सभी के मुख का रंग उड़ गया है! ११ सिंहीं की वह मांव, और जवान सिंह के ब्राखेट का वह स्थान कहां रहा जिस में सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे? १२ सिंह तो अपने डांवरुओं के लिये बहुत आहरेर को फाड़ता था, और अपनी सिंहनियों के लिये आहरेर का गला घोट घोटकर ले जाता था, और अपनी गुफाओं और मांवीं को आहरेर से भर लेता था ॥

१३ सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं, और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा, और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे; मैं तेरे आहरेर को पृथ्वी पर से नाश करूंगा, और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा ॥

३ हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के घन से भरी हुई है; लूट कम नहीं होती है। २ कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है; घोड़े कूदते-फांदते और रथ उछलते चलते हैं। ३ सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली की नाई चमकते हैं, मारे हुए लोगों की बहुतायत और लोभों का बड़ा ढेर है; मुदों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुदों से ठोकर खा खाकर चलते हैं! ४ यह सब उस प्रति सुन्दर बेश्या, और निपुण टोनहिन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति-जाति के लोगों को, और टोने के द्वारा कुल-कुल के लोगों को बेच डालती है ॥

५ सेनाओं के यहोबा की यह बाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और तेरे वस्त्र को उठाकर, तुझे जाति-जाति के साम्हने नंगी और राज्य-राज्य के साम्हने नीचा दिखाऊंगा। ६ मैं तुझ पर घिनीनी वस्तुएं फेंककर तुझे तुच्छ कर दूंगा, और सब से तेरी हंसी कराऊंगा। ७ और जितने तुझे देखेंगे, सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, नीनबे नाश हो गई; कौन उसके कारण विलाप करे? हम उसके लिये शान्ति देनेवाला कहां से बूढ़कर ले आएँ? ८ क्या तू अमोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी, और उसके चारों ओर जल था, और महानद उसके लिये किला और शहरपनाह का काम देता था? ९ कूश और मिर्सी उसको अनगिनत बल देते थे, पूत और लूबी तेरे सहायक थे ॥

१० तीभी लोग उसको बंधुआई में ले गए, और उसके नन्हें बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए; और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिये उन्होंने ने चिट्ठी डाली, और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। ११ तू भी मतवाली होगी, तू घबरा * जाएगी; तू भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूँढ़ेगी। १२ तेरे सब गढ़ ऐसे झंजीर के बूधों के समान होंगे जिन में पहिले पक्के झंजीर लगे हों, यदि वे हिलाए जाएं तो फल खानेवाले के मुँह में गिरेंगे। १३ देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वे

* मूल में—झिप।

स्त्रियां बन गये हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिये बिलकुल खुले पड़े हैं; और रुकावट की छड़ें भाग के कौर हो गई हैं ॥

१४ घिर जाने के दिनों के लिये पानी भर ले, और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर; कीचड़ में झाकर गारा लताड़, और मट्टे को सजा! १५ वहां तू भाग में भस्म होगी, और तलवार से तू नाश हो जाएगी। वह येलेक नाम टिड्डी की नाईं तुझे निगल जाएगी ॥

यद्यपि तू अबें नाम टिड्डी के समान अनगिनती भी हो जाए! १६ तेरे ब्योपारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए। टिड्डी चट करके उड़ जाती है। १७ तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान; और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परन्तु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं; और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए ॥

१८ हे अशूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊंचते हैं; तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर-बितर हो गई हैं, और कोई उनको फिर इकट्ठे नहीं करता। १९ तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे, वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे। क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो?

हबक्कूक

१ भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया ।।

२ हे यहीवा मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा, और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख "उपद्रव", "उपद्रव", चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? ३ तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे साम्हने लूट-पाट और उपद्रव होते रहते हैं; और भगड़ा हुआ करता है और वादविवाद बढ़ता जाता है। ४ इसलिये व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रगट होता। दुष्ट लोग घर्मी को घेर लेते हैं; सो न्याय का खून हो रहा है ।।

५ अन्यायकारियों की और चित्त लगाकर देखो, और बहुत ही चकित हो। क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुम को बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। ६ देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ, वे क्रूर और उतावली करनेवाली जाति हैं, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिये पृथ्वी भर में फैल गए हैं। ७ वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। ८ उनके घोड़े चीतों से भी अधिक बेग चलनेवाले हैं, और सांभ को आह्वे करनेवाले हुंकारों से भी अधिक क्रूर हैं; उनके सवार दूर दूर कूदते-फाँदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं; और आह्वे पर झपटनेवाले

उकाब की नाई झपट्टा मारते हैं। ९ वे सब के सब उपद्रव करने के लिये आते हैं; साम्हने की और मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं, और बंधुओं को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। १० राजाओं को वे ठट्टों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं; वे सब दूढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बान्धकर* उनको जीत लेते हैं। ११ तब वे वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है ।।

१२ हे मेरे प्रभु यहीवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहीवा, तू ने उनको न्याय करने के लिये ठहराया है; हे चट्टान, तू ने उलाहना देने के लिये उनको बैठाया है। १३ तेरी आँखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता; फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है, तब तू क्यों चुप रहता है? १४ तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रंगेवाले जन्तुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करनेवाला नहीं है। १५ वह उन सब मनुष्यों को बन्ती से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल

* मूल में—धूलि का ढेर लगाकर।

में फंसा लेता है; इस कारण वह भ्रान्तिगत और मगन है। १६ इसीलिये वह अपने जाल के साम्हने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है; क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता, और उसका भोजन चिकना होता है। १७ परन्तु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेगा ?

२ मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा, और गुम्मत पर चढ़कर ठहरा रहूँगा, और ताकत रहूँगा कि मुझ से वह क्या कहेगा ? और मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूँ ? २ यहोवा ने मुझ से कहा, दर्शन की बातें लिख दे; वरन पटियाओं पर साफ़ साफ़ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए *। ३ क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होनेवाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता † है; इस में धोखा न होगा। चाहे इस में विलम्ब भी हो, तौभी उसकी बाट जोहते रहना; क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी ‡ और उस में देर न होगी। ४ देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है; परन्तु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ५ दाखमधु से धोखा होता है; अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु की नाई उसका पेट

* मूल में—जिस से उसका पदानेवाला दौड़े।

† मूल में—वरन वह अन्त की ओर हाँफती है।

‡ मूल में—निश्चय आयेगी।

नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खीच लेता, और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है ॥

६ क्या वे सब उसका दृष्टान्त चलाकर, और उस पर ताना मारकर न कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन छीन छीनकर धनवान हो जाता है ? कब तक ? हाय उस पर जो अपना घर बन्धक की वस्तुओं से भर लेता है। ७ जो तुझ से कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक न उठेंगे ? और क्या वे न जागेंगे जो तुझ को संकट में डालेंगे ? ८ और क्या तू उन से लूटा न जाएगा ? तू ने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, सी सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है, और वह उपद्रव भी जो तू ने इस देश और राजधानी और इसके सब रहनेवालों पर किया है ॥

९ हाय उस पर, जो अपने घर के लिये अन्याय के लाभ का लोभी है ताकि वह अपना घोंसला ऊँचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। १० तू ने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर लिये लज्जा की युक्ति बान्धी, और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है। ११ क्योंकि घर की भीत का पत्थर दोहाई देता है, और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है ॥

१२ हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता, और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। १३ देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश-देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परन्तु वे भाग का कौर होते हैं; और राज्य-राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है ? १४ क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के

ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है * ॥

१५ हाय उस पर, जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता, और उस में विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे । १६ तू महिमा की सन्ती अपमान ही से भर गया है । तू भी पी, और अपने को खतनाहीन प्रगट कर ! जो कटोरा यहोवा के दहिने हाथ में रहता है, सो धूमकर तेरी और भी जाएगा, और तेरा विभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा । १७ क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिन से वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेंगे । यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा, जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहनेवालों पर किया गया है ॥

१८ खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनानेवाले ने उसे खोदा है ? फिर झूठ सिखानेवाली और बली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालनेवाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि न बोलनेवाली और निकम्मी मूरत बनाए ? १९ हाय उस पर जो काठ से कहता है, जाग, वा अबोल पत्थर से, उठ ! क्या वह सिखाएगा ? देखो, वह सोने चान्दी में मड़ा हुआ है, परन्तु उस में आत्मा नहीं है ॥

२० परन्तु यहोवा अपने पवित्र मन्दिर में है ; समस्त पृथ्वी उसके साम्हने शान्त रहे ॥

शु शिग्योनीत की रीति पर हवक्कूक नबी की प्रार्थना ॥

२ हे यहोवा, मे तेरी कीर्ति सुनकर डर गया ।

* मूल में—जैसे जल समुद्र को ढांपता है ।

हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर ;

इसी युग में तू उसको प्रकट कर ; क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर ॥

३ ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है ।

उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है ॥ (बेछा)

४ उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थीं ; और इन में उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था ।

५ उसके आगे आगे मरी फैलती गई, और उसके पांवों से महाज्वर निकलता गया ।

६ वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था ; उस ने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए ;

तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए, और सनातन की पहाड़ियां झुक गईं । उसकी गति अनन्त काल से एक सी है ।

७ मुझे कृशान के तम्बू में रहनेवाले दुःख से दबे दिखाई पड़े ;

और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए ।

८ हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था ?

क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था,

अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी,

- जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करनेवाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था ?
- ६ तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दण्ड का बचन शपथ के साथ हुआ था । (बेष्ठा)
- तू ने धरती को नदियों से चीर डाला ।
- १० पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे; आंधी और जलप्रलय निकल गए; गहिरी सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात् लहरों को ऊपर उठाया ।
- ११ तेरे उड़नेवाले तीरों के चलने की ज्योति से, और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चन्द्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए ॥
- १२ तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला, तू ने जाति जाति को क्रोध से नाश किया ।
- १३ तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिये निकला, हां, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिये निकला । तू ने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके उसे गले से नेब तक नंगा कर दिया । (बेष्ठा)
- १४ तू ने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है, वे मुझ को तितर-बितर करने के लिये बवंडर की आंधी की नाईं आए,
- और दिन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनन्दित थे ।
- १५ तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से हां, जलप्रलय से पार हो गया ॥
- १६ यह सब सुनते ही मेरा कलेजा काप उठा, मेरे घ्रोंठ थरथराने लगे; मेरी हड्डियां सड़ने लगी, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा । मैं शान्ति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे ॥
- १७ क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें, और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़-बकरियां न रहें, और न धानों में गाय बेल हों,
- १८ तौभी मैं यहोवा के कारण आनन्दित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रति प्रसन्न रहूंगा ॥
- १९ यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझ को मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है ॥
- (प्रधान पत्थानेवालों के लिये मेरे नारवाले बाणों के साथ ।)

सपन्याह

१ आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशियाह के दिनों में, सपन्याह के पास जो हिजकियाह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कृषी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा :

२ मैं धरती के ऊपर से सब का अन्त कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। ३ मैं मनुष्य और पशु दोनों का अन्त कर दूंगा; मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का, और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकड़ों के कारण का भी अन्त कर दूंगा; मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। ४ मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहनेवालों पर हाथ उठाऊंगा, और इस स्थान में बाल के बच्चे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। ५ जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दण्डवत् करते हैं, और जो लोग दण्डवत् करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं; ६ और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने न तो यहोवा को बूँडा, और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा ॥

७ परमेश्वर यहोवा के साम्हने शान्त रहो! क्योंकि यहोवा का दिन निकट है; यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। ८ और यहोवा के यज्ञ के दिन, मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र

पहिना करते हैं, उनको भी दण्ड दूंगा। ९ उस दिन मैं उन सबों को दण्ड दूंगा जो डेवड़ी को लांघते, और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं ॥

१० यहोवा की यह वाणी है, कि उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का, और नये टोले मिशनाह में हाहाकार का, और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। ११ हे मन्तेश के रहनेवालो, हाय, हाय, करो! क्योंकि सब व्योपारी मिट गए; जितने चान्दी से लदे थे, उन सब का नाश हो गया है। १२ उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में दूढ़-डाँढ़ करूंगा, और जो लोग दाखमधु के तलछट तथा मूल के समान बंटे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दण्ड दूंगा। १३ तब उनकी घन सम्पत्ति लूटी जाएगी, और उनके घर उजाड़ होंगे; वे घर तो बनाएंगे, परन्तु उन में रहने न पाएंगे; और वे दाख की बारियां लगाएंगे, परन्तु उन से दाखमधु न पीने पाएंगे ॥

१४ यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है; यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुःख के मारे चिल्लाता है। १५ वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उभेड़ का दिन, वह अन्धेर और घोर अन्धकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। १६ वह गढ़वाले नगरों और ऊँचे गुम्बदों के विरुद्ध नरसिंहा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। १७ मैं मनुष्यों को संकट

में डालूंगा, और वे अन्धों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने येहोवा के विरुद्ध पाप किया है; उनका लोह धूल के समान, और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक * दिया जाएगा। १८ येहोवा के रोष के दिन में, न तो चान्दी से उनका बचाव होगा, और न सोने से; क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी † भस्म हो जाएगी; वह पृथ्वी के सारे रहनेवालों को घबराकर उनका अन्त कर डालेगा ॥

२ हे निर्लज्ज जाति के लोगो, इकट्ठे हो! २ इस से पहिले कि दण्ड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी की नाई निकले, और येहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और येहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। ३ हे पृथ्वी के सब नम्र लोगो, हे येहोवा के नियम के माननेवालो, उसको दूबते रहो; धर्म को दूढो, नम्रता को दूढो; सम्भव है तुम येहोवा के क्रोध के दिन में शरणा पाओ। ४ क्योंकि अज्जा तो निर्जन और अशकलोन उजाड़ हो जाएगा; अशदोद के निवासी दिनदुपहरी निकाल दिए जाएंगे, और एक्रोन ‡ उखाड़ा जाएगा ॥

५ समुद्रतीर के रहनेवालों पर हाय; करेती जाति पर हाय; हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, येहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है; और मैं तुम्ह को ऐसा नाश करूंगा कि तुम्ह में कोई न बचेगा। ६ और उसी समुद्रतीर पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी। ७ अर्थात् वही समुद्रतीर यहूदा के घराने के बचे

हुओं को मिलेगी, वे उस पर चराएंगे; वे अशकलोन के छोड़े हुए घरों में सांभू को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर येहोवा उनकी सुधि लेकर उनके बंधुओं को लौटा ले जाएगा ॥

८ मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम-घराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निन्दा करके उसके देश की सीमा पर बढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। ९ इस कारण इस्राएल के परमेश्वर, सेनाओं के येहोवा की यह वारणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान, और अम्मोनी अमोरा की नाई विच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे, और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे *, और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। १० यह उनके गर्ब का पलटा होगा, क्योंकि उन्होंने ने सेनाओं के येहोवा की प्रजा की नामघराई की, और उस पर बढ़ाई मारी है। ११ येहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा, और अन्यजातियों के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दण्डवत् करेंगे ॥

१२ हे कूशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। १३ वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अश्शूर को नाश करेगा, और नीनवे को उजाड़ कर जंगल के समान निर्जल कर देगा। १४ उसके बीच में सब जाति के वनपशु भुंड के भुंड बंटेंगे; उसके खम्भों की कंगनियों पर घनेश और साही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में

* मूल में—उपडेल। † वा देश।

‡ एक्रोन शब्द का अर्थ उखाड़ है।

* मूल में—अपना लेंगे।

बोला करेंगे; उसकी डेबड़ियां सूनी पडी रहेंगी, और देवदार की लकड़ी उधारी जाएगी। १५ यह वही नगरी है, जो मगन रहती और निडर बैठी रहती थी, और सोचती थी कि मैं ही हूँ, और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। परन्तु अब यह उजाड़ और वनपशुओं के बैठने का स्थान बन गया है, यहां तक कि जो कोई इसके पास होकर चले, वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा ॥

३ हाथ बलवा करनेवाली और अशुद्ध और अन्धेर से भरी हुई नगरी !
२ उस ने मेरी नहीं सुनी, उस ने ताड़ना से भी नहीं माना, उस ने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई ॥

३ उसके हाकिम गरजनेवाले सिंह ठहरे; उसके न्यायी सांभ को आहिर करनेवाले हुंडार है जो बिहान के लिये कुछ नहीं छोड़ते। ४ उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकनेवाले और विश्वासघाती हैं, उसके याजकों ने पवित्रस्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खीच-खांच की है। ५ यहोवा जो उसके बीच में है, वह धर्मी है, वह कुटिलता न करेगा; वह अपना न्याय प्रति भोर प्रगट करता है और चूकता नहीं; परन्तु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। ६ मैं ने अन्य-जातियों को यहां तक नाश किया, कि उनके कोनेवाले गुम्मत उजड़ गए; मैं ने उनकी सड़कों को यहां तक सूनी किया, कि कोई उन पर नहीं चलता; उनके नगर यहां तक नाश हुए कि उन में कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी * नहीं रहा।

* मूल में—रहनेवाला।

७ मैं ने कहा, अब तू मेरा भय मानेगी, और मेरी ताड़ना भ्रंगीकार करेगी जिस से उसका घाम उस सब के अनुसार जो मैं ने ठहराया था, नाश न हो। परन्तु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से * करने लगे ॥

८ इस कारण यहोवा की यह बाणी है, कि जब तक मैं नाश करने को न उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैं ने यह ठाना है कि जाति-जाति के और राज्य-राज्य के लोगों को मैं दकट्टा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊ; क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी ॥

९ और उस समय मैं देश-देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें, और एक मन † से कन्धे से कन्धा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। १० मेरी तितर-बितर की हुई प्रजा ‡ मुझ से बिनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी ॥

११ उस दिन, तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से, जिन्हें करके तू मुझ से फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमण्डियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी। १२ क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। १३ इस्लाम के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी §। वे चरेंगे और विश्राम

* मूल में—तबके उठकर।

† मूल में—एक कन्धे या पीठ में।

‡ मूल में—किप दुष्मों की बेटी।

§ मूल में—झुंझ से झली जीम पाई जाएगी।

करेंगे, और कोई उनको डरानेवाला न होगा ॥

१४ हे सिय्योन *, ऊंचे स्वर से गा; हे इस्राएल, जयजयकार कर ! हे यरूशलेम † अपने सम्पूर्ण मन से आनन्द कर, और प्रसन्न हो ! १५ यहोवा ने तेरा दण्ड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है । इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिये तू फिर विपत्ति न भोगेगी । १६ उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाएँ । १७ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है; वह तेरे कारण आनन्द से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा; फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा ॥

१८ जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको

* मूल में—सिय्योन की बेटी ।

† मूल में—यरूशलेम की बेटी ।

में इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं; और उसकी नामघराई उनको बोझ जान पड़ती है । १९ उस समय मैं उन सभी से जो तुम्हें दुःख देते हैं, उचित बताव करूंगा । और मैं लंगड़ों * को चंगा करूंगा, और बरबस निकाले † हुआओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा ‡ । २० उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा; और जब मैं तुम्हारे साम्हने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला § दूंगा, यहोवा का यही वचन है ॥

* मूल में—लंगड़ानेवाली ।

† मूल में—निकाली हुई ।

‡ मूल में—उनकी प्रशंसा और कीर्ति ठहराऊंगा ।

§ मूल में—तुम को कीर्ति और प्रशंसा ठहराऊंगा ।

हाग्वै

१ दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें महीने के पहिले दिन, यहोवा का यह वचन, हाग्वै भविष्यद्वक्ता के द्वारा, शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा : २ सेनाओं का यहोवा यों

कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है । ३ फिर यहोवा का यह वचन हाग्वै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, ४ क्या तुम्हारे लिये अपने छतवाले घरों में रहने का समय है, जब कि यह भवन उजाड़ पड़ा है ? ५ इसलिये अब सेनाओं

का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल-चलन पर ध्यान करो। ६ तुम ने बहुत बोया परन्तु थोड़ा काटा; तुम खाते हो, परन्तु पेट नहीं भरता; तुम पीते हो, परन्तु प्यास नहीं बुझती; तुम कपडे पहिनते हो, परन्तु गरमाते नहीं; और जो मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेदवाली थैली में रखता है ॥

७ सेनाओं का यहोवा तुम से यों कहता है, अपने अपने चालचलन पर सोचो। ८ पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ; और मैं उसको देखकर प्रसन्न हूंगा, और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। ९ तुम ने बहुत उपज की आशा रखी, परन्तु देखो थोड़ी ही है; और जब तुम उसे घर ले आए, तब मैं ने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिये नहीं, कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम मे से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? १० इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बन्द है। ११ और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर, और अन्न और नये दाख-मधु पर और ताजे तेल पर, और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर, और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है ॥

१२ तब शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी; और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उन से कहने के लिये हाग्नौ भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने ने मान लिया; और लोगों ने यहोवा

का भय माना। १३ तब यहोवा के दूत हाग्नौ ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। १४ और यहोवा ने शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल को जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। १५ यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें महीने के चौबीसवें दिन हुआ ॥

२ फिर सातवें महीने के इक्कीसवें दिन को यहोवा का यह वचन हाग्नौ भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, २ शालतीएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, ३ तुम मे से कौन है, जिस ने इस भवन की पहिली महिमा देखी है? अब तुम इसे कंसी दशा मे देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि मे उस पहिले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? ४ तौभी, अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हियाव बान्ध; और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाव बान्ध; और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगो हियाव बान्धकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। ५ तुम्हारे मिल्न से निकलने के समय जो वाचा मैं ने तुम से बान्धी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है; इसलिये तुम मत डरो। ६ क्योंकि सेनाओं का यहोवा

यों कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सब को कम्पित करूँगा। ७ और मैं सारी जातियों को कम्पकपाऊँगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी; और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूँगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ८ चान्दी तो मेरी है, और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वारणी है। ९ इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहिली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शान्ति दूँगा, सेनाओं के यहोवा की यही वारणी है।।

१० दारा के दूसरे वर्ष के नौवें महीने के चौबीसवें दिन को, यहोवा का यह वचन हाग्य भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, ११ सेनाओं का यहोवा यों कहता है: याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, १२ यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बान्धकर, उसी आंचल से रोटी वा पकाए हुए भोजन वा दाखमधु वा तेल वा किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। १३ फिर हाग्य ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छुए, तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हां, अशुद्ध ठहरेगी। १४ फिर हाग्य ने कहा, यहोवा की यही वारणी है, कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, और इनके सब काम भी वैसे हैं; और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं, वह भी अशुद्ध है; १५ अब सोच-विचार करो कि आज से

पहिले अर्थात् जब यहोवा के मन्दिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, १६ उन दिनों में जब कोई अन्न के बीस नपुओं की आशा से जाता, तब दस ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुण्ड के पास इस आशा से जाता कि पचास बर्तन भर निकालें, तब बीस ही निकलते थे। १७ मैं ने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई और ओलों से मारा, तौभी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वारणी है। १८ अब सोच-विचार करो, कि आज से पहिले अर्थात् जिस दिन यहोवा के मन्दिर की नेब डाली गई, उस दिन से लेकर नौवें महीने के इसी चौबीसवें दिन तक क्या दशा थी? इसका सोच-विचार करो। १९ क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परन्तु आज के दिन से मैं तुम को आशीष देता रहूँगा।।

२० उसी महीने के चौबीसवें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हाग्य के पास पहुंचा, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यों कह: २१ मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कम्पाऊँगा, २२ और मैं राज्य-राज्य की गद्दी को उलट दूँगा; मैं अन्य-जातियों के राज्य-राज्य का बल तोड़ूँगा, और रथों को चढ़वैयों समेत उलट दूँगा; और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। २३ सेनाओं के यहोवा की यह वारणी है, उस दिन, हे शालतीएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुम्हें लेकर अंगूठी के समान रखूँगा, यहोवा की यही वारणी है; क्योंकि मैं ने तुम्हें को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वारणी है।।

जकर्याह

१ दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के आठवें महीने में जकर्याह भविष्यद्वक्ता के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इदो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा : २ यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। ३ इसलिये तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है : तुम मेरी और फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी और फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ४ अपने पुरखाओं के समान न बनो, उन से तो अगले भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकारकर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने बुरे मार्गों से, और अपने बुरे कामों से फिरो, परन्तु उन्होंने न तो सुना, और न मेरी और ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है। ५ तुम्हारे पुरखा कहां रहे? और भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? ६ परन्तु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएँ जिन को मैं ने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई *? तब उन्होंने न मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चालचलन और कामों के अनुसार हम से जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उस ने हम को बदला दिया है ॥

७ दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम ग्यारहवें महीने के चौबीसवें दिन को

* मूल में—उन्होंने ने तुम्हारे पुरखाओं को न जा लिया।

जकर्याह नबी के पास जो बेरेक्याह का पुत्र और इदो का पोता था, यहोवा का वचन यों पहुंचा : ८ मैं ने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में हैं, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। ९ तब मैं ने कहा, हे मेरे प्रभु ये कौन है? तब जो दूत मुझ से बातें करता था, उस ने मुझ से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कौन है। १० फिर जो पुरुष मेहदियों के बीच खड़ा था, उस ने कहा, यह वे हैं जिन को यहोवा ने पृथ्वी पर सँर अर्थात् घूमने के लिये भेजा है। ११ तब उन्होंने ने यहोवा के उस दूत से जो मेहदियों के बीच खड़ा था, कहा, हम ने पृथ्वी पर सँर किया है, और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शान्ति और चैन है। १२ तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर सत्तर वर्ष से क्रोधित है, सो तू उन पर कब तक दया न करेगा? १३ और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझ से बातें करता था, अच्छी अच्छी और शान्ति की बातें कही। १४ तब जो दूत मुझ से बातें करता था, उस ने मुझ से कहा, तू पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिये बड़ी जलन हुई है। १५ और जो जातियाँ सुख से रहती हैं, उन से मैं क्रोधित हूँ; क्योंकि मैं ने तो थोड़ा सा क्रोध किया

था, परन्तु उन्होंने ने विपत्ति को बढ़ा दिया । १६ इस कारण यहोवा यों कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट प्राया हूँ; मेरा भवन उस में बनेगा, और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है । १७ फिर यह भी पुकारकर कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सिय्योन को शान्ति देगा; और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा ॥

१८ फिर मैं ने जो आँखें उठाई, तो क्या देखा कि चार सींग हैं । १९ तब जो दूत मुझ से बातें करता था, उस से मैं ने पूछा, ये क्या हैं? उस ने मुझ से कहा, ये वे ही सींग हैं, जिन्होंने ने यहूदा और इस्राएल और यरूशेयम को तितर-बितर किया है । २० फिर यहोवा ने मुझे चार लोहार दिखाए । २१ तब मैं ने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उस ने कहा, ये वे ही सींग हैं, जिन्होंने ने यहूदा को ऐसा तितर-बितर किया कि कोई सिर न उठा सका; परन्तु ये लोग उन्हें भगाने के लिये और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिये आए हैं जिन्होंने ने यहूदा के देश को तितर-बितर करने के लिये उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे ॥

२ फिर मैं ने आँखें उठाई तो क्या देखा, कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है । २ तब मैं ने उस से पूछा, तू कहां जाता है? उस ने मुझ से कहा, यरूशलेम को आपने को जाता हूँ कि देखूँ उसकी चौड़ाई कितनी, और लम्बाई कितनी है । ३ तब मैं ने क्या देखा, कि जो दूत मुझ से

बातें करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उस से मिलने के लिये आकर, ४ उस से कहता है, दीडकर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी * । ५ और यहोवा की यह वाणी है, कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा † ॥

६ यहोवा की यह वाणी है, देखो, सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैं ने तुम को आकाश की चारों वायुओं के समान तितर-बितर किया है । ७ हे बाबुलवाली जाति ‡ के संग रहने-वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग !

८ क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रगत होने के बाद उस ने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थीं, क्योंकि जो तुम को छूता है, वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है । ९ देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा §, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे । तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है । १० हे सिय्योन ||, ऊँचे स्वर से गा और आनन्द कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है । ११ उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी, और मेरी प्रजा हो जाएंगी; और मैं तेरे बीच में बास

* मूल में—बिना शहरपनाह के गांव होकर बसेगी ।

† मूल में—तेज दूंगा ।

‡ मूल में—बाबेल की बेटी ।

§-मूल में—द्विजाऊंगा ।

|| मूल में—सिय्योन की बेटी ।

करूंगा, १२ और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा, और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा ॥

१३ हे सब प्राणियो! यहोवा के साम्हने चुपके रहो; क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवासस्थान से निकला है ॥

३ फिर उस ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के साम्हने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। २ तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान यहोवा तुझ को घुडके! यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुडके! क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? ३ उस समय यहोशू तो दूत के साम्हने मैला वस्त्र पहिने हुए खड़ा था। ४ तब दूत ने उन से जो साम्हने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उस ने उस से कहा, देख, मैं ने तेरा अघर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुन्दर वस्त्र पहिना देता हूँ। ५ तब मैं ने कहा, इसके सिर पर एक शूद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्होंने ने उसके सिर पर याजक के योग्य शूद्ध पगड़ी रखी, और उसको वस्त्र पहिनाए; उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा ॥

६ तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, ७ सेनाओं का यहोवा तुझ से यों कहता है: यदि तू मेरे मार्गों पर चले, और जो कुछ मैं ने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा; और मैं तुझ को इनके बीच में आने जाने

दूंगा जो पास खड़े हैं। ८ हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाईबन्धु जो तेरे साम्हने खड़े हैं वे भी सुनें, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं: सुनो, मैं अपने दास शाख * को प्रगट करूंगा। ९ उस पत्थर को देख जिसे मैं ने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर सात भांखें बनी हैं, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ, और इस देश के अघर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। १० उसी दिन तुम अपने अपने भाईबन्धुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिये बुलाओगे, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है ॥

४ फिर जो दूत मुझ से बातें करता था, उस ने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नीद से जगाया जाए। २ और उस ने मुझ से पूछा, तुझे क्या देख पडता है? मैं ने कहा, एक दीबट है, जो सम्पूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चौटी पर है, और उस पर उसके सात दीपक हैं; जिन के ऊपर बत्ती के लिये सात सात नालियां हैं। ३ और दीबट के पास जलपाई के दो वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दहिनी ओर, और दूसरा उसकी बाई ओर। ४ तब मैं ने उस दूत से जो मुझ से बातें करता था, पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या हैं? ५ जो दूत मुझ से बातें करता था, उस ने मुझ को उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैं ने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। ६ तब उस ने मुझे उत्तर देकर कहा, जहम्बाबेल के लिये यहोवा का यह बचन है: न तो बल से, और न शक्ति से, परन्तु मेरे आस्था के द्वारा

* या बाली।

होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ७ हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के साम्हने तू मंदान हो जाएगा; और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह!

८ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, ९ जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नेव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। १० क्योंकि किस ने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है? यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा, और आनन्दित होगा।

११ तब मैं ने उस से फिर पूछा, ये दो जलपाई के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दहिनी-बाई और है? १२ फिर मैं ने दूसरी बार उस से पूछा, जलपाई की दोनों डालियों क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सोनहला तेल उगडेलती है? १३ उस ने मुझ से कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं? मैं ने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। १४ तब उस ने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं * जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं ॥

५ मैं ने फिर आखें उठाई तो क्या देखा, कि एक लिखा हुआ पत्र उड रहा है। २ दूत ने मुझ से पूछा, तुम्हें क्या देख पड़ता है? मैं ने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उडता हुआ देख पड़ता है, जिस की लम्बाई बीस हाथ और चौड़ाई दस हाथ

की है। ३ तब उस ने मुझ से कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पडने-वाला है *; क्योंकि जो कोई चोरी करता है, वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेल की नाई निकाल दिया जाएगा; और जो कोई शपथ खाता है, वह उसकी दूसरी और लिखे हुए के अनुसार मेल की नाई निकाल दिया जाएगा। ४ सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा † कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खानेवाले के घर में घुसकर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा ॥

५ तब जो दूत मुझ से बातें करता था, उस ने बाहर जाकर मुझ से कहा, आखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है? ६ मैं ने पूछा, वह क्या है? उस ने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। और उस ने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। ७ फिर मैं ने क्या देखा कि किक्कार भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बंठी है। ८ और दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। और उस ने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया, और शीशे के उस बटखरे को लेकर उस से एपा का मुह बाँप दिया। ९ तब मैं ने आखें उठाई, तो क्या देखा कि दो स्त्रियें चली जाती हैं जिन के पंख पवन में फँले हुए हैं, और उनके पंख लगलग के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। १० तब मैं ने उस दूत से जो मुझ से बातें करता था, पूछा, कि वे एपा को कहाँ

* मूल में—देश पर निकलता है।

† मूल में—मैं उसको निकालूँगा।

* मूल में—टटके तेल के पुत्र।

लिए जाती है? ११ उस ने कहा, शिनार देश में लिए जाती है कि वहाँ उसके लिये एक भवन बनाएं; और जब वह तैयार किया जाए, तब वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा ॥

६ मैं ने फिर आंखें उठाई, और क्या देखा कि दो पहाड़ों के बीच से चार रथ चले आते हैं; और वे पहाड़ पीतल के हैं। २ पहिले रथ मे लाल घोड़े, और दूसरे रथ मे काले, ३ तीसरे रथ मे श्वेत और चौथे रथ मे चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। ४ तब मैं ने उस दूत से जो मुझ से बाते करता था, पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? ५ दूत ने मुझ से कहा, ये आकाश के चारों वायु * है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परन्तु अब निकल आए हैं। ६ जिस रथ में काले घोड़े हैं, वह उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्खिन देश की ओर जाते हैं। ७ और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। सो दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। ८ तब उस ने मुझ से पुकारकर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं, उन्हीं ने वहाँ मेरे प्राण को ठण्डा किया है ॥

६ फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा : १० बंधुआई के लोगों मे से, हेल्दी, तोबिय्याह और यदायाह से कुछ ले और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशियाह के घर में जा जिस में वे बाबुल से आकर उतरे हैं। ११ उनके हाथ से सोना चान्दी

ले, और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख; १२ और उस से यह कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस पुरुष को देख जिस का नाम शाख * है, वह अपने ही स्थान मे उगकर यहोवा के मन्दिर को बनाएगा। १३ वही यहोवा के मन्दिर को बनाएगा, और महिमा पाएगा †, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। १४ और वे मुकुट हेलेम, तोबिय्याह, यदायाह, और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले, और वे यहोवा के मन्दिर में स्मरण के लिये बने रहें ॥

१५ फिर दूर दूर के लोग आ आकर यहोवा के मन्दिर बनाने मे सहायता करेगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी ॥

७ फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किसलेव नाम नीवे महीने के चौथे दिन को, यहोवा का वचन जकर्याह के पास पहुंचा। २ बेतेलवामियों ने शरसेर और रेगेम्मेलेक को इसलिये भेजा था कि यहोवा से बिनती करें, ३ और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिये जैसे कि कितने वर्षों से हम पांचवें महीने में करते आए हैं? ४ तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास

* या डाली।

† मूल में—उठाया।

* वा आत्मा।

पहुँचा; ५ सब साधारण लोगों से और याजकों से कह, कि जब तुम इन सत्तर वर्षों के बीच पांचवें और सातवें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिये उपवास करते थे? ६ और जब तुम खाते-पीते हो, तो क्या तुम अपने ही लिये नहीं खाते, और क्या अपने ही लिये नहीं पीते हो? ७ क्या यह वही वचन नहीं है, जो यहोवा अगले भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था, और दक्खिन देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था?

८ फिर यहोवा का यह वचन जकर्याह के पास पहुँचा, सेनाओं के यहोवा ने यों कहा है, ९ खराई से न्याय चुकाना, और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, १० न तो विषवा पर अन्धेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर, और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। ११ परन्तु उन्होंने ने चित्त लगाना न चाहा, और हठ किया, और अपने कानों को मूढ़ लिया ताकि सुन न सके। १२ वरन उन्होंने ने अपने हृदय को इसलिये बज्र सा बना लिया, कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। १३ और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ, कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने ने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूँगा; १४ वरन मैं उन्हें

उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते, आंधी के द्वारा तितर-बितर कर दूँगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उस में किसी का आना जाना न होगा; इसी प्रकार से उन्होंने ने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया।।

८ फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, २ सेनाओं का यहोवा यों कहता है: सिय्योन के लिये मुझे बड़ी जलन हुई वरन बहुत ही जल-जलाहट मुझे में उत्पन्न हुई है। ३ यहोवा यों कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ, और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत, पवित्र पर्वत कहलाएगा। ४ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण, अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठ करेगी। ५ और नगर के चौक खेलनेवाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। ६ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बच्चे हुआ की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परन्तु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है? ७ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब से और पच्छिम से ले आऊँगा; ८ और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊँगा; और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा, यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा।।

६ सेनाओं का यहोवा यों कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्य-दक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नेब डालने के समय अर्थात् मन्दिर के बनने के समय में थे। १० उन दिनों के पहिले, न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाडा, वरन सतानेवालों के कारण न तो आनेवाले को चैन मिलता था और न जानेवाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढाई करता था। ११ परन्तु अब मैं इस प्रजा के बचे हुएों से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि अगले दिनों में करता था, सेनाओं के यहोवा की यही वारणी है। १२ क्योंकि अब शान्ति के समय की उपज अर्थात् दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी, और आकाश से ओस गिरा करेगी; क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुएों को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। १३ और हे यहूदा के घराने, और इस्त्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्यजातियों के बीच शाप के कारण थे उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिये तुम मत डरो, और न तुम्हारे हाथ ढीले पडने पाएं ॥

१४ क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैं ने उनकी हानि करने के लिये ठान लिया था और फिर न पछताया, १५ उसी प्रकार मैं ने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठाना है; इसलिये तुम मत डरो। १६ जो जो काम तुम्हें करना चाहिये, वे ये हैं : एक दूसरे के साथ सत्य

बोला करना, अपनी कचहरियों* में सच्चाई का और मेलमिलाप की नीति का न्याय करना, १७ और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ, यहोवा की यही वारणी है ॥

१८ फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, १९ सेनाओं का यहोवा यों कहता है : चौथे, पांचवें, सातवें और दसवें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिये हर्ष और आनन्द और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे; इसलिये अब तुम सच्चाई और मेलमिलाप से प्रीति रखो ॥

२० सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ऐसा समय आनेवाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहनेवाले आएंगे। २१ और एक नगर के रहनेवाले दूसरे नगर के रहनेवालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से बिनती करने और सेनाओं के यहोवा को दूढ़ने के लिये चलो; मैं भी चलूंगा। २२ बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को दूढ़ने और यहोवा से बिनती करने के लिये आएंगे। २३ सेनाओं का यहोवा यों कहता है : उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलनेवाली सब जातियों में से दस मनुष्य, एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड लेंगे, कि, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हम ने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है ॥

* मूल में—फाटकों।

६ हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा * । क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की, और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है; २ हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सीदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान् हैं। ३ सोर ने अपने लिये एक गढ़ बनाया, और धूलि के किनकों की नाई चान्दी, और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। ४ देखो, परमेश्वर उसको औरों के अधिकार में कर देगा, और उसके घमण्ड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा; और वह नगर त्राग का कौर हो जाएगा ॥

५ यह देखकर अश्कलोन डरेगा; अज्जा को दुख होगा, और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी; और अज्जा में फिर राजा न रहेगा और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। ६ और अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे; इसी प्रकार में पलिश्तियों के गर्ब को तोड़गा। ७ में उसके मुह में से आहरे का लोह और घिनौनी वस्तुएं † निकाल दूंगा, तब उन में से जो बचा रहेगा, वह हमारे परमेश्वर का जन ‡ होगा, और यहूदा में अधिपति सा होगा; और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। ८ तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आस पास छावनी किए रहूंगा, और कोई सतानेवाला फिर उनके पास से

* मूल में—दमिश्क उसका विश्रामस्थान।

† मूल में—और उसके दांतों के बीच से उसकी घिनौनी वस्तुएं।

‡ मूल में—सिब्योन की बेटी।

होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ ॥

६ हे सिब्योन * बहुत ही मगन हो!

हे यरूशलेम † जयजयकार कर! क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा; वह धर्म और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। १० में एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा; और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य-जातियों से शान्ति की बातें कहेगा; वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा ॥

११ और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लोह के कारण, मैं ने तेरे बन्दियों को बिना जल के गड़हे में से उबार लिया है। १२ हे आशा धरे हुए बन्दियों! गढ़ की ओर फिरो; मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुम को बदले में दूना सुख दूंगा। १३ क्योंकि मैं ने धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर की नाई एप्रैम को लगाया है। मैं सिब्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा, और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। १४ तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा; और परमेश्वर यहोवा नरसिगा फूँकर दक्षिण देश की सी आधी में होके चलेगा। १५ सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव धरेंगे; और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाखमघु पीकर करते हैं;

* मूल में—सिब्योन की बेटी।

† मूल में—यरूशलेम की बेटी।

श्रीर वे कटोरे की नाई वा बेदी के कोने की नाई भरे जाएंगे ॥

१६ उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजाकूपी भेड़-बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा; श्रीर वे मुकुटमणि ठहरके, उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। १७ उसका क्या ही कुशल, श्रीर क्या ही शोभा उसकी होगी! उसके जवान लोग भ्रम्र खाकर, श्रीर कुमारियां नया दाखमधु पीकर हूष्टपुष्ट हो जाएगी ॥

१० बरसात के अन्त में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, श्रीर वह उनको वर्षा देगा श्रीर हर एक के खेत में हरियाली उप-जाएगा। २ क्योंकि गृहदेवता अनर्थ बात कहते श्रीर भावी कहनेवाले भूठा दर्शन देखते श्रीर भूठे स्वप्न सुनाते, श्रीर व्यर्थ शान्ति देते हैं। इस कारण लोग भेड़-बकरियों की नाई भटक गए; श्रीर चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं ॥

३ मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है, श्रीर मैं उन बकरों को दराड दूंगा; क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने भुराड अर्थात् यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा, श्रीर लड़ाई में उनको अपना हूष्टपुष्ट घोडा सा बनाएगा। ४ उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रगट होंगे। ५ श्रीर वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच की नाई रौंदते हों; वे लड़ेंगे, क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे श्रीर सबारों की आशा टूटेगी ॥

६ मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा, श्रीर यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। श्रीर मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्ही के देश में बसाऊंगा, श्रीर वे ऐसे होंगे, मानो मैं ने उनको मन से नहीं उतारा; मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिये उनकी सुन लूंगा। ७ एप्रमी लोग वीर के समान होंगे, श्रीर उनका मन ऐसा आनन्दित होगा जैसे दाखमधु से होता है। यह देखकर उनके लडकेवाले आनन्द करेंगे श्रीर उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा ॥

८ मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ानेवाला हूँ, श्रीर वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहिले बढ़े थे। ९ यद्यपि मैं उन्हें जाति-जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा * तौभी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे, श्रीर अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। १० मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा, श्रीर अशूर से इकट्ठा करूंगा, श्रीर गिलाद श्रीर लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहा उनकी समाई न होगी। ११ वह उस कष्टदाई समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा श्रीर नील नदी † का सब गहिरा जल सूख जाएगा। श्रीर अशूर का घमण्ड तोड़ा जाएगा श्रीर मिस्र का राजदराड जाता रहेगा। १२ मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा, श्रीर वे उसके नाम से चले फिरेगे, यहोवा की यही वाणी है ॥

११ हे लबानोन, आग को रास्ता दे † कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे! २ हे सनौबरो, हाय, हाय,

* मूल में—बो दूंगा। † मूल में—बोर।

‡ मूल में—अपने किवाड़ खोल।

करो ! क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए हैं ! हे बासान के बांज वृक्षो, हाय, हाय, करो ! क्योंकि अगम्य वन काटा गया है ! ३ चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका विभव नाश हो गया है ! जवान सिंहीं का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के तीर का घना वन * नाश किया गया है !

४ मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी : घात होनेवाली भेड़-बकरियों का चरवाहा हो जा । ५ उनके मोल लेनेवाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते, और उनके बेचनेवाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं; और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते । ६ यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहनेवालों पर फिर दया न करूंगा । देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में, और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा; और वे इस देश को नाश करेंगे, और मैं उसके रहनेवालों को उनके वश से न छुड़ाऊंगा ॥

७ सो मैं घात होनेवाली भेड़-बकरियों को और विशेष करके उन में से जो दीन थीं उनको चराने लगा । और मैं ने दो लाठियां लीं; एक का नाम मैं ने अनुग्रह रखा, और दूसरी का नाम एकता । इनको लिए हुए मैं उन भेड़-बकरियों को चराने लगा । ८ और मैं ने उनके तीनों चरवाहों को एक महीने में नाश कर दिया । परन्तु मैं उनके कारण अधीर था, और वे मुझ से घृणा करती थीं । ९ तब मैं ने उन से कहा, मैं तुम को न चराऊंगा । तुम में से जो मेरे

वह मरे, और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बची रहें वे एक दूसरे का मांस खाएं । १० और मैं ने अपनी वह लाठी तोड़ डाली, जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैं ने सब अन्त्यजातियों के साथ बान्धी थी उसे तोड़ें । ११ वह उसी दिन तोड़ी गई, और इस से दीन भेड़-बकरियां जो मुझे ताकती थीं, उन्होंने ने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है । १२ तब मैं ने उन से कहा, यदि तुम को अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो । तब उन्होंने ने मेरी मजदूरी में चान्दी के तीस टुकड़े तौल दिए । १३ तब यहोवा ने मुझ से कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने ने मेरा ठहराया है ? तब मैं ने चान्दी के उन तीस टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया । १४ तब मैं ने अपनी दूसरी लाठी जिस का नाम एकता था, इसलिये तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालू जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है ॥

१५ तब यहोवा ने मुझ से कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले । १६ क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा, जो खोई हुई को न ढूँढ़ेगा, न तितर-बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन-पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा । १७ हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़-बकरियों को छोड़ जाता है ! उसकी बांह और दहिनी आंसू दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बांह सूख जाएगी और उसकी दहिनी आंसू फूट जाएगी ॥

* मूल में—गर्ब ।

१२ इलाएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन : यहोवा जो आकाश का ताननेवाला, पृथ्वी की नैव डालनेवाला और मनुष्य की आत्मा का रचनेवाला है, उसकी यह वाणी है, २ देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिये लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा; और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। ३ और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध दकट्टी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा, कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। ४ यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा, और उसके सवार को घायल करूंगा। परन्तु मैं यहूदा के घराने पर कृपादृष्टि रखूंगा, जब मैं अन्यजातियों के सब घोड़ों को अन्धा कर डालूंगा। ५ तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे ॥

६ उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा, जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंग्रेठी वा पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात् वे दहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को अस्म कर डालेंगे; और यरूशलेम जहां अब बसी है, वही बसी रहेगी, यरूशलेम में ॥

७ और यहोवा पहिले यहूदा के तम्बुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारें। ८ उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा

लेगा, और उस समय उन में से जो ठोकर खानेवाला हो वह दाऊद के समान होगा; और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात् यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। ९ और उस समय मैं उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी ॥

१० और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करनेवाली * और प्रार्थना सिखानेवाली † आत्मा उरडेलूगा, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात् जिसे उन्होंने ने बेधा है, और उसके लिये ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिये रोते-पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे, जैसा पहिलीठे के लिये करते हैं। ११ उस समय यरूशलेम में इतना रोना-पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था। १२ सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग; अर्थात् दाऊद के घराने का परिवार अलग, और उनकी स्त्रियां अलग; नातान के घराने का परिवार अलग, और उनकी स्त्रियां अलग; १३ लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग; शिमीयों का परिवार अलग, और उनकी स्त्रियां अलग; १४ और जितने परिवार रह गए हों, हर एक परिवार अलग अलग, और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग ॥

१३ उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिये पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा ॥

* मूल में—का।

† मूल में—येसे कढ़ने होंगे।

२ और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, कि उस समय में इस देश में से मृतों के नाम मिटा डालूंगा, और वे फिर स्मरण में न रहेंगे; और मैं भविष्यद्वक्ताओं और भ्रष्ट आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। ३ और यदि कोई फिर भविष्यद्वाराणी करे, तो उसके माता-पिता जिन से वह उत्पन्न हुआ, उस से कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तू ने यहोवा के नाम से झूठ कहा है; सो जब वह भविष्यद्वाराणी करे, तब उसके माता-पिता जिन से वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे। ४ उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यद्वाराणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे, और धोखा देने के लिये कम्बल का वस्त्र न पहिनेंगे, ५ परन्तु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूँ; क्योंकि लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूँ। ६ तब उस से यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए*, तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं।

७ सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थात् जो पुरुष मेरा स्वजाति है, उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़-बकरियां तितर-बितर हो जाएंगी; और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। ८ यहोवा की यह भी वाणी है, कि इस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार डाली जाएगी, और बची हुई तिहाई उस में बनी रहेगी। ९ उस तिहाई को मैं भाग में डालकर

* मूल में—तेरे हाथों के बीच ये क्या भाव हैं।

ऐसा निर्मल करूंगा, जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझ से प्रार्थना किया करेंगे, और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा हैं, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है।

१४ सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आनेवाला है जिस में तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। २ क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लडने के लिये इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा। और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी; नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परन्तु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। ३ तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। ४ और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा, जो पूरब और यरूशलेम के साम्हन है; तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पच्छिम तक बीचोबीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा; तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्खिन की ओर हट जाएगा। ५ तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूईंढोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिय्याह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे।

६ उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे।

७ और लगातार एक ही दिन होगा जिसे

यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा, और न रात होगी, परन्तु सांभ के समय उजियाला होगा ॥

८ उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पच्छिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी ॥

९ तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा; और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा ॥

१० गेबा से लेकर यरूशलेम की दक्खिन ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी। परन्तु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहिले फाटक के स्थान तक, और कोनेवाले फाटक तक, और हननेल के गुम्मत से लेकर राजा के दाखरसकुण्डों तक अपने स्थान में बसेगी। ११ और लोग उस में बसेंगे क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा; और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। १२ और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सभी को यहोवा ऐसी मार से मारेगा, कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी, और उनकी जीभ उनके मुँह में सड़ जाएगी। १३ और उस समय यहोवा की ओर से उन में बड़ी घबराहट पैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे, और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। १४ यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना, चान्दी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों

की धन सम्पत्ति उस में बटोरी जाएगी। १५ और घोड़े, खच्चर, ऊट और गदहे वरन जितने पशु उनकी छावणियों में होंगे वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे ॥

१६ तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़नेवाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात् सेनाओं के यहोवा को दण्डवत् करने, और भोंपड़ियों का पबं मानने के लिये यरूशलेम को जाया करेंगे। १७ और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा, अर्थात् सेनाओं के यहोवा को दण्डवत् करने के लिये न जाएंगे, उनके यहां वर्षा न होगी। १८ और यदि मिस्र का कुल वहां न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी जिस से यहोवा उन जातियों को मारेगा जो भोंपड़ियों का पबं मानने के लिये न जाएंगे? १९ यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा, जो भोंपड़ियों का पबं मानने के लिये न जाएंगे। २० उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिये पवित्र। और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी, जो वेदी के साम्हने रहते हैं। २१ वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिये पवित्र ठहरेंगी, और सब मेलबलि करनेवाले आ आकर उन हंडियों में मांस सिझाया करेंगे। और तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई ब्योपारी न पाया जाएगा ॥

मलाकी

१ मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन ॥

२ यहोवा यह कहता है, मैं ने तुम से प्रेम किया है, परन्तु तुम पूछते हो, तू ने किस बात में हम से प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? ३ तौभी मैं ने याकूब से प्रेम किया परन्तु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला, और उसकी बपीती को जंगल के गीदड़ों का कर दिया है। ४ एदोम कहता है, हमारा देश उजड़ गया है, परन्तु हम खरएडहरों को फिरकर बसाएंगे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, यदि वे बनाएं भी, परन्तु मैं ठा दूगा; उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। ५ तुम्हारी आंखें इसे देखेगी, और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल के सिवाने की परली और भी बढ़ता जाए ॥

६ पुत्र पिता का, और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हू, तो मेरा आदर मानना कहां है? और यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भय मानना कहा? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परन्तु तुम पूछते हो, हम ने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी बेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। ७ तौभी तुम पूछते हो कि हम किस

बात में तुम्हें अशुद्ध ठहराते है? इस बात में भी, कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज तुच्छ है। ८ जब तुम अन्धे पशु को बलि करने के लिये समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े वा रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ; क्या वह तुम से प्रसन्न होगा वा तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

९ और अब मैं तुम से कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है; तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। १० भला होता कि तुम में से कोई मन्दिर के किवाड़ों को बन्द करता कि तुम मेरी बेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते! सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुम से कदापि प्रसन्न नहीं हूँ, और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। ११ क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्यजातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है; क्योंकि अन्यजातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। १२ परन्तु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजनवस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। १३ फिर तुम यह भी कहते हो,

कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है! सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। तुम ने उस भोजनवस्तु के प्रति नाक-भौं सिकोड़ी, और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो! क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूँ? यहोवा का यही वचन है। १४ जिस छली के भ्रूण में नरपशु हो परन्तु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को बर्जा हुआ पशु चढ़ाए, वह शापित है; मैं तो महाराजा हूँ, और मेरा नाम अन्याजातियों में भययोग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

२ और अब हे याजको, यह आज्ञा तुम्हारे लिये है। २ यदि तुम इसे न सुनो, और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि मैं तुम को शाप दूँगा, और जो वस्तुएँ मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं, उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। ३ देखो, मैं तुम्हारे कारण बीज को फिडकूँगा*, और तुम्हारे मुँह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञपशुओं का मल फैलाऊँगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। ४ तब तुम जानोगे कि मैं ने तुम को यह आज्ञा इसलिये दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी बन्धी हुई वाचा बनी रहे; सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ५ मेरी जो वाचा उसके साथ बन्धी थी वह जीवन और शान्ति की थी, और मैं ने यह इसलिये उसको दिया कि वह भय मानता रहे; और उस ने मेरा भय मान

* मूल में—मैं तुम्हारे कारण बीज को फुडकूँगा।

भी लिया और मेरे नाम से अत्यन्त भय खाता था। ६ उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कण्ठ थी, और उसके मुँह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शान्ति और सीधई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। ७ क्योंकि याजक को चाहिये कि वह अपने श्रोतों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुँह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ८ परन्तु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए; तुम बहुतों के लिये व्यवस्था के विषय में ठीकर का कारण हुए, तुम ने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ९ इसलिये मैं ने भी तुम को सब लोगों के साम्हने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुँह देखा विचार करते हो ॥

१० क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हम को उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? ११ यहूदा ने विश्वासघात किया है, और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है; क्योंकि यहूदा ने विराने देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। १२ जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तम्बुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ानेवाले को यहूदा से काट डालेगा!

१३ फिर तुम ने यह दूसरा काम किया है कि तुम ने यहोवा की बेदी को रोनेवालों

श्रीर आहें भरनेवालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता, और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो, ऐसा क्यों? १४ इसलिये, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिस का तू ने विश्वासघात किया है। १५ क्या उस ने एक ही को नहीं बनाया, जब कि और आत्माएं उसके पास थीं *? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिये कि वह परमेश्वर के योग्य सन्तान चाहता है। इसलिये तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। १६ क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, कि मैं स्त्री-त्याग से घृणा करता हूं, और उस से भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिये तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

१७ तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है। तीभी पूछते हो, कि हम ने किस बात में उसे उकता दिया? इस में, कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है, वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह, कि न्यायी परमेश्वर कहां है?

३ देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा,

* वा क्या एक ही पुरुष ने ऐसा किया जिस में आत्मा का कुछ प्रभाव रह गया था।

और प्रभु, जिसे तुम दूकते हो, वह अचानक अपने मन्दिर में आ जाएगा; हां वाचा का वह दूत, जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। २ परन्तु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा?

क्योंकि वह सोनार की आग और घोबी के साबुन के समान है। ३ वह रूपे का तानेवाला और शुद्ध करनेवाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाईं निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। ४ तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी, जैसी पहिले दिनों में और प्राचीन-काल में भावती थी ॥

५ तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा; और टीनहों, और व्यभिचारियों, और भूठी किरिया खानेवालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते, और विधवा और अनाथों पर अन्धे करते, और परदेशी का न्याय बिगाड़ते, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरन्त साक्षी दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

६ क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं; इसी कारण, हे याकूब की सन्तान तुम नाश नहीं हुए। ७ अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है; परन्तु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? ८ क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझ

को घोखा देते हो, और तीसरी पूछते हो कि हम ने किस बात में तुम्हें लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। ६ तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो; वरन सारी जाति ऐसा करती है। १० सारे दशमांश भण्डार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजनवस्तु रहे; और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के भरोखे तुम्हारे लिये खोलकर तुम्हारे ऊपर अरम्भ्यार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ११ मैं तुम्हारे लिये नाश करनेवाले को ऐसा घुडकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। १२ तब सारी जातियाँ तुम को धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश * मनोहर देश होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

१३ यहोवा यह कहता है, तुम ने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। परन्तु तुम पूछते हो, हम ने तेरे विरुद्ध में क्या कहा है? १४ तुम ने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हम ने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के भारे शोक का पहिरावा पहिने हुए चले हैं, इस से क्या लाभ हुआ? १५ अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं; क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं ॥

* मूल में—तुम।

१६ तब यहोवा का भय माननेवालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था; और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके साम्हने एक पुस्तक लिखी जाती थी। १७ सेनाओं का यहोवा यह कहता है, कि जो दिन मैं ने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उन से ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करनेवाले पुत्र से करे। १८ तब तुम फिरकर धर्मों और दुष्ट का भेद, अर्थात् जो परमेश्वर की सेवा करता है, और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहिचान सकोगे ॥

४ क्योंकि देखो, वह घघकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूटी बन जाएंगे; और उस आनेवाले दिन में वे एमे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा*, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। २ परन्तु तुम्हारे लिये जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चगे हो जाओगे †; और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कुदोगे और फांदोगे। ३ तब तुम दुष्टों को लताड डालोगे, अर्थात् मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ॥

* मूल में—उनकी न जड़ न डालियाँ छोड़ेगा।

† मूल में—उमके पंखों में चंगापन।

४ मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात् पास एलिव्याह नबी को भेजूंगा । ६ और जो जो विशिष्ट और नियम मैं ने सारे वह माता-पिता के मन को उनके इस्त्राएलियों के लिये उसको होरेब में दिए पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को थे, उनको स्मरण रखो ॥ उनके माता-पिता की ओर फेरेगा ;

५ देखो, यहोवा के उस बड़े और ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को भयानक दिन के आने से पहिले, मैं तुम्हारे सत्यानाश करूं ॥

धर्मपुस्तक का

नया नियम

अर्थात्

प्रभु यीशु का

सुसमाचार

मत्ती रचित सुसमाचार

१ इब्राहीम की सन्तान, दाऊद की सन्तान, यीशु मसीह की वंशावली।

२ इब्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुआ; इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ; और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए।

३ यहूदा से फिरिस, और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए; और फिरिस से हिस्त्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्त्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। ४ और एराम से अम्मिनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मिनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। ५ और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। और बोअज और रुत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिगे उत्पन्न हुआ। ६ और यिगे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ ॥

७ और दाऊद से सुलैमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहिले उरिव्याह की पत्नी थी। ८ और सुलैमान से रहबाम उत्पन्न हुआ; और रहबाम से अबिव्याह उत्पन्न हुआ, और अबिव्याह से आसा उत्पन्न हुआ; और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ; और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जिव्याह उत्पन्न हुआ। ९ और उज्जिव्याह से योताम उत्पन्न हुआ; और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ; और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। १० और हिजकिय्याह से मनश्शह उत्पन्न हुआ। और मनश्शह से आमोन उत्पन्न हुआ; और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। ११ और बन्दी होकर बाबुल जाने के

समय में योशिय्याह से यकुन्याह, और उस के भाई उत्पन्न हुए ॥

१२ बन्दी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ; और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। १३ और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ; और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। १४ और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ; और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ; और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। १५ और इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ; और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ; और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। १६ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ; जो मरियम का पति था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ ॥

१७ इब्राहीम से दाऊद तक सब चौदह पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बन्दी होकर पहुंचाए जाने तक चौदह पीढ़ी और बन्दी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक चौदह पीढ़ी हुई ॥

१८ अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, कि जब उस की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उन के इकट्ठे होने से पहिले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। १९ सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की।

२० जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की सन्तान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर; क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। २१ वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना; क्योंकि वह अपने लोगों का उन के पापों से उद्धार करेगा। २२ यह सब कुछ इसलिये हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था; वह पूरा हो। २३ कि, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा जिस का अर्थ यह है "परमेश्वर हमारे साथ"। २४ सो यूसुफ नीद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। २५ और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया; और उस ने उसका नाम यीशु रखा ॥

२ हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेंतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। २ कि यहूदियों का राजा जिस का जन्म हुआ है, कहा है? क्योंकि हम ने पूर्व में उसका तारा देखा है और उस को प्रणाम करने आए हैं। ३ यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ-साथ यरूशलेम घबरा गया। ४ और उस ने लोगों के सब महायाजको और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उन से पूछा, कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए?

५ उन्होंने ने उस से कहा, यहूदिया के बेंतलहम में; क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा

यों लिखा गया है। ६ कि हे बेंतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सब से छोटा नहीं; क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ७ तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उन से पूछा, कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। ८ और उस ने यह कहकर उन्हें बेंतलहम भेजा, कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उस का प्रणाम करूं। ९ वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्हो ने पूर्व में देखा था, वह उन के आगे आगे चला, और जहाँ बालक था, उस जगह के ऊपर पहुँचकर ठहर गया। १० उस तारे को देखकर वे प्रति आनन्दित हुए। ११ और उस घर में पहुँचकर उस बालक को उस की माता मरियम के साथ देखा, और मुँह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया; और अपना अपना बैला खोलकर उस को सोना, और लोहबान, और गन्धरस की भेंट चढ़ाई। १२ और स्वप्न में यह चिन्तीनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए ॥

१३ उन के चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ; उस बालक को और उस की माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा; और जब तक मैं तुझ से न कहूँ, तब तक वहीं रहना; क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूँढने पर है कि उसे मरवा डाले। १४ वह रात ही को उठकर बालक और उस की माता को लेकर मिस्र को चल दिया। १५ और

हेरोदेस के मरने तक वही रहा; इसलिये कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। १६ जब हेरोदेस ने यह देखा, कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वह क्रोध से भर गया; और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आस पास के सब लडकों को जो दो वर्ष के, वा उस से छोटे थे, मरवा डाला। १७ तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ, १८ कि रामाह में एक करुण-नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिये रो रही थी, और शान्त होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं ॥

१९ हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। २० कि उठ, बालक और उस की माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, वे मर गए। २१ वह उठा, और बालक और उस की माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। २२ परन्तु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहा जाने से डरा, और स्वप्न में चित्तीनी पाकर गलील देश में चला गया। २३ और नासरत नाम नगर में जा बसा; ताकि वह वचन पूरा हो, जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, कि वह नासरी कहलाएगा ॥

उन दिनों में यहून्ना बपतिस्मा देने-वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। कि २ मन फिराबो;

क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ३ यह वही है जिस की चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की सड़कें सीधी करो। ४ यह यहून्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहिने था, और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिट्टियां और बनमधु था। ५ तब यहून्नालेम के और सारे यहूदिया के, और यरदन के आस पास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। ६ और अपने अपने पापो को मानकर यरदन नदी में उस से बपतिस्मा लिया। ७ जब उस ने बहुतेरे फरीसियों और सद्कियों को बपतिस्मा के लिये अपने पास आते देखा, तो उन से कहा, कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किस ने जता दिया, कि आनेवाले क्रोध से भागो? ८ सो मन फिराब के योग्य फल लाभो। ९ और अपने अपने मन में यह न सोचो, कि हमारा पिता इब्राहीम है; क्योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता है। १० और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिये जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और भाग में भोंका जाता है। ११ मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराब का बपतिस्मा देता हूं, परन्तु जो मेरे बाद आनेवाला है, वह मुझ से शक्ति-शाली है; मैं उस की जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और भाग से बपतिस्मा देगा। १२ उसका सूप उस के हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो क्षत्ते में इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी

को उस भाग में जलाएगा जो बुझने की नहीं ॥

१३ उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उस से बपतिस्मा लेने आया। १४ परन्तु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है? १५ यीशु ने उस को यह उत्तर दिया, कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, तब उस ने उस की बात मान ली। १६ और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरन्त पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिये आकाश खुल गया; और उस ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। १७ और देखो, यह आकाशवाणी हुई, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ ॥

४ तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उस की परीक्षा हो। २ वह चालीस दिन, और चालीस रात, निराहार रहा, अन्त में उसे भूख लगी। ३ तब परखनेवाले ने पास आकर उस से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे, कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ४ उस ने उत्तर दिया; कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ५ तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मन्दिर के कंगूरे पर खड़ा किया। ६ और उस से कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे; क्योंकि लिखा है, कि वह

तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा; और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे; कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। ७ यीशु ने उस से कहा; यह भी लिखा है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। ८ फिर शैतान * उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर। ९ उस से कहा, कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। १० तब यीशु ने उस से कहा; हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर। ११ तब शैतान उसके पास से चला गया; और देखो, स्वर्गदूत आकर उस की सेवा करने लगे ॥

१२ जब उस ने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला गया। १३ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो भील के किनारे जबूलन और नपताली के देश में है जाकर रहने लगा। १४ ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। १५ कि जबूलन और नपताली के देश, भील के मार्ग से यरदन के पार ग्रन्थजातियों का गलील। १६ जो लोग ग्रन्थकार में बैठे थे उन्होंने ने बड़ी ज्योति देखी; और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी ॥

१७ उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना प्रारम्भ किया, कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। १८ उस ने गलील की भील

* अर्थात् इब्लीस।

के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात् शमीन को जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अन्द्रियास को भील में जाल डालते देखा; क्योंकि वे मछवें थे। १६ और उन से कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुम को मनुष्यों के पकड़नेवाले बनाऊंगा। २० वे नुरन्त जालो को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। २१ और वहां से आगे बढ़कर, उस ने और दो भाइयों अर्थात् जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालो को सुधारते देखा; और उन्हें भी बुलाया। २२ वे नुरन्त नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए।।

२३ और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन की सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। २४ और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया; और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिन में दुष्टात्माएं थीं और मिर्गीवालों और भोले के मारे हुआओं को उसके पास लाए और उस ने उन्हें चंगा किया। २५ और गलील और दिका-पुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली।।

५ वह इस भीड़ को देखकर, पहाड़ पर चढ़ गया; और जब बैठ गया, तो उसके चेले उसके पास आए। २ और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, ३ धन्य हैं वे, जो मन के दीन

हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ४ धन्य हैं वे, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ५ धन्य हैं वे, जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ६ धन्य हैं वे, जो धर्म के भूखे और पियासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ७ धन्य हैं वे, जो दयावन्त हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ८ धन्य हैं वे, जिन के मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ९ धन्य हैं वे, जो मेल करवानेवाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। १० धन्य हैं वे, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ११ धन्य हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निन्दा करे, और सताए और भूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। १२ आनन्दित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिये स्वर्ग में बड़ा फल है इसलिये कि उन्हीं ने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम से पहिले थे इसी रीति से सताया था।।

१३ तुम पृथ्वी के नमक हो; परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा ? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। १४ तुम जगत की ज्योति हो; जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। १५ और लोग दिया जलाकर पैमाने * के नीचे नहीं परन्तु दीबट पर रखते हैं, तब उस से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। १६ उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के साम्हने चमके

* एक बरतन जिस में डेढ़ मन अनाज नापा जाता था।

कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें।।

१७ यह न समझो, कि मैं व्यवस्था या मविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। १८ लोप करने नहीं, परन्तु पूरा करने आया हूँ; क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिन्दु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। १९ इसलिये जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहलाएगा; परन्तु जो कोई उन का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। २० क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे।।

२१ तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दण्ड के योग्य होगा। २२ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दण्ड के योग्य होगा : और जो कोई अपने भाई को निकम्मा * कहेगा वह महासभा में दण्ड के योग्य होगा; और जो कोई कहे "मेरे भूख" वह नरक की आग के दण्ड के योग्य होगा। २३ इसलिये यदि तू अपनी भेंट बेदी पर लाए, और वहाँ तू स्मरण करे, कि मेरे भाई के मन में मेरी और से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही बेदी के

* यू० अर्थात् यूनानी भाषा में, राका।

साम्हने छोड़ दे। २४ और जाकर पहिले अपने भाई से मेल मिलाप कर; तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। २५ जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उस से भटपट मेल मिलाप कर ले कहीं ऐसा न हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे, और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बन्दीगृह में डाल दिया जाए। २६ मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा।।

२७ तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कि व्यभिचार न करना। २८ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रुदृष्टि डाले वह अपने मन में उस से व्यभिचार कर चुका। २९ यदि तेरी दहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे; क्योंकि तेरे लिये यही भला है कि तेरे अङ्गों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ३० और यदि तेरा दहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उस को काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिये यही भला है, कि तेरे अङ्गों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए।।

३१ यह भी कहा गया था, कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र दे। ३२ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, तो वह उस से व्यभिचार करवाता है; और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है।।

३३ फिर तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि भूटी

शपथ न खाना, परन्तु प्रभु के लिये अपनी शपथ को पूरी करना। ३४ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि कभी शपथ न खाना; न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। ३५ न घरती की, क्योंकि वह उसके पावों की चौकी है; न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। ३६ अपने सिर की भी शपथ न खाना क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला, न काला कर सकता है। ३७ परन्तु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हो; क्योंकि जो कुछ इस से अधिक होता है वह बुराई से होता है ॥

३८ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, कि भ्रांख के बदले भ्रांख, और दांत के बदले दांत। ३९ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि बुरे का सामना न करना; परन्तु जो कोई तेरे दहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उस की ओर दूसरा भी फेर दे। ४० और यदि कोई तुम्हें पर नालिश करके तेरा कुरता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। ४१ और जो कोई तुम्हें कोस भर बेगार मे ले जाए तो उसके साथ दो कोस चला जा। ४२ जो कोई तुम्हें से मांगे, उसे दे; और जो तुम्हें से उधार लेना चाहे, उस से मुह न मोड़ ॥

४३ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था; कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने बैरी से बैर। ४४ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सतानेवालों के लिये प्रार्थना करो। ४५ जिस से तुम अपने स्वर्गीय पिता की सन्तान ठहरोगे क्योंकि वह भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। ४६ क्योंकि यदि तुम

अपने प्रेम रखनेवालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिये क्या फल होगा? क्या महसूस लेनेवाले भी ऐसा ही नहीं करते?

४७ और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्यायिता भी ऐसा नहीं करते? ४८ इसलिये चाहिये कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है ॥

ई सावधान रहो! तुम मनुष्यों को दिखाने के लिये अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे ॥

२ इसलिये जब तू दान करे, तो अपने भागे तुरही न बजवा, जैसा कपटी, सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन की बड़ाई करें, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वे अपना फल पा चुके। ३ परन्तु जब तू दान करे, तो जो तेरा दहिना हाथ करता है, उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए। ४ ताकि तेरा दान गुप्त रहे; और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा ॥

५ और जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिये सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन को अच्छा लगता है, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ६ परन्तु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा; और द्वार बन्द कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर; और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा। ७ प्रार्थना करते समय अन्यायितियों की नाई बक बक न

करो; क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उन की सुनी जाएगी। ८ सो तुम उन की नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहिले ही जानता है, कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। ९ सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो; " हे ह्यारे पिता, तू जो स्वर्ग में है; तेरा नाम पवित्र माना जाए। १० तेरा राज्य आए; तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होनी है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। ११ हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। १२ और जिस प्रकार हम ने अपने अपराधियों * को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों † को क्षमा कर। १३ और हमें परीक्षा में न ला, परन्तु बुराई से बचा; क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। " आमीन। १४ इसलिये यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। १५ और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा ॥

१६ जब तुम उपवास करो, तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। १७ परन्तु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुह धो। १८ ताकि लोग नही परन्तु तेरा पिता जो गुप्त में है, तुम्हें उपवासी जाने; इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा ॥

* यू० कर्जदार।

† यू० कर्ज।

१९ अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो; जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर संध लगाते और चुराते हैं। २० परन्तु अपने लिये स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा, और न काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न संध लगाते और न चुराते हैं। २१ क्योंकि जहा तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। २२ शरीर का दिया आंख है; इसलिये यदि तेरी आंख निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। २३ परन्तु यदि तेरी आंख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अन्धियारा होगा; इस कारण वह उजियाला जो तुम्हें मैं है यदि अन्धकार हो तो वह अन्धकार कैसा बड़ा होगा! २४ कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नही कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वा एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा; "तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नही कर सकते"। २५ इसलिये मैं तुम से कहता हूँ, कि अपने प्राण के लिये यह चिन्ता न करना कि हम क्या खाएंगे? और क्या पीएंगे? और न अपने शरीर के लिये कि क्या पहिनेंगे? क्या प्राण भोजन से, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नही? २६ आकाश के पक्षियों को देखो! वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खेतों में बटोरते हैं; तौभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन को खिलाता है; क्या तुम उन से अधिक मूल्य नही रखते। २७ तुम में कौन है, जो चिन्ता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी * भी बढ़ा सकता है? २८ और वस्त्र के लिये क्यों चिन्ता करते हो? जंगली

* यू० हाथ।

सोसनों पर ध्यान करो, कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते, न कातते हैं। २६ तौभी मैं तुम से कहता हूँ, कि मुलैमान भी, अपने सारे विभव में उन मे से किसी के समान वस्त्र पहिने हुए न था। ३० इसलिये जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है, और कल भाड़ में भोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहिनाता है, तो हे भ्रल्प-विश्वसियो, तुम को वह क्योंकर न पहिनाएगा ? ३१ इसलिये तुम चिन्ता करके यह न कहना, कि हम क्या खाएंगे, या क्या पीएंगे, या क्या पहिनेंगे ? ३२ क्योंकि अन्य-जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ३३ इसलिये पहिले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ३४ सो कल के लिये चिन्ता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिन्ता आप कर लेगा ; आज के लिये आज ही का कुछ बहुत है ॥

७ दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। २ क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा ; और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिये भी नापा जाएगा। ३ तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, और अपनी आंख का लट्टा तुफे नही सूझता ? ४ और जब तेरी ही आंख में लट्टा है, तो तू अपने भाई से क्योंकर कह सकता है, कि ला मे तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। ५ हे कपटी, पहले अपनी आंख मे से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा ॥

६ पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के भागे मत डालो ; ऐसा न हो कि वे उन्हे पांवा तले रौंदें और पलटकर तुम को फाड डाले ॥

७ मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा ; दूढ़ो, तो तुम पाओगे, खटखटाओ, तो तुम्हारे लिये खोला जाएगा। ८ क्योंकि जो कोई मांगता है, उसे मिलता है ; और जो दूढ़ता है, वह पाता है ? और जो खटखटाता है, उसके लिये खोला जाएगा। ९ तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, कि यदि उसका पुत्र उस से रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे ? १० वा मछली मांगे, तो उसे साप दे ? ११ सो जब तुम बुरे होकर, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मागनेवालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा ? १२ इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उन के साथ वैसा ही करो ; क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद-वक्ताओ की शिक्षा यही है ॥

१३ सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है ; और बहुतेरे हैं जो उस से प्रवेश करते हैं। १४ क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं ॥

१५ भूटे भविष्यद्वक्ताओ से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष मे तुम्हारे पास आते हैं, परन्तु अन्तर मे फाडनेवाले भेड़िए हैं। १६ उन के फलों से तुम उन्हे पहचान लोगे क्या भाड़ियों से अंगूर, वा उटकटारों से अंजीर तोडते हैं ? १७ इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है ॥

१८ अर्थात् पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अर्थात् फल ला सकता है। १९ जो जो पेड़ अर्थात् फल नहीं लाता, वह काटा और भाग में डाला जाता है। २० सो उन के फलो से तुम उन्हें पहचान लोगे। २१ जो मुझ से, हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परन्तु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। २२ उस दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे; हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हम ने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचम्भे के काम नहीं किए? २३ तब मैं उन से खुलकर कह दूंगा कि मैं ने तुम को कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करनेवालो, मेरे पास से चले जाओ। २४ इसलिये जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाईं ठहरेगा जिस ने अपना घर चटान पर बनाया। २५ और मेह बरसा और बाढ़े आईं, और आन्धियां चलीं, और उस घर पर टक्करें लगी, परन्तु वह नहीं गिरा, क्योंकि उस की नेब चटान पर डाली गई थी। २६ परन्तु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाईं ठहरेगा जिस ने अपना घर बालू पर बनाया। २७ और मेह बरसा, और बाढ़े आईं, और आन्धियां चलीं, और उस घर पर टक्करें लगीं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया ॥

२८ जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। २९ क्योंकि वह उन के शास्त्रियों के समान नहीं परन्तु अधिकारी की नाईं उन्हें उपदेश देता था ॥

८ जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। २ और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा; कि हे प्रभु यदि तू चाहे, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ३ यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छूआ, और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा और वह तुरन्त कोढ़ से शुद्ध हो गया। ४ यीशु ने उस से कहा; देख, किसी से न कहना परन्तु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उन के लिये गवाही हो ॥

५ और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उस से बिनती की। ६ कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में भोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। ७ उस ने उस से कहा; मैं आकर उसे चंगा करूंगा। ८ सूबेदार ने उत्तर दिया; कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ९ क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ, जा, तो वह जाता है; और दूसरे को कि आ, तो वह आता है; और अपने दास से कहता हूँ, कि यह कर, तो वह करता है। १० यह सुनकर यीशु ने अचम्भा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उन से कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मैं ने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ११ और मैं तुम से कहता हूँ, कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इस्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। १२ परन्तु राज्य के सन्तान बाहर आन्धियारे में डाल दिए जाएंगे; वहां रोना और दांतों को पीसना होगा। १३ और यीशु ने सूबेदार

से कहा, जा; जैसा तेरा विश्वास है, वैसा ही तेरे लिये हो: और उसका सेवक उसी बड़ी चंगा हो गया ॥

१४ और यीशु ने पतरस के घर में आकर उस की सास को ज्वर में पड़ी देखा ।

१५ उस ने उसका हाथ छूआ और उसका ज्वर उतर गया; और वह उठकर उस की सेवा करने लगी । १६ जब सध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगो को लाए जिन में दुष्टात्माएं थी और उस ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, और सब बीमारों को चंगा किया ।

१७ ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उस ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया ॥

१८ यीशु ने अपनी चारो ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी । १९ और एक शास्त्री ने पास आकर उस से कहा, हे गुरु, जहा कही तू जाएगा, मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा । २० यीशु ने उस से कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं; परन्तु मनुष्य के पुत्र के लिये सिर धरने की भी जगह नहीं है । २१ एक और चेले ने उस से कहा, हे प्रभु, मुझे पहिले जाने दे, कि अपने पिता को गाढ़ * दू । २२ यीशु ने उस से कहा, तू मेरे पीछे हो ले; और मुरदो को अपने मुरदे गाड़ने दे ॥

२३ जब वह नाव पर चढ़ा, तो उसके चले उसके पीछे हो लिए । २४ और देखो, भील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढंपने लगी, और वह सो रहा था । २५ तब उन्होंने पास आकर

उसे जगाया, और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं । २६ उस ने उन से कहा; हे भ्रूपविश्वासियो, क्यों डरते हो ? तब उस ने उठकर आन्धी और पानी को डाटा, और सब शान्त हो गया । २७ और लोग अचम्भा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है, कि आन्धी और पानी भी उस की आज्ञा मानते हैं ॥

२८ जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुँचा, तो दो मनुष्य जिन में दुष्टात्माएं थी कन्नो से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचण्ड थे, कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था । २९ और देखो, उन्हो ने चिल्लाकर कहा; हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझ से क्या काम ? क्या तू समय से पहिले हमें दुःख देने यहा आया है ? ३० उन से कुछ दूर बहुत से सूअरो का एक झुण्ड चर रहा था । ३१ दुष्टात्माओं ने उस से यह कहकर बिनती की, कि यदि तू हमें निकालता है, तो सूअरों के झुण्ड में भेज दे । ३२ उस ने उन से कहा, जाओ, वे निकलकर सूअरों में पंठ गए और देखो, सारा झुण्ड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पडा, और डूब मरा । ३३ और चरवाहे भागे, और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुष्टात्माएं थीं उन का सारा हाल कह सुनाया । ३४ और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर बिनती की, कि हमारे सिबानों से बाहर निकल जा ॥

६ फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया; और अपने नगर में आया । २ और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास

* वा, दफन कर दूं ।

लाए; यीशु ने उन का विश्वास देखकर, उस भोले के मारे हुए से कहा; हे पुत्र, ढाढ़स बान्ध; तेरे पाप क्षमा हुए। ३ और देखो, कई शास्त्रियो ने सोचा, कि यह तो परमेश्वर की निन्दा करता है। ४ यीशु ने उन के मन की बातें मालूम करके कहा, कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? ५ सहज क्या है, यह कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए; या यह कहना कि उठ और चल फिर। ६ परन्तु इसलिये कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है (उस ने भोले के मारे हुए से कहा) उठ; अपनी खाट उठा, और अपने घर चला जा। ७ वह उठकर अपने घर चला गया। ८ लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिस ने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है ॥

९ वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया ॥

१० और जब वह घर में भोजन करने के लिये बैठा तो बहुतेरे महसूल लेनेवाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ११ यह देखकर फरीसियो ने उसके चेलो से कहा; तुम्हारा गुरु महसूल लेनेवालो और पापियो के साथ क्यों खाता है? १२ उस ने यह सुनकर उन से कहा, वैद्य भले चगो को नहीं परन्तु बीमारो को भ्रवश्य है। १३ सो तुम जाकर इस का अर्थ सीख लो, कि मैं बलिदान नहीं परन्तु दया चाहता हूं; क्योंकि मैं धर्मियो को नहीं परन्तु पापियो को बुलाने आया हूं ॥

१४ तब यहूदा के चेलों ने उसके पास आकर कहा; क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? १५ यीशु ने उन से कहा; क्या बराती, जब तक डूल्हा उन के साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि डूल्हा उन से अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। १६ कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैवन्द पहिरावन से और कुछ खीच लेता है, और वह अधिक फट जाता है। १७ और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं; क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परन्तु नया दाखरस नई मशको में भरते हैं और वह दोनो बची रहती है ॥

१८ वह उन से ये बातें कह ही रहा था, कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है; परन्तु चलकर अपना हाथ उस पर रख, तो वह जीवित हो जाएगी। १९ यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। २० और देखो, एक स्त्री ने जिस के बारह वर्ष से लोहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। २१ क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। २२ यीशु ने फिरकर उसे देखा, और कहा; पुत्री ढाढ़स बान्ध; तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है; सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। २३ जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बासली बजानेवालो और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा तब कहा। २४ हट

जाओ, लडकी मरी नहीं, पर सोती है; इस पर वे उस की हंसी करने लगे। २५ परन्तु जब भीड़ निकाल दी गई, तो उस ने भीतर जाकर लडकी का हाथ पकड़ा, और वह जी उठी। २६ और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई॥

२७ जब यीशु वहा से आगे बढ़ा, तो दो अन्धे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, कि हे दाऊद की सन्तान, हम पर दया कर। २८ जब वह घर में पहुँचा, तो वे अन्धे उस के पास आए; और यीशु ने उन से कहा; क्या तुम्हें विश्वास है, कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने ने उस से कहा; हाँ, प्रभु। २९ तब उस ने उन की आँखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिये हो। ३० और उन की आँखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा; सावधान, कोई इस बात को न जाने। ३१ पर उन्होंने ने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया॥

३२ जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखो, लोग एक गूगे को जिस में दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। ३३ और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई, तो गूगा बोलने लगा; और भीड़ ने अचम्भा करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ३४ परन्तु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है॥

३५ और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उन की सभाओं में उपदेश करता, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ३६ जब उस ने भीड़ को देखा तो उस को लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों

की नाईं जिनका कोई रखवाला * न हो, ब्याकुल और भटके हुए से थे। ३७ तब उस ने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। ३८ इसलिये खेत के स्वामी से बिनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिये मजदूर भेज दे॥

१० फिर उस ने अपने बारह चेलों को पास बुलाकर, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें॥

२ और बारह प्रेरितों के नाम ये हैं: पहिला शमीन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अन्द्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना; ३ फिलिप्पुस और बर-नुल्मै थोमा और महसूल लेनेवाला मत्ती, हलफे का पुत्र याकूब और तद्दै। ४ शमीन कनानी, और यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकड़वा भी दिया॥

५ इन बारहों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्धजातियों की ओर न जाना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। ६ परन्तु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ७ और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ८ बीमारों को चंगा करो: मरे हुएों को जिलाओ : कोढ़ियों को शुद्ध करो: दुष्टात्माओं को निकालो: तुम ने संतमैत पाया है, संतमैत दो। ९ अपने पटुकों में न तो सोना, और न रूपा, और न तांबा रखना। १० मार्ग के लिये न भोली रखो, न दो कुरते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि

* अर्थात् चरवाहा।

मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ११ जिस किसी नगर या गांव में जाओ, तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है? और जब तक वहां से न निकलो, उसी के यहां रहो। १२ और घर में प्रवेश करते हुए उस को आशीष देना। १३ यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा परन्तु यदि वे योग्य नहीं तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। १४ और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे, और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पावों की धूल झाड़ डालो। १५ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और शमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी ॥

१६ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाईं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ सो सांपों की नाईं बुद्धिमान और कबूतरों की नाईं भोले बनो। १७ परन्तु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महा सभाओं में सौपेंगे, और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। १८ तुम भेरे लिये हाकिमों और राजाओं के साम्हने उन पर, और अन्यजातियों पर गवाह होने के लिये पहुंचाए जाओगे। १९ जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिन्ता न करना, कि हम किस रीति से; या क्या कहेंगे: क्योंकि जो कुछ तुम को कहना होगा, वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। २० क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। २१ भाई, भाई को और पिता पुत्र को, घात के लिये सौपेंगे, और लड़केवाले माता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। २२ भेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अन्त तक धीरज धरे

रहेगा उसी का उद्धार होगा। २३ जब वे तुम्हें एक नगर में सताएँ, तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुम से सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे, कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा ॥

२४ चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं; और न दास अपने स्वामी से। २५ चले का गुरु के, और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है; जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान * कहा तो उसके घरवालों को क्यों न कहेंगे? २६ सो उन से मत डरना, क्योंकि कुछ डपा नहीं, जो खोला न जाएगा; और न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। २७ जो मैं तुम से अन्धियारे में कहता हूँ, उसे उजियाले में कहो; और जो कानों कान सुनते हो, उसे कोठों पर से प्रचार करो। २८ जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उन से मत डरना; पर उसी से डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। २९ क्या पैसे में दो गौरये नहीं बिकतीं? तीभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन में से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। ३० तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। ३१ इसलिये, डरो नहीं; तुम बहुत गौरयो से बढ़कर हो। ३२ जो कोई मनुष्यों के साम्हने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के साम्हने मान लूंगा। ३३ पर जो कोई मनुष्यों के साम्हने मेरा इन्कार करेगा उस से मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के साम्हने इन्कार करूंगा। ३४ यह न समझो, कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ; मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ ॥

* यू० इब्रलीस वा बालजबूल ।

३५ मैं तो प्राया हूँ, कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उस की मां से, और बहू को उस की सास से अलग कर दूँ। ३६ मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ३७ जो माता या पिता को मुझ से अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं और जो बेटा या बेटी को मुझ से अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। ३८ और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। ३९ जो अपने प्राण बचाता * है, वह उसे खोएगा; और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। ४० जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है। ४१ जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा; और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। ४२ जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुम से सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा।।

११ जब यीशु अपने बारह चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वह उन के नगरो में उपदेश और प्रचार करने को वहाँ से चला गया।।

२ यूहन्ना ने बन्दीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उस से यह पूछने भेजा। ३ कि क्या जानेवाला तू ही है: या हम दूसरे की बाट जोहें? ४ यीशु ने उत्तर दिया, कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब

* यू० पाता।

जाकर यूहन्ना से कह दो। ५ कि अन्धे देखते हैं और लगडे चलते फिरते हैं; कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुँहें जिलाए जाते हैं, और कंगालो को सुसमाचार सुनाया जाता है। ६ और अन्ध है वह, जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ७ जब वे वहाँ से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा; तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकड़े को? ८ फिर तुम क्या देखने गये थे? क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहिनते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। ९ तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हा; मैं तुम से कहता हूँ, बरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। १० यह वही है, जिस के विषय में लिखा है, कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। ११ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उन में से यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले से कोई बड़ा नहीं हुआ; पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उस से बड़ा है। १२ यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। १३ यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यद्वक्ता करते रहे। १४ और चाहो तो मानो, एलिय्याह जो जानेवाला था, वह यही है। १५ जिस के सुनने के कान हों, वह सुन ले। १६ मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूँ? वे उन बालकों के समान हैं, जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं। १७ कि हम ने तुम्हारे लिये बांसली बजाई, और तुम न नाचे; हम ने

विलाप किया, और तुम ने छाती नहीं पीटी। १८ क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उस में दुष्टाल्मा है। १९ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड मनुष्य, महसूल लेनेवालो और पापियो का मित्र; पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है।

२० तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, जिन में उस ने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे; क्योंकि उन्हो ने अपना मन नहीं फिराया था। २१ हाय, खुराजीन; हाय, बैतसैदा; जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढकर, और राख में बैठकर, वे कब के मन फिरा लेते। २२ परन्तु मैं तुम से कहता हूँ, कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। २३ और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अघोलोक तक नीचे जाएगा; जो सामर्थ के काम तुम्हें में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते, तो वह आज तक बना रहता। २४ पर मैं तुम से कहता हूँ, कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी।

२५ उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कि तू ने इन बातों को जानियों और समझदारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रगट किया है। २६ हां, हे पिता, क्योंकि तुम्हें यही अर्च्छा लगा। २७ मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता; और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र;

और वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे। २८ हे सब परिश्रम करनेवालो और बोझ से दबे हुए लोगो, मेरे पास आओ; मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। २९ मेरा जूझा अपने ऊपर उठा लो; और मुझ से सीखो; क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ; और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ३० क्योंकि मेरा जूझा सहज और मेरा बोझ हलका है।

१२ उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे। २ फरीसियो ने यह देखकर उस से कहा, देख, तेरे चले वह काम कर रहे हैं, जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। ३ उसने उन से कहा; क्या तुम ने नहीं पढ़ा, कि दाऊद ने, जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? ४ वह क्योंकर परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था? ५ या तुम ने व्यवस्था में नहीं पढ़ा, कि याजक सब्त के दिन मन्दिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। ६ पर मैं तुम से कहता हूँ, कि यहाँ वह है, जो मन्दिर से भी बड़ा है। ७ यदि तुम इस का अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं. तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। ८ मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है।

९ वहाँ से चलकर वह उन की सभा के घर में आया। १० और देखो, एक मनुष्य था, जिस का हाथ सूखा हुआ था; और

उन्होंने ने उस पर दोष लगाने के लिये उस से पूछा, कि क्या सप्त के दिन चंगा करना उचित है? ११ उस ने उन से कहा; तुम में ऐसा कौन है, जिस की एक ही भेड़ हो, और वह सप्त के दिन गड़हे में गिर जाए, तो वह उसे पकड़कर न निकाले? १२ भला, मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़ कर है; इसलिये सप्त के दिन भलाई करना उचित है: तब उस ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। १३ उस ने बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अर्च्छा हो गया। १४ तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की, कि उसे किस प्रकार नाश करें? १५ यह जानकर यीशु वहां से चला गया; और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए; और उस ने सब को चंगा किया। १६ और उन्हें चिताया, कि मुझे प्रगट न करना। १७ कि जो वचन यशयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। १८ कि देखो, यह मेरा सेवक है, जिसे मैं ने चुना है; मेरा प्रिय, जिस से मेरा मन प्रसन्न है: मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा; और वह अन्यजातियों को न्याय का समाचार देगा। १९ वह न भगड़ा करेगा, और न धूम मचाएगा; और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। २० वह कुचले हुए सरकण्डे को न तोड़ेगा; और धूम्रां देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए। २१ और अन्यजातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी ॥

२२ तब लोग एक अन्धे-भूंगे को जिस में दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए; और उस ने उसे अर्च्छा किया; और वह भूंगा बोलने और देखने लगा। २३ इस पर सब लोग

चकित होकर कहने लगे, यह क्या वाज्य की सन्तान का है? २४ परन्तु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान * की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। २५ उस ने उन के मन की बात जानकर उन से कहा; जिस किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिस में फूट होती है, बना न रहेगा। २६ और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वह अपना ही विरोधी हो गया है; फिर उसका राज्य क्योंकर बना रहेगा? २७ भला, यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे वंश किस की सहायता से निकालते हैं? इसलिये वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। २८ पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हू, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। २९ या क्योंकर कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहिले उस बलवन्त को न बान्ध ले? और तब वह उसका घर लूट लेगा। ३० जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है; और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिथराता है। ३१ इसलिये मैं तुम से कहता हूं, कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निन्दा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निन्दा क्षमा न की जाएगी। ३२ जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र-आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा

* यू० इब्लीस वा बालजबूल।

किया जाएगा। ३३ यदि पेड़ को भ्रच्छा कही, तो उसके फल को भी भ्रच्छा कही; या पेड़ को निकम्मा कही, तो उसके फल को भी निकम्मा कही; क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। ३४ हे साप के बच्चो, तुम बुरे होकर क्योंकर भ्रच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, वही मुंह पर आता है। ३५ भला, मनुष्य मन के भले भण्डार से भली बातें निकालता है; और बुरा मनुष्य बुरे भण्डार से बुरी बातें निकालता है। ३६ और मैं तुम से कहता हूँ, कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का खेला देगे। ३७ क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा।

३८ इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उस से कहा, हे गुरु, हम तुझ से एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ३९ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूँढते हैं; परन्तु यूनस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन को न दिया जाएगा। ४० यूनस तीन रात दिन जल-जन्तु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ४१ नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्हो ने यूनस का प्रचार सुनकर, मन फिराया और देखो, यहां वह है जो यूनस से भी बड़ा है। ४२ दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलैमान का ज्ञान सुनने के लिये पृथ्वी की छोर से आई, और देखो, यहां वह है जो सुलैमान से भी बड़ा है। ४३ जब भ्रशुद्ध आत्मा मनुष्य में

से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूँढती फिरती है, और पाती नहीं। ४४ तब कहती है, कि मैं अपने उसी घर में जहा से निकली थी, लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, भाड़ा-बुहारा और सजा-सजाया पाती है। ४५ तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उस में पैठकर वहा बास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी ॥

४६ जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तो देखो, उस की माता और भाई बाहर खड़े थे, और उस से बातें करना चाहते थे। ४७ किसी ने उस से कहा; देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, और तुझ से बातें करना चाहते हैं। ४८ यह सुन उस ने कहनेवाले को उत्तर दिया; कौन है मेरी माता? ४९ और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलो की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा; देखो; मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। ५० क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहिन और माता है ॥

१३ उसी दिन यीशु घर से निकल-कर भील के किनारे जा बैठा। २ और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। ३ और उस ने उन से दृष्टान्तों में बहुत सी बातें कही, कि देखो, एक बोनेवाला बीज बोने निकला। ४ बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। ५ कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरे, जहा

उन्हे बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। ६ पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। ७ कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। ८ पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, और फल लाए, कोई सौ गुना, कोई साठ गुना, कोई तीस गुना। ९ जिस के कान हों वह सुन ले।

१० और चेलो ने पास आकर उस से कहा, तू उन से दृष्टान्तों में क्यों बाते करता है? ११ उस ने उत्तर दिया, कि तुम को स्वर्ग के राज्य के भेदो की समझ दी गई है, पर उन को नहीं। १२ क्योंकि जिस के पास है, उसे दिया जाएगा; और उसके पास बहुत हो जाएगा; पर जिस के पास कुछ नहीं है, उस से जो कुछ उसके पास है, वह भी ले लिया जाएगा। १३ मैं उन से दृष्टान्तों में इसलिये बाते करता हूँ, कि वे देखते हुए नहीं देखते; और सुनते हुए नहीं सुनते; और नहीं समझते। १४ और उन के विषय में यशायाह की यह भविष्यद्वारणी पूरी होती है, कि तुम कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं; और आंखों से तो देखोगे, पर तुम्हें न सूझेगा। १५ क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूढ़ ली हैं; कही ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, और कानों से सुनें और मन से समझें, और फिर जाएं, और मैं उन्हें चंगा करूँ। १६ पर धन्य है तुम्हारी आंखें, कि वे देखती हैं; और तुम्हारे कान, कि वे सुनते हैं। १७ क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ, कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, देखें, पर न देखीं; और जो बातें तुम सुनते हो,

सुनें, पर न सुनीं। १८ सो तुम बोलनेवाले का दृष्टान्त सुनो। १९ जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है; यह वही है, जो मार्ग के किनारे बोया गया था। २० और जो पत्थरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है, जो वचन सुनकर तुरन्त आनन्द के साथ मान लेता है। २१ पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरन्त ठोकर खाता है। २२ जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिन्ता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। २३ जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है, जो वचन को सुनकर समझता है, और फल लाता है, कोई सौ गुना, कोई साठ गुना, कोई तीस गुना।

२४ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिस ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। २५ पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूँ के बीच जंगली बीज * बोकर चला गया। २६ जब अंकुर निकले और बालें लगीं, तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। २७ इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उस से कहा, हे स्वामी, क्या तू ने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पीछे उस में कहां से आए? २८ उस ने उन से कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उस से कहा, क्या तेरी इच्छा है, कि हम जाकर उन को

* शू० विजयानियुन।

बटोर लें? २६ उस ने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पीधे बटोरते हुए उन के साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। ३० कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटनेवालों से कहूँगा; पहिले जंगली दाने के पीधे बटोरकर जलाने के लिए उन के गट्टे बान्ध लो, और गेहूँ को मेरे खेत में इकट्ठा करो ॥

३१ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त दिया; कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया ३२ वह सब बीजों से छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है; और ऐसा पैड़ हो जाता है, कि आकाश के पक्षी आकर उस की डालियों पर बसेरा करते हैं ॥

३३ उस ने एक और दृष्टान्त उन्हें सुनाया; कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिस को किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी भाटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया ॥

३४ ये सब बातें यीशु ने दृष्टान्तों के लोगो से कही, और बिना दृष्टान्त वह उन से कुछ न कहता था। ३५ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो कि मैं दृष्टान्त कहने को अपना मुह खोलूँगा: मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रगट करूँगा ॥

३६ तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टान्त हमें समझा दे। ३७ उस ने उन को उत्तर दिया, कि अच्छे बीज का बोनेवाला मनुष्य का पुत्र है। ३८ खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के सन्तान, और जंगली बीज

दुष्ट के सन्तान है। ३९ जिस बंदी ने उन को बोया वह शैतान * है; कटनी जगत का भ्रन्त है: और काटनेवाले स्वर्गदूत हैं। ४० सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के भ्रन्त में होगा। ४१ मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करनेवालों को इकट्ठा करेंगे। ४२ और उन्हें प्राग के कुड में डालेंगे, वहा रोना और दांत पीसना होगा। ४३ उस समय धर्मि अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेगे; जिस के कान हो वह सुन ले ॥

४४ स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मारे भ्रानन्द के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया ॥

४५ फिर स्वर्ग का राज्य एक ब्योपारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। ४६ जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उस ने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया ॥

४७ फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। ४८ और जब भर गया, तो उस को किनारे पर खीच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बरतनों में इकट्ठा किया और निकम्मी, निकम्मी फेंक दीं। ४९ जगत के भ्रन्त में ऐसा ही होगा: स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, और उन्हें प्राग के कुड में डालेंगे। ५० वहा रोना और दांत पीसना होगा।

* यू० इब्लिस।

५१ क्या तुम ने ये सब बातें समझी ?
५२ उन्हीं ने उस से कहा, हां; उस ने उन से कहा, इसलिये हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भण्डार से नई और पुरानी वस्तुएँ निकालता है ॥

५३ जब यीशु ये सब दृष्टान्त कह चुका, तो वहाँ से चला गया। ५४ और अपने देश में आकर उन की सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा; कि वे चकित होकर कहने लगे; कि इस को यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले ? ५५ क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं ? और क्या इस की माता का नाम मरियम और इस के भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमोन और यहूदा नहीं ? ५६ और क्या इस की सब बहिनें हमारे बीच में नहीं रहती ? फिर इस को यह सब कहा से मिला ? ५७ सो उन्हीं ने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उन से कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कही निरादर नहीं होता। ५८ और उस ने वहाँ उन के अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए ॥

१४ उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। २ और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला है : वह मरे हुआ मे से जी उठा है, इसी लिये उस से सामर्थ्य के काम प्रगट होते हैं। ३ क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, यूहन्ना को पकड़कर बान्धा, और जेलखाने में डाल दिया था। ४ क्योंकि यूहन्ना ने उस से कहा था, कि इस को रखना तुम्हें उचित नहीं है। ५ और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगो से डरता था।

क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। ६ पर जब हेरोदेस का जन्म दिन आया, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। ७ इसलिये उस ने शपथ खाकर वचन दिया, कि जो कुछ तू मांगेगी, मैं तुम्हें दूंगा। ८ वह अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। ९ राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के, और साथ बैठनेवालों के कारण, आज्ञा दी, कि दे दिया जाए। १० और जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। ११ और उसका सिर थाल में लाया गया, और लड़की को दिया गया; और वह उस को अपनी मां के पास ले गई। १२ और उसके चेलों ने आकर और उस की लोथ को ले जाकर गाढ़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया ॥

१३ जब यीशु ने यह सुना, तो नाव पर चढ़कर वहा से किसी सुनसान जगह एकान्त में चला गया; और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। १४ उस ने निकलकर बडी भीड देखी; और उन पर तरस खाया; और उस ने उन के बीमारों को चगा किया। १५ जब सांभ हुआ, तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा; यह तो सुनसान जगह है, और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिये भोजन मोल ले। १६ यीशु ने उन से कहा, उन का जाना आवश्यक नहीं ! तुम ही इन्हें खाने को दो। १७ उन्हीं ने उस से कहा; यहां हमारे पास पांच रोटी और दो मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। १८ उस ने कहा, उन को यहां मेरे पास ले

आओ। १६ तब उस ने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन पांच रोटियों और दो मछलियों को लिया; और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटिया तोड़ तोड़कर चेलों को दी, और चेलो ने लोगों को। २० और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्हो ने बचे हुए टुकड़ो से भरी हुई बारह टोकरियां उठाईं। २१ और खानेवाले स्त्रियों और बालको को छोड़कर पांच हजार पुरुषो के अटकल थे।।

२२ और उस ने तुरन्त अपने चेलो को बरबस नाव पर चढ़ाया, कि वे उस से पहिले पार चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। २३ वह लोगो को विदा करके, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ गया; और साभू को वहा अकेला था। २४ उस समय नाव भील के बीच लहरो से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा साम्हने की थी। २५ और वह रात के चौथे पहर भील पर चलते हुए उन के पास आया। २६ चेले उस को भील पर चलते हुए देखकर घबरा गए! और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। २७ यीशु ने तुरन्त उन से बातें की, और कहा; ढाढस बान्धो; मैं हू; डरो मत। २८ पतरस ने उस को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। २९ उस ने कहा, आ : तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ३० पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा; हे प्रभु, मुझे बचा। ३१ यीशु ने तुरन्त हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, और उस से कहा, हे अल्प-विश्वासी, तू ने क्यों सन्देह किया ? ३२ जब वे नाव पर चढ़ गए, तो हवा थम

गई। ३३ इस पर जो नाव पर थे, उन्हों ने उसे दण्डवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है।।

३४ वे पार उतरकर गल्लेसरत देश में पहुँचे। ३५ और वहा के लोगों ने उसे पहचानकर आस पास के सारे देश में कहला भेजा, और सब बीमारो को उसके पास लाए। ३६ और उस से बिनती करने लगे, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आचल ही को छूने दे; और जितनों ने उसे छूआ, वे चगे हो गए।।

१५ तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। २ तेरे चले पुरनियों की रीतो को क्यों टालते है, कि बिना हाथ धोए रोटी खाते है ? उस ने उन को उत्तर दिया, कि तुम भी अपनी रीतो के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो ? ४ क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना : और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। ५ पर तुम कहते हो, कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, कि जो कुछ तुझे मुझ से लाभ पहुँच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी। ६ तो वह अपने पिता का आदर न करे, सो तुम ने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। ७ हे कपटियो, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यद्वाणी ठीक की। ८ कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते है, पर उन का मन मुझ से दूर रहता है। ९ और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियो को धर्मोपदेश करके सिखाते है। १० और उस ने लोगों को अपने पास बुलाकर उन से कहा, सुनो;

और समझो। ११ जो मुह में जाता है, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। १२ तब चेलो ने आकर उस से कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियो ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? १३ उस ने उत्तर दिया, हर पीघा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा। १४ उन को जाने दो; वे अन्धे मार्ग दिखाएवाले हैं: और अन्धा यदि अन्धे को मार्ग दिखाए, तो दोनो गड़हे में गिर पड़ेगे। १५ यह सुनकर, पतरस ने उस से कहा, यह दृष्टान्त हमें समझा दे। १६ उस ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? १७ क्या नहीं समझते, कि जो कुछ मुह में जाता, वह पेट में पड़ता है, और सगडाम में निकल जाता है? १८ पर जो कुछ मुह से निकलता है, वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। १९ क्योंकि कुचिन्ता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, भूठी गवाही और निन्दा मन ही से निकलती हैं। २० येही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परन्तु हाथ बिना घोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता ॥

२१ यीशु वहा से निकलकर, सूर और सैदा के देशो की ओर चला गया। २२ और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली, और चिल्लाकर कहने लगी; हे प्रभु दाऊद के सन्तान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। २३ पर उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया, और उसके चेलो ने आकर उस से बिनती कर कहा; इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। २४ उस ने उत्तर दिया, कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेडो को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा

गया। २५ पर वह घ्राई, और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। २६ उस ने उत्तर दिया, कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के भागे डालना अच्छा नहीं। २७ उस ने कहा, सत्य है प्रभु; पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं, जो उन के स्वामियो की भेष से गिरते हैं। २८ इस पर यीशु ने उस को उत्तर देकर कहा, कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है: जैसा तू चाहती है, तेरे लिये वैसा ही हो, और उस की बेटी उसी घडी से चगी हो गई ॥

२९ यीशु वहा से चलकर, गलील की भील के पास आया, और पहाड़ पर चढ़कर वहा बैठ गया। ३० और भीड़ पर भीड़ लगडों, अन्धो, गूगो, टुडों और बहुत औरो को लेकर उसके पास आए; और उन्हें उसके पावो पर डाल दिया, और उस ने उन्हें चगा किया। ३१ सो जब लोगो ने देखा, कि गूगो बोलते और टुण्डे चंगे होते और लगडें चलते और अन्धे देखते हैं, तो अचम्भा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की ॥

३२ यीशु ने अपने चेलो को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है; क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं और उन के पास कुछ खाने को नहीं; और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता; कही ऐसा न हो कि मार्ग में थककर रह जाए। ३३ चेलो ने उस से कहा, हमें इस जगल में कहा से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बडी भीड़ को तृप्त करे? ३४ यीशु ने उन से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा; सात और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ३५ तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। ३६ और उन सात रोटियो और मछलियो को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को

देता गया; और चले लोगों को। ३७ सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए सात टोकरे उठाए। ३८ और खानेवाले स्त्रियो और बालकों को छोड़ चार हजार पुरुष थे। ३९ तब वह भीड़ों को विदा करके नाव पर चढ़ गया, और मगदन देश के सिवानों में आया ॥

१६ और फरीसियो और सद्कियो ने पास आकर उसे परखने के लिये उस से कहा, कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। २ उस ने उन को उत्तर दिया, कि सांभ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। ३ और भोर को कहते हो, कि आज आन्धी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुमला है, तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते ? ४ इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूँढ़ते हैं पर यूनस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया ॥

५ और चले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। ६ यीशु ने उन से कहा, देखो; फरीसियो और सद्कियों के खमीर से चौकस रहना। ७ वे आपस में विचार करने लगे, कि हम तो रोटी नहीं लाए। ८ यह जानकर, यीशु ने उन से कहा, हे अल्प-विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? ९ क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन पांच हजार की पांच रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थीं? १० और न उन चार हजार की सात रोटी; और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे? ११ तुम क्यों नहीं समझते

कि मैं ने तुम से रोटियों के विषय में नहीं कहा? फरीसियों और सद्कियों के खमीर से चौकस रहना। १२ तब उन की समझ में आया, कि उस ने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियो और सद्कियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था।

१३ यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? १४ उन्हो ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला कहते हैं और कितने एलिय्याह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। १५ उस ने उन से कहा, परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो? १६ शमीन पतरस ने उत्तर दिया, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। १७ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि हे शमीन योना के पुत्र, तू धन्य है; क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परन्तु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रगट की है। १८ और मैं भी तुझ से कहता हूँ, कि तू पतरस है; और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा: और अघोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। १९ मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुजिया दूंगा: और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा; और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। २० तब उस ने चेलों को चिताया, कि किसी से न कहना! कि मैं मसीह हूँ।

२१ उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, कि मुझे आवश्यक है, कि यरूशलेम को जाऊँ, और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊँ; और मार डाला जाऊँ; और तीसरे दिन जी उठूँ। २२ इस पर पतरस उसे भ्रम

ले जाकर फिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे; तुझ पर ऐसा कभी न होगा। २३ उस ने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो : तू मेरे लिये ठोकर का कारण है; क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। २४ तब यीशु ने अपने चेलों से कहा; यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इन्कार करे और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। २५ क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा; और जो कोई मेरे लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा। २६ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? २७ मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। २८ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो यहां खड़े हैं, उन में से कितने ऐसे हैं; कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे।

१७ छः दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया, और उन्हें एकान्त में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। २ और उन के साम्हने उसका रूपान्तर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। ३ और देखो, मूसा और एलिव्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। ४ इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु,

हमारा यहां रहना अच्छा है; इच्छा हो तो यहां तीन मरहप बनाऊं; एक तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक एलिव्याह के लिये। ५ वह बोल ही रहा था, कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो; उस बादल में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मैं प्रसन्न हूँ : इस की सुनो। ६ चले यह सुनकर मुह के बल गिर गए और अत्यन्त डर गए। ७ यीशु ने पास आकर उन्हें छूआ, और कहा, उठो; डरो मत। ८ तब उन्हो ने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा ॥

९ जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी; कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओ में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुम ने देखा है किसी से न कहना। १० और उसके चेलों ने उस से पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं, कि एलिव्याह का पहले आना भवश्यक है? ११ उस ने उत्तर दिया, कि एलिव्याह तो आएगा : और सब कुछ सुधारेगा। १२ परन्तु मैं तुम से कहता हूँ, कि एलिव्याह आ चुका; और उन्हो ने उसे नहीं पहचाना; परन्तु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया : इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उन के हाथ से दुख उठाएगा। १३ तब चेलों ने समझा कि उस ने हम से यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के विषय में कहा है ॥

१४ जब वे भीड़ के पास पहुँचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया, और घुटने टेककर कहने लगा। १५ हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर; क्योंकि उस को मिर्गी आती है : और वह बहुत दुख उठाता है; और बार बार प्राण में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। १६ और मैं उस को तेरे

बेलों के पास लाया था, पर वे उसे ग्रन्थ नहीं कर सके। १७ यीशु ने उत्तर दिया, कि हे अविश्वासी और हठीले लोगो * में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा ? कब तक तुम्हारी सहंगा ? उसे यहां मेरे पास लाओ। १८ तब यीशु ने उसे घुड़का, और दुष्टात्मा उस में से निकला; और लड़का उसी घड़ी ग्रन्थ हो गया। १९ तब बेलों ने एकान्त में यीशु के पास आकर कहा; हम इसे क्यों नहीं निकाल सके ? २० उस ने उन से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण : क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, कि यहा से सरककर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा; और कोई बात तुम्हारे लिये अन्हीनी न होगी।

२१ जब वे गलील में थे, तो यीशु ने उन से कहा; मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। २२ और वे उसे मार डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। २३ इस पर वे बहुत उदास हुए।

२४ जब वे कफरनहूम में पहुंचे, तो मन्दिर के लिये कर लेनेवालों ने पतरस के पास आकर पूछा, कि क्या तुम्हारा गुरु मन्दिर का कर नहीं देता ? उस ने कहा, हा देता तो है। २५ जब वह घर में आया, तो यीशु ने उसके पूछने से पहिले उस से कहा, हे शमीन तू क्या समझता है ? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं ? अपने पुत्रों से या परायों से ? पतरस ने उन से कहा, परायों से। २६ यीशु ने उस से कहा, तो पुत्र बच गए। २७ तौभी इस लिये कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू भील के किनारे जाकर बसी डाल, और जो मछली

पहिले निकले, उसे ले; तो तुम्हें उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना ॥

१८ उसी घड़ी बेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है ? २ इस पर उस ने एक बालक को पास बुलाकर उन के बीच में खड़ा किया। ३ और कहा, मैं तुम से सच कहता हूं, यदि तुम न फिरों और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ४ जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ५ और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ६ पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिये भला होता, कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, और वह गहिरें समुद्र में डुबाया जाता। ७ ठोकरों के कारण संसार पर हाय ! ठोकरों का लगना अवश्य है; पर हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा ठोकर लगती है। ८ यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुम्हें ठोकर खिलाए, तो काटकर फेंक दे; टुण्डा या लगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनन्त आग में डाला जाए। ९ और यदि तेरी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर फेंक दे। १० काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग * में

* शू० पीदी।

* शू० आग के नरक में।

डाला जाए। ११ देखो, तुम इन छोटी में से किसी को तुच्छ न जानना; क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि स्वर्ग में उन के दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। १२ तुम क्या समझते हो? यदि किसी मनुष्य की सौ भेड़ें हो, और उन में से एक भटक जाए, तो क्या निम्नानवे को छोड़कर, और पहाड़ों पर जाकर, उस भटकी हुई को न ढूँढेगा? १३ और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वह उन निम्नानवे भेड़ों के लिये जो भटकी नहीं थी इतना आनन्द नहीं करेगा, जितना कि इस भेड़ के लिये करेगा। १४ ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं, कि इन छोटी में से एक भी नाश हो ॥

१५ यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा; यदि वह तेरी सुने तो तू ने अपने भाई को पा लिया। १६ और यदि वह न सुने, तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुह से ठहराई जाए। १७ यदि वह उन की भी न माने, तो कलीसिया से कह दे, परन्तु यदि वह कलीसिया की भी न माने, तो तू उसे अन्य-जाति और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान। १८ मैं तुम से सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बान्धोगे, वह स्वर्ग में बन्धेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में खुलेगा। १९ फिर मैं तुम से कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिये जिसे वे मांगें, एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उन के लिये हो जाएगी। २० क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उन के बीच में होता हूँ ॥

२१ तब पतरस ने पास आकर, उस से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूँ, क्या सात बार तक? २२ यीशु ने उस से कहा, मैं तुझ से यह नहीं कहता, कि सात बार, बरन सात बार के सत्तर गुने तक। २३ इस-लिये स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिस ने अपने दासो से लेखा लेना चाहा। २४ जब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन उसके साम्हने लाया गया जो दस हजार तोड़े धारता था। २५ जब कि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, कि यह और इस की पत्नी और लडकेबाले और जो कुछ इस का है सब बेचा जाए, और वह कर्ज चुका दिया जाए। २६ इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया, और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। २७ तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, और उसका धार क्षमा किया। २८ परन्तु जब वह दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासो में से एक उस को मिला, जो उसके सौ दीनार * धारता था, उस ने उसे पकड़कर उसका गला घोटा, और कहा; जो कुछ तू धारता है भर दे। २९ इस पर उसका संगी दास गिरकर, उस से बिनती करने लगा; कि धीरज धर मैं सब भर दूंगा। ३० उस ने न माना, परन्तु जाकर उसे बन्दीगृह में डाल दिया; कि जब तक कर्ज को भर न दे, तब तक वहीं रहे। ३१ उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। ३२ तब उसके स्वामी ने उस को

* दीनार लगभग आठ आने के था।

बुलाकर उस से कहा, हे युष्ट दास, तू ने जो मुझ से बिनती की, तो मैं ने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। ३३ सो जैसा मैं ने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुम्हें भी अपने सगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? ३४ और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दण्ड देनेवालों के हाथ में सौंप दिया, कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे, तब तक उन के हाथ में रहे। ३५ इसी प्रकार यदि तुम मे से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुम से भी वैसा ही करेगा ॥

१९ जब यीशु ये बातें कह चुका, तो गलील से चला गया; और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया। २ और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उस ने उन्हें वहा चंगा किया ॥

३ तब फरीसी उस की परीक्षा करने के लिये पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? ४ उस ने उत्तर दिया, क्या तुम ने नहीं पढ़ा, कि जिस ने उन्हें बनाया, उस ने आरम्भ से नर और नारी बनाकर कहा।

५ कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे? ६ सो वे अब दो नहीं, परन्तु एक तन हैं: इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे। ७ उन्होंने उस से कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया, कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? ८ उस ने उन से कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परन्तु आरम्भ से ऐसा नहीं था।

९ और मैं तुम से कहता हूँ, कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से, अपनी पत्नी को त्यागकर, दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है: और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे, वह भी व्यभिचार करता है। १० चेलो ने उस से कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा सम्बन्ध है, तो ब्याह करना अच्छा नहीं। ११ उस ने उन से कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिन को यह दान दिया गया है। १२ क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे; और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया: और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिये अपने आप को नपुंसक बनाया है, जो इस को ग्रहण कर सकता है, वह ग्रहण करे ॥

१३ तब लोग बालकों को उसके पास लाए, कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे; पर चेलो ने उन्हें डांटा। १४ यीशु ने कहा, बालको को मेरे पास आने दो. और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। १५ और वह उन पर हाथ रखकर, वहा से चला गया ॥

१६ और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उस से कहा, हे गुरु; मैं कौन सा भला काम करूँ, कि अनन्त जीवन पाऊँ? १७ उस ने उस से कहा, तू मुझ से भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है; पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर। १८ उस ने उस से कहा, कौन सी आज्ञाएँ? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, भूठी गवाही न देना। १९ अपने पिता और अपनी

माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। २० उस जवान ने उस से कहा, इन सब को तो मैं ने माना है अब मुझ में किस बात की घटी है ? २१ यीशु ने उस से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है; तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे; और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा; और आकर मेरे पीछे हो ले। २२ परन्तु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था ॥

२३ तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। २४ फिर तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है। २५ यह सुनकर, चेलो ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किस का उद्धार हो सकता है ? २६ यीशु ने उन की ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। २७ इस पर पतरस ने उस से कहा, कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं: तो हमें क्या मिलेगा ? २८ यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बारह सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे। २९ और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहिनों या पिता या माता या लड़केबालों या खेतों को मेरे नाम के लिये छोड़ दिया है, उस को सौ गुना मिलेगा: और वह अनन्त जीवन का अधिकारी होगा। ३० परन्तु बहुतेरे जो पहिले

हैं, पिछले होंगे; और जो पिछले है, पहिले होंगे ॥

२० स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है, जो सबेरे निकला, कि अपने दाख की बारी में मजदूरो को लगाए। २ और उस ने मजदूरों से एक दीनार * रोज पर ठहराकर, उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। ३ फिर पहर एक दिन चढ़े, निकलकर, और औरों को बाज़ार में बेकार खड़े देखकर, ४ उन से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है, तुम्हें दूंगा; सो वे भी गए। ५ फिर उस ने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर बैसा ही किया। ६ और एक घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया, और उन से कहा, तुम क्यों यहा दिन भर बेकार खड़े रहे ? उन्हो ने उस से कहा, इसलिये कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। ७ उस ने उन से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। ८ सांभ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भएडारी से कहा, मजदूरो को बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलो तक उन्हें मजदूरी दे दे। ९ सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दीनार मिला। १० जो पहिले आए, उन्हो ने यह समझा, कि हमें अधिक मिलेगा; परन्तु उन्हें भी एक ही एक दीनार मिला। ११ जब मिला, तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। १२ कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया, और तू ने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम सहा ? १३ उस

* एक अठन्नी के लगभग था।

ने उन में से एक को उत्तर दिया, कि हे मित्र, मैं तुम्ह से कुछ अन्याय नहीं करता; क्या तू ने मुझ से एक दीनार न ठहराया? १४ जो तेरा है, उठा ले, और चला जा; मेरी इच्छा यह है, कि जितना तुम्हें, उतना ही इस पिछले को भी दू। १५ क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहू सो करूँ? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? १६ इसी रीति से जो पिछले हैं, वे पहिले होंगे, और जो पहिले है, वे पिछले होंगे ॥

१७ यीशु यरूशलेम को जाते हुए बारह चेलों को एकान्त में ले गया, और मार्ग में उन से कहने लगा। १८ कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं; और मनुष्य का पुत्र महायाजको और शास्त्रियों के हाथ पकड़-बाया जाएगा, और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे। १९ और उस को अन्यायजातियों के हाथ सौंपेंगे, कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए, और कोड़े मारें, और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा ॥

२० तब जब्दी के पुत्रों की माता ने, अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया, और उस से कुछ मांगने लगी। २१ उस ने उस से कहा, तू क्या चाहती है? वह उस से बोली, यह कह, कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दहिने और एक तेरे बाएं बैठें। २२ यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उस से कहा, पी सकते हैं। २३ उस ने उन से कहा, तुम मेरा कटोरा तो पीओगे, पर अपने दहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिन के लिये भेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिये है। २४ यह सुनकर, दसों

चेलों ने उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। २५ यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो, कि अन्याय जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं; और जो बड़े हैं, वे उन पर अधिकार जताते हैं। २६ परन्तु तुम में ऐसा न होगा; परन्तु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। २७ और जो तुम में प्रधान होना चाहे, वह तुम्हारा दास बने। २८ जैसे कि मनुष्य का पुत्र, वह इसलिये नहीं आया कि उस की सेवा टहल किई जाए, परन्तु इसलिये आया कि आप सेवा टहल करे; और बहुतों की छुडीती के लिये अपने प्राण दे ॥

२९ जब वे यरीहो से निकल रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ३० और देखो, दो भ्रन्धे, जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकारकर कहने लगे; कि हे प्रभु, दाऊद के सन्तान, हम पर दया कर। ३१ लोगों ने उन्हें डांटा, कि चुप रहें; पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद के सन्तान; हम पर दया कर। ३२ तब यीशु ने खड़े होकर, उन्हें बुलाया, और कहा, ३३ तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिये करूँ? उन्होंने उस से कहा, हे प्रभु; यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। ३४ यीशु ने तरस खाकर उन की आंखें छर्ई, और वे तुरन्त देखने लगे; और उसके पीछे हो लिए ॥

२१ जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। २ कि अपने साम्हने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बन्धी हुई, और उसके साथ बच्चा तुम्हें

मिलेगा; उन्हें खोलकर, मेरे पास ले आओ। ३ यदि तुम से कोई कुछ कहे, तो कहो, कि प्रभु को इन का प्रयोजन है: तब वह तुरन्त उन्हें भेज देगा। ४ यह इसलिये हुआ, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो; ५ कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है; वह नम्र है और गदहे पर बैठा है; बरन लाडू के बच्चे पर। ६ चेलों ने जाकर, जैसा यीशु न उन से कहा था, वैसा ही किया। ७ और गदही और बच्चे को लाकर, उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। ८ और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाईं। ९ और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकारकर कहती थी, कि दाऊद के सन्तान को होशाना *; धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश † में होशाना। १० जब उस ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो सारे नगर में हलचल मच गई; और लोग कहने लगे, यह कौन है? ११ लोगो ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु हैं ॥

१२ यीशु ने परमेश्वर के मन्दिर में जाकर, उन सब को, जो मन्दिर में लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया; और सर्पियों के पीढ़े और कबूतरों के बेचनेवालों की चौकियां उलट दी। १३ और उन से कहा, लिखा है, कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा; परन्तु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। १४ और अन्धे और लंगड़े, मन्दिर में उसके पास आए, और

उस में उन्हें ढंगा किया। १५ परन्तु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन भद्भूत कामों को, जो उस ने किए, और लड़कों को मन्दिर में दाऊद के सन्तान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उस से कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? १६ यीशु ने उन से कहा, हा; क्या तुम ने यह कभी नहीं पढ़ा, कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुह से तू ने स्तुति सिद्ध कराई? १७ तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया, और वहां रात बिताई ॥

१८ और जो जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसे भूल लगी। १९ और अजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उस में और कुछ न पाकर उस से कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे; और अजीर का पेड़ तुरन्त सूख गया। २० यह देखकर चेलों ने अचम्भा किया, और कहा, यह अजीर का पेड़ क्योंकर तुरन्त सूख गया? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच कहता हू; यदि तुम विश्वास रखो, और सदेह न करो; तो न केवल यह करोगे, जो इस अजीर के पेड़ से किया गया है; परन्तु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, कि उखड़ जा; और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जायगा। २२ और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम को मिलेगा ॥

२३ वह मन्दिर में जाकर उपदेश कर रहा था, कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किस के अधिकार से करता है? और तुम्हें यह अधिकार किस ने दिया है? २४ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि

* अजन संहिता ११८: २५ को देखो।

† यू० कंथे से कंथे स्थान।

मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ; यदि वह मुझे बताओगे, तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा; कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। २५ यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे, कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हम से कहेगा, फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों न की? २६ और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है; क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। २७ सो उन्हो ने यीशु को उत्तर दिया, कि हम नहीं जानते; उस ने भी उन से कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता, कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। २८ तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे; उस ने पहिले के पास जाकर कहा; हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। २९ उस ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परन्तु पीछे पछता कर गया। ३० फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उस ने उत्तर दिया, जी हां जाता हूँ, परन्तु नहीं गया। ३१ इन दोनों में से किस ने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ने कहा, पहिले ने: यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि महसूल लेनेवाले और बेध्या तुम से पहिले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ३२ क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया, और तुम ने उस की प्रतीति न की: पर महसूल लेनेवालों और बेध्याओं ने उस की प्रतीति की: और तुम यह देखकर पीछे भी न पछताए कि उस की प्रतीति कर लेते ॥

३३ एक और दृष्टान्त सुनो: एक गृहस्थ था, जिस ने दाख की बारी लगाई; और उसके चारों ओर बाड़ा बान्धा; और

उस में रस का कुड खोदा; और गुम्मत बनाया; और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया। ३४ जब फल का समय निकट आया, तो उस ने अपने दासों को उसका फल लेने के लिये किसानों के पास भेजा। ३५ पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के, किसी को पीटा, और किसी को मार डाला; और किसी को पत्थरवाह किया। ३६ फिर उस ने और दासों को भेजा, जो पहिलों से अधिक थे; और उन्हो ने उन से भी वैसा ही किया। ३७ अन्त में उस ने अपने पुत्र को उन के पास यह कहकर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। ३८ परन्तु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ, उसे मार डालें: और उस की मीरास ले लें। ३९ और उन्होंने ने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। ४० इसलिये जब दाख की बारी का स्वामी आएगा, तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? ४१ उन्होंने उस से कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा; और दाख की बारी का ठीका और किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। ४२ यीशु ने उन से कहा, क्या तुम ने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ४३ यह प्रश्न की ओर से हुआ, और हमारे देखने में भद्भूत है, इसलिये मैं तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया जाएगा; और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, दिया जाएगा। ४४ जो इस पत्थर पर गिरेगा, वह चकनाचूर हो जाएगा: और जिस पर वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा।

४५ महायाजक और फरीसी उसके दृष्टान्तों को सुनकर समझ गए, कि वह हमारे विषय में कहता है। ४६ और उन्होंने ने उसे पकड़ना चाहा, परन्तु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे॥

२२ इस पर यीशु फिर उन से दृष्टान्तों में कहने लगा। २ स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिस ने अपने पुत्र का ब्याह किया। ३ और उस ने अपने दासों को भेजा, कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं; परन्तु उन्हो ने आना न चाहा। ४ फिर उस ने और दासों को यह कहकर भेजा, कि नेवताहारियों से कहो, देखो; मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं: और सब कुछ तैयार है; ब्याह के भोज में आओ। ५ परन्तु वे बेपरवाई करके चल दिए: कोई अपने खेत को, कोई अपने ब्योपार को। ६ औरो ने जो बच रहे थे उसके दासो को पकड़कर उन का अनादर किया और मार डाला। ७ राजा ने क्रोध किया, और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया, और उन के नगर को फूक दिया। ८ तब उस ने अपने दासो से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परन्तु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। ९ इसलिये चौराहों में जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिलें, सब को ब्याह के भोज में बुला लाओ। १० सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इकट्ठे किया; और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। ११ जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया; तो उस ने वहाँ एक मनुष्य को देखा, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहिने था। १२ उस ने उस से पूछा, हे

मित्र; तू ब्याह का वस्त्र पहिने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुँह बन्द हो गया। १३ तब राजा ने सेवकों से कहा, इस के हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अस्थियारे में डाल दो, वहा रोना, और दांत पीसना होगा। १४ क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परन्तु चुने हुए थोड़े हैं॥

१५ तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया, कि उस को किस प्रकार बातों में फंसाए। १६ सो उन्हो ने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, कि हे गुरु; हम जानते हैं, कि तू सच्चा है; और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है; और किसी की परवा नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुह देखकर बातें नहीं करता। १७ इसलिये हमें बता तू क्या समझता है? कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं। १८ यीशु ने उन की दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियो; मुझे क्यों परखते हो? १९ कर का सिक्का मुझे दिखाओ: तब वे उसके पास एक दीनार* ले आए। २० उस ने, उन से पूछा, यह मूर्ति और नाम किस का है? २१ उन्हों ने उस से कहा, कैसर का; तब उस ने, उन से कहा; जो कैसर का है, वह कैसर को; और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो। २२ यह सुनकर उन्हों ने अचम्भा किया, और उसे छोड़कर चले गए॥

२३ उसी दिन सड़की जो कहते हैं कि मरे हुएों का पुनस्त्यान है ही नहीं उसके पास आए, और उस से पूछा। २४ कि हे गुरु; मूसा ने कहा था, कि यदि कोई बिना सन्तान मर जाए, तो उसका भाई

* अठन्नी के लगभग।

उस की पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिये बंश उत्पन्न करे। २५ अब हमारे यहां सात भाई थे; पहिला ब्याह करके मर गया; और सन्तान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिये छोड़ गया। २६ इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और सातो तक यही हुआ। २७ सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। २८ सो जी उठने पर, वह उन सातो में से किस की पत्नी होगी? क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। २९ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते; इस कारण भूल में पड़ गए हो। ३० क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी; परन्तु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। ३१ परन्तु मरे हुएों के जी उठने के विषय में क्या तुम ने यह वचन नहीं पढा जो परमेश्वर ने तुम से कहा। ३२ कि मैं इस्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ? वह तो मरे हुएों का नहीं, परन्तु जीवतो का परमेश्वर है। ३३ यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए।

३४ जब फरीसियों ने सुना, कि उस ने सद्कियों का मुह बन्द कर दिया; तो वे इकट्ठे हुए। ३५ और उन में से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिये, उस से पूछा। ३६ हे गुरु; व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ३७ उस ने उस से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ३८ बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ३९ और उसी के समान यह दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ४० ये ही दो आज्ञाएं

सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है।

४१ जब फरीसी इकट्ठे थे, तो यीशु ने उन से पूछा। ४२ कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किस का सन्तान है? उन्होंने ने उस से कहा, दाऊद का। ४३ उस ने उन से पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? ४४ कि प्रभु ने, मेरे प्रभु से कहा; मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दू। ४५ भला, जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र क्योंकर ठहरा? ४६ उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका; परन्तु उस दिन से किसी को फिर उस से कुछ पूछने का हियाव न हुआ।

२३

तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलो से कहा। २ शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ३ इसलिये वे तुम से जो कुछ कहें वह करना, और मानना; परन्तु उन के से काम मत करना; क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। ४ वे एक ऐसे भारी बोझ को जिन को उठाना कठिन है, बान्धकर उन्हें मनुष्यों के कन्धों पर रखते हैं; परन्तु आप उन्हें अपनी उगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ५ वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिये करते हैं: वे अपने तावीजों को चौड़े करते, और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। ६ जेवनारो में मुख्य मुख्य जागहें, और सभा में मुख्य मुख्य आसन। ७ और बाजारो में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें माता है। ८ परन्तु, तुम रब्बी न कहलाना; क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है: और तुम सब भाई हो। ९ और

पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग में है। १० और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात् मसीह। ११ जो तुम में बड़ा हो, वह तुम्हारा सेवक बने। १२ जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा : और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा ॥

१३ हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाय ! तुम मनुष्यो के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बन्द करते हो, न तो आप ही उस में प्रवेश करते हो और न उस में प्रवेश करनेवालों को प्रवेश करने देते हो ॥

१५ हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाय ! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिये सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है, तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो ॥

१६ हे अन्धे भ्रगुवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मन्दिर की क्षपथ खाए तो कुछ नहीं, परन्तु यदि कोई मन्दिर के सोने की सौगन्ध खाए तो उस से बन्ध जाएगा। १७ हे मूर्खों, और अन्धों, कौन बड़ा है, सोना या वह मन्दिर जिस से सोना पवित्र होता है ? १८ फिर कहते हो, कि यदि कोई बेदी की क्षपथ खाए तो कुछ नहीं, परन्तु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उस की क्षपथ खाए तो बन्ध जाएगा।

१९ हे अन्धो, कौन बड़ा ह, भेंट या बेदी : जिस से भेंट पवित्र होता है ? २० इस-लिये जो बेदी की क्षपथ खाता है, वह उस की, और जो कुछ उस पर है, उस की भी क्षपथ खाता है। २१ और जो मन्दिर की क्षपथ खाता है, वह उस की और उस में

रहनेवाले की भी क्षपथ खाता है। २२ और जो स्वर्ग की क्षपथ खाता है, वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठनेवाले की भी क्षपथ खाता है ॥

२३ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी-सियो, तुम पर हाय; तुम पोदीने और सौफ और जीरे का दसवां भ्रंश देते हो, परन्तु तुम ने व्यवस्था की गम्भीर बातों को अर्थात् न्याय, और दया, और विश्वास को छोड़ दिया है; चाहिये था कि इन्हें भी करते रहते, और उन्हें भी न छोड़ते। २४ हे अन्धे भ्रगुवो, तुम मच्छड़ को तो छान डालते हो, परन्तु ऊट को निगल जाते हो ॥

२५ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी-सियो, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परन्तु वे भीतर अन्धेर असयम से भरे हुए हैं। २६ हे अन्धे फरीसी, पहिले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों ॥

२७ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी-सियो, तुम पर हाय; तुम चूना फिरी हुई कर्बों के समान हो जो ऊपर से तो सुन्दर दिखाई देती हैं, परन्तु भीतर मुदों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। २८ इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मा दिखाई देते हो, परन्तु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो ॥

२९ हे कपटी शास्त्रियो, और फरी-सियो, तुम पर हाय; तुम भविष्यद्वक्ताओं की कर्बें संवारते और धर्मियों की कर्बें बनाते हो। ३० और कहते हो, कि यदि हम अपने बापदावों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उन के साथी न होते। ३१ इस से तो तुम

अपने पर आप ही गवाही देते हो, कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातको की सन्तान हो। ३२ सो तुम अपने बापदादी के पाप का घडा भर दो। ३३ हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दण्ड से क्योंकर बचोगे? ३४ इसलिये देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ; और तुम उन में से कितनों को मार डालोगे, और क्रूस पर चढाओगे; और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। ३५ जिस से घर्मी हाबील से लेकर बिरिक्याह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुम ने मन्दिर * और बेदी के बीच में मार डाला था, जितने घर्मियों का लोह पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। ३६ मैं तुम से सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी ॥

३७ हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थरबाह करता है, कितनी ही बार मैं ने चाहा कि जैसे मुर्सी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूँ, परन्तु तुम ने न चाहा। ३८ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छोड़ा जाता है। ३९ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि अब से जब तक तुम न कहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे ॥

२४

जब यीशु मन्दिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चले उस

को मन्दिर की रचना दिखाने के लिये उसके पास आए। २ उस ने उन से कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुम से सच कहता हूँ, यहा पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, जो ढाया न जाएगा ॥

३ और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हम से कह कि ये बातें कब होंगी? और तेरे आने का, और जगत के अन्त * का क्या चिन्ह होगा? ४ यीशु ने उन को उत्तर दिया, सावधान रहो! कोई तुम्हें न भरमाने पाए। ५ क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि मैं मसीह हूँ; और बहुतों को भरमाएंगे। ६ तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे; देखो घबरा न जाना क्योंकि इन का होना अवश्य है, परन्तु उस समय अन्त न होगा। ७ क्योंकि जाति पर जाति, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भुईडोल होंगे। ८ ये सब बातें पीड़ाओं का आरम्भ होगी। ९ तब वे क्लेश दिलाने के लिये तुम्हें पकड़वाएंगे, और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुम से बैर रखेंगे। १० तब बहुतों ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ११ और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ सड़ें होंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। १२ और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठण्डा हो जाएगा। १३ परन्तु जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। १४ और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब

* अर्थात् पवित्रस्थान।

* ५० युग की समाप्ति।

जातियों पर गवाही हो, तब अन्त घा जाएगा ॥

१५ सो जब तुम उस उजाड़नेवाली घृणित वस्तु को जिस की चर्चा दानिय्येल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, (जो पड़े, वह समझे) । १६ तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ो पर भाग जाएं । १७ जो कोठे पर हो, वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे । १८ और जो खेत में हो, वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे । १९ उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के लिये हाय, हाय । २० और प्रार्थना किया करो; कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े । २१ क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरम्भ से न अब तक हुआ, और न कभी होगा । २२ और यदि वे दिन घटाए न जाते, तो कोई प्राणी न बचता; परन्तु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे । २३ उस समय यदि कोई तुम से कहे, कि देखो, मसीह यहा है । या वहा है तो प्रतीति न करना । २४ क्योंकि भूठे मसीह और भूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और बड़े चिन्ह, और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे । २५ देखो, मैं ने पहिले से तुम से यह सब कुछ कह दिया है । २६ इसलिये यदि वे तुम से कहे, देखो, वह जङ्गल में है, तो बाहर न निकल जाना; देखो, वह कोठरियो में है, तो प्रतीति न करना । २७ क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा । २८ जहां लोथ हो, वही गिद्ध इकट्ठे होंगे ॥

२९ उन दिनों के क्लेश के बाद तुरन्त

सूर्य अन्धियारा हो जाएगा, और चान्द का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी । ३० तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे; और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलो पर आते देखेंगे । ३१ और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, अपने दूतो को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक, चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे ॥

३२ अजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखो : जब उस की डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो, कि ग्रीष्म काल निकट है । ३३ इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो, कि वह निकट है, बरन द्वार ही पर है । ३४ मैं तुम से सब कहता हू, कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले, तब तक यह पीठी जाती न रहेगी । ३५ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेगी । ३६ उस दिन और उस घडी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, और न पुत्र, परन्तु केवल पिता । ३७ जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा । ३८ क्योंकि जैसे जल-प्रलय से पहिले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते-पीते थे, और उन में ब्याह शादी होती थी । ३९ और जब तक जल-प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उन को कुछ भी मालूम न पड़ा; वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा । -४० उस समय दो जन खेत में होंगे, एक

ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ४१ दो स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ४२ इसलिये जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। ४३ परन्तु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता; और अपने घर में सेंध लगने न देता। ४४ इसलिये तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ४५ सो वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, कि समय पर उन्हें भोजन दे? ४६ धन्य है, वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ४७ मैं तुम से सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। ४८ परन्तु यदि वह द्रुष्ट दास सोचने लगे, कि मेरे स्वामी के आने में देर है। ४९ और अपने साथी दासों को पीटने लगे, और पियक्कड़ों के साथ खाए पीए। ५० तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, जब वह उस की बाट न जोहता हो। ५१ और ऐसी घड़ी कि वह न जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर, उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा: वहाँ रोना और दांत पीसना होगा ॥

२५ तब स्वर्ग का राज्य उन दस कुवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलीं। २ उन में पांच मूर्ख और पांच समझदार थीं। ३ मूर्खों ने अपनी मशालें

तो लीं, परन्तु अपने साथ तेल नहीं लिया। ४ परन्तु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ५ जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब ऊँघने लगीं, और सो गईं। ६ आधी रात को धूम मची, कि देखो, दूल्हा आ रहा है, उस से भेंट करने के लिये चलो। ७ तब वे सब कुवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। ८ और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। ९ परन्तु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित् हमारे और तुम्हारे लिये पूरा न हो; भला तो यह है, कि तुम बेचनेवालों के पास जाकर अपने लिये मोल ले लो। १० जब वे मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुँचा, और जो तैयार थी, वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बन्द किया गया। ११ इसके बाद वे दूसरी कुवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिये द्वार खोल दे। १२ उस ने उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। १३ इसलिये जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को ॥

१४ क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिस ने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर, अपनी सम्पत्ति उन को सौंप दी। १५ उस ने एक को पांच तोड़, दूसरे को दो, और तीसरे को एक; अर्थात् हर एक को उस की सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। १६ तब जिस को पांच तोड़े मिले थे, उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन देन किया, और पांच तोड़े और कमाए। १७ इसी रीति से जिस को दो मिले थे,

उस ने भी दो और कमाए। १८ परन्तु जिस को एक मिला था, उस ने जाकर मिट्टी खोदी, और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। १९ बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उन से लेखा लेने लगा। २० जिस को पांच तोड़े मिले थे, उस ने पांच तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तू ने मुझे पांच तोड़े सौंपे थे, देख, मैं ने पांच तोड़े और कमाए हैं। २१ उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा; मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनन्द में सम्भागी हो। २२ और जिस को दो तोड़े मिले थे, उस ने भी आकर कहा; हे स्वामी, तू ने मुझे दो तोड़े सौंपे थे, देख, मैं ने दो तोड़े और कमाए। २३ उसके स्वामी ने उस से कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनन्द में सम्भागी हो। २४ तब जिस को एक तोड़ा मिला था, उस ने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, कि तू कठोर मनुष्य है: तू जहा कही नहीं बोता वहा काटता है, और जहा नहीं छीटता वहा से बटोरता है। २५ सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया; देख, जो तेरा है, वह यह है। २६ उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि हे दुष्ट और आलसी दास; जब यह तू जानता था, कि जहा मैं ने नहीं बोया वहां से काटता हूँ; और जहां मैं ने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ। २७ तो तुझे चाहिए था, कि मेरा रूपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता।

२८ इसलिये वह तोड़ा उस से ले लो, और जिस के पास दस तोड़े हैं, उस को दे दो। २९ क्योंकि जिस किसी के पास है, उसे और दिया जाएगा; और उसके पास बहुत हो जाएगा: परन्तु जिस के पास नहीं है, उस से वह भी जो उसके पास है, ले लिया जाएगा। ३० और इस निकम्मे दास को बाहर के अन्धेरे में डाल दो, जहां रोना और दात पीसना होगा ॥

३१ जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ३२ और सब जातिया उसके साम्हने इकट्ठी की जाएंगी; और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ३३ और वह भेड़ों को अपनी दहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। ३४ तब राजा अपनी दहिनी ओर वालो से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगो, आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिये तैयार किया हुआ है। ३५ क्योंकि मैं भूखा था, और तुम ने मुझे खाने को दिया; मैं पियासा था, और तुम ने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुम ने मुझे अपने घर में ठहराया। ३६ मैं नगा था, तुम ने मुझे कपड़े पहिनाए; मैं बीमार था, तुम ने मेरी सुधि ली, मैं बन्दीगृह में था, तुम मुझ से मिलने आए। ३७ तब धर्मी उस को उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हम ने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? या पियासा देखा, और पिलाया? ३८ हम ने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या नगा देखा, और कपड़े पहिनाए? ३९ हम ने

कब तुम्हें बीमार या बन्दीगृह में देखा और तुम्हें से मिलने आए? ४० तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ४१ तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे स्नापित लोगो, मेरे साम्हने से उस अनन्त भ्राग मे चले जाओ, जो शैतान * और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है। ४२ क्योंकि मैं भूखा था, और तुम ने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं पियासा था, और तुम ने मुझे पानी नहीं पिलाया। ४३ मैं परदेशी था, और तुम ने मुझे अपने घर मे नहीं ठहराया; मैं नंगा था, और तुम ने मुझे कपड़े नहीं पहिनाए; बीमार और बन्दीगृह में था, और तुम ने मेरी सुधि न ली। ४४ तब वे उत्तर देंगे, कि हे प्रभु, हम ने तुम्हें कब भूखा, या पियासा, या परदेशी, या नमा, या बीमार, या बन्दीगृह में देखा, और तेरी सेवा टहल न की? ४५ तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम ने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। ४६ और यह अनन्त दण्ड भोगेंगे † परन्तु धर्मी अनन्त जीवन मे प्रवेश करेंगे।

२६ जब यीशु ये सब बातें कह चुका, तो अपने चेलों से कहने लगा। २ तुम जानते हो, कि दो दिन के बाद फसह का पर्व होगा, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिये पकड़वाया जाएगा। ३ तब महायाजक और प्रजा के पुरनिए काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए। ४ और आपस में

* सू० इब्लीस † सू० में जायेंगे।

विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। ५ परन्तु वे कहते थे, कि पर्व के समय नहीं; कही ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए।

६ जब यीशु बैतनिय्याह में शमीन कोढ़ी के घर में था। ७ तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर उण्डेल दिया। ८ यह देखकर, उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इस का क्यों सत्यानाश किया गया? ९ यह तो अच्छे दाम पर बिककर कगालो को बाटा जा सकता था। १० यह जानकर यीशु ने उन से कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उस ने मेरे साथ भलाई की है। ११ कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परन्तु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। १२ उस ने मेरी देह पर जो यह इत्र उण्डेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिये किया है। १३ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि सारे जगत में जहा कही यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण मे किया जाएगा।

१४ तब यहूदा इस्करियोती नाम बारह चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, १५ यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दू, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने ने उसे तीस चान्दी के सिक्के तौलकर दे दिए। १६ और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का भवसर बूढ़ने लगा।

१७ अलमीरी रोटी के पर्व के पहिले दिन, चले यीशु के पास आकर पृछने लगे; तू कहा चाहता है कि हम तेरे लिये फसह खाने की तैयारी करें? १८ उस ने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उस से कहां,

कि गुरु कहता है, कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। १६ सो चेलो ने यीशु की आज्ञा मानी, और फसह तैयार किया। २० जब साभ हुई, तो वह बारहो के साथ भोजन करने के लिये बैठा। २१ जब वे खा रहे थे, तो उस ने कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। २२ इस पर वे बहुत उदास हुए, और हर एक उस से पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? २३ उस ने उत्तर दिया, कि जिस ने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा। २४ मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य के लिये शोक है जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है: यदि उस मनुष्य का जन्म न होता, तो उसके लिये भला होता। २५ तब उसके पकड़वानेवाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? २६ उस ने उस से कहा, तू कह चुका: जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली, और आशीष मागकर तोड़ी, और चेलो को देकर कहा, लो, खाओ; यह मेरी देह है। २७ फिर उस ने कटोरा लेकर, धन्यवाद किया, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इस में से पीओ। २८ क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लोहू है, जो बहुतो के लिये पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। २९ मैं तुम से कहता हूँ, कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ।

३० फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए।

३१ तब यीशु ने उन से कहा, तुम

सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, कि मैं चरवाहे को मारूंगा; और भूएड की भेड़ें तित्तर बित्तर हो जाएगी। ३२ परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाऊंगा। ३३ इस पर पतरस ने उस से कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएँ तो खाएँ, परन्तु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। ३४ यीशु ने उस से कहा, मैं तुम्ह से सच कहता हूँ, कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। ३५ पतरस ने उस से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तोभी मैं तुम्ह से कभी न मुकरूंगा और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा।

३६ तब यीशु अपने चेलो के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलो से कहने लगा कि यही बैठे रहना, जब तक कि मैं वहा जाकर प्रार्थना करूँ। ३७ और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रो को साथ ले गया, और उदास और ब्याकुल होने लगा। ३८ तब उस ने उन से कहा; मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं: तुम यही ठहरो, और मेरे साथ जागते रहो। ३९ फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुह के बल गिरा, और यह प्रार्थना करने लगा, कि हे मेरे पिता, यदि हो सके, तो यह कटोरा मुझ से टल जाए; तोभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परन्तु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ४० फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा; क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? ४१ जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो: आत्मा तो तैयार है, परन्तु शरीर

दुर्बल है। ४२ फिर उस ने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की; कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पीए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ४३ तब उस ने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उन की आंखें नींद से भरी थीं। ४४ और उन्हें छोड़कर फिर चला गया, और वही बात फिर कहकर, तीसरी बार प्रार्थना की। ४५ तब उस ने चेलों के पास आकर उन से कहा; अब सोते रहो, और विश्राम करो: देखो, बड़ी आ पहुंची है, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। ४६ उठो, चलें; देखो, मेरा पकड़वाने-बालू निकट आ पहुंचा है ॥

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो, यहूदा जो बारहों में से एक था, आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की और से बड़ी भीड़, तलवारें और लाठिया लिए हुए आई। ४८ उसके पकड़वानेवाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिस को मैं चूम लू वही है; उसे पकड़ लेना। ४९ और तुरन्त यीशु के पास आकर कहा; हे रब्बी नमस्कार; और उस को बहुत चूमा। ५० यीशु ने उस से कहा; हे मित्र, जिस काम के लिये तू आया है, उसे कर ले। तब उन्होंने ने पास आकर यीशु पर हाथ डाले, और उसे पकड़ लिया। ५१ और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उस का कान उड़ा दिया। ५२ तब यीशु ने उस से कहा; अपनी तलवार काठी में रख ले क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। ५३ क्या तू नहीं समझता, कि मैं अपने पिता से बिनती कर सकता हूँ, और वह स्वर्गदूतों

की बारह पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? ५४ परन्तु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, क्योंकि पूरी होंगी? ५५ उसी बड़ी यीशु ने भीड़ से कहा; क्या तुम तलवारों और लाठियों लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिये निकले हो? मैं हर दिन मन्दिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, और तुम ने मुझे नहीं पकड़ा। ५६ परन्तु यह सब इसलिये हुआ है, कि भविष्यद-वक्ताओं के वचन * पूरे हो: तब सब चले उसे छोड़कर भाग गए ॥

५७ और यीशु के पकड़नेवाले उस को काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिए इकट्ठे हुए थे। ५८ और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के प्रागन तक गया, और भीतर जाकर अन्त देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। ५९ महायाजक और सारी महा-सभा यीशु को मार डालने के लिये उसके विरोध में भूठी गवाही की खोज में थे। ६० परन्तु बहुत से भूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। ६१ अन्त में दो जनों ने आकर कहा, कि इस ने कहा है; कि मैं परमेश्वर के मन्दिर को ढा सकता हूँ और उसे तीन दिन में बना सकता हूँ। ६२ तब महायाजक ने खड़े होकर उस से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परन्तु यीशु चुप रहा: महायाजक ने उस से कहा। ६३ मैं तुम्हें जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो हम से कह दे। ६४ यीशु ने उस से कहा; तू ने आप ही कह दिया; बरन मैं

* सू० पवित्रशास्त्र।

तुम से यह भी कहता हूँ, कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान * की दहिनी और बैठे, और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ६५ तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इस ने परमेश्वर की निन्दा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? ६६ देखो, तुम ने अभी यह निन्दा सुनी है। तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह बध होने के योग्य है। ६७ तब उन्होने उस के मुह पर धूका, और उसे घूसे मारे, औरो ने शप्पड मार के कहा। ६८ हे मसीह, हम से भविष्यद्वाणी करके कह कि किस ने तुम्हें मारा?

६९ और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था; कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। ७० उस ने सब के साम्हने यह कहकर इन्कार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। ७१ जब वह बाहर डेबडी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर उन से जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। ७२ उस ने शपथ खाकर फिर इन्कार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। ७३ थोड़ी देर के बाद, जो वहा खड़े थे, उन्होंने ने पतरस के पास आकर उस से कहा, सचमुच तू भी उन में से एक है; क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। ७४ तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा, कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता; और तुरन्त मुर्ग ने बांग दी। ७५ तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहिले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा

* शू० सामर्थ।

और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा ॥

२७ जब भोर हुई, तो सब महायाजको और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की। २ और उन्होंने ने उसे बान्धा और ले जाकर पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया ॥

३ जब उसके पकडवानेवाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे तीस चान्दी के सिक्के महायाजको और पुरनियों के पास फेर लाया। ४ और कहा, मैं ने निर्दोषी को घात के लिये पकडवाकर पाप किया है? उन्होने कहा, हमें क्या? तू ही जान। ५ तब वह उन सिक्को को मन्दिर * में फेककर चला गया, और जाकर अपने आप को फासी दी। ६ महायाजको ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भण्डार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लोह का दाम है। ७ सो उन्होंने ने सम्मति करके उन सिक्को से परदेशियों के गाडने के लिये कुम्हार का खेत मोल ले लिया। ८ इस कारण वह खेत आज तक लोह का खेत कहलाता है। ९ तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्भक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ; कि उन्होने ने वे तीस सिक्के अर्थात् उस ठहराए हुए मूल्य को (जिसे इस्त्राएल की सन्तान में से कितनों ने ठहराया था) ले लिए। १० और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया ॥

११ जब यीशु हाकिम के साम्हने खड़ा था, तो हाकिम ने उस से पूछा; कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उस से कहा, तू आप ही कह रहा है। १२ जब

* शू० पवित्रस्थान।

महायाजक और पुरनिए उस पर दोष लगा रहे थे, तो उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया। १३ इस पर पीलातुस ने उस से कहा : क्या तू नहीं सुनता, कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहिया दे रहे हैं ? १४ परन्तु उस ने उस को एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। १५ और हाकिम की यह रीति थी, कि उस पर्व में लोगों के लिये किसी एक बन्धुए को जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। १६ उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बन्धुआ था। १७ सो जब वे इकट्ठे हुए, तो पीलातुस ने उन से कहा, तुम किस को चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिये छोड़ दूँ ? बरअब्बा को, या यीशु को जो मसीह कहलाता है ? १८ क्योंकि वह जानता था कि उन्हीं ने उसे डह से पकड़वाया है। १९ जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस की पत्नी ने उसे कहला भेजा, कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना; क्योंकि मैं ने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। २० महायाजको और पुरनियो ने लोगों को उभारा, कि वे बरअब्बा को माग ले, और यीशु को नाश कराए। २१ हाकिम ने उन से पूछा, कि इन दोनों में से किस को चाहते हो, कि तुम्हारे लिये छोड़ दूँ ? उन्हीं ने कहा; बरअब्बा को। २२ पीलातुस ने उन से पूछा; फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्या कष्ट ? सब ने उस से कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। २३ हाकिम ने कहा, क्यों उस ने क्या बुराई की है ? परन्तु वे और भी चिल्ला, चिल्लाकर कहने लगे, "वह क्रूस पर चढ़ाया जाए"। २४ जब पीलातुस ने देखा, कि कुछ बन नहीं पड़ता परन्तु इस के

विपरीत हुल्लड होता जाता है, तो उस ने पानी लेकर भीड़ के साम्हने अपने हाथ धोए, और कहा; मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूँ; तुम ही जानो। २५ सब लोगो ने उत्तर दिया, कि इस का लोहू हम पर और हमारी सन्तान पर हो। २६ इस पर उस ने बरअब्बा को उन के लिये छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवाकर सीप दिया, कि क्रूस पर चढ़ाया जाए।

२७ तब हाकिम के सिपाहियो ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहु ओर इकट्ठी की। २८ और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमिजी बागा पहिनाया। २९ और काटो का मुकुट गूथकर उसके सिर पर रखा; और उसके दहिने हाथ में सरकण्डा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे, कि हे यहूदियो के राजा नमस्कार। ३० और उस पर थूका, और वही सरकण्डा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। ३१ जब वे उसका ठट्टा कर चुके, तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहिनाए, और क्रूस पर चढ़ाने के लिये ले चले।

३२ बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्हीने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। ३३ और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। ३४ उन्हीं ने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परन्तु उस ने चखकर पीना न चाहा। ३५ तब उन्हीं ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, और चिट्टिया डालकर उसके कपड़े बाट लिए। ३६ और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। ३७ और उसका दोषपत्र, उसके

सिर के ऊपर लगाया, कि “यह यहूदियों का राजा यीशु है”। ३८ तब उसके साथ दो डाकू एक दहिने और एक बाए क़ूसो पर चढ़ाए गए। ३९ और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उस की निन्दा करते थे। ४० और यह कहते थे, कि हे मन्दिर के ढानेवाले और तीन दिन में बनानेवाले, अपने आप को तो बचा; यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क़ूस पर से उतर आ। ४१ इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठुठा कर करके कहते थे, इस ने औरो को बचाया, और अपने को नहीं बचा सकता। ४२ यह तो “इस्त्राएल का राजा है”। अब क़ूस पर से उतर आए, तो हम उस पर विश्वास करें। ४३ उस ने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इस को चाहता है, तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इस ने कहा था, कि “मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ”। ४४ इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क़ूसों पर चढ़ाए गए थे उस की निन्दा करते थे ॥

४५ दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अन्धेरा छाया रहा। ४६ तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, एली, एली, लमा शबक्तनी? अर्थात् हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया? ४७ जो वहां खड़े थे, उन में से कितनी ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। ४८ उन में से एक तुरन्त दौड़ा, और स्पंज लेकर सिरके मे डुबोया, और सरकण्डे पर रखकर उसे चुसाया। ४९ औरो ने कहा, रह जाओ, देखें, एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। ५० तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्ला-

कर प्राण * छोड़ दिए। ५१ और देखो, मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया: और घरती डोल गई और चटाने तड़क गई। ५२ और कन्नं खुल गई; और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथे जी उठी। ५३ और उसके जी उठने के बाद वे कन्नो मे से निकलकर पवित्र नगर में गए, और बहुतो को दिखाई दिए। ५४ तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भुईंठोल और जो कुछ हुआ था, देखकर अत्यन्त डर गए, और कहा, सचमुच “यह परमेश्वर का पुत्र था”। ५५ वहा बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। ५६ उन में मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी ॥

५७ जब सांभ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतियाह का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया: उस ने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। ५८ इस पर पीलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। ५९ यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्ज्वल चादर मे लपेटा। ६० और उसे अपनी नई कन्न मे रखा, जो उस ने चटान में खुदवाई थी, और कन्न के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढकाकर चला गया। ६१ और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कन्न के साम्हने बैठी थी ॥

६२ दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। ६३ हे महाराज, हमें स्मरण है,

* य० आत्मा।

कि उस भरमानेवाले ने अपने जीते जी कहा था, कि मैं तीन दिन के बाद जी उठूंगा। ६४ सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए, और लोगों से कहने लगे, कि वह मरे हुएों में से जी उठा है। तब पिछला घोखा पहिले से भी बुरा होगा। ६५ पीलातुस ने उन से कहा, तुम्हारे पास पहरूए तो हैं जाओ, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। ६६ सो वे पहरूओ को साथ ले कर गए, और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की ॥

२८ सन्त के दिन के बाद सप्ताह के पहिले दिन पह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। २ और देखो एक बड़ा भुईंड़ोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, और उस पर बैठ गया। ३ उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाईं उज्ज्वल था। ४ उसके भय से पहरूए कांप उठे, और मृतक समान हो गए। ५ स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, कि तुम मत डरो : मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था दूढ़ती हो। ६ वह यहां नहीं है, परन्तु अपने वचन के अनुसार जी उठा है; आओ, यह स्थान देखो, जहां प्रभु पड़ा था। ७ और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, कि वह मृतकों में से जी उठा है; और देखो वह तुम से पहिले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे, देखो, मैं ने तुम से कह दिया। ८ और वे भय और बढ़े आनन्द के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिये दौड़

गईं। ९ और देखो, यीशु उन्हें मिला, और कहा; 'सलाम' और उन्होंने ने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दगडवत किया। १० तब यीशु ने उन से कहा, मत डरो; मेरे भाइयों से जाकर कहो, कि गलील को चलें जाएं वहां मुझे देखेंगे ॥

११ वे जा ही रही थी, कि देखो, पहरूओ में से कितनो ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। १२ तब उन्हो ने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की, और सिपाहियों को बहुत चान्दी देकर कहा। १३ कि यह कहना, कि रात को जब हम सो रहे थे, तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। १४ और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। १५ सो उन्होंने ने छपए लेकर जैसा सिखाए गए थे, वैसा ही किया; और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है ॥

१६ और ग्यारह चेले गलील में उस पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। १७ और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को सन्देह हुआ। १८ यीशु ने उन के पास आकर कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। १९ इसलिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दी। २० और उन्हें सब बातें जो मैं ने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ : और देखो, मैं जगत के अन्त तक सदैव तुम्हारे संग हूँ ॥

मरकुस रचित सुसमाचार

१ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरम्भ। २ जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिये मार्ग सुधारेगा। ३ जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उस की सड़के सीधी करो। ४ यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता, और पापों की क्षमा के लिये मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। ५ और सारे यहूदिया देश के, और यरूशलेम के सब रहनेवाले निकलकर उसके पास गए, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उस से बपतिस्मा लिया। ६ यूहन्ना ऊंट के रोम का बस्त्र पहिने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बान्धे रहता था और टिड्डिया और बन मधु खाया करता था। ७ और यह प्रचार करता था, कि मेरे बाद वह आने वाला है, जो मुझ से शक्तिमान है; मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बन्ध खोलूँ। ८ मैं ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से * बपतिस्मा देगा ॥

६ उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर, यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। १० और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया, तो तुरन्त उस ने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा।

* यू० में।

११ और यह आकाशवाणी हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ से मैं प्रसन्न हूँ ॥

१२ तब आत्मा ने तुरन्त उस को जंगल की ओर भेजा। १३ और जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उस की परीक्षा की; और वह बन पशुओं के साथ रहा; और स्वर्गदूत उस की सेवा करते रहे ॥

१४ यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। १५ और कहा, समय पूरा हुआ है, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है; मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो ॥

१६ गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए, उस ने शमीन और उसके भाई अन्द्रियास को झील में जाल डालते देखा; क्योंकि वे मछुवे थे। १७ और यीशु ने उन से कहा; मेरे पीछे चले आओ; मैं तुम को मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा। १८ वे तुरन्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। १९ और कुछ आगे बढ़कर, उस ने जब्दी के पुत्र याकूब, और उसके भाई यूहन्ना को, नाव पर जालों को सुधारते देखा। २० उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया; और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर, उसके पीछे चले गए ॥

२१ और वे कफरनहूम में आए, और वह तुरन्त सप्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। २२ और

लोग उसके उपदेश से चकित हुए; क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाईं नहीं, परन्तु अधिकारी की नाईं उपदेश देता था। २३ और उसी समय, उन की सभा के घर में एक मनुष्य था, जिस में एक अशुद्ध आत्मा थी। २४ उस ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझ से क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन! २५ यीशु ने उसे डाटकर कहा, चुप रह; और उस में से निकल जा। २६ तब अशुद्ध आत्मा उस को मरोड़कर, और बड़े शब्द से चिल्लाकर उस में से निकल गई। २७ इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में बाद-बिबाद करने लगे कि यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है! वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उस की आज्ञा मानती हैं। २८ सो उसका नाम तुरन्त गलील के आस पास के सारे देश में हर जगह फैल गया ॥

२९ और वह तुरन्त आराधनालय में से निकलकर, याकूब और यूहन्ना के साथ शमोन और अन्द्रियास के घर आया। ३० और शमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने ने तुरन्त उसके विषय में उस से कहा। ३१ तब उस ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया; और उसका ज्वर उस पर से उतर गया, और वह उन की सेवा-टहल करने लगी ॥

३२ सन्ध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिन में दुष्टात्माएं थीं उसके पास लाए। ३३ और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। ३४ और उस ने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, चंगा किया;

और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला; और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थीं ॥

३५ और भोर को दिन निकलने से बहुत पहिले, वह उठकर निकला, और एक जगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ३६ तब शमोन और उसके साथी उस की खोज में गए। ३७ जब वह मिला, तो उस से कहा; कि सब लोग तुझे ढूढ़ रहे हैं। ३८ उस ने उन से कहा, आओ; हम और कहीं आस पास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी लिये निकला हूँ। ३९ सो वह सारे गलील में उन की सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा ॥

४० और एक कोठी ने उसके पास आकर, उस से बिनती की, और उसके साम्हने घुटने टेककर, उस से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ४१ उस ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, और उसे छूकर कहा; मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। ४२ और तुरन्त उसका कोढ़ जाता रहा, और वह शुद्ध हो गया। ४३ तब उस ने उसे चिताकर तुरन्त बिदा किया। ४४ और उस से कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परन्तु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। ४५ परन्तु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा, कि यीशु फिर खुल्लमखुल्ला नगर में न जा सका, परन्तु बाहर जंगली स्थानों में रहा; और चहुंभोर से लोग उसके पास आते रहे ॥

२ कई दिन के बाद वह फिर कफर-नहूम में आया और सुना गया, कि वह घर में है। २ फिर इतने लोग इकट्ठे हुए, कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली; और वह उन्हें वचन सुना रहा था। ३ और लोग एक भोले के मारे हुए को चार मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। ४ परन्तु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँच सके, तो उन्होंने उस छत को जिस के नीचे वह था, खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर भोले का मारा हुआ पडा था, लटका दिया। ५ यीशु ने, उन का विश्वास देखकर, उस भोले के मारे हुए से कहा; हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ६ तब कई एक शास्त्री जो बहा बैठे थे, अपने अपने मन में बिचार करने लगे। ७ कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निन्दा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ८ यीशु ने तुरन्त अपनी आत्मा में जान लिया, कि वे अपने अपने मन में ऐसा बिचार कर रहे हैं, और उन से कहा, तुम अपने अपने मन में यह बिचार क्यों कर रहे हो? ९ सहज क्या है? क्या भोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? १० परन्तु जिस से तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है (उस ने उस भोले के मारे हुए से कहा)। ११ मैं तुम्हें से कहता हूँ; उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। १२ और वह उठा, और तुरन्त खाट उठाकर और सब के साम्हने से निकलकर चला गया, इस पर सब चकित हुए, और परमेश्वर की बड़ाई करके

कहने लगे, कि हम ने ऐसा कभी नहीं देखा ॥

१३ वह फिर निकलकर भील के किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास आई, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। १४ जाते हुए उस ने हलफई के पुत्र लेवी को चुङ्गी की चौकी पर बैठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो ले। १५ और वह उठकर, उसके पीछे हो लिया; और वह उसके घर में भोजन करने बैठा, और बहुत से चुङ्गी लेनेवाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे; क्योंकि वे बहुत से थे, और उसके पीछे हो लिए थे। १६ और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर, कि वह तो पापियों और चुङ्गी लेनेवालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा; वह तो चुङ्गी लेनेवालो और पापियों के साथ खाता पीता है! १७ यीशु ने यह सुनकर, उन से कहा, भले जगो को बंध की आवश्यकता नहीं, परन्तु बीमारों को है; मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ ॥

१८ यूहन्ना के चले, और फरीसी उपवास करते थे; सो उन्हो ने आकर उस से यह कहा; कि यूहन्ना के चले और फरीसियों के चले क्यों उपवास रखते हैं? परन्तु तेरे चले उपवास नहीं रखते। १९ यीशु ने उन से कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उन के साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। २० परन्तु वे दिन आएंगे, कि दूल्हा उन से अलग किया जाएगा; उस समय वे उपवास करेंगे। २१ कोरे कपड़े का पैबन्द पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता; नहीं तो वह पैबन्द उस में से कुछ खींच लेगा, अर्थात्

नया, पुराने से, और वह और फट जाएगा । २२ नये दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा, और दाखरस और मशकों दोनों नष्ट हो जाएंगी; परन्तु दाखरस का नया रस नई मशकों में भरा जाता है ॥

२३ और ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था; और उसके चले चलते हुए बाले तोड़ने लगे । २४ तब फरीसियों ने उस से कहा, देख; ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? २५ उस ने उन से कहा, क्या तुम ने कभी नहीं पढ़ा, कि जब दाऊद को प्रावश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उस ने क्या किया था? २६ उस ने क्योंकि अबियातार महायाजक के समय, परमेश्वर के भवन में जाकर, भेंट की रोटिया खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दीं? २७ और उस ने उन से कहा; सब्त का दिन मनुष्य के लिये बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिये । २८ इसलिये मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है ॥

२ और वह धाराधनालय में फिर गया; और वहाँ एक मनुष्य था, जिस का हाथ सूख गया था । २ और वे उस पर दोष लगाने के लिये उस की घात में लगे हुए थे, कि देखें, वह सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं । ३ उस ने सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा; बीच में खड़ा हो । ४ और उन से कहा; क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे ।

५ और उस ने उन के मन की कठोरता से उदास होकर, उन को क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा उस ने बढ़ाया, और उसका हाथ अच्छा हो गया । ६ तब फरीसी बाहर जाकर तुरन्त हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे, कि उसे किस प्रकार नाश करें ॥

७ और यीशु अपने चेलों के साथ भील की ओर चला गया; और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली । ८ और यहूदिया, और यरूशलेम और इद्रूमिया से, और यरदन के पार, और सूर और सैदा के पासपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर, कि वह कैसे अचम्भे के काम करता है, उसके पास आई । ९ और उस ने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिये तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें । १० क्योंकि उस ने बहुतों को चंगा किया था; इसलिये जितने लोग रोग से ग्रसित थे, उसे छूने के लिये उस पर गिरे पड़ते थे । ११ और अशुद्ध आत्माएं भी, जब उसे देखती थीं, तो उसके प्रागे गिर पड़ती थीं, और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है । १२ और उस ने उन्हें बहुत चिताया, कि मुझे प्रगट न करना ॥

१३ फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया; और वे उसके पास चले आए । १४ तब उस ने बारह पुरुषों को नियुक्त किया, कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे, कि प्रचार करें । १५ और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें । १६ और वे ये हैं: शमीन जिस का नाम उस ने पतरस रखा । १७ और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यहूआ,

जिनका नाम उस ने ब्रह्मनरगिस, अर्थात् गर्जन के पुत्र रखा। १८ और अग्निदास, और फिलिप्पुस, और बरतुलमै, और मत्ती, और घोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और तद्दी, और शमीन कनानी। १९ और यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकडवा भी दिया।।

२० और वह घर में आया : और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई, कि वे रोटी भी न खा सके। २१ जब उसके कुटुम्बियों ने यह सुना, तो उसे पकड़ने के लिये निकले; क्योंकि कहते थे, कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। २२ और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, यह कहते थे, कि उस में शैतान * है, और यह भी, कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। २३ और वह उन्हें पास बुलाकर, उन से दृष्टान्तों में कहने लगा; शैतान क्योंकि शैतान को निकाल सकता है? २४ और यदि किसी राज्य में फूट पड़े, तो वह राज्य क्योंकि स्थिर रह सकता है? २५ और यदि किसी घर में फूट पड़े, तो वह घर क्योंकि स्थिर रह सकेगा? २६ और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले, तो वह क्योंकि बना रह सकता है? उसका तो अन्त ही हो जाता है। २७ किन्तु कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहिले उस बलवन्त को न बाण्ड ले; और तब उसके घर को लूट लेगा। २८ मैं तुम से सब कहता हूँ, कि मनुष्यों की सन्तान के सब पाप और निन्दा जो वे करते हैं, क्षमा की जाएगी। २९ परन्तु जो कोई

पवित्रात्मा के विरुद्ध निन्दा करे, वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा : बरन वह अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है। ३० क्योंकि वे यह कहते थे, कि उस में अशुद्ध आत्मा है।।

३१ और उस की माता और उसके भाई आए, और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। ३२ और भीड़ उसके पासपास बैठी थी, और उन्होंने ने उस से कहा; देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुम्हें बुद्धते है। ३३ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरी माता और मेरे भाई कौन है? ३४ और उन पर जो उसके पासपास बैठे थे, दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई यह हैं। ३५ क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, और बहिन और माता है।।

४ वह फिर भील के किनारे उपदेश देने लगा : और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, कि वह भील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर भील के किनारे खड़ी रही। २ और वह उन्हें दृष्टान्तों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उन से कहा। ३ सुनो : देखो, एक बोनेवाला, बीज बोने के लिये निकला ! ४ और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ५ और कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहां उस को बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया। ६ और जब सूर्य निकला, तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। ७ और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वह फल न

* यू० बालजबूल।

लाया। ८ परन्तु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा, और बढ़कर फलवन्त हुआ; और कोई तीस गुणा, कोई साठ गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया। ९ और उस ने कहा, जिस के पास सुनने के लिये कान हों वह सुन ले ॥

१० जब वह अकेला रह गया, तो उसके साथियो ने उन बारह समेत उस से इन दृष्टान्तों के विषय में पूछा। ११ उस ने उन से कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ * दी गई है, परन्तु बाहर-बालो के लिये सब बातें दृष्टान्तों में होती हैं। १२ इसलिये कि वे देखते हुए देखे और उन्हें मुझाई न पड़े और सुनते हुए सुनें भी और न समझें; ऐसा न हो कि वे फिरें, और क्षमा किए जाएं। १३ फिर उस ने उन से कहा; क्या तुम यह दृष्टान्त नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टान्तों को क्योंकर समझोगे? १४ बोलनेवाला वचन बोता है। १५ जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं, कि जब उन्हो ने सुना, तो शैतान तुरन्त आकर वचन को जो उन में बोया गया था, उठा ले जाता है। १६ और वैसे ही जो पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं, कि जो वचन को सुनकर तुरन्त आनन्द से ग्रहण कर लेते हैं। १७ परन्तु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिये रहते हैं; इस के बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरन्त ठोकर खाते हैं। १८ और जो भाडियो में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। १९ और ससार की चिन्ता, और धन का धोखा, और और

वस्तुओं का लोभ उन में समाकर वचन की दबा देता है। और वह निष्फल रह जाता है। २० और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं, जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई तीस गुणा, कोई साठ गुणा, और कोई सौ गुणा ॥

२१ और उस ने उन से कहा, क्या दिये को इसलिये लाते हैं कि पैमाने * या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिये नहीं, कि दीवट पर रखा जाए? २२ क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परन्तु इसलिये कि प्रगट हो जाए; २३ और न कुछ गुप्त है पर इसलिये कि प्रगट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हों, तो सुन ले। २४ फिर उस ने उन से कहा, चौकस रहो, कि क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिये भी नापा जाएगा, और तुम को अधिक दिया जाएगा। २५ क्योंकि जिस के पास है, उस को दिया जाएगा; परन्तु जिस के पास नहीं है उस से वह भी जो उसके पास है; ले लिया जाएगा ॥

२६ फिर उस ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। २७ और रात को सोए, और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। २८ पृथ्वी आप से आप फल लाती है पहिले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। २९ परन्तु जब दाना पक जाता है, तब वह तुरन्त हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है ॥

३० फिर उस ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें, और किस

* मूल में, का भेद दिया गया।

* एक बरतन जिस में डेढ़ मन अनाज नापा जाता है।

दृष्टान्त से उसका वर्णन करें? ३१ वह राई के दाने के समान है; कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। ३२ परन्तु जब बोया गया, तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती हैं, कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं।।

३३ और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टान्त दे देकर उन की समझ के अनुसार वचन सुनाता था। ३४ और बिना दृष्टान्त कहे उन से कुछ भी नहीं कहता था; परन्तु एकान्त में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था।।

३५ उसी दिन जब साभ हुई, तो उस ने उन से कहा, आओ, हम पार चलें। ३६ और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले; और उसके साथ, और भी नावें थी। ३७ तब बड़ी आन्धी आई, और लहरें नाव पर यहां तक लगी, कि वह अब पानी से भरी जाती थी। ३८ और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था; तब उन्हो ने उसे जगाकर उस से कहा; हे गुरु, क्या तुम्हें चिन्ता नहीं, कि हम नाश हुए जाते हैं? ३९ तब उस ने उठकर आन्धी को डांटा, और पानी से कहा; "शान्त रह, थम जा" : और आन्धी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ४० और उन से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ४१ और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है, कि आन्धी और पानी भी उस की आज्ञा मानते हैं?

५ और वे झील के पार गिरासेनियो के देश में पहुँचे। २ और जब वह

नाव पर से उतरा तो तुरन्त एक मनुष्य जिस में अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। ३ वह कब्रों में रहा करता था। और कोई उसे साकलों से भी न बान्ध सकता था। ४ क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बान्धा गया था, पर उस ने साकलों को तोड़ दिया, और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे बश में नहीं कर सकता था। ५ वह लगातार रात-दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, और अपने को पत्थरों से घायल करता था। ६ वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, और उसे प्रणाम किया। ७ और ऊँचे शब्द से चिल्लाकर कहा; हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुम्ह से क्या काम? मैं तुम्हें परमेश्वर की शपथ देता हूँ, कि मुझे पीड़ा न दे। ८ क्योंकि उस ने उस से कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। ९ उस ने उस से पूछा; तेरा क्या नाम है? उस ने उस से कहा, मेरा नाम सेना * है; क्योंकि हम बहुत हैं। १० और उस ने उस से बहुत बिनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। ११ वहा पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा था। १२ और उन्हो ने उस से बिनती करके कहा, कि हमें उन सूअरों में भेज दे, कि हम उन के भीतर जाएं। १३ सो उस ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर पैठ गई और झुण्ड, जो कोई दो हजार का था, कड़ाढ़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा, और डूब मरा। १४ और उन के चरबाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया।।

* यू० लिंगियोन अर्थात् ६,००० सिपाहियों की सेना।

१५ और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए। और यीशु के पास आकर, वे उस को जिस में दुष्टात्माएं थी, भर्थात् जिस में सेना समाई थी, कपड़े पहिने और सचेत बैठे देखकर, डर गए। १६ और देखनेवालो ने उसका जिस में दुष्टात्माएं थीं, और सूत्रों का पूरा हाल, उन को कह सुनाया। १७ और वे उस से बिनती कर के कहने लगे, कि हमारे सिवानों से चला जा। १८ और जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह जिस में पहिले दुष्टात्माएं थीं, उस से बिनती करने लगा, कि मुझे अपने साथ रहने दे। १९ परन्तु उस ने उसे आज्ञा न दी, और उस से कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिये कैसे बड़े काम किए हैं। २० वह जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा, कि यीशु ने मेरे लिये कैसे बड़े काम किए; और सब अचम्भा करते थे ॥

२१ जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई; और वह झील के किनारे था। २२ और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया, और उसे देखकर, उसके पांवों पर गिरा। २३ और उस ने यह कहकर बहुत बिनती की, कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है: तू आकर उस पर हाथ रख, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। २४ तब वह उसके साथ चला; और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे ॥

२५ और एक स्त्री, जिस को बारह वर्ष से लोहू बहने का रोग था। २६ और जिस ने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी

कुछ लाभ न उठाया था, परन्तु और भी रोगी हो गई थी। २७ यीशु की चर्चा सुनकर, भीड़ में उसके पीछे से आई, और उसके वस्त्र को छू लिया। २८ क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। २९ और तुरन्त उसका लोहू बहना बन्द हो गया; और उस ने अपनी देह में जान लिया, कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। ३० यीशु ने तुरन्त अपने में जान लिया, कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा; मेरा वस्त्र किस ने छूआ?

३१ उसके चेलो ने उस से कहा; तू देखता है, कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है; कि किस ने मुझे छूआ? ३२ तब उस ने उसे देखने के लिये जिस ने यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। ३३ तब वह स्त्री यह जानकर, कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, और उसके पांवों पर गिरकर, उस से सब हाल सच सच कह दिया। ३४ उस ने उस से कहा; पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चगा किया है: कुशल से जा, और अपनी इस बीमारी से बची रह ॥

३५ वह यह कह ही रहा था, कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, कि तेरी बेटी तो मर गई; अब गुरु को क्यों दुख देता है? ३६ जो बात वे कह रहे थे, उस को यीशु ने अनसुनी करके, आराधनालय के सरदार से कहा; मत डर; केवल विश्वास रख। ३७ और उस ने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़, और किसी को अपने साथ आने न दिया। ३८ और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर, उस ने लोगों को बहुत रोते और थिल्लाते देखा।

३६ तब उस ने भीतर जाकर उस से कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परन्तु सो रही है। ४० वे उस की हंसी करने लगे, परन्तु उस ने सब को निकालकर लड़की के माता-पिता और अपने साथियों को लेकर, भीतर जहां लड़की पड़ी थी, गया। ४१ और लड़की का हाथ पकड़कर उस से कहा, 'तलीता कूमी'; जिस का अर्थ यह है कि 'हे लड़की, मैं तुम्ह से कहता हूँ, उठ'। ४२ और लड़की तुरन्त उठकर चलने फिरने लगी; क्योंकि वह बारह वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। ४३ फिर उस ने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा; कि उसे कुछ खाने को दिया जाए ॥

६ वहां से निकलकर वह अपने देश में आया, और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। २ सन्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा; और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इस को ये बातें कहां से आ गईं? और यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया गया है? और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रगट होते हैं? ३ क्या यह वही बढ़ई नहीं, जो मरियम का पुत्र, और याकूब और योसेस और यहूदा और शमीन का भाई है? और क्या उस की बहिनें यहां हमारे बीच में नहीं रहतीं? इसलिये उन्होंने ने उसके विषय में ठोकर खाई। ४ यीशु ने उन से कहा, कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। ५ और वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न

कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया ॥

६ और उस ने उन के भविष्यवास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा ॥

७ और वह बारहों को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा; और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। ८ और उस ने उन्हें आज्ञा दी, कि मार्ग के लिये साठी छोड़ और कुछ न लो; न तो रोटी, न भोली, न पटके में पैसे। ९ परन्तु जूतियां पहिनो और दो दो कुरते न पहिनो। १० और उस ने उन से कहा; जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो, तब तक उसी में ठहरे रहो। ११ जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, और तुम्हारी न सुनें, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो। १२ और उन्होंने ने जाकर प्रचार किया, कि मन फिराओ। १३ और बहुतेरे दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया ॥

१४ और हेरोदेस राजा ने उस की चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उस ने कहा, कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला मरे हुएों में से जी उठा है, इसी लिये उस से ये सामर्थ्य के काम प्रगट होते हैं। १५ और औरों ने कहा, यह एलिव्याह है, परन्तु औरों ने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। १६ हेरोदेस ने यह सुन कर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैं ने कटवाया था, वही जी उठा है। १७ क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी

हेरोदियास के कारण, जिस से उस ने व्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बन्दीगृह में डाल दिया था। १८ क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुम्हें उचित नहीं। १९ इसलिये हेरोदियास उस से बैर रखती थी और यह चाहती थी, कि उसे मरवा डाले, परन्तु ऐसा न हो सका। २० क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उस से डरता था, और उसे बचाए रखता था, और उस की सुनकर बहुत घबराता था, पर भ्रान्त से सुनता था। २१ और ठीक भ्रवसूर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों, और गलील के बड़े लोगों के लिये जेवनार की। २२ और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई, और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठनेवालों को प्रसन्न किया; तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझ से माग मैं तुम्हें दूंगा। २३ और उस से शपथ खाई, कि मैं अपने भाधे राज्य तक जो कुछ तू मुझ से मागेगी मैं तुम्हें दूंगा। २४ उस ने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, कि मैं क्या मांगू? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर। २५ वह तुरन्त राजा के पास भीतर आई, और उस से बिनती की; मैं चाहती हूँ, कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। २६ तब राजा बहुत उदास हुआ, परन्तु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठनेवालों के कारण उसे टालना न चाहा। २७ और राजा ने तुरन्त एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा, कि उसका सिर काट लाए। २८ उस ने जेलखाने में जाकर उसका सिर काटा,

और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। २९ यह सुनकर उसके चले आए, और उस की लोथ को उठाकर कब्र में रखा ॥

३० प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर, जो कुछ उन्हो ने किया, और सिखाया था, सब उस को बता दिया। ३१ उस ने उन से कहा; तुम आप भ्रलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे, और उन्हें खाने का भ्रवसर भी नहीं मिलता था। ३२ इसलिये वे नाथ पर चढ़कर, सुनसान जगह में भ्रलग चले गए। ३३ और बहुतो ने उन्हें जाते देखकर पहिचान लिया, और सब नगरो से इकट्ठे होकर वहा पैदल दौड़े और उन से पहिले जा पहुचे। ३४ उस ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी, और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन मेड़ो के समान थे, जिन का कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। ३५ जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके चले उसके पास आकर कहने लगे; यह सुनसान जगह है, और दिन बहुत ढल गया है। ३६ उन्हें विदा कर, कि चारों ओर के गावों और बस्तियों में जाकर, अपने लिये कुछ खाने को मोल ले। ३७ उस ने उन्हें उत्तर दिया; कि तुम ही उन्हें खाने को दो: उन्होंने ने उस से कहा, क्या हम सौ दीनार* की रोटियां मोल लें, और उन्हें खिलाएं? ३८ उस ने उन से कहा; जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटिया है? उन्होंने ने मालूम करके कहा; पांच और दो मछली भी। ३९ तब उस ने उन्हें

* या दीनार आठ आने के लगभग।

आज्ञा दी, कि सब को हरी घास पर पाति-पाति से बैठा दो। ४० वे सी सी और पचास पचास करके पाति-पाति बैठ गए। ४१ और उस ने उन पांच रोटियों को और दो मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटिया तोड़ तोड़ कर चेलो को देता गया, कि वे लोगों को परोसें, और वे दो मछलिया भी उन सब में बांट दी। ४२ और सब खाकर तृप्त हो गए। ४३ और उन्होंने ने टुकड़ों से बारह टोकरिया भर कर उठाईं, और कुछ मछलियों से भी। ४४ जिन्हो ने रोटियां खाईं, वे पांच हजार पुरुष थे ॥

४५ तब उस ने तुरन्त अपने चेलों को बरबस नाव पर चढाया, कि वे उस से पहिले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। ४६ और उन्हे विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। ४७ और जब साभ हुआ, तो नाव भील के बीच में थी, और वह अकेला भूमि पर था। ४८ और जब उस ने देखा, कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उन के विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह भील पर चलते हुए उन के पास आया; और उन से आगे निकल जाना चाहता था। ४९ परन्तु उन्हो ने उसे भील पर चलते देखकर समझा, कि भूत है, और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। ५० पर उस ने तुरन्त उन से बातें की और कहा, ठाड़स बान्धो : मैं हू; डरो मत। ५१ तब वह उन के पास नाव पर आया, और हवा धम गई: और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। ५२ क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे परन्तु उन के मन कठोर हो गए थे ॥

५३ और वे पार उतरकर गभ्रेसरत में पहुँचे, और नाव घाट पर लगाई। ५४ और जब वे नाव पर से उतरे, तो लोग तुरन्त उस को पहचान कर। ५५ आसपास के सारे देश में दौड़े, और बीमारो को खाटों पर डालकर, जहा जहां समाचार पाया कि वह है, वहा वहां लिए फिरे। ५६ और जहां कहीं वह गावों, नगरो, या बस्तियों में जाता था, तो लोग बीमारो को बाजारों में रखकर उस से बिनती करते थे, कि वह उन्हे अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेते दे: और जितने उसे छूते थे, सब चगे हो जाते थे ॥

७ तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, उसके पास इकट्ठे हुए। २ और उन्होंने ने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात् बिना हाथ धोए रोटि खाते देखा। ३ क्योंकि फरीसी और सब यहूदी, पुरनियों की रीति पर चलते हैं और जब तक भली मांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। ४ और बाजार से आकर, जब तक स्नान नहीं कर * लेते, तब तक नहीं खाते, और बहुत सी और बातें हैं, जो उन के पास मानने के लिये पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरो, और लोटों, और ताबे के बरतनो को धोना-माजना। ५ इसलिये उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उस से पूछा, कि तेरे चेले क्यो पुरनियों की रीतो पर नहीं चलते, और बिना हाथ धोए रोटि खाते हैं? ६ उस ने उन से कहा; कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की; जैसा लिखा है; कि ये लोग हीठो से तो मेरा आदर करते हैं, पर उन का मन मुझ

* ह० अपने ऊपर पानी न छिड़क लेते।

से दूर रहता है। ७ और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ८ क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ९ और उस ने उन से कहा; तुम अपनी रीतियों को मानने के लिये परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो ! १० क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर; और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे, वह अवश्य मार डाला जाए। ११ परन्तु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कट्टे, कि जो कुछ तुम्हें मुझ से लाभ पहुंच सकता था, वह कुरबान अर्थात् सकल्प हो चुका। १२ तो तुम उस को उसके पिता वा उस की माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। १३ इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, जिन्हें तुम ने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो; और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। १४ और उस ने लोगों को अपने पास बुलाकर उन से कहा, तुम सब मेरी सुनो, और समझो। १५ ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे; परन्तु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। [१६ यदि किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले।] १७ जब वह भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके चेहरे ने इस दृष्टान्त के विषय में उस से पूछा। १८ उस ने उन से कहा; क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते, कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? १९ क्योंकि वह उसके मन में नहीं, परन्तु पेट में जाती है, और संबास में

निकल जाती है? यह कहकर उस ने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। २० फिर उस ने कहा; जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। २१ क्योंकि भीतर से अर्थात् मनुष्य के मन से, बुरी बुरी चिन्ता व्यभिचार। २२ चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निन्दा, अभिमान, और मूर्खता निकलती हैं। २३ ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं।

२४ फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया; और एक घर में गया, और चाहता था, कि कोई न जाने; परन्तु वह छिप न सका। २५ और तुरन्त एक स्त्री जिस की छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उस की चर्चा सुन कर आई, और उसके पांवों पर गिरी। २६ यह यूनानी और सूरूफिनीकी जाति की थी; और उस ने उस से बिनती की, कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। २७ उस ने उस से कहा, पहिले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। २८ उस ने उस को उत्तर दिया; कि सच है प्रभु; तभी कुत्ते भी तो भेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। २९ उस ने उस से कहा; इस बात के कारण चली जा; दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। ३० और उस ने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है, और दुष्टात्मा निकल गई है।

३१ फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। ३२ और

लोगों ने एक बहिरे को जो हकूला भी था, उसके पास लाकर उस से बिनती की, कि अपना हाथ उस पर रखे। ३३ तब वह उस को भीड़ से अलग ले गया, और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, और धूक कर उस की जीभ को छूआ। ३४ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, और उस से कहा; इप्फतह, अर्थात् खुल जा। ३५ और उसके कान खुल गए, और उस की जीभ की गांठ भी खुल गई, और वह साफ साफ बोलने लगा। ३६ तब उस ने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना; परन्तु जितना उस ने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। ३७ और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उस ने जो कुछ किया सब अच्छा किया है; वह बहिरों को सुनने की, और गूगों को बोलने की शक्ति देता है ॥

उन दिनों में, जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, और उन के पास कुछ खाने को न था, तो उस ने अपने चेलों को पास बुलाकर उन से कहा। २ मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह तीन दिन से बराबर मेरे साथ है, और उन के पास कुछ भी खाने को नहीं। ३ यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दू, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे; क्योंकि इन में से कोई कोई दूर से आए हैं। ४ उसके चेलों ने उस को उत्तर दिया, कि यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हों? ५ उस ने उन से पूछा; तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने ने कहा, सात। ६ तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे सात रोटियां लीं, और धन्यवाद करके तोड़ी, और अपने चेलों को देता गया

कि उन के आगे रखें, और उन्होंने ने लोगों के आगे परोस दिया ७ उन के पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं; और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। ८ सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के सात टोकरे भरकर उठाए। ९ और लोग चार हजार के लगभग थे; और उस ने उन को विदा किया। १० और वह तुरन्त अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया ॥

११ फिर फरीसी निकलकर उस से वाद-विवाद करने लगे, और उसे जांचने के लिये उस से कोई स्वर्गीय चिन्ह मागा। १२ उस ने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूँढते हैं? मे तुम से सच कहता हूँ, कि इस समय के लोगों* को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। १३ और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया ॥

१४ और वे रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उन के पास एक ही रोटी थी। १५ और उस ने उन्हें चिताया, कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। १६ वे आपस में बिचार करके कहने लगे, कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। १७ यह जानकर यीशु ने उन से कहा; तुम क्यों आपस में यह बिचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? १८ क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखे रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और

* यू० पी०।

तुम्हें स्मरण नहीं। १६ कि जब मैं ने पांच हजार के लिये पांच रोटी तोड़ी थीं तो तुम ने टुकड़ों की कितनी टोक़रियां भरकर उठाई? उन्हो ने उस से कहा, बारह टोक़रियां। २० और जब चार हजार के लिये सात रोटी थी तो तुम ने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्हों ने उस से कहा, सात टोकरे। २१ उस ने उन से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते?

२२ और वे बैतसैदा में आए; और लोग एक अन्धे को उसके पास ले आए और उस से बिनती की, कि उस को छूए। २३ वह उस अन्धे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया, और उस की आंखों में धूककर उस पर हाथ रखे, और उस से पूछा; क्या तू कुछ देखता है? २४ उस ने आंख उठा कर कहा; मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे पेड़। २५ तब उस ने फिर दोबारा उस की आंखों पर हाथ रखे, और उस ने ध्यान से देखा, और चगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। २६ और उस ने उस से यह कहकर घर भेजा, कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना ॥

२७ यीशु और उसके चले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए: और मार्ग में उस ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? २८ उन्हों ने उत्तर दिया, कि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला; पर कोई कोई; एलिय्याह; और कोई कोई भविष्यद-वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। २९ उस ने उन से पूछा; परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उस को उत्तर दिया; तू मसीह है। ३० तब उस ने उन्हें चिताकर

कहा, कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। ३१ और वह उन्हें सिखाने लगा, कि मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिए और महा-याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीन दिन के बाद जी उठे। ३२ उस ने यह बात उन से साफ साफ कह दी: इस पर पतरस उसे भ्रमल ले जाकर फिडकने लगा। ३३ परन्तु उस ने फिरकर, और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को फिडक कर कहा; कि हे शैतान, मेरे साम्हने से दूर हो; क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परन्तु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ३४ उस ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आपे से इन्कार करे और अपना क्रूस उठाकर, मेरे पीछे हो ले। ३५ क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। ३६ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? ३७ और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? ३८ जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति * के बीच मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उस से भी लजाएगा।

६ और उस ने उन से कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो यहां खड़े हैं, उन में से कोई कोई ऐसे है, कि जब तक

* ३० पीदी।

परमेस्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे ॥

२ छ दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, और एकान्त में किसी ऊँचे पहाड़ पर ले गया; और उन के साम्हने उसका रूप बदल गया। ३ और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहा तक अति उज्ज्वल हुआ, कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। ४ और उन्हें मूसा के साथ एलिव्याह दिखाई दिया; और वे यीशु के साथ बातें करते थे। ५ इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहा रहना अच्छा है: इसलिये हम तीन मण्डप बनाए, एक तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक एलिव्याह के लिये। ६ क्योंकि वह न जानता था, कि क्या उत्तर दे; इसलिये कि वे बहुत डर गए थे। ७ तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उस की सुनो। ८ तब उन्होंने ने एकाएक चारो ओर दृष्टि की, और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा ॥

६ पहाड़ से उतरते हुए, उस ने उन्हें आज्ञा दी, कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओ मे से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुम ने देखा है वह किसी से न कहना। १० उन्होंने ने इस बात को स्मरण रखा, और आपस में बाद-विवाद करने लगे, कि मरे हुओ में से जी उठने का क्या अर्थ है? ११ और उन्हो ने उस से पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं, कि एलिव्याह का पहिले भ्राना अवश्य है? १२ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि एलिव्याह सबसुच पहिले आकर सब

कुछ सुधारेंगा, परन्तु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है, कि वह बहुत दुख उठाएगा, और तुच्छ गिना जाएगा? १३ परन्तु मैं तुम से कहता हूँ, कि एलिव्याह तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्हो ने जो कुछ चाहा उसके साथ किया ॥

१४ और जब वह चेलो के पास आया, तो देखा कि उन के चारो ओर बड़ी भीड लगी है और शास्त्री उन के साथ विवाद कर रहे हैं। १५ और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और उस की ओर दौडकर उसे नमस्कार किया। १६ उस ने उन से पूछा; तुम इन से क्या विवाद कर रहे हो? १७ भीड में से एक ने उसे उत्तर दिया, कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिस में गूमी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। १८ जहां कहीं वह उसे पकडती है, वहीं पटक देती है: और वह मुंह में फेन भर लाता, और दात पीसता, और सूखता जाता है: और मैं ने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें परन्तु वह निकाल न सके। १९ यह सुनकर उस ने उन से उत्तर देके कहा: कि हे अविश्वासी लोगो, * मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? और कब तक तुम्हारी सहगा? उसे मेरे पास लाओ। २० तब वे उसे उनके पास ले आए: और जब उस ने उसे देखा, तो उस आत्मा ने तुरन्त उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा, और मुंह से फेन बहाते हुए लोटने लगा। २१ उस ने उसके पिता से पूछा; इस की यह दशा कब से है? २२ उस ने कहा, बचपन से: उस ने इसे नाश करने के लिये कभी आग और कभी पानी में गिराया;

* बू० पीदी।

परन्तु यदि तू कुछ कर सके, तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। २३ यीशु ने उस से कहा; यदि तू कर सकता है; यह क्या बात है? विश्वास करनेवाले के लिए सब कुछ हो सकता है। २४ बालक के पिता ने तुरन्त गिड़गिड़ाकर कहा; हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। २५ जब यीशु ने देखा, कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उस ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा; कि हे गूगी और बहिरी आत्मा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, उस में से निकल आ, और उस में फिर कभी प्रवेश न कर। २६ तब वह चिल्लाकर, और उसे बहुत मरोड़ कर, निकल आई; और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे, कि वह मर गया। २७ परन्तु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और वह खड़ा हो गया। २८ जब वह घर में आया, तो उसके चेलों ने एकान्त में उस से पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? २९ उस ने उन से कहा, कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती।।

३० फिर वे वहां से चले, और गलील में होकर जा रहे थे, और वह नहीं चाहता था, कि कोई जाने। ३१ क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उन से कहता था, कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वह मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा। ३२ पर यह बात उन की समझ में नहीं आई, और वे उस से पूछने से डरते थे।।

३३ फिर वे कफरनहम में आए; और घर में आकर उस ने उन से पूछा कि रास्ते

में तुम किस बात पर विवाद करते थे? ३४ वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने ने आपस में यह वाद-विवाद किया था, कि हम में से बड़ा कौन है? ३५ तब उस ने बैठकर बारहों को बुलाया, और उन से कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सब से छोटा और सब का सेवक बने। ३६ और उस ने एक बालक को लेकर उन के बीच में खड़ा किया, और उसे गोद में लेकर उन से कहा। ३७ जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो कोई मुझे ग्रहण करता, वह मुझे नहीं, बरन मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है।।

३८ तब यूहन्ना ने उस से कहा, हे गुरु, हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। ३९ यीशु ने कहा, उस को मत मना करो; क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे, और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। ४० क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वह हमारी ओर है। ४१ जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इस-लिये * पिलाए कि तुम मसीह के हो तो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। ४२ पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिये भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। ४३ यदि तेरा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल दुएडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे

* यू० इस नाम से।

लिये इस से भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस भाग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। ४५ और यदि तेरा पाव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ४६ लगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो पाव रहते हुए नरक में डाला जाए। ४७ और यदि तेरी आख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो आख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। ४८ जहाँ उन का कीड़ा नहीं मरता और भाग नहीं बुझती। ४९ क्योंकि हर एक जन भाग से नमकीन किया जाएगा। ५० नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, तो उसे किस से स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप से रहो ॥

१० फिर वह वहा के उठकर यहू-दिया के सिवानों में और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। २ तब फरीसियों ने उसके पास आकर उस की परीक्षा करने को उस से पूछा, क्या यह उचित है, कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? ३ उस ने उन को उत्तर दिया, कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? ४ उन्होंने ने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। ५ यीशु ने उन से कहा, कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उस ने तुम्हारे लिये यह आज्ञा लिखी। ६ पर सृष्टि के आरम्भ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उन को बनाया है। ७ इस कारण मनुष्य अपने माता-

पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ८ इसलिये वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। ९ इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। १० और घर में चेलों ने इस के विषय में उस से फिर पूछा। ११ उस ने उन से कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहिली के विरोध में व्यभिचार करता है। १२ और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे, तो वह व्यभिचार करती है ॥

१३ फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। १४ यीशु ने यह देख क्रोध होकर उन से कहा, बालको को भेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। १५ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे, वह उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा। १६ और उस ने उन्हें गोद में लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी ॥

१७ और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेककर उस से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिये मैं क्या करूं? १८ यीशु ने उस से कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात् परमेश्वर। १९ तू आज्ञाओं को तो जानता है; हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना।

२० उस ने उस से कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लडकपन में मानता थाया हू।
 २१ यीशु ने उस पर दृष्टि करके उस से प्रेम किया, और उस से कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेच कर कगालो को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। २२ इस बात से उसके चिहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था ॥

२३ यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
 २४ झेले उस की बातों से अचम्भित हुए, इस पर यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उन के लिये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। २५ परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है।
 २६ वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे तो फिर किस का उद्धार हो सकता है? २७ यीशु ने उन की ओर देखकर कहा, मनुष्यों में तो यह नहीं हो सकता, परन्तु परमेश्वर से हो सकता है; क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। २८ पतरस उस से कहने लगा, कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। २९ यीशु ने कहा, मैं तुम से सच कहता हू, कि ऐसा कोई नहीं, जिस ने मेरे और सुसमाचार के लिये घर या भाइयों या बहिनी या माता या पिता या लडके-बालों या खेतों को छोड़ दिया हो। ३० और अब इस समय सी गूणा न पाए, घरों और भाइयों और बहिनी और माताओं और लडके-बालों और खेतों को पर उपद्रव के

साथ और परलोक में अनन्त जीवन।
 ३१ पर बहुतेरे जो पहिले हैं, पिछले होंगे; और जो पिछले हैं, वे पहिले होंगे ॥

३२ और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु उन के आगे आगे जा रहा था : और वे अचम्भा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे, तब वह फिर उन बारहों को लेकर उन से वे बातें कहने लगा, जो उस पर मानेवाली थी। ३३ कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे, और अन्य जातियों के हाथ में मीपेंगे।
 ३४ और वे उस को ठट्टों में उडाएंगे, और उस पर थकेंगे, और उसे कोड़े मारेंगे, और उसे घात करेंगे, और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा ॥

३५ तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं, कि जो कुछ हम तुझ से मांगें, वही तू हमारे लिये करे। ३६ उस ने उन से कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिये करूँ? ३७ उन्हों ने उस से कहा, कि हमें यह दे, कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे।
 ३८ यीशु ने उन से कहा, तुम नहीं जानते, कि क्या मागते हो? जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या पी सकते हो? और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, क्या ले सकते हो?
 ३९ उन्हों ने उस से कहा, हम से हो सकता है : यीशु ने उन से कहा; जो कटोरा में पीने पर हूँ, तुम पीओगे; और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, उसे लोगे। ४० पर जिन के लिये तैयार किया गया है, उन्हें छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएं

बिठाना मेरा काम नहीं*। ४१ यह सुनकर दसो याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। ४२ और यीशु ने उन को पास बुला कर उन से कहा, तुम जानते हो, कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं; और उन में जो बड़े हैं, उन पर अधिकार जताते हैं। ४३ पर तुम में ऐसा नहीं है, बरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। ४४ और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वह सब का दास बने। ४५ क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिये नहीं आया, कि उस की सेवा टहल की जाए, पर इसलिये आया, कि आप सेवा टहल करे, और बहुतो की छुडौती के लिये अपना प्राण दे ॥

४६ और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चले, और एक बडी भीड यरीहो से निकलती थी, तो तिमार्ई का पुत्र बरतिमार्ई एक अन्धा भिखारी सडक के किनारे बैठा था। ४७ वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा; कि हे दाऊद की सन्तान, यीशु मुझ पर दया कर। ४८ बहुतो ने उसे डाटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, कि हे दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया कर। ४९ तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ; और लोगो ने उस अन्धे को बुलाकर उस से कहा, ठाठस बान्ध, उठ, वह तुम्हें बुलाता है। ५० वह अपना कपडा फेककर शीघ्र उठा, और यीशु के पास आया। ५१ इस पर यीशु ने उस से कहा; तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिये करूँ? अन्धे ने उस से कहा, हे रब्बी, यह कि मैं

* या पर अपने दहिने बायें किसी को बिठाना मेरा काम नहीं पर जिन के लिये तैयार किया गया है उन्हीं के लिये है।

देखने लगूँ। ५२ यीशु ने उस से कहा; चला जा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है; और वह तुरन्त देखने लगा, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया ॥

११ जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उस ने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा। २ कि अपने साम्हने के गाव में जाओ, और उस में पहुचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढा, बन्धा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। ३ यदि तुम से कोई पूछे, यह क्यों करते हो? तो कहना, कि प्रभु को इस का प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे यहा भेज * देगा। ४ उन्हीं ने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बन्धा हुआ पाया, और खोलने लगे। ५ और उन में से जो वहा खडे थे, कोई कोई कहने लगे कि यह क्या करने हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? ६ उन्हीं ने जैसा यीशु ने कहा था, वैसा ही उन से कह दिया; तब उन्हो ने उन्हे जाने दिया। ७ और उन्हो ने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपडे डाले और वह उस पर बैठ गया। ८ और बहुतो ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरो ने खेतों में से डालिया काट काट कर फैला दी। ९ और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, कि होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। १० हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है; धन्य है: आकाश में † होशाना ॥

* यू० लौटा देगा।

† यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान में।

११ और वह यरूशलेम पहुंचकर मन्दिर में गया, और वारों घोर सब वस्तुओं को देखकर वारहों के साथ बैतनिय्याह गया क्योंकि सांभ हो गई थी ॥

१२ दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उस को भूख लगी। १३ और वह दूर से भंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, कि क्या जाने उस में कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। १४ इस पर उस ने उस से कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे ॥

१५ फिर वे यरूशलेम में आए, और वह मन्दिर में गया; और वहां जो लेन-देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्तकों के पीढ़े और कबूतर के बेचनेवालों की चौकियां उलट दी। १६ और मन्दिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने न दिया। १७ और उपदेश करके उन से कहा, क्या यह नहीं लिखा है, कि मेरा घर सब जातियों के लिये प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुम ने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। १८ यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का भ्रवसर दूढने लगे; क्योंकि उस से डरते थे, इसलिये कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे ॥

१९ और प्रति दिन सांभ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। २० फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने ने उस भंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। २१ पतरस को वह बात स्मरण आई, और उस ने उस से कहा, हे रब्बी, देख, यह भंजीर का पेड़ जिसे तू ने स्राप दिया था सूख गया है। २२ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। २३ मैं तुम से सच कहता हूँ कि

जो कोई इस पहाड़ से कहे; कि तू उलझ जा, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में सन्देह न करे, बरन प्रतीति करे, कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिये वही होगा। २४ इसलिये मैं तुम से कहता हूँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिये हो जाएगा। २५ और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो: इसलिये कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे ॥ २६ [और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा।]

२७ वे फिर यरूशलेम में आए, और जब वह मन्दिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिए उसके पास आकर पूछने लगे। २८ कि तू ये काम किस अधिकार से करता है? और यह अधिकार तुम्हें किस ने दिया है कि तू ये काम करे? २९ यीशु ने उस से कहा: मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ; मुझे उत्तर दो: तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। ३० यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था वा मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। ३१ तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें, स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों नहीं की? ३२ और यदि हम कहें, मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता है। ३३ सो उन्होंने ने यीशु को उत्तर दिया, कि हम नहीं जानते: यीशु ने उन से कहा, मैं भी तुम को नहीं बताता, कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ ॥

१२ फिर वह दृष्टान्त में उन से बातें करने लगा : कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, और उसके चारों ओर बाड़ा बान्धा, और रस का कुछ खोदा, और गुम्मत बनाया; और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया। २ फिर फल के मौसम में उस ने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले। ३ पर उन्होंने ने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। ४ फिर उस ने एक और दास को उन के पास भेजा और उन्होंने ने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। ५ फिर उस ने एक और को भेजा, और उन्होंने ने उसे मार डाला : तब उस ने और बहुतों को भेजा : उन में से उन्होंने ने कितनों को पीटा, और कितनों को मार डाला। ६ अब एक ही रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था; अन्त में उस ने उसे भी उन के पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। ७ पर उन किसानों ने आपस में कहा; यही तो वारिस है ; आओ, हम उसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। ८ और उन्होंने ने उसे पकड़कर मार डाला, और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। ९ इसलिये दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा ? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा, और दाख की बारी औरों को दे देगा। १० क्या तुम ने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजभिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया ? ११ यह प्रभु की ओर से हुआ, और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। १२ तब उन्होंने ने उसे पकड़ना चाहा; क्योंकि समझ गए थे, कि उस ने हमारे विरोध में यह

दृष्टान्त कहा है : पर वे लोगों से डरे; और उसे छोड़ कर चले गए ॥

१३ तब उन्होंने ने उसे बातों में फंसाने के लिये कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। १४ और उन्होंने ने आकर उस से कहा; हे गुरु, हम जानते हैं, कि तू सच्चा है, और किसी की परवा नहीं करता; क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देख कर बातें नहीं करता, परन्तु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। १५ तो क्या कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं ? हम दें, या न दें ? उस ने उन का कपट जानकर उन से कहा; मुझे क्यों परखते हो ? एक दीनार * मेरे पास लाओ, कि मैं देखूं। १६ वे ले आए, और उस ने उन से कहा; यह मूर्ति और नाम किस का है ? उन्होंने ने कहा, कैसर का। १७ यीशु ने उन से कहा; जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो : तब वे उस पर बहुत अचम्भा करने लगे ॥

१८ फिर सद्कियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुआ का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उस से पूछा। १९ कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये लिखा है, कि यदि किसी का भाई बिना सन्तान मर जाए, और उस की पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिये बंश उत्पन्न करे : सात भाई थे। २० पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्तान मर गया। २१ तब दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना सन्तान मर गया; और वैसे ही तीसरे ने भी। २२ और सातों से सन्तान न हुई : सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई।

* देखो मत्ती १८ : २८।

२३ सो जी उठने पर वह उन में से किस की पत्नी होगी ? क्योंकि वह सातो की पत्नी हो चुकी थी। २४ यीशु ने उन से कहा; क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो, कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, और न परमेश्वर की सामर्थ्य को। २५ क्योंकि जब वे मरे हुआओं में से जी उठेंगे, तो उन में ब्याह शादी न होगी; पर स्वर्ग में दूतों की नाईं होंगे। २६ मरे हुआओं के जी उठने के विषय में क्या तुम ने मूसा की पुस्तक में भाडी की कथा में नहीं पढा, कि परमेश्वर ने उस से कहा, मैं इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ ? २७ परमेश्वर मरे हुआओं का नहीं, बरन जीवन्तो का परमेश्वर है : सो तुम बडी भूल में पड़े हो ॥

२८ और शास्त्रियो में से एक ने आकर उन्हे विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उस ने उन्हे अच्छी रीति से उत्तर दिया; उस से पूछा, सब से मुख्य आज्ञा कौन सी है ? २९ यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है; हे इस्राएल सुन; प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ३० और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ३१ और दूसरी यह है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना : इस से बडी और कोई आज्ञा नहीं। ३२ शास्त्री ने उस से कहा, हे गुरु, बहुत ठीक ! तू ने सच कहा, कि वह एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं। ३३ और उस से सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने

समान प्रेम रखना, सारे होमो और बलिदानो से बढ़कर है। ३४ जब यीशु ने देखा कि उस ने समझ से उत्तर दिया, तो उस से कहा; तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर उस से कुछ पूछने का साहस न हुआ ॥

३५ फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए यह कहा, कि शास्त्री क्योकर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है ? ३६ दाऊद ने आपही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा; मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीडी न कर दू। ३७ दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहा से ठहरा ? और भीड़ के लोग उस की आनन्द से सुनते थे ॥

३८ उस ने अपने उपदेश में उन से कहा, शास्त्रियो से चौकस रहो, जो लम्बे वस्त्र पहिने हुए फिरना। ३९ और बाजारो में नमस्कार, और आराधनालयो में मुख्य मुख्य आसन और जेबनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। ४० वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, और दिखाने के लिये बडी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दण्ड पाएंगे ॥

४१ और वह मन्दिर के भण्डार के साम्हने बैठकर देख रहा था, कि लोग मन्दिर के भण्डार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत धनवानो ने बहुत कुछ डाला। ४२ इतने में एक कगाल विधवा ने आकर दो दमडिया, जो एक अघेले के बराबर होती है, डालीं। ४३ तब उस ने अपने चेलो को पास बुलाकर उन से कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मन्दिर के भण्डार में डालने वालों में से इस कगाल विधवा ने सब से बढ़कर डाला है।

४४ क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परन्तु इस ने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात् अपनी सारी जीविका डाल दी है ॥

१३ जब वह मन्दिर से निकल रहा था, तो उसके चेलो में से एक ने उस में कहा; हे गुरु, देख, कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं! २ यीशु ने उस में कहा; क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो यहा पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा ॥

३ जब वह जैतून के पहाड पर मन्दिर के साम्हने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अन्द्रियास ने अलग जाकर उस से पूछा। ४ कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी? और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? ५ यीशु उन से कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। ६ बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि मैं वही हूँ और बहुतो को भरमाएंगे। ७ और जब तुम लडाइया, और लडाइयों की चर्चा सुनो, तो न घबराना: क्योंकि इन का होना अवश्य है; परन्तु उस समय अन्त न होगा। ८ क्योंकि जाति पर जाति, और राज्य पर राज्य चढाई करेगा, और हर कहीं भुईडोल होंगे, और अकाल पडेंगे; यह तो पीडाओं का आरम्भ ही होगा ॥

९ परन्तु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हे महासभाओं में सौंपेगे और तुम पचायतों में पीटे जाओगे; और मेरे कारण हाकिमो और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उन के लिये गवाही हो। १० पर अवश्य है कि पहिले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया

जाए। ११ जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेगे, तो पहिले से चिन्ता न करना, कि हम क्या कहेंगे; पर जो कुछ तुम्हें उसी घडी बताया जाए, वही कहना; क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो, परन्तु पवित्र आत्मा है। १२ और भाई को भाई, और पिता को पुत्र घात के लिये सौंपेगे, और लड़केवाले माता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। १३ और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे; पर जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा ॥

१४ सो जब तुम उस उजाडनेवाली घृणित वस्तु को जहा उचित नहीं वहा खडी देखो, (पढनेवाला समझ ले) तब जो यहदिया में हों, वे पहाडो पर भाग जाएं। १५ जो कोठे पर हो, वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए। १६ और जो खेत में हो, वह अपना कपडा लेने के लिये पीछे न लौटे। १७ उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उन के लिये हाय हाय! १८ और प्रार्थना किया करो कि यह जाडे में न हो। १९ क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे, कि सृष्टि के आरम्भ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए, और न फिर कभी होंगे। २० और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता; परन्तु उन चुने हुओ के कारण जिन को उस ने चुना है, उन दिनों को घटाया। २१ उस समय यदि कोई तुम से कहे; देखो, मसीह यहा है, या देखो, वहा है, तो प्रतीति न करना। २२ क्योंकि भूठे मसीह और भूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओ को भी भरमा दें। २३ पर तुम

बौकस रहो : देखो, मैं ने तुम्हें सब बातें पहिले ही से कह दी हैं ॥

२४ उन दिनों में, उस क्लेश के बाद सूरज अन्धेरा हो जाएगा, और चान्द प्रकाश न देगा। २५ और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे : और आकाश की शक्तिया हिलाई जाएंगी। २६ तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में भाते देखेंगे। २७ उस समय वह अपने दूतों को भेजकर, पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा ॥

२८ अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखो : जब उस की डाली कोमल हो जाती; और पत्ते निकलने लगते हैं; तो तुम जान लेते हो, कि ग्रीष्मकाल निकट है। २९ इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो, कि वह निकट है, बरन द्वार ही पर है। ३० मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक यह लोग * जाते न रहेंगे। ३१ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी। ३२ उस दिन या उस घड़ी के विषय मे कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र; परन्तु केवल पिता। ३३ देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो; क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ३४ यह उस मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे : और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। ३५ इसलिये जागते रहो; क्योंकि तुम नहीं जानते कि

* यू० यह पीढ़ी जाती न रहेगी।

घर का स्वामी कब आएगा, सांभ को या आधी रात को, या मूर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ३६ ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। ३७ और जो मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ, जागते रहो ॥

२४ दो दिन के बाद फसह और अलमीरी रोटी का पब्ल होनेवाला था : और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्योंकर छल से पकड़ कर मार डाले। २ परन्तु कहते थे, कि पब्ल के दिन नहीं, कही ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे ॥

३ जब वह बैतनिय्याह में शमीन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था तब एक स्त्री सगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई; और पात्र तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उरडेला। ४ परन्तु कोई कोई अपने मन में रिसिया-कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? ५ क्योंकि यह इत्र तो तीन सौ दीनार * से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालो को बाटा जा सकता था, और वे उस को झिड़कने लगे। ६ यीशु ने कहा; उसे छोड़ दो; उसे क्यों सताते हो? उस ने तो मेरे साथ भलाई की है। ७ कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं; और तुम जब चाहो तब उन से भलाई कर सकते हो; पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। ८ जो कुछ वह कर सकी, उस ने किया; उस ने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहिले से मेरी देह पर इत्र मला है। ९ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहा उसके

* देखो मत्ती १८ : २८।

इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी ॥

१० तब यहूदा इसकरियोती जो बारह में से एक था, महायाजकों के पास गया, कि उसे उन के हाथ पकड़वा दे । ११ वे यह सुनकर आनन्दित हुए, और उस को रुपये देना स्वीकार किया, और यह अवसर दूढ़ने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे ॥

१२ अखमीरी रोटी के पबर्ब के पहिले दिन, जिस में वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलो ने उस से पूछा, तू कहा चाहता है, कि हम जाकर तेरे लिये फसह खाने की तैयारी करें ? १३ उस ने अपने चेलो में से दो को यह कहकर भेजा, कि नगर में जाओ, और एक मनुष्य जल का घडा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना । १४ और वह जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से कहना; गुरु कहता है, कि मेरी पाहुनवाला जिस में मैं अपने चेलो के साथ फसह खाऊं कहां है ? १५ वह तुम्हें एक सजी सजाई, और तैयार की हुई बडी अटारी दिखा देगा, वहा हमारे लिये तैयारी करो । १६ सो चले निकलकर नगर में आये और जैसा उस ने उन से कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया ॥

१७ जब साभू हुई, तो वह बारहों के साथ आया । १८ और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो यीशु ने कहा; मैं तुम से सच कहता हू, कि तुम में से एक, जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा । १९ उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उस से कहने लगे; क्या वह मैं हूं ? २० उस ने उन से कहा, वह बारहो में से एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है । २१ क्योंकि मनुष्य का पुत्र

तो, जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य पर हाथ जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है ! यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो उसके लिये भला होता ॥

२२ और जब वे खा ही रहे थे तो उस ने रोटी ली, और आशीष भागकर तोड़ी, और उन्हें दी, और कहा, लो, यह मेरी देह है । २३ फिर उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और उन्हें दिया; और उन सब ने उस में से पीया । २४ और उस ने उन से कहा, यह वाचा का मेरा वह लोहू है, जो बहुतो के लिये बहाया जाता है । २५ मैं तुम से सच कहता हूं, कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं ॥

२६ फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड पर गए ॥

२७ तब यीशु ने उन से कहा; तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, कि मैं रखवाले को मारूंगा, और भेड तित्तर-बित्तर हो जाएंगी । २८ परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहिले गलील को जाऊंगा । २९ पतरस ने उस से कहा; यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा । ३० यीशु ने उस से कहा; मैं तुभ से सच कहता हू, कि आज ही इसी रात को मुर्गों के दो बार बाग देने से पहिले, तू तीन बार मुभ से मुकर जाएगा । ३१ पर उस ने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तोभी तेरा इन्कार कभी न करूंगा : इसी प्रकार और सब ने भी कहा ॥

३२ फिर वे गतसमने नाम एक जगह में आए, और उस ने अपने चेलों से कहा,

यहां बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करूं।
 ३३ और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने भाथ ले गया। और बहुत ही अघीर, और व्याकुल होने लगा।
 ३४ और उन से कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हू तुम यहां ठहरो, और जागते रहो।
 ३५ और वह थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए।
 ३६ और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझ से सब कुछ हो सकता है; इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तौभी जैसा मैं चाहता हू वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो।
 ३७ फिर वह आया, और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा; हे शमीन तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका?
 ३८ आगते और प्रार्थना करने रहो कि तुम परीक्षा में न पडो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। ३९ और वह फिर चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना की। ४० और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उन की आंखें नींद से भरी थी; और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। ४१ फिर तीसरी बार आकर उन से कहा; अब सोते रहो और विश्राम करो, बस, घड़ी आ पहुंची; देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। ४२ उठो, चलें देखो, मेरा पकड़वानेवाला निकट आ पहुंचा है।

४३ वह यह कह ही रहा था, कि यहूदा जो बारहों में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियों लिए हुए तुरन्त आ पहुंची। ४४ और उसके पकड़वानेवाले ने उन्हें

यह पता दिया था, कि जिस को मैं चूम वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। ४५ और वह आया, और तुरन्त उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी और उस को बहुत चूमा। ४६ तब उन्होंने ने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। ४७ उन में से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींच कर महायाजक के दाम पर चलाई, और उसका कान उड़ा दिया। ४८ यीशु ने उन से कहा, क्या तुम डाकू जानकर मेरे पकड़ने के लिये तलवारे और लाठियां लेकर निकले हो? ४९ मैं तो हर दिन मन्दिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुम ने मुझे न पकड़ा परन्तु यह इसलिये हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। ५० इस पर सब चले उसे छोड़कर भाग गए।

५१ और एक जवान अपनी नगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया; और लोगो ने उसे पकड़ा। ५२ पर वह चादर छोड़कर नगा भाग गया।

५३ फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए, और सब महायाजक और पुरनिए और शास्त्री उसके यहां इकट्ठे हो गए। ५४ पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया, और प्यादों के साथ बैठ कर आग तापने लगा। ५५ महायाजक और सारी महासभा यीशु के माग डालने के लिये उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली। ५६ क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उन की गवाही एक सी न थी। ५७ तब कितनो ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी। ५८ कि हम ने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मन्दिर को

ढा दूंगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से न बना हो। ५६ इस पर भी उन की गवाही एक सी न निकली। ६० तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा; कि तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? ६१ परन्तु वह मौन साधे रहा, और कुछ उत्तर न दिया. महायाजक ने उस से फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? ६२ यीशु ने कहा, हां मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व-शक्तिमान * की दहिनी और बैठे, और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। ६३ तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? ६४ तुम ने यह निन्दा सुनी तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वह बध के योग्य है। ६५ तब कोई तो उस पर थूकने, और कोई उसका मुह ढापने और उमे घूसे मारने, और उस से कहने लगे, कि भविष्यद्वाणी कर और प्यादो ने उसे लेकर धप्पड मारे ॥

६६ जब पतरस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की लौडियों में से एक वहा आई। ६७ और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासगी यीशु के साथ था। ६८ वह मुकर गया, और कहा, कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है फिर वह बाहर डेवढी में गया, और मुर्गों ने बाग दी। ६९ वह लौंडी उसे देखकर उन से जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, यह उन में से एक है। ७० परन्तु वह फिर

* ५० मारथ।

मुकर गया और चौड़ी देर बाद उन्होंने ने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा; निश्चय तू उन में से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। ७१ तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा, कि मैं उस मनुष्य को, जिस की तुम चर्चा करते हो, नहीं जानता। ७२ तब तुरन्त दूसरी बार मुर्ग ने बाग दी. पतरस को वह बात जो यीशु ने उस से कही थी स्मरण आई, कि मुर्ग के दो बार बाग देने से पहिले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा: वह इस बात को सोचकर रोने लगा ॥

१५ और भोर होने ही तुरन्त महा-याजको, पुरनियों, और शास्त्रियों ने बरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बन्धवाया, और उसे ले जाकर पीलातुस के हाथ सौंप दिया। २ और पीलातुस ने उस से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उस ने उस को उत्तर दिया; कि तू आप ही कह रहा है। ३ और महा-याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। ४ पीलातुस ने उस से फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता, देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं? ५ यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया; यहां तक कि पीलातुस को बडा आश्चर्य हुआ ॥

६ और वह उस पर्व में किसी एक बन्धुए को जिसे वे चाहते थे, उन के लिये छोड़ दिया करता था। ७ और बरभब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलबाइयों के साथ बन्धुआ था, जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। ८ और भीड़ ऊपर जाकर उस से बिनती करने लगी, कि जैसा तू हमारे लिये करता आया है वैसा ही कर। ९ पीलातुस

ने उन को यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा को छोड़ दूँ ? १० क्योंकि वह जानता था, कि महायाजको ने उसे डाह से पकड़वाया था । ११ परन्तु महायाजको ने लोगो को उभारा, कि वह बरभन्बा ही को उन के लिये छोड़ दे । १२ यह सुन पीलातुस ने उन से फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उस को मैं क्या करूँ ? वे फिर चिल्लाए, कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे । १३ पीलातुस ने उन से कहा, क्यों, इस ने क्या बुराई की है ? १४ परन्तु वे और भी चिल्लाए, कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे । १५ तब पीलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से, बरभन्बा को उन के लिये छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवाकर साँप बिया, कि क्रूस पर चढ़ाया जाए । १६ और सिपाही उसे किले के भीतर के भ्रामन में ले गए जो प्रीटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए । १७ और उन्होंने ने उसे बैजनी वस्त्र पहिनाया और कांटों का मुकुट गूथकर उसके सिर पर रखा । १८ और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार ! १९ और वे उसके सिर पर सरकण्डे मारते, और उस पर धूकते, और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे । २० और जब वे उसका ठुठा कर चुके, तो उस पर से बैजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहिनाए; और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिये बाहर ले गए ।।

२१ और सिकन्दर और रूफुस का पिता, शमीन नाम एक कुदेनी मनुष्य, जो गाव से आ रहा था उधर से निकला; उन्हो ने उसे बेगार में पकड़ा, कि उसका क्रूस उठा ले चले । २२ और वे उसे

गुलगुता नाम जगह पर जिस का अर्थ खोपड़ी की जगह है लाए । २३ और उसे मूर्द मिला हुआ दाखरस देने लगे, परन्तु उस ने नहीं लिया । २४ तब उन्होंने ने उस को क्रूस पर चढ़ाया, और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर, कि किस को क्या मिले, उन्हे बांट लिया । २५ और पहर दिन चढ़ा था, जब उन्हो ने उस को क्रूस पर चढ़ाया । २६ और उसका दोषपत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि “**यहूदियों का राजा**” । २७ और उन्होंने ने उसके साथ दो डाकू, एक उस की दहिनी और एक उस की बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए । २८ [तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के सग गिना गया, पूरा हुआ ।] २९ और मार्ग में जानेवाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उस की निन्दा करते थे, कि बाह ! मन्दिर के ढानेवाले, और तीन दिन में बनानेवाले ! क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले । ३० इसी रीति से महायाजक भी, शास्त्रियों समेत, ३१ आपस में उट्टे से कहते थे; कि इस ने औरों को बचाया, और अपने को नहीं बचा सकता । ३२ इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें : और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, वे भी उस की निन्दा करते थे ।।

३३ और दोपहर होने पर, सारे देश में अन्धियारा छा गया; और तीसरे पहर तक रहा । ३४ तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा शबकतनी ? जिस का अर्थ यह है; हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया ? ३५ जो पास सड़े थे, उन में से कितनों ने यह सुनकर कहा; देखो,

यह एलिय्याह को पुकारता है। ३६ और एक ने दौड़कर इस्पज को सिरके में डुबोया, और सरकण्डे पर रखकर उसे चुसाया; और कहा, ठहर जाओ, देखें, कि एलिय्याह उसे उतारने के लिये आता है कि नहीं। ३७ तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिये। ३८ और मन्दिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। ३९ जो सूबेदार उसके साम्हने खड़ा था, जब उसे यू चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उस ने कहा, सचमुच यह मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र था। ४० कई स्त्रिया भी दूर से देख रही थीः उन में मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थी। ४१ जब वह गलील में था, तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उस की सेवाटहल किया करती थी; और और भी बहुत सी स्त्रिया थी, जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी।

४२ जब सध्या हो गई, तो इसलिये कि तैयारी का दिन था, जो सन्त * के एक दिन पहिले होता है। ४३ भरिमतिया का रहनेवाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मन्त्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बात जोहता था; वह हियाव करके पीलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मागी। ४४ पीलातुस ने आश्चर्य किया, कि वह इतना शीघ्र मर गया; और सूबेदार को बुलाकर पूछा, कि क्या उस को मरे हुए देर हुई? ४५ सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, तो लोथ यूसुफ को दिला दी। ४६ तब उस ने एक पतली चादर मोल ली, और लोथ को उतारकर उस

* सन्त—यहूदियों का विनामदिन कहलाता है।

चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुडका दिया। ४७ और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी, कि वह कहाँ रखा गया है।

१६ जब सन्त का दिन बीत गया, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगन्धित वस्तुएँ मोल ली, कि आकर उस पर मलें। २ और सप्ताह के पहिले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं। ३ और आपस में कहती थी, कि हमारे लिये कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुडकाएगा? ४ जब उन्हो ने घ्रांस उठाई, तो देखा कि पत्थर लुडका हुआ है! क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। ५ और कब्र के भीतर जाकर, उन्हीं ने एक जवान को श्वेत बस्त्र पहिने हुए दहिनी ओर बैठे देखा, और बहुत चकित हुईं। ६ उस ने उन से कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूँढती हो: वह जी उठा है; यहाँ नहीं है, देखो, यही वह स्थान है, जहा उन्हीं ने उसे रखा था। ७ परन्तु तुम जाओ, और उसके चेहों और पतरस से कहो, कि वह तुम से पहिले गलील को जाएगा; जैसा उस ने तुम से कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। ८ और वे निकलकर कब्र से भाग गईं; क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्हो ने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी।

९ सप्ताह के पहिले दिन भोर होते ही वह जी उठ कर पहिले पहिल मरियम मगदलीनी को जिस में से उस ने सात

दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। १० उस ने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। ११ और उन्हो ने यह सुनकर कि वह जीवित है, और उस ने उसे देखा है, प्रतीति न की ॥

१२ इस के बाद वह दूसरे रूप में उन में से दों को जब वे गाव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। १३ उन्हो ने भी जाकर औरो को समाचार दिया, परन्तु उन्हो ने उन की भी प्रतीति न की ॥

१४ पीछे वह उन ग्यारहो को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उन के अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्हो ने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्हो ने उन की प्रतीति न की थी। १५ और उस ने उन से कहा, तुम सारे जगत में

जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। १६ जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परन्तु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। १७ और विश्वास करनेवालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में दुष्टात्माओं को निकालेंगे। १८ नई नई भाषा बोलेंगे, सापो को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तभी उन की कुछ हानि न होगी, वे बीमारो पर हाय रखेंगे, और वे चगे हो जाएंगे ॥

१९ निदान प्रभु यीशु उन से बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, और परमेश्वर की दहिनी ओर बैठ गया। २० और उन्हों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उन के साथ काम करता रहा, और उन चिन्हो के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को, दृढ़ करता रहा। आमीन ॥

लूका रचित सुसमाचार

१ इसलिये कि बहुतो ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। २ जैसा कि उन्हों ने जो पहिले ही से इन बातों के देखनेवाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। ३ इसलिये हे श्रीमान् थियु-फिलुस मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का सम्पूर्ण हाल आरम्भ से ठीक ठीक जाच करके उन्हें तेरे लिये क्रमानुसार लिखू। ४ कि तू यह जान ले,

कि वे बातें जिनकी तू ने शिक्षा पाई है, कैसी अटल है ॥

५ यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिम्याह के दल * में जकरयाह नाम का एक याजक था, और उस की पत्नी हारून के वंश की थी, जिस का नाम इलीशिबा था। ६ और वे दोनों परमेश्वर के साम्हने धर्मी थे : और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलनेवाले थे।

* इतिहास २१ : ६-२३ को देखो।

उन के कोई भी सन्तान न थी, ७ क्योंकि इलीशिबा बाभ थी, और वे दोनों बूढ़े थे ॥

८ जब वह अपने दलकी पारी पर परमेश्वर के साम्हने याजक का काम करता था । ९ तो याजको की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली, कि प्रभु के मन्दिर में जाकर धूप जलाए । १० और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मण्डली बाहर प्रार्थना कर रही थी । ११ कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दहिनी ओर खड़ा हुआ उस को दिखाई दिया । १२ और जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया । १३ परन्तु स्वर्गदूत ने उस से कहा, हे जकरयाह, भय-भीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिये एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना । १४ और तुझे आनन्द और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनन्दित होंगे । १५ क्योंकि वह प्रभु के साम्हने महान होगा; और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा; और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा । १६ और इस्त्राएलियों में से बहुतेरो को उन के प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेंगे । १७ वह एलिव्याह की आत्मा और सामर्थ्य में हो कर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरो का मन लडकेबालो की ओर फेर दे; और आज्ञा न माननेवालो को धर्मियों की समझ पर लाए; और प्रभु के लिये एक योग्य प्रजा तैयार करे । १८ जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा; यह मैं कैसे जानूँ ? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ; और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है । १९ स्वर्गदूत ने उस को

उत्तर दिया, कि मैं जिब्राईल हूँ, जो परमेश्वर के साम्हने खड़ा रहता हूँ; और मैं तुम्हें से बातें करने और तुम्हें यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ । २० और देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मीन रहेगा, और बोल न सकेगा, इसलिये कि तू ने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी, प्रतीति न की । २१ और लोग जकरयाह की बाट देखते रहे और अचम्भा करने लगे कि उसे मन्दिर में ऐसी देर क्यों लगी ? २२ जब वह बाहर आया, तो उन से बोल न सका सो वे जान गए, कि उस ने मन्दिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उन से सकेत करता रहा, और गुगा रह गया । २३ जब उस की सेवा के दिन पूरे हुए, तो वह अपने घर चला गया ॥

२४ इन दिनों के बाद उस की पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई, और पाच महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा । २५ कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिये प्रभु ने इन दिनों में कृपादृष्टि करके मेरे लिये ऐसा किया है ॥

२६ छठवें महीने में परमेश्वर की ओर में जिब्राईल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया । २७ जिस की मयनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी । उस कुवारी का नाम मरियम था । २८ और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनन्द और जय * तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है । २९ वह उस वचन से बहुत घबरा गई, और सोचने लगी, कि यह किस प्रकार का अभिवादन

* अर्थात् मलाम तुम्हें को ।

है? ३० स्वर्गदूत ने उस से कहा, हे मरियम; भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ३१ और देख, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ३२ वह महान होगा, और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा; और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उस को देगा। ३३ और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा; और उसके राज्य का अन्त न होगा। ३४ मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्योंकर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ३५ स्वर्गदूत ने उस को उत्तर दिया; कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी इसलिये वह पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ३६ और देख, और तेरी कुटुम्बिनी इलीशिबा के भी बुढापे में पुत्र होनेवाला है, यह उसका, जो बाष्क कहलाती थी छठवा महीना है। ३७ क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावरहित नहीं होता। ३८ मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो: तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।।

३९ उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। ४० और जकरयाह के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। ४१ ज्योंही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्योंही बच्चा उसके पेट में उछला, और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ४२ और उस ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। ४३ और

यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ, कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? ४४ और देख, ज्योंही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पडा, त्योंही बच्चा मेरे पेट में आनन्द से उछल पड़ा। ४५ और धन्य है, वह जिस ने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उस से कही गईं, वे पूरी होंगी। ४६ तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बडाई करता है। ४७ और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर से आनन्दित हुई। ४८ क्योंकि उस ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिये देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। ४९ क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिये बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पवित्र है। ५० और उस की दया उन पर, जो उस से डरते हैं, पीठी से पीठी तक बनी रहती है। ५१ उस ने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बडा समझते थे, उन्हें तित्तर-बित्तर किया। ५२ उस ने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया; और दीनों को ऊचा किया। ५३ उस ने भूखों को भ्रच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। ५४ उस ने अपने सेवक इस्त्राएल को सम्भाल लिया। ५५ कि अपनी उस दया को स्मरण करे, जो इब्राहीम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उस ने हमारे बाप-दादों से कहा था। ५६ मरियम लगभग तीन महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई।।

५७ तब इलीशिबा के जनने का समय पूरा हुआ, और वह पुत्र जनी। ५८ उसके पड़ोसियों और कुटुम्बियों ने यह सुन कर, कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनन्दित हुए। ५९ और ऐसा हुआ

कि आठवें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखने लगे। ६० और उस की माता ने उत्तर दिया कि नहीं; बरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। ६१ और उन्हो ने उस से कहा, तेरे कुटुम्ब में किसी का यह नाम नहीं। ६२ तब उन्हो ने उसके पिता से सकेत करके पूछा। ६३ कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? और उस ने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, कि उसका नाम यूहन्ना है। और सभी ने अचम्भा किया। ६४ तब उसका मुह और जीभ तुरन्त खुल गई; और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। ६५ और उसके आस पास के सब रहनेवालो पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। ६६ और सब सुननेवालो ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था ॥

६७ और उसका पिता जकरयाह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और भविष्यद्वाणी करने लगा। ६८ कि प्रभु इस्लाम का परमेश्वर धन्य हो, कि उस ने अपने लोगो पर दृष्टि की और उन का छुटकारा किया है। ६९ और अपने मेवक दाऊद के घराने में हमारे लिये एक उद्धार का सींग निकाला। ७० [जैसे उस ने अपने पवित्र भविष्यद्वाक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं, कहा था]। ७१ अर्थात् हमारे शत्रुओं से, और हमारे सब बैरियो के हाथ से हमारा उद्धार किया है। ७२ कि हमारे बाप-दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। ७३ और वह शपथ जो उस ने हमारे पिता

इब्राहीम से खाई थी। ७४ कि वह हमें यह देगा, कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर। ७५ उसके साम्हने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उस की सेवा करते रहें। ७६ और तू हे बालक, परमप्रधान का भविष्यद्वाक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिये उसके आगे आगे चलेगा, ७७ कि उसके लोगो को उद्धार का ज्ञान दे, जो उन के पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ७८ यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिस के कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ७९ कि अन्धकार और मृत्यु की छाया में बैठनेवालों को ज्योति दे, और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए ॥

८० और वह बालक बढता और आत्मा में बलवन्त होता गया, और इस्लाम पर प्रगट होने के दिन तक जंगली में रहा ॥

२ उन दिनों में श्रीगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, कि सारे जगत के लोगो के नाम लिखे जाएं। २ यह पहिली नाम लिखाई उस समय हुई, जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। ३ और सब लोग नाम लिखवाने के लिये अपने अपने नगर को गए। ४ सो यूसुफ भी इसलिये कि वह दाऊद के घराने और वश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेटलहम को गया। ५ कि अपनी मगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। ६ उन के वहा रहने हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। ७ और वह अपना पहिलीठा पुत्र जनी और उसे कपडे में लपेटकर चरनी

में रखा, क्योंकि उन के लिये सराय में जगह न थी ॥

८ और उस देश में कितने गडेरियो थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने भूगड का पहरा देते थे। ९ और प्रभु का एक दूत उन के पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उन के चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। १० तब स्वर्गदूत ने उन से कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनन्द का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिये हाँगा। ११ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। १२ और इस का तुम्हारे लिये यह पता है, कि तुम एक बालक को कपडे में लिपटा हुआ और चरनी में पडा पाओगे। १३ तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करने हुए और यह कहते दिखाई दिया। १४ कि आकाश * में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो ॥

१५ जब स्वर्गदूत उन के पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडेरियो ने आपस में कहा, आओ, हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है, और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें। १६ और उन्हो ने तुरन्त जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पडा देखा। १७ इन्हें देखकर उन्हो ने वह बात जो इस बालक के विषय में उन से कही गई थी, प्रगट की। १८ और सब सुननेवालो ने उन बातों में जो गडेरियो ने उन से कही आश्चर्य किया। १९ परन्तु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। २० और गडेरियो

जैसा उन से कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए ॥

२१ जब आठ दिन पूरे हुए, और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहिले कहा था ॥

२२ और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए, कि प्रभु के साम्हने लाए। २३ [जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठा प्रभु के लिये पवित्र ठहरेगा]। २४ और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पड़को का एक जोडा. या कबूतर के दो बच्चे ला कर बलिदान करे। २५ और देखो, यरूशलेम में शमीन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शान्ति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। २६ और पवित्र आत्मा से उस को चितावनी हुई थी,

कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। २७ और वह आत्मा के सिखाते से * मन्दिर में आया, और जब माता-पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, कि उसके लिये व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। २८ तो उस ने उसे अपनी गोद में लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, २९ हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शान्ति से विदा करता है। ३० क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ३१ जिसे तू ने सब देशों के लोगों के साम्हने तैयार किया है। ३२ कि

* य० ऊँचे से ऊँचे स्थान में।

* य० में।

वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिये ज्योति, और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। ३३ और उसका पिता और उस की माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी, आश्चर्य करते थे। ३४ तब शमीन ने उन को आशीष देकर, उस की माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने, और उठने के लिये, और एक ऐसा चिन्ह होने के लिये ठहराया गया है, जिस के विरोध में बाने की जाएगी—३५ बरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा—इस से बहुत हृद्यों के विचार प्रगट होंगे। ३६ और अशेर के गोत्र में से हब्राह नाम फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्त्रिण थी। वह बहुत बूढ़ी थी, और ब्याह होने के बाद सात वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। ३७ वह चौरासी वर्ष से विधवा थी और मन्दिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात-दिन उपासना किया करती थी। ३८ और वह उस घड़ी वहा आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सभी से, जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोहते थे, उसके विषय में बातें करने लगी। ३९ और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए ॥

४० और बालक बढ़ता, और बलवन्त होता, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था ॥

४१ उसके माता-पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। ४२ जब वह बारह वर्ष का हुआ, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। ४३ और जब वे उन दिनों को पूरा

करके लौटने लगे, तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया; और यह उसके माता-पिता नहीं जानते थे। ४४ वे यह समझकर, कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए; और उसे अपने कुटुम्बियों और जान-पहचानों में ढूढने लगे। ४५ पर जब नहीं मिला, तो ढूढते-ढूढते यरूशलेम को फिर लौट गए। ४६ और तीन दिन के बाद उन्हो ने उसे मन्दिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उन की मुनते और उन से प्रश्न करते हुए पाया। ४७ और जितने उम की मुन रहे थे, वे सब उस की समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। ४८ तब वे उसे देखकर चकित हुए और उस की माता ने उस से कहा, हे पुत्र, तू ने हम से क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं ढूढते हुए तुम्हें ढूढते थे। ४९ उस ने उन से कहा; तुम मुझे क्यों ढूढते थे? क्या नहीं जानते थे, कि मुझ्के अपने पिता के भवन में होना * अवश्य है? ५० परन्तु जो बात उम ने उन से कही, उन्हो ने उसे नहीं ममझा। ५१ तब वह उन के साथ गया, और नासरत में आया, और उन के वश में रहा; और उस की माता ने ये सब बानें अपने मन में रखी ॥

५२ और यीशु बुद्धि और डील-डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया ॥

३ तिबिरियुस कैसर के राज्य के पंद्रहवें वर्ष में जब पुन्तियुस पीलातुस यहूदिया का हाकिम था, और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का इतूरिया, और त्रखोनीतिस में, उसका भाई फिलिप्पुस,

* या कामों में लगे रहना ।

और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। २ और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुँचा। ३ और वह यरदन के घास पास के सारे देश में आकर, पापों की क्षमा के लिये मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। ४ जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, कि जगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की सड़के सीधी बनाओ। ५ हर एक घाटी भर दी जाएगी, और हर एक पहाड़ और टीली नीचा किया जाएगा; और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊँचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। ६ और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा ॥

७ जो भीड़ की भीड़ उस से बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उन से वह कहता था; हे साँप के बच्चे, तुम्हें किस ने जता दिया, कि आनेवाले क्रोध से भागो। ८ सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो, कि हमारा पिता इब्राहीम है; क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता है। ९ और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिये जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में भोका जाता है। १० और लोगो ने उस से पूछा, तो हम क्या करें? ११ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि जिस के पास दो कुरते हो, वह उसके साथ जिस के पास नहीं है, जाट दे और जिस के पास भोजन हो, वह भी ऐसा ही करे। १२ और महसूल लेनेवाले भी बपतिस्मा लेने आए, और उस से

पूछा, कि हे गुरु, हम क्या करें? १३ उस ने उन से कहा, जो तुम्हारे लिये ठहराया गया है, उस से अधिक न लेना। १४ और सिपाहियो ने भी उस से यह पूछा, हम क्या करें? उस ने उन से कहा, किसी पर उपद्रव न करना, और न झूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर सन्तोष करना ॥

१५ जब लोग आस लगाए हुए थे, और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, कि क्या यही मसीह तो नहीं है। १६ तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा: कि मैं तो तुम्हें पानी से* बपतिस्मा देता हूँ, परन्तु वह आनेवाला है, जो मुझ से शक्तिमान है; मैं तो इस योग्य भी नहीं, कि उसके जूतों का बन्ध खोल सकूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। १७ उसका सूप, उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा; और गेहूँ को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा ॥

१८ सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। १९ परन्तु उस ने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय, और सब कुकर्मों के विषय में जो उस ने किए थे, उलाहना दिया। २० इसलिये हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया, कि यूहन्ना को बन्दीगृह में डाल दिया ॥

२१ जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। २२ और

* सू० में।

पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाईं उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ से प्रसन्न हूँ ॥

२३ जब यीशु आप उपदेश करने लगा, तो लगभग तीस वर्ष की आयु का था और (जैसा समझा जाता था) यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का। २४ और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यशा का, और वह यूसुफ का। २५ और वह मत्तियाह का, और वह अमोस का, और वह नहूम का, और वह असत्याह का, और वह नोगह का। २६ और वह माल का, और वह मत्तियाह का, और वह शिमी का, और वह योमेख का, और वह योदाह का। २७ और वह यहूना का, और वह रेसा का, और वह जरूबाबिल का, और वह शालतियेल का, और वह नेरी का। २८ और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इलमोदाम का, और वह एर का। २९ और वह येशू का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का। ३० और वह शमोन का, और वह यहूदाह का, और वह यूसुफ का, और वह योनान का, और वह इलयाकीम का। ३१ और वह मलेआह का, और वह मिनाह का, और वह मत्तात का, और वह नातान का, और वह दाऊद का। ३२ और वह यिशी का, और वह ओबेद का, और वह बोअज का, और वह सलमोन का, और वह नहशोन का। ३३ और वह अम्मीनादाब का, और वह अरनी का, और वह हिशोन का, और वह फिरिस का, और वह यहूदाह का। ३४ और वह याकूब का, और वह इसहाक

का, और वह इब्राहीम का, और वह तिरह का, और वह नाहोर का। ३५ और वह सरूग का, और वह रऊ का, और वह फिलिग का, और वह एबिर का, और वह शिलह का। ३६ और वह केनान का, वह अरफजद का, और वह शेम का, वह नूह का, वह लिमिक का। ३७ और वह मयूशिलह का, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महललेल का, और वह केनान का। ३८ और वह इनोश का, और वह जेन का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का था ॥

४ फिर यीशु पवित्रात्मा से भरा हुआ, यरदन से लौटा, और चालीस दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा, और शैतान * उस की परीक्षा करता रहा। २ उन दिनों में उस ने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए, तो उसे भूख लगी। ३ और शैतान ने उस से कहा; यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह, कि रोटी बन जाए। ४ यीशु ने उसे उत्तर दिया; कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। ५ तब शैतान उसे ले गया और उस को पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ६ और उस ने कहा; मैं यह सब अधिकांश, और इन का विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है: और जिसे चाहता हूँ, उसी को दे देता हूँ। ७ इसलिये, यदि तू मुझे प्रणाम करे, तो यह सब तेरा हो जाएगा। ८ यीशु ने उसे उत्तर दिया; लिखा है; कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर। ९ तब उस ने उसे यरूशलेम में ले

* ५० इब्रानी।

जाकर मन्दिर के कंगूरे पर लड़ा किया, और उस से कहा; यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। १० क्योंकि लिखा है, कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, कि वे तेरी रक्षा करें। ११ और वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। १२ यीशु ने उस को उत्तर दिया; यह भी कहा गया है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। १३ जब शैतान * सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिये उसके पास से चला गया ॥

१४ फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, और उस की चर्चा आस पास के सारे देश में फैल गई। १५ और वह उन की आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उस की बड़ाई करते थे ॥

१६ और वह नासरत में आया; जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब † के दिन आराधनालय में जा कर पढ़ने के लिये लड़ा हुआ। १७ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उस ने पुस्तक खोलकर, वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। १८ कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिये कि उस ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिये भेजा है, कि बन्धुओं को छुटकारे का और अन्धों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूँ और कुचले हुए को छुड़ाऊँ। १९ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूँ। २० तब उस ने

पुस्तक बन्द करके सेवक का हाथ में दे दी, और बैठ गया: और आराधनालय के सब लोगों की आत्मा उस पर लगी थी। २१ तब वह उन से कहने लगा, कि आज ही यह लेख तुम्हारे साम्हने * पूरा हुआ है। २२ और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुँह से निकलती थी, उन से अचम्भा किया; और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? २३ उस ने उस से कहा; तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे, कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर! जो कुछ हम ने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। २४ और उस ने कहा; मैं तुम से सन्न कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान-सम्मान नहीं पाता। २५ और मैं तुम से सन्न कहता हूँ, कि एलिव्याह के दिनों में जब साढ़े तीन वर्ष तक आकाश बन्द रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएँ थीं। २६ पर एलिव्याह उन में से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफन में एक विधवा के पास। २७ और इसीशा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोठी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उन में से कोई शुद्ध नहीं किया गया। २८ ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, सब क्रोध से भर गए। २९ और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उन का नगर बसा हुआ था, उस की ओटी पर ले चले, कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें। ३० पर वह उन के बीच में से निकलकर चला गया ॥

* यू० इब्रहीस ।

† यू० विश्राम के दिन ।

* यू० कानों में ।

३१ फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया, और सब * के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। ३२ वे उस के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार महित था।

३३ आराधनालय में एक मनुष्य था, जिस में अशुद्ध आत्मा थी। ३४ वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझ से क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है।

३५ यीशु ने उसे डाटकर कहा, चुप रह और उस में से निकल जा: तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटककर बिना हानि पहुंचाए उस में से निकल गई। ३६ इस पर सब को अचम्भा हुआ, और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है? कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है, और वे निकल जाती हैं। ३७ सो चारों ओर हर जगह उस की धूम मच गई ॥

३८ वह आराधनालय में से उठकर शमीन के घर में गया और शमीन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्हो ने उसके लिये उस से बिनती की। ३९ उस ने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डाटा और वह उस पर से उतर गया और वह तुरन्त उठकर उन की सेवा-टहल करने लगी ॥

४० मूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उस ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ४१ और दुष्टात्मा भी

चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई पर वह उन्हें डाटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे, कि यह मसीह है ॥

४२ जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जगली जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे दूबती हुई उसके पास आई, और उसे रोकने लगी, कि हमारे पास से न जा। ४३ परन्तु उस ने उन से कहा; मुझे और और नगरो में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसी लिये भेजा गया हूँ ॥

४४ और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा ॥

५ जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गत्रेसरत की भील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। २ कि उस ने भील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी, और मछुवे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ३ उन नावों में से एक पर जो शमीन की थी, चढ़कर, उस ने उस से बिनती की, कि किनारे में थोड़ा हटा ले चले, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर में उपदेश देने लगा। ४ जब वह बातें कर चुका, तो शमीन से कहा, गहिरें में से चल, और मछलियां पकड़ने के लिये अपने जाल डालो। ५ शमीन ने उसको उत्तर दिया, कि हे स्वामी, हम ने सारी रात बिहनत की और कुछ न पकड़ा, तीसरी तेरे कहने में जाल डालूंगा। ६ जब उन्होंने ने ऐसा किया, तो बहुत मछलियां घेर लाए, और उन के जाल फटने लगे। ७ इस पर उन्हो ने अपने साथियों को जो दूसरी नाव

* यू० विश्राम के दिन।

पर थे, संकेत किया, कि आकर हमारी सहायता करो: और उन्हो ने आकर, दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। ८ यह देखकर शमीन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा, और कहा; हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मे पापी मनुष्य हू। ९ क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचम्भा हुआ। १० और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमीन के सहभागी थे, अचम्भा हुआ: तब यीशु ने शमीन से कहा, मत डर: अब से तू मनुष्यों को जीवता पकडा करेगा। ११ और वे नावो को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोडकर उसके पीछे हो लिए।।

१२ जब वह किसी नगर में था, तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा, और बिनती की; कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। १३ उस ने हाथ बढ़ाकर उसे छूआ और कहा मैं चाहता हू तू शुद्ध हो जा: और उसका कोढ़ तुरन्त जाता रहा। १४ तब उस ने उसे चिताया, कि किसी से न कह, परन्तु जाके अपने आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढावा ठहराया है उसे चढा; कि उन पर गवाही हो। १५ परन्तु उस की चर्चा और भी फैलती गई, और भीड की भीड उस की सुनने के लिये और अपनी बीमारियों से चगे होने के लिये इकट्ठी हुई। १६ परन्तु वह जगलो में झुलगा जाकर प्रार्थना किया करता था।।

१७ और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील

और यहूदिया के हर एक गाव से, और यरूशलेम से आए थे; और चगा करने के लिये प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। १८ और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो भोले का मारा हुआ था, खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के साम्हने रखने का उपाय दूढ रहे थे। १९ और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने ने कोठे पर चढ कर और झप्रेल हटाकर, उसे खाट समेत बीच में यीशु के साम्हने उतार दिया। २० उस ने उन का विश्वास देखकर उस से कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। २१ तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, कि यह कौन है, जो परमेश्वर की निन्दा करता है? परमेश्वर को छोड कौन पापो को क्षमा कर सकता है? २२ यीशु ने उन के मन की बाते जानकर, उन से कहा, कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? २३ सहज क्या है? क्या यह कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, और चल फिर? २४ परन्तु इमलिये कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है (उस ने उस भोले के मारे हुए से कहा), मैं तुभ से कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। २५ वह तुरन्त उन के साम्हने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर, परमेश्वर की बडाई करता हुआ अपने घर चला गया। २६ तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बडाई करने लगे, और बहुत डरकर कहने लगे, कि आज हम ने अनोखी बातें देखी हैं।।

२७ और इसके बाद वह बाहर गया, और लेवी नाम एक चुङ्गी लेनेवाले को

चुङ्गी की चौकी पर बैठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो लो। २८ तब वह सब कुछ छोड़कर उठा, और उसके पीछे हो लिया। २९ और लेवी ने अपने घर में उसके लिये बड़ी जेवनार की; और चुङ्गी लेने-वालों की और श्रीरो की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। ३० और फरीसी और उन के शास्त्री उस के चेलो से यह कहकर कुडकुड़ाने लगे, कि तुम चुङ्गी लेनेवालों और पापियों के साथ क्यों खाते-पीते हो? ३१ यीशु ने उन को उत्तर दिया; कि वैद्य भले चगो के लिये नहीं, परन्तु बीमारो के लिये अवश्य है। ३२ मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को मन फिराने के लिये बुलाने आया हूँ। ३३ और उन्हो ने उस से कहा, यूहन्ना के चले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी, परन्तु तेरे चले तो खाते-पीते हैं! ३४ यीशु ने उन से कहा; क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उन के साथ रहे, उपवास करवा सकते हो? ३५ परन्तु वे दिन आएंगे, जिन में दूल्हा उन से अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। ३६ उस ने एक और दृष्टान्त भी उन से कहा; कि कोई मनुष्य नये पहिरावन में से फाड़कर पुराने पहिरावन में पैबन्द नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबन्द पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। ३७ और कोई नया दाखरस पुरानी मशको में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा, और मशकों भी नाश हो जाएंगी। ३८ परन्तु नया दाखरस नई मशको में भरना चाहिये। ३९ कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं

चाहता क्योंकि वह कहता है, कि पुराना ही अच्छा है ॥

६ फिर सन्त * के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चले बालें तोड़ तोड़कर, और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। २ तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सन्त के दिन करना उचित नहीं? ३ यीशु ने उन को उत्तर दिया, क्या तुम ने यह नहीं पढ़ा, कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? ४ वह क्योकर परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की रोटिया लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी? ५ और उस ने उन से कहा, मनुष्य का पुत्र सन्त के दिन का भी प्रभु है ॥

६ और ऐसा हुआ कि किसी और सन्त के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा; और वहाँ एक मनुष्य था, जिस का दहिना हाथ सूखा था। ७ शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिये उस की ताक में थे, कि देखें कि वह सन्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। ८ परन्तु वह उन के विचार जानता था; इसलिये उसने सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा; उठ, बीच में खड़ा हो: वह उठ खड़ा हुआ। ९ यीशु ने उन से कहा; मैं तुम से यह पूछता हूँ कि सन्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना; प्राण को बचाना या नाश करना? १० और उस ने चारों ओर उन सभी को देखकर उस मनुष्य

* २० विबाम के दिन।

से कहा; अपना हाथ बढ़ा : उस ने ऐसा ही किया, और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। ११ परन्तु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें ?

१२ और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। १३ जब दिन हुआ, तो उस ने अपने चेलों को बुलाकर उन में से बारह चुन लिए, और उन को प्रेरित कहा। १४ और वे ये हे शमीन जिस का नाम उस ने पतरस भी रखा; और उसका भाई अन्दियास और याकूब और यहूना और फिलिप्पुस और बरतुलमै। १५ और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और शमीन जो जेलीतेस कहलाता है। १६ और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इसकरियोती, जो उसका पकड़वानेवाला बना। १७ तब वह उन के साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़, और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग, जो उस की सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिये उसके पास आए थे, बहा थे। १८ और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अन्धे किए जाते थे। १९ और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उस में से सामर्थ निकलकर सब को चंगा करती थी ॥

२० तब उस ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा; धन्य हो तुम, जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। २१ धन्य हो तुम, जो भ्रब भूखे हो; क्योंकि तृप्त किए जाओगे, धन्य हो तुम,

जो भ्रब रोने हो, क्योंकि हसोगे। २२ धन्य हो तुम, जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम से बैर करेंगे, और तुम्हें निकाल देंगे, और तुम्हारी निन्दा करेंगे, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। २३ उस दिन आनन्दित होकर उछलना, क्योंकि देखो, तुम्हारे लिये स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है उन के बाप-दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। २४ परन्तु हाय तुम पर, जो घनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शान्ति पा चुके। २५ हाय, तुम पर, जो भ्रब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे. हाय, तुम पर, जो भ्रब हसने हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। २६ हाय, तुम पर, जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उन के बाप-दादे भूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे ॥

२७ परन्तु मैं तुम सुननेवालो से कहता हूँ, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो; जो तुम से बैर करें, उन का भला करो। २८ जो तुम्हें लाप दे, उन को आशीष दो : जो तुम्हारा अपमान करें, उन के लिये प्रार्थना करो। २९ जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उस की ओर दूसरा भी फेर दे; और जो तेरी दोहर छीन ले, उस को कुरता लेने से भी न रोक। ३० जो कोई तुम्ह से मांगे, उसे दे; और जो तेरी वस्तु छीन ले, उस से न मांग। ३१ और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उन के साथ वैसा ही करो। ३२ यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखनेवालों के साथ प्रेम रखते हैं। ३३ और यदि तुम अपने भलाई करनेवालों ही के साथ भलाई

करते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। ३४ और यदि तुम उन्हें उधार दो, जिन से फिर पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं, कि उतना ही फिर पाए। ३५ बरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई करो: और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो; और तुम्हारे लिये बड़ा फल होगा: और तुम परमप्रधान के सन्तान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। ३६ जैसा तुम्हारा पिता दयावन्त है, वैसे ही तुम भी दयावन्त बनो। ३७ दोष मत लगाओ; तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा: दोषी न ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो, तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। ३८ दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा: लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिये भी नापा जाएगा।

३९ फिर उस ने उन से एक दृष्टान्त कहा; क्या अन्धा, अन्धे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गडहे में नहीं गिरेंगे? ४० चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परन्तु जो कोई सिद्ध होगा, वह अपने गुरु के समान होगा। ४१ तू अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है, और अपनी ही आँख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? ४२ और जब तू अपनी ही आँख का लट्टा नहीं देखता, तो अपने भाई से क्योंकर कह सकता है, हे भाई, ठहर जा तेरी आँख से तिनके को निकाल दू? हे कपटी, पहिले

अपनी आँख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है, भली भाँति देखकर निकाल सकेगा। ४३ कोई अच्छा पेड़ नहीं, जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है, जो अच्छा फल लाए। ४४ हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अजीर नहीं तोड़ते, और न भूडबेरी से अगूर। ४५ भला मनुष्य अपने मन के भले भरडार से भली बातें निकालता है; और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भरडार से बुरी बातें निकालता है; क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुँह पर आता है।

४६ जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, कहते हो? ४७ जो कोई मेरे पास आता है, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किस के समान है? ४८ वह उस मनुष्य के समान है, जिस ने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नेव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परन्तु उसे हिला न सकी; क्योंकि वह पक्का बना था। ४९ परन्तु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है, जिस ने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी, तो वह तुरन्त गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया।

७ जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका, तो कफरनहूम में आया। २ और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। ३ उस ने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उस से यह बिनती करने को उसके पास भेजा,

कि आकर मेरे दास को बंगा कर। ४ वे यीशु के पास आकर उस से बड़ी बिनती करके कहने लगे, कि वह इस योग्य है, कि तू उसके लिये यह करे। ५ क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। ६ यीशु उन के साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, कि हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, कि तू मेरी छत के तले आए। ७ इसी कारण मैं ने अपने आप को इस योग्य भी न समझा, कि तेरे पात्र आऊ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेबक चगा हो जाएगा। ८ मैं भी पराधीन मनुष्य हू; और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हू, जा, तो वह जाता है; और दूसरे से कहता हू कि आ, तो आता है; और अपने किसी दास को कि यह कर, तो वह उसे करता है। ९ यह सुनकर यीशु ने अचम्भा किया, और उस ने मुह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुम से कहता हू, कि मैं ने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। १० और भेजे हुए लोगो ने घर लौटकर, उस दास को बंगा पाया ॥

११ थोड़े दिन के बाद वह नाईन नाम के एक नगर को गया, और उसके चले, और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। १२ जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो, लोग एक मुरदे को बाहर लिए जा रहे थे; जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था, और वह विषवा थी: और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। १३ उसे देख कर प्रभु को तरस आया, और उस से कहा; मत रो। १४ तब उस ने पास

आकर अर्थी को छुआ; और उठानेवाले ठहर गए तब उस ने कहा; हे जवान, मैं तुझ से कहता हू, उठ। १५ तब वह मुरदा उठ बैठा, और बोलने लगा: और उस ने उसे उस की मां को सौंप दिया। १६ इस से सब पर भय छा गया; और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। १७ और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आस पास के सारे देश में फैल गई ॥

१८ और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। १९ तब यूहन्ना ने अपने चेलों से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिये भेजा; कि क्या आनेवाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की बात देखे? २० उन्हो ने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है, कि क्या आनेवाला तू ही है, या हम दूसरे की बात जोहें? २१ उसी घड़ी उस ने बहुतों को बीमारियों, और पीड़ाओं, और दुष्टात्माओं से छुड़ाया; और बहुत से अन्धों को आंखें दी। २२ और उस ने उन से कहा, जो कुछ तुम ने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो; कि अन्धे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरें सुनते हैं, मुरदे जिलाए जाते हैं; और कगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। २३ और धन्य है वह, जो मेरे कारण ठोकर न स्थाए ॥

२४ जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा; तुम जंगल में क्या देखने गए

थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकाड़े को? २५ तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहिनेते, और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। २६ तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हा, मैं तुम से कहता हूँ, बरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। २७ यह वही है, जिस के विषय में लिखा है, कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। २८ मैं तुम से कहता हूँ, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उन में से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उस से भी बड़ा है। २९ और सब साधारण लोगो ने सुनकर और चुङ्गी लेनेवालो ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। ३० पर फरीसियो और ब्यवस्थापको ने उस से बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। ३१ सो मैं इस युग के लोगो की उपमा किस से दू कि वे किस के समान हैं? ३२ वे उन बालको के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं, हम ने तुम्हारे लिये बासली बजाई, और तुम न नाचे, हम ने विलाप किया, और तुम न रोए! ३३ क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो, उस में दुष्टात्मा है। ३४ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया है; और तुम कहते हो, देखो, पेदू और पियकड़ मनुष्य, चुङ्गी लेनेवालो का और पापियों का मित्र। ३५ पर ज्ञान अपनी सब सन्तानों से सच्चा ठहराया गया है।।

३६ फिर किसी फरीसी ने उस से बिनती की, कि मेरे साथ भोजन कर; सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। ३७ और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, सगमरमर के पात्र में इत्र लाई। ३८ और उसके पावो के पास, पीछे खड़ी होकर, रोती हुई, उसके पावो को आसुओ से भिगाने और अपने सिर के बालो से पोछने लगी और उसके पाव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ३९ यह देखकर, वह फरीसी जिस ने उसे बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता, कि यह जो उसे छू रही है, वह कौन और कैसी स्त्री है? क्योंकि वह तो पापिनी है। ४० यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा; कि हे शमीन मुझे तुझ से कुछ कहना है वह बोला, हे गुरु कह। ४१ किसी महाजन के दो देनदार थे, एक पाच सौ, और दूसरा पचास दीनार* धारता था। ४२ जब कि उन के पास पटाने को कुछ न रहा, तो उस ने दोनों को क्षमा कर दिया: सो उन में से कौन उस से अधिक प्रेम रखेगा। ४३ शमीन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह, जिस का उस ने अधिक छोड़ दिया †: उस ने उस से कहा, तू ने ठीक विचार किया है। ४४ और उस स्त्री की ओर फिरकर उस ने शमीन से कहा; क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परन्तु तू ने मेरे पांव धोने के लिये पानी न दिया, पर इस ने मेरे पाव आंसुओं से भिगाए, और अपने

* देखो मत्ती १८: २८।

† यू० क्षमा किया।

बालों से पोछा ! ४५ तू ने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इस ने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। ४६ तू ने मेरे सिर पर तेल नहीं मला; पर इस ने मेरे पांवों पर इत्र मला है। ४७ इसलिये मैं तुम्ह से कहता हूँ; कि इस के पाप जो बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इस ने बहुत प्रेम किया; पर जिस का थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। ४८ और उस ने स्त्री से कहा; तेरे पाप क्षमा हुए। ४९ तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? ५० पर उस ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है, कुशल से चली जा ॥

८ इस के बाद वह नगर नगर और गाव गाव प्रचार करता हुआ, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ, फिरने लगा। २ और वे बारह उसके साथ थे: और कितनी स्त्रिया भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे यह हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिस में से सात दुष्टात्माएँ निकली थीं। ३ और हेरोदेस के भएडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सूसन्नाह और बहुत सी और स्त्रियां: ये तो अपनी सम्पत्ति से उस की सेवा करती थी ॥

४ जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उस ने दृष्टान्त में कहा। ५ कि एक बोने वाला बीज बोने निकला: बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। ६ और कुछ चट्टान पर गिरा, और उपजा,

परन्तु तरी न मिलने से सूख गया। ७ कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। ८ और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और उगकर सौ गुणा फल लाया: यह कहकर, उस ने ऊँचे शब्द से कहा; जिस के सुनने के कान हो वह सुन ले ॥

९ उसके चेलों ने उस से पूछा, कि यह दृष्टान्त क्या है? उस ने कहा; १० तुम को परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टान्तों में सुनाया जाता है, इसलिये कि वे देखते हुए भी न देखे, और सुनते हुए भी न समझें। ११ दृष्टान्त यह है; बीज तो परमेश्वर का वचन है। १२ मार्ग के किनारे के वे हैं, जिन्हो ने सुना; तब शैतान * आकर उन के मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। १३ चट्टान पर के वे हैं, कि जब सुनते हैं, तो आनन्द से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परन्तु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। १४ जो झाड़ियों में गिरा, सो वे हैं, जो सुनते हैं, पर होते होते चिन्ता और धन और जीवन के सुख विलास में फँस जाते हैं, और उन का फल नहीं पकता। १५ पर अच्छी भूमि में के वे हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में सम्भाले रहते हैं, और धीरे धीरे से फल लाते हैं ॥

१६ कोई दीया बार के बरतन से नहीं छिपाता, और न खाट के नीचे रखता है, परन्तु दीबट पर रखता है, कि भीतर आने-वाले प्रकाश पाए। १७ कुछ छिपा नहीं,

* य० इब्लीस।

जो प्रगट न हो; और न कुछ गुप्त है, जो जाना न जाए, और प्रगट न हो। १८ इसलिये चौकस रहो, कि तुम किस रीति से सुनते हो? क्योंकि जिस के पास है, उसे दिया जाएगा, और जिस के पास नहीं है, उस से वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है ॥

१९ उस की माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उस से भेंट न कर सके। २० और उस में कहा गया, कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझ से मिलना चाहते हैं। २१ उस ने उसके उत्तर में उन से कहा, कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनने और मानते हैं ॥

२२ फिर एक दिन वह और उसके चले नाव पर चढ़े, और उस ने उन से कहा, कि आओ, भील के पार चलें: सो उन्हो ने नाव खोल दी। २३ पर जब नाव चल रही थी, तो वह सो गया. और भील पर आन्धी घाई, और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। २४ तब उन्होंने ने पास आकर उसे जगाया, और कहा; स्वामी! स्वामी! हम नाश हुए जाते हैं: तब उस ने उठकर आन्धी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए, और चैन हो गया। २५ और उस ने उन से कहा; तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए, और अचम्भित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है? जो आन्धी और पानी को भी आज्ञा देता है, और वे उस की मानते हैं ॥

२६ फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे, जो उस पार गलील के साम्हने हैं। २७ जब वह किनारे पर उतरा, तो उस

नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिस में दुष्टात्माएं थीं और बहुत दिनों से न कपड़े पहिनता था और न धर में रहता था बरन कबों में रहा करता था। २८ वह यीशु को देखकर चिल्लाया, और उसके साम्हने गिरकर ऊँचे शब्द से कहा; हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझ से क्या काम! मैं तेरी बिनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। २९ क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिये कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे साकलो और बेड़ियों से बांधते थे, तभी वह बन्धनो को तोड़ डालता था, और दुष्टात्मा उसे जगल में भगाए फिरती थी। ३० यीशु ने उस से पूछा; तेरा क्या नाम है? उस ने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उस में पैठ गई थी। ३१ और उन्होंने ने उस से बिनती की, कि हमें अथाह गडहे में जाने की आज्ञा न दे। ३२ वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा था, सो उन्होंने ने उस से बिनती की, कि हमें उन में पैठने दे, सो उस ने उन्हें जाने दिया। ३३ तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में गईं और वह झुण्ड कडाड़े पर से झपटकर भील में जा गिरा और डूब मरा। ३४ चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे, और नगर में, और गावों में जाकर उसका समाचार कहा। ३५ और लोग यह जो हुआ था उसके देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थीं, उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहिने और सचेल बैठे हुए पाकर डर गए। ३६ और देखनेवालों ने उन को बताया, कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस

प्रकार अच्छा हुआ। ३७ तब गिरासेनियो के आस पास के सब लोगो ने यीशु से बिनती की, कि हमारे यहां से चला जा, क्योंकि उन पर बडा भय छा गया था. सो वह नाव पर चढकर लौट गया। ३८ जिस मनुष्य से दुष्टात्माए निकली थी वह उस से बिनती करने लगा, कि मुझे अपने साथ रहने दे, परन्तु यीशु ने उसे विदा करके कहा। ३९ अपने घर को लौट जा और लोगो से कह दे, कि परमेश्वर ने तेरे लिये कैसे बडे बडे काम किए है: वह जाकर सारे नगर मे प्रचार करने लगा, कि यीशु ने मेरे लिये कैसे बडे बडे काम किए ॥

४० जब यीशु लौट रहा था, तो लोग उस से आनन्द के साथ मिले; क्योंकि वे सब उस की बात जोह रहे थे। ४१ और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, आया, और यीशु के पावों पर गिर के उस से बिनती करने लगा, कि मेरे घर चल। ४२ क्योंकि उसके बारह वर्ष की एकलौती बेटो थी, और वह मरने पर थी: जब वह जा रहा था, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे ॥

४३ और एक स्त्री ने जिस को बारह वर्ष से लोहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यो के पीछे व्यय कर चुकी थी और तौभी किसी के हाथ से चगी न हो सकी थी। ४४ पीछे से आकर उसके वस्त्र के आचल को छूआ, और तुरन्त उसका लोहू बहना थम गया। ४५ इस पर यीशु ने कहा, मुझे किस ने छूआ? जब सब मकरने लगे, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा; हे स्वामी, तुम्हे तो भीड़ दबा रही है और तुम्ह पर गिरी पड़ती है। ४६ परन्तु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छूआ है क्योंकि मैं ने जान लिया है कि

मुझ मे से सामर्थ निकली है। ४७ जब स्त्री ने देखा, कि मैं छिप नहीं सकती, तब कापती हुई आई, और उसके पांवो पर गिरकर सब लोगो के साम्हने बताया, कि मैं ने किस कारण से तुम्हे छूआ, और क्योंकि तुरन्त चगी हो गई। ४८ उस ने उस से कहा, बेटो तेरे विश्वास ने तुम्हे चंगा किया है, कुशल से चली जा ॥

४९ वह यह कह ही रहा था, कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटो मर गई. गुरु को दुख न दे। ५० यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख; तो वह बच जाएगी। ५१ घर मे आकर उस ने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लडकी के माता-पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। ५२ और सब उसके लिये रो पीट रहे थे, परन्तु उस ने कहा; रोओ मत; वह मरी नहीं परन्तु सो रही है। ५३ वे यह जानकर, कि मर गई है, उस की हंसी करने लगे। ५४ परन्तु उस ने उसका हाथ पकडा, और पुकारकर कहा, हे लडकी उठ! ५५ तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरन्त उठी, फिर उस ने आज्ञा दी, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। ५६ उसके माता-पिता चकित हुए, परन्तु उस ने उन्हें चिताया, कि यह जो हुआ है, किसी से न कहना ॥

९ फिर उस ने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। २ और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, और बीमारों को अच्छा करने के लिये भेजा। ३ और उस ने उन से कहा, मार्ग के लिये कुछ न लेना: न तो

लाठी, न भोली, न रोटी, न रुपये धीर न दो दो करते। ४ धीर जिस किसी घर में तुम उतरो, वहीं रहो; धीर वहीं से विदा हो। ५ जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पावों की धूल झाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो। ६ सो वे निकलकर गांव गांव सुसमाचार सुनाते, धीर हर कही लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे।।

७ धीर देश की चौयाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनो ने कहा, कि यहून्ना मरे हुओ में से जी उठा है। ८ धीर कितनों ने यह, कि एलिय्याह दिखाई दिया है : धीर धीरों ने यह, कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। ९ परन्तु हेरोदेस ने कहा, यहून्ना का तो मैं ने सिर कटवाया अब यह कौन है, जिस के विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ ? धीर उस ने उसे देखने की इच्छा की।।

१० फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने ने किया था, उस को बता दिया, धीर वह उन्हें अलग करके बैतसेदा नाम एक नगर को ले गया। ११ यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली : धीर वह ग्रानन्द के साथ उन से मिला, धीर उन से परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा : धीर जो चंगे होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया। १२ जब दिन ढलने लगा, तो बारहों ने घाकर उस से कहा, भीड़ को विदा कर, कि चारों ओर के गांवों धीर बस्तियों में जाकर टिकें, धीर भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। १३ उस ने उन से कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो : उन्होंने ने कहा, हमारे पास पांच रोटियां धीर दो मछली को छोड़ धीर कुछ

नहीं : परन्तु हां, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिये भोजन मोल लें, तो हो सकता है : वे लोग तो पांच हजार पुरुषों के लगभग थे। १४ तब उस ने अपने चेलों से कहा, उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बैठा दो। १५ उन्होंने ने ऐसा ही किया, धीर सब को बैठा दिया। १६ तब उस ने वे पांच रोटियां धीर दो मछली ली, धीर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, धीर तोड़ तोड़कर चेलो को देता गया, कि लोगों को परोसें। १७ सो सब खाकर तृप्त हुए, धीर बचे हुए टुकडो से बारह टोकरी भरकर उठाई।।

१८ जब वह एकान्त में प्रार्थना कर रहा था, धीर चले उसके साथ थे, तो उस ने उन से पूछा, कि लोग मुझे क्या कहते हैं ? १९ उन्होंने ने उत्तर दिया, यहून्ना बपतिस्मा देनेवाला, धीर कोई कोई एलिय्याह, धीर कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। २० उस ने उन से पूछा, परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो ? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। २१ तब उस ने उन्हें चिताकर कहा, कि यह किसी से न कहना। २२ धीर उस ने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह बहुत दुःख उठाए, धीर पुरानिए धीर महा-याजक धीर शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, धीर वह तीसरे दिन जी उठे। २३ उस ने सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इन्कार करे धीर प्रति दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। २४ क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिये अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। २५ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, धीर अपना प्राण खो दे, या

उस की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा ? २६ जो कोई मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा; मनुष्य का पुत्र भी जब झपनी, और अपने पिता की, और पवित्र स्वर्ग दूतों की, महिमा सहित आएगा, तो उस-से लजाएगा। २७ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो यहा खड़े हैं, उन में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे ॥

२८ इन बातों के कोई आठ दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिये पहाड़ पर गया। २९ जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया : और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। ३० और देखो, मूसा और एलिय्याह, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ३१ ये महिमा सहित दिखाई दिए; और उसके मरने * की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होनेवाला था। ३२ पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए, तो उस की महिमा; और उन दो पुरुषों को, जो उसके साथ खड़े थे, देखा। ३३ जब वे उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहा रहना भला है : सो हम तीन मरडप बनाएं, एक तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक एलिय्याह के लिये। वह जानता न था, कि क्या कह रहा है। ३४ वह यह कह ही रहा था, कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे, तो डर गए। ३५ और उस बादल

में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इस की सुनो। ३६ यह शब्द होते ही यीशु झकेला पाया गया : और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था, उस की कोई बात उन दिनों में किसी से न कही ॥

३७ और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, तो एक बड़ी भीड़ उस से आ मिली। ३८ और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, हे गुरु, मैं तुझ से बिनती करता हूँ, कि मेरे पुत्र पर कृपादृष्टि कर; क्योंकि वह मेरा एकलौता है। ३९ और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ता है, और वह एकाएक चिल्ला उठता है; और वह उसे ऐसा मरोड़ता है, कि वह मुझ में फेन भर लाता है; और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। ४० और मैं ने तेरे चेलों से बिनती की, कि उसे निकालें, परन्तु वे न निकाल सके। ४१ यीशु ने उत्तर दिया, हे भविष्यवासी और हठिले लोगों *, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी सहंगा ? अपने पुत्र को यहां ले आ। ४२ वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटककर मरोड़ा, परन्तु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। ४३ तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए ॥

४४ परन्तु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था, अचम्भा कर रहे थे, तो उस ने अपने चेलों से कहा; ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ीं रहे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। ४५ परन्तु वे इस बात को न

* यू० विदा होने।

* यू० पीढ़ी।

समझते थे, और यह उन से छिपी रही; कि वे उसे जानने न पाएं, और वे इस बात के विषय में उस से पूछने से डरते थे ॥

४६ फिर उन में यह विवाद होने लगा, कि हम में से बड़ा कौन है? ४७ पर यीशु ने उन के मन का विचार जान लिया: और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। ४८ और उन से कहा; जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो कोई मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है क्योंकि जो तुम में सब से छोटे से छोटा है, वही बड़ा है ॥

४९ तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हम ने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। ५० यीशु ने उस से कहा, उसे मना मत करो; क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारी ओर है ॥

५१ जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उस ने यरूशलेम को जाने का विचार* दृढ़ किया। ५२ और उस ने अपने भागे दूत भेजे: वे सामरियों के एक गांव में गए, कि उसके लिए जगह तैयार करें। ५३ परन्तु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। ५४ यह देखकर उसके चले याकूब और यूहन्ना ने कहा; हे प्रभु; क्या तू चाहता है, कि हम आज्ञा दें, कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। ५५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी

आत्मा के हो। ५६ क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं बरन बचाने के लिए आया है: और वे किसी और गांव में चले गए ॥

५७ जब वे मार्ग में चले जाते थे, तो किसी ने उस से कहा, जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ५८ यीशु ने उस से कहा, लोमडियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को मिर धरने की भी जगह नहीं। ५९ उस ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले; उस ने कहा; हे प्रभु, मुझे पहिले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दू। ६० उस ने उस से कहा, मरे हुओं को अपने मुरदे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ६१ एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा; पर पहिले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। ६२ यीशु ने उस से कहा; जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ॥

१० और इन बातों के बाद प्रभु ने सत्तर और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह प्राप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने भागे भेजा। २ और उस ने उन से कहा; पक्के खेत बहुत हैं; परन्तु मजदूर थोड़े हैं. इसलिये खेत के स्वामी से बिनती करो, कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। ३ जाओ; देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाईं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ४ इसलिये न बटुआ, न भोली, न जूते लो; और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ५ जिस किसी घर में जाओ, पहिले कहो, कि इस घर पर कल्याण हो। ६ यदि वहां

* यू० मुं०।

कोई कल्याण के योग्य होगा; तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। ७ उसी घर में रहो, और जो कुछ उन से मिले, वही खाओ पीओ, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए: घर घर न फिरना। ८ और जिस नगर में जाओ, और वहा के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए वही खाओ। ९ वहा के बीमारों को चंगा करो: और उन से कहो, कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। १० परन्तु जिस नगर में जाओ, और वहा के लोग तुम्हें ग्रहण न करे, तो उसकै बाजारो में जाकर कहो। ११ कि तुम्हारे नगर की धूल भी, जो हमारे पावो में लगी है, हम तुम्हारे साम्हने झाड़ देते हैं, तीभी यह जान लो, कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। १२ में तुम से कहता हूँ, कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। १३ हाय खुराजीन! हाय बेंतसैदा! जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट भोडकर और राख में बैठकर वे कब के मन फिगते। १४ परन्तु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी। १५ और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊँचा किया जाएगा? तू तो भ्रषोलोक तक नीचे जाएगा। १६ जो तुम्हारी सुनता है, वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है, वह मुझे तुच्छ जानता है; और जो मुझे तुच्छ जानता है, वह मेरे भेजनेवाले को तुच्छ जानता है।

१७ वे सत्तर आनन्द से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे बश में है। १८ उस ने उन से कहा;

में शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। १९ देखो, मैंने तुम्हें साँपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है; और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। २० तीभी इस से आनन्दित मत हो, कि आत्मा तुम्हारे बश में है, परन्तु इस से आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं।

२१ उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनन्द से भर गया, और कहा; हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कि तू ने इन बातों को जानियो और समझदारो से छिपा रखा, और बालको पर प्रगट किया: हा, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। २२ मेरे पिता ने मुझे सब कुछ साँप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे। २३ और चेलो की ओर फिरकर निराले में कहा, धन्य हैं वे आँखें, जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। २४ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा, कि जो बातें तुम देखते हो, देखें; पर न देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुनें, पर न सुनीं।

२५ और देखो, एक व्यवस्थापक उठा; और यह कहकर, उस की परीक्षा करने लगा, कि हे गुरु, अनन्त जीवन का बारिस होने के लिये मैं क्या करूँ? २६ उस ने उस से कहा, कि व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? २७ उस ने उत्तर दिया, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी

शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख; और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। २८ उस ने उस से कहा, तू ने ठीक उत्तर दिया, यही कर : तो तू जीवित रहेगा। २९ परन्तु उस ने अपनी तईं धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है ? ३० यीशु ने उत्तर दिया; कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए, और मारपीटकर उसे भ्रमभ्रम छोड़कर चले गए। ३१ और ऐसा हुआ, कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था परन्तु उसे देख के कतराकर चला गया। ३२ इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। ३३ परन्तु एक सामरी यात्री वहा आ निकला, और उसे देखकर तरस खाया। ३४ और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टिया बान्धी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, और उस की सेवा टहल की। ३५ दूसरे दिन उस ने दो दीनार * निकालकर भटियारे को दिए, और कहा; इस की सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा, वह मे लौटने पर तुझे भर दूंगा। ३६ अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा ? ३७ उस ने कहा, वही जिस ने उस पर तरस खाया : यीशु ने उस से कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर ॥

३८ फिर जब वे जा रहे थे, तो वह एक गांव में गया, और मार्या नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। ३९ और मरियम नाम उस की एक बहिन थी; वह

प्रभु के पावों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। ४० पर मार्या सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी; हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहिन ने मुझे सेवा करने के लिये भ्रकेली ही छोड़ दिया है ? सो उस से कह, कि मेरी सहायता करे। ४१ प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्या, हे मार्या; तू बहुत बातों के लिये चिन्ता करती और घबराती है। ४२ परन्तु एक बात * अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उस से छीना न जाएगा ॥

११ फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था : और जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उस से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। २ उस ने उन से कहा; जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो; हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ३ हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। ४ और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला ॥

५ और उस ने उन से कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उस से कहें, कि हे मित्र; मुझे तीन रोटिया दे ॥ ६ क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है। ७ और वह भीतर से

* या पर थोड़ी या एक ही वस्तु अवश्य है।

† यू० उधार दे।

* देखो मत्ती १८ : २८।

उत्तर दे, कि मुझे दुख न दे; अब तो द्वार बन्द है, और मेरे बालक मेरे पास बिछीने पर है, इसलिये मैं उठकर तुम्हें दे नहीं सकता ? ८ मैं तुम से कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तौभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा । ९ और मैं तुम से कहता हूँ; कि मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा; दूढ़ो, तो तुम पाओगे; खटखटाओ, तो तुम्हारे लिये खोला जाएगा । १० क्योंकि जो कोई मांगता है, उसे मिलता है; और जो दूढ़ता है, वह पाता है; और जो खटखटाता है, उसके लिये खोला जाएगा । ११ तुम मे से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उसका पुत्र रोटी मागे, तो उसे पत्थर दे : या मछली मांगे, तो मछली के बदले उसे साप दे ? १२ या अण्डा मागे तो उसे बिच्छू दे ? १३ सो जब तुम बुरे होकर अपने लडके-बालों को अच्छी वस्तुएँ देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मागनेवालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा ॥

१४ फिर उस ने एक गूगी दुष्टात्मा को निकाला : जब दुष्टात्मा निकल गई, तो गूगा बोलने लगा; और लोगो ने अचम्भा किया । १५ परन्तु उन में से कितनों ने कहा, यह तो शैतान * नाम दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है । १६ औरों ने उस की परीक्षा करने के लिये उस से आकाश का एक चिन्ह मांगा । १७ परन्तु उस ने, उन के मन की बातें जानकर, उन से कहा; जिस जिस राज्य में फूट होती है, वह राज्य उजड़ जाता है; और जिस घर में फूट

होती है, वह नाश हो जाता है । १८ और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए, तो उसका राज्य क्योंकर बना रहेगा ? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो, कि यह शैतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है । १९ भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी सन्तान किस की सहायता से निकालते हैं ? इसलिये वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे । २० परन्तु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य * से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा । २१ जब बलवन्त मनुष्य हथियार बान्धे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उस की संपत्ति बची रहती है । २२ पर जब उस से बढ़कर कोई और बलवन्त चढाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था, छीन लेता है और उस की संपत्ति लूटकर बाट देता है । २३ जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है । २४ जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम दूढ़ती फिरती है; और जब नहीं पाती तो कहती है; कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊँगी । २५ और आकर उसे भाड़ा-बुहारा और सजा-सजाया पाती है । २६ तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उस में पैठकर बास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती है ॥

* य० बालजबूल ।

* य० उंगली ।

२७ जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिस में तू रहा; और वे स्तन, जो तू ने चूसे। २८ उस ने कहा, हां; परन्तु धन्य वे हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं ॥

२९ जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा; कि इस युग के लोग * बुरे हैं; वे चिन्ह ढूँढते हैं, पर यूनस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। ३० जैसा यूनस नीनवे के लोगों के लिये चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिये ठहरेगा। ३१ दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर, उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलैमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो, यहा वह है जो सुलैमान से भी बड़ा है। ३२ नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर, उन्हें दोषी ठहराएंगे; क्योंकि उन्हो ने यूनस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो, यहा वह है, जो यूनस से भी बड़ा है ॥

३३ कोई मनुष्य दीया बार के तलघरे में, या पैमाने † के नीचे नहीं रखता, परन्तु दीबट पर रखता है कि भीतर आनेवाले उजियाला पाए। ३४ तेरे शरीर का दीया तेरी आंख है, इसलिये जब तेरी आंख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है; परन्तु जब वह बुरी है, तो तेरा शरीर भी अन्धेरा है। ३५ इसलिये चौकस रहना, कि जो उजियाला तुझ में है वह अन्धेरा न हो जाए। ३६ इसलिये यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो, और उसका कोई

भाग अन्धेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा, जैसा उस समय होता है, जब दीया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है ॥

३७ जब वह बातें कर रहा था, तो किसी फरीसी ने उस से बिनती की, कि मेरे यहां भोजन कर; और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। ३८ फरीसी ने यह देखकर अचम्भा किया कि उस ने भोजन करने से पहिले स्नान नहीं किया। ३९ प्रभु ने उस में कहा, हे फरीसियो, तूम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो माजत हो, परन्तु तुम्हारे भीतर अन्धेरे और दुष्टता भरी है। ४० हे निर्बुद्धियो, जिस ने बाहर का भाग बनाया, क्या उस ने भीतर का भाग नहीं बनाया? ४१ परन्तु हा, भीतरवाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिये शुद्ध हो जाएगा ॥

४२ पर हे फरीसियो, तुम पर हाय ! तुम पोदीने और सुदाब का, और सब भांति के साग-पात का दसवा अंश देते हो, परन्तु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो : चाहिए तो था कि इन्हे भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। ४३ हे फरीसियो, तुम पर हाय ! तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। ४४ हाय तुम पर ! क्योंकि तुम उन छिपी कर्तों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं, परन्तु नहीं जानते ॥

४५ तब एक व्यवस्थापक ने उस को उत्तर दिया, कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निन्दा करता है। ४६ उस ने कहा; हे व्यवस्थापको, तुम पर भी हाय ! तुम ऐसे बोझ जिन को उठाना कठिन है, मनुष्यों पर लादते हो परन्तु तुम आप उन

* यू० पीदी।

† देखो मत्ती ५ : १५।

बोधों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। ४७ हाय तुम पर ! तुम उन भविष्यद-वक्ताओं की कब्रें बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे ही बाप-दादो ने मार डाला था। ४८ सो तुम गवाह हो, और अपने बाप-दादों के कामों में सम्मत हो; क्योंकि उन्होंने ने तो उन्हें मार डाला और तुम उन की कब्रें बनाते हो। ४९ इसलिये परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, कि मैं उन के पास भविष्यदवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूगी; और वे उन में से कितनो को मार डालेंगे, और कितनो को सताएंगे। ५० ताकि जिनने भविष्यदवक्ताओं का लोहू जगत की उत्पत्ति से बँहाया गया है, सब का लेखा, इस युग के लोगों* से लिया जाए। ५१ हांबील की हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या तक जो वेदी और मन्दिर† के बीच में घात किया गया: मैं तुम से सच कहता हूँ; उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। ५२ हाय तुम व्यवस्थापकों पर ! कि तुम ने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परन्तु तुम ने आपही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करनेवालों को भी रोक दिया ॥

५३ जब वह वहाँ से निकला, तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड गए और छेड़ने लगे, कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे। ५४ और उस की घात में लगे रहे, कि उसके मुह की कोई बात पकड़ें ॥

१२ इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सब से पहिले अपने बेलों से कहने लगा, कि फरीसियों के

* यू० पीदी।

† यू० पवित्रस्थान।

कपटरूपी खमीर से चौकस रहना। २ कुछ डपा नहीं, जो खोला न जाएगा; और न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। ३ इसलिये जो कुछ तुम ने अन्धे में कहा है, वह उजाले में सुना जाएगा: और जो तुम ने कोठरियों में कानों कान कहा है, वह कोठो पर प्रचार किया जाएगा। ४ परन्तु मैं तुम से जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, कि जो शरीर को घात करते हैं परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उन से मत डरो। ५ मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, घात करने के बाद जिस को नरक मे डालने का अधिकार है, उसी से डरो. बरन मैं तुम से कहता हूँ, उसी से डरो। ६ क्या दो पैसे की पाच गौरैया नहीं बिकती? तौभी परमेश्वर उन में से एक को भी नहीं भूलता। ७ बरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। ८ मैं तुम से कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के साम्हने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साम्हने मान लेगा। ९ परन्तु जो मनुष्यों के साम्हने मुझे इन्कार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साम्हने इन्कार किया जाएगा। १० जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परन्तु जो पवित्र आत्मा की निन्दा करे, उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। ११ जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के साम्हने ले जाएँ, तो चिन्ता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, या क्या कहें। १२ क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा, कि क्या कहना चाहिए ॥

१३ फिर भीड़ में से एक ने उस से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह, कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। १४ उस ने उस से कहा; हे मनुष्य, किस ने मुझे तुम्हारा न्यायी या बाटनेवाला नियुक्त किया है? १५ और उस ने उन से कहा, चौकस रहो, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो: क्योंकि किसी का जीवन उस की संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। १६ उस ने उन से एक दृष्टान्त कहा, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। १७ तब वह अपने मन में विचार करने लगा, कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहा जगह नहीं, जहां अपनी उपज इत्यादि रखू। १८ और उस ने कहा, मैं यह करूंगा. मैं अपनी बखारिया तोड़ कर उन से बड़ी बनाऊंगा; १९ और वहा अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा: और अपने प्राण से कहूंगा, कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिये बहुत संपत्ति रखी है; चैन कर, खा, पी, सुख से रह। २० परन्तु परमेश्वर ने उस से कहा; हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा: तब जो कुछ तू ने इकट्ठा किया है, वह किस का होगा? २१ ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिये धन बटोरता है, परन्तु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं।

२२ फिर उस ने अपने चेलों से कहा, इसलिये मैं तुम से कहता हू, अपने प्राण की चिन्ता न करो, कि हम क्या खाएंगे; न अपने शरीर की कि क्या पहिनेंगे। २३ क्योंकि भोजन से प्राण, और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। २४ कौबों पर ध्यान दो; वे न बोते हैं, न काटते; न उन के भगडार और न खता होता है; तौभी परमेश्वर उन्हें पालता है; तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कही अधिक

है। २५ तुम में से ऐसा कौन है, जो चिन्ता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी * भी बढ़ा सकता है? २६ इसलिये यदि तुम सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिये क्यों चिन्ता करते हो? २७ सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते, न कातते हैं; तौभी मैं तुम से कहता हू, कि सुलैमान भी, अपने मारे विभव में, उन में से किसी एक के समान वस्त्र पहिने हुए न था। २८ इसलिये यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो ग्राज है, और कल भाड में भोकी जाएगी, ऐसा पहिनाता है; तो हे अल्प विश्वासियो, वह तुम्हें क्यों न पहिनाएगा? २९ और तुम इस बात की खोज में न रहो, कि क्या खाएंगे और क्या पीएंगे, और न सन्देह करो। ३० क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं: और तुम्हारा पिता जानता है, कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। ३१ परन्तु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ३२ हे छोटे भ्रुड, मत डर; क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि तुम्हें राज्य दे। ३३ अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो; और अपने लिये ऐसे बटुए बनाओ, जो पुराने नहीं होते, अर्थात् स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिस के निकट चोर नहीं जाता, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। ३४ क्योंकि जहा तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा।

३५ तुम्हारी कमरें बन्धी रहें, और तुम्हारे दीये जलते रहें। ३६ और तुम

* दू. हाथ।

उन मनुष्यों के समान बनो, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों, कि वह ब्याह से कब लौटेगा; कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, तो तुरन्त उसके लिये खोल दें। ३७ धन्य हैं वे दास, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वह कमर बान्ध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा, और पास आकर उन की सेवा करेगा। ३८ यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य हैं। ३९ परन्तु तुम यह जान रखो, कि यदि घर का स्वामी जानता, कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता, और अपने घर में संध लगने न देता। ४० तुम भी तैयार रहो; क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जावेगा ॥

४१ तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टान्त तू हम ही से या सब से कहता है। ४२ प्रभु ने कहा; वह विश्वास-योग्य और बुद्धिमान भएडारी कौन है, जिस का स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। ४३ धन्य है वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ४४ मैं तुम से सच कहता हूँ; वह उसे अपनी सब सपत्ति पर सरदार ठहराएगा। ४५ परन्तु यदि वह दास सोचने लगे, कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने-पीटने और खाने-पीने और पियक्कड़ होने लगे। ४६ तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उस की बाट जोहता न रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। ४७ और वह दास जो अपने

स्वामी की इच्छा जानता था, और तैयार न रहा और न उस की इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा। ४८ परन्तु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिये जिसे बहुत दिया गया है, उस से बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उस से बहुत मांगेंगे ॥

४९ मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ; और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अग्नी मुलग जाती। ५० मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती मे रहूंगा? ५१ क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुम से कहता हूँ; नहीं, बरन अलग कराने आया हूँ। ५२ क्योंकि अब से एक घर में पांच जन आपस में विरोध रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से। ५३ पिता पुत्र से, और पुत्र पिता से विरोध रखेंगे; मा बेटे से, और बेटे मा से, सास बहू से, और बहू सास से विरोध रखेंगी ॥

५४ और उस ने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पच्छिम से उठते देखते हो, तो तुरन्त कहते हो, कि वर्षा होगी, और ऐमः ही होता है। ५५ और जब दक्खिना चलती देखते हो तो कहते हो, कि लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है। ५६ हे कपटियो, तुम घरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परन्तु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? ५७ और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते, कि उचित क्या है? ५८ जब तू अपने मुर्दू के साथ हाकिम के पास जा रहा है, तो मार्ग ही में उस से छूटने का यत्न कर ले ऐसा न हो, कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए, और न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे

और प्यादा तुम्हें बन्दीगृह में डाल दे। ५६ में तुम से कहता हूँ, कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा ॥

१३ उस समय कुछ लोग आ पहुँचे, और उस से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिन का लोहू पीलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। २ यह सुन उस ने उन से उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो, कि ये गलीली, और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? ३ मैं तुम से कहना हूँ, कि नहीं, परन्तु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। ४ या क्या तुम समझते हो, कि वे अठारह जन जिन पर शीलोह का गुम्मत गिरा, और वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहनेवालों से अधिक अपराधी थे? ५ मैं तुम से कहता हूँ, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे ॥

६ फिर उस ने यह दृष्टान्त भी कहा, कि किसी की अंगूर की बारी में एक अजीर का पेड़ लगा हुआ था: वह उस में फल बढ़ने आया, परन्तु न पाया। ७ तब उस ने बारी के रखवाले से कहा, देख तीन वर्ष से मैं इस अजीर के पेड़ में फल बढ़ने आता हूँ, परन्तु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। ८ उस ने उस को उत्तर दिया, कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे; कि मैं इस के चारों ओर खोदकर खाद डालूँ। ९ सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना ॥

१० सन्त * के दिन वह एक आराधना-लय में उपदेश कर रहा था। ११ और देखो, एक स्त्री थी, जिसे अठारह वर्ष से एक दुर्बल करनेवाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी।

१२ यीशु ने उसे देखकर बुलाया, और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई।

१३ तब उस ने उस पर हाथ रखे, और वह तुरन्त सीधी हो गई, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। १४ इसलिये कि यीशु ने सन्त के दिन उसे अर्पणा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, छः दिन हैं, जिन में काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर चंगे होओ; परन्तु सन्त के दिन में नहीं। १५ यह सुन कर प्रभु ने उत्तर देकर कहा; हे कपटियो, क्या सन्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? १६ और क्या उचित न था, कि यह स्त्री जो इब्राहीम की बेटाई है जिसे शैतान ने अठारह वर्ष से बान्ध रखा था, सन्त के दिन इस बन्धन से छुड़ाई जाती?

१७ जब उस ने ये बातें कहीं, तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था, आनन्दित हुई ॥

१८ फिर उस ने कहा, परमेश्वर का राज्य किस के समान है? और मैं उस की उपमा किस से दूँ? १९ वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया: और वह बढ़कर पेड़ हो गया; और आकाश के

* ५० विंशम के दिन।

पक्षियों ने उस की झालियों पर बसेरा किया । २० उस ने फिर कहा; मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दू? २१ वह खमीर के समान है, जिस को किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी घ्राटे में मिलाया, और होते होते सब घ्राटा खमीर हो गया ॥

२२ वह नगर नगर, और गाव गाव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था । २३ और किसी ने उस से पूछा; हे प्रभु, क्या उद्धार पानेवाले थोड़े हैं? २४ उस ने उन से कहा; सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, और न कर सकेंगे । २५ जब घर का स्वामी उठकर द्वार बन्द कर चुका हो, और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिये खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? २६ तब तुम कहने लगोगे, कि हम ने तेरे साम्हने खायी-पीया और तू ने हमारे बाजारो मे उपदेश किया । २७ परन्तु वह कहेगा, मैं तुम से कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करनेवालो, तुम सब मुझ से दूर हो । २८ वहा रोना और दात पीसना होगा : जब तुम इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे, और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे । २९ और पूर्व और पच्छिम; उत्तर और दक्खिन से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे । ३० और देखो, कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं, वे पिछले होंगे ॥

३१ उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उस से कहा, यहां से निकलकर

चला जा; क्योंकि हेरोदेस तुम्हें मार डालना चाहता है । ३२ उस ने उन से कहा; जाकर उस लोमड़ी से कह दो, कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा करूंगा । ३३ तौभी मुझे आज और कल और परमों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए । ३४ हे यरूशलेम ! हे यरूशलेम ! तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है, और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है; कितनी ही बार मैं न यह चाहा, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूँ, पर तुम ने यह न चाहा । ३५ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुम से कहता हूँ, जब तक तुम न कहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे ॥

१४ फिर वह सन्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया : और वे उस की घात में थे । २ और देखो, एक मनुष्य उसके साम्हने था, जिसे जलन्धर का रोग था । ३ इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा; क्या सन्त के दिन अच्छा करना उचित है, कि नहीं? परन्तु वे चुपचाप रहे । ४ तब उस ने उसे हाथ लगा कर चंगा किया, और जाने दिया । ५ और उन से कहा; कि तुम में से ऐसा कौन है, जिस का गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सन्त के दिन उसे तुरन्त बाहर

न निकाल ले ? ६ वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके ॥

७ जब उस ने देखा, कि नेवताहारी लोग क्योंकर मुख्य मुख्य जगहे चुन लेते हैं तो एक दृष्टान्त देकर उन से कहा । ८ जब कोई तुम्हे ब्याह मे बुलाए, तो मुख्य जगह में न बैठना, कही ऐसा न हो, कि उस ने तुम्ह से भी किसी बडे को नेवता दिया हो । ९ और जिस ने तुम्हे और उसे दोनों को नेवता दिया है : आकर तुम्ह से कहे, कि इस को जगह दे, और तब तुम्हे लज्जित होकर सब से नीची जगह मे बैठना पडे । १० पर जब तू बुलाया जाए, तो सब से नीची जगह जा बैठ, कि जब वह, जिस ने तुम्हे नेवता दिया है आए, तो तुम्ह से कहे कि हे मित्र, आगे बढकर बैठ, तब तेरे साथ बैठनेवालो के साम्हने तेरी बडाई होगी । ११ क्योकि जो कोई अपने आप को बडा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा ; और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बडा किया जाएगा ॥

१२ तब उस ने अपने नेवता देनेवाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे, तो अपने मित्रो या भाइयो या कुटुम्बियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कही ऐसा न हो, कि वे भी तुम्हे नेवता दे, और तेरा बदला हो जाए । १३ परन्तु जब तू भोज करे, तो कगालों, टुगडों, लंगडो और अन्धों को बुला । १४ तब तू धन्य होगा, क्योकि उन के पास तुम्हे बदला देने को कुछ नही, परन्तु तुम्हे धर्मियों के जी उठने पर इस का प्रतिफल मिलेगा ॥

१५ उसके साथ भोजन करनेवालों में से एक ने ये बातें सुनकर उस से कहा, धन्य है वह, जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा । १६ उस ने उस से कहा ; किसी

मनुष्य ने बडी जेवनार की और बहुतों को बुलाया । १७ जब भोजन तैयार हो गया, तो उस ने अपने दास के हाथ नेवतहारियों को कहला भेजा, कि आओ ; अब भोजन तैयार है । १८ पर वे सब के सब क्षमा मागने लगे, पहिले ने उस से कहा, मैं ने श्वेत मोल लिया है, और अवश्य है कि उसे देखू : मैं तुम्ह से बिनती करता हू, मुम्हे क्षमा करा दे । १९ दूसरे ने कहा, मैं ने पांच जोडे बैल मोल लिए है, और उन्हें परखने जाता हू : मैं तुम्ह से बिनती करता हू, मुम्हे क्षमा करा दे । २० एक और ने कहा, मैं ने व्याह किया है, इसलिये मैं नहीं आ सकता । २१ उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध मे आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरन्त जाकर कगालो, टुगडों, लंगडो और अन्धो को यहा ले आओ । २२ दास ने फिर कहा ; हे स्वामी, जैसे तू ने कहा था, वैसे ही किया गया है ; और फिर भी जगह है ।

२३ स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाडो की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ * ताकि मेरा घर भर जाए । २४ क्योकि मैं तुम से कहता हूँ, कि उन नेवते हुएों में से कोई मेरी जेवनार को न चखेगा ॥

२५ और जब बडी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उस ने पीछे फिरकर उन से कहा । २६ यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी और लडकेवालों और भाइयो और बहिनों बरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता ।

* या बिन लाय मत छोड़ ।

२७ और जो कोई अपना क्रूस न उठाए; और मेरे पीछे न आए; वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। २८ तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो, और पहिले बैठकर खर्च न जोड़े, कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं? २९ कहीं ऐसा न हो, कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके, तो सब देखनेवाले यह कहकर उसे ठट्टो में उड़ाने लगे। ३० कि यह मनुष्य बनाने तो लगा, पर तैयार न कर सका? ३१ या कौन ऐसा राजा है, कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहिले बैठकर विचार न कर ले कि जो बीस हजार लेकर मुझ पर चढा आता है, क्या मैं दस हजार लेकर उसका साम्हना कर सकता हूँ, कि नहीं? ३२ नहीं तो उसके दूर रहते ही, वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। ३३ इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ३४ नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। ३५ वह न तो भूमि के और न खाद के लिये काम में आता है: उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं: जिस के सुनने के कान हो वह सुन ले ॥

१५ . सब चुड़ड़ी लेनेवाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उस की सुनें। २ और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, कि यह तो पापियों से मिलता है और उन के साथ खाता भी है ॥

३ तब उस ने उन से यह दृष्टान्त कहा। ४ तुम में से कौन है जिस की सौ भेड़ें हों, और उन में से एक खो जाए; तो निश्चानवे

को जंगल में छोड़कर, उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? ५ और जब मिल जाती है, तब वह बड़े आनन्द से उसे कांधे पर उठा लेता है। ६ और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनन्द करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। ७ मैं तुम से कहता हूँ; कि इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनन्द होगा, जितना कि निश्चानवे ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हे मन फिराने की आवश्यकता नहीं ॥

८ या कौन ऐसी स्त्री होगी, जिस के पास दस सिक्के * हों, और उन में से एक खो जाए; तो वह दीया बारकर और घर झाड़ बूहारकर जब तक मिल न जाए, जी लगाकर खोजती न रहे? ९ और जब मिल जाता है, तो वह अपने सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठी करके कहती है, कि मेरे साथ आनन्द करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। १० मैं तुम से कहता हूँ; कि इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साम्हने आनन्द होता है ॥

११ फिर उस ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। १२ उन में से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, वह मुझे दे दीजिए। उस ने उन को अपनी संपत्ति बांट दी। १३ और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहा कुकर्म में अपनी संपत्ति उडा दी। १४ जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो

* यू० द्राखमा। उसका मोल लगभग आठ आने के था।

उस देश में बड़ा प्रकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। १५ और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा : उस ने उसे अपने खेतों में सूझर चराने के लिये भेजा। १६ और वह चाहता था, कि उन फलियों से जिन्हें सूझर खाते थे अपना पेट भरे; और उसे कोई कुछ नहीं देता था। १७ जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। १८ मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उस से कहूंगा कि पिता जी मैं ने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। १९ अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। २० तब वह उठकर, अपने पिता के पास चला : वह अभी दूर ही था, कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया, और बहुत चूमा। २१ पुत्र ने उस से कहा; पिता जी, मैं ने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है; और अब इस योग्य नहीं रहा, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। २२ परन्तु पिता ने अपने दासों से कहा; भट्ट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहिनाओ, और उसके हाथ में अग्रुठी, और पांवों में जूतिया पहिनाओ। २३ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनन्द मनावें। २४ क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है : खो गया था, अब मिल गया है : और वे आनन्द करने लगे। २५ परन्तु उसका जेठा पुत्र खेत में था : और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उस ने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। २६ और उस ने

एक दास को बुलाकर पूछा; यह क्या हो रहा है? २७ उस ने उस से कहा, तेरा भाई आया है; और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिये कि उसे भला खंगा पाया है। २८ यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, और भीतर जाना न चाहा : परन्तु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। २९ उस ने पिता को उत्तर दिया, कि देख; मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द करता। ३० परन्तु जब तेरा यह पुत्र, जिस ने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिये तू ने पला हुआ बछड़ा कटवाया। ३१ उस ने उस से कहा; पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है; और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। ३२ परन्तु अब आनन्द करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है; खो गया था, अब मिल गया है ॥

१६ फिर उस ने चेलों से भी कहा; किसी धनवान का एक भण्डारी था, और लोगों ने उसके साम्हने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। २ सो उस ने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भण्डारीपन का लेखा दे; क्योंकि तू आगे को भण्डारी नहीं रह सकता। ३ तब भण्डारी सोचने लगा, कि अब मैं क्या करू? क्योंकि मेरा स्वामी अब भण्डारी का काम मुझ से छीन ले रहा है : मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जाती : और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है।

४ में समझ गया, कि क्या करूँगा : ताकि जब मैं भण्डारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। ५ और उस ने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहिले से पूछा, कि तुम्हारे पर-मेरे स्वामी का क्या आता है ? ६ उस ने कहा, सौ मन तेल ; तब उस ने उस से कहा, कि अपनी खाता-बही ले और बैठकर तुरन्त पचास लिख दे। ७ फिर दूसरे से पूछा, तुम्हारे पर क्या आता है ? उस ने कहा, सौ मन गेहूँ ; तब उस ने उस से कहा ; अपनी खाता-बही लेकर अस्सी लिख दे। ८ स्वामी ने उस अधर्मी भण्डारी को सराहा, कि उस ने चतुराई से काम किया है ; क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ९ और मैं तुम से कहता हूँ, कि अधर्म के घन से अपने लिये मित्र बना लो ; ताकि जब वह जाता रहे, तो वे तुम्हें अनन्त निवासों में ले लें। १० जो थोड़े से थोड़े में सच्चा * है, वह बहुत में भी सच्चा है ; और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। ११ इसलिये जब तुम अधर्म के घन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौपेगा। १२ और यदि तुम पराये घन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे तुम्हें कौन देगा ? १३ कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता : क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा ; या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा : तुम परमेश्वर और घन दोनों की सेवा नहीं कर सकते ॥

* सू० विश्वासयोग्य।

१४ फरीसी जो लोभी थे, वे सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। १५ उस ने उन से कहा ; तुम तो मनुष्यों के साम्हने अपने आप को धर्मी ठहराते हो : परन्तु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। १६ व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और हर कोई उस में प्रबलता से प्रवेश करता है। १७ आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिन्दु के मिट जाने से सहज है। १८ जो कोई अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करता है, वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है, वह भी व्यभिचार करता है ॥

१९ एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहिनता और प्रति दिन सुख-विलास और धूम-धाम के साथ रहता था। २० और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उस की डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। २१ और वह चाहता था, कि धनवान की भेज पर की जूठन से अपना पेट भरे ; बरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। २२ और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्ग-दूतों ने उसे लेकर इब्राहीम की गोद में पहुँचाया ; और वह धनवान भी मरा ; और गाड़ा गया। २३ और अधोलोक में उस ने पीढा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई, और दूर से इब्राहीम की गोद में लाजर को देखा। २४ और उस ने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहीम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगुली का

सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। २५ परन्तु इब्राहीम ने कहा; हे पुत्र स्मरण कर, कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं; परन्तु अब वह यहा शान्ति पा रहा है, और तू तड़प रहा है। २६ और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़हा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें, वे न जा सकें, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। २७ उस ने कहा; तो हे पिता मैं तुम्ह से बिनती करता हूँ, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। २८ क्योंकि मेरे पाच भाई हैं, वह उन के साम्हने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। २९ इब्राहीम ने उस से कहा, उन के पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन की सुनें। ३० उस ने कहा; नहीं, हे पिता इब्राहीम; पर यदि कोई मरे हुआओं में से उन के पास जाए, तो वे मन फिराएंगे। ३१ उस ने उस से कहा, कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नही सुनते, तो यदि मरे हुआओं में से कोई जी भी उठे तोभी उस की नहीं मानेंगे।

१७ फिर उस ने अपने चेलों से कहा; हो नहीं सकता कि ठोकरे न लों, परन्तु हाय, उस मनुष्य पर जिस के कारण वे भ्राती हैं! २ जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिये यह भला होता, कि चक्की का पाट उसके गले में लटकया जाता, और वह समुद्र में डाल दिया जाता। ३ सचेत रहो; यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे

समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। ४ यदि दिन भर में वह सात बार तेरा अपराध करे और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे, कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर।

५ तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। ६ प्रभु ने कहा, कि यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखडकर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। ७ पर तुम मे से ऐसा कौन है, जिस का दास हल जोतता, या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए, तो उस से कहे तुरन्त आकर भोजन करने बैठ? ८ और यह न कहे, कि मेरा खाना तैयार कर: और जब तक मैं खाऊ-पीऊ तब तक कमर बान्धकर मेरी सेवा कर, इस के बाद तू भी खा पी लेना। ९ क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा, कि उस ने वे ही काम किए जिस की आज्ञा दी गई थी? १० इसी रीति से तुम भी, जब उन सब कामों को कर चुको जिस की आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं; कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है।

११ और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। १२ और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे दस कोढ़ी मिले। १३ और उन्हो ने दूर खड़े होकर, ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। १४ उस ने उन्हें देखकर कहा, जाओ; और अपने तई याजकों को दिखाओ; और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। १५ तब उन में से एक यह देखकर कि मैं चगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से

परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा । १६ और यीशु के पांवों पर मुह के बस गिरकर, उसका धन्यवाद करने लगा; और वह सामरी था । १७ इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शूद्र न हुए तो फिर वे नौ कहाँ हैं ? १८ क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला, जो परमेश्वर की बड़ाई करता ? १९ तब उस ने उस से कहा; उठकर चला जा; तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ॥

२० जब फरीसियों ने उस में पूछा, कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा ? तो उस ने उन को उत्तर दिया, कि परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप से नहीं आता । २१ और लोग यह न कहेंगे, कि देखो, यहाँ है, या वहाँ है, क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है ॥

२२ और उस ने बेथाने से कहा; वे दिन आएंगे, जिन में तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, और नहीं देखने पाओगे । २३ लोग तुम से कहेंगे, देखो, वहाँ है, या देखो यहाँ है; परन्तु तुम चले न जाना और न उन के पीछे हो लेना । २४ क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौन्धकर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रगट होगा । २५ परन्तु पहिले भ्रवश्य है, कि वह बहुत दुख उठाए, और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएँ । २६ जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा । २७ जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते-पीते थे, और उन में ब्याह-शादी होती थी; तब जल-प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया । २८ और जैसा लूत के दिनों में

हुआ था, कि लोग खाते-पीते लेन-देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे । २९ परन्तु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गन्धक आकाश से बरसी और सब को नाश कर दिया । ३० मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के दिन भी ऐसा ही होगा । ३१ उस दिन जो कोठे पर हो; और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे । ३२ लूत की पत्नी को स्मरण रखो । ३३ जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा । ३४ मैं तुम से कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा । ३५ दो स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी जाएगी । ३६ [दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा * ।] ३७ यह सुन जहाँ ने उस से पूछा, हे प्रभु यह कहा होगा ? उस ने उन से कहा, जहाँ लोथ है, वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे ॥

१८ फिर उस ने इस के विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना चाहिए उन से यह दृष्टान्त कहा । २ कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था; जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था । ३ और उसी नगर में एक बिधवा भी रहती थी; जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, कि मेरा न्याय चुकाकर

* यह पद सब से पुराने हस्तलेखों में नहीं मिलता ।

मुझे मुद्दई से बचा। ४ उस ने कितने समय तक तो न माना परन्तु अन्त में मन में विचारकर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता, और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। ५ तौभी यह बिधवा मुझे सताती रहती है, इसलिये मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अन्त को मेरा नाक में दम करे। ६ प्रभु ने कहा, सुनो, कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? ७ सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओ को न्याय न चुकाएगा, जो रात-दिन उस की दुहाई देते रहते; और क्या वह उन के विषय में देर करेगा? ८ मैं तुम से कहता हू; वह तुरन्त उन का न्याय चुकाएगा; तौभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?

९ और उस ने कितनो से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, कि हम धर्मी हैं, और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टान्त कहा। १० कि दो मनुष्य मन्दिर में प्रार्थना करने के लिये गए; एक फरीसी था और दूसरा चुङ्गी लेनेवाला। ११ फरीसी खड़ा होकर अपने मन में जो प्रार्थना करने लगा, कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कि मैं और मनुष्यों की नाईं अन्धे करनेवाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुङ्गी लेनेवाले के समान हूँ। १२ मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ; मैं अपनी भब कमाई का दसवा अंश भी देता हूँ। १३ परन्तु चुङ्गी लेनेवाले ने दूर खड़े होकर, स्वर्ग की ओर आँखें उठाना भी न चाहा, बरन अपनी छाती पीट-पीटकर कहा; हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर*। १४ मैं तुम से

* या प्रायश्चित्त के कारण मुझ पापी पर दया कर।

कहता हूँ, कि वह दूसरा नहीं, परन्तु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा ॥

१५ फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे; और बेलो ने देखकर उन्हें डाटा। १६ यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना न करो: क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। १७ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाईं ग्रहण न करेगा वह उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा ॥

१८ किसी सरदार ने उस से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनन्तजीवन का अधिकारी होने के लिये मैं क्या करूँ? १९ यीशु ने उस से कहा; तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात् परमेश्वर। २० तू भ्राज्जाओ को तो जानता है, कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, भूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। २१ उस ने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। २२ यह सुन, यीशु ने उस से कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कगालो को बाट दे; और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। २३ वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। २४ यीशु ने उसे देखकर कहा; धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है? २५ परमेश्वर के राज्य में

घनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है। २६ और सुननेवालों ने कहा, तो फिर किस का उद्धार हो सकता है? २७ उस ने कहा; जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। २८ पतरस ने कहा; देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिये हैं। २९ उस ने उन से कहा; मैं तुम से सब कहता हूँ, कि ऐसा कोई नहीं जिस ने परमेश्वर के राज्य के लिये घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के-बालों को छोड़ दिया हो। ३० और इस समय कई गुणा अधिक न पाए; और परलोक मे अनन्त जीवन ॥

३१ फिर उस ने बारहो को साथ लेकर उन से कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिये भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। ३२ क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे; और उसका अपमान करेंगे, और उस पर थूकेंगे। ३३ और उसे कोड़े मारेंगे, और घात करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। ३४ और उन्होंने ने इन बातों में से कोई बात न समझी: और यह बात उन से छिपी रही, और जो कहा गया था वह उन की समझ में न आया ॥

३५ अब वह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक भन्धा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। ३६ और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? ३७ उन्होंने ने उस को बताया, कि यीशु नासरी जा रहा है। ३८ तब उस ने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया कर। ३९ जो आगे जाते थे, वे उसे डांटने लगे,

कि चुप रहे: परन्तु वह और भी खिल्लाने लगा, कि हे दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया कर। ४० तब यीशु ने खड़े होकर आशा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया, तो उस ने उस से यह पूछा। ४१ तू क्या चाहता है, कि मैं तेरे लिये करूं? उस ने कहा; हे प्रभु यह कि मैं देखने लगू। ४२ यीशु ने उस से कहा; देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे भ्रष्टा कर दिया है। ४३ और वह तुरन्त देखने लगा; और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगो ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की ॥

१९ वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। २ और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुड़ड़ी लेनेवालो का सरदार और धनी था। ३ वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है? परन्तु भीड़ के कारण देख न सकता था! क्योंकि वह नाटा था। ४ तब उस को देखने के लिये वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। ५ जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि कर के उस से कहा; हे जक्कई भट उतर आ; क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना भवश्यक है। ६ वह तुरन्त उतरकर आनन्द से उसे अपने घर को ले गया। ७ यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहा जा उतरा है। ८ जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा; हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी सम्पत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ।

६ तब यीशु ने उस से कहा; आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिये कि यह भी इब्राहीम का एक पुत्र है। १० क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुआ को ढूढने और उन का उद्धार करने आया है ॥

११ जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उस ने एक दृष्टान्त कहा, इसलिये कि वह यरूशलेम के निकट था, और वे समझते थे, कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रगट हुआ चाहता है। १२ सो उस ने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। १३ और उस ने अपने दासों में से दस को बुलाकर उन्हें दस मुहरे दी, और उन से कहा, मेरे लौट आने तक लेन-देन करना। १४ परन्तु उनके नगर के रहनेवाले उस से बैर रखते थे, और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, कि हम नहीं चाहते, कि यह हम पर राज्य करे। १५ जब वह राजपद पाकर लौट आया, तो ऐसा हुआ कि उस ने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन-देन से क्या क्या कमाया। १६ तब पहिले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरे मोहर से दस और मोहरे कमाई हैं। १७ उम ने उस से कहा, धन्य हे उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला अब दस नगरो पर अधिकार रख। १८ दूसरे ने आकर कहा; हे स्वामी तेरी मोहर से पाच और मोहरे कमाई है। १९ उस ने उस से भी कहा, कि तू भी पांच नगरो पर हाकिम हो जा। २० तीसरे ने आकर कहा; हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह है, जिसे मैं ने भ्रंगोछे में बान्ध रखी। २१ क्योंकि मैं तुम्ह से डरता था, इसलिये कि तू कठोर मनुष्य है; जो तू ने नहीं रखा

उसे उठा लेता है, और जो तू ने नहीं बोया, उसे काटता है। २२ उस ने उस से कहा; हे दुष्ट दास, मे तेरे ही मुह से तुम्हें दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हू, जो मैं ने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैं ने नहीं बोया, उसे काटता हू। २३ तो तू ने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए, कि मैं आकर व्याज समेत ले लेता? २४ और जो लोग निकट खड़े थे, उस ने उन से कहा, वह मोहर उस से ले लो, और जिस के पास दस मोहरें हैं उसे दे दो। २५ (उन्हो ने उस से कहा; हे स्वामी, उसके पास दस मोहरें तो हैं)। २६ मैं तुम से कहता हू, कि जिस के पास है, उसे दिया जाएगा, और जिस के पास नहीं, उस से वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। २७ परन्तु मेरे उन बैरियो को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करू, उन को यहा लाकर मेरे सामने घात करो ॥

२८ ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उन के आगे आगे चला ॥

२९ और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के पास पहुंचा, तो उस ने अपने चेलों में से दो को यह कहके भेजा। ३० कि साम्हने के गाब में जाओ, और उस में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बन्धा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। ३१ और यदि कोई तुम से पूछे, कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना, कि प्रभु को इस का प्रयोजन है। ३२ जो भेजे गए थे, उन्हो ने जाकर जैसा उस ने उन से कहा था, वैसा ही पाया। ३३ जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उन से पूछा; इस बच्चे को क्यों खोलते हो?

३४ उन्हो ने कहा, प्रभु को इस का प्रयोजन है। ३५ वे उस को यीशु के पास ले आए, और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। ३६ जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। ३७ और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मण्डली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने ने देखे थे, आनन्दित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। ३८ कि धन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शान्ति और आकाश * मण्डल में महिमा हो। ३९ तब भीड़ में से कितने फरीसी उस से कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डाट। ४० उस ने उत्तर दिया, कि तुम में से कहता हूँ, यदि ये चुप रहे, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे ॥

४१ जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ४२ और कहा, क्या ही भला होता, कि तू; हाँ, तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परन्तु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं। ४३ क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, कि तेरे बैरी मोर्चा बान्धकर तुझे घेर लेंगे, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ४४ और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं, मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे; क्योंकि तू ने वह भवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहिचाना ॥

४५ तब वह मन्दिर में जाकर बेंचने-वालों को बाहर निकालने लगा। ४६ और उन से कहा, लिखा है; कि मेरा घर प्रार्थना

* यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान।

का घर होगा : परन्तु तुम ने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है ॥

४७ और वह प्रति दिन मन्दिर में उपदेश करता था : और महायाजक और शास्त्री और लोगो के रईस उसे नाश करने का भवसर दूढ़ते थे। ४८ परन्तु कोई उपाय न निकाल सके; कि यह किस प्रकार करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उस की सुनते थे ॥

२० एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मन्दिर में लोगो को उपदेश देता और सुसमाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री, पुरनियो के साथ पास आकर खड़े हुए। २ और कहने लगे, कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है, जिस ने तुझे यह अधिकार दिया है ? ३ उस ने उन को उत्तर दिया, कि मे भी तुम से एक बात पूछता हूँ; मुझे बताओ। ४ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था ? ५ तब वे आपस में कहने लगे, कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों न की ? ६ और यदि हम कहें, मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हमें पत्थरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं, कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। ७ सो उन्होंने ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते, कि वह किस की ओर से था। ८ यीशु ने उन से कहा, तो मैं भी तुम को नहीं बताता, कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ ॥

९ तब वह लोगों से यह दृष्टान्त कहने लगा, कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिये परबेश चला

गया। १० समय पर उस ने किसानों के पास एक दास को भेजा, कि वे दास की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर किसानो ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। ११ फिर उस ने एक और दास को भेजा, और उन्हो ने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। १२ फिर उस ने तीसरा भेजा, और उन्हों ने उसे भी घायल करके निकाल दिया। १३ तब दास की बारी के स्वामी ने कहा, मे क्या करूँ ? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा क्या जाने वे उसका आदर करें। १४ जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, कि यह तो वारिस है; आओ, हम उसे मार डालें, कि मीरास हमारी हो जाए। १५ और उन्हो ने उसे दास की बारी से बाहर निकालकर मार डाला : इसलिये दास की बारी का स्वामी उन के साथ क्या करेगा ? १६ वह आकर उन किसानों को नाश करेगा, और दास की बारी औरो को सौंपेगा : यह सुनकर उन्हो ने कहा, परमेश्वर ऐसा न करे। १७ उस ने उन की ओर देखकर कहा; फिर यह क्या, लिखा है, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियो ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। १८ जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हों जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा ॥

१९ उसी घड़ी शास्त्रियो और महा-याजकों ने उसे पकडना चाहा, क्योंकि समझ गए, कि उस ने हम पर यह दृष्टान्त कहा, परन्तु वे लोगो से डरे। २० और वे उस की ताक में लगे और भेदिए भेजे, कि धर्म का भेष धरकर उस की कोई न कोई बात पकड़ें, कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दें। २१ उन्हों ने उस से यह पूछा,

कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता, और सिखाता भी है, और किसी का पक्षपात नहीं करता; बरन परमेश्वर का भाग सच्चाई से बताता है। २२ क्या हमें कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं। २३ उस ने उन की चतुराई को ताडकर उन से कहा; एक दीनार * मुझे दिखाओ। २४ इस पर किस की मूर्ति और नाम है ? उन्हों ने कहा, कैसर का। २५ उस ने उन से कहा; तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो। २६ वे लोगो के साम्हने उस बात को पकड न सके, बरन उसके उत्तर से अचम्भित होकर चुप रह गए ॥

२७ फिर सद्दुकी जो कहते हैं, कि मरे हुआ का जी उठना है ही नहीं, उन में से कितनों ने उसके पास आकर पूछा। २८ कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये यह लिखा है, कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना सन्तान मर जाए, तो उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले, और अपने भाई के लिये वश उत्पन्न करे। २९ सो सात भाई थे, पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्तान मर गया। ३० फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह लिया। ३१ इसी रीति से सातों बिना सन्तान मर गए। ३२ सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। ३३ सो जी उठने पर वह उन में से किस की पत्नी होगी, क्योंकि ब्रह सातो की पत्नी हो चुकी थी। ३४ यीशु ने उन से कहा; कि इस युग के सन्तानों में तो ब्याह शादी होती है। ३५ पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, कि उस युग को और मरे हुआ में से जी उठना † प्राप्त करें, उन

* देखो मत्ती १८ : २८।

† या मृतकोत्थान।

में ब्याह शादी न होगी। ३६ वे फिर मरने के भी नहीं; क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और जी उठने के सन्तान होने से परमेश्वर के भी सन्तान होंगे। ३७ परन्तु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी भाड़ी की कथा में प्रगट की है, कि वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर कहता है। ३८ परमेश्वर तो मुरदो का नहीं परन्तु जीवतों का परमेश्वर है: क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। ३९ तब यह सुनकर शास्त्रियो मे से कितनो ने यह कहा, कि हे गुरु, तू ने अन्ध्या कहा। ४० और उन्हें फिर उस से कुछ और पूछने का हियाब न हुआ।

४१ फिर उस ने उन से पूछा, मसीह को दाऊद का सन्तान क्योंकर कहते हे? ४२ दाऊद आप भजनसहिता की पुस्तक में कहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ४३ मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूँ। ४४ दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उस की सन्तान क्योंकर ठहरा?

४५ जब सब लोग सुन रहे थे, तो उस ने अपने बेलों से कहा। ४६ शास्त्रियों से चौकस रहो, जिन को लम्बे लम्बे वस्त्र पहिने हुए फिरना भाता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार, और सभाओं में मुख्य आसन और जेबनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। ४७ वे बिधवाओं के घर ला जाते हैं, और दिसाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं: ये बहुत ही दण्ड पाएंगे।

२१ फिर उस ने आल उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भण्डार में डालते देखा। २ और उस ने

एक कंगाल बिधवा को भी उस में दो दमड़ियां डालते देखा। ३ तब उस ने कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ कि इस कंगाल बिधवा ने सब से बढ़कर डाला है। ४ क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इस ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है।

५ जब कितने लोग मन्दिर के विषय में कह रहे थे, कि वह कैसे सुन्दर पत्थरों और मेंट की कस्तुरियों से संवारा गया है तो उस ने कहा। ६ वे दिन आएंगे, जिन मे यह सब जो तुम देखते हो, उन मे से यहा किसी पत्थर पर पत्थर भी न छुटेगा, जो ढाया न जाएगा। ७ उन्हो ने उस से पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? ८ उस ने कहा; चौकस रहो, कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि मैं वही हूँ; और यह भी कि समय निकट आ पडुचा है: तुम उन के पीछे न चले जाना। ९ और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना; क्योंकि इन का पहिले होना भवश्य है; परन्तु उस समय तुरन्त भ्रन्त न होगा।

१० तब उस ने उन से कहा, कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ११ और बड़े बड़े भूईं डोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रगट होंगे। १२ परन्तु इन सब बातों से पहिले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बन्दीगृह में डसवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के साम्हने ले जाएंगे।

१३ पर यह तुम्हारे लिये गवाही देने का अवसर हो जाएगा। १४ इसलिये अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहिले से उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे। १५ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, कि तुम्हारे सब विरोधी साम्हना या खण्डन न कर सकेंगे। १६ और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब, और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे; यहां तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। १७ और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे। १८ परन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। १९ अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे ॥

२० जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। २१ तब जो यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं; और जो गांवों में हों वे उस में न जाएं। २२ क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे, जिन में लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। २३ उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के लिये हाय, हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। २४ वे तलवार के कौर हो जाएंगे, और सब देशों के लोगों में बन्धुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। २५ और सूरज और चान्द और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर, देश देश के लोगों को संकट होगा; क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। २६ और भय के कारण और संसार पर

झानेवाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। २७ तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। २८ जब ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना; क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा ॥

२९ उसने उन से एक दृष्टान्त भी कहा, कि अजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। ३० ज्योंही उन की कांपलें निकलती हैं, तो तुम देखकर आप हीं जान लेते हो, कि ग्रीष्मकाल निकट है। ३१ इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ३२ मैं तुम से सच कहता हूं, कि जब तक ये सब बातें न हो लें, तब तक इस पीढ़ी * का कदापि अन्त न होगा। ३३ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी ॥

३४ इसलिये सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, और इस जीवन की चिन्ताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फन्दे की नाई अचानक आ पड़े। ३५ क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहनेवालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। ३६ इसलिये जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब झानेवाली घटनाओं से बचने, और मनुष्य के पुत्र के साम्हने खड़े होने के योग्य बनो ॥

३७ और वह दिन को मन्दिर में उपवेश करता था; और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। ३८ और भोर को तड़के सब लोग उस की

* या वह पीढ़ी-वावी न रहेगी।

सुनने के लिये मन्दिर में उसके पास आया करते थे ॥

२२ अखमीरी रोटी का पर्व्व जो फसह कहलाता है, निकट था। २ और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उस को क्योंकर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे ॥

३ और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और बारह चेलो में गिना जाता था। ४ उस ने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की, कि उस को किम प्रकार उन के हाथ पकड़वाए। ५ वे आनन्दित हुए, और उसे रुपये देने का वचन दिया। ६ उस ने मान लिया, और अबसर ढुढने लगा, कि बिना उपद्रव के उसे उन के हाथ पकड़वा दे ॥

७ तब अखमीरी रोटी के पर्व्व का दिन आया, जिस में फसह का मेम्ना बली करना अवश्य था। ८ और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, कि जाकर हमारे खाने के लिये फसह तैयार करो। ९ उन्हो ने उस से पूछा; तू कहां चाहता है, कि हम तैयार करें? १० उस ने उन से कहा; देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए; तुम उसके पीछे चले जाना। ११ और उस घर के स्वामी से कहो, कि गुरु तुझ से कहता है; कि वह पाहुनशाला कहां है जिस में मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं? १२ वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी भटारी दिखा देगा; वहां तैयारी करना। १३ उन्हों ने जाकर, जैसा उस ने उन से कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया ॥

१४ जब घड़ी पहुंची, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। १५ और उस ने उन से कहा; मुझे बड़ी लालसा थी, कि दुख-भोगने से पहिले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। १६ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। १७ तब उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और कहा, इस को लो और आपस में बाट लो। १८ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख रस अब से कभी न पीऊंगा। १९ फिर उस ने रोटी ली, और धन्यवाद करके तोड़ी, और उन को यह कहने हुए दी, कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिये दी जाती है। मेरे स्मरण के लिये यही किया करो। २० इसी रीति से उस ने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, कि यह कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिये बहाया जाता है नई वाचा है। २१ पर देखो, मेरे पकड़वानेवाले का हाथ मेरे साथ भेज पर है। २२ क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिये ठहराया गया जाता ही है, पर हाथ उस मनुष्य पर, जिस के द्वारा वह पकड़वाया जाता है! २३ तब वे आपस में पूछ पाछ करने लगे, कि हम में से कौन है, जो यह काम करेगा?

२४ उन में यह बाद-विवाद भी हुआ; कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है? २५ उस ने उन से कहा, अन्यजातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं; और जो उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं। २६ परन्तु तुम ऐसे न होना; बरन जो तुम में बड़ा है, वह छोटे की नाई और जो प्रधान है, वह सेबक के नाई बने। २७ क्योंकि बड़ा कौन है; वह जो भोजन

पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूँ। २८ परन्तु तुम वह हो, जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। २९ और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिये एक राज्य ठहराया है, ३० वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिये ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ-पिओ; बरन सिंहासनों पर बैठकर इस्त्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करो। ३१ शमीन, हे शमीन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूँ की नाई फटके। ३२ परन्तु मैं ने तेरे लिये बिनती की, कि तेरा विश्वास जाता न रहे: और जब तू फिरे, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ३३ उस ने उस से कहा; हे प्रभु, मैं तेरे साथ बन्दीगृह जाने, बरन मरने को भी तैयार हूँ। ३४ उस ने कहा; हे पतरस मैं तुझ से कहता हूँ, कि आज मुझ बाग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्कार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता ॥

३५ और उस ने उन से कहा, कि जब मैं ने तुम्हें बटुए, और भोली, और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुम को किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्हो ने कहा; किसी वस्तु की नहीं। ३६ उस ने उन से कहा, परन्तु अब जिस के पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही भोली भी, और जिस के पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। ३७ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि यह जो लिखा है, कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है; क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने प्रार हैं। ३८ उन्हो ने कहा; हे प्रभु, देख, यहाँ दो तलवारें हैं: उस ने उन से कहा; बहुत हैं ॥

३९ तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चले उसके पीछे हो लिए। ४० उस जगह पहुचकर उस ने उन से कहा; प्रार्थना करो, कि तुम परीक्षा में न पडो। ४१ और वह आप उन से अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया, और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। ४२ कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तोभी मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ४३ तब स्वर्ग से एक दूत उस को दिखाई दिया जो उमे सामर्थ्य देता था। ४४ और वह अत्यन्त संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोह की बडी बडी बून्दो की नाई भूमि पर गिर रहा था। ४५ तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उन से कहा, क्यों सोते हो? ४६ उठो, प्रार्थना करो, कि परीक्षा में न पडो ॥

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो एक मीड आई, और उन बारहों में से एक जिस का नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था, वह यीशु के पास आया, कि उसका चूमा ले। ४८ यीशु ने उस से कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? ४९ उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होनेवाला है, तो कहा; हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? ५० और उन में से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दहिना कान उड़ा दिया। ५१ इस पर यीशु ने कहा; अब बस करो * : और उसका कान छूकर उसे

* या यहाँ तक रहने दो।

अप्युक्त किया। ५२ तब यीशु ने महा-याजकों; और मन्दिर के पहरेदारों के सरदारों और पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा; क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? ५३ जब मैं मन्दिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुम ने मुझ पर हाथ न डाला; पर यह तुम्हारी घड़ी है, और अन्धकार का अधिकार है ॥

५४ फिर वे उसे पकड़कर ले चले, और महायाजक के घर में लाए और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। ५५ और जब वे आगमन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उन के बीच में बैठ गया। ५६ और एक लौड़ी उसे आग के उजियाले में बैठ देखकर और उस की ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। ५७ परन्तु उस ने यह कहकर इन्कार किया, कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। ५८ थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है; पतरस ने कहा, हे मनुष्य मैं नहीं हूँ। ५९ कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था; क्योंकि यह गलीली है। ६० पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है? वह कह ही रहा था कि तुरन्त मूर्ग ने बाग दी। ६१ तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उस ने कही थी, कि आज मूर्ग के बांग देने से पहिले, तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा। ६२ और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा ॥

६३ जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, वे उसे ठुठों में उड़ाकर पीटने लगे।

६४ और उस की आंखें ढांपकर उस से पूछा, कि भविष्यद्वाणी करके बता कि तुम्हें किसने मारा। ६५ और उन्होंने बहुत सी और भी निन्दा की बातें उसके विरोध में कही ॥

६६ जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिए और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए, और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, ६७ यदि तू मसीह है, तो हम से कह दे। उस ने उन से कहा, यदि मैं तुम से कहूँ, तो प्रतीति न करोगे। ६८ और यदि पूछूँ, तो उत्तर न दोगे। ६९ परन्तु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दहिनी ओर बैठा रहेगा। ७० इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उस ने उन से कहा; तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। ७१ तब उन्होंने ने कहा; अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है; क्योंकि हम ने आप ही उसके मुह से सुन लिया है ॥

२३ तब सारी सभा उठकर उसे पीलातुस के पास ले गई। २ और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, कि हम ने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते, और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। ३ पीलातुस ने उस से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उस ने उसे उत्तर दिया, कि तू आप ही कह रहा है। ४ तब पीलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। ५ पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे-कर लोगों को उसकाता है। ६ यह सुनकर पीलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली

है? ७ और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था ॥

८ हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उस को देखना चाहता था : इसलिये कि उसके विषय में सुना था, और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था । ९ वह उस से बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उस ने उस को कुछ भी उत्तर न दिया । १० और महा-याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे । ११ तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया, और भडकीला वस्त्र पहिनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा दिया । १२ उसी दिन पीलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए । इसके पहिले वे एक दूसरे के बैरी थे ॥

१३ पीलातुस ने महायाजकको और सरदारों और लोगो को बुलाकर उन से कहा । १४ तुम इस मनुष्य को लोगो का बहकानेवाला ठहराकर मेरे पाम लाए हो, और देखो, मैं ने तुम्हारे साम्हने उस की जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैं ने उस में कुछ भी दोष नहीं पाया है । १५ न हेरोदेस ने, क्योंकि उस ने उसे हमारे पास लौटा दिया है : और देखो, उस से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दण्ड के योग्य ठहराया जाए । १६ इसलिये मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं । १८ तब सब मिलकर चिल्ला उठे, कि इस का काम तमाम कर, और हमारे लिये बरअम्बा को छोड़ दे । १९ यही किसी बलबे के कारण जो नगर में हुआ था, और हत्या के कारण बन्दीगृह

में डाला गया था । २० पर पीलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया । २१ परन्तु उन्होंने ने चिल्लाकर कहा; कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर । २२ उस ने तीसरी बार उन से कहा, क्यों उम ने कौन सी बुराई की है ? मैं ने उस में मृत्यु के दण्ड के योग्य कोई बात नहीं पाई ! इसलिये मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं । २३ परन्तु वे चिल्ला-चिल्लाकर पीछे पड गए, कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उन का चिल्लाना प्रबल हुआ । २४ सो पीलातुस ने आज्ञा दी. कि उन की बिनती के अनुसार किया जाए । २५ और उस ने उस मनुष्य को जो बलबे और हत्या के कारण बन्दीगृह में डाला गया था, और जिसे वे मागते थे, छोड़ दिया; और यीशु को उन की इच्छा के अनुसार सौंप दिया ॥

२६ जब वे उसे लिए जाते थे, तो उन्हो ने शमौन नाम एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले ॥

२७ और लोगो की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली : और बहुत सी स्त्रियां भी, जो उसके लिये द्वाती-पीटती और विलाप करती थी । २८ यीशु ने उन की ओर फिरकर कहा; हे यरूशलेम की पुत्रियो, मेरे लिये मत रोओ; परन्तु अपने और अपने बालको के लिये रोओ । २९ क्योंकि देखो, वे दिन आते है, जिन में कहेंगे, धन्य है वे जो बांभ हैं, और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्हों ने दूध न पिलाया । ३० उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें डीप लो । ३१ क्योंकि जब वे हरे पेड़ के

साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा ?

३२ वे और दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले ॥

३३ जब वे उस जगह जिसे खोपडी कहते हैं पहुंचे, तो उन्हो ने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। ३४ तब यीशु ने कहा; हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं? और उन्होंने ने चिट्ठियां डालकर उसके कपडे बांट लिए। ३५ लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्टा कर करके कहते थे, कि इस ने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है, और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। ३६ सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्टा करके कहते थे। ३७ यदि तू यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को बचा। ३८ और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था, कि यह यहूदियों का राजा है ॥

३९ जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उन में से एक ने उस की निन्दा करके कहा; क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ४० इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दरुड पा रहा है। ४१ और हम तो न्यायानुसार दण्ड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं; पर इस ने कोई अनुचित काम नहीं किया। ४२ तब उस ने कहा; हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना। ४३ उस ने उस से कहा,

मे तुझ से सच कहता हूं; कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा ॥

४४ और लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अन्धियारा छाया रहा। ४५ और सूर्य का उजियाला जाता रहा, और मन्दिर का परदा बीच से फट गया। ४६ और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। ४७ सूबेदार ने, जो कुछ हुआ था देखकर, परमेश्वर की बड़ाई की, और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। ४८ और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को, देखकर छाती-पीटती हुई लौट गई। ४९ और उसके सब ज्ञान पहचान, और जो स्त्रिया गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी ॥

५० और देखो यूसुफ नाम एक मन्त्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। ५१ और उन के विचार और उन के इस काम से प्रसन्न न था; और वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहनेवाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहनेवाला था। ५२ उस ने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ माग ली। ५३ और उसे उतारकर चादर में लपेटा, और एक कब्र में रखा, जो चट्टान में खोदी हुई थी; और उस में कोई कभी न रखा गया था। ५४ वह तैयारी का दिन था, और सब्त का दिन आरम्भ होने पर था। ५५ और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उस की लोथ किस रीति से रखी गई है। ५६ और लौटकर सुगन्धित बस्तुएं और इत्र तैयार किया :

और सब के दिन तो उन्होंने ने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया ॥

२४

परन्तु सप्ताह के पहिले दिन बड़े भोर को वे उन सुगन्धित वस्तुओं को जो उन्हो ने तैयार की थी, ले कर कब्र पर आई। २ और उन्हो ने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। ३ और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। ४ जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष भनकते वस्त्र पहिने हुए उन के पास आ खड़े हुए। ५ जब वे डर गई, और धरती की ओर मुह भुकाए रही, तो उन्होंने ने उन से कहा, तुम जीवते को मरे हुआ में क्यों दूढ़ती हो? ६ वह यहा नहीं, परन्तु जी उठा है, स्मरण करो, कि उस ने गलील में रहते हुए तुम से कहा था। ७ कि अवश्य है, कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ मे पकडवाया जाए, और क्रूस पर चढाया जाए; और तीसरे दिन जी उठे। ८ तब उस की बाते उन को स्मरण आई। ९ और कब्र से लौटकर उन्होंने ने उन ग्यारहों को, और, और सब को, ये सब बातें कह सुनाई। १० जिन्हो ने प्रेरितो से ये बाते कही, वे मरियम मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उन के साथ की और स्त्रिया भी थी। ११ परन्तु उन की बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी, और उन्होंने ने उन की प्रतीति न की। १२ तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया, और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था, उस से अचम्भा करता हुआ, अपने घर चला गया ॥

१३ देखो, उसी दिन उन में से दो जन इम्माऊस नाम एक गाव को जा रहे थे,

जो यरूशलेम से कोई सात मील की दूरी पर था। १४ और वे इन सब बातों पर जो हुई थी, आपस में बातचीत करते जा रहे थे। १५ और जब वे आपस में बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उन के साथ हो लिया। १६ परन्तु उन की आखें ऐसी बन्द कर दी गई थी, कि उसे पहिचान न सके। १७ उस ने उन से पूछा; ये क्या बाते है, जो तुम चलते चलते आपस मे करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। १८ यह सुनकर, उनमें से क्लियुपास नाम एक व्यक्ति ने कहा; क्या तू यरूशलेम मे अकेला परदेशी है; जो नहीं जानता, कि इन दिनों में उस में क्या क्या हुआ है? १९ उस ने उन से पूछा, कौन सी बाते? उन्होंने ने उस से कहा, यीशु नासरी के विषय मे जो परमेश्वर और सब लोगो के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। २० और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकडवा दिया, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए; और उसे क्रूस पर चढवाया। २१ परन्तु हमें आज्ञा थी, कि यही इस्त्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। २२ और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य मे डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी। २३ और जब उस की लोथ न पाई, तो यह कहती हुई आई, कि हम ने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्हों ने कहा कि वह जीवित है। २४ तब हमारे साथियो मे से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था, वैसा ही पाया; परन्तु उस को न देखा। २५ तब उस ने उन से कहा; हे निर्बुद्धियों, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास

करने में मन्दमतियो ! २६ क्या भ्रवश्य न था, कि मसीह ये दुःख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे ? २७ तब उस ने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरम्भ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से, अपने विषय में की बातों का अर्थ, उन्हें समझा दिया । २८ इतने में वे उस गाव के पास पहुंचे, जहां वे जा रहे थे, और उसके ढग से ऐसा जान पड़ा, कि वह भागे बढा चाहता है । २९ परन्तु उन्हो ने यह कहकर उसे रोका, कि हमारे साथ रह; क्योंकि संघ्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है । तब वह उन के साथ रहने के लिये भीतर गया । ३० जब वह उन के साथ भोजन करने बैठा, तो उस ने रोटी लेकर घन्यवाद किया, और उसे तोड़कर उन को देने लगा । ३१ तब उन की आंखे खुल गईं, और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उन की आंखो से छिप गया । ३२ उन्होंने ने आपस में कहा; जब वह मार्ग में हम से बातें करता था, और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमे समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई ? ३३ वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, और उन ग्यारहो और उन के साथियों को इकट्ठे पाया । ३४ वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, और शमीन को दिखाई दिया है । ३५ तब उन्होंने ने मार्ग की बातें उन्हें बता दीं और यह भी कि उन्होंने ने उसे रोटी तोड़ते समय क्योंकर पहचाना ॥

३६ वे ये बातें कह ही रहे थे, कि वह आप ही उन के बीच में आ खड़ा हुआ; और उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले । ३७ परन्तु वे डर गये, और डर गये, और समझे, कि हम किसी भूत को देखते हैं । ३८ उस ने उन से कहा; क्यों डरते

हो ? और तुम्हारे मन में क्यों सन्देह उठते हैं ? ३९ मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, कि मैं वही हूं; मुझे छूकर देखो; क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मनुष्य में देखते हो । ४० यह कहकर उस ने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए । ४१ जब आनन्द के मारे उन को प्रतीति न हुई, और आश्चर्य करते थे, तो उस ने उन से पूछा; क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है ? ४२ उन्होंने ने उसे भूनी मछली का टुकड़ा दिया । ४३ उस ने लेकर उन के साम्हने खाया । ४४ फिर उस ने उन से कहा, ये मेरी वे बातें हैं, जो मैं ने तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम से कही थी, कि भ्रवश्य है, कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तको में, मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो । ४५ तब उस ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिये उन की समझ खोल दी । ४६ और उन से कहा, यो लिखा है; कि मसीह दुःख उठाएगा, और तीसरे दिन मरे हुएों में से जी उठेगा । ४७ और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव* का और पापों की क्षमा का प्रचार, उसी के नाम से किया जाएगा । ४८ तुम इन सब बातों के गवाह हो । ४९ और देखो, जिस की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उस को तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो ॥

५० तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी । ५१ और उन्हें आशीष देते हुए वह उन से अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया । ५२ और वे

* या पदचोत्पाप ।

उस को दण्डवत् करके बड़े आनन्द से लगातार मन्दिर में उपस्थित होकर यरूशलेम को लौट गए। ५३ और परमेश्वर की स्तुति किया करते थे।।

यूहन्ना रचित सुसमाचार

१ आदि में वचन * था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। २ यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उस में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। ४ उस में जीवन था; और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ५ और ज्योति अन्धकार में चमकती है, और अन्धकार ने उसे ग्रहण न किया †। ६ एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिस का नाम यूहन्ना था। ७ यह गवाही देने आया, कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास जाए। ८ वह आप तो वह ज्योति न था, परन्तु उस ज्योति की गवाही देने के लिये आया था। ९ सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आनेवाली थी। १० वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहिचाना। ११ वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। १२ परन्तु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस ने उन्हें परमेश्वर के

सन्तान होने का अधिकार दिया, अर्थात् उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। १३ वे न तो लोह से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परन्तु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। १४ और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हम ने उस की ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की महिमा। १५ यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, और पुकारकर कहा, कि यह वही है, जिस का मैं ने बर्णन किया, कि जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझ से बड़कर है क्योंकि वह मुझ से पहिले था। १६ क्योंकि उस की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात् अनुग्रह पर अनुग्रह। १७ इसलिये कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई; परन्तु अनुग्रह, और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। १८ परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र * जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रगट किया।।

१९ यूहन्ना की गवाही यह है, कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवीयों को उस से यह पूछने के लिये

* या शब्द।

† या अन्धकार उस पर बसबन्त न हुआ।

* और पदते हैं। परमेश्वर एकलौता।

भेजा, कि तू कौन है? २० तो उस ने यह मान लिया, और इन्कार नहीं किया परन्तु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। २१ तब उन्हो ने उस से पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिय्याह है? उस ने कहा, मैं नहीं हूँ: तो क्या तू वह भविष्यद्-वक्ता है? उस ने उत्तर दिया, कि नहीं। २२ तब उन्हो ने उस से पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजनेवालों को उत्तर दें; तू अपने विषय में क्या कहता है? २३ उस ने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यद्बक्ता ने कहा है, जङ्गल में एक पुकारनेवाले का शब्द हू कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। २४ ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। २५ उन्हों ने उस से यह प्रश्न पूछा, कि यदि तू न मसीह है, और न एलिय्याह, और न वह भविष्यद्बक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? २६ यूहन्ना ने उन को उत्तर दिया, कि मैं तो जल से * बपतिस्मा देता हूँ; परन्तु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते। २७ अर्थात् मेरे बाद आनेवाला है, जिस की जूती का बन्ध मैं खोलने के योग्य नहीं। २८ ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहा यूहन्ना बपतिस्मा देता था ॥

२९. दूसरे दिन उस ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह पर-मेश्वर का मेम्ना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ३० यह वही है, जिस के विषय में मैं ने कहा था, कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, जो मुझ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझ से पहिले था। ३१ और मैं तो उसे पहिचानता न था,

* या में।

परन्तु इसलिये मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया, कि वह इस्राएल पर प्रगट हो जाए। ३२ और यूहन्ना ने यह गवाही दी, कि मैं ने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। ३३ और मैं तो उसे पहिचानता नहीं था, परन्तु जिस ने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझ से कहा, कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे; वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देनेवाला है। ३४ और मैं ने देखा, और गवाही दी है, कि यही परमेश्वर का पुत्र है ॥

३५ दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे। ३६ और उस ने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह पर-मेश्वर का मेम्ना है। ३७ तब वे दोनों चले उस की यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ३८ यीशु ने फिरकर और उन को पीछे आते देखकर उन से कहा, तुम किस की खोज में हो? उन्हो ने उस से कहा, हे रब्बी, अर्थात् (हे गुरु) तू कहा रहता है? उस ने उन से कहा, चलो, तो देख लोगे। ३९ तब उन्हों ने आकर उसके रहने का स्थान देखा, और उस दिन उसी के साथ रहे; और यह दसबें घटे के लगभग था। ४० उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमीन पतरस का भाई अन्द्रियास था। ४१ उस ने पहिले अपने सगे भाई शमीन से मिलकर उस से कहा, कि हम को ख्रिस्तस अर्थात् मसीह मिल गया। ४२ वह उसे यीशु के पास लाया: यीशु ने उस पर दृष्टि करके

कहा, कि तू यूहन्ना का पुत्र शमीन है, तू केफा अर्थात् पतरस कहलाएगा ॥

४३ दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा; और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। ४४ फिलिप्पुस तो अन्द्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। ४५ फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उस से कहा, कि जिस का बर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हम को मिल गया; वह यूसुफ का पुत्र, यीशु नासरी है। ४६ नतनएल ने उस से कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उस से कहा, चलकर देख ले। ४७ यीशु ने नतनएल को अपनी और आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्त्राएली है: इस में कपट नहीं। ४८ नतनएल ने उस से कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उस को उत्तर दिया; उस से पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अजीर के पेड़ के तले था, तब मैं ने तुझे देखा था। ४९ नतनएल ने उस को उत्तर दिया, कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है; तू इस्त्राएल का महाराजा है। ५० यीशु ने उस को उत्तर दिया; मैं ने जो तुझ से कहा, कि मैं ने तुझे अजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी लिये विश्वास करता है? तू इस से बड़े बड़े काम देखेगा। ५१ फिर उस से कहा, मैं तुम से सब कहता हू कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे ॥

२ फिर तीसरे दिन गलील के काना मे किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहा थी। २ और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेबते गए थे। ३ जब दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उस से कहा, कि उन के पास दाखरस नहीं रहा। ४ यीशु ने उस से कहा, हे महिला मुझे तुझ से क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। ५ उस को माता ने सेवको से कहा, जो कुछ वह तुम से कहे, वही करना। ६ वहा यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के छः मटके धरे थे, जिन में दो दो, तीन तीन मन समाता था। ७ यीशु ने उन से कहा, मटकों में पानी भर दो. सो उन्होंने ने उन्हें मुहामुह भर दिया। ८ तब उस ने उन से कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। ९ वे ले गए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था, कि वह कहां से आया है, (परन्तु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे) तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर, उस से कहा। १० हर एक मनुष्य पहिले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाने हैं. तब मध्यम देता है; परन्तु तू ने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ११ यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहिला चिन्ह * दिखाकर अपनी महिमा प्रगट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया ॥

१२ इस के बाद वह और उस की माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे ॥

* वा आश्चर्यकर्म।

१३ यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। १४ और उस ने मन्दिर मे बैल और भेड़ और कबूतर के बेचनेवालो और सर्पियों को बैठे हुए पाया। १५ और रस्सियो का कोड़ा बनाकर, सब भेड़ों और बैलों को मन्दिर से निकाल दिया, और सर्पियों के पैसे बिथरा दिए, और पीठों को उलट दिया। १६ और कबूतर बेचनेवालो से कहा; इन्हें यहां से ले जाओ: मेरे पिता के भवन को ब्योपार का घर मत बनाओ। १७ तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, 'तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी'। १८ इस पर यहूदियों ने उस से कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? १९ यीशु ने उन को उत्तर दिया; कि इस मन्दिर को ढा दो, और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूंगा। २० यहूदियों ने कहा; इस मन्दिर के बनाने में छियासीस वर्ष लगे है, और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा? २१ परन्तु उस ने अपनी देह के मन्दिर के विषय में कहा था। २२ सो जब वह मुदों में से जी उठा तो उसके चेलो को स्मरण आया, कि उस ने यह कहा था; और उन्होंने ने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था, प्रतीति की ॥

२३ जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। २४ परन्तु यीशु ने अपने आप को उन के भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था। २५ और उसे प्रयोजन न था, कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था, कि मनुष्य के मन में क्या है?

२ फरीसियों में से नीकुदेमुस नाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। २ उस ने रात को यीशु के पास आकर उस से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर आया है; क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, तो नहीं दिखा सकता। ३ यीशु ने उस को उत्तर दिया; कि मैं तुझ से सच सच कहता हूं, यदि कोई नये सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ४ नीकुदेमुस ने उस से कहा, मनुष्य जब बड़ा हो गया, तो क्योकर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ५ यीशु ने उत्तर दिया, कि मैं तुझ से सच सच कहता हू; जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ६ क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है; और जो आत्मा से जन्मा है, वह आत्मा है। ७ अचम्भा न कर, कि मैं ने तुझ से कहा; कि तुन्हें नये सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ८ हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परन्तु नहीं जानता, कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है? जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। ९ नीकुदेमुस ने उस को उत्तर दिया; कि ये बातें क्योकर हो सकती हैं? १० यह सुनकर यीशु ने उस से कहा; तू इस्राएलियों का गुरु हो कर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। ११ मैं तुझ से सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं, वह कहते हैं, और जिसे हम ने देखा है, उस की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। १२ जब मैं ने

तुम से पृथ्वी की बातें कहीं, और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुम से स्वर्ग की बातें कहूँ, तो फिर क्योंकि प्रतीति करोगे? १३ और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात् मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। १४ और जिस रीति से मूसा ने जंगल में साप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। १५ ताकि जो कोई विश्वास करे उस में अनन्त जीवन पाए ॥

१६ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए। १७ परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिये नहीं भेजा, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परन्तु इसलिये कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। १८ जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परन्तु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका; इसलिये कि उस ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। १९ और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अन्धकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उन के काम बुरे थे। २० क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बँर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। २१ परन्तु जो सच्चाई पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हों, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं ॥

२२ इस के बाद यीशु और उसके चेले यूहूदिया देश में आए, और वह वहाँ उन के साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। २३ और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। २४ क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेलखाने में नहीं डाला गया था। २५ वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यूहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद-विवाद हुआ। २६ और उन्होंने ने यूहन्ना के पास आकर उस से कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, और जिस की तू ने गवाही दी है देख, वह बपतिस्मा देता है, और सब उसके पास आते हैं। २७ यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाय तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। २८ तुम तो आप ही मेरे गवाह हो, कि मैं ने कहा, मैं मसीह नहीं, परन्तु उसके आगे भेजा गया हूँ। २९ जिस की डुलहिन है, वही डूल्हा है; परन्तु डूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उस की सुनता है, डूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है; अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। ३० अवश्य है कि वह बड़े और में घटू ॥

३१ जो ऊपर से आता है, वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है; और पृथ्वी की ही बातें कहता है: जो स्वर्ग से आता है, वह सब के ऊपर है। ३२ जो कुछ उस ने देखा, और सुना है, उसी की गवाही देता है; और कोई उस की गवाही ग्रहण नहीं करता। ३३ जिस ने उस की गवाही ग्रहण कर ली उस ने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। ३४ क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है: क्योंकि

वह आत्मा नाप नापकर नहीं देता । ३५ पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उस ने सब वस्तुएँ उसके हाथ में दे दी हैं । ३६ जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसका है; परन्तु जो पुत्र की नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परन्तु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है ॥

४ फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, कि फरीसियों ने सुना है, कि यीशु यूहन्ना से अधिक चले बनाता, और उन्हें बपतिस्मा देता है । २ (यद्यपि यीशु आप नहीं बरन उसके चले बपतिस्मा देते थे) । ३ तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया । ४ और उस को सामरिया से होकर जाना अवश्य था । ५ सो वह सूखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था । ६ और याकूब का कूआं भी वही था; सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कूएं पर योही बैठ गया, और यह बात छठे घण्टे के लगभग हुई । ७ इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई: यीशु ने उस से कहा, मुझे पानी पिला । ८ क्योंकि उसके चले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे । ९ उस सामरी स्त्री ने उस से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मागता है? (क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते) । १० यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के बरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझ से कहता है; मुझे पानी पिला तो तू उस से मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता । ११ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को

तो कुछ है भी नहीं, और कूआं गहिरा है: तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? १२ क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिस ने हमे यह कूआं दिया, और आपही अपने सन्तान, और अपने ढोरों समेत उस में से पीया? १३ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो कोई यह जल पीएगा वह फिर पियासा होगा । १४ परन्तु जो कोई उस जल में से पीएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनन्तकाल तक पियासा न होगा: बरन जो जल में उसे दूंगा, वह उस में एक सोता बन जाएगा जो अनन्त जीवन के लिये उमड़ता रहेगा । १५ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं पियासी न होऊँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ । १६ यीशु ने उस से कहा, जा, अपने पति को यहा बुला ला । १७ स्त्री ने उत्तर दिया, कि मैं बिना पति की हूँ: यीशु ने उस से कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ । १८ क्योंकि तू पांच पति कर चुकी है, और जिस के पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तू ने सच कहा है । १९ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है । २० हमारे बापदादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया: और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है । २१ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में । २२ तुम जिसे नहीं जानते, उसका भजन करते हो; और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं; क्योंकि उदार यहूदियों में से है । २३ परन्तु वह समय आता है, बरन अब भी है जिस में सच्चे भक्त पिता का भजन

आत्मा और सच्चाई से करेगे, क्योंकि पिता अपने लिये ऐसे ही भजन करनेवालों को ढूँढता है। २४ परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करनेवाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे। २५ स्त्री ने उस से कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्तुस कहलाता है, आनेवाला है, जब वह आएगा, तो हमें सब बातें बता देगा। २६ यीशु ने उस से कहा, मैं जो तुम्हें से बोल रहा हूँ, वही हूँ।

२७ इतने में उसके चले आ गए, और अचम्भा करने लगे, कि वह स्त्री से बातें कर रहा है; तौभी किसी ने न कहा, कि तू क्या चाहता है? या किस लिये उस से बातें करता है? २८ तब स्त्री अपना घडा छोड़कर नगर में चली गई, और लोगो से कहने लगी। २९ आओ, एक मनुष्य को देखो, जिस ने सब कुछ जो मैं ने किया मुझे बता दिया : कहीं यही तो मसीह नहीं है? ३० सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। ३१ इतने में उसके चले यीशु से यह बिनती करने लगे, कि हे रब्बी, कुछ खा ले। ३२ परन्तु उस ने उन से कहा, मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। ३३ तब चेलो ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिये कुछ खाने को लाया है? ३४ यीशु ने उन से कहा, मेरा भोजन यह है, कि अपने भेजनेवाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करूँ। ३५ क्या तुम नहीं कहते, कि कटनी होने में अब भी चार महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुम से कहता हूँ, अपनी छाँटें उठाकर खेतों पर वृष्टि डालो, कि वे कटनी के लिये पक चुके हों। ३६ और काटनेवाला मजदूरी पाता, और अनन्त जीवन के लिये फल बटोरता है; ताकि बोनेवाला और

काटनेवाला दोनों मिलकर आनन्द करें। ३७ क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोनेवाला और है और काटनेवाला और। ३८ मैं ने तुम्हें वह खेत काटने के लिये भेजा, जिस में तुम ने परिश्रम नहीं किया : औरी ने परिश्रम किया और तुम उन के परिश्रम के फल में भागी हुए।

३९ और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिस ने यह गवाही दी थी, कि उस ने सब कुछ जो मैं ने किया है, मुझे बता दिया, विश्वास किया। ४० तब जब ये सामरी उसके पास आए, तो उस से बिनती करने लगे, कि हमारे यहा रह. सो वह वहा दो दिन तक रहा। ४१ और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। ४२ और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते; क्योंकि हम ने आप ही सुन लिया, और जानते है कि यही सचमुच में जगत का उद्धारकर्ता है।

४३ फिर उन दो दिनों के बाद वह वहां से कूच करके गलील को गया। ४४ क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी, कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। ४५ जब वह गलील में आया, तो गलीली आनन्द के साथ उस से मिले; क्योंकि जितने काम उस ने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्हीं ने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे।

४६ तब वह फिर गलील के काना में आया, जहा उस ने पानी को दाख रस बनाया था : और राजा का एक कर्मचारी था जिस का पुत्र कफरनहूम में बीमार था। ४७ वह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उस से

बिनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को बंगा कर दे : क्योंकि वह मरने पर था। ४८ यीशु ने उस से कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। ४९ राजा के कर्मचारी ने उस से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहिले चल। ५० यीशु ने उस से कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है : उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, और चला गया। ५१ वह मार्ग में जा रहा था, कि उसके दास उस से आ मिले और कहने लगे कि तेरा लडका जीवित है। ५२ उस ने उन से पूछा कि किस घडी वह अच्छा होने लगा ? उन्हो ने उस से कहा, कल सातवें घण्टे में उसका ज्वर उतर गया। ५३ तब पिता जान गया, कि यह उसी घडी हुआ जिस घडी यीशु ने उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस ने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ५४ यह दूसरा आश्चर्यकर्म था, जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया ॥

५ इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया ॥

२ यरूशलेम में भेड़-फाटक के पास एक कुएँ है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है, और उसके पांच ओसारे हैं। ३ इन में बहुत से बीमार, अन्धे, लंगड़े और सूखे अंगवाले (पानी के हिलने की आशा में) पड़े रहते थे। ४ (क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुएँ में उतरकर पानी को हिलाया करते थे : पानी हिसते ही जो कोई पहिले उतरता वह चंगा हो जाता था चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो।) ५ वहा एक मनुष्य

था, जो अड़तीस वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ६ यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उस से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है ? ७ उस बीमार ने उस को उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कि जब पानी हिलाया जाए, तो मुझे कुएँ में उतारे; परन्तु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझ से पहिले उतर पड़ता है। ८ यीशु ने उस से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। ९ वह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा ॥

१० वह सब्त का दिन था। इसलिये यहूदी उस से, जो चंगा हुआ था, कहने लगे, कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। ११ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि जिस ने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझ से कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। १२ उन्होंने ने उस से पूछा, वह कौन मनुष्य है जिस ने तुझ से कहा, खाट उठाकर चल फिर ? १३ परन्तु जो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था वह कौन है; क्योंकि उस जगह में भिड़ होने के कारण यीशु वहा से हट गया था। १४ इन बातों के बाद वह यीशु को मन्दिर में मिला, तब उस ने उस से कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है; फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इस से कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। १५ उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, कि जिस ने मुझे चंगा किया, वह यीशु है। १६ इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। १७ इस पर यीशु ने उन से कहा, कि मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम

करता हूँ। १८ इस कारण यहूदी धीर भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, कि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परन्तु परमेश्वर को अपना पिता कह कर, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था।

१९ इस पर यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। २० क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है, वह सब उसे दिखाता है, और वह इन से भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम भ्रममा करो। २१ क्योंकि जैसा पिता मरे हुआओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। २२ और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परन्तु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। २३ इसलिये कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे: जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिस ने उसे भेजा है, आदर नहीं करता। २४ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजनेवाले की प्रतीति करता है, अनन्त जीवन उसका है, और उस पर दण्ड की आज्ञा नहीं होती * परन्तु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। २५ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, और अब है, जिस में मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जीएंगे। २६ क्योंकि जिस रीति

से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उस ने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। २७ बरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिये कि वह मनुष्य का पुत्र है। २८ इस से भ्रममा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, कि जितने कर्मों में है, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। २९ जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनस्तथान * के लिये जी उठेंगे और जिन्होंने ने बुराई की है वे दंड के पुनस्तथान के लिये जी उठेंगे।

३० मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ, वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, परन्तु अपने भेजनेवाले की इच्छा चाहता हूँ। ३१ यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ; तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। ३२ एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। ३३ तुम ने यूहन्ना से पुछवाया और उस ने सच्चाई की गवाही दी है। ३४ परन्तु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तौभी मैं ये बातें इसलिये कहता हूँ, कि तुम्हें उद्धार मिले। ३५ वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उस की ज्योति में, मगन होना भ्रच्छा लगा। ३६ परन्तु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है: क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है अर्थात् यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह है, कि पिता ने मुझे भेजा है। ३७ और पिता जिस ने मुझे भेजा है, उसी

* या वह न्याय में नहीं आता।

* या मृतकोत्थान।

ने मेरी गवाही दी है : तुम ने न कभी उसका शब्द सुना, और न उसका रूप देखा है। ३८ और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उस ने भेजा उस की प्रतीति नहीं करते। ३९ तुम पवित्रशास्त्र में दृढते हो *, क्योंकि समझते हो कि : उस में अनन्त जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है, जो मेरी गवाही देता है। ४० फिर भी तुम जीवन पाने के लिये मेरे पास आना नहीं चाहते। ४१ मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। ४२ परन्तु मैं तुम्हें जानता हूँ, कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नही। ४३ मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते; यदि कोई और अपने ही नाम से आए, तो उसे ग्रहण कर लोगे। ४४ तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ४५ यह न समझो, कि मैं पिता के साम्हने तुम पर दोष लगाऊंगा : तुम पर दोष लगानेवाला तो है, अर्थात् मूसा जिस पर तुम ने भरोसा रखा है। ४६ क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते, तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिये कि उस ने मेरे विषय में लिखा है। ४७ परन्तु यदि तुम उस की लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते, तो मेरी बातों की क्योंकर प्रतीति करोगे ॥

६ इन बातों के बाद यीशु गलील की भील अर्थात् तिबेरियास की भील के पास गया। २ और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्चर्य कर्म † वह बीमारों पर दिखाता था वे उन को

देखते थे। ३ तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठा। ४ और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। ५ तब यीशु ने अपनी आँखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप्पुस से कहा, कि हम इन के भोजन के लिये कहा से रोटी मोल लाएं? ६ परन्तु उस ने यह बात उसे परखने के लिये कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। ७ फिलिप्पुस ने उस को उत्तर दिया, कि दो सौ दीनार * की रोटी उन के लिये पूरी भी न होंगी कि उन में से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। ८ उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अन्द्रियास ने उस से कहा। ९ यहाँ एक लडका है जिस के पास जव की पांच रोटी और दो मछलियाँ हैं परन्तु इतने लोगों के लिये वे क्या है। १० यीशु ने कहा, कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी : तब वे लोग जो गिनती में लगभग पांच हजार के थे, बैठ गए : ११ तब यीशु ने रोटियाँ ली, और धन्यवाद करके बैठनेवालों को बांट दी : और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। १२ जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उस ने अपने चेलों से कहा, कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि कुछ फेंका † न जाए। १३ सो उन्होंने ने बटोरा, और जब की पांच रोटियों के टुकड़े जो खानेवालों से बच रहे थे उन की बारह टोकरियाँ भरी। १४ तब जो आश्चर्य कर्म उस ने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आनेवाला था निश्चय यही है।

* देखो मत्ती १८ : २८।

† यू० खोया न जाए।

* या हूँदो।

† यू० चिन्ह।

१५ यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिये आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर झकेला चला गया ॥

१६ फिर जब संध्या हुई, तो उसके चले भील के किनारे गए। १७ और नाव पर चढकर भील के पार कफरनहूम को जाने लगे : उस समय अन्धेरा हो गया था, और यीशु अभी तक उन के पास नहीं आया था। १८ और आन्धी के कारण भील में लहरे उठने लगी। १९ सो जब वे खेत खेत तीन चार मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने ने यीशु को भील पर चलते, और नाव के निकट आते देखा, और डर गए। २० परन्तु उस ने उन से कहा, कि मैं हूँ; डरो मत। २१ सो वे उसे नाव पर चढा लेने के लिये तैयार हुए और तुरन्त वह नाव उस स्थान पर जा पहुँची जहा वह जाते थे ॥

२२ दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो भील के पार खड़ी थी, यह देखा, कि यहा एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, और यीशु अपने चेलो के साथ उस नाव पर न चढा, परन्तु केवल उसके चले चले गए थे। २३ (तीसरी और छोटी नावें तिवरियास से उस जगह के निकट आईं, जहां उन्होंने ने प्रभु के घन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी)। २४ सो जब भीड़ ने देखा, कि यहां न यीशु है, और न उसके चले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ के यीशु को ढूँढते हुए कफरनहूम को पहुँचे। २५ और भील के पार उस से मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? २६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिये नहीं ढूँढते हो कि तुम ने अचम्भित काम देखे, परन्तु इसलिये कि तुम रोटियां खाकर

तृप्त हुए। २७ नाशमान भोजन के लिये परिश्रम न करो, परन्तु उस भोजन के लिये जो अनन्त जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हे देगा, क्योंकि पिता, अर्थात् परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। २८ उन्होंने ने उस से कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिये हम क्या करें?

२९ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया; परमेश्वर का कार्य यह है, कि तुम उस पर, जिसे उस ने भेजा है, विश्वास करो। ३० तब उन्हो ने उस से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करे, तू कौन सा काम दिखाता है?

३१ हमारे बापदादो न जंगल में मन्ना * खाया, जैसा लिखा है, कि उस ने उन्हें खाने के लिये स्वर्ग से रोटी दी। ३२ यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हे वह रोटी स्वर्ग से न दी, परन्तु मेरा पिता तुम्हे सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। ३३ क्योंकि परमेश्वर की रोटी बही है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। ३४ तब उन्हो ने उस से कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ३५ यीशु ने उन से कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ : जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी पियामा न होगा। ३६ परन्तु मैं ने तुम से कहा, कि तुम ने मुझे देख भी लिया है, तीसरी विश्वास नहीं करते। ३७ जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा। ३८ क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, बरन अपने भेजनेवाले की इच्छा पूरी करने के

* देखो निर्गो १६ : १५।

लिये स्वर्ग से उतरा हूँ। ३६ और मेरे भेजेनेवाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उस ने मुझे दिया है, उस में से मैं कुछ न खोजूँ परन्तु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँ। ४० क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस पर विश्वास करे, वह अनन्त जीवन पाए; और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँगा ॥

४१ तो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिये कि उस ने कहा था; कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, वह मैं हूँ। ४२ और उन्हो ने कहा; क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिस के माता-पिता को हम जानते हैं? तो वह क्योंकर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। ४३ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। ४४ कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खींच न ले; और मैं उस को अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँगा। ४५ भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। ४६ यह नहीं, कि किसी ने पिता को देखा परन्तु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। ४७ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो कोई विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसी का है। ४८ जीवन की रोटी मैं हूँ। ४९ तुम्हारे बापदादों ने जंगल में भ्रमा खाया और मर गए। ५० यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उस में से खाए और न मरे। ५१ जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए, तो सर्वदा जीवित

रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिये दूँगा, वह मेरा मांस है ॥

५२ इस पर यहूदी यह कहकर आपस में भगड़ने लगे, कि यह मनुष्य क्योंकर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है?

५३ यीशु ने उन से कहा; मैं तुम से सच सच कहता हूँ जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, और उसका लोहू न पीओ, तुम में जीवन नहीं। ५४ जो मेरा मांस खाता, और मेरा लोहू पीता है, अनन्त जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊँगा। ५५ क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है।

५६ जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उस में। ५७ जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। ५८ जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं कि खाया, और मर गए: जो कोई यह रोटी खाएगा, वह सर्वदा जीवित रहेगा। ५९ ये बातें उस ने कफरनहूम के एक भ्रातृघनालय में उपदेश देते समय कही ॥

६० इसलिये उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, कि यह बात नागवार * है; इसे कौन सुन सकता है? ६१ यीशु ने अपने मन में यह जान कर कि मेरे चले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ते हैं, उन से पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? ६२ और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहिले था, वहाँ ऊपर जाते देखोगे, तो क्या होगा? ६३ आत्मा तो जीवन-

* या कठिन।

दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं : जो बातें मैं ने तुम से कही हैं वे ध्रात्मा हैं, और जीवन भी है। ६४ परन्तु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते : क्योंकि यीशु तो पहिले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते, वे कौन हैं ? और कौन मुझे पकड़वाएगा। ६५ और उस ने कहा, इसी लिये मैं ने तुम से कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह बरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता ॥

६६ इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। ६७ तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो ? ६८ शमीन पतरस ने उस को उत्तर दिया, कि हे प्रभु हम किस के पास जाएं ? अनन्त जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ६९ और हम ने विश्वास किया, और जान गए हैं, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ७० यीशु ने उन्हे उत्तर दिया, क्या मैं ने तुम बारहों को नहीं चुन लिया ? तोभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान * है। ७१ यह उस ने शमीन इस्करियोती के पुत्र यहूदाह के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारहों में से था, उसे पकड़वाने को था ॥

७ इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिये वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। २ और यहूदियों का मण्डपों का पर्व निकट था। ३ इसलिये उसके भाइयों ने उस से कहा, यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा,

* यू० इब्रलीस।

कि जो काम तू करता है, उन्हें तेरे चेले भी देखें। ४ क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे, और छिपकर काम करे : यदि तू यह काम करता है, तो अपने तर्ई जगत पर प्रगट कर। ५ क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ६ तब यीशु ने उन से कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परन्तु तुम्हारे लिये सब समय है। ७ जगत तुम से बैर नहीं कर सकता, परन्तु वह मुझ से बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ, कि उसके काम बुरे हैं। ८ तुम पर्व में जाओ : मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता; क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। ९ वह उन से ये बातें कहकर गलील ही में रह गया ॥

१० परन्तु जब उसके भाई पर्व में चले गए, तो वह आप ही प्रगट में नहीं, परन्तु मानो गुप्त होकर गया। ११ सो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर दूढ़ने लगे कि वह कहाँ है ? १२ और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई : कितने कहते थे; वह भला मनुष्य है : और कितने कहते थे; नहीं, वह लोगों को भरमाता है। १३ तोभी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था ॥

१४ और जब पर्व के आठे दिन बीत गए; तो यीशु मन्दिर में जाकर उपदेश करने लगा। १५ तब यहूदियों ने प्रश्नभा करके कहा, कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई ? १६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परन्तु मेरे भेजेवाले का है। १७ यदि कोई उस की इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर

से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। १८ जो अपनी ओर से कुछ कहता है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है; परन्तु जो अपने भेजनेवाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उस में अघर्म नहीं। १९ क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तभी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? २० लोगो ने उत्तर दिया; कि तुम में दुष्टात्मा है; कौन तुम्हें मार डालना चाहता है? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि मैं ने एक काम किया, और तुम सब अचम्भा करते हो। २२ इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतर्न की आज्ञा दी है (यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है परन्तु बाप-दादो से चली आई है), और तुम सब के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। २३ जब सब के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिये क्रोध करते हो, कि मैं ने सब के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चगा किया। २४ मुह देखकर न्याय न चुकाओ, परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाओ ॥

२५ तब कितने यरूशलेमी कहने लगे; क्या यह वही नहीं, जिस के मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। २६ परन्तु देखो, वह तो खुल्लमखुल्ला बातें करता है और कोई उस से कुछ नहीं कहता; क्या सम्भव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है; कि यही मसीह है। २७ इस को तो हम जानते हैं, कि यह कहां का है; परन्तु मसीह जब आएगा, तो कोई न जानेगा कि वह कहां का है। २८ तब यीशु ने मन्दिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूँ; मैं तो आप से नहीं आया परन्तु मेरा भेजने-

वाला सच्चा है, उस को तुम नहीं जानते। २९ मैं उसे जानता हूँ; क्योंकि मैं उस की ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। ३० इस पर उन्होंने ने उसे पकड़ना चाहा तभी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। ३१ और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया, और कहने लगे, कि मसीह जब आएगा, तो क्या इस से अधिक आश्चर्य-कर्म दिखाएगा जो इस ने दिखाए? ३२ फरीसियों-ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना; और महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भेजे। ३३ इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ; तब अपने भेजनेवाले के पास चला जाऊंगा। ३४ तुम मुझे ढूढोगे, परन्तु नहीं पाओगे और जहां मैं हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। ३५ यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहां जाएगा, कि हम इसे न पाएंगे: क्या वह उन के पास जाएगा, जो यूनानियों में तित्तर बित्तर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? ३६ यह क्या बात है जो उस ने कही, कि तुम मुझे ढूढोगे, परन्तु न पाओगे: और जहां मैं हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते?

३७ फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई पियासा हो तो मेरे पास आकर पीए। ३८ जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय * मे से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ३९ उस ने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर

* यू० पेढ।

विश्वास करनेवाले पाने पर थे; क्योंकि भ्रातृमा भ्रब तक न उतरा था; क्योंकि यीशु भ्रब तक भ्रपनी महिमा को न पहुँचा था। ४० तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुन कर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। ४१ औरों ने कहा; यह मसीह है, परन्तु किसी ने कहा; क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? ४२ क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया, कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गाव से आएगा जहा दाऊद रहता था? ४३ सो उसके कारण लोगो में फूट पड़ी। ४४ उन मे से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परन्तु किसी ने उस पर हाथ न डाला ॥

४५ तब सिपाही महायाजको और फरीसियों के पास आए, और उन्हो ने उन से कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? ४६ सिपाहियो ने उत्तर दिया, कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बाते न की। ४७ फरीसियो ने उन को उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? ४८ क्या सरदारो या फरीसियो मे से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? ४९ परन्तु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, साधित हैं। ५० नीकुदेमस ने, (जो पहिले उसके पास आया था और उन में से एक था), उन से कहा। ५१ क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहिले उस की सुनकर जान न ले, कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? ५२ उन्हों ने उसे उत्तर दिया; क्या तू भी गलील का है बूढ़ और देख, कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रगट नहीं होने का। ५३ [तब * सब कोई अपने अपने घर को गए ॥

* ७ : ४२ से ८ : ११ तक का वाक्य अक्सर पुराने हस्तलेखों में नहीं मिलता।

परन्तु यीशु जैतून के पहाड पर गया। २ और भीर को फिर मन्दिर में आया, और सब लोग उसके पास आए; और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ३ तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उस को बीच में खड़ी करके यीशु से कहा। ४ हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। ५ व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियो को पत्थरवाह करे : सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? ६ उन्हो ने उस को परखने के लिये यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिये कोई बात पाए, परन्तु यीशु झुककर उगली से भूमि पर लिखने लगा। ७ जब वे उस से पूछते ही रहे, तो उस ने सीधे होकर उन से कहा, कि तुम में जो निष्पाप हो, वही पहिले उसको पत्थर मारे। ८ और फिर झुककर भूमि पर उगली से लिखने लगा। ९ परन्तु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटो तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। १० यीशु ने सीधे होकर उस से कहा, हे नारी, वे कहा गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी। ११ उस ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं : यीशु ने कहा, मैं सां तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता; जा, और फिर पाप न करना ॥

१२ तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति में हूँ; जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अन्धकार में न चलेगा, परन्तु जीवन की ज्योति पाएगा। १३ फरीसियों ने उस से कहा; तू अपनी गवाही आप देता है; तेरी गवाही ठीक नहीं। १४ यीशु ने उन को उत्तर दिया; कि यदि मैं अपनी गवाही

आप देता हूँ, तौभी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मैं कहां से आया हूँ और कहां को जाता हूँ? परन्तु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। १५ तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो; मैं किसी का न्याय नहीं करता। १६ और यदि मैं न्याय करूँ भी, तो मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि मैं अकेला नहीं, परन्तु मैं हूँ, और पिता है जिस ने मुझे भेजा। १७ और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है; कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। १८ एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिस ने मुझे भेजा। १९ उन्हों ने उस से कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, कि न तुम मुझे जानते हो, न भैरे पिता को, यदि मुझे जानते, तो मेरे पिता को भी जानते। २० ये बातें उस ने मन्दिर में उपदेश देते हुए भराडार घर में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था।

२१ उस ने फिर उन से कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूँढोगे और अपने पाप में मरोगे: जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ तुम नहीं आ सकते। २२ इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा, जो कहता है; कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? २३ उस ने उन से कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। २४ इसलिये मैं ने तुम से कहा, कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। २५ उन्होंने ने उस से कहा, तू कौन है?

यीशु ने उन से कहा, वही * हूँ जो प्रारम्भ से तुम से कहता आया हूँ। २६ तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है परन्तु मेरा भेजनेवाला सच्चा है; और जो मैं ने उस से सुना है, वही जगत से कहता हूँ। २७ वे न समझे कि हम से पिता के विषय में कहता है। २८ तब यीशु ने कहा, कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊँचे पर चढाओगे, तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परन्तु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही ये बातें कहता हूँ। २९ और मेरा भेजनेवाला मेरे साथ है; उस ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, जिस से वह प्रसन्न होता है। ३० वह ये बातें कह ही रहा था, कि बहुतेरो ने उस पर विश्वास किया।

३१ तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्हों ने उन की प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चले ठहरोगे। ३२ और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ३३ उन्हों ने उस को उत्तर दिया; कि हम तो इब्राहीम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए; फिर तू क्योंकर कहता है, कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ३४ यीशु ने उन को उत्तर दिया; मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है। ३५ और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ३६ सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ३७ मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहीम के वंश से हो; तौभी मेरा वचन

* या यह क्या बात है कि मैं तुम से बातें करता हूँ।

तुम्हारे हृदय * में जगह नहीं पाता, इसलिये तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ३८ में बही कहता हू, जो अपने पिता के यहां देखा है; और तुम वहीं करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। ३९ उन्हो ने उन को उत्तर दिया, कि हमारा पिता तो इब्राहीम है : यीशु ने उन से कहा; यदि तुम इब्राहीम की सन्तान होते, तो इब्राहीम के समान काम करते। ४० परन्तु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिस ने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, यह तो इब्राहीम ने नहीं किया था। ४१ तुम अपने पिता के समान काम करते हो : उन्हो ने उस से कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे; हमारा एक पिता है अर्थात् परमेश्वर। ४२ यीशु ने उन से कहा; यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझ से प्रेम रखते; क्योंकि मे परमेश्वर में से निकल कर आया हू, मे आप से नहीं आया, परन्तु उसी ने मुझे भेजा। ४३ तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते ? इसलिये कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। ४४ तुम अपने पिता शैतान † से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरम्भ से हल्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उस में है ही नहीं : जब वह झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बालता है; क्योंकि वह झूठा है, बरन झूठ का पिता है। ४५ परन्तु मे जो सच बोलता हू, इसी लिये तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। ४६ तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है ? और यदि में सच बोलता हूं, तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते ? ४७ जो परमेश्वर से होता

है, वह परमेश्वर की बातें सुनता है; और तुम इसलिये नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ४८ यह सुन यहूदियों ने उस से कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते, कि तू सामरी है, और तुझ में दुष्टात्मा है ? ४९ यीशु ने उत्तर दिया, कि मुझ में दुष्टात्मा नहीं, परन्तु मे अपने पिता का आदर करता हू, और तुम मेरा निरादर करते हो। ५० परन्तु मे अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हा, एक तो है जो चाहता है, और न्याय करता है। ५१ मे तुम से सच सच कहता हू, कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनन्त काल तक मृत्यु को न देखेगा। ५२ यहूदियों ने उस से कहा, कि अब हम ने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है। इब्राहीम मर गया, और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं और तू कहता है, कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनन्त काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। ५३ हमारा पिता इब्राहीम तो मर गया, क्या तू उस से बड़ा है ? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है। ५४ यीशु ने उत्तर दिया; यदि में आप अपनी महिमा करू, तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परन्तु मेरी महिमा करनेवाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो, कि वह हमारा परमेश्वर है। ५५ और तुम ने तो उसे नहीं जाना : परन्तु में उसे जानता हू; और यदि कहू कि में उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी नाईं झूठा ठहरूंगा : परन्तु में उसे जानता, और उसके वचन पर चलता हू। ५६ तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था; और उस ने देखा, और आनन्द किया। ५७ यहूदियों ने उस से कहा, अब तक तू पचास वर्ष का नहीं; फिर भी तू ने इब्राहीम

* या बदन पाता।

† दू० इब्लीस।

को देखा है ? ५८ यीशु ने उन से कहा ; मैं तुम से सब कुछ कहता हूँ ; कि पहिले इसके कि इब्राहीम उत्पन्न हुआ मैं हूँ । ५९ तब उन्हो ने उसे मारने के लिये पत्थर उठाए, परन्तु यीशु छिपकर मन्दिर से निकल गया ।।

६ फिर जाते हुए उस ने एक मनुष्य को देखा, जो जन्म का अन्धा था । २ और उसके चेलों ने उस से पूछा, हे रब्बी, किस ने पाप किया था कि यह अन्धा जन्मा, इस मनुष्य ने, या उसके माता-पिता ने ? ३ यीशु ने उत्तर दिया, कि न तो इसने पाप किया था ; न इस के माता-पिता ने : परन्तु यह इसलिये हुआ, कि परमेश्वर के काम उस में प्रगट हो । ४ जिस ने मुझे भेजा है ; हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है : वह रात आनेवाली है जिस में कोई काम नहीं कर सकता । ५ जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ । ६ यह कहकर उस ने भूमि पर धूका और उस धूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अन्धे की आँखों पर लगाकर । ७ उस से कहा ; जा शीलोह के कुएड में धो ले, (जिस का अर्थ भेजा हुआ है) सो उस ने जाकर धोया, और देखता हुआ लौट आया । ८ तब पड़ोसी और जिन्हो ने पहिले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे ; क्या यह वही नहीं, जो बैठा भीख मागा करता था ? ९ कितनों ने कहा, यह वही है : श्रीरो ने कहा, नहीं ; परन्तु उसके समान है : उस ने कहा, मैं वही हूँ । १० तब वे उस से पूछने लगे, तेरी आँखें क्योंकर खुल गई ? ११ उस ने उत्तर दिया, कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, और मेरी आँखों पर लगाकर मुझे से कहा, कि शीलोह में जाकर धो ले ;

सो मैं गया, और धोकर देखने लगा । १२ उन्हो ने उस से पूछा ; वह कहाँ है ? उस ने कहा, मैं नहीं जानता ।।

१३ लीग उसे जो पहिले अन्धा था फरीसियों के पास ले गए । १४ जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उस की आँखें खोली थी वह सब्त का दिन था । १५ फिर फरीसियों ने भी उस से पूछा ; तेरी आँखें किस रीति से खुल गई ? उस ने उन से कहा ; उस ने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैं ने धो लिया, और अब देखता हूँ । १६ इस पर कई फरीसी कहने लगे ; यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता । श्रीरो ने कहा, पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है ? सो उन में फूट पड़ी । १७ उन्हो ने उस अन्धे से फिर कहा, उस ने जो तेरी आँखें खोली, तू उसके विषय में क्या कहता है ? उस ने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है । १८ परन्तु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि यह अन्धा था और अब देखता है जब तक उन्हो ने उसके माता-पिता को जिस की आँखें खुल गई थी, बुलाकर । १९ उन से न पूछा, कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है, जिस तुम कहते हो कि अन्धा जन्मा था ? फिर अब वह क्योंकर देखता है ? २० उसके माता-पिता ने उत्तर दिया ; हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है, और अन्धा जन्मा था । २१ परन्तु हम यह नहीं जानते हैं कि अब क्योंकर देखता है ; और न यह जानते हैं, कि किस ने उस की आँखें खोलीं ; वह सयाना है ; उसी से पूछ लो ; वह अपने विषय में आप कह देगा । २२ ये बातें उसके माता-पिता ने इसलिये कहीं क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे ; क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे, कि यदि कोई कहे कि वह मसीह

हैं, तो श्रावणालय से निकाला जाए। २३ इसी कारण उसके माता-पिता ने कहा, कि वह सयाना है, उसी से पूछ लो। २४ तब उन्होंने ने उस मनुष्य को जो अन्धा था दूसरी बार बुलाकर उस से कहा, परमेश्वर की स्तुति कर: हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। २५ उस ने उत्तर दिया: मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं: मैं एक बात जानता हू कि मैं अन्धा था और अब देखता हूँ। २६ उन्हो ने उस से फिर कहा, कि उस ने तेरे साथ क्या किया? और किस तरह तेरी आंखें खोलीं? २७ उस ने उन से कहा; मैं तो तुम से कह चुका, और तुम ने न सुना; अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चले होना चाहते हो? २८ तब वे उसे बुरा-भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है; हम तो मूसा के चले हैं। २९ हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परन्तु इस मनुष्य को मही जानते कि कहा का है। ३० उस ने उन को उत्तर दिया; यह तो अचम्भे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहा का है तौभी उस ने मेरी आंखें खोल दी। ३१ हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता परन्तु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, और उस की इच्छा पर चलता है, तो वह उस की सुनता है। ३२ जगत के श्रावण से यह कमी सुनने में नहीं आया, कि किसी ने भी जन्म के अन्धे की आंखें खोली हो। ३३ यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता, तो कुछ भी नहीं कर सकता। ३४ उन्होंने ने उस को उत्तर दिया, कि तू तो बिलकुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने ने उसे बाहर निकाल दिया ॥

३५ यीशु ने सुना, कि उन्होंने ने उसे बाहर निकाल दिया है; और जब उस से भेंट हुई तो कहा, कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? ३६ उस ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु; वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करू? ३७ यीशु ने उस से कहा, तू ने उसे देखा भी है; और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। ३८ उस ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हू: और उसे बड़बत किया। ३९ तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिये आया हू, ताकि जो नहीं देखते वे देखे, और जो देखते हैं वे अन्धे हो जाए। ४० जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ने ये बातें सुन कर उस से कहा, क्या हम भी अन्धे हैं? ४१ यीशु ने उन से कहा, यदि तुम अन्धे होते तो पापी न ठहरते परन्तु अब कहते हो, कि हम देखते हैं, इसलिये तुम्हारा पाप बना रहता है ॥

१० मैं तुम से सब सच कहता हू, कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परन्तु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। २ परन्तु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। ३ उसके लिये द्वारपाल द्वार धोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ४ और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उन के आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं; क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। ५ परन्तु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परन्तु उस से आगेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती।

६ यीशु ने उन से यह दुष्टात्मा कहा, परन्तु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हम से कहता है ॥

७ तब यीशु ने उन से फिर कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। ८ जितने मुझ से पहिले आए; वे सब चोर और डाकू हैं परन्तु भेड़ों ने उन की न सुनी। ९ द्वार मैं हूँ: यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। १० चोर किसी और काम के लिये नहीं परन्तु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिये आया कि वे जीवन पाएं, और बहुतायत से पाएं। ११ अच्छा चरवाहा मैं हूँ; अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिये अपना प्राण देता है। १२ मजदूर जो न चरवाहा है, और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तित्तर-बित्तर कर देता है। १३ वह इसलिये भाग जाता है कि वह मजदूर है, और उस को भेड़ों की चिन्ता नहीं। १४ अच्छा चरवाहा मैं हूँ; जिस तरह पिता मुझे जानता है, और मैं पिता को जानता हूँ। १५ इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिये अपना प्राण देता हूँ। १६ और मेरी और भी भेड़ें हैं, जो इस भेड़वाला की नहीं: मुझे उन का भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी; तब एक ही झुंड़ और एक ही चरवाहा होगा। १७ पिता इसलिये मुझ से प्रेम रखता है, कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कि उसे फिर ले लूँ। १८ कोई उसे मुझ से छीनता नहीं, बरन मैं उसे आप ही देता हूँ: मुझे उसके देने का भी अधिकार है, और

उसे फिर लेने का भी अधिकार है: यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है ॥

१९ इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। २० उन में से बहुतेरे कहने लगे, कि उस में दुष्टात्मा है, और वह पागल है; उस की क्यों सुनते हो? २१ औरो ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिस में दुष्टात्मा हो: क्या दुष्टात्मा अन्धों की आंखें खोल सकती है?

२२ यरूशलेम में स्थापन-पर्व हुआ, और जाड़े की ऋतु थी। २३ और यीशु मन्दिर में सुलैमान के भोसारे में टहल रहा था। २४ तब यहूदियों ने उसे आ बेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुबिधा में रखेगा? यदि तू मसीह है, तो हम से साफ कह दे। २५ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मैं ने तुम से कह दिया, और तुम प्रतीति करते ही नहीं, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। २६ परन्तु तुम इसलिये प्रतीति नहीं करते, कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। २७ मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। २८ और मैं उन्हें अनन्त जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। २९ मेरा पिता, जिस ने उन्हें मुझ को दिया है, सब से बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ३० मैं और पिता एक हैं। ३१ यहूदियों ने उसे पत्थरबाह करने को फिर पत्थर उठाए। ३२ इस पर यीशु ने उन से कहा, कि मैं ने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उन में से किस काम के लिये तुम मुझे पत्थरबाह करते हो? ३३ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया, कि

भले काम के लिये हम तुम्हें पत्थरवाह नहीं करते, परन्तु परमेश्वर की निन्दा के कारण और इसलिये कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। ३४ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैं ने कहा, तुम ईश्वर हो? ३५ यदि उस ने उन्हें ईश्वर कहा जिन के पास परमेश्वर का वचन पहुँचा (और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती) ३६ तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उस से कहते हो कि तू निन्दा करता है, इसलिये कि मैं ने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ३७ यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता, तो मेरी प्रतीति न करो। ३८ परन्तु यदि मैं करता हूँ, तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परन्तु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो, और समझो, कि पिता मुझ में है, और मैं पिता में हूँ। ३९ तब उन्होने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया परन्तु वह उन के हाथ से निकल गया ॥

४० फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया, जहाँ यूहन्ना पहिले बपतिस्मा दिया करता था, और वही रहा। ४१ और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे, कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परन्तु जो कुछ यूहन्ना ने इस के विषय में कहा था, वह सब सच था। ४२ और वहाँ बहुतेरो ने उस पर विश्वास किया ॥

११ मरियम और उस की बहिन मरथा के गाँव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। २ यह वही मरियम थी जिस ने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँवों को अपने बालों से पोंछा था, इसी का भाई लाजर बीमार था। ३ सो

उस की बहिनो ने उसे कहला भेजा, कि हे प्रभु, देख, जिस से तू प्रीति रखता है, वह बीमार है। ४ यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परन्तु परमेश्वर की महिमा के लिये है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ५ और यीशु मरथा और उस की बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ६ सो जब उस ने सुना, कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, वहाँ दो दिन और ठहर गया। ७ फिर इस के बाद उस ने चेलों से कहा, कि आओ, हम फिर यहाँ दिया को चलेँ। ८ चेलों ने उस से कहा, हे रब्बी, अभी तो यहाँ तुम्हें पत्थरवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? ९ यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के बारह घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले, तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। १० परन्तु यदि कोई रात को चले, तो ठोकर खाता है, क्योंकि उस में प्रकाश नहीं। ११ उस ने ये बातें कहीं, और इस के बाद उन से कहने लगा, कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परन्तु मैं उसे जगाने जाता हूँ। १२ तब चेलो ने उस से कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है, तो बच जायगा। १३ यीशु ने तो उस की भृत्य के विषय में कहा था: परन्तु वे समझे कि उस ने नीद से सो जाने के विषय में कहा। १४ तब यीशु ने उन से साफ़ कह दिया, कि लाजर मर गया है। १५ और मैं तुम्हारे कारण आनन्दित हूँ कि मैं वहाँ न था जिस से तुम विश्वास करो, परन्तु अब आओ, हम उसके पास चलेँ। १६ तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चलेँ ॥

१७ सो यीशु को धाकर यह मालूम हुआ कि उसे कन्न में रखे चार दिन हो चुके हैं। १८ बैतनिव्याह यरूशलेम के समीप कोई दो मील की दूरी पर था। १९ और बहुत से यहूदी मरया और मरियम के पास उन के भाई के विषय में शान्ति देने के लिये आए थे। २० सो मरया यीशु के आने का समाचार सुनकर उस से भेंट करने को गई, परन्तु मरियम घर में बैठी रही। २१ मरया ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहा होता, तो मेरा भाई कदापि न मरता। २२ और अब भी मैं जानती हूँ, कि जो कुछ तू पद्मेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। २३ यीशु ने उस से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। २४ मरया ने उस से कहा, मैं जानती हूँ, कि अन्तिम दिन में पुनरुत्थान * के समय वह जी उठेगा। २५ यीशु ने उस से कहा, पुनरुत्थान † और जीवन में ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, तौभी जीएगा। २६ और जो कोई जीवता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनन्तकाल तक न मरेगा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? २७ उस ने उस से कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ, कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आनेवाला था, वह तू ही है। २८ यह कहकर वह चली गई, और अपनी बहिन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है, और तुझे बुलाता है। २९ वह सुनते ही तुरन्त उठकर उसके पास आई। ३० (यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परन्तु उसी स्थान में था, जहां मरया ने उस से भेंट की थी)। ३१ तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे, और उसे

शान्ति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरन्त उठके बाहर गई है और यह समझकर कि वह कन्न पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। ३२ जब मरियम बहा पहुंची जहा यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पावों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहा होता तो मेरा भाई न मरता। ३३ जब यीशु ने उस को और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ, और घबरा कर * कहा, 'तुम ने उसे कहा रखा है? ३४ उन्हो ने उस से कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। ३५ यीशु के आसू बहने लगे। ३६ तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उस से कैसी प्रीति रखता था। ३७ परन्तु उन में से कितनो ने कहा, क्या यह जिस ने अन्धे की आंखें खोलीं, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? ३८ यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कन्न पर आया, वह एक गुफा थी, और एक पत्थर उस पर धरा था। ३९ यीशु ने कहा; पत्थर को उठाओ : उस मरे हुए की बहिन मरया उस से कहने लगी, हे प्रभु, उस में से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए। ४० यीशु ने उस से कहा, क्या मैं ने तुम से न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ४१ तब उन्हों ने उस पत्थर को हटाया, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। ४२ और मैं जानता था, कि तू सदा मेरी सुनता है, परन्तु जो भीड़ भास पास खड़ी है, उन के कारण मैं ने यह कहा, जिस से कि वे विश्वास करें, कि तू

* शू० जी उठन में। या श्रुतकोत्थान में।

† शू० जी उठना।

* शू० अपने आपको बैचैन करके।

ने मुझे भेजा है। ४३ यह कहकर उस ने बड़े शब्द से पुकारा, कि हे लाजर, निकल आ। ४४ जो मर गया था, वह कफन से हाथ पाव बन्धे हुए निकल आया, और उसका मुंह अगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उन से कहा, उसे खोलकर जाने दो ॥

४५ तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे, और उसका यह काम देखा था, उन में से बहुतो ने उस पर विश्वास किया। ४६ परन्तु उन में से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया ॥

४७ इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा * के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। ४८ यदि हम उसे योही छोड़ दें, तो सब उस पर विश्वास ले आएं और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। ४९ तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति ने जो उस वर्ष का महायाजक था, उन से कहा, तुम कुछ नहीं जानते। ५० और न यह सोचते हो, कि तुम्हारे लिये यह भला है, कि हमारे लोगों के लिये एक मनुष्य मरे, और न यह, कि सारी जाति नाश हो। ५१ यह बात उस ने अपनी ओर से न कही, परन्तु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यद्वानी की, कि यीशु उस जाति के लिये मरेगा। ५२ और न केवल उस जाति के लिये, बरन इसलिये भी, कि परमेश्वर की तित्तर-बित्तर सन्तानों को एक कर दे। ५३ सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे ॥

५४ इसलिये यीशु उस समय से यहूदियों में प्रगट होकर न फिरा; परन्तु वहां से जगल के निकट के देश में इफ्राईम नाम, एक नगर को चला गया, और अपने बेलों के साथ वहीं रहने लगा। ५५ और यहूदियों का फसह निकट था, और बहुतेरे लोग फसह से पहिले दिहात से यरूशलेम को गए, कि अपने आप को शुद्ध करें। ५६ सो वे यीशु को दूकने और मन्दिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो? ५७ क्या वह पर्व में नहीं आएगा? और महायाजको और फरीसियों ने भी आशा दे रखी थी, कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहां है तो बताए, कि उसे पकड़ लें ॥

१२ फिर यीशु फसह से छ दिन पहिले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था। जिसे यीशु ने मरे हुआ में से जिलाया था। २ वहां उन्होने उसके लिये भोजन तैयार किया, और मरथा सेवा कर रही थी, और लाजर उन में से एक था, जो उसके साथ भोजन करने के लिये बैठे थे। ३ तब मरियम ने जटामांसी का घाघ सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला, और अपने बालों से उसके पाव पोंछे, और इत्र की सुगंध से वर सुगन्धित हो गया। ४ परन्तु उसके बेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक बेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा। ५ यह इत्र तीन सौ दीनार * में बेचकर कंगालो को क्यों न दिया गया? ६ उस ने यह बात इसलिये न कही, कि उसे कंगालो की चिन्ता थी, परन्तु इसलिये कि वह चोर था और उसके पास उन की धैली रहती थी, और उस में जो कुछ

* अर्थात्। सदर अदालत वा बड़ी कचहरी।

* देखो मत्ती १८: २८।

डाला जाता था, वह निकाल लेता था।
७ यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिये रहने दे। ८ क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परन्तु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा।

९ यहूदियों में से साधारण लोग जान गए, कि वह वहा है, और वे न केवल यीशु के कारण आए परन्तु इसलिये भी कि लाजर को देखे, जिसे उस ने मरे हुआ में से जिलाया था। १० तब महायाजको ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। ११ क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए, और यीशु पर विश्वास किया।

१२ दूसरे दिन बहुत से लोगो ने जो पर्व में आए थे, यह सुनकर, कि यीशु यरूशलेम में आता है। १३ खजूर की डालिया ली, और उस से भेंट करने को निकले, और पुकारने लगे, कि होशाना, धन्य इस्राएल का राजा, जो प्रभु के नाम से आता है। १४ जब यीशु को एक गदहे का बच्चा मिला, तो उस पर बैठा। १५ जैसा लिखा है, कि हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख, तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। १६ उसके चले, ये बातें पहिले न समझे थे, परन्तु जब यीशु की महिमा प्रगट हुई, तो उन को स्मरण आया, कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगो ने उस से इस प्रकार का व्योहार किया था। १७ तब भीड़ के लोगो ने जो उस समय उसके साथ थे यह गवाही दी कि उस ने लाजर को कब्र में से बुलाकर, मरे हुआ में से जिलाया था। १८ इसी कारण लोग उस से भेंट करने को आए थे क्योंकि उन्होंने ने सुना था, कि उस ने यह आश्चर्यकर्म दिखाया है। १९ तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही

कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता : देखो, संसार उसके पीछे ही चला है।

२० जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उन में से कई यूनानी थे। २१ उन्हो ने गलील के बैतसैदा के रहनेवाले फिलिप्पुस के पाम आकर उस से बिनती की, कि श्रीमान् हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। २२ फिलिप्पुस ने आकर अन्द्रियास से कहा; तब अन्द्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु से कहा। २३ इस पर यीशु ने उन से कहा, वह समय आ गया है, कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। २४ मैं तुम से मच सच कहता हू, कि जब तक गेहू का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है परन्तु जब मर जाता है, तो बहुत फल लाता है। २५ जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनन्त जीवन के लिये उस को रक्षा करेगा। २६ यदि कोई मेरी सेवा करे, तो मेरे पीछे ही लें; और जहां मैं हू, वहां मेरा सेवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे, तो पिता उसका आदर करेगा। २७ अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है। इसलिये अब मैं क्या कहूँ ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा ? परन्तु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हू। २८ हे पिता, अपने नाम की महिमा कर : तब यह आकाशवाणी हुई, कि मैं ने उस की महिमा की है, और फिर भी कहूंगा। २९ तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हो ने कहा, कि बादल गरजा, औरो ने कहा, कोई स्वर्ग-दूत उस से बोला। ३० इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिये नहीं, परन्तु तुम्हारे लिये आया है। ३१ अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार

निकाल दिया जाएगा। ३२ और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सब को अपने पास खींचूंगा। ३३ ऐसा कहकर उस ने यह प्रगट कर दिया, कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। ३४ इस पर लोगों ने उम से कहा, कि हम ने व्यवस्था की यह बात सुनी है, कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है, कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? ३५ यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उन से कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो; ऐसा न हो कि अन्धकार तुम्हें आ घेरे, जो अन्धकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। ३६ जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के सन्तान होओ।

ये बातें कहकर यीशु चला गया और उन से छिपा रहा। ३७ और उस ने उन के साम्हने इतने चिन्ह दिखाए, तभी उन्हो ने उस पर विश्वास न किया। ३८ ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उस ने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार की किस ने प्रतीति की है? और प्रभु का भुजबल किस पर प्रगट हुआ? ३९ इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा। ४० कि उस ने उन की आंखें अन्धी, और उन का मन कठोर किया है; कही ऐसा न हो, कि वे आंखों से देखें, और मन से समझें, और फिरें, और मैं उन्हें चंगा करूँ। ४१ यशायाह ने ये बातें इसलिये कहीं, कि उस ने उस की महिमा देखी; और उस ने उसके विषय में बातें कीं। ४२ तभी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परन्तु

फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। ४३ क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन को परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी।

४४ यीशु ने पुकारकर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, बरन मेरे भेजनेवाले पर विश्वास करता है। ४५ और जो मुझे देखता है, वह मेरे भेजनेवाले को देखता है। ४६ मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, वह अन्धकार में न रहे। ४७ यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिये नहीं, परन्तु जगत का उद्धार करने के लिये आया हूँ। ४८ जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उस को दोषी ठहरानेवाला तो एक है: अर्थात् जो वचन मैं ने कहा है, वही पिछले दिन मैं उसे दोषी ठहराएगा। ४९ क्योंकि मैं ने अपनी ओर से बातें नहीं की, परन्तु पिता जिस ने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है, कि क्या क्या कहूँ? और क्या क्या बोलूँ? ५० और मैं जानता हूँ, कि उस की आज्ञा अनन्त जीवन है इसलिये मैं जो बोलता हूँ, वह जैसा पिता ने मुझ से कहा है वैसा ही बोलता हूँ।

१:३ फसह के पर्व से पहिले जब यीशु ने जान लिया, कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊँ, तो अपने लोगों से, जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अन्त तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। २ और जब शीतान *

* यू० इव्लीस।

शमीन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था, कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय। ३ यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, और परमेश्वर के पास जाता हूँ। ४ भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए, और अगोछा लेकर अपनी कमर बान्धी। ५ तब बरतन में पानी भरकर चेलों के पाव धोने और जिस अगोछे से उस की कमर बन्धी थी उसी से पोछने लगा। ६ जब वह शमीन पतरस के पास आया : तब उस ने उस से कहा, हे प्रभु, ७ क्या तू मेरे पाव धोता है ? यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो मैं करता हूँ, तू अब नहीं जानता, परन्तु इस के बाद समझेगा। ८ पतरस ने उस से कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा : यह सुनकर यीशु ने उस से कहा, यदि मैं तुम्हें न धोऊँ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। ९ शमीन पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाव ही नहीं, बरन हाथ और सिर भी धो दे। १० यीशु ने उस से कहा, जो नहा चुका है, उसे पाव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परन्तु वह बिलकुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो; परन्तु सब के सब नहीं। ११ वह तो अपने पकड़वानेवाले को जानता था इसी लिये उस ने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं।

१२ जब वह उन के पांव धो चुका, और अपने कपड़े पहिनकर फिर बैठ गया तो उन से कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैं ने तुम्हारे साथ क्या किया ? १३ तुम मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। १४ यदि मैं ने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए;

तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाव धोना चाहिए। १५ क्योंकि मैं ने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, कि जैसा मैं ने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। १६ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं; और न भेजा हुआ * अपने भेजनेवाले से। १७ तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो, तो धन्य हो। १८ मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता : जिन्हें मैं ने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ : परन्तु यह इसलिये है, कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी रोटी खाता है, उस ने मुझ पर लात उठाई। १९ अब मैं उसके होने से पहिले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। २० मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है।

२१ ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। २२ चले यह सदेह करते हुए, कि वह किम के विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। २३ उसके चेलों में से एक जिस से यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा † था। २४ तब शमीन पतरस ने उस की ओर सन करके पूछा, कि बता तो, वह किस के विषय में कहता है ? २५ तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुक कर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है ? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी

* या प्रेरित।

† यू० लेटा।

का टुकड़ा डुबोकर दूगा, वही है। २६ और उस ने टुकड़ा डुबोकर शमीन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। २७ और टुकड़ा लेते ही शैतान उस में समा गया : तब यीशु ने उस से कहा, जो तू करता है, तुरन्त कर। २८ परन्तु बैठनेवालों * में से किसी ने न जाना कि उस ने यह बात उस से किस लिये कही। २९ यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिये किसी किसी ने समझा, कि यीशु उस से कहता है, कि जो कुछ हमें पब्ब के लिये चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालो को कुछ दे। ३० तब वह टुकड़ा लेकर तुरन्त बाहर चला गया, और रात्रि का समय था ॥

३१ जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा; अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई, और परमेश्वर की महिमा उस में हुई। ३२ और परमेश्वर भी अपने में उस की महिमा करेगा, बरन तुरन्त करेगा। ३३ हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ : फिर तुम मुझे ढूढ़ोगे, और जैसा मैं ने यहूदियों से कहा, कि जहा में जाता हू, वहां तुम नहीं आ सकते वैसा ही मैं अब तुम से भी कहता हूँ। ३४ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो : जैसा मैं ने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ३५ यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, कि तुम मेरे चेले हो ॥

३६ शमीन पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तू कहां जाता है ? यीशु ने उत्तर दिया, कि जहां मैं जाता हूँ, वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता ! परन्तु इस के बाद मेरे पीछे आएगा। ३७ पतरस ने उस से कहा,

हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता ? मैं तो तेरे लिये अपना प्राण दूंगा। ३८ यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिये अपना प्राण देगा ? मैं तुम्ह से सब सच कहता हू कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्कार न कर लेगा ॥

१४ तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो * मुझ पर भी विश्वास रखो। २ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते, तो मैं तुम से कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिये जगह तैयार करने जाता हू। ३ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिये जगह तैयार करू, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहा ले जाऊंगा, कि जहा मे रहू वहां तुम भी रहो। ४ और जहां मैं जाता हूँ तुम वहा का मार्ग जानते हो। ५ थोमा ने उस से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहा जाता है ? तो मार्ग कैसे जाने ? ६ यीशु ने उस से कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ७ यदि तुम ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, और उसे देखा भी है। ८ फिलिप्पुस ने उस से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे : यही हमारे लिये बहुत है। ९ यीशु ने उस से कहा; हे फिलिप्पुस, मे इतने दिन से तुम्हारे साथ हू, और क्या तू मुझे नहीं जानता ? जिस ने मुझे देखा है उस ने पिता को देखा है : तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा। १० क्या तू प्रतीति नहीं करता, कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है ? ये बातें जो मैं तुम से कहता हूँ, अपनी ओर

* यू० लेटनेवालों।

* या रखो।

से नहीं कहता, परन्तु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ११ मेरी ही प्रतीति करो, कि मैं पिता में हूँ; और पिता मुझ में है; नहीं तो कामो ही के कारण मेरी प्रतीति करो। १२ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, बरन इन से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। १३ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मागोगे, वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। १४ यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मागोगे, तो मैं उसे करूँगा। १५ यदि तुम मुझ से प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। १६ और मैं पिता से बिनती करूँगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। १७ अर्थात् सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है: तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। १८ मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूँगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। १९ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परन्तु तुम मुझे देखोगे, इसलिये कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। २० उस दिन तुम जानोगे, कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में। २१ जिस के पास मेरी आज्ञा है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझ से प्रेम रखता है, और जो मुझ से प्रेम रखता है, उस से मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उस से प्रेम रखूँगा, और अपने आप को उस पर प्रगट करूँगा। २२ उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उस से कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रगट किया चाहता है,

और संसार पर नहीं। २३ यीशु ने उस को उत्तर दिया, यदि कोई मुझ से प्रेम रखे, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उस से प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ बास करेंगे। २४ जो मुझ से प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं बरन पिता का है, जिस ने मुझे भेजा।।

२५ ये बातें मैं ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से कही। २६ परन्तु सहायक अर्थात् पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैं ने तुम से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। २७ मैं तुम्हें शान्ति दिए जाता हूँ, अपनी शान्ति तुम्हें देता हूँ; जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता: तुम्हारा मन न चबराए और न डरे। २८ तुम ने सुना, कि मैं ने तुम से कहा, कि मैं जाता हूँ, और तुम्हारे पास फिर आता हूँ: यदि तुम मुझ से प्रेम रखते, तो इस बात से आनन्दित होते, कि मैं पिता के पास जाता हूँ क्योंकि पिता मुझ से बड़ा है। २९ और मैं ने अब इस के होने से पहिले तुम से कह दिया है, कि जब वह हो जाए, तो तुम प्रतीति करो। ३० मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, और मुझ में उसका कुछ नहीं। ३१ परन्तु यह इसलिये होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी, मैं वैसे ही करता हूँ: उठो, यहां से चले।।

२५ सच्ची दाखलता मैं हूँ; और मेरा पिता किसान है। २ जो डाली मुझ में है, और नहीं फलती, उसे वह

काट डालता है, और जो फलती है, उसे वह छांटता है ताकि और फले। ३ तुम तो उस बचन के कारण जो मैं ने तुम से कहा है, शुद्ध हो। ४ तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में : जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। ५ मैं दाखलता हूँ : तुम डालियाँ हो; जो मुझ में बना रहता है, और मैं उस में, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ६ यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता, और सूख जाता है; और लोग उन्हें बटोरकर भाग में भोक देते हैं, और वे जल जाती हैं। ७ यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मागो और वह तुम्हारे लिये हो जाएगा। ८ मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ९ जैसा पिता ने मुझ से प्रेम रखा, वैसे ही मैं ने तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। १० यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे : जैसा कि मैं ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ११ मैं ने ये बातें तुम से इसलिये कही हैं, कि मेरा आनन्द तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए। १२ मेरी आज्ञा यह है, कि जैसा मैं ने तुम से प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के प्रेम रखो। १३ इस से बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि कोई अपने मित्रों के लिये अपना प्राण दे। १४ जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो, तो तुम मेरे मित्र हो। १५ अब से मैं तुम्हें

दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता, कि उसका स्वामी क्या करता है : परन्तु मैं ने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैं ने जो बातें अपने पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता दी। १६ तुम ने मुझे नहीं चुना परन्तु मैं ने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ; और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मागो, वह तुम्हें दे। १७ इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिये देता हूँ, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। १८ यदि ससार तुम से बैर रखता है, तो तुम जानते हो, कि उस ने तुम से पहिले मुझ से भी बैर रखा। १९ यदि तुम ससार के होते, तो ससार अपनों से प्रीति रखता, परन्तु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, बरन मैं ने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसी लिये संसार तुम से बैर रखता है। २० जो बात मैं ने तुम से कही थी, कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो : यदि उन्हो ने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे; यदि उन्हो ने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। २१ परन्तु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजनेवाले को नहीं जानते। २२ यदि मैं न आता और उन से बातें न करता, तो वे पापी न ठहरते परन्तु अब उन्हें उन के पाप के लिये कोई बहाना नहीं। २३ जो मुझ से बैर रखता है, वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। २४ यदि मैं उन में वे काम न करता, जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परन्तु अब तो उन्हो ने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा, और दोनों से बैर किया। २५ और यह इसलिये हुआ, कि वह बचन पूरा हो, जो उन की ब्यवस्था में लिखा है, कि उन्होंने ने

मुझ से व्यर्थ बैर किया। २६ परन्तु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात् सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। २७ और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरम्भ से मेरे साथ रहे हो ॥

१६

ये बातें मैं ने तुम से इसलिये कही कि तुम ठोकर न खाओ। २ वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, बरन वह समय आता है, कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं पद्मेश्वर की सेवा करता हूँ। ३ और यह वे इसलिये करेंगे कि उन्हो ने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। ४ परन्तु ये बातें मैं ने इसलिये तुम से कही, कि जब उन का समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए, कि मैं ने तुम से पहिले ही कह दिया था। और मैं ने आरम्भ में तुम से ये बातें इसलिये नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। ५ अब मैं अपने भेजनेवाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता, कि तू कहा जाता है? ६ परन्तु मैं ने जो ये बातें तुम से कही हैं, इसलिये तुम्हारा मन शोक से भर गया। ७ तौभी मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मेरा जाना तुम्हारे लिये अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ, तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परन्तु यदि मैं जाऊँगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ८ और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर * करेगा। ९ पाप के विषय में इसलिये कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। १० और धार्मिकता के विषय में इसलिये कि मैं पिता

* या काइल।

के पास जाता हूँ, ११ और तुम मुझे फिर न देखोगे : न्याय के विषय में इसलिये कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। १२ मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परन्तु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। १३ परन्तु जब वह अर्थात् सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परन्तु जो कुछ सुनेगा, वही कहेगा, और आनेवाली बातें तुम्हें बताएगा। १४ वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। १५ जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा है; इसलिये मैं ने कहा, कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। १६ थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। १७ तब उसके कितने चलो ने आपस में कहा, यह क्या है, जो वह हम से कहता है, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? और यह इसलिये कि मैं पिता के पास जाता हूँ? १८ तब उन्हो ने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है, क्या बात है? हम नहीं जानते, कि क्या कहता है। १९ यीशु ने यह जानकर, कि वे मुझ से पूछना चाहते हैं, उन से कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछ पाछ करते हो, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। २० मैं तुम से सच सच कहता हूँ; कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परन्तु संसार आनन्द करेगा : तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक आनन्द बन जाएगा। २१ जब स्त्री जनने लगती है तो उस को शोक होता है, क्योंकि उस की दुःख की घड़ी आ पहुंची, परन्तु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनन्द से कि

जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस सकट को फिर स्मरण नहीं करती। २२ और तुम्हें भी अब तो शोक है, परन्तु मैं तुम से फिर मिलूंगा * और तुम्हारे मन में आनन्द होगा, और तुम्हारा आनन्द कोई तुम से छीन न लेगा। २३ उस दिन तुम मुझ से कुछ न पूछोगे। मैं तुम से सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मागोगे, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। २४ अब तक तुम ने मेरे नाम से कुछ नहीं मागा, मागो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए ॥

२५ मैं ने ये बातें तुम से दृष्टान्तों में कही हैं, परन्तु वह समय आता है, कि मैं तुम से दृष्टान्तों में और फिर नहीं कहूंगा, परन्तु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। २६ उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुम से यह नहीं कहता, कि मैं तुम्हारे लिये पिता से बिनती करूंगा। २७ क्योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति रखता है, इसलिये कि तुम ने मुझ से प्रीति रखी है, और यह भी प्रतीति की है, कि मैं पिता की ओर से निकल आया। २८ मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। २९ उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है, और कोई दृष्टान्त नहीं कहता। ३० अब हम जान गए, कि तू सब कुछ जानता है, और तुम्हें प्रयोजन नहीं, कि कोई तुझ से पूछे, इस से हम प्रतीति करते हैं, कि तू परमेश्वर से निकला है। ३१ यह सुन यीशु ने उन से कहा, क्या तुम अब प्रतीति करते हो? ३२ देखो, वह घड़ी आती है बरन आ पहुँची कि तुम सब

* शून्य तुम्हें फिर देखूंगा।

तित्तर बिनर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तौभी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। ३३ मैं ने ये बातें तुम से इसलिये कही हैं, कि तुम्हें मुझ में शान्ति मिले; संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परन्तु ठाढस बांधो, मैं ने संसार को जीत लिया है ॥

१७

यीशु ने ये बातें कही और अपनी आँखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुँची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। २ क्योंकि तू ने उस को सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तू ने उस को दिया है, उन सब को वह अनन्त जीवन दे। ३ और अनन्त जीवन यह है, कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तू ने भेजा है, जाने। ४ जो काम तू ने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैं ने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ५ और अब, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहिले, मेरी तेरे साथ थी। ६ मैं ने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तू ने जगत में से मुझे दिया : वे तेरे थे और तू ने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने ने तेरे वचन को मान लिया है। ७ अब वे जान गए हैं, कि जो कुछ तू ने मुझ दिया है, सब तेरी ओर से है। ८ क्योंकि जो बातें तू ने मुझे पहुँचा दी, मैं ने उन्हें उनको पहुँचा दिया और उन्होंने ने उन को ग्रहण किया : और सच सच जान लिया है, कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। ९ मैं उन के लिये बिनती करता हूँ, संसार के लिये बिनती नहीं करता हूँ परन्तु उन्हीं के लिये जिन्हें तू ने मुझे दिया

है, क्योंकि वे तेरे हैं। १० और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है; और जो तेरा है, वह मेरा है; और इन से मेरी महिमा प्रगट हुई है। ११ मैं आगे को जगत में न रहूँगा, परन्तु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ; हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तू ने मुझे दिया है, उन की रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो। १२ जब मैं उन के साथ था, तो मैं ने तेरे उस नाम से, जो तू ने मुझे दिया है, उन की रक्षा की, मैं ने उन की चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उन में से कोई नाश न हुआ, इसलिये कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। १३ परन्तु अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनन्द अपने में पूरा पाएँ। १४ मैं ने तेरा वचन उन्हें पढ़ा दिया है, और ससार ने उन से बैर किया, क्योंकि जैसा मैं ससार का नहीं, वैसे ही वे भी ससार के नहीं। १५ मैं यह बिनती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट * से बचाए रख। १६ जैसे मैं ससार का नहीं, वैसे ही वे भी ससार के नहीं। १७ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। १८ जैसे तू ने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैं ने भी उन्हें जगत में भेजा। १९ और उन के लिये मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएँ। २० मैं केवल इन्हीं के लिये बिनती नहीं करता, परन्तु उन के लिये भी जो इन के वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। २१ जैसा तू हे पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिये कि

* या दुर्गाई।

जगत प्रतीति करे, कि तू ही ने मुझे भेजा। २२ और वह महिमा जो तू ने मुझे दी, मैं ने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। २३ मैं उन में और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएँ, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तू ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही उन से प्रेम रखा। २४ हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तू ने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ, वहाँ वे भी मेरे साथ हो कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तू ने मुझे दी है, क्योंकि तू ने जगत की उत्पत्ति से पहिले मुझ से प्रेम रखा। २५ हे धार्मिक पिता, ससार ने मुझे नहीं जाना, परन्तु मैं ने तुझे जाना और इन्हीं ने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। २६ और मैं ने तेरा नाम उन को बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझ को मुझ से था, वह उन में रहे और मैं उन में रहूँ ॥

१८ यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया, वहाँ एक बारी थी, जिस में वह और उसके चले गए। २ और उसका पकड़वानेवाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। ३ तब यहूदा पलटन को और महायाजको और फरीसियों की और से प्यादो को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। ४ तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आनेवाली थी, जानकर निकला, और उन से कहने लगा, किसे ढूँढते हो? ५ उन्होंने ने उस को उत्तर दिया, यीशु नासरी को: यीशु ने उन से कहा, मैं ही हूँ: और उसका पकड़वानेवाला यहूदा भी उन के साथ खड़ा

था। ६ उसके यह कहते ही, कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ७ तब उस ने फिर उन से पूछा, तुम किस को ढूँढते हो। ८ वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ, यदि मुझे ढूँढते हो तो इन्हें जाने दो। ९ यह इसलिये हुआ, कि वह वचन पूरा हो, जो उस ने कहा था कि जिन्हें तू ने मुझे दिया, उन में से मैं ने एक को भी न खोया। १० शमीन पतरस ने तलवार, जो उसके पास थी, खीची और महायाजक के दास पर चलाकर, उसका दहिना कान उड़ा दिया, उस दास का नाम मलखुस था। ११ तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख : जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊँ ?

१२ तब सिपाहियों और उन के सूबेदार और यहूदियों के प्यादो ने यीशु को पकड़कर बान्ध लिया। १३ और पहिले उसे हुआ के पास ले गए क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। १४ यह वही काइफा था, जिस ने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगो के लिये एक पुरुष का मरना अच्छा है ॥

१५ शमीन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए. यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। १६ परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था, बाहर निकला, और द्वारपालिन से कहकर, पतरस को भीतर ले आया। १७ उस दासी ने जो द्वारपालिन थी, पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है ? उस ने कहा, मैं नहीं हूँ।

१८ दास और प्यादे जाड़े के कारण कोएले धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उन के साथ खड़ा ताप रहा था ॥

१९ तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलो के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। २० यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि मैं ने जगत से खोलकर बातें की; मैं ने सभामो और आराधनालय में जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। २१ तू मुझ से क्यों पूछता है ? सुननेवालो से पूछ कि मैं ने उन से क्या कहा ? देख, वे जानते हैं, कि मैं ने क्या क्या कहा ? २२ जब उस ने यह कहा, तो प्यादो में से एक ने जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है। २३ यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं ने बुरा कहा, तो उस बुराई पर गवाही दे, परन्तु यदि भला कहा, तो मुझे क्यों मारता है ? २४ हुआ ने उसे बन्धे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया ॥

२५ शमीन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्हो ने उस से कहा; क्या तू भी उसके चेलो में से है ? उस ने इन्कार करके कहा, मैं नहीं हूँ। २६ महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुम्ब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैं ने तुम्हें उसके साथ बारी में न देखा था ? २७ पतरस फिर इन्कार कर गया और तुरन्त मुर्ग ने बाग दी ॥

२८ और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परन्तु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हों परन्तु फसह खा सकें। २९ तब पीलातुस उन के पास बाहर निकल आया

और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो ? ३० उन्होने उस को उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। ३१ पीलातुस ने उन से कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो : यहूदियों ने उस से कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ३२ यह इसलिये हुआ, कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उस ने यह पता देते हुए कही थी, कि उसका मरना कैसा होगा ॥

३३ तब पीलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर, उस से पूछा, क्यों तू यहूदियों का राजा है ? ३४ यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझ से कही ? ३५ पीलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ ? तेरी ही जाति और महायाजको ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तू ने क्या किया है ? ३६ यीशु ने उत्तर दिया, कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक लड़ते, कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता . परन्तु अब मेरा राज्य यहा का नहीं। ३७ पीलातुस ने उस से कहा, तो क्या तू राजा है ? यीशु ने उत्तर दिया, कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं ने इसलिये जन्म लिया, और इसलिये जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है। ३८ पीलातुस ने उस से कहा, सत्य क्या है ?

और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उन से कहा, मैं तो उस में कुछ दोष नहीं पाता। ३९ पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे

लिये एक व्यक्ति को छोड़ दूँ सो क्या तुम चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा को छोड़ दूँ ? ४० तब उन्होने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परन्तु हमारे लिये बरअब्बा को छोड़ दे; और बरअब्बा डाकू था ॥

१९ इस पर पीलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। २ और सिपाहियों ने काटों का मुकुट गूथकर उसके सिर पर रखा, और उसे बैजनी वस्त्र पहिनाया। ३ और उसके पास आ आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम ! और उसे थप्पड़ भी मारें। ४ तब पीलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। ५ तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहिने हुए बाहर निकला और पीलातुस ने उन से कहा, देखो, यह पुरुष। ६ जब महायाजको और प्यादों ने उसे देखा, तो चिल्लाकर कहा, कि उसे क्रूस पर चढा, क्रूस पर : पीलातुस ने उन से कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढाओ; क्योंकि मैं उस में दोष नहीं पाता। ७ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया, कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है क्योंकि उस ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। ८ जब पीलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। ९ और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहा का है ? परन्तु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। १० पीलातुस ने उस से कहा, मुझ से क्यों नहीं बोलता ? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे

क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। ११ यीशु ने उत्तर दिया, कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता; इसलिये जिस ने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है। १२ इस से पीलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परन्तु यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा, यदि तू इस को छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं; जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का साम्हना करता है। १३ ये बातें सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गम्बता कहलाता है, और न्याय-आसन पर बैठा। १४ यह फसह की तैयारी का दिन था और छोटे घंटे के लगभग था : तब उस ने यहूदियों से कहा, देखो, यही है, तुम्हारा राजा ! १५ परन्तु वे चिल्लाए, कि ले जा ! ले जा ! उसे क्रूस पर चढ़ा : पीलातुस ने उन से कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊँ ? महायाजको ने उत्तर दिया, कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। १६ तब उस ने उसे उन के हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए ॥

१७ तब वे यीशु को ले गए। और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। १८ वहा उन्होंने ने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। १९ और पीलातुस ने एक दोष-पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उस में यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। २० यह दोष-पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा

क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। २१ तब यहूदियों के महायाजकों ने पीलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख परन्तु यह कि "उस ने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ"। २२ पीलातुस ने उत्तर दिया, कि मैं ने जो लिख दिया, वह लिख दिया ॥

२३ जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सिपाही के लिये एक भाग और कुरता भी लिया, परन्तु कुरता बिन सीमन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था : इसलिये उन्होंने ने आपस में कहा, हम इस को न फाड़ें, परन्तु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किस का होगा। २४ यह इसलिये हुआ, कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बाट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली : सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। २५ परन्तु यीशु के क्रूस के पास उस की माता और उस की माता की बहिन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। २६ यीशु ने अपनी माता और उस चले को जिस से वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा; हे नारी *, देख, यह तेरा पुत्र है। २७ तब उस चले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चला, उसे अपने घर ले गया ॥

२८ इस के बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका; इसलिये कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा, मैं पियास हूँ। २९ वहां एक सिरके से भरा

* या महिला।

हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने ने सिरके में भिगोए हुए इस्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुह से लगाया। ३० जब यीशु ने वह सिरका लिया, तो कहा, पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए।

३१ और इसलिये कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पीलातुस से बिनती की कि उन की टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि सब्ब के दिन वे क्रूसों पर न रहे, क्योंकि वह सब्ब का दिन बड़ा दिन था। ३२ सो सिपाहियों ने आकर पहिले की टांगें तोड़ी तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। ३३ परन्तु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उस की टांगें न तोड़ी। ३४ परन्तु सिपाहियों में से एक ने बरछे से उसका पंजर बेधा और उस में से तुरन्त लोहू और पानी निकला। ३५ जिस ने यह देखा, उसी ने गवाही दी है, और उस की गवाही सच्ची है; और वह जानता है, कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ३६ ये बातें इसलिये हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उस की कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। ३७ फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, कि जिसे उन्होंने ने बेधा है, उस पर दृष्टि करेंगे ॥

३८ इन बातों के बाद भरमतियाह के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, (परन्तु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था), पीलातुस से बिनती की, कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊँ, और पीलातुस ने उस की बिनती सुनी, और वह आकर उस की लोथ ले गया। ३९ निकुदेमुस भी जो पहिले यीशु के पास रात को गया था पचास सेर के लगभग मिला हुआ गन्धरस और एलवा ले आया। ४० तब उन्होंने ने

यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगन्ध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। ४१ उस स्थान पर जहा यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी; और उस बारी में एक नई कब्र थी; जिस में कभी कोई न रखा गया था। ४२ सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण, उन्हो ने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी ॥

२० सप्ताह के पहिले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। २ तब वह दौड़ी और शमीन पतरस और उस दूसरे चले के पास जिस से यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं; और हम नहीं जानती, कि उसे कहा रख दिया है। ३ तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। ४ और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परन्तु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहिले पहुंचा। ५ और झुककर कपड़े पड़े देखे: तौभी वह भीतर न गया। ६ तब शमीन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। ७ और वह अंगोछा जो उसके सिर से बन्धा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परन्तु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। ८ तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहिले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। ९ वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे, कि उसे मरे हुएों में से जी उठना होगा। १० तब ये चले अपने घर लौट गए ॥

११ परन्तु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर, १२ दो स्वर्गद्वारों को उज्ज्वल कपड़े पहिने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहा यीशु की लोथ पड़ी थी। १३ उन्हो ने उस से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उस ने उन से कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। १४ यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। १५ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किस को ढूँढती है? उस ने माली समझकर उस से कहा, हे महाराज, यदि तू ने उसे उठा लिया है तो मुझ से कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊँगी। १६ यीशु ने उस से कहा, मरियम! उस ने पीछे फिरकर उस से इब्रानी में कहा, रब्बूनी अर्थात् हे गुरु। १७ यीशु ने उस से कहा, मुझे मत छू* क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परन्तु मेरे भाइयों के पास जाकर उन से कह दे, कि मैं अपने पिता, और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। १८ मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, कि मैं ने प्रभु को देखा और उस ने मुझ से ये बातें कही ॥

१९ उसी दिन जो सप्ताह का पहिला दिन था, सन्ध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चले थे, यहूदियों के डर के मारे बन्द थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २० और यह कहकर उस ने अपना हाथ और अपना

पंजर उन को दिखाए: तब चले प्रभु को देखकर आनन्दित हुए। २१ यीशु ने फिर उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले; जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। २२ यह कहकर उस ने उन पर फूँका और उन से कहा, पवित्र आत्मा लो। २३ जिन के पाप तुम क्षमा करो वे उन के लिये क्षमा किए गए हैं जिन के तुम रखो, वे रखे गए हैं ॥

२४ परन्तु बारहों में से एक व्यक्ति अर्थात् थोमा जो दिदुमुस* कहलाता है, जब यीशु आया तो उन के साथ न था। २५ जब और चले उस से कहने लगे कि हम ने प्रभु को देखा है: तब उस ने उन से कहा, जब तक मैं उस के हाथों में कीलों के छेद न देख लू, और किलों के छेदों में अपनी उगली न डाल लू और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लू, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूँगा ॥

२६ आठ दिन के बाद उस के चले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उन के साथ था, और द्वार बन्द थे, तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २७ तब उस ने थोमा से कहा, अपनी उगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परन्तु विश्वासी हो। २८ यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर! २९ यीशु ने उस से कहा, तू ने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्हो ने बिना देखे विश्वास किया ॥

३० यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के साम्हने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे

* या मत पकड़े रह।

* या त्वाम या जुडुवां।

नहीं गए। ३१ परन्तु ये इसलिये लिखे गए हैं, कि तुम विश्वास करो, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है: और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ ॥

२१ इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रगट किया और इस रीति से प्रगट किया। २ शमीन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। ३ शमीन पतरस ने उन से कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ: उन्हीं ने उस से कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं: सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परन्तु उस रात कुछ न पकड़ा। ४ और होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ; तौमी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। ५ तब यीशु ने उन से कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्हीं ने उत्तर दिया कि नहीं। ६ उस ने उन से कहा, नाव की दहिनी और जाल डालो, तो पाओगे, तब उन्हीं ने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खीच न सके। ७ इसलिये उस चेले ने जिस से यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है: शमीन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। ८ परन्तु और चले डोगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई दो सौ हाथ पर थे। ९ जब किनारे पर उतरे, तो उन्हीं ने कोएले की आग, और उस पर मछली रखी हुई, और रोटी देखी।

१० यीशु ने उन से कहा, जो मछलियां तुम ने अभी पकड़ी हैं, उन में से कुछ लाओ। ११ शमीन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर एक सौ तिर्पन बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। १२ यीशु ने उन से कहा, कि आओ, भोजन करो और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ, कि उस से पूछे, कि तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे, कि हो न हो यह प्रभु ही है। १३ यीशु आया, और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। १४ यह तीसरी बार है, कि यीशु ने मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए ॥

१५ भोजन करने के बाद यीशु ने शमीन पतरस से कहा, हे शमीन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझ से प्रेम रखता है? उस ने उस से कहा, हां, प्रभु, तू तो जानता है, कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ: उस ने उस से कहा, मेरे भेदों को चरा। १६ उस ने फिर दूसरी बार उस से कहा, हे शमीन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझ से प्रेम रखता है? उस ने उन से कहा, हां, प्रभु तू जानता है, कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ: उस ने उस से कहा, मेरी भेदों की रखवाली कर। १७ उस ने तीसरी बार उस से कहा, हे शमीन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझ से प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ, कि उस ने उसे तीसरी बार ऐसा कहा; कि क्या तू मुझ से प्रीति रखता है? और उस से कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है: तू यह जानता है कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ: यीशु ने उस से कहा, मेरी भेदों को चरा। १८ मैं तुझ से सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, तो अपनी कमर

बान्धकर जहां चाहता था, वहां फिरता था; परन्तु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ लम्बे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बान्धकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। १६ उस ने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा; और यह कहकर, उस से कहा, मेरे पीछे हो ले। २० पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा, जिस से यीशु प्रेम रखता था, और जिस ने भोजन के समय उस की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वानेवाला कौन है? २१ उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इस का क्या हाल होगा? २२ यीशु न उस से कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे

आने तक ठहरा रहे, तो तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। २३ इसलिये भाइयों में यह बात फेल गई, कि वह चेला न मरेगा; तौभी यीशु ने उस से यह नहीं कहा, कि यह न मरेगा, परन्तु यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इस से क्या?

२४ यह वही चेला है, जो इन बातों की गवाही देता है और जिस ने इन बातों को लिखा है और हम जानते हैं, कि उस की गवाही सच्ची है।

२५ और भी बहुत से काम हैं, जो यीशु ने किए; यदि वे एक एक करके लिखे जाते, तो मैं समझता हूँ, कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती।

प्रेरितों के कामों का वर्णन

१ हे थियुफिलस, मैं ने पहिली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी, जो यीशु ने आरम्भ में किया और करता और सिखाता रहा। २ उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उस ने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। ३ और उस ने दुःख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और चालीस दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा: और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ४ और उन से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, कि यरूशलेम को न छोड़ो, परन्तु पिता की उस

प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो, जिस की चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो। ५ क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परन्तु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्रात्मा से * बपतिस्मा पाओगे।

६ सो उन्होंने ने इकट्ठे होकर उस से पूछा, कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? ७ उस ने उन से कहा; उन समयों या कालों को जानना, जिन को पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ८ परन्तु जब पवित्र आत्मा तुम पर आया तब तुम सामर्थ्य पाओगे; और

* यू० में।

यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ९ यह कहकर वह उन के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उन की आँखों से छिपा लिया। १० और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहिने हुए उन के पास आ खड़े हुए। ११ और कहने लगे; हे गलीली पुरुषो, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम ने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा ॥

१२ तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। १३ और जब वहाँ पहुँचे तो वे उस झटारी पर गए, जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अन्धियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमीन जेलेतेस और याकूब का पुत्र * यहूदा रहते थे। १४ ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे ॥

१५ और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो एक सौ बीस व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। १६ हे भाइयो, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय

में जो यीशु के पकड़नेवालों का भ्रगुवा था, पहिले से कही थी। १७ क्योंकि वह तो हम में गिना गया, और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। १८ (उस ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया; और सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया, और उस की सब अन्तड़ियाँ निकल पड़ीं। १९ और इस बात को यरूशलेम के सब रहनेवाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उन की भाषा में हकलदमा अर्थात् लोह का खेत पड़ गया।) २० क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, कि उसका घर उजड़ जाए, और उस में कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। २१ इसलिये जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात् यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। २२ उचित है कि उन में से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। २३ तब उन्हीं ने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को, जो बर-सबा कहलाता है, जिस का उपनाम यूसतुस है, दूसरा मत्तियाह को। २४ और यह कहकर प्रार्थना की; कि हे प्रभु, तू जो सब के मन जानता है, यह प्रगट कर कि इन दोनों में से तू ने किस को चुना है। २५ कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़ कर अपने स्थान को गया। २६ तब उन्हीं ने उन के बारे में चिट्ठियाँ डालीं, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, सो वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ गिना गया ॥

* या भाई।

२ जब पित्तुकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। २ और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उस से सारा धर जहा वे बैठे थे, गूज गया। ३ और उन्हें आग की सी जीर्भे फटती हुई दिखाई दी; और उन में से हर एक पर आ ठहरा। ४ और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे ॥

५ और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। ६ जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ७ और वे सब चकित और अचम्भित होकर कहने लगे; देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? ८ तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? ९ हम जो पारथी और मेदी और एलामी लोग और मिस्रपुतामिया और यहूदिया और कप्पडूकिया और पुन्तुस और आसिया। १० और फूगिया और पमफूलिया और मिसर और लिबूआ देश जो कुरेने के आस पास है, इन सब देशों के रहनेवाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी क्या यहूदी मत धारण करनेवाले, ज़ेती और अरबी भी हैं। ११ परन्तु अपनी अपनी भाषा में उन से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। १२ और वे सब चकित हुए, और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है?

१३ परन्तु औरों ने ठुठा करके कहा, कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं ॥

१४ पतरस उन ग्यारह के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, कि हे यहूदियो, और हे यरूशलेम के सब रहनेवालो, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। १५ जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। १६ परन्तु यह वह बात है, जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। १७ कि परमेश्वर कहता है, कि अन्त के दिनों में ऐसा होगा, कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उडेलूंगा* और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यदाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिए स्वप्न देखेंगे। १८ बरन में अपने दासो और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उडेलूंगा,* और वे भविष्यदाणी करेंगे। १९ और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात् लोह, और आग और धूँए का बादल दिखाऊंगा। २० प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहिले सूर्य अंधेरा और चान्द लोह हो जाएगा। २१ और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वही उद्धार पाएगा। २२ हे इस्त्राएलियो, ये बातें सुनो: कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिस का परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रगट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए जिसे तुम आप ही जानते

* या बहाऊंगा।

हो। २३ उसी को, जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुम ने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। २४ परन्तु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बन्धनों* से छुड़ाकर जिलाया क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वग में रहता। २५ क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने साम्हने देखता रहा क्योंकि वह मेरी दहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊ। २६ इसी कारण मेरा मन आनन्द हुआ, और मेरी जीभ मगन हुई, बरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। २७ क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा; और न अपने पवित्र जन को सडने ही देगा। २८ तू ने मुझे जीवन का मार्ग बताया है; तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनन्द से भर देगा। २९ हे भाइयो, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुम से साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उस की कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान है। ३० सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझ से शपथ खाई है, कि मैं तेरे वश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। ३१ उस ने होनहार को पहिले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यद्वक्ता की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, और न उस की देह सडने पाई। ३२ इसी यीशु को परमेश्वर ने

जिलाया, जिस के हम सब गवाह हैं। ३३ इस प्रकार परमेश्वर के दहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिस की प्रतिज्ञा की गई थी, उस ने यह उंडेल* दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। ३४ क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढा; परन्तु वह आप कहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, ३५ मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों तले की चौकी न कर दू। ३६ सो अब इस्लाम का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ॥

३७ तब सुननेवालों के हृदय छिद्र गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, कि हे भाइयो, हम क्या करें? ३८ पतरस ने उन से कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ३९ क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम, और तुम्हारी सन्तानों, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिये भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ४० उस ने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेडी जाति † से बचाओ। ४१ सो जिन्हों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्हों ने बपतिस्मा लिया; और उसी दिन तीन हजार मनुष्यों के लगभग उन में मिल गए। ४२ और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और

* यू० की पीठाओं।

* या बहा।

† यू० पीदी।

संगति रखने में और रोटी तोड़ने * में और प्रार्थना करने में लीलीन रहे ॥

४३ और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रगट होते थे। ४४ और वे सब विश्वास करनेवाले इकट्ठे रहते थे, और उन की सब वस्तुएं साभे की थी। ४५ और वे अपनी अपनी सम्पत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिस की आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ४६ और वे प्रति दिन एक मन होकर मन्दिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते * हुए आनन्द और मन की सीधार्थ से भोजन किया करते थे। ४७ और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उन से प्रसन्न थे : और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रति दिन उन में मिला देता था ॥

३ पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मन्दिर में जा रहे थे। २ और लोग एक जन्म के लगडे को ला रहे थे, जिस को वे प्रति दिन मन्दिर के उस द्वार पर जो सुन्दर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मन्दिर में जाने-वालों से भीख मांगे। ३ जब उस ने पतरस और यूहन्ना को मन्दिर में जाते देखा, तो उन से भीख मांगी। ४ पतरस ने यूहन्ना के साथ उस की ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ५ सो वह उन से कुछ पाने की आशा रखते हुए उन की ओर ताकने लगा। ६ तब पतरस ने कहा, चान्दी और सोना तो मेरे पास है नहीं; परन्तु जो मेरे पास है, वह

* मत्ती २६ : २६, और इस पुस्तक के २० ब्र० ७ पद को देखो।

तुम्हें देता हूं : यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ७ और उस ने उसका दहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया : और तुरन्त उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। ८ और वह उछलकर खड़ा हो गया, और चलने फिरने लगा और चलता ; और कूदता, और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उन के साथ मन्दिर में गया। ९ सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर। १० उस को पहचान लिया कि यह वही है, जो मन्दिर के सुन्दर फाटक पर बैठ कर भीख मागा करता था; और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी; वे बहुत अचम्भित और चकित हुए ॥

११ जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत अचम्भा करते हुए उस ओसारे में जो सुलमान का कहलाता है, उन के पास दौड़े आए। १२ यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा; हे इस्लामलियो, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचम्भा करते हो, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलता-फिरता कर दिया। १३ इब्राहीम और इसहाक और प्राकूब के परमेश्वर, हमारे बापदादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुम ने पकड़वा दिया, और जब पीलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुम ने उसके साम्हने उसका इन्कार किया। १४ तुम ने उस पवित्र और धर्मी का इन्कार किया, और विनती की, कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिये छोड़ दिया जाए। १५ और तुम ने जीवन के कर्ता को मा

डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया; और इस बात के हम गवाह हैं। १६ और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है; और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इस को तुम सब के साम्हने बिलकुल भला चंगा कर दिया है। १७ और अब हे भाइयो, मैं जानता हूँ कि यह काम तुम ने अज्ञानता से किया, और वैसे ही तुम्हारे सरदारो ने भी किया। १८ परन्तु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्-बक्ताओं के मुख से पहिले ही बताया था, कि उसका मसीह दुःख उठाएगा; उन्हें उस ने इस रीति से पूरी किया। १९ इसलिये, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिस से प्रभु के सन्मुख से विश्रान्ति के दिन आए। २० और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिये पहिले ही से ठहराया गया है। २१ अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे * जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिस की चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्-बक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। २२ जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयो मे से तुम्हारे लिये मुझ सा एक भविष्यद्बक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुम से कहे, उस की सुनना। २३ परन्तु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्बक्ता की न सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। २४ और सामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक

* यू० स्वर्ग उसे उस समय तक लिख रहे।

जितने भविष्यद्बक्ताओं ने बात कहीं उन सब ने इन दिनों का सन्देश दिया है। २५ तुम भविष्यद्बक्ताओं की सन्तान और उस वाचा के भागी हो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बापदादो से बान्धी, जब उस ने इब्राहीम से कहा, कि तेरे वश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। २६ परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहिले तुम्हारे पास भेजा, कि तुम मे से हर एक को उस की बुराइयों से फेरकर आशीष दे ॥

४ जब वे लोगों से यह कह रहे थे, तो याजक और मन्दिर के सरदार और सद्की उन पर चढ़ आए। २ क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर * मरे हुओं के जी उठने † का प्रचार करते थे। ३ और उन्हो ने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि सन्ध्या हो गई थी। ४ परन्तु वचन के सुननेवालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उन की गिनती पाच हजार पुरुषों के लगभग हो गई ॥

५ दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उन के सरदार और पुरनिये और शास्त्री। ६ और महायाजक हल्ला और कैफा और यूहन्ना और सिकन्दर और जितने महा-याजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। ७ और उन्हें बीच मे खड़ा करके पूछने लगे, कि तुम ने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? ८ तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन से कहा। ९ हे लोगों के सरदारो और पुरनियो, इस दुर्बल

* यू० में।

† या श्रुतकोत्थान।

मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम से उसके विषय में पूछ पाछ की जाती है, कि वह क्योंकर अच्छा हुआ। १० तो तुम सब और सारे इस्त्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया, और परमेश्वर ने गरे हुएों में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे साम्हने भला चंगा खड़ा है। ११ यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। १२ और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं; क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिस के द्वारा हम उद्धार पा सकें ॥

१३ जब उन्होंने ने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचम्भा किया; फिर उन को पहचाना, कि ये यीशु के साथ रहे हैं। १४ और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उन के साथ खड़े देखकर, वे विरोध में कुछ न कह सके। १५ परन्तु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर, वे आपस में विचार करने लगे, १६ कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहनेवालों पर प्रगट है, कि इन के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है; और हम उसका इन्कार नहीं कर सकते। १७ परन्तु इसलिये कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएँ, कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। १८ तब उन्हें बुलाया और चित्तौनी देकर यह कहा, कि यीशु के नाम से कुछ भी न

बोलना और न सिलखाना। १९ परन्तु पतरस और यूहन्ना ने उन को उत्तर दिया, कि तुम ही न्याय करो, कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें। २० क्योंकि यह तो हम से हो नहीं सकता, कि जो हम ने देखा और सुना है, वह न कहें। २१ तब उन्होंने ने उन को और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दगड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिये कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करने थे। २२ क्योंकि वह मनुष्य, जिस पर यह चगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, चालीस वर्ष से अधिक आयु का था ॥

२३ वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उन से कहा था, उनको सुना दिया। २४ यह सुनकर, उन्हो ने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उन में है बनाया। २५ तू ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया? और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? २६ प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए, और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। २७ क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तू ने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पीलातुस भी अन्य जातियों और इस्त्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। २८ कि जो कुछ

पहिले से तेरी सामर्थ्य * और मति से ठहरा था वही करें। २६ अब, हे प्रभु, उन की धमकियों को देख; और अपने दासों को यह बरदान दे, कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाएं। ३० और चंगा करने के लिये तू अपना हाथ बढ़ा; कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ३१ जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे झकट्टे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे ॥

३२ और विश्वास करनेवालो की मण्डली एक चित्त और एक मन के थे यहां तक कि कोई भी अपनी सम्पत्ति अपनी नहीं कहता था, परन्तु सब कुछ साभे का था। ३३ और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ३४ और उन में कोई भी दृष्टि न था; क्योंकि जिन के पास भूमि या घर थे, वे उन को बेच बेचकर, बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। ३५ और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे ॥

३६ और यूसुफ नाम, कुसुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बर-नबा अर्थात् (शान्ति का पुत्र) रखा था। ३७ उस की कुछ भूमि थी, जिसे उस ने बेचा, और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए ॥

५ और हनन्याह नाम एक मनुष्य, और उस की पत्नी सफीरा ने कुछ

भूमि बेची। २ और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा; और यह बात उस की पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। ३ परन्तु पतरस ने कहा; हे हनन्याह ! शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े ? ४ जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी ? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी ? तू ने यह बात अपने मन में क्यों विचारी ? तू मनुष्यों से नहीं, परन्तु परमेश्वर से झूठ बोला। ५ ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा, और प्राण छोड़ दिए; और सब सुननेवालों पर बड़ा भय छा गया। ६ फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया ॥

७ लगभग तीन घंटों के बाद उस की पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। ८ तब पतरस ने उस से कहा; मुझे बता क्या तुम ने वह भूमि इतने ही में बेची थी ? उस ने कहा; हां, इतन ही में। ९ पतरस ने उस से कहा; यह क्या बात है, कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिये एका किया ? देख, तेरे पति के गाड़नेवाले द्वार ही पर खड़े हैं, और तुम्हें भी बाहर ले जाएंगे। १० तब वह तुरन्त उसके पांवों पर गिर पड़ी, और प्राण छोड़ दिए; और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया, और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। ११ और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुननेवालों पर, बड़ा भय छा गया ॥

* यू० तेरा हाथ।

१२ और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, (और वे सब एक चित्त होकर सुलैमान के आसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। १३ परन्तु औरों में से किसी को यह हियाब न होता था, कि उन में जा मिले; तभी लोग उन की बड़ाई करते थे। १४ और विश्वास करने-वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रिया प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे।) १५ यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, कि जब पतरस आए, तो उस की छाया ही उन में से किसी पर पड़ जाए। १६ और यरूशलेम के आस पास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुआ को ला लाकर, इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे।।

१७ तब महायाजक और उसके सब साथी जो सद्कियों के पथ के थे, डाह से भर कर उठे। १८ और प्रेरितों को पकड़कर बन्दीगृह में बन्द कर दिया। १९ परन्तु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बन्दीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। २० कि जाओ, मन्दिर में खड़े होकर, इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। २१ वे यह सुनकर भोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेश देने लगे: परन्तु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया, और बन्दीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। २२ परन्तु प्यादो ने वहां पहुंचकर उन्हें बन्दीगृह में न पाया, और

लौटकर संदेश दिया। २३ कि हम ने बन्दीगृह को बड़ी चौकसी से बन्द किया हुआ, और पहरेवालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया; परन्तु जब खोला, तो भीतर कोई न मिला। २४ जब मन्दिर के सरदार और महायाजको ने ये बातें सुनीं, तो उन के विषय में भारी चिन्ता में पड़ गए कि यह क्या हुआ चाहता है? २५ इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, कि देखो, जिन्हें तुम ने बन्दीगृह में बन्द रखा था, वे मनुष्य मन्दिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। २६ तब सरदार, प्यादा के साथ जाकर, उन्हें ले आया, परन्तु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगो से डरते थे, कि हमें पत्थरवाह न करें। २७ उन्होंने ने उन्हें फिर लाकर महासभा के साम्हने खड़ा कर दिया: और महायाजक ने उन से पूछा। २८ क्या हम ने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी, कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तभी देखो, तुम ने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लोह हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। २९ तब पतरस और, और प्रेरितों ने उत्तर दिया, कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। ३० हमारे बापदादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुम ने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। ३१ उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उदारक ठहराकर, अपने दहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ३२ और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर

ने उन्हें दिया है, जो उस की आज्ञा मानते हैं ॥

३३ यह सुनकर वे जल गए,* और उन्हें मार डालना चाहा। ३४ परन्तु गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिये बाहर कर देने की आज्ञा दी। ३५ तब उस ने कहा, हे इस्राएलियो, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो, सोच समझ के करना। ३६ क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा, कि मैं भी कुछ हूँ; और कोई चार सौ मनुष्य उसके साथ हो लिए, परन्तु वह मारा गया; और जितने लोग उसे मानते थे, सब तित्तर बित्तर हुए और मिट गए। ३७ उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए: वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे, सब तित्तर बित्तर हो गए। ३८ इसलिये अब मैं तुम से कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उन से कुछ काम न रखो; क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। ३९ परन्तु यदि परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे; कही ऐसा न हो, कि तुम परमेश्वर से भी लड़नेवाले ठहरो। ४० तब उन्होंने उस की बात मान ली; और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया; और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया, कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। ४१ वे इस बात से आनन्दित

होकर महासभा के साम्हने से चले गए, कि हम उसके नाम के लिये निरादर होने के योग्य तो ठहरे। ४२ और प्रति दिन मन्दिर में और घर घर में उपदेश करने, और इस बात का सुसमाचार सुनाने से, कि यीशु ही मसीह हैं न रुके ॥

६ उन दिनों में जब चले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलनेवाले इन्नानियों पर कुड़कुड़ाने लगे, कि प्रति दिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। २ तब उन बारहों ने चेलों की मण्डली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने-पिलाने की सेवा में रहें। ३ इसलिये, हे भाइयो, अपने में से सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों, चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ४ परन्तु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ५ यह बात सारी मण्डली को अच्छी लगी, और उन्होंने ने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखरुस और नीकानोर और तीमोन और परमिनास और अन्ताकीवाला नीकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। ६ और इन्हें प्रेरितों के साम्हने खड़ा किया और उन्होंने ने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे ॥

७ और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई; और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के आधीन हो गया ॥

* यू० फट गए।

८ स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े भद्रभुक्त काम और चिन्ह दिखाया करता था। ९ तब उस आराधनालय में से जो लिबिरतीनो की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकन्दरिया और किलिकिया और एशीया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद-विवाद करने लगे। १० परन्तु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिस से वह बातें करता था, वे साम्हना न कर सके। ११ इस पर उन्होंने ने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, कि हम ने इस को मूसा और परमेश्वर के विरोध में निन्दा की बातें कहते सुना है। १२ और लोगो और प्राचीनो और शास्त्रियो को भड़काकर चढ आए और उसे पकड़कर महासभा मे ले आए। १३ और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्हो ने कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नही छोडता। १४ क्योकि हम ने उसे यह कहते सुना है, कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा, और उन रीतो को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सीपा है। १५ तब सब लोगो ने जो सभा मे बैठे थे, उस की ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा ॥

७ तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यो ही है? २ उस ने कहा; हे भाइयो, और पितरो सुनो, हमारा पिता इब्राहीम हारान मे बसने से पहिले जब मिसुपुतामिया मे था; तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ३ और उस से कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुम्ब से निकलकर उस देश मे चला जा, जिसे

में तुझे दिखाऊंगा। ४ तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा; और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश मे लाकर बसाया जिस में अब तुम बसते हो। ५ और उसको कुछ मीरास बरन पौर रखने भर की भी उस मे जगह न दी, परन्तु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश, तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा; यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। ६ और परमेश्वर ने यों कहा; कि तेरी सन्तान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे; और वे उन्हें दास बनाएंगे, और चार सौ वर्ष तक दुख देगे। ७ फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे, उस को मैं दण्ड दूंगा; और इस के बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। ८ और उस ने उस से खतने की वाचा बान्धी, और इसी दशा में इसहाक उस से उत्पन्न हुआ; और आठवें दिन उसका खतना किया गया; और इसहाक से याकूब और याकूब से बारह कुलपति उत्पन्न हुए। ९ और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिसर देश जानेवालो के हाथ बेचा, परन्तु परमेश्वर उसके साथ था। १० और उसे उसके सब क्लेशों से छुडाकर मिसर के राजा फिरोन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उस ने उसे मिसर पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। ११ तब मिसर और कनान के सारे देश में अकाल पडा; जिस से भारी क्लेश हुआ, और हमारे बापदादो को अन्न नही मिलता था। १२ परन्तु याकूब ने यह सुनकर, कि मिसर में अनाज है, हमारे बापदादों को पहिली बार भेजा। १३ और दूसरी

बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रगट हो गया, और यूसुफ की जाति फिरान को मालूम हो गई। १४ तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को, जो पछत्तर व्यक्ति थे, बुला भेजा। १५ तब याकूब मिसर में गया; और वहा वह और हमारे बापदादे मर गए। १६ और वे शिकिम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए, जिसे इब्राहीम ने चान्दी देकर शिकिम में हमोर की सन्तान से भोल लिया था। १७ परन्तु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, जो परमेश्वर ने इब्राहीम से की थी, तो मिसर में वे लोग बढ गए; और बहुत हो गए। १८ जब तक कि मिसर मे दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ को नही जानता था। १९ उस ने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बापदादो के साथ यहा तक कुव्योहार किया, कि उन्हें अपने बालको को फेंक देना पडा कि वे जीवित न रहें। २० उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर था; और वह तीन महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। २१ परन्तु जब फेंक दिया गया तो फिरान की बेटो ने उसे उठा लिया, और अपना पुत्र करके पाला। २२ और मूसा को मिसरियो की सारी विद्या पढाई गई, और वह बातो और कामो में सामर्थी था। २३ जब वह चालीस वर्ष का हुआ, तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्त्राएली भाइयो से भेंट करूं। २४ और उस ने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर, उसे बचाया, और मिसरी को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। २५ उस ने सोचा, कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे

हाथों से उन का उद्धार करेगा, परन्तु उन्होंने ने न समझा। २६ दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहां आ निकला* ; और यह कहके उन्हें मेल करने के लिये समझाया, कि हे पुरुषो, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? २७ परन्तु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उस ने उसे यह कहकर हटा दिया, कि तुम्हें किस ने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? २८ क्या जिस रीति से तू ने कल मिसरी को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? २९ यह बात सुनकर. मूसा भागा; और मिद्यान देश मे परदेशी होकर रहने लगा : और वहा उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। ३० जब पूरे चालीस वर्ष बीत गए, तो एक स्वर्ग दूत ने सीने पहाड़ के जगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला मे दर्शन दिया। ३१ मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचम्भा किया, और जब देखने के लिये पास गया, तो प्रभु का यह शब्द हुआ। ३२ कि मैं तेरे बापदादों, इब्राहीम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं : तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। ३३ तब प्रभु ने उस से कहा; अपने पावो से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है, वह पवित्र भूमि है। ३४ मैं ने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिसर में है, देखी ह; और उन की आह और उन का रोना सुन लिया है; इसलिये उन्हें छुड़ाने के लिये उतरा हूँ। अब आ, मैं तुम्हें मिसर में

* यू० उन्हें दिखाई दिया।

भेजूगा। ३५ जिस मूसा को उन्हो ने यह कहकर नकारा था कि तुम्हे किस ने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है; उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने-वाला ठहराकर, उस स्वर्ण दूत के द्वारा जिस ने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। ३६ यही व्यक्ति मिसर और लाल समुद्र और जंगल में चालीस वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। ३७ यह वही मूसा है, जिम ने इस्राएलियों से कहा; कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिये मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। ३८ यह वही है, जिस ने जंगल में कलीसिया के बीच उम स्वर्णदूत के साथ सीने पहाड़ पर उस से बातें की, और हमारे बापदादो के साथ था: उसी को जीवित वचन मिले, कि हम तक पहुंचाए। ३९ परन्तु हमारे बापदादो ने उस की मानना न चाहा, बरन उसे हटाकर अपने मन मिसर की ओर फेरे। ४० और हारून से कहा, हमारे लिये ऐसे देवता बना, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिसर देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ? ४१ उन दिनों में उन्हो ने एक बछड़ा बनाकर, उस की मूरत के आगे बलि चढ़ाया; और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। ४२ सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया, कि आकाश-गण पूजे; जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, कि हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में चालीस वर्ष तक पशुबलि और अन्नबलि मुझ ही को चढाते रहे? ४३ और तुम भोलेक के तम्बू और रिफान देवता के तारे को

लिए फिरते थे; अर्थात् उन आकारों को जिन्हें तुम ने दण्डबत करने के लिये बनाया था: सो मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। ४४ साक्षी का तम्बू जंगल में हमारे बापदादों के बीच में था; जैसा उस ने ठहराया, जिस ने मूसा से कहा; कि जो आकर तू ने देखा है, उसके अनुसार इसे बना। ४५ उसी तम्बू को हमारे बापदादे पूर्वकाल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए; जिस समय कि उन्होंने ने उन अन्वजातियों का अधिकार पाया, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बापदादो के साम्हने से निकाल दिया; और वह दाऊद के समय तक रहा। ४६ उस पर परमेश्वर ने अन्नग्रह किया, सो उस ने बिनती की, कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिये निवास स्थान ठहराऊ। ४७ परन्तु सुलैमान ने उसके लिये घर बनाया। ४८ परन्तु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। ४९ कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पावो तले की पीढी है, मेरे लिये तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ५० क्या मे सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाईं नहीं?

हे हठीले, और मन और कान के खतनारहित लोगो, तुम सदा पवित्र आत्मा का साम्हना करते हो। ५१ जैसा तुम्हारे बापदादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। ५२ भविष्यद्वक्ताओं में से किस को तुम्हारे बापदादों ने नहीं सताया, और उन्होंने ने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से सन्देश देनेवालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वानेवाले

और मार डालनेवाले हुए। ५३ तुम ने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परन्तु उसका पालन नहीं किया।

५४ ये बातें सुनकर वे जल गए * और उस पर दांत पीसने लगे। ५५ परन्तु उस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दहिनी ओर खड़ा देखकर। ५६ कहा; देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ५७ तब उन्हो ने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बन्द कर लिए, और एक चित्त होकर उस पर झपटे। ५८ और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांवों के पास उतार रखे। ५९ और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा; कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ६० फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया: और शाऊल उसके बध में सहमत था ॥

८. उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तित्तर बित्तर हो गए। २ और भक्तों ने स्तिफनुस को कन्न में रखा; और उसके लिये बड़ा विलाप किया। ३ शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था; और घर घर घुसकर पुरुषों और

स्त्रियों को घसीट घसीटकर बन्दीगृह में डालता था ॥

४ जो तित्तर बित्तर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ५ और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगो में मसीह का प्रचार करने लगा। ६ और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगो ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर, एक चित्त होकर मन लगाया। ७ क्योंकि बहुतो में से अशुद्ध आत्माएँ बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और बहुत से भोलो के मारे हुए और लगडें भी अच्छे किए गए। ८ और उस नगर में बड़ा आनन्द हुआ ॥

९ इस से पहिले उस नगर में शमीन नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके सामरिया के लोगो को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। १० और सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे, कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है, जो महान कहलाती है। ११ उस ने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसी लिये वे उस को बहुत मानते थे। १२ परन्तु जब उन्होंने ने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग, क्या पुरुष, क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। १३ तब शमीन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था ॥

१४ जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और

* यू० मन में फट गए।

यूहन्ना को उन के पास भेजा। १५ और उन्होंने ने जाकर उन के लिये प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। १६ क्योंकि वह अब तक उन में से किसी पर न उतरा था, उन्हो ने तो केवल प्रभु यीशु के स्नान में बपतिस्मा लिया था। १७ तब उन्होंने ने उन पर हाथ रखे और उन्हो ने पवित्र आत्मा पाया। १८ जब शमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उन के पास रुपये लाकर कहा। १९ कि यह अधिकार मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखू, वह पवित्र आत्मा पाए। २० पतरस ने उस से कहा; तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तू ने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। २१ इस बात में न तेरा हिस्सा है, न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। २२ इसलिये अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, सम्भव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। २३ क्योंकि मैं देखता हूँ, कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बन्धन में पड़ा है। २४ शमोन ने उत्तर दिया, कि तुम मेरे लिये प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुम ने कहीं, उन में से कोई मुझ पर न आ पड़े।

२५ सो वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर, यरूशलेम को लौट गए, और सामरियों के बहुत गावों में सुसमाचार सुनाते गए।

२६ फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा; उठकर दक्खिन की ओर उस मार्ग पर जा, जो यरूशलेम से अज्जाह को जाता है, और जंगल में है। २७ वह उठकर चल दिया, और देखो,

कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कन्दाके का मन्त्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। २८ और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। २९ तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। ३० फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, और पूछा, कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ३१ उस ने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्योंकर समझू? और उस ने फिलिप्पुस से बिनती की, कि चढ़कर मेरे पास बैठ। ३२ पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, वह यह था; कि वह भेड़ काँ नाई बध होने को पहुँचाया गया, और जैसा मेम्ना अपने ऊन कतरनेवालों के साम्हने चुपचाप रहता है, वैसे ही उस ने भी अपना मुह न खोला। ३३ उस की दीनता मे उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगो* का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। ३४ इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा; मे तुझ से बिनती करता हू, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किस के विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। ३५ तब फिलिप्पुस ने अपना मुह खोला, और इसी शास्त्र से आरम्भ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। ३६ मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, तब

* या पीडी।

खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। ३७ फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है : उस ने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हू कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ३८ तब उस ने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उस ने उसे बपतिस्मा दिया। ३९ जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनन्द करता हुआ अपने मार्ग चला गया। ४० और फिलिप्पुस अशदोद मे आ निकला, और जब तक कैसरीया मे न पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया ॥

६ और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। २ और उस से दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठिया मांगी, कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बान्धकर यरूशलेम में ले आए। ३ परन्तु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ४ और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ५ उस ने पूछा; हे प्रभु, तू कौन है? उस ने कहा; मैं यीशु हूँ; जिसे तू सताता है। ६ परन्तु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है, वह तुझ से कहा जाएगा। ७ जो मनुष्य उसके साथ थे,

वे चुपचाप रह गए; क्योंकि शब्द तो सुनते थे, परन्तु किसी को देखते न थे। ८ तब शाऊल भूमि पर से उठा, परन्तु जब आंखें खोलीं तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़के दमिश्क में ले गए। ९ और वह तीन दिन तक न देख सका, और न खाया और न पीया ॥

१० दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था, उस से प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह! उस ने कहा, हा, प्रभु। ११ तब प्रभु ने उस से कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख, वह प्रार्थना कर रहा है। १२ और उस ने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते, और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है; ताकि फिर से दृष्टि पाए। १३ हनन्याह ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मैं ने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है, कि इस ने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। १४ और यहां भी इस को महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है, कि जो लोग तेरा नाम लेने हैं, उन सब को बान्ध ले। १५ परन्तु प्रभु ने उस से कहा, कि तू चला जा; क्योंकि यह, तो अन्यायियों और राजाओं, और इस्त्राएलियों के साम्हने मेरा नाम प्रगट करने के लिये मेरा चुना हुआ पात्र है। १६ और मैं उसे बताऊंगा, कि मेरे नाम के लिये उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। १७ तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु, अर्थात् यीशु, जो उस रास्ते में, जिस से तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा

है, कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। १८ और तुरन्त उस की आंखों से छिलके से गिरे, और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया; फिर भोजन करके बल पाया ॥

१९ और वह कई दिन उन चेलो के साथ रहा जो दमिश्क में थे। २० और वह तुरन्त आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा, कि वह परमेश्वर का पुत्र है। २१ और सब सुननेवाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहां भी इसी लिये आया था, कि उन्हें बान्धकर महायाजको के पाम ले जाए? २२ परन्तु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहनेवाले यहूदियों का मुंह बन्द करता रहा ॥

२३ जब बहुत दिन बीत गए, तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली। २४ परन्तु उन की युक्ति शाऊल को मालूम हो गई; वे तो उसके मार डालने के लिये रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे। २५ परन्तु रात को उसके चेलो ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया, और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया ॥

२६ यरूशलेम में पहुंचकर उस ने चेलो के साथ मिल जाने का उपाय किया; परन्तु सब उस से डरते थे, क्योंकि उन की प्रतीति न होता था, कि वह भी चेला है। २७ परन्तु बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उन से कहा, कि इस ने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उस ने इस से बातें कीं; फिर

दमिश्क में इस ने कैसे हियाब से यीशु के नाम से प्रचार किया। २८ वह उन के साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। २९ और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था; और यूनानी भाषा बोलनेवाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद-विवाद करता था; परन्तु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। ३० यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए, और तरसुस को भेज दिया ॥

३१ सो सारे यहूदिया, और गलील, और मामरिया में कलीसिया को चैन मिला, और उसकी उन्नति होती गई; और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शान्ति में चलती और बढ़ती जाती थी ॥

३२ और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ, उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा, जो लुदा में रहते थे। ३३ वहां उसे ऐनियास नाम भोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो आठ वर्ष से खाट पर पड़ा था। ३४ पतरस ने उस से कहा; हे ऐनियास! यीशु मसीह तुझे चंगा करता है; उठ, अपना, बिछीना बिछा, तब वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ। ३५ और लुदा और शारोन के सब रहने-वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे ॥

३६ याफा में तबीता अर्थात् दोरकास* नाम एक विश्वासिनी रहती थी, वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। ३७ उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई; और उन्होंने ने उसे नहलाकर घटारी पर रख दिया। ३८ और इस-लिये कि लुदा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है दो

* अर्थात् खिरनी।

मनुष्य भेजकर उस से बिनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। ३६ तब पतरस उठकर उन के साथ हो लिया, और जब पहुंच गया, तो वे उसे उस घटारी पर ले गए; और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं: और जो कुरते और कपड़े दोरकास ने उन के साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने लगीं। ४० तब पतरस ने सब को बाहर कर दिया, और घुटने टेककर प्रार्थना की; और लोथ की ओर देखकर कहा; हे तबीता उठ: तब उस ने अपनी आंखें खोल दी; और पतरस को देखकर उठ बैठी। ४१ उस ने हाथ देकर उसे उठाया, और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। ४२ यह बात सारे याफा में फैल गई: और बहुतेरो ने प्रभु पर विश्वास किया। ४३ और पतरस याफा में शमीन नाम किसी चमड़े के धन्धा करनेवाले के यहां बहुत दिन तक रहा।

१० कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। २ वह भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों * को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ३ उस ने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है; कि हे कुरनेलियुस। ४ उस ने उसे ध्यान से देखा; और डरकर कहा; हे प्रभु क्या है? उस ने उस से कहा, तेरी

* यू० समाज या प्रजा।

प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिये परमेश्वर के साम्हने पहुंचे हैं। ५ और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमीन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। ६ वह शमीन चमड़े के धन्धा करनेवाले के यहां पाहुन है, जिस का घर समुद्र के किनारे है। ७ जब वह स्वर्गदूत जिस ने उस से बातें की थी चला गया, तो उस ने दो सेवक, और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उन में से एक भक्त सिपाही को बुलाया। ८ और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा।

९ दूसरे दिन, जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दो पहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। १० और उसे भूख लगी, और कुछ खाना चाहता था; परन्तु जब वे तैयार कर रहे थे, तो वह बेसुध हो गया। ११ और उस ने देखा, कि आकाश खुल गया; और एक पात्र, बड़ी चादर के समान चारों कोनो से लटकता हुआ, पृथ्वी की ओर उतर रहा है। १२ जिस में पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रंगनेवाले जन्तु और आकाश के पक्षी थे। १३ और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, कि हे पतरस उठ, मार और खा। १४ परन्तु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं; क्योंकि मैं ने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। १५ फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। १६ तीन बार ऐसा ही हुआ; तब तुरन्त वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया।

१७ जब पतरस अपने मन में दुबधा कर रहा था, कि यह दर्शन जो मैं ने

देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमीन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए। १८ और पुकारकर पूछने लगे, क्या शमीन जो पतरस कहलाता है, यहीं पाहुन है? १९ पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, कि आत्मा ने उस से कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं। २० सो उठकर नीचे जा, और बेखटके उन के साथ हो ले; क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। २१ तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा; देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो, वह मैं ही हूँ; तुम्हारे आने का क्या कारण है? २२ उन्होंने ने कहा; कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरनेवाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उस ने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चितावनी पाई है, कि तुम्हें अपने घर बुलाकर तुम्ह से वचन सुने। २३ तब उस ने उन्हें भीतर बुलाकर उन की पहचान की ॥

और दूसरे दिन, वह उनके साथ गया; और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। २४ दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुँचे, और कुरनेलियुस अपने कुटुम्बियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उन की बाट जोह रहा था। २५ जब पतरस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियुस ने उस से भेंट की, और पाँवों पड़के प्रणाम किया। २६ परन्तु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। २७ और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया, और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर। २८ उन से कहा, तुम जानते हो, कि अश्वजाति की संगति करना या उसके

यहां जाना यहूदी के लिये अधर्म है, परन्तु परमेश्वर ने मुझे बताया है, कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अपविष्ट न कहू। २९ इसी लिये मैं जब बुलाया गया; तो बिना कुछ कहे चला आया: अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिये बुलाया गया है? ३० कुरनेलियुस ने कहा; कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए, कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था; कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहिने हुए, मेरे साम्हने आ खड़ा हुआ। ३१ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और तेरे दान परमेश्वर के साम्हने स्मरण किए गए हैं। ३२ इस-लिये किसी को याफा भेजकर शमीन को जो पतरस कहलाता है, बुला; वह समुद्र के किनारे शमीन चमड़े के घन्घा करने-वाले के घर में पाहुन है। ३३ तब मैं ने तुरन्त तेरे पास लोग भेजे, और तू ने भला किया, जो आ गया: अब हम सब यहा परमेश्वर के साम्हने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्ह से कहा है उसे सुनें। ३४ तब पतरस ने मुह खोलकर कहा;

३५ अब मुझे निश्चय हुआ, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, बरन हर जाति में जो उस से डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। ३६ जो वचन उस ने इस्राएलियों के पास भेजा, जब कि उस ने यीशु मसीह के द्वारा (जो सब का प्रभु है) शान्ति का सुसमाचार सुनाया। ३७ वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरम्भ करके सारे यहूदिया में फैल गई। ३८ कि

परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया : वह भलाई करता, और सब को जो शैतान * के सत्ताए हुए थे, भ्रच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ३६ और हम उन सब कामों के गवाह हैं; जो उस ने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्हो ने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। ४० उस को परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, और प्रगट भी कर दिया है। ४१ सब लोगों को नहीं बरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से चुन लिया था, अर्थात् हमको जिन्हो ने उसके मरे हुएों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पीया। ४२ और उस ने हमें आज्ञा दी, कि लोगों में प्रचार करो; और गवाही दो, कि यह वही है; जिसे परमेश्वर ने जीवतो और मरे हुएों का न्यायी ठहराया है। ४३ उस की सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस को उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी ॥

४४ पतरस ये बातें कह ही रहा था, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुननेवालों पर उतर आया। ४५ और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य-जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उठेला † गया है। ४६ क्योंकि उन्हीं ने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। ४७ इस पर पतरस ने कहा; क्या कोई जल की रोक कर सकता है, कि ये बपतिस्मा न

पाए, जिन्हो ने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? ४८ और उस ने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए. तब उन्हो ने उस से बिनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रह ॥

११ और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना, कि अन्यजातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। २ और जब पतरस यरूशलेम में आया, तो खतना किए हुए लोग उस से वाद-विवाद करने लगे। ३ कि तू ने खतनारहित लोगों के यहा जाकर उन के साथ खाया। ४ तब पतरस ने उन्हें धारम्भ में क्रमानुसार कह सुनाया; ५ कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था, और बेसुध होकर एक दर्शन देखा, कि एक पात्र, बड़ी चादर के समान चारो कोनो से लटकाया हुआ, आकाश से उतरकर मेरे पास आया। ६ जब मैं ने उस पर ध्यान किया, तो पृथ्वी के चौपाए और बनपशु और रेंगनेवाले जन्तु और आकाश के पक्षी देखे। ७ और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस उठ मार और खा। ८ मैं ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुह में कभी नहीं गई। ९ इस के उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध मत कह। १० तीन बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। ११ और देखो, तुरन्त तीन मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिस में हम थे, आ खड़े हुए। १२ तब आत्मा ने मुझ से

* यू० इब्रलीस।

† यू० बहाया।

उन के साथ बेल्टके हो लेने को कहा, और ये छः भाई भी मेरे साथ हो लिए; और हम उस मनुष्य के घर में गए। १३ और उस ने बताया, कि मैं ने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिस ने मुझ से कहा, कि याफा में मनुष्य भेजकर शमीन को जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। १४ वह तुम से ऐसी बातें कहेगा, जिन के द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। १५ जब मैं बातें करने लगा, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा, जिस रीति से आरम्भ में हम पर उतरा था। १६ तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया, जो उस ने कहा; कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परन्तु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। १७ सो जब कि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था; तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? १८ यह सुनकर, वे चुप रहे, और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्यजातियों को भी जीवन के लिये मन फिराव का दान दिया है।

१९ सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तित्तर बित्तर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और कुप्रुस और अन्ताकिया में पहुँचे; परन्तु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। २० परन्तु उन में से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे, जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। २१ और प्रभु का हाथ उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की

और फिरे। २२ तब उन की चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, और उन्हो ने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। २३ वह वहाँ पहुँचकर, और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनन्दित हुआ; और सब को उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। २४ क्योंकि वह एक भला मनुष्य था; और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था; और और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। २५ तब वह शाऊल को वृद्धने के लिये तरमुस को चला गया। २६ और जब उस से मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चले सब से पहिले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए।

२७ उन्ही दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अन्ताकिया में आए। २८ उन में से अगबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया, कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। २९ तब चेलो ने ठहराया, कि हर एक अपनी अपनी पूत्री के अनुसार यहूदिया में रहनेवाले भाइयों का सेवा के लिये कुछ भेजे। ३० और उन्हीं ने ऐसा ही किया; और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनो * के पास कुछ भेज दिया।

१२ उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिये उन पर हाथ डाले। २ उस ने यूहन्ना के भाई याकूब को

* या प्रिसबुतितो।

तलवार से मरवा डाला। ३ और जब उस ने देखा, कि यहूदी लोग इस से आनन्दित होते हैं, तो उस ने पतरस को भी पकड़ लिया : वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। ४ और उस ने उसे पकड़ के बन्दीगृह में डाला, और रखवाली के लिये, चार चार सिपाहियों के चार पहरोँ में रखा : इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के साम्हने लाए। ५ सो बन्दीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी; परन्तु कलीमिया उसके लिये लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ६ और जब हेरोदेस उसे उन के साम्हने लाने को था, तो उसी रात पतरस दो जंजीरो से बन्धा हुआ, दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था : और पहरेदार द्वार पर बन्दीगृह की रखवाली कर रहे थे। ७ तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी : और उस ने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, और कहा; उठ, फुरती कर, और उसके हाथों से जजीरे खुलकर गिर पड़ी। ८ तब स्वर्गदूत ने उस से कहा; कमर बान्ध, और अपने जूते पहिन ले : उस ने वैसा ही किया, फिर उस ने उस से कहा; अपना वस्त्र पहिनकर मेरे पीछे हो ले। ९ वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परन्तु यह न जानता था, कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है, वह सचमुच है, बरन यह समझा, कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। १० तब वे पहिले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे, जो नगर की ओर है; वह उन के लिये आप से आप खुल गया : और वे निकलकर एक ही गली

होकर गए, इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। ११ तब पतरस ने सचेत होकर कहा; अब मैं ने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। १२ और यह सोचकर, वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है; वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। १३ जब उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई। १४ और पतरस का शब्द पहचानकर, उस ने आनन्द के मारे फाटक न खोला; परन्तु दौड़कर भीतर गई, और बताया, कि पतरस द्वार पर खड़ा है। १५ उन्होंने ने उस से कहा; तू पागल है, परन्तु वह दृढ़ता से बोली, कि ऐसा ही है : तब उन्हो ने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। १६ परन्तु पतरस खटखटाता ही रहा : सो उन्हो ने खिड़की खोली, और उसे देखकर चकित हो गए। १७ तब उस ने उन्हे हाथ से सैन किया, कि चुप रहे; और उन को बताया, कि प्रभु किस रीति से मुझे बन्दीगृह से निकाल लाया है : फिर कहा, कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना; तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। १८ भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी, कि पतरस क्या हुआ। १९ जब हेरोदेस ने उस की खोज की, और न पाया; तो पहरेदारों की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए : और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा ॥

२० और वह सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था; सो वे एक चित्त

होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी * था, मनाकर मेल करना चाहा; क्योंकि राजा के देश से उन के देश का पालन पोषण होता था। २१ और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजबस्त्र पहिनकर सिहासन पर बैठा; और उन को व्याख्यान देने लगा। २२ और लोग पुकार उठे, कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। २३ उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरन्त उसे मारा, क्योंकि उस ने परमेश्वर की महिमा न की और वह कीड़े पड़के मर गया ॥

२४ परन्तु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया ॥

२५ जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से लौटे ॥

१३ अन्ताकिया की कलीसिया मे कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे; अर्थात् बरनबास और शमीन जो नीगर कहलाता है; और लूकियुस कुनेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूधभाई मनाहेम और शाऊल। २ जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा; मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिये अलग करो जिस के लिये मैं ने उन्हें बुलाया है। ३ तब उन्होंने ने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया ॥

४ सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए; और वहा से जहाज

पर चढ़कर कुप्रुस को चले। ५ और सलमीस में पहुचकर, परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालयों में सुनाया; और यूहन्ना उन का सेवक था। ६ और उस सारे टापू मे होते हुए, पाफुस तक पहुचे वहा उन्हें बार-थीशु नाम एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। ७ वह सिरगियुस पौलुस सूबे * के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था उस ने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। ८ परन्तु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उन का साम्हना करके, सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। ९ तब शाऊल ने जिस का नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उस की ओर टकटकी लगाकर कहा। १० हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए सैतान † की सन्तान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढा करना न छोडेगा? ११ अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है; और तू कुछ समय तक अन्धा रहेगा और सूर्य को न देखेगा: तब तुरन्त धुन्धलाई और अन्धेरा उस पर छा गया, और वह दृष्ट उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़के ले चले। १२ तब सूबे ने जो हुआ था, देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया ॥

१३ पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए: और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। १४ और पिरगा से

* या कन्चुकी।

* यू० प्रतिनिधि। † यू० इब्रहीस।

आगे बढ़कर वे पिसिदिया के भ्रन्ताकिया में पहुँचे; और सब के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। १५ और व्यवस्था और भविष्यद्वक्त्याओ की पुस्तक से पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उन के पास कहला भेजा, कि हे भाइयो, यदि लोगो के उपदेश के लिये तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। १६ तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सैन करके कहा;

हे इस्राएलियो, और परमेश्वर से डरनेवालो, सुनो। १७ इन इस्राएली लोगो के परमेश्वर ने हमारे बापदादो को चुन लिया, और जब ये लोग मिसर देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उन की उन्नति की; और बलवन्त भुजा से निकाल लाया। १८ और वह कोई चालीस वर्ष तक जंगल में उन की सहता रहा। १९ और कनान देश में सात जातियों का नाश करके उन का देश कोई साढे चार सौ वर्ष में इन की मीरास में कर दिया। २० इस के बाद उस ने सामुएल भविष्यद्वक्ता तक उन में न्यायी ठहराए। २१ उसके बाद उन्हो ने एक राजा मागा : तब परमेश्वर ने चालीस वर्ष के लिये बिनयामीन के गोत्र में से एक मनुष्य; अर्थात् कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। २२ फिर उसे अलग करके दाऊद को उन का राजा बनाया; जिस के विषय में उस ने गवाही दी, कि मुझे एक मनुष्य यिशी का पुत्र दाऊद, मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। २३ इसी के वश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता, अर्थात् यीशु को भेजा। २४ जिस के आने से पहिले यूहन्ना ने

सब इस्राएलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। २५ और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था, तो उस ने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं! बरन देखो, मेरे बाद एक आनेवाला है, जिस के पावों की जूती मैं खोलने के योग्य नहीं। २६ हे भाइयो, तुम जो इब्राहीम की सन्तान हो; और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। २७ क्योंकि यरूशलेम के रहनेवालो और उन के सरदारो ने, न उसे पहचाना, और न भविष्यद्वक्त्याओ की बातें समझी; जो हर मन्त के दिन पढी जाती है, इसलिये उसे दोषी ठहराकर उन को पूरा किया। २८ उन्हो ने मार डालने के योग्य कोई दोष उन में न पाया, तौभी पीलातुस से बिनती की, कि वह मार डाला जाए। २९ और जब उन्हो ने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा। ३० परन्तु परमेश्वर ने उसे मरे हुएओं में से जिलाया। ३१ और वह उन्हें जो उसके माथ गलील से यरूशलेम आए थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा, लोगो के साम्हने अब वे ही उसके गवाह है। ३२ और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में, जो बापदादो से की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते है। ३३ कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, वही प्रतिज्ञा हमारी सन्तान के लिये पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, कि तू मेरा पुत्र है; आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। ३४ और उसके इस रीति से मरे हुएओं में से जिलाने के विषय में भी, कि वह कभी न सड़े, उस ने यों

कहा है; कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूँगा। ३५ इसलिये उस ने एक और भजन में भी कहा है, कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। ३६ क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके मों गया, और अपने बापदादों में जा मिला, और सड़ भी गया। ३७ परन्तु जिम को परमेश्वर ने जिलाया, वह सड़ने नहीं पाया। ३८ इसलिये, हे भाइयो, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। ३९ और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करनेवाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। ४० इसलिये चौकस रहो, ऐसा न हो, कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है, ४१ तुम पर भी आ पड़े, कि हे निन्दा करनेवालो, देखो, और चकित हो, और मिट जाओ; क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ; ऐसा काम, कि यदि कोई तुम से उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीति न करोगे ॥

४२ उन के बाहर निकलते समय लोग उन से बिनती करने लगे, कि अगले सप्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। ४३ और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए; और उन्होंने ने उन से बातें करके समझाया, कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो ॥

४४ अगले सप्त के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को

इकट्ठे हो गए। ४५ परन्तु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए, और निन्दा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। ४६ तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था, कि परमेश्वर का वचन पहिले तुम्हें सुनाया जाता; परन्तु जब कि तुम उसे दूर करते हो, और अपने को अनन्त जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो, हम अन्यजातियों की ओर फिरते हैं। ४७ क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है; कि मैं ने तुम्हें अन्यजातियों के लिये ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ४८ यह मुनकर अन्यजाति आनन्दित हुए, और परमेश्वर के वचन की बडाई करने लगे; और जितने अनन्त जीवन के लिये ठहराए गए थे, उन्हों ने विश्वास किया। ४९ तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। ५० परन्तु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उसकाया, और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। ५१ तब वे उन के साम्हने अपने पांवों की धूल झाडकर इकुनियुम को गए। ५२ और चले आनन्द से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे ॥

२४ इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों की आराधनालय में साथ साथ गए, और ऐसी बातें की, कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतो ने विश्वास किया। २ परन्तु न माननेवाले यहूदियों ने अन्यजातियों के मन भाइयों के विरोध में उसकाए, और बिगाड़ कर

दिए। ३ और वे बहुत दिन तक वहां रहे, और प्रभु के भरोसे पर-हियाब से बातें करते थे: और वह उन के हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। ४ परन्तु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी; इस से कितने तो यहूदियों की ओर, और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। ५ परन्तु जब अन्यायिता और यहूदी उन का अपमान और उन्हें पत्थरबाह कराने के लिये अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े। ६ तो वे इस बात को जान गए, और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरो में, और आसपास के देश में भाग गए। ७ और वहा सुसमाचार सुनाने लगे ॥

८ लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, जो पावो का निर्बल था: वह जन्म ही से लंगड़ा था, और कभी न चला था। ९ वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इस ने उस की ओर टकटकी लगाकर देखा कि इस को चंगा हो जाने का विश्वास है। १० और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पावों के बल सीधा खड़ा हो: तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। ११ लोगो ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा; देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। १२ और उन्होंने ने बरनबास को ज्यूस, और पौलुस को हिरमेश कहा, क्योंकि यह बातें करने में मुख्य था। १३ और ज्यूस के उस मन्दिर का पुजारी जो उन के नगर के साम्हने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। १४ परन्तु बरनबास और

पौलुस प्रेरितों ने जब सुना, तो अपने कपड़े फाड़े, और भीड़ में लपक गए, और पुकारकर कहने लगे; हे लोगो तुम क्या करते हो? १५ हम भी तो तुम्हारे समान दुःख-सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उन मे है बनाया। १६ उस ने बीते समयों मे सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। १७ तौभी उस ने अपने आप को बे-गवाह न छोड़ा; किन्तु वह भलाई करता रहा, और आकाश से वर्षा और फलवन्त ऋतु देकर, तुम्हारे मन को भोजन और आनन्द से भरता रहा। १८ यह कहकर भी उन्होंने ने लोगों को कठिनता से रोका कि उन के लिये बलिदान न करे ॥

१९ परन्तु कितने यहूदियों ने अन्ताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, और पौलुस को पत्थरबाह किया, और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। २० पर जब चले उस की चारों ओर आ खड़े हुए, तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। २१ और वे उस नगर के लोगो को सुसमाचार सुनाकर, और बहुत से चले बनाकर, लुस्त्रा और इकुनियुम और अन्ताकिया को लौट आए। २२ और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे, कि विश्वास में बने रहो; और यह कहते थे, कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। २३ और उन्होंने ने

हर एक कलीसिया में उन के लिये प्राचीन * ठहराए, और उपवास सहित प्रार्थना करके, उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने ने विश्वास किया था। २४ और पिसिदिया से होते हुए वे पफूलिया में पहुंचे; २५ और पिरगा में वचन सुनाकर अन्तलिया में आए। २६ और वहां से जहाज पर अन्ताकिया में आए, जहां से वे उस काम के लिये जो उन्हो ने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए थे। २७ वहां पहुंचकर, उन्होंने ने कलीसिया इकट्ठी की और बताया, कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए। और अन्यजातियों के लिये विश्वास का द्वार खोल दिया। २८ और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे ॥

१५ फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। २ जब पौलुस और बरनबास का उन से बहुत झगड़ा और वाद-विवाद हुआ तो यह ठहराया गया, कि पौलुस और बरनबास, और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों † के पास जाएं। ३ सो मण्डली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया; और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्यजातियों के मन फेरने ‡ का समाचार सुनाते गए, और सब भाइयों को बहुत आनन्दित किया। ४ जब यरूशलेम में पहुंचे, तो

कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उन से आनन्द के साथ मिले, और उन्होंने ने बताया, कि परमेश्वर ने उन के साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। ५ परन्तु फरीसियों के पथ में से जिन्होंने ने विश्वास किया था, उन में से कितनो ने उठकर कहा, कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए ॥

६ तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिये इकट्ठे हुए। ७ तब पतरस ने बहुत वाद-विवाद के बाद खड़े होकर उन से कहा ॥

हे भाइयो, तुम जानते हो, कि बहुत दिन हुए, कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया, कि मेरे मुह से अन्यजाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। ८ और मन के जाचनेवाले परमेश्वर ने उन को भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उन की गवाही दी। ९ और विश्वास के द्वारा उन के मन शुद्ध करके हम में और उन में कुछ भेद न रखा। १० तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? कि चेलों की गरदन पर ऐसा जूआ रखो, जिसे न हमारे बापदादे उठा सके थे और न हम उठा सकते। ११ हा, हमारा यह तो निश्चय है, कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे; उसी रीति से हम भी पाएंगे ॥

१२ तब सारी सभा चुपचाप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगी, कि परमेश्वर ने उन के द्वारा अन्यजातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह, और अद्भुत काम दिखाए। १३ जब वे चुप हुए, तो याकूब कहने लगा, कि ॥

१४ हे भाइयो, मेरी सुनो : शमीन ने बताया, कि परमेश्वर ने पहिले पहिल

* या प्रिसबुतिर। † या प्रिसबुतितो।

‡ अर्थात् दीक्षित होने।

अन्यजातियों पर कैसी कृपादृष्टि की, कि उन में से अपने नाम के लिये एक लोग बना ले। १५ और इस से भविष्यद्वक्ताओं की बातें मिलती हैं, जैसा लिखा है, कि। १६ इस के बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, और उसके खडहरो को फिर बनाऊंगा, और उसे खडा करूंगा। १७ इसलिये कि शेष मनुष्य, अर्थात् सब अन्यजाति जो मेरे नाम के कहलाने हैं, प्रभु को ढूँँ। १८ यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। १९ इसलिये मेरा विचार यह है, कि अन्यजातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुःख न दें। २० परन्तु उन्हें लिख भेजें, कि वे मूरतो की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घाटे हुए लोगों के मांस से और लोह से परे रहे। २१ क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करनेवाले होते चले आए हैं, और वह हर सप्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है ॥

२२ तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों* को अच्छा लगा, कि अपने में से कई मनुष्यों को चुनें, अर्थात् यहूदा, जो बरसब्बा कहलाता है, और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे; और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अन्ताकिया को भेजें। २३ और उन के हाथ यह लिख भेजा, कि अन्ताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहनेवाले भाइयों को जो अन्यजातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीनों † भाइयों का

* वा प्रिसबुतितो। † वा प्रिसबुतितो।

नमस्कार! २४ हम ने सुना है, कि हम में से कितनी ने वहां जाकर, तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया, और तुम्हारे मन उलट दिए हैं परन्तु हम ने उन को आज्ञा नहीं दी थी। २५ इसलिये हम ने एक वित्त होकर ठीक समझा, कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। २६ ये तो ऐसे मनुष्य हैं, जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिये जोखिम में डाले हैं। २७ और हम ने यहूदा और सीलास को भेजा है, जो अपने मुह में भी ये बातें कह देंगे। २८ पवित्र आत्मा को, और हम को ठीक जान पड़ा, कि इन आवश्यक बातों को छोड़, तुम पर और बोझ न डालें; २९ कि तुम मूरतो के बलि किए हुए लोगों से, और लोह से, और गला घाटे हुए लोगों के मांस से, और व्यभिचार से, परे रहो। इन से परे रहो; तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ ॥

३० फिर वे विदा होकर अन्ताकिया में पहुंचे, और सभा को इकट्ठी करके वह उन्हें पत्री दे दी। ३१ और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से प्रति आनन्दित हुए। ३२ और यहूदा और सीलास ने जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। ३३ वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शान्ति के साथ विदा हुए, कि अपने भेजनेवालों के पास जाए। ३४ (परन्तु सीलास को वहां रहना अच्छा लगा।) ३५ और पौलुस और बरनबास अन्ताकिया में रह गए: और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के बचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे ॥

३६ कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा; कि जिन जिन नगरों में हम ने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ, फिर उन में चलकर अपने भाइयों को देखें, कि कैसे हैं। ३७ तब बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। ३८ परन्तु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उन से अलग हो गया था, और काम पर उन के साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। ३९ सो ऐसा टंटा हुआ, कि वे एक दूसरे से अलग हो गए: और बरनबास, मरकुस को लेकर जहाज पर कुपुस को चला गया। ४० परन्तु पौलुस ने सीलास को चुन लिया, और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया। ४१ और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ, सूरिया और किलिकिया से होते हुए निकला ॥

१६ फिर वह दिरबे और लुस्ना में भी गया, और देखो, वहा तीमुथियुस नाम एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परन्तु उसका पिता यूनानी था। २ वह लुस्ना और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। ३ पौलुस ने चाहा, कि यह मेरे साथ चले; और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उन के कारण उसे लेकर उसका खतना किया; क्योंकि वे सब जानते थे, कि उसका पिता यूनानी था। ४ और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने * ठहराई थीं, मानने के लिये उन्हें पहुंचाते जाते थे। ५ इस प्रकार कलीसिया विश्वास

* या प्रिसबुलितों।

में स्थिर होती गई और गिनती में प्रति दिन बढ़ती गई ॥

६ और वे फूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया मे वचन सुनाने से मना किया। ७ और उन्हो ने मूसिया के निकट पहुंचकर, बितूनिया में जाना चाहा; परन्तु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। ८ सो मूसिया से होकर वे त्रोभास में आए। ९ और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उस से बिनती करके कहता है, कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ; और हमारी सहायता कर। १० उसके यह दर्शन देखते ही हम ने तुरन्त मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर, कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिये बुलाया है ॥

११ सो त्रोभास से जहाज खोलकर हम सीचे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। १२ वहां से हम फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रान्त का मुख्य नगर, और रोमियों की बस्ती है; और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। १३ सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए, कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा; और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी, बातें करने लगे। १४ और लुदिया नाम बुआथीरा नगर की बेंजनी कपड़े बेचनेवाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला, ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। १५ और जब उस ने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उस ने बिनती की, कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी

समझते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो; और वह हमें मनाकर ले गई ॥

१६ जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिस में भावी कहनेवाली आत्मा थी; और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिये बहुत कुछ कमा लाती थी। १७ वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। १८ वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परन्तु पौलुस दुःखित हुआ, और मुह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, कि उस में से निकल जा और वह उसी घड़ी निकल गई ॥

१९ जब उसके स्वामियों ने देखा, कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खीच ले गए। २० और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा; ये लोग जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। २१ और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं, जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिये ठीक नहीं। २२ तब भीड़ के लोग उन के विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उन के कपड़े फाड़कर उतार डाले, और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। २३ और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बन्दीगृह में डाला; और दारोगा को आज्ञा दी, कि उन्हें चौकसी से रखे। २४ उस ने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उन के पांव काठ में ठोक दिए। २५ आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन

गा रहे थे, और बन्धुए उन की सुन रहे थे। २६ कि इतने में एकाएक बड़ा भूईंडोल हुआ, यहां तक कि बन्दीगृह की नेव हिल गई, और तुरन्त सब द्वार खुल गए; और सब के बन्धन खुल पड़े। २७ और दारोगा जाग उठा, और बन्दीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बन्धुए भाग गए, सो उस ने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। २८ परन्तु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा; अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां हैं। २९ तब वह दीया मंगवाकर भीतर लपक गया, और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। ३० और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिये मैं क्या करूं? ३१ उन्हो ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ३२ और उन्हों ने उस को, और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ३३ और रात को उसी घड़ी उस ने उन्हें ले जाकर उन के घाव धोए, और उस ने अपने सब लोगों समेत तुरन्त बपतिस्मा लिया। ३४ और उस ने उन्हें अपने घर में ले जाकर, उन के आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनन्द किया ॥

३५ जब दिन हुआ तब हाकिमो ने प्यादो के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। ३६ दारोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई, कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। ३७ परन्तु पौलुस ने उन से कहा, उन्हो ने हमें जो रोमी मनुष्य हैं, दोषी ठहराए बिना, लोगों के साम्हने मारा, और बन्दीगृह में डाला, और अब

क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परन्तु वे आप आकर हमें बाहर ले जाए। ३८ प्यादों ने ये बातें हाकिमो से कह दी, और वे यह सुनकर कि रोमी हैं, डर गए। ३९ और आकर उन्हें मनाया, और बाहर ले जाकर बिनती की कि नगर से चले जाएं। ४० वे बन्दीगृह से निकलकर लुदिया के यहां गए, और भाइयो से भेंट करके उन्हें शान्ति दी,* और चले गए।।

१७ फिर वे अम्फिपुलिस और अरुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। २ और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उन के पास गया, और तीन सप्ता के दिन पवित्र शास्त्रों से उन के साथ विवाद किया। ३ और उन का अर्थ खोल खोलकर समझाता था, कि मसीह को दुख उठाना, और मरे हुएओं में से जो उठना, अवश्य था; और यही यीशु जिस की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, मसीह है। ४ उन में से कितनों ने, और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। ५ परन्तु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया, और भीड़ लगाकर नगर में हल्लाड़ मचाने लगे, और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के साम्हने लाना चाहा। ६ और उन्हें न पाकर, वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के साम्हने खींच लाए, कि ये लोग जिन्होंने जगत को उलटा पुलटा कर दिया है, यहां भी आए

* या उपदेश किया।

है। ७ और यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है, और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है, और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। ८ उन्हो ने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया। ९ और उन्हो ने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया।।

१० भाइयो ने तुरन्त रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरीया में भेज दिया. और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ११ ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्हो ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रति दिन पवित्र शास्त्रो में दूबते रहे कि ये बातें योंहीं है, कि नहीं। १२ सो उन में से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से, और पुरुषों में से बहुतेरो ने विव्वास किया। १३ किन्तु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए, कि पौलुस बिरीया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगो को उसकाने और हलचल मचाने लगे। १४ तब भाइयो ने तुरन्त पौलुस को विदा किया, कि समुद्र के किनारे चला जाए, परन्तु सीलास और तीमुथियुस वही रह गए। १५ पौलुस के पहुंचानेवाले उसे अर्थने तक ले गए, और सीलास और तीमुथियुस के लिये यह आज्ञा लेकर विदा हुए, कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ।।

१६ जब पौलुस अर्थने में उन की बाट जोह रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। १७ सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे, उन से हर दिन वाद-विवाद किया करता था। १८ तब इपिकूरी और स्तोईकी पण्डितों में से कितने उस से तर्क करने लगे,

और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है? परन्तु औरों ने कहा; वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का, और पुनरुत्थान * का सुसमाचार सुनाता था। १६ तब वे उसे अपने साथ भरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं, कि यह नया मत जो तू सुनाता है, क्या है? २० क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिये हम जानना चाहते हैं कि इन का अर्थ क्या है? २१ (इसलिये कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहा रहते थे, ज़ाई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे)। २२ तब पौलुस ने भरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा;

हे अथेने के लोगो मैं देखता हूँ, कि तुम हर बात में देवताओं के बडे माननेवाले हो। २३ क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई, जिस पर लिखा था, कि "अनजाने ईश्वर के लिये।" सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। २४ जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उस की सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मन्दिरों में नहीं रहता। २५ न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सब को जीवन और स्वास और सब कुछ देता है। २६ उस ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिये बनाई हैं; और उन के ठहराए हुए समय, और निवास के

* या मृतकोत्थान; अर्थात् जी उठने।

सिवानों को इसलिये बान्धा है। २७ कि वे परमेश्वर को दूँ, कदाचित्त उसे टटोलकर पा जाएं तीभी वह हम में से किसी से दूर नहीं! २८ क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, और चलते-फिरते, और स्थिर रहते हैं; जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, कि हम तो उसी के वंश भी हैं। २९ सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं, कि ईश्वरत्व, सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। ३० इसलिये परमेश्वर अज्ञानता के समयो से आनाकानी करके, अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ३१ क्योंकि उस ने एक दिन ठहराया है, जिस में वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उस ने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर, यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है॥

३२ मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्टा करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बात हम तुफ से फिर कभी सुनेंगे। ३३ इस पर पौलुस उन के बीच में से निकल गया। ३४ परन्तु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए, और विश्वास किया, जिन में दियुनिसियुस भरियुपगी था, और दमरिस नाम एक स्त्री थी, और उन के साथ और भी कितने लोग थे॥

१८ इस के बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। २ और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला, जिस का जन्म पुन्तुस का था; और अपनी पत्नी प्रिस्कुिल्ला समेत इतानिया से नया आया था, क्योंकि क्लौडियुस ने

सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, सो वह उन के यहां गया। ३ और उसका और उन का एक ही उद्यम था; इसलिये वह उन के साथ रहा, और वे काम करने लगे, और उन का उद्यम तम्बू बनाने का था। ४ और वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद-विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था ॥

५ जब सीलास और तीमुथियुस मकि-दुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। ६ परन्तु जब वे विरोध और निन्दा करने लगे, तो उस ने अपने कपड़े भाड़कर उन से कहा; तुम्हारा लोह तुम्हारी ही गर्दन पर रहे : मैं निर्दोष हूं; अब से मैं ग्रन्थजातियों के पास जाऊंगा। ७ और वहां से चलकर वह तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिस का घर आराधनालय से लगा हुआ था। ८ तब आराधनालय के सरदार क्रिसपुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया; और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। ९ और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, बरन कहे जा, और चुप मत रह। १० क्योंकि मैं तेरे साथ हूं; और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा; क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। ११ सो वह उन में परमेश्वर का वचन सिखाते हुए डेढ़ वर्ष तक रहा ॥

१२ जब गल्लियो प्रख्यात देश का हाकिम * था तो यहूदी लोग एका करके

* या प्रतिनिधि।

पौलुस पर चढ़ आए, और उसे न्याय आसन के साम्हने लाकर, कहने लगे। १३ कि यह लोगों को समझाता है, कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें, जो व्यवस्था के विपरीत है। १४ जब पौलुस बोलने पर था, तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा; हे यहूदियो, यदि यह कुछ ग्रन्थाय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता। १५ परन्तु यदि यह वाद-विवाद शब्दों, और नामों, और तुम्हारे यहां की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो; क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। १६ और उस ने उन्हें न्याय आसन के साम्हने से निकलवा दिया। १७ तब सब लोगो ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के साम्हने मारा; परन्तु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिन्ता न की ॥

१८ सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किस्त्रिया में इसलिये सिर मूण्डाया क्योंकि उस ने मन्नत मानी थी और जहाज पर सूरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्कुल्ला और अक्विला थे। १९ और उस ने इफिसुस में पहुंचकर उन को बहा छोड़ा, और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। २० जब उन्होंने ने उस से बिनती की, कि हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उस ने स्वीकार न किया। २१ परन्तु यह कहकर उन से विदा हुआ, कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। २२ तब इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया, और कैसरिया में उतरकर (यरूशलेम को) गया और कलीसिया को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। २३ फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला

गया, और एक और से गलतिया और फूगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा ॥

२४ अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिस का जन्म सिकन्दरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था इफिसुस में आया। २५ उस ने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता, और सिखाता था, परन्तु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। २६ वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर अस्किल्ला और अक्विला उस की बातें सुनकर, उसे अपने यहाँ ले गए, और परमेश्वर का मार्ग उस को और भी ठीक ठीक बताया। २७ और जब उस ने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए तो भाइयों ने उसे ढाढस देकर चेलो को लिखा कि वे उस से अच्छी तरह मिलें, और उस ने पहुँचकर वहाँ उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। २८ क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर, कि यीशु ही मसीह है; बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के साम्हने निरुत्तर करता रहा ॥

१९ और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया, और कई चेलों को देखकर। २ उन से कहा; क्या तुम ने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उस से कहा, हम ने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ३ उस ने उन से कहा; तो फिर तुम ने किस का बपतिस्मा लिया? उन्होंने ने कहा; यूहन्ना का बपतिस्मा। ४ पौलुस ने कहा; यूहन्ना ने यह

कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, कि जो मेरे बाद आनेवाला है, उस पर अर्थात् यीशु पर विश्वास करना। ५ यह सुनकर उन्होंने ने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। ६ और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने और भविष्यद्वारी करने लगे। ७ ये सब लगभग बारह पुरुष थे ॥

८ और वह आराधनालय में जाकर तीन महीने तक निडर होकर बोलता रहा, और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। ९ परन्तु जब कितनों ने कठोर होकर उस की नहीं मानी बरन लोगों के साम्हने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उस ने उन को छोड़कर चेलों को अलग कर लिया, और प्रति दिन तुरन्तुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। १० दो वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहनेवाले क्या यहूदी, क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। ११ और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। १२ यहाँ तक कि रूमाल और अगोछे उस की देह से छुलवाकर बीमारो पर डालते थे, और उन की बीमारियां जाती रहती थी; और दुष्टात्माएं उन में से निकल जाया करती थी। १३ परन्तु कितने यहूदी जो भाड़ा फूँकी करते फिरते थे, यह करने लगे, कि जिन में दुष्टात्मा हों उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूँके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। १४ और स्क्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के सात पुत्र थे, जो ऐसा ही करते थे। १५ पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, कि यीशु को मैं जानती हूँ,

श्रीर पीलुस को भी पहचानती हूँ; परन्तु तुम कौन हो? १६ श्रीर उस मनुष्य ने जिस में दुष्ट आत्मा थी; उन पर लपककर, श्रीर उन्हें वश में लाकर, उन पर ऐसा उपद्रव किया, कि वे नंगे श्रीर घायल होकर उस घर से निकल भागे। १७ श्रीर यह बात इफिसुस के रहनेवाले यहूदी श्रीर यूनानी भी सब जान गए, श्रीर उन सब पर भय छा गया; श्रीर प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। १८ श्रीर जिन्होंने ने विश्वास किया था, उन में से बहुतेरो ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया श्रीर प्रगट किया। १९ श्रीर जादू करनेवालो में से बहुतेरों ने अपनी अपनी पोथिया इकट्ठी करके सब के साम्हने जला दी, श्रीर जब उन का दाम जोडा गया, तो पचास हजार रुपये की निकली। २० यो प्रभु का वचन बल पूर्वक फैलता गया श्रीर प्रबल होता गया ॥

२१ जब ये बाते हो चुकी, तो पीलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया श्रीर अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊ, श्रीर कहा, कि वहा जाने के बाद मुझे रोमा को भी देखना अवश्य है। २२ सो अपनी सेवा करनेवालो में से तीमुथियुस श्रीर इरास्तुस को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया ॥

२३ उस समय उस पन्थ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। २४ क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरतिमिस के चान्दी के मन्दिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। २५ उस ने उन को, श्रीर श्रीर ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यो, तुम जानते हो, कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। २६ श्रीर तुम देखते श्रीर सुनते हो, कि केवल इफिसुस ही में नहीं, बरन प्रायः

सारे आसिया में यह कह कहकर इस पीलुस ने बहुत लोगों को समझाया श्रीर भरमाया भी है, कि जो हाथ की कारीगरी हैं, वे ईश्वर नहीं। २७ श्रीर अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं, कि हमारे इस धन्धे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी; बरन यह कि महान देवी अरतिमिस का मन्दिर तुच्छ समझा जाएगा श्रीर जिसे सारा आसिया श्रीर जगत पूजता है उसका महत्त्व भी जाता रहेगा। २८ वे यह सुनकर क्रोध से भर गए, श्रीर चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, " इफिसियों की अरतिमिस महान है। " २९ श्रीर सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया श्रीर लोगो ने गयुस श्रीर अरिस्तरखुस मकिदुनियो को जो पीलुस के सगी यात्री थे, पकड लिया, श्रीर एकचित्त होकर रगशाला में दौड गए। ३० जब पीलुस ने लोगो के पास भीतर जाना चाहा तो चेलो ने उसे जाने न दिया। ३१ आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रो ने उसके पास कहला भेजा, श्रीर बिनती की, कि रगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। ३२ सो कोई कुछ चिल्लाया, श्रीर कोई कुछ; क्योंकि सभा में बडी गडबडी हो रही थी, श्रीर बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस निय इकट्ठे हुए हैं। ३३ तब उन्हो ने सिकन्दर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड में से आगे बढ़ाया, श्रीर सिकन्दर हाथ से सैन करके लोगों के साम्हने उत्तर दिया चाहता था। ३४ परन्तु जब उन्हो ने जान लिया कि वह यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई दो घटे तक चिल्लाते रहे, कि इफिसियों की अरतिमिस महान है। ३५ तब नगर के मन्त्री ने लोगों को शान्त करके कहा; हे इफिसियो, कौन नहीं जानता, कि इफिसियों का नगर

बड़ी देवी अरतिमिस के मन्दिर, और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। ३६ सो जब कि इन बातों का खगडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है, कि तुम चुपके रहो; और बिना सोचे विचारे कुछ न करो। ३७ क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो, जो न मन्दिर के लूटनेवाले हैं, और न हमारी देवी के निन्दक हैं। ३८ यदि देमेत्रियस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है, और हाकिम * भी है; वे एक दूसरे पर नालिश करे। ३९ परन्तु यदि तुम किसी और बाट्ट के विषय में कुछ पूछना चाहते हो, तो नियत सभा में फँसला किया जाएगा। ४० क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिये कि इस का कोई कारण नहीं, सो हम इस भीड़ के इकट्टा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। ४१ और यह कह के उम ने सभा को विदा किया ॥

२० जब हुल्लड थम गया, तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया, और उन से विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। २ और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझाकर, वह यूनान में आया। ३ जब तीन महीने रहकर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उस की घात में लगे, इसलिये उस ने यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। ४ बिरीया के पुरूस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलूनीकियों में से अरिस्तर्बुस और सिकुन्दुस और दिरबे का गयुस, और तीमुथियुस और आसिया का तुलिकुस और त्रुफिमस आसिया तक उसके

* या प्रतिनिधि।

साथ हो लिए। ५ वे आगे जाकर थ्रोभास में हमारी बाट जोहते रहे। ६ और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर पाच दिन में थ्रोभास में उन के पास पहुँचे, और सात दिन तक वहीं रहे ॥

७ सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने * के लिये इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उन से बातें की, और आधी रात तक बातें करता रहा। ८ जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, उस में बहुत दीये जल रहे थे। ९ और यूतुसुस नाम का एक जवान खिडकी पर बैठा हुआ गहरी नीद में भुक् रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नीद के भोके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा, और मरा हुआ उठाया गया। १० परन्तु पौलुस उतरकर उस से लिपट गया, और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं; क्योंकि उसका प्राण उसी में है। ११ और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उन से बातें करता रहा, कि पी फट गई; फिर वह चला गया। १२ और वे उस लडके को जीवित ले आए, और बहुत शान्ति पाई ॥

१३ हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए, कि वहा से हम पौलुस को चढा ले क्योंकि उस ने यह इमलिये ठहराया था, कि आप ही पैदल जानेवाला था। १४ जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। १५ और वहा से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के साम्हने पहुँचे, और अगले दिन सामुस में लगान किया;

* देखो २ अध्याय ४२ पद।

फिर दूसरे दिन मीलेतुस में आए। १६ क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी, कि कहीं ऐसा न हो, कि उसे आसिया में देर लगे; क्योंकि वह जल्दी करता था, कि यदि हो सके, तो उसे पित्तुकुस्त का दिन यरूशलेम में कटे ॥

१७ और उस ने मीलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा, और कलीसिया के प्राचीनों * को बुलवाया। १८ जब वे उस के पास आए, तो उन से कहा,

तुम जानते हो, कि पहिले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। १९ अर्थात् बडी दीनता से, और आसू बहा बहाकर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षडयन्त्र के कारण मुझ पर आ पड़ी; मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। २० और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उन को बताने और लोगों के साम्हने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। २१ बरन यहूदियों और यूनानियों के साम्हने गवाही देता रहा, कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। २२ और अब देखो, मैं आत्मा में बन्धा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता, कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा? २३ केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझ से कहता है, कि बन्धन और क्लेश तेरे लिये तैयार हैं। २४ परन्तु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता : कि उसे प्रिय जानूँ, बरन यह कि मैं अपनी दौड़ को, और उस सेवकाई को पूरी कलं, जो मैं ने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर

गवाही देने के लिये प्रभु यीशु से पाई है।

२५ और अब देखो, मैं जानता हूँ, कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुह फिर न देखो।

२६ इसलिये मैं आज के दिन तुम से गवाही देकर कहता हूँ, कि मैं सब के लोहू से निर्दोष हूँ। २७ क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हे पूरी रीति से बताने से न झिझका। २८ इसलिये अपनी और पूरे भुंड की चौकसी करो; जिस में पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष * ठहराया है; कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उस ने अपने लोहू से मोल लिया है। २९ मैं जानता हूँ, कि मेरे जाने के बाद फाडनेवाले भेडिए तुम में आएंगे, जो भुंड को न छोड़ेंगे। ३० तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेडी मेढी बातें कहेंगे। ३१ इसलिये जागते रहो; और स्मरण करो, कि मैं ने तीन वर्ष तक रात दिन आसू बहा बहाकर, हर एक को चितनी देना न छोड़ा। ३२ और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को, और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ; जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। ३३ मैं ने किसी की चान्दी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। ३४ तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की प्रावश्यकताएं पूरी कीं। ३५ मैं ने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को सम्भालना, और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उस ने आप ही कहा है; कि लेने से देना धन्य है ॥

* या प्रिसबुतियों।

* या विद्यप।

३६ यह कहकर उस ने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। ३७ तब वे सब बहुत रोए और पीलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। ३८ वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे, जो उस ने कही थी, कि तुम मेरा मुह फिर न देखोगे; और उन्होंने ने उसे जहाज तक पहुंचाया ॥

२१ जब हम ने उन से अलग होकर जहाज खोला, तो सीधे मार्ग से कोस में आए, और दूसरे दिन रुदुस में, और वहां से पतरा मे। २ और एक जहाज फीनीके को जाता हुआ मिला, और उस पर चढ़कर, उसे खोल दिया। ३ जब कुप्रुस दिखाई दिया, तो हम ने उसे बाएं हाथ छोड़ा, और सूरिया को चलकर सूर में उतरे; क्योंकि वहा जहाज का बोझ उतारना था। ४ और चेलों को पाकर हम वहां सात दिन तक रहे. उन्होंने ने आत्मा के सिखाए पीलुस से कहा, कि यरूशलेम में पांव न रखना। ५ जब वे दिन पूरे हो गए, तो हम वहां से चल दिए; और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हम ने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। ६ तब एक दूसरे से विदा होकर, हम तो जहाज पर चढ़े, और वे अपने अपने घर लौट गए ॥

७ तब हम सूर से जलयाना पूरी करके पतुलिमयिस में पहुंचे, और भाइयों को नमस्कार करके उन के साथ एक दिन रहे। ८ दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहा रहे। ९ उस की चार कुंबारी पुत्रियां थी; जो भविष्यदाणी करती थी।

१० जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो अगबुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। ११ उस ने हमारे पास आकर पीलुस का पटका लिया, और अपने हाथ पाव बान्धकर कहा; पवित्र आत्मा यह कहता है, कि जिस मनुष्य का यह पटका है, उस को यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बान्धेंगे, और अन्यजातियों के हाथ में सौंपेंगे। १२ जब ये बातें सुनीं, तो हम और वहां के लोगों ने उस से बिनती की, कि यरूशलेम को न जाए। १३ परन्तु पीलुस ने उत्तर दिया, कि तुम क्या करते हो, कि रो रोकर मेरा मन तोडते हो, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिये यरूशलेम में न केवल बान्धे जाने ही के लिये बरन मरने के लिये भी तैयार हूं। १४ जब उस ने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, कि प्रभु की इच्छा पूरी हो ॥

१५ उन दिनों के बाद हम बान्ध छान्धकर यरूशलेम को चल दिए। १६ कैसरिया के भी कितने चले हमारे साथ हो लिए, और मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने चले को साथ ले आए, कि हम उसके यहा टिकें ॥

१७ जब हम यरूशलेम में पहुंचे, तो भाई बड़े आनन्द के साथ हम से मिले। १८ दूसरे दिन पीलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन * इकट्ठे थे। १९ तब उस ने उन्हें नमस्कार करके, जो जो काम परमेश्वर ने उस की सेवकाई के द्वारा अन्यजातियों में किए थे, एक एक करके सब बताया। २० उन्होंने ने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उस से कहा; हे भाई, तू देखता है, कि यहूदियों में

* या प्रिसबुठिर ।

से कई हजार ने विश्वास किया है; और सब व्यवस्था के लिये धुन लगाए हैं। २१ और उन को तेरे विषय में सिखाया गया है, कि तू अन्यजातियों में रहनेवाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है, कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो : सो क्या किया जाए ? २२ लोग अवश्य सुनेंगे, कि तू आया है। २३ इसलिये जो हम तुम्ह से कहते हैं, वह कर : हमारे यहां चार मनुष्य हैं, जिन्हो ने मन्नत मानी है। २४ उन्हें लेकर उन के साथ अपने आप को शुद्ध कर; और उन के लिये खर्चा दे, कि वे सिर मुड़ाएं : तब सब जान लेंगे, कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गईं, उन की कुछ जड़ नहीं है परन्तु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। २५ परन्तु उन अन्यजातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हम ने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूरतों के साम्हने बलि किए हुए मास से, और लोह से, और गला घोटें हुआ के मास से, और व्यभिचार से, बचे रहें। २६ तब पीलुस उन मनुष्यों को लेकर, और दूसरे दिन उन के साथ शुद्ध होकर मन्दिर में गया, और बता दिया, कि शुद्ध होने के दिन, अर्थात् उन में से हर एक के लिये चढावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे ॥

२७ जब वे सात दिन पूरे होने पर थे, तो आसिया के यहूदियों ने पीलुस को मन्दिर में देखकर सब लोगों को उसकाया, और यों चिल्लाकर उस को पकड़ लिया। २८ कि हे इस्राएलियों, सहायता करो; यह वही मनुष्य है, जो लोगों के, और व्यवस्था के, और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहां

तक कि यूनानियों को भी मन्दिर में लाकर उस ने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। २९ उन्होंने ने तो इस से पहले युफिमस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था, और समझते थे, कि पीलुस उसे मन्दिर में ले आया है। ३० तब सारे नगर में कोलाहल मच गया, और लोग दौडकर इकट्ठे हुए, और पीलुस को पकड़कर मन्दिर के बाहर घसीट लाए, और तुरन्त द्वार बन्द किए गए। ३१ जब वे उसे मार डालना चाहते थे, तो पलटन के सरदार को सन्देश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। ३२ तब वह तुरन्त सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उन के पास नीचे दौड़ आया; और उन्हो ने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देख कर पीलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया। ३३ तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया, और दो जजीरो से बान्धने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है, और इस ने क्या किया है ? ३४ परन्तु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान सका, तो उसे गढ में ले जाने की आज्ञा दी। ३५ जब वह सीढ़ी पर पहुंचा, तो ऐसा हुआ, कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। ३६ क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी, कि उसका अन्त कर दो ॥

३७ जब वे पीलुस को गढ में ले जाने पर थे, तो उस ने पलटन के सरदार से कहा; क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुम्ह से कुछ कहूं ? उस ने कहा; क्या तू यूनानी जानता है ? ३८ क्या तू वह भिसरी नहीं, जो इन दिनों से पहिले बलवाई बनाकर चार हजार कटारबन्द लोगों को जङ्गल में ले गया ?

३६ पीलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ ! किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ : और मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि मुझे लोगों से बातें करने दे । ४० जब उस ने आज्ञा दी, तो पीलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगो को हाथ से सैन किया : जब वे चुप हो गए, तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा, कि,

२२ हे भाइयो, और पितरो, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे साम्हने कहता हूँ ॥

२ वे यह सुनकर कि वह हम से इब्रानी भाषा में बोलता है, और भी चुप रहे। तब उस ने कहा ;

३ मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा ; परन्तु इस नगर मे गमलीएल के पावों के पास बैठकर पढ़ाया गया, और बापदादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया ; और परमेश्वर के लिये ऐसी धुन लगाए था, जैसे तुम सब आज लगाए हो । ४ और मैं ने पुरुष और स्त्री दोनों को बान्ध बान्धकर, और बन्दीगृह में डाल डालकर, इस पंथ को यहां तक सताया, कि उन्हें मरवा भी डाला । ५ इस बात के लिये महायाजक और सब पुरनिये गवाह हैं ; कि उन में से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था, कि जो वहां हों उन्हें भी दण्ड दिलाने के लिये बान्धकर यरूशलेम में लाऊं । ६ जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दो पहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी । ७ और मैं भूमि पर गिर पड़ा : और यह शब्द सुना, कि * हे

शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है ? मैं ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, तू कौन है ? ८ उस ने मुझ से कहा ; मैं यीशु नासरी हूँ, जिसे तू सताता है ? ९ और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परन्तु जो मुझ से बोलता था उसका शब्द न सुना । १० तब मैं ने कहा ; हे प्रभु मैं क्या कलूँ ? प्रभु ने मुझ से कहा ; उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिये ठहराया गया है वहां तुम से सब कह दिया जाएगा । ११ जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया । १२ और हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां के रहनेवाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया । १३ और खड़ा होकर मुझ से कहा ; हे भाई शाऊल फिर देखने लग : उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैं ने उसे देखा । १४ तब उस ने कहा ; हमारे बापदादों के परमेश्वर ने तुम्हें इसलिये ठहराया है, कि तू उस की इच्छा को जाने, और उस धर्म को देखे, और उसके मुंह से बातें सुने । १५ क्योंकि तू उस की ओर से सब मनुष्यों के साम्हने उन बातों का गवाह होगा, जो तू ने देखी और सुनी हैं । १६ अब क्यों देर करता है ? उठ, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल । १७ जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मन्दिर में प्रार्थना कर रहा था, तो बेसुध हो गया । १८ और उस को देखा कि मुझ से कहता है ; जल्दी करके यरूशलेम से भ्रष्ट निकल जा : क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे । १९ मैं ने कहा ; हे प्रभु वे तो आप जानते हैं, कि मैं तुम पर विश्वास करनेवालों को बन्दीगृह में डालता और जगह जगह

* यू० जो मुझ से कहता था ।

धाराबनालय में पिटवाता था। २० और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहाँ खड़ा था, और इस बात में सहमत था, और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। २१ और उस ने मुझ से कहा, चला जा: क्योंकि मैं तुम्हें अन्यजातियों के पास दूर दूर भेजूंगा ॥

२२ वे इस बात तक उस की सुनते रहे; तब ऊचे शब्द से चिल्लाए, कि ऐसे मनुष्य का भन्त करो; उसका जीवित रहना उचित नहीं। २३ जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, २४ तो पलटन के सूबेदार ने कहा, कि इसे गढ में ले जाओ, और कोड़े मारकर जांचो, कि मैं जानू कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। २५ जब उन्होंने ने उसे तसमों से बान्धा तो पीलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था, कहा, क्या यह उचित है, कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? २६ सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। २७ तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा; मुझे बता, क्या तू रोमी है? उस ने कहा, हाँ। २८ यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा; कि मैं ने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। पीलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। २९ तब जो लोग उसे जाचने पर थे, वे तुरन्त उसके पास से हट गए; और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है, और मैं ने उसे बान्धा है, डर गया ॥

३० दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते

हैं, उसके बन्धन खोल दिए; और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी, और पीलुस को नीचे ले जाकर उन के साम्हने खड़ा कर दिया ॥

२३

पीलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा, और कहा, हे भाइयो, मैं ने आज तक परमेश्वर के लिये बिलकुल सच्चे विवेक * से जीवन बिताया है। २ हनन्याह महायाजक ने, उन को जो उसके पास खड़े थे, उसके मुह पर थपपड़ मारने की आज्ञा दी। ३ तब पीलुस ने उस से कहा; हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुम्हें मारेगा तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? ४ जो पास खड़े थे, उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? ५ पीलुस ने कहा; हे भाइयो, मैं नहीं जानता था, कि यह महायाजक है; क्योंकि लिखा है, कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। ६ तब पीलुस ने यह जानकर, कि कितने सद्की और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकारकर कहा, हे भाइयो, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ, मरे हुआओं की आज्ञा और पुनरुत्थान † के विषय में मेरा मुकद्दमा हो रहा है। ७ जब उस ने यह बात कही तो फरीसियों और सद्कियों में झगडा होने लगा; और सभा में फूट पड़ गई। ८ क्योंकि सद्की तो यह कहते हैं, कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परन्तु फरीसी दोनों मानते हैं। ९ तब बड़ा हल्का मचा: और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, उठकर

* अर्थात् मन या कान्द्यन्त।

† या श्रुतकोत्थान।

यों कहकर भगड़ने लगे, कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते; और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उस से बोला है तो फिर क्या? १० जब बहुत भगडा हुआ, तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पीलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले पलटन को आज्ञा दी, कि उतरकर उस को उन के बीच में से बरबस निकालो, और गढ़ में ले आओ ॥

११ उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा; हे पीलुस, ढाढस बान्ध; क्योंकि जैसी तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुम्हें रोम में भी गवाही देनी होगी ॥

१२ जब दिन हुआ, तो यहूदियों ने एका किया, और शपथ खाई कि जब तक हम पीलुस को मार न डालें, तब तक खाए या पीएं तो हम पर धक्कारा। १३ जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी, वे चालीस जनों के ऊपर थे। १४ उन्होंने महायाजको और पुरनियों के पास आकर कहा, हम ने यह ठाना है, कि जब तक हम पीलुस को मार न डालें, तब तक यदि कुछ चर्खें भी, तो हम पर धक्कारा पर धक्कारा है।

१५ इसलिये अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ, कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जाच करना चाहते हो, और हम उसके पहंचने से पहिले ही उसे मार डालने के लिये तैयार रहेंगे। १६ और पीलुस के भांजे ने सुना, कि वे उस की घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पीलुस को सन्देश दिया। १७ पीलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा; इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उस से कुछ कहना चाहता है। १८ सो उस ने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा;

पीलुस बन्धुए ने मुझे बुलाकर बिनती की, कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है; उसे उसके पास ले जा। १९ पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर, और अलग ले जाकर पूछा; मुझ से क्या कहना चाहता है? २० उस ने कहा; यहूदियों ने एका किया है, कि तुझ से बिनती करे, कि कल पीलुस को महासभा में लाए, मानो तू और ठीक से उस की जाच करना चाहता है। २१ परन्तु उन की मत मानना, क्योंकि उन में से चालीस के ऊपर मनुष्य उस की घात में है, जिन्होंने यह ठान लिया है, कि जब तक हम पीलुस को मार न डालें, तब तक खाए, पीए, तो हम पर धक्कारा, और अभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं। २२ तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया, कि किसी से न कहना कि तू ने मुझ को ये बातें बताई हैं। २३ और दो सूबेदारों को बुलाकर कहा; दो सौ सिपाही, सत्तर सवार, और दो सौ भालेत, पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिये तैयार कर रखो। २४ और पीलुस की सवारी के लिये घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। २५ उस ने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी;

२६ महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को क्लौडियुस लूसियास का नमस्कार। २७ इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परन्तु जब मैं ने जाना, कि रोमी है, तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। २८ और मैं जानना चाहता था, कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिये उसे उन की महासभा में ले गया। २९ तब मैं ने जान लिया, कि वे अपनी ब्यबस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते

हैं, परन्तु मार डाले जाने या बान्धे जाने के योग्य उस में कोई दोष नहीं। ३० और जब मुझे बताया गया, कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं तो मैं ने तुरन्त उस को तेरे पास भेज दिया; और मुद्दियों को भी आज्ञा दी, कि तेरे साम्हने उस पर नालिश करें।

३१ सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी वैसे ही पौलुस को लेकर रातो-रात अन्तिपत्रिस में लाए। ३२ दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिये छोड़कर आप गढ को लौटे। ३३ उन्होंने ने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी: और पौलुस को भी उसके साम्हने खड़ा किया। ३४ उस ने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है? ३५ और जब जान लिया कि किलकिया का है; तो उस से कहा; जब तेरे मुद्दई भी आएंगे, तो मैं तेरा मुकद्दमा करूंगा: और उस ने उसे हेरोदेस के किले * में, पहले में रखने की आज्ञा दी।।

२४ पाच दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियो और तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया; उन्हो ने हाकिम के साम्हने पौलुस पर नालिश की। २ जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, कि,

हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है; और तेरे प्रबन्ध से इस जाति के लिये कितनी बुराइयां सुधरती जाती हैं। ३ इस को हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। ४ परन्तु इसलिये कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझ से बिनती करता हूं, कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले।

* यू० प्रितोरियुम।

५ क्योंकि हम ने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करानेवाला, और नासरियों के कुपन्थ का मुखिया पाया है। ६ उस ने मन्दिर को अशुद्ध करना चाहा, और हम ने उसे पकड़ा। ८ इन सब बातों को जिन के विषय में हम उस पर बोध लगाते हैं, तू आपही उस को जांच करके जान लेगा। ९ यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं।।

१० जब हाकिम ने पौलुस को बोलने के लिये सैन किया तो उस ने उत्तर दिया,

मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनन्द से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। ११ तू आप जान सकता है, कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया, मुझे बारह दिन से ऊपर नहीं हुए। १२ और उन्हो ने मुझे न मन्दिर में न सभा के घरों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया। १३ और न तो वे उन बातों को, जिन का वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं, तेरे साम्हने सच ठहरा सकते हैं। १४ परन्तु यह मैं तेरे साम्हने मान लेता हूं, कि जिस पन्थ को वे कुपन्थ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने आपदादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं: और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रतीति करता हूँ। १५ और परमेश्वर से आज्ञा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्म और अधर्म दोनों का जी उठना होगा। १६ इस से मैं आप भी यतन करता हूँ, कि परमेश्वर की, और मनुष्यों की और मेरा विवेक * सदा निर्दोष

* अर्थात् मन या कान्शन्स।

रहे। १७ बहुत वर्षों के बाद में अपने लोगों को दान पहुचाने, और भेंट चढ़ाने आया था। १८ उन्होने मुझे मन्दिर में, शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ, और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया—हां आसिया के कई यहूदी थे—उन को उचित था, १९ कि यदि मेरे विरोध में उन की कोई बात हो तो यहां तेरे साम्हने आकर मुझ पर दोष लगाते। २० या ये आप ही कहें, कि जब मैं महासभा के साम्हने खड़ा था, तो उन्होंने ने मुझ में कौन सा अपराध पाया ? २१ इस एक बात को छोड़ जो मैंने उन के बीच में खड़े होकर पुकारकर कहा था, कि मरे हुआ के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे साम्हने मुकद्दमा हो रहा है ॥

२२ फेलिक्स ने जो इस पन्थ की बाते ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा, तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। २३ और सूबेदार को आज्ञा दी, कि पौलुस को सुख से रखकर रखवाली करना, और उसके मित्रों में से किसी को भी उस की सेवा करने से न रोकना ॥

२४ कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी ड्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया; और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास * के विषय में जो मसीह यीशु पर है, उस से सुना। २५ और जब वह धर्म और सयम और आनेवाले न्याय की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया, कि अभी तो जा : अवसर पाकर मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा।

* या धर्म।

२६ उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी आस थी; इसलिये और भी बुला बुलाकर उस से बातें किया करता था। २७ परन्तु जब दो वर्ष बीत गए, तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बन्धुआ छोड़ गया ॥

२५ फेस्तुस उस प्रान्त में पहुचकर तीन दिन के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। २ तब महायाजकों ने, और यहूदियों के बड़े लोगों ने, उसके साम्हने पौलुस की नालिश की। ३ और उस से बिनती करके उसके विरोध में यह बर चाहा, कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे। ४ फेस्तुस ने उत्तर दिया, कि पौलुस कैसरिया में पहले में है, और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। ५ फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं, वे साथ चले, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है, तो उस पर दोष लगाए ॥

६ और उन के बीच कोई आठ दस दिन रहकर वह कैसरिया गया : और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस के लाने की आज्ञा दी। ७ जब वह आया, तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे, उन्होंने ने आस पास खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष लगाए, जिन का प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। ८ परन्तु पौलुस ने उत्तर दिया, कि मैं ने न तो यहूदियों की व्यवस्था का और न मन्दिर का, और न कैसर का कुछ अपराध किया है। ९ तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया, क्या तू चाहता है, कि यरूशलेम को

जाए; और वहां मेरे साम्हने तेरा यह मुकद्दमा तय किया जाए? १० पौलुस ने कहा; मैं कैसर के न्याय आसन के साम्हने खड़ा हूं; मेरे मुकद्दमे का यहीं फैसला होना चाहिए: जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैं ने कुछ अपराध नहीं किया। ११ यदि अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है; तो मरने से नहीं मुकरता; परन्तु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उन में से कोई बात सच न ठहरे, तो कोई मुझे उन के हाथ नहीं सौंप सकता: मैं कैसर की दोहाई देता हूँ। १२ तब फेस्तुस ने मन्त्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तू ने कैसर की दोहाई दी है, तू कैसर के पास जाएगा।

१३ और कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेट की। १४ और उन के बहुत दिन वहा रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई, कि एक मनुष्य है, जिसे फेलिक्स बन्धुआ छोड़ गया है। १५ जब मैं यरूशलेम में था, तो महायाजक और यहूदियों के पुरनियो ने उस की नालिश की, और चाहा, कि उस पर दण्ड की आज्ञा दी जाए। १६ परन्तु मैं ने उन को उत्तर दिया, कि रोमियों की यह रीति नहीं, कि किसी मनुष्य को दण्ड के लिये सौंप दें, जब तक मुद्दा अलैह को अपने मुद्दमों के आमने-सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। १७ सो जब वे यहां इकट्ठे हुए, तो मैं ने कुछ देर न की परन्तु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर, उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। १८ जब उसके मुद्दे खड़े हुए, तो उन्होंने ने ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया, जैसा मैं समझता था। १९ परन्तु अपने मत के,

और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था, और पौलुस उस को जीवित बताता था, विवाद करते थे। २० और मैं उलभन में था, कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं? इसलिये मैं ने उस से पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा, कि वहा इन बातों का फैसला हो? २१ परन्तु जब पौलुस ने दोहाई दी, कि मेरे मुकद्दमे का फैसला महाराजाधिराज के यहां हो; तो मैं ने आज्ञा दी, कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं, उस की रखवाली की जाए। २२ तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ. उस ने कहा, तू कल सुन लेगा।

२३ सो दूसरे दिन, जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तो फेस्तुस ने आज्ञा दी, कि वे पौलुस को ले आए। २४ फेस्तुस ने कहा; हे महाराजा अग्रिप्पा, और हे सब मनुष्यो जो यहा हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो, जिस के विषय में सारे यहूदियों ने यरूशलेम में और यहां भी चिल्ला चिल्लाकर मुझ से बिनती की, कि इस का जीवित रहना उचित नहीं। २५ परन्तु मैं ने जान लिया, कि उस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए; और जब कि उस ने आप ही महाराजाधिराज की दोहाई दी, तो मैं ने उसे भेजने का उपाय निकाला। २६ परन्तु मैं ने उसके विषय में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूँ, इसलिये मैं उसे तुम्हारे साम्हने और विशेष करके हे महाराजा अग्रिप्पा तेरे साम्हने लाया हूँ, कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले। २७ क्योंकि बन्धुए को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए,

उन्हें न बताना, मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है ॥

२६ अग्निप्या ने पौलुस से कहा; तुम्हें अपने विषय में बोलने की आज्ञा है: तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, कि,

२ हे राजा अग्निप्या, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे साम्हने उन का उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। ३ विशेष करके इसलिये कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है, सो मैं बिनती करता हूँ, धीरे-धीरे मेरी सुन ले। ४ जैसा मेरा चाल चलन आरम्भ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते हैं। ५ वे यदि गवाही देना चाहते हैं, तो आरम्भ से मुझे पहिचानते हैं, कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सब से खरे पन्थ के अनुसार चला। ६ और अब उस प्रतिज्ञा की आज्ञा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बापदादों से की थी, मुझ पर मुकद्दमा चल रहा है। ७ उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आज्ञा लगाए हुए, हमारे बारहों गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं: हे राजा, इसी आज्ञा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। ८ जब कि परमेश्वर मरे हुएों को जिलाता है, तो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? ९ मैं ने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। १० और मैं ने यरूशलेम में ऐसा ही किया; और महायाजको से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बन्दीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे, तो मैं भी उन के

विरोध में अपनी सम्मति देता था। ११ और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निन्दा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया, कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। १२ इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था। १३ तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैं ने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलनेवालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। १४ और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैं ने इब्रानी भाषा में, मुझ से यह कहते हुए यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैं ने पर लात मारना तेरे लिये कठिन है। १५ मैं ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। १६ परन्तु तू उठ, अपने पावों पर खड़ा हो; क्योंकि मैं ने तुम्हें इसलिये दर्शन दिया है, कि तुम्हें उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊँ, जो तू ने देखी है, और उन का भी जिन के लिये मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। १७ और मैं तुम्हें तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता रहूँगा, जिन के पास मैं अब तुम्हें इसलिये भेजता हूँ। १८ कि तू उन की आखें खोले, कि वे अधिकार से ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे; कि पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मीरास पाएं। १९ सो हे राजा अग्निप्या, मैं ने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। २० परन्तु पहिले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहनेवालों को, तब

यहूदिया के सारे देश में और अन्यजातियों को समझाता रहा, कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। २१ इन बातों के कारण यहूदी मुझे मन्दिर में पकड़के मार डालने का यत्न करते थे। २२ सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के साम्हने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता, जो भविष्यद्वक्ताओ और मूसा ने भी कहा कि होनेवाली हैं। २३ कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सब से पहिले मरे हुएओं में से जी उठकर, हमारे लोगों में और अन्यजातियों में ज्योति का प्रचार करेगा ॥

२४ जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था, तो फेस्तुस ने ऊँचे शब्द से कहा; हे पौलुस, तू पागल है; बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। २५ परन्तु उस ने कहा; हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परन्तु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। २६ राजा भी जिस के साम्हने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है, और मुझे प्रतीति है, कि इन बातों में से कोई उस से छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। २७ हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओ की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ, कि तू प्रतीति करता है। २८ तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से * मुझे मसीही बनाना चाहता है? २९ पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परन्तु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं,

इन बन्धनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं ॥

३० तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उन के साथ बैठनेवाले उठ खड़े हुए। ३१ और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता, जो मृत्यु या बन्धन के योग्य हो। ३२ अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा; यदि यह मनुष्य कैसर की दोहाई न देता, तो छूट सकता था ॥

२७ जब यह ठहराया गया, कि हम जहाज पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने ने पौलुस और कितने और बन्धुओं को भी यूलियुस नाम अगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। २ और अद्रमत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हम ने उसे खोल दिया, और अरिस्तर्खुस नाम थिससलुनीके का एक मकिदूनी हमारे साथ था। ३ दूसरे दिन हम ने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहां जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। ४ वहा से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की घाड़ में होकर चले। ५ और किलिकिया और पफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। ६ वहां सूबेदार को सिकन्दरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, और उस ने हमें उस पर चढ़ा दिया। ७ और जब हम बहुत दिनो तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के साम्हने पहुँचे, तो इसलिये कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, सलमोने के साम्हने से होकर जेते की घाड़ में चले। ८ और उसके

* यू० थोडे में।

किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ-लंगरबारी नाम एक जगह पहुंचे, जहां से लसया नगर निकट था ॥

६ जब बहुत दिन बीत गए, और जल-यात्रा में जोखिम इसलिये होती थी कि उपवास के दिन भ्रम बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया। १० कि हे सज्जनो मुझे ऐसा जान पड़ता है, कि इस यात्रा में बिपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की बरन हमारे प्राणों की भी होनेवाली है। ११ परन्तु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांभी और जहाज के स्वामी की बढकर मानी। १२ और वह बन्दर स्थान जाड़ा काटने के लिये अच्छा न था; इसलिये बहुतों का विचार हुआ, कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके, तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें: यह तो क्रेते का एक बन्दर स्थान है जो दक्खिन-पच्छिम और उत्तर-पच्छिम की ओर खुलता है। १३ जब कुछ कुछ दक्खिनी हवा बहने लगी, तो यह समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लगर उठाय़ा और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। १४ परन्तु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आधी उठी, जो यूरकुलीन कहलाती है। १५ जब यह जहाज पर लगी, तब वह हवा के साम्हने ठहर न सका, सो हम ने उसे बहने दिया, और इसी तरह बहते हुए चले गए। १६ तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की झाड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को बष में कर सके। १७ मल्लाहों ने उसे उठाकर, अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बान्धा, और सुरतिस के चोर-बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर, बहते हुए चले गए। १८ और जब हम ने आधी से बहुत हिच-

कोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। १९ और तीसरे दिन उन्होंने ने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। २० और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, और बड़ी आधी चल रही थी, तो अन्त में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। २१ जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो पौलुस ने उन के बीच में खड़ा होकर कहा; हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर, क्रेते से न जहाज खोलते और न यह बिपत्त और हानि उठाते। २२ परन्तु भ्रम में तुम्हें समझाता हूँ, कि ढाढस बान्धो; क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। २३ क्योंकि परमेश्वर जिस का मैं हूँ, और जिस की सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। २४ हे पौलुस, मत डर, तुम्हें कैसर के साम्हने खड़ा होना भवष्य है। और देख, परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुम्हें दिया है। २५ इसलिये, हे सज्जनो ढाढस बान्धो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ, कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही होगा। २६ परन्तु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा ॥

२७ जब चौदहवीं रात हुई, और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से जाना, कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। २८ और थाह लेकर उन्होंने ने बीस पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली, तो पन्द्रह पुरसा पाया। २९ तब पत्थरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने ने जहाज की पिछाड़ी चार लंगर डाले, और भोर का होना मनाते

रहे। ३० परन्तु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे, और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। ३१ तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा; यदि ये जहाज पर न रहे, तो तुम नहीं बच सकते। ३२ तब सिपाहियों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। ३३ जब भोर होने पर था, तो पौलुस ने यह कहके, सब को भोजन करने को समझाया, कि आज चौदह दिन हुए कि तुम भ्रास देखते देखते भूखे रहे, और कुछ भोजन न किया। ३४ इसलिये तुम्हें समझाता हूँ, कि कुछ खा लो, जिस से तुम्हारा बचाव हो; क्योंकि तुम मे से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। ३५ और यह कहकर उस ने रोटी लेकर सब के साम्हने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और तोड़कर खाने लगा। ३६ तब वे सब भी डाढस बान्धकर भोजन करने लगे। ३७ हम सब मिलकर जहाज पर दो सौ छिहत्तर जन थे। ३८ जब वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूँ को समुद्र में फेंक कर जहाज हलका करने लगे। ३९ जब बिहान हुआ, तो उन्होंने उस देश को नहीं पहिचाना, परन्तु एक खाड़ी देखी जिस का चौरस किनारा था, और विचार किया, कि यदि हो सके, तो इसी पर जहाज को टिकाए। ४० तब उन्होंने न लगरो को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारो के बन्धन खोल दिए, और हवा के साम्हने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। ४१ परन्तु दो समुद्र के सगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया, और गलही तो धक्का खाकर गड गई, और टल न सकी, परन्तु पिछाडी लहरो के बल से टूटने लगी। ४२ तब

सिपाहियों का यह विचार हुआ, कि बन्धुओं को मार डालें; ऐसा न हो, कि कोई पैरके निकल भागे। ४३ परन्तु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका, और यह कहा, कि जो तैर सकते हैं, पहिले कूदकर किनारे पर निकल जाए। ४४ और बाकी कोई पटरो पर, और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले।।

२८ जब हम बच निकले, तो ज्ञाना कि यह टापू मिन्ति कहलाता है। २ और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की; क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था, और जाडे के कारण उन्हो ने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया। ३ जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोरकर आग पर रखा, तो एक साप आच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। ४ जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा, तो आपस में कहा; सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया, तौभी न्याय ने जीवित रहने न दिया। ५ तब उस ने साप को आग में भटक दिया, और उसे कुछ हानि न पहुँची; ६ परन्तु वे बाट जोहते थे, कि वह सूज जाएगा, या एकाएक गिरके मर जाएगा, परन्तु जब वे बहुत देर तक देखते रहे, और देखा, कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा; यह तो कोई देवता है।।

७ उस जगह के भ्रासपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी: उस ने हमें अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्र-भाव से पहुनाई की। ८ पुबलियुस का

पिता ज्वर और आंव लोहू से रोगी पड़ा था : सौ पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की, और उस पर हाथ रखकर उसे बंगा किया। ६ जब ऐसा हुआ, तो उस टापू के बाकी बीमार आए, और बंगे किए गए। १० और उन्होंने ने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे, तो जो कुछ हमें अवश्य था, जहाज पर रख दिया।

११ तीन महीने के बाद हम सिकन्दरिया के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू में जाड़े भर रहा था; और जिस का चिन्ह दियुसकूरी था। १२ सुरकूसा में लगर डाल करके हम तीन दिन टिके रहे। १३ वहा से हम धूमकर रेगियुम में आए : और एक दिन के बाद दक्खिनी हवा चली, तब दूसरे दिन पुतियुली में आए। १४ वहा हम को भाई मिले, और उन के कहने से हम उन के यहा सात दिन तक रहे; और इस रीति से रोम को चले। १५ वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अस्पियुस के चौक और तीन-सराए तक हमारी भेंट करने को निकल आए जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और ढाढ़स बांधा।

१६ जब हम रोम में पहुंचे, तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उस की रखवाली करता था, भकेले रहने की आज्ञा हुई।

१७ तीन दिन के बाद उस ने यहूदियों के बड़े लोगों को बुलाया, और जब वे इकट्ठे हुए, तो उन से कहा; हे भाइयो, मैं ने अपने लोगों के या बापदादों के व्यवहारो के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तौभी बन्धुआ होकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौपा गया। १८ उन्हो ने मुझे जांच कर छोड़

देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। १९ परन्तु जब यहूदी इस के विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर की दोहाई देनी पड़ी : न यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। २० इसलिये मैं ने तुम को बुलाया है, कि तुम से मिलू और बातचीत करू; क्योंकि इलाएल की आज्ञा के लिये मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हू। २१ उन्होंने ने उस से कहा; न हम ने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठिया पाई, और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया, और न बुरा कहा। २२ परन्तु तेरा विचार क्या है? वही हम तुझ से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें कहते हैं।

२३ तब उन्हो ने उसके लिये एक दिन ठहराया, और बहुत लोग उसके यहा इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ, और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तको से यीशु के विषय में समझा समझाकर भोर से सांभ तक बर्णन करता रहा। २४ तब कितनों ने उन बातों को मान लिया, और कितनों ने प्रतीति न की। २५ जब आपस में एक मत न हुए, तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए, कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बापदादों से अच्छा कहा, कि जाकर इन लोगों से कह। २६ कि सुनते तो रहोगे, परन्तु न समझोगे, और देखते तो रहोगे, परन्तु न बुझोगे। २७ क्योंकि इन लोगों का मन मोटा, और उन के कान भारी हो गए, और उन्होंने ने अपनी आंखें बन्द की है, ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें, और कानों से सुनैं, और मन से समझें और फिर,

और मैं उन्हें बंगा करूँ। २८ सो तुम जानो, कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्यजातियों के पास भेजी गई है, और वे सुनेंगे। २९ जब उस ने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहाँ से चले गए ॥

३० और वह पूरे दो वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। ३१ और जो उसके पास आते थे, उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा ॥

रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की-और से जो यीशु मसीह का दास है, और प्रेरित होने के लिये बुलाया गया, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिये अलग किया गया है। २ जिस की उस ने पहिले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। ३ अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। ४ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुआ में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। ५ जिस के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली; कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उस की मानें। ६ जिन में से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिये बुलाए गए हो। ७ उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिये बुलाए गए हैं ॥

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

८ पहिले मैं तुम सब के लिये यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ९ परमेश्वर जिस की सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है; कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। १० और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में बिनती करता हूँ, कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सुफल हो। ११ क्योंकि मैं तुम से मिलने की लालसा करता हूँ, कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक बरदान दूँ जिस से तुम स्थिर हो जाओ। १२ अर्थात् यह, कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में, और तुम में है, शान्ति पाऊँ। १३ और हे भाइयो, मैं नहीं चाहता, कि तुम इस से अनजान रहो, कि मैं ने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे और अन्यजातियों में फल मिला, वैसा ही तुम में भी मिले, परन्तु अब तक षका रहा। १४ मैं यूनानियों और अन्यभाषियों का और

बुद्धिमानो और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ।
 १५ सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ।
 १६ क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिये कि वह हर एक विश्वास करनेवाले के लिये, पहिले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। १७ क्योंकि उस में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, और विश्वास के लिये प्रगट होती है, जैसा लिखा है, कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा ॥

१८ परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रगट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। १९ इसलिये कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उन के मनों में प्रगट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है। २० क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अर्थात् उस की सनातन सामर्थ्य, और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। २१ इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परन्तु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उन का निर्बुद्धि मन अन्धेरा हो गया। २२ वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। २३ और अबिनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, और पक्षियों, और चौपायों, और रंगनेवाले जन्तुओं की मूरत की समानता में बदल डाला ॥

२४ इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उन के मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिये छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने शरीरों का घनादर करें। २५ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर

भूठ बना डाला, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन ॥

२६ इसलिये परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के बश में छोड़ दिया; यहां तक कि उन की स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, उस से जो स्वभाव के विरुद्ध है, बदल डाला। २७ वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया ॥

२८ और जब उन्होने परमेश्वर को पहिचानना न चाहा, इसलिये परमेश्वर ने भी उन्हें उन के निकम्मे मन पर छोड़ दिया, कि वे अनुचित काम करें। २९ सो वे सब प्रकार के अधर्म, और दुष्टता, और लोभ, और बैरभाव, से भर गए; और डाह, और हत्या, और झगडे, और छल, और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर। ३० बदनाम करनेवाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का घनादर करनेवाले, अभिमानी, डीगमार, बुरी बुरी बातों के बनानेवाले, माता पिता की आज्ञा न माननेवाले; ३१ निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दय हो गए। ३२ वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवाले मृत्यु के दण्ड के योग्य हैं, तौभी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, बरन करनेवालो से प्रसन्न भी होते हैं ॥

२ सो हे दोष लगानेवाले, तू कोई बयो न हो; तू निरुत्तर है! क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिये कि तू जो दोष लगाता है, आप ही

वही काम करता है। २ और हम जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दण्ड की आज्ञा होती है। ३ और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर दोष लगाता है, और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है, कि तू परमेश्वर की दण्ड की आज्ञा से बच जाएगा ? ४ क्या तू उस को कृपा, और सहनशीलता, और धीरजरूपी धन को तुच्छ जानता है ? और क्या यह नहीं समझता, कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है ? ५ पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिये, जिस में परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रगट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। ६ वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ७ जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, और आदर, और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनन्त जीवन देगा। ८ पर जो विवादो है, और सत्य को नहीं मानते, बरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ९ और क्लेश और सकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर। १० पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा, जो भला करता है, पहिले यहूदी को फिर यूनानी को। ११ क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। १२ इसलिये कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उन का दण्ड व्यवस्था के अनुसार होगा। १३ (क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुननेवाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलनेवाले धर्मी ठहराए

जाएंगे। १४ फिर जब अन्यजाति लोग जिन के पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उन के पास न होने पर भी वे अपने लिये आप ही व्यवस्था हैं। १५ वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उन के विवेक * भी गवाही देने हैं, और उन की चिन्ताएं परस्पर दोष लगाती, या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं।) १६ जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा।।

१७ यदि तू यहूदी कहलाता है, और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में घमण्ड करता है। १८ और उस की इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। १९ और अपने पर भरोसा रखता है, कि मैं अन्धों का अग्रगण्य, और अग्रकार में पड़े हुए की ज्योति। २० और बुद्धिहीनों का सिखाने-वाला, और बालकों का उपदेशक हू, और ज्ञान, और सत्य का नमूना, जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है। २१ सो क्या तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता ? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है ? २२ तू जो कहता है, व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है ? तू जो मूर्तों से बूणा करता है, क्या आप ही मन्दिरों को लूटता है। २३ तू जो व्यवस्था के विषय में घमण्ड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर, परमेश्वर का अनादर करता है ? २४ क्योंकि तुम्हारे कारण

* अर्थात् मन या कान्धन्स ।

अन्यजातियों में परमेश्वर के नाम की निन्दा की जाती है जैसा लिखा भी है। २५ यदि तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाभ तो है, परन्तु यदि तू व्यवस्था को न माने, तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। २६ सो यदि खतनारहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उस की बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? २७ और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? २८ क्योंकि वह यहूदी नहीं, जो प्रगट में यहूदी है; और न वह खतना है, जो प्रगट में है, और देह में है। २९ पर यहूदी वही है, जो मन में है; और खतना वही है, जो हृदय का और आत्मा में है; न कि लेख का: ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की और से नहीं, परन्तु परमेश्वर की ओर से होती है।।

३ सो यहूदी की क्या बड़ाई, या खतने का क्या लाभ? २ हर प्रकार से बहुत कुछ। पहिले तो यह कि परमेश्वर के वचन उन को सीपे गए। ३ यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ। क्या उन के विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? ४ कदापि नहीं, बरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य भूटा ठहरे, जैसा लिखा है, कि जिस से तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। ५ सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? (यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ)।

६ कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्योंकर जगत का न्याय करेगा? ७ यदि मेरे भूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उस की महिमा के लिये अधिक करके प्रगट हुई, तो फिर क्यों पापी की नाई में दण्ड के योग्य ठहराया जाता हूँ? ८ और हम क्यों बुराई न करें, कि भलाई निकले? जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है, और कितने कहते हैं, कि इन का यही कहना है: परन्तु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है।।

९ तो फिर क्या हुआ? क्या हम उन से अच्छे हैं? कभी नहीं; क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। १० जैसा लिखा है, कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ११ कोई समझदार नहीं; कोई परमेश्वर का खोजनेवाला नहीं। १२ सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करनेवाला नहीं, एक भी नहीं। १३ उन का गला खुली हुई कब्र है: उन्होंने ने अपनी जीभो से छल किया है: उन के होठो में सापों का विष है। १४ और उन का मुह श्राप और कड़वाहट से भरा है। १५ उन के पाद लोहू बहाने को फुर्तीले हैं। १६ उन के मार्गों में नाश और क्लेश है। १७ उन्हो ने कुशल का मार्ग नहीं जाना। १८ उन की आँखों के साम्हने परमेश्वर का भय नहीं।।

१९ हम जानते हैं, कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्ही से कहती है, जो व्यवस्था के आधीन हैं: इसलिये कि हर एक मुंह बन्द किया जाए, और सारा ससार परमेश्वर के दण्ड के योग्य ठहरे। २० क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके साम्हने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिये कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहिचान होती है। २१ पर अब

बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रगट हुई है, जिस की गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। २२ अर्थात् परमेश्वर की वह धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करनेवालों के लिये है; क्योंकि कुछ भेद नहीं। २३ इसलिये कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। २४ परन्तु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, संत भेत धर्मी ठहराए जाते हैं। २५ उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहिले किए गए, और जिन की परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उन के विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रगट करे। २६ बरन इसी समय उस की धार्मिकता प्रगट हो; कि जिस से वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, उसका भी धर्मी ठहरानेवाला हो। २७ तो घमण्ड करना कहा रहा? उस की तो जगह ही नहीं: कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, बरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। २८ इसलिये हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं, कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। २९ क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्यजातियों का नहीं? हा, अन्यजातियों का भी है। ३० क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खतनावालों को विश्वास से और खतनारहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। ३१ तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं; बरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं।

४ सो हम क्या कहें, कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहीम को क्या प्राप्त हुआ? २ क्योंकि यदि इब्राहीम कामों से धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमण्ड करने की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट नहीं। ३ पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहीम ने परमेश्वर पर विश्वास किया *, और यह उसके लिये धार्मिकता गिना गया। ४ काम करनेवाले की मजदूरी देना दान नहीं, परन्तु हक्क समझा जाता है। ५ परन्तु जो काम नहीं करता बरन भक्तिहीन के धर्मी ठहरानेवाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिये धार्मिकता गिना जाता है। ६ जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। ७ कि धन्य वे हैं, जिन के अधर्म क्षमा हुए, और जिन के पाप ढापे गए। ८ धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। ९ तो यह धन्य कहना, क्या खतनावालों ही के लिये है, या खतनारहितों के लिये भी? हम यह कहते हैं, कि इब्राहीम के लिये उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। १० तो वह क्योंकर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परन्तु बिना खतने की दशा में। ११ और उस ने खतने का चिन्ह पाया, कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए, जो उस ने बिना खतने की दशा में रखा था। जिस से वह उन सब का पिता ठहरे, जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरें। १२ और उन खतना किए हुए का पिता हो, जो न केवल खतना किए हुए हैं, परन्तु हमारे पिता

* यू० की प्रतीति की।

इब्राहीम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो उस ने बिन खतने की दशा में किया था। १३ क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहीम को, न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परन्तु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। १४ क्योंकि यदि व्यवस्थावाले वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। १५ व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं। १६ इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिये दृढ़ है, न कि केवल उसके लिये जो व्यवस्थावाला है, बरन उन के लिये भी जो इब्राहीम के समान विश्वासवाले हैं: वही तो हम सब का पिता है। १७ (जैसा लिखा है, कि मैं ने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है), उस परमेश्वर के साम्हने जिस पर उस ने विश्वास किया और जो मरे हुआ को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उन का नाम ऐसा लेता है, कि मानो वे हैं। १८ उस ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिये कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। १९ और वह जो एक सौ वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सागर के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। २० और न भविष्यवासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर सदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। २१ और निश्चय जाना, कि जिस बात की उस ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। २२ इस कारण, यह उसके लिये धार्मिकता गिना गया। २३ और

यह वचन, कि विश्वास उसके लिये धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिये लिखा गया। २४ बरन हमारे लिये भी जिन के लिये विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात् हमारे लिये जो उस पर विश्वास करते हैं, जिस ने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। २५ वह हमारे अपराधों के लिये पकड़वाया गया, और हमारे धर्मों ठहरने के लिये जिलाया भी गया ॥

५ सो जब हम विश्वास से धर्मों ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। २ जिस के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, जिस में हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमण्ड करें। ३ केवल यही नहीं, बरन हम क्लेशों में भी घमण्ड करे, यही जानकर कि क्लेश से धीरज। ४ और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ५ और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ६ क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिये मरा। ७ किसी धर्मों जन के लिये कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परन्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिये कोई मरने का भी हियाव करे। ८ परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रगट करता है, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिये मरा। ९ सो जब कि हम, अब उसके लोहू के कारण धर्मों ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? १० क्योंकि बैरी होने

की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? ११ और केवल यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस के द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमण्ड भी करते हैं ॥

१२ इसलिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिये कि सब ने पाप किया। १३ क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परन्तु जहा व्यवस्था नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता। १४ तौभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगो पर भी राज्य किया, जिन्हो ने उस आदम के अपराध की नाई जो उस आनेवाले का चिन्ह है, पाप न किया। १५ पर जैसा अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के बरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के, अर्थात् यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतेरे लोगो पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। १६ और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दण्ड की आज्ञा का फंसला हुआ, परन्तु बहुतेरे अपराधों से ऐसा बरदान उत्पन्न हुआ, कि लोग धर्मी ठहरे। १७ क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी बरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के, अर्थात् यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनन्त जीवन में राज्य करेंगे। १८ इसलिये जैसा

एक अपराध सब मनुष्यों के लिये दण्ड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिये जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। १९ क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। २० और व्यवस्था बीच में आ गई, कि अपराध बहुत हो, परन्तु जहा पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उस से भी कहीं अधिक हुआ। २१ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिये धर्मी ठहराते हुए राज्य करे ॥

६ सो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहें, कि अनुग्रह बहुत हो? २ कदापि नहीं, हम जब पाप के लिये मर गए तो फिर आगे को उस में क्योंकि जीवन बिताएं? ३ क्या तुम नहीं जानते, कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उस की मृत्यु का बपतिस्मा लिया? ४ सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाडे गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी गए जीवन की सी चाल चलें। ५ क्योंकि यदि हम उस की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। ६ क्योंकि हम जानते हैं, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। ७ क्योंकि जो मर गया, वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ८ सो यदि हम

मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, कि उसके साथ जीएंगे भी। ६ क्योंकि यह जानते हैं, कि मसीह मरे हुएओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की।

१० क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिये एक ही बार मर गया; परन्तु जो जीवित है, तो परमेश्वर के लिये जीवित है। ११ ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये मसीह यीशु में जीवित समझो ॥

१२ इसलिये पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य न करे, कि तुम उस की लालसाओं के आधीन रहो। १३ और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिये पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुएओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिये परमेश्वर को सौंपो। १४ और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के आधीन नहीं बरन अनुग्रह के आधीन हो ॥

१५ तो क्या हुआ ? क्या हम इसलिये पाप करें, कि हम व्यवस्था के आधीन नहीं बरन अनुग्रह के आधीन हैं ? कदापि नहीं। १६ क्या तुम नहीं जानते, कि जिस की आज्ञा मानने के लिये तुम अपने आप को दासों की नाईं सौंप देते हो, उसी के दास हो : और जिस की मानते हो, चाहे पाप के, जिस का अन्त मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, जिस का अन्त धार्मिकता है ? १७ परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप के दास थे तौभी मन से उस उपदेश के माननेवाले हो गए, जिस के साँचे में ढाले गए थे। १८ और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। १९ मैं तुम्हारी

शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुम ने अपने अंगों को कुकर्म के लिये अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिये धर्म के दास करके सौंप दो। २० जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। २१ सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उन से उस समय तुम क्या फल पाते थे ? २२ क्योंकि उन का अन्त तो मृत्यु है परन्तु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला जिस से पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अन्त अनन्त जीवन है। २३ क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परन्तु परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनन्त जीवन है ॥

७ हे भाइयो, क्या तुम नहीं जानते (मैं व्यवस्था के जाननेवालों से कहता हूँ), कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है ? २ क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उस से बन्धी है, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। ३ सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तौभी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। ४ सो हे मेरे भाइयो, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिये मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुएओं में से जी उठा : ताकि हम परमेश्वर के लिये फल लाए। ५ क्योंकि जब हम शारीरिक थे, तो पापों की अभिलाषायें जो व्यवस्था के

द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिये हमारे अंगों में काम करती थी। ६ परन्तु जिस के बन्धन में हम थे उसके लिये मर कर, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, बरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं ॥

७ तो हम क्या कहे ? क्या व्यवस्था पाप है ? कदापि नहीं ! बरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहिचानता : व्यवस्था यदि न कहती, कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता। ८ परन्तु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। ९ मैं तो व्यवस्था बिना पहिले जीवित था, परन्तु जब आज्ञा आई, तो पाप जी गया, और मैं मर गया। १० और वही आज्ञा जो जीवन के लिये थी, मेरे लिये मृत्यु का कारण ठहरी। ११ क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। १२ इसलिये व्यवस्था पवित्र है, और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। १३ तो क्या वह जो अच्छी थी, मेरे लिये मृत्यु ठहरी ? कदापि नहीं ! परन्तु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवाला हुआ कि उसका पाप होना प्रगट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। १४ क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परन्तु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। १५ और जो मैं करता हूँ, उस को नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, वह नहीं किया करता, परन्तु जिस से मुझे घृणा आती है, वही करता हूँ। १६ और यदि, जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ, कि

व्यवस्था भली है। १७ तो ऐसी दशा में उसका करनेवाला मैं नहीं, बरन पाप है, जो मुझ में बसा हुआ है। १८ क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मुझ में अर्थात् मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु बास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है, परन्तु भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते। १९ क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ। २० परन्तु यदि मैं वही करता हूँ, जिस की इच्छा नहीं करता, तो उसका करनेवाला मैं न रहा, परन्तु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। २१ सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ, कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, तो बुराई मेरे पास आती है। २२ क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। २३ परन्तु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था की बन्धन में डालती है जो मेरे अंगों में है। २४ मैं कैसा अभाग मनुष्य हूँ ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा ? २५ मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ : निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परन्तु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ ॥

८ सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दण्ड की आज्ञा नहीं : क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। २ क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ३ क्योंकि जो काम व्यवस्था

शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उस को परमेश्वर ने किया, अर्थात् अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, और पाप के बलिदान होने के लिये भेजकर, शरीर में पाप पर दण्ड की आज्ञा दी। ४ इसलिये कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। ५ क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं; परन्तु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ६ शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शान्ति है। ७ क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बँर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के आधीन है, और न हो सकता है। ८ और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ९ परन्तु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परन्तु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। १० और यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है; परन्तु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ११ और यदि उसी का आत्मा जिस ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है; तो जिस ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा ॥

१२ सो हे भाइयो, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। १३ क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित

रहोगे। १४ इसलिये कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। १५ क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली, कि फिर भयभीत हो परन्तु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिस से हम हे भ्रम्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। १६ आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, कि हम परमेश्वर की सन्तान हैं। १७ और यदि सन्तान है, तो वारिस भी, बरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस है, जब कि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए ॥

१८ क्योंकि मैं समझता हूँ, कि इस समय के दुःख और क्लेश उस महिमा के साम्हने, जो हम पर प्रगट होनेवाली है, कुछ भी नहीं है। १९ क्योंकि सृष्टि बड़ी आशाभरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बाट जोह रही है। २० क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करनेवाले की ओर से व्यर्थता के आधीन इस आशा से की गई। २१ कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, परमेश्वर की सन्तानों की महिमा की स्वतन्त्रता प्राप्त करेगी। २२ क्योंकि हम जानते हैं, कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पडी तडपती है। २३ और केवल वही नहीं पर हम भी जिन के पास आत्मा का पहिला फल है, आप ही अपने में कहरते हैं; और लेपालक होने की, अर्थात् अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं।

२४ आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है परन्तु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उस की आशा क्या करेगा? २५ परन्तु

जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उस की आशा रखते हैं, तो धीरज से उस की बात जोहते भी हैं ॥

२६ इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए; परन्तु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो बयान से बाहर हैं, हमारे लिये बिनती करता है। २७ और मनो का जांचनेवाला जानता है, कि आत्मा की मनसा क्या है? क्योंकि वह पवित्र लोगो के लिये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिनती करता है। २८ और हम जानते हैं, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन के लिये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात् उन्हीं के लिये जो उस की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। २९ क्योंकि जिन्हें उस ने पहिले से जान लिया है उन्हें पहिले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयो में पहिलोठा ठहरे। ३० फिर जिन्हें उस ने पहिले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मा भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मा ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है ॥

३१ सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ३२ जिस ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परन्तु उसे हम सब के लिये दे दिया : वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्योंकर न देगा? ३३ परमेश्वर के चुने हुएों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनका धर्मा ठहरानेवाला है। ३४ फिर कौन है जो दण्ड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया बरन मुद्दों में से जी भी उठा,

और परमेश्वर की दहिनी ओर है, और हमारे लिये निवेदन भी करता है। ३५ कौन हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या सकट, या उपद्रव, या अकाल, या नङ्गाई, या जोखिम, या तलवार? ३६ जैसा लिखा है, कि तेरे लिये हम दिन भर घात किए जाते हैं; हम बध होनेवाली भेड़ों की नाईं गिने गए हैं। ३७ परन्तु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिस ने हम से प्रेम किया है, जयवन्त से भी बढ़कर हैं। ३८ क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊँचाई, ३९ न गहिराई और न कोई और सृष्टि, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी ॥

मैं मसीह में सच कहता हूँ, भूठ नहीं बोलता और मेरा विवेक * भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। २ कि मुझे बड़ा शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है। ३ क्योंकि मैं यहां तक चाहता था, कि अपने भाइयों के लिये जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्बी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। ४ वे इस्त्राएली हैं; और लेपालकपन का हक्क और महिमा और वाचाए और व्यवस्था और उगासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। ५ पुरखें भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। ६ परन्तु यह नहीं, कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिये कि जो इस्त्राएल के वंश हैं, वे सब इस्त्राएली नहीं। ७ और न इस्त्राहीम के वंश होने के कारण सब उस की सन्तान ठहरे, परन्तु

* अर्थात् मन या कानश्नस ।

(लिखा है) कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। ८ अर्थात् शरीर की सन्तान परमेश्वर की सन्तान नहीं, परन्तु प्रतिज्ञा के सन्तान वंश गिने जाते हैं। ९ क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा, और सारा के पुत्र होगा। १० और केवल यही नहीं, परन्तु जब रिबका भी एक से अर्थात् हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी। ११ और अभी तक न तो बालक जन्मे थे, और न उन्हीं ने कुछ भला या बुरा किया था कि उस ने कहा, कि जेठा छुटके का दास होगा। १२ इस-च्छिये कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परन्तु बुलानेवाले पर बनी रहे। १३ जैसा लिखा है, कि मैं ने याकूब से प्रेम किया, परन्तु एसी को अप्रिय जाना ॥

१४ सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं! १५ क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। १६ सो यह न तो चाहनेवाले की, न दौड़नेवाले की परन्तु दया करनेवाले परमेश्वर की बात है। १७ क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरोन से कहा गया, कि मैं ने तुम्हें इसी लिये खड़ा किया है, कि तुम्हें मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊँ, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। १८ सो वह जिस पर चाहता है, उस पर दया करता है; और जिसे चाहता है, उसे कठोर कर देता है ॥

१९ सो तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उस की इच्छा का साम्हना करता है? २० हे मनुष्य, भला तू कौन है, जो परमेश्वर का साम्हना करता

है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़नेवाले से कह सकती है कि तू ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? २१ क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, कि एक ही लोदे में से, एक बरतन आदर के लिये, और दूसरे को अनादर के लिये बनाए? तो इस में कौन सी अचम्भे की बात है? २२ कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनो की, जो विनाश के लिये तैयार किए गए थे बड़े धीरज-से सही। २३ और दया के बरतनों पर जिन्हें उस ने महिमा के लिये पहिले से तैयार किया. अपने महिमा के धन को प्रगट करने की इच्छा की? २४ अर्थात् हम पर जिन्हें उस ने न केवल यहूदियों में से, बरन अन्यजातियों में से भी बुलाया। २५ जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, कि जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी, उसे प्रिया कहूँगा। २६ और ऐसा होगा कि जिस जगह में उन से यह कहा गया था, कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की सन्तान कहलाएंगे। २७ और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकारकर कहता है, कि चाहे इस्राएल की सन्तानो की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तौभी उन में से थोड़े ही बचेंगे। २८ क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। २९ जैसा यशायाह ने पहिले भी कहा था, कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिये कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम की नाई हो जाते, और अमोरा के सरीखे ठहरते ॥

३० सो हम क्या कहें? यह कि अन्य-जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की अर्थात् उस

धार्मिकता को जो विश्वास से है। ३१ परन्तु इस्लामी; जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। ३२ किस लिये? इसलिये कि वे विश्वास से नहीं, परन्तु मानो कर्मों से उस की खोज करते थे: उन्होंने ने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। ३३ जैसा लिखा है; देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, और ठोकर खाने की चटान रखता हूँ; और जो उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा।।

१० हे भाइयो, मेरे मन की अभिलाषा और उन के लिये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, कि वे उद्धार पाए। २ क्योंकि मैं उन की गवाही देता हूँ, कि उन को परमेश्वर के लिये धुन रहती है, परन्तु बुद्धिमानी के साथ नहीं। ३ क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके, परमेश्वर की धार्मिकता के आधीन न हुए। ४ क्योंकि हर एक विश्वास करनेवाले के लिये धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अन्त है। ५ क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, चलता है, वह इसी कारण जीवित रहेगा। ६ परन्तु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यों कहती है, कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा? (अर्थात् मसीह को उतार लाने के लिये!) ७ या गहिराब में कौन उतरेगा? (अर्थात् मसीह को मरे हुआओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिये!) ८ परन्तु क्या कहती है? यह, कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुँह में और तेरे मन में है; यह बही विश्वास का

वचन है, जो हम प्रचार करते हैं। ९ कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर भंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुआओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। १० क्योंकि धार्मिकता के लिये मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिये मुँह से भंगीकार किया जाता है। ११ क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा। १२ यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिये कि वह सब का प्रभु है, और अपने सब नाम * लेनेवालों के लिये उदार है। १३ क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। १४ फिर जिस पर उन्हो ने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम † क्योंकर लें? और जिस की नहीं सुनी उस पर क्योंकर विश्वास करें? १५ और प्रचारक बिना क्योंकर सुनें? और यदि भेजे न जाएं, तो क्योंकर प्रचार करें? जैसा लिखा है, कि उन के पाँव क्या ही सोहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं।

१६ परन्तु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया: यशायाह कहता है, कि हे प्रभु, किस ने हमारे समाचार की प्रतीति की है? १७ सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। १८ परन्तु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने ने नहीं सुना? सुना तो सही क्योंकि लिखा है कि उन के स्वर सारी पृथ्वी पर, और उन के वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। १९ फिर मैं कहता हूँ। क्या इस्लामी

* प्रार्थना करनेवालों।

† य० समाचार।

नहीं जानते थे? पहिले तो मूसा कहता है, कि मैं उन के द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। २० फिर यशायाह बडे हियाव के साथ कहता है, कि जो मुझे नहीं दूढते थे, उन्हो ने मुझे पा लिया: और जो मुझे पूछते भी न थे, उन पर मे प्रगट हो गया। २१ परन्तु इस्राएल के विषय मे वह यह कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक श्राप्ता न माननेवाली और विवाद करनेवाली प्रजा की ओर पसारे रहा ॥

११ इसलिये मे कहता हू, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, मे भी तो इस्राएली हू: इस्राहीम के वश और बिन्यामीन के गोत्र में से हू। २ परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उस ने पहिले ही से जाना: क्या तुम नहीं जानते, कि पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा मे क्या कहता है; कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से बिनती करता है। ३ कि हे प्रभु, उन्होंने ने तेरे भविष्यद्वक्ताओ को घात किया, और तेरी वेदियों को ढा दिया है; और मे ही अकेला बच रहा हू, और वे मेरे प्रारा के भी खोजी है। ४ परन्तु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला कि मे ने अपने लिये सात हजार पुरुषो को रख छोडा है जिन्हो ने बाभ्रल के प्रागे घुटने नहीं टेके है। ५ मो इसी रीति से इस समय भी, अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी है। ६ यदि यह अनुग्रह से हुआ है, तो फिर कर्मों से नहीं; नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ७ सो परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिस की खोज में है, वह उन को

नहीं मिला; परन्तु चुने हुएों को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए है। ८ जैसा लिखा है, कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नीद में डाल रखा * है और ऐसी आंखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुनें। ९ और दाऊद कहता है, उन का भोजन उन के लिये जाल, और फन्दा, और ठोकर, और दरड का कारण हो जाए। १० उन की आंखों पर अन्धेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उन की पीठ को झुकाए रख। ११ सो मे कहता हूँ क्या उन्हो ने इसलिये ठोकर खाई, कि गिर पडे? कदापि नहीं: परन्तु उन के गिरने के कारण अन्याजातियों को उद्धार मिला, कि उन्हें जलन † हो। १२ सो यदि उन का गिरना जगत के लिये धन और उन की घटी अन्याजातियों के लिये सम्पत्ति का कारण हुआ, तो उन की भरपूरी से कितना न होगा ॥

१३ मे तुम अन्याजातियों से यह बाते कहता हू जब कि मे अन्याजातियों के लिय प्रेरित हू, तो मे अपनी सेवा की बडाई करता हू। १४ ताकि किसी रीति से मे अपने कुटुम्बियों से जलन † करवाकर उन मे से कई एक का उद्धार कराऊ। १५ क्योंकि जब कि उन का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उन का ग्रहण किया जाना मरे हुआ मे से जी उठने के बराबर न होगा? १६ जब भेंट का पहिला पेडा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुधा हुआ आटा भी पवित्र है: और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालिया भी ऐसी ही है। १७ और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई,

* य० भार्गी नीद का आत्मा दिया।

† या उत्साह, ईर्ष्या, बैरत।

और तू जगली जलपाई होकर उन में * साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। १८ तो डालियों पर घमण्ड न करना. और यदि तू घमण्ड करे, तो जान रख, कि तू जड़ को नहीं, परन्तु जड़ तुझे सम्भालती है। १९ फिर तू कहेगा डालिया इसलिये तोड़ी गई, कि मैं साटा जाऊ। २० भला, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परन्तु तू विश्वास से बना रहता है इसलिये अभिमानी न हो, परन्तु भय कर। २१ क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी, तो तुझे भी न छोड़ेगा। २२ इसलिये परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख ! जो गिर गए, उन पर कड़ाई, परन्तु तुझ पर कृपा, यदि तू उस में बना रहे, नहीं तो, तू भी काट डाला जाएगा। २३ और वे भी यदि अविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। २४ क्योंकि यदि तू उस जलपाई से, जो स्वभाव से जगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया तो ये जो स्वाभाविक डालिया हैं, अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे ॥

२५ हे भाइयो, कही ऐसा न हो, कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिये मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, कि जब तक अन्धजातिया पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्त्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। २६ और इस रीति से सारा इस्त्राएल उद्धार पाएगा; जैसा लिखा है, कि छुड़ाने-वाला सिय्योन से आएगा, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। २७ और उन के

साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि मैं उन के पापों को दूर कर दूंगा। २८ वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परन्तु चुन लिए जाने के भाव से बापदायों के प्यारे हैं। २९ क्योंकि परमेश्वर अपने बरदानों से, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। ३० क्योंकि जैसे तुम ने पहिले परमेश्वर की आज्ञा न मानी परन्तु अभी उन के आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। ३१ वैसे ही उन्हो ने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है इस से उन पर भी दया हो। ३२ क्योंकि परमेश्वर ने सब को आज्ञा न मानने के कारण बन्द कर रखा ताकि वह सब पर दया करे ॥

३३ आहा! परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है! उसके विचार कैसे अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम है! ३४ प्रभु की बुद्धि को किस ने जाना? या उसका मंत्री कौन हुआ? ३५ या किस ने पहिले उसे कुछ दिया है जिस का बदला उसे दिया जाए। ३६ क्योंकि उस की ओर से, और उसी के द्वारा, और उसी के लिये सब कुछ है: उस की महिमा युगानुयुग होती रहे: आमीन ॥

१२ इसलिये हे भाइयो, मैं तुम से परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर बिनती करता हूँ, कि अपने शरीरों को जीवित, और पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ: यही तुम्हारी आत्मिक * सेवा है। २ और इस ससार के सदृश न बनो, परन्तु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए, जिस से तुम परमेश्वर की

* या की जगह।

* या मानसिक।

भली, और भावती, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।।

३ क्योंकि मे उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, कि जैसा समझना चाहिए, उस से बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। ४ क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। ५ वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ६ और जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न बरदान मिले हैं, तो जिस को भविष्यद्वारणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यद्वारणी करे। ७ यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखानेवाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। ८ जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे; दान देनेवाला उदारता * से दे, जो अगुआई करे, वह उत्साह से करे, जो दया करे, वह हर्ष से करे। ९ प्रेम निष्कपट हो; बुराई से धृष्टा करो, भलाई में लगे रहो। १० भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रखो; परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ११ प्रयत्न करने में आलसी न हो; आत्मिक उन्माद में भरे रहो; प्रभु की सेवा करते रहो। १२ आशा में आनन्दित रहो; क्लेश में स्थिर रहो; प्रार्थना में नित्य लगे रहो। १३ पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो, उस में उन की सहायता करो; पहुनाई करने में लगे रहो।

* या सिधाई।

१४ अपने सतानेवालों को आशीष दो; आशीष दो छाप न दो। १५ आनन्द करनेवालों के साथ आनन्द करो; और रोनेवालों के साथ रोओ। १६ आपस में एक सा मन रखो; अभिमानी न हो; परन्तु दीनों के साथ संगति रखो; अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। १७ बुराई के बदले किसी से बुराई न करो; जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उन की चिन्ता किया करो। १८ जहां तक हो सके, तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। १९ हे भ्रियो अपना पलटा न लेना; परन्तु क्रोध * को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। २० परन्तु यदि तेरा बैरी भूखा हो, तो उसे खाना खिला; यदि प्यासा हो, तो उमे पानी पिला; क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। २१ बुराई से न हारो परन्तु भलाई से बुराई को जीत लो।।

१३ हर एक व्यक्ति प्रधान अधि-कारियों के आधीन रहे; क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की ओर से न हो; और जो अधिकार हैं, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। २ इस से जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का साम्हना करता है, और साम्हना करनेवाले दण्ड पाएंगे। ३ क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, परन्तु बुरे काम के लिये डर का कारण हैं; सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर और उस की ओर से तेरी सराहना होगी; ४ क्योंकि वह तेरी

* या परमेश्वर का क्रोध।

भलाई के लिये परमेश्वर का सेवक है। परन्तु यदि तू बुराई करे, तो डर; क्योंकि वह तलवार अर्थात् लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है; कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करनेवाले को दण्ड दे। ५ इसलिये आधीन रहना न केवल उस क्रोध से परन्तु डर से अवश्य है, बरन विवेक * भी यही गवाही देता है। ६ इसलिये कर भी दो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं, और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। ७ इसलिये हर एक का हक्क चुकाया करो, जिसे कर चाहिए, उसे कर दो; जिसे महसूल चाहिए, उसे महसूल दो; जिस से डरना चाहिए, उस से डरो; जिस का आदर करना चाहिए उसका आदर करो ॥

८ आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो; क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। ९ क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना; लालच न करना; और इन को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का साराश इस बात में पाया जाता है, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। १० प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिये प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है ॥

११ और समय को पहिचान कर ऐसा ही करो, इसलिये कि अब तुम्हारे लिये नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है, क्योंकि जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। १२ रात बहुत बीत गई है, और दिन निकलने पर है; इसलिये हम अन्धकार के कामों को त्ज कर ज्योति के हथियार बान्ध

लें। १३ जैसा दिन को सोहता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें; न कि लीला क्रीडा, और पियक्कडपन, न व्यभिचार, और लुचपन में, और न भगड़े और डाह में। १४ बरन प्रभु यीशु मसीह को पहिन लो, और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय न करो ॥

१४ जो विश्वास में निर्बल है, उसे अपनी संगति में ले लो; परन्तु उस को गकाओं पर विवाद करने के लिये नहीं। २ क्योंकि एक को विश्वास है, कि सब कुछ खाना उचित है, परन्तु जो विश्वास में निर्बल है, वह साग पात ही खाता है। ३ और खानेवाला न-खानेवाले को तुच्छ न जाने, और न-खानेवाला खानेवाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। ४ तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से सम्बन्ध रखता है, बरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा; क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। ५ कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, और कोई सब दिन एक सा जानता है: हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। ६ जो किसी दिन को मानता है, वह प्रभु के लिये मानता है: जो खाता है, वह प्रभु के लिये खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता, वह प्रभु के लिये नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। ७ क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिये जीता है और न कोई अपने लिये मरता है। ८ क्योंकि यदि हम जीवित हैं, तो प्रभु के लिये जीवित हैं; और यदि मरते हैं, तो प्रभु के लिये मरते हैं; सो हम जीएं

* अर्थात् मन या कानश्नस।

या मरें, हम प्रभु ही के हैं। ६ क्योंकि मसीह इसी लिये मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुआ और जीवतो, दोनो का प्रभु हो। १० तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के साम्हने खड़े होंगे। ११ क्योंकि लिखा है, कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगन्ध कि हर एक घुटना मेरे साम्हने टिकेगा, और हर एक जीभ परमेश्वर को अगीकार करेगा। १२ सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेजा देगा।।

१३ सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के साम्हने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। १४ में जानता हूं, और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है, कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परन्तु जो उस को अशुद्ध समझता है, उसके लिये अशुद्ध है। १५ यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता : जिस के लिये मसीह मरा उस को तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। १६ अब तुम्हारी भलाई की निन्दा न होने पाए। १७ क्योंकि परमेश्वर का राज्य खानापीना नहीं; परन्तु धर्म और मिलाप और वह आनन्द है, १८ जो पवित्र आत्मा से * होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहणयोग्य ठहरता है। १९ इसलिये हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो।

* यू० में।

२० भोजन के लिये परमेश्वर का काम न बिगाड़ : सब कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस मनुष्य के लिये बुरा है, जिस को उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। २१ भला तो यह है, कि तू न मास खाए और न दाख रस पीए. न और कुछ ऐसा करे, जिस से तेरा भाई ठोकर खाए। २२ तेरा जो विद्वास हो, उसे परमेश्वर के साम्हने अपने ही मन में रख : धन्य है वह, जो उस बात में, जिसे वह ठीक समझता है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। २३ परन्तु जो सन्देह कर के खाता है, वह दण्ड के योग्य ठहर चुका; क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास * से नहीं, वह पाप है।।

१५ निदान हम बलवानो को चाहिए, कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। २ हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उस की भलाई के लिये सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। ३ क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, कि तेरे निन्दकों की निन्दा मुझ पर आ पडी। ४ जितनी बातें पहिले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिये लिखी गईं है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शान्ति के द्वारा आशा रखें। ५ और धीरज, और शान्ति का दाता † परमेश्वर तुम्हें यह बरदान दे, कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। ६ ताकि तुम एक मन और एक मुह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को बड़ाई करो। ७ इसलिये, जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिये तुम्हें ग्रहण

* यू० निश्चय।

† यू० स्रोत।

किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। ८ मैं कहता हूँ, कि जो प्रतिज्ञाए बापदादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिये मसीह, परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिये खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। ९ और अन्यजाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करें, जैसा लिखा है; कि इसलिये मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूँगा, और तेरे नाम के भजन गाऊँगा। १० फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगो, उस की प्रजा के साथ आनन्द करो। ११ और फिर हे जाति जाति के सब लोगो, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगो, उसे सराहो। १२ और फिर यशायाह कहता है, कि यिश्ई की एक जड़ प्रगट होगी, और अन्यजातियो का हाकिम होने के लिये एक उठेगा, उस पर अन्यजातियां आशा रखेंगी। १३ सो परमेश्वर जो आशा का दाता * है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनन्द और शान्ति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए ॥

१४ हे मेरे भाइयो; मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ, कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। १५ तीसरी मैं ने कही कही याद दिलाने के लिये तुम्हें जो बहुत हियाव करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। १६ कि मैं अन्यजातियो के लिये मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नाई करूँ; जिस से अन्यजातियों

* य० स्रोत।

का मानो चढाया जाना, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। १७ सो उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। १८ क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाव नहीं, जो मसीह ने अन्यजातियो की अधीनता के लिये वचन, और कर्म। १९ और जिन्हो और प्रदुभुन कामो की सामर्थ्य में, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए: यहा तक कि मैं ने यरूशलेम से लेकर चारो ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। २० पर मेरे मन की उमंग यह है, कि जहां जहा मसीह का नाम नहीं लिया गया, वही सुसमाचार मुनाऊ, ऐसा न हो, कि दूसरे की नेव पर घर बनाऊ। २१ परन्तु जैसा लिखा है, वैसा ही हो, कि जिन्हे उसका सुसमाचार नहीं पहुँचा, वे ही देखेंगे और जिन्हों ने नहीं सुना वे ही समझेंगे ॥

२२ इसी लिये मैं तुम्हारे पास आने में बार बार रुका रहा। २३ परन्तु अब मुझे इन देशो में और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। २४ इसलिये जब इसपानिया को जाऊगा तो तुम्हारे पास जाता हुआ जाऊगा क्योंकि मुझे आशा है, कि उस यात्रा में तुम से भेंट करूँ, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए, तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुँचा दो। २५ परन्तु अभी तो पवित्र लोगो की सेवा करने के लिये यरूशलेम को जाता हूँ। २६ क्योंकि मकिडोनिया और अखया के लोगो को यह अच्छा लगा, कि यरूशलेम के पवित्र लोगो के कगालो के लिये कुछ चन्दा करें।

२७ अच्छा तो लगा, परन्तु वे उन के कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्यजाति उन की आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है, कि शारीरिक बातों में उन की सेवा करे। २८ सो मैं यह काम पूरा करके और उन को यह चन्दा सौंपकर तुम्हारे पास होता हुआ इसपानिया को जाऊंगा। २९ और मैं जानता हूँ, कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा ॥

३० और हे भाइयो; मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला कर, तुम से बिनती करता हूँ, कि मेरे लिये परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। ३१ कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूँ, और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिये है, पवित्र लोगों को भाए। ३२ और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनन्द के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊँ। ३३ शान्ति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे। आमीन ॥

१६ मैं तुम से फीबे की, जो हमारी बहिन और किखिया की कलीसिया की सेविका है, बिनती करता हूँ। २ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभु में अग्रहण करो; और जिस किसी बात में उस को तुम से प्रयोजन हो, उस की सहायता करो; क्योंकि वह भी बहुतो की बरन मेरी भी उपकारिणी हुई है ॥

३ प्रिसका और अक्विला को जो यीशु मैं मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। ४ उन्होंने मेरे प्राण के लिये अपना ही सिर दे रखा था और केवल मैं ही नहीं, बरन अन्य-जातियों की सारी कलीसियाएं भी उन का

धन्यवाद करती हैं। ५ और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उन के घर में है। मेरे प्रिय इपैन्तिसुस को जो मसीह के लिये आसिया का पहिला फल है, नमस्कार। ६ मरियम को जिस ने तुम्हारे लिये बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। ७ अन्दुनीकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुम्बी हैं, और मेरे साथ कैद हुए थे, और प्रेरितों में नामी हैं, और मुझ से पहिले मसीह में हुए थे, नमस्कार। ८ अम्पलियातुस को, जो प्रभु मे मेरा प्रिय है, नमस्कार। ९ उरबानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। १० अपिल्लेस को जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबलुस के घराने को नमस्कार। ११ मेरे कुटुम्बी हेरो-दियों को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उन को नमस्कार। १२ त्रूफना और त्रूफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिया पिर-सिस को जिस ने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। १३ रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उस की माता जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। १४ असुकितुस और फिलगोन और हिमस और पत्रुबास और हिमास और उन के साथ के भाइयों को नमस्कार। १५ फिलतुगुस और यूलिया और नेर्युस और उस की बहिन, और उलुम्पास और उन के साथ के सब पवित्र लोगो को नमस्कार। १६ आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो: तुम को मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार ॥

१७ अब हे भाइयो, मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम ने पाई है, फूट पड़ने, और ठोकर

खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो; और उन से दूर रहो। १८ क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परन्तु अपने पेट की सेवा करते हैं; और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। १९ तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिये मैं तुम्हारे विषय में आनन्द करता हूँ; परन्तु मैं यह चाहता हूँ, कि तुम भलाई के लिये बुद्धिमान, परन्तु बुराई के लिये भोले बने रहो। २० शान्ति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पावों से शीघ्र कुचलवा देगा ॥

हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे* ।

२१ तीमथियुस मेरे सहकर्मी का, और लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस मेरे

* यह वाक्य पहिले २४ पद गिना जाता था सब से पुराने हस्तलेखों में इसी जगह लिखा हुआ है।

कुटुम्बियों का, तुम को नमस्कार। २२ मुझ पत्नी के लिखनेवाले तिरतियुस का प्रभु मैं तुम को नमस्कार। २३ गयुस का जो मेरी और कलीसिया का पहनाई करनेवाला है उसका तुम्हें नमस्कार : इरास्तुस जो नगर का भण्डारी है, और भाई क्वारतुस का, तुम को नमस्कार* ॥

२५ अब जो तुम को मेरे सुसमाचार अर्थात् यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। २६ परन्तु अब प्रगट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है, कि वे विश्वास से आज्ञा माननेवाले हो जाए। २७ उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन ॥

* देखो २० पद को।

कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री

१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिये बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से। २ परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात् उन के नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, और पवित्र होने के लिये बुलाए गए हैं; और उन सब के नाम भी जो हर

जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं ॥

३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

४ मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिये कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह

यीशु में हुआ। ५ कि उस में होकर तुम हर बात में अर्थात् सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। ६ कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। ७ यहा तक कि किसी बरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने की बात जोहने रहते हो। ८ वह तुम्हें अन्त तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। ९ परमेश्वर सच्चा * है; जिस ने तुम को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की सगति में बुलाया है।।

१० हे भाइयों, मैं तुम से यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा बिनती करता हूँ, कि तुम सब एक ही बात कहो; और तुम में फूट न हो, परन्तु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ११ क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगो ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है, कि तुम में भगड़े हो रहे हैं। १२ मेरा कहना यह है, कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कॅफा का, कोई मसीह का कहता है। १३ क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिये क्रूस पर चढाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? १४ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि क्रिस्तुस और गयुस को छोड़, मैं ने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। १५ कही ऐसा न हो, कि कोई कहे, कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। १६ और मैं ने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया; इन को छोड़, मैं नहीं जानता कि मैं ने और किसी

को बपतिस्मा दिया। १७ क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, बरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे।।

१८ क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने-वालो के निकट मूर्खता है, परन्तु हम उद्धार पानेवालो के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य हैं। १९ क्योंकि लिखा है, कि मैं ज्ञानवानो के ज्ञान को नाश करूँगा, और समझदारो की समझ को नुच्छ कर दूँगा। २० कहा रहा ज्ञानवान? कहा रहा शास्त्री? कहा इस ससार का विवादी? क्या परमेश्वर ने ससार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? २१ क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार ससार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करनेवालो को उद्धार दे। २२ यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। २३ परन्तु हम तो उस क्रूस पर चढाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, और अन्यजातियों के निकट मूर्खता है! २४ परन्तु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी, क्या यूनानी, उन के निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य, और परमेश्वर का ज्ञान है। २५ क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है।।

२६ हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए। २७ परन्तु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया

* य० विश्वासयोग्य।

है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे; और परमेश्वर ने जगत के निर्बलो को चुन लिया है, कि बलवानों को लज्जित करे। २८ और परमेश्वर ने जगत के नीचो और तुच्छों को, बरन जो है भी नहीं उन को भी चुन लिया, कि उन्हें जो है, व्यर्थ ठहराए। २९ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साम्हने घमण्ड न करने पाए। ३० परन्तु उसी की और से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की और से हमारे लिये ज्ञान ठहरा अर्थात् धर्म, और पवित्रता, और छुटकारा। ३१ ताकि जैसा लिखा है, वैसा ही हों, कि जो घमण्ड करे वह प्रभु में घमण्ड करे ॥

२ और हे भाइयो, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। २ क्योंकि मैं ने यह ठान लिया था, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, बरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानू। ३ और मैं निर्बलता और भय के साथ, और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ४ और मेरे वचन, और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभानेवाली बातें नहीं, परन्तु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। ५ इसलिये कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो ॥

६ फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं: परन्तु इस ससार का और इस संसार के नाश होनेवाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ७ परन्तु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिये ठहराया। ८ जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि

यदि जानते, तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढाते। ९ परन्तु जैसा लिखा है, कि जो भ्रांख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुना, और जो बाते मनुष्य के चित्त में नहीं चडी, वे ही है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने-वालो के लिये तैयार की है। १० परन्तु परमेश्वर ने उन को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया; क्योंकि आत्मा सब बाते, बरन परमेश्वर की गूढ बाने भी जाचता है। ११ मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बाते जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उस में है? वैसी ही परमेश्वर की बाते भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। १२ परन्तु हम ने ससार की आत्मा नहीं, परन्तु वह आत्मा पाया है, जो परमेश्वर की और से है, कि हम उन बातों को जाने, जो परमेश्वर ने हमें दी है। १३ जिन को हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परन्तु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बाते आत्मिक बातो से मिला मिलाकर सुनाते है। १४ परन्तु शारीरिक * मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बाते ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उस की दृष्टि में मूर्खता की बाते है, और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उन की जाच आत्मिक रीति से होती है। १५ आत्मिक जन अब कुछ जाचता है, परन्तु वह आप किसी से जाचा नहीं जाता। १६ क्योंकि प्रभु का मन किस ने जाना है, कि उसे सिखलाए? परन्तु हम में मसीह का मन है ॥

३ हे भाइयो, मैं तुम से इस रीति से बाते न कर सका, जैसे आत्मिक लोगों से, परन्तु जैसे शारीरिक लोगो से, और

* यू० प्रायिक।

उन से जो मसीह में बालक है। २ मैं ने तुम्हें दूध-पिलाया, भ्रमन न खिलाया; क्योंकि तुम उस को न खा सकते थे; बरन भ्रम तक भी नहीं खा सकते हो। ३ क्योंकि भ्रम तक शारीरिक हो, इसलिये कि जब तुम में डाह और भगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ४ इसलिये कि जब एक कहता है, मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? ५ अपुल्लोस क्या है? और पौलुस क्या? केवल सेवक, जिन के द्वारा तुम ने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। ६ मैं ने लगाया, अपुल्लोस ने सीचा, परन्तु परमेश्वर ने बढ़ाया। ७ इसलिये न तो लगानेवाला कुछ है, और न सीचनेवाला, परन्तु परमेश्वर जो बढ़ानेवाला है। ८ लगानेवाला और सीचनेवाला दोनों एक है; परन्तु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। ९ क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं; तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो।

१० परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, जो मुझे दिया गया, मैं ने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेब डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है; परन्तु हर एक मनुष्य चौकस रहे, कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ११ क्योंकि उस नेब को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है: कोई दूसरी नेब नहीं डाल सकता। १२ और यदि कोई इस नेब पर सोना या चान्दी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। १३ तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा; क्योंकि वह दिन उसे बताएगा; इसलिये कि भाग के साथ प्रगट

होगा: और वह भाग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है? १४ जिस का काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। १५ और यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा; पर वह आप बच जाएगा परन्तु जलते जलते।

१६ क्या तुम नहीं जानते, कि तुम परमेश्वर का मन्दिर * हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बास करता है? १७ यदि कोई परमेश्वर के मन्दिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा; क्योंकि परमेश्वर का मन्दिर पवित्र है, और वह तुम हो।

१८ कोई अपने आप को धोखा न दे: यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने, कि ज्ञानी हो जाए। १९ क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है; कि वह ज्ञानियों को उन की चतुराई में फसा देता है। २० और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिन्ताओं को जानता है, कि व्यर्थ है। २१ इसलिये मनुष्यों पर कोई घमण्ड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। २२ क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, २३ और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है।

४ मनुष्य हमे मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भण्डारी समझे। २ फिर यहा भण्डारी में यह बात देखी जाती है, कि विश्वास योग्य निकले। ३ परन्तु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है, कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे

* सू० पवित्रस्थान।

परखे, बरन मे आप ही अपने आप को नहीं परखता। ४ क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परन्तु इस से मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने-वाला प्रभु है। ५ सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहिले किसी बात का न्याय न करो : वही तो अन्धकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, और मनो की मतियों को प्रगट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी ॥

६ हे भाइयो, मैं ने इन बातों में तुम्हारे लिये अपनी और अपुल्लोस की चर्चा, दृष्टान्त की रीति पर की है, इसलिये कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो, कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना, और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। ७ क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है ? और तेरे पास क्या है जो तू ने (दूसरे से) नहीं पाया : और जब कि तू ने (दूसरे से) पाया है, तो ऐसा घमण्ड क्यों करता है, कि मानो नहीं पाया ? ८ तुम तो तृप्त हो चुके; तुम धनी हो चुके, तुम ने हमारे बिना राज्य किया; परन्तु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। ९ मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों की नाईं ठहराया है, जिन की मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो; क्योंकि हम जगत और स्वर्ग-दूतों और मनुष्यों के लिये एक तमाशा ठहरे हैं। १० हम मसीह के लिये मूर्ख हैं, परन्तु तुम मसीह में बुद्धिमान हो : हम निर्बल हैं परन्तु तुम बलवान हो : तुम आदर पाते हो, परन्तु हम निरादर होते हैं। ११ हम स घड़ी तक भूखे-प्यासे और नङ्गे हैं, और से खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं; और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम

करते हैं। १२ लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं; वे सताते हैं, हम सहते हैं। १३ वे बदनाम करते हैं, हम बिनती करते हैं : हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाईं ठहरे हैं ॥

१४ मैं तुम्हें लज्जित करने के लिये ये बातें नहीं लिखता, परन्तु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिंताता हूँ। १५ क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखानेवाले दस हजार भी होते, तौभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। १६ सो मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि मेरी सी चाल चलो। १७ इसलिये मैं ने तीमुथियुस को जो प्रभु मे मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। १८ कितने तो ऐसे फूल गए हैं, मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। १९ परन्तु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूलें हुए लोगों की बातों को नहीं, परन्तु उन की सामर्थ्य को जान लूंगा। २० क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परन्तु सामर्थ्य में है। २१ तुम क्या चाहते हो ? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ ?

५ यहा तक सुनने में आता है, कि तुम में व्यभिचार होता है, बरन ऐसा व्यभिचार जो अन्यजातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। २ और तुम शोक तो नहीं करते, जिस से ऐसा काम करनेवाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परन्तु घमण्ड

करते हो। ३ मैं तो शरीर के भाव से डूर था, परन्तु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर, मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करनेवाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ। ४ कि जब तुम, और मेरी आत्मा, हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य, हमारे प्रभु यीशु के नाम से। ५ शरीर के विनाश के लिये शैतान को सीपा जाए, ताकि उस की आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ६ तुम्हारा घमण्ड करना अच्छा नहीं : क्या तुम नहीं जानते, कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूधे हुए आटे को खमीर कर देता है। ७ पुराना खमीर निकाल कर, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूधा हुआ आटा बन जाओ; ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है, बलिदान हुआ है। ८ सो आओ, हम उत्सव में आनन्द मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परन्तु सीधार्ई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से ॥

६ मैं ने अपनी पत्नी में तुम्हें लिखा है, कि व्यभिचारियों की संगति न करना। १० यह नहीं, कि तुम बिलकुल इस जगत के व्यभिचारियों, या लोभियों, या अन्धेर करनेवालो, या मूर्तिपूजकों की संगति न करो; क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पडता। ११ मेरा कहना यह है; कि यदि कोई भाई कहलाकर, व्यभिचारी, या लोभी, या मूर्तिपूजक, या गाली देनेवाला, या पियक्कड़, या अन्धेर करनेवाला हो, तो उस की संगति मत करना; बरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। १२ क्योंकि मुझे बाहरवालो का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम

भीतरवालो का न्याय नहीं करते?

१३ परन्तु बाहरवालो का न्याय परमेश्वर करता है: इसलिये उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो ॥

६ क्या तुम में से किसी को यह हियाब है, कि जब दूसरे के साथ भगड़ा हो, तो फंसले के लिये अधर्मियों के पास जाए; और पवित्र लोगों के पास न जाए? २ क्या तुम नहीं जानते, कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे भगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ३ क्या तुम नहीं जानते, कि हम स्वर्गदूतो का न्याय करेंगे? तो क्या सासारिक बातों का निर्णय न करें? ४ सो यदि तुम्हें सासारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझें जाते हैं? ५ मैं तुम्हें लज्जित करने के लिये यह कहता हूँ: क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता, जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? ६ बरन भाई भाई में मुकद्मा होता है, और वह भी अविश्वासियों के साम्हने। ७ परन्तु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, कि आपस में मुकद्मा करते हो, बरन अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? ८ बरन अन्याय करते और हानि पहुँचाते हो, और वह भी भाइयों को। ९ क्या तुम नहीं जानते, कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्तिपूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। १० न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देनेवाले, न अन्धेर करनेवाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे।

११ और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परन्तु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे ॥

१२ सब वस्तुए मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तुए लाभ की नहीं, सब वस्तुए मेरे लिये उचित है, परन्तु में किसी बात के आधीन न हूँगा। १३ भोजन पेट के लिये, और पेट भोजन के लिये है, परन्तु परमेश्वर इस को और उस को दोनों को नाश करेगा, परन्तु देह व्यभिचार के लिये नहीं, बरन प्रभु के लिये; और प्रभु देह के लिये है। १४ और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाएगा। १५ क्या तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या में मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊ? कदापि नहीं। १६ क्या तुम नहीं जानते, कि जो कोई वेश्या से सगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि वह कहता है, कि वे दोनो एक तन होंगे। १७ और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। १८ व्यभिचार से बचे रहो: जितने और पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर है, परन्तु व्यभिचार करनेवाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। १९ क्या तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह पवित्रात्मा का मन्दिर * है; जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? २० क्योंकि दाम देकर मोल लिये गए हो, इसलिये अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो ॥

* मू० पवित्रस्थान।

७ उन बातों के विषय में जो तुम ने लिखी, यह अच्छा है, कि पुरुष स्त्री को न छूए। २ परन्तु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी, और हर एक स्त्री का पति हो। ३ पति अपनी पत्नी का हक्क पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। ४ पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है; वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परन्तु पत्नी को। ५ तुम एक दूसरे से अलग न रहो; परन्तु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रायथा के लिये अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, ऐसा न हो, कि तुम्हारे असयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ६ परन्तु में जो यह कहता हू वह अनुमति है न कि आज्ञा। ७ मैं यह चाहता हू, कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही सब मनुष्य हो; परन्तु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष बरदान मिले है; किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार का ॥

८ परन्तु में अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हू, कि उन के लिये ऐसा ही रहना अच्छा है, जैसा मैं हू। ९ परन्तु यदि वे सयम न कर सकें, तो विवाह करें; क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। १० जिन का ब्याह हो गया है, उन को में नहीं, बरन प्रभु आज्ञा देता है, कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। ११ (और यदि अलग भी हो जाए, तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर लें) और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। १२ दूसरों से प्रभु नहीं, परन्तु में ही कहता हू, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न

छोड़े। १३ और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो, और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो; वह पति को न छोड़े। १४ क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है; नहीं तो तुम्हारे लड़केवाले अशुद्ध होते, परन्तु अब तो पवित्र है। १५ परन्तु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो, तो अलग होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहिन बन्धन में नहीं; परन्तु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिये बुलाया है। १६ क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है, कि तू अपने पति का उद्धार करा ले? और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले? १७ पर जैसा प्रभु ने हर एक को बाँटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है; वैसा ही वह चले: और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। १८ जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो, वह खतनारहित न बने: जो खतनारहित बुलाया गया हो, वह खतना न कराए। १९ न खतना कुछ है, और न खतनारहित परन्तु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। २० हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। २१ यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिन्ता न कर; परन्तु यदि तू स्वतंत्र हो सके, तो ऐसा ही काम कर। २२ क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है: और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, वह मसीह का दास है। २३ तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। २४ हे भाइयो, जो कोई

जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे ॥

२५ कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परन्तु विश्वास-योग्य होने के लिये जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। २६ सो मेरी समझ में यह अच्छा है, कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है, वैसा ही रहे। २७ यदि तेरे पत्नी है, तो उस से अलग होने का यत्न न कर: और यदि तेरे पत्नी नहीं*, तो पत्नी की खोज न कर: २८ परन्तु यदि तू ब्याह भी करे, तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं; परन्तु ऐसे को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूँ। २९ हे भाइयो, मैं यह कहता हूँ, कि समय कम किया गया है, इसलिये चाहिए कि जिन के पत्नी हो, वे ऐसे हो मानो उन के पत्नी नहीं। ३० और रोनेवाले ऐसे हों, मानो रोते नहीं; और आनन्द करनेवाले ऐसे हों, मानो आनन्द नहीं करते; और मोल लेनेवाले ऐसे हों, कि मानो उन के पास कुछ है नहीं। ३१ और इस संसार के बरतनेवाले ऐसे हो, कि संसार ही के न हो लें†; क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। ३२ सो मैं यह चाहता हूँ, कि तुम्हें चिन्ता न हो: अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिन्ता में रहता है, कि प्रभु को क्योकर प्रसन्न रखे। ३३ परन्तु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिन्ता में रहता है, कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। ३४ विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है: अविवाहिता प्रभु की चिन्ता में रहती है,

* या यदि तू पत्नी से छूट गया है।

† यू० उसे अधिक न वर्ते।

कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परन्तु विवाहिता संसार की चिन्ता में रहती है, कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ३५ यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिये, बरन इसलिये कि जैसा सोहता है, वैसा ही किया जाए; कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। ३६ और यदि कोई यह समझे, कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक्क मार रहा हूँ, जिस की जवानी ढल चली है, और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे, वैसा करे, इस में पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे *। ३७ परन्तु जो मन में दूढ़ रहता है, और उस को प्रयोजन न हो, बरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो, कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही रखूंगा, वह अच्छा करता है। ३८ सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है, वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता, वह और भी अच्छा करता है। ३९ जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, तब तक वह उस से बन्धी हुई है, परन्तु जब उसका पति मर जाए, तो जिस से चाहे विवाह कर सकती है, परन्तु केवल प्रभु में। ४० परन्तु जैसी है यदि वैसी ही रहे, तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ, कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है ॥

अब मूरतों के साम्हने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में—हम जानते हैं, कि हम सब को ज्ञान है: ज्ञान घमण्ड उत्पन्न करता है, परन्तु प्रेम से उन्नति होती है। २ यदि कोई समझे, कि मैं कुछ जानता

हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। ३ परन्तु बलि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर पहिचानता है। ४ सो मूरतों के साम्हने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में—हम जानते हैं, कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। ५ यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, (जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं)। ६ तौभी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है: अर्थात् पिता जिस की ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिये हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात् यीशु मसीह जिस के द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। ७ परन्तु सब को यह ज्ञान नहीं; परन्तु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूरतों के साम्हने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं, और उन का विवेक * निर्बल होकर अशुद्ध होता है। ८ भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम न खाएं, तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए, तो कुछ लाभ नहीं। ९ परन्तु चौकस रहो, ऐसा न हो, कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलो के लिये ठोकर का कारण हो जाए। १० क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मन्दिर में भोजन करते देखे, और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के साम्हने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाब न हो जाएगा। ११ इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिस के लिये मसीह मरा नाश हो जाएगा। १२ सो भाइयों का अपराध

* यू० वे ब्याहे जाए।

* अर्थात् मन या कानशन्स।

करने से और उन के निर्बल विवेक * को षोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। १३ इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मास न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूँ।

६ क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं ने यीशु को जो हमारा प्रभु है, नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? २ यदि मैं औरों के लिये प्रेरित नहीं, तो भी तुम्हारे लिये तो हूँ; क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो ३ जो मुझे जांचते हैं, उन के लिये यही मेरा उत्तर है। ४ क्या हमें खाने-पीने का अधिकार नहीं? ५ क्या हमें यह अधिकार नहीं, कि किसी मसीही बहिन को ब्याह कर के लिए फिरें, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? ६ या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें। ७ कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है: कौन दास की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उन का दूध नहीं पीता? ८ क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? ९ क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाए में चलते हुए बैल का मुह न बान्धना: क्या परमेश्वर बैलों ही की चिन्ता करता है? या विशेष करके हमारे लिये कहता है। १० हाँ, हमारे लिये ही लिखा गया, क्योंकि उचित है, कि जोतनेवाला आशा से जोते, और दाबनेवाला भागी होने की आशा से दाबनी करे।

* अर्थात् मन या कानशन्स।

११ सो जब कि हम ने तुम्हारे लिये आत्मिक वस्तुएँ बोईं, तो क्या यह कोई बड़ी बात है, कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें। १२ जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इस से अधिक न होगा? परन्तु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए; परन्तु सब कुछ सहते हैं, कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक न हो। १३ क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं, वे मन्दिर में से खाते हैं; और जो वेदी की सेवा करते हैं; वे वेदी के साथ भागी होते हैं? १४ इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उन की जीविका सुसमाचार से हो। १५ परन्तु मैं इन में से कोई भी बात काम में न लाया, और मैं ने तो ये बातें इसलिये नहीं लिखी, कि मेरे लिये ऐसा किया जाए, क्योंकि इस से तो मेरा मरना ही भला है; कि कोई मेरा घमण्ड व्यर्थ ठहराए। १६ और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊँ, तो मेरा कुछ घमण्ड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिये अवश्य है; और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊँ, तो मुझ पर हाय। १७ क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ, तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, तो भी भण्डारीपन मुझे सीपा गया है। १८ सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंट में कर दूँ; यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है, उस को मैं पूरी रीति से काम में लाऊँ। १९ क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैं ने अपने आप को सब का दास बना दिया है; कि अधिक लोगों को खींच लाऊँ। २० मैं यहूदियों के

लिये यहूदी बना कि यहूदियों को खीच लाऊ, जो लोग व्यवस्था के आधीन है उन के लिये मैं व्यवस्था के आधीन न होने पर भी व्यवस्था के आधीन बना, कि उन्हें जो व्यवस्था के आधीन हैं, खीच लाऊ। २१ व्यवस्थाहीनो के लिये मैं (जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, परन्तु मसीह की व्यवस्था के आधीन हूँ) व्यवस्थाहीन सा बना, कि व्यवस्थाहीनो को खीच लाऊ। २२ मैं निर्बलो के लिये निर्बल सा बना, कि निर्बलो को खीच लाऊँ, मैं सब मनुष्यों के लिये सब कुछ बना हूँ, कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊ। २३ और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिये करता हूँ, कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊँ। २४ क्या तुम नहीं जानते, कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परन्तु इनाम एक ही ले जाता है ? तुम वैसे ही दौड़ो, कि जीतो। २५ और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझानेवाले मुकुट को पाने के लिये यह सब करते हैं, परन्तु हम तो उस मुकुट के लिये करते हैं, जो मुरझाने का नहीं। २६ इसलिये मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परन्तु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परन्तु उस की नाईं नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। २७ परन्तु मैं अपनी देह को मारता कूटता, और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहूँ ॥

१० हे भाइयो, मैं नहीं चाहता, कि तुम इस बात से अज्ञात रहो, कि हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो

गए। २ और सब ने बादल में, और समुद्र में, मूसा का बपतिस्मा लिया। ३ और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। ४ और सब ने एक ही आत्मिक जल पीया, क्योंकि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे, जो उन के साथ-साथ चलती थी; और वह चटान मसीह था। ५ परन्तु परमेश्वर उन में के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिये वे जङ्गल में ढेर हो गए। ६ ये बातें हमारे लिये दृष्टान्त ठहरी, कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करे। ७ और न तुम मूरत पूजनेवाले बनो, जैसे कि उन में से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, कि लोग खाने-पीने बैठे, और खेलने-कूदने उठे। ८ और न हम व्यभिचार करे; जैसा उन में से कितनों ने किया और एक दिन में तेईस हजार मर गये। ९ और न हम प्रभु को परखें; जैसा उन में से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नाश किए गए। १० और न तुम कुडकुडाओ, जिस रीति से उन में से कितने कुडकुड़ाए, और नाश करनेवाले के द्वारा नाश किए गए। ११ परन्तु ये सब बातें, जो उन पर पड़ी, दृष्टान्त की रीति पर थी : और वे हमारी चिंतावनी के लिये जो जगत के अन्तिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। १२ इसलिये जो समझता है, कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे; कि कही गिर न पड़े। १३ तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा * है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, बरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा; कि तुम सह सको ॥

* १० विश्वासयोग्य।

१४ इस कारण, हे मेरे प्यारो मूर्तिं पूजा से बचे रहो। १५ मैं बुद्धिमान जानकर, तुम से कहता हूँ : जो मैं कहता हूँ, उसे तुम परखो। १६ वह धन्यवाद का कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं ? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं ? १७ इसलिये, कि एक ही रोटी है सो हम भी जो बहुत हैं, एक देह हैं : क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। १८ जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, उन को देखो : क्या बलिदानों के खानेवाले वेदी के सहभागी नहीं ? १९ फिर मैं क्या कहता हूँ ? क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है, या मूरत कुछ है ? २० नहीं, बरन यह, कि ग्रन्यजाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिये नहीं, परन्तु दुष्टात्माओं के लिये बलिदान करते हैं : और मैं नहीं चाहता, कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। २१ तुम प्रभु के कटोरे, और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते ! तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साभी नहीं हो सकते। २२ क्या हम प्रभु को रिस दिलाते हैं ? क्या हम उस से शक्तिमान हैं ?

२३ सब वस्तुएँ मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब लाभ की नहीं : सब वस्तुएँ मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। २४ कोई अपना ही भलाई को न ढूँढ़े, बरन औरों की। २५ जो कुछ कस्साइयों के यहां बिकता है, वह खाओ और विवेक * के कारण कुछ न पूछो। २६ क्योंकि पृथ्वी और उस की भरपूरी

प्रभु की है। २७ और यदि भविष्यवासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए, वही खाओ : और विवेक के कारण कुछ न पूछो। २८ परन्तु यदि कोई तुम से कहे, यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बतानेवाले के कारण, और विवेक के कारण न खाओ। २९ मेरा मतलब, तेरा विवेक नहीं, परन्तु उस दूसरे का। भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए : ३० यदि मैं धन्यवाद करके साभी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है ? ३१ सो तुम चाहे खाओ, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिये करो। ३२ तुम न यहूदियों, न यूनानियों, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिये ठोकर के कारण बनो। ३३ जैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं, परन्तु बहुतों का लाभ ढूँढ़ता हूँ, कि वे उद्धार पाएँ ॥

११ तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ ॥

२ हे भाइयो, मैं तुम्हें सराहता हूँ, कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो : और जो व्यवहार मैं ने तुम्हें सीप दिए हैं, उन्हें धारण करते हो। ३ सो मैं चाहता हूँ, कि तुम यह जान लो, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है : और स्त्री का सिर पुरुष है : और मसीह का सिर परमेश्वर है। ४ जो पुरुष सिर ढाँके हुए प्रार्थना या भविष्यद्वाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। ५ परन्तु जो स्त्री उचाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यद्वाणी करती

* अर्थात् मन या कानशन्स ।

है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुगड़ी होने के बराबर है। ६ यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े, तो बाल भी कटा ले; यदि स्त्री के लिये बाल कटाना या मुगड़ाना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े। ७ हां पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है; परन्तु स्त्री पुरुष की महिमा ! ८ क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परन्तु स्त्री पुरुष से हुई है। ९ और पुरुष स्त्री के लिये नहीं सिरजा गया, परन्तु स्त्री पुरुष के लिये सिरजी गई है। १० इसी लिये स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है, कि अधिकार * अपने सिर पर रखे। ११ तौभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष, और न पुरुष बिना स्त्री के है। १२ क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है; परन्तु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। १३ तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उछाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहना है? १४ क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते, कि यदि पुरुष लम्बे बाल रखे, तो उसके लिये अपमान है। १५ परन्तु यदि स्त्री लम्बे बाल रखे; तो उसके लिये शोभा है क्योंकि बाल उस को ओढ़नी के लिये दिए गए हैं। १६ परन्तु यदि कोई विवाद करना चाहे, तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कली-सियाओं की ऐसी रीति है।

१७ परन्तु यह आज्ञा देते हुए, मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिये कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं, परन्तु हानि होती है। १८ क्योंकि पहिले तो मैं यह सुनता हूँ, कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो, तो

* या आधीनता का चिन्ह।

तुम में फूट होती है और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ। १९ क्योंकि विचर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिये कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं, वे प्रगट हो जाएं। २० सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिये नहीं। २१ क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहिले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है, और कोई मतवाला हो जाता है। २२ क्या खाने पीने के लिये तुम्हारे घर नहीं? या परमेश्वर की कली-सिया को तुच्छ जानते हो, और जिन के पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुम से क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? मैं प्रशंसा नहीं करता। २३ क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैं ने तुम्हें भी पहुंचा दी; कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। २४ और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, और कहा; कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिये है: मेरे स्मरण के लिये यही किया करो। २५ इसी रीति से उस ने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, और कहा; यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है: जब कभी पीओ, तो मेरे स्मरण के लिये यही किया करो। २६ क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, प्रचार करते हो। २७ इसलिये जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पीए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। २८ इसलिये मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, और इस कटोरे में से पीए। २९ क्योंकि जो खाते-पीते समय प्रभु की देह को न

पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दण्ड लाता है। ३० इसी कारण तुम में बहुतों ने निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। ३१ यदि हम अपने आप को जानते, तो दण्ड न पाते। ३२ परन्तु प्रभु हमें दण्ड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिये कि हम ससार के साथ दोषी न ठहरे। ३३ इसलिये, हे मेरे भाइयो, जब तुम खाने के लिये इकट्ठे होते हो, तो एक दूसरे के लिये ठहरा करो। ३४ यदि कोई भूखा हो, तो अपने घर में खा ले जिस से तुम्हारा इकट्ठा होना दण्ड का कारण न हो: और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा ॥

१२ हे भाइयो, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक बरदानों के विषय में अज्ञात रहो। २ तुम जानते हो, कि जब तुम अन्याजाति थे, तो गूगी मूरतो के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ३ इसलिये मैं तुम्हें चितीनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की भ्रगुआई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है; और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है ॥

४ बरदान तो कई प्रकार के हैं, परन्तु आत्मा एक ही है। ५ और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परन्तु प्रभु एक ही है। ६ और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परन्तु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ७ किन्तु सब के लाभ पहचानने के लिये हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ८ क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं; और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ९ और

किसी को उसी आत्मा से विश्वास; और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का बरदान दिया जाता है। १० फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति; और किसी को भविष्यद्वारणी की; और किसी को आत्माओं की परख; और किसी को अनेक प्रकार की भाषा; और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ११ परन्तु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बाट देता है ॥

१२ क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। १३ क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिये बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। १४ इसलिये कि देह में एक ही अंग नहीं, परन्तु बहुत से हैं। १५ यदि पाव कहे, कि मैं हाथ नहीं, इसलिये देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? १६ और यदि कान कहे; कि मैं आंख नहीं, इसलिये देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है। १७ यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती, तो सूचना कहा होता? १८ परन्तु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। १९ यदि वे सब एक ही अंग होते, तो देह कहां होती? २० परन्तु अब अंग तो बहुत से हैं, परन्तु देह एक ही है। २१ आंख हाथ से नहीं कह सकती, कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पावों से कह

सकता है, कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। २२ परन्तु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। २३ और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं; और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। २४ फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इस का प्रयोजन नहीं, परन्तु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है, कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो। २५ ताकि देह में फूट न पड़े, परन्तु अंग एक दूसरे की बराबर चिन्ता करे। २६ इसलिये यदि एक अंग दुःख पाता है, तो सब अंग उसके साथ दुःख पाते हैं; और यदि एक अंग की बड़ाई होती है, तो उसके साथ सब अंग आनन्द मनाते हैं। २७ इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। २८ और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक*, फिर सामर्थ्य के काम करनेवाले, फिर चंगा करनेवाले, और उपकार करनेवाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलनेवाले। २९ क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करनेवाले हैं? ३० क्या सब को चंगा करने का बरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? ३१ क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी बरदानों के धन में रहो! परन्तु मैं तुम्हें और भी सब से उत्तम मार्ग बताता हूँ ॥

* या उपदेशक।

१३ यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूँ, और प्रेम न रखूँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, और भंभनाती हुई भाँभूँ हूँ। २ और यदि मैं भविष्यद्वक्ता कर सकूँ, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, परन्तु प्रेम न रखूँ, तो मैं कुछ भी नहीं। ३ और यदि मैं अपनी सम्पूरण संपत्ति कगालों को खिला दूँ, या अपनी देह जलाने के लिये दे दूँ, और प्रेम न रखूँ, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ४ प्रेम धीरजवन्त है, और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं। ५ वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, भुंभलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ६ कुकर्म से आनन्दित नहीं होता, परन्तु सत्य से आनन्दित होता है। ७ वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। ८ प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यद्वक्ता हो, तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएँ हों, तो जाती रहेगी, ज्ञान हो, तो मिट जाएगा। ९ क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, और हमारी भविष्यद्वक्ता अधूरी। १० परन्तु जब सर्वसिद्ध आएगा, तो अधूरा मिट जाएगा। ११ जब मैं बालक था, तो मैं बालकों की भाँभूँ बोलता था, बालकों का सा मन था बालकों की सी समझ थी; परन्तु जब सियाना हो गया, तो बालकों की बातें छोड़ दी। १२ अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है; परन्तु उस समय आमाने साम्हने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है; परन्तु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहिचानूँगा, जैसा मैं पहिचाना गया हूँ।

१३ पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई हैं, पर इन में सब से बड़ा प्रेम है ॥

१४ प्रेम का अनुकरण करो, और आत्मिक बरदानों की भी धुन में रहो विशेष करके यह, कि भविष्यद्वाराणी करो। २ क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है; वह मनुष्यों से नहीं, परन्तु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिये कि उस की कोई नहीं समझता; क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ३ परन्तु जो भविष्यद्वाराणी करता है, वह मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति की बातें कहता है। ४ जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है; परन्तु जो भविष्यद्वाराणी करता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है। ५ मैं चाहता हूँ, कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परन्तु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यद्वाराणी करो: क्योंकि यदि अन्यान्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया की उन्नति के लिये अनुवाद न करे तो भविष्यद्वाराणी करनेवाला उस से बढ़कर है। ६ इसलिये हे भाइयो, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यान्य भाषा में बातें करूँ, और प्रकाश, या ज्ञान, या भविष्यद्वाराणी, या उपदेश की बातें तुम से न कहूँ, तो मुझ से तुम्हें क्या लाभ होगा? ७ इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी, जिन से ध्वनि निकलती है जैसे बासुरी, या बीन, यदि उन के स्वरों में भेद न हो तो जो फूका या बजाया जाता है, वह क्योंकर पहिचाना जाएगा? ८ और यदि तुरही का शब्द साफ न हो, तो कौन लड़ाई के लिये तैयारी करेगा? ९ ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है, वह क्योंकर समझा

जाएगा? तुम तो हवा से बातें करनेवाले ठहरोगे। १० जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हों, परन्तु उन में से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। ११ इसलिये यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूँ, तो बोलनेवाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा; और बोलनेवाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। १२ इसलिये तुम भी जब आत्मिक बरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो, कि तुम्हारे बरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। १३ इस कारण जो अन्य भाषा बोले, तो वह प्रार्थना करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके। १४ इसलिये यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परन्तु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। १५ सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा, और बुद्धि से भी गाऊंगा। १६ नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्योंकर कहेगा? इसलिये कि वह तो नहीं जानता, कि तू क्या कहता है? १७ तू तो भली भाँति स धन्यवाद करता है, परन्तु दूसरे की उन्नति नहीं होती। १८ मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि मैं तुम सब से अधिक अन्यान्य भाषा में बोलता हूँ। १९ परन्तु कलीसिया में अन्य भाषा में दस हजार बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है, कि औरों के सिखाने के लिये बुद्धि से पाच ही बातें कहूँ ॥

२० हे भाइयो, तुम समझ में बालक न बनो: तीसरी बुराई में तो बालक रहो, परन्तु समझ में सियाने बनो। २१ व्यवस्था में लिखा है, कि प्रभु कहता है; मैं अन्य

भाषा बोलनेवालों के द्वारा, और पराए मूल के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तोभी वे मेरी न सुनेंगे। २२ इसलिये अन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिये नहीं, परन्तु अविश्वासियों के लिये चिन्ह हैं, और भविष्यद्वाणी अविश्वासियों के लिये नहीं परन्तु विश्वासियों के लिये चिन्ह हैं।

२३ सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, और सब के सब अन्यान्य भाषा बोले, और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे ? २४ परन्तु यदि सब भविष्यद्वाणी करने लगे, और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। २५ और उसके मन के भेद प्रगट हो जाएंगे, और तब वह मुह के बल गिरकर परमेश्वर को दण्डवत करेगा, और मान लेगा, कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है ॥

२६ इसलिये हे भाइयो क्या करना चाहिए ? जब तुम इकट्ठे होते हो, तो हर एक के हृदय में भजन, या उपदेश, या अन्य भाषा, या प्रकाश, या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिये होना चाहिए। २७ यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, तो दो दो, या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोलें, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। २८ परन्तु यदि अनुवाद करनेवाला न हो, तो अन्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया में शान्त रहे, और अपने मन से, और परमेश्वर से बातें करे। २९ भविष्यद्वाक्ताओं में से दो या तीन बोलें, और शेष लोग उन के वचन को परखें। ३० परन्तु यदि दूसरे पर जो बैठा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, तो पहिला चुप हो जाए। ३१ क्योंकि तुम

सब एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें, और सब शान्त पाए। ३२ और भविष्यद्वाक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वाक्ताओं के बश में है। ३३ क्योंकि परमेश्वर गडबडी का नहीं, परन्तु शान्त का कर्ता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है ॥

३४ स्त्रिया कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परन्तु आधीन रहने की आज्ञा है : जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। ३५ और यदि वे कुछ सीखना चाहें, तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। ३६ क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला ? या केवल तुम ही तक पहुंचा है ?

३७ यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वाक्ता या आत्मिक जन समझे, तो यह जान ले, कि जो बातें में तुम्हें लिखता है, वे प्रभु की आज्ञाए हैं। ३८ परन्तु यदि कोई न जाने, तो न जाने ॥

३९ सो हे भाइयो, भविष्यद्वाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने में मना न करो। ४० पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए ॥

१५ हे भाइयो, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहिले सुना चुका हूँ, जिसे तुम ने अंगीकार भी किया था और जिस में तुम स्थिर भी हो। २ उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैं ने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो; नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। ३ इसी कारण मैं ने सब से पहिले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के

अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिये मर गया। ४ और गाढा गया; और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ५ और कैफा को तब बारही को दिखाई दिया। ६ फिर पाच सौ से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिन में से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए। ७ फिर याकूब को दिखाई दिया तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। ८ और सब के बाद मुझ को भी दिखाई दिया, जो मानो अंधूरे दिनों का जन्मा हूँ। ९ क्योंकि मैं प्रेरितों में सब से छोटा हूँ, बरन प्रेरित कद्दलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैं ने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। १० परन्तु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ; परन्तु मैं ने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया: तौभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परन्तु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। ११ सो चाहे मैं हूँ, चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुम ने विश्वास भी किया ॥

१२ सो जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, कि वह मरे हुएों में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्योकर कहते हैं, कि मरे हुएों का पुनरुत्थान * है ही नहीं? १३ यदि मरे हुएों का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। १४ और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है; और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। १५ बरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे; क्योंकि हम ने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी,

* या मृतकोत्थान।

कि उस ने मसीह को जिला दिया यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। १६ और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। १७ और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फसे हो। १८ बरन जो मसीह में सो गए हैं, वे भी नाश हुए। १९ यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं ॥

२० परन्तु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं, उन में पहिला फल हुआ। २१ क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुएों का पुनरुत्थान भी आया। २२ और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। २३ परन्तु हर एक अपनी अपनी बारी से; पहिला फल मसीह; फिर मसीह के आने पर उसके लोग। २४ इस के बाद अन्त होगा; उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अन्त करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सोप देगा। २५ क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पावों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। २६ सब से अन्तिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। २७ क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पावों तले कर दिया है, परन्तु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके आधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है, कि जिस ने सब कुछ उसके आधीन कर दिया, वह आप अलग रहा। २८ और जब सब कुछ उसके आधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके आधीन हो जाएगा जिस ने

सब कुछ उसके आधीन कर दिया; ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो ॥

२६ नहीं तो जो लोग मरे हुएों के लिये बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं, तो फिर क्यों उन के लिये बपतिस्मा लेते हैं? ३० और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? ३१ हे भाइयो, मुझे उस घमण्ड की सोह जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, कि मैं प्रति दिन मरता हूँ। ३२ यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में बन-पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ, जाए-पीए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। ३३ धोखा न खाना, बुरी सगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ३४ धर्म के लिये जाग उठो और पाप न करो; क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिये यह कहता हूँ ॥

३५ अब कोई यह कहेगा, कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, और कंसी देह के साथ आते हैं? ३६ हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। ३७ और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होनेवाली है, परन्तु निरा दाना है, चाहे गेहूँ का, चाहे किसी और अनाज का। ३८ परन्तु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उस को देह देता है; और हर एक बीज को उस की विशेष देह। ३९ सब शरीर एक सरीखे नहीं, परन्तु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है; पक्षियों का शरीर और है; मछलियों का शरीर और है। ४० स्वर्गीय देह है, और पार्थिव देह भी है; परन्तु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और।

४१ सूर्य का तेज और है, चान्द का तेज और है, और तारागणों का तेज और है; (क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अन्तर है)। ४२ मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में जी उठता है। ४३ वह अनादर के साथ बोया जाता है, और तेज के साथ जी उठता है; निर्बलता के साथ बोया जाता है; और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। ४४ स्वाभाविक देह बोई जाती है, और आत्मिक देह जी उठती है: जब कि स्वाभाविक देह है, तो आत्मिक देह भी है। ४५ ऐसा ही लिखा भी है, कि प्रथम मनुष्य, अर्थात् आदम, जीवित प्राणी बना और अन्तिम आदम, जीवनदायक आत्मा बना। ४६ परन्तु पहिले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था, इस के बाद आत्मिक हुआ। ४७ प्रथम मनुष्य धरती से, अर्थात् मिट्टी का था; दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। ४८ जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही और मिट्टी के है; और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही और भी स्वर्गीय है। ४९ और जैसे हम ने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे ॥

५० हे भाइयो, मैं यह कहता हूँ कि मास और लोह परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ५१ देखो, मैं तुम से भेद की बात कहता हूँ: कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परन्तु सब बदल जाएंगे। ५२ और यह क्षण भर में, पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा: क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। ५३ क्योंकि अवश्य है,

कि यह नाशमान देह अविनाश को पहिन ले, और यह मरनहार देह अमरता को पहिन ले। ५४ और जब यह नाशमान अविनाश को पहिन लेगा, और यह मरनहार अमरता को पहिन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, पूरा हो जाएगा, कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। ५५ हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? ५६ हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है; और पाप का बल व्यवस्था है। ५७ परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन्त करता है। ५८ सो हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है ॥

१६ अब उस चन्दे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिये किया जाता है, जैसी आज्ञा में ने गलतिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। २ सप्ताह के पहिले दिन तुम मे से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चन्दा न करना पड़े। ३ और जब मैं आऊंगा, तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा, कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। ४ और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ, तो वे मेरे साथ जाएंगे। ५ और मैं मकिडूनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिडूनिया होकर तो जाना ही है। ६ परन्तु सम्भव है कि तुम्हारे यहां ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहां काढ़, तब जिस और मेरा जाना हो, उस और तुम मुझे पहुंचा दो। ७ क्योंकि मैं अब मार्ग में तुम से भेंट करना नहीं चाहता;

परन्तु मुझे आशा है, कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ८ परन्तु मैं पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। ९ क्योंकि मेरे लिये एक बड़ा और उपयोगी द्वारा खुला है, और विरोधी बहुत से हैं ॥

१० यदि तीमुथियुस आ जाए, तो देखना, कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे; क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता है। ११ इसलिये कोई उसे तुच्छ न जाने, परन्तु उसे कुशल से इस और पहुंचा देना, कि मेरे पास आ जाए; क्योंकि मैं उस की बाट जोह रहा हूं, कि वह भाइयों के साथ आए। १२ और भाई अपुल्लोस से मैं ने बहुत बिनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परन्तु उस ने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परन्तु जब अवसर पाएगा, तब आ जाएगा ॥

१३ जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवन्त होओ। १४ जो कुछ करते हो प्रम से करो ॥

१५ हे भाइयो, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो, कि वे अखया के पहिले फल हैं, और पवित्र लोगों की सेवा के लिये तैयार रहते हैं। १६ सो मैं तुम से बिनती करता हूं कि ऐसों के आधीन रहो, बरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। १७ और मैं स्तिफनास और फूरतूनानुस और अखइकुस के आने से आनन्दित हूं, क्योंकि उन्होंने ने तुम्हारी घटी को पूरी की है। १८ और उन्होंने ने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है इसलिये ऐसों को मानो ॥

१९ आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुम को नमस्कार; अक्विला और प्रिसका का और उन के घर की कलीसिया का भी

तुम को प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार ।
२० सब भाइयों का तुम को नमस्कार :
पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्कार करो ॥

२१ मुझ पौलुस का अपने हाथ का
लिखा हुआ नमस्कार : यदि कोई प्रभु से

प्रेम न रखे तो वह स्थापित हो । २२ हमारा
प्रभु आनेवाला है । २३ प्रभु यीशु मसीह
का अनुग्रह तुम पर होता रहे । २४ मेरा
प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे ।
आमीन ॥

कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री

१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित
है, और भाई तीमुथियुस की ओर से
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो
कुरिन्थुस में है; और सारे अखया के सब
पवित्र लोगों के नाम ॥

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और
शान्ति मिलती रहे ॥

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर,
और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का
पिता, और सब प्रकार की शान्ति का
परमेश्वर है । ४ वह हमारे सब क्लेशों में
शान्ति देता है; ताकि हम उस शान्ति
के कारण जो परमेश्वर हमें देता है,
उन्हें भी शान्ति दे सकें, जो किसी प्रकार
के क्लेश में हों । ५ क्योंकि जैसे मसीह
के दुख हम को अधिक होते हैं, वैसे ही
हमारी शान्ति भी मसीह के द्वारा अधिक
होती है । ६ यदि हम क्लेश पाते हैं,
तो यह तुम्हारी शान्ति और उद्धार के
लिये है और यदि शान्ति पाते हैं, तो यह

तुम्हारी शान्ति के लिये है, जिस के
प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों
को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते
हैं । ७ और हमारी आशा तुम्हारे विषय में
दृढ़ है; क्योंकि हम जानते हैं, कि तुम
जैसे दुखों के वैसे ही शान्ति के भी
सहभागी हो । ८ हे भाइयो, हम नहीं
चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान
रहो, जो आसिया में हम पर पड़ा, कि
ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, जो हमारी
सामर्थ्य से बाहर था, यहा तक कि हम
जीवन से भी हाथ धो बैठे थे । ९ बरन
हम ने अपने मन में समझ लिया था,
कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है
कि हम अपना भरोसा न रखें, बरन
परमेश्वर का जो मरे हुआओं को जिलाता
है । १० उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से
बचाया, और बचाएगा; और उस से
हमारी यह आशा है, कि वह आगे को
भी बचाता रहेगा । ११ और तुम भी
मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता
करोगे, कि जो बरदान बहुतों के द्वारा

हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें ॥

१२ क्योंकि हम अपने विवेक * को इस गवाही पर घमण्ड करते हैं, कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, परन्तु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। १३ हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है, कि अन्त तक भी मानते रहोगे। १४ जैसा तुम मे से कितनो ने † मान लिया है, कि हम तुम्हारे घमण्ड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिये घमण्ड का कारण ठहरोगे ॥

१५ और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहिले तुम्हारे पास आऊँ; कि तुम्हें एक और दान मिले। १६ और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊँ, और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊँ, और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुँचाओ। १७ इसलिये मैं ने जो यह इच्छा की थी तो क्या मैं ने चञ्चलता दिखाई? या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ, कि मैं बात में हूँ, हाँ भी करूँ; १८ और नहीं नहीं भी करूँ? परमेश्वर सच्चा ‡ गवाह है, कि हमारे उस वचन में जो तुम से कहा हूँ और नहीं दोनों पाई नहीं जातीं। १९ क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिस का हमारे द्वारा अर्थात् मेरे और सिलवानुस

और तीमथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ; उस में हूँ और नहीं दोनों न थी; परन्तु, उस में हूँ ही हूँ हुई। २० क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हूँ के साथ हैं: इसलिये उसके द्वारा आमीन भी हुई, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। २१ और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिस ने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। २२ जिस ने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया ॥

२३ मैं परमेश्वर को गवाह * करता हूँ, कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिये नहीं आया, कि मुझे तुम पर तरस आता था। २४ यह नहीं, कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं; परन्तु तुम्हारे आनन्द में सहायक हूँ क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो।

२ मैं ने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर न आऊँ। २ क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूँ, तो मुझे आनन्द देनेवाला कौन होगा, केवल वही जिस को मैं ने उदास किया? ३ और मैं ने यही बात तुम्हें इसलिये लिखी, कि कहीं ऐसा न हो, कि मेरे आने पर जिन से आनन्द मिलना चाहिए, मैं उन से उदास होऊँ; क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है, कि जो मेरा आनन्द है, वही तुम सब का भी है। ४ बड़े क्लेश, और मन के कष्ट से, मैं ने बहुत से आंसू बहा बहाकर तुम्हें लिखा, इसलिये नहीं, कि तुम उदास हो, परन्तु इसलिये कि तुम

* अर्थात् मन या कानदानस ।

† या थोड़ा बहुत ।

‡ या विश्वासी ।

* बू० अपने प्राण पर गवाह ।

उस बड़े प्रेम को जान लो, जो मुझे तुम से है ॥

५ और यदि किसी ने उदास किया है, तो मुझे ही नहीं बरन (कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूँ) कुछ कुछ तुम सब को भी उदास किया है। ६ ऐसे जन के लिये यह दण्ड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया, बहुत है। ७ इसलिये इस से यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो; और शान्ति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। ८ इस कारण मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि उस को अपने प्रेम का प्रमाण दो। ९ क्योंकि मैं ने इसलिये भी लिखा था, कि तुम्हें परख लू, कि सब बातों के मानने के लिये तैयार हो, कि नहीं। १० जिस का तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं ने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर * क्षमा किया है। ११ कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उस की युक्तियों से अनजान नहीं ॥

१२ और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोग्रास में आया, और प्रभु ने मेरे लिये एक द्वार खोल दिया। १३ तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिये कि मैं ने अपने भाई तितुस को नहीं पाया; सो उन से विदा होकर मैं मकिडुनिया को चला गया। १४ परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हम को जय के उत्सव में लिये फिरता है, और अपने ज्ञान का सुगन्ध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। १५ क्योंकि हम पर-

मेश्वर के निकट उद्धार पानेवालों, और नाश होनेवालों, दोनों के लिये मसीह के सुगन्ध हैं। १६ कितनों के लिये तो मरने के निमित्त मृत्यु की गन्ध, और कितनों के लिये जीवन के निमित्त जीवन की सुगन्ध, और इन बातों के योग्य कौन है? १७ क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं; परन्तु मन की सच्चाई से, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं ॥

३ क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुम से लेनी हैं? २ हमारी पत्नी तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहिचानते और पढ़ते हैं। ३ यह प्रगट है, कि तुम मसीह की पत्नी हो, जिस को हम ने सेवकों की नाई लिखा; और जो सियाही से नहीं, परन्तु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं, परन्तु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। ४ हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ५ यह नहीं, कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें; पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ६ जिस ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द * के सेवक नहीं बरन आत्मा के; क्योंकि शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। ७ और यदि मृत्यु की वह वाचा जिस के

* या मसीह को बाहिर जानकर।

* यो अक्षर।

अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहा तक तेजोमय हुई, कि मूसा के मुह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्त्राएल उसके मुह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। ८ तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? ९ क्योंकि जब दोषी ठहरानेवाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहरानेवाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? १० और जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो उस से बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा। ११ क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा, और भी तेजोमय क्यों न होगा?

१२ सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। १३ और मूसा की नाई नहीं, जिस ने अपने मुह पर परदा * डाला था ताकि इस्त्राएली उस घटनेवाली वस्तु के अन्त को न देखें। १४ परन्तु वे मतिमन्द हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उन के हृदयों पर वही परदा पड़ा रहता है; पर वह मसीह में उठ जाता है। १५ और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उन के हृदय पर परदा पड़ा रहता है। १६ परन्तु जब कभी उन का हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह परदा उठ जाएगा। १७ प्रभु तो आत्मा है; और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। १८ परन्तु जब हम सब के उधाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी

तेजस्वी रूप में अश अश कर के बदलते जाते हैं ॥

४ इसलिये जब हम पर ऐसी दया हुई, कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। २ परन्तु हम ने लज्जा के गुप्त कामो को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परन्तु सत्य को प्रगट करके, परमेश्वर के साम्हने हर एक मनुष्य के बिबेक * में अपनी भलाई बैठाते हैं। ३ परन्तु यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा है, तो यह नाश होनेवालो ही के लिये पड़ा है। ४ और उन अविश्वासियों के लिये, जिन की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अन्धी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ५ क्योंकि हम अपने को नहीं, परन्तु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, कि वह प्रभु है; और अपने विषय में यह कहते हैं, कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। ६ इसलिये कि परमेश्वर ही है, जिस ने कहा, कि अन्धकार में से ज्योति चमके; और वही हमारे हृदयो में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहिचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो ॥

७ परन्तु हमारे पास यह घन मिट्टी के बरतनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, बरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ८ हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते; निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। ९ सताए तो जाते हैं; पर

* या आदना।

* अर्थात् मन या कानशन्स।

त्यागे नहीं जाते; गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। १० हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं; कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो। ११ क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर में प्रगट हो। १२ सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। १३ और इसलिये कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, (जिस के विषय में लिखा है, कि मैं ने विश्वास किया, इसलिये मैं बोला) सो हम भी विश्वास करते हैं, इसी लिये बोलते हैं। १४ क्योंकि हम जानते हैं, कि जिस ने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, और तुम्हारे साथ अपने साम्हने उपस्थित करेगा। १५ क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिये हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिये धन्यवाद भी बढ़ाए ॥

१६ इसलिये हम हियाव नहीं छोड़ते; यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तोभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। १७ क्योंकि हमारा पल भर का हलका सा क्लेश हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनन्त महिमा उत्पन्न करता जाता है। १८ और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परन्तु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परन्तु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं ॥

५ क्योंकि हम जानते हैं, कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा

घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परन्तु चिरस्थायी है। २ इस में तो हम कहते, और बड़ी लालसा रखते हैं; कि अपने स्वर्गीय घर को पहिन ले। ३ कि इस के पहिनने से हम नज़्मे न पाए जाएं। ४ और हम इस डेरे में रहते हुए बोरु से दबे कहते रहते हैं; क्योंकि हम उतारना नहीं, बरन और पहिनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। ५ और जिस ने हमें इसी बात के लिये तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिस ने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। ६ सो हम सदा ढाढ़स बान्धे रहते हैं और यह जानते हैं; कि जब तक हम देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग हैं। ७ क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। ८ इसलिये हम ढाढ़स बान्धे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ९ इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, कि चाहे साथ रहें, चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। १० क्योंकि अवश्य है, कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के साम्हने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उस ने देह के द्वारा किए हों पाए ॥

११ सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रगट है; और मेरी आशा यह है, कि तुम्हारे विवेक * पर भी प्रगट हुआ होगा। १२ हम फिर भी अपनी

* अर्थात् मन या काननस्त ।

बड़ाई तुम्हारे साम्हने नहीं करते बरन हम अपने विषय में तुम्हें घमण्ड करने का अबसर देते हैं, कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं, बरन दिखावटी बातों पर घमण्ड करते हैं। १३ यदि हम बेसुध हैं, तो परमेश्वर के लिये; और यदि चैतन्य हैं, तो तुम्हारे लिये हैं। १४ क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है; इसलिये कि हम यह समझते हैं, कि जब एक सब के लिये मरा तो सब मर गए। १५ और वह इस निमित्त सब के लिये मरा, कि जो जीवित हैं, वे आगे को अपने लिये न जीएं परन्तु उसके लिये जो उन के लिये मरा और फिर जी उठा। १६ सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हम ने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तौभी अब से उस को ऐसा नहीं जानेंगे। १७ सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है: पुरानी बातें बीत गई हैं; देखो, वे सब नई हो गईं। १८ और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिस ने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। १९ अर्थात् परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उन के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उस ने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है ॥

२० सो हम मसीह के राजदूत हैं; मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता * है: हम मसीह की ओर से निवेदन करते

हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। २१ जो पाप से अज्ञात था, उसी को उस ने हमारे लिये पाप ठहराया, कि हम उस में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं ॥

६ और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं, कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ, व्यर्थ न रहने दो *। २ क्योंकि वह तो कहता है, कि अपनी प्रसन्नता के समय मैं ने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैं ने तेरी सहायता की: देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है; देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। ३ हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अबसर नहीं देते, कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। ४ परन्तु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सदगुणों को प्रगट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। ५ कोड़े खाने से, कौद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। ६ पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। ७ सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से; धार्मिकता के हथियारों से जो दहिने, बाएं हैं। ८ आदर और निरादर से, दुरनाम और सुनाम से, यद्यपि भरमानेवालों के ऐसे मालूम होते हैं तौभी सच्चे हैं। ९ अनजानों के सदृश्य हैं; तौभी प्रसिद्ध हैं; मरते हुआओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं; मारखानेवालों के सदृश्य हैं परन्तु प्राण से मारे नहीं जाते। १० शोक करनेवाले के समान हैं, परन्तु सर्वदा आनन्द करते हैं; कंगालों

* या बिनती करता।

* या व्यर्थ होने के लिये न ले लो।

के ऐसे हैं, परन्तु बहुतो को धनवान बना देते हैं; ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तोभी सब कुछ रखते हैं ॥

११ हे कुरिनियों, हम ने खुलकर तुम से बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। १२ तुम्हारे लिये हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है। १३ पर अपने लडके-बाले जानकर तुम से कहता हूँ, कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो ॥

१४ अविश्वासियों के साथ अभमान जूए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अभर्ष का क्या मेल जोल? या ज्योति और अन्धकार की क्या सगति? १५ और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? १६ और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मन्दिर का क्या सम्बन्ध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मन्दिर हैं; जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उन में बसूंगा और उन में चला फिरा करूंगा; और मैं उन का परमेश्वर हूंगा, और वे मेरे लोग होंगे। १७ इसलिये प्रभु कहता है, कि उन के बीच में से निकलो और अलग रहो; और असुद्ध वस्तु को मत छूओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। १८ और तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटिया होंगे: यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है ॥

७ सो हे प्यारो जब कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें ॥

२ हमें अपने हृदय में जगह दो: हम ने न किसी से अन्धाय किया, न किसी को बिगाड़ा, और न किसी को ठगा। ३ मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिये यह नहीं कहता: क्योंकि मैं पहिले ही कह चुका हूँ, कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिये तैयार हैं। ४ मैं तुम से बहुत हियाव के साथ बोल रहा हू, मुझे तुम पर बड़ा घमण्ड है: मैं शान्ति से भर गया हूँ; अपने सारे क्लेश में मैं आनन्द से अति भरपूर रहता हूँ ॥

५ क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परन्तु हम चारो ओर से क्लेश पाते थे; बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयकर बातें थी। ६ तोभी दीनों को शान्ति देनेवाले परमेश्वर ने तितुस के आने से हम को शान्ति दी। ७ और न केवल उसके आने से परन्तु उस की उस शान्ति से भी, जो उस को तुम्हारी ओर से मिली थी; और उस ने तुम्हारी लालसा, और तुम्हारे दुख और मेरे लिये तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिस से मुझे और भी आनन्द हुआ। ८ क्योंकि यद्यपि मैं ने अपनी पत्नी से तुम्हें शोकित किया, परन्तु उस से पछताता नहीं जैसा कि पहिले पछताता था क्योंकि मैं देखता हूँ, कि उस पत्नी से तुम्हें शोक तो हुआ परन्तु वह थोड़ी देर के लिये था। ९ अब मैं आनन्दित हूँ पर इसलिये नहीं कि तुम को शोक पहुंचा बरन इसलिये कि तुम ने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। १० क्योंकि

परमेश्वर-भक्ति का शोक ऐसा पश्चात्ताप उत्पन्न करता है जिस का परिणाम उद्वार है और फिर उस से पछताना नहीं पड़ता : परन्तु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है । ११ सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर-भक्ति का शोक हुआ तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर * और रिस, और भय, और लालसा, और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ ? तुम ने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया, कि तुम इस बात में निर्दोष हो । १२ फिर मैं ने जो तुम्हारे पास लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा, जिस ने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परन्तु इसलिये कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिये है, वह परमेश्वर के साम्हने तुम पर प्रगट हो जाए । १३ इसलिये हमें शान्ति हुई; और हमारी इस शान्ति के साथ तितुस के आनन्द के कारण और भी आनन्द हुआ क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है । १४ क्योंकि यदि मैं ने उसके साम्हने तुम्हारे विषय में कुछ घमण्ड दिखाया, तो लज्जित नहीं हुआ, परन्तु जैसे हम ने तुम से सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमण्ड दिखाना तितुस के साम्हने भी सच निकला । १५ और जब उस को तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है, कि क्योकर तुम ने डरते और कांपते हुए उस से भेंट की; तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है । १६ मैं आनन्द करता हूँ, कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है ॥

* या बचाव के लिये उचर ।

८ अब हे भाइयो, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं, जो मकिडुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है । २ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उन के बड़े आनन्द और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उन की उदारता बहुत बढ़ गई । ३ और उन के विषय में मेरी यह गवाही है, कि उन्हो ने अपनी सामर्थ्य भर बरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया । ४ और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हम से बार बार बहुत बिनती की । ५ और जैसी हम ने आशा की थी, वैसी ही नहीं, बरन उन्हो ने प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हम को भी अपने तर्क दे दिया । ६ इसलिये हम ने तितुस को समझाया, कि जैसा उस ने पहिले आरम्भ किया था, वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले । ७ सो जैसे हर बात में अर्थात् विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में, और उस प्रेम में, जो हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ । ८ मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परन्तु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिये कहता हूँ । ९ तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिये कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ । १० और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिये अच्छा है; जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परन्तु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे । ११ इसलिये

अब यह काम पूरा करो; कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। १२ क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। १३ यह नहीं, कि श्रीरों को चैन और तुम को क्लेश मिले। १४ परन्तु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उन की बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। १५ जैसा लिखा है, कि जिस ने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिस ने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला ॥

१६ और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस ने तुम्हारे लिये वही उत्साह तितुस के हृदय में डाल दिया है। १७ कि उस ने हमारा समझाना मान लिया बरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। १८ और हम ने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिस का नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। १९ और इतना ही नहीं, परन्तु वह कलीसिया से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिये हमारे साथ जाए और हम यह सेवा इसलिये करते हैं, कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रगट हो जाए। २० हम इस बात में चौकस रहते हैं, कि इस उदारता के काम के विषय में जिस की सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाने पाए। २१ क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं, परन्तु मनुष्यों के निकट भी भली हैं हम उन की चिन्ता

करते हैं। २२ और हम ने उसके साथ अपने भाई को भेजा है, जिस को हम ने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है; परन्तु अब तुम पर उस को बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। २३ यदि कोई तितुस के विषय में पूछे, तो वह मेरा साथी, और तुम्हारे लिये मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे, तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा हैं। २४ सो अपना प्रेम और हमारा वह घमण्ड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के साम्हने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ ॥

६ अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिये की जाती है, मुझे तुम को लिखना अवश्य नहीं। २ क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिस के कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनियों के साम्हने घमण्ड दिखाता हूँ, कि भ्रख्या के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। ३ परन्तु मैं ने भाइयों को इसलिये भेजा है, कि हम ने जो घमण्ड तुम्हारे विषय में दिखाया, वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे; परन्तु जैसा मैं ने कहा; वैसे ही तुम तैयार हो रहो। ४ ऐसा न हो, कि यदि कोई मकिदुनी मेरे साथ आए, और तुम्हें तैयार न पाए, तो क्या जानें, इस भरोसे के कारण हम (यह नहीं कहते कि तुम) लज्जित हों। ५ इसलिये मैं ने भाइयों से यह बिनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं, और तुम्हारी उदारता का फल जिस के विषय में

पहिले से बचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह दबाव * से नहीं परन्तु उदारता के फल की नाई तैयार हो ॥

६ परन्तु बात तो यह है, कि जो थोडा † बोता है वह थोडा काटेगा भी; और जो बहुत ‡ बोता है, वह बहुत काटेगा । ७ हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे; न कुछ कुछ के, और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देनेवाले से प्रेम रखता है । ८ और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिस से हर बात में और हर समय, सब कुछ, जो तुम्हें आवश्यक हो, तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिये तुम्हारे पास बहुत कुछ हो । ९ जैसा लिखा है, उस ने विथराया, उस ने कंगालो को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा । १० सो जो बोनेवाले को बीज, और भोजन के लिये रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा, और उसे फलवन्त करेगा; और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा । ११ कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिये जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ । १२ क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से, न केवल पवित्र लोगो की घटिया पूरी होती है, परन्तु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है । १३ क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रगट करते हैं, कि तुम मसीह के सुसमाचार को मान कर उसके आधीन रहते हो, और उन की, और सब की सहायता करने में उदारता प्रगट करते रहते हो । १४ और

वे तुम्हारे लिये प्रार्थना करते है; और इसलिये कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते है । १५ परमेश्वर को उसके उस दान के लिये जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो ॥

१० में वही पौलुस जो तुम्हारे साम्हने दीन हूं, परन्तु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हू; तुम को मसीह की नभ्रता, और कोमलता के कारण समझता हूं । २ में यह बिनती करता हू, कि तुम्हारे साम्हने मुझे निर्भय होकर * साहस करना न पड़े, जैसा मैं कितनो पर जो हम को शरीर के अनुसार चलनेवाले समझते है, वीरता दिखाने का विचार करता हू । ३ क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चल्ते फिरते हैं, तौभी शरीर के अनुसार नहीं लडते । ४ क्योंकि हमारी लडाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गडों को ढा देने के लिये परमेश्वर के द्वारा † सामर्थी हैं । ५ सो हम कल्पनाओ को, और हर एक ऊंची बात को, जो परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती है, खण्डन करते हैं; और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते है । ६ और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए, तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें । ७ तुम इन्ही बातों को देखते हो, जो आंखों के साम्हने है, यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो, कि मैं मसीह का हूं, तो वह यह भी जान ले, कि जैसा वह मसीह का है, वैसे ही हम भी हैं । ८ क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के

* यू० लोभ । † या कंजूसी से ।

‡ या उदारता से ।

* यू० भरोसे से । † या लिप ।

विषय में और भी घमण्ड दिखाऊँ, जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिये नहीं पर बनाने के लिये हमें दिया है, तो लज्जित न हूँगा। ९ यह मैं इसलिये कहता हूँ, कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डरानेवाला न ठहरे। १० क्योंकि कहते हैं, कि उस की पत्रियाँ तो गम्भीर और प्रभावशाली हैं; परन्तु जब देखते हैं, तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। ११ सो जो ऐसा कहता है, वह यह समझ रखे, कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे साम्हने हमारे काम भी होंगे। १२ क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उन में से ऐसे कितनों के साथ गिने, या उन से अपने को मिलाए, जो अपनी प्रशंसा करते हैं, और अपने आप को आपस में नाप तौलकर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। १३ हम तो सीमा से बाहर घमण्ड कदापि न करेंगे, परन्तु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिये ठहरा दी है, और उस में तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमण्ड भी करेंगे। १४ क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुचने की दशा में होता, बरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुच चुके हैं। १५ और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमण्ड नहीं करते; परन्तु हमें आशा है, कि ज्यो ज्यो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। १६ कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएँ, और यह नहीं, कि हम औरों की सीमा के

भीतर बने बनाए कामों पर घमण्ड करें। १७ परन्तु जो घमण्ड करे, वह प्रभु पर घमण्ड करे। १८ क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, वह नहीं, परन्तु जिस की बड़ाई प्रभु करता है, वही ग्रहण किया जाता है ॥

११ यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता; हाँ, मेरी सह भी लेते हो। २ क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिये कि मैं ने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूँ। ३ परन्तु मैं डरता हूँ कि जैसे साप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीघाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कही भ्रष्ट न किए जाएँ। ४ यदि कोई तुम्हारे पास आकर, किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, जिस का प्रचार हम ने नहीं किया: या कोई और आत्मा तुम्हें मिले; जो पहिले न मिला था; या और कोई सुसमाचार जिसे तुम ने पहिले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। ५ मैं तो समझता हूँ, कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। ६ यदि मैं वक्तव्य में अनाडी हूँ, तौभी ज्ञान में नहीं; बरन हम ने इस को हर बात में सब पर तुम्हारे लिये प्रगट किया है। ७ क्या इस में मैं ने कुछ पाप किया; कि मैं ने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत में सुनाया; और अपने आप को नीचा किया, कि तुम ऊँचे हो जाओ? ८ मैं ने और कलीसियाओ को लूटा अर्थात् मैं ने उन से मजदूरी ली, ताकि तुम्हारी सेवा करूँ। ९ और जब तुम्हारे

साथ था, और मुझे घटी हुई, तो मैं ने किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाइयों ने, मकिदुनिया से आकर मेरी घटी को पूरी की: और मैं ने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका, और रोके रहूंगा। १० यदि मसीह की सन्चाई मुझ में है, तो अखया देश में कोई मुझे इस घमण्ड से न रोकेगा। ११ किस लिये? क्या इसलिये कि मैं तुम से प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है। १२ परन्तु जो मैं करता हूँ, वही करता रहूंगा; कि जो लोग दांव बूढ़ते हैं, उन्हें मैं दांव पाने दूँ, ताकि जिस बात में वे घमण्ड करते हैं, उस में वे हमारे ही समान ठहरें। १३ क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, और छल से काम करने-वाले, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरनेवाले हैं। १४ और यह कुछ अचम्भे की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। १५ सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, तो कुछ बड़ी बात नहीं परन्तु उन का अन्त उन के कामों के अनुसार होगा ॥

१६ मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे; नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमण्ड करूं। १७ इस बेधड़क घमण्ड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार * नहीं पर मानों मूर्खता से ही कहता हूँ। १८ जब कि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमण्ड करते हैं, तो मैं भी घमण्ड करूंगा। १९ तुम तो समझदार होकर आनन्द से मूर्खों की सह

लेते हो। २० क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है, या खा जाता है, या फंसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुह पर थप्पड़ मारता है, तो तुम सह लेते हो। २१ मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे; परन्तु जिस किसी बात में कोई हियाव करता है (मैं मूर्खता से कहता हूँ) तो मैं भी हियाव करता हूँ। २२ क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ: क्या वे ही इस्राएली हैं? मैं भी हूँ: क्या वे ही इब्राहीम के वंश हैं? मैं भी हूँ: क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? २३ (मैं पागल की नाई कहता हूँ) मैं उन से बढकर हूँ। अधिक परिश्रम करने में; बार बार कैद होने में; कोड़े खाने में; बार बार मृत्यु के जोखिमों में। २४ पांच बार मैं ने यहूदियों के हाथ से उन्तालीस उन्तालीस कोड़े खाए। २५ तीन बार मैं ने बेंतें खाईं; एक बार पत्थरवाह किया गया; तीन बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था, टूट गए; एक रात दिन मैं ने समुद्र में काटा। २६ मैं बार बार यात्राओं में; नदियों के जोखिमों में; डाकुओं के जोखिमों में; अपने जातिवालों से जोखिमों में; अन्यजातियों से जोखिमों में; नगरों में के जोखिमों में; जंगल के जोखिमों में; समुद्र के जोखिमों में; झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। २७ परिश्रम और कष्ट में; बार बार जागते रहने में; भूख-पियास में; बार बार उपवास करने में; जाड़े में; उषाड़े रहने में। २८ और और बातों को छोड़कर जिन का वर्णन मैं नहीं करता सब कलीसियाओं की चिन्ता प्रतिदिन मुझे दबाती है। २९ किस की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किस के ठोकर

* यू० प्रभु की रीति पर।

खाने से मेरा जी नहीं दुखता ? ३० यदि घमण्ड करना अवश्य है, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर कल्ला। ३१ प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, जानता है, कि मैं भूठ नहीं बोलता। ३२ दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उस ने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। ३३ और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया, और उसके हाथ से बच निकला ॥

१२ यद्यपि घमण्ड करना तो मेरे लिये ठीक नहीं तीभी करना पड़ता है; सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा कल्ला। २ मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, चौदह वर्ष हुए कि न जाने देहसहित, न जाने देहरहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ३ मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ न जाने देहसहित, न जाने देहरहित परमेश्वर ही जानता है। ४ कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिन का मुह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ५ ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमण्ड कल्ला, परन्तु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़, अपने विषय में घमण्ड न कल्ला। ६ क्योंकि यदि मैं घमण्ड करना चाहूँ भी तो मूर्ख न हूँगा, क्योंकि सच बोलूँगा; तीभी रुक जाता हूँ, ऐसा न हो, कि जैसा कोई मुझे देखता है, या मुझ से सुनता है, मुझे उस से बढ़कर समझे। ७ और इसलिये कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा

चुभाया * गया अर्थात् शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। ८ इस के विषय में मैं ने प्रभु से तीन बार बिनती की, कि मुझ से यह दूर हो जाए। ९ और उस ने मुझ से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिये बहुत है; क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है; इसलिये मैं बड़े आनन्द से अपनी निर्बलताओं पर घमण्ड कल्ला, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। १० इस कारण मैं मसीह के लिये निर्बलताओं, और निन्दाओं में, और दरिद्रता में और उपद्रवों में, और सकटों में, प्रसन्न हूँ; क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी बलवन्त होता हूँ ॥

११ मैं मूर्ख तो बना, परन्तु तुम ही ने मुझ से यह बरबस करवाया : तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तीभी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। १२ प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों, और अद्भुत कामों, और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। १३ तुम कौन सी बात में और कलीसियों से कम थे, केवल इस में कि मैं ने तुम पर अपना भार न रखा : मेरा यह अन्याय क्षमा करो ॥

१४ देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूँगा; क्योंकि मैं तुम्हारी सम्पत्ति नहीं, बरन तुम ही को चाहता हूँ : क्योंकि लड़के-बालों को माता-पिता के लिये धन बटोरना न चाहिए, पर माता-पिता को लड़के-बालों के लिये।

* यू० दिया।

१५ में तुम्हारी आत्माओं के लिये बहुत आनन्द से खर्च करूँगा, बरन आप भी खर्च हो जाऊँगा: क्या जितना बढकर मैं तुम से प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझ से प्रेम रखोगे? १६ ऐसा हो सकता है, कि मैं ने तुम पर बोझ नहीं डाला, परन्तु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। १७ भला, जिन्हें मैं ने तुम्हारे पास भेजा, क्या उन में से किसी के द्वारा मैं ने छल करके तुम से कुछ ले लिया? १८ मैं ने तितुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तितुस ने छल करके तुम से कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले?

१९ तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिये कहते हैं। २० क्योंकि मुझे डर है, कही ऐसा न हो, कि मैं आकर जैसे चाहता हूँ, वैसे तुम्हें न पाऊँ; और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। २१ और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिये फिर शोक करना पड़े, जिन्हो ने पहिले पाप किया था, और उस गन्दे काम, और व्यभिचार, और लुचपन से, जो उन्हो ने किया, मन नहीं फिराया ॥

१३ अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ: दो या तीन गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। २ जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था,

सो * वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्हों ने पहिले पाप किया, और और सब लोगों से अब पहिले से कहे देता हूँ, कि यदि मैं फिर आऊँगा, तो नहीं छोडूँगा। ३ तुम तो इस का प्रमाण चाहते हो, कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिये निर्बल नहीं; परन्तु तुम में सामर्थी है। ४ वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तौमी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है, हम भी तो उस में निर्बल हैं; परन्तु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिये है, उसके साथ जीएंगे। ५ अपने आप को परखो, कि विश्वास में हो कि नहीं; अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते, कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। ६ पर मेरी आशा है, कि तुम जान लोगे, कि हम निकम्मे नहीं। ७ और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते है, कि तुम कोई बुराई न करो; इसलिये नहीं, कि हम खरे देख पड़ें, पर इसलिये कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। ८ क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिये कर सकते हैं। ९ जब हम निर्बल हैं, और तुम बलवन्त हो, तो हम आनन्दित होते हैं, और यह प्रार्थना भी करते है, कि तुम सिद्ध हो जाओ। १० इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ, कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिये नहीं पर बनाने के लिये मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े ॥

११ निदान, हे भाइयो, आनन्दित रहो; सिद्ध बनते जाओ; ढाढ़स रखो; एक ही

* या मानो दूसरी बार उपस्थित होकर।

मन रखो; मेल से रहो, और प्रेम और शान्ति का दाता * परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। १२ एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। १३ सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार

करते हैं। १४ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता * तुम सब के साथ होती रहे ॥

* य० स्रोत।

* वा संगति।

गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से, और न मनुष्य के द्वारा, बरन यीशु-मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिस ने उस को मरे हुआ में से जिलाया, प्रेरित है। २ और सारे भाइयों की ओर से, जो मेरे साथ हैं; गलतिया की कलीसियाओं के नाम। ३ परमेश्वर पिता, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे। ४ उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिये दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे ससार से छुड़ाए। ५ उस की स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

६ मुझे आश्चर्य होता है, कि जिस ने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उस से तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर भुक्ने लगे। ७ परन्तु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं: पर बात यह है, कि कितने ऐसे हैं, जो तुम्हें घबरा देते, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ८ परन्तु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम ने तुम को सुनाया है, कोई

और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो स्थापित हो। ९ जैसा हम पहिले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ, कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुम ने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो स्थापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? १० यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास न होता ॥

११ हे भाइयो, मैं तुम्हें जताए देता हूँ, कि जो सुसमाचार मैं ने सुनाया है, वह मनुष्य का सा नहीं। १२ क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा, और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। १३ यहूदी मत में जो पहिले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो, कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहृत ही सताता और नाश करता था। १४ और अपने बहुत से जातिवालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बापदादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। १५ परन्तु परमेश्वर की, जिस ने मेरी माता के गर्भ

ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, १६ जब इच्छा हुई, कि मुझ में अपने पुत्र को प्रगट करे कि मैं अन्य-जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊ; तो न मैं ने मास और लोह से सलाह ली; १७ और न यरूशलेम को उन के पास गया जो मुझ से पहिले प्रेरित थे, पर तुरन्त अब्रब को चला गया : और फिर वहा से दमिस्क को लौट आया ॥

१८ फिर तीन बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, और उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा। १९ परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। २० जो बातें मैं तुम्हे लिखता हू, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ, कि वे झूठी नहीं। २१ इस के बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया। २२ परन्तु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, मेरा मुह तो कभी नहीं देखा था। २३ परन्तु यही सुना करती थी, कि जो हमें पहिले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है, जिसे पहिले नाश करता था। २४ और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी ॥

२ . चौदह वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया, और तितुस को भी साथ ले गया। २ और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ : और जो सुसमाचार मैं अन्यजातियों में प्रचार करता हू, उस को मैं ने उन्हें बता दिया; पर एकान्त में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो, कि मेरी इस समय की, या भगली दौड़ घूप व्यर्थ

ठहरे। ३ परन्तु तितुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है; खतना कराने के लिये विवश नहीं किया गया। ४ और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ, जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। ५ उन के आधीन होना हम ने एक घड़ी भर न माना, इसलिये कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। ६ फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे (वे चाहे कंस ही थे, मुझे इस से कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता) उन से जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ७ परन्तु इसके विपरीत जब उन्हीं ने देखा, कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिये सुसमाचार का काम पतरस को सौपा गया वैसा ही खतनारहितों के लिये मुझे सुसमाचार सुनाना सौपा गया। ८ (क्योंकि जिस ने पतरस से खतना किए हुआओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझ से भी अन्यजातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया)। ९ और जब उन्हों ने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, और कैफा, और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खम्भे समझे जाते थे, मुझ को और बरनबास को दहिना हाथ देकर संग कर लिया, कि हम अन्यजातियों के पास जाएं, और वे खतना किए हुआओं के पास। १० केवल यह कहा, कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था ॥

११ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। १२ इसलिये कि याकूब की ओर से कितने लोगों के

आने से पहिले वह अन्यजातियों के साथ खाया करता था, परन्तु जब वे आए, तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उन से हट गया और किनारा करने लगा। १३ और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उन के कपट में पड़ गया। १४ पर जब मैं ने देखा, कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैं ने सब के साम्हने कैफ़ा से कहा; कि जब तू यहूदी होकर अन्यजातियों की नाईं चलता है, और यहूदियों की नाईं नहीं तो तू अन्यजातियों को यहूदियों की नाईं चलने को क्यों कहता है? १५ हम तो जन्म के यहूदी है, और पापी अन्यजातियों में से नहीं। १६ तौभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हम ने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिये कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। १७ हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। १८ क्योंकि जो कुछ मैं ने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। १९ मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिये मर गया, कि परमेश्वर के लिये जीऊँ। २० मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है; और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिस ने मुझ से प्रेम किया, और मेरे लिये अपने

आप को दे दिया। २१ मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता ॥

३ हे निर्बुद्धि गलतियो, किस ने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आँखों के साम्हने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। २ मैं तुम से केवल यह जानना चाहता हूँ, कि तुम ने आत्मा को, क्या व्यवस्था के कामों से, या विश्वास के समाचार से पाया? ३ क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, कि आत्मा की रीति पर आरम्भ करके अब शरीर की रीति पर अन्त करोगे? ४ क्या तुम ने इतना दुख बोही उठाया? परन्तु कदाचित्त व्यर्थ नहीं। ५ सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? ६ इब्राहीम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया * और यह उसके लिये धार्मिकता गिनी गई। ७ तो यह जान लो, कि जो विश्वास करनेवाले हैं, वे ही इब्राहीम की सन्तान हैं। ८ और पवित्र शास्त्र ने पहिले ही से यह जानकर, कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहिले ही से इब्राहीम को यह सुसमाचार सुना दिया, कि तुम में सब जातिया आशीष पाएंगी। ९ तो जो विश्वास करनेवाले हैं, वे विश्वासी इब्राहीम के साथ आशीष पाते हैं। १० सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब आप के आधीन हैं, क्योंकि लिखा है, कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं

* यू० की प्रतीति की।

रहता, वह स्थापित है। ११ पर यह बात प्रगट है, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। १२ पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ सम्बन्ध नहीं; प्रर जो उन को मानेगा, वह उन के कारण जीवित रहेगा। १३ मसीह ने जो हमारे लिये स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के स्नाप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह स्थापित है। १४ यह इसलिये हुआ, कि इब्राहीम की आशीष मसीह यीशु में अन्यजातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिस की प्रतिज्ञा हुई है ॥

१५ हे भाइयो, मे मनुष्य की रीति पर कहता हू, कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो न कोई उसे टालता है और न उस में कुछ बढ़ाता है। १६ निदान, प्रतिज्ञाए इब्राहीम को, और उसके वंश को दी गईं. वह यह नहीं कहता, कि वंशों को; जैसे बहुतो के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को: और वह मसीह है। १७ पर मे यह कहता हूं, कि जो वाचा परमेश्वर ने पहिले से पक्की की थी, उस को व्यवस्था चार सौ तीस बरस के बाद आकर नही टाल देती, कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। १८ क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है, तो फिर प्रतिज्ञा से नही, परन्तु परमेश्वर ने इब्राहीम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। १९ तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, कि उस वंश के आने तक रहे, जिस को प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। २० मध्यस्थ तो एक का नहीं

होता, परन्तु परमेश्वर एक ही है। २१ तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि न हो? क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। २२ परन्तु पवित्र शास्त्र ने सब को पाप के आधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिस का आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करनेवालो के लिये पूरी हो जाए ॥

२३ पर विश्वास के आने से पहिले व्यवस्था की आधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रगट होनेवाला था, हम उसी के बन्धन में रहे। २४ इसलिये व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। २५ परन्तु जब विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के आधीन न रहे। २६ क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की सन्तान हो। २७ और तुम में से जितनो ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्हों ने मसीह को पहिन लिया है। २८ अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी; न कोई दास, न स्वतंत्र; न कोई नर, न नारी; क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। २९ और यदि तुम मसीह के हो, तो इब्राहीम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो ॥

४ में यह कहता हूं, कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तौभी उस में और दास में कुछ भेद नहीं। २ परन्तु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भस्कारियों के वंश में रहता है। ३ वैसे ही हम भी,

जब बालक थे, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। ४ परन्तु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, और व्यवस्था के आधीन उत्पन्न हुआ। ५ ताकि व्यवस्था के आधीनों को मोल लेकर छोड़ा ले, और हम को लेपालक होने का पद मिले। ६ और तुम जो पुत्र हो, इसलिये परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। ७ इसलिये तू अब दास नहीं, परन्तु पुत्र है; और जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ।।

८ भला, तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ९ पर अब जो तुम ने परमेश्वर को पहचान लिया बरन परमेश्वर ने तुम को पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि-शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिन के तुम दोबारा दास होना चाहते हो? १० तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। ११ मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कही ऐसा न हो, कि जो परिश्रम में ने तुम्हारे लिये किया है, व्यर्थ ठहरे।।

१२ हे भाइयो, मैं तुम से बिनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ: क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ; तुम ने मेरा कुछ बिगाडा नहीं। १३ पर तुम जानते हो, कि पहिले पहिल मैं ने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। १४ और तुम ने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना; न उस से घृणा की; और परमेश्वर के

दूत बरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। १५ तो वह तुम्हारा आनन्द मनाना कहा गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ, कि यदि हो सकता, तो तुम अपनी आँखें भी निकालकर मुझे दे देते। १६ तो क्या तुम से सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। १७ वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मनसा से नहीं; बरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं, कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। १८ पर यह भी अच्छा है, कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय, कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। १९ हे मेरे बालको, जब तक तुम मैं मसीह का रूप न बन जाए. तब तक मैं तुम्हारे लिये फिर जच्चा की सी पीड़ाएँ सहता हूँ। २० इच्छा तो यह होती है, कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूँ, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे सन्देह है।।

२१ तुम जो व्यवस्था के आधीन होना चाहते हो, मुझ से कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? २२ यह लिखा है, कि इब्राहीम के दो पुत्र हुए; एक दासी से, और एक स्वतंत्र स्त्री से। २३ परन्तु जो दासी से हुआ, वह शारीरिक रीति से जन्मा; और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। २४ इन बातों में दृष्टान्त है, ये स्त्रियाँ मानो दो वाचाएँ हैं, एक तो सीना पहाड़ की जिस से दास ही उत्पन्न होते हैं; और वह हाजिरा है। २५ और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। २६ पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह

हमारी माता है। २७ क्योंकि लिखा है, कि हे बाँझ, तू जो नहीं जनती आनन्द कर, तू जिस को पीड़ाएँ नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की सन्तान मुहागिन की सन्तान से भी अधिक है। २८ हे भाइयो, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की सन्तान है। २९ और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। ३० परन्तु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। ३१ इसलिये हे भाइयो, हम दासी के नहीं, परन्तु स्वतंत्र स्त्री की सन्तान हैं।

५ मसीह ने स्वतंत्रता के लिये हमें स्वतंत्र किया है; सो इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जूए में फिर से न जुतो ॥

२ देखो, मैं पौलुस तुम से कहता हूँ, कि यदि खतना कराओगे, तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। ३ फिर भी मैं हर एक खतना करानेवाले को जताए देता हूँ, कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ४ तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ५ क्योंकि आत्मा के कारण, हम विश्वास से, आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। ६ और मसीह यीशु में न खतना, न खतनारहित कुछ काम का है, परन्तु केवल, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। ७ तुम तो भली भाँति दौड़ रहे थे, अब किस ने तुम्हें रोक दिया, कि सत्य को

न मानो। ८ ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने-वाले की ओर से नहीं। ९ थोड़ा सा खमीर सारे गूधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। १० मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ, कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परन्तु जो तुम्हें घबरा देता है, वह कोई क्यों न हो दण्ड पाएगा। ११ परन्तु हे भाइयो, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ; फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। १२ भला होता, कि जो तुम्हें डाँवाडोल करते हैं, वे काट डाले जाते !

१३ हे भाइयो, तुम स्वतंत्र होने के लिये बुलाए गए हो परन्तु ऐसा न हो, कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिये अवसर बने, बरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। १४ क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। १५ पर यदि तुम एक दूसरे को दाँत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो, कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो ॥

१६ पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। १७ क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं; इसलिये कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। १८ और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के आधीन न रहे। १९ शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात् व्यभिचार, गन्दे काम, लुचपन। २० मूर्ति पूजा, टोना, बैर,

भगडा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म ।
२१ डाह, मतवालपन, लीलाक्रीडा, और
इन के ऐसे और और काम है, इन के
विषय में मैं तुम को पहिले से कह देता
हूँ जैसा पहिले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे
ऐसे काम करनेवाले परमेश्वर के राज्य
के वारिस न होंगे । २२ पर आत्मा का
फल प्रेम, आनन्द, मेल, धीरज, २३ कृपा,
भलाई, विश्वास, नम्रता, और समय हैं;
ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी
व्यवस्था नहीं । २४ और जो मसीह यीशु
के हैं, उन्हों ने शरीर को उस की लालसाओं
और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया
है ॥

२५ यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित
हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी ।
२६ हम घमण्डी होकर न एक दूसरे
को छेड़ें, और न एक दूसरे से डाह
करें ॥

हे भाइयो, यदि कोई मनुष्य किसी
अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम
जो आत्मिक हो, नम्रता * के साथ ऐसे
को सभालो, और अपनी भी चौकसी
रखो, कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो ।
२ तुम एक दूसरे के भार उठाओ, और
इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी
करो । ३ क्योंकि यदि कोई कुछ न होने
पर भी अपने आप को कुछ समझता है,
तो अपने आप को धोखा देता है । ४ पर
हर एक अपने ही काम को जाच ले, और
तब दूसरे के विषय में नहीं परन्तु अपने
ही विषय में उसको घमण्ड करने का
भवसर होगा । ५ क्योंकि हर एक व्यक्ति
अपना ही बोझ उठाएगा ॥

* शू० नम्रता की आत्मा ।

६ जो वचन की शिक्षा पाता है, वह
सब अच्छी वस्तुओं में सिखानेवाले को
भागी करे । ७ धोखा न खाओ, परमेश्वर
उठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य
जो कुछ बोता है, वही काटेगा । ८ क्योंकि
जो अपने शरीर के लिये बोता है, वह
शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा,
और जो आत्मा के लिये बोता है, वह
आत्मा के द्वारा अनन्त जीवन की कटनी
काटेगा । ९ हम भले काम करने में
हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले
न हो, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे ।
१० इसलिये जहाँ तक भवसर मिले हम
सब के साथ भलाई करें; विशेष करके
विश्वासी भाइयों के साथ ॥

११ देखो, मैं ने कैसे बड़े बड़े भ्रक्षरों में
तुम को अपने हाथ से लिखा है ।
१२ जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते
हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिये
दबाव देते हैं, केवल इसलिये कि वे मसीह
के क्रूस के कारण सताए न जाए ।
१३ क्योंकि खतना करानेवाले आप तो,
व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा
खतना कराना इसलिये चाहते हैं, कि
तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमण्ड करें ।
१४ पर ऐसा न हो, कि मैं और किसी
बात का घमण्ड करूं, केवल हमारे प्रभु
यीशु मसीह के क्रूस का जिस के द्वारा
संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की
दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ ।
१५ क्योंकि न खतना, और न खतना-
रहित कुछ है, परन्तु नई सृष्टि । १६ और
जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर, और
परमेश्वर के इस्त्राएल पर, शान्ति और दया
होती रहे ॥

१७ आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ ॥

१८ हे भाइयो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन ॥

इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है ॥

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, कि उस ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष * दी है। ४ जैसा उस ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहिले उस में चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ५ और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिये पहिले से ठहराया, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, ६ कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उस ने हमें उस प्यारे में सेंट भेट दिया। ७ हम को उस में उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात् अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ८ जिसे उस ने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर

बहुतायत से किया। ९ कि उस ने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उस ने अपने आप में ठान लिया था। १० कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबन्ध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ११ उसी में जिस में हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहिले से ठहराए जाकर मीरास बने। १२ कि हम जिन्हो ने पहिले से मसीह पर आशा रखी थी, उस की महिमा की स्तुति के कारण हो। १३ और उसी में तुम पर भी जब तुम ने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुम ने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। १४ वह उसके मोल लिए दुष्मों के छुटकारे के लिये हमारी मीरास का बयाना है, कि उस की महिमा की स्तुति हो ॥

१५ इस कारण, मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और * सब पवित्र लोगों

* या तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों से है।

* यू० आशीष से आशीष।

पर प्रगट है। १६ तुम्हारे लिये धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हू। १७ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। १८ और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उस की मीरास की महिमा का धन कैसा है। १९ और उस की सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है, उस की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। २० जो उस ने मसीह के विषय में किया, कि उस को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहिनी ओर। २१ सब प्रकार की प्रधानता, और अधिकार, और सामर्थ्य, और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, पर आनेवाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। २२ और सब कुछ उसके पावो तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। २३ यह उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है ॥

२ और उस ने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। २ जिन में तुम पहिले इस ससार की रीति पर, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात् उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न माननेवालों में कार्य करता है। ३ इन में हम भी सब के सब पहिले

अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर, और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की सन्तान थे। ४ परन्तु परमेश्वर ने जो दया का धनी है; अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिस से उस ने हम से प्रेम किया। ५ जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया; (अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है)। ६ और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ७ कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आनेवाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ८ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बरन परमेश्वर का दान है। ९ और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे। १० क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिये सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये तैयार किया ॥

११ इस कारण स्मरण करो, कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्यजाति हो, (और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतनावाले कहलाते हैं, वे तुम को खतनारहित कहते हैं)। १२ तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्लाम की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आज्ञाहीन और जगत में ईश्वररहित थे। १३ पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहिले दूर थे, मसीह के लोह के द्वारा निकट हो गए हो।

१४ क्योंकि वही हमारा मेल है, जिम ने दोनों को एक कर लिया : और अलग करनेवाली दीवार को जो बीच में थी, ढा दिया। १५ और अपने शरीर में बैर अर्थात् वह व्यवस्था जिस की आजाए त्रिधियो की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। १६ और क्रूस पर बैर को नाश करके इस के द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। १७ और उस ने आकर तुम्हें जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल-मिलाप का सुसमाचार सुनाया। १८ क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। १९ इसलिये तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परन्तु पवित्र लोगो के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। २० और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर जिस के कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। २१ जिस में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु मे एक पवित्र मन्दिर बनती जाती है। २२ जिस में तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवासस्थान होने के लिये एक साथ बनाए जाते हो ॥

इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्यजातियों के लिये मसीह यीशु का बन्धुआ हूँ—२ यदि तुम ने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबन्ध का समाचार सुना हो, जो तुम्हारे लिये मुझे दिया गया। ३ अर्थात् यह, कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रगट हुआ, जैसा मैं पहिले सक्षेप में लिख चुका हूँ। ४ जिस से तुम

पढ़कर जान सकते हो, कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। ५ जो और और समयो में मनुष्यो की सन्तानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितो और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रगट किया गया है। ६ अर्थात् यह, कि मसीह यीशु मे सुसमाचार के द्वारा अन्यजातीय लोग मीरास में सांभी, और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ७ और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। ८ मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ, कि मैं अन्यजातियों को मसीह के अग्रम्य धन का सुसमाचार सुनाऊँ। ९ और सब पर यह बात प्रकाशित करूँ, कि उस भेद का प्रबन्ध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। १० ताकि अब कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, उन प्रधानों और अधिकारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों मे हैं प्रगट किया जाए। ११ उस सनातन मनसा के अनुसार, जो उस ने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। १२ जिस में हम को उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। १३ इसलिये मैं बिनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिये मुझे हो रहे हैं, उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उन में तुम्हारी महिमा है ॥

१४ मैं इसी कारण उस पिता के आग्रहने घुटने टेकता हूँ, १५ जिस से स्वर्ग

श्रीर पृथ्वी पर, हर एक * घराने का नाम रखा जाता है। १६ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवन्त होते जाओ। १७ श्रीर विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर श्रीर नेव डाल कर। १८ सब पवित्र लोगों के साथ भली भाँति समझने की शक्ति पाओ; कि उसकी चौड़ाई, श्रीर लम्बाई, श्रीर ऊँचाई, श्रीर गहराई कितनी है। १९ श्रीर मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ ॥

२० अब जो ऐसा सामर्थ्य है, कि हमारी बिनती श्रीर समझ से कही अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, २१ कलीसिया में, श्रीर मसीह यीशु में, उस की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

४ सो मैं जो प्रभु में बन्धुआ हूँ तुम से बिनती करता हूँ, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। २ अर्थात् सारी दीनता श्रीर नम्रता सहित, श्रीर धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ३ श्रीर मेल के बन्ध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ४ एक ही देह है, श्रीर एक ही आत्मा; जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। ५ एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। ६ श्रीर सब का एक ही

* या सारे।

परमेश्वर श्रीर पिता है, जो सब के ऊपर, श्रीर सब के मध्य में, श्रीर सब में है। ७ पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। ८ इसलिये वह कहता है, कि वह ऊँचे पर चढ़ा, श्रीर बन्धुवाई को बान्ध ले गया, श्रीर मनुष्यों को दान दिए। ९ (उसके चढ़ने से, श्रीर क्या पाया जाता है केवल यह, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। १० श्रीर जो उतर गया, यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे)। ११ श्रीर उस ने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, श्रीर कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, श्रीर कितनों को सुसमाचार सुनानेवाले नियुक्त करके, श्रीर कितनों को रखवाले श्रीर उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। १२ जिस से पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, श्रीर सेवा का काम किया जाए, श्रीर मसीह को देह उन्नति पाए। १३ जब तक कि हम सब के सब विश्वास, श्रीर परमेश्वर के पुत्र की पहिचान में एक न हो जाएं, श्रीर एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए श्रीर मसीह के पूरे डील डील तक न बढ़ जाएं। १४ ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग-विद्या श्रीर चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियों की, श्रीर उपदेश की, हर एक बयार से उछाले, श्रीर इधर-उधर घुमाए जाते हों। १५ बरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उस में जो सिर है, अर्थात् मसीह में बढ़ते जाएं। १६ जिस से सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, श्रीर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उस में होता है, अपने आप को

बढ़ाती है, कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए ॥

१७ इसलिये मैं यह कहता हूँ, और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्यजातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। १८ क्योंकि उनकी बुद्धि अन्वेषी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उन में है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। १९ और वे सुभ होकर, लुचपन में लग गए हैं, कि सब प्रकार के गन्दे काम लालसा से किया करे। २० पर तुम ने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। २१ बरन तुम ने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए। २२ कि तुम अगले चालचलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवाली अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध होता जाता है, उतार डालो। २३ और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नये बनते जाओ। २४ और नये मनुष्यत्व को पहिन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, और पवित्रता में सृजा गया है ॥

२५ इस कारण मूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। २६ क्रोध तो करो, पर पाप मत करो: सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। २७ और न शैतान * को अवसर दो। २८ चोरी करनेवाला फिर चोरी न करे; बरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे; इसलिये कि जिसे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो।

* य० इब्लिस।

२९ कोई गन्दी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिये उत्तम हो, ताकि उस से सुननेवालों पर अनुग्रह हो। ३० और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिस से * तुम पर छुटकारे के दिन के लिये छाप दी गई है। ३१ सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, और कलह, और निन्दा सब बैरभाव समेत तुम से दूर की जाए। ३२ और एक दूसरे पर कृपाल, और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो ॥

५ इसलिये प्रिय, बालको की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। २ और प्रेम में चलो; जैसे मसीह ने भी तुम से प्रेम किया; और हमारे लिये अपने आप को सुखदायक सुगन्ध के लिये परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ३ और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार, और किसी प्रकार अशुद्ध काम, या लोभ की चर्चा तक न हो। ४ और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठुठ्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, बरन धन्यवाद ही सुना जाए। ५ क्योंकि तुम यह जानते हो, कि किसी व्यभिचारी, या अशुद्ध जन, या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजनेवाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। ६ कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे; क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न माननेवालों पर भड़कता है। ७ इसलिये

* य० में।

तुम उन के सहभागी न हो। ८ क्योंकि तुम तो पहले अन्धकार थे परन्तु अब प्रभु मे ज्योति हो, सो ज्योति की सन्तान की नाई चलो। ९ (क्योंकि ज्योति * का फल सब प्रकार की भलाई, और धार्मिकता, और सत्य है)। १० और यह परखो, कि प्रभु को क्या भाता है? ११ और अन्धकार के निष्फल कामों मे सहभागी न हो, बरन उन पर उलाहना दो। १२ क्योंकि उन के गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। १३ पर जितने कामो पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रगट होते है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रगट करता है, वह ज्योति है। १४ इस कारण वह कहता है, हे सोनेवाले जाग और मुदों में से जी उठ; तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी ॥

१५ इसलिये ध्यान से देखो, कि कैसी चाल चलते हो; निर्बुद्धियों की नाई नही पर बुद्धिमानो की नाई चलो। १६ और अबसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। १७ इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो, कि प्रभु की इच्छा क्या है? १८ और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इस से लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। १९ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के साम्हने गाते और कीर्तन करते रहो। २० और सदा सब बातों के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। २१ और मसीह के भय से एक दूसरे के आधीन रहो ॥

* किसी किसी लेख में 'आत्मा' शब्द आया है।

२२ हे पत्नियो, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो, जैसे प्रभु के। २३ क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धारकर्ता है। २४ पर जैसे कलीसिया मसीह के आधीन है, वैसे ही पत्निया भी हर बात मे अपने अपने पति के आधीन रहे। २५ हे पतियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिये दे दिया। २६ कि उस को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर के पवित्र बनाए। २७ और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिस मे न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, बरन पवित्र और निर्दोष हो। २८ इसी प्रकार उचित है, कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। २९ क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नही रखा बरन उसका पालन-पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। ३० इसलिये कि हम उस की देह के अंग हैं। ३१ इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनो एक तन होंगे। ३२ यह भेद तो बड़ा है; पर में मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। ३३ पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने ॥

हे बालको, प्रभु में अपने माता-पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। २ अपनी माता और पिता

का आदर कर (यह पहिली आज्ञा है, जिस के साथ प्रतिज्ञा भी है) । ३ कि तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे । ४ और हे बच्चेवालो अपने बच्चों को रिस न दिलाओ परन्तु प्रभु की शिक्षा, और जित्तवानी देते हुए, उन का पालन-पोषण करो ॥

५ हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधार्ई से डरते, और कापते हुए, जैसे मसीह की, वैसे ही उन की भी आज्ञा मानो । ६ और मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालो की नाई दिखाने के लिये सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो । ७ और उस सेवा को मनुष्यों की नही, परन्तु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो । ८ क्योंकि तुम जानते हो, कि जो कोई जैसा अर्च्छा काम करेगा, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा । ९ और हे स्वामियो, तुम भी धमकिया छोड़कर उन के साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो, कि उन का और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता ॥

१० निदान, प्रभु में और उस की शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो । ११ परमेश्वर के सारे हथियार बान्ध लो; कि तुम शैतान * की युक्तियों के साम्हने खड़े रह सको । १२ क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, लोहू और मास से नही, परन्तु प्रधानों से और अधिकारियों से, और इस संसार के अन्धकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश

में हैं । १३ इसलिये परमेश्वर के सारे हथियार बान्ध लो, कि तुम बुरे दिन में साम्हना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको । १४ सो सत्य से अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की फिलम पहिन कर । १५ और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहिन कर । १६ और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिस से तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरो को बुझा सको । १७ और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो । १८ और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, और बिनती करते रहो, और इसी लिये जागते रहो, कि सब पवित्र लोगों के लिये लगातार बिनती किया करो । १९ और भेरे लिये भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकू जिस के लिये मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ । २० और यह भी कि मैं उस के विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूँ ॥

२१ और तुलिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वासयोग्य सेवक है तुम्हें सब बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ । २२ उसे मैं ने तुम्हारे पास इसी लिये भेजा है, कि तुम हमारी दशा को जानो, और वह तुम्हारे मनों को शान्ति दे ॥

२३ परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शान्ति और विश्वास सहित प्रेम मिले । २४ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

* य० इब्रलीस ।

फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्नी

१ मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम, जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षी* और सेबकों† समेत । २ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ । ४ और जब कभी तुम सब के लिये बिनती करता हूँ, तो सदा आनन्द के साथ बिनती करता हूँ । ५ इसलिये, कि तुम पहिले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो । ६ और मुझे इस बात का भरोसा है, कि जिस ने तुम में अच्छा काम आरम्भ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा । ७ उचित है, कि मैं तुम सब के लिये ऐसा ही विचार करूँ क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिये उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो । ८ इस में परमेश्वर मेरा गवाह है, कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ । ९ और मैं यह प्रार्थना करता हूँ, कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए । १० यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो,

* या बिशपों ।

† या डीकनों ।

और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो; और ठोकर न खाओ । ११ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ जिस से परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे ॥

१२ हे भाइयो, मैं चाहता हूँ, कि तुम यह जान लो, कि मुझ पर जो बीता है, उस से सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है । १३ यहा तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रगट तो गया है कि मैं मसीह के लिये कैद हूँ । १४ और प्रभु मे जो भाई है, उन में से बहुधा मेरे कैद होने के कारण, हियाव बान्ध कर, परमेश्वर का वचन निषङ्क सुनाने का और भी हियाव करते हैं । १५ कितने तो डाह और भगडे के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कितने भली मनसा से । १६ कई एक हो यह जान कर कि मैं सुसमाचार के लिये उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं । १७ और कई एक तो सीधार्ई मे नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझ कर कि मेरी कैद में मेरे लिये क्लेश उत्पन्न करें । १८ सो क्या हुआ ? केवल यह, कि हर प्रकार से चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मे इस से आनन्दित हूँ, और आनन्दित रहूँगा भी । १९ क्योंकि मैं जानता हूँ, कि तुम्हारी बिनती के द्वारा, और यीशु मसीह की आत्मा के दान के

द्वारा, इस का प्रतिफल मेरा उद्धार होगा । २० मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ, कि मैं किसी बात में लज्जित न होऊँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो चाहे मैं जीवित रहूँ वा मर जाऊँ । २१ क्योंकि मेरे लिये जीवित रहना मसीह है, और मर जाना लाभ है । २२ पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिये लाभदायक है तो मैं नहीं जानता, कि किस को चुनूँ । २३ क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है । २४ परन्तु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है । २५ और इसलिये कि मुझे इस का भरोसा है सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, बरन तुम सब के साथ रहूँगा जिस से तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उस में आनन्दित रहो । २६ और जो घमण्ड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए । २७ केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल-चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूँ, चाहे न भी आऊँ, तुम्हारे विषय में यह सुनूँ, कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिये परिश्रम करते रहते हो । २८ और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते ? यह उन के लिये विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परन्तु तुम्हारे लिये उद्धार का, और

यह परमेश्वर की ओर से है । २९ क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिये दुःख भी उठाओ । ३० और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है, जैसा तुम ने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो, कि मैं वैसा ही करता हूँ ।

२ सो यदि मसीह में कुछ शान्ति, और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता, और कुछ कल्याण और दया है । २ तो मेरा यह आनन्द पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो । ३ विरोध या भूठी बड़ाई के लिये कुछ न करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो । ४ हर एक अपनी ही हित की नहीं, बरन दूसरों की हित की भी चिन्ता करो । ५ जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो । ६ जिस ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा । ७ बरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया । ८ और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया, और यहा तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली । ९ इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है । १० कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं; वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें । ११ और परमेश्वर पिता की महिमा के

लिये हर एक जीम अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है ॥

१२ सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कापते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। १३ क्योंकि परमेश्वर ही है, जिस ने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। १४ सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। १५ ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलङ्क सन्तान बने रहो, (जिन के बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो)। १६ कि मसीह के दिन मुझे घमण्ड करने का कारण हो, कि न मेरा दौडना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। १७ और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लोह भी बहाना पड़े तभी मैं आनन्दित हूँ, और तुम सब के साथ आनन्द करता हूँ। १८ वैसे ही तुम भी आनन्दित हो, और मेरे साथ आनन्द करो ॥

१९ मुझे प्रभु यीशु में आशा है, कि मैं तीमथियुस को तुम्हारे पास तुरन्त भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शान्ति मिले। २० क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, जो शूद्र मन से तुम्हारी चिन्ता करे। २१ क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। २२ पर उसको तो तुम ने परखा और जान भी लिया है,

कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उस ने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। २३ सो मुझे आशा है, कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यो ही मैं उसे तुरन्त भेज दूंगा। २४ और मुझे प्रभु में भरोसा है, कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। २५ पर मैं ने इपफुदीतुस को जो मेरा भाई, और सहकर्मी और सगी योद्धा और तुम्हारा दूत, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करनेवाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। २६ क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था क्योंकि तुम ने उस की बीमारी का हाल सुना था। २७ और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहा तक कि मरने पर था, परन्तु परमेश्वर ने उस पर दया की; और केवल उस ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। २८ इसलिये मैं ने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उस से फिर भेंट करके आनन्दित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। २९ इसलिये तुम प्रभु में उस से बहुत आनन्द के साथ भेंट करना, और ऐसों का आदर किया करना। ३० क्योंकि वह मसीह के काम के लिये अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी और से मेरी सेवा में हुई, उसे पूरा करे ॥

निदान, हे मेरे भाइयो, प्रभु में आनन्दित रहो: वे ही बातें तुम को बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, और इस में तुम्हारी कुशलता

है। २ कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करनेवालों से चौकस रहो, उन काट कूट करनेवालों से चौकस रहो। ३ क्योंकि खतनावाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की भ्रगुभाई से उपासना करते हैं, और मसीह यीशु पर घमण्ड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ४ पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उस से भी बढ़कर रख सकता हूँ। ५ आठवें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश, और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ; इब्रानियों का इब्रानी हूँ; व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। ६ उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सतानेवाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। ७ परन्तु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैं ने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ८ बरन में अपने प्रभु मसीह यीशु की पहिचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ: जिस के कारण मैं ने सब वस्तुओं की हानि उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिस से मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ९ और उस में पाया जाऊँ; न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, जो व्यवस्था से है, बरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। १० और मैं उसको और उसके मृत्युञ्जय की सामर्थ्य को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूँ, और उस की मृत्यु की समानता को प्राप्त करूँ। ११ ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हूँ

में से जी उठने के पद तक पहुँचूँ। १२ यह मतलब नहीं, कि मैं पा चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ. पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिये दौड़ा चला जाता हूँ, जिस के लिये मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। १३ हे भाइयो, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ: परन्तु केवल यह एक काम करता हूँ, कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन को भूल कर, भ्रगों की बातों की ओर बढ़ता हुआ। १४ निगाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ, जिस के लिये परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। १५ सो हम में से जितने सिद्ध हैं, यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रगट कर देगा। १६ सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसी के अनुसार चलें।

१७ हे भाइयो, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, और उन्हें पहिचान रखो, जो इस रीति पर चलते हैं जिस का उदाहरण तुम हम में पाते हो। १८ क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं, जिन की चर्चा मैं ने तुम से बार बार किया है, और अब भी रो रोकर कहता हूँ, कि वे अपनी चाल-चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। १९ उन का अन्त विनाश है, उन का ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमण्ड करते हैं, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। २० पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है; और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आन की बाट जोह रहे हैं। २१ वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिस के द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीन-हीन देह का

रूप बदलकर, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा ॥

४ इसलिये हे मेरे प्रिय भाइयो, जिन में मेरा जी लगा रहता है जो मेरे आनन्द और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो ॥

२ मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ, और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहें। ३ और हे सच्चे सहकर्मी मे तुम्ह से भी बिनती करता हूँ, कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेमैस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिन के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं ॥

४ प्रभु में सदा आनन्दित रहो; मैं फिर कहता हूँ, आनन्दित रहो। ५ तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट हो: प्रभु निकट है। ६ किसी भी बात की चिन्ता मत करो परन्तु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और बिनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ७ तब परमेश्वर की शान्ति, जो समझ से बिलकुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी ॥

८ निदान, हे भाइयो, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें घादरनीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी * हैं, निदान, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्ही पर ध्यान लगाया करो। ९ जो बातें तुम ने मुझ से सीखीं, और ग्रहण की,

और सुनीं, और मुझ में देखीं, उन्ही का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शान्ति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा ॥

१० मैं प्रभु में बहुत आनन्दित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है, निश्चय तुम्हें आरम्भ में भी इस का विचार था, पर तुम्हें भ्रवसर न मिला। ११ यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ; क्योंकि मैं ने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ, उसी में सन्तोष करूँ। १२ मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ: हर एक बात और सब दशाओं में मैं ने तृप्त होना, भूखा रहना, और बढ़ना-घटना सीखा है। १३ जो मुझे सामर्थ्य देता है उस में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। १४ तौभी तुम ने भला किया, कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। १५ और हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो, कि सुसमाचार प्रचार के आरम्भ में जब मैं ने मकिदुनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मराडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। १६ इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुम ने मेरी घटी पूरी करने के लिये एक बार क्या बरन दो बार कुछ भेजा था। १७ यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ परन्तु मैं ऐसा फल चाहता हूँ, जो तुम्हारे लाभ के लिये बढ़ता जाए। १८ मेरे पास सब कुछ है, बरन बहुतायत से भी है: जो वस्तुएं तुम ने इपफुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ, वह तो सुगन्ध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को माता है। १९ और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार

* या सुख्यात।

जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। २० हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

२१ हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई

मेरे साथ हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। २२ सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुम को नमस्कार कहते हैं ॥

२३ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे ॥

कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमथियुस की ओर से। २ मसीह मे उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से मे रहते हैं ॥

हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति प्राप्त होती रहे ॥

३ हम तुम्हारे लिये नित प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात् परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ४ क्योंकि हम ने सुना है, कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है, और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। ५ उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी हुई है, जिस का वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन मे सुन चुके हो। ६ जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता, और बढ़ता जाता है; अर्थात् जिस दिन से तुम ने उस को सुना, और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहिचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। ७ उसी की शिक्षा तुम ने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफास से पाई, जो हमारे लिये

मसीह का विश्वासयोग्य सेवक है। ८ उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रगट किया ॥

९ इसी लिये जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिये यह प्रार्थना करने और बिनती करने से नही चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहिचान में परिपूर्ण हो जाओ। १० ताकि तुम्हारा चाल-चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहिचान में बढ़ते जाओ। ११ और उस की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवन्त होते जाओ, यहां तक कि आनन्द के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। १२ और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिस ने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में समभागी हों। १३ उसी ने हमें अन्धकार के बश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। १४ जिस में हमें छुटकारा

अर्थात् पापों की क्षमा प्राप्त होती है। १५ वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। १६ क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या मिहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिये सृजि गई हैं। १७ और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। १८ और वही देह, अर्थात् कलीसिया का सिर है; वही आदि है और मरे हुएओं में से जो उठने-वालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। १९ क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस में सारी परिपूर्णता वास करे। २० और उसके क्रूस पर बहे हुए लोह के द्वारा मेल मिलाप करके, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले चाहे वे पृथ्वी पर की हों, चाहे स्वर्ग में की। २१ और उस ने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहिले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बंदी थे। २२ ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक, और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। २३ यदि तुम विश्वास की नेब पर दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुम ने सुना है न छोड़ो, जिस का प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया; और जिस का मैं पीलुस सेवक बना ॥

२४ अब मैं उन दुखों के कारण आनन्द करता हूँ, जो तुम्हारे लिये उठाता हूँ, और मसीह के श्लेषों की घटी उस की देह के लिये, अर्थात् कलीसिया के लिये,

अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। २५ जिस का मैं परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिये मुझे सौपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूँ। २६ अर्थात् उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परन्तु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रगट हुआ है। २७ जिन पर परमेश्वर ने प्रगट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्यजातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? और वह यह है, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। २८ जिस का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। २९ और इसी के लिये मैं उस की उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ।

२ मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो, कि तुम्हारे और उन के जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिये जिन्होंने मेरा शारीरिक मुह नहीं देखा मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। २ ताकि उन के मनों में शान्ति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात् मसीह को पहचान लें। ३ जिस में बुद्धि और ज्ञान से सारे भण्डार * छिपे हुए हैं। ४ यह मैं इसलिये कहता हूँ, कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभानेवाली बातों से धोखा न दे।

* या धन।

५ क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुम से दूर हूँ, तौभी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि-अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ ॥

६ तो जैसे तुम ने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलने रहो। ७ और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यन्त धन्यवाद करने रहो ॥

८ चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तद्व-ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा ग्रहेर * न कर ले, जो मनुष्यों के परम्पराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ९ क्योंकि उस में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। १० और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। ११ उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, जो हाथ से नहीं होता, अर्थात् मसीह का खतना, जिस से शारीरिक देह उतार दी जाती है। १२ और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिस ने उस को मरे हुएों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। १३ और उस ने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों, और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मूर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। १४ और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, और हमारे विरोध में था मिटा डाला;

* या लूट न लें।

और उस को क्रूस पर कीलों से जड़कर साम्हने से हटा दिया है। १५ और उस ने प्रधानताओ और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उन का खुल्लमखुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय-जय-कार की ध्वनि सुनाई ॥

१६ इसलिये खाने पीने या पर्व या नए चान्द, या सब्तों के विषय में तुम्हारा कोई फँसला न करे। १७ क्योंकि ये सब भानेवाली बातों की छाया हैं, पर मूल * वस्तुएँ मसीह की हैं। १८ कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। १९ और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिस से सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन-पोषण पाकर और एक साथ गठकर, परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है ॥

२० जब कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उन के समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षानुसार २१ और ऐसी विधियों के बंध में क्यों रहते हो ? कि यह न छूना, उसे न चखना, और उसे हाथ न लगाना। २२ (क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी)। २३ इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, और दीनता, और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परन्तु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इन से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥

* सूं देह।

२ सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो, जहा मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दहिनी और बैठा है। २ पृथ्वी पर की नहीं परन्तु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ३ क्योंकि तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ४ जब मसीह जो हमारा जीवन है, प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे ॥

५ इसलिये अपने उन भ्रमों को मार डालो, जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात् व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है*। ६ इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न माननेवालों पर पड़ता है। ७ और तुम भी, जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ८ पर अब तुम भी इन सब को अर्थात् क्रोध, रोष, बैरभाव, निन्दा और मुह से गालिया बकना ये सब बाते छोड़ दो। ९ एक दूसरे से भूठ मत बोलो क्योंकि तुम ने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। १० और नए मनुष्यत्व को पहिन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिये नया बनता जाता है। ११ उस में न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतनारहित, न जङ्गली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र : केवल मसीह सब कुछ और सब में है ॥

१२ इसलिये परमेश्वर के चुने हुएों की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी

करुणा, और भलाई, और दीनता, और नम्रता, और सहनशीलता धारण करो। १३ और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। १४ और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबन्ध है बान्ध लो। १५ और मसीह की शान्ति जिस के लिये तुम एक देह-होकर जुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। १६ मसीह के वचन को अपने हृदय में अर्धिकाई से बसने दो; और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिये भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। १७ और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो ॥

१८ हे पत्नियो, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के आधीन रहो। १९ हे पतियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और उन से कठोरता न करो। २० हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इस से प्रसन्न होता है। २१ हे बच्चेवालो, अपने बालको को तग न करो, न हो कि उन का साहस टूट जाए। २२ हे सेवको, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उन की आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालो की नाई दिखाने के लिये नहीं, परन्तु मन की सीधाई और

* या मूरतपूजा है।

परमेश्वर के भय से। २३ और जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिये नहीं परन्तु प्रभु के लिये करते हो। २४ क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इस के बदले प्रभु मे मौरास मिलेगी तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। २५ क्योंकि जो बुरा करता है, वह अपनी बुराई का फल पाएगा; वहा किसी का पक्षपात नहीं।

४ हे स्वामियो, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है ॥

२ प्रार्थना मे लगे रहो, और धन्यवाद के साथ उस में जागृत रहो। ३ और इस के साथ ही साथ हमारे लिये भी प्रार्थना करते रहो, कि परमेश्वर हमारे लिये वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिस के कारण मैं कैद में हूँ। ४ और उसे ऐसा प्रगट करूँ, जैसा मुझे करना उचित है। ५ अक्सर को बहुमूल्य समझकर बाहरवालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। ६ तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए ॥

७ प्रिय भाई और विश्वासयोग्य सेवक, तुल्लिक्कुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। ८ उसे मैं ने इसलिये तुम्हारे पास भेजा है, कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शान्ति दे। ९ और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है जो विश्वासयोग्य और प्रिय भाई और तुम

ही मे से है, ये तुम्हें यहा की सारी बातें बता देंगे ॥

१० अरिस्तर्लुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुम जो बरनबा का भाई लगता है (जिस के विषय में तुम ने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए, तो उस से अच्छी तरह व्यवहार करना।) ११ और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे सहकर्मी और मेरी शान्ति का कारण रहे हैं। १२ इपफास जो तुम में से है, और मसीह यीशु का दास है, तुम से नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिये प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। १३ मैं उसका गवाह हूँ, कि वह तुम्हारे लिये और लौदीकिया और हियरापुलिसवालों के लिये बड़ा यत्न करता रहता है। १४ प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। १५ लौदीकिया के भाइयों को और नुमफास और उन के घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। १६ और जब यह पत्र तुम्हारे यहां पढ़ लिया जाए, तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। १७ फिर अखिल्सिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुम्हें सौपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना ॥

१८ मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जजीरो को स्मरण रखना; तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन ॥

थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री

१ पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है ॥

अनुग्रह और शान्ति तुम्हें मिलनी रहे ॥

२ हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ३ और अपने परमेश्वर और पिता के साम्हने तुम्हारे विश्वास के काम, और प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को, लगातार स्मरण करते हैं। ४ और हे भाइयो, परमेश्वर के प्रिय लोगो हम जानते हैं, कि तुम चुने हुए हो। ५ क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में बरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा, और बड़े निश्चय के साथ पहुँचा है; जैसा तुम जानते हो, कि हम तुम्हारे लिये तुम में कैसे बन गए थे। ६ और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनन्द के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। ७ यहां तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिये तुम आदर्श बने। ८ क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है, कि हमें कहने की आवश्यकता

ही नहीं। ९ क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। और तुम क्योंकि मृतो से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो।

१० और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोहते रहो जिसे उस ने भरे हुए में से जिलाया, अर्थात् यीशु की, जो हमें आनेवाले प्रकोप से बचाता है ॥

२ हे भाइयो, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ। २ बरन तुम आप ही जानते हो, कि पहिले पहिल फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया, कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधो के होते हुए भी तुम्हें सुनाए। ३ क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से, और न छल के साथ है। ४ पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं; और इस में मनुष्यों को नहीं, परन्तु परमेश्वर को, जो हमारे मनो को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। ५ क्योंकि तुम जानते हो, कि हम न तो कभी लल्लोपत्तो की बातें किया करते थे, और न लोभ के लिये बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। ६ और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर

बोक डाल सकते थे, तीभी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुम से, न और किसी से। ७ परन्तु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन-पोषण करती है, वैसे ही हम ने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। ८ और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए, न केवल परमेश्वर का सुसमाचार, पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिये कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। ९ क्योंकि, हे भाइयो, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, कि हम ने इसलिये रात दिन काम धन्धा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से किसी पर भार न हो। १० तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी, कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। ११ जैसे तुम जानते हो, कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते, और शान्ति देते, और समझाते थे*। १२ कि तुम्हारा चाल-चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है॥

१३ इसलिये हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरन्तर करते हैं, कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुम ने उसे मनुष्यों का नहीं, परन्तु परमेश्वर का वचन समझकर (और सचमुच यह ऐसा ही है) ग्रहण किया। और वह तुम में जो विश्वास रखते हो, प्रभावशाली है।

* यू० गवाही देते थे।

१४ इसलिये कि तुम, हे भाइयो, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे, जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुम ने भी अपने लोगो से वैसा ही दुख पाया, जैसा उन्हो ने यहूदियों से पाया था। १५ जिन्होंने ने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हम को सताया, और परमेश्वर उन से प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। १६ और वे धन्यजातियों से उन के उद्धार के लिये बाते करने से हमें रोकते हैं, कि सदा अपने पापो का नपुआ भरते रहे, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है॥

१७ हे भाइयो, जब हम थोड़ी देर के लिये मन में नहीं बरन प्रगत में तुम से अलग हो गए थे, तो हम ने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुह देखने के लिये और भी अधिक यत्न किया। १८ इसलिये हम ने (अर्थात् मुझ पौलुस ने) एक बार नहीं, बरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा, परन्तु शैतान हमें रोके रहा। १९ भला हमारी आशा, या आनन्द या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? २० हमारी बड़ाई और आनन्द तुम ही हो॥

३ इसलिये जब हम से और न रहा गया, तो हम ने यह ठहराया कि एथेन्स में अकेले रह जाएं। २ और हम ने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई, और परमेश्वर का सेवक है, इसलिये भेजा, कि वह तुम्हें स्थिर करे; और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। ३ कि कोई इन क्लेशों के

कारण डगमग न जाए; क्योंकि तुम भ्राप जानते हो, कि हम इन ही के लिये ठहराए गए हैं। ४ क्योंकि पहिले भी, जब हम तुम्हारे यहा थे, तो तुम से कहा करते थे, कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। ५ इस कारण जब मुझ से और न रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिये भेजा, कि कही ऐसा न हो, कि परीक्षा करनेवाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो, और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। ६ पर भ्रमी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहां आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया, कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो, और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। ७ इसलिये हे भाइयो, हम ने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शान्ति पाई। ८ क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। ९ और जैसा आनन्द हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के साम्हने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करे? १० हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं, कि तुम्हारा मुह देखे, और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें।

११ अब हमारा परमेश्वर और पिता भ्राप ही और हमारा प्रभु यीशु, तुम्हारे यहा आने के लिये हमारी भ्रगुधार्ई करे। १२ और प्रभु ऐसा करे, कि जैसा हम तुम से प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी भ्रापस में, और सब मनुष्यों के साथ बढ़े, और उन्नति करता जाए। १३ ताकि

वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के साम्हने पवित्रता में निर्दोष ठहरें ॥

४ निदान, हे भाइयो, हम तुम से विनती करते हैं, और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं, कि जैसे तुम ने हम से योग्य चाल चलना, और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। २ क्योंकि तुम जानते हो, कि हम ने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। ३ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम पवित्र बनो अर्थात् व्यभिचार से बचे रहो। ४ और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। ५ और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों की नाई, जो परमेश्वर को नहीं जानती। ६ कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, और न उस पर दाब चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेनेवाला है; जैसा कि हम ने पहिले तुम से कहा, और चिताया भी था। ७ क्योंकि परमेश्वर ने हमें भ्रशुद्ध होने के लिये नहीं, परन्तु पवित्र होने के लिये बुलाया है। ८ इस कारण जो तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं, परन्तु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है ॥

९ किन्तु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह भ्रवश्य नहीं, कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखू, क्योंकि भ्रापस में प्रेम रखना तुम ने भ्राप ही परमेश्वर से सीखा है।

१० और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करने भी हो, पर हे भाइयो, हम तुम्हें ममभाते हैं, कि और भी बढ़ते जाओ। ११ और जैसी हम ने तुम्हे आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने, और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। १२ कि बाह्रवालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो।।

१३ हे भाइयो, हम नहीं चाहते, कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, अज्ञान रहो, ऐसा न हो, कि तुम औरों की नाईं शोक करो जिन्हें आशा नहीं। १४ क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, कि यीशु मरा, और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा। १५ क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से यह कहते हैं, कि हम जो जीवित हैं, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। १६ क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, वे पहिले जी उठेंगे। १७ तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उन के साथ बादलो पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। १८ सो इन बातों से एक दूसरे को शान्ति दिया करो।।

५ पर हे भाइयो, इसका प्रयोजन नहीं, कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए।

२ क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आनेवाला है। ३ जब लोग कहते होंगे, कि कुशल है, और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीडा, और वे किसी रीति से न बचेगे। ४ पर हे भाइयो, तुम तो अन्धकार में नहीं हो, कि वह दिन तुम पर चोर की नाईं आ पड़े। ५ क्योंकि तुम सब ज्योति की सन्तान, और दिन की सन्तान हो, हम न रात के हैं, न अन्धकार के हैं। ६ इसलिये हम औरों की नाईं सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहे। ७ क्योंकि जो सोते हैं, वे रात ही को सोने हैं, और जो मतवाले होते हैं, वे रात ही को मतवाले होते हैं। ८ पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की भिलम पहिनकर और उद्धार की आशा का टोप पहिनकर सावधान रहे। ९ क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिये नहीं, परन्तु इसलिये ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। १० वह हमारे लिये इस कारण मरा, कि हम चाहे जागते हो, चाहे मोते हों: सब मिलकर उसी के साथ जीए। ११ इस कारण एक दूसरे को शान्ति दो, और एक दूसरे की उन्नति के कारण बानो *, निदान, तुम ऐसा करते भी हो।।

१२ और हे भाइयो, हम तुम से बिनती करते हैं, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। १३ और उन के काम के कारण प्रेम के साथ उन को

* ५० को स्थापन करो।

बहुत ही आदर के योग्य समझो : आपस में मेल-मिलाप से रहो । १४ और हे भाइयो, हम तुम्हें समझाते हैं, कि जो ठीक चाल नहीं चलते, उन को समझाओ, कायरो को ढाड़स दो, निर्बल को सभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ । १५ सावधान ! कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे ; पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो । १६ सदा आनन्दित रहो । १७ निरन्तर प्रार्थना में लगे रहो । १८ हर बात में धन्यवाद करो : क्योंकि तुम्हारे लिये मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है । १९ आत्मा को न बुझाओ । २० भविष्यद्वारणियों को तुच्छ न जानो । २१ सब बातों को परखो : जो अच्छी है उसे पकड़े रहो । २२ सब प्रकार की बुराई से बचे रहो ॥

२३ शान्ति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे । २४ तुम्हारा बुलाने-वाला सच्चा * है, और वह ऐसा ही करेगा ॥

२५ हे भाइयो, हमारे लिये प्रार्थना करो ॥

२६ सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो । २७ मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ, कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर मुनाई जाए ॥

२८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे ॥

* यू० विश्वासयोग्य ।

थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री

१ पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है ॥

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ हे भाइयो, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है इसलिये कि तुम्हारा

विश्वास बहुत बढ़ना जाता है, और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है । ४ यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमण्ड करते हैं, कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रगट होता है । ५ यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है; कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिस के लिये तुम दुख भी

उठाते हो। ६ क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है, कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, उन्हें बदले में क्लेश दे। ७ और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे, उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रगट होगा। ८ और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उन से पलटा लेगा। ९ वे प्रभु के साम्हने से, और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनन्त विनाश का दण्ड पाएंगे। १० यह उस दिन होगा, जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, और सब विश्वास करने-वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा; क्योंकि तुम ने हमारी गवाही की प्रतीति की। ११ इसी लिये हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं, कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे, और भलाई की हर एक इच्छा, और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। १२ कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए, और तुम उस में ॥

२ हे भाइयो, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुम से बिनती करते हैं। २ कि किसी आत्मा, या वचन, या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारा मन अज्ञानक अस्थिर न हो जाए, और न तुम घबराओ। ३ किसी रीति से किसी के धोखे में न आना क्योंकि वह दिन न आएगा, जब

तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात् विनाश का पुत्र प्रगट न हो। ४ जो विरोध करता है, और हर एक से जो परमेश्वर, या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मन्दिर * में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रगट करता है। ५ क्या तुम्हें स्मरण नहीं, कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था, तो तुम से ये बातें कहा करता था? ६ और अब तुम उस वस्तु को जानते हो, जो उसे रोक रही है, कि वह अपने ही समय में प्रगट हो। ७ क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकनेवाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए, वह रोके रहेगा। ८ तब वह अधर्म प्रगट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुह की फूँक से मार डालेगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ९ उस अधर्म का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की भूठी सामर्थ्य, और चिन्ह, और अद्भुत काम के साथ। १० और नाश होनेवालों के लिये अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा; क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिस से उन का उद्धार होता। ११ और इसी कारण परमेश्वर उन में एक भटका देनेवाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि वे भूठ की प्रतीति करें। १२ और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, बरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दण्ड पाए ॥

१३ पर हे भाइयो, और प्रभु के प्रिय लोगो चाहिये कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, कि

* य० पवित्रस्थान।

परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया; कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, धीर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। १४ जिस के लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। १५ इसलिये, हे भाइयो, स्थिर रहो; धीर जो जो बातें तुम ने क्या वचन, क्या पत्री के द्वारा हम से सीखी हैं, उन्हें धामे रहो ॥

१६ हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही, धीर हमारा पिता परमेश्वर जिस ने हम से प्रेम रखा, धीर अनुग्रह से अनन्त शान्ति और उत्तम आशा दी है। १७ तुम्हारे मनो में शान्ति दे, धीर तुम्हें हर एक भ्रष्ट काम, धीर वचन में दृढ करे ॥

३ निदान, हे भाइयो, हमारे लिये प्रार्थना किया करो, कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले, धीर महिमा पाए, जैसा तुम में हुआ। २ धीर हम टेढ़े धीर दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नही ॥

३ परन्तु प्रभु सच्चा * है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। धीर उस दुष्ट † से सुरक्षित रखेगा। ४ धीर हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है, कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, उन्हें तुम मानते हो, धीर मानते भी रहोगे। ५ परमेश्वर के प्रेम धीर मसीह के धीरज की धीर प्रभु तुम्हारे मन की भगुभाई करे ॥

६ हे भाइयो, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं; कि हर एक ऐसे भाई से भ्रमण रहो, जो अनुचित चाल चलता, धीर जो शिक्षा उस ने

हम से पाई उसके अनुसार नही करता। ७ क्योंकि तुम आप जानते हो, कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए; क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। ८ धीर किसी की रोटी संत में न खाई, पर परिश्रम धीर कष्ट से रात दिन काम धन्धा करते थे, कि तुम में से किसी पर भार न हो। ९ यह नही, कि हमें अधिकार नही; पर इसलिये कि अपने आप को तुम्हारे लिये आदर्श ठहराएँ, कि तुम हमारी सी चाल चलो। १० धीर जब हम तुम्हारे यहा थे, तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे, कि यदि कोई काम करना न चाहे, तो खाने भी न पाए। ११ हम सुनते हैं, कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं, धीर कुछ काम नही करते, पर धीरो के काम में हाथ डाला करते हैं। १२ ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते धीर समझते हैं, कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। १३ धीर तुम, हे भाइयो, भलाई करने में हियाव न छोड़ो। १४ यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने, तो उस पर दुष्टि रखो, धीर उस की संगति न करो, जिस से वह लज्जित हो, १५ तभी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिंताओ ॥

१६ अब प्रभु जो शान्ति का सोता है आप ही तुम्हें सदा धीर हर प्रकार से शान्ति दे: प्रभु तुम सब के साथ रहे ॥

१७ मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ: हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है: मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। १८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे ॥

* यू० विश्वासयोग्य। † या डुराई।

तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री

१ पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, और हमारी आशा-स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास मे मेरा सच्चा पुत्र है ॥

२ पिता परमेश्वर, और हमारे प्रभु मसीह यीशु से, तुम्हें अनुग्रह, और दया, और शान्ति मिलती रहे ॥

३ जैसे मैं ने मकिदुनिया को जाने समय तुम्हें समझाया था, कि इफिसुस मे रहकर कितनो को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा न दे। ४ और उन ऐसी कहानियों और अनन्त वशावलियों पर मन न लगाए, जिन से विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार नहीं, जो विश्वास से सम्बन्ध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ। ५ आज्ञा का साराश यह है, कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक*, और कपटरहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ६ इन को छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं। ७ और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिन को दृढ़ता से बोलते हैं, उन को समझते भी नहीं। ८ पर हम जानते हैं, कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम मे लाए, तो वह भली है। ९ यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिये नहीं, पर अधर्मियों, निरकुशो, भक्तिहीनो, पापियों,

अपवित्रों और भ्रष्टों, मा-बाप के घात करनेवालो, हत्यारो। १० व्यभिचारियो, पुरुषगामियो, मनुष्य के बेचनेवालो, भूठी, और भूठी शपथ खानेवालो, और इन को छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिये ठहराई गई है। ११ यही परमधन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है, जो मुझे सौपा गया है ॥

१२ और मैं, अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिस ने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ, कि उस ने मुझे विश्वासयोग्य समझकर अपनी सेवा के लिये ठहराया। १३ मैं तो पहिले निन्दा करनेवाला, और सतानेवाला, और अन्धेर करनेवाला था, तीभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैं ने अविश्वास की दशा मे विन समझे बूझे, ये काम किए थे। १४ और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु मे है, बहुतायत से हुआ। १५ यह बात सच* और हर प्रकार से मानने के योग्य है, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिये जगत मे आया, जिन मे सब से बडा मैं हूँ। १६ पर मुझपर इसलिये दया हुई, कि मुझ सब से बड़े पापी मे यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनन्त जीवन के लिये विश्वास करेंगे, उन के लिये मैं एक आदर्श बनूँ। १७ अब सनातन राजा अर्थात् अविनाशी अनदेखे

* अर्थात् मन या कानशन्स ।

* य० विश्वासयोग्य ।

अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

१८ हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यद्-वाणियों के अनुसार जो पहिले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ, कि तू उन के अनुसार अच्छी लडाईं को लडता रहे। १९ और विश्वास और उम अच्छे विवेक * को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनी का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। २० उन्हीं में मैं हुमिनयुस और सिकन्दर हूँ जिन्हें मैं ने शैतान को सौंप दिया, कि वे निन्दा करना न सीखें ॥

२ अब मैं सब से पहिले यह उपदेश देता हूँ, कि बिनती, और प्रार्थना, और निवेदन, और धन्यवाद, सब मनुष्यों के लिये किए जाए। २ राजाओं और सब ऊचे पदवालों के निमित्त इसलिये कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गम्भीरता से जीवन बिताए। ३ यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, और भाता भी है। ४ वह यह चाहता है, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो; और वे सत्य को भली भाँति पहचान लें। ५ क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात् मसीह यीशु जो मनुष्य है। ६ जिस ने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया; ताकि उस की गवाही ठीक समयों पर दी जाए। ७ मैं सच कहता हूँ, भ्रूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्वजातियों के लिये विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया ॥

* अर्थात् मन या कानशन्स।

८ सो मैं चाहता हूँ, कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। ९ वैसे ही स्त्रिया भी संकोच और सयम के माथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे; न कि बाल गूधने, और सोने, और मोतियों, और बहुमोल कपडों से, पर भले कामों से। १० क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करनेवाली स्त्रियों को यही उचित भी है। ११ और स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। १२ और मैं कहता हूँ, कि स्त्री न उपदेश करे, और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परन्तु चुपचाप रहे। १३ क्योंकि आदम पहिले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। १४ और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। १५ तौभी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम, और पवित्रता में स्थिर रहे ॥

३ यह बात सत्य * है, कि जो अध्यक्ष † होना चाहता है, तो वह भले काम की इच्छा करना है। २ सो चाहिए, कि अध्यक्ष निर्दोष, और एक ही पत्नी का पति, सयमी, मुशील, मन्थ, पहुनाई करनेवाला, और सिखाने में निपुण हो। ३ पियक्कड़ या भारपीट करनेवाला न हो; बरन कोमल हो, और न भगड़ालू, और न लोभी हो। ४ अपने घर का अच्छा प्रबन्ध करता हो, और लड़के-बालों को सारी गम्भीरता से आधीन रखता हो। ५ (जब कोई अपने घर ही का प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्योंकर

* यू० विश्वासबोग्य।

† या विशप।

करेगा) । ६ फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा न हो, कि अभिमान करके शैतान * का सा दरड पाए। ७ और बाहर-वालो में भी उसका सुनाम हो ऐसा न हो कि निन्दित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ८ वैसे ही सेवको † को भी गम्भीर होना चाहिए, दो रगी, पियककड़, और नीच कमाई के लोभी न हो। ९ पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक ‡ से सुरक्षित रखें। १० और ये भी पहिले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकलें, तो सेवक का काम करे। ११ इसी प्रकार से स्त्रियो को भी गम्भीर होना चाहिए; दोष लगानेवाली न हों, पर सचेत और सब बातों में विश्वासयोग्य हों। १२ सेवक § एक ही पत्नी के पति हो और लडकेवालो और अपने घरों का अच्छा प्रबन्ध करना जानते हो। १३ क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिये अच्छा पद और उस विश्वास में, जो मसीह यीशु पर है, बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं ॥

१४ में तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिये लिखता हूँ। १५ कि यदि मेरे आने में देर हो, तो तू जान ले, कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंभा, और नेब है; उस में कैसा बर्ताव करना चाहिए। १६ और इस में सन्देह नही, कि भक्ति का भेद गम्भीर है; अर्थात् वह जो शरीर में प्रगट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग-दूतों को दिखाई दिया, अन्यजातियों में

* यू० इब्लीस। † या डीकनः।

‡ अर्थात् मन या कानशन्स।

§ या डीकन।

उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया ॥

४ परन्तु आत्मा स्पष्टता से कहता है, कि आनेवाले समयों में कितने लोग भरमानेवाली आत्माओं, और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। २ यह उन भूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिन का विवेक * मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ३ जो ब्याह करने से रोकेंगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे; जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये सृजा कि विश्वासी, और सत्य के पहिचाननेवाले उन्हें धन्यवाद के साथ ख़ाए। ४ क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं; पर यह कि धन्यवाद के साथ ख़ाई जाए। ५ क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है ॥

६ यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से, जो तू मानता आया है, तेरा पालन-पोषण होता रहेगा। ७ पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, और भक्ति के लिये अपना साधन कर। ८ क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिये लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आनेवाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिये है। ९ और यह बात सच † और हर प्रकार से मानने

* अर्थात् मन या कानशन्स।

† यू० विश्वासयोग्य।

के योग्य है। १० क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसी लिये करते हैं, कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है; जो सब मनुष्यों का, और निज करके विश्वासियों का उद्धारकर्ता है। ११ इन बातों की आशा कर, और सिखाता रह। १२ कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, और चाल चलन, और प्रेम, और विश्वास, और पवित्रता में विश्वासियों के लिये आदर्श बन जा। १३ जब तक में न आऊ, तब तक पढ़ने, और उपदेश और सिखाने में लौलीन रह। १४ उस बरदान से जो तुझ में है, और भविष्यद्वाणी के द्वारा प्राचीनो * के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिन्त मत रह। १५ उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। १६ इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, तो तू अपने, और अपने सुननेवालों के लिये भी उद्धार का कारण होगा ॥

५ किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर। २ और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहिन जानकर, समझा दे। ३ उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। ४ और यदि किसी विधवा के लड़केवाले या नातीपोते हो, तो वे पहिले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, और अपने माता-पिता आदि को उन का हक्क देना सीखें,

* या प्रिसबुतितो।

क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। ५ जो सचमुच विधवा है, और उसका कोई नहीं; वह परमेश्वर पर आशा रखती है, और रात दिन बिनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। ६ पर जो भोग-विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई है। ७ इन बातों की भी आशा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें। ८ पर यदि कोई अपने ही और निज करके अपने घराने की चिन्ता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ९ उसी विधवा का नाम लिखा जाए, जो साठ वर्ष से कम की न हो, और एक ही पति की पत्नी रही हो। १० और भले काम में सुनाम रही हो, जिस ने बच्चों का पालन-पोषण किया हो; पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पाव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो, और हर एक भले काम में मन लगाया हो। ११ पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख-विलास में पड़ जाती हैं, तो ब्याह करना चाहती हैं। १२ और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्हीं ने अपने पहिले विश्वास को छोड़ दिया है। १३ और इस के साथ ही साथ वे घर घर फिरकर झालसी होना सीखती हैं, और केवल झालसी नहीं, पर बकबक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। १४ इसलिये मैं यह चाहता हूँ, कि जवान विधवाएँ ब्याह करें; और बच्चे जन्मे और घरबार संभालें, और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें। १५ क्योंकि कई एक तो बहुकर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। १६ यदि

किसी विश्वासिनी के यहा विधवाएं हों, तो वही उन की सहायता करे, कि कलीसिया पर भार न हो ताकि वह उन की सहायता कर सके, जो सचमुच विधवाएं है ॥

१७ जो प्राचीन * अच्छा प्रबन्ध करते हैं; विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। १८ क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, कि दाबनेवाले बैल का मुह न बाधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हक्कदार है। १९ कोई दोष किसी प्राचीन * पर लगाया जाए तो बिना दो या तीन गवाहों के उस को न सुन। २० पाप करनेवालों को सब के साम्हने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। २१ परमेश्वर, और मसीह यीशु, और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुम्हे चितौनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर, और कोई काम पक्षपात से न कर। २२ किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना: अपने आप को पवित्र बनाए रख। २३ भविष्य में केवल जल ही का पीनेवाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोडा थोडा दाखरस भी काम में लाया कर। २४ कितने मनुष्यों के पाप प्रगट हो जाते हैं, और न्याय के लिये पहिले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। २५ वैसे ही कितने भले काम भी प्रगट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते, वे भी छिप नहीं सकते ॥

• ६

जितने दास जूए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के

* या प्रिसबुलिर।

योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निन्दा न हो। २ और जिन के स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, बरन उन की और भी सेवा करें, क्योंकि इस से लाभ उठानेवाले विश्वासी और प्रेमी है: इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह ॥

३ यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है; और सरी बातों को, अर्थात् हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है। ४ तो वह अभिमानी हो गया, और कुछ नहीं जानता, बरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिन से डाह, और भगडे, और निन्दा की बातें, और बुरे बुरे सन्देश। ५ और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगडे भगडे उत्पन्न होते हैं, जिन की बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ६ पर सन्तोष सहित भक्ति बडी कमाई है। ७ क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। ८ और यदि हमारे पास खाने और पहिनने को हो, तो इन्हीं पर सन्तोष करना चाहिए। ९ पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा, और फंसे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। १० क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है ॥

११ पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग; और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। १२ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़; और उस अनन्त जीवन को धर ले, जिस के लिये तू बुलाया गया, और बहुत गवाहों के साम्हने अच्छा अंगीकार किया था। १३ मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिस ने पुन्तियुस पीलातुस के साम्हने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ, १४ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलक और निर्दोष रख। १५ जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परमधन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा, और प्रभुओं का प्रभु है। १६ और अमरता केवल उसी की है, और वह अग्रगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने

देखा, और न कभी देख सकता है; उस की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन ॥

१७ इस ससार के धनवानों को आज्ञा दे, कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखे, परन्तु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिये सब कुछ बहुतायत से देता है। १८ और भलाई करे, और भले कामों में धनी बनें, और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। १९ और आगे के लिये एक अच्छी नेब डाल रखे, कि सत्य जीवन को वश में कर ले ॥

२० हे तीमथियुस इस धाती की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। २१ कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके, विश्वास से भटक गए हैं ॥

तुम पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीमथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री

१ पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। २ प्रिय पुत्र तीमथियुस के नाम ॥

परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शान्ति मिलती रहे ॥

३ जिस परमेश्वर की मेवा में अपने बापदादों की रीति पर शुद्ध विवेक* से करता हूँ; उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। ४ और तेरे आसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझ से भेट करने की लालसा रखता हूँ कि आनन्द से भर

* अर्थात् मन या कानशन्स ।

जाऊं। ५ और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो पहिले तेरी नानी लोइस, और तेरी माता यूनीके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है, कि तुझ में भी है। ६ इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, कि तू परमेश्वर के उस बरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। ७ क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, और प्रेम, और सयम की आत्मा दी है। ८ इसलिये हमारे प्रभु की गवाही से, और मुझ से जो उसका कँदी हूँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिये मेरे साथ दुख उठा। ९ जिस ने हमारा उद्धार किया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं; पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। १० पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रगट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिस ने मृत्यु का नाश किया, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। ११ जिस के लिये मैं प्रचारक, और प्रेरित, और उपदेशक भी ठहरा। १२ इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस की मैं ने प्रतीति की है, जानता हूँ; और मुझे निश्चय है, कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। १३ जो खरी बातें तू ने मुझ से सुनी हैं उन को उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख। १४ और पवित्र आत्मा के

द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी थाती की रखवाली कर।।

१५ तू जानता है, कि आसियावाले सब मुझ से फिर गए हैं, जिन में फूगिलस और हिरमुगिनेस हैं। १६ उनेसिफुरस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उस ने बहुत बार मेरे जी को ठडा किया, और मेरी जजीरों से लज्जित न हुआ। १७ पर जब वह रोमा में आया, तो बड़े यत्न से बूढकर मुझ से भेट की। १८ (प्रभु करे, कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो)। और जो जो सेवा उस ने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भाँति जानता है।।

२ इसलिये हे मेरे पुत्र, तू उम अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, बलवन्त हो जा। २ और जो बातें तू ने बहुत गवाहों के साम्हने मुझ से सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे; जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। ३ मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाईं मेरे साथ दुख उठा। ४ जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, तो इसलिये कि अपने भरती करनेवाले को प्रसन्न करे अपने प्राण को ससार के कामों में नहीं फंसाता ५ फिर अखाड़े में लडनेवाला यदि विधि के अनुसार न लडे तो मुकुट नहीं पाता। ६ जो गृहस्थ परिश्रम करता है, फल का अंश पहिले उसे मिलना चाहिए। ७ जो मैं कहता हूँ, उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। ८ यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ, और मरे हुएों में से जी उठा; और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ९ जिस के लिये मैं कुकर्मी की नाईं दुख उठाता हूँ, यहा तक कि

कंद जी हूँ; परन्तु परमेश्वर का वचन कंद नहीं। १० इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिये सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनन्त महिमा के साथ पाए। ११ यह बात सच * है, कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जीएंगे भी। १२ यदि हम भीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे; यदि हम उसका इन्कार करेंगे तो वह भी हमारा इन्कार करेगा। १३ यदि हम भविष्यवासी भी हों तोभी वह विश्वासयोग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इन्कार नहीं कर सकता ॥

१४ इन बातों की सुधि उन्हें दिला, और प्रभु के साम्हने चिता दे, कि शब्दों पर तर्क-वितर्क न किया करे, जिन से कुछ लाभ नहीं होता, बरन सुननेवाले बिगड़ जाते हैं। १५ अपने आप को परमेश्वर का ग्रहणयोग्य और ऐसा काम करनेवाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। १६ पर भ्रशुद्ध बकवाद से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। १७ और उन का वचन सड़े-धाव की नाई फैलता जाएगा: हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। १८ जो यह कहकर कि पुनरुत्थान † हो चुका है सत्य से भटक गए हैं, और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। १९ तोभी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है, और उस पर यह छाप लगी है, कि प्रभु अपने को पहिचानता

* यू० विश्वासयोग्य।

† या मृतकोत्थान।

है; और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह भ्रधर्म से बचा रहे। २० बड़े घर में न केवल सोने-चान्दी ही के, पर काठ और मिट्टी के बरतन भी होते हैं; कोई कोई भ्रादर, और कोई कोई भनादर के लिये। २१ यदि कोई अपने आप को इन से शुद्ध करेगा, तो वह भ्रादर का बरतन, और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिये तैयार होगा। २२ जबानी की अभिलाषाओं से भाग; और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उन के साथ धर्म, और विश्वास, और प्रेम, और मेल-मिलाप का पीछा कर। २३ पर मूर्खता, और भ्रविद्या के विवादों से भ्रलग रह; क्योंकि तू जानता है, कि उन से भ्रगड़े होते हैं। २४ और प्रभु के दास को भ्रगड़ालू होना न चाहिए, पर सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण, और सहनशील हो। २५ और विरोधियों को नभ्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, कि वे भी सत्य को पहिचानें। २६ और इस के द्वारा उस की इच्छा पूरी करने के लिये सचेत होकर शैतान * के फदे से छूट जाए ॥

२ पर यह जान रख, कि अन्तिम दिनों में कठिन समय आएंगे। २ क्योंकि मनुष्य भ्रपस्वार्थी, लोभी, डींग-मार, अभिमानी, निन्दक, माता-पिता की आज्ञा टालनेवाले, कृतघ्न, भ्रपवित्र। ३ भयारहित, भ्रमारहित, दोष लगानेवाले, भ्रसयमी, कठोर, भ्रले के बैरी। ४ विश्वासघाती, डीठ, भ्रमरही, और परमेश्वर के नहीं बरन सुखविलास ही के

* यू० इस्लीस।

चाहनेवाले होंगे। ५ वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उस की शक्ति को न मानेंगे; ऐसों से परे रहना। ६ इन्हीं में से वे लोग हैं, जो धरों में दबे पाव घुस आते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। ७ और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहिचान तक कभी नहीं पहुँचती। ८ और जैसे यज्ञेस और यम्नेस ने मूसा का विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं, जिन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। ९ पर वे इस से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उन की अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रगट हो गई थी, वैसे ही इन की भी हो जाएगी। १० पर तू न उपदेश, चाल-चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, और सताए जाने, और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ११ और ऐसे दुखों में भी जो अन्ताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और और दुखों में भी, जो मैं ने उठाए हैं; परन्तु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। १२ पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। १३ और दुष्ट, और बहकानेवाले धोखा देते हुए, और धोखा खाते हुए, बिगड़ते चले जाएंगे। १४ पर तू इन बातों पर जो तू ने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह; कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा था? १५ और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के

लिये बुद्धिमान बना सकता है। १६ हर एक पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, और समझाने, और सुधारने, और धर्म की शिक्षा के लिये लाभदायक है। १७ ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिये तत्पर हो जाए ॥

४ परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवतो और मेरे हुएों का न्याय करेगा, उमे और उसके प्रगट होने, और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुम्हें चिन्ताता हूँ। २ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता, और शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डाट, और समझा। ३ क्योंकि ऐसा समय आएगा, कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिये बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ४ और अपने कान सत्य से फेरकर कथा-कहानियों पर लगाएंगे। ५ पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ६ क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उडोला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। ७ मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ मैं ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं ने विश्वास की रखवाली की है। ८ भविष्य में मेरे लिये धर्म का बहु मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मों, और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं, बरन उन सब को भी, जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं ॥

६ मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर । १० क्योंकि देमास ने इस ससार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रैसकॅस गलतिया को और तीतुस दल-मतिया को चला गया है । ११ केवल लूका मेरे साथ है मरकुस को लेकर चला आ; क्योंकि सेवा के लिये वह मेरे बहुत काम का है । १२ तुस्किुस को मैं ने इफिसुस को भेजा है । १३ जो बागा में त्रोग्रास में करपुस के यहां छोड़ आया है, जब तू आए, तो उसे और पुस्तके विशेष करके चर्मपत्रों को लेते आना । १४ सिकन्दर ठठेरे ने मुझ से बहुत बुराईया की है प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा । १५ तू भी उस से सावधान रह, क्योंकि उस ने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया । १६ मेरे पहिले प्रव्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बरन

सब ने मुझे छोड़ दिया था: भला हो, कि इस का उनको लेखा देना न पड़े । १७ परन्तु प्रभु मेरा सहायक रहा, और मुझे सामर्थ्य दी: ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो, और सब अन्यजाति सुन लें; और मैं तो सिंह के मुह से छुड़ाया गया । १८ और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुँचाएगा: उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥

१६ प्रिसका और अक्विला को, और उनेसिफुस के घराने को नमस्कार । २० इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया, और त्रुफिमुस को मैं ने मीलेतुस में बीमार छोड़ा है । २१ जाडे से पहिले चले आने का प्रयत्न कर. यूबूलुस, और पूदेस, और लीनुस और क्लीदिया, और सब भाइयों का तुम्हें नमस्कार ॥

२२ प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे: तुम पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास, और उस सत्य की पहिचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है । २ उस अनन्त जीवन की आशा पर, जिस की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो भूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है । ३ पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट

किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया । ४ तीतुस के नाम जो विश्वास की सह-भागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है: परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शान्ति होती रहे ॥

५ मैं इसलिये तुम्हें जेने में छोड़ आया था, कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे,

श्रीर मेरी भ्राजा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों * को नियुक्त करे। ६ जो निर्दोष श्रीर एक ही पत्नी के पति हो, जिन के लड़केबाले विश्वासी हों, श्रीर जिन्हें लुचपन श्रीर निरकुशता का दोष नहीं। ७ क्योंकि अर्धक्ष† को परमेश्वर का भ्रष्टाकारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए; न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करनेवाला, श्रीर न नीच कमाई का लोभी। ८ पर पहुँचाई करनेवाला, भलाई का चाहनेवाला, सयमी, न्यायी, पवित्र श्रीर जितेन्द्रिय हो। ९ श्रीर विश्वासयोग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे; कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, श्रीर विवादियों का मुह भी बन्द कर सके ॥

१० क्योंकि बहुत से लोग निरकुश, बकवादी श्रीर धोखा देनेवाले हैं; विशेष करके खतनाबालो में से। ११ इन का मुँह बन्द करना चाहिए: ये लोग नीच कमाई के लिये अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। १२ उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यद-वक्ता है, कहा है, कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु श्रीर भालसी पेटू होते हैं। १३ यह गवाही सच है, इसलिये उन्हें कड़ाई से चित्तीनी दिया कर, कि वे विश्वास में पके हो जाए। १४ श्रीर वे यहूदियों की कथा कहानियों श्रीर उन मनुष्यों की भ्राजाभो पर मन न लगाए, जो सत्य से भटक जाते हैं। १५ शुद्ध लोगों के लिये सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध श्रीर अविश्वासियों के लिये कुछ भी शुद्ध नहीं: बरन उन की बुद्धि श्रीर

विवेक * दोनों अशुद्ध हैं। १६ वे कहते हैं, कि हम परमेश्वर को जानते हैं: पर अपने कामों से उसका इन्कार करते हैं, क्योंकि वे घृणित श्रीर भ्राजा न माननेवाले हैं; श्रीर किसी अच्छे काम के योग्य नहीं ॥

२ पर तू ऐसी बातें कहा कर, जो खरे उपदेश के योग्य हैं। २ अर्थात् बूढ़े पुरुष, सचेत श्रीर गम्भीर श्रीर सयमी हो, श्रीर उन का विश्वास श्रीर प्रेम श्रीर धीरज पक्का हो। ३ इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगानेवाली श्रीर पियक्कड़ नहीं; पर अच्छी बातें सिखानेवाली हों। ४ ताकि वे जवान स्त्रियों को चित्तीनी देती रहें, कि अपने पतियों श्रीर बच्चों से प्रीति रखे। ५ श्रीर सयमी, पतिव्रता, घर का कारबार करनेवाली, भली श्रीर अपने अपने पति के आधीन रहनेवाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन को निन्दा न होने पाए। ६ ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर, कि सयमी हो। ७ सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना तेरे उपदेश में सफाई, गम्भीरता। ८ श्रीर ऐसी खराई पाई जाए, कि कोई उसे बुरा न कह सके; जिस से विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की गौ न पाकर लज्जित हों। ९ दासों को समझा, कि अपने अपने स्वामी के आधीन रहें, श्रीर सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे, श्रीर उलटकर जवाब न दे। १० चोरी चालाकी न करें; पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर

* या प्रिससुतितो। † या विशप।

* अर्थात् मन या कानश्नन्स।

के उपदेश को शोभा दें। ११ क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगत है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। १२ और हमें चिंताता है, कि हम अभक्ति और सासारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। १३ और उम धन्य आशा की अर्थात् अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगत होने की बात जोहते रहें। १४ जिस ने अपने आप को हमारे लिये दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिये एक ऐसी जाति * बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो ॥

१५ पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, और समझा और सिखाता रह. कोई तुम्हें तुच्छ न जानने पाए ॥

३ लोगों को सुधि दिला, कि हाकिमों और अधिकारियों के आधीन रहे, और उन की आज्ञा मानें, और हर एक अच्छे काम के लिये तैयार रहे। २ किसी को बदनाम न करे, भगड़ालू न हो, पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। ३ क्योंकि हम भी पहिले, निर्बुद्धि, और आज्ञा न माननेवाले, और भ्रम में पड़े हुए, और रग रग के अभिलाषाओं और सुखविलास के दासत्व में थे, और बैरभाव, और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। ४ पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रगत हुई। ५ तो उस ने

हमारा उद्धार किया: और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हम ने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ६ जिसे उस ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उठेला *। ७ जिस से हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, अनन्त जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ८ यह बात सच † है, और मैं चाहता हूँ, कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले इसलिये कि जिन्हो ने परमेश्वर की प्रतीति की है, वे भले-भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे ये बातें भली, और मनुष्यों के लाभ की है। ९ पर मूर्खता के विवादों, और वंशावलियों, और बैर विरोध, और उन झगडों से, जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रह, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। १० किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उस से अलग रह। ११ यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है, और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है ॥

१२ जब मैं तेरे पास अरतिमास या तुस्किुस को भेजू, तो मेरे पास नीकुपुलिस आने का यत्न करना: क्योंकि मैं ने वही जाड़ा काटने की ठानी है। १३ जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख, कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। १४ और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अच्छे कामों

* या बहावा।

† य० विद्यासयोग्य।

* या लोग।

में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न रहें ॥

१५ मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

और जो विश्वास के कारण हम से प्रीति रखते हैं, उन को नमस्कार ॥

तुम सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्र

१ पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तिमथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन । २ और बहिन अफफिया, और हमारे साथी योद्धा अरखिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम ॥

३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शान्ति तुम्हें मिलती रहे ॥

४ मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर, जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है । ५ सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ; और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुम्हें स्मरण करता हूँ । ६ कि तेरा विश्वास मे सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहिचान में मसीह के लिये प्रभावशाली हो । ७ क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनन्द और शान्ति मिली, इसलिये कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं ॥

८ इसलिये यद्यपि मुझे मसीह मे बड़ा हियाब तो है, कि जो बात ठीक है, उस की आज्ञा तुम्हें दूँ । ९ तौभी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिये कैदी हूँ, यह और भी भला जान

पडा कि प्रेम से बिनती करूँ । १० मे अपने बच्चे उनेसिमस के लिये जो मुझ से मेरी कैद में जन्मा है तुम्हें से बिनती करता हूँ । ११ वह तो पहिले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है । १२ उसी को अर्थात् जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैं ने उसे तेरे पास लौटा दिया है । १३ उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद मे जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे । १४ पर मैं ने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नही पर आनन्द से हो । १५ क्योकि क्या जाने वह तुम्हें से कुछ दिन तक के लिये इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे । १६ परन्तु अब से दास की नाई नही, बरन दास से भी उत्तम, अर्थात् भाई के समान रहे जो शरीर में भी और विशेष कर प्रभु मे भी मेरा प्रिय हो । १७ सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ब्रह्मण कर जैसे मुझे । १८ और यदि उस ने तेरी कुछ हानि की है, या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले । १९ मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ, कि

मे आप भर दूगा; और इस के कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, कि मेरा कर्ज जो तुम्ह पर है वह तू ही है। २० हे भाई यह आनन्द मुझे प्रभु मे तेरी ओर से मिले: मसीह मे मेरे जी को हरा भरा कर दे। २१ मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर, तुम्हें लिखता हूँ और यह जानता हूँ, कि जो कुछ मैं कहता हूँ, तू उस से कही बढ़कर करेगा। २२ और यह

भी, कि मेरे लिये उतरने की जगह तैयार रख, मुझे आशा है, कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मे तुम्हें दे दिया जाऊगा ॥

२३ इपफास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। २४ और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं इन का तुम्हें नमस्कार ॥

२५ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन ॥

इब्रानियों के नाम पत्री

१ पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादो से थोडा थोडा करके और भाति भाति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बाते करके। २ इन दिनों के अन्त में हम से पुत्र के द्वारा बाते की, जिसे उस ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उस ने सारी सृष्टि रची है। ३ वह उस की महिमा का प्रकाश, और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के बचन से सभालता है। वह पापो को धोकर ऊँचे स्थानों पर महामहिमन के दहिने जा बैठा। ४ और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, जितना उस ने उन से बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ५ क्योंकि स्वर्गदूतों में से उस ने कब किसी से कहा, कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझ से उत्पन्न हुआ? और फिर यह, कि मैं उसका पिता हूँगा, और वह मेरा पुत्र होगा? ६ और जब पहिलौठे को जगत में फिन्

लाता है, तो कहता है, कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दण्डवत करे। ७ और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, कि वह अपने दूतों को पवन, और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। ८ परन्तु पुत्र से कहता है, कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा: तेरे राज्य का राजदण्ड न्याय का राजदण्ड है। ९ तू ने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा; इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तुम्हें अभिषेक किया। १० और यह कि, हे प्रभु, आदि में तू ने पृथ्वी की नेब डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। ११ वे तो नाश हो जाएंगे; परन्तु तू बना रहेगा: और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे। १२ और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे: पर तू बही है और तेरे वर्षों का अन्त न होगा।

१३ और स्वर्गदूतों में से उस ने किस से कब कहा, कि तू मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे की पीठी न कर दूँ? १४ क्या वे सब सेवा टहल करनेवाली आत्माएँ नहीं, जो उद्धार पानेवालों के लिये सेवा करने को भेजी जाती हैं?

२ इस कारण चाहिए, कि हम उन बातों पर जो हम ने सुनी है, और भी मन लगाएँ, ऐसा न हो कि बहकर उन से दूर चले जाएँ। २ क्योंकि जो बचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। ३ तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिन्त रहकर क्योंकि बच सकते हैं? जिस की चर्चा पहिले पहिल प्रभु के द्वारा हुई, और सुननेवालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। ४ और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, और भद्रभूत कामों, और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों, और पवित्र आत्मा के बरदानों के बाटने के द्वारा इस की गवाही देता रहा ॥

५ उस ने उस आनेवाले जगत को जिस की चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के आधीन न किया। ६ बरन किसी ने कही, यह गवाही दी है, कि मनुष्य क्या है, कि तू उस की सुधि लेता है? या मनुष्य का पुत्र क्या है, कि तू उस पर दृष्टि करता है? ७ तू ने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तू ने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। ८ तू ने सब कुछ उसके पावों के नीचे

कर दिया: इसलिये जब कि उस ने सब कुछ उसके आधीन कर दिया, तो उस ने कुछ भी रख न छोड़ा, जो उसके आधीन न हो. पर हम अब तक सब कुछ उसके आधीन नहीं देखते। ९ पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहिने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिये मृत्यु का स्वाद चखें। १० क्योंकि जिस के लिये सब कुछ है, और जिस के द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुँचाएँ, तो उन के उद्धार के कर्त्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ११ क्योंकि पवित्र करनेवाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं: इसी कारण वह उन्हें भाँई कहने से नहीं लजाता। १२ पर कहता है, कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। १३ और फिर यह, कि मैं उस पर भरोसा रखूँगा; और फिर यह कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। १४ इसलिये जब कि लड़के मांस और लोह के भागी हैं, तो वह आप भी उन के समान उन का सहभागी हो गया; ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात् शैतान * को निकम्मा कर दे। १५ और जितने मृत्यु के भय के भारे जीवन भर दासत्व में फँसे थे, उन्हें छुड़ा ले। १६ क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं बरन इब्राहीम

* यू० इब्लिस।

के वश को संभालता है। १७ इस कारण उस को चाहिए था, कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिस से वह उन बातों में जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिये प्रायश्चित्त करे। १८ क्योंकि जब उस ने परीक्षा की दशा में दुःख उठाया, तो वह उन की भी सहायता कर सकता है, जिन की परीक्षा होती है ॥

३ सो हे पवित्र भाइयो तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम भ्रंगीकार करते हैं ध्यान करो। २ जो अपने नियुक्त करनेवाले के लिये विश्वासयोग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। ३ क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनानेवाला घर से बढ़कर आदर रखता है। ४ क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनानेवाला होता है, पर जिस ने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। ५ मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वासयोग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होनेवाला था, उन की गवाही दे। ६ पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर, और अपनी आज्ञा के घमण्ड पर अन्त तक दृढ़ता से स्थिर रहें। ७ सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। ८ तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ९ जहां तुम्हारे

बापदादों ने मुझे जांचकर परखा और चालीस वर्ष तक मेरे काम देखे। १० इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा, और कहा, कि इन के मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्हो ने मेरे मार्गों को नहीं पहिचाना। ११ तब मैं ने क्रोध में आकर शपथ खाई, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। १२ हे भाइयो, चौकस रहो, कि तुम मे ऐसा बुरा और अविश्वासी न बन हो, जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। १३ बरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो, कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। १४ क्योंकि हम मसीह के * भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अन्त तक दृढ़ता से स्थिर रहें। १५ जैसा कहा जाता है, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। १६ भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं, जो मूसा के द्वारा मिसर से निकले थे? १७ और वह चालीस वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या जन्ही से नहीं, जिन्हों ने पाप किया, और उन की लोथें जंगल में पड़ी रही? १८ और उस ने किन से शपथ खाई, कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे: केवल उन से जिन्हों ने आज्ञा न मानी? १९ सो हम देखते हैं, कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके ॥

४ इसलिये जब कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक

* या सम्मिलित।

है, तो हमें डरना चाहिए; ऐसा न हो, कि तुम में से कोई जन उस से रहित जान पड़े। २ क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ; क्योंकि सुननेवालों के मन में विस्वास के साथ नहीं बैठा। ३ और हम जिन्हों ने विस्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उस ने कहा, कि मैं ने अपने क्रोध में शपथ खाई, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके क्राम हो चुके थे। ४ क्योंकि सातवें दिन के विषय में उस ने कही यों कहा है, कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके * विश्राम किया। ५ और इस जगह फिर यह कहता है, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। ६ तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहिले सुनाया गया, उन्हो ने आज्ञा न मानने के कारण उस में प्रवेश न किया। ७ तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद बाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहिले कहा गया, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनो को कठोर न करो। ८ और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। ९ सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये सन्त का विश्राम बाकी है। १० क्योंकि जिस ने उसके विश्राम में प्रवेश किया

* या कामों से।

है, उस ने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके * विश्राम किया है। ११ सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो, कि कोई जन उन की नाई आज्ञा न मानकर † गिर पड़े। १२ क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, और प्रबल, और हर एक दोषारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव, और आत्मा को, और गांठ गांठ, और गूदे गूदे को भ्रलग करके, वार पार छेदता है; और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। १३ और सृष्टि की कोई वस्तु उस से छिपी नहीं है बरन जिस से हमें काम है, उस की आंखों के साम्हने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है ॥

१४ सो जब हमारा ऐसा बड़ा महा-याजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात् परमेश्वर का पुत्र यीशू; तो आज्ञा, हम अपने अगीकार को दृढ़ता से धामे रहे। १५ क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके; बरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तौभी निष्पाप निकला। १६ इसालिये आज्ञा, हम अनुग्रह के सिहासन के निकट हियाव बान्धकर चले, कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समग्र हमारी सहायता करे ॥

५ क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों ही के लिये उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, ठहराया जाता है; कि भेट और पाप बलि चढ़ाया

* या कामों से।

† या अविश्वासी होकर।

करे। २ और वह अज्ञानों, और भूले भटकों के साथ नर्मी से व्यवहार कर सकता है इसलिये कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। ३ और इसी लिये उसे चाहिए, कि जैसे लोगों के लिये, वैसे ही अपने लिये भी पाप-बलि चढ़ाया करे। ४ और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हाकून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। ५ वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उस को उसी ने दी, जिस ने उस से कहा था, कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। ६ वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिये याजक है। ७ उस ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकारकर, और आसू बहा बहाकर उस से जो उस को मृत्यु से बचा * सकता था, प्रार्थनाएँ और बिनती की और भक्ति के कारण उस की सुनी गई। ८ और पुत्र होने पर भी, उस ने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। ९ और सिद्ध बनकर, अपने सब आज्ञा माननेवालों के लिये सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। १० और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महा-याजक का पद मिला।

११ इस के विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिन का समझना भी कठिन है; इसलिये कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। १२ समय के विचार से तो तुम्हें गुप्त हो जाना चाहिए था, तौभी क्या

* या उद्धार कर।

यह आवश्यक है, कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए ? और ऐसे हो गए हो, कि तुम्हें भ्रम के बदले भ्रम तक दूष ही चाहिए। १३ क्योंकि दूष पीनेवाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहिचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। १४ पर भ्रम सयानो के लिये है, जिन के ज्ञानेन्द्रिय अभ्यास करते करते, भले बुरे में भेद करने के लिये पक्के हो गए हैं।

इसलिये आम्हो मसीह की शिक्षा की आरम्भ की बातों को छोड़कर, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने, और परमेश्वर पर विश्वास करने। २ और बपतिस्मों और हाथ रखने, और मरे हुए के जी उठने *, और अन्तिम न्याय की शिक्षारूपी नेव, फिर से न डालें। ३ और यदि परमेश्वर चाहे, तो हम यही करेंगे। ४ क्योंकि जिन्होंने ने एक बार ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय बरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। ५ और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आनेवाले युग की सामर्थों का स्वाद चख चुके हैं। ६ यदि वे भटक जाएँ, तो उन्हें मन फिराव के लिये फिर नया बनाना अन्होना है; क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिये फिर क्रुस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलक लगाते हैं। ७ क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पडता है, पी पीकर जिन लोगों के लिये वह जोती-बोई जाती है, उन के काम का साग-पात उपजाती है, वह

* या मृतकोत्थान।

परमेश्वर से आशीष पाती है। ८ पर यदि वह झाड़ी और ऊटकटारे उगाती है, तो निकम्मी और स्थापित होने पर है, और उसका अन्त जलाया जाना है ॥

९ पर हे प्रियो यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तीभी तुम्हारे विषय में हम इस से अशुद्धा और उद्धारवाली बातों का भरोसा करते हैं। १० क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, कि तुम्हारे काम, और उस प्रेम को भूल जाए, जो तुम ने उसके नाम के लिये इस रीति से दिखाया, कि पवित्र लोगों की सेवा की, और कर भी रहे हो। ११ पर हम बहुत चाहते हैं, कि तुम में से हर एक जन अन्त तक पूरी आशा के लिये ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। १२ ताकि तुम भालसी न हो जाओ; बरन उन का अनुकरण करो, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं ॥

१३ और परमेश्वर ने इब्राहीम को प्रतिज्ञा देते समय जब कि शपथ खाने के लिये किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। १४ कि मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, और तेरी सन्तान को बढ़ाता जाऊंगा। १५ और इस रीति से उस ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। १६ मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उन के हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। १७ इसलिये जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रगट करना चाहा, कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती तो शपथ को बीच में लाया। १८ ताकि दो बे-बदल बातों के द्वारा जिन के विषय में परमेश्वर का भूठा ठहरना अनहोना है,

हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन्ध जाए, जो शरण लेने को इसलिये दौड़े है, कि उस आशा को जो साम्हने रखी हुई है प्राप्त करे। १९ वह आशा हमारे प्राण के लिये ऐसा लगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और परदे के भीतर तक पहुँचता है। २० जहा यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर, हमारे लिये अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है ॥

७ यह मलिकिसिदक शालेम का राजा, और परमप्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है: जब इब्राहीम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उस से भेट करके उसे आशीष दी। २ इसी को इब्राहीम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया: यह पहिले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात् शान्ति का राजा है। ३ जिस का न पिता, न माता, न वशावली है, जिस के न दिनों का आदि है और न जीवन का अन्त है; परन्तु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा ॥

४ अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था जिस को कुलपति इब्राहीम ने अशुद्ध से अशुद्ध माल की लूट का दसवां अंश दिया। ५ लेवी की सन्तान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है, कि लोगों, अर्थात् अपने भाइयों से चाहे, वे इब्राहीम ही की देह से क्यों न जन्मे हों, व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश लें। ६ पर इस ने, जो उन की वंशावली में का भी न था इब्राहीम से दसवां अंश लिया और जिसे

प्रतिज्ञाए मिली थी उसे आशीष दी। ७ और इस में सदेह नहीं, कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। ८ और यहां तो मरनहार मनुष्य दसवा अश लेते हैं पर वहां वही लेता है, जिस की गवाही दी जाती है, कि वह जीवित है। ९ तो हम यह भी कह सकते हैं, कि लेवी ने भी, जो दसवा अश लेता है, इब्राहीम के द्वारा दसवा अश दिया। १० क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय यह अपने पिता की देह में था ॥

११ तब यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है (जिस के सहारे से लोगो को व्यवस्था मिली थी) तो फिर क्या आवश्यकता थी, कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो, और हासून की रीति का न कहलाए ? १२ क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। १३ क्योंकि जिस के विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिस में से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। १४ तो प्रगट है, कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। १५ और जब मलिकिसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होनेवाला था। १६ जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर भविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रगट हो गया। १७ क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, कि तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है।

१८ निदान, पहिली आज्ञा निर्बल; और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। १९ (इसलिये कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं कि) और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आज्ञा रखी गई है जिस के द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। २० और इसलिये कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। २१ (क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए पर यह शपथ के साथ उस की ओर से नियुक्त किया गया जिस ने उसके विषय में कहा, कि प्रभु ने शपथ खाई, और वह उस से फिर न पछताएगा, कि तू युगानुयुग याजक है)। २२ सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। २३ वे तो बहुत से याजक बनते आए, इस का कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। २४ पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। २५ इसी लिये जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उन का पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उन के लिये बिनती करने को सर्वदा जीवित है ॥

२६ सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, और निष्कपट और निर्मल, और पापियों से अलग, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। २७ और उन महायाजको की नाईं उसे आवश्यक नहीं कि प्रति दिन पहिले अपने पापो और फिर लोगो के पापों के लिये बलिदान चढ़ाए; क्योंकि उस ने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। २८ क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है; परन्तु उस शपथ का वचन

जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिये सिद्ध किया गया है ॥

८ अब जो बातें हम कह रहे हैं, उन में से सब से बड़ी बात यह है, कि हमारा ऐसा महायाजक है, जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दहिने जा बैठा। २ और पवित्र स्थान और उस सन्चे तम्बू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, बरन प्रभु ने खड़ा किया था। ३ क्योंकि हर एक महायाजक भेंट, और बलिदान चढ़ाने के लिये ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है, कि इस के पास भी कुछ चढ़ाने के लिये हो। ४ और यदि वह पृथ्वी पर होता, तो कभी याजक न होता, इसलिये कि व्यवस्था के अनुसार गेंट चढ़ानेवाले तो हैं। ५ जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिम्ब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तम्बू बनाने पर था, तो उसे यह चिंतावनी मिली, कि देख, जो नमूना तुम्हें पहाड़ पर दिखाया गया था, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। ६ पर उस को उन की सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बान्धी गई है। ७ क्योंकि यदि वह पहिली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी के लिये अवसर न ढूढ़ा जाता। ८ पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, कि प्रभु कहता है, देखो, वे दिन आते हैं, कि मैं इस्राएल के घराने के साथ, और यहूदा के घराने के साथ, नई वाचा बान्धूंगा। ९ यह उस वाचा के समान न होगी, जो मैं ने उन के बाप-

दादो के साथ उस समय बान्धी थी, जब मैं उन का हाथ पकड़कर उन्हें मिसर देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, और मैं ने उन की सुधि न ली; प्रभु यही कहता है। १० फिर प्रभु कहता है, कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बान्धूंगा, वह यह है, कि मैं अपनी व्यवस्था को उन के मनो में डालूंगा, और उसे उन के हृदय पर लिखूंगा, और मैं उन का परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ११ और हर एक अपने देशवाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, कि तू प्रभु को पहिचान क्योंकि छोटो से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। १२ क्योंकि मैं उन के अधर्म के विषय में दयावन्त हूंगा, और उन के पापों को फिर स्मरण न करूंगा। १३ नई वाचा के स्थापन से उस ने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है ॥

९ निदान, उस पहिली वाचा में भी सेवा के नियम थे; और ऐसा पवित्र-स्थान जो इस जगत का था। २ अर्थात् एक तम्बू बनाया गया, पहिले तम्बू में दीवट, और मेज, और भेंट की रोटियां थी; और वह पवित्र स्थान कहलाता है। ३ और दूसरे परदे के पीछे वह तम्बू था, जो परम पवित्र-स्थान कहलाता है। ४ उस में सोने की धूपदानी, और चारो ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इस में मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिस में फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थीं। ५ और उसके ऊपर दोनों

तेजोमय करूब थे, जो प्रायश्चित्त के ढकने पर छाया किए हुए थे: इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। ६ जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहिले तम्बू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निबाहते हैं। ७ पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है; और बिना लोहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिये और लोगों की भूल चूक के लिये चढावा चढाता है। ८ इस से पवित्र आत्मा यही दिखाता है, कि जब तक पहिला तम्बू खडा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रगट नहीं हुआ। ९ और यह तम्बू तो वर्तमान समय के लिये एक दृष्टान्त है; जिस में ऐसी भेट और बलिदान चढाए जाते हैं, जिन से आराधना करनेवालो के विवेक* सिद्ध नहीं हो सकते। १० इसलिये कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं, और भाति भाति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिये नियुक्त किए गए हैं।

११ परन्तु जब मसीह आनेवाली † अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उस ने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात् इस सृष्टि का नहीं। १२ और बकरो और बछड़ो के लोहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और अनन्त छुटकारा प्राप्त किया। १३ क्योंकि जब बकरो और

बैलों का लोहू और कलोर की राख अपवित्र लोगो पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिये पवित्र करती है। १४ तो मसीह का लोहू जिस ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साम्हने निर्दोष चढाया, तुम्हारे विवेक* को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। १५ और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहिली वाचा के समय के अपराधो से छुटकारा पाने के लिये हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनन्त मीराम को प्राप्त करे। १६ क्योंकि जहा वाचा बान्धी गई † है वहा वाचा बान्धनेवाले ‡ की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। १७ क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बान्धनेवाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। १८ इसी लिये पहिली वाचा भी बिना लोहू के नहीं बान्धी गई। १९ क्योंकि जब मूसा सब लोगो को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उस ने बछड़ो और बकरो का लोहू लेकर, पानी और लाल ऊन, और जूफा के साथ, उस पुस्तक पर आंग सब लोगो पर छिड़क दिया। २० और कहा, कि यह उस वाचा का लोहू है, जिस की आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिये दी है। २१ और इसी रीति से उस ने तम्बू और सेवा के सारे सामान पर लोहू छिड़का। २२ और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं

* अर्थात् मन या कानशन्त।

† और पढ़ते हैं। आई हुई।

* अर्थात् मन या कानशन्त।

† या बसीयत या बिल की हुई।

‡ या बसीयत या बिल लिखनेवाले।

लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं; और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती ॥

२३ इसलिये भ्रवश्य है, कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन के द्वारा शुद्ध किए जाएं; पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इन से उत्तम बलिदानों के द्वारा। २४ क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिये अब परमेश्वर के साम्हने दिखाई दे। २५ यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लोहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। २६ नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उस को बार बार दुख उठाना पड़ता; पर अब युग के अन्त में वह एक बार प्रगट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। २७ और जैसे मनुष्यों के लिये एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। २८ वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिये एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उस की बाट जोहते हैं, उन के उद्धार के लिये दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा ॥

१० क्योंकि व्यवस्था जिस में भ्राने-वाली अच्छी वस्तुओं का प्रति-बिम्ब है, पर उन का असली स्वरूप नहीं, इसलिये उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास भ्रानेवालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। २ नहीं तो उन का चढ़ाना बन्द क्यों न हो जाता ?

इसलिये कि जब सेवा करनेवाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उन का विवेक * उन्हें पापी न ठहराता। ३ परन्तु उन के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। ४ क्योंकि अनहोना है, कि बेलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे। ५ इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, कि बलिदान और भेंट तू ने न चाही, पर मेरे लिये एक देह तैयार किया। ६ होम-बलियों और पाप-बलियों में तू प्रसन्न नहीं हुआ। ७ तब मैं ने कहा, देख, मैं आ गया हू, (पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है) ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करू। ८ ऊपर तो वह कहता है, कि न तू ने बलिदान और भेंट और होम-बलियों और पाप-बलियों को चाहा, और न उन से प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। ९ फिर यह भी कहता है, कि देख, मैं आ गया हू, ताकि तेरी इच्छा पूरी करू; निदान, वह पहिले को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। १० उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ११ और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रति दिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते; बार बार चढ़ाता है। १२ पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिये चढ़ाकर परमेश्वर के दहिने जा बैठा। १३ और उसी समय से इस की बाट जोह रहा

* अर्थात् मन या कान्छन्तः।

है, कि उसके बीरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बनें। १४ क्योंकि उस ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिये सिद्ध कर दिया है। १५ और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है; क्योंकि उस ने पहिले कहा था। १६ कि प्रभु कहता है; कि जो वाचा में उन दिनों के बाद उन से बान्धूगा वह यह है, कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उन के हृदय पर लिखूंगा और मैं उन के विवेक में डालूंगा। १७ (फिर वह यह कहता है, कि) मैं उन के पापो को, और उन के अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। १८ और जब इन की क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा।।

१९ सो हे भाइयो, जब कि हमें यीशु के लोहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। २० जो उस ने परदे अर्थात् अपने शरीर में से होकर, हमारे लिये अभिषेक किया है, २१ और इसलिये कि हमारा ऐसा महान याजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। २२ तो आओ; हम सच्चे मन, और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक * का दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। २३ और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से धामे रहे; क्योंकि जिस ने प्रतिज्ञा किया है, वह सच्चा † है। २४ और प्रेम, और भले कामों में उस्काने के लिये एक दूसरे की चिन्ता किया करे। २५ और एक

* अर्थात् मन या कानश्न्त।

† शू० विश्वासयोग्य।

दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनो की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें; और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो।।

२६ क्योंकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जान बूझकर पाप करते रहे, तो पापो के लिये फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। २७ हा, दण्ड का एक भयानक बाट जोहना और प्राण का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। २८ जब कि मूसा की व्यवस्था का न माननेवाला दो या तीन जनों की गवाही पर, बिना दया के मार डाला जाता है। २९ तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दण्ड के योग्य ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौदा, और वाचा के लोहू को जिस के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ३० क्योंकि हम उसे जानते हैं, जिस ने कहा, कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा : और फिर यह, कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। ३१ जीवते परमेश्वर के हाथों में पडना भयानक बात है।।

३२ परन्तु उन पहिले दिनो को स्मरण करो, जिन मे तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े भ्रमेले में स्थिर रहे। ३३ कुछ तो यो, कि तुम निन्दा, और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यों, कि तुम उन के साम्नी हुए जिन की दुर्दशा की जाती थी। ३४ क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, और अपनी संपत्ति भी आनन्द से लुटने दी; यह जानकर, कि तुम्हारे पास एक और

भी उत्तम और सर्वदा ठहरनेवाली संपत्ति है। ३५ सो अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ३६ क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ३७ क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जब कि आनेवाला आएगा, और देर न करेगा। ३८ और मेरा धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उस से प्रसन्न न होगा। ३९ पर हम हटनेवाले नहीं, कि नाश हो जाए पर विश्वास करनेवाले हैं, कि प्राणों को बचाए।

११ अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अन-देखी वस्तुओं का प्रमाण है। २ क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। ३ विश्वास ही से हम जान जाते हैं, कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के बचन के द्वारा हुई है। यह नहीं, कि जो कुछ देखने में आता है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ४ विश्वास ही से हाबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिये चढ़ाया; और उसी के द्वारा उसके धर्म होने की गवाही भी दी गई: क्योंकि परमेश्वर ने उस की भेंटों के विषय में गवाही दी; और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बाते करता है। ५ विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला; क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहिले उस की यह गवाही दी गई थी, कि

उस ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ६ और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आनेवाले को विश्वास करना चाहिए, कि वह है; और अपने खोजनेवालों को प्रतिफल देता है। ७ विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिये जहाज बनाया, और उसके द्वारा उस ने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ, जो विश्वास से होता है। ८ विश्वास ही से इब्राहीम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेनेवाला था, और यह न जानता था, कि में किधर जाता हूँ; तीभी निकल गया। ९ विश्वास ही से उस ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराए देश में पर-देशी रहकर इसहाक और याकूब समेत, जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तम्बुओं में बास किया। १० क्योंकि वह उस स्थिर नेववाले * नगर की बाट जोहता था, जिस का रचनेवाला और बनानेवाला परमेश्वर है। ११ विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई; क्योंकि उस ने प्रतिज्ञा करनेवाले को सच्चा † जाना था। १२ इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई, अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ।

१३ ये सब विश्वास ही की दशा में भरे; और उन्हीं ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं

* या स्थिर रहनेवाले।

† बू० विश्वासयोग्य।

नहीं पाई; पर उन्हें दूर से देखकर आनन्दित हुए और मान लिया, कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। १४ जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रगट करते हैं, कि स्वदेश की खोज में हैं। १५ और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उस की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। १६ पर वे एक उत्तम अर्थात् स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसी लिये परमेश्वर उन का परमेश्वर कहलाने में उन से नहीं लजाता, सो उस ने उन के लिये एक नगर तैयार किया है।।

१७ विश्वास ही से इब्राहीम ने, परखे जाने के समय में, इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिस ने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। १८ और जिस से यह कहा गया था, कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा; वह अपने एकलौते को चढाने लगा। १९ क्योंकि उस ने विचार किया, कि परमेश्वर सामर्थी है, कि मरे हुआँ में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टान्त की रीति पर वह उसे फिर मिला। २० विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आनेवाली बातों के विषय में आशीष दी। २१ विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दण्डवत किया। २२ विश्वास ही से यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो इस्लाम की सन्तान के निकल जाने की चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। २३ विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उस को, उत्पन्न होने के बाद तीन महीने तक छिपा रखा;

क्योंकि उन्हीं ने देखा, कि बालक सुन्दर है, और वे राजा की आज्ञा से न डरे। २४ विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरान की बेटो का पुत्र कहलाने से इन्कार किया। २५ इसलिये कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। २६ और मसीह के कारण निन्दित होने को मिसर के भण्डार से बड़ा धन समझा : क्योंकि उस की आज्ञा फल पाने की ओर लगी थीं। २७ विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उस ने मिसर को छोड़ दिया, क्योंकि वह अन-देखे को मानो देखता हुआ बूढ़ रहा। २८ विश्वास ही से उस ने फसह और लोह छिड़कने की विधि मानी, कि पहिलीठों का नाश करनेवाला इस्लामियों* पर हाथ न डाले। २९ विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, जैसे सूखी भूमि पर से; और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, तो सब डूब मरे। ३० विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, जब सात दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। ३१ विश्वास ही से राहाब बेया आज्ञा न मानने-वालों† के साथ नाश नहीं हुई; इस-लिये कि उस ने भेदियों को कुशल से रखा था। ३२ अब और क्या कहें? क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन का, और बाराक और समसून का, और यिफतह का, और दाऊद और शामुएल का, और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। ३३ इन्हीं ने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते; धर्म के काम किए; प्रतिज्ञा की

* या उन।

† या अभिश्वासियों।

हुई वस्तुएं प्राप्त कीं, सिंहों के मुंह बन्द किए। ३४ आग की ज्वाला को ठंडा किया; तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलबन्त हुए; लडाईं में वीर निकले; विदेशियों की फौजों को मार भंगायी। ३५ स्त्रियो ने अपने मरे हुओ को फिर जीवते पाया; कितने तो मार खाते खाते मर गए; और छुटकारा न चाहा; इसलिये कि उत्तम पुनरुत्थान * के भागी हों। ३६ कई एक ठट्टों मे उडाए जाने; और कोडे खाने; बरन बान्चे जाने; और कंद में पड़ने के द्वारा पखुले गए। ३७ पत्थरवाह किए गए; आरे से चीरे गए; उन की परीक्षा की गई; तलवार से मारे गए; वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ो और बकरियों की खालें ओढे हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे। ३८ और जंगलो, और पहाडो, और गुफाओ में, और पृथ्वी की दरारों मे भटकते फिरे। ३९ संसार उन के योग्य न था: और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तौभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। ४० क्योंकि परमेस्वर ने हमारे लिये पहिले से एक उत्तम बात ठहराई, कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचें ॥

१२ इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम को घेरे हुए है, तो आओ, हर एक रोकनेवाली वस्तु, और उलझानेवाले पाप को दूर करके, वह दौड़ जिस में हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। २ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करनेवाले यीशु की ओर

* या मृतकोत्थान।

ताकते रहें; जिस ने उस आनन्द 'के लिये जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिन्ता न करके, क्रूस का दुख सहा; और सिंहासन पर परमेस्वर के दहिने जा बैठा। ३ इसलिये उस पर ध्यान करो, जिस ने अपने विरोध में पापियो का इतना वाद-विवाद सह लिया, कि तुम निराश होकर हियाव न छोड दो। ४ तुम ने पाप से लड़ने हुए उस से ऐसी मुठभेड नही की, कि तुम्हारा लोह बहा हो। ५ और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्रो की नाई दिया जाता है, भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताडना को हलकी बात न जान, और जब वह तुम्हे घुडके तो हियाव न छोड। ६ क्योंकि प्रभु, जिस से प्रेम करता है, उस की ताडना भी करता है; और जिसे पुत्र बना लेता है, उस को कोडे भी लगाता है। ७ तुम दुख को ताडना समझकर सह लो: परमेस्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, वह कौन सा पुत्र है, जिस की ताडना पिता नही करता? ८ यदि वह ताडना जिस के भागी सब होते हैं, तुम्हारी नही हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की सन्तान ठहरे! ९ फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताडना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आधीन न रहें जिस से जीवित रहें। १० वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोडे दिनों के लिये ताडना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिये करता है, कि हम भी उस की पवित्रता के भागी हो जाएं। ११ और वर्तमान में हर प्रकार की ताडना आनन्द की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तौभी

जो उस को सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। १२ इसलिये ठीले हाथो और निर्बल घुटनो को सीधे करो। १३ और अपने पावों के लिये सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगडा भटक न जाए, * पर भला चंगा हो जाए ॥

१४ सब से मेल मिलाप रखने, और उस पवित्रता के खोजी हो जिस के बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। १५ और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो, कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। १६ ऐसा न हो, कि कोई जन व्यभिचारी, या एसाव की नाई अघर्मी हो, जिस न एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। १७ तुम जानते तो हो, कि बाद को जब उस ने आशीष पानी चाही, तो अयोग्य गिना गया, और ग्रासू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला ॥

१८ तुम तो उस पहाड के पास जो छूआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा, और अन्धेरा, और आन्धी के पास। १९ और तुरही की ध्वनि, और बोलनेवाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिस के सुननेवालों ने बिनती की, कि अब हम से और बातें न की जाए। २० क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके, कि यदि कोई पशु भी पहाड को छुए, तो पत्थरबाह किया जाए। २१ और वह दर्शन ऐसा डरावना था,

कि मूसा ने कहा; मैं बहुत डरता और कांपता हू। २२ पर तुम मिय्योन के पहाड के पास, और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। २३ और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठो की साधारण सभा और कलीसिया जिन के नाम स्वर्ग मे लिखे हुए हैं; और सब के न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओ। २४ और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, और छिडकाव के उस लोहू के पास आए हो, जो हाबील के लोहू से उत्तम बाते कहता है। २५ सावधान रहो, और उम कहनेवाले से मुह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चितावनी देनेवाले से मुह मोडकर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चितावनी करनेवाले से मुह मोड़कर क्योकर बच सकेंगे? २६ उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया पर अब उस न यह प्रतिज्ञा की है, कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं, बरन आकाश को भी हिला दूंगा। २७ और यह वाक्य 'एक बार फिर' इस बात को प्रगट करता है, कि जो वस्तुए हिलाई जाती है, वे सृजी हुई वस्तुए होने क कारण टल जाएगी; ताकि जो वस्तुए हिलाई नहीं जाती, वे अटल बनी रहें। २८ इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिस के द्वारा हम भक्ति, और भय सहित, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिस से वह प्रसन्न होता है। २९ क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करनेवाली आग है ॥

* या लंगड़े की हड्डी उखड़ न जाए।

१३ भाईचारे की प्रीति बनी रहे।
 २ पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इस के द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्ग-दूतों की पहुनाई की है। ३ कैंदियों की ऐसी सुधि लो, कि मानो उन के साथ तुम भी कैद हो; और जिन के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उन की भी यह समझकर सुधि लिया करो, कि हमारी भी देह है। ४ विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और बिछीना निष्कलक रहे; क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों, और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ५ तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो, और जो तुम्हारे पास है, उसी पर सन्तोष करो; क्योंकि उस ने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। ६ इसलिये हम बेधड़क होकर कहते हैं, कि प्रभु, मेरा सहायक है; मैं न डरूंगा; मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ॥

७ जो तुम्हारे अगुवे थे, और जिन्हो ने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो; और ध्यान से उन के चाल-चलन का अन्त देखकर उन के विश्वास का अनुकरण करो। ८ यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एकसा है। ९ नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से काम रखनेवालों को कुछ लाभ न हुआ। १० हमारी एक ऐसी बेदी है, जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं, जो तम्बू की सेवा करते हैं। ११ क्योंकि जिन पशुओं का लोहू महा-याजक पाप-बलि के लिये पवित्र स्थान में

ले जाता है, उन की देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। १२ इसी कारण, यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के द्वारा पवित्र करने के लिये फाटक के बाहर दुख उठाया। १३ सो आओ, उस की निन्दा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। १४ क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहनेवाला नगर नहीं, बरन हम एक आनेवाले नगर की खोज में हैं। १५ इसलिये हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान, अर्थात् उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिये सर्वदा चढ़ाया करें। १६ पर भलाई करना, और उदारता न भूलो; क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। १७ अपने अगुवों की मानो; और उन के आधीन रहो, क्योंकि वे उन की नाईं तुम्हारे प्राणों के लिये जागते रहते, जिन्हें सेखा देना पडेगा, कि वे यह काम आनन्द से करें, न कि ठडी सास ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं ॥

१८ हमारे लिये प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है, कि हमारा विवेक * शुद्ध है; और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। १९ और इस के करने के लिये मैं तुम्हें और भी समझाता हूं, कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं ॥

२० अब शान्तिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लोहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया।

* अर्थात् मन या कानशन्स।

२१ तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिस से तुम उस की इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उस को भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिस की बड़ाई युगानुयुग होती रहे।
आमीन ॥

२२ हे भाइयो मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि इन उपदेश की बातों को सह लेओ; क्योंकि मैं ने तुम्हें बहुत सक्षेप में

लिखा है। २३ तुम यह जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है और यदि वह शीघ्र आ गया, तो मैं उसके साथ तुम से भेंट करूँगा ॥

२४ अपने सब अगुवों और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालियावाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं ॥

२५ तुम सब पर अनुग्रह होता रहे।
आमीन ॥

याकूब की पत्री

१ परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की और से उन बारहो गोत्रों को जो तित्तर बित्तर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे ॥

२ हे मेरे भाइयो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, ३ तो इस को पूरे आनन्द की बात समझो, यह जानकर, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ४ पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे ॥

५ पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सब को उदारता से देता है; और उस को दी जाएगी। ६ पर विश्वास से मांगे, और कुछ सन्देह न करे; क्योंकि सन्देह करनेवाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ७ ऐसा मनुष्य यह न समझे, कि मुझे प्रभु

से कुछ मिलेगा। ८ वह व्यक्ति दुचित्ता है, और अपनी सारी बातों में चंचल है ॥

९ दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमण्ड करे। १० और घनवान अपनी नीच दशा पर 'क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। ११ क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है, और उस की शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार घनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा ॥

१२ घन्य है वह मनुष्य, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिस की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करनेवालों को दी है। १३ जब किसी की परीक्षा हो, तो वह यह न कहे, कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है; क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है।

१४ परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। १५ फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। १६ हे मेरे प्रिय भाइयो, धोखा न खाओ। १७ क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिस में न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, और न बदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। १८ उस ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उस की सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों।।

१९ हे मेरे प्रिय भाइयो, यह बात तुम जानते हो : इसलिये हर एक मनुष्य सुनने के लिये तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। २० क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। २१ इसलिये सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। २२ परन्तु वचन पर चलनेवाले बनो, और केवल सुननेवाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। २३ क्योंकि जो कोई वचन का सुननेवाला हो, और उस पर चलनेवाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुह दर्पण में देखता है। २४ इसलिये कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, और तुरन्त भूल जाता है कि मैं कैसा था। २५ पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिये आशीष पाएगा

कि सुनकर भूलता नहीं, पर बैसा ही काम करता है। २६ यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उस की भक्ति व्यर्थ है। २७ हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, कि अनार्यों और विषवाग्रों के क्लेश में उन की सुधि लें, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें।।

२ हे मेरे भाइयो, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। २ क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुन्दर वस्त्र पहिने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मूले कुचले कपडे पहिने हुए आए। ३ और तुम उस सुन्दर वस्त्रवाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ; और उस कंगाल से कहो, कि तू यहां खड़ा रह, या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ। ४ तो क्या तुम ने आपस में भेद भाव न किया और कुविचार से न्याय करनेवाले न ठहरे? ५ हे मेरे प्रिय भाइयो, सुनो; क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में घनी, और उस राज्य के अधिकारी हों, जिस की प्रतिज्ञा उस ने उन से की है जो उस से प्रेम रखते हैं? ६ पर तुम ने उस कंगाल का अपमान किया : क्या घनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? ७ क्या वे उस उत्तम नाम की निन्दा नहीं करते जिस के तुम कहलाए जाते हो? ८ तौभी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सबमुच उस राज्य व्यवस्था को

पूरी करते हो, तो भ्रष्टाचार ही करते हो।
 १२ पर यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पाप करते हो; और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। १० क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परन्तु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। ११ इसलिये कि जिस ने यह कहा, कि तू व्यभिचार न करना उसी ने यह भी कहा, कि तू हत्या न करना इसलिये यदि तू ने व्यभिचार तो नहीं किया, पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उलंघन करने वाला ठहरा। १२ तुम उन लोगों की नाईं वचन बोलो, और काम भी करो, जिन का न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। १३ क्योंकि जिस ने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा : दया न्याय पर जयवन्त होती * है ॥

१४ हे मेरे भाइयो, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो उस से क्या लाभ ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है ? १५ यदि कोई भाई या बहिन नङ्गे उधाड़े हों, और उन्हें प्रति दिन भोजन की घटी हो। १६ और तुम में से कोई उन से कहे, कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो; पर जो वस्तुएं देह के लिये आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ ? १७ वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। १८ बरन कोई कह सकता है कि तुम्हें विश्वास है, और मैं कर्म करता हूँ : तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा; और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा। १९ तुम्हें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर

है : तू भ्रष्टाचार करता है : दुष्टात्मा भी विश्वास रखते, और धरधरते हैं। २० पर हे निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता, कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है ? २१ जब हमारे पिता इब्राहीम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। २२ सो तू ने देख लिया कि विश्वास ने उस के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। २३ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, कि इब्राहीम ने परमेश्वर की प्रतीति की, और यह उसके लिये धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। २४ सो तुम ने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, बरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। २५ वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उस ने दूतों को अपने घर में उतारा, और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी ? २६ निदान, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है ॥

३ हे मेरे भाइयो, तुम में से बहुत उपदेशक न बनें, क्योंकि जानते हो, कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। २ इसलिये कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं : जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है; और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ३ जब हम अपने वश में करने के लिये घोड़ों के मुँह में लगाम लगाते हैं, तो हम उन की सारी देह को भी फेर सकते हैं। ४ देखो, जहाज भी, यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, और प्रचण्ड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते

* शू० घमण्ड ।

हैं। ५ वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे भारती हैं : देवो, थोड़ी सी अंग से कितने बड़े बन में अंग लग जाती हैं। ६ जीभ भी एक अंग है; जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलक लगाती है, और भबचक्र में अंग लगा देती है और नरक कुण्ड की अंग से जलती रहती है। ७ क्योंकि हर प्रकार के बन-पशु, पक्षी, और रंगनेवाले जन्तु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। ८ पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता; वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं; वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। ९ इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं छाप देते हैं। १० एक ही मुह से धन्यवाद और छाप दोनों निकलते हैं। ११ हे मेरे भाइयो, ऐसा नहीं होना चाहिए। १२ क्या सोते के एक ही मुह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयो, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून, या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता ॥

१३ तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामो को अच्छे चालचलन से उस नन्नता सहित प्रगट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। १४ पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमण्ड न करना, और न तो भूठ बोलना। १५ यह ज्ञान वह नहीं, जो ऊपर से उतरता है बरन सांसारिक, और शारीरिक, और शैतानी है। १६ इसलिये कि जहां डह

और विरोध होता है, वहां बखेडा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। १७ पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहिले तो पवित्र होता है फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। १८ और मिलाप करानेवालो के लिये धार्मिकता का फल मेल-मिलाप के साथ बोया जाता है ॥

४ तुम में लडाइया और भगडे कहा से आ गए? क्या उन सुख-विलासो से नहीं जो तुम्हारे अंगो में लडते-भिडते हैं? २ तुम लालसा रखते हो, और तुम्हें मिलता नहीं; तुम हत्या और डह करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते; तुम भगड़ने और लडने हो; तुम्हें इसलिये नहीं मिलता, कि मागते नहीं। ३ तुम मागते हो और पाते नहीं, इसलिये कि बुरी इच्छा से मागते हो, ताकि अपने भोग-विलास में उडा दो। ४ हे व्यभिचारिणियो, क्या तुम नहीं जानती, कि ससार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई ससार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ५ क्या तुम यह समझते हो, कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उस ने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है, जिस का प्रतिफल डह हो? ६ वह तो और भी अनुग्रह देता है; इस कारण यह लिखा है, कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ७ इसलिये परमेश्वर के आधीन हो जाओ; और शैतान * का साम्हना करो, तो वह तुम्हारे पास से

* यू० इब्लिस।

भाग निकलेगा। ८ परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा : हे पापियो, अपने हाथ शुद्ध करो; और हे दुचित्त लोगो अपने हृदय को पवित्र करो। ९ दुखी होओ, और शोक करो, और रोओ : तुम्हारी हसी शोक से और तुम्हारा आनन्द उदासी से बदल जाए। १० प्रभु के साम्हने दीन बनो, तो वह तुम्हे शिरोमणि बनाएगा ॥

११ हे भाइयो, एक दूसरे की बदनामी न करो, जो अपने भाई की बदनामी करता है, या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है, और व्यवस्था पर दोष लगाता है; और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने-वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। १२ व्यवस्था देनेवाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है; तू कौन है, जो अपने पडोसी पर दोष लगाता है ?

१३ तुम जो यह कहते हो, कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे, और व्योपार करके लाभ उठाएंगे। १४ और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा : सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या ? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। १५ इस के विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी करेंगे। १६ पर अब तुम अपनी डींग पर घमण्ड करते हो; ऐसा सब घमण्ड बुरा होता है। १७ इसलिये जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिये यह पाप है ॥

५ हे धनवानो सुन तो लो; तुम अपने आनेवाले क्लेशों पर चिल्लाकर रोओ। २ तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। ३ तुम्हारे सोने-चान्दी में कोई लग गई है; और वह कोई तुम पर गवाही देगी, और प्राग की नाई तुम्हारा मास खा जाएगी : तुम ने अन्तिम युग में धन बटोरा है। ४ देखो, जिन मजदूरो ने तुम्हारे खेत काटे, उन की वह मजदूरी जो तुम ने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लबनेवालों की दोहाई, सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। ५ तुम पृथ्वी पर भोग-विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा; तुम ने इस बच के दिन के लिये अपने हृदय का पालन-पोषण करके मोटा ताजा किया। ६ तुम ने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला; वह तुम्हारा साम्हना नहीं करता ॥

७ सो हे भाइयो, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अन्तिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। ८ तुम भी धीरज धरो, और अपने हृदय को दृढ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। ९ हे भाइयो, एक दूसरे पर दोष न लगाओ नाकि तुम दोषी न ठहरो, देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। १० हे भाइयो, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बाते की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। ११ देखो, हम धीरज धरनेवालो को धन्य कहते हैं : तुम ने ऐयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिस से प्रभु की अत्यन्त कसूणा और दया प्रगट होती है ॥

१२ पर हे मेरे भाइयो, सब से श्रेष्ठ बात यह है, कि शपथ न खाना; न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हा की हों, और नहीं की. नहीं हो, कि तुम दण्ड के योग्य न ठहरो ॥

१३ यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे: यदि आनन्दित हो, तो वह स्तुति के भजन गाए। १४ यदि तुम में कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनो * को बुलाए, और वे प्रभ के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिये प्रार्थना करें। १५ और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उस को उठाकर खड़ा करेगा; और यदि उस ने पाप भी किए हों, तो उन की भी क्षमा हो जाएगी।

* या प्रिसबुलियों।

१६ इसलिये तुम आपस में एक दूसरे के साम्हने अपने अपने पापों को मान लो; और एक दूसरे के लिये प्रार्थना करो, जिस से चंगे हो जाओ; धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। १७ एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख-सुख भोगी मनुष्य था; और उस ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की; कि मेंह न बरसे; और साढे तीन वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। १८ फिर उस ने प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई, और भूमि फलवन्त हुई ॥

१९ हे मेरे भाइयो, यदि तुम मे कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, और कोई उस को फेर लाए। २० तो वह यह जान ले, कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, और अनेक पापों पर परदा डालेगा ॥

पतरस की पहिली पत्री

१ पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पडुकिया, आसिया और बिथुनिया मे तित्तर बित्तर होकर रहते हैं। २ और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, और यीशु मसीह के लोहू के छिड़के जाने के लिये चुने गए हैं ॥

तुम्हें अत्यन्त अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिस ने यीशु

मसीह के मरे हुआ में से जी उठने के द्वारा, अपनी बड़ी दया से हमे जीवित आशा के लिये नया जन्म दिया। ४ अर्थात् एक अविनाशी और निर्मल, और अजर मीरास के लिये। ५ जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी है, जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिये, जो आनेवाले समय में प्रगट होनेवाली है, की जाती है। ६ और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। ७ और यह इसलिये

है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो भाग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशांसा, और महिमा, और आदर का कारण ठहरे। ८ उस से तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनन्दित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ९ और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात् आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। १० इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत दूढ़-डांड और जाच-पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था, भविष्यद्वक्ताओं की थी। ११ उन्होंने ने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उन में था, और पहिले ही से मसीह के दुखों की और उन के बाद होने-वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। १२ उन पर यह प्रगट किया गया, कि वे अपनी नहीं बरन तुम्हारी सेवा के लिये ये बातें कहा करते थे, जिन का समाचार अब तुम्हें उन के द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया : तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं।

१३ इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बान्धकर, और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलनेवाला है। १४ और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। १५ पर

जैसा तुम्हारा बुलानेवाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चालचलन में पवित्र बनो। १६ क्योंकि लिखा है, कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। १७ और जब कि तुम, हे पिता, कहकर उस से प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। १८ क्योंकि तुम जानते हो, कि तुम्हारा निकम्मा चालचलन जो बापदादों से चला आता है उस से तुम्हारा छुटकारा चान्दी सोने अर्थात् नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। १९ पर निर्दोष और निष्कलक मेम्ने अर्थात् मसीह के बहुमूल्य लोह के द्वारा हुआ। २० उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहिले ही से जाना गया था, पर अब इस अन्तिम युग में तुम्हारे लिये प्रगट हुआ। २१ जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिस ने उसे मरे हुए में से जिलाया, और महिमा दी; कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। २२ सो जब कि तुम ने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनो को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। २३ क्योंकि तुम ने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। २४ क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, और उस की सारी शोभा घास के फूल की नाई है : घास सूख जाती है, और फूल झड़ जाता है। २५ परन्तु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा : और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था ॥

२ इसलिये सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके। २ नये जन्मे हुए बच्चों की नाईं निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिये बढ़ते जाओ। ३ यदि तुम ने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ४ उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परन्तु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। ५ तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाईं आत्मिक घर बनते जाते हो, जिस से याजकों का पवित्र समाज बनकर, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ब्राह्म हैं। ६ इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, कि देखो, मैं सिय्योन मे कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ : और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ७ सो तुम्हारे लिये जो विश्वास करते हो, वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उन के लिये * जिस पत्थर को राजमिस्त्रीयो ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। ८ और ठेस † लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चटान हो गया है : क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिये वे ठहराए भी गए थे। ९ पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राज-यदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और (परमेश्वर की) निज प्रजा हो, इसलिये कि जिस ने तुम्हें अन्धकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुरु प्रगट करो। १० तुम

* भजन संहिता ११८ : २२ को देखो।

† यशायाह ८ : १४ को देखो।

पहिले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो : तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है ॥

११ हे प्रियो मे तुम से बिनती करता हूँ, कि तुम अपने आप को परदेशी और यामी जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। १२ अन्यजातियों में तुम्हारा चालचलन भला हो; इसलिये कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर; उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे ॥

१३ प्रभु के लिये मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबन्ध के आधीन में रहो, राजा के इसलिये कि वह सब पर प्रधान है। १४ और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दण्ड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिये उसके भेजे हुए हैं। १५ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बन्द कर दो। १६ और अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिये आड़ न बनाओ, परन्तु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। १७ सब का आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो ॥

१८ हे सेवको, हर प्रकार के भय * के साथ अपने स्वामियों के आधीन रहो, न केवल भलो और न भ्रमों के, पर कुटिलों के भी। १९ क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके † अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है।

* या आदर।

† यू० के विवेक या कानशन्स से।

२० क्योंकि यदि तुम ने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इस में क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। २१ और तुम इसी के लिये बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिये दुख उठाकर, तुम्हें एक आदर्श दे गया है, कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। २२ न तो उस ने पाप किया, और न उसके मुह से छल की कोई बात निकली। २३ वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। २४ वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया *, जिस से हम पापों के लिये मर करके धार्मिकता के लिये जीवन बिताए : उसी के मार खाने से तुम चगे हुए। २५ क्योंकि तुम पहिले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष † के पास फिर आ गए हो ॥

२ पत्नियों, तुम भी अपने पति के आधीन रहो। २ इसलिये कि यदि इन में से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तौभी तुम्हारे भय † सहित पवित्र चाल-चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिच जाएं। ३ और तुम्हारा सिगार दिखावटी न हो, अर्थात् बाल गूथने, और सोने के गहने, या भांति भाति के कपड़े पहिनना। ४ बरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व,

* या उस ने आप क्रूस पर हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया।

† या बिनाप।

‡ या आदर।

नअता और मन की दीनता की ब्रिनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ५ और पूर्वकाल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से सवारती और अपने अपने पति के आधीन रहती थी। ६ जैसे सारा इब्राहीम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी : सो तुम भी यदि भलाई करो, और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उस की बेटियां ठहरोगी ॥

७ वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानों से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के बरदान * के वारिस हैं, जिस से तुम्हारी प्रार्थनाएँ रुक न जाए ॥

८ निदान, सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखनेवाले, और करुणामय, और नअर बनो। ९ बुराई के बदले बुराई मत करो; और न गाली के बदले गाली दो, पर इस के विपरीत आशीष ही दो : क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिये बुलाए गए हो। १० क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ११ वह बुराई का साथ छोड़े, और भलाई ही करे; वह मेल मिलाप को दूढे, और उसके यत्न में रहे। १२ क्योंकि प्रभु की आखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उन की बिनती की ओर लगे रहते हैं, परन्तु प्रभु बुराई करनेवालों के विमुख रहता है ॥

* य० अनुमह।

१३ और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करनेवाला फिर कौन है ? १४ और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो; पर उन के डराने से मत डरो, और न घबराओ। १५ पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम से तुम्हारी आज्ञा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिये सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। १६ और विवेक * भी शुद्ध रखो, इसलिये कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, इन के विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चालचलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। १७ क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। १८ इसलिये कि मसीह ने भी, अर्थात् अप्रार्थियों के लिये धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाएँ: वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। १९ उसी में उस ने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। २० जिन्हो ने उस बीते समय में आज्ञा न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिस में बैठकर थोड़े लोग अर्थात् आठ प्राणी पानी के द्वारा बच गए। २१ और उसी पानी का दृष्टान्त भी, अर्थात् बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, अब तुम्हें बचाता है; (उस से शरीर के मूल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परन्तु शुद्ध

विवेक * से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है)। २२ वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दहिनी ओर बैठ गया; और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके आधीन किए गए हैं ॥

४ सो जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हृथियार बान्ध लो क्योंकि जिम नें शरीर में दुख उठाया, वह पाप से छूट गया। २ ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं बरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। ३ क्योंकि अन्याजातियों की इच्छा के अनुसार काम करने, और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला-क्रीड़ा, पियक्कड़पन, और घृणित मूर्तिपूजा में जहा तक हम नें पहिले समय गवाया, वही बहुत हुआ। ४ इस से वे अचम्भा करते हैं, कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उन का साथ नहीं देते, और इसलिये वे बुरा भला कहते हैं। ५ पर वे उस को जो जीवतों और मरे हुएओं का न्याय करने को तैयार हं, लेखा देंगे। ६ क्योंकि मरे हुएओं को भी सुसमाचार इसी लिये सुनाया गया, कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उन का न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे ॥

७ सब बातों का अन्त तुरन्त होनेवाला है; इसलिये सयमी होकर प्रार्थना के लिये सचेत रहो। ८ और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो; क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। ९ बिना कुडकुड़ाएँ एक दूसरे की पहनाई

* अर्थात् मन या कानशन्स ।

* अर्थात् मन या कानशन्स ।

करो। १० जिस को जो बरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भ्रष्टारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। ११ यदि कोई बोले, तो ऐसा बोले, मानो परमेश्वर का वचन है; यदि कोई सेवा करे, तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है; जिस से सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की महिमा प्रगट हो : महिमा और समराज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन ॥

१२ हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिये तुम में भड़की है, इस से यह समझकर अचम्भा न करो कि कोई अनेखी बात तुम पर बीत रही है। १३ पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनन्द करो, जिस से उसकी महिमा के प्रगट होते समय भी तुम आनन्दित और मगन हो। १४ फिर यदि मसीह के नाम के लिये तुम्हारी निन्दा की जाती है, तो धन्य हो; क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। १५ तुम में से कोई व्यक्ति हत्या या चोर, या कुकर्म होने, या पराए काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। १६ पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए, तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिये परमेश्वर की महिमा करे। १७ क्योंकि वह समय आ पहुँचा है, कि पहिले परमेश्वर के लोगो * का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरम्भ हम ही से होगा तो उन का क्या अन्त होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते ? १८ और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या

ठिकाना ? १९ इसलिये जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए, अपने अपने प्राण को विश्वास-योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें ॥

तुम में जो प्राचीन * हैं, मैं उन की नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रगट होनेवाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझता हूँ। २ कि परमेश्वर के उस झुंड की, जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो; और यह दबाव से नहीं, परन्तु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनन्द से, और नीच-कमाई के लिये नहीं, पर मन लगा कर। ३ और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ, बरन झुंड के लिये आदर्श बनो। ४ और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मूरखाने का नहीं। ५ हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों † के आधीन रहो, बरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिये दीनता से कमर बान्धे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का साम्हना करता है, परन्तु दीनो पर अनुग्रह करता है। ६ इसलिये परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिस से वह तुम्हें उचित समय पर बढाए। ७ और अपनी सारी चिन्ता उसी पर डाल दो, क्योंकि उस को तुम्हारा ध्यान है। ८ सचेत हो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान ‡ गर्जनेवाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है, कि किस को फाड़ खाए। ९ विश्वास मे दृढ़ होकर, और यह जानकर उसका साम्हना करो, कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही

* या प्रिसबुतिर ।

* यू० वर ।

† या प्रिसबुतिरो । ‡ यू० इब्लीस ।

दुख भुगत रहे हैं। १० अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिस ने तुम्हें मसीह में अपनी अनन्त महिमा के लिये बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवन्त करेगा। ११ उसी का समराज्य युगानुयुग रहे। आमीन ॥

१२ मैं ने सिलवानस के हाथ, जिसे मैं विश्वासयोग्य भाई समझता हूँ, सक्षेप में

लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। १३ जो बाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। १४ प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो ॥

तुम सब को जो मसीह में हो शान्ति मिलती रहे ॥

पतरस की दूसरी पत्री

१ शमीन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने ने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। २ परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शान्ति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ३ क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से सम्बन्ध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिस ने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ४ जिन के द्वारा उस ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं : ताकि इन के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ५ और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ। ६ और

समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। ७ और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ८ क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। ९ और जिस में ये बातें नहीं, वह अन्धा है, और धुन्धला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। १० इस कारण हे भाइयो, अपने बुलाए जाने, और चुन लिये जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ११ बरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनन्त राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे ॥

१२ इसलिये यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है,

उस में बने रहते हो, तौभी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। १३ और मैं यह अपने लिये उचित समझता हूँ, कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूँ। १४ क्योंकि यह जानता हूँ, कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आनेवाला है। १५ इसलिये मैं ऐसा यत्न करूंगा, कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। १६ क्योंकि जब हम ने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का, और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था बरन हम ने आप ही उसके प्रताप को देखा था। १७ कि उस ने परमेश्वर पिता से आदर, और महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मैं प्रसन्न हूँ। १८ और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुना। १९ और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा और तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो, कि वह एक दीया है, जो अन्धियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पी न फटे, और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। २० पर पहिले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यद्वारी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। २१ क्योंकि कोई भी भविष्यद्वारी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा

उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे ॥

२ और जिस प्रकार उन लोगों में भूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी भूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने-वाले पाखण्ड का उद्घाटन छिप छिपकर करेंगे और उस स्वामी का जिस ने उन्हें मोल लिया है इन्कार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। २ और बहुतेरे उन की नाई लुचपन करेंगे, जिन के कारण सत्य के मार्ग की निन्दा की जाएगी। ३ और वे लोभ के लिये बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दण्ड की आज्ञा उन पर पहिले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उन का विनाश ऊंचता नहीं। ४ क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अन्धेरे कुराडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बन्दी रहें। ५ और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, बरन भक्तिहीन संसार पर महा जल-प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत आठ व्यक्तियों को बचा लिया। ६ और सदोम और अमोराह के नगरो को विनाश का ऐसा दण्ड दिया, कि उन्हें अस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे आनेवाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिये एक दृष्टान्त बनें। ७ और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल-चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। ८ (क्योंकि वह धर्मी उन के बीच में रहते हुए, और उन के अधर्म के कामों को देख देखकर, और सुन सुनकर, हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था)। ९ तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना

श्रीर अधर्मियों को न्याय के दिन तक दरड की दशा में रखना भी जानता है। १० निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते, श्रीर प्रभुता को तुच्छ जानते हैं: वे ठीठ, श्रीर हठी हैं, श्रीर ऊचे पदवालो को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ११ तौभी स्वर्गदूत जो शक्ति श्रीर सामर्थ्य में उन से बड़े हैं, प्रभु के साम्हने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। १२ पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने श्रीर नाश होने के लिये उत्पन्न हुए हैं; श्रीर जिन बातों को जानने ही नहीं, उन के विषय में श्रीरो को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सडाहट में आप ही सड जाएंगे। १३ श्रीरों का बुरा करने के बदले उन्ही का बुरा होगा: उन्हे दिन दोपहर सुख-विलास करना भला लगता है, यह कलक श्रीर दोष है: जब वे तुम्हारे साथ खाते-पीते हैं, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग-विलास करते हैं। १४ उन की आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है, श्रीर वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते: वे चंचल मनवालों को फुसला लेते हैं; उन के मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे सन्ताप के सन्तान हैं। १५ वे सीधे मार्ग को छोडकर भटक गए हैं, श्रीर बभ्रोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं; जिस ने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। १६ पर उसके अपराध के विषय में उलहना दिया गया, यहां तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बाबलेपन से रोका। १७ ये लोग अन्धे कूए, श्रीर आन्धी के उड़ाए हुए बादल हैं, उन के लिये अनन्त अन्धकार ठहराया गया है। १८ वे व्यर्थ धमराड की बातें कर करके लुचपन के कामों

के द्वारा, उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फसा लेते हैं, जो भटके हुयों में से अभी निकल ही रहे हैं। १९ वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सडाहट के दाम हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस से हार गया है, वह उसका दास बन जाता है। २० श्रीर जब वे प्रभु श्रीर उद्धारकर्त्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, श्रीर फिर उन में फसकर हार गए, तो उन की पिछली दशा पहिली से भी बुरी हो गई है। २१ क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उन के लिये इस से भला होता, कि उसे जानकर, उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, जो उन्हे सौपी गई थी। उन पर यह कहावत * ठीक बैठती है, २२ कि कुत्ता अपनी छाट की ओर श्रीर धोई हुई सूअरनी कीचड में लोटने के लिये फिर चली जाती है॥

३ हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हू, श्रीर दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हू। २ कि तुम उन बातों को, जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहिले से कही हैं श्रीर प्रभु, श्रीर उद्धारकर्त्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। ३ श्रीर यह पहिले जान लो, कि अन्तिम दिनों में हसी ठुठा करनेवाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेगें। ४ श्रीर कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप-दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है, जैसा सृष्टि के आरम्भ से था? ५ वे तो जान बूझकर यह भूल गए, कि परमेश्वर के वचन

* या इष्टान्त।

के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ६ इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया। ७ पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिये रखे हैं, कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे ॥

८ हे प्रियो, यह एक बात तुम से छिपी न रहे, कि प्रभु के यहां एक दिन हजार वर्ष के बराबर है, और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है। ९ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में ढेर नहीं करता, जैसी ढेर कितने लोग समझते हैं; पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता, कि कोई नाश हो; बरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। १० परन्तु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हडाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ११ तो जब कि ये सब वस्तुएं, इस रीति से पिघलनेवाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। १२ और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिये कैसा

यत्न करना चाहिए; जिस के कारण आकाश भाग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गए बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। १३ पर उस की प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिन में धार्मिकता बास करेगी ॥

१४ इसलिये, हे प्रियो, जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शान्ति से उसके साम्हने निष्कलक और निर्दोष ठहरो। १५ और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, तुम्हें लिखा है। १६ वैसे ही उस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिन में कितनी बातें ऐसी हैं, जिनका समझना कठिन है, और अनपठ और चंचल लोग उन के अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खीच तानकर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। १७ इसलिये हे प्रियो तुम लोग पहिले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। १८ पर हमारे प्रभु, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। १९ उसी की महिमा अब भी हो, और युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

यूहन्ना की पहिली पत्री

१ उस जीवन के वचन के विषय में और जिसे अपनी आंखों से देखा, बरन जिसे जो आदि से था, जिसे हम ने सुना, हम ने ध्यान से देखा; और हाथों से छूया।

२ (यह जीवन प्रगट हुआ, और हम ने उसे देखा, और उस की गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनन्त जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ था, और हम पर प्रगट हुआ) । ३ जो कुछ हम ने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिये कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो; और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है । ४ और ये बातें हम इसलिये लिखते हैं, कि हमारा आनन्द पूरा हो जाए ॥

५ जो समाचार हम ने उस से सुना, और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है, कि परमेश्वर ज्योति है; और उस में कुछ भी अन्धकार नहीं । ६ यदि हम कहें, कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अन्धकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते । ७ पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं; और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है । ८ यदि हम कहें, कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं; और हम में सत्य नहीं । ९ यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है । १० यदि कहें कि हम ने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है ॥

२ हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि तुम पाप न करो; और यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात् धार्मिक यीशु मसीह । २ और वही हमारे

पापों का प्रायश्चित्त है; और केवल हमारे ही नहीं, बरन सारे जगत के पापों का भी । ३ यदि हम उस की आज्ञाओं को मानेंगे, तो इस से हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं । ४ जो कोई यह कहता है, कि मैं उसे जान गया हूँ, और उस की आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है; और उस में सत्य नहीं । ५ पर जो कोई उसके वचन पर चले, उस में सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है; हमें इसी से मालूम होता है, कि हम उस में हैं । ६ जो कोई यह कहता है, कि मैं उस में बना रहता हूँ, उसे चाहिए, कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था ॥

७ हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरम्भ से तुम्हें मिली है; यह पुरानी आज्ञा वह वचन है, जिसे तुम ने सुना है । ८ फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ; और यह तो उस में और तुम में सच्ची ठहरती है; क्योंकि अन्धकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है । ९ जो कोई यह कहता है, कि मैं ज्योति में हूँ; और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अन्धकार ही में है । १० जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है, और ठोकर नहीं खा सकता । ११ पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह अन्धकार में है, और अन्धकार में चलता है; और नहीं जानता, कि कहा जाता है, क्योंकि अन्धकार ने उस की आँखें अन्धी कर दी हैं ॥

१२ हे बालको, मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए । १३ हे पितरो, मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि जो आदि से है, तुम उसे

जानते हो : हे जवानो, मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है : हे लड़को, मैं ने तुम्हें इसलिये लिखा है, कि तुम पिता को जान गए हो। १४ हे पितरो, मैं ने तुम्हें इसलिये लिखा है, कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो : हे जवानो, मैं ने तुम्हें इसलिये लिखा है, कि तुम बलवन्त हो, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है। १५ तुम न तो ससार से और न ससार में की वस्तुओं से प्रेम रखो : यदि कोई ससार से प्रेम रखता है, तो उस में पिता का प्रेम नहीं है। १६ क्योंकि जो कुछ ससार में है, अर्थात् शरीर की अभिलाषा, और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमण्ड, वह पिता की ओर से नहीं, परन्तु ससार ही की ओर से है। १७ और ससार और उस की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा ॥

१८ हे लड़को, यह अन्तिम समय है, और जैसा तुम ने सुना है, कि मसीह का विरोधी आनेवाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं; इस से हम जानते हैं, कि यह अन्तिम समय है। १९ वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं; क्योंकि यदि हम में के होते, तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिये गए कि यह प्रगत हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। २० और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ * जानते हो। २१ मैं ने तुम्हें इसलिये नहीं लिखा, कि तुम सत्य को नहीं

* या तुम सब के सब जानते हो।

जानते, पर इसलिये, कि उसे जानते हो, और इसलिये कि कोई झूठ, सत्य की ओर से नहीं। २२ झूठा कौन है? केवल वह, जो यीशु के मसीह होने से इन्कार करता है; और मसीह का विरोधी बही है, जो पिता का और पुत्र का इन्कार करता है। २३ जो कोई पुत्र का इन्कार करता है उसके पास पिता भी नहीं : जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। २४ जो कुछ तुम ने आरम्भ से सुना है वही तुम में बना रहे : जो तुम ने आरम्भ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में, और पिता में बने रहोगे। २५ और जिस की उम ने हम से प्रतिज्ञा की वह अनन्त जीवन है। २६ मैं ने ये बातें तुम्हें उन के विषय में लिखी हैं, जो तुम्हें भरमाते हैं। २७ और तुम्हारा वह अभिषेक, जो उस की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है; और तुम्हें इस का प्रयोजन नहीं, कि कोई तुम्हें सिखाए, बरन जैसे वह अभिषेक जो उस की ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, और झूठा नहीं. और जैसा उस ने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उस में बने रहते हो। २८ निदान, हे बालको, उस में बने रहो; कि जब वह प्रगत हो, तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके साम्हने लज्जित न हों। २९ यदि तुम जानते हो, कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो, कि जो कोई धर्म का काम करता है, वह उस से जन्मा है ॥

३ देखो पिता ने हम से कैसा प्रेम किया है, कि हम परमेश्वर की सन्तान कहलाएं, और हम हैं भी : इस कारण ससार हमें नहीं जानता, क्योंकि उस ने उसे

भी नहीं जाना। २ हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की सन्तान हैं, और अब तक यह प्रगट नहीं हुआ, कि हम क्या कुछ होंगे। इनना जानते हैं, कि जब वह प्रगट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उस को वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ३ और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, जैसा वह पवित्र है। ४ जो कोई पाप करता है, वह व्यवस्था का विरोध करता है; और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ५ और तुम जानते हो, कि वह इसलिये प्रगट हुआ, कि पापों को हर ले जाए; और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ६ जो कोई उस में बना रहता है, वह पाप नहीं करता: जो कोई पाप करता है, उस ने न तो उसे देखा है, और न उस को जाना है। ७ हे बालको, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है, वही उस की नाई धर्मी है। ८ जो कोई पाप करता है, वह शैतान * की ओर से है, क्योंकि शैतान आरम्भ ही से पाप करता आया है: परमेश्वर का पुत्र इसलिये प्रगट हुआ, कि शैतान के कामों को नाश करे। ९ जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता; क्योंकि उसका बीज उस में बना रहता है: और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। १० इसी से परमेश्वर की सन्तान, और शैतान की सन्तान जाने जाते हैं; जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, और न वह, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ११ क्योंकि जो समाचार तुम ने आरम्भ से सुना, वह यह है, कि हम एक

* यू० इवलीस।

दूसरे से प्रेम रखें। १२ और कैन के समान न बनें, जो उस दुष्ट से था, और जिस ने अपने भाई को घात किया: और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम धर्म के थे।।

१३ हे भाइयो, यदि ससार तुम से बैर करता है तो अचम्भा न करना। १४ हम जानते हैं, कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं; 'क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं': जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु की दशा में रहता है। १५ जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह हत्यारा है; और तुम जानते हो, कि किसी हत्यारे में अनन्त जीवन नहीं रहता। १६ हम ने प्रेम इसी से जाना, कि उस ने हमारे लिये अपने प्राण दे दिए; और हमें भी भाइयो के लिये प्राण देना चाहिए। १७ पर जिस किसी के पास ससार की सपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उस में परमेश्वर का प्रेम क्योकर बना रह सकता है? १८ हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। १९ इसी से हम जानेगे, कि हम सत्य के हैं; और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके साम्हने अपने अपने मन को ढाड़स दे सकेंगे। २० क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है; और सब कुछ जानता है। २१ हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के साम्हने हियाव होता है। २२ और जो कुछ हम मांगते हैं, वह हमें उस से मिलता है; क्योंकि हम उस की आज्ञाओं को मानते हैं; और जो उसे माता है वही करते हैं। २३ और

उस की आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उस ने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। २४ और जो उस की आज्ञाओं को मानता है, वह इस में; और यह उस में बना रहता है: और इसी से, अर्थात् उस आत्मा से जो उस ने हमें दिया है, हम जानते हैं, कि वह हम में बना रहता है ॥

४ हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो: बरन आत्माओं को परखो, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं; क्योंकि बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। २ परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, कि जो कोई आत्मा मान लेती है, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। ३ और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं; और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है; जिस की चर्चा तुम सुन चुके हो, कि वह आनेवाला है: और अब भी जगत में है। ४ हे बालको, तुम परमेश्वर के हो: और तुम ने उन पर जय पाई है; क्योंकि जो तुम में है, वह उस से जो संसार में है, बड़ा है। ५ वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं; और संसार उन की सुनता है। ६ हम परमेश्वर के हैं जो परमेश्वर को जानता है, वह हमारी सुनता है; जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता; इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं ॥

७ हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें; क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है: और जो

कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है; और परमेश्वर को जानता है। ८ जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ९ जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, वह इस से प्रगट हुआ, कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। १० प्रेम इस में नहीं, कि हम ने परमेश्वर से प्रेम किया; पर इस में है, कि उस ने हम से प्रेम किया; और हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिये अपने पुत्र को भेजा। ११ हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया, तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। १२ परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है; और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। १३ इसी से हम जानते हैं, कि हम उस में बने रहते हैं, और वह हम में, क्योंकि उस ने अपने आत्मा में से हमें दिया है। १४ और हम ने देख भी लिया और गवाही देते हैं, कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। १५ जो कोई यह मान लेता है, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उस में बना रहता है, और वह परमेश्वर में। १६ और जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, उस को हम जान गए, और हमें उस की प्रतीति है; परमेश्वर प्रेम है: और जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है; और परमेश्वर उस में बना रहता है। १७ इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, कि हमें न्याय के दिन हियाब हो; क्योंकि जैसा वह है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। १८ प्रेम में भय नहीं होता, बरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि

भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। १६ हम इसलिये प्रेम करते हैं, कि पहिले उस ने हम से प्रेम किया। २० यदि कोई कहे, कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ; और अपने भाई से बैर रखे; तो वह झूठा है: क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उस ने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उस ने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। २१ और उस से हमें यह आज्ञा मिली है, कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे ॥

५ जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करनेवाले से प्रेम रखता है, वह उस से भी प्रेम रखता है, जो उस से उत्पन्न हुआ है। २ जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और उस की आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं, कि परमेश्वर की सन्तानों से प्रेम रखते हैं। ३ और परमेश्वर का प्रेम यह है, कि हम उस की आज्ञाओं को मानें, और उस की आज्ञाएँ कठिन नहीं। ४ क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिस से संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ५ संसार पर जय पानेवाला कौन है? केवल वह जिस का यह विश्वास है, कि यीशु, परमेश्वर का पुत्र है। ६ यही है वह, जो पानी और लोह के द्वारा आया था; अर्थात् यीशु मसीह: वह न केवल पानी के द्वारा, बरन पानी और लोह दोनों के द्वारा * आया था। ७ और जो गवाही देता है, वह आत्मा

है; क्योंकि आत्मा सत्य है। ८ और गवाही देनेवाले तीन हैं; आत्मा, और पानी, और लोह; और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। ९ जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उस से बढ़कर है; और परमेश्वर की गवाही यह है, कि उस ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। १० जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है; जिस ने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, उस ने उसे झूठा ठहराया; क्योंकि उस ने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। ११ और वह गवाही यह है, कि परमेश्वर ने हमें अनन्त जीवन दिया है: और यह जीवन उसके पुत्र में है। १२ जिस के पास पुत्र है, उसके पास जीवन है; और जिस के पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है ॥

१३ मैं ने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिये लिखा है, कि तुम जानो, कि अनन्त जीवन तुम्हारा है। १४ और हमें उसके साम्हने जो हियाव होता है, वह यह है; कि यदि हम उस की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। १५ और जब हम जानते हैं, कि जो कुछ हम मागते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं, कि जो कुछ हम ने उस से मांगा, वह पाया है। १६ यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, जिस का फल मृत्यु न हो, तो बिनती करे, और परमेश्वर, उसे, उन के लिये, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिस का फल मृत्यु न हो, जीवन देगा: पाप ऐसा भी होता है, जिस का फल मृत्यु है: इस के

* सू० में।

विषय में मैं बिनती करने के लिये नहीं कहता। १७ सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परन्तु ऐसा पाप भी है, जिस का फल मृत्यु नहीं।

१८ हम जानते हैं, कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं करता; पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचाए रखता है: और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। १९ हम जानते हैं,

कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पडा है। २० और यह भी जानते हैं, कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उस ने हमें समझ दी है, कि हम उस सच्चे को पहचानें, और हम उस में जो सत्य है, अर्थात् उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं: सच्चा परमेश्वर और अनन्त जीवन यही है। २१ हे बालको, अपने आप को मूरतो से बचाए रखो।

यूहन्ना की दूसरी पत्री

१ मुझ प्राचीन * की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लडकेबालों के नाम जिन से मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जो हम में स्थिर रहती है, और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। २ और केवल मैं ही नहीं, बरन वह सब भी प्रेम रखते हैं, जो सच्चाई को जानते हैं।

३ परमेश्वर पिता, और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, और दया, और शान्ति, सत्य, और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे।

४ मैं बहुत आनन्दित हुआ, कि मैं ने तेरे कितने लडके-बालो को उस आज्ञा के अनुसार, जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। ५ अब हे श्रीमती, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरम्भ से हमारे पास है, लिखता हूँ; और तुझ से बिनती करता हूँ, कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ६ और प्रेम यह है,

कि हम उस की आज्ञाओं के अनुसार चलें: यह वही आज्ञा है, जो तुम ने आरम्भ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। ७ क्योंकि बहुत से ऐसे भ्रमाने-वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं मानते, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया: भ्रमानेवाला और मसीह का विरोधी यही है। ८ अपने विषय में चौकस रहो; कि जो परिश्रम हम ने किया है, उस को तुम न बिगाड़ो: बरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। ९ जो कोई आगे बढ जाता है, और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं: जो कोई उस की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, और पुत्र भी। १० यदि कोई तुम्हारे पास आए, और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो, और न नमस्कार करो। ११ क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उस के बुरे कामों में साझी होता है।

* या मिस्रुतिर।

१२ मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी हैं, पर कागज और सियाही से लिखना नहीं चाहता; पर आशा है, कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और सम्मुख होकर बातचीत

करूंगा: जिस से तुम्हारा * आनन्द पूरा हो। १३ तेरी चुनी हुई बहिन के लड़के-बाले तुम्हें नमस्कार करते हैं।

* या हमारा।

यूहन्ना की तीसरी पत्रि

१ मुझ प्राचीन * की ओर से उस प्रिय ग्यूस के नाम, जिस से मैं सच्चा † प्रेम रखता हूँ।

२ हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है; कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, और भला चगा रहे। ३ क्योंकि जब भाइयो ने आकर, तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनन्दित हुआ। ४ मुझे इस से बढ़कर और कोई आनन्द नहीं, कि मैं मुनू, कि मेरे लड़के-बाले सत्य पर चलते हैं।

५ हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयो के साथ करता है, जो परदेशी भी हैं, उसे विश्वासी की नाई करता है। ६ उन्हीं ने मण्डली के साम्हने तेरे प्रेम की गवाही दी थी: यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिये उचित है तो अच्छा करेगा। ७ क्योंकि वे उस नाम के लिये निकले हैं, और अन्य-जातियों से कुछ नहीं लेते। ८ इसलिये ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिस से

हम भी सत्य के पक्ष में उन के सहकर्मी हों।

९ मैं ने मण्डली को कुछ लिखा था; पर दियुत्रिफेस जो उन में बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। १० जो जब मैं आऊंगा, तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है; और इस पर भी सन्तोष न करके आप ही भाइयो को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं, मना करता है: और मण्डली से निकाल देता है। ११ हे प्रिय, बुराई के नहीं, पर भलाई के अनुयायी हो, जो भलाई करता है, वह परमेश्वर की ओर से है; पर जो बुराई करता है, उस ने परमेश्वर को नहीं देखा। १२ देमेत्रियुस के विषय में सब ने बरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी: और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है, कि हमारी गवाही सच्ची है।

१३ मुझे तुम्हें बहुत कुछ लिखना तो था; पर सियाही और कलम से लिखना नहीं चाहता। १४ पर मुझे आशा है कि तुम्हें से शौघ्र गेंट करूंगा: तब हम आम्हने

* या भिसयुत्रि।

† या सत्य में प्रेम।

साम्मूहने बातचीत करेंगे : तुम्हें शान्ति मिलती रहे। यहां के मित्र तुम्हें नमस्कार करते

हे : बहा के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना ॥

यहूदा की पत्री

१ यहूदा की और से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुएों के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिये सुरक्षित है ॥

२ दया और शान्ति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे ॥

३ हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यन्त परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिस में हम सब सहभागी हैं; तो मैं ने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिये पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ४ क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिन के इस दरुड का वर्णन पुराने समय में पहिले ही से लिखा गया था : ये भक्तिहीन हैं, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इन्कार करते हैं ॥

५ पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तौभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ, कि प्रभु ने एक कुल को मित्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लानेवालों को नाश

कर दिया। ६ फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा बरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उस ने उन को भी उस भीषण दिन के न्याय के लिये अन्धकार में जो सदा काल के लिये है बन्धनों में रखा है। ७ जिस रीति से सदोम और अमोरा और उन के आस पास के नगर, जो इन की नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे आग के अनन्त दरुड में पड़कर दृष्टान्त ठहरे हैं। ८ उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं; और ऊंचे पदवालों को बुरा भला कहते हैं। ९ परन्तु प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल ने, जब शैतान * से मूसा की लोथ के विषय में वाद-विवाद करता था, तो उस को बुरा भला कहके दोष लगाने का साहस न किया; पर यह कहा, कि प्रभु तुम्हें डाटे। १० पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, उन को बुरा भला कहते हैं; पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उन में अपने आप को नाश करते हैं। ११ उन पर हाय!

* बू० इब्लीस।

कि वे कैन की सी चाल चले, और मजदूरी के लिये बिलाम की नाई अष्ट हो गए हैं: और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। १२ ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते-पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं, और बेघडक अपना ही पेट भरनेवाले रखवाले हैं; वे निर्जल बादल हैं, जिन्हें हवा उडा ले जाती है; पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, जो दो बार मर चुके हैं; और जड़ से उखड़ गए हैं। १३ ये समुद्र के प्रचण्ड हिलकोरे हैं, जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं: ये डांवाडोल तारे हैं, जिन के लिये सदा काल तक घोर अन्धकार रखा गया है। १४ और हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, इन के विषय में यह भविष्यद्वाणी की, कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। १५ कि सब का न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उन के अभक्ति के सब कामों के विषय में, जो उन्होंने ने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। १६ ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ानेवाले, और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलनेवाले हैं; और अपने मुंह से घमण्ड की बातें बोलते हैं; और वे लाभ के लिये मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं ॥

१७ पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो; जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहिले कह चुके हैं। १८ वे तुम से कहा करते थे, कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करनेवाले होंगे, जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। १९ ये तो वे हैं, जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, जिन में आत्मा नहीं। २० पर हे प्रियो, तुम अपने प्रति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। २१ अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो; और अनन्त जीवन के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। २२ और उन पर जो शंका में है दया करो। २३ और बहुतों को आग में से ऋपटकर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो; बरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है ॥

२४ अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के साम्हने मगन और निदोष करके खड़ा कर सकता है। २५ उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, और गौरव, और पराक्रम, और अधिकार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन ॥

यूहन्ना का प्रकाशितवाक्य

१ यीशु मसीह का प्रकाशितवाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिये दिया, कि अपने दासों को वे बातें, जिन का शीघ्र होना अवश्य है, दिखाए: और उस ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। २ जिस ने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात् जो कुछ उस ने देखा था उस की गवाही दी। ३ वन्य है वह जो इस भविष्यद्वाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इस में लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है।

४ यूहन्ना की ओर से आसिया की सात कलीसियाओं के नाम: उस की ओर से जो है, और जो था, और जो आनेवाला है; और उन सात आत्माओं की ओर से, जो उसके सिंहासन के साम्हने हैं। ५ और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वासयोग्य साक्षी और भरे हुएओं में से जी उठनेवालों में पहिलीठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे: जो हम से प्रेम रखता है, और जिस ने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ६ और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिये याजक भी बना दिया; उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। ७ देखो, वह बादलों के साथ आनेवाला है; और हर एक आँख उसे देखेगी, बरन जिन्होंने उसे बेधा था, वे भी

उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हं। आमीन।

८ प्रभु परमेश्वर वह जो है, और जो था, और जो आनेवाला है; जो सर्वशक्तिमान है: यह कहता है, कि मैं ही अल्फा और ओमिगा हूँ।

९ मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, और यीशु के क्लेश, और राज्य, और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन, और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। १० कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। ११ कि जो कुछ तू देखता है, उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात् इफिसुस और स्मुरना, और पिरगमुन, और थूआतीरा, और सरदीस, और फिलदिलफिया, और लौदीकिया में। १२ और मैं ने उसे * जो मुझ से बोल रहा था; देखने के लिये अपना मुंह फेरा; और पीछे घूमकर मैं ने सोने की सात दीवटें देखी। १३ और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहिने, और छाती पर सुनहला पटुका बान्धे हुए था। १४ उसके सिर और बाल श्वेत ऊन बरन पाले के से उज्ज्वल थे, और उस की आँखें आग की ज्वाला की नाई थी। १५ और

* यू० उस शब्द को।

उसके पाँच उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों; और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। १६ और वह अपने दहिने हाथ में सात तारे लिए हुए था : और उसके मुख से चोखी दोषारी तलवार निकलती थी; और उसका मुह ऐसा प्रज्वलित था, जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। १७ जब मैं ने उसे देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उस ने मुझ पर अपना दहिना हाथ रखकर यह कहा, कि मत डर; मैं प्रथम और अन्तिम और जीवता हूँ। १८ मैं मर गया था, और अब देख; मैं युगानुयुग जीवता हूँ; और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। १९ इसलिये जो बातें तू ने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं; और जो इस के बाद होनेवाली हैं, उन सब को लिख ले। २० अर्थात् उन सात तारों का भेद जिन्हें तू ने मेरे दहिने हाथ में देखा था, और उन सात सोने की दीवटों का भेद : वे सात तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे सात दीवट सात कलीसियाएँ हैं ॥

२ इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जो सातों तारे अपने दहिने हाथ में लिए हुए हैं, और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि। २ मैं तेरे काम, और परिश्रम, और तेरा धीरज जानता हूँ; और यह भी, कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता; और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और हैं नहीं, उन्हें तू ने परखकर भूठा पाया। ३ और तू धीरज

धरता है, और मेरे नाम के लिये दुख उठाते उठाते बका नहीं। ४ पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू ने अपना पहिला सा प्रेम छोड़ दिया है। ५ सो चेत कर, कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहिले के समान काम कर; और यदि तू मन न फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ६ पर हां तुझ में यह बात तो है, कि तू नीकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिन से मैं भी घृणा करता हूँ। ७ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है : जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा ॥

८ और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि, जो प्रथम और अन्तिम है; जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि। ९ मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ; (परन्तु तू धनी है); और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उन की निन्दा को भी जानता हूँ। १० जो दुख तुझ को भेलने होंगे, उन से मत डर : क्योंकि देखो, शैतान * तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ; और तुम्हें दस दिन तक क्लेश उठाना होगा : प्राण देने तक बिश्वासी रह; तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ११ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं

* यू० ब्वलीस।

से क्या कहता है : जो जय पाए, उस को दूसरी मृत्यु से हानि न पहुँचेगी ॥

१२ और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जिस के पास दोषारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है, कि । १३ मे यह तो जानता हूँ, कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है; और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों मैं भी पीछे नहीं हटा जिन मे मेरा विश्वासयोग्य साक्षी अन्तिपास, तुम मे उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है । १४ पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिस ने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया, कि वे मूरतों के बलिदान खाएँ, और व्यभिचार करें । १५ वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं, जो नीकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं । १६ सो मन फिरा, नहीं तो मे तेरे पास शीघ्र ही आकर, अपने मुख की तलवार से उन के साथ लड़गा । १७ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है; जो जय पाए, उस को मैं गुप्त मन्त्रा में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा; और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने-वाले के सिवाय और कोई न जानेगा ॥

१८ और थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

परमेश्वर का पुत्र जिस की आंखें आग की ज्वाला की नाईं, और जिस के

पाँव उत्तम पीतल के समान हैं, यह कहता है, कि । १९ मैं तेरे कामों, और प्रेम, और विश्वास, और सेवा, और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहिलों से बढ़कर हैं । २० पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, और मूरतों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है । २१ मैं ने उस को मन फिराने के लिये श्वसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती । २२ देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ; और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा । २३ और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा; और तब सब कलीसियाएँ जान लेगी कि हृदय और मन का परखनेवाला मैं ही हूँ : और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा । २४ पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ, कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा । २५ पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उस को मेरे आने तक थामे रहो । २६ जो जय पाए, और मेरे कामों के अनुसार अन्त तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा । २७ और वह लोहे का राजदण्ड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के

मिट्टी के बरतन चकनाचूर हो जाते हैं : जैसे कि मैं ने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। २८ और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। २९ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ॥

३ और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जिस के पास परमेश्वर की सात आत्माएं और सात तारे हैं, यह कहता है, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कि तू जीवता तो कहलाता है, पर, है मरा हुआ। २ जागृत रह, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर; क्योंकि मैं ने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ३ सो चेत कर, कि तू ने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उस मे बना रह, और मन फिरा: और यदि तू जागृत न रहेगा, तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा, कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ४ पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने ने अपने अपने वस्त्र भ्रष्ट नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहिने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। ५ जो जय पाए, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहिनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के साम्हने मान लूंगा। ६ जिस के कान हो, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ॥

७ और फिलेदिलफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुजी रखता है, जिस के खोले हुए को कोई बन्द नहीं कर सकता और बन्द किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, कि। ८ मैं तेरे कामों को जानता हूँ, (देख, मैं ने तेरे साम्हने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बन्द नहीं कर सकता) कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, और तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इन्कार नहीं किया। ९ देख, मैं शैतान के उन सभावालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर हैं नहीं, बरन झूठ बोलते हैं—देख, मैं ऐसा करूंगा, कि वे आकर तेरे चरणों में दगडवत करेंगे, और यह जान लेंगे, कि मैं ने तुझ से प्रेम रखा है। १० तू ने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिये मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहनेवालों के परखने के लिये सारे संसार पर आनेवाला है। ११ मैं शीघ्र ही आनेवाला हू; जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। १२ जो जय पाए, उसे मैं अपने परमेश्वर के मन्दिर में एक खंभा बनाऊंगा; और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा; और मैं अपने परमेश्वर का नाम, और अपने परमेश्वर के नगर, अर्थात् नये यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरनेवाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। १३ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ॥

१४ और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जो आमीन, और विश्वासयोग्य, और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। १५ कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म: भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। १६ सो इसलिये कि तू गुनगुना है, और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुह मे से उगलने पर हूँ। १७ तू जो कहता है, कि मैं धनी हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं; और यह नहीं जानता, कि तू भ्रभागा और तुच्छ और कगाल और अन्धा, और नञ्जा है। १८ इसी लिये मैं तुझे सम्मति देता हूँ, कि आग मे ताया हुआ सोना मुझ से मोल ले, कि धनी हो जाए; और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहिनकर तुझे अपने नङ्गपन की लज्जा न हो; और अपनी आखो में लगाने के लिये सुर्मा ले, कि तू देखने लगे। १९ मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ, उन सब को उलाहना और ताडना देता हूँ, इसलिये सरगर्म हो, और मन फिरा। २० देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ; यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ। २१ जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। २२ जिस के कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओ से क्या कहता है ॥

४ इन बातों के बाद जो मैं ने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है; और जिस को मैं ने पहिले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, कि यहां ऊपर आ जा: और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा, जिन का इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। २ और तुरन्त मैं आत्मा में आ गया; और क्या देखता हूँ, कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ३ और जो उस पर बैठा है, वह यशब और मानिक सा दिखाई पडता है, और उस सिंहासन के चारो ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। ४ और उस सिंहासन के चारो ओर चौबीस सिंहासन हैं; और इन सिंहासनो पर चौबीस प्राचीन श्वेत वस्त्र पहिने हुए बैठे हैं, और उन के सिरो पर सोने के मुकुट हैं। ५ और उस सिंहासन में से बिजलिया और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के साम्हने आग के सात दीपक जल रहे हैं, ये परमेश्वर की सात आत्माए हैं। ६ और उस सिंहासन के साम्हने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिन के आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ७ पहिला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ८ और चारों प्राणियों के छ: छ: पंख हैं, और चारों ओर, और भीतर आंखें ही आंखें हैं; और वे रात दिन बिना

विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, कि पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, और जो है, और जो आनेवाला है। ६ और जब वे प्राणी उस की जो सिंहासन पर बैठा है; और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। १० तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर बैठनेवाले के साम्हने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे; और अपने अपने मुकुट सिंहासन के साम्हने यह कहते हुए डाल देंगे। ११ कि हे हमारे प्रभु, और परमेश्वर, तू ही महिमा, और आदर, और सामर्थ्य के योग्य है; क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी, और सृजी गईं ॥

५ और जो सिंहासन पर बैठा था, मैं ने उसके दहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह सात मुहर लगाकर बन्द की गई थी। २ फिर मैं ने एक बलवन्त स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उस की मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? ३ और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ४ और मैं फूट फूटकर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने, या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। ५ तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा, मत रो; देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक

को खोलने और उस की सातों मुहरें तोड़ने के लिये जयवन्त हुआ है। ६ और मैं ने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, मानो एक बघ किया हुआ मेम्ना खड़ा देखा: उसके सात सींग और सात आंखें थीं; ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ७ उस ने आकर उसके दहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। ८ और जब उस ने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेम्ने के साम्हने गिर पड़े; और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ९ और वे यह नया गीत गाने लगे, कि तू इस पुस्तक के लेने, और उस की मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तू ने बघ होकर अपने लोह से हर एक कुल, और भाषा, और लोग, और जाति में से परमेश्वर के लिये लोगों को मोल लिया है। १० और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिये एक राज्य और याजक बनाया; और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ११ और जब मैं ने देखा, तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिन की गिनती लाखों और करोड़ों की थी। १२ और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, कि बघ किया हुआ मेम्ना ही सामर्थ्य, और धन, और ज्ञान, और शक्ति, और आदर, और महिमा, और धन्यवाद के योग्य है। १३ फिर मैं ने स्वर्ग में, और पृथ्वी पर, और पृथ्वी के नीचे, और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को, और सब कुछ

को जो उन में हैं, यह कहते सुना, कि जो सिंहासन पर बैठा है, उसका, और मेम्ने का धन्यवाद, और भादर, और महिमा, और राज्य, युगानुयुग रहे। १४ और चारों प्राणियों ने भ्रामीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दण्डवत किया ॥

६ फिर मैं ने देखा, कि मेम्ने ने उन सात मुहरों में से एक को खोला; और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना, कि आ। २ और मैं ने दृष्टि की, और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है; और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे ॥

३ और जब उस ने दूसरी मुहर खोली, तो मैं ने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, कि आ। ४ फिर एक और घोड़ा निकला, जो लाल रंग का था; उसके सवार को यह अधिकार दिया गया, कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को बध करें; और उसे एक बड़ी तलवार दी गई ॥

५ और जब उस ने तीसरी मुहर खोली, तो मैं ने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, कि आ: और मैं ने दृष्टि की, और देखो, एक काला घोड़ा है; और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। ६ और मैं ने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, कि दीनार* का सेर भर गेहूं, और दीनार का तीन सेर जब, और तेल, और दाख-रस की हानि न करना ॥

७ और जब उस ने चौथी मुहर

खोली, तो मैं ने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, कि आ। ८ और मैं ने दृष्टि की, और देखो, एक पीला सा घोड़ा है; और उसके सवार का नाम मृत्यु है; और अघोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया, कि तलवार, और अकाल, और मरी, और पृथ्वी के बनपशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें ॥

९ और जब उस ने पांचवीं मुहर खोली, तो मैं ने वेदी के नीचे उन के प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, और उस गवाही के कारण जो उन्होंने ने दी थी, बध किए गए थे।

१० और उन्होंने ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा; हे स्वामी, हे पवित्र, और सत्य; तू कब तक न्याय न करेगा? और पृथ्वी के रहनेवालों से हमारे लोह का पलटा कब तक न लेगा? ११ और उन में से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उन से कहा गया, कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास, और भाई, जो तुम्हारी नाई बध होनेवाले हैं, उन की भी गिनती पूरी न हो ले ॥

१२ और जब उस ने छठवीं मुहर खोली, तो मैं ने देखा, कि एक बड़ा भुइंडोल हुआ; और सूर्य कम्मल की नाई काला, और पूरा चन्द्रमा लोह का सा हो गया। १३ और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आन्धी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। १४ और आकाश ऐसा सरक गया, जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है; और हर एक पहाड़, और टापू, अपने अपने स्थान से टल गया।

* देखो मत्ती १८ : ३८।

१५ और पृथ्वी के राजा, और प्रधान, और सरदार, और धनवान और सामर्थी लोग, और हर एक दास, और हर एक स्वतंत्र, पहाड़ों की खोहों में, और चटानों में जा छिपे। १६ और पहाड़ों, और चटानों से कहने लगे, कि हम पर गिर पड़ो; और हमें उसके मुह से जो सिंहासन पर बैठा है, और मेम्ने के प्रकोप से छिपा लो। १७ क्योंकि उन के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है ?

७ इसके बाद मैं ने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे, वे पृथ्वी की चारो हवाओं को धामे हुए थे ताकि पृथ्वी, या समुद्र, या किसी पेड़ पर, हवा न चले। २ फिर मैं ने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा; उस ने उन चारो स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा। ३ जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। ४ और जिन पर मुहर दी गई, मैं ने उन की गिनती सुनी, कि इज्राएल की सन्तानों के सब गोत्रों में से एक लाख चौआलीस हजार पर मुहर दी गई। ५ यहूदा के गोत्र में से बारह हजार पर मुहर दी गई; रूबेन के गोत्र में से बारह हजार पर; गाद के गोत्र में से बारह हजार पर। ६ आशेर के गोत्र में से बारह हजार पर; नप्ताली के गोत्र में से बारह हजार पर; मनशिशह

के गोत्र में से बारह हजार पर। ७ शमीन के गोत्र में से बारह हजार पर; लेवी के गोत्र में से बारह हजार पर; इस्साकार के गोत्र में से बारह हजार पर। ८ अबलून के गोत्र में से बारह हजार पर; यूसुफ के गोत्र में से बारह हजार पर और बिन्यामीन के गोत्र में से बारह हजार पर मुहर दी गई। ९ इस के बाद मैं ने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति, और कुल, और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहिने, और अपने हाथों में खजूर की डालिया लिए हुए सिंहासन के साम्हने और मेम्ने के साम्हने खड़ी है। १० और बड़े शब्द से पुकारकर कहती है, कि उद्धार के लिये हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेम्ने का जय-जय-कार हो। ११ और सारे स्वर्गदूत, उस सिंहासन और प्राचीनों और चारो प्राणियों के चारो ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के साम्हने मुह के बल गिर पड़े; और परमेश्वर को दण्डवत करके कहा, आमीन। १२ हमारे परमेश्वर की स्तुति, और महिमा, और ज्ञान, और धन्यवाद, और आदर, और सामर्थ्य, और शक्ति युगानुयुग बनी रहें। आमीन। १३ इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा; ये श्वेत वस्त्र पहिने हुए कौन हैं? और कहा से आए है? १४ मैं ने उस से कहा; हे स्वामी, तू ही जानता है: उस ने मुझ से कहा; ये वे हैं, जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं; इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेम्ने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। १५ इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के साम्हने हैं,

श्रीर उसके मन्दिर * में दिन रात उस की सेवा करते हैं; श्रीर जो सिंहासन पर बैठा है, वह उन के ऊपर अपना तम्बू तानेगा। १६ वे फिर भूखे श्रीर प्यासे न होंगे: श्रीर न उन पर धूप, न कोई तपन पड़ेगी। १७ क्योंकि मेम्ना जो सिंहासन के बीच में है, उन की रखवाली करेगा; श्रीर उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, श्रीर परमेश्वर उन की आँखों से सब आसू पोछ डालेगा ॥

८ श्रीर जब उस ने सातवीं मूहर खोली, तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सभाटा छा गया। २ श्रीर मैं ने उन सातों स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के साम्हने खड़े रहते हैं, देखा, श्रीर उन्हें सात तुरहिया दी गईं ॥

३ फिर एक श्रीर स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया, श्रीर वेदी के निकट खड़ा हुआ; श्रीर उस को बहुत धूप दिया गया, कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के साम्हने है चढाए। ४ श्रीर उस धूप का धुआँ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के साम्हने पहुँच गया। ५ श्रीर स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उस में वेदी की आग भरी, श्रीर पृथ्वी पर डाल दी, श्रीर गर्जन श्रीर शब्द श्रीर बिजलियाँ श्रीर भूईँडोल होने लगा ॥

६ श्रीर वे सातों स्वर्गदूत जिन के पास सात तुरहियाँ थी, फूकने को तैयार हुए ॥

७ पहिले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, श्रीर लोहू से मिले हुए भोले श्रीर आग उत्पन्न हुई, श्रीर पृथ्वी पर डाली गई;

श्रीर पृथ्वी की एक तिहाई जल गई, श्रीर पेड़ों की एक तिहाई जल गई; श्रीर सब हरी घास भी जल गई ॥

८ श्रीर दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया; श्रीर समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया। ९ श्रीर समुद्र की एक तिहाई सृजी हुई वस्तुएँ जो सजीव थीं मर गईं, श्रीर एक तिहाई जहाज नाश हो गया ॥

१० श्रीर तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, श्रीर एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था, स्वर्ग से टूटा, श्रीर नदियों की एक तिहाई पर, श्रीर पानी के सोतों पर आ पड़ा। ११ श्रीर उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है, श्रीर एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, श्रीर बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए ॥

१२ श्रीर चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, श्रीर सूर्य की एक तिहाई, श्रीर चान्द की एक तिहाई श्रीर तारों की एक तिहाई पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उन का एक तिहाई अंग अन्धेरा हो गया श्रीर दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, श्रीर वैसे ही रात में भी ॥

१३ श्रीर जब मैं ने फिर देखा, तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते श्रीर ऊँचे शब्द से यह कहते सुना, कि उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिन का फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहनेवालों पर हाय! हाय! हाय!

९ श्रीर बज पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैं ने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, श्रीर

* सू० पवित्रस्थान।

उसे अथाह कुण्ड की कुंजी दी गई। २ और उस ने अथाह कुण्ड को खोला, और कुण्ड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुण्ड के धुएं से सूर्य और वायु अन्धकारी हो गई। ३ और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलीं, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। ४ और उन से कहा गया, कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिन के माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। ५ और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर पांच महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया: और उन की पीड़ा ऐसी थी, जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। ६ उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूँढ़ेंगे, और न पाएंगे; और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उन से भागेगी। ७ और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिये तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उन के सिरों पर मानों सोने के मुकुट थे; और उन के मुह मनुष्यों के से थे। ८ और उन के बाल स्त्रियों के से, और दांत सिंहों के से थे। ९ और वे लोहे की सी फ़िलम पहिने थे, और उन के पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। १० और उन की पूछ बिच्छुओं की सी थीं, और उन में डंक थे, और उन्हें पांच महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी, वह उन की पूछों में थी। ११ अथाह कुण्ड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन, और यूनानी में अपुल्लयोन है ॥

१२ पहिली विपत्ति बीत चुकी, देखो, अब इस के बाद दो विपत्तियां और होनेवाली हैं ॥

१३ और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूँकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के साम्हने है उसके सींगों में से मैं ने ऐसा शब्द सुना। १४ मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिस के पास तुरही थी, कह रहा है कि उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फ़ुरात के पास बन्धे हुए हैं, खोल दे। १५ और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस षड़ी, और दिन, और महीने, और वर्ष के लिये मनुष्यों को एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। १६ और फौजों के सवारों की गिनती बीस करोड़ थी; मैं ने उन की गिनती सुनी। १७ और मुझे इस दर्शन में थोड़े और उन के ऐसे सवार दिखाई दिए, जिन की फ़िलम अग, और धूम्रकान्त, और गन्धक की सी थीं, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे: और उन के मुह से अग, और धुआं, और गन्धक निकलती थी। १८ इन तीनों मरियों; अर्थात् अग, और धुआं और गन्धक से जो उसके मुह से निकलती थी, मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई। १९ क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उन के मुह, और उन की पूछों में थी; इसलिये कि उन की पूछे सांपों की सी थीं, और उन पूछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। २० और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्टात्माओं की, और सोने और चान्दी, और पीतल, और पत्थर, और काठ की मूरतों की पूजा न

करें, जो न देख, न सुन, न चल सकती हैं। १२ और जो खून, और टोना, और व्यभिचार, और चोरियां, उन्हीं ने की थीं, उन से मन न फिराया ॥

१० फिर मैं ने एक और बली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर मेघधनुष था : और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे के से थे। २ और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी; उस ने अपना दहिना पांव समुद्र पर, और बायां पृथ्वी पर रखा। ३ और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता है; और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिए। ४ और जब सातो गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, और मैं ने स्वर्ग से यह शब्द सुना, कि जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख*, और मत लिख। ५ और जिस स्वर्गदूत को मैं ने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था; उस ने अपना दहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। ६ और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिस ने स्वर्ग को और जो कुछ उस में है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उस में है सृजा उसी की शपथ स्थाकर कहा, अब तो और देर न होगी †। ७ बरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ ‡ उस सुसमाचार के अनुसार

जो उस ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। ८ और जिस शब्द करनेवाले को मैं ने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा; कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। ९ और मैं ने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे; और उस ने मुझ से कहा ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। १० सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया, तो मेरा पेट कड़वा हो गया। ११ तब मुझ से यह कहा गया, कि तुझे बहुत से लोगों, और जातियों, और भाषाओं, और राजाओं पर, फिर भविष्यद्वक्ताणी करनी होगी ॥

११ और मुझे लगगी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मन्दिर और वेदी, और उस में भजन करने-वालों को नाप ले। २ और मन्दिर के बाहर का आंगन छोड़ दे; उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्यजातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को बयालीस महीने तक रौंदेंगी। ३ और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा, कि टाट ओढ़े हुए एक हजार दो सौ साठ दिन तक भविष्यद्वक्ताणी करें। ४ ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीबट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के साम्हने खड़े रहते हैं। ५ और यदि कोई उन को हानि पहुंचाना चाहता है, तो उन के मुंह से

* शून्य उन पर छाप दे।

† या समय न होगा। ‡ शून्य भेद।

भाग निकलकर उन के बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उन को हानि पहुंचाना चाहेगा, तो भ्रवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। ६ इन्हें अधिकार है, कि आकाश को बन्द करें, कि उन की भविष्यद्वाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, कि उसे लोह बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाए। ७ और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुएड में से निकलेगा, उन से लडकर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ८ और उन-की लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिसर कहलाता है, जहा उन का प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। ९ और सब लोगों, और कुलो, और भाषाओं, और जातियों में से लोग उन की लोथे साढ़े तीन दिन तक देखते रहेंगे, और उन की लोथें कन्न में रखने न देंगे। १० और पृथ्वी के रहनेवाले, उन के मरने से आनन्दित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वाक्ताओं ने पृथ्वी के रहनेवालों को सताया था। ११ और साढ़े तीन दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उन में पैठ गई; और वे अपने पावों के बल खड़े हो गए, और उन के देखनेवालों पर बड़ा भय छा गया। १२ और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, कि यहां ऊपर आओ; यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। १३ फिर उसी घड़ी एक बड़ा भुइंडोल हुआ, और नगर का

दसवां भ्रंश गिर पड़ा; और उस भुइंडोल से सात हजार मनुष्य मर गए और शेष डर गए, और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की।

१४ दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र आनेवाली है।

१५ और जब सातवें दूत ने तुरही फूकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का, और उसके मसीह का हो गया। १६ और वह युगानुयुग राज्य करेगा, और चौबीसो प्राचीन जो परमेश्वर के साम्हने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुह के बल गिरकर परमेश्वर को दण्डवत करके। १७ यह कहने लगे, कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, कि तू ने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया है। १८ और अन्य-जातियों ने क्रोध किया, और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है, कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वाक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़नेवाले नाश किए जाए।

१९ और परमेश्वर का जो मन्दिर स्वर्ग में है, वह खोला गया, और उसके मन्दिर में उस की वाचा का सन्दूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भुइंडोल हुए, और बड़े धोलें पड़े।

१२ फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य्य ओढ़े हुए थी, और चान्द उसके

पांवों तले था, और उसके सिर पर बारह तारों का मुकुट था। २ और वह गर्भवती हुई, और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीडा उसे लगी थी; और वह बच्चा जनने की पीडा में थी। ३ और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो; एक बड़ा लाल अजगर था जिस के सात सिर और दस सींग थे, और उसके सिरो पर सात राजमुकुट थे। ४ और उस की पूछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के साम्हने जो जच्चा थी, खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। ५ और वह बेटा जनी जो लोहे का दरुड लिए हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुँचा दिया गया। ६ और वह स्त्री उस जगल को भाग गई, जहा परमेश्वर की ओर से उसके लिये एक जगह तैयार की गई थी, कि वहा वह एक हजार दो सौ साठ दिन तक पाली जाए।

७ फिर स्वर्ग पर लडाई हुई, मीकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उस से लड़े। ८ परन्तु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उन के लिये फिर जगह न रही। ९ और वह बड़ा अजगर अर्थात् वही पुराना साप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमानेवाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया; और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। १० फिर मैं ने

स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, और सामर्थ्य, और राज्य, और उसके मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है; क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने-वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के साम्हने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ११ और वे मेम्ने के लोह के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण, उस पर जयवन्त हुए, और उन्हीं ने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। १२ इस कारण, हे स्वर्गों, और उन में के रहनेवालो मगन हो; हे पृथ्वी, और समुद्र, तुम पर हाय! क्योंकि शैतान* बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है; क्योंकि जानता है, कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है।

१३ और जब अजगर ने देखा, कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, सताया। १४ और उस स्त्री को बड़े उकाब के दो पंख दिए गए, कि साप के साम्हने से उड़कर जगल में उस जगह पहुँच जाए, जहा वह एक समय, और समयों, और आधे समय तक पाली जाए। १५ और साप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुह से नदी की नाई पानी बहाया, कि उसे इस नदी से बहा दे। १६ परन्तु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, और अपना मुह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुह से बहाई थी, पी लिया। १७ और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, और उसकी शेष सन्तान से जो परमेश्वर

* यू० इब्लीस।

की आज्ञाओं को मानते, और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ ॥

१३ और मैं ने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिस के दस सींग और सात सिर थे; और उसके सींगों पर दस राजमुकुट, और उसके सिरों पर निन्दा के नाम लिखे हुए थे। २ और जो पशु मैं ने देखा, वह चीते की नाई था; और उसके पाँव भालू के से, और मुह सिंह का सा था; और उस-अजगर ने अपनी सामर्थ्य, और अपना सिंहासन, और बड़ा अधिकार, उसे दे दिया। ३ और मैं ने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है; फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचभा करते हुए चले। ४ और उन्होंने ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उस ने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, कि इस पशु के समान कौन है? ५ कौन उस से लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने और निन्दा करने के लिये उसे एक मुह दिया गया, और उसे बयालीस महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ६ और उस ने परमेस्वर की निन्दा करने के लिये मुह खोला, कि उसके नाम और उसके तम्बू अर्थात् स्वर्ग के रहनेवालों की निन्दा करे। ७ और उसे यह अधिकार दिया गया, कि पवित्र लोगों से लड़े, और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल, और लोग, और

भाषा, और जाति पर अधिकार दिया गया। ८ और पृथ्वी के वे सब रहनेवाले जिन के नाम उस मेम्ने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ९ जिस के कान हों वह सुने। १० जिस को कैद में पड़ना है, वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है ॥

११ फिर मैं ने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेम्ने के से दो सींग थे; और वह अजगर की नाई बोलता था। १२ और यह उस पहिले पशु का सारा अधिकार उसके साम्हने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहनेवालों से उस पहिले पशु की जिस का प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। १३ और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहा तक कि मनुष्यों के साम्हने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। १४ और उन चिन्हों के कारण जिन्हे उस पशु के साम्हने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था; वह पृथ्वी के रहनेवालों को इस प्रकार भरमाता था, कि पृथ्वी के रहनेवालों से कहता था, कि जिस पशु के तलवार लगी थी, वह जी गया है, उस की मूरत बनाओ। १५ और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, कि पशु की मूरत बोलने लगे; और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें, उन्हें मरवा डाले। १६ और उस ने छोटे, बड़े, घनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दहिने हाथ

या उन के माथे पर एक एक छाप करा दी। १७ कि उस को छोड़ जिस पर छाप अर्थात् उस पशु का नाम, या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। १८ ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक छः सौ छियासठ है।।

१४ फिर मैं ने दृष्टि की, और देखो, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ एक लाख चौभालीस हजार जन हैं, जिन के माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। २ और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैं ने सुना; वह ऐसा था, मानो वीणा बजानेवाले वीणा बजाते हो। ३ और वे सिंहासन के साम्हने और चारो प्राणियों और प्राचीनों के साम्हने मानो, एक नया गीत गा रहे थे, और उन एक लाख चौभालीस हजार जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ४ ये वे हैं, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे हैं: ये वे ही हैं, कि जहा कही मेम्ना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं: ये तो परमेश्वर के निमित्त पहिले फल होने के लिये मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। ५ और उन के मुह से कभी भूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं।।

६ फिर मैं ने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा,

जिस के पास पृथ्वी पर के रहनेवालों की हर एक जाति, और कुल, और भाषा, और लोगों को सुनाने के लिये सनातन सुसमाचार था। ७ और उस ने बड़े शब्द से कहा; परमेश्वर से डरो; और उस की महिमा करो; क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुँचा है, और उसका अजन करो, जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए।।

८ फिर इस के बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा जिस ने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है।।

९ फिर इन के बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, कि जो कोई उस पशु और उस की मूरत की पूजा करे, और अपने माथे या अपने हाथ पर उस की छाप ले। १० तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पीएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के साम्हने, और मेम्ने के साम्हने भाग और गन्धक की पीड़ा में पड़ेगा। ११ और उन की पीड़ा का धुआ युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उस की मूरत की पूजा करते हैं, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उन को रात दिन चैन न मिलेगा। १२ पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, और यीशु पर विश्वास रखते हैं।।

१३ और मैं ने स्वर्ग से यह शब्द सुना, कि लिख; जो मुरदे प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं, आत्मा कहता है, हां क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम

पाएंगे, और उन के कार्य उन के साथ हो लेते हैं ॥

१४ और मैं ने दृष्टि की, और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिस के सिर पर सोने का मुकुट और हाथ मे चोखा हंसुआ है। १५ फिर एक और स्वर्गदूत ने मन्दिर में से निकलकर, उस से जो बादल पर बैठा था, बड़े शब्द से पुकारकर कहा, कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुँचा है, इसलिये कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। १६ सो जो बादल पर बैठा था, उस ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी की लवनी की गई ॥

१७ फिर एक और स्वर्गदूत उस मन्दिर* मे से निकला, जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। १८ फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, बेदी में से निकला, और जिस के पास चोखा हंसुआ था, उस से ऊँचे शब्द से कहा; अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उस की दाख पक चुकी है। १९ और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला, और पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर, अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुरण्ड में डाल दिया। २० और नगर के बाहर उस रस के कुरण्ड में दाख रीदे गए, और रस के कुरण्ड में से इतना लोह निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुँचा, और सौ कोस तक बह गया ॥

* य० पवित्रस्थान।

१५

फिर मैं ने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात् सात स्वर्गदूत जिन के पास सातों पिछली विपत्तिया थी, क्योंकि उन के हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अन्त है ॥

२ और मैं ने आग से मिले हुए काच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर, और उस की मूरत पर, और उसके नाम के अक पर जयवन्त हुए थे, उन्हें उस काच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। ३ और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत, और मेम्ने का गीत गा गाकर कहते थे, कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े, और अद्भुत हैं, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची हैं। ४ हे प्रभु, कौन तुझ से न डरेगा ? और तेरे नाम की महिमा न करेगा ? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियाँ आकर तेरे साम्हने दण्डवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए हैं ॥

५ और इस के बाद मैं ने देखा, कि स्वर्ग में साक्षी के तम्बू का मन्दिर खोला गया। ६ और वे सातों स्वर्गदूत जिन के पास सातों विपत्तिया थी, शुद्ध और चमकती हुईं मरिण पहिने हुए छाती पर सुनहले पटुके बान्धे हुए मन्दिर से निकले। ७ और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर के, जो युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए सात सोने के कटोरे दिए। ८ और परमेश्वर की महिमा, और उस की सामर्थ्य के कारण मन्दिर धुए से भर गया और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की

सातो विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मन्दिर में न जा सका ॥

१६ फिर मैं ने मन्दिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातो स्वर्गदूतो से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातो कटोरो को पृथ्वी पर उंडेल दो ॥

२ सो पहिले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, और जो उस की भूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला ॥

३ और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लोह बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया ॥

४ और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लोह बन गए ॥ ५ और मैं ने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, कि हे पवित्र, जो है, और जो था, तू न्यायी है; और तू ने यह न्याय किया।

६ क्योंकि उन्हो ने पवित्र लोगो, और भविष्यद्वक्ताओं का लोह बहाया था, और तू ने उन्हे लोह पिलाया; क्योंकि वे इसी योग्य है ॥ ७ फिर मैं ने वेदी से यह शब्द सुना, कि हा हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निराय ठीक और सच्चे है ॥

८ और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को भाग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। ९ और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की

जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निन्दा की और उस की महिमा करने के लिये मन न फिराया ॥

१० और पाचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अन्धेरा छा गया; और लोग पीडा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। ११ और अपनी पीडाओं को फोड़ो के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निन्दा की; और अपने अपने कामो से मन न फिराया ॥

१२ और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिये मार्ग तैयार हो जाए। १३ और मैं ने उस अजगर के मुंह से, और उस पशु के मुंह से और उस मूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से तीन भबुद्ध आत्माओं को मंडको के रूप में निकलते देखा। १४ ये चिन्ह दिखानेवाली दुष्टात्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिये जाती है, कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बडे दिन की लड़ाई के लिये इकट्ठा करें। १५ देख, मैं चोर की नाई आता हूँ; अन्य वह है, जो जागता रहता है, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नज्जा न फिरे, और लोग उसका नज्जापन न देखें। १६ और उन्हों ने उन को उस जगह इकट्ठा किया, जो इब्रानी में हर-मगिदोन कहलाता है ॥

१७ और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, और मन्दिर* के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, कि 'हो चुका'। १८ फिर बिजलिया, और

* यू० पवित्रस्थान।

शब्द, और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भुइंडोल हुआ, कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भुइंडोल कभी न हुआ था। १६ और उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ, कि वह अपने क्रोध की जल-जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। २० और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता न लगा। २१ और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े झोले गिरे, और इसलिये कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगो ने झोलो की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निन्दा की ॥

१७ और जिन सात स्वर्गदूतों के पास वे सात कटोरे थे, उन में से एक ने आकर मुझ से यह कहा कि इधर आ; मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या का दण्ड दिखाऊ, जो बहुत से पानियों पर बैठी है। २ जिस के साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहनेवाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। ३ तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैं ने किरमिजी रंग के पशु पर जो निन्दा के नामों से छिपा हुआ था और जिस के सात सिर और दस सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ४ यह स्त्री बैजनी, और किरमिजी, कपड़े पहिने थी, और सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार

की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ५ और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, "भेद बड़ा बाबुल पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता।" ६ और मैं ने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोहू और यीशु के गवाहों के लोहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। ७ उस स्वर्गदूत ने मुझ से कहा; तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री, और उस पशु का, जिस पर वह सवार है, और जिस के सात सिर और दस सींग हैं, तुम्हें भेद बताया हू। ८ जो पशु तू ने देखा है, यह पहिले तो था, पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ना, और पृथ्वी के रहनेवाले जिन के नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर, कि पहिले था, और अब नहीं; और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ९ उस बुद्धि के लिये जिस में ज्ञान है यही अवसर है, वे सातों सिर सात पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री बैठी है। १० और वे सात राजा भी हैं, पांच तो हो चुके हैं, और एक अभी है; और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा, तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ११ और जो पशु पहिले था, और अब नहीं, वह आप आठवा है; और उन सातों में से उत्पन्न हुआ, और विनाश में पड़ेगा। १२ और जो दस सींग तू ने देखे वे दस राजा हैं; जिन्होंने ने अब तक राज्य नहीं पाया; पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिये राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। १३ ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी

अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। १४ ये मेम्बे से लड़ेंगे, और मेम्ना उन पर जय पाएगा; क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, और राजाओं का राजा है; और जो बुलाए हुए, और चुने हुए, और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। १५ फिर उस ने मुझ से कहा, कि जो पानी तू ने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, और भीड़ और जातिया, और भाषा हैं। १६ और जो दस सीग तू ने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बँर रखेंगे, और उसे लाचार और नङ्गी कर देंगे; और उसका मास खा जाएंगे, और उसे आग में जला देंगे। १७ क्योंकि परमेश्वर उन के मन में यह डालेगा, कि वे उस की मनसा पूरी करे, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हों, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। १८ और वह स्त्री, जिसे तू ने देखा है वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है ॥

१८ इस के बाद मैं ने एक स्वर्ग-दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिस का बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। २ उस ने ऊचे शब्द से पुकारकर कहा, कि गिर गया बड़ा बाबुल गिर गया है और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध और धृष्टित पत्नी का अड्डा हो गया। ३ क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातिया गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है; और पृथ्वी के

व्योपारी उसके सुख-विलास की बहुतायत के कारण घनवान हुए हैं ॥

४ फिर मैं ने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना, कि हे मेरे लोगों, उस में से निकल आओ; कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उस की बिपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। ५ क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं, और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। ६ जैसा उस ने तुम्हें दिया है, वैसा ही उस को भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दोगुणा बदला दो, जिस कटोरे में उस ने भर दिया था उसी में उसके लिये दोगुणा भर दो। ७ जितनी उस ने अपनी बड़ाई की और सुख-विलास किया; उतनी उस को पीड़ा, और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं; और शोक मे कभी न पड़ूँगी। ८ इस कारण एक ही दिन में उस पर बिपत्तियाँ आ पड़ेंगी, अर्थात् मृत्यु, और शोक, और अकाल; और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। ९ और पृथ्वी के राजा जिन्होंने ने उसके साथ व्यभिचार, और सुख-विलास किया, जब उसके जलने का धुआँ देखेंगे, तो उसके लिये रोएंगे, और छाती पीटेंगे। १० और उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर, बाबुल! हे दृढ़ नगर, हाय! हाय! बड़ी ही भर में तुम्हें दण्ड मिल गया है। ११ और पृथ्वी के व्योपारी उसके लिये रोएंगे और कल्पेंगे क्योंकि अब कोई उन का माल माल न लेगा। १२ अर्थात् सोना, चान्दी,

रत्न, मोती, और मलमल, और बैजनी, और रेशमी, और किरमिजी कपड़े, और हर प्रकार का सुगन्धित काठ, और हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं, और बहुमोल काठ, और पीतल, और लोहे, और संगमरमर के सब भांति के पात्र । १३ और दारचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूँ, गाय, बैल, भेड़, बकरिया, घोड़े, रथ, और दास, और मनुष्यों के प्राण । १४ अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे; और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझ से दूर हुई हैं, और वे फिर कदापि न मिलेंगी । १५ इन वस्तुओं के व्योपारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे, और रोते और कलपते हुए कहेंगे । १६ हाय ! हाय ! यह बड़ा नगर जो मलमल, और बैजनी, और किरमिजी कपड़े पहिने था, और सोने, और रत्नों, और मोतियों से सजा था, १७ घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया : और हर एक माफ़ी, और जलयात्री, और मल्लाह, और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए । १८ और उसके जलने का धुआ देखते हुए पुकारकर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है ? १९ और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे, और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहेंगे, कि हाय ! हाय ! यह बड़ा नगर जिस की सम्पत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाजवाले धनी हो गए थे घड़ी ही भर में उजड़ गया । २० हे स्वर्ग, और हे पवित्र लोगो, और प्रेरितो, और भविष्यद्वक्ताओ, उस पर आनन्द करो,

क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उस से तुम्हारा पलटा लिया है ! !

२१ फिर एक बलबन्त स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया, और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, और फिर कभी उसका पता न मिलेगा । २२ और दीणा बजानेवालों, और बजिनियों, और बंसी बजानेवालों, और तुरही फूकनेवालो का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा; और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा । २३ और दीया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा; क्योंकि तेरे व्योपारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातिया भरमाई गई थी । २४ और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों, और पृथ्वी पर सब घात किए हुएों का लोह उसी में पाया गया ।।

२६ इस के बाद मैं ने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को उल्लेख शब्द से यह कहते सुना, कि हल्लिलूय्याह उठार, और महिमा, और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है । २ क्योंकि उसके निर्णय सन्धे और ठीक हैं, इसलिये कि उस ने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उस से अपने दासों के लोह का पलटा लिया है । ३ फिर दूसरी बार उन्होंने ने हल्लिलूय्याह कहा : और उसके जलने का धुआ युगानुयुग उठता रहेगा ।

४ और चौबीसों प्राचीनो और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दण्डवत किया; जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हल्लिलूय्याह। ५ और सिंहासन में से एक शब्द निकला, कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरनेवाले दासो, क्या छोटे, क्या बड़े, तुम सब उस की स्तुति करो। ६ फिर मैं ने बड़ी भीड़ का सा, और बहुत जल का सा शब्द, और गर्जनो का सा बड़ा शब्द सुना, कि हल्लिलूय्याह, इसलिये कि प्रभु हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राज्य करता है। ७ आओ, हम आनन्दित और मगन हो, और उस की स्तुति करे; क्योंकि मेम्ने का ब्याह आ पहुँचा और उस की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ८ और उस को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहिने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उम महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगो के धर्म के काम है। ९ और उस ने मुझ से कहा; यह लिख, कि धन्य वे हैं, जो मेम्ने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं; फिर उस ने मुझ से कहा, य वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। १० और मैं उस को दण्डवत करने के लिये उसके पावो पर गिरा; उस ने मुझ से कहा; देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयो का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है; परमेश्वर ही को दण्डवत कर; क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यद्वाणी की आत्मा है।

११ फिर मैं ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा; और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है; और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य, और सत्य कहलाता है;

और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। १२ उस की आँखें भाग की ज्वाला हैं; और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं; और उसका एक नाम लिखा है, जिसे उस को छोड़ और कोई नहीं जानता। १३ और वह लोह से छिड़का हुआ वस्त्र पहिने है; और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। १४ और स्वर्ग की सेना श्वेत घोडो पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहिने हुए उसके पीछे पीछे है। १५ और जाति जाति को मारने के लिये उसके मुह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदण्ड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल-जलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोदेगा। १६ और उसके वस्त्र और जाघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ॥

१७ फिर मैं ने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उम ने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़नेवाले सब पक्षियों से कहा, आओ, परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिये इकट्ठे हो जाओ। १८ जिन से तुम राजाओ का मास, और सरदारो का मास, और शक्तिमान पुरुषो का मास, और घोड़ों का, और उन के सवारो का मास, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगो का मास खाओ ॥

१९ फिर मैं ने उस पशु और पृथ्वी के राजाओ और उन की सेनाओ को उस घोड़े के सवार, और उस की सेना से लड़ने के लिये इकट्ठे देखा। २० और वह पशु और उसके साथ वह भूठा

भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिस ने उसके साम्हने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिन के द्वारा उस ने उन को भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी, और जो ज़म की मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस भाग की भील में जो गन्धक से जलती है, डाले गए। २१ और शेष लोग उस घोंडे के सवार की तलवार से जो उसके मुह से निकलती थी, मार डाले गए; और सब पक्षी उन के मास से तृप्त हो गए ॥

२० फिर मैं ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा; जिस के हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, और एक बड़ी जजीर थी। २ और उस ने उस अजगर, अर्थात् पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है; पकड़ के हजार वर्ष के लिये बान्ध दिया। ३ और उसे अथाह कुंड में डालकर बन्द कर दिया और उस पर मुहर कर दी, कि वह हजार वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए; इस के बाद अवश्य है, कि थोड़ी देर के लिये फिर खोला जाए ॥

४ फिर मैं ने सिंहासन देखे, और उन पर लोग बैठ गए, और उन को न्याय करने का अधिकार दिया गया; और उन की आत्माओं को भी देखा, जिन के सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे; और जिन्होंने न उस पशु को, और न उस की मूरत की पूजा की थी, और न उस की छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे।

५ और जब तक ये हजार वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे; यह तो पहिला मृतकोत्थान है। ६ अन्य और पवित्र वह है, जो इस पहिले पुनरुत्थान * का भागी है; ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे ॥

७ और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे; तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। ८ और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात् याजूज और माजूज को जिन की गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लडाई के लिये इकट्ठे करने को निकलेगा। ९ और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी, और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी: और भाग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। १० और उन का भरमानेवाला शैतान † भाग और गन्धक की उस भील में, जिस में वह पशु और भूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तडपते रहेंगे ॥

११ फिर मैं ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस को जो उस पर बैठा हुआ है, देखा, जिस के साम्हने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उन के लिये जगह न मिली। १२ फिर मैं ने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के साम्हने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात् जीवन की पुस्तक; और जैसे

* या मृतकोत्थान।

† या इब्लीस।

उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उन के कामों के अनुसार मरे हुएों का न्याय किया गया। १३ और समुद्र ने उन मरे हुएों को जो उस में थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुएों को जो उन में थे दे दिया; और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उन का न्याय किया गया। १४ और मृत्यु और अधोलोक भी आग की भील में डाले गए; यह आग की भील तो दूसरी मृत्यु है। १५ और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की भील में डाला गया ॥

२१ फिर मैं ने नये आकाश और नयी पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहिला आकाश और पहिली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी न रहा। २ फिर मैं ने पवित्र नगर नये यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी, जो अपने पति के लिये सिंगार किए हो। ३ फिर मैं ने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है; वह उन के साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उन के साथ रहेगा; और उन का परमेश्वर होगा। ४ और वह उन की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा; और इस के बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी; पहिली बातें जाती रहीं। ५ और जो सिंहासन पर बैठा था, उस ने कहा, कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ : फिर उस ने कहा, कि लिख ले, क्योंकि

ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं झलफा और ओषिगा, आदि और अन्त हूँ मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेंत पिलाऊंगा। ७ जो जय पाए, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा; और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। ८ पर डरपोकों, और अविश्वासियों, और घिनौनों, और हत्यारों और व्यभिचारियों, और टोन्हों, और मूर्तिपूजकों, और सब झूठों का भाग उस भील में मिलेगा, जो आग और गन्धक से जलती रहती है : यह दूसरी मृत्यु है ॥

६ फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात पिछली विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास आया, और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ : मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात् मेम्ने की पत्नी दिखाऊंगा। १० और वह मुझे आत्मा में, एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। ११ परमेश्वर की महिमा उस में थी, और उस की ज्योति * बहुत ही बहुमोल पत्थर, अर्थात् बिल्लीर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। १२ और उस की शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके बारह फाटक और फाटकों पर बारह स्वर्गदूत थे; और उन पर इस्त्राएलियों के बारह गोत्रों के नाम लिखे थे। १३ पूव की ओर तीन फाटक, उत्तर की ओर तीन फाटक, दक्खिन की ओर तीन फाटक, और पश्चिम की ओर

* या ज्योति देनेवाला।

तीन फाटक थे। १४ और नगर की शहरपनाह की बारह नेवें थी, और उन पर मेम्ने के बारह प्रेरितों के बारह नाम लिखे थे। १५ और जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर, और उसके फाटकों और उस की शहरपनाह को नापने के लिये एक सोने का गज था। १६ और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उस की लम्बाई चौड़ाई के बराबर थी, और उस ने उस गज से नगर को नापा, दो सौ सौ कोस का निकला: उस की लम्बाई, और चौड़ाई, और ऊंचाई बराबर थी। १७ और उस ने उस की शहरपनाह को मनुष्य के, अर्थात् स्वर्गदूत के नाप से नापा, तो एक सौ चौआलीस हाथ निकली। १८ और उस की शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी, और नगर ऐसे चौखे सोने का था, जो स्वच्छ कांच के समान हो। १९ और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमोल पत्थरों से संवारी हुई थी, पहिली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की। २० पांचवी गोमेदक की, छठवी माणिक्य की, सातवी पीतमणि की, आठवी पेरोज की, नवीं पुषराज की, दसवीं लहमानिए की, एग्यारहवी धूम्रकान्त की, बारहवी याकूत की। २१ और बारहों फाटक, बारह मोतियों के थे; एक एक फाटक, एक एक मोती का बना था; और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चौखे सोने की थी। २२ और मैं ने उस में कोई मन्दिर * न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान

प्रभु परमेश्वर, और मेम्ना उसका मन्दिर हैं। २३ और उस नगर में सूर्य और चान्द के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उस में उजाला हो रहा है, और मेम्ना उसका दीपक है। २४ और जाति जाति के लोग उस की ज्योति में चलें फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उस में लाएंगे। २५ और उसके फाटक दिन को कभी बन्द न होंगे, और रात वहां न होगी। २६ और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उस में लाएंगे। २७ और उस में कोई अपवित्र वस्तु या धृषित काम करनेवाला, या झूठ का गडनेवाला, किसी रीति से प्रवेश न करेगा; पर केवल वे लोग जिन के नाम मेम्ने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं ॥

२२ फिर उस ने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई, जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेम्ने के सिंहासन से निकलकर, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। २ और नदी के इस पार; और उस पार, जीवन का पेड़ था: उस में बारह प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चङ्गे होते थे। ३ और फिर स्नाप न होगा, और परमेश्वर और मेम्ने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उस की सेवा करेंगे। ४ और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उन के माथों पर लिखा हुआ होगा। ५ और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक

* य० पवित्रस्थान।

श्रीर सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा : श्रीर वे युगानुयुग राज्य करेंगे ॥

६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये बातें विश्वास के योग्य, श्रीर सत्य हैं, श्रीर प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिये भेजा, कि अपने दासों को वे बातें जिन का शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। ७ देख, मैं शीघ्र आनेवाला हूँ; धन्य है वह, जो इस पुस्तक की भविष्यद्वाराणी की बातें मानता है ॥

८ मैं वही यूहन्ना हूँ, जो ये बातें सुनता, श्रीर देखता था; श्रीर जब मैं ने सुना, श्रीर देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दण्डवत करने के लिये गिर पड़ा। ९ श्रीर उस ने मुझ से कहा, देख, ऐसा मत कर; क्योंकि मैं तेरा श्रीर तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं श्रीर इस पुस्तक की बातों के माननेवालों का संगी दास हूँ; परमेश्वर ही को दण्डवत कर ॥

१० फिर उस ने मुझ से कहा, इस पुस्तक की भविष्यद्वाराणी की बातों को बन्द मत कर *; क्योंकि समय निकट है ॥

११ जो अन्याय करता है, वह अन्याय ही करता रहे; श्रीर जो मलिन है, वह मलिन बना रहे; श्रीर जो धर्मी है, वह धर्मी बना रहे; श्रीर जो पवित्र है, वह पवित्र बना रहे। १२ देख, मैं शीघ्र आनेवाला हूँ; श्रीर हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिये प्रतिफल मेरे पास है। १३ मैं भ्रलफा श्रीर

श्रीमिगा, पहिला श्रीर पिछला, आदि श्रीर भन्त हूँ। १४ धन्य वे हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, श्रीर वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। १५ पर कुत्ते, श्रीर टोन्हे, श्रीर व्यभिचारी, श्रीर हत्यारे श्रीर मूर्ति-पूजक, श्रीर हर एक भूठ का चाहनेवाला, श्रीर गढ़नेवाला बाहर रहेगा ॥

१६ मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिये भेजा, कि तुम्हारे आगे कली-सियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे : मैं दाऊद का मूल, श्रीर वंश, श्रीर मोर का चमकता हुआ तारा हूँ ॥

१७ श्रीर आत्मा, श्रीर दुल्हन दोनों कहती हैं, आ; श्रीर सुननेवाला भी कहे, कि आ; श्रीर जो प्यासा हो, वह आए, श्रीर जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंत ले ॥


१८ मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यद्वाराणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ, कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं, उस पर बढ़ाएगा। १९ श्रीर यदि कोई इस भविष्यद्वाराणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ श्रीर पवित्र नगर में से जिस की चरचा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा ॥

२० जो इन बातों की गवाही देता है, वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आनेवाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ ॥

२१ प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन ॥

* या पर क्षाप नं दे।

**Printed in Great Britain by
Lowe and Brydone (Printers) Limited, London, N.W.10**



यमुना की यात्राएं

मीलों का मापदंड
 X 100 200 300

अदकनज

भारत पर्यटन

माई

उत्तर

भारत

बुलंद

एलास

कर

कसूर

हिरकेश

बाजि

करा

कास

नीलवे

आस

हारा

कंकनी

पहन

अदकनज

हारा

कंकनी

पहन

अदकनज

हारा

कंकनी

पहन

अदकनज

दमिक

हैम

कंकनी

हैम

गो

गो

गो

गो

एला

मा

एला

एला


एला

एला

एला

एला


एला



- १ रुबेन
- २ शिमोन
- ३ यहूदा
- ४ मन्सुन
- ५ इस्तोकार
- ६ दान
- ७ गाद
- ८ आशेर
- ९ मन्दावी
- १० इफ्राइम
- ११ मन्सुदई
- १२ बिन्यामीन

पलस्तीन देश का
मानचित्र और
इस्त्राएल के बंश

मीलों का मापवट
५ १० २० ४० ६०



नये नियम के समय का पलस्तीन

